



सेठ केदारनाथ जी जैन, राहतक चाले

साग पाटी रहला

(सायन पंचम भाग य प्रकाशन म पुरातन)

अगळें हजारा सायन ता मन्दा पा र्शु)

Shri Gulab-Vir-Granthmala (Scriptures) Ratn 21

III


REMAINING PART

“

Ardha-Magadhi Quadrilingual Dictionary

OR

Maharashtri and Deshya Prakrit Dictionary



Literary, Philosophic and Scientific

“”

Sanskrit, Gujrati, Hindi and English
Equivalent references to the texts and copious quotations

Vol. 5

by

His Holiness Bharatbhushan Shatavadhani
Pandit Jain Muni Shri Ratna Chandraya Maharaj

Published by

Shri S. S. Jain Conference

Vir Samvat
2465

1st Edition
500 Copies

Vicram Samvat
1995
A D 1938

Printers—
Jagdish Prasad, B. Com
The Educational Press, City Station Road
Agra

श्री गुलाब-चरि ग्रन्थमाला रत्न २१ वॉ

ॐ श्री ॐ

॥ नमोऽस्तु महावीराय ॥

परिशिष्ट
अर्ध-मागधी कोष
एवं
हाराष्ट्री व देश्य प्राकृत कोष
भाग पांचवां

सम्पादक

भारत भूषण शतावधानी पं० मुनि श्री रत्नचन्द्र जी
महाराज

प्रकाशक

म्बर स्थानक वासी जैन कोन्फरन्स

~~~~~  
सर्व अधिकार स्वाधीन

बीर सप्त  
२४६४

प्रथमावृत्ति  
५००

{ विक्रम सप्तम  
१६६५  
ई० १९३८

## प्राप्ति स्थान

१ धीरजलाल केशवलाल तुरखिया

ठि० जैन गुरुकुल

ब्यावर ( राजपुताना )

२ श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ़ेन्स

६ भागवाडी वम्बई न० २



मुद्रक

जगदीशप्रसाद वी० कॉम०

दी एज्युकेशनल प्रेस, सिटी स्टेशन रोड,

आगरा



श्रीमद्वीरगुलावचन्द्रसुधियौ, ख्यातावुभौ सोदरौ ।  
याभ्यां दीक्षित एव केवलमहं, नो किन्तु संशिक्षितः ॥  
कोपादे रचनाक्षमो यदभवं, तद्यत्कृपायाः फलं ।  
भक्त्या तच्चरणेऽर्पयामि तदिदं, क्रीषात्मकं पुस्तकम् ॥

मुनि-रत्नचन्द्रः

### अभिनन्दनम्

दीपोपमो. हि कोपोऽयं,  
प्राच्य-साहित्य-मन्दिरे ।  
जीयात्सानन्दमज्ञान-  
तिमिरं नाशयन् सदा ॥

मुनि-अमरचन्द्र



## संपादकीय वक्तव्य



चीन काल से एक कहावत चली आ रही है—‘राजा और पंडिता दोनों जोड़ें कोप’ अर्थात् राजा और विद्वान दोनों के लिए कोप का होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा का अध्ययन, बिना कोप के पूर्णतया नहीं हो सकता। काप और व्याकरण, दोनों भाषा के जीवन होते हैं। व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही रहती है। परन्तु कोप वह वस्तु है, जिसका उपयोग विद्वान और साधारण वर्ग दोनों एक समान कर सकते हैं।

अस्तु, आज से कोई २३ वर्ष पहले जैनागम साहित्य का भी एक विशाल कोप बनाने का प्रश्न समाज के सम्मुख उपस्थित हुआ था। यह काम सौभाग्य से मेरे दुर्बल हाथों में सौंपा गया, जिसे मैंने अपनी योग्यता-अनुसार काफी परिश्रम के बाद पूर्ण किया। यह वही अर्धमागधी कोष है जो श्वे. स्था जैन कान्फ्रेंस की ओर से बड़े बड़े चार भागों में प्रकाशित होकर बहुत दिन हुए समाज के समक्ष पहुँच चुका है। चारों भागों का प्रकाशन काल इस प्रकार है:—

|             |      |
|-------------|------|
| प्रथम भाग   | १९७६ |
| द्वितीय भाग | १९८३ |
| तृतीय भाग   | १९८६ |
| चतुर्थ भाग  | १९८८ |

आगमों की भाषा, अर्धमागधी है। इस सम्बन्ध में जैन-सिद्धान्त कौमुदी की संस्कृत प्रस्तावना में काफी ऊहापोह किया गया है। प्रस्तुत कोप आगमों का है, अतः भाषा की दृष्टि से कोष का नाम ‘अर्धमागधी कोष’ रखा है। अर्धमागधी भाषा का स्रोत मूल आगमों से लेकर, आगमसाहित्य से निकट सम्बन्ध रखने वाले विशेषावश्यक भाष्य, पिंड निर्युक्ति, ओषनिर्युक्ति आदि ग्रन्थों तक माना जाता है। अतः हमने भी शब्द संग्रह करते समय उक्त सभी ग्रन्थों के शब्दों का संग्रह भी अर्धमागधी के नाम से उक्त कोष में कर दिया है। यह तो हुई पहले के चार भागों के निर्माण की बात। अब पाँचवें भाग के विषय में भी जानकारी कर लीजिए।

कोष लिखने का कार्य, अन्य सभी लेखन कार्यों की अपेक्षा बहुत कुछ अट पटा माना जाता है। चाहे कितनी ही क्यों न सावधानी रखी जाय, फिर भी बहुत से शब्द तो लेखिनी के नीचे आने से रह ही जाते हैं। अस्तु, अपने सम्बन्ध में भी यही हुआ। चार भाग लिखे जा चुके और प्रकाशित भी हो गए, फिर भी काफी संख्या में शब्द संग्रह करने में छूट गये। इसलिये परिशिष्ट के रूप में अर्धमागधी कोष का पाँचवाँ भाग बनाने का विचार किया गया। साथ में महाराष्ट्री प्राकृत एवं देशी प्राकृत भाषा का कोष बना लेना भी उचित



समझा। अर्धभागधी के साथ महाभाषी प्राकृत एवं देशी प्राकृत का कोष बन जाने में, प्राकृत साहित्य का एक प्रकार में सर्वप्रधान कार्य हो जाना है।

अर्धभागधी के नाम महाभाषी प्राकृत का युग शुरू होना है। एक दृष्टि में यो कहना चाहिए कि—अर्धभागधी के साथ साथ ही महाभाषी प्राकृत का भी अस्तित्व उभर रहा था, और इस प्रकार प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन काल में ही अपनी स्वतंत्र मत्ता स्थापित कर रही थी। यह भाषा आगे चलकर जयसाहित्य भाषा बनती जा, उसमें 'सुपासनाह चरिय, सुर मुन्दरी चरिय' आदि ग्रन्थों की रचना हुई। अतः यही देश्य प्राकृत भाषा। यह वह भाषा है, जिसका संस्कृत रूपान्तर नहीं होता। यह भाषा पार्श्वीय मन्द प्रयोगों द्वारा भाषागत स्थिति के कारण बनी मालूम होती है। प्रकृति तथा प्रत्यय आदि का मौलिक विभाजन, उस भाषा में नहीं होता। अतः यह भाषा व्याकरण के धरातल पर नहीं चलती। उस भाषा का आदिकाल काफी पुराना है। आगम साहित्य में भी काफी संख्या में देशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पूर्व के चार भागों में, अर्धभागधी के साथ साथ आगमों में आने वाले देशी शब्दों को भी स्थान दिया है। क्योंकि—अपना ध्येय, केवल अर्धभागधी भाषा का ही कोष बनाने का नहीं था, साथ ही अभ्यासियों के लिए आगमसाहित्य के समस्त शब्द आजाये—यह ध्येय भी था और इस के लिए देशी शब्दों को स्थान देना जरूरी था।

प्रस्तुत भाग में अर्धभागधी, महाभाषी प्राकृत और देशी प्राकृत इस प्रकार तीन भाषाओं के शब्दों का संग्रह है। अर्धभागधी मंड में वे ही नये शब्द लिए हैं, जो पहले के चार भागों में लिए जाने से रह गए थे। प्राकृत मंड में, जो शब्द अर्धभागधी संग्रह में वे तो पहले के भागों में ही आ गए हैं, अतः उन्हें न लेकर 'सुपासनाह चरिय' आदि ग्रन्थों में से सर्वथा प्राकृत के अपने स्वतंत्र अर्धभागधी भिन्न शब्द ही लिए हैं। देश्य संग्रह में अन्य देशी नाम माला आदि ग्रन्थों में से शब्द संग्रह करने के अतिरिक्त पूर्व के चार भागों में आये हुए आगमोक्त देश्य शब्द भी ले लिए हैं। ऐसा करने का उद्देश्य, अभ्यासी वर्ग को एक भाषा का एक ही साथ शब्द संग्रह देकर लेने में सुविधा हो जाना है। देश्य शब्दों का इतना अधिक विशाल संग्रह है नहीं, जिससे कि विस्तार भय के कारण पहले शब्दों को छोड़ कर नया ही शब्द संग्रह किया जाय।

पूर्व के चार भागों में शब्दों के साथ साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया है। अर्थात् धातु, धातुगण, धातुरूप, सवन्धार्थ कृदन्त, हेत्वर्थ कृदन्त, सर्वनाम, रूप आदि यथा—स्थान बताया गया है, उसका उद्देश्य भविष्य में अर्धभागधी के व्याकरण भाग की पूर्ति कर एक सर्वाङ्ग अर्धभागधी व्याकरण बनाना था। इसके फलस्वरूप 'जैन सिद्धान्त कौमुदी' के नाम से अर्धभागधी का सटीक व्याकरण लाहौर से मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास के यहाँ से प्रकाशित भी हो चुका है। परन्तु उक्त भाग के लिए यह बात नहीं थी, अतः इसमें व्याकरण नहीं दिया है। प्राकृत के व्याकरण बहुत बने हुए हैं और वे प्रचलित भी हैं।

प्रस्तुत भाग के संपादन में एक पुस्तक से बहुत अधिक सहायता ली गई है, अतः कृतज्ञता के नाते उसका सधन्यवाद नामोल्लेख करना आवश्यक है। जिन दिनों अर्धभागधी का परिशिष्ट तैयार किया जा रहा था, तथैव महाभाषी प्राकृत एवं देश्य प्राकृत के संग्रह का भी संकल्प बंध रहा था, उन्हीं दिनों श्रीमान् प० हरगोविन्द दास त्रिकमचन्द सेठ न्याय व्याकरण

तीर्थ का 'पाइअसदमहण्णव' कोप कलकत्ते से प्रकाशित हो चुका था। यह कोप बहुत विशाल है, एव प्राकृत साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति करता है। मनुष्य मदाकाल से सुविधा की ओर झुक जाने वाला रहा है। जब कोई सुविधा नहीं होती है, तब तक वह अपने पुत्रपार्थ के बल पर कार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। परन्तु ज्यों ही किसी प्रकार की सुविधा मिलती कि वस उससे फायदा उठा लेना चाहता है। अस्तु, उक्त कोप के मिलने पर शीघ्रता से कार्य समाप्ति की दृष्टि से अर्धमागधी परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य महाराष्ट्री प्राकृत एव देश्य प्राकृत के दोनों खंड इसी में से संग्रह कर लिए हैं और उद्धरण एव स्थान निर्देश भी उसी में से ज्यों के त्यों लिये हैं। 'पाइअसदमहण्णव' में अर्धमागधी, महाराष्ट्री प्राकृत एव देश्य प्राकृत तीनों सम्मिलित रूप में साथ-साथ ही दी हुई हैं, पृथक् स्वतंत्र विभाजन नहीं है। परन्तु यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत तथा देश्य प्राकृत के पृथक् पृथक् स्वतंत्र विभाग रक्ते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत भाग के निर्माण में 'पाइअसदमहण्णव' का विशेष स्थान है। इसलिए श्रीमान् प० हरगोविन्ददास जी का नामाल्लेखपूर्वक सविशेष आभार माना जाता है।

श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेंस की साहित्यिक अभिरुचि प्रारंभ से ही प्रशंसनीय रही है। जिस प्रकार पूर्व के चार भागों में कान्फ्रेंस का पूर्ण सहयोग रहा है, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग के निर्माण में भी उसका सहकार कूट कम उल्लेखनीय नहीं है। कान्फ्रेंस ने अपनी ओर से श्रुत गिरधरलाल वेचरदास भाई को सहकारी के रूप में मेरे पास नियुक्त किया और उक्त भाग को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिये प्रेरणा की। गिरधर भाई ने बड़े उत्साह से शब्द संग्रह एव लेखन कार्य में सहकार दिया, फलतः मोरवी, वाकानेर आदि स्थानों में रहकर पाँचवाँ भाग शीघ्र ही पूर्ण कर दिया गया। अस्तु, कान्फ्रेंस का सहयोग भी प्रस्तुत भाग में सस्मरणीय रहेगा।

एक बात अंग्रेजी के सम्बन्ध में कहने की है। प्रस्तुत भाग में अंग्रेजी, किसी भाषा के विशेषज्ञ प्रोफेसर आदि से न कराकर गिरधर भाई के द्वारा ही कराई है। यह समय वह था जब कि हमें अजमेर मुनि सम्मेलन में आना था और शीघ्र ही कार्य समाप्त करना था। अतः अंग्रेजी विशेषज्ञ की प्रतीक्षा में कार्य को अधूरा न छोड़ कर जैसा हो सका वैसा गिरधर भाई के द्वारा पूर्ण करा लिया गया। गिरधर भाई अंग्रेजी के जानकार अवश्य हैं, पर वे उसके खास अभ्यासी नहीं हैं। अतः अंग्रेजी में कहीं अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर हों तो पाठक सावधानी के साथ सुधार कर पढ़ें।

पूर्व के चार भागों में अर्धमागधी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी—इस प्रकार पाँच भाषाएँ दी हैं। इसी भाँति प्रस्तुत भाग में भी देश्य खंड में संस्कृत को छोड़ कर चार भाषा और शेष दोनों खंडों में पाँचों ही भाषाएँ लिखी गई थी। परन्तु जब देहली में मुद्रण होना तब हुआ तो गुजराती की समस्या सामने आई। उत्तर भारत हिन्दी का ही केन्द्र है, अतः गुजराती का मुद्रण इधर नहीं होता। परन्तु मुद्रणालय के अध्यक्ष ने गुजराती मुद्रण का भी विश्वास दिलाया और गुजराती टाइप मँगवा कर छापना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार अर्धमागधी परिशिष्ट तक अन्य भाषाओं के साथ गुजराती भी छपती रही। परन्तु आगे के दोनों खंडों में गुजराती छापना बन्द कर दिया गया। कारण कि देहली के कपोजीटर गुजराती ज्ञान से

निरे शून्य थे, अतः अशुद्धियों की इतनी भण्डत रहती थी कि—कुछ प्रद्विये नहीं। बड़ी मुश्किल से परिशिष्ट पूरा करा पाए। दृमरे पांच भाषाओं के कारण पुस्तक भी काफी विशाल मात्र होती जा रही थी और गुजरानी का काम अच्छा हो ही नहीं रहा था, अतः उसे छोड़ कर यह लघुता का उद्देश्य भी पूरा कर लिया गया।

देहली में मराठाओं की मुद्रण हुआ। आगे के मुद्रण में विलंब होता देग देखे प्राकृत रूप का मुद्रण यहाँ आगरा में ही करने का कोष प्रवचक समिति ने प्रवच किया। देहली की अपेक्षा पास रहने के कारण में यहाँ संशोधन कार्य ठीक कर सकता था। परन्तु इन दिनों मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल रागव रहा। पेशाव बन्द पट गया था, अतः ऑपरेशन कराया गया। बाद में सुधार आता रहा, दुर्बलता अधिक बट गई थी। एक प्रकार से दो महीने तक, जब तक मुद्रण होता रहा, मैं बराबर अस्वस्थ ही रहा। अस्तु, शुद्धिपत्र बनाना, संशोधन करना, आदि कार्य मेरे स्नेही शिष्य मुनि श्री पूनगचन्द्रजी तथा मुनि श्री हृगर्भिहजी ने काफी परिश्रम एवं सतनता के साथ किया है, अतः उक्त कोष के साथ इनका सम्मरण भी याद रखना जाय।

कोष के सभी भागों का संपादन बड़ी मायवानी के साथ हुआ है। इसलिए, समाज में जैसा भी कुछ है कोष को आदर सम्मान भी मिला है। परन्तु प्रस्तुत भाग के संपादन में शीघ्रता से काम होना से और सबसे बढ कर मेरी लम्बी अस्वस्थता कारण एक मात्र प्रफूरीडरों पर ही संशोधन का भार छोड़ देने से एव प्रेस की लम्बी चौड़ी भण्डतों के पैदा होते रहने से अशुद्धियाँ बहुत रह गई हैं, इस कारण शुद्धिपत्र काफी लम्बा हो गया है। फिर भी कहीं नवीन शुद्धियाँ दृष्टिगोचर हो तो विद्वान पाठक क्षमा करें और उल्लेखनीय शुद्धियों के लिए सूचित करें, ताकि यथावसर यथायोग्य संशोधन किया जा सके। सुझे प्यु कि बहुना ?

ॐ शान्ति ।

ॐ शान्ति ॥

ॐ शान्ति ॥॥

लोहामडी आगरा  
मार्गशिर पूर्णिमा १९६५ }

मुनि रत्नचन्द्र

# प्रकाशक का निवेदन

## आभार प्रदर्शन

श्रद्धेय भारतभूषण शतावधानी प० मुनिश्री रत्नचंद्रजी महाराज को स्थानकवासी समाज में कौन नहीं जानता ? शतावधानी के रूप में समाज के सम्मुख आने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, समाज की सर्व साधारण जनता भी आपके महान व्यक्तित्व से परिचित हैं। आप संस्कृत एवं प्राकृत, उभय भाषा के गभीर अभ्यासी हैं। आपके भावनाशक्त एवं कर्तव्य कौमुदी ग्रन्थ संस्कृत काव्य कला की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब तक अर्धमागधी भाषा का एक भी व्याकरण नहीं था, महाराष्ट्री-प्राकृतिक व्याकरणों के आधार पर ही अर्धमागधी भाषा के मूल आगम ग्रन्थों का अध्ययन होता था। आपने इस सम्बन्ध में भी प्रयत्न किया और जैन सिद्धान्त कौमुदी के नाम से अर्धमागधी का व्याकरण सटीक बना दिया।

आपने आगमसाहित्य की जो सबसे बड़ी सेवा की है, वह आगमों के अर्धमागधी कोष का निर्माण। उक्त कोष ने विद्वत्संसार में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भारत ही नहीं, विदेशों तक में इसके गुण गौरव की चर्चा हुई। वास्तव में महाराज श्री का यह कार्य भविष्य की प्रजा को युग युग सम्मरणीय रहेगा। उक्त कोष के चार भाग पहले श्वे० स्था० जैन कान्फेस की ओर से प्रकाशित हो चुके हैं। अब यह पाँचवा भाग भी पाठकों की सेवा में पहुँच रहा है।

यह भाग बहुत दिनों से बना तैयार था। परन्तु अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो सका था। हर्ष है कि वह महाराज श्री के चातुर्मास देहली (सब्जीमंडी) के समय हुआ। अस्तु, महाराज श्री स० १९६० में अजमेर मुनि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तर भारत में पधारे और उसके बाद क्रमशः स० १९६० जयपुर, स० १९६१ अलवर, स० १९६२ अमृतसर पंजाब, स० १९६३ बलाचौर पंजाब में चातुर्मास करके स० १९६४ वे का सब्जीमण्डी देहली चातुर्मास में लाला केशरनाथ रूग्नाथदास जी ने कोष के प्रकाशन का समस्त भार अपने ऊपर उठाया और बाबू नेमीचन्द्र जी के प्रबन्ध में गयादत्त प्रेस में मुद्रण कार्य शुरू कर दिया गया। परन्तु बीच में कुछ अनावश्यक फर्कटें होती रहीं, अतः ठीक व्यवस्था के लिए रायसाहब लाला रघुबीरसिंह की अध्यक्षता में बाबू आनन्दराज जी सुराना, लाला रघुनाथदास जी, बाबू कुञ्जलाल जी, बाबू लज्जाराम जी, बाबू नेमीचन्द्र जी की एक कोष प्रबन्धक समिति स्थापित की। इसके बाद कार्य सुचारु रूप से चलने लगा। परन्तु चातुर्मास में ही कार्य समाप्ति की जो आशा थी वह पूर्ण न हो सकी और छपने का अधिक कार्य बाकी रह गया। चातुर्मास बाद महाराज श्री ने बनारस की ओर विहार कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इस वर्ष का चातुर्मास आगरा में ही हुआ। इधर विहार के बाद मुद्रण कार्य और भी धीमा पड़ गया, यह चातुर्मास भी समाप्त होने आया, परन्तु कोष छप कर पूर्ण नहीं हो सका। फलतः महाराज श्री द्वारा सस्थापित

जैन साहित्य प्रचारक समिति आगरा के अधिकारी मेंठ रत्नसिंह जी बोहरा आदि ने 'देश्य टांड' यहाँ मंगा लिया, और मेंठ रत्नलाल जी मित्तल के प्रबन्ध में एज्यूकेशनल प्रेस में मुद्रण शुरू हुआ। हर्ष है कि मित्तल जी की प्रेरणा तथा एज्यूकेशनल प्रेस के म्यामी बाबू जगदीश-प्रसाद वी० काम के सौजन्य ने बहुत सुन्दर एवं शीघ्रता के साथ मुद्रण कार्य पूर्ण हुआ, और जो कोप एक वर्ष में अधिक काल तक मुद्रण के भ्रमले में भूल रहा था, वह प्रकाशित होकर अब पाठकों के समक्ष आन पाया है।

उक्त कोप के साथ बहुत से महानुभावों का स्मरणीय सम्बन्ध लगा हुआ है। (१) मन्त्र से बढ़कर गतावधानी जी महाराज हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस महान कार्य को पूर्ण किया, और समाज को एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदान किया। (२) श्रीमान् लाला केशरनाथजी रुघनाथदास जी ने उक्त भाग के प्रकाशन का अर्थ भार उठाकर बहुत प्रशंसनीय सहयोग दिया है। कई वर्षों से जो प्रकाशन की समस्या आती हुई थी, उसका हल आपकी उदारता ने सहज में ही कर दिया। (३) कोप प्रबन्धक समिति के अधिकारी गणों का सहयोग भी कुछ कम उल्लेखनीय नहीं है। मुद्रण आदि की व्यवस्था करना, और प्रकाशन सम्बन्धी सभी समस्याओं का हल करना, आप सज्जनों का ही काम था जो आसानी के साथ कर दिया, अन्यथा यह काम शीघ्र पूर्ण होने वाला नहीं था। (४) आगरा के सेठ तखतसिंह जी बोहरा तथा सेठ रत्नलाल जी मित्तल का भी उत्साह प्रशंसनीय है। आगरे का प्रकाशन का समस्त श्रेय श्री आगम मन्त्र के उपरान्त आपको ही दिया जा सकता है। (५) श्रीमान् मास्टर प्यारेलाल जी शुक्लेचा आगरा भी इस दिशा में स्मरणीय हैं। कोप के प्रबन्ध के लिए आपको कितनी ही बार अपने आवश्यक कार्य छोड़ कर देहली जाना पड़ा। यहाँ भी प्रूफ सशोधन आदि कार्य बड़े प्रेम एवं उत्साह से किया। अतएव उक्त सभी महानुभावों का कोप की पूर्ति में हृदय से आभार माना जाता है एवं सधन्यवाद नामोल्लेख के द्वारा कृतज्ञता प्रकाशन किया जाता है।

इस को छपवाने का सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रबन्धक व्यवस्था मुख्यतया श्री कोप प्रबन्धक समिति देहली तथा अन्य श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति ने करके प्रकाशन का श्रेय इस कॉन्फ्रेंस को दिया अत वे विशेष धन्यवाद के योग्य हैं।

श्रीमान् बाबू चिरजीलाल जी पल्लीवाल (आगरा) भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। आपके पुस्तकालय के द्वारा कोप के सशोधन के लिए तथा अन्य साहित्य संपादन के लिए महाराज श्री को जो मुक्त हृदय से उदारतापूर्वक यथेच्छ रूप में सभी प्रकार के सस्कृत प्राकृत ग्रन्थों की सहायता मिली है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपका विशाल पुस्तकालय आगरा के लिये गौरव की वस्तु है और इसमें भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी धर्मों के उच्चकोटि की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह तो और भी अत्यधिक अभिनन्दनीय है।

स० १९६५  
कोप शुक्र प्रतिपत्त

निवेदक—

मन्त्री—

श्री श्वे० स्था० जैन कॉन्फ्रेंस

# महाराष्ट्री व देश्य-प्राकृतान्तर्गत प्रमाणग्रन्थों ( रेफरन्सेज ) के संकेतों का विवरण

| संकेत             | ग्रन्थ का नाम                        | संस्करण आदि                                                                                                               | जिसके अंक दिये<br>गये हैं वह |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| अत.               | अतगडदसाओ                             | १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लडन, १६०७<br>२ आगमोदय-समिति बम्बई, १६२०                                                          | पत्र                         |
| अचु               | अचुअसअअ                              | वेणीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२                                                                                             | गाथा                         |
| अजि.              | अजिअसतिथव                            | ५० हरगोविन्ददास संपादित कलकत्ता, सवत् १६७८                                                                                | ,,                           |
| अजक               | अध्यात्ममत परीक्षा                   | १ भीमसिंह भाण्डेकर, सवत् १६३३<br>२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर                                                              | ,,<br>,,                     |
| अणु }<br>अणुजो. } | अणुओगदारसुत                          | १ राय धनपतिसिंह जी बहादुर, कलकत्ता, सवत् १६३६<br>२ आगमोदय-समिति, बम्बई, १६२४                                              | पत्र                         |
| अनु }<br>अनुत्. } | अणुत्तरोववाइअदसा                     | १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लडन, १६०७<br>२ आगमोदय-समिति, बम्बई, सवत् १६२०                                                    | पत्र                         |
| अभि.              | अभिज्ञानशाकुन्तल                     | निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६१६                                                                                              | पृष्ठ                        |
| अवि               | अविमारक                              | त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिख                                                                                                 | ,,                           |
| आठ                | आठरपञ्चकोणपयज्ञो                     | १ जैनधर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १६६६<br>२ शा० बालाभाई कल्लभाई, अहमदाबाद, सवत् १६६२                                    | गाथा<br>,,                   |
| आक                | १ आवश्यक कथा<br>२ आवश्यक-एरज्यालुगन् | हस्तलिखित<br>डॉ इ ल्युमेन्-संपादित, लाइपजिग, १८६७                                                                         | पृष्ठ                        |
| आचू               | आवश्यक चूर्ण                         | हस्तलिखित                                                                                                                 | अध्ययन                       |
| आत्म              | आत्मसबोध कुलक                        | हस्तलिखित                                                                                                                 | गाथा                         |
| आत्मानु           | आत्मानुशास्ति कुलक                   | ,,                                                                                                                        | ,,                           |
| आप.               | आराधना प्रकरण                        | शा बालाभाई, कल्लभाई, अहमदाबाद, सवत् १६६२                                                                                  | गाथा                         |
| आथा               | आचाराग सूत्र                         | १ डॉ डबल्यु शुब्रेग् संपादित, लाइपजिग, १६१०<br>२ आगमोदय समिति, बंबई, १६१६<br>३ प्रो० रवजीभाई देवराज संपादित, राजकोट, १६०६ | धृत-स्कंध, अध्य०<br>,,<br>,, |
| आथानि             | आचाराहनिर्णयुक्ति                    | आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६                                                                                                 | गाथा                         |
| आरा               | आराधनासार                            | मानिकचन्द दिगम्बर-जैन ग्रन्थमाला सवत् १६७३                                                                                | ,,                           |
| आव                | आवश्यकसूत्र                          | हस्तलिखित                                                                                                                 |                              |
| आवनि }<br>आनि }   | आवश्यकनिर्णयुक्ति                    | १ यशोविजय जैन-ग्रन्थमाला बनारस<br>२ हस्तलिखित                                                                             |                              |
| आवम               | आवश्यकसूत्र—<br>मलयगिरिटीका          | ,,                                                                                                                        |                              |
| इक                | दिनोस्मोप्राफीदेरदेर                 | डॉ डबल्यु किर्केल-कृत, लाइपजिग, १६२०                                                                                      |                              |
| उत्त              | उत्तराध्ययनसूत्र                     | १ राय धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, सवत् १६३६                                                                                | अध्ययन, गाथा                 |

|          |                       |                                                       |                  |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|          |                       | २ प० हरगोविन्ददास संपादित, कलाकता, १९०३               | ”                |
|          |                       | ३ हस्तलिखित                                           | ”                |
| उत्तानि. | उत्तरा-पयननिर्युक्ति  | हस्तलिखित                                             | ”                |
| उत्तर.   | उत्तररामचरित्र        | निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९१५                          | पृष्ठ            |
| उप       | उपदेशपद               | हस्तलिखित                                             | गाथा             |
| उप पृ.   | उपदेशपत्र             | जैन निदा प्रचारक वर्ग, पारोताणा                       | पृष्ठ            |
| उर       | उपदेशरत्नाकर          | देवगन्ध लाताभाई पुतागोदासफड, बंबई, १९१४               | श्रंग, तरंग      |
| उच.      | उचएसामाला             | ए० एल पी ट्रेमेटोरि संपादित, १९१३                     |                  |
| उचकु.    | उपदेशमुलक             | हस्तलिखित                                             | गाथा             |
| उवर.     | उपदेशरदस्य            | मनसुरामाई भगुभाई अमदावाद, मन् १९६७                    | गाथा             |
| उवा.     | उनासगदसाओ             | एसियाटिक सोसाटी, बंगाल, कलकत्ता, १८६०                 |                  |
| श्रीघ.   | } श्रीघनिर्युक्ति     | श्रागमोदय-ममिति, बंबई, १९१६                           | गाथा             |
| श्रीघ नि |                       |                                                       |                  |
| श्रीघ    | } श्रीपपतिकसूत्र      | छँइ. ल्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८८३                   |                  |
| श्रीप    |                       |                                                       |                  |
| क ग      | } कर्मग्रन्थ          | श्रात्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक मण्डल, आगरा, १९१८     | कर्मग्रन्थ, गाथा |
| कम्म.    |                       |                                                       |                  |
| कल्प     | कल्पसूत्र             | डॉ एच् जेकोबी संपादित, लाइपजिग, १८७६                  |                  |
| कल्पू    | कपूर् रमञ्जरी         | हार्बर्ट् श्रीरिएन्टल् सिरिज, १९०१                    |                  |
| कपूर्    | कपूर् चरित (भाण)      | गायकवाड श्रीरिएन्टल् सिरिज, न० ८, १९१८                | पृष्ठ            |
| कम्मप.   | कर्मप्रकृति           | जैनवर्म प्रसारक सभा भावनगर, १९१७                      | पत्र             |
| कर       | करणावज्रायुधम्        | श्रात्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १९१६                    | पृष्ठ            |
| कस       | ( बृहत् ) कल्प सूत्र  | डॉ डबल्यु शुद्धि-संपादित, लाइपजिग, १९०५               |                  |
| काप्र.   | काव्य प्रकाश          | वामनाचार्य कून-टीकायुक्त, निर्णयसागर प्रेस-बंबई,      | पृष्ठ            |
| कवल      | कालकाचार्य कथानक      | डॉ एच् जेकोबी-संपादित, जेड्-डी-एम्-जी खड—<br>२४, १८८० |                  |
| किरात    | किराताकुनीय (व्यायोग) | गायकवाड श्रीरिएन्टल् सिरिज, न० ८, १९१८                | पृष्ठ            |
| कुप्र    | कुमारपाल प्रतिबोध     | गायकवाड-श्रीरिएन्टल् सिरिज, १९२०                      | पृष्ठ            |
| कुमा.    | कुमारपालचरित          | बम्बई सस्कृत सिरिज, १९००                              |                  |
| कुम्भा   | कुम्भापुस्तचरित्र     | पडित हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, १९१६             | पृष्ठ            |
| कुलक     | कुलकसग्रह             | जैनश्रेयस्कर मडल, म्हेसाणा, १९१४                      | ”                |
| खा       | खामणाकुलक             | हस्तलिखित                                             | गाथा             |
| गडड      | गडडवहो                | बंबई-सस्कृत-सिरिज, १८८७                               |                  |
| गच्छ     | } गच्छाचारपयज्ञो      | १ हस्तलिखित                                           | अधिकार, गाथा     |
| गच्छा    |                       |                                                       |                  |
|          |                       | २ चहुलाल मोहनलाल कोठरी अमदावाद स० १९८०                | ”                |
|          |                       | ३ शेठ जमनाभाई भगुभाई अमदावाद स० १९२४                  | ”                |

|        |                     |                                                          |            |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| गण     | गण वरस्मरण          | प० हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८             | गाथा       |
| गणि.   | गणिविज्ञापयत्रो     | राय धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, १८४२                      | "          |
| गा     | गाथासप्तशती         | १ डॉ ए वेवर-संपादित, लाइपजिग, १८८१                       | गाथा       |
| गाथा } |                     | २ निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १९११                         | "          |
| गु     | गुरुपारतन्त्रस्मरण  | प० हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८             | गाथा       |
| गुभा   | गुरुवन्दनभाष्य      | भीमसिंह माणोक, बम्बई, सवत् १९६०                          | गाथा       |
| चव.    | चडसरणपयत्रो         | १ जैन-धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १९६६                | "          |
|        |                     | २ शा बालाभाई कन्नलभाई, श्रमदावादा सवत् १९६२              | "          |
| चढ.    | प्राकृतलक्षण        | एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८०                   |            |
| चद     | चंदपबति             | हस्तलिखित                                                | पाहुड      |
| चाह    | चाहदत्त             | त्रिवेन्द्र—संस्कृत-सिरीज                                | पृष्ठ      |
| * चू   | चूर्णि              |                                                          |            |
| चेइय   | चेइयवदशमहाभास       | जैन ध्यात्मानन्द समा, भावनगर, सवत् १९६२                  | गाथा       |
| चैत्य  | चैत्यवदन भाष्य      | भीमसिंह माणोक, बम्बई, सवत् १९६२                          | गाथा       |
| च }    | जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति | १ देवचद लालभाई पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९२०              | वक्तृकार   |
| जं प } |                     | २ हस्तलिखित                                              |            |
| जय.    | जयतिहुश्रया स्तोत्र | जैन प्रभाकर प्रिन्टिङ्ग प्रेस रतलाम प्रथमा वृत्ति.       | गाथा       |
| जी     | जीवविचार            | श्रारमानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल, आगरा सवत्—<br>१९७८ | गाथा       |
| जीत.   | जीतकल्प             | हस्तलिखित                                                |            |
| जीव    | जीवाजीवाभिगमसूत्र   | देवचद लालभाई पुस्तकोद्धारफड, बम्बई १९१९                  | प्रतिपात्त |
| जीवस.  | जीवसमास प्रकरण      | हस्तलिखित                                                | गाथा       |
| जीवा   | जीवानुशासनकुलक      | श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३                         | "          |
| जो     | ज्योतिष्करणक        | हस्तलिखित                                                | पाहुड      |
| * टि.  | टिप्पण ( पाठान्तर ) |                                                          |            |
| * टी   | टीका                |                                                          |            |
| ठ      | ठाणगसुत्त           | आगमोदयसमिति, बम्बई, १९१८-१९२०                            | ठाण०       |
| णमि    | णमिऊणस्मरण          | प० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत् १९७८             | गाथा       |
| नमि }  |                     | १ हस्तलिखित                                              |            |
| तंदु   | तदुलवेयालियपयत्रो   | २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९२२                   | पत्र       |
|        |                     | जैनज्ञान-प्रसारक-मण्डल, बम्बई, १९११                      | गाथा       |
| ति     | तिजयपहुत्त          | हस्तलिखित                                                |            |
| ति.    | तित्पुग्गालियपयत्रो | हस्तलिखित                                                |            |
| ती     | तीर्थकल्प           | हस्तलिखित                                                | कल्प       |

\* जहा पर प्रमाण में ग्रन्थ सन्देह और स्थान निर्देश के अनन्तर \* ऐसी निशानी वाले को जो अक्षर पृथक् लिखे हैं वहा उस ग्रन्थ के उसी स्थान की चूर्णि, टिप्पण टीका, निरुक्ति से मतलब है ।



|                   |                          |                                                                              |              |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| त्रि.             | त्रिपुरगाह ( विम )       | गायकनाथ श्रोरिएगटल सिरिज न० ८, १८१८                                          | पृष्ठ        |
| दं.               | दृष्टप्रकरण              | १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंथल, बम्बई, १९११                                        | गाथा         |
|                   |                          | २ भीमगिह माणोक, बम्बई, १९०८                                                  | "            |
| दस                | दर्शनशुद्धिप्रकरण        | हस्तलिखित                                                                    | तत्त्व       |
| दम.               | दर्शवैज्ञानिकमूत्र       | १ भीमसह माणोक, बम्बई १९००                                                    | अध्ययन०      |
|                   |                          | २ टा० जीवराज घेलाभाई, अमदावाद, १९१२                                          | "            |
| दसा               | दशाधृतस्कन्ध             | हस्तलिखित                                                                    | अध्ययन, गाथा |
| दीव               | दीवसागरपञ्चत्ति          | "                                                                            | "            |
| दे.               | देशीनाममाला              | बम्बई संस्कृत-सिरिज, १८८०                                                    | वर्ग, गाथा   |
| देवेन्द्र         | देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण | जैन आत्मानन्दसभा, भावनगर, १९२२                                               | गाथा         |
| द                 | द्रव्यसिद्धि             | १ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सर्वत्र १९४८                                 | "            |
|                   |                          | २ शा० वेणीचद सूचद, म्हेसाणा, १९०६                                            | "            |
| द्रव्य            | द्रव्यसग्रह              | जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय, बम्बई, १९०६                                       | "            |
| धण.               | धूपभयं चाशिका            | काव्यमाला, सप्तम गुन्डक, बम्बई, १८९०                                         | "            |
| धम्म.             | धर्मरत्नप्रकरणसटीक       | १ जैनविद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा, १९०५                                     | मूल—गाथा     |
|                   |                          | २ हस्तलिखित                                                                  | "            |
| धम्मो             | धम्मोवएसकुलक             | हस्तलिखित                                                                    | गाथा         |
| धर्म.             | धर्मसग्रह                | जैन विद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा १९०५                                       | अधिकार       |
| धर्मवि            | धर्मविधिप्रकरण सटीक      | जिसग भाई छोटालाल सुतरीया, अहमदावाद, १९२४                                     | पत्र         |
| धर्मस.            | धर्मसंग्रहणी             | दे० ला० पुस्तकोद्धारक फड, बम्बई, १९११-१८                                     | गाथा         |
| धर्मा             | धर्मा-युदय               | जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१८                                              | पृष्ठ        |
| धात्वा            | प्राकृतधात्वादेश         | एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९२४                                              | पृष्ठ        |
| नदी. }<br>यांदि } | नदीसूत्र                 | १ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति बम्बई, १९२४                                       | पत्र         |
| नव                | नवतत्त्वप्रकरण           | १ आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर,<br>२ आद्य-जैन-धर्म-प्रवर्तक सभा, अहमदावाद, १९०६ | गाथा         |
| नाट               | नाटकीयप्राकृतशब्दसूची    |                                                                              | "            |
| नाट-चैत           | चैतन्यचन्द्रोदयम् (नाटक) | कलकत्ता एबीसन, सन् १८५४                                                      |              |
| नाट-महावी         | महावीरचरितम् (नाटक)      | त्रियन्स एबीसन, सन् १८४८                                                     |              |
| नाट-मालती         | मालतीमाधवम् (नाटक)       | कलकत्ता एबीसन, सन् १८३०                                                      |              |
| नाट-रत्ना.        | रत्नावली (नाटक)          | कलकत्ता एबीसन, सन् १८३२                                                      |              |
| नाट-शकु           | शकुन्तला (नाटक)          | कलकत्ता एबीसन, सन् १८४०                                                      |              |
| *नि               | नियुक्ति                 |                                                                              |              |
| निचू              | निशीथचूर्ण               | हस्तलिखित                                                                    | उद्देश       |
| निर               | निरयावलीसूत्र            | १ हस्तलिखित<br>२ आगमोदयसमिति, बम्बई, १९२२                                    | वर्ग, अध्य०  |



|                 |                          |                                                                              |              |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| त्रि.           | त्रिपुरदाह ( विम )       | गागगाह श्रीरिएटल सिरिज न० ८, १८१८                                            | पृष्ठ        |
| द.              | दण्डप्रकरण               | १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मण्डल, बम्बई, १९११                                       | गाथा         |
|                 |                          | २ भीमगिरि माणिक, बम्बई, १९०८                                                 | "            |
| दस              | दर्शनशुद्धिप्रकरण        | हस्तलिखित                                                                    | तत्त्व       |
| दम.             | दशवैकालिकम्              | १ भीमसिंह माणिक, बम्बई १९००                                                  | अध्ययन०      |
|                 |                          | २ डा० जीवराज घेलाभाई, अमरावती, १९१२                                          | "            |
| दसा.            | दशाश्रुतस्कन्ध           | हस्तलिखित                                                                    | अध्ययन, गाथा |
| दीव             | दीवसागरपञ्चति            | "                                                                            | "            |
| दे              | देशीनाममाला              | बम्बई गस्ट्युत सिरिज, १८८०                                                   | वर्ग, गाथा   |
| देवेन्द्र       | देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण | जैन आत्मानन्दसभा, भावनगर, १९२२                                               | गाथा         |
| द्र.            | द्रव्यसित्तरी            | १ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सबत् १९२८                                    | "            |
|                 |                          | २ शा० वेणीचंद सूरजद, म्हेसाणा, १९०६                                          | "            |
| द्रव्य.         | द्रव्यसग्रह              | जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय, बम्बई, १९०६                                       | "            |
| घण              | अष्टमभषचाशिका            | काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, बम्बई, १८९०                                         | "            |
| धम्म.           | धर्मरत्नप्रकरणासटीक      | १ जैनविद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, १९०५                                     | मूल—गाथा     |
|                 |                          | २ हस्तलिखित                                                                  | "            |
| धम्भो           | धम्मोवएसकुलक             | हस्तलिखित                                                                    | गाथा         |
| धर्म.           | धर्मसग्रह                | जैन विद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा १९०५                                       | अधिकार       |
| धर्मवि          | धर्मविधिप्रकरण सटीक      | जेसग भाई छोटालाल सुतरिया, अहमदाबाद, १९२४                                     | पत्र         |
| धर्मस.          | धर्मसंग्रहणी             | दे० ला० पुस्तकोद्धारक फड, बम्बई, १९१६-१८                                     | गाथा         |
| धर्मा.          | धर्माभ्युदय              | जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१८                                              | पृष्ठ        |
| धात्वा          | प्राकृतधात्वादेश         | एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९२४                                              | पृष्ठ        |
| नदी }<br>यादि } | नदीसूत्र                 | १ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति बम्बई, १९२४                                       | पत्र         |
| नव              | नवतत्त्वप्रकरण           | १ आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर,<br>२ आद्य-जैन-धर्म-प्रवर्तक-सभा, अहमदाबाद, १९०६ | गाथा<br>"    |
| नाट.            | नाटकीयप्राकृतशब्दसूची    |                                                                              |              |
| नाट-चैत         | चैतन्यचन्द्रोदयम् (नाटक) | कलकत्ता एबीसन, सन् १८५४                                                      |              |
| नाट-महावी       | महावीरचरितम् (नाटक)      | त्रिथन्स एबीसन, सन् १८४८                                                     |              |
| नाट-मालती       | मालतीमाधवम् (नाटक)       | कलकत्ता एबीसन, सन् १८३०                                                      |              |
| नाट-रत्ना.      | रत्नावली (नाटक)          | कलकत्ता एबीसन, सन् १८३२                                                      |              |
| नाट-शकु         | शकुन्तला (नाटक)          | कलकत्ता एबीसन, सन् १८४०                                                      |              |
| *नि             | निरुक्ति                 |                                                                              |              |
| निचू            | निशीथचूणि                | हस्तलिखित                                                                    | उद्देश       |
| निर             | निरयावलीसूत्र            | १ हस्तलिखित<br>२ आगमोदयसमिति, बम्बई, १९२२                                    | वर्ग, अर्थ०  |

|                     |                                       |                                                |                    |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| निसी                | निसीयसूत्र                            | हस्तलिखित                                      | उद्देश             |
| पठम                 | पठमचरित्र                             | जैन-धर्म प्रसारक-मभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति     | पर्व गाथा          |
| पंच. }<br>पचस }     | पचसग्रह                               | १ हस्तलिखित                                    | द्वार, गाथा        |
|                     |                                       | २ जैन आत्मानन्द मभा, भावनगर, १९१६              | "                  |
| पचभा.               | पचकल्पभाष्य                           | हस्तलिखित                                      | द्वार              |
| पचव.                | पचवस्तु                               | "                                              | पचासक              |
| पचा                 | पचासकप्रकरण                           | जैन-धर्म-प्रसारक-मभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति     |                    |
| पचू                 | पचकल्पचूर्ण                           | हस्तलिखित                                      |                    |
| परा                 | परा रात्र                             | त्रिवेन्द्र सस्कृति सिरिज,                     | पृष्ठ              |
| पसू                 | पचसूत्र                               | हस्तलिखित                                      | सूत्र              |
| पच.                 | महापञ्चमखायापयको                      | शा० बालाभाई करुलभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६२       | गाथा               |
| पठि.                | पचप्रतिकमणसूत्र                       | १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मठल, बम्बई, १९११           |                    |
|                     |                                       | २ आत्मानन्द-जैन पुस्तक-प्रचारक मठल, आगरा, १९२१ |                    |
| परण                 | परणवणसुत                              | रायबनपतिसिंहवह्लादुर, बनारस, सवत् १९४०         | पद                 |
| परह                 | प्रश्रव्याकरणसूत्र                    | आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१६                      | ध्रुतस्कन्ध, द्वार |
| पभा                 | पचाव्याणमाथ                           | मीमसिंह माणेरु, बम्बई, सवत् १९६२               | गाथा               |
| पव }<br>प्रव }      | प्रवचनसारोद्धार                       | १ " " सवत् १९३४                                | द्वार              |
|                     |                                       | २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, १९२०-२४             | "                  |
| पाअ                 | पाइअलच्छी नाममाला                     | वी० वी० एण्ड कम्पनी, भावनगर, सवत् १९०३         |                    |
| पि                  | अमिटिकदेर् प्राकृत-                   |                                                |                    |
|                     | स्पाखन्                               | डॉ० आर्० पिरोल कृत, १९००                       | पेरा               |
| पिग                 | प्राकृत पिंगल                         | एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १९०२         |                    |
| पिठ }<br>पि०नि. }   | पिठनिर्णयुक्ति                        | १ हस्तलिखित                                    | गाथा               |
|                     |                                       | २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९२२         | "                  |
| पुफ                 | पुष्पमाला प्रकरण                      | जैन श्रेयस्कर-मठल, म्हेसाणा, १९११              | "                  |
| प्रति               | प्रतिमानाटक                           | त्रिवेन्द्र सस्कृति सिरिज                      | पृष्ठ              |
| प्रवो }<br>प्रवोध } | प्रवोध चन्द्रोदय                      | निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९१०                 | "                  |
|                     |                                       |                                                | "                  |
| प्रयौ               | प्रतिमायौगन्धरायण                     | त्रिवेन्द्र सस्कृति सिरिज                      | "                  |
| प्राकृ              | प्राकृत सर्वस्व<br>( मार्कण्डेय कृत ) | विभागापट्टम्                                   | "                  |
|                     |                                       |                                                |                    |
| प्राप               | इण्ड्रकेशन दुदि प्राकृत               | पजाव यूनीवर्सिटी, लाहौर, १९१७                  |                    |
| प्राप्र             | प्राकृत प्रकाश                        | १ डा० कावेलु-संपादित, लखन, १८६८                |                    |
|                     |                                       | २ बंगीय साहित्य-परिषद्, कलकत्ता, १९१४          |                    |
| प्रामा              | प्राकृत मार्गोपदेशिका                 | शाह हर्षचंद भुरभाई, बनारस, १९११                |                    |
| प्राकृ              | प्राकृत शब्द रूपावली                  | सेठ मनसुख भाई भंगुभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६८     |                    |

|                               |                                                 |                                             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| प्राप्त                       | प्राकृत सूक्तरत्नमाला                           | जैन विविध माहिरय-शास्त्र-माला, जनारम, १९१६  | गाथा        |
| वृह                           | वृहत्फलपभाष्य                                   | हस्तलिखित                                   | उद्देश      |
| भग                            | भगवतीमूत्र                                      | १ जिनागम प्रज्ञाशक सभा, बम्बई, सवत् १९७४    |             |
|                               |                                                 | २ हस्तलिखित                                 | शतक, उद्देश |
|                               |                                                 | ३ आगमोदय समिति बम्बई १९१८-१९१९-१९२१         | ,,          |
| भक्त.                         | भक्तपरिष्ठापयको                                 | १ जैन जर्म प्रसारक सभा, भायनगर, सवत् १९६६   | गाथा        |
|                               |                                                 | २ आ० बालाभाई करुलभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६२   | ,,          |
| भवि.                          | भविसत्तकहा                                      | १ डॉ० एच्० जेन्नेवी-सपादित, १९१८            |             |
|                               |                                                 | २ गायकवाड़ श्रीरिएटल सिरिज, १९२३            |             |
| भाव                           | भावकुलरु                                        | अ बालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३             | गाथा        |
| भास.                          | भाषारहस्य                                       | सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद              | ,,          |
| मगल                           | मगलकुलरु                                        | हस्तलिखित                                   | गाथा        |
| मन.                           | मनोनिग्रह भावना                                 | हस्तलिखित                                   | गाथा        |
| महा                           | आउस्येव्याल्ले-एरस्या-<br>लु गन् इन् महाराष्ट्र | डॉ० एच्० जेन्नेवी सपादित, लाइपजिग, १८८६     |             |
| महानि                         | महानिशीथसूत्र                                   | हस्तलिखित                                   | अध्ययन      |
| मा.                           | मालविकग्निमित्र                                 | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५               | पृष्ठ       |
| माल.                          | मालतीमाधव                                       | ,, ,, ,,                                    | ,,          |
| मुषि                          | मुनिमुद्रतस्वामिचरित                            | हस्तलिखित                                   | गाथा        |
| मुद्रा }<br>मुद्रा }<br>मुच्छ | मुद्राराक्षस                                    | बम्बई संस्कृत सिरिज, १९१५                   | पृष्ठ       |
|                               | मुच्छकटिक                                       | १ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१६             | ,,          |
|                               |                                                 | २ बम्बई संस्कृत सिरिज, १८६६                 | ,,          |
| मै.                           | मैथिलीकल्याण                                    | साणिकचद-दिगम्बर-जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९७३ | ,,          |
| मोह                           | मोहराजपराजय                                     | गायकवाड़ श्रीरिएटल सिरिज नं० ६, १९१८        | ,,          |
| यति.                          | यतिशिक्षापञ्चाशिका                              | हस्तलिखित                                   | गाथा        |
| रभा                           | रभामञ्जरी                                       | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९८६               |             |
| रत्न                          | रत्नत्रयकुलक                                    | हस्तलिखित                                   | गाथा        |
| रयण.                          | रयणसेहरनिवकहा                                   | परिष्कृत हरगोविन्ददास-सपादित, बनारस, १९१८   | पृष्ठ       |
| राज                           | अभिधानराजेन्द्र                                 | जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम          |             |
| राय.                          | रायपसेणीसुत                                     | १ हस्तलिखित                                 |             |
|                               |                                                 | २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२३                 | पत्र        |
| रुक्मि                        | रुक्मिणीहरण (ईहामृग)                            | गायकवाड़ श्रीरिएटल सिरिज, नं० ८, १९१८       | पृष्ठ       |
| लहुअ                          | लघुअजितशान्तिम्भरणा                             | प० हरगोविन्ददास सपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८  | गाथा        |
| वज्ज                          | वज्जालग                                         | एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता            | पृष्ठ       |

|                            |                                     |                                                                                            | उद्देश            |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| व्यव                       | व्यवहारसूत्र, सभाष्य                | १ हस्तलिखित<br>२ मुनिमार्शुक संपादित, भावनगर, १६२६                                         | "                 |
| वसु                        | वसुदेवहिंदी                         | हस्तलिखित                                                                                  |                   |
| वा<br>वाका<br>विक<br>विक्र | वाग्भटकाव्यानुशासन<br>विक्रमोर्वशीय | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५<br>निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१४                             | पृष्ठ<br>पृष्ठ    |
| विक्र                      | विक्रान्त कौरव                      | मारोकचन्द्र जैन दिगम्बर ग्रन्थमाला स० १६७२                                                 | पृष्ठ             |
| विचार                      | विचारसार प्रकरण                     | आगमोदय समिति, बम्बई, १६०३                                                                  | गाथा              |
| विपा.                      | विपाकश्रुत                          | प० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, सवत् १६७६                                                | श्रुतरूप, अर्थ्य० |
| विवे.                      | विवेकमञ्जरीप्रकरण                   | प० हरगोविन्ददास संपादित, बनारस, सवत् १६७५, ७६                                              | गाथा              |
| विशे                       | विशेषावश्यक भाष्य                   | प० हरगोविन्ददास संपादित, बनारस, वीर-सवत् १४४१                                              | "                 |
| वृष                        | वृषभानुजा                           | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६६५                                                              | पृष्ठ             |
| वेणी                       | वेणीसहार                            | " " १६१५                                                                                   | "                 |
| वै                         | वैराग्यशतक                          | विठ्ठलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२०                                                    | गाथा              |
| श्रा                       | श्राद्धप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति        | दे० ला० पुस्तकालय फड, बम्बई, १६१६                                                          | मूलगाथा           |
| श्रावक                     | श्रावकप्रज्ञप्ति                    | श्रीयुक्त केशवलाल प्रेमचन्द संपादित, १६०५                                                  | गाथा              |
| श्रु                       | श्रुतास्वाद                         | हस्तलिखित                                                                                  | गाथा              |
| षड्                        | षड् भाषाचन्द्रिका                   | बम्बई, संस्कृत एण्ड प्राकृत सिरिज. १६१६                                                    |                   |
| स.                         | समराइचकहा                           | एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०८-२३                                                  | पृष्ठ             |
| स.                         | सबोधसत्तरी                          | विठ्ठलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२०                                                    | गाथा              |
| सच्चि                      | सच्चित्तसार                         | १ हस्तलिखित<br>२ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १६८६                                    | पृष्ठ             |
| सति                        | सतिकरस्तोत्र                        | १ जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, बम्बई, १६११<br>२ आरमानन्द जन पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा १६२१      | गाथा<br>"         |
| सथा }<br>सथा }             | सथारगपयज्ञो                         | १ हस्तलिखित<br>२ जैन धर्म-पचारक सभा, भावनगर, सवत् १६६६                                     | "<br>"            |
| सबोध                       | सबोधप्रकरण                          | जैनग्रन्थ-प्रकाशक सभा, अहमदाबाद १६१६                                                       | पत्र              |
| सवे                        | सवेगचुलिकाकुलक                      | हस्तलिखित                                                                                  | गाथा              |
| सदृष्टि                    | सदृष्टिसमपररण                       | १ प० हरगोविन्द दास संपादित, बनारस, १६१७<br>२ सत्यविजय जैनग्रन्थ-माला, न० ६, अहमदाबाद, १६२५ | "<br>"            |
| सण                         | सनत्कुमारचरित                       | डा एच् जेकोवी-संपादित, १६२१                                                                |                   |
| सत्त                       | सत्तदेशसप्तिका                      | जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १६७६                                                     | गाथा              |
| सम                         | समवायागसूत्र                        | आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१८                                                                  | पृष्ठ             |
| समु                        | समुद्रमन्थन (समवजार)                | गायकवाड ओरिएण्टल सिरिज, न० ८, १६१८                                                         | "                 |

|                  |                                     |                                                                   |                          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| सम्म             | सम्मतिरात्र                         | जैनधर्म-प्रगाररु सभा, भावनगर, सवत् १६६५                           | गाथा                     |
| सम्मत्त.         | सम्यद्भवसप्तति मटीक                 | दे० ला० पुस्तकोद्धार फउ- वम्बई, १६१६                              | पत्र                     |
| सम्य             | सम्यक्त्वस्वरूपपञ्जीगी              | श्रीनालाल गोवर्द्धनदास, वम्बई, १६१३                               | गाथा                     |
| सा.              | सामान्यगुणोपदेशकुलक                 | हस्तलिखित                                                         | गाथा                     |
| सार्ध.           | गणधरसार्धशतकप्रकरण                  | जौहरी चुर्जीलाल पनालाल, वम्बई, १६१६                               | ..                       |
| सिक्खा           | शिखाशतक                             | हस्तलिखित                                                         | ..                       |
| सिग्ध.           | सिग्धमवहरउ-स्मरण                    | प० हरगोविन्ददास सपादित, फलरुता, स० १८७८                           | गाथा                     |
| सिरि.            | सिरिसिखवालकहा                       | दे० ला० पुस्तकोद्धारफउ, वम्बई, १६२३                               | ..                       |
| सुग्र.           | सुग्रवोधाटीका (उत्तरार्थ-<br>गनस्य) | हस्तलिखित                                                         | अभ्ययन, गा               |
| सूज्ज<br>सू. प } | सूर्यप्रज्ञप्ति                     | आगमोदयममिति, वम्बई, १६१६                                          | पाहुड                    |
| सु० च<br>सुपा. } | सुपासनाहचरिश्च                      | प० हरगोविन्ददास सपादित, चनारस, १६१८-१६                            | पृष्ठ                    |
| सु०च<br>सुर }    | सुरसुन्दरीचरिश्च                    | जैनविधि-साहित्य-शास्त्रमाला, चनारस, १६१६                          | परिच्छेद, गाथा           |
| सूक्त            | सूक्तमुक्तावली                      | दे० ला० पुस्तकोद्धार फउ, वम्बई, १६२२                              | पत्र                     |
| स्य.             | सूत्रगढागसुत्त                      | १ भीमसिंह माणेरु, वम्बई, १६३६<br>२ आगमोदयसमिति, वम्बई, संवत् १६१७ | श्रुतस्कन्ध, अभ्य०<br>.. |
| से               | सेतुबध                              | निर्णयसागरप्रेस, वम्बई, १८६५                                      | आशवासक, पद               |
| स्वप्न.          | स्वप्नवासवदत्त                      | त्रिवेन्द्र सस्कृत सिरिज                                          | पृष्ठ                    |
| हम्मीर           | हम्मीरमदमर्दन                       | गायकवाड ओरिएण्टल सिरिज, न० १०, १६२०                               | ..                       |
| हास्य            | हास्यचूडामणि (प्रहसन)               | .. ..                                                             | ..                       |
| हि               | हितोपदेशकुलक                        | हस्तलिखित                                                         | गाथा                     |
| हित.             | हितोपदेशसारकुलक                     | हस्तलिखित                                                         | गाथा                     |
| हे.              | हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण           | १ डॉ आर् पियोलू-सपादित, १८७७<br>२ वम्बई सस्कृत सिरिज, १६००        | पद, सूत्र<br>..          |
| हेन              | हेमचन्द्र-काव्यानुशासन              | निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १६०१                                     | पृष्ठ                    |

## संकेत-सूची

|             |   |                          |            |   |                                       |
|-------------|---|--------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| अ०          | = | अभ्यय                    | स्त्री०    | = | स्त्रीलिङ्ग                           |
| क्रि० वि०   | = | क्रिया विशेषण            | स्त्री० न० | = | स्त्रीलिङ्ग व नपु सकलिङ्ग             |
| न०          | = | नपु सक लिङ्ग             | त्रि०      | = | पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग व नपु सकलिङ्ग |
| पु०         | = | पुँल्लिङ्ग               | व०         | = | बहुवचन                                |
| पु० न०      | = | पुँल्लिङ्ग व नपु सकलिङ्ग | व० कृ०     | = | वर्तमान कृदन्त                        |
| पु० स्त्री० | = | पुँल्लिङ्ग व स्त्रीलिङ्ग | स०         | = | सर्वनाम.                              |

॥ श्रीः ॥

❀ नमोऽस्तु महावीराय ❀

परिशिष्ट

॥ अर्द्धमागधी-कोष ॥



अइ ]

अ.

[ अकइ

अइ अ० (अति) (१) उत्कर्ष, भूलात्त  
उत्कर्ष, महत्त्व Eminence, Rise,  
Prosperity, Greatness. कम्प० (२)  
प्रशंसा श्लाघा Praise ठ० ४, १, (३)  
उत्कथन अतिक्रमण Overstepping,  
offence दस० ६, २, ४२, (४) उपर  
ऊचा Above, High नाया १,  
अइउट्ट त्रि० (अनिवृत्त) प्रा०, भण्डे अति-  
गत, प्राप्त Acquired, Attained  
सूय० १, ६, १, १२,  
अइपडाग पु० (अतिपातक) भा०क्षोनी अेक  
जति मत्स्य की एक जाति A kind of  
fish विवा० १, ८,  
अइपाइअ त्रि० (अतिपातिक) हिंसा करेनार  
हिंसा करने वाला Heinous, sinner,  
incestor सूय० २, १, ६०,  
अइय त्रि० (अतिग) प्रा०, भण्डे प्राप्त Ac-  
quired, Gained राय० १३४,  
अइसेस-पु० (अतिशेष) पंधारे बचा हुआ,  
अवशिष्ट Remainder, a small re-  
mainder ठ० ४, २,  
अईसार पु० (अतीसार) (१) सप्रदंष्ट्री नामने  
रोग सप्रहयी-रोग Dysentery,  
Violent straining at stool

(२) अे नामने राजा इस नाम का एक  
राजा A well known King of  
that time ठ० ६, ३,  
अकुस पु० (अकुश) अेक ग्रहणु नाम ग्रह  
विशेष Name of a particular  
planet ठ० २, ३,  
अग त्रि० (अङ्ग) शरीरने विकार शरीर का  
विकार Physical defect ठ० ८,  
अगीकड. त्रि० (अङ्गीकृत) स्वीकार करेले,  
स्वीकृत Accepted. ठ० ६,  
अछुण न० (कर्षण) धैय, ताणु खींचाव.  
Pulling, Drawing परह० २, ६,  
अजू खी० (अजू) (१) विपाक सूत्रनु अेक  
अध्ययन विपाक सूत्र का एक अध्ययन.  
A study of Vipaka Sutra  
(chapter) विवा० १, १, (२) शत  
धर्मकथासूत्रनु अेक अध्ययन ज्ञाता धर्म  
कथा सूत्र का एक अध्ययन A chapter  
of Gata Dharmakatha Sutra  
नाया० १, २,  
अवा खी० (अम्बा) अेक प्रक्षरनी वेद.  
वल्ली विशेष Name of a parti-  
cular Creeper पत्र० १,  
अकइ. त्रि० (अकति) सम्पत्ति, अनंत.



|                 |                                  |                                                                  |                          |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| सम्म            | सम्मतिसूत्र                      | जैनधर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १९६५                           | गाथा                     |
| सम्मत्त.        | सम्यक्वृत्तसप्तति सटीक           | दे० ला० पुस्तकोद्धार फड- बम्बई, १९१६                             | पत्र                     |
| सम्य            | सम्यक्वृत्तस्वरूपपञ्चीसी         | अबालाल गोवर्द्धनदास, बम्बई, १९१३                                 | गाथा                     |
| सा              | सामान्यगुणोपदेशकुलक              | हस्तलिखित                                                        | गाथा                     |
| सार्ध           | गणधरसार्धशतकप्रकरण               | जोहरी सुनीलाल पन्नालाल, बम्बई, १९१६                              | ,,                       |
| सिक्खा          | शिक्खाशतक                        | हस्तलिखित                                                        | ,,                       |
| सिग्ध           | सिग्धमवहरउ-स्मरण                 | प० हरगोविन्ददास सपादित, कलकत्ता, स० १८७८                         | गाथा                     |
| सिरि            | सिरिसिरिवालरूहा                  | दे० ला० पुस्तकोद्धारफड, बम्बई, १९२३                              | ,,                       |
| सुख             | सुखबोधटीका (उत्तराध्य-<br>यनस्य) | हस्तलिखित                                                        | अध्ययन, गाथा             |
| सूज्ज<br>सू प } | सूर्यप्रज्ञप्ति                  | आगमोदयसमिति, बम्बई, १९१६                                         | पाहुड                    |
| सु० च<br>सुपा } | सुपासनाहचरित्र                   | प० हरगोविन्ददास सपादित, बनारस, १९१८-१९                           | पृष्ठ                    |
| सु०च<br>सुर }   | सुरसुन्दरीचरित्र                 | जैनविविध-साहित्य-शास्त्रमाला, बनारस, १९१६                        | परिच्छेद, गाथा           |
| सूक्त           | सूक्तसुक्तावली                   | दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९२२                             | पत्र                     |
| सूय             | सूयगडागसुत्त                     | १ भीमसिंह माणेरु, बम्बई, १९३६<br>२ आगमोदयसमिति, बम्बई, सवत् १९१७ | श्रुतस्कन्ध, अध्य०<br>," |
| से              | सेतुबध                           | निर्णयसागरप्रेस, बम्बई, १८६२                                     | आशवासक, पं               |
| स्वप्र          | स्वप्रवासवदत्त                   | त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज                                        | पृष्ठ                    |
| हम्मीर          | हम्मीरमदमर्दन                    | गायकवाड ओरिएण्टल सिरिज, न० १०, १९२०                              | ,,                       |
| हास्य           | हास्यचूडामणि (ग्रहसन)            | ,, ,,                                                            | ,,                       |
| हि              | हितोपदेशकुलक                     | हस्तलिखित                                                        | गाथा                     |
| हित             | हितोपदेशसारकुलक                  | हस्तलिखित                                                        | गाथा                     |
| हे              | हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण        | १ डॉ आर् पिशोल्-सपादित, १८७७<br>२ बम्बई संस्कृत सिरिज, १९००      | पद, सूत्र<br>,"          |
| हेका            | हेमचन्द्र-काव्यानुशासन           | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९०१                                    | पृष्ठ                    |

## संकेत-सूची

|               |                          |              |                                       |
|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| अ० =          | अव्यय                    | स्त्री० =    | स्त्रीलिङ्ग                           |
| क्रि० वि० =   | क्रिया विशेषण            | स्त्री० न० = | स्त्रीलिङ्ग व नपु सकलिङ्ग             |
| न० =          | नपु सरु लिङ्ग            | त्रि० =      | पुंल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग व नपु सकलिङ्ग |
| पु० =         | पुंल्लिङ्ग               | व० =         | बहुवचन                                |
| पु० न० =      | पुंल्लिङ्ग व नपु सकलिङ्ग | व० क० =      | वर्तमान कृदन्त                        |
| पु० स्त्री० = | पुंल्लिङ्ग व स्त्रीलिङ्ग | स० =         | सर्वनाम                               |

❀ नमोऽस्तु महावीराय ❀

रिशिष्ट

॥ अर्द्धमागधी-कोष ॥



अर्द्ध ]

अ.

[ अर्द्ध ]

अर्द्ध अ० ( अति ) ( १ ) उत्कर्ष, उन्नति, उल्कर्ष, महत्त्व Eminence, Rise, Prosperity, Greatness. कर्ण० (२) प्रशंसा श्लाघा Praise ठा० ४, १, (३) उद्वेग धन अतिक्रमण. Overstepping, offence दस० ४, २, ४२, (४) उपर ऊचा Above, High नाया १, अर्द्धवृत्त त्रि० (अतिवृत्त) ग्राह्य, भण्डे अतिगत, प्राप्त Acquired, Attained सू० १, ४, १, १२, अर्द्धपडाग पु० (अतिपताक) भाष्योनी अेक जति मत्स्य की एक जाति A kind of fish विवा० १, ८, अर्द्धपाद्म त्रि० (अतिपातिक) हिंसा करने वाला Heinous, sinner, incestor सू० २, १, ४७, अर्द्धय त्रि० (अतिग) ग्राह्य, भण्डे प्राप्त Acquired, Gained राय० १३४, अर्द्धसेस-पु० (अतिशेष) वधारे बचा हुआ, अवशिष्ट Remainder, a small remainder ठा० ४, २, अर्द्धसार पु० (अतीसार) (१) सप्रदृष्टी नाभने रोग सप्रदृष्टी-रोग Dysentery, Violent straining at stool.

(२) ये नामने राजा इस नाम का एक राजा. A well known King of that time ठा० ४, ३, अर्द्धस पु० (अर्द्धस) अेक अर्द्धसु नाम ग्रह विशेष Name of a particular planet ठा० २, ३, अर्द्ध त्रि० (अर्द्ध) शरीरने विकार शरीर का विकार Physical defect ठा० ८, अर्द्धकड. त्रि० (अर्द्धकृत) शरीर शरीर, स्वीकृत Accepted ठा० ४, अर्द्ध न० (कर्ण) धैर्य, तापु खींचाव. Pulling, Drawing परह० २, ४, अर्द्ध खी० (अर्द्ध) (१) विपाक सूत्र अेक अध्ययन विपाक सूत्र का एक अध्ययन. A study of Vipaka Sutra. (chapter) विवा० १, १, (२) शीत धर्मकथासूत्र अेक अध्ययन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का एक अध्ययन A chapter of Gata Dharmakatha Sutra नाया० १, २, अर्द्धा खी० (अर्द्धा) अेक अर्द्धा नी वेद. बल्ली विशेष Name of a particular Creeper पत्र० १, अर्द्ध त्रि० (अर्द्ध) सभ्यता, अनत.

असख्यात, अनत Innumerable, indefinite ङ० ३,  
 अकामिय त्रि० (अकामिक) निराश, धृञ्छ  
 वगर्ते निराश Free from desire,  
 reluctant विवा० १, १,  
 अकिरिय त्रि० (अक्रिय) (१) आलसु,  
 निरुद्धमी आलसु, निरुद्धम Idle, mo-  
 tionless, standstill (२) अशुल  
 प्रवृत्तिथी रहित अशुभ व्यापार से रहित  
 Devoid of impure activity  
 ङ० ७,  
 अकिट्ट त्रि० (अकृष्ट) अल्पभेदायेल अवि-  
 लिखित Uncultured, uncultiva-  
 ted भग० ३, २,  
 अकुहय त्रि० (अकुहक) निष्कपट, माया रहित  
 निष्कपट, माया रहित Frank, gule-  
 less, candid दस० ६, २,  
 अक्खाइ त्रि (आख्यायिन्) उपदेशक, धृष्टे-  
 नार उपदेशक, कहनेवाला Preacher,  
 one who tells नाया० १, १८,  
 विवा० १, १,  
 अक्खाइय त्रि० (अक्षतिक) स्थायी, अनश्वर,  
 शाश्वत स्थायी, अनश्वर, शाश्वत Ete-  
 rnal, everlasting पण्ह० १, २,  
 अक्खाय न० (आख्यात) क्रियापद  
 क्रियापद A verb पण्ह० २, २,  
 अचेलग-य त्रि० (अचेलक) (१) धृष्टेला कपडा  
 वाणा फटा टुटा वस्त्रवाला One having  
 torn clothes (२) निर्दोष वस्त्रवाणा  
 निर्दोष वस्त्र वाला One who puts on  
 pure clothes (३) अनियत रूपे  
 वस्त्रने उपभोग करनार अनियत रूप से  
 वस्त्र का उपभोग करने वाला One who  
 wears clothes irregularly or  
 freely ङ० १, ३, विये० २५६६,  
 अच्चासण्या स्त्री० (अत्यशानता) धत्तु आनु

ते खूब खाना Over-feeding one-  
 self, eating like a glutton ङ० ६,  
 अच्छ त्रि० (आच्छ) अन्ध देशमा उत्पन्न  
 अच्छ देश में उत्पन्न Born in Achha  
 country पन्न० ११,  
 अच्छभल्ल पु० (अच्छभल्ल) रींछ रींछ, भालुक  
 A bear पण्ह० १, १,  
 अच्छुरय पु० (आस्तरक) पथारी उपर  
 पाथरवातु वस्त्र विशेष शय्या पर बिछाने  
 का वस्त्र-विशेष A cover to be  
 spread over the bed नाया० १, १,  
 अच्छिद्द त्रि० (अच्छिद्द) निर्दोष निर्दोष.  
 Innocent, faultless भग० २, ५,  
 अज्जग-य पु० (आर्यक) पितामह, पितानी  
 पिता पितामह, पिता का पिता A  
 Grand father भग० ६, ३३,  
 अज्जल पु० (आर्यल) अज्ञेयनी अज्ञेय ज्ञाति  
 स्लेच्छों की एक जाति A sub-caste  
 in Malechha पन्न० १,  
 अज्जोवगमिय त्रि० (आभ्युपगत) पीतानी  
 धृञ्छ थी स्वीकारेले स्वेच्छा से स्वीकृत  
 Voluntarily accepted, accep-  
 ted with freewill पन्न० ३५,  
 अट्ट पु० (अट्ट) आकाश आकाश The  
 sky, ether, the subtle and  
 ethereal fluid pervading the  
 whole universe, space भग०  
 २०, २,  
 अट्ट पु० (अर्थ) (१) सयम सयम Reli-  
 gious devotion, सून० १, २, २, १६,  
 (२) अभिलाष, धृञ्छ अभिलाष, इच्छा  
 Desire, Longing नाया० १, १६,  
 अड्डेज्ज न० (आढ्येज्या) श्रीमताई धनियन,  
 श्रीमताई Apulence, richness  
 ङ० १०,  
 अणंतर पु० (अनन्तर) वर्तमान समय.

वर्तमान समय The present time  
 ठा० १०,  
 अण्ड त्रि० (अनार्त) आर्तभ्यान रहित  
 आर्तभ्यान से रहित One without  
 monomania or painful con-  
 centration "अण्डा किति पव्वए"  
 उक्त० १८, १०,  
 अणत्त त्रि० (अनात्त) अगृहीत, अंगीकृत  
 अगृहीत, अस्वीकृत Unaccepted  
 ठा० २, ३,  
 अणप्य त्रि० (अनप्य) अपर्ष्यु इत्यादि अयोग्य  
 या अशक्य अर्पण करने को अयोग्य या  
 अशक्य Unfit for being offered,  
 Not feasible for being offered  
 ठा० ६,  
 अणल अ० (अनलम्) असमर्थ असमर्थ  
 Unfit, incompetent, weak  
 आया० २, १, ७,  
 अणाय्य पु० (अणातीत) ससार, दुनिया  
 ससार, दुनिया The course of  
 circuit of worldly life, worldly  
 illusion भग० १, १,  
 अणगलिय त्रि० (अनाकलित) नहि नालेखु,  
 अक्षिप्त नहीं जाना हुआ, अलक्षित  
 Unseen, unperceived, unob-  
 served नाया० १, ६,  
 अणस्य पु० (अनशक) अनशन, भोजन न  
 देयते अनशन, भोजनाभाव Fasting  
 "खारस्स लोणस्स अणससण" सूय० १,  
 ७, १३,  
 अणसिय त्रि० (अनशित) भूयो भूखा  
 Hungry, One who has not  
 eaten any thing सूय० १, १, २,  
 अणिय त्रि० (अनियत) (१) अनियमित,  
 अव्यवस्थित अनियमित, अव्यवस्थित  
 Irregular, unrestricted (२)

पु० ससार ससार. The course of  
 worldly life भग० ६, ३३,  
 अणिय त्रि० (अनियत) अनियमित, अप्रति-  
 ष्ठ अनियमित, अप्रतिबद्ध Irregular,  
 unrestricted "असिले अगिद्धे अणि-  
 एयचारी, अभयकरे भिकसू अणाविलप्पा"  
 सूय० १, ७, २८,  
 अणिय न० (अनृत) असत्य, ऋद्ध असत्य,  
 झूठ False, Not true ठा० १०,  
 अणियट्ट पु० (अनिवर्त) (१) मोक्ष, मुक्ति  
 मोक्ष, मुक्ति Liberation, freedom,  
 final emancipation आया०  
 १, १, १, (२) ऐक महत्प्रद एक महाप्रद  
 A name of a great planet ठा०  
 २, ३,  
 अणियय त्रि० (अनियत) इत्यवृत्तनी ऐक  
 नति, ये पत्र देछे कल्पवृक्ष की एक जाति  
 जो वस्त्र देती है A sort of a tree  
 yielding desired clothes ठा० १०,  
 अणु अ० (अनु) (१) योग्य, उचित योग्य,  
 उचित Fit, proper सूय० १, ३, ३, १७,  
 (२) अनुकूल, हितकर अनुकूल, हितकर  
 Favourable, agreeable, benefi-  
 cial, wholesome "अणुधम्म" सूय०  
 १, २, १, १४, (३) मदद करनी, सहायता  
 देनी मदद करना, सहायता करना Help-  
 ing, Aiding "अणुपरिहारि" ठा० ३, ४,  
 अणुअ त्रि० (अनुग) अनुसरण करनेवाला अनु-  
 सरण करने वाला A Follower, one  
 who follows "अणुम्माणुए" विवा०  
 १, १,  
 अणुकमण न० (अनुक्रमण) गमन, गति  
 गमन, गति Going, motion, move-  
 ment सूय० १, १, २, २१,  
 अणुगम पु० (अनुगम) नालुपु, धराधर  
 समणुपु, निश्चय करेवा ते जानना

ठीकर समझना, निश्चय करना To know, to understand exactly, to determine ठा० १,

अणुगिद्ध त्रि० (अणुगृह) अत्यंत आसक्त, लोभुष अत्यंत आसक्त, लोभुष Very much greedy for, much attached, ardently longing for सू० १, ४, १, १२,

अणुजाय त्रि० (अनुजात) (१) पाछेकी उत्पन्न थयेस पीछे से उत्पन्न Born after, A younger brother (२) सदृश, तुल्य सदृश, तुल्य Similar congruent सू० प० १२,

अणुपरिवर्तण न० (अनुपरिवर्तन) परिवर्तन, हेरफेर हेरफेरते परिवर्तन, फिरना Change, Exchange भग० १, ६,

अणुपवन्न त्रि० (अनुपपन्न) प्राप्त थयेस प्राप्त Acquired, got सू० २, ३, २१,

अणुपवापत्तार त्रि० (अनुपवाचयित्) लक्षणकार, पाठक, शिक्षक, उपाध्याय पढानेवाला, पाठक, उपाध्याय Teacher, one who teaches Sastias ठा० ६, २,

अणुपेहि. त्रि० (अनुपेक्षित्) चिंतन करती चिंतन कर्ता A Contemplator, thinker, सू० १, १०, ७,

अणुबंधण न० (अनुबन्धन) अनुकूल बंधन अनुकूल बन्धन Suitable bond, agreeable binding उक्त० २६, ४६,

अणुबृहेत्तार. त्रि० (अनुबृहत्) अनुमोदन करती अनुमोदन करने वाला One who supports, supporter, second order ठा० ७,

अणुरगि. त्रि० (अनुरक्ति) अनुसरण करती अनुसरण कर्ता, A follower, An imitator सू० प० १०, ८,

अणुवत्तग त्रि० (अनुवर्तक) अनुसृत्य करती अनुसृत्य करती

अनुसरण कर्ता, A follower सू० १, २, २, ३२,

अणुवीह्नी स्त्री० (अनुवीचि) अनुकूलता अनुकूलता Favou, Conformity "वेयाणुवीह्नी या कासि चीह्जतो के गिलाह से भुज्जो" सू० १, ४, १, १६,

अणुगेगावाह त्रि० (अनेकवादिन्) पदार्थों के सर्वथा विभिन्न माननार, अद्विधवादि मतमें अनुयायी पदार्थों के सर्वथा अलग मानने वाला, अक्रियावाद मत का अनुयायी ठा० ८,

अणुणाइट्ट त्रि० (अन्वादिष्ट) आदिष्ट, देने आदिष्ट देवादिष्ट देवादिष्ट, जिसको आदेश दिया गया हो वह One to whom orders are issued, a servant "अणुणाइट्टे समायो" अत० ६, १३,

अणुणेरणा स्त्री० (अन्वेण्या) (१) प्रार्थना प्रार्थना A request, prayer आया० (२) गृहस्थे आपेक्षित लिलातु अणुणु गृहस्थ से दी जाती भित्ता का ग्रहण Taking of alms given by a household ठा० ३, ४,

अणुणिल्लिय त्रि० (आत्मिय) स्वकीय, पोतलु स्वकीय One's own ठा० ३, १,

अणुणरय त्रि० (अस्तरजस्क) निर्मल, शुद्ध निर्मल शुद्ध Pure, dutless भग० ११, ११,

अणुणगहण न० (अर्थावग्रहण) अर्थने पदार्थने निश्चय पदार्थ का निश्चय Ascertainment of a thing भग० ११, ११,

अणुणसिया स्त्री० (अदशिका) अदः प्रशङ्गी मिष्ट पदार्थ एक प्रकार की मिष्ट चीज, A sort of sweetmeat, A sort of sweet article पत्र० १७,

अणुणहिय. त्रि० (आहित) थापी गभेसु रखा

हुआ, रथापित Kept, placed विपा०  
१, १,  
अहीण त्रि० (अहीन) क्षाल नदि पामेस,  
अक्षुब्ध, निक्षिप्त क्षोभ को अग्रस, अनुबन्ध,  
निर्भीक. Unperplexed, Uncon-  
founded परह० २, १,  
अघम्मकेउ पु० (अघर्मकेतु) अधर्मा, पापीष्ट  
पापिष्ट A sinner नाया० १, १८,  
अघर्मिद्र. त्रि० (१) (अघर्मैष्ट) अधर्म प्रिय,  
पाप प्रिय अघर्म-प्रिय, पाप-प्रिय A  
lover of sins, one who takes  
pleasure in doing wicked deeds-  
भग० १२, २, (२) (अघर्मैष्ट) पापीष्टो  
ने वक्षसु पापिष्ठो का प्यार Sinful,  
that which is dear to the  
sinners भग० १२, २,  
अधा स्त्री० (अधस्) अधो दिशा, नीचस्त्री  
दिशा अधो दिशा, नीचस्त्री दिशा Lower  
direction, downward श० १,  
अपय त्रि० (अपद) (१) पग उदित वृक्ष, द्रव्य,  
सूभि विगेरे, पग उदित वस्तु पाव रहित,  
वृक्ष, द्रव्य, भूमि, वगैर, पैर रहित वस्तु,  
That which has got no legs,  
standstill, motionless नाया० १, ८,  
अपरच्छ त्रि० (अपरच्छ) अपर्यक्ष, असमक्ष,  
परोक्ष असमक्ष, परोक्ष Invisible,  
beyond the range of sight,  
absent परह० १, ३,  
अप्याउय त्रि० (अप्यायुक्) थोड़ा आयुष्य  
वाला थोड़ा आयुष्य वाला Short  
living, one whose life is short  
श० ३, ३,  
अभ्यास पु० (अभ्यास) गणितना सकेत  
विशेष गणित का सकेत विशेष Multi-  
plication क० ग० ४, ७८, ८३,  
अभ्युजय त्रि० (अभ्युजय) तैयार तय्यार

Prepared, ready नाया० १, १,  
अभग्ग पु० (अभग्ग) आ नामनेो अेक योउ  
इय नाम का एक चोर Name of a  
thief विवा० १, १,  
अभय.न० (अभय) गज श्रेष्ठिनेो अेक विष्णान  
पुत्र तथा मन्त्री, जेणे लगवान महावीर  
भयु पासे दीक्षा लीधीलनी राजा श्रेष्ठिक का  
एक विख्यात पुत्र और मन्त्री, जिसने भगवान  
महावीर के पास दीक्षा ली थी A well  
known and reputed son and  
minister of king Shrenika  
whose initiation took place  
at the hands of Mahavi Bha-  
gvan अयुक्त १, नाया० १, १,  
अभयदाण न० (अभयदान) अक्षयदान, ज्येन  
दान अभयदान, जीवित दान Guarante-  
tee of safety or protection  
(from danger to life) परह० २, ४,  
अभिओगपरणत्ति स्त्री० (अभियोगप्रज्ञसि)  
विद्याविशेष विद्याविशेष A particular  
magical skill नाया० १, १६,  
अभिगमि त्रि० (अभिगमिन्) (१) स्वीकार  
श० १०, प्राप्त श० १० स्वीकार करने वाला,  
प्राप्त करने वाला One who appo-  
aches, One who receives or  
accepts (२) आदर श० १० आदर  
करने वाला One who receives, a  
receiver (३) उपदेशक उपदेशक A  
Teacher, A Preacher पत्र० ३४,  
(४) निश्चय श० १० निश्चय कारक De-  
cisive (५) प्रवेश श० १० प्रवेश  
करने वाला One who enters पत्र०  
३४,  
अभिरूपसि त्रि० (अभिरूपिन्) सुन्दर रूप  
वाला, मनोहर. सुन्दर रूप वाला, मनोहर.  
Beautiful, well formed, hand-

some, charming आया० २, ४, २, १,  
अभिलोयण न० (अभिलोकन) ज्या उला  
गुंवाथी दूर दूर नी वस्तुओ देभाय ते स्थान  
जहा खडे रह कर दूर की चीज देखी जाय  
वह स्थान A place from which  
one can see things at a dis-  
tance परह० २, ४,

अभिवेदणा स्त्री० (अभिवेदना) अत्यन्त पीडा  
अत्यन्त पीडा Excessive pain सूय०  
१, ५, १, १६,

अभिलेख-ग पु० (अभिलेख) वीर्य अने  
लोडनीना संयोग शुक्र-शोणित का संयोग  
Conjunction of semen and  
blood "इह खलु अचताए तेहिं तेहिं  
कुलोहिं अभिलेखण अभिलेभूया" आया० १,  
६, १,

अभिलेखि त्रि० (अभिलेखिन्) सेवा करने  
सेवा-कर्ता One who serves or  
waits upon, an attendant सूय०  
२, ६, ४४,

अमुद-य-ग न० (अमुदय) ऐक प्रकारनु अ-  
तीन्द्रिय भिथ्याज्ञान अतीन्द्रिय मिय्याज्ञान  
विशेष, जैसे देवताओं के पुद्गल रहित  
शरीर को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से  
निर्मित नहीं है ऐसा निरूप्य Knowledge  
of a particular kind which  
is beyond senses A knowledge  
by which one, seeing the mat-  
terless bodies of Gods, comes  
to a conclusion that the form  
of soul is not made of matter  
टा० ७,

अय न० (अय) पुण्य पुण्य Good actions  
of former birth टा० १०,

अरज्जिभ्य त्रि० (अरहित) निरन्तर, सतत  
निरन्तर, सतत Constant, Contin-

ual 'अरज्जिभ्यामितावा'-सूय० १, ५, १,  
अरोस त्रि० (अरोप) (१) शुस्सा रहित गुस्ता  
रहित Absence of anger (२) पु०  
ऐक भयेच्छ देश, अने तेमा रहने  
जाति एक स्लेच्छ देश और उसमें रहने  
वाली स्लेच्छ जाति A County of  
Malechhas and a nation of  
Malechhas residing in that  
country परह० १, १,

अलज्ज त्रि० (अलज्ज) निर्दण, भेशरम निर्लज्ज,  
बेशरम Shameless, impudent  
परह० १, ३,

अलपट्ट न० (अलपट्ट) विभीनी पुच्छीनी  
आकार जेवु ऐक शत्रु बिच्छू के पूछ  
जैसे आकार वाला एक शस्त्र A kind of  
missile having the form a  
scorpion's tail विवा० १, ६,

अवचखेव पु० (अवचेष) विघ्न, बाधा विघ्न,  
बाधा Objection, impediment,  
hinderance विवा० १, ६,

अवगत त्रि० (अपगत) नष्ट, गुनवेद गुजरा  
हुआ, विनष्ट Vanished, dead,  
gone away, passed away नाया०  
१, १, दस० १०, १६,

अवच्चीय त्रि० (अपत्नीय) सतान सभ्यधी  
सतानीय, सतान सबधी Pertaining  
to children टा० ६,

अवज्ज्मा स्त्री० (अवज्ज्या) विदेहक्षेत्रनी ऐक  
नगरी विदेह क्षेत्र की एक नगरी A  
name of a city in the Videh  
Kshetra The 4th division of  
Jambudwipa (the central co-  
ntinent which contains our  
earth), टा० २, ३,

अवणय पु० (अपनय) दूर करने अपनयन,  
हटाना Removal, setting aside

अ० न,

अवतस पु० (अवतस) मेरु पर्वत मेरु पर्वत  
Mount Meru which is in the  
middle of Jambudvīpa the  
1st Continent सू० प० १,

अवत्तिय न० (अवत्तिक) (१) ऐक जैनाभास  
मत, निहिनय प्रख्यातित ऐकमत एक  
जैनाभास मत, निहिनय प्रचालित एक मत  
A religious creed resembling  
that of the Jain tenets, a reli-  
gious doctrine propounded by  
Nihnavā (२) आ मतने अनुयायी  
इस मत का अनुयायी A follower of  
this doctrine अ० ७,

अवत्थद्ध त्रि० (अवत्थद्ध) जेने सहाय मणी  
होवते अवत्थद्धन प्राप्त, जिसको सहारा मिला  
हो वह One who has got support,  
one who is helped नाया० १, १८,  
अवमद्दग त्रि० (अवमर्दक) मर्दन इनार  
मर्दन करने वाला One who riles  
or shampoos नाया० १, १६,

अवमाणण न० (अवमानन) अनिदर, अपज  
अनादर, अवज्ञा Disrespect, Insult  
परह० १, १,

अवय त्रि० (अवच) प्रतिकूल, प्रतिकूल Dis-  
agreeable भग० १, ६,

अवयक्खा खी० (अपेक्षा) अपेक्षा अपेक्षा  
Expectation, desire, consi-  
deration, reference नाया० १, ६,

अवयच्छिय त्रि० (अपेक्षित) देखे, देखा  
हुआ Seen, perceived नाया० १,  
८,

अवहसिय त्रि० (अपच हसित) तिरस्कृत,  
उपहास करे तिरस्कृत, उपहसित Des-  
pised, milked at नाया० १, ६,

अवहार पु० (अपहार) (१) दूर करण, परित्याग

करणे दूर करना, परित्याग Removing,  
abandoning नाया० १, ६, (२)  
भाग्यकार भागकार Division, the  
quotient भग० २५, ४,

अवहेलण त्रि० (अवहेलन) उपेक्षा इनार  
उपेक्षा करने वाला Indifferent, dis-  
dai-ter, one who disregards  
or slight- सूय० २, ६, १२,

अवाईण त्रि० (अवाचीन) अवाधुप अधोमुख  
Downward, gone down, head-  
long नाया० १, १,

अवाय पु० (अपाय) (१) अनर्थ, अनिष्ट  
अनर्थ, अनिष्ट Evil, Misfortune,  
Calamity अ० १, (२) उदाहरण विगेय  
उदाहरण विशेष An illustration अ०  
४, ३, (३) विवेग, विवेग विवेग,  
पार्थक्य separation, departure नदी०

असत्त त्रि० (असत्त्व) सत्त्व गहन, अण  
विनाशु सत्त्व रहित, बल शून्य With-  
out having any sustance, not  
substantial, spiritless परह० १, २,  
असक्य त्रि० (असकृत) सत्कर न करे, सत्कर  
रहित, Not received or  
treated hospitably, Not treated  
with respect परह० १, २,

असण पु० (असन) भीयक्षु अ० बीजक  
नामक वृक्ष Name of a tree called  
Bijak पत्र० १, नाया० १, १,

असाढय न० (असाढक) तृषु विगेय, तृषु  
विशेष, A particular kind of  
glass पत्र० १,

अस्तकारण न० (अश्वकरण) घोडा,  
ज्या घोडा राभवाभा आवे छे ते स्थान,  
जहा घोडा रखने में आता हो वह स्थान,

Stable आया० २, १०, १४,

अस्तासण पु० (आश्वासन) ऐक भंडाअड.



some, charming आया० २, ४, २, १,  
 अभिलोयण न० (अभिलोकन) जथा उक्ता  
 गृह्याथी दूर दूर नी वस्तुओं के भाय ते स्थान  
 जहा खदे रह कर दूर की चीज देखी जाय  
 वह स्थान A place from which  
 one can see things at a dis-  
 tance परह० २, ४,  
 अभिवेदणा स्त्री० (अभिवेदना) अत्यन्त पीडा  
 अत्यन्त पीडा Excessive pain सूय०  
 १, २, १, १६,  
 अभिसेअ-ग. पु० (अभिपेक) वीर्य अने  
 लोहीना सयोग शुक्र-शोणित का सयोग  
 Conjunction of semen and  
 blood "इह खलु अत्ताए तेहिं तेहिं  
 कुलेहिं अभिसेपण अभिसभूया" आया० १,  
 ६, १,  
 अभिसेवि त्रि० (अभिपेविन्) सेवा करनेर  
 सेवा-कर्ता One who serves or  
 waits upon, an attendant सूय०  
 २, ६, ४४,  
 अमुद-य-गग न० (अमुदग्र) अेक प्रकारनु अ-  
 तीन्द्रिय मिथ्याज्ञान अतीन्द्रिय मिथ्याज्ञान  
 विशेष, जैसे देवताओं के पुद्गल रहित  
 शरीर को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से  
 निर्मित नहीं है ऐसा निर्णय Knowledge  
 of a particular kind which  
 is beyond senses A knowledge  
 by which one, seeing the mat-  
 terless bodies of Gods, comes  
 to a conclusion that the form  
 of soul is not made of matter  
 टा० ७,  
 अय न० (अय) पुण्य पुण्य Good actions  
 of former birth टा० १०,  
 अरज्जिभय त्रि० (अरहित) निरन्तर, सतत  
 निरन्तर, सतत Constant, Contin-

ual 'अरज्जिभयामितावा'-सूय० १, २, १,  
 अरोस त्रि० (अरोप) (१) गुस्सा रहित गुस्सा  
 रहित Absence of anger (२) पु०  
 अेक अेक देश, अने तेभा रहेनार  
 नाति एक म्लेच्छ देश और उसमें रहने  
 वाली म्लेच्छ जाति A Country of  
 Malechhas and a nation of  
 Malechhas residing in that  
 country परह० १, १,  
 अलज्ज त्रि० (अलज्ज) निर्लज्ज, शेरम निर्लज्ज,  
 शेरम Shameless, impudent  
 परह० १, ३,  
 अलपट्ट न० (अलपट्ट) विछीनी पुछीनी  
 आकार जेपु अेक शस्त्र विच्छ के पूछ  
 जैसे आकार वाला एक शस्त्र A kind of  
 missile having the form a  
 scorpion's tail विवा० १, ६,  
 अवक्खेव पु० (अवक्खेप) विधन, बाधा विघ्न,  
 बाधा Objection, impediment,  
 hindrance विवा० १, ६,  
 अवगय त्रि० (अपगत) नष्ट, गुनरेल गुजरा  
 हुआ, विनष्ट Vanished, dead,  
 gone away, passed away नाया०  
 १, १, दस० १०, १६,  
 अवच्चिय त्रि० (अपत्तीय) सतान सम्पत्ती  
 सतानीय, सतान सम्पत्ती Pertaining  
 to children टा० ६,  
 अवज्झा स्त्री० (अवज्झा) विदेहक्षेत्री अेक  
 नगरी विदेह क्षेत्र की एक नगरी A  
 name of a city in the Videh  
 Kshetia The 4th division of  
 Jambudwipa (the central con-  
 tinent which contains our  
 earth), टा० २, ३,  
 अवणाय पु० (अपनय) दूर करने अथवा,  
 हटाना Removal, setting aside

अ० न,  
 अवतस पु० (अवतस) मेरु पर्वत मेरु पर्वत  
 Mount Meru which is in the  
 middle of Jambudvīpa the  
 1st Continent सू० प० ५,  
 अवसिय न० (अव्यक्तिक) (१) ऐ० नैनाशास  
 मत, निहन्व प्रचलित ऐ० मत एक  
 जैनाभास मत, निह्व प्रचलित एक मत  
 A religious creed resembling  
 that of the Jain tenets, a reli-  
 gious doctrine propounded by  
 Nihava (२) आ मतनी अनुयायी  
 इस मत का अनुयायी A follower of  
 this doctrine अ० ७,  
 अवत्यद्द त्रि० (अवत्पद्य) जेने सहाय मणी  
 होयते अवलम्बन प्राप्त, जिसको सहारा मिला  
 हो वह One who has got support,  
 one who is helped नाया० १, १८,  
 अवमद्ग त्रि० (अवमर्दक) मर्दन करनेवाला  
 मर्दन करने वाला One who rules  
 or shampoos नाया० १, १६,  
 अवमाणय न० (अवमानन) अन्याय, अपमान  
 अनादर, अवज्ञा Disrespect, Insult  
 पद्य० १, ५,  
 अवय त्रि० (अवच) प्रतिदूध, प्रतिकूल Dis-  
 agreeable भग० १, ६,  
 अवयक्त्वा स्त्री० (अपेक्षा) अपेक्षा अपेक्षा  
 Expectation, desire, consi-  
 deration, reference नाया० १, ६,  
 अवयच्छिय त्रि० (अपेक्षित) देखे, देखा  
 हुआ Seen, perceived नाया० १,  
 ८,  
 अवहसिय त्रि० (अप-व हसित) तिरस्कृत,  
 उपेक्षा करने तिरस्कृत, उपहसित Des-  
 pised, milked at नाया० १, ६,  
 अवहार पु० (अपहार) (१) दूर करने, परित्याग

दूरी दूर करना, परित्याग Removing,  
 abandoning नाया० १, ६, (२)  
 भागाभाग भागाकार Division, the  
 quotient भग० २५, ४,  
 अवहेलण त्रि० (अवहेलन) उपेक्षा करना  
 उपेक्षा करने वाला Indifferent, dis-  
 daister, one who disregards  
 or slight. सू० २, ६, ५३,  
 अवर्द्धय त्रि० (अवर्द्धन) अनेमुंभ अघोमुख  
 Downward, gone down, head-  
 long नाया० १, १,  
 अवाय पु० (अपाय) (१) अनर्थ, अनिष्ट  
 अनर्थ, अनिष्ट Evil, Misfortune,  
 Calamity अ० १, (२) उदाहरण विशेष  
 उदाहरण विशेष An illustration अ०  
 ४, ३, (३) वियोग, विनयन वियोग;  
 पार्थक्य separation, departure नदी०  
 असत त्रि० (असत्त्व) सत्त्व रहित, यथा  
 विनाशु सत्त्व रहित, बल शून्य With-  
 out having any substance, not  
 substantial, spiritless पद्य० १, २;  
 असक्य त्रि० (असकृत) सहाय न देल,  
 सत्कार रहित, Not received or  
 treated hospitably, Not treated  
 with respect पद्य १, २,  
 असण पु० (असन) शीघ्रतु अ० वीजक  
 नामक वृक्ष Name of a tree called  
 Bijak पत्र० १, नाया० १, १,  
 असादय न० (असादक) तृण विशेष, तृण  
 विशेष, A particular kind of  
 grass पत्र० १,  
 अस्तकरण न० (अशकरण) घोडा, २,  
 न्या घोडा राभवाभा आवे छे ते स्थान,  
 जहा घोडा रखने में आता हो वह स्थान,  
 Stable आया० २, १०, १४,  
 अस्तासण पु० (आस्तासन) ऐ० मंडाअश

एक महाग्रह, Name of a great planet सू० प० २०,

अहिहारण पु० न० (अधिकरण) (१) आत्म  
लिप्त पदार्थ वस्तु आत्म भिन्न बाह्य वस्तु  
Outward substance which  
quite different from soul ठा०  
२, १, (२) आधार आधार, support  
विरो० ८४, —कर त्रि० (कर) ३६६  
३२३ कलह कारक, quarrelsome  
सू० १, २, २, २०, आया —किरिया  
स्त्री० (क्रिया) दुर्गतिमा लक्ष्मणीर द्विधा  
दुर्गति में ले जाने वाली क्रिया, Action  
or act which leads to misfor-  
tune or hell पृ० १, २,

अहिद्वग त्रि० (अधिष्ठक) अधिष्ठान, ३२१  
अधिष्ठता, विधायक, कारक A regula-  
tor, Controller, head, Super-  
intendent "बुद्धपुत्तमहिद्वगा" दस०  
६, २२,

अहियासन न० (अधिकारण) अधिक भोजन,  
अच्छे अधिक भोजन, अजीर्ण 1  
Overfeeding, indigestion ठा० २,

अहिलिया स्त्री० (अहिल्या) अनामनी अक्ष  
सती स्त्री एक सती स्त्री, Name of a  
pious woman पृ० १, ४,

अहिसका स्त्री० (अभिरका) लय, डर भय,  
डर Fear, Danger सू० १, १२, १०,

अहिसधि पु० स्त्री० (अभिसधि) अभिसंधि,  
आशय अभिसंधि, आशय Opinion,  
belief, Intention, aim, object,  
purpose पृ० १, २,

अहो अ० (अहनि) दिवसमा, दिवसमें In  
day time. "अहो य रामो य सिवाभि-  
लासियो" पृ० २, १,

आ अ० (आ) (१) नीचे नीचे, अध  
Downwards, under रा० ३५,

३६, (२) विस्मय, आश्चर्य, विस्मय,  
आश्चर्य Wonder, surprise. ठा०  
२,

आइक्खिया स्त्री० (आख्यायिका) (१) वार्ता,  
इथा वार्ता, कहानी A story, tale.  
नाया० १, १, (२) अक्ष प्रक्षरनी मैत्री  
विद्या, एक प्रकार की मैत्री विद्या, जिससे  
चाण्डालनी भूतकाल आदि की परोक्ष  
वार्ता कहती है A kind of Science  
having crooked ways for the  
accomplishment of an ob-  
ject ठा० ६,

आइल त्रि० (आविल) मशीन, डेपु, मलिन,  
कलुष, अस्वच्छ Duty, impure-  
पृ० १, २,

आउज्जिय त्रि० (आवर्जित) सन्मुख इच्छु  
समुल किया हुआ Turned towards  
faced पृ० ३६,

आउट्टण न० (आवर्तन) आराधना, सेवा;  
लक्षित आराधना, सेवा, भक्ति Propri-  
tiation, worship, adoration-  
Service वव० १, ६,

आउत्त त्रि० (आगुस) सक्षिप्त सक्षिप्त Ab-  
ridged, abbreviated ठा० ३, १,

आउस्सिय. त्रि० (आवश्यक) (१) आवश्यक-  
जरूरी Needful, necessary (२)  
आवश्यक जरूर, आवश्यक Necess-  
sarily पृ० ३६,

आउस्सियकरण न० (आवश्यककरण) (१)  
मन, वचन, अने दायाने शुभ व्यापार.  
मन, वचन, और काया का शुभ व्यापार.  
Virtuous practice (or act) of  
mind, words and body (२)  
मोक्ष पाटनी प्रवृत्ति मोक्ष के लिये प्रवृत्ति.  
Perseverance aiming at liber-  
ation or final emancipation.

पङ्क० ३६,

पुं० (आदेश) (१) उपचार, आरोप उपचार, आरोप. Attributing the nature or properties of one thing to another "आपसो उपचारो" विशेष० ३४८८, (२) शिष्ट-समत शिष्ट-सम्मत, That which is acceptable to a wise man "आपसो सोऽ भवे" वच० २, ८,

आकोडण न० (आकोटन) कुटीने भोसपुते कूट कर घुसेडना Thrusting पण्ह० १, ३, आगरि त्रि० (आकरिन्) भाषुने धष्णी खान का मालिक, खान का काम करने वाला An owner of a mine पण्ह० १, २,

आगार न० (आगार) (१) घर, गृह घर, गृह A house नाया० १, १, (२) त्रि० गृह-थ गृहस्थ, गृही A householder ठा०

आघाय पु० (आघात) (१) वध वध Killi-  
ng (२) प्रहार, चोट, प्रहार A blow नाया० १, ६,

आडासेतीथ पु० (आडासेतीक) ऐकं जतनु पक्षी पक्षि विशेष A kind of bird पण्ह० १, १,

आडोवित्र त्रि० (आटोपिक) आऽथर डरनार आटोप वाला, स्फारित Allogant, Proud पण्ह० १, ३,

आढय पुं० न० (आढक) ज्ञेय 'आढग' देखो 'आढग' Vide आढग ठा० ३, १,

आणतरिय न० (आनन्तर्य) (१) अविच्छेद, व्यपधानना अलाप, निरन्तर अविच्छेद, व्यवधान का अभाव Immediate suc-  
cession, Constance ठा० ४, ३,

आणावणिय त्रि० (आज्ञापनिक) हुकम डरनार आज्ञा फरमाने वाला Ordering,

Commanding राय० २५,  
आणुओगिअ त्रि० (आनुयोगिक) व्याख्या

डरनार व्याख्या-कर्ता An expounder,  
A commentator नदी० ५१,

आफोडिअ न० (आस्फोटित) हाथ पड्डाडना ते हाथ पड्डाडना Slapping or clap-  
ping the arms पण्ह० १, ३,

आवाहा स्त्री० (आवाधा) (१) अल्प बाधा अल्प बाधा A little objection  
नाया० १, ४, (२) अ-र अन्तर.  
Distance सम० १५,

आभागि त्रि० (आनागिन्) भोगी, भोगी.  
नोक्त, भोगी One who enjoys;  
An enjoyer "अणोगाण जन्ममरणायं  
आभागी भवेज्ज" नाया० १, १८,

आमइ त्रि० (आमयिन्) रोगी रोगी Dis-  
eased, sick वच० १, १,

आमेडणा स्त्री० (आमेडना) उडु डरनु,  
उडु डरनु विपर्यस्त करना, उलटा करना  
पण्ह० १, ३,

आमोअ पु० (आमोद) ऐकं प्रक्षरनु वाणित्र वाद्य विशेष A kind of musical  
instrument राय० ४६,

आय पु० (आत्मन्) (१) अय, पोते, निज स्वय, निज Self, oneself "रययाइं  
गहाय आयाए" सग० ३, २, (२) शरीर,  
देह शरीर, देह The body नाया०  
१, ८, (३) ज्ञान आदि आत्माना गुण  
ज्ञान आदि आत्मा के गुण Natural  
virtue of the soul, viz, Know-  
ledge etc आया०

आयर पु० (आदर) परिअड, असंतोष Pos-  
session, Attachment, Desire.  
पण्ह० १, ५,

आयवा स्त्री० (आतपा) आ नामनु 'ज्ञाता  
धर्मं कथा' सूनुनु ऐकं अध्ययन इस नाम

एक महाग्रह, Name of a great planet सू० प० २०,

अहिगरण पु० न० (अधिकरण) (१) आत्म विरत आद्य वस्तु आत्म भिन्न बाह्य वस्तु Outward substance which quite different from soul ठा० २, १, (२) आधार आधार, support विरो० ८४, —कर त्रि० (कर) कथक कथक कलह कारक, quarrelsome सू० १, २, २, २०, आया —किरिया स्त्री० (क्रिया) दुर्गतिमा लक्ष्णान्तर क्रिया दुर्गति में ले जाने वाली क्रिया, Action or act which leads to misfortune or hell पृ० १, २,

अहिदुग त्रि० (अधिष्ठाक) अधिष्ठा, कर्तार अधिष्ठाता, विधायक, कारक A regulator, Controller, head, Superintendent "बुद्धयुत्तमहिदुगा" दस० ६, २२,

अहियासरा न० (अधिकारण) अधिक भोजन, अशुद्ध अधिक भोजन, अजीर्ण 1 Overfeeding, indigestion ठा० ६, अहिलिया स्त्री० (अहिल्या) अनामनी अनामनी स्त्री एक सती स्त्री. Name of a pious woman पृ० १, ४,

अहिसका स्त्री० (अभिषका) लय, डर भय, डर Fear, Danger सू० १, १२, १७, अहिसधि पु० स्त्री० (अभिसधि) अभिप्राय, आशय अभिप्राय, आशय Opinion, belief, Intention, aim, object, purpose पृ० १, २,

अहो अ० (अहनि) दिवसमा, दिवसमें In day time "अहो य रात्रो य सिवाभिलासिणो" पृ० २, १,

आ अ० (आ) (१) नीचे नीचे, अध Downwards, under रा० ३२,

३६, (२) विभय, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य Wonder, surprise. ठा० २,

आइक्खिया स्त्री० (आख्यायिका) (१) वार्ता, कथा वार्ता, कहानी A story, tale. नाया० १, १, (२) अेक प्रकारनी भेदी विद्या, एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे चाण्डालनी भूतकाल आदि की परोक्ष बातें कहती है A kind of Science having crooked ways for the accomplishment of an object ठा० ६,

आइल त्रि० (आविल) मदीन, डेणु, मलिन, कलुप, अस्वच्छ Duty, impure पृ० १, ३,

आउज्जिय त्रि० (आवर्जित) स-मुप उरेलु समुल किया हुआ Turned towards faced पृ० ३६,

आउट्टया न० (आवर्तन) आराधना, सेवा, लक्ष्मी आराधना, सेवा, भक्ति Propitiation, worship, adoration-Service वव० १, ६,

आउत्त त्रि० (आगुत्त) सक्षिप्त सक्षिप्त Abbridged, abbreviated ठा० ३, १,

आउस्सिय त्रि० (आवश्यक) (१) जरूरी जरूरी Needful, necessary (२) जरूरी, आवश्यक जरूर, अवश्य Necessarily पृ० ३६,

आउस्सियकरण न० (आवश्यककरण) (१) मन, वचन, अने ज्ञानोना शुभ व्यापार-मन, वचन, और काया का शुभ व्यापार. Virtuous practice (or act) of mind, words and body (२) मोक्ष मांती प्रवृत्ति मोक्ष के लिये प्रवृत्ति. Perseverance aiming at liberation or final emancipation.

पत्र० ३६,  
 आपस. पु० (आदेश) (१) उपचार, आदेश  
 उपचार, आरोप. Attributing the  
 nature or properties of one  
 thing to another "आपसो उप-  
 चारो" विशेष० ३४८८, (२) शिष्ट-सभत  
 शिष्ट-सम्मत, That which is ac-  
 ceptable to a wise man. "आपसो  
 सोड भवे" वच० २, ८,  
 आक्रोडण न० (आक्रोटन) कुटीने भोसपु ते कूट  
 कर घुसेडना Thrusting. पयह० १, ३,  
 आगरि त्रि० (आकरिन्) भाषुने धणी  
 खान का मालिक, खान का काम करने  
 वाला An owner of a mine  
 पयह० १, २,  
 आगार न० (आगार) (१) घर, गृह घर, गृह  
 A house नाया० १, १, (२) त्रि०  
 गृह-ग्रह गृहस्थ, गृही A householder.  
 ठ०  
 आघाय पु० (आवात) (१) पथ वध Killi-  
 ng (२) प्रहार, चोट, प्रहार A blow  
 नाया० १, ६,  
 आडासेतीय पु० (आडासेतीक) ऐक मतनु  
 पक्षी पक्षि विशेष A kind of bird.  
 पयह० १, १,  
 आडोविअ त्रि० (आडोपिक) आडोपि ३२५  
 आडोप वाला, स्फारित Allogant,  
 Proud पयह० १, ३,  
 आढय पु० न० (आढक) लुआ 'आढग' देखो  
 'आढग' Vide आढग ठ० ३, १,  
 आणतरिय न० (आनस्तय) (१) अविच्छेद,  
 व्यवधानतो अभाव, निरन्तर अविच्छेद,  
 व्यवधानका अभाव Immediate suc-  
 cession, Constance ठ० ४, ३,  
 आणवणिय त्रि० (आणवणिक) हुडम ३२५  
 आज्ञा फरमाने वाला Ordering,

Commanding राय० २५,  
 आणुओगिअ त्रि० (आणुयोगिक) व्याख्या  
 ३२५ व्याख्या-कर्ता An expounder,  
 A commentator नदी० ५१,  
 आफोडिअ न० (आफोटित) हाथ पड्डाडने  
 ते हाथ पड्डाडना Slapping or clap-  
 ping the arms पयह० १, ३,  
 आवाहा स्त्री० (आवाघा) (१) अल्प भाषा  
 अल्प वाघा A little objection  
 नाया० १, ४, (२) अन्त अन्तर.  
 Distance सम० १२,  
 आभागि त्रि० (आभागिन्) भोगी, भोगी.  
 भोक्ता, भोगी One who enjoys;  
 An enjoyer "अयोगाय जन्ममरणायं  
 आभागी भवेज" नाया० १, १८,  
 आमद् त्रि० (आमयिन्) रोगी रोगी Dis-  
 eased, sick वच० १, १,  
 आमडेणा स्त्री० (आमडेना) उड्ड ३२५,  
 उड्डु ३२५ विपर्यस्त करना, उलटा करना  
 पयह० १, ३,  
 आमोअ पु० (आमोद) ऐक प्रक्षरनु वाजि न  
 वाद्य विशेष A kind of musical  
 instrument राय० ४६,  
 आय पु० (आत्मन्) (१) अन्वय, पोते, निज  
 स्वय, निज Self, oneself "रययाई  
 गहाय आयाए" भग० ३, २, (२) शरीर,  
 देह शरीर, देह The body नाया०  
 १, ८, (३) ज्ञान आदि आत्माना गुण  
 ज्ञान आदि आत्मा के गुण Natural  
 virtue of the soul, viz, Know-  
 ledge etc आया०  
 आयर पु० (आदर) परिअड, असंतोष Pos-  
 session, Attachment, Desire.  
 पयह० १, ५,  
 स्त्री० (आतपा) आ नामनु 'ज्ञाती  
 धर्म कथा' सूत्रनु ऐक अध्यायन इस नाम

का 'ज्ञाताधर्म कथा' सूत्र का एक अध्यायन  
 Name of a chapter in Gyata-dharma Katha Sutra नाया० २,  
 १,  
 आयसी स्त्री० (आयसी) खोदनी केश लोहे  
 की कोश An iron instrument for  
 digging पयह० १, १,  
 आयाइ. स्त्री० (आयाति) (१) आगमन  
 आगमन Coming, Arrival (२)  
 उत्पत्ति, गर्भायी धार नीक्षणु उत्पत्ति,  
 गर्भ से बाहर निकलना Birth Com-  
 ing out from the womb डा० २,  
 ३, (३) लविष्य काल आयति, भविष्य  
 काल The future दसा०  
 आयाइ स्त्री० (आजाति) (१) उत्पत्ति, जन्म  
 उत्पत्ति, जन्म Birth डा० १०, (२)  
 भक्ति, प्रकार जाति, प्रकार A kind, A  
 variety (३) आचार, आचरण आचार,  
 आचरण Behaviour, Conduct  
 आया०  
 आयाइद्वारा न० (आजातिस्यान) (१) जगत,  
 ससार जगत्, ससार The world,  
 The course or circuit of wor-  
 ldly life (२) आनामनु 'आचारज्ञ' सूत्र  
 के एक अध्यायन का नाम Name of a  
 chapter in Acharanga sutra  
 डा० १०,  
 आचार पु० (आचार) निपुण शिष्य निपुण  
 शिष्य, A shrewd pupil भग० १, १,  
 आयाव पु० (आताप) अमुकुमार भक्तिनी  
 देवतानी अनेक असुरकुमार जातीय  
 देव विशेष A variety of Asur-  
 kumar gods भग० १३, ६,  
 आयावि त्रि० (आतापिन्) अमु 'आयावश्च'  
 शब्द देखो 'आयावश्च' शब्द Vide

'आयावश्च' डा० ४,  
 आयाव पु० (आयाव) परिग्रह परिग्रह.  
 Possession पयह० १, १,  
 आरक्षिन् त्रि० (आरक्षिन्) रक्षक रक्षक,  
 ज्ञाता A protector, A Guard  
 डा० ३, १, ओष० २६०,  
 आरत त्रि० (आरत) अत्यन्त अनुरक्त  
 अत्यन्त अनुरक्त Excessively devo-  
 ted or attached पयह० २, ४,  
 आरिय न० (आरत) आगमन आगमन  
 Coming, Arrival राय० १०१,  
 आरोग्य त्रि० (आरोग्य) (१) क्षेम, कुशल  
 क्षेम, कुशल Happy, Prosperous  
 (२) न० नीरोगता नीरोगता Good  
 health आया० २, १३, ६,  
 आलभिय न० (आलम्बिक) (१) लक्ष्यती  
 सूत्रनी अतीथारमा शतकोत्तौ पारमो उद्देश्य  
 भगवती सूत्र के न्यारहवें शतक का बारहवा  
 उद्देश्य The twelfth Uddesh of  
 the eleventh Shatak in Bha-  
 gavati Sutra भग० ११, १२,  
 (२) नगर विशेष नगर विशेष Name  
 of a city डा० १,  
 आलस त्रि० (आलस) आलस्य, सुप्त आल-  
 सी, सुस्त Idle, Lazy, Slothful  
 भग० १२, २,  
 आली स्त्री० (आली) अनेकप्रकारनी वनस्पति  
 एक प्रकार की वनस्पति. A kind of  
 vegetable नाया० १, ३,  
 आलोच्य पु० (आलोक) (१) गोप्य आदि  
 प्रकाश आवधान स्थान गवाहादि प्रकाश  
 स्थान An air-hole आया० (२)  
 जगत, ससार जगत्, ससार 'The  
 world आव० (३) ज्ञान ज्ञान The  
 Knowledge पयह० १, ४,  
 आलोच्य न० (आलोकन) गोप्य गवाहा A

balcony, A portico. उक्त० १६,  
४,  
आव पु० (आप) प्राप्ति, लाभ, प्राप्ति, लाभ  
Acquisition, Profit. पृष्ठ० २, १,  
आवत्त पु० (आवर्त) (१) भ्रष्टिनु अेक्ष  
लक्ष्य मणि का एक लक्षण A parti-  
cular characteristic of a jewel  
रत्न०(२) शारीरिक चेष्टा विशेष शारीरिक  
चेष्टा विशेष, कायिक व्यापार विशेष A  
particular Corporeal gesture  
of movement सम० २१,  
आवरण व० (आवरण) वास्तु विद्या वास्तु  
विद्या The science of a house  
of an abode ठ० ६,  
आवलिआ खी (आवलिका) क्रम, परिपाटी.  
क्रम, परिपाटी A series, A conti-  
nuous line सू० प० १०,  
आवाय पु० (आपात) प्रथम भेदाप प्रथम  
भेदन The first sight of appear-  
ance ठ० ४, १,  
आवास पु० (आवास) पक्षीना भोजा पक्षि-  
गृह, नीड The bird's nest वव०  
१, १,  
आविधण न० (आव्यधन) (१) पडेरु  
पहनना Clothing, Clading (२)  
मन्त्रधी आधीन करवुते मन्त्र से आविष्ट  
करना, मन्त्र से आधीन करना Effecting  
of subduing by magic पृष्ठ०  
१, २,  
आवेदिय. त्रि० (आवेष्टित) चारै तरङ्गी  
वि टाणेलु चारों ओरसे वेष्टित Enclosed  
of encircled on all sides भग०  
१६, ६,  
आससण न० (आससन) विनाश, हिंसा  
विनाश, हिंसा. Destruction, Kill-  
ing पृष्ठ० १, ३,

आसादेत्तार त्रि० (आस्वादयितृ) आस्वादन  
करना आस्वादान करने वाला One  
who tastes ठ० ७,  
आसामर पु० (आशामर) सातवा वासुदेव  
अने अक्षदेवना पूर्वक्षयना धर्मगुणु नाम  
सातवा वासुदेव और बलदेव के पूर्वभवीय  
धर्मगुरु का नाम Name of a religi-  
ous preceptor of the previous  
life of the seventh Vasudeo  
and Baladeo सम० १७३,  
आसीविस त्रि० (आशीविप) निग्रह अने  
अनुग्रह करनामा समर्थ, लब्धि विगेष  
मणवेक्ष निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ,  
लब्धि विशेषको प्राप्त Able to subdue  
and oblige भग० ८, १,  
आसूणिय त्रि० (आसूणित) थोडा सून्हेलु.  
थोडा सूजा हुआ. A little swollen  
पृष्ठ० १, ३,  
आसोकंता खी० (आसोकान्ता) मध्यम  
आमनी अेक्ष सून्हेना मध्यम ग्राम की  
एक सून्हेना A particular intona-  
tion of the fifth gamut (in  
music) ठ० ७,  
आहार पु० (आधार) आकाश आकाश The  
sky भग०, २, २,  
आहिय त्रि० (आहित) स्थापन कृष्ण स्थापित,  
निवेशित Established, Placed  
ठ० ४,  
इइ अ० (इति) हेतु, कारण हेतु, कारण  
A cause ठ० ३,  
इगारडाह पु० न० (अज्ञारदाह) नी लाडे  
आवा, मिट्टी के पात्र पकाने का स्थान A  
Ruin आयर० २, १०, २,  
इद पु० (इन्द्र) (१) परमेश्वर, धृश्वर परमे-  
श्वर ईश्वर God ठ० ४, (२) श्रव,  
आत्मा जीव, आत्मा The soul "इदो



का 'ज्ञाताधर्म कथा' सूत्र का एक अध्यायन  
 Name of a chapter in Gyata-  
 dharma Katha Sutra नाया० २,  
 १,  
 आयसी स्त्री० (आयसी) खोदनी देश लोहे  
 की कोश An iron instrument for  
 digging पयह० १, १,  
 आयाइ स्त्री० (आयाति) (१) आगमन  
 आगमन Coming, Arrival (२)  
 उत्पत्ति, गर्भधी अक्षर नीक्षणपु उत्पत्ति,  
 गर्भ से बाहर निकलना Birth Com-  
 ing out from the womb ठा० २,  
 ३, (३) लविष्य क्षण आयति, भविष्य  
 काल The future दसा०  
 आयाइ स्त्री० (आजाति) (१) उत्पत्ति, जन्म  
 उत्पत्ति, जन्म Birth ठा० १०, (२)  
 नति, प्रकार जाति, प्रकार A kind, A  
 variety (३) आचार, आचरण आचार,  
 आचरण Behaviour, Conduct  
 आया०  
 आयाइद्वाण न० (आजातिस्थान) (१) जगत,  
 ससा० जगत, ससार The world,  
 The course or circuit of wor-  
 ldly life (२) आ नामनु 'आचारङ्ग'  
 सूत्रपु अेड अध्यायन 'आचारङ्ग' सूत्र के  
 एक अध्यायन का नाम Name of a  
 chapter in Acharanga sutra  
 ठा० १०,  
 आचार पु० (आचार) निपुण शिष्य निपुण  
 शिष्य, A shiend pupil भग० १, १,  
 आयाव पु० (आताप) असुरकुमार नतिनी  
 देवतीनी अेड नत असुरकुमार जातीय  
 देव विशेष A variety of Asur-  
 kumar gods भग० १३, ६,  
 आयावि त्रि० (आतापिन्) अुओ 'आयावन्न'  
 शब्द देखो 'आयावन्न' शब्द Vide

'आयावन्न' ठा० ४,  
 आयास पु० (आयास) परिग्रह परिग्रह.  
 Possession पयह० १, २,  
 आरविस्त्र त्रि० (आरविन्) रक्षक, रक्षक,  
 त्राता A protector, A Guard  
 ठा० ३, १, ओघ० २६०,  
 आरत त्रि० (आरत) अत्यन्त अतुरक्त  
 अत्यन्त अतुरक्त Excessively devo-  
 ted or attached पयह० २, ४,  
 आरिय न० (आर्यत) आगमन आगमन  
 Coming, Arrival राय० १०१,  
 आरोय त्रि० (आरोय्य) (१) क्षेम, कुशल  
 क्षेम, कुशल Happy, Prosperous  
 (२) न० नीरोगता नीरोगता Good  
 health आया० २, १२, ६,  
 आलभिय न० (आलम्बिक) (१) लगवती  
 सूत्रनी अगीयारमा शतकेनी आरमे उद्देश  
 भगवती सूत्र के ग्यारहवें शतक का बारहवा  
 उद्देश The twelfth Uddesh of  
 the eleventh Shatak in Bha-  
 gavati Sutra भग० ११, १२,  
 (२) नगर विशेष नगर विशेष Name  
 of a city ठा० १,  
 आलस त्रि० (आलस) आलस, सुप्त आल-  
 सी, सुस्त Idle, Lazy, Slothful  
 भग० १२, २,  
 आली स्त्री० (आली) अेडप्रकारनी वनस्पति  
 एक प्रकार की वनस्पति. A kind of  
 vegetable नाया० १, ३,  
 आलोत्र पु० (आलोक) (१) गोप्य आदि  
 प्रक्षय आवधानु स्थान गवाक्षादि प्रकाश  
 स्थान An air-hole आया० (२)  
 जगत, ससा० जगत, ससार The  
 world आव० (३) ज्ञान ज्ञान The  
 Knowledge पयह० १, ४,  
 आलोच्यण न० (आलोकन) गोप्य गवाच A

balcony, A portico उच्च० १६,  
 ४,  
 आच. पु० (आप) प्राप्ति, लाभ, प्राप्त, लाभ  
 Acquisition, Profit. पण्ड० २, १,  
 आवत्त पु० (आवर्त) (१) मथितु अेष्ट  
 लक्षण मणि का एक लक्षण. A partic-  
 ular characteristic of a jewel.  
 राय०(२) शारीरिष्ठ अेष्टा विशेष. शारीरिक  
 चेष्टा विशेष, कायिक व्यापार विशेष A  
 particular Corporeal gesture  
 or movement सम० २१,  
 आवरण व० (आवरण) वास्तु विद्या वास्तु  
 विद्या The science of a house  
 or an abode ठा० ६,  
 आवलित्रा स्त्री (आवलित्रा) क्रम, परिपाटी.  
 क्रम, परिपाटी A series, A conti-  
 nuous line सू० प० १०,  
 आवाय पु० (आपात) प्रथम भेदाप प्रथम  
 मेलन The first sight or appear-  
 ance ठा० ४, १,  
 आवास पु० (आवास) पक्षीना माला पक्षि-  
 गृह, नीड The bird's nest वव०  
 १, १,  
 आविधण न० (आव्यधन) (१) पडेरु  
 पहनना Clothing, Clading (२)  
 मन्त्रथी आधीन डरुते मन्त्र से आविष्ट  
 करना, मन्त्र से आधीन करना Effecting  
 or subduing by magic पण्ड०  
 १, २,  
 आवेष्टिय. त्रि० (आवेष्टित) आरे तक्ष्थी  
 विरागेलु चारों ओरसे वेष्टित Enclosed  
 or encircled on all sides भग०  
 १६, ६,  
 आससण न० (आससन) विनाश, डिंसा  
 विनाश, हिंसा. Destruction, Kill-  
 ing पण्ड० १, ३,

आसावेत्तार. त्रि० (आस्वादयित्) आस्वादन  
 डरना२ आस्वादान करने वाला. One  
 who tastes ठा० ७,  
 आसामर पु० (आसामर) सानभा वाभुपय  
 अने अथदेवना पूर्ववचना धर्मगुणु नाम  
 सातवां वासुदेव और बलदेव के पूर्वमवीय  
 धर्मगुरु का नाम Name of a religi-  
 ous preceptor of the previous  
 life of the seventh Vasudeo  
 and Baladeo सम० १५२,  
 आसीविस त्रि० (आसीविय) निग्रह अने  
 अनुग्रह डरनाभा समर्थ, लब्धि विनेय  
 भगवेल निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ,  
 लब्धि विशेषको प्राप्त Able to subdue  
 and oblige भग० ८, १,  
 आसूणिय. त्रि० (आसूणित) थोडु सूजेथु.  
 थोडा सूजा हुआ. A little swollen  
 पण्ड० १, ३,  
 आसोकंता स्त्री० (आसोकान्ता) मध्यम  
 आभनी अेष्ट सूजेथनी मध्यम आभ की  
 एक सूजेथना A particular intona-  
 tion of the fifth gamut (in  
 music) ठा० ७,  
 आहार पु० (आहार) आकाश आकाश The  
 sky भग०, २, २,  
 आहिय त्रि० (आहित) स्थापन अेष्टेथल स्थापित,  
 निवेशित Established, Placed  
 ठा० ४,  
 इइ अ० (इति) उेतु, अरथु हेतु, कारण  
 A cause ठा० ३,  
 इगारडाह पु० न० (इगारदाह) नीं लाडे  
 आवा, मिट्टी के पात्र पकाने का स्थान A  
 Rain आयर० २, १०, २,  
 इद पु० (इन्द्र) (१) परमेश्वर, पृथ्वर परमे-  
 श्वर ईश्वर God ठा० ४, (२) एव,  
 आत्मा जीव, आत्मा The soul "इंदो

जीवो सन्वोवन्नद्धिभोगपरमेसरत्तयधो" ।  
 विशो० २६६३, (३) पृथ्वीकायते ओं  
 अधिपति देव पृथ्वीकाय का एक अधि-  
 दायक देव A. presiding god of  
 earth, embodiment ठ० २, १,  
 इद्र त्रि० (इन्द्र) (१) धन्द्र सभन्धी इन्द्र  
 सबन्धी Belonging to Indra  
 नाया० १, १,  
 इन्द्रमीव. पु० (इन्द्रमीव) गृहते अधिपति देव  
 विशेष गृहाधिदायक देव विशेष Name  
 of a presiding god of planets  
 ठ० २, ३,  
 इन्द्रिय न० (इन्द्रिय) आभ, धन, नाड, श्रु  
 अन्ये त्वया ये पाच इन्द्रिय आख, कान,  
 नाक, जिह्वा, और त्वचा ये पाच इन्द्रियों  
 The organ of senses viz  
 the eyes, ears, nose, tongue  
 and skin ठ० ६, —अचाय पु०  
 (अचाय) धन्द्रिये क्षरु थते परतुने  
 निश्चय इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान  
 विशेष. Knowledge of things  
 by organ of senses पन्न० १२,  
 —ओम्गाहया स्त्री० (अवग्रहया) धन्द्रिये  
 थी उत्पन्न थनार ज्ञान विशेष इन्द्रियों  
 द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान विशेष A  
 particular knowledge by or-  
 gan of perception पन्न० १२,  
 —याय न० धन्द्रिये थी उत्पन्न थतु ज्ञान,  
 प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न ज्ञान,  
 प्रत्यक्ष ज्ञान. Perception by org-  
 an of senses चव० १०,  
 इच्छामुच्छा स्त्री० (इच्छामुच्छा) अत्यासक्ति  
 प्रथम धन्द्र. अत्यासक्ति, प्रबल इच्छा.  
 Excessive attachment, strong  
 desire पय० १, ३,  
 इतर. त्रि० (इतर) हीन, अध-य. हीन, जवन्य.

Base, Lowest. आया १, ६ २,  
 इल. पु० (इल) (१) बनारसने रहनेवासी  
 ओं स्वनाम ध्यात गृहस्थ. वाराणसी का  
 वास्तव्य स्वनाम ध्यात एक गृहपति-गृहस्थ  
 Name of a gentleman living  
 in Banares नाया० २, (२) न० धक्षा  
 देवीना सिद्धासननु नाम इलादेवी के  
 सिद्धासन का नाम A throne of Ila  
 goddess नाया० २, —सिरि स्त्री० (श्री)  
 धल नामना गृहस्थनी स्त्री. इल नामक  
 गृहस्थ की स्त्री A wife of Ila  
 gentleman नाया० २,  
 इला स्त्री० (इला) (१) धरतु-धनी ओं  
 अग्रमहिषी परराष्ट्री धरतु-धनी की एक  
 अग्र महिषी Name of a chief  
 queen of Dharaanindra नाया० २;  
 (२) धल नामना गृहस्थनी पुत्री. इल  
 नामक गृहस्थ की पुत्री A daughter  
 of Ila gentleman नाया० २,  
 इलावडसय न० (इलावडसक) धला देवीतु  
 विमान इला देवी का प्रासाद A  
 celestial car of Ila goddess.  
 नाया० २,  
 इसि पु० (ऋषि) ऋषिवादि निक्षमना दक्षिण  
 दिशाते धन्द्र, धन्द्र विशेष ऋषिवादि  
 निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र, इन्द्र  
 विशेष Name of the India of  
 the Deccan of Rishivadi gods  
 ठ० २, ३,  
 इसियाय त्रि० (इसिनक) धसिन नामना  
 अनार्य देशमा न-मेध इसिन नामक  
 अनार्य देश में उत्पन्न Born in  
 Anarya country called Isin.  
 नाया० ३, १,  
 उ. अ० (तु) दिन्तु, परन्तु किन्तु, परन्तु  
 But. ठ० ३, १;

उ अ० ( उच् ) (१) विपरीत, उलट्टु विपरीत, उलटा Contrary, Reverse 'उक्कम' विशेष० (२) अभाव, रहितता अभाव, रहितता Absence, Want 'उकर' नाया० १, १, (३) विशेष, पधारे ज्यादा, विशेष Intensity. 'उक्कोविय' विशेष ३५७६, उदट्टु त्रि० (अपकृष्ट) हीन हीन Low, Base, Vile "आउसियअक्कलचम्मउ-इट्टगडदेस" नाया० १, ८,

उउ त्रि० ( ऋतु ) रणेदर्शन, स्त्रीधर्म रजो दर्शन, स्त्री धर्म Menstruation, Menstrual discharge अ० १, २, उंवरदत्त पु० (उदुम्बरदत्त) अेष्ट सार्थवाह ने पुत्र एक सार्थवाह का पुत्र Name of a son of a trader विवा० १, ७,

उवरपचग पणग न० (उदुम्बरपञ्चक) प३, पीपणो, गुक्षु, पक्ष अने अक्षेदुम्बरी अे पाय वृक्षोना इक्ष वड, पीपल, गुलार, प्लव और काकोदुम्बरी इन पाच वृक्षों के फल A collection of fruits of five kinds of trees भग० ६, ३३, उक्कत्त त्रि० (उक्कत्त) कपायेषु कटा हुआ Cut, Rent विवा० १, २,

उक्कस्स त्रि० (उक्कपवत्) उत्तु, पधारेमा पधारे उक्कृष्ट, ज्यादा से ज्यादा Maxim-um, highest limit 'उक्कस्सठिईयाय' अ० १, १,

उक्कुचण न० ( उक्कुचन ) उये यक्षपवु ते उचे चढाना Causing to rise or ascend सू० २, २, ६२,

उक्कत्त पु० (अवत्कद) (१) घेरी नाभने घेरा डालना besieging (२) जगथी शत्रु ना सैन्य उपर तुटी पडु छल से शत्रुके सैन्य को मारना Attacking, Assaulting पयह० १, २,

उक्कित्तय त्रि० (उक्कित) सि येसु सिक्त, सिचा हुआ Sprinkled, Watered सू० २, २, ६५,

उग्घर त्रि० (उद्गृह) गृह त्यागी, गेले ४२ या२ छोडी दीधा छे ते, साधु One who has abandoned house etc, A saint "उग्घरविग्घरनिरगणो" नाया० १, १०,

उग्घसिय न० (अवघर्षित) धर्षण, वसागे घर्षण. Rubbing, Friction राय० ६७,

उग्घात्र पु० (उद्घात) (१) प्रतिधान, डोकर लागती ते ठोकर लगना Stumbling, Striking against (२) लाग पाउवे लघूकरण, नाग पौत Dividing अ० ३, (३) उपोद्घात, लुमिअ उपोद्घात, भूमिका Preface विशेष० १३४८, (४) क्षय हास Decaying अ० १, २,

उच्च त्रि० (उच्च) उत्तम, उत्तम उच्च, उत्तम Excellent, Exalted — च्छन्द त्रि० (च्छन्दस्) रवेअथागी स्वैर, स्वेच्छाचारी. Wanton, Uncontrolled, self-willed पयह० १, २,

उच्चा अ० (उचवैस्) उत्तम, श्रेष्ठ उत्तम, श्रेष्ठ Excellent, Best अ० २, १, उच्छाह पु० (उत्साह) ६६ उच्चम दृढ उद्यम, स्थिर प्रयत्न Firm exertion सू० ५० २०,

उच्छिपण न० (उच्छेपण) (१) उपा० डे ड्युते उपर फेंकना Throwing or tossing up (२) थडीर डडु बहार निकालना. Drawing out पयह० १, १,

उच्छेव पु० (उच्छेप) (१) उच्यु डरवु, उपाडु उचा करना, उठाना. Lifting or holding up (२) डे डना फेंकना.

Throwing or tossing up वव  
२, ४,  
उज्जाणित्र त्रि० ( औद्यानिक) उद्यान—आग  
सम्बन्धी उद्यान सबन्धी Relating to  
a garden भग० १४, १,  
उड्ड न० (उर्ध्व) (१) उत्तम, मुख्य उत्तम,  
मुख्य The chief, The best “उड्ड-  
दत्ताए परिणामति” भग० ६, ३,  
उड्ड अ० (उर्ध्व) श्रुत्यो ‘उड्ड’ शब्द देखो  
‘उड्ड’ शब्द Vide ‘उड्ड’ भग० १, १,  
उड्डा स्त्री० (उर्ध्व) उर्ध्व दिशा ऊर्ध्व-दिशा  
The upper direction श० ६,  
उद्याइ पु० (उद्यादि) व्याकरणेन्यु अेक प्रकरणे  
विशेष व्याकरण का एक प्रकरण विशेष  
A particular chapter of a  
grammar पण्ड० २, २,  
उद्याय पु० (उद्यय) नीतिने अलाव नीति  
का अभाव Want of policy or  
justice भग० १२, २,  
उत्तमा स्त्री० (उत्तमा) जाताधर्मकथा सूत्र नु  
अेक अध्यायन जाताधर्म कथा सूत्र का एक  
अध्यायन Name of a chapter in  
Gyata dharmakatha sutra  
नाया० २, १,  
उत्तर न० (उत्तर) जवाब, प्रत्युत्तर जवाब,  
प्रत्युत्तर An answer, a reply वव०  
१, १,  
उत्तरओ अ० (उत्तरत) उत्तर दिशा तरफ  
उत्तर दिशा तरफ To the north  
श० ६,  
उत्तरण न० (उत्तरण) अवतरण, नीचे आना Descend-  
ing, coming down श० १०,  
उत्तरा स्त्री० (उत्तरा) अेक दिशा कुमारी एक  
दिशा कुमारी देवी Name of a Dik  
kumari goddess श० ८,

उत्तिग पु० (उत्तिङ्ग) वनस्पति विशेष भीक्ष  
डीनी टोप वनस्पति विशेष, सर्पच्छत्रा A  
kind of vegetable ‘उत्तिगपण्येसु  
वा’ दस० ८, ११,  
उत्थइय त्रि० (अवस्तृत) आच्छादित, ढाकेलु-  
आच्छादित Covered, Concealed-  
“उत्थइय भद्रासण” नाया० १, १,  
उद न० (उद) जल, पानी जल, पानी-  
Water भग० ३, ६,  
उदग पु० न० (उदक) (१) जलाशय, तलाव-  
जलाशय A pond, a lake भग० १, ८,  
उदयण पु० (उदयन) (१) अेक राजकुमार  
एक राजकुमार Name of a prince-  
विवा० १, २, —(२) न० उदयति, उदय.  
उन्नति, उदय Advancement,  
prosperity (३) त्रि० उदय पाभवारः  
प्रवर्धमान उन्नत होने वाला, प्रवर्ध-  
मान Exalting, Prosperous.  
श० २, ३,  
उदीण त्रि० (उदीचीन) उत्तर दिशा उत्तर  
दिशा The north ज० प० ४, ७२;  
—पार्श्वी स्त्री० (पार्श्वी) पश्चिम भुज्जे।  
ईशान कोण The north east भग०  
२, १,  
उदीरय त्रि० (उदीरक) (१) ध्वन करनार,  
प्रतिपादक कथक, प्रतिपादक Speak-  
ing, saying (२) प्रेरक, प्रवर्तक प्रेरकः  
प्रवर्तक A prompter, Instigator.  
“विमयविसउदीरयसु पण्ड० १, ४,  
उद्दाहय त्रि० (उद्दाहक) आग लगाउनाई-  
आग लगाने वाला One who sets  
fire to पण्ड० १, ३,  
उद्देसण न० (उद्देशन) योग्यता, अधिष्ठा-  
योग्यता, अधिकारिता fitness, pro-  
prietty. श० ४, ३,  
उद्दोहग त्रि० (उद्दोहक) वातक, हि मक.

घातक, हिंसक A killer पृष्ठ १, ३,  
उद्धञ्ज त्रि० (उद्धत) (१) अलिमानी, गवित  
गर्वित, अभिमानी Arrogant, Proud  
भग० ११, १०, (२) उपाडेय उत्पादित.  
Uprooted, Eradicated नाया०  
१, १, (३) अति प्रबल अति प्रबल  
Very strong or powerful  
“उद्धततमंधकार” पृष्ठ १, ३,

उद्धार पु० (उद्धार) धारणा, लक्षणा, पाने  
न लुप्तपुते धारणा, पदे हुए पाठ का नहीं  
भूलना The faculty of retaining  
in the mind A good or  
retentive memory व० १, १०,

उद्धावणा स्त्री० (उद्धावना) धर्मनी शीघ्र  
सिद्धि कार्य की शीघ्र सिद्धि Rapid  
accomplishment of an object  
व० १, १,

उत्पत्ता स्त्री० (उत्पत्ता) ज्ञाताधर्मस्था सूत्रनु  
येऽ अध्यायन इस नामका ‘ज्ञाताधर्म कथा’  
का एक अध्यायन Name of a chap-  
ter in Gyatadhama Katha  
Sutra नाया० २, १,

उत्पलिणी स्त्री० (उत्पलिनी) कमलिनी  
कमलिनी, कमल का गाड़ A lotus plant  
having lotuses पत्र १,

उत्पायग पु० (उत्पायक) तेषु त्रिषु जन्तु विशेष  
तेषु त्रिषु जन्तु विशेष, कीट विशेष A  
particular insect having three  
senses व० १, ८,

उत्पुञ्ज त्रि० (उत्पुञ्ज) उच्छ्रित, कूदा हुआ Jumped, Lea-  
ped पृष्ठ १, ३,

उव्वद्ध त्रि० (उव्वद्ध) शिक्षकनी साथे शर-  
तोधी यथायेता शिक्षक के साथ शर्तों से  
बधा हुआ Connected with the  
teacher under certain con-

ditions ठा० ३.

उच्चुड पुं (उच्चुड) तरपु. तैरना Swim-  
ming निवुड न० (निवुड) पाणीमा  
डुय्यथो भागीते उव्वुव करना Plun-  
ging or dipping in water  
पृष्ठ १, ३,

उव्वामइल्ला स्त्री० (उव्वामिणी) कुक्ष्य  
स्त्री स्वैरिणी, कुलटा स्त्री A loose or  
unchaste woman, An adult-  
eress व० १, ४,

उव्वामग त्रि० (उव्वामक) परिभ्रमण इत्यादि  
परिभ्रमण करने वाला Wandering,  
Roaming about व० १, १

उव्वामिगा—या स्त्री० (उव्वामिका) कुक्ष्य  
स्त्री कुलटा स्त्री, स्वैरिणी A wanton or  
unchaste woman व० १, ६,

उम्मग त्रि० (उम्मग) (१) पाणीमा तेषु  
जल के ऊपर तैरा हुआ Swim in  
water (२) न० तेषु तैरना Swim-  
ming —निमुगिया स्त्री० (निमगता)  
डुय्यथो भागी उव्वुव करना Plung-  
ing or dipping in water “नो  
उम्मगनिमुगिया करेजा” श्राया० २, ३, २, ३,

उरस्स त्रि० (उरस्स) (१) सतान सतान,  
बच्चा A Legitimate Child ठा०  
१०, (२) हार्दिक, आभ्यन्तर हार्दिक,  
आभ्यन्तर Intention, Inner राय०  
उव्वक्कमिय त्रि० (उव्वक्कमिय) उपक्रम साथे  
समर्थ सम्पन्न उपक्रम से संबन्ध रखने  
वाला Relating to commence-  
ment ठा० २, ४, सम० १४५, पत्र ०  
३५,

उव्वक्खर पु० (उव्वक्खर) सम्भार सक्कार  
Cultivation, Training of the  
mind ठा० ४, २,

उव्वगय त्रि० (उव्वगत) (१) ज्ञात, लक्ष्य

ज्ञात, जाना हुआ. Known, Under-  
stood सम० ८८, (२) अन्तर्गत,  
अन्तर्भूत अन्तर्गत, अन्तर्भूत In-  
cluded or comprised in "कालिय-  
स्ये उवगयाणि" विश० २२६५,  
उवग्गहिअ त्रि० ( उपगृहीत ) तैथार राभेखु  
उपस्थापित Placed ready, Got  
ready पन्न० २३,  
उवघाय पु० ( उपघात ) अशुद्धि अशुद्धता  
Impurity, Foulness ठा० ५,  
उवट्टम पु० ( उपट्टम्भ ) अनुकम्पा, कृपा  
अनुकम्पा, करुणा Compassion,  
Pity ठा० २,  
उवणयण न० ( उपनयन ) ०७ते०-स०३२,  
यत्तसूलधारणु स०३२ उपवीत सस्कार,  
यत्त सूत्र धारण सस्कार Investiture  
with the sacred thread पण्ह०  
१, २,  
उवणिमत्तण न० ( उपनिमन्त्रण ) आमन्त्रण,  
निमन्त्रण आमन्त्रण, निमन्त्रण Invi-  
tation भग० ८, ६,  
उवणिहि पु००खी० ( उपनिधि ) (१) समीपमा  
लावयुते समीप में लाना Bringing  
near ठा० ५, (२) रचना, निर्माण  
विरचना, निर्माण Forming, Mak-  
ing अणुजो०  
उवणयत्थ. त्रि० ( उपन्यस्त ) उपन्यस्त,  
भुकेखु उपन्यस्त उपदौकित Presented,  
placed near. "उवणयत्थ विविह"  
वत्त० ५, ३६,  
उवणयास पु० ( उपन्यास ) प्रस्तावना,  
उपेक्षा प्रस्तावना, उपोद्घात Pre-  
face ठा० ४,  
उवदाई खी० ( उदकदायिका ) पाणी देनागी.  
पानी देने वाली A female giver  
of water "पाउवदाइ च रहणोवदाइ"

नाया० १, ७,  
उवनिग्गय त्रि० ( उपनिर्गत ) पासिथी  
निग्गेखु समीप में निकला हुआ Come  
out from the side नाया० १, १;  
उवनिविट्ट त्रि० ( उपनिविष्ट ) समीप रहेखु-  
समीप स्थित Stayed or seated  
near राय० २७,  
उवमा खी ( उपमा ) (१) ऐक धन्दाणीनु  
नाम एक इन्द्राणी का नाम Name  
of a wife of India ठा० ८, (२)  
भाध पदार्थ विशेष खाद्य पदार्थ विशेष.  
A particular eatable जीवा० ३,  
(३) प्रश्न व्याकरणु ऐक लुभ अध्ययन-  
प्रश्न व्याकरण सूत्र का लुप्त ग्रन्थयन  
A lost chapter in Piasnavya-  
karana Sutta ठा० १०,  
उवयाइय त्रि० ( उपयाचित ) (१) प्रार्थना  
इरायेल प्रार्थित Prayed, Req-  
uested (२) न०३६३ इयं सङ्ग थवाथी  
इयं देवतानी विशेष आराधना इरवाने  
मानसिड स०८५, मानता मनोति, किसी  
काम के पूरा होने पर किसी देवता की  
विशेष आराधना करने का मानसिक सकल्प.  
A present promised to a deity  
for the fulfilment of a desired  
object ठा० १०, नाया० १, ८,  
उवयारण न० ( उपकारण ) अन्य द्वारा  
उपकार करना. Causing to oblige or benefit.  
"उवयारणपारणासु" पण्ह० २, ३,  
उवलभण. न० ( उपलम्भन ) प्राप्ति प्राप्ति.  
Acquisition, Attainment. नदी.  
२१०,  
उववरण न० ( उपपन्न ) उत्पत्ति, ०७-म.  
उत्पत्ति, जन्म Production, Birth.  
भग० १४, १,

उववीञ्ज न० (उपवीत) (१) यज्ञसूत, जनेप  
यज्ञसूत्र, जनोक्त The Sacred  
thread नाया० १, १६, (२) सहित,  
युक्त सहित, युक्त Joined, United  
“गुणसपञ्चोववीञ्जो” विशेष० ३४११,  
उवहणाय. न० (उपहनन) (१) आघात  
आघात. A blow (२) विनाश.  
विनाश Distinction ठ० १०,  
उवागय त्रि० (उपागत) समीपमा आवेत्तु  
समीप में आया हुआ Approached  
or arrived near. आया० २, ३, १, २,  
उवाडिय त्रि० (उत्पादित) उपाडेत्तु उखेडा  
हुआ Uprooted, Eradicated  
विवा० १, ६,  
उवाहि पु० स्त्री० (उपाधि) समीप्य  
समीप्य, संनिधि Proximity,  
Vicinity भग० १, १,  
उव्वट्टण न० (उद्धर्त्तन) शरीर निर्मल करेनार  
सुगन्धि द्रव्य. शरीर को निर्मल करने वाला  
द्रव्य-सुगन्धि वस्तु Perfumes or  
fragrant unguents of cleaning  
the body ना० १, १३,  
उस्सरण त्रि० (अवसन्न) निभञ्ज निमग्न  
Plunged, Dipped into “अवमे  
उस्सरणा” पण्ह० १, ४,  
उस्सय पु० (उच्छ्रय) (१) उन्नति, उन्नयता  
उन्नति, उच्चता Prosperity विशेष०  
३४१, (२) अहिंसा अहिंसा Non-  
killing पण्ह० २, १, (३) शरीर  
शरीर A body राज०  
उस्सिन्न त्रि० (उत्सिन्न) अचित्त क्केत्तु  
विकारान्तर को प्राप्त, अचित्त किया हुआ  
Produced insensibility दस० २,  
२, २१,  
उस्सिय त्रि० (उत्सुत) अहंकारी अहंकारी  
Arrogant, Proud उत्त० २६, ४६,

उस्सुक त्रि० (उच्छुक्त) शुद्ध रहित, धर  
रहित शुक्त रहित, कर रहित Devoid  
of taxes or duties नाया० १, १,  
उहर न० (उपगृह) नानुधं, आश्रय  
विशेष छोटा घर, आश्रय विशेष A  
small house पण्ह० १, १,  
एग स० (एक) (१) असहाय, नि सहाय  
असहाय, नि सहाय Friendless, Soli-  
tary. विवा० १, २, —द्व त्रि० (स्थ)  
अेकत्तु, अेकत्रित. इक्कट्टा, एकत्रित.  
Gathered भग० १४, ६, —भूय.  
त्रि० (भूत) (१) समान समान Similai,  
Like ठ० १०, (२) भणेतु एकीभूत,  
मिला हुआ Mixed, ठ० १,  
समइय, त्रि० (सामयिक) अेक समयमा  
थवा पाणु एक समय में होने वाला Be-  
ing in one Samaya (the least  
portion of time, a moment),  
भग० २४, १,  
एणियज्जय. पु० (एण्येयक) २यनाम उपात अेक  
राज के अेत्तु भगवान भद्रवीर उपाधी  
पासे दीक्षा लीधी इती स्वनाम ख्यात एक  
राजा, जिसने भगवान् महावीर स्वामीके पास  
दीक्षा ली थी Name of a king  
who was initiated by Lord  
Mahavi ठ० ८,  
एणीयार पु० (एणीचार) इरणीने यरायनार,  
इरणीनु पोपणु इरनार हरिणी को चराने  
वाला, उनका पोपण करने वाला A  
handsman of female black  
deer. पण्ह० १, १,  
एय पु० (एज) गति, आल गति, चलन  
Movement, Motion भग० २२, ४,  
एरचय. पु० (एरवत) अे नामने अेक पर्वत.  
इस नाम का एक पर्वत. Name of a  
mountain ठ० १०;



एलिघ पु० (एलिघ) धान्य विशेष. धान्य विशेष A kind of coin पत्र० १,  
 एसज्ज न० (एसज्ज) वैभव, प्रभुत्व, संपत्ति वैभव, प्रभुत्व, सम्पत्ति Affluence, Wealth टा० ७,  
 एलिय त्रि० (एलिय) (१) शोधित अन्वेषित, गन्वेषित Searched, Inquired भग० ७, १, (२) न० निर्दोष भिक्षा निर्दोष भिक्षा Faultless alms or begging चव० ४,  
 ओगय त्रि० (उपगत) प्राप्त Acquired or attained सू० १, २, २, १०,  
 ओगाढ त्रि० (अवगाढ) (१) व्याप्त व्याप्त Pervaded नाया० १, १६, (२) निभग्न, डुपेक्षु निभग्न Plunged, Dipped into टा० ४,  
 ओगाहणा स्त्री० (अवगाहना) (१) शरीर शरीर Body भग० ६, ८, (२) आधार-क्षेत्र आधार क्षेत्र आधार भूत आकाश क्षेत्र Size of the body टा० १,  
 ओगिरहणया स्त्री० (अवग्रहणता) (१) 'ओगिरहण' शब्द देखो 'ओगिरहण' शब्द Vide 'ओगिरहण' नदी० (२) मन-धी ज्ञानो मनो विपरीकरण, मन से जानना Knowing by mind, टा० ८,  
 ओगूहिय त्रि० (अवगूहित) आलिङ्गन क्षेत्रेण आलिङ्गित Embraced नाया० १, ६,  
 ओचूल न० (अवचूल) (१) धरती पश्चिमी छेडा लटकता हुआ वस्त्राल The hem of a garment hanging down विना० १, २, (२) मोटा उपर्यथी छेडा गयेषु धरती मुख से हटा हुआ वस्त्र Garment slipped from the face "ओचूलगवित्या" ज० प० ३,  
 ओच्छाद्य त्रि० (अवच्छादित) आच्छादित, ढाँकेषु आच्छादित, ढका हुआ Covered,

Concealed 'गुप्तवह्निगुच्छाद्य' नाया० १, १,  
 ओद्दय त्रि० (ओद्दयिक) (१) उदय, धर्म-विपाक उदय, कर्म विपाक, उदयनिष्पन्न. Matured भग० ७, १४, विशेष० २१७४, (२) धर्मोदय रूप भाव. "ओद्दय" विशेष० ३४६४, (३) उदय थाप्य त्वारे धनावाण उदय होने पर होने वाला विशेष० २१७४,  
 ओभासण न० (अवभासन) (१) प्रकाशन, उत्थितन प्रकाशन, उद्योतन Illuminating, Irradiating भग० ८, ८,  
 ओभुग्ग त्रि० (अवभुग्ग) वाङ्. वक्र, बाँका Bent, Crooked नाया० १, ८,  
 ओमाय त्रि० (अवमित) मापेक्षु परिमित, मापा हुआ Limited, Confined. सू० प० ६,  
 ओमिय त्रि० (अवमित) परिमित परिच्छिन्न, परिमित Limited, Circumscribed सू० प० ६,  
 ओमोय पु० (ओमोक) आभरण, आभूषण आभरण, आभूषण An ornament. भग० ११, ११,  
 ओय त्रि० (ओज) (१) अकेल, असहाय एक; असहाय Lonely, Solitary सू० १, ४, २, १, (२) पु० विषम राशि. विषम राशि Odd or uneven number भग० २२, ३,  
 ओय न० (ओजस्) आर्तव, ऋतु धर्म आर्तव, ऋतु धर्म Menstruation, Course. टा० ३, ३,  
 ओया स्त्री० (ओजस्) (१) प्रकाश प्रकाश. Lustre, Light सू० प० ६, (२) मातृशुक्र-शोषित माता का शुक्र-शोषित Blood of the mother तद्दु० १०, (३) शक्ति, आभय शक्ति, नामम्य Bodily

strength, Vigour नाया० १, १०,  
 श्रियावइत्ता श्र० (श्रोजयित्वा) अण देभाडीने;  
 यमक्षर देभाडीने बल दिखकर, चमत्कार  
 दिखकर Vigorously, magically  
 श० ४, ४,  
 श्रोरस त्रि० (उपरस) श्नेह युक्त, अनुशगी  
 स्नेह-युक्त, अनुरागी Affectionate,  
 Loving श० १०,  
 श्रोलभ पु० (उपालम्भ) श्पेक्ष. उलहना A  
 reproach, Abuse "अप्लोभयि-  
 मित" नाया० १, १,  
 श्रोलुग त्रि० (अवलुग) लुगो "श्रोलुग"  
 शब्द देखो "श्रोलुग" शब्द Vide  
 'श्रोलुग' नाया० १, १, विवा० १, २,  
 श्रोवगारिय. त्रि० (श्रौपकारिक) उपक्षर क्षरना  
 उपकार करने वाला One who' does  
 a service or favour भग० १३, ६,  
 श्रोवड्ड त्रि० (उपाध) लगभग अर्धु आधे  
 के करीब Almost half —श्रोमोयरिया  
 स्त्री० (अवमोदरिका) आर डेणीआने  
 आहाउक्षरेवे ते, तप विशेष वारह कवल  
 का ही आहार करना, तप विशेष Tak-  
 ing twelve morsels only A  
 particular religious austerity  
 भग० ७, १,  
 श्रोवत्तिय त्रि० (अपवर्तित) (१) इरेवेलु  
 शुभाया हुआ Transferred from  
 one place to another (२)  
 नापेक्षु चिस Thrown नाया० १, १,  
 श्रोवयाइयय. त्रि० (श्रौपयाचितक) मानता-  
 थी प्राप्त करेले, मानताथी मेणवेले  
 मनौती से प्राप्त किया हुआ, मनौती से  
 मिला हुआ Acquired by a  
 prayer to a deity श० १०,  
 श्रोववाइय त्रि० (श्रौपपातिक) श्पेक्ष ७-म थी  
 पीम ७-मभा ७-नार एक जन्म से दूसरे

जन्म में जाने वाला A goer from one  
 life to another सूय० १, १, १, ११,  
 श्रोवाइय न० (श्रवपाटन) विहाय, नाश  
 विदारण, नाश. Destruction,  
 Ruin श० २, ४,  
 श्रोवाइय त्रि० (श्रवपातिक) सेवा करने  
 वाला A servant, An  
 attendant श० १०,  
 श्रोवाय पु० (श्रवपात)सेवा, शक्ति सेवा, मक्ति  
 Worship, Devotion श० ३, २,  
 श्रोवासतर पु० न० (श्रवकाशान्तर) आकाश  
 आकाश, गगन The Sky भग० २०,  
 २-पत्र० ७७६,  
 श्रोसत्त त्रि० (श्रवसक्त) सयुक्त, सयुक्त  
 सम्बन्ध, सयुक्त In contact with,  
 Touching नाया० १, ३,  
 श्रोसिअ त्रि० (उपित) (१) वसेले, रहेले.  
 बसा हुआ, रहा हुआ Dwell, Re-  
 sided सूय० १, १४, ४, (२) व्यवस्थित  
 व्यवस्थित Placed in order,  
 Arranged सूय० १, ४, १, २०,  
 श्रोहद्वय त्रि० (अपघटक) (१) निवारक,  
 हटाने वाला, निषेधक  
 One who keeps off wards off  
 विवा० १, २, नाया० १, १६, १८,  
 श्रोहड त्रि० (अपहत) नीचे लावेले नीचे  
 लाया हुआ Brought down दस०  
 ४, १, ६६,  
 श्रोहर न० (उपगृह) नानु घर, डोटी,  
 ओरडी छोटा गृह, कोठी A small  
 house, A room पण्ड० १, १,  
 श्रोहिअ त्रि० (श्रोधिक) सामान्य रूप से उक्त  
 श्रौत्सर्गिक, सामान्य रूप से उक्त That  
 which is liable to be abolished  
 in exceptional cases अणुजो०  
 १६६, २००,

फलित्व पु० (फलित्व) धान्य विशेष धान्य विशेष A kind of corn पत्र० १,  
 पत्रज्ञ न० (पत्रज्ञ) पैलन, प्रभुत्न, सपति वैभय, प्रभुत्न, सम्पत्ति Affluence, Wealth डा० ७,  
 फलित्व त्रि० (फलित्व) (१) गेधेषु अन्वेयित, गत्रेयित Searched, Inquired भग० ७, १, (२) न० निर्दोष लिङ्ग निर्दोष भिक्षा Faultless alms or begging चव० ४,  
 श्रोगय त्रि० (उपगत) प्राप्त प्राप्त Acquired or attained सू० १, २, ३, १०,  
 श्रोगाढ त्रि० (श्रवगाढ) (१) व्याप्त व्याप्त Persuaded नाया० १, १६, (२) निभञ्ज, दुष्प्रेषु निमग्न Plunged, Dipped into डा० ४,  
 श्रोगाहणा स्त्री० (श्रवगाहना) (१) शरीर शरीर Body भग० ६, ८, (२) आधा-र-लून आ-र-ग-क्षेत्र आघार भूत आकाश क्षेत्र Size of the body डा० १,  
 श्रोगिरहणया स्त्री० (श्रवग्रहणता) (१) 'श्रु'ओ "श्रोगिरहण" शब्द देखो "श्रोगिरहण" शब्द Vide 'श्रोगिरहण' नदी० (२) मन-थी ज्ञाप्यु मनो विपर्ययकरण, मन से जानना Knowing by mind, डा० ८,  
 श्रोगृह्यि त्रि० (श्रवगृहित) आलिगन करेसु आलिङ्गित Embraced नाया० १, ६,  
 श्रोचूल. न० (श्रवचूल) (१) लटकते पञ्जने छेडी लटकता हुआ चञ्चल The hem of a garment hanging down विना० १, २, (२) मोक्ष उपरथी छडी गयेसु क्षपु मुख से हटा हुआ चञ्च Garment slipped from the face "श्रोचूलगनियत्या" ज० प० ३,  
 श्रोच्छाद्य त्रि० (श्रवच्छादित) आच्छादित, ढाँकेसु आच्छादित, ढका हुआ Covered,

Concealed 'गुग्मरत्रिगुच्छयोच्छाद्य' नाया० १, १,  
 श्रोडडय. त्रि० (श्रीदयिक) (१) उदय, क्षम-निपाड उदय, कर्म विपाक, उदयनिपाड Matured भग० ७, १४, विशेष० २१७४, (२) उमेदय ३५ भाष्य कर्मोदय रूप नाव. "श्रोडडय" विशेष० ३४६४, (३) उदय थाय त्पे थायायु उदय होने पर होने वाला विशेष० २१७४,  
 श्रोभासण न० (श्रवभासन) (१) प्रकाशन, उद्द्येनन प्रकाशन, उद्योतन Illuminating, Irradiating भग० ८, ८,  
 श्रोभुग्ग त्रि० (श्रवभुग्न) वाङ्. वक्र, बॉका. Bent, Crooked नाया० १, ८,  
 श्रोमाय त्रि० (श्रवमित) भाषेसु परिमित, मापा हुआ Limited, Confined. सू० प० ६,  
 श्रोमिय त्रि० (श्रवमित) परिमित परिच्छिन्न, परिमित Limited, Circumscribed सू० प० ६,  
 श्रोमोय पु० (श्रोमोक) आलरथु, आलुपथु श्रामरण, आमूपण An ornament भग० ११, ११,  
 श्रोय त्रि० (श्रोय) (१) अे, असहाय एक; असहाय Lonely, Solitary सू० १, ४, २, १, (२) पु० विषम राशि. विषम राशि Odd or uneven number भग० २२, ३,  
 श्रोय न० (श्रोयस्) आर्तव, ऋतु धर्म आर्तव, ऋतु धर्म Menstruation, Courses. डा० ३, ३,  
 श्रोया स्त्री० (श्रोयस्) (१) प्रकाश प्रकाश. Lustre, Light सू० प० ६, (२) मातपु शुक्र-र-धिर माता का शुक्र-शोषित Blood of the mother तदु० १०, (३) शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य. Bodily

strength, Vigour नाया० १, १०,  
 श्रियावइत्ता अ० (श्रोजयित्वा) अण ट्ठेभाडीते,  
 अमरुद्धर ट्ठेभाडीते बल दिखाकर, चमत्कार  
 दिखाकर Vigorously, magically  
 ठा० ४, ४,  
 श्रोरस त्रि० (उपरस) अनेह युद्ध, अनुरागी  
 स्नेहयुक्त, अनुरागी Affectionate,  
 Loving ठा० १०,  
 श्रोलभ पु० (उपालम्भ) इपक्षे. उलहना A  
 reproach, Abuse "अप्लोभयि-  
 मित्त" नाया० १, १,  
 श्रोलुग्ग त्रि० (अवलुग्ग) लुग्गे "श्रोलुग्ग"  
 शब्द देखो "श्रोलुग्ग" शब्द Vide  
 'श्रोलुग्ग' नाया० १, १, विवा० १, २,  
 श्रौवगारिय. त्रि० (श्रौपकारिक) उपकार इरना  
 उपकार करने वाला One who' does  
 a service or favour भग० १३, ६,  
 श्रौवड्ह त्रि० (उपाध) लगलग अउधु आवे  
 के करीब Almost half —श्रौमोयरिया  
 खी० (अवमोदरिका) आर डेणीआनेअ  
 आहाराइरेवे ते, तप विशेष वारह कवल  
 का ही आहार करना, तप विशेष Tak-  
 ing twelve morsels only A  
 particular religious austerity  
 भग० ७, १,  
 श्रौवत्तिय त्रि० (अपवर्त्तित) (१) इरेवेधु  
 घुमाया हुआ Transferred from  
 one place to another (२)  
 नाभेधु विस Thrown नाया० १, १,  
 श्रौवयाइयय त्रि० (श्रौपयाचितक) मानता-  
 थी प्राप्त इरेधु', मानताथी मेणवेधु.  
 मनौती से प्राप्त किया हुआ, मनौती से  
 मिला हुआ Acquired by a  
 prayer to a deity ठा० १०,  
 श्रौववाइय त्रि० (श्रौपपातिक) अेधु अ-म थी  
 थीअ अ-मभा अ-नार एक जन्म से दूसरे

जन्म में जाने वाला A goer from one  
 life to another सू० १, १, १, ११,  
 श्रौवाइण न० (इवपाटन) विहाअणु, नाश  
 विदारण, नाश. Destruction,  
 Ruin ठा० २, ४,  
 श्रौवाइय त्रि० (अवपातिक) सेवा इरनार  
 सेवा करने वाला A servant, An  
 attendant ठा० १०,  
 श्रौवाय पु० (अवपात)सेवा, लडित सेवा, मक्ति  
 Worship, Devotion ठा० ३, २,  
 श्रौवासतर पु० न० (अवकाशान्तर) आकाश  
 आकाश, गगन The Sky भग० २०,  
 २-पत्र० ७७६,  
 श्रौसत्त त्रि० (अवसक्त) सथध, सयुक्त  
 सम्बन्ध, सयुक्त In contact with,  
 Touching नाया० १, ३,  
 श्रौसिअ त्रि० (उपित) (१) वसेधु, रडेधु.  
 बसा हुआ, रहा हुआ. Dwelt, Re-  
 sided सू० १, १४, ४, (२) व्यवस्थित  
 व्यवस्थित Placed in order,  
 Arranged सू० १, ४, १, २०,  
 श्रौहइय त्रि० (अपघटक) (१) निवारक,  
 इक्षयनार निवारक, हटाने वाला, निषेधक  
 One who keeps or wards off  
 विवा० १, २, नाया० १, १६, १८,  
 श्रौहड त्रि० (अपहत) नीचे लावेधु नीचे  
 लाया हुआ Brought down दस०  
 ६, १, ६६,  
 श्रौहर न० (उपगृह) नालु धर, डेटडी,  
 ओरडी छोटा गृह, कोठरी A small  
 house, A room पण्ड० १, १,  
 श्रौहिअ त्रि० (ओधिक) सामान्य इपे डडेधु.  
 औत्सर्गिक, सामान्य रूप से उक्त That  
 which is liable to be abolished  
 in exceptional cases अणुजो०  
 १६६, २००,

एलित्र पु० (एलिह) धान्य विगेष धान्य विशेष A kind of corn पत्र० १,  
 एसज्ज. न० (एस्वर्थ) पैलव, प्रभुत्न, सपत्ति वैभव, प्रभुत्व, सम्पत्ति Affluence, Wealth टा० ७,  
 एलित्र त्रि० (एपित) (१) गोधेसु अन्वेषित, गवेषित Searched, Inquired भग० ७, १, (२) न० निर्दोष शिक्षा निर्दोष भित्ता Faultless aims of bogging वच० ४,  
 श्रोगय त्रि० (उपगत) प्राप्त प्राप्त Acquired or attained सूय० १, २, २, १०,  
 श्रोगाड त्रि० (अवगाढ) (१) व्याप्त व्याप्त Perused नाया० १, १६, (२) निमग्न, कुपेसु निमग्न Plunged, Dipped into. टा० ४,  
 श्रोगाहणा स्त्री० (अवगाहना) (१) शरीर शरीर Body भग० ६, ८, (२) आधार-भूत आकारक्षेत्र आधारभूत आकार क्षेत्र Size of the body टा० १,  
 श्रोगिहहणया स्त्री० (अवगहणता) (१) 'अग्निहहण' शब्द देखो "श्रोगिहहण" शब्द Vide 'श्रोगिहहण' नदी० (२) मन-धी ज्ञथुपु मनो विपयीकरण, मन से जानना Knowing by mind. टा० ८,  
 श्रोगूहिय त्रि० (अवगूहित) आलिगन करेसु आलिङ्गित Embraced नाया० १, ६,  
 श्रोचूल न० (अवचूल) (१) लटकेतो पश्चतो छेडो लटकता हुआ वसाञ्चल The hem of a garment hanging down विवा० १, २, (२) मोक्ष उपरयी हडी गथेसु धपु मुख से हटा हुआ वस्त्र Garment slipped from the face "श्रोचूलगनियथा" ज० प० ३,  
 श्रोच्छ्राहय त्रि० (अवच्छ्रादित) आच्छ्रादित, ढाकेसु आच्छ्रादित, ढका हुआ Covered,

Concealed. 'गुम्भवलिगुच्छ्राहय' नाया० १, १,  
 श्रोदहय त्रि० (श्रोदयिक) (१) उदय, उर्ध्व-विधाड उदय, कर्म विपाक, उदयनिपत्र. Matured भग० ७, १४, विशेष० २१०४,  
 (२) उर्ध्वेदय ३५ लाव कर्मोदय रूप भाव. "श्रोदहय" विशेष० ३४६४, (३) उदय याय त्तारे थवावाणु उदय होने पर होने वाला, विशेष० २१०४,  
 श्रोभासण न० (अवभासन) (१) प्रकाशन, उद्योतन प्रकाशन, उद्योतन Illuminating, Radiating भग० ८, ८,  
 श्रोभुग्ग त्रि० (अवभुग्ग) वाकु, वक्र, बौका. Bent, Crooked नाया० १, ८,  
 श्रोमाय त्रि० (अवमित) मापेसु परिमित, मापा हुआ Limited, Confined. सू० प० ६,  
 श्रोमिय त्रि० (अवमित) परिमित परिच्छिन्न; परिमित Limited, Circumscribed सू० प० ६,  
 श्रोमोय पु० (श्रोमोक) आभरण, आभूषण आभरण, आभूषण An ornament भग० ११, ११,  
 श्रोय त्रि० (श्रोज) (१) श्रो, असहाय एक, असहाय Lonely, Solitary सूय० १, ४, २, १, (२) पु० विपन्न राशि. विपन्न राशि Odd or uneven number भग० २४, ३,  
 श्रोय न० (श्रोजस्) आर्तव, श्लु धर्म श्रातव, श्लु धर्म Menstruation, Courses. टा० ३, ३,  
 श्रोया स्त्री० (श्रोजस्) (१) प्रकाश प्रकाश. Lustre, Light सू० प० ६, (२) मातासु शुक्र-धिर माता काशुक्र-शोशित Blood of the mother तदु० १०, (३) शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य. Bodily

strength, Vigour लया० १, १०,  
श्रीयावइत्ता अ० (श्रोजयित्वा) अण देभाडीते;  
यम,क्षर देभाडीते बल दिखकर, चमत्कार  
दिखकर Vigourously, magically  
अ० ४, ४,

श्रीरस त्रि० (उपरस) अनेह युक्त, अनुरागी  
स्नेह-युक्त, अनुरागी Affectionate,  
Loving अ० १०,

श्रीलभ पु० (उपालम्भ) अपेक्ष उलहन A  
reproach, Abuse "अप्योलभण-  
मित्त" नाया० १, १,

श्रीलम्ग त्रि० (अवरुण) लुम्भो "श्रीलुम्ग"  
शब्द देखो "श्रीलुम्ग" शब्द Vide  
'श्रीलुम्ग' नाया० १, १, विवा० १, २,

श्रीवगारिय. त्रि० (श्रौपकारिक) उपकार करे वाला One who does  
a service or favour भग० १३, ६,

श्रीवड्ड त्रि० (उपार्ध) लगलग अर्धु आधे  
के करीब Almost half — श्रीमोयरिया  
खी० (अवमोदरिका) आर द्वाणीयानेन  
आडाग'अरेवो ते, तप विशेष वारह कवल  
का ही आहार करना, तप विशेष Tak-  
ing twelve morsels only A  
particular religious austerity  
भग० ७, १,

श्रीवचित्तिय त्रि० (अपवचित्त) (१) इरेवेलु  
धुमाया हुआ Transferred from  
one place to another (२)  
नाभेलु. हिस Thrown नाया० १, १,

श्रीवयाइयय त्रि० (श्रौपयाचित्तक) मानता-  
थी प्राप्त इरेलु', मानताथी भेजवेलु'  
मनौती से प्राप्त किया हुआ, मनौती से  
मिला हुआ Acquired by a  
prayer to a deity अ० १०,

श्रीववाइय त्रि० (श्रौपयातिक) अेक्ष अ-म थी  
पीला अ-ममा अ-नार एक जन्म से दूसरे

जन्म में जाने वाला A goer from one  
life to another. सूय० १, १, १, ११,

श्रीवाइए न० (अवपाटन) विद्यगुण, नाश  
विदारण, नाश, Destitution,  
Ruin अ० २, ४,

श्रीवाइय त्रि० (अवपातिक) सेवा करने वाला A servant, An  
attendant अ० १०,

श्रीवाय पु० (अवपात)सेवा, लक्षित सेवा, मक्ति  
Worship, Devotion अ० ३, २,

श्रीवासतर पु० न० (अवकाशान्तर) आकाश  
आकाश, गगन The Sky भग० २०,  
२-पत्र० ७७६,

श्रीसत्त त्रि० (अवसक्त) सयध, सयुक्त  
सम्बन्ध, सयुक्त In contact with,  
Touching नाया० १, ३,

श्रीसिअ त्रि० (उपित) (१) वसेलु, रडेलु.  
बसा हुआ, रहा हुआ Dwelt, Re-  
sided सूय० १, १४, ४, (२) व्यवस्थित  
व्यवस्थित Placed in order,  
Arranged सूय० १, ४, १, २०,

श्रीहट्टय त्रि० (अपवट्टक) (१) निवारक,  
हटाने वाला, निषेधक  
One who keeps or wards off  
विवा० १, २, नाया० १, १६, १८,

श्रीहड त्रि० (अपहृत) नीचे धावेलु नीचे  
लाया हुआ Brought down दस०  
२, १, ६६,

श्रीहर न० (उपगृह) नानु धर, डोटडी,  
ओरडी छोटा गृह, कोठरी A small  
house, A room पणह० १, १,

श्रीहिअ त्रि० (श्रीधिक) सामान्य रूप से उक्त That  
which is liable to be abolished  
in exceptional cases अणुजो०  
१६६, २००,

श्रीहरण न० ( श्रवधूनन ) (१) क्षय कल्प  
Shaking, Waving. (२) उत्सर्जन  
उत्सर्जन Disregarding; Trans-  
gression (३) अपूर्वः श्रेष्ठो भेदयेश  
अधिनो भेद इत्येते ते अपूर्वकरणे से  
भिन्न ग्रन्थि का भेद करना. आया० १,  
६, १,  
कई त्रि० ( कृतिन् ) (१) विद्वान्, पंडित  
विद्वान्, पंडित Learned, Wise  
(२) पुण्यवान्, पुण्यवान् Lucky,  
Fortunate सू० २, १, ६०,  
कईहसिय न० ( कविहसित ) (१) २५२७  
आकाशमा अचानक वीजली का दर्शन  
Accidental flash of lighting  
in the clear sky (२) धानरनी  
भाङ्ग विष्टु भोङ्ग श्री हस्युते, धानर के  
समान विकृत मुँहका हसना Laughing  
with an ape-like disfigured  
face भग० ३, ६,  
कडह त्रि० ( कडुद् ) प्रधान, मुख्य प्रधान,  
मुख्य Chief, Pre-eminent नाया०  
१, १७,  
कडुअ पु० ( कडुक ) क्षय, अप्तर वर्म,  
कवच An armour or mail भग०  
६, ३३,  
कडुअ त्रि० ( कडुकित ) अप्तर युक्त  
कडुक वाला Furnished with  
armour, Mailed विवा० १, २,  
कटग पु० ( कटक ) (१) शत्रु, दुश्मन शत्रु,  
दुश्मन An enemy नाया० १, १,  
(२) शय शय A thorn-arrow  
( Vide सय ) विवा० १, ८, (३)  
दुःखोत्पत्तिस्तु दुःखोत्पादक वस्तु  
Any source of vexation or  
annoyance उक्त० १,

कडुमुरय न० ( कडुमुरज ) आहार्य विशेष  
आभरण विशेष A particular  
ornament नाया० १, १,  
कडावेरली स्त्री० ( कायडवेरली ) ऐक्य ११११  
वनस्पति वनस्पति विशेष A kind of  
vegetable पत्र० १,  
कत त्रि० ( कान्त ) (१) अभिलषित,  
चाहिय अभिलषित, वाञ्छित Desired,  
Wished नाया० १, १, (२) न० क्षान्ति,  
प्रभा कान्ति, प्रभा Lustre, Brilla-  
nce आया० २, ६, १,  
कति स्त्री० ( कान्ति ) अहि सा अहि सा Non-  
killing पयह० २, १,  
कद पु० ( कन्द ) ०५-१२ देवोनी ऐक्य ११११  
ज्यन्तर देवों की एक जाति A kind  
of vyantar gods ठ० २, ३,  
कदपिय पु० ( कान्दपिक ) ०५३ ११११  
देवोनी ऐक्य ११११ नाह प्राय देवों की एक  
जाति A kind of jester-like gods.  
पयह० २, २,  
कदिद. पु० ( कन्देन्द्र ) कन्दित नामना देव  
निक्षयने छन्द क्रन्दित नामक देव निकया  
का इन्द्र Indra of gods called  
krandit ठ० २, ४,  
कदुअ पु० ( कडुक ) वनस्पति विशेष वन-  
स्पति विशेष A particular vege-  
table पत्र० १,  
कवल पु० ( कवल ) गाय गण ३ अथ, गाय-  
ना गणानु आमुङ्ग गौ के गले का चमडा,  
सासा The dew lap of a cow.  
विवा० १, २,  
कसिआ स्त्री० ( कसिका ) (१) ताल ताल.  
Beating time (In music). नाया०  
१, १७,  
कक्थ पु० ( ककन्धु ) अहने अधिशाता  
देव विशेष महाधिष्ठातक देव विशेष.

Name of a presiding god of planets डा० २, ३,  
 कक्कगरुग. न० (कक्कगुरुक) भाया, कपट  
 माया, कपट A deceit, Hypocrisy  
 पयह० २, १,  
 ड. न० (कर्कट) हृदयतेा अेक प्रकरतेा  
 वायु हृदय का एक प्रकार का वायु A  
 kind of vitalair भग० १०, ३,  
 कक्कणा स्त्री० (कक्कना) (१) पाप पाप  
 A sin (२) भाया माया A deceit  
 पयह० १, २,  
 कक्कल त्रि० (कर्कश) (१) प्रभर, प्रयउ  
 प्रखर, प्रचरड, Vehement, Impetu-  
 ous विवा० १, १, (२) अनिष्ट, क्षनि-  
 क्षरक अनिष्ट, हानि कारक Injurious,  
 Evil भग० ६, ३३, (३) निर्दय, निर्दय  
 निष्ठुर, निर्दय Cruel, Merciless  
 उवा० (४) आनी आनी ते कडेलु पयत  
 चवा-चवा कर कहा हुआ वचन. Words  
 said thoughtfully आया० २, ४, १,  
 कक्क पु० (कक्क) वन, जगल वन, जङ्गल  
 A jungle, A forest भग० ३, ६,  
 कक्कमी स्त्री० (कक्कमी) क२७५-क्षायानी  
 स्त्री कक्कप स्त्री, कूर्मी A female  
 tortoise पयह० २, २,  
 कक्करी स्त्री० (कक्करी) गु२७ गुच्छ विशेष  
 A particular bunch, पन्न० १,  
 कक्का स्त्री० (कक्का) (१) क्षाय, अगल काँल,  
 बगल The arm-pit भग० ३, ६,  
 (२) श्रेणी, पडित श्रेणि, पक्ति A line,  
 A row "कक्काश्रो पयणत्ताश्रो" डा० ७,  
 (३) अन्न पुर, अन्नान्नात् जनानखाना,  
 अन्न पुर A harem डा० ७,  
 कक्कु स्त्री० (कक्कु) अ२७७ने ७२५५ क्षरनारी  
 औषधी खान को उत्पन्न करने वाली औषधि,  
 कपिकक्कु A particular medicine

producing itch पयह० २, २,  
 कड. पु० (कट) (१) वृक्ष, धास वृण, घास.  
 Grass. डा० ४, ४, (२) वास बॉस, बग.  
 A bamboo विवा० १, ६, डा० ४, ४,  
 (३) छेदेलु बाक्षु छिला हुआ काट.  
 Skinned wood आया० २, २, १,  
 कड पु० (कट) (१) करेलु कृत, क्रिय Done,  
 Made (२) युग विशेष, सत्ययुग युग  
 विशेष, सत्ययुग Name of the first  
 of the four yugas डा० ४, ३,  
 —युग न० (युग) सत्ययुग, ७-नतिनेा  
 समय, आदि युग, १७२८००० वर्षनेा  
 आ युग लेाये छे सत्ययुग, उन्नति का समय,  
 आदि युग, १७२८००० वर्षों का यह युग  
 होता है Name of the first of  
 the four yugas of the world  
 extending over 1728000 years  
 of men डा० ४, ३, —जोगि० त्रि०  
 (योगिन) गीतार्थ, ज्ञानी गीतार्थ, ज्ञानी.  
 Intelligent, Wise, one  
 possessing true or spiritual  
 knowledge श्लो० नि० १३४,—  
 वाइ पु० (वादिन्) सृष्टि ने नैसर्गिक न  
 भानीने कृष्टि अे अनावी छे तेम माननार,  
 जगत् कृत्ववादी सृष्टि को नैसर्गिक न  
 मानकर किपी की बनाई हुई मानने वाला,  
 जगत्कृत्ववादी A believer of crea-  
 tor of the world सूय० नि० १, १,  
 १, ३२,  
 कडग पु० (कटक) आ नामनेा अेक देश इत्त  
 नाम का एक देश Name of a coun-  
 tly नाया० १, १,  
 कडया स्त्री० (कटना) धरनेा अेक भाग विशेष  
 घर का अवयव विशेष A particular  
 portion of a house भग० ८, ६,  
 कडुअ त्रि० (कडुक) (१) अनिष्ट अनिष्ट.



Evil. पणह० २, १, (२) दार्ढ्य, लय ३२  
दारुण, भयकर Dreadful Fright-  
ful पणह० १, १;

कद्विण न० (कदिन) पाण्डु पर्ण, पत्ती. A  
leaf पणह० २, १,

करण पु० (कण) (१) वनस्पति विशेष वनस्पति  
विशेष A particular vegetable.  
पत्र० १, (२) अक्षाधिपत्य देव विरोध  
अहाधिपत्यक देव विशेष। Name of a  
presiding god of planets. डा०  
२, ३,

करणद्वर पु० (कर्णिकार) कण्डू, वनस्पति विशेष  
कणेर, वनस्पति विशेष Name of a  
tree पत्र० १,

करणर न० (कनकर) पत्थरनु० अेक प्रकारनु  
हथियार पापाण का एक प्रकारका हथियार  
A kind of weapon made of  
stone. विवा० १, ६,

करण पु० (कनक) अक्ष विरोध, अक्षाधिपत्य  
देव विशेष अह विशेष, अहाधिपत्यक देव  
विशेष Name of a presiding god  
of planets डा० २, ३,

करण त्रि० (कानक) सुवर्णतो रस पात्रेण  
सुवर्णरस पाया हुआ आया० २, १, १, १,  
—पट्ट त्रि० (पट्ट) सोनाना पट्टाया  
सोने का पट्टा वाला. आया० २, १, १, १,  
—गिरि पु० (गिरि) (१) मेरु पर्वत मेरु  
पर्वत The mount Meru (२)  
—स्वर्ण प्रचुर पर्वत स्वर्ण प्रचुर पर्वत.  
The golden mountain श्रव०  
—पद्मा स्त्री० (प्रमा) ज्ञाना धर्म तथा  
सन्तु अेक अध्ययन ज्ञाना धर्म सूत्र का  
एक अध्ययन Name of a chapter  
in Gnatadhaima katha sutra  
नाया० २, १;—फुल्लिअ न० (पुष्पित)  
मेमा सोनाना पुल्ल लगवधाना आया छे ते

पत्र जिसमें सोने के फूल लगाए गये हैं  
ऐसा वस्त्र. A particular garment  
निसी० चू० ७,

करणगा स्त्री० (कनका) (१) ज्ञाना धर्म तथा  
सन्तु अेक अध्ययन. ज्ञानाधर्म कथा  
सूत्र का एक अध्ययन Name of a  
chapter in Gnatadhaima  
Katha sutra नाया० २, १, (२) क्षुद्र  
जन्तु विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु क्षुद्र  
जन्तु विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव विशेष An  
insect having four senses  
जीवा० १,

करणगावलि पु० (कनकावलि) (१) द्वीप  
विशेष द्वीप विशेष Name of an  
island (२) समुद्र विशेष समुद्र विशेष.  
A particular sea जीवा० ३,

करणगावलिभद्र पु० (कनकावलिभद्र)  
कनकावलि द्वीपतो अेक अधिपत्य देव.  
कनकावलि द्वीप का एक अधिपत्यक देव.  
Name of a presiding god of  
the Kanakavali island जीवा० ३;

करणगावलिमहाभद्र पु० (कनकावलिमहा-  
भद्र) कनकावलिचर नामना समुद्रतो अेक  
अधिपत्य देव कनकावलिचर नामक समुद्र  
का एक अधिपत्यक देव Name of a  
presiding god of the Kanaka-  
valivar sea जीवा० ३,

करणगावलिमहावर, पु० (कनकावलिमहावर)  
कनकावलिचर नामना समुद्रतो अेक  
अधिपत्य देव कनकावलिचर नामक समुद्र  
का एक अधिपत्या देव Name of a  
presiding god of the Kanaka-  
valivar god जीवा० ३,

करणगावलिचर पु० (कनकावलिचर) (१) आ  
नामना अेक द्वीप इस नाम का एक द्वीप  
Name of a particular island.

(२) आ नामनेो अेऽ समुद्र इस नामका एक समुद्र Name of a sea जीवा० ३,

(३) इनक्षवलिवर समुद्रना अधिष्ठाता देव विशेष कनकावलिवर समुद्र का अधिष्ठाता देव विशेष Name of a presiding god of the Kanakavalivara sea जीवा० ३,

कणगावलिवरभद्र पु० (कनकावलिवरभद्र) इनक्षवलिवर द्वीपना अेऽ अधिपति देव कनकावलिवर द्वीप का एक अधिपति देव Name of a presiding god of the Kanakavalivara island जीवा० ३,

कणगावलिवरम्हाभद्र पु० (कनकावलिवर-महाभद्र) इनक्षवलिवर नामना द्वीपना अेऽ अधिष्ठाता देव कनकावलीवर नामक द्वीप का एक अधिष्ठाता देव Name of a presiding god of the Kanakavalivara island जीवा० ३,

कणगावलिवरोभास पु० (कनकावलिवरावभास) (१) आ नामनेो अेऽ द्वीप इस नामका एक द्वीप Name of an island (२) आ नामनेो अेऽ समुद्र इस नाम का एक समुद्र Name of a sea जीवा० ३,

कणगावलिवरोभासभद्र पु० (कनकावलिवरावभासभद्र) इनक्षवलिवरावभास द्वीपना अेऽ अधिष्ठाता देव कनकावलिवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव Name of a presiding god of the Kanakavaravbhas island जीवा० ३,

कणगावलिवरोभासमहाभद्र पु० (कनकावलिवरावभासमहाभद्र) इनक्षवलिवरावभास द्वीपना अेऽ अधिष्ठाता देव कनकावलिवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव Name of a presiding god of the Kanakavalivaravbhasisla-

nd जीवा० ३,

कणगावलिवरोभासमहावर. पु० (कनकावलिवरावभासमहावर) इनक्षवलिवरावभास समुद्रना अेऽ अधिष्ठाता देव. कनकावलिवरावभास समुद्र का एक अधिष्ठाता देव Name of a presiding god of the Kanakavalivaravbhas sea जीवा ३,

कणगावलिवरोभासवर पु० (कनकावलिवरावभासवर) इनक्षवलिवरावभास समुद्रना अधिष्ठाता देव कनकावलिवरावभास समुद्र का एक अधिष्ठाता देव Name of a presiding god of the Kanakavalivaravbhas जीवा० ३,

कणेरु स्त्री० (कणेरु) एथली हस्तिनी, हाथीन A she-elephant नाया० १, १,

कण पु० (कण) अंग देशनेो आ नामनेो राजा, युधिष्ठिरनेो मोटा भाई अंग देशका इस नाम का एक राजा युधिष्ठिर का बड़ा भाई Name of a king of the Anga country, the elder brother of Yudhishthira नाया० १, १६,

कणह-वल्ली स्त्री० (कणह वल्ली) पक्षी-वैद्य विशेष, नागदमनी नामनी लता नागदमनी लता Name of a particular Creeper पत्र० १,

कणहोराल पु० (कण्योदार) पनपति विशेष वनस्पति विशेष A particular vegetable पत्र० १,

कतथभाणी स्त्री० (कस्तमानी) पानीमाथती पनपति विशेष पानी में होनेवाली वनस्पति विशेष A particular vegetable growing in water पत्र० १,

कप्प पु० (कल्प) (१) क्षमण विजेरे उपकरण कम्बल प्रमुख उपकरण Articles of

1150, blanket etc श्रौथ नि० ४०, (२)  
त्रि० समर्थ, शक्तिमान. समर्थ शक्तिमान.  
Strong, Powerful नाया० १, १३,  
कल्पडिञ्च. त्रि० (कापटिक) कपटी, भायावी  
कपटी, मायावी Deceitful, Fraud-  
ulent नाया० १, ८,  
कल्पटवी स्त्री० (कल्पस्त्री) देवी देवी, देवस्त्री  
A goddess, A deity टा० ३,  
कल्पाय पु० (कल्पाय) ४२, दायु कर, बुद्धी,  
राजदेय भाग Tax, Duty. विवा० १, ३,  
कवुर पु० (कर्वर) (१) ग्रह विशेष ग्रह विशेष  
Name of a planet (२) ग्रहाधिपत्यक  
देव विशेष ग्रहाधिपत्यक देव विशेष Name  
of a presiding god of planets  
टा० २, ३,  
कम पु० (क्रम) मर्यादा, सीमा मर्यादा,  
सीमा Limit, Boundry टा० ४,  
कमल पु० (कमल) (१) कमलाख्य धन्वाणुलि-  
ना पूर्व जन्म का पिता कमलाख्य इन्द्रायी  
के पूर्व जन्म का पिता Name of a  
father of the previous, life of  
Kamalakhya goddess नाया० २,  
कमला स्त्री० (कमला) गताधर्म तथा सूत्रनु  
श्लोक अध्यायन ज्ञाताधर्म कथा सूत्र का एक  
अध्यायन. Name of a chapter in  
Gnatadharma katha sutra  
नाया० २,  
कमिय त्रि० (कान्त) उल्लिखित धन उल्लिखित  
Transgressed दस० २, २,  
कम्म पु० न० (कर्मन्) युतो पक्षव्याभा  
आवे ते स्थान वह स्थान जहाँ पर चूना  
वगैरह पकाया जाता है. A kiln, A  
furnace पृष्ठ० २, २,—आयरिय  
पु० (आर्य) कर्मथी आर्य, निर्दोष व्यापार  
करना कर्म से आर्य, निर्दोष व्यापार करने  
वाला Arya by actions or deeds

पन्न० १,—किञ्चिद त्रि० (किञ्चिद) कर्म-  
व्ययान, प्रत्यक्ष काम करना कर्म चाण्डाल,  
प्रदान काम करने वाला Chandala by  
actions उक्त० ३, २,—द्वय न०  
(स्थान) शोभायु कारखाना A work-  
shop आया०—परिसाडणा स्त्री० (परि-  
शाटना) कर्म पुद्गलानु श्रव प्रदेशथी  
अलग धनु, कर्मथी निर्दोष कर्म पुद्गलों  
का जीव प्रदेशों से पृथक्करण, कर्म की निर्जरा.  
Falling off of Karmas from  
the soul सू० नि० १, १, १, २०,  
कम्मा स्त्री० (कर्मन्) क्रिया, व्यापार क्रिया;  
व्यापार Execution, Perform-  
ance टा० ४, २,  
कम्मि त्रि० (कर्मिन्) पाप कर्म करना पाप  
कर्म करनेवाला A sinner, A villain  
सू० १, ७, ६,  
कयवणमालापिय पु० (कृतवनमालापिय) आ-  
नामने श्लोक यक्ष इस नाम का एक यक्ष.  
Name of a demi-god विवा० २, १,  
करडिया स्त्री० (करणिका) नामो उषो छोटा  
डिब्बा A small box (Made of  
bamboo) नाया० १, ७,  
करण न० (करण) (१) वीर्य स्फुरण वीर्य  
स्फुरण Use of strength टा० ३, १,  
करिसण न० (कर्ण) (१) जेय, आकर्षण-  
स्त्रीचाव, आकर्षण Attraction (२)  
जेयु ते, जेती करती चासना, खेती करना  
Ploughing, Tilling (३) कृषि  
जेती कृषि, खेती Agriculture,  
Husbandry पृष्ठ० १, १,  
करोडिया स्त्री (करोटिका) (१) पानदान-  
स्थगिका, पानदान A betel-leaf-box  
नाया० १, (२) कपाध, शिक्षापान कपाल;  
मिज्ञा-वात्र A begger's bowl नाया०  
१, ८,

कलद. पु० (कलन्द) अति आर्य, अेक प्रक्षरना  
 मनुष्य जाति से आर्य, एक प्रकार के  
 मनुष्य. A kind of human being,  
 Arya by blood ठ० ६,  
 कलाय पु० (कलाय) धान्य विशेष, यक्षु,  
 मर, विगेरे धान्य विशेष, चना, मटर  
 आदि A kind of corn अशुत ३,  
 १,  
 कलावग न० (कलापक) चार श्लोकैनी अेक  
 वाक्यता चार श्लोकों की एक वाक्यता A  
 series of four stanzas on the  
 same subject and forming  
 one grammatical sentence  
 पदह० २, ५,  
 कलासवर्ण, न० (कलासवर्ण) सभ्या विशेष  
 सख्या विशेष A particular num-  
 ber ठ० १०,  
 कलिंव पु० (कलिम्ब) (१) वासु अेकमतनु  
 पात्र वास का पात्र विशेष A kind of  
 vessel made of bamboo गच्छा०  
 २, (२) सूके धाके सुखी लकड़ी Dry  
 wood भग० ८, ३,  
 कल्ल त्रि० (कल्य) निरोग, रोग रहित निरोग,  
 रोग रहित Healthy, Free from  
 sickness ठ० ३, ३,  
 कविल पु० (कपिल) (१) आ नामने अेक  
 वासुदेव इस नाम का एक वासुदेव  
 Name of Vasudeo नाया० १, १६,  
 (२) राहुनु अेक पुद्गल राहु का पुद्गल  
 विशेष A material molecule of  
 Rahu सू० प० २०,  
 कस त्रि० (कप) ( १ ) छि सध, मारनार, क्षर  
 क्षरनार मार डालने वाला, डार करने वाला  
 A killer, A slayer ठ० ४, १,  
 (२) पु० न० ससार, लय, अगत ससार,  
 भव, जगत्, The world, Universe

आ० ४

कसा स्त्री० (कसा—कसा) थापणो, डारडे  
 चर्म यष्टि, चावुक, कौडा A whip  
 विवा० १, ६,  
 कसाइ त्रि० (कपायिन्) ( १ ) कसायेका रग  
 वाणो कपाय रग वाला Tinged,  
 Reddened, Coloured (२) डेध,  
 मान, भाया अने लोल वाणो क्रोध, मान,  
 माया, और लोभ वाला Passionate  
 पत्र० १८,  
 काउड्वावण न० ( कायोड्वायन ) उच्यतन,  
 विधा विशेष उच्चाटन, दूर स्थित दूसरे के  
 शरीर का आकर्षण करना A kind of  
 charm or magical incanta-  
 tion नाया० १, १४,  
 कागपिरडी स्त्री० ( काकपिरडी ) अत्र पि ३  
 अग्रविषय Reserved for donation.  
 आया० २, १, ६,  
 कामकाम, त्रि० (कामकाम) विषयनी धृञ्च  
 वाणो विषयकी चाह वाला Libidinous,  
 Lascivious, Amorous पत्र० २,  
 कामद्वि त्रि० ( कामार्थिन् ) विषयाभिलाषी  
 विषयाभिलाषी Lustful, Lasci-  
 vious नाया० १, १,  
 कामडिहय पु० (कामर्धिक) जैन साधुओंने  
 अेक गथु जैन साधुओं का एक गथ. A  
 class of Jain monks ठ० ६,  
 कामप्पभ न० (कामप्रभ) देवविमान विशेष  
 देव विमान विशेष A particular  
 celestial car जीवा० ३,  
 कामलेस्त न० (कामलेश्य) देवविमान विशेष  
 देव विमान विशेष, A particular  
 celestial car जीवा० ३,  
 कामवर्ण न० (कामवर्ण) अेक देव विमान  
 एक देव विमान A particular  
 celestial car जीवा० ३,

कामसिंगार न० ( कामशङ्कार ) देव विमान विशेष देव विमान विशेष A particular celestial car जीवा० ३,  
 कामसिद्ध, न० ( कामशिट ) ओंके देव विमान एक देव विमान. A particular celestial car जीवा० ३,  
 कामावट्ट न० ( कामावर्त ) देव विमान विशेष देव विमान विशेष A particular heavenly car जीवा० ३,  
 कामिअ 'त्रि० ( कामिक ) धृश्रवाणे, सांलिधाप इच्छुक, इच्छा वाला, सांमिलाप Desirous, Wishing विवा० १, १,  
 कामिआ. सी० ( कामिका ) धृश्र, अंलिधापा इच्छा, अंमिलाप Desire, Ambition "अकामिआए चिण्णति दुक्ख" पय्ह० १, ३,  
 कामुत्तरवडिसग न० ( कामोत्तरावतसक ) देव विमान विशेष देव विमान विशेष A particular heavenly car. जीवा० ३,  
 काय पु० ( काक ) वनस्पति विशेष वनस्पति विशेष, काला उम्बर A particular vegetable पक्ष० १,  
 कायक न० ( कायक ) लीला रगना इथी अनेलु कपडु हरा रग की रुई से बना हुआ वस्त्र Cloth made of green cotton आया० २, ५, १,  
 कायह त्रि० ( कायह ) ओंके देशमा अनेलु ( वल ) देश-विशेष में बना हुआ ( वस्त्र ) Made in a particular country आया० २, ५, १, ७,  
 कार पु० ( कार ) (१) क्रिया, कृति, व्यापार क्रिया, कृति, व्यापार Action, Execution डा० १०, (२) रूप, आकृति रूप, आकृति A form, Shape, Figure (३) सधने मध्य भाग सब का मध्य भाग The middle part of

Sangh वच० ३,  
 काल पु० ( काल ) (१) पूर्वीय लवण समुद्रना पाताण जगशने अधिष्ठाता देव पूर्वीय लवण समुद्र के पाताल कलशों का अधिष्ठाता देव A presiding god of a pot of the nether world situated in the eastern salt sea डा० ४, (२) आनामने ओंके गृहपति इस नामका एक गृहपति Name of a householder नाया० २, १, (३) न० देव विमान विशेष देव विमान विशेष A particular celestial car सम० ३५, ( ४ ) क्षणी देवीनु सिंहासन. काली देवी का सिंहासन A throne of Kali goddess नाया० २, —कखी. त्रि० ( कादिच्चन् ) अयसरने अणुनार. अयसर का जाननेवाला Knowing the proper time or occasion ( of any work ) उक्त० ६, —काल. पु० ( काल ) मृत्यु समय मृत्यु समय The time of death विशेष० २०६६, —चक्क न० ( चक्क ) ओंके लय करेश ल. एक भयकर शस्त्र A dreadful weapon. "कालचक्क विउम्बइ" आवा०—चूला सी० ( चूडा ) अधिक मास पगेरेने अधिः समय अधिक मास वगैरह का अधिक समय. Additional time of additional months निसी० चू० १, —पुरिस पु० ( पुरुष ) ने पुवेद कर्मने अनुभव करेछे ते जो पुवेद कर्म का अनुभव करता हो वह One who enjoys karma of masculine inclination स्य० १, ४, १, २,  
 कालप्पम पु० ( कालप्पम ) आ नामने ओंके पर्वत इस नाम का एक पर्वत Name of a mountain डा० १०,

काला. स्त्री० ( काला ) ( १ ) ऐकं छन्द्राष्ट्री,  
 चमरेन्द्रनी ऐकं पद्मश्री एक इन्द्राष्ट्री,  
 चमरेन्द्र की एक पदराणी Name of a  
 crowned queen of Chamara-  
 endra डा० ६, १,  
 कालिन्ध्री स्त्री० (कालिका) ऐकं प्रक्षरने  
 तोक्षनी पवन एक प्रकार का तोफानी पवन  
 A kind of hurricane नाया० १, ६,  
 कालिंगी स्त्री० (कालिङ्गी) ऐकं प्रक्षरनी  
 विद्या विद्या-विशेष A kind of ma-  
 gical skill सू० २, २, २७,  
 कालुण न० (कारुण्य) दया, उरुशु दया,  
 करुणा Compassion, Kindness  
 —वडिया स्त्री० (वृत्ति) भीष मागीने  
 आशुविश यक्षावती भीष माग कर  
 आजीविका करना Living by begg-  
 ing, A mendicant's life विवा०  
 १, १,  
 कालेज्ज न० (कालेज) क्षणञ्ज कलेजा The  
 liver सू० नि० १, ६, १, ७३,  
 पु० (काश) (१) रस रस Juice  
 डा० ७, (२) ससार, जगत ससार, जगत्  
 The course or circuit of  
 worldly life, The world आया०  
 कासमद्ग पु (कासमदक) पनरुपति विशेष  
 वनस्पति विशेष, गुच्छ विशेष A kind  
 of vegetable पत्र० १,  
 कासव पु० (काश्यप) लगवान ऋषभदेवने  
 ऐकं पूर्व पुरुष भगवान ऋषभदेव का एक  
 पूर्व पुरुष Name of an ancestor  
 of Lord Rishbhdeo डा० ७, सू०  
 १, ६, ७,  
 कासिचड्डण पु० (काशिवर्धन) आ नामने  
 ऐकं शब्द, जेणे लगवान भक्षानीर  
 स्थानीना पास दीक्षा लीधी छती इस  
 नाम का एक राजा, जिसने भगवान् महावीर

के पास दीक्षा ली थी Name of a  
 king who was initiated by  
 Lord Mahavi डा० ६,  
 काहीइदाण न० (करिष्यतिदान) प्रत्युपक्षर  
 नी आशायी देवामा आवतु दान प्रत्युपकार  
 की आशासे दिया जाता दान Donation  
 given with the hope of ser-  
 vice in return डा० १०,  
 किञ्जक पु० (किञ्जक) पगग, पुष्परेख,  
 पुष्परेख, परग The filament or  
 blossom of a lotus नाया० १, १,  
 किमज्ज त्रि० (किमज्ज) असार, नि सार-  
 असार, नि सार Worthless, Un-  
 substantial पयह० २, ४,  
 किच्च पु० (कृत्य) (१) गृहस्थ गृहस्थ A  
 householder सू० १, १, ४, १, (२)  
 न० शास्त्रोक्त अनुष्ठान शास्त्रोक्त अनु-  
 ष्ठान Observance or confor-  
 mity of sacred precepts आया०  
 २, २, २, सू० १, १, ४, १,  
 किट्ट त्रि० (क्लिष्ट) क्षेश युक्त क्लेश युक्त  
 Distressed, Suffering pain or  
 misery भग० ३, २, जीवा ३,  
 किट्ट त्रि० (कृष्ट) (१) जेतेशु, जेतेशु.  
 जोता हुआ, हल विदारित Ploughed,  
 Tilled भग० ३, २, (२) न० देव विमान  
 विशेष देव विमान विशेष Name of a  
 particular celestial car सम०  
 ३, ६,  
 किड्डा स्त्री० (क्रीडा) आख्यावस्था वाक्यावस्था.  
 Infancy, Childhood डा० १०,  
 किरणा अ० (केन) शा थी ? क्यों, क्योंकि;  
 कैसे ? Why, Wherefore. "किरणा  
 लब्धा किरणा पत्ता" विवा० २, १,  
 किन्विस पु० (किन्विस) (१) आशुल स्थानीय  
 देव जति चाण्डाल स्थानीय देव जति

A kind of Chandal-like gods  
 भग० १२, २, (२) त्रि० मक्षित मखिन  
 Dirty. (३) अधम, नीच अधम, नीच,  
 Low, Vilo उच्च० ३, ४,  
 किटि-सिय त्रि० (किटि-सिय) (१) अधम,  
 नीच अधम, नीच Low, Mean,  
 Vile सू० १, १, ३, १६, (२) पाप दुःख  
 ने लागवतार दरिद्र, पागणो विगेरे पाप फल  
 को भोगने वाला दरिद्र, पगु वगैरह  
 Suffering the fruits of sins,  
 of the indigent, crippled etc  
 नाया० १, १,  
 किंव पु० (कृप) आ नामना ऐक ऋषि,  
 दुःपाथार्थ इल नाम का एक ऋषि, कृपा-  
 चार्य Name of a sage "सउरि  
 किंव" नाया० १, १६,  
 किलोरी स्त्री० (किलोरी) कुमारी, अविवाहिता  
 युवती कुमारी, अविवाहिता युवती A  
 maiden, A young woman  
 नाया० १, ६,  
 कीव त्रि० (कलीव) नीच, उपेक्षित कातर,  
 अधीर Cowardly, Discouraged  
 नाया० १, १,  
 कीलयाधारी स्त्री० (कीडनघात्री) पाण्डने  
 रभाडनार धाध माता. बालक को खेल कूद  
 कराने वाली दाई A nurse, A fos-  
 ter-mother नाया० १, १,  
 कीव पु० (कीव) ऐक पक्षीतु नाम विशेष  
 पक्षि विशेष Name of a bird पत्र०  
 १, १,  
 कु. अ० (कु) विशेष, अधारे विशेष, ज्यादा  
 Mostly नाया० १, १४,  
 कुदय त्रि० (कुचित) भरीपडेधु, टपडेधु  
 धवस्पन्दित, चरित. Oozed, Tri-  
 ckled उ० ६,  
 कुडल पु० (कुडल) (१) ऐक देशतु नाम

देश विशेष Name of a country  
 जीवा० ३, (२) ऐक पर्वततु नाम पर्वत  
 विशेष Name of a mountain  
 उ० १०, (३) गोल आक्षर गोल आक्षर.  
 A circle, A round सु० च० ६२,  
 कुयु पु० (कुयु) यमरेन्द्रनी हस्ति-सेना  
 अधिपति देव विशेष चमरेन्द्र की हस्ति-  
 सेना का अधिपति देव विशेष Name of  
 a commanding god of Cham-  
 rendia's army of elephants.  
 उ० २, १,  
 कुडुक पु० (कुडुक) ऐक वनस्पतितु नाम.  
 वनस्पति विशेष A particular  
 vegetable पत्र० १,  
 कुभगा न० (कुभगा) भगध देश प्रसिद्ध ऐक  
 परिमाणु भगध देश प्रसिद्ध एक परिमाण.  
 A particular measure in  
 Magadha नाया० १, ८,  
 कुंभारावाय पु० (कुम्भकारावाक) नीलाडी  
 कुम्हार का वर्तन पकाने का स्थान A kiln-  
 उ० ८,  
 कुट्ट पु० (कोट) डोडा कोठा, कुशूल, धान्य  
 भरने का बड़ा नाजन A granary,  
 A store-room पत्र० २, १, — बुद्धि  
 त्रि० (बुद्धि) ऐकवार लक्ष्मीने नहि लूख-  
 नार एक बार जानने पर नहीं भूलने वाला.  
 One who does not forget after  
 knowing once पत्र० २, १,  
 कुड पु० (कुड) हाथी वगेरेतु अधन स्थान  
 हाथी वगैरह का बन्धन स्थान A place  
 of binding of elephant etc.  
 नाया० १, १,  
 कुडड पु० (कुडड) पाश विशेष, सेना आ-  
 गये। लाग लाडलने। छाय छे ते ००००  
 पाश पाश विशेष, जिसका प्रान्त भाग  
 काण्ड का होता है देसा रज्जु पाश A kind

of snare or cold. परह० १, ३,  
 कुडडिम त्रि० (कुदडिडम) दण्ड करीने छीनती  
 दीधिलु दण्ड देकर छीना हुआ ड्रज्य  
 Wealth snatched by force  
 and punishment विवा १, २,  
 कुडय पु० न० (कुडज) अेड वृक्षनु नाम  
 वृच विशेष, करैया Name of a tree  
 नाया० १, ६, पत्र० १७,  
 कुडव पु० (कुडव) अनाज मापवानु अेड  
 माप अनाज नापने का एक माप A  
 measure of grain नाया० १, ७,  
 कुडवय पु० (कुस्तुम्बक) (१) वनस्पति विशेष,  
 धाण्ड वनस्पति विशेष, धनियाँ A kind  
 of vegetable, The comander  
 plant or leaves पत्र० १, (२)  
 अेड गतनु क-द कन्द विशेष A kind  
 of bulbous root उक्त० ३६, ६८,  
 कुण्डिम पु० न० (कुण्ड) अेड नरकावासनु नाम  
 विशेष नरकावास विशेष Name of an  
 abode of hell सूय० १, ५, १, २७,  
 कुतित्थ न० (कुतीर्थ) दूषित दर्शन-मत  
 दूषित दर्शन Contemptible school  
 or system of philosophy सूय०  
 नि० १, १, १, २६,  
 कुमड पु० (कुमारड) देव विशेषनी अेड  
 गति देव विशेष की एक जाति A kind  
 of particular gods डा० २, ३,  
 कुमडिद पु० (कुमारडेन्द्र) कुषाण्ड देविना  
 ग्यामी इन्द्र विशेष, कुमारड देवी का  
 स्वामी India of Kubhanda  
 gods डा० २, ३,  
 कुमार पु० (कुमार) (१) युवगज युवराज,  
 राज्याहँ पुरुष A Prince-royal,  
 Crown-prince परह० १, ५, (२)  
 लुहार लोहकार, लोहार A black-  
 smith "कुमारोहिं अय" उक्त० २३,

(३) दुस्मित मार, अथ मा० कुत्सित मार,  
 अत्यत मार Excessive beating  
 नाया० १, १४,

कुमुदागर पु० (कुमुदाकर) कुमुदी लगेलु  
 वन कुमुदीसे भरा हुआ वन, कुमुद खण्ड  
 A forest full of lotuses परह०  
 १, ४,

कुम्मार पु० (कुमार) मगध देशना अेड  
 गाभनु नाम मगध देश के एक गाव का  
 नाम Name of a village in  
 Magadha आया० २, १५, ५,

कुरय पु० (कुरक) वनस्पति विशेष वनस्पति  
 विशेष Name of a particular  
 vegetable पत्र० १,

कुरा. स्त्री० (कुरा) अक्षर भूमिनु अेड क्षेत्र  
 वर्ण विशेष, अक्षर भूमि विशेष A  
 particular region in Akama  
 bhumi डा० २, ३, १०,

कुरु पु० स्त्री० (कुरु) कु३ वशमा उत्पन्न  
 थयेल, कु३ वशीय कुरु वश मे उत्पन्न, कुरु  
 वशीय Born in Kuru family डा० ६

कुल न० (कुल) कुल वश Family  
 —इगाल पु० (अज्ञार) कुलमा लक्ष  
 लगाडनाग, दुराचारी कुल में कलक  
 लगाने वाला दुराचारी A man who  
 ruins his family डा० ४, १ —तथ  
 त्रि० (स्थ) कुशीन, भानदान व शनु कुलीन,  
 खानदान वशका Of a good family,  
 Well-born नाया० १, ५,

कुत्तल्लिय त्रि० (कुत्तल्लिक) नेमा अगण  
 शत्य पेमी गयु लोयते जिसके भीतर  
 खराब शल्य घुस गया हो वह Scruples  
 of conscience परह० २, ४,

कुहग पु० (कुहक) अेड गतनु क-द कन्द  
 विशेष Name of a bulbous  
 root उक्त० ३६, ६६,



कुहरण त्रि० ( कुधन ) अल्पधनवाला, दरिद्री  
अल्प धन वाला, दरिद्र Indigent,  
Needy, Poor पण्ड० २, १, त्रि०  
(क्रोधन) झुंझी, झुंझ झरना क्रोध, क्रोध  
करनेवाला Wrathful, Angry  
पण्ड० १४,,

कुहर न० ( कुहर ) छिद्र, दाँत, दर छिद्र,  
बिल, विवर A hole पण्ड० १, ४,

कुहेड पु० ( कुहेट ) अमृतज्ञ उपमानर  
मन्त्रतन्त्रादि ज्ञान चमत्कार उपजाने वाला  
मन्त्रतन्त्रादि ज्ञान Knowledge of  
Manttras etc producing won-  
der "कुहेडविज्ञासवदारजीवी" उक्त०  
२०, ४२,

कूआण न० ( कूजन ) ( १ ) अव्यक्त शब्द  
अव्यक्त शब्द Coing, Warbling  
(२) त्रि० अव्यक्त शब्द करने पर  
आवाज करने वाला Making indis-  
tinct sound अ० ३, ३,

कूड पु० न० ( कूट ) (१) भ्रान्ति जनक  
वस्तु A thing  
causing confusion अ० ७, ६,  
(२) पापाण्डुमय यन्त्र विशेष, भारवातु  
अेक प्रदरतु यन्त्र पापाण्डुमय यन्त्र विशेष,  
मारने का एक प्रकार का यन्त्र A con-  
cealed weapon made of stone  
अ० १२,—आगार न० (आगार) हिंसा  
स्थान हिंसा स्थान A place of  
killing अ० ४, २,—ग्राह पु० (ग्राह)  
ग्राही श्रवणे इत्यादि धोखे से जीवों  
को फँसाने वाला One who deceives  
animals. विवा० १, २,

कूय पु० ( कूप ) घी, तेल विगेरे शम्भवानु  
पात्र घी, तैल वगैर रखने का पात्र, कुतुप  
A leather vessel for Ghee, oil  
etc नाया० १, १, श्रव०

कूवर पु० न० ( कूवर ) वडाणुनु अेक अवयव,  
वडाणुनु आगतो भाग जहाज का एक  
अवयव, जहाज का मुख भाग The  
deck of a ship नाया० १, ६,  
कूहड पु० ( कूम्पाण्ड ) व्यन्तर देवोनी अेक  
जाति व्यन्तर देवों की एक जाति A  
variety of Vyantari gods पण्ड०  
१, ४,

केअग पु० ( केतक ) चिन्ह, निशान चिन्ह,  
निशान A sign, A mark अ० १०;  
केज्ज त्रि ( क्रय ) वेचनी वस्तु वेचने की  
चीज A thing to be sold अ० ६;  
केयण न० ( केतन ) ( १ ) वाड़ी वस्तु  
वस्तु, टेढ़ी चीज A crooked thing.  
(२) सकेत, सकेत स्थान सकेत, सकेत  
स्थान A place of appointment  
or assignation, Rendezvous  
अ० ४,

केवल त्रि० ( केवल ) (१) अनुपम, अद्वितीय.  
अनुपम, अद्वितीय. Incomparable,  
Matchless अ० ६, ३३, (२) शुद्ध,  
अन्य वस्तुथी अमिश्रित शुद्ध, अन्य  
वस्तु से अमिश्रित Pure, Unming-  
gled अ० ४, (३) अनन्त, अन्त रहित.  
अनन्त, अन्त रहित Endless, Infi-  
nite, विशेष० ८४,

केवलिपविस्त्रय त्रि० (केवलिपविक) (१) स्वय-  
शुद्ध स्वयम्बुद्ध One who becomes  
enlightened by himself with-  
out the aid of a preceptor  
etc (२) जिनदेव तीर्थंकर जिनदेव,  
तीर्थंकर A Jinadeo, A Tirth-  
ankar अ० ६, ३१,

केसरी स्त्री० ( केसरी ) लुओ 'केसरिया'  
शब्द देखो 'केसरिया' शब्द Vide  
'केसरिया' नाया० १, ६,

कोच्छ न० (कौत्स) (१) गोल विशेष गोत्र विशेष Name of a particular lineage (२) त्रि० जैत्स गोत्र भा उत्पन्न कौत्स गोत्र में उत्पन्न Born in Kautsa family ङ० ७,  
 कोच्छ त्रि० (कौत्स) (१) उदर सन्धी, पेट सन्धी उदर सन्धी, उदर से सन्धी रखने वाला Relating to the belly (२) उदर प्रदेश उदर प्रदेश The belly नाया० १, १,  
 कोट्टितिया स्त्री० (कुट्टयन्तिका) अनाज ते पीसने वाली अनाज को पीसने वाली A woman who pounds grain नाया० १, ७,  
 कोट्टिम पु० न० (कुट्टिम) (१) रत्नमय भूमि रत्नमय भूमि An inlaid or paved floor, ground paved with precious stones नाया १, २, (२) अंक या अनेक भागवाले घर एक या अनेक नला वाला घर A house having one or many storeys वव० ४,  
 कोट्ट पु० (कोट्ट) धारणा, धारण वस्तु ते अक्षान्तर सुधी नभूषण ते धारणा, अवधारित अर्थ का कालान्तर में स्मरण योग्य अवस्थान The faculty of retaining in the mind, A good or retentive memory नदी० १७६,  
 कोडीण न० (कोडीण) (१) आ नाम तु अंक गोत्र, जे जैत्स गोत्र नी अंक शाखा ३५ छे इस नाम का एक गोत्र, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा रूप है Name of a lineage (२) त्रि० ते गोत्र भा उत्पन्न अथवा इस गोत्र में उत्पन्न Born in this family ङ० ७,  
 कोडीमातसा स्त्री (कोडीमातसा) गा-धार ग्राम

नी अंक भूषण. गान्धार ग्राम की एक भूषण (In music) An intonation of the third of the seven primary notes of the Indian Gamut ङ० ७,  
 कोडुविय पु० (कौटुम्बिक) (१) ग्राम प्रधान, गाभने भोटा मायुस ग्राम प्रधान, गाव का बड़ा आदमी, A leading man in a village परह १, ५, (२) त्रि० कुटुम्बिका उत्पन्न, कुटुम्बिका सन्धी कुटुम्बिका में उत्पन्न, कुटुम्बिका सन्धी Relating to a family जीवा० ३,  
 कोट्टिक-य. त्रि० (कुट्टिक) डैड गेगनाजे, डैडीये कुट्ट-रोगी, कुट्ट-ग्रस्त Affected with leprosy परह० २, ५, विवा० १, ७,  
 कोत्तिअ न० (कोत्तिक) अंक प्रकार तु मधु एक प्रकार का मधु A kind of honey ङ० ६,  
 कोप्य त्रि० (कोप्य) अप्रीतिकर द्वेष्य, अप्रीतिकर, Odious, Disagreeable "अकोप्यजघजुगला" परह० १, ३,  
 कोरग पु० (कोरङ्क) अंक नतनु पक्षी. पक्षि विशेष. A kind of bird परह० १, १  
 कोल न० (कौल) पार सन्धी बदर फल सन्धी Relating to the fruit of jujube, भग० ६, १०, — द्विय न० (अस्थिक) पार नो इण्डिया वैर की गुडीया, A Seed or store of the fruit of jujube भग० ६, १०  
 कोसला स्त्री० (कोशला) अयोध्या प्रांत, डैसल देश, अयोध्या प्रान्त, कोसल देश. Ayodhya District भग० ७, ६,  
 कोसियार न० (कोशिकार) रेशमी वस्त्र. रेशमी वस्त्र The silk ङ० ५, ३,

कोह पु० (कोथ) सऽपु ते सडना, शीर्षता  
Decay भग० ३, ६,  
खइअ न० (खादित) भोजन.  
Dinner ठा० ४, ४,  
खडण न० (खण्डन) विच्छेद, नाश विच्छेद,  
नाश Destruction, Ruin नाया०  
१, ८,  
खडपट्ट पु० (खण्डपट्ट) (१) लुभारी, छूत-  
कार, जूझारी A gambler विवा०  
१, ३, (२) धूर्त, ढग, धूर्त ढग A  
logue, A cheat (३) अयाय  
थी व्यवहार करने वाला One who acts im-  
properly विवा० १, ३,  
खडभेय पु० (खण्डभेद) पन्तु ने कटके कटके  
भेदनीते, पदार्थतु अेड नततु पृथक्करण  
विच्छेद, विशेष, पदार्थ का एक तरह का  
पृथक्करण Breaking of a thing  
in pieces भग० १, ४,  
खदसिरी स्त्री० (स्कन्दश्री) अेड चोर सेना-  
पतिनी स्त्रीतु नाम एक चोर सेनापति  
की भार्या का नाम Name of a wife  
of a thief-commander विवा०  
१, ३,  
खंधमत त्रि० (स्कन्धमत) स्कन्ध वाणु  
स्कन्ध वाला Having shoulders  
नाया० १, १,  
खभालण न० (स्तम्भालगन) आलक्ष साथे  
आधपु ते थम्भे से बांधना Binding  
with a post or pillar पणह० १, ३,  
खणग त्रि० (खनक) खोदने वाला  
One who digs नाया० १, १८,  
खत्ति पु० स्त्री० (खत्तिन्) लुभो "खत्तिअ"  
शब्द देखो "खत्तिअ" शब्द Vide  
'खत्तिअ' सू० १, ६, २२,  
खरंट त्रि० (खरट) (१) तिर-अर २२ना२

धुंकारने वाला, तिरस्कारक One who  
disdains or contempts (२) क्षेप  
अरना२ उपलिप्त करनेवाला One who  
amounts or besmears (३) अशुचि  
पदार्थ अशुचि पदार्थ An unholy  
thing ठा० ४, १,

खचा स्त्री० (क्षपा) रात्रि रात्रि, रात A  
night —जल न० (जल) हिम अ-  
श्याय, हिम Frost Dew ठा० ४, ४,  
खार पु० (चार) अरपु ते चरण, अनरा,  
सचलन The act of flowing or  
trickling ठा० ८, (२) लसम, भाड.  
भस्म, खाक Ashes नाया० १, १२,  
(३) त्रि० कऽवा स्वाद वाणु, कऽवी मीन-  
कटुक स्वाद वाला, कटुक चीज Bitter,  
Acrid, Pungent पत्र० १७,—वापी  
स्त्री० (वापी) भारथी लरेली कुर्ध-  
चार से भरी हुई वापी A well of  
alkaline water पणह० १, १,  
खारतउसी स्त्री० (चारत्रपुपी) पन-पति विशेष.  
कटु त्रपुपी, वनस्पति विशेष A kind of  
particular vegetable. पत्र० १७,  
खिल न० (खिल) गपर लूमि अकृष्ट भूमि;  
ऊपर जमीन A piece of waste or  
uncultivated land पणह० १, २,  
खीण त्रि० (क्षीण) क्षीण्यथेल, धसाध गथेल.  
दुर्बल, कृश Emaciated, Lean;  
Diminished भग० २, १,  
खीरपूर. पु० (खीरपूर) उडणतु दुध उबलता  
हुआ दूध The boiling milk पत्र०  
१७,  
खीरिज्जमाण. त्रि० (खीर्यमाण) लेतु दोहन  
अरवाभा आवतु लोपते जिसका दोहन  
किया जाता हो वह Milking आया० २,  
१, ४,  
खुमण. त्रि० (खोमण) क्षोभ उपभवना२.

होम उपजाने वाला Agitating, Disturbing पण्ड० १, १,

खुडुग पु० (कुल्लक) (१) नानो साधु, लघु शिष्य छोटा साधु, लघु शिष्य A younger saint or pupil सूय० १, ३, २, ५, (२) अशुकी, अष्ट प्रकाशनी कीटी अगुलीय विशेष, एक प्रकार की अगुठी A kind of ring श्रोत्र०

खुडुआ खी० (कुद्रिका) (१) नानी, लघु लघु, नानी Small ठा० २, ३, आया० २, २, ३, (२) नानु तणाव, आपोयायु द्वारा, नहीं खुदा हुआ छोटा तलाव A small pond ज० प० १, पण्ड० २, ५, खेज्जाखा खी० (खेदना) भेद सूयुक्त वाणी, भेद खेद सूचक वाणी, खेद A speech expressing sorrow नाया० १, १८, खेत्त. न० (खेत्र) लार्था, स्त्री भार्या, स्त्री A wife ठा० १०, — पल्लिओवम न० (पल्लोपम) क्षणनु माप विशेष काल का नाप विशेष A particular measure of time अखुजो०

खेत्तरिय पु० (खेत्रीय) आर्थं भूमिमा जन्मे-ल मनुष्य आर्थं भूमि में उत्पन्न मनुष्य A man born in Aiyā country पन्न० १,

खेम न० (क्षेम) प्राप्त वस्तुनु परिपालन, प्राप्त वस्तु का परिपालन Preserving what is acquired नाया० १, ५,

खेवण. न० (खेपण) प्रेरण प्रेरण Sending, Directing नाया० १, २,

खोद. पु० (खोद) (१) यूर्ध्वं क्षर्यते, विदारण चूर्णन, विदारण Pounding, Grinding भग० १७, ६, (२) शेरडीना रस हनु रस, जल का रस. Juice of the sugar-cane सूय० १, ६, २०,

खोम न० (क्षौम) (१) शथुनुं थनेलु क्षयु

सन का बना हुआ वस्त्र Hempen cloth, Linen cloth पण्ड० २, ४, सम० १२३, भग० ११, ११, (२) रेशमी वस्त्र रेशमी वस्त्र Silken cloth, woven silk (३) त्रि० अणसी सय धी, शथु सय धी श्रलसी, सबन्धी सन सबन्धी Relating to hemp or linseed. ठा० १०, भग० १,

खोमपसिण न० (क्षौमप्रश्न) विद्या विगेष, नेनाथी वस्त्रमा देवतानु आच्छान करायछे विद्या विशेष, जिससे वस्त्र में देवता का आह्वान किया जाता है A particular magical skill ठा० १०,

गगा खी० (गङ्गा) (१) गोशालाना भते क्षल परिभाषु विगेष गोशालक के मत से काल परिणाम विशेष A particular measure of time viewed by Goshala भग० १५, (२) भीष्मपितामह की माता का नाम Name of the mother of Bhishma नाया० १, १६;

गड न० (गण्ड) दोष, क्षल क्ष दोष, दाग A fault, A stain सूय० १, ६, १६,

गडवाणिया स्त्री० (गण्डपाणिका) पासुं पाल विशेष बास का पात्र विशेष A particular vessel made of bamboo भग० ७, ८,

गडूल पु० (गण्डोल) अेक जतने कीडे ने पेटमा पेट थाय छे कृमि विशेष, जो पेट में पैदा होता है A kind of insect पन्न० १,

गतिय न० (गन्तुक) अेक प्रकाशनु धास. तृण विशेष A kind of grass पन्न० १,

गथ पु० (ग्रन्थ) स्वजन, सय धी स्वजन, सबन्धी लोग A relative, A kinsman पण्ड २, ४,

गध पु० (गन्ध) (१) सूक्ष्म विभेय चूर्ण विशेष A kind of powder परह० १, १, (२) त्रि० गध युक्त (पदार्थ) गध युक्त(पदार्थ) Fragrant, Perfumed सू० १, ६, १६, —ओदग न० (उदक) सुगन्धित पाणी सुगन्धित जल, सुगन्धित—वासित पानी Fragrant water ओव० विवा० १, ६,—दृय न० (दृष्टक) गध द्रव्यनुं सूक्ष्म गध द्रव्य का चूर्ण Powder of perfumed substances टा० ३, १,—चदृय न०(वर्तक) सुगन्धित लेप द्रव्य सुगन्धित लेप द्रव्य Fragrant ointment विवा० १, ६,  
 गभीरपोय न० (गम्भीरपोत) नगर विशेष नगर विशेष Name of city नाया० १, १७,  
 गणग पु० (गणक) लक्ष्मी भडारी, भारडा-गारिक A treasurer, A ware-houseman नाया० १, १,  
 गण्णाजीव पु० (गण्णाजीव) गण्णना नामधी निर्वाह करतार गण के नाम से निर्वाह करने वाला One who maintains himself on the name of his class टा० २, १,  
 गमणा (गमणया) स्त्री०(गमन) गमन, गति गमन, गति Movement, Motion टा० ४, ३, नाया० १, १,  
 गयकठ पु० (गजकण्ठ) ओ८ प्रदरनु रत्न रत्न विशेष A kind of jewel राय० ६७,  
 गयमारिणी स्त्री० (गजमारिणी) वनस्पति विभेय वनस्पति विशेष A particular kind of vegetable पत्र० १,  
 गयवइ पु० (गजवति) गजेन्द्र, श्रेष्ठ डायी गजेन्द्र, श्रेष्ठ हस्ती A lordly ele-

phant नाया० १, १६,  
 गव पु०० स्त्री० (गो) पशु, जनवर पशु, जानवर An animal सू० १, २, ३, ५,  
 गवक्ख पु०० (गवाक्ख) गोभनी आकृति पाणु रत्न विशेष गवाक्ख के आकृति का रत्न विशेष A kind of jewel having the form of an air-hole जीवा० ३,  
 गवेसइत्तार त्रि० (गवेपयित्थु) शोध करतार, गवेपक, खोज करने वाला, गवेपक One who searches or inquires टा० ४, २,  
 गवेसणया स्त्री० (गवेपणा) शिक्षा ग्रहण ग्रहीते भिक्षा का ग्रहण Taking of alms टा० ३, ४,  
 गहण न०(ग्रहण) (१) शब्द, आवाज शब्द, आवाज A word, A sound आया० २, ३, ३, (२) सूर्य अ-द्र ग्रहण चन्द्र सूर्य का उपराग An eclipse of the moon and sun भग० १२, ६,  
 गहण न० (गहन) अज्ञु डेटर, अज्ञुनी पोल. वृक्ष गह्वर, वृक्ष का कोटर The hollow of a tree विवा० १, ३,  
 गहिञ्च त्रि०(गृहीत) (१) स्वीकारेण स्वीकृत Accepted ओव० टा० ४, ४, (२) गण्येणु ज्ञान, उपलब्ध, विदित Known, Understood उक्त० २,  
 गागर पु० (घर्वर) स्त्रीने पहनने का वस्त्र विशेष घाघरा A petticoat, A gown worn by woman परह० १, ४,  
 गामधम्म पु० (ग्रामधर्म) (१) विषयालि-लाप, विषयनी छन्द विषयामित्ताप, विषय की वाञ्छा Desire of wor-

ldly pleasures ङ० १०, (२) छन्दियेते स्वभाव इन्द्रियों का स्वभाव  
Natures of organs of sense  
(३) विषय प्रवृत्ति विषय प्रवृत्ति.  
Enjoying the sensual objects  
आया०(४) मैथुन मैथुन Copulation  
सू० १, २, २, २५, (५) गाभने धर्म, गाभनु  
कर्तव्य. गाँव का धर्म, गाँव का कर्तव्य  
Duty of a village ङ० १०,  
गार न० (अगार) घर, मकान गृह, घर,  
मकान A house, A dwelling,  
ङ० ६,  
गारि पु० स्त्री० (अगारिन्) ससारी, गृहस्थ  
गृही, ससारी, गृहस्थ A house  
holder उक्त० ५, १६,  
गारुड-ल न० (गारुड) शास्त्र विशेष, मत्र  
शास्त्र विशेष, सर्प विष नाशक मन्त्र  
वेमा वर्धुन करवाया आव्यु छे ते शास्त्र  
शास्त्र विशेष, मत्र शास्त्र विशेष, सर्प विष  
नाशक मन्त्र का निममें वर्णन हो वह शास्त्र  
A particular volume in which  
the charm against snake  
poison is described ङ० ६,  
गाह पु० (गाघ) थाल स्तान, थाह, A  
shallow place, Bottom ङ०  
४, ४,  
गाहण न० (ग्राहण) (१) शास्त्र, सिद्धांत  
शास्त्र, सिद्धान्त A scripture (२)  
बोधक वचन, उपदेश बोधक वचन,  
उपदेश Instruction, Advice  
पह० २, २,  
गाहवई स्त्री० (ग्राहवती) नदी विशेष नदी  
विशेष Name of a river ङ० २, ३,  
गारहया स्त्री० (ग्रहण) आदान, ग्रहण करवु ते  
उपादान, आदान Taking, Accep-  
ting उक्त० १६, २७

गिला स्त्री० (ग्लानि) (१) रोग रोग, विमारी.  
A disease, Sickness. (२) थैद,  
थाक खेद, थाक Exhaustion,  
Languor ङ० ८,  
गिलारि स्त्री० (ग्लानि) थानि, थैद, थाक.  
ग्लानि, खेद, थकावट Exhaustion,  
Fatigue ङ० ५, १,  
गीय त्रि० (गीत) (१) कथित, प्रतिपादित.  
कथित, प्रतिपादित Explained, Ex-  
pounded नाया० १, १, (२) प्रसिद्ध,  
विख्यात प्रसिद्ध, विख्यात. Well-  
known, Renowned, Celebri-  
ated. सन्धा०  
गुजा स्त्री० (गुज्जा) थैक परिभाष्य परिभाष्य  
विशेष A particular measure  
ङ० ४, १,  
गुडिअ त्रि० (गुडित) (१) धी पेलु, पोतेलु  
लिप्त, पोता हुआ Smeared विवा०  
१, २, (२) प्रेरित प्रेरित Directed,  
Sent पह० १, ३,  
गुडा स्त्री० (गुडा) (१) लथीनु इवय हाथी  
का कवच An armour of an ele-  
phant (२) घोडानु इवय अश्वका  
कवच A mail of a horse विवा०  
१, २,  
गुडिअ त्रि० (गुडित) इवय पुरेरेलु, पञ्चर  
पुरेरेलु कवचित, बर्मित, Armoured,  
Mailed विवा० १, २,  
गुण पु० न० (गुण) (१) प्रशसा प्रशसा.  
Praise नाया० १, १, (२) कार्य;  
प्रयोजन कार्य, प्रयोजन An object,  
A purpose भग० २, १०,  
गुत्त न० (गोत्र) साधुपण्य साधुत्व, साधुपन.  
Sainthood सू० २, ७, १०,  
गुप्य त्रि० (गोप्य) (१) सतिस्य लायक.  
क्षिपाने योग्य Worthy to be con-

cealed or hidden. (२) न० अकेल  
एकान्त, विजन A lonely or retired  
place, Solitude ठा० ४, १,  
गुलिञ्जा स्त्री० (गुलिका) सुगंध द्रव्य विशेष  
वर्णक द्रव्य विशेष, सुगंधी द्रव्य विशेष  
A particular fragrant sub-  
stance ओव० नाया० १, १,  
गुविञ्ज त्रि० (गुप्त) व्याकुल, क्षुब्ध व्याकुल,  
क्षुब्ध Agitated, Bewildered  
ठा० ३, ४,  
गोहि त्रि० (गोहिन) घर वाला, गृही घर वाला  
गृही A Householder (२) पु०  
भर्ता, पति भर्ता, पति A husband  
नाया० १, १४,  
गोहिञ्ज त्रि० (गृहिक) अत्यासक्त, लोभुष,  
लाक्ष्मी अत्यासक्त, लोभुष, लालची  
Strongly addicted or devoted  
to पण्ड० १, ३,  
गोञ्जर पु० (गोचर) छात्रालय छात्रालय A  
boarding दस० २, २, २,  
गोफ पु० (गुल्फ) पगनी गाँस पाद ग्रन्थि,  
पैर की गाँस The ankle पण्ड०  
१, ४,  
गोग्रह पु० (गोग्रह) गायनी चोरी गौ की  
चोरी A theft of a cow पण्ड०  
१, ३,  
गोणिसज्जा स्त्री० (गोनिषया) आसन विशेष,  
गायनी जेभ पेसतु आसन विशेष, गौ  
की तरह बैठना Sitting like a cow  
ठा० १, १,  
गोतित्थ न० (गोतीथ) लवण समुद्र वगैरह की एक  
जगह A place of Lavan sea  
etc ठा० १०,  
गोत्तफुस्सिया स्त्री० (गोत्तफुस्सिका) देव  
विशेष वही विशेष A kind of par-

ticular creeper पत्र० १,  
गोथूभा स्त्री० (गोस्तूपा) शक्रेन्द्रनी अके अग्र-  
भक्षिणीनी राजधानी शक्रेन्द्र की एक अग्र-  
महिषी की राजधानी A capital of  
crowned queen of Shakra-  
endia ठा० ४, २,  
गोघा स्त्री० (गोघा) धा, सर्पनी अके जति  
गोह, हाथ से चलने वाली एक साँप की  
जाति A kind of lizard पण्ड० १,  
१, नाया० १, ८,  
गोमद् पु० (गोमद्) अनामना अके शैः  
शालिभद्रना पितानु नाम श्रेष्ठ विशेष,  
शालिभद्र के पिता का नाम Name of  
a wealthy man ठा० १०,  
गोमुहिञ्ज न० (गोमुखित) गायना मोढाना  
आकार वाली ढाल गौ के मुख का आकार  
वाली ढाल A shield having the  
form of a cow's mouth नाया०  
१, १८,  
गोमिञ्ज पु० (गौत्मिक) डेटवाल, नगर  
रक्षक कोटवाल, नगर रक्षक A police  
magistrate पण्ड० १, २,  
गोयम पु० (गोतम) (१) ऋषि विशेष ऋषि  
विशेष Name of a sage ठा० ७,  
(२) नाना अण्ड छोटा बैल A young  
ox ओव० (३) अके मनुष्य जति, जे  
अण्ड द्वारा शिक्षा भागीने पेताना निर्वाह  
करे छे एक मनुष्य जाति, जो बैल द्वारा  
भिक्षा माँगकर अपना निर्वाह चलाती हे  
A particular tribe of human  
being नाया० १, १६,  
गोयमकेसिञ्ज न० (गौतमकेशिय) उत्तराख्यन  
सूत्रनु अके अध्ययन, जेभा गौतम आभी  
अने केशिआभीना सवाद छे उत्तराख्यन  
सूत्र का एक अध्ययन, जिसमें गौतमस्वामी  
और केशिसुनि का सवाद है A parti-

cular chapter in Uttradhyayan Sutra उक्तं २३,  
 गोयरभूमि स्त्री० (गोचरभूमि) बिदा भ्रमणकी जगह A place for begging टा० ६,  
 गोरव न० (गौरव) गमन, गति गमन, गति Motion, Movement टा० ६,  
 गोह्व न० (गौह्व) (१) गोत्र विशेष, काश्यप गोत्रकी एक शाखा A particular lineage, A branch of Kashyap family (२) त्रि० गौरव गोत्रमा उत्पन्न गौह्व गोत्र में उत्पन्न Born in Gaulya family टा० ७,  
 गोविन्द पु० (गोविन्द) (१) विष्णु, कृष्ण An epithet of Vishnu (२) ऐकं जैन मुनि एक जैन मुनि Name of a Jain Saint टा० १०,  
 गञ्जोअ-गञ्जोद पु० (घृतोद) (१) ऐकं समुद्र जेतु पाणी धी समान वादिष्ट डोय छे समुद्र-विशेष, जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिष्ट है Name of a sea the water of which taste like Ghee टा० ७, (२) ऐकं प्रक्षरने परसाह मेघ विशेष A kind of rain तिल्य० (३) त्रि० जेतु पाणी धी समान मधुर डोय तनु जलाशय जिसका पानी घी के समान मधुर हो ऐसा जलाशय A water-place tasting like Ghee जीवा० ३, राय०  
 घण्टिचिय त्रि० (घननिचित) भूय गाढ अत्यन्त निविड Excessively dense भग० ७, ८,  
 घयमड पु० (घृतमण्ड) उपरनु धी ऊपर का घी, घृतसार Upper Ghee जीवा० ३,

घरिस पु० (घर्ष) धर्षण, रगड्युते घर्षण; रगड Rubbing, Friction नाया० १, १६,  
 घलघल. पु० (घलघल) 'घलघल' अवाज, ध्वनि विशेष घलघल आवाज, ध्वनि विशेष A particular sound 'Ghal, Ghal' विवा० १, ६,  
 घाड पु० (घाट) (१) मित्रता मित्रता, सौहार्द Friendship नाया१, २, (२) माथानी नीचेने भाग मस्तक के नीचे का भाग The back of the neck नाया० १, ८,  
 घाडिय. त्रि० (घाटिक) मिल वयस्य, मित्र A friend नाया० १, २,  
 चउत्थी स्त्री० (चतुर्थी) सप्रदान विभक्ति, याथी विभक्ति सप्रदान विभक्ति, चौथी विभक्ति The dative case टा० ८,  
 चउरता स्त्री० (चतुरन्ता) पृथ्वी, धरणी पृथिवी, धरणी Earth, Land. टा० ४, १,  
 चचुय पु० (चञ्चुक) (१) ऐकं अनार्य देश अनार्य देश विशेष Name of an Anarya Country (२) ते देशने रहैवाग्नी मनुष्य उस देश का निवासी मनुष्य An inhabitant of this country पण्ह० १, १,  
 चद्रकूड न० (चन्द्रकूट) इत्येक पर्यंततु ऐकं शिखर रुचक पर्वत का एक शिखर A summit of the mount Ruchaka टा० ८,  
 चद्रणग न० (चन्द्रनक) (१) जनुओ 'चद्रण' शब्द देखो 'चद्रण' शब्द Vide 'चद्रण'. (२) पु० ऐकं द्विभेद जनुओ विशेष द्विन्द्रिय जनुओ विशेष A kind of insect having two Senses पण्ह० १, १,  
 चद्रप्पभ. त्रि० (चन्द्रप्रभ) यद्रनु सिद्धसन.



चन्द्र का सिंहासन A throne of the moon नाया० २, १,  
 चंदोवग न० (चन्द्रोपक) सन्यासीनु अेक  
 उपदेशु सन्यासी का एक उपकरण An  
 article of use of an ascetic  
 ठा० ४, २,  
 चक्र पु० (चक्र) (१) यक्ष्णर आलूपु, मन्तुनु अेक आभरथु चक्राकार आभूषण, मस्तक का आभरण विशेष, A circular ornament of the head ओव० (२) व्यूह विशेष, सैन्यनी यक्ष्णर रथनी विशेष व्यूह विशेष, सैन्य की चक्राकार रचना विशेष A Form of military array in a circle नाया० १, १, ओव० —जोहि पु० (योधिन्) (१) यक्ष्णर लडनर थोथो चक्र से लडने वाला योद्धा A warrior fighting with a disc (a sharp circular missile) ठा० ६, (२) वासुदेव वासुदेव, तीन खड पृथ्वी का राजा An epithet of Vasudeo आव० ११, —ज्भय. पु० (ध्वज) यक्ष्णर निशान वाणी ध्वज चक्र के निशान वाली ध्वजा A flag having the sign of a disc ज०प० १,—विजय पु० (विजय) यक्ष्णरती रण थी शूनवा थोथ अेक क्षेत्नु नाम. चक्रवर्ती राजा से जीतने योग्य क्षेत्र विशेष Name of region conquerable by the Chakravarti ठा० ८,  
 चक्रवाल पु० (चक्रवाल) अेक पर्वतनु नाम पर्वत विशेष Name of a mountain ठा० १०, —चक्रस्रम पु० (चक्रस्रम) यक्ष्णर वेगव, गोण परिधि चक्राकार घेरा, गोल परिधि The circular circumference ठा० २,  
 चक्रारबद्ध न० (चक्रारबद्ध) गाडु शकट,

गाडी A cart दस० २, १,  
 चक्रिय पु० (चाक्रिक) लिक्षुनी अेक गति मिडुक की एक जाति A kind of mendicants नाया० १, १,  
 चडुआर त्रि० (चटुकार) भुशामद करनर, भुशामती खुशामद करने वाला, खुशामदी A flatterer पण्ह० १, ३,  
 चणइया स्त्री० (चणकिका) अेक गतनु अन्न, भसुर मसूर, अन्न विशेष Chick-pea, A kind of coin ठा० २, ३,  
 चर्मपट्ट पु० (चर्मपट्ट) आभरते पटी चमडे का पटा A flat-piece of leather. विवा० १, ६,  
 चयण न० (चयन) (१) अेकडु करुते इकट्टा करना The act of collecting (२) ग्रहण, उपादन ग्रहण, उपादान Taking, Accepting ठा० २, ४,  
 चरण. न० (चरण) (१) गमन, विहार गमन, विहार Going नदी० सूय० १, १०, २, (२) सेवन, आदर सेवन, आदर Respect, Reverence जीवा० ३,  
 चरितारिय पु० (चारित्र्य) चरित्रथी आर्थ; विशुद्ध चरित्र वाणा साधु चरित्र से आर्थ; विशुद्ध चरित्र वाला, साधु, मुनि Aya by conduct, पन्न० १,  
 चरिय न० (चरित) सेवेक्ष सेवित, आश्रित Performed, Practised पण्ह० १, ३,  
 चलणा स्त्री० (चलना) (१) यत्रन, गति. चलन, गति Going, Motion (२) ८५, ध्रुव कम्प हिलन, Trembling, Shaking भग० १६, ६,  
 चर्लिटिय त्रि० (चलेन्द्रिय) धन्द्रियेनी निग्रह करुवाभा अन्नमर्थ, लेनी धन्द्रियो क्षुभा न ह्यथने इन्द्रिय निग्रह करने में असमर्थ, जिसकी इन्द्रियों कायू में न हां

वह Unable to subdue the senses आया० २, ५, १,  
 चव पु० (चव) भरथु, भेद Death उत्त० २, १४,  
 चाउरत (चातुरन्त) अक्षरती राज, सम्राट्.  
 चक्रवर्ती राजा, सम्राट् An emperor, The universal king परह० १, ४,  
 चामरच्छ न० (चामराह) अक्षेत्र गोत्र-विशेष Name of a particular lineage सू० प० १०, १६,  
 चार पु० (चार) ज्योतिष क्षेत्, आकाश ज्योतिष क्षेत्र, आकाश The sky ठा० २, २,  
 चारिअ त्रि० (चारित) ज्योतिषे, ज्ञेय धरेषु विज्ञापित, जताया हुआ Informed, Made known पत्र० १७,  
 चारिया स्त्री० (चर्या) (१) आभेतेभे इत्यनुते चरण, इधर उधर गमन Going or moving about (२) चेष्टा चेष्टा Gesture उत्त० १६, ८१-८२-८४ ८५,  
 चिंतयिया स्त्री० (चिन्तिका) याद धरेषु, चिंतन धरेषु याद करना, चिन्तन करना Contemplating, Recollecting ठा० ५, ३,  
 चितिय त्रि० (चिन्तित) (१) याद धरेषु, स्मरथु धरेषु याद किया हुआ, स्मृत Remembered, Recollected नाया० १, १, (२) जेने चित्त उत्पन्न थर्धुते ते जिसको चित्त उत्पन्न हुई हो वह Anxious, Full of worries जीवा० ३, श्रव० (३) न० भरथु, स्मृति स्मरण, स्मृति Remembrance भग० ६, ३३, श्रव०  
 चित्चि पु० (चित्चि) श्रीश्रीयागी, लय धर अयाज चीत्कार, चित्लाहट, भयकर

आवाज The dreadful cry of certain animals विवा० १, २,  
 चित्त त्रि० (चित्त) धरथुयित्त कवर, चितकवर Variegated, Spotted नाया० १, ८,  
 चित्तिया स्त्री० (चित्तिका) चित्तानी माद स्त्री-चित्त, श्वापद विशेष की मादा A female leopard पत्र० ११,  
 चुराणकोसय न० (चुर्याकोशक) अक्षेत्र ज्ञेय ज्ञेयानी वस्तु भय विशेष A kind of eatable परह० २, ५,  
 चुरिणआ स्त्री० (चूरिका) वस्तुने चुर्या रूप भेद-ती भेद विशेष, एक तरह का पृथग्भाव, जैसे पित्तान का अवयव अलग-होता है Cutting a thing into pieces पत्र० ११,  
 चुलणी स्त्री० (चुलनी) (१) दुपद राजानी स्त्री दुपद राजा की स्त्री A queen of king Diupada नाया० १, १६,  
 —पिय पु० (पित्त) भगवान महावीरना अक्षेत्र भुज्य उपासक भगवान महावीर का एक मुख्य उपासक A leading Upasak of Lord Mahavi उवा०  
 चेतण पु० (चेतन) (१) आत्मा, ज्य आत्मा, जीव, प्राणी Soul ठा० ४, ४, (२) त्रि० चेतनायाणु, ज्ञानयाणु चेतना वाला, ज्ञान वाला Animate, Living विशेष० १८४५,  
 चोरण त्रि० (चोरक) (१) चोरी धरना चुराने वाला One who steals, A thief. (२) पु० न० वन-पति विशेष वनस्पति विशेष A particular kind of vegetable पत्र० १,  
 चोरिअ न० (चौर्य) चोरी चोरी, अपहरण A theft ठा० १, १,

चन्द्र का सिंहासन A throne of the moon नाया० २, १,  
 चंदोवग न० (चन्द्रोपक) सन्यासीनु अेक  
 उपदेशु सन्यासी का एक उपकरण An  
 article of use of an ascetic  
 ठा० ४, २,  
 चक्र पु० (चक्र) (१) अक्षर आलुपु, मन्त्र  
 अेक आक्षरु चक्राकार आभूषण, मस्तक का  
 आभरण विशेष A circular ornament of the head  
 ओव० (२) व्यूह विशेष, सैन्यनी अक्षर  
 सन्या विशेष व्यूह विशेष, सैन्य की चक्रा-  
 कार रचना विशेष A Form of military array in a circle नाया०  
 १, १, ओव० —जोहि पु० (योधिन्)  
 (१) अक्षरु लडनर योधि चक्र से लडने  
 वाला योद्धा A warrior fighting with a disc (a sharp circular missile) ठा० ६, (२) वासुदेव वासुदेव,  
 तीन खड पृथ्वी का राजा An epithet of Vasudeo आव० ११, —जम्भय पु० (ध्वज) अक्षरु निशान वाली ध्वज  
 चक्र के निशान वाली ध्वजा A flag having the sign of a disc ज०प०  
 १,—विजय पु० (विजय) अक्षरुती राज  
 थी अंतया योग्य अेक क्षेत्रु नाम चक्रवर्ती  
 राजा से जीतने योग्य क्षेत्र विशेष Name of region conquerable by the Chakravarti ठा० ८,  
 चक्रवाल पु० (चक्रवाल) अेक पर्वतनु नाम  
 पर्वत विशेष Name of a mountain ठा० १०, —विक्खंम पु० (विक्कम्म)  
 अक्षरु घेग, गोल परिधि चक्राकार घेरा,  
 गोल परिधि The circular circumference ठा० २,  
 चक्रारवद न० (चक्रारवद) गाडु शब्द,

गाडी, A cart दस० २, १,  
 चक्रिय पु० (चाक्रिक) लिखुनी अेक अति-  
 भिडुक की एक जाति A kind of mendicants नाया० १, १,  
 चडुआर त्रि० (चटुकार) पुशामद डरनर,  
 पुशामती खुशामद करने वाला, खुशामदी.  
 A flatterer पण्ड० १, ३,  
 चण्डया खी० (चण्डिका) अेक अतनु अनी,  
 मसुर मसूर, अन्न विशेष Chick-pea,  
 A kind of coin ठा० २, ३,  
 चम्पट्ट पु० (चर्मपट्ट) आभारुनी पटी चमडे  
 का पटा A flat-piece of leather-  
 विवा० १, ६,  
 चयण न० (चयन) (१) अेकडु डरनु ते.  
 इकट्टा करना The act of collecting (२) अडु, उपादान  
 ग्रहण, उपादान Taking, Accepting ठा०  
 २, ४,  
 चरण० न० (चरण) (१) गमन, विहार गमन,  
 विहार Going नदी० सूय० १, १०, २,  
 (२) सेवन, आदर सेवन, आदर Respect,  
 Reverence जीवा० ३,  
 चरित्तारिय पु० (चारित्रार्थ) आरिन्थी आर्थ,  
 विशुद्ध आरिन्थ वाणा साधु चारित्र से आर्थ,  
 विशुद्ध चारित्र वाला, साधु, मुनि Arya  
 by conduct, पत्र० १,  
 चरिय न० (चरित) सेवेनु सेवित, आभित  
 Performed, Practised पण्ड० १, ३,  
 चलया खी० (चलना) (१) अवन, गति.  
 चलन, गति Going, Motion (२)  
 २५, ध्रुव कम्प हिलन, Trembling,  
 Shaking मग० १६, ६,  
 चलित्दिय त्रि० (चलेन्द्रिय) धन्द्रियेनी  
 निग्रह डयाभा अभभर्थ, अेनी धन्द्रिये  
 क्षुभा न लुथने. इन्द्रिय निग्रह करने में  
 असमर्थ, जिनकी इन्द्रियाँ कायू में न हों

बह Unable to subdue the senses आया० २, २, १,

चव पु० (चव) मरु, मेल Death उत्त० २, १४,

चाउरत (चातुरन्त) अक्षरती राज, सभ्राट्. चक्रवर्ती राजा, सभ्राट् An emperor, The universal king परह० १, ४,

चामरच्छ न० (चामराक्ष) अक्षेत्र गोत्र-विशेष Name of a particular lineage सू० प० १०, १६,

चार पु० (चार) ज्योतिष क्षेत्र, आकाश ज्योतिष क्षेत्र, आकाश. The sky ठा० २, २,

चारिञ्च त्रि० (चारित) ज्ञानवेत्तु, ज्ञानेतर करेक्षु विज्ञापित, जताया हुआ Informed, Made known पत्र० १७,

चारिया स्त्री० (चार्या) (१) आभतेभ ईरवपुते चरण, इधर उधर गमन Going or moving a bout (२) चेष्टा चेष्टा Gesture उत्त० १६, ८१ ८२-८४ ८२,

चित्तिय्या स्त्री० (चिन्तनिका) याद करेपु, चिंतन करेपु याद करना, चिन्तन करना Contemplating, Recollecting ठा० २, २,

चितिय त्रि० (चिन्तित) (१) याद करेक्षु, स्मरण करेक्षु याद किया हुआ, स्मृत Remembered, Recollected नाया० १, १, (२) जने चित्ता उत्पन्न यथेष्टय ते जिसको चित्ता उत्पन्न हुई हो वह Anxious, Full of worries जीवा० ३, श्रव० (३) न० स्मरण, स्मृति स्मरण, स्मृति Remembrance भग० ६, ३३, श्रव०

चिच्चि पु० (चिच्चि) यीथीयागी, लय कर अथान चीत्कार, चित्ताहट, भयकर

आवाङ्ग The dreadful cry of certain animals विवा० १, २,

चित्त. त्रि० (चित्र) क्षय्यचित्तर कवरा, चितकवरा Variegated, Spotted नाया० १, ८,

चित्तिया स्त्री० (चित्रिका) चितानी भाव स्त्री-चिता, शवपद विशेष की मादा A female leopard पत्र० ११,

चुराणकोस्य न० (चूर्णकोशक) अक्षेत्र जलनी आनीनी वस्तु भक्ष्य विशेष A kind of eatable परह० २, २,

चुरिणश्चा स्त्री० (चूर्णिका) वस्तुने शुद्ध रूप लेदती भेद विशेष, एक तरह का पृथग्भाव, जैसे पिसान का अवयव अलग होना है Cutting a thing into pieces पत्र० ११,

चुलणी. स्त्री० (चुलनी) (१) दुपद राजा की स्त्री A queen of king Dupada नाया० १, १६,

—पिय पु० (पितृ) भगवान महावीरना अक्षेत्र मुख्य उपासक भगवान महावीर का एक मुख्य उपासक A leading Upasak of Lord Mahaviर उवा०

चेयण पु० (चेतन) (१) आत्मा, ज्ञान आत्मा, जीव, प्राणी Soul ठा० ४, ४, (२) त्रि० चेतनावाणु, ज्ञानवाणु चेतना वाला, ज्ञान वाला Animate, Living विशेष० १८४२,

चोरग त्रि० (चोरक) (१) चोरी करनेवाला चुराने वाला One who steals, A thief. (२) पु० न० वन-धति विशेष वनस्पति विशेष. A particular kind of vegetable पत्र० १,

चोरिञ्च न० (चौर्य) चोरी चोरी, अपहरण A theft ठा० १, १,

छत्रम पु० न० ( छत्रम् ) (१) छपट, माया शकता, माया Fraud, Deceit, Guile सम० १, (२) आवरण आवरण, आच्छादन A covering सम० १, ठा० १, २,  
 छुंदा स्त्री० ( छुंदा ) दीक्षा नो अेक भेद, पोताना अथवा भीमना अभिप्राय थी दीक्षेदी दीक्षा दीक्षा का एक भेद, अपने या दूसरे के अभिप्राय विशेष से लिया हुआ सन्यास A variety initiation ठा० २, २,  
 छुगण न० (स्थगन) ढाकलु पिधान, ढकना A lid, A cover वव० ४,  
 छुगुरु पु० (पङ्गुरु) (१) अेकसे अेसी दिवसना उपवास एकसौ और अस्सी दिनों का उपवास One hundred-eighty fasts at a time (२) नलु दिवसना उपवास तीन दिनों का उपवास Three fasts at a time ठा० २, १,  
 छुडुण न० (छुर्दन) उधडी डरती वमन, वान्ति Vomiting विवा० १, ८,  
 छुत्त न० (छत्र) छल छत्र A parasol, An umbrella —धार पु० (धार) छत्र धारलु डरनर नोडर छत्र धारलु करने वाला नोकर The bearer of an umbrella जीवा० ३,  
 —पडागा स्त्री० (पताका) छल युक्त ध्वज, छत्र छत्र युक्त ध्वज, छत्र के उपर की ध्वजा A flag fastened on a parasol आवे०  
 छुरण न० (छुर) माया छपट माया कपट Fraud, Trick, Deceit सू० १, २, २, २६,  
 छुप्पय पु० (पटपट) लभरे अमर भमरा. A bee जीवा० ३,  
 छुलंस. त्रि० (पडन) छथुला वाणु पट कोण,

बह कोने वाला Having six corners ठा० ८,  
 छुत्रोवग पु० (छुत्रोवग) सेवनीय पुरय, माननीय पुरय सेवनी य पुरुष, माननीय पुरुष Venerable, Respectable ठा० ४, ३,  
 छुगल त्रि० (छुगल) अरु रलयधी अज सबधी Coming from or relating to a goat ठा० १, ३,  
 छुगलिय पु० (छुगलिक) अरुथी पोतानी आलुविकल अथावनर, अरुने पालनर. छुगों से आजीविका करनेवाला, अजापालक. One who lives on goats विवा० १, ४,  
 छुया स्त्री० (छुया) (१) शोभा शोभा. Beauty ओव० (२) प्रतिबिम्ब, पडलथो प्रतिबिम्ब, परछाई A reflected image, A reflection. उक्त० २, —गड् स्त्री० (गति) अथा अनुसार गमन छुया के अनुसार गमन, छुया के अवलम्बन से गति Going, following a shadow पत्र० १६,  
 छुार. त्रि० (चार) (१) मत्सरता मात्सर्य Jealousy, Spite, Malice (२) अक्षुण्णता असहिष्णुता Intolerance जीवा० ३,  
 छुडु न० (छुडु) अवसर, अवसर अवकाश, अवसर Opportunity पयह० १, ३,  
 छुडुपारि. पु० (छुडुपारि) अेक प्रताना नैन साधु एक प्रकार का जैन साधु. A kind of Jain Saints आया० २, १, ३,  
 छुडु त्रि० (छुडु) छेदक छेदा हुआ Cut, Pierced —नाथ. त्रि० (ग्रन्थ) अेद रहित, अेद युक्त स्नेह रहित,

स्नेह मुक्त Destitute of affection  
 "पण्ड" २, ५, —रुह त्रि० (रुह)  
 क्षपी ते रोपाय तेपी वनस्पति काट  
 कर बोने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति  
 A kind of vegetable which  
 can be sown though it is cut  
 जीवाठ १०, पन्न० ३६,  
 छिहड न० (शिखण्ड) मोरनी शिखा मयूर  
 की शिखा A crest of a peacock  
 नाया १, १,  
 छिहडि पु० (शिखण्ड) (१) मयूर, मोर  
 मयूर, मोर A peacock (२) त्रि०  
 मोर पिच्छने धारणु करनार मयूर पिच्छ  
 को धारण करने वाला Crested,  
 Tufted नाया १, १,  
 छीअमाण त्रि० (चुवत) छी क्तु छीक करता  
 Sneezing आया० २, २, ३,  
 छीरविराली छी० (चीरविहाली) अंड नतनी  
 वनस्पति वनस्पति विशेष, भूमि-  
 कृष्णण्ड A kind of vegetable  
 पन्न० १,  
 छुडिआ छी० (बुदिका) अंड नतनु आल-  
 रणु आभरण विशेष, A kind of  
 ornament पण्ड० २, ५,  
 छुर न० (चुर) अंड नतनु धास तृण वि-  
 शेष A kind of grass पन्न० १,  
 छेअ पु० (छेद) (१) क्षमी, न्यूनता क्षमी, न्यूनता  
 Deficiency, Want पचा० १६,  
 (२) अंड प्रतरनु प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त  
 विशेष A kind of expiation (a  
 religious act to atone for  
 sin) छ० ४, १,  
 छेज्जा छी० (छेद्या) छेदन क्रिया छेदन  
 क्रिया Act of piercing सू० १,  
 ४, २, ६,  
 छेप्य न० (शेष) पुछी पुच्छ, लागूल A

छी विवा० १, २,  
 छोडिअ त्रि० (छोडित) भारेलु ग्राहत, छुटित,  
 Struck, Beaten पण्ड० १, ४,  
 छोप्य त्रि० (स्पृश्य) अर्थ करवाने योग्य,  
 स्पर्श योग्य Touchable आया० २,  
 १५, ५,  
 छोम त्रि० (छोम्य) क्षाल करवाने योग्य,  
 क्षालणीय चोम योग्य, चोमणीय Fit  
 to be agitated or disturbed.  
 पण्ड० १, ३,  
 छोलण न० (तच्छण) छेदनु छीलना,  
 छिलका उतारना Paring, Cutting-  
 नाया० १, ७,  
 जइत्त त्रि० (जैत्र) (१) अतनार, विजयी,  
 जीतने वाला, विजयी Victorious,  
 Triumphant छ० ६,  
 जवई छी० (जाम्बवती) श्रीकृष्णुनी अंड  
 पत्नी श्री कृष्ण की एक पत्नी Name  
 of a queen of Shree Krishna.  
 अत० ५, ५,  
 जवू, छी० (जम्बू) जम्बूक्षीना आकारे अंड  
 रत्नमय शाश्वत पदार्थ, नैनाथी आ द्वीप  
 जम्बूद्वीप कहेवायछे जवू वृक्ष के आकार  
 का एक रत्नमय शाश्वत पदार्थ, सुदर्शना,  
 जिसके कारण यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता है.  
 An eternal thing studded  
 with jewels having the form  
 of the Jambu tree ज०प० १,  
 —पीठ न० (पीठ) सुदर्शना, जम्बू  
 नैनाथी अछेते प्रदेश सुदर्शना, जवू का  
 अधिष्ठान प्रदेश Sudarshna, a place  
 where the Jambu tree is situ-  
 ated ज०प० ६,  
 जभा छी० (जम्भा) जम्भा सु जम्भाई Zamb-  
 ing, Gaping विवा० १, ८,  
 जक्खिद पु० (यक्खेन्द्र) यक्षोना राजा यक्षों का

छउम पु० न० ( छग्न ) (१) ३५२, माया शब्दात्, माया. Fraud, Deceit, Guile. सम० १, (२) आवरण आवरण, आच्छादन. A covering सम० १, टा० १, २,

छुदा स्त्री० ( छन्ना ) दीक्षा नो अेक लेद, पोताना अथवा भीमना आधिप्राय थी दीधेदी दीक्षा दीक्षा का एक भेद, अपने या दूसरे के अभिप्राय विशेष से लिया हुआ सन्यास

A variety initiation टा० २, २,

छगण न० ( स्थगन ) टा० १५ पिघान, टकना

A lid, A cover चव० ४,

छगुरु पु० ( पद्गुरु ) (१) अेकसे अेसी दिवसना उपवास एकसौ आँर अस्सी दिनों का उपवास One hundred-eighty fasts at a time (२) त्रय दिवसना उपवास तीन दिनों का उपवास, Three fasts at a time टा० २, १,

छड्डण न० ( छर्दन ) उदरी डरनीते वमन, वान्ति Vomiting विवा० १, ८,

छत्त न० ( छत्र ) छल छत्र A parasol,

An umbrella —धार पु०

( धार ) छत्र धारण करनेवाला नोकर The bearer

of an umbrella जीवा० ३,

—पडागा स्त्री० ( पताका ) छल युक्त

ध्वज, छत्र उपरनी ध्वज छत्र युक्त ध्वज,

छत्र के ऊपर की ध्वजा A flag

fastened on a parasol आवे०

छरण न० ( छत्र ) माया ३५२ माया कपट

Fraud, Trick, Deceit सू०

१, २, २, २६,

छप्य पु० ( पद्पद् ) लभरे अमर भमरा

A bee जीवा० ३,

छलंस त्रि० ( पडल ) छधुधु वाधु पद् कोण,

छह कोने वाला Having six corners टा० ८,

छात्रोवग पु० ( छात्रोपग ) सेवनीय पुर्य,

माननीय पुर्य. सेवनीय पुर्य, माननीय

पुर्य Venerable, Respectable

टा० ४, ३,

छागल त्रि० ( छागल ) अग २ अधी अज

सयधी Coming from or relating

to a goat टा० १, ३,

छागलिय पु० ( छागलिक ) अक्षुधी पोतानी

आच्छिन्न अक्षुधना, अक्षुधने पाक्षुधना

छागों से आनीविका करनेवाला, अजापालक.

One who lives on goats विवा०

१, ४,

छाया स्त्री० ( छाया ) (१) शोभा शोभा.

Beauty आवे० (२) प्रतिबिम्ब,

पक्षुधने प्रतिबिम्ब, परछाई A reflected

image, A reflection उच०

२, —गइ स्त्री० ( गति ) छाया अनुसार

गमन छाया के अनुसार गमन, छाया के

अवलम्बन से गति Going, following

a shadow पत्र० १६,

छार त्रि० ( चार ) (१) मत्सरता मात्सर्य.

Jealousy, Spite, Malice (२)

असहिष्णुता असहिष्णुता Intoleration

जीवा० ३,

छिड्ड न० ( छिद्र ) अवकाश, अवसर अवकाश;

अवसर Opportunity पत्र०

१, ३,

छिड्डपारि. पु० ( छिद्रपारि ) अेक प्रकारना

जैन साधु एक प्रकार का जैन साधु A

kind of Jain Saints आया०

२, १, ३,

छिन्न. त्रि० ( छिन्न ) छेद छेदा हुआ Cut,

Pierced —ग्रन्थ त्रि० ( ग्रन्थ )

स्नेह रहित, स्नेह मुक्त स्नेह रहित,

स्नेह मुक्त Destitute of affection  
 पण्ड० २, ५, —रुह त्रि० (रुह)  
 क्षपी ते शेषाय तेनी वनस्पति काट  
 कर बोने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति  
 A kind of vegetable which  
 can be sown though it is cut  
 जीवा० १०, पन्न० ३६,  
 छिहड न० (शिखरड) मोरनी शिखा मयूर  
 की शिखा A crest of a peacock  
 नाया १, १,  
 छिहडि पु० (शिखरिड) (१) मयूर, मोर  
 मयूर, मोर A peacock (२) त्रि०  
 मोर पिन्धने धारणु करनार मयूर पिच्छ  
 को धारण करने वाला Crested,  
 Tufted नाया १, १,  
 छिन्नामाय त्रि० (चुवत्) छींकेतु छींक करता  
 Sneezing आया० २, २, ३,  
 छीरविवाली स्त्री० (चीरविवाली) ऐकं नतनी  
 वनस्पति वनस्पति विशेष, भूमि-  
 कूमायड A kind of vegetable  
 पन्न० १,  
 छुड्डिआ स्त्री० (सुदिका) ऐकं नतनु आल-  
 रणु आभरण विशेष. A kind of  
 ornament पण्ड० २, ५,  
 छुर न० (सुर) ऐकं नतनु धास तृण वि-  
 शेष A kind of grass पन्न० १,  
 छेत्र पु० (छेद) (१) क्षमी, न्यूनता कमी, न्यूनता  
 Deficiency, Want पचा० १६,  
 (२) ऐकं प्रारतनु प्रायश्चित प्रायश्चित  
 विशेष A kind of expiation (a  
 religious act to atone for  
 sin) ठा० ५, १,  
 छेज्जा स्त्री० (छेद्या) छेदन क्रिया छेदन  
 क्रिया Act of piercing सू० १,  
 ५, २, ६,  
 छेप्य न० (शेष) पुच्छी पुच्छ, लागूल A

छील विवा० १, २,  
 छोडिअ त्रि० (छोटित) भारेलु आहत, छुदित.  
 Struck, Beaten पण्ड० १, ५,  
 छोप्य त्रि० (स्पृश्य) स्पर्श करवाने योग्य.  
 स्पर्श योग्य. Touchable आया० २,  
 १६, ५,  
 छोबम त्रि० (छोभ्य) क्षोभ करवाने योग्य,  
 क्षोभणीय चोभ योग्य, चोभणीय Fit  
 to be agitated or disturbed.  
 पण्ड० १, ३,  
 छोल्लण न० (तचण) छोल्लणु छीलना,  
 छिलका उतारना Paring, Cutting  
 नाया० १, ७,  
 जइत्त त्रि० (जैत्र) (१) छतनार, विजयी.  
 जीतने वाला, विजयी Victorious,  
 Triumphant ठा० ६,  
 जबवई स्त्री० (जाम्बवती) श्रीकृष्णनी ऐकं  
 पत्नी श्री कृष्ण की एक पत्नी Name  
 of a queen of Shree Krishna.  
 अत० ५, ५,  
 जबू स्त्री० (जम्बू) जम्बूद्वीप आक्षरे ऐकं  
 रत्नमय शाश्वत पदार्थ, जेनाथी आ द्वीप  
 जम्बूद्वीप छेवायछे जबू वृक्ष के आकार  
 का एक रत्नमय शाश्वत पदार्थ, सुदर्शना,  
 जिसके कारण यह द्वीप जबूद्वीप कहलाता है.  
 An eternal thing studded  
 with jewels having the form  
 of the Jambu tree ज०प० १३;  
 —पीठ न० (पीठ) सुदर्शना, जम्बू  
 जे जम्बूऐछेते प्रदेश सुदर्शना, जबू का  
 अधिष्ठान प्रदेश Sudaishna, a place  
 where the Jambu tree is situ-  
 ated ज०प० ६,  
 जभा स्त्री० (जम्भा) गगनासु जम्भाई Zaw-  
 ing, Gaping विवा० १, ८,  
 जक्खिखद पु० (यक्खेन्द्र) यक्षोनी राज्ञ यक्षों का



स्वामी, यज्ञों का राजा. A king of domi-gods मा०४,१,  
 जग. न० (यकृत) चेटनी नभस्थी गा०, बीवर  
 पेट की दक्षिण अन्ध्र The liver पृ०  
 १, १,  
 जच्य. त्रि० (जात्य) सप्ततीय के विगतिय  
 मिश्रण थी गदित, शुद्ध सजातीय, विजाति  
 मिश्रण से रहित, शुद्ध. Of the same  
 family जीवा० ३,  
 जट्ट न० (इष्ट) यज्ञ याग, यज्ञ. A sacri-  
 fice. उक्त० १२, ४०, २६, ३०,  
 जडिल पु० (जटिल) केसरी, सिद्ध सिंह,  
 केसरी. A lion भग० १६, पव० ६४,  
 जणी स्त्री० (जनी) श्री, नागी, मदिशा स्त्री,  
 नारी, महिला A woman, A lady  
 नाया० २,  
 जण ए पु० (यज्ञ) श्राद्ध श्राद्ध A funeral  
 rite, Ceremony performed  
 in honour of the departed  
 spirits of dead relatives जीवा०  
 ३,  
 जन्न त्रि (जन्य) लोक हितकर जन-हित,  
 लोक हितकर Beneficent to  
 people Beneficial to the pub-  
 lic सूय० २, ६, २,  
 जमग पु० (यमक) (१) ऐक्य जगतु पक्षी  
 पक्षि विशेष A kind of bird जीवा०  
 ३, (२) ऐ नाभने ऐक्य देश देश विशेष  
 Name of a country जीवा० ३,  
 (३) ऐ नाभने ऐक्य कुंड इस नाम का  
 एक द्रव. Name of a basin जीवा०  
 ३,  
 जमघोल पु० (यमघोष) अरवत क्षेत्रना ऐक्य  
 भाषी तीर्थ कर देवत वर्ष के एक भावी  
 जिन देव Name of a future Tir-  
 thankara of Airvata kshetra

पव० ७;  
 जमल न० (यमल) जेडु, युगल जोड़ा, युग्म,  
 युगल A pair, A couple नाया० १,  
 १,  
 जमलजुणभजग. पु० (यमलजुं नभञ्जक)  
 श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्णवासुदेव. An  
 epithet of Shree Krishna  
 Vasudeo पृ० १, ४,  
 जय. त्रि० (यत्) (१) उपयोग शभनार,  
 आश शभनार उपयोग रखने वाला,  
 ख्याल रखने वाला Attentive,  
 Careful आवा० ४, (२) छु शुश्रुस्थानक  
 छठों गुणस्थानक The sixth out of  
 fourteen stages of the soul.  
 क० ग० ४, ४८, (३) आश, उपयोग,  
 सावधानता ख्याल, उपयोग, सावधानता.  
 Attentiveness, Cautiousness,  
 Carefulness "जय चरे जय चिट्टे"  
 दस० ४, नाया० १, १, (४) प्रयत्न प्रयत्न.  
 An effort, An endeavour दस०  
 ६, १, ६६,  
 जयती स्त्री० (जयन्ती) ऐ नाभनी ऐक्य लता.  
 बह्नी विशेष A kind of creeper.  
 पृ० १,  
 जयण न० (यजन) याग, पूजा याग, पूजा.  
 Worship पृ० २, १,  
 जयिण त्रि० (जयिन्) लुभ्यो 'जइय' शब्द  
 देखो 'जइय' शब्द 'Vide जइय' पृ०  
 १, ४,  
 जरट त्रि० (जट) कठस्थ, पक्ष कठिन, पक्ष.  
 Hard, Harsh, Stern नाया०  
 १, १,  
 जरासिंघ पु० (जरासिन्ध) लुभ्यो 'जरासंघ'  
 शब्द. देखो 'जरासंघ' शब्द 'Vide 'जरा-  
 संघ' पृ० १, ४,  
 जलद्वय पु० (जलकित) जलकित नाभनी

धन्द्रो ऐकं लोकपाल. जलकान्त नामक  
 इन्द्र का एक लोकपाल Name of a  
 Lokpala of Jalakanta Indra  
 ठा० ४, १,  
 जलसूग. न० (जलसूक) शेवाण शैवाल  
 Moss ठा० ४, १,  
 जलित्त्र. त्रि० (ज्वलित) उज्वल, प्रतिवाद्यु  
 उज्वल, कान्ति युक्त Bright, Beauti-  
 ful. पय्ह० २, १,  
 जल्ल. पु० (यल्ल) थदी बन्दी, विरुद पाठक  
 A bard or panegyrist नाया०  
 १, १,  
 जव पु० (जव) जप, पुन पुन म त्रैव्यारथु  
 जाप, पुन पुन मन्त्रोच्चारण, बार बार मन  
 ही मन देवता का नाम स्मरण Repeat-  
 ing Mantras, Repeating  
 names of deities पय्ह० २, २,  
 जवण न० (यापन) निर्वाह निर्वाह, गुजारा  
 Support, Maintenance उक्त०  
 ८, १२,  
 जववंसा स्त्री० (यववशा) ऐकं जतनी वन-  
 र्पति वनस्पति विशेष A kind of  
 vegetable पन्न० १,  
 जसमत. त्रि० (यशस्विन्) यशस्वी,  
 शक्तिवाद्यु. यशस्वी, इज्जतदार, कीर्ति  
 वाला Famous, Glorious,  
 Renowned पय्ह० १, ४,  
 जाइ त्रि० (यायिन्) ज्ञानार जाने वाला  
 Goug. ठा० ४, ३,  
 जाइ स्त्री० (जाति) ऐकं जतनी धरू मद्य  
 विशेष A kind of liquor विवा०  
 १, २,  
 जाग. पु० (याग) देव पूजा देव पूजा. Wor-  
 ship of the god. नाया १, १,  
 जागरित्त त्रि० (जागरिक) निद्रा रहित  
 निद्रा रहित. Wakeful, Sleepless

भग० १२, २,

जाविय त्रि० (यापित) व्यतीत धरेलु विताया  
 हुआ. Passed नाया० १, १०,

जाहग पु० (जाहक) ऐकं जतनु जगु, जेना  
 शरीरमा झटा छे। जतु विशेष, जिसके  
 शरीर में काटे होते हैं, साहि A  
 kind of insect पय्ह० १, १, विशेष  
 १४५४,

जिअवत त्रि० (जितवत्) जय प्राप्त.

जय प्राप्त Victorious पय्ह० १, १,

जिए पु० (जिन) (१) यैद पूर्ण ना ज्ञान-  
 धर चौदह पूर्व ग्रन्थों का जानकार.

Knowing the fourteen Purvas.

उक्त० १, (२) जैन साधु विशेष जैन  
 मुनि विशेष, जिनकल्पी मुनि A kind

of Jaina saints (३) अविधिज्ञान

आदि अतीन्द्रिय ज्ञान वाण अविधि ज्ञान  
 आदि अतीन्द्रिय ज्ञान वाला One hav-

ing imperceptible knowledge-  
 Avadhī Gyan etc ठा० ३, ४,

जिम्ह पु० (जिह्म) (१) ऐकं जतनी मेध,  
 जेना वरसवाथी प्राय ऐकं वर्ष सुधी

जमीनमा त्रेण रहु छे मेध विशेष, जिस  
 के बरसने से प्राय एक वर्ष तक जमीन में

चिकनापन रहता है A kind of rain.  
 ठा० ४, ४, (२) मद्, आणशी मन्द,

आलस Slow, Lazy ज० प० २,

जीअवत त्रि० (जीवितवत्) ज्ञानवाद्यु;  
 श्रेष्ठ ज्ञानवाद्यु जीवित वाला, श्रेष्ठ जीवन

वाला Of the noble life पय्ह०  
 १, १,

जीव न० (जीव) जग, पराक्रम बल, पराक्रम.  
 Strength, Valour भग० २, १;

जीवियरिसिका स्त्री० (जीवितरिसिका) ऐकं  
 जतनी वनस्पति. वनस्पति विशेष A  
 kind of vegetable पन्न० १,

जुत्ताणतय पु० न० (युक्तानन्तक) नय प्रक्षणा  
 अन्तमाने ऐक्य भेद गणना विशेष A  
 kind of calculation अणुजो० २३४,  
 जुत्ति स्त्री० (युक्ति) साधन, हेतु साधन, हेतु  
 The Hetu or middle term in  
 a syllogism सू० १, ३, ३, १७,  
 जुम्भ पु० (युग्म) सभशशि सम राशि  
 The even number श्रवण० नि०  
 ४०७, ठा० ४, ३,  
 जुवगव पु० (युवगव) तदर्थु यथा तस्य  
 वेत्त A young ox आया० २, ४, २,  
 जुहियटाण न० (युधिरस्थान) विवाह-मंडप  
 वाली जगह A place where a bowel is  
 erected on the marriage  
 occasion आया० २, ११, २,  
 जेमिय त्रि० (जेमित) जेजे लोचन र्थुं होय  
 ते जीमा हुआ, जिसने भोजन किया हो  
 वह Eaten नाया० १, १,  
 जोआवइत्तार त्रि० (योजयितृ) जेउनार  
 सयोग करना जोड़ने वाला, सयुक्त करने  
 वाला Joining, Connecting  
 ठा० ४, ३,  
 जोइस पु० (ज्योतिष) सूर्य, चंद्र वगैरेना  
 मार्ग, आकाश सूर्य आदि का मार्ग,  
 आकाश The sky पन्न० ३,  
 जोइसिणी स्त्री० (ज्योतिषी) ऐनामनी ऐक्य  
 देवी देवी विशेष Name of a  
 goddess पन्न० १७,  
 झम्मा स्त्री० (झम्मा) (१) माया, धपट  
 माया, कपट Fraud, Trick, Deceit  
 (२) क्रोध, गुस्सा क्रोध, गुस्सा Wrath,  
 Anger सू० १, १३, ७, (३) वृष्ण,  
 लाल तृष्णा, लोभ Desire, Greed  
 सू० २, २, २,  
 झम्मित त्रि० (झम्मित) लभ्य बुभुक्षित,

भूना, Hungry नाया० १, १,  
 झम्भरिय त्रि० (झम्भरित) ऐक्य प्रक्षणा  
 पानि त्रि० अथाय युक्त वाच विशेष के  
 शब्द से युक्त. With the sound  
 of a drum ठा० १०,  
 झाम त्रि० (झाम) उच्चरित अन्तुज्ज्वल.  
 Black, Dirty पण्ड० १, २,  
 टक त्रि० (टक) (१) तक्षणा विशेषेना अत्र-  
 लाग तलवार आदि का अग्रभाग The  
 point of a sword पण्ड० १, १,  
 (२) ऐक्य लततु पक्षी पक्षि विशेष. A  
 kind of bird जीवा० १,  
 टवणा स्त्री० (स्थापना) स्थापना, प्रतिरूपति  
 प्रतिकृति, चित्र A reflection,  
 Reflected image, A picture  
 ठा० २, ४, १०, —सच्च न०  
 (सत्य) स्थापना विषयक सत्य. स्थापना  
 विषयक सत्य Truth relating to  
 Sthapana Niksepa, This is  
 the Sthapana truth ठा० १०,  
 पन्न० ११, —पुरिस. पु० (पुरुष)  
 स्थापना पुरुष, पुरुषनी स्थापना पुरुष की  
 स्थापना Imagination of a man.  
 ठा० ३, १,  
 टाण पु० न० (स्थान) (१) निवास निवास,  
 रहना Dwelling सू० १, ११,  
 निसी चू० १, (२) कारण, निमित्त, हेतु  
 कारण, निमित्त, हेतु Reason, A  
 cause सू० १, १, २, १, ठा० २, ४,  
 (३) प्रकार, भेद प्रकार, भेद A kind,  
 A variety ठा० १०, (४) आश्रय,  
 आधार, वसति आश्रय, आधार, वसति  
 Support. ठा० ४, ३, (५) भाषाण सूत्र  
 तु अध्ययन, परिच्छेद भाषाण सूत्र का  
 अध्ययन, परिच्छेद A chapter in the  
 Sthananga Sutra ठा० १, २, ३, ४, ५,

—आइय त्रि० (आतिग) क्षयोत्सर्ग  
 क्षरनार कायोत्सर्ग करने वाला One  
 who steps the activities of the  
 body and meditates upon the  
 soul श्रव०

ठाणु पु० (स्थाणु) णुओ 'खाणु' शब्द देखो  
 'खणु' शब्द Vide 'खाणु' —खड  
 न० (खण्ड) (१) स्थाणुते। अणवव  
 स्थाणु का अणवव A part of a  
 branchless trunk (२) त्रि०  
 स्थाणुनी माक्ष० णुओ अने स्थिर रहेलु  
 स्थाणु की तरह ऊँचा और स्थिर रहा हुआ  
 Situated like a branchless  
 trunk नाया० १, १,

टिड्डी स्त्री० (स्थिति) (१) व्यवस्था, क्रम, मर्यादा,  
 नियम व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, नियम  
 Arrangement ठ० ४, १,

(२) स्थान, अवरुथान स्थान, अवस्थान  
 Staying, Residence सम० २,

डमण न० (दम्भन) डंल देवानु शस्त्र दागने  
 का शस्त्र विशेष A kind of weapon  
 विव० १, ६,

डमणा स्त्री० (दम्भना) (१) लाल देवेते  
 दागना Branding or marking  
 with a hot iron (२) माया, धपट,  
 धल, धगुते माया, कपट, दम, वञ्चना  
 Cheating, Deceiving पण्ड २, १,

डिडिम न० (डिडिम) डिसानु पात कासा का  
 पात्र A vessel of Bell-metal  
 आया० २, १, ११, ३,

डिडि पु० (डिडि) ऐ नामतु ऐ० पक्षी पक्षि  
 विशेष A kind of bird पण्ड० १, १,

साइ स्त्री० (नति) (१) नमन नमन Saluta-  
 tion. (२) अदसान, अत अवनान,  
 अन्त End राय० ४६,

साइय त्रि० (नयिक) नयथाणु, आस अलि-

भायथाणु नय युक्त, अभिप्राय विशेष  
 वाला Having a special view  
 सम० ४०,

साईवइ पु० (नदीपति) समुद्र, सागर समुद्र,  
 सागर A sea पण्ड० १, ३,

सागूल न० (साङ्गूल) पूछु पुच्छ, पूछ  
 A tail ठ० ४, २,

सागोल न० (साङ्गूल) णुओ 'सागूल' शब्द  
 देखो 'सागूल' शब्द Vide सागूल नाया०  
 १, ३,

सांदण न० (नन्दन) सतोप सतोप Satis-  
 faction, Contentment नदी०  
 ४२,

सादमई स्त्री० (नदमती) ऐ० अतगड-स सा  
 तो अ न क्षरनार साधी एक अतकृत साध्वी।  
 A female Anta kita saint  
 अत० ७, १,

सादमाणग पु० (नन्दमानक) पक्षीनी ऐ०  
 नति पक्षी की एक जाति A kind of  
 bird पण्ड० १, ३,

सादा स्त्री० (नन्दा) पश्चिम उच्यक पर्वत उपर  
 पसनारी ऐ० टिड्डीकुमारी देवी पश्चिम रुचक  
 पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी  
 Name of a Dikkumari god-  
 dess living on the west of the  
 mount Ruchaka ठ० ८,

सादि पु० स्त्री० (नन्दि) (१) आर प्रक्षरना  
 वाला त्रि० ऐ० साथेते आवाज बारह  
 प्रकार के वाद्यों का एक ही साथ आवाज  
 Co-sound of musical instru-  
 ments of twelve kinds पण्ड०  
 २, १, (२) मतिज्ञान आदि पात्र ज्ञान  
 मतिज्ञानआदि पात्रों ज्ञान Knowledge  
 नदी० (३) समृद्धि समृद्धि Prosperity,  
 Wealth, Desire अणुजो० ४,  
 पा२४, अलिखाया वाञ्छा, अभिलाषा

चरह Desiro, Ambition सम००३१,  
 (५) गरधरर ररभनी ऐक भूषणर गरन्धरर  
 रररर की एक मूर्छणर An intonation  
 of the Gandhara (the third of  
 the seven primary notes)नरर  
 ठर० ७, (६) ऐ नरभनर ऐक ररररुभरर  
 स्वनरर ररररर एक ररररुकर Name of  
 a prince वरवर० १, १,  
 ररदीरररर पु० (नन्दीररर) ररररररर ररभररदीन  
 ऐक ररर ररररररर कर रररररलीन एक  
 रररर Name of a king contem-  
 porary with Pandavas नररर०  
 १, १६  
 ररररररर ररर (नरररर) नरररर रररधी नरररर  
 ररररर Relating to constella-  
 tion ज० ५० ७,  
 ररगवरर पु० (नरगवर) रररर ररररर ररररर  
 The best mountain नररर० १, १,  
 ररडी ररर (नदी) नररनी ररर नरर की ररर  
 A wife of an actor ठर० ६,  
 ररररररर ररर (नरररर) (१) ऐ नरभनी ऐक  
 ररर स्वनरर ररररर एक ररर Name of  
 a woman (२) ररररधरर कथर ररररर  
 ऐक ररररररर ररररधरर ररर कर एक रर-  
 रररर A chapter in the Gnata-  
 dharm-Katha Sutra नररर० २,  
 रररकठ. पु० (नररकठ) रररनी ऐक रररर ररर  
 की एक रररर A kind of jewel  
 ररर० ६७,  
 ररर पु० (नरर) ऐ नरभनर ररररभररर ऐक  
 ररर ररररररर कर एक स्वनरर ररररर ररर  
 Name of a son of Vaishrama  
 ठर० ३, ८,  
 रररर० ररर (नरर) (१) नरररर, ररररर ररर  
 नरररर, दुलररर, ररररर ररर A newly  
 married woman, A bride ररर०

१, ३, २, २, (२) रररर दीररर ररर  
 नररर ररर ररर ररर ररर ररर ररर  
 दीररर ररर ररर ररर ररर ररर ररर  
 A female saint who initiated  
 for three years वव० ४,  
 रररररररररररररर. ररर (नरररररररररर-  
 वररर) रररर ररर ररररर ररर ररर  
 रररररर. रररर ररर रररररर रररर ररर  
 रररररर Non-believer of the  
 salvation and next-world.  
 ठर० ८,  
 ररररर ररर (नरररर) नरररररर नरर ररर.  
 Having nails दस० ६, ६२,  
 ररर ररर (रररर) ररर, ररर ररर, ररर.  
 Knowledge ठर० २, ३,  
 रररर पु० (नरर) ऐ नरभनर ऐक ररररर.  
 स्वनरर ररररर एक ररररर Name of a  
 gentleman ठर० ३, १,  
 रररररर पु० (नरररर) ऐक ररररर रररररर  
 वनरररर रररर A kind of vege-  
 table भग० १०, ७,  
 रररर ररर (नरररर) नरररररर नररर-ररर.  
 Just, Upright, Equitable ररर०  
 १, १३, ६,  
 रररर. पु० (नररर) रररररर रररर रररर.  
 रररररर रररर ररर ररर Six religous  
 actions-Samayika etc ररररर०  
 ३१,  
 ररररररर पु० (नररररर) ऐक रररर एक  
 रररर A name of a Rishi ररर०  
 १, ३, ४, २,  
 रररररररररररररर पु० (नरररररररररर) ऐ  
 नरभनर ऐक ररर ररर रररर Name of  
 a basin ठर० २, ३,  
 रररली ररर (नररली) ऐक रररररर रररर.  
 ररर रररर A kind of gambling.

दस ३, ४,

खाली स्त्री० (नाडी) नाडी, नस नाडी, नस,  
सिरा Any tubular organ of  
the body (such as an artery,  
vein) विवा० १, १,

खि. अ. (नि०) (१) नियतता, नियम नियत-  
पन, नियम Restraint, Confine-  
ment ठा० १०, (२) अधिकपण्य,  
अतिशय आधिक्य, अतिशय Intensity  
उत्त० १, विवा० १, ६, (३) अभिमुखता,  
सन्मुखता अभिमुखता, सम्मुखता  
Proximity Nearness सू० १,  
६, (४) अल्पता, लघुता अल्पता,  
लघुता Loneness पर्यह० १, ४,  
—( निर् ) (१) निश्चय निश्चय Deter-  
mination उत्त० ६, (२) अधिकता,  
अतिशय आधिक्य, अतिशय Excess,  
Intensity, उत्त० १, (३) प्रतिषेध,  
निषेध प्रतिषेध, निषेध Prohibition  
(४) अधिर्भाव बहिर्भाव Outward-  
ness सम० १३७, सु० च० १६८, (५)  
निर्गमन, निष्क्रमण निर्गमन, निष्क्रमण  
Going out ठा० ३, १, सू० च० १३,

खिअडिपुत्त पु० ( निर्गन्धीपुत्र ) (१) अेक  
विद्याधरना पुत्र, जेनु अणु नाम सत्यदि  
हेतु एक विद्याधर का पुत्र, जिसका दूसरा  
नाम सत्यकि था Name of a Vidya-  
dhar's son whose second name  
was Satyaki ठा० १०, (२) अेक जैन  
मुनि, जे भगवान महावीर आभीना शिष्य  
हेतु एक जैन मुनि, जो भगवान महावीरका  
शिष्य था Name of a Jain saint  
who was a disciple of Lord  
Mahavira भग० २, ८,

खिअव पु० (नितम्ब) दूँदा, थापो (औने) कटी  
प्रदेश, The buttocks, Posteriors

(of a woman) ज० प० ६,

खिअट्टि स्त्री० (निवृत्ति) (१) अेक प्रक्षरना  
अभ्यवसाय अथ्यवसाय विशेष A parti-  
cular disposition सम० २६,

खिअण न० (निदान) आ० ७, सावध वेपार.  
आरभ, सावध व्यापार Destructive  
operation सू० १, २०, १,—कड त्रि०  
( कृत ) जेहे पोताना शुभानुष्ठानना इधनी  
अभिलाषा इरी हुयते जिसके अपने  
शुभानुष्ठान के फलकी अभिलाषा की हो  
वह One who has wished the  
fruit of his good or bad deeds.  
सम० १२३,—कारि त्रि० (कारिन्) णुअे  
'खिअणकड, श० ६. देवो 'खिअणकड;  
शब्द Vide खिअणकड ठा० ६,

खिअण पु० ( नियाग ) प्रशस्त धर्म प्रशस्त  
धर्म A praiseworthy religion.  
सू० १, १, २, २०,

खिअवाइ त्रि० ( नित्यवादिन् ) नित्यवादी;  
पद्यर्थने नित्य माननार नित्य वादी,  
पदार्थ को नित्य मानने वाला, One who  
believes in continuance of  
substances ठा० ८,

खिअ त्रि० ( नैतिक ) नित्यनु नित्य का.  
Constant, Regular आया० २,  
१, १, ६,

खिअय त्रि० ( नियुत ) सुसगतसु, शिष्य.  
सुसगत, सुश्रिष्ट Well-arranged or  
united नाया० १, १८,

खिअ त्रि० (नियत) नियम अ० नियम युक्त,  
Self-restrained, Self-governed.  
सू० १, ६, ६,

खिअोग, पु० (नियोग) मोक्ष, मुक्ति मोक्ष;  
मुक्ति Salvation, Final emanci-  
pation सू० १, १६, २,

खिअि. त्रि० ( निष्काङ्क्ष ) अभिलाषा

रहित. अभिलाषा रहित. Free from  
desire, Wishing nothing उक्त०  
१६, ३४,  
शिकण त्रि० ( निष्कण ) क्षुद्र रहित, अत्यंत  
गरीब धान्य कण रहित, अत्यंत गरीब  
Extremely poor विवा० १, ३  
शिकखेव पु० ( निक्षेप ) परित्याग परित्याग,  
मोचन Abandonment, Quit-  
ting आया० २, १, १, १,  
शिकण त्रि० ( नग्न ) वस्त्र रहित, नाग्न नगा,  
वस्त्र रहित Naked, Nude सूय० १,  
२, १, ६,  
शिकण न० ( निकरण ) क्षरत्, छेदु कारण,  
हेतु A cause, A reason भग० ७, ७,  
शिकण त्रि० ( निगुण ) गुण रहित गुण रहित  
Virtueless, Worthless पृष्ठ० १, २,  
शिकणाल पु० न० ( निर्गाल ) रस निचोड, रस  
Juice, तदु० ४१,  
शिकघाद्य त्रि० ( निर्घातित ) (१) आघात प्राप्त,  
भारेक्षु आघात प्राप्त, आहत Beaten  
(२) विनाश करेक्षु व्यापदित, विनाशित  
Destroyed नाया० १, १३,  
शिकचवाय पु० ( नित्यवाद ) पदार्थने अज्ञान  
नित्य मानने मत पदार्थों को एकान्त  
नित्य मानने वाला मत Doctrine  
believing in absolute eternity  
of things सम० १८,  
शिकजवग त्रि० ( निर्यापक ) (१) आराधक,  
आराधना करने वाला आराधक, आराधन  
करने वाला An adorer, A wor-  
shipper ओघ० नि० २८, (२) पु०  
अक्ष जैन मुनि, केने शिष्यना मोटा  
प्रायश्चित्तने अवेद विभाग करे के ते निष्ठा  
वी शके जैन मुनि विशेष, जो शिष्य के  
भारी प्रायश्चित्त का भी ऐसी तरहसे विभाग  
करदे कि जिससे वह उसे निवाह सके A

particular Jain Saint who  
can define such methods that  
his pupil can endure to get  
out of the heavy cause डा० ८,  
भग० २५, ७,

शिकजाणिय. त्रि० ( नैर्याणिक ) निर्याण स० ४,  
निर्गम स० ४ निर्याण सबधी, निर्गम  
सबधी Relating to going out or  
departure भग० १३, ६, निसी० चू० ८,  
शिकजिरण त्रि० ( निजीर्य ) अथवा 'शिकजिरण'  
शब्द देखो 'शिकजिरण' शब्द Vide  
शिकजिरण डा० ४, १,

शिकजुहरया स्त्री० ( निर्यूहया ) अक्षर अक्षरु ते  
निस्तारण, बाहर निकालना Drawing  
out वच० १, (२) परित्याग परित्याग  
Quitting, Leaving डा० ४, २,  
शिकजूड त्रि० ( निर्यूड ) रहित रहित  
Destitute of, Void of दस०  
८, २२,

शिकट्टिय त्रि० ( नैष्ठिक ) निष्ठा युक्त, निष्ठावाणु.  
निष्ठा युक्त, निष्ठा वाला Fixed, Firm.  
पृष्ठ० २, ३,

शिकणमेस त्रि० ( निर्निमेष ) (१) चेष्टा रहित  
चेष्टा रहित Motionless (२) अनु-  
पयोगी अनुपयोगी Useless डा०  
५, २,

शिकथार पु० ( निस्तार ) (१) छुटकारे, मुक्ति  
छुटकारा, मुक्ति Final emancipa-  
tion (२) अयाप, रक्षा बचाव, रक्षा  
Escape, Rescue, Saving (३)  
उद्धार उद्धार Raising, Lifting up  
नाया० १, ६, सु० च० २६६,

शिकड्ड त्रि० ( निर्दग्ध ) आणुक्षु, अरुम करेक्षु.  
जलाया हुआ, भस्म किया हुआ Burnt,  
Reduced to ashes अत० ५, १,  
शिद्देश पु० ( निर्देश ) अथन कथन Telling,

Saying म० द, (२) प्रतिपादन, निरूपण  
प्रतिपादन, निरूपण. Explaining,  
Proving उक्त० १, २, नदी०  
शिखाडण. न० (निर्घाटन) अक्षर अक्षयु ते  
निस्सारण, निष्कासन, बाहर निकालना  
Drawing out, Pulling off  
पणह० १, १,  
शिखोमास त्रि० (स्निग्धावभास) यमश्लु,  
स्निग्धताथी यमश्लु चमकीला, स्निग्ध-  
पन से चमकता Shining, Bright.  
नाया० १, १,  
शिष्पुलाय त्रि० (निष्पुलाक) अरित्र दोषथी  
रहित चारित्र-दोष से रहित Destitute  
of faults in conduct, Of good  
behaviour दस० १०, १६,  
शिष्पेडय त्रि० (निष्पेडक) अक्षर अक्षर  
बाहर निकालने वाला. One who  
draws out स्य० २, २, ८५,  
शिष्पेहि अ० (निर्वहिस) अत्यन्त अक्षर  
अत्यन्त बहार Extremely out.  
ड० ६,  
शिष्पेरिय त्रि० (निर्मैरित) प्रसारण, फैला-  
वेणु प्रसारित, फैलाया हुआ Spread  
उक्त० १२, २६,  
शिष्पित्त पु० (निष्पित्त) जैन साधुओं की निष्ठा  
का एक दोष A defect in begging  
of Jain saints ड० ३, ४,  
शिष्पित्त पु० स्त्री० (नैम) जमीनथी उच्च  
नीक्षणतो प्रदेश जमीन से ऊँचा निकलता  
प्रदेश A hill, A rising ground  
राय० २७,  
शिष्पिराम त्रि० (निरभिराम) अशुद्ध,  
अशुद्ध असुन्दर, अचारु Not beauti-  
ful or charming पणह० १, ३,  
शिष्पिराम त्रि० (निरास्वामि) छिद्र रहित,

नहीं टपकना नहीं टपकने वाला, छिद्र  
रहित Not oozing, Not porous  
उक्त० २३, ७१,  
शिष्पिराव त्रि० (निरावाध) अपाधा रहित;  
अक्षर रहित आवाधा रहित, हरकत  
रहित Undisturbed, Unobs-  
tructed ड० १०, आव० ४,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) नाना पेटवाणु ;  
अनुद्धर छोटा पेट वाला, अनुद्धर Hav-  
ing a slender belly पणह० १, ४,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) रोका हुआ  
Obstructed, Checked नाया०  
१, १,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) उपकार नहीं करने वाला Not  
encouraging or favouring  
ड० ४, ३,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) रोग रहित रोग  
रहित Diseaseless, Free from  
sickness नाया० १, १,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) रोक, अट-  
कायत रुकावट Hindrance ;  
Obstruction पणह० १, १,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निरुद्र) पुच्छु ते-  
उद्धर्तन, पोंछना Rubbing and  
cleaning. आया० २, ३, २,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निवर्तन) (१) निवृत्ति ;  
प्रवृत्ति निरोध निवृत्ति, प्रवृत्ति निरोध  
Desisting from work, Inacti-  
vity (२) जहाँ रास्ता अथ यहाँ डाय ते  
स्थान जहाँ रास्ता बन्द होता हो वह स्थान  
A place where a road is  
terminated नाया० १, २,  
शिष्पिरुद्र त्रि० (निर्विन्न) विशिष्ट ज्ञानथी रहित  
विशिष्ट ज्ञान से रहित Devoid of  
excellent knowledge तदु० १५,



शिवुडिड. स्त्री० ( निवृद्धि ) (१) वृद्धिने  
अभाव वृद्धि का अभाव, Absence of  
increments डा० २, ३, (२)  
दिवस नांनो थवेते दिन की छोटाई  
Lessening of a day भग०  
शिवेअग्रा स्त्री० ( निवेदना ) ऋ० 'शिवे-  
यण' शब्द. देवो 'शिवेयण' शब्द Vide  
'शिवेयण'. नाया० १, —पिंड पु०  
( पिण्ड ) देवता आगण धरनामा आयतु  
अन्न आदि, निवेद देवता को अर्पित अन्न  
आदि, नैवेद्य An offering or  
oblation निली० चू० ११,  
शिवेसण न० ( निवेशन ) घर गृह, घर A  
house उक्त० १३, १८,  
शिवेवावण. न० ( निर्वापण ) धुआवपु ते,  
ओणवपु ते बुझाना, विध्यापन Blow-  
ing or putting out, Exting-  
uishing दस० ४,  
शिविविस्मरण न० ( निविशमान ) (१) अेक  
प्रकारनु आरित्र चारित्र विशेष A kind  
of behaviour डा० ३, ४, (२)  
त्रि० ते आरित्र ते पाणनार, उस चारित्र  
को पालने वाला One who obser-  
ves such behaviour डा० ६,  
शिवुड त्रि० ( निवृत्त ) अयित श्रेल अचित्त  
किया हुआ Made unconscious  
दस० ३, ६-७,  
शिवेहृणिया स्त्री० ( निर्वेधनिका ) अेक  
प्रकारनी पनस्पति वनस्पति-विशेष. A  
kind of vegetable सूय० २, ३, १६,  
शिसड पु० ( निवध ) अण्ड बैल, साड  
An ox सू० प० ४,  
शिसिरण न० ( निस्सर्जन ) त्याग त्याग  
Abandonment, Quitting  
नाया० १, १६,  
शिसीहिआ स्त्री० ( नैवेधिकी ) श्मशान

भूमि, श्मशान-भूमि A cemetery.  
अणुजो० २०,  
शिसीहिआ स्त्री० ( निशीयिका ) आयाग  
सूत्रनु अेक अध्यायन आचारङ्ग सूत्र का  
एक अध्यायन A chapter in Acha-  
ranga sutra आया० २, २, २,  
शिसेवणा स्त्री० ( निपेवणा ) सेवा सेवा,  
भजना Worship उक्त० ३२, ३,  
शिस्ताण. न० ( निश्राण ) अवयव  
निश्रा, अवलम्बन Support, A prop  
पण्ह० १, ३,  
शिहारिम. न० ( निहारिम ) जेना मृतके  
शरीरने अहार करीने सम्भार करवाया  
आवे तेनु भरषु जिसके मृतक शरीर को  
बाहर निकाल कर सस्कार किया जाय उसका  
मरण Death of a man whose  
corpse is carried to be burnt  
भग (२) त्रि० दूर जना दूर जाने वाला.  
Going away पण्ह० २, ५,  
शिहि पु० ( निधि ) अकवर्ती राजनी सपत्ति  
नैसर्प आदि नव निधि चक्रवर्ती राजा की  
सपत्ति विशेष, नैसर्प आदि नव निधि  
Riches of the Chakravarti  
डा० ६,  
शीरय. पु० ( नीरजस् ) अह देवजोडनु अेक  
विमान ब्रह्म देवलोक का एक प्रस्तर. A  
celestial aerial car of Brahma  
Devaloka डा० ६,  
शील पु० ( नील ) (१) अहाधिप्रायक देवता  
अहाधिप्रायक देव विशेष A presiding  
god of planet डा० २, ३, (२)  
अेक पर्वतनु नाम पर्वत विशेष Name  
of a mountain डा० २, ३,  
शीलोभास पु० ( नीलावभास ) अहाधिप्रायक  
अेक देव अहाधिप्रायकदेव-विशेष A pre-  
siding god of planets डा० २, ३,

शुक्लराज त्रि० ( निपण्य ) षोडश वैश ह्यत्रा,  
उपविष्ट Sat नाया० १, २,

शेउराण न० ( नैपुण्य ) निपुण्यता, यतुराध  
निपुण्यता, चतुराई Dexterity, Skill,  
Proficiency दस० ६, २, सु० च०  
२६३,

शेद्विअ त्रि० ( नैष्टिक ) छेडे रडेतर पर्यन्त-  
वर्तौ Living in extremity of  
border पयह० २, ३,

शेम न० ( नेम ) मूण, ०४३ मूल, जड A  
100 पयह० १, ३,

शेरइअ त्रि० ( नैष्टिक ) नैष्टिक्य भुणुणु  
नैष्टिक कोण, दक्षिण-पश्चिम विदिशा सबधी  
South-western अणुजो० २१२,

शेवस्थिय त्रि० ( नेपथित ) णेपु वेश धारथु  
अर्थो छेयते जिसने वेप भूषा की हो वह  
One who has attired himself  
विवा० १, ३,

शेडुर पु० ( नेडुर ) (१) अेक अनार्थ देश  
एक अनार्थ देश Name of an Ana-  
ryan country (२) तेभा वसनारी  
अनार्थ जाति उसमें वसने वाली अनार्थ  
जाति An Anaryan tribe living  
in that country. पयह० १, १,

शेगौरण त्रि० ( नोगौर ) अथार्थ गुणु  
निष्पन्न नाम नहीं अथार्थ Impio-  
per अणुजो० १४०,

शेजुग न० ( नोयुग ) न्यून युग न्यूनयुग  
Defective Yuga सू० प० ११,

शेतह. त्रि० ( नोतय ) णेपु छेपु णेध अे  
तेपु न छेयते जो वैसा ही न हो.  
Uneal ठा० ४, २,

शेहाणिका स्त्री० ( स्तानिका ) नान क्रिया  
स्नान क्रिया Bathing पयह० २, ४,

शेच्छिय. त्रि० ( नैच्छित ) छच्छना अविषय,  
अनविद्वेषित इच्छा का अविषय, अन-

भिलपित Not desired or wished.  
जीवा० ३,

शेहाविअ पु० ( नापित ) छमम हजाम ;  
नाई A barber, A shaver  
—पवेसय ( प्रवेसक ) छममनी छेयणी  
नाई की अपने उपकरण रखने की थैली.

A bag of a barber, उत्त० २,

तती स्त्री० ( तन्त्री ) आमानी छेरी, तत.  
तौत, चमडे की रस्सी A leathern  
string विवा० १, ६,

तजाय त्रि० ( तजात ) समान जाति वाणु.  
समान जाति वाला, तुल्य-जातीय Of  
the same kind आव० ४,

तट्ट न० ( तट्ट ) अेक प्रक्षरतु मुहूर्त सुहूर्त-  
विशेष A kind of Muhurta ( a  
period of 48 minutes) सम० २१,

तट्टव न० ( तट्टव ) अेक प्रक्षरतु मुहूर्त-  
सुहूर्त-विशेष Vide 'तट्ट' सम० २१,

तट्टार पु० ( तट्टार ) अछोरानतु थारतु  
मुहूर्त अछोरान का बारहवाँ सुहूर्त The  
twelfth Muhurta of a day.  
सू० प० १०,

तट्टि त्रि० ( तट्टि ) पतणु तनूकृत, कृशता  
वाला Thin, Slender सू० १, ७,  
३०,

तडिअ त्रि० ( तड ) छेलाअेणु विस्तृत,  
फैला हुआ Spread नाया० १, ८,

तणहारय त्रि० ( तणहार ) धास वेयनार.  
घास काट कर बेचने वाला Grass-  
dealer अणुजो० १४६,

तरण स्त्री० ( तन् ) छपिआगुलारा नामनी  
पृथ्वी ईपत्यागभारा नामक पृथिवी An  
earth named Ishatpragbhara.  
ठा० ८, —अतरा स्त्री० ( कतरा )  
सिद्ध शिवा सिद्ध शिवा The region  
of Salvation, सम० २२,

तल्पत्र त्रि० (तल्पग) सुप्त जनार शय्या पर जाने वाला, सोने वाला One who goes to the bed पयह० १, २, तय. न० (तत) ऐक प्रकारनु वाजि त्र वाद्य-विशेष A kind of musical instrument टा० २, ०, तल पु० न० (तल) ऐक प्रकारनु वाजि त्र वाद्य-विशेष A kind of musical instrument राय० ४६, तह पु० (तथ) दास, नेकर आज्ञा-कारक, दास, नौकर A servant टा० ४, २, तासण त्रि० (तासन) त्रास उपजाने वाला An oppressor, A tyant पयह० १, १, तिओय न० (त्योजस्) ऐक विषम राशि विषम राशि-विशेष. An uneven number टा० ४, ३, तिकल्ल न० (त्रैकाल्य) त्रयु कालो विषय तीनों काल का विषय An object of the three times & e the past, present and future पयह० २, २, तिक्ख त्रि० (तीक्ख) डंडोर, तिक्खु परुष, कडोर Haish, Severe, Stern भग० १६, ३, तित्तिअ पु० (तित्ति) (१) ऐक भ्लेच्छ देश भ्लेच्छ देश विशेष An Anaryan country (२) ते देशभा रहनेवाली भ्लेच्छ जाति An Anaryan tribe of that country पयह० १, १, तिवट्ट पु० (त्रिवट्ट) भरतक्षेत्रना भावी नवमा वासुदेव भरत क्षेत्र के भावी नवम वासुदेव The future ninth Vasudeo of Bharat Kshetra सम० १२४, तिरिअ त्रि० (तैरिअ) तिर्ययु तिर्यच का Relating to an animal सू० १,

२, २, १५ ; तिवग्ग पु० (त्रिवर्ग) धर्म, अर्थ अने काम ये त्रयु पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ The three or four principal objects of human life, & e Religion, Wealth and Desire टा० ४, ४, तीसइम त्रि० (त्रिश) ऐक साथे थैद दिवसना उपवास. लगातार चौदह दिनों का उपवास. Fourteen fasts at a time नाया० १, १, तीसग त्रि० (त्रिशक) तीस वर्षनी उमरवाणु तीस वर्ष की उम्र वाला Of the thirty, Thirty years old तदु० १७, तुच्छ त्रि० (तुच्छ) (१) शून्य, भाकी शून्य, रिक्त Empty आया० (२) अपूर्ण अपूर्ण Not full टा० ४, ४, तुडिअ न० (तुडिक) जनानखाना अन्त पुर, जनानखाना A harem सू० ५० १८, तुमनुम पु० (त्वन्म) (१) तु करवाणु वयन, तिरस्कार वयन तुकार वाला वचन, तिरस्कार वचन A word of contempt. सू० १, ६, २७, (२) वाक्-कलह वाक्-कलह Woidy quarrel उक्त० २६, ३६, तुला स्त्री० (तुला) १०५ अथवा ५०० पणु ऐक माप १०२ या २०० पल का एक माप A measurement of 105 or 500 seconds अणुजो० १२४, तेंदु-तेंदुअ-ग पु० (तिन्दुक) (१) ऐक प्रकारनु वृक्ष वृक्ष विशेष, तेंदु का पेड A kind of tree पत्र० १, टा० ८, तेल न० (तैल) माण्डव्य गोत्रनी ऐक शाखा गोत्र-विशेष, जो माण्डव्य गोत्र की एक शाखा है. A family which is the branch of the Mandavya one टा० ७,

तेल्लग न० (तैलक) अेक प्रकारनेा दद्र सुरा-  
विशेष A kind of liquor जीवा०३,  
तोयधारा स्त्री० (तोयधारा) अेक दिद्रकुमारी  
देवी एक दिद्रकुमारी देवी A Dik-  
kumari goddess ठ० ८,  
थावय पु० (स्थापक) समर्थ छेत्तु, स्वपक्ष-साधक  
छेत्तु समर्थ-हेत्तु, स्वपक्ष हेत्तु A power-  
ful cause, A sound reason ठ०  
४, ३,  
दंड पु० (दण्ड) आज्ञा आज्ञा. A com-  
mand, An order (२) पु० न० सैन्य,  
धरकर सैन्य, लखर A force, An  
army. पण्ह० १, ४, ठ० १, ३,  
दडिम त्रि० (दण्डिम) (१) दधी छत्पन थयेल  
दण्ड से निर्वृत Produced by fine  
(२) न० सजा कगीने वसुल धरेलु द्रव्य  
सजा करके वसुल किया हुआ द्रव्य Col-  
lected wealth by punishment.  
नाया० १, १,  
दत त्रि० (दान्त) जितेन्द्रिय जितेन्द्रिय One  
who has conquered his pas-  
sions or subdued the senses  
नाया० १, १४,  
दतकार पु० (दन्तकार) दधी दत छपर  
धरीगरी करनार शिदपी दत बनाने वाला  
शिल्पी An artist who works in  
ivory अणुजो० १४६,  
दतकुडी स्त्री० (दन्तकुली) दध दद, ददू  
A molar tooth तदु० ४१,  
दतधावण न० (दन्तधावन) (१) दत साध  
धरवाते दौत साफ करना To clean  
the teeth (२) दतधु दतवन A  
stick used as a tooth-brush.  
पण्ह० २, ४,  
दसखिआ. स्त्री० (दर्यानिका) दर्शन, अध-  
लोकन दर्यान, अवलोकन Obser-

vation नाया० १, १,  
दग पु० (दक) धवणु समुद्रमा रडेल अेक  
आवास-पर्वत लवण समुद्र में स्थित एक  
आवास-पर्वत A particular moun-  
tain situated in the Lavana  
sea सम० ६८,  
दगगवम पु० (दकगर्भ) वादण अन्न, बादल.  
A cloud ठ० ४, ४,  
दद त्रि० (दद) समर्थ समर्थ, लम.  
Powerful, Able सूय० १, ३,  
१, १,  
ददत पु० (दत्त) (१) योथा यणहेवना पूर्व  
धवतु नाम चतुर्थ बलदेव के पूर्व-जन्म  
का नाम Name of the fourth  
Baldeo in the previous birth.  
सम० १५३, (२) न० दान दान, उत्सर्ग.  
Donation, Charity उच्च० १,  
ददर पु० (ददर) तेलनी कुपी पीगरे छपर  
आधवाभा आवतु धपडु कुतुप आदि के  
सुह पर बाधा जात कपडा A cloth  
tied on the leather-bottle of  
oil etc राय० ६८, १००,  
ददरिया. स्त्री० (ददरिका) प्रहार, आघात.  
प्रहार, आघात. A blow नाया०  
१, १६,  
ददपण त्रि० (ददपण) अदधर जनक. दद-  
जनक An originator of pride.  
पण्ह० २, ४,  
ददरिअ (दीर्घ) धडेलु, थिरेलु फादा  
हुआ, विदारित. Torn अत० ३, ८;  
ददरिसखिज्ज न० (दर्यानीय) (१) आकृति,  
रूप आकृति, रूप A form, A  
figure, A shape (२) अवलोकन.  
अवलोकन Observation, Inspec-  
tion तदु० ३६,  
ददरिअ त्रि० (ददरिअ) (१) सुधर, धव्य.

सुन्दर, शुद्ध Grand, Beautiful  
 सूय० १, १६, (२) घासनु ७ गल  
 घास का जगल, वन में घास के लिए  
 सरकार से अवकाश भूमि A jungle  
 of grass आया० २, २, ३१, (३)  
 घास पजेरे द्रव्यतो समूह तृण आदि द्रव्य-  
 समुदाय A collection of sub-  
 stances of grass etc सूय०  
 २, २, ८,  
 दसग त्रि० (दशक) दश वर्षनी उमरनु  
 दश वर्ष की उमर का Ten years old  
 तदु० १७,  
 दाअ पु० (दाय) दान दान, उत्सर्ग  
 Alms नाया० १, १,  
 दाओयरिय त्रि० (दाकोदरिक) ७लोदर  
 रोगवाला जलोदर रोग वाला Diop-  
 sical, A kind of disease  
 विवा० १, १७,  
 दामडिड पु० (दामर्दि) सैधर्म देवलोकना  
 धर्मना वृषभ सैन्यना अधिपति देव  
 सौधर्म देवलोक के वृषभ सैन्य का  
 अधिपति देव A commanding  
 god of the army of bullocks  
 of the Indra of the heaven  
 called Sandharma ङ० १, १,  
 दामी खी० (दामी) ऐक लिपि लिपि-  
 विशेष A kind of alphabet  
 सम० ३२,  
 दारुहज्ज त्रि० (दारुकीय) दादडनु अनेखु  
 काष्ठ-निर्मित Made of wood  
 —पदवय पु० दादडने अनेखी पर्वत  
 काष्ठ का बना हुआ मालुम पदता पर्वत  
 A mountain made of wood  
 राय० ७५,  
 दिज्ज त्रि० (देव) (१) देवा योग्य देने  
 योग्य Worthby to give (२) ने

धर्शक्य जो दिया जा सके, Which  
 can be given (३) पु० न० ऐक  
 प्रदर्शने कर कर-विशेष A kind of  
 tax. विवा० १, १,  
 दिट्ट. न० (दृष्ट) दर्शन, अवज्ञान दर्शन,  
 अवलोकन Observation, Inspec-  
 tion ङ० २, १,  
 दिएण त्रि० (दत्त) स्थापित निवेशित  
 Established पण० १, १,  
 दित्त त्रि० (दीप्त) (१) प्रसिद्ध प्रसिद्ध  
 Famous, Renowned भग० २६,  
 ३, (२) मारनार मारने वाला A  
 slayer, A killer ओष० नि० ३०२  
 दीणा त्रि० (दीन) (१) दुःखी दुःखित,  
 दुःखी Unhappy, Afflicted नाया०  
 १, १, (२) छीन, यून Wanting;  
 Diminished, Less ङ० ४, २,  
 (३) शोकगुर, शोकमस्त, शोकालुर Sor-  
 rowful, Distressed, Grieved.  
 विवा० १, २,  
 दुआराह त्रि० (दुराराह) नेरी आराधना  
 मुशकली थी थथ शक ते जिसका आराधन  
 कठिनाई से हो सके वह Difficult to  
 worship पण० १, ४,  
 दुडुह, दुडुम पु० (दुन्दुम) ऐक महाग्रह.  
 ज्योतिष्क विशेष, एक महाग्रह A great  
 constellation ङ० २, ३,  
 दुक्खम त्रि० (दुक्ख) (१) दुःख, दुःख थी  
 सहन करी शक्य ऐवु दुःख Diffi-  
 cult to endure, Unbearable.  
 उक्त० २०, ३१,  
 दुक्खवासिया स्त्री० (दुःखसिका) वेदना-  
 पीडा वेदना, पीडा Pain, Afflic-  
 tion ङ० ३, ४,  
 दुक्खुत्तर त्रि० (दुःखोत्तर) ने दुःखे करी  
 पार पभाडी शक्य ते, नेने पार करवां

भुक्षेव षडे ते जो दुख से पार किया जाय, जिसको पार करने में कठिनाई हो  
Impenetrable, Difficult to cross पण्ह० १, १,

दुग्ग त्रि० (दुर्ग) ने दुःखी लक्ष्मी शक्य ते जो दुख से जाना जा सके  
Difficult to know. सू० १, ५, १, ८,

दुग्गह. स्त्री० (दुर्गति) (१) विपत्ति, दुःख विपत्ति, दुःख. Calamity, Adversity. (२) दुर्दशा, भयान्य क्षत दुर्दशा, बुरी अवस्था A distressful condition (३) दरिद्रता कगालियत, दरिद्रता Poverty, पण्ह० १, १, ४० ३, ४,

दुक्खिरणा न० (दुस्वीर्यं) अशुभ सचिंत, सचिंत धरेल अशुभ कर्म दुष्ट-सचिंत, एकत्रित की हुई दुष्ट वस्तु A collection of evil Karmas विवा० १, १, नाया० १, १६,

दुग्गाम न० (दुर्गमन्) (१) अपकीर्ति, अपयश अपकीर्ति, अपयश Disgrace, Dishonour (२) भयान्य नाम दुष्ट नाम, खराब आख्या A bad name. (३) अेक प्रक्षरने गर्व. एक प्रकार का गर्व A kind of pride भग० १२, ५,

दुत्थ. त्रि० (दुत्थ) दुर्गत, दुःखी. दुर्गत, दुःस्थित Distressed, Unhappy ४० ३, ३,

दुद्धिद्व त्रि० (दुद्धि) (१) भयान्य रीति देखे बुरी तरह से देखा हुआ Badly seen (२) त्रि० भयान्य दर्शनवाणु दुष्ट दर्शन वाला Of unauspicious sight पण्ह० १, २,

दुद्धजाह स्त्री० (दुग्धजाति) अेक प्रक्षरनी

मदिरा, नेनो स्वाद दुध नेयी हुआछे मदिरा-विशेष जिसका स्वाद दूध के जैसा होता है A kind of liquor having milk like taste जीवा० ३

दुद्धर त्रि० (दुद्धर) (१) नेनो निर्वाह भुक्षेधीथी थध शडे ते दुर्वह, जिसका निर्वाह मुश्किल से हो सके वह Difficult to be borne (२) गहन, विपय गहन, विपय Mysterious, पण्ह० १, ४० ६, दुपय पु० (दुपय) शपित्यपुरेना अेक राजा कापिल्यपुर का एक राजा A king of Kampilyapura नाया० १, १६,

दुप्पयोग पु० (दुप्पयोग) दुःप्रयोग दुःप्रयोग Misuse, Bad use दस० ४, दुप्पयोगि त्रि० (दुप्पयोगिन्) दुःप्रयोग धरनार दुःप्रयोग करने वाला One Misusing पण्ह १, १,

दुप्पडिक्कत त्रि० (दुप्पतिक्रान्त) नेनु प्रायश्चित्त परात्पर न धुं हुआ जिसका प्रायश्चित्त ठीक २ न किया गया हो वह Not properly expiated विवा० १, १,

दुप्परणवणिज्ज. त्रि० (दुप्पज्ञपनीय) धृथी प्रपेधनीय कष्ट से प्रबोधनीय Difficult to understand आया० २, ३, १,

दुब्बद्ध त्रि० (दुब्बद्ध) भयान्य रीति आधेसुं. खराब रीति से बधा हुआ Badly tied. आया० २, ६, ३,

दुब्बलियापूसमित्त पु० (दुर्बलिकपुष्पमित्र) अेनामना अेक जैन आचार्य. स्वनाम प्रसिद्ध एक जैन आचार्य. A Name of the Jain preceptor ४० ७,

दुग्गम त्रि० (दुग्गम) (१) क्षमनशील, अलागी कमनसीब, असागी Unfort-

unate, (२) अप्रिय अप्रिय Dis-pleasing पण्ह० १, २,  
**दुष्भूय पु० न०** ( दुर्भूत ) (१) नुकशान कर-नार नृपु, तीउ पगेरे नुकशान करने वाला जन्तु, टिड्डी वगैर भग० ३, २, A harmful insect & a locust etc (२) न० अमंगल अशिव, अमंगल Inauspicious जीवा० ३,  
**दुभाग पु०** ( द्विभाग ) अर्धु आधा, अर्ध A half भग० ७, १,  
**दुम्मय पु०** ( द्रमक ) बिभारी भिखारी, भीखमगा A beggar दस० ७, १४,  
**दुरभिगम त्रि०** ( दुरभिगम ) (१) न्या दुःपथी न्या शक्य ते जहा दुःख से गमन हो सके वह, कष्ट गम्य Difficult to penetrate टा० ३, ४,  
**दुवण न०** ( दावन ) पीडा उपताप, पीडन Pain, Affliction पण्ह० १, २,  
**दुविभज्ज त्रि०** ( दुर्विभाज्य ) नेने विभाग करवाभा भुशेदी पडेते जिसका विभाग करना कठिन हो वह Difficult to divide टा० २, १,  
**दुव्विजाणय त्रि०** ( दुर्विज्ञेय ) दुःपथी न्या न्या योग्य दुःख से जानने को योग्य, जानने को अशक्य Difficult to understand पण्ह० १, १,  
**दुस्सुमिण पु० न०** ( दुस्वप्न ) पशय २५५५ दुष्ट स्वप्न, खराब स्वप्न A bad dream पण्ह० १, २,  
**दुस्सुय न०** ( दुःश्रुत ) (१) दुष्ट शास्त्र दुष्ट शास्त्र A bad scripture (२) त्रि० साधणवाभा उडुपु श्रुति-कट्टु Harsh in hearing पण्ह० १, २,  
**दुहण न०** ( दोहन ) दोहणु दोह, दोहना To milk पण्ह० १, २,  
**दूरतराग त्रि०** ( दूरतर ) अत्यंत दूर अत्यंत

दूर Distant, Far away पण्ह० १७,  
**देव पु० न०** ( देव ) (१) वादण मेघ (२) आकाश आकाश A sky दस० ७, १२, (३) परमेश्वर, देवाधिदेव परमेश्वर, देवाधिदेव God भग० १२, ६, (४) साधु, मुनि साधु, मुनि, ऋषि A saint भग० १२, ६, —सण्णत्ति-खी० ( सज्जसि ) (१) देवे करेल प्रतिबोध देव-कृत-प्रतिबोध Instructed by a god (२) देवताना प्रतिबोधथी दीधेदी दीक्षा देवता के प्रतिबोध से ली हुई दीक्षा Initiation resulted by Gods instructions टा० १०,  
**वदेउत्त पु०** ( देवपुत्र ) देव-पुत्र देव-पुत्र- A god-son सूय० १, १, ३, ४,  
**देवजस पु०** ( देवयज्ञस् ) ऐक नैन मुनि, एक जैन मुनि A Jain saint अत० ३;  
**देविल पु०** ( देविल ) ऐक प्राचीन ऋषि एक प्राचीन ऋषि A name of an ancient sage. सूय० १, २, ४, ३,  
**देसिअव त्रि०** ( देशितवद ) नेणु उपदेश आया उपायते जिसने उपदेश दिया हो वह. A preceptor, A preacher सूय० १, २, २४,  
**दोज्ज त्रि०** ( दोह ) दोहवा योग्य दोहने योग्य. Milkable आया० २, ४, २,  
**दोनक्किम त्रि०** ( दुर्निक्कम ) अत्यंत कष्ट थी याववा योग्य-अत्यन्त कष्ट से चलने योग्य. Difficult to walk भग० ७, ६,  
**दोपडोआर त्रि०** ( द्विप्रत्यवतार ) पे २थानोभा नेने समावेश थर्ध थडे ते दो स्थानों में जिसका समावेश हो सके वह What can be included into two places टा० २, १,  
**दोमणसिय त्रि०** ( दोर्मनसियक ) पेड पाभेल,

शोक-ग्रस्त खिन्न, शोक-ग्रस्त Depressed, Grieved टा० २, २,  
 घणावह पु० ( घनावह ) जे नामना जेक  
 राजा एक राजा The Name of a  
 king. विवा० २, २,  
 घराण पु० ( घन्य ) (१) जेक जैन मुनि एक  
 जैन-मुनि Name of a Jain saint  
 (२) अष्टुत्तरोववाध सूत्रतु जेक अध्वयन  
 अष्टुत्तरोववाइ सूत्र का एक अध्वयन The  
 chapter in a scripture अष्टुत्त०  
 २, (३) जेक यक्ष एक दत्त A demi-  
 god विवा० २, २,  
 घनाशिहि पु० स्त्री० ( घान्यनिधि ) जेकर  
 धान रखने का घर, कोष्टागार A gran-  
 ary, A store-house, टा० २, ३,  
 घमण न० ( घमन ) वायु भरयो ते वायु-  
 पूरण Blowing. परह० १, १,  
 घमणि-णी स्त्री० ( घमनि-नी ) धमणु भन्ना,  
 घमनी Bellows विवा० १, १,  
 घम्म पु० ( धर्म ) धर्म धर्म Religion  
 —अणुरण त्रि० ( अनुज ) धर्मनु अनु-  
 मोदन करनार धर्म का अनुमोदन करने  
 वाला. A supporter of religion  
 सू० २, २, नाया० १, १८, —पडिमा  
 स्त्री० ( प्रतिमा ) (१) धर्मनी प्रतिमा  
 धर्म की प्रतिमा A vow of religion  
 (२) धर्मनु साधन भूत शरीर धर्म का  
 साधन भूत शरीर The accomplish-  
 ing body of religion टा० १,  
 —पल्लजण त्रि० ( प्ररजन ) धर्मभा  
 आसक्त धर्म में आसक्त One who is  
 absorbed in religion नाया० १,  
 १८,  
 घम्मय त्रि० ( घमंठ ) धर्मनो दत्त धर्म-  
 दाता, धर्म-देशक One who ex-  
 plains religion सम० १,

घरणपुम पु० ( घरणपुम ) धरणेन्द्रो  
 उपात पर्वत घरणेन्द्र का उपात पर्वत.  
 A particular mountain of  
 Dharnendia टा० १०,  
 घरणिखील पु० ( घरणिकील ) मेरु पर्वत  
 मेरु पर्वत The mount Meru.  
 सू० प० २,  
 घरणिसिंग पु० ( घरणिसिङ्ग ) मेरु पर्वत मेरु  
 पर्वत The mount Meru सू० प० २,  
 धरिम न० ( धरिम ) (१) कर्ज ऋण,  
 कर्जा Debt, Liability नाया० १, १;  
 धव पु० ( धव ) पति, स्वामी पति, स्वामी  
 A husband नाया० १, १, वव० ७,  
 धस पु० ( धस् ) 'धस' जेवा अवाज,  
 पड्याने अवाज धस ऐसा आवाज,  
 गिरने की आवाज A sound of fall  
 like 'Dhas' नाया० १, १,  
 धाई स्त्री० ( धात्री ) (१) धावतु धाम करवा  
 थी प्राप्त थयेकी शिक्षा धाई का काम  
 करने से प्राप्त हुई शिक्षा Alms got by  
 working as a wet-nurse टा०  
 ३, ४, (२) जेक ७६ छन्द-विशेष  
 A kind of verse प्रव० ६७,  
 धाड पु० ( धातु ) पृथ्वी, जल, तेज अने  
 वायु जे चार महाभूत पृथ्वी, जल, तेज  
 और वायु जे चार महाभूत Four  
 primary elements & the  
 earth, water, light and wind  
 सू० १, १, १, १८,  
 धाड पु० ( धातु ) पाण्डुपनि नामना व्यतर  
 देवोने जेक ४६ पणपत्रि नामक व्यन्तर  
 देवों का एक इन्द्र A lord of Vyantara  
 gods named Panapanni  
 टा० २, ३,  
 धारण न० ( धारण ) (१) धारणा अवरथा.  
 धारणेकी अवस्था State of holding.



( २ ) ग्रहण ग्रहण Receiving ,  
Seizure ( ३ ) रक्षण रक्षण , रखना  
Protection ( ४ ) पहरेरुते, परिधान  
करना To put on , To wear ( ५ )  
अवलम्बन अवलम्बन Dependence,  
A support ठ० ३, ३ ,  
धिद. स्त्री० ( धृति ) ( १ ) धारण करणु ते  
धारण Causing to hold धारण  
करु ते धरण , अवस्थान Holding  
सूय० नि० ११५, ( २ ) अहिंसा  
Harmlessness , Abstaining  
from killing or giving pain  
to others in thought, word or  
deed पण्ह० २, १ ,  
धिक्करण न० ( धिक्करण ) तिरस्कार तिरस्कार,  
धिक्कार Contempt , Disdain  
नाया० १, १६ ,  
धिज्ज त्रि० ( ध्येय ) धारण करुणु येज्य  
धारण करने योग्य Worthy to be  
acquired नाया० १, १ ,  
धिज्ज त्रि० ( ध्येय ) ध्यान येज्य, चिन्तनीय  
ध्यान-योग्य , चिन्तनीय Worth con-  
templating नाया० १, १ ,  
धीमल न० ( धिक्मल ) निन्दनीय भेल नि-  
न्दनीय-मैल Censurable dirt  
तहु० ३८ ,  
धुरण त्रि० ( धान्य ) ( १ ) दूर करुणु येज्य  
दूर करने योग्य Worth removing  
( २ ) न० पाप पाप A sin ( ३ ) कर्म  
कर्म A deed , An action दस०  
६, १, दसा० ६ ,  
धुव पु० ( ध्रुव ) ( १ ) सयम, धिन्द्रियेनो  
निग्रह सयम , इन्द्रिय आदि का सयम  
Selfrestraint , Restraint of  
senses सूय० १, ४, १, १८ , ( २ )  
अत्यत , अतिशय अत्यन्त , अतिशय

Very much , Excessive  
ठ० ६ ,  
धुचण. पु० न० ( धूपन ) धूप देना धूप देना.  
Fumigation , Perfuming दस०  
३, ६,  
धूम पु० ( धूम ) द्वेष, द्वेष , अग्रीति  
Malice , Rancour , Spite  
पण्ह० २, १ ,  
धोरुगिणी स्त्री० ( धोरकिनिका ) ये देशमा  
उत्पन्न थयेदी स्त्री देश-विशेष में उत्पन्न  
स्त्री A woman born in a par-  
ticular country नाया० १, १ ,  
प अ० ( प्र ) आरंभ आरम्भ A begin-  
ning , A commencement.  
मग० १, १ ,  
पइट्टा स्त्री० ( प्रतिष्ठा ) ( १ ) धारण , वासना  
धारण , वासना The impression  
unconsciously left on the mind  
by part good or bad action  
which therefore produces  
pleasure or pain नदी १७६ ,  
पइट्टिय त्रि० ( प्रतिष्ठित ) रोकेडु प्रतिबद्ध,  
रुका हुआ Stopped , Prevented  
आया० २, १६, १२ ,  
पइट्टिय त्रि० ( प्रतिष्ठित ) व्यवस्थित व्यव-  
स्थित Organised , Arranged  
आया० २, १, ७ ,  
पउज्जित्तार त्रि० ( प्रयोजक ) प्रवृत्ति करुणु  
प्रवृत्ति करने वाला An excecutor ,  
A performer ठ० ५, १ ,  
पउज्जित्तार त्रि० ( प्रयोजयितृ ) प्रवृत्ति करु-  
णुणु करुणुणु करुणुणु करुणुणु करुणुणु  
पउज्जित्तार करुणुणु करुणुणु करुणुणु करुणुणु  
पउत्त न० ( प्रयुक्त ) प्रयोग प्रयोग. An  
experiment , Performance.  
नाया० १, १ ,

पउत्त. न० (प्रतोत्र) याधुक्, धोरडी प्रतोद,  
प्राजन, पैना A whip, A lash.  
दसा० १०,

पउत्ति. खी० (प्रवृत्ति) प्रवर्तन प्रवर्तन.  
Execution, Commencement  
भग० १२,

पउम न० (पद्म) (१) ऐक प्रक्षरते गन्ध  
द्रव्य गन्ध-द्रव्य विशेष A kind of  
fragrant substance जीवा० ३,  
(२) सुधर्मा सलानु ऐक सिद्धासन  
सुधर्मासभा का एक सिद्धासन A throne  
of Sudharma assemblage  
नाया० २, (३) दक्षिण इयक पर्वतनु  
ऐक शिखर दक्षिण रुचक पर्वत का एक  
शिखर. A summit of the deccan  
Ruchak mountain ठा० ८, (४)  
राज्य श्रेणिकते ऐक पौल. राजा श्रेणिक  
का एक पौत्र A grandson of the  
king Shhenika निर० २, १,  
—गूह. पु० (गूह) सैन्यनी पद्माक्षर  
रचना सैन्य की पद्माकार रचना An  
arrangement of an army in  
the form of a lotus-flower  
पणह० १, ३,

पउमभद् पु० (पद्मभद्र) श्रेणिक राज्यते  
ऐक पौल राजा श्रेणिक का एक पौत्र A  
grandson of the king Shreni-  
ka निर० २, १,

पउमराय. पु० (पद्मराज) धातकी भङ्गी  
अपराध नगरते ऐक राज्य, जेणे  
द्वीपदीनु अपहरण कर्तुं हेतु धातकी खड  
की अपरकका नगरी का एक राजा, जिसने  
द्वीपदी का अपहरण किया था A king  
of Apakanka city in Dhataki  
continent, who kidnapped  
Draupadi ठा० १०,

पउमरुक्ख पु० (पद्मवृक्ष) (१) उत्तरकुंड  
क्षेत्रमा रलेलु ऐक वृक्ष उत्तर कुरुक्षेत्र में  
स्थित एक वृक्ष A particular tree  
in the Uttarakuru region  
ठा० २, ३, (२) वृक्ष समान गेहु  
कमल वृक्ष सदृश बड़ा कमल A large  
lotus like tree जीवा० ३,

पउमसेण पु० (पद्मसेन) (१) श्रेणिक राज्य  
ना ऐक पौत्रनु नाम, जेणे महावीर प्रभु  
पासे दीक्षा लीधी હતી राजा श्रेणिक के  
एक पौत्र का नाम, जिसने भगवान् महावीर  
के पास दीक्षा ली थी A grandson  
of the king Shhenika, who  
was initiated by Lord Maha-  
vira निर० १, २,

पण्णियार पु० (प्रेणीचार) ऐक प्रक्षरते  
शिखरी जे हरणते पक्ष्याभाटे तेमने  
यरवे यने पाणे व्याघ्र की एक जाति, जो  
हरियों को पकडने के लिए हरिणी-समूह  
को चराते एव पालते हैं A kind of  
hunter who grazes and  
nourishes deer, to seize deer  
पणह० १, १,

पणस-णाम न० (१) (प्रदेश नामन्) ऐक  
प्रक्षरनु कर्म कर्म-विशेष A kind of  
Karma ठा० ६, (२) कर्म द्रव्योनु  
परिणाम कर्म-द्रव्यों का परिणाम A  
modification of Karmas  
ठा० ६,

पणस-सकम पु० (प्रदेश-सकम) कर्म-द्रव्यो  
ने विन्न स्वभाववाणा कर्मरूपे परिणत  
उत्पु ते कर्म-द्रव्यों को भिन्न स्वभाव  
वाले कर्मों के रूप में परिणत करना  
Changing Karmas into dif-  
ferent natures ठा० ४, २,

पञ्चोग-किरिया खी० (प्रयोग-क्रिया) भन

पगेरेनी येष्ट मन आदि की चेष्टा.  
Movement of mind etc ठ०  
३, ३,

पञ्चोत्त न० (प्रतोत्र) याधुक् प्रतोद, प्राजन  
यष्टि A whip, A lash — धर  
पु० (धर) गाडु छलनार बैल गाडी  
हाकने वाला, वहलवान A car-driver  
नाया० १, १,

पञ्चोत्पय पु० (प्रपौत्रक) (१) प्रपौत,  
पौलने पुत्र प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र A  
son of a grandson (२) प्रशिष्य  
ने शिष्य प्रशिष्य का शिष्य A pupil  
of the grandpupil भग० ११, ११,  
पञ्चोत्पय पु० (प्रपौत्रिक) (१) वश पर-  
परा वश-परम्परा A succession of  
generations (२) शिष्यनी सतति  
शिष्य-सतति, शिष्य-सतान Descend-  
ants of a pupil भग० ११, ११,

पञ्चोल पु० (पटोल) पटोल, अेक प्रक्षरनी  
वनस्पति पटोल, परवर परोरा A species  
of cucumber पत्र० १,

पञ्चगुलि पु० (पञ्चगुलि) छथ हस्त, हाथ  
A hand नाया० १, १,

पञ्चकत्तिय पु० (पञ्चकृत्तिक) कुथुनाथ भग-  
वान् जेना पाये उत्थायुक् कृत्तिका नक्षत्रमा  
थया छत्त भगवान् कुन्धुनाथ, जिनके  
पार्चों कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र में हुए थे  
The lord Kunthunatha whose  
all the five auspicious perform-  
ances were executed in the  
Kritika constellation ठ० ५, १,

पञ्चगुण त्रि० (पञ्चगुण) पाय गालु पाँच  
गुना Five times ठ० ५, ३,

पञ्चचित्त पु० (पञ्चचित्र) छद्म जिनदेव  
श्रीपद्मप्रभु, जेभना पाये उत्थायुक् चित्रा  
नक्षत्रमा थया छत्त पद्म जिनदेव श्रीपद्मप्रभ,

जिनके पार्चों कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए  
थे The sixth Jinadeo Shree  
Padma Prabhu whose all the  
five auspicious performances  
were executed in the Chitra  
constellation ठ० ५, १,

पञ्चपुञ्जासाढ पु० (पञ्चपूर्वापाढ) दसमा  
जिनदेव श्री शीतलनाथ, जेना पाये  
उत्थायुक् पूर्वापाढ नक्षत्रमा थया छत्त  
दशवें जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके  
पार्चों कल्याणक पूर्वापाढ नक्षत्र में हुए थे.  
The tenth lord Shree Shital-  
nath whose all the five  
auspicious performanes were  
executed in the Purvashadha  
constellation ठ० ५, १,

पञ्चपूस पु० (पञ्चपुष्य) पद्मेश जिनदेव  
श्री धर्मनाथ पन्द्रहवें जिनदेव श्रीधर्मनाथ.  
The fifteenth lord Shree  
Dhaimanatha ठ० ५, १,

पञ्चरासिय न० (पञ्चराशिक) अेक प्रक्षरनुं  
गणित, पाय राशि गणित-विशेष The  
double rule of three, The rule  
of five ठ० ४, ३,

पञ्चरुविय त्रि० (पञ्चरूपिक) पाय प्रक्षरना  
२ गवाणु पाच प्रकार के वर्ण-वाला.  
Coloured by five colours ठ०  
४, ४,

पञ्चलोइया स्त्री० (पञ्चलौकिका) अेक  
प्रक्षरना लुणपरिसर्प सुजपरिसर्प विशेष,  
हाथ से चलने वाले सर्प जातीय प्राणी की  
एक जाति A kind of serpent  
जीवा० २,

पङ्कज त्रि० (पापङ्कित) सङ्केद उरेलु  
श्वेत रंग का किया हुआ White-  
washed नाया० १, १,

पत. त्रि० ( प्रान्त ) (१) इन्द्रियने प्रतिक्षुण्ण  
इन्द्रियों का अननुकूल , इन्द्रिय प्रतिक्षुण्ण  
Unfavourable to senses पण्ड०  
२, ५, (२) वासी पयुं पित, वासी  
Stale, Not fresh नाया० १, ५,  
पंतिय स्त्री० न० (पदक्ति) श्रेष्ठी, ६२ पक्ति,  
श्रेष्ठी A low, A line आया० २, ३,  
३, २,  
पकड त्रि० (प्रकृत) (१) प्रस्तुत, जेने विषे  
डहेवानु के डहेवानु डोयते प्रस्तुत, प्रकान्त  
Under discussion. भग० ७, १०,  
(१) डरेल, निर्मित कृत, निर्मित  
Formed, Made, Manufactured  
भग० १८, ७,  
पकप्प पु० ( प्रकल्प ) (१) उत्कृष्ट आचार,  
उत्तम आचरण उत्कृष्ट आचार, उत्तम  
आचरण The excellent behavi-  
our डा० ४, ३, (२) ज्येष्ठ महाग्रह एक  
महाग्रह, ज्योतिष देव-विशेष A great  
planet सू० प० २०, (३) आचारंग  
सूत्रनु ज्येष्ठ अध्ययन आचारंग सूत्र का  
एक अध्ययन A chapter in Acha-  
ranga scripture (४) व्यवस्था  
डरती ते व्यवस्थापन Managing  
सम० २८,  
पकप्पिअ न० (प्रकल्पित) पूर्वे उपार्जन करेले  
अथ पूर्वोपार्जित द्रव्य. Wealth acquir-  
ed previously सू० १, ३, ३, ४,  
पकुव्वि त्रि० (प्रकुर्विन्) (१) डरनीर, करने  
वाला, कर्ता An author, An exe-  
cutor (२) पु० आयचित्त धधने शुद्धि  
उपवासा समर्थ गुरु प्रायश्चित्त देकर  
शुद्धि कराने में समर्थ गुरु A precep-  
tor able in purification by  
expiation डा० ८,  
पक्षिककायण न० (पाक्षिकायन) डेरिक

गोत्रनी ज्येष्ठ शाखा गोत्र विशेष जो कौशिक  
गोत्र की शाखा है. A lineage which  
is the branch of the Kaushika  
one डा० ७,

पगड पु० ( प्रकष्ट ) (१) ज्येष्ठ प्रक्षरनु  
आसन पीठ-विशेष A particular  
seat (२) अतमा नभेलो प्रदेश. अन्त  
का अवनत प्रदेश A region bent in  
the end जीवा० ३,

पगड पु० ( प्रगत ) भोटो भाडो बडा गदहा.  
A big pit. आया० २, १०, २,

पगप्प पु० ( प्रकल्प ) उत्पन्न धनीर उत्पन्न  
होने वाला, प्रादुर्भूत होने वाला Pro-  
duct सय० १, ३, ३, १६,

पगप्पिअ त्रि० ( प्रकल्पित ) प्रक्षयु डरेल,  
डथन डरेल प्ररूपित, कथित. Told,  
Described. सू० १, ३, ३, १६,

पगप्पित्तर. त्रि० ( प्रकल्पयितु-प्रकर्तयितु )  
क्षपनीर काटने वाला, कतरने वाला A  
cutter सू० १, ८, ५,

पगल्भ न० ( प्रागल्भ्य ) धृष्टता, धीमर्ष,  
उद्धर्षा धृष्टता, धीमर्ष Insolence,  
Impudence सू० १, ७, ८,

पगल्भणा स्त्री० ( प्रगल्भना ) धृष्टता प्रगल्भता,  
धृष्टता Insolence, Rudeness  
सू० १, १०, १७,

पगय न० ( प्रगत ) प्रस्ताव, अधिकार.  
प्रस्ताव, अधिकार The subject,  
The topic सू० १, ११, १२,

पगासिय त्रि० ( प्रकाशित ) दीप्त, प्रकाशित  
उद्धोतित, दीप्त Lighted, In-  
flamed, Illuminated सू० १,  
१४, १२,

पगीय त्रि० ( प्रगीत ) जेणे गावानु शर-  
रुं डोय ते जितने गाने का प्रारभ किया  
हो वह One who began to sing

वगेरेनी चेष्टा मन आदि की चेष्टा.  
Movement of mind etc ठ०  
३, ३,

पञ्चोत्त. न० ( प्रतोत्र ) आशुक् प्रतोद, प्राजन  
यष्टि A whip, A lash —घर  
पु० ( घर ) गाडु डकनार बैल गाडी  
हाकने वाला, बहलवान A car-driver  
नाया० १, १,

पञ्चोत्पय पु० ( प्रपौत्रक ) (१) प्रपौल,  
पौलनेा पुत्र प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र A  
son of a grandson (२) प्रशिष्य  
नेा शिष्य प्रशिष्य का शिष्य A pupil  
of the grandpupil भग० ११, ११,

पञ्चोत्पय पु० ( प्रपौत्रिक ) (१) वश पर-  
परा वश-परम्परा A succession of  
generations (२) शिष्यनी सतति  
शिष्य-सतति, शिष्य-सतान Descend-  
ants of a pupil भग० ११, ११,

पञ्चोल पु० ( पटोल ) पटोल, ओड प्रक्षरनी  
वन-पति पटोल, परवर परोरा A species  
of cucumber पन्न० १,

पञ्चगुलि पु० ( पञ्चागुलि ) डथ हस्त, हाथ  
A hand नाया० १, १,

पञ्चकक्षिय पु० ( पञ्चकृत्तिक ) कुथुनाथ लग-  
वान नेना पाये उर्याशुक वृत्तिका नक्षत्रमा  
थया डता भगवान् कुन्थुनाथ, जिनके  
पाचों कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र में हुए थे  
The lord Kunthunatha whose  
all the five auspicious perform-  
ances were executed in the  
Kritika constellation ठ० २, १,

पञ्चगुण त्रि० ( पञ्चगुण ) पाच गण्ड पाँच  
गुना. Five times ठ० २, ३,

पञ्चचित्त पु० ( पञ्चचित्र ) छुडा निन्देव  
श्रीपद्मप्रभु, नेमना पाये उर्याशुक चित्रा  
नक्षत्रमा थया डता पष्ट जिनदेव श्रीपद्मप्रभ,

जिनके पाचों कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए  
थे The sixth Jinadeo Shree  
Padma Prabhu whose all the  
five auspicious performances  
were executed in the Chitra  
constellation ठ० २, १,

पञ्चपुञ्वासाढ पु० ( पञ्चपूर्वापाढ ) दसभा  
निन्देव श्री शीतलनाथ, नेना पाये  
उर्याशुक पूर्वापाढा नक्षत्रमा थया डता  
दशवें जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके  
पाचों कल्याणक पूर्वापाढा नक्षत्र में हुए थे.  
The tenth lord Shree Shital-  
nath whose all the five  
auspicious performances were  
executed in the Puvashadha  
constellation ठ० २, १,

पञ्चपूस पु० ( पञ्चपुष्य ) प दसभा निन्देव  
श्री धर्मनाथ पन्दरहवें जिनदेव श्रीधर्मनाथ  
The fifteenth lord Shree  
Dharmnatha ठ० २, १,

पञ्चरासिय न० ( पञ्चराशिक ) ओड प्रक्षरनु  
गणित, पच राशि गणित-विशेष The  
double rule of three, The rule  
of five ठ० ४, ३,

पञ्चरुविय त्रि० ( पञ्चरूपिक ) पाच प्रक्षरना  
रगवाणु पाच प्रकार के वर्ण-वाला.  
Coloured by five colours ठ०  
४, ४,

पञ्चलोइया स्त्री० ( पञ्चलौकिका ) ओड  
प्रक्षरना लुणपरिसर्प मुजपरिसर्प विशेष,  
हाथ से चलने वाले सर्प जातीय प्राणी की  
एक जाति A kind of serpent.  
जीवा० २,

पंडुइय त्रि० ( पाण्डुकिंत ) सडेड डेडु  
श्वेत रंग का किया हुआ. White-  
washed नाया० १, १,

घंत. त्रि० (प्रान्त) (१) धन्द्रियते प्रतिक्षूण  
इन्द्रियों का अननुकूल, इन्द्रिय प्रतिकूल  
Unfavourable to senses पय्ह०  
२, ४, (२) वासी पयुपित, वासी  
Stale, Not fresh नाया० १, ४,  
पंतिय स्त्री० न० (पहक्क) श्रेष्ठी, क्षर पक्ति,  
श्रेष्ठी A low, A line आया० २, ३,  
३, २,  
पकड त्रि० (प्रकृत) (१) प्रस्तुत, लेते विषे  
छडेवानु के छडेवानु होयते प्रस्तुत, प्रकान्त  
Under discussion. भग० ७, १०,  
(१) धरेक्षु, निर्मित कृत, निर्मित  
Formed, Made, Manufactured  
भग० १८, ७,  
पकप्प पु० (प्रकल्प) (१) उत्कृष्ट आचार,  
उत्तम आचरथु उत्कृष्ट आचार, उत्तम  
आचरण The excellent behavi-  
our ङ० ४, ३, (२) अेक महाग्रह एक  
महाग्रह, ज्योतिष देव-विशेष A great  
planet सू० प० २०, (३) आचारग  
सूत्रनु अेक अध्यायन आचाराग सूत्र का  
एक अध्यायन A chapter in Acha-  
ranga scripture (४) व्यवस्था  
धरती ते व्यवस्थापन Managing  
सम० २८,  
पकपिअ न० (प्रकल्पित) पूर्वे उपाज्जन धरेल  
द्रव्य पूर्वोपाजित द्रव्य. Wealth acquir-  
ed previously सूय० १, ३, ३, ४,  
पकुच्चि त्रि० (प्रकुर्विन्) (१) धरना, करने  
वाला, कर्ता An author, An exe-  
cutor (२) पु० प्रायश्चित्त धरने शुद्धि  
धगववाभा समर्थ शुद्ध प्रायश्चित्त देकर  
शुद्धि कराने में समर्थ गुरु A precep-  
tor able in purification by  
expiation ङ० ८,  
पक्खिकायण न० (पक्खिकायन) दौशिट

गोत्रनी अेक शाखा गोत्र विशेष जो कौशिक  
गोत्र की शाखा है A lineage which  
is the branch of the Kaushika  
one ङ० ७,

पगठ पु० (प्रकष्ट) (१) अेक प्रक्षरनु  
आसन पीठ-विशेष A particular  
seat (२) अतभा नभेदो प्रदेश अन्त  
का अवनत प्रदेश A region bent in  
the end जीवा० ३,

पगड पु० (प्रगत) भोटो भाओ बडा गढहा.  
A big pit. आया० २, १०, २,

पगप्प पु० (प्रकल्प) उत्पन्न थनार उत्पन्न  
होने वाला, प्रादुर्भूत होने वाला Pro-  
duct सय० १, ३, ३, १६,

पगपिअ त्रि० (प्रकल्पित) प्रक्षुप्य धरेल,  
अथन धरेल प्ररूपित, कथित. Told,  
Described. सूय० १, ३, ३, १६;

पगपिअत्तार. त्रि० (प्रकल्पयितु-प्रकर्तयितु)  
क्षपनार काटने वाला, कतरने वाला A  
cutter सूय० १, ८, ४,

पगम्भ न० (प्रागल्भ्य) धृष्टता, धीमर्ष,  
उद्धर्ष धृष्टता, धीमर्ष Insolence,  
Impudence सूय० १, ७, ८,

पगल्भया स्त्री० (प्रागल्भ्या) धृष्टता प्रागल्भता,  
धृष्टता Insolence, Rudeness  
सूय० १, १०, १७,

पगय न० (प्रगत) प्रस्ताव, अधिकार.  
प्रस्ताव, अधिकार The subject,  
The topic सूय० १, ११, १४,

पगासिय त्रि० (प्रकाशित) दीप्त, प्रकाशित  
उद्घोषित, दीप्त Lighted, In-  
flamed, Illuminated सूय० १,  
१४, १२,

पगीय त्रि० (प्रगीत) लेजे गावानु श्च  
धुं होय ते जिसने गाने का प्रारम्भ किया  
हो वह One who began to sing

राय० ४६,  
 पद्मह पु० ( प्रग्रह ) नायक, भुभी नायक,  
 मुखी A leader, A chief ङ० १,  
 पञ्चवखायय त्रि० ( प्रत्याख्यायक ) त्याग  
 करने पर त्याग करने वाला One who  
 has abandoned भग० १४, ७,  
 पञ्चाडट्टणया स्त्री० ( प्रत्यावर्तनता ) अपाय,  
 निश्चयान्त मतिज्ञान अवाय, निश्चयात्मक  
 मति-ज्ञान The third variety of  
 Mati-Jnana, determining the  
 nature of a thing नदी० १७६,  
 पञ्चुग्गच्छणया स्त्री० ( प्रत्युद्गमनता )  
 आगे लपुते अभिमुख गमन Going  
 before भग० १४, ३,  
 पञ्चुवगार पञ्चुवयार पु० ( प्रत्युपकार )  
 उपकारना पदधामा उपकार उपकार के  
 बदले उपकार Service in return,  
 Requital of an obligation  
 ङ० ४, ४,  
 पञ्च त्रि० ( पथ्य ) हितकारक, हितकारी  
 हितकारक, हितकारी Beneficent,  
 Beneficial नाया० १, ११,  
 पञ्चभाग पु० न० ( पश्चाद्भाग ) अक्ष  
 नक्षत्र, अक्ष पीठ धधने जेनी लोग करेछे  
 ते नक्षत्र नक्षत्र विशेष, चन्द्र पृष्ठ देकर  
 जिसका भोग करता है वह नक्षत्र A  
 particular constellation ङ०  
 ६,  
 पञ्चवत्थुक्क न० ( पश्चाद्वास्तुक ) पाण्डु  
 धर, धरनी पाण्डो भाग पिङ्गला घर,  
 घर का पिङ्गला हिस्सा The back  
 portion of the house पयह०  
 २, ४,  
 पञ्चाराणुतावित्र त्रि० ( पश्चाद्नुतापिक )  
 पश्चात्पचायु पश्चात्ताप-युक्त Repented,  
 Regretted राय० १४१,

पञ्चाराणुतावित्र त्रि० ( पश्चात्तापिक ) पश्चात्ताप  
 करने वाला One that repents, One who regrets.  
 पयह० २, ३,  
 पञ्चभाग पु० ( पश्चाद्भाग ) पाण्डोभाग  
 पिङ्गलाहिस्सा The behind portion  
 नाया० १, १,  
 पञ्चाराणुतावित्र स्त्री० ( पश्चात्-संस्कृति ) (१)  
 पाण्डो सन्तरी पीङ्गला संस्कार The  
 previous sacred rite or cere-  
 nony (२) धरन मरण के उपलक्ष्य में  
 द्वाति वगैर प्रभूत मनुष्यों के लिए पकायी  
 जाती रसोई A festive occasion  
 after the deceased आया० २,  
 १, ३, २,  
 पञ्जराण त्रि० ( प्रजनन ) उत्पादक  
 उत्पादक One that produces राय० ११४,  
 पञ्जराण त्रि० ( प्रयुक्तिक ) याचक गणने आपेक्षु.  
 यथ को दिया हुआ, याचक गण को अर्पित-  
 Given to beggars आया० २, १,  
 ४, २,  
 पञ्जेमण न० ( प्रजेमन ) लोभन अक्षय्य उपुते  
 भोजन-ग्रहण To take food राय०  
 १४६,  
 पञ्जराण न० ( पायन ) पाण्डु पिलाना, पान  
 कराना To give, To drink, To  
 water भग० १४, ७,  
 पञ्जव-जाय त्रि० ( पर्यवजात ) (१) लिप्त  
 अप-थाने प्राप्त भिन्न अवस्था को प्राप्त  
 Changed, Transformed पयह०  
 २, ५, (२) न० विषयोपभोग्य अनुधान.  
 विषयोपभोग का अनुष्ठान Enjoying  
 pleasures of sense आया०  
 पञ्जर पु० ( प्रजर ) अक्ष प्रजागनी प्रवाह  
 प्रवाह विशेष A kind of flow-  
 पन्न० १,

पट्टी स्त्री० (पट्टी) (१) धनुष्यनी पट्टी धनुष्येष्टि A stick of a bow (२) हाथ जपर आध्यानी पट्टी हस्तपट्टिका, हाथ पर की पट्टी A ligature for hand विवा० १, १,  
 पट्ट त्रि० (प्रष्ट) अग्रसर अग्रसर, अग्रगामी A leader नाया० १, १,  
 पडिञ्च (प्रति) (१) व्याप्ति वीप्सा, व्याप्ति Pervasion, Permeation 'पडिदुवार' पर्यह० १, ३, (२) पाछणथी चापिस, पीछे Afterwards 'पडिगय' विवा० १, १, भग० (३) स्वभाव स्वभाव Nature 'पडिवाइ' ठा० २, १, (४) लघुता लघुता, छोटाई Lightness, Smallness 'पडिदुवार' कप्प० पन्न० २, (५) प्रशस्तता, स्थायी प्रशस्तता, श्लाघा Praise 'पडिक्ख' जीवा० ३, (६) निषेध, प्रतिषेध प्रतिषेध, निषेध Prohibition भग० सम० २६, (७) स्वभाव स्वभाव Nature ठा० २, १, (८) वर्तमान पद्य साप्रतिकता, वर्तमानता Presentness, Beingness ठा० २, ४,  
 पडिकचार त्रि० (प्रतिकर्तृ) धक्षान् इरनाइ इलाज करने वाला A cure ठा० ४, ४,  
 पडिकय त्रि० (प्रतिकृत) (१) नेनी अदक्षो युद्धयो क्षोयते जिसका बदला लुकाया गया हो वह Requited, Retaliated (२) न० अदक्षो, प्रतिभर प्रतिकार, बदला Requitat, Recompense ठा० ४, ४,  
 पडिक्खत्त त्रि० (परिचिन्त) विस्तारेण विस्तारित Spread अत्त० ७,  
 पडिगाहण त्रि० (प्रतिग्राहक) अहणु इरनाइ ग्रहण करने वाला Accepting नाया० १, १,

पडिचोपचार त्रि० (प्रतिचोदयितृ) प्रेरक. प्रेरक An instigator ठा० ३, ३,  
 पडिच्छिय त्रि० (प्रातीच्छिक) पोताना दीक्षा-गुरुनी आज्ञा वर्धने थीण गच्छना आचार्य पास तेमनी अनुमतिथी शास्त्र लक्षणर मुनि अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा लेकर दूसरे गच्छ के आचार्य के पास उनकी अनुमति से शास्त्र पढ़ने वाला मुनि. A saint who goes to learn scriptures by the permission of his spiritual teacher to the preceptor of another group. नदी० २४,  
 पडिण्णित्त पडिण्णित्त त्रि० (प्रतिनिवृत्त) पाधु इरेणु पीछे लौटा हुआ Returned, Turned back विवा० १, २,  
 पडिण्णित्त त्रि० (प्रतिनिविष्ट) द्वेषवाणु द्विष्ट, द्वेषयुक्त Malicious, Spiteful पर्यह० १, १,  
 पडिथद्ध त्रि० (प्रतिस्तब्ध) गर्वित गर्वित Haughty, Proud, Allogant उत्त० १२, २,  
 पडिनिक्खत्त त्रि० (प्रतिनिष्कान्त) अह्मर निङ्गणु बाहर निकला हुआ Come out नाया० १, १३,  
 पडिपूयय त्रि० (प्रतिपूजक) प्रत्युपकार इरनाइ प्रत्युपकार-कर्ता One who serves in return, One who requites an obligation उत्त० १७, २,  
 पडिवद्ध त्रि० (प्रतिबन्ध) (१) स्नेह, प्रीति. स्नेह, प्रीति, राग Love, Affection. ठा० ६,  
 पडिवद्ध त्रि० (प्रतिवद्ध) (१) रोडेणु रोकहा हुआ, स रुद्ध Stopped, Prevented पर्यह० १, ३,



पडिवुद्ध. पु० ( प्रतिबुद्ध ) अेक राजा नम एक राजा का नाम A name of the king. नाया० १, ८,  
 पडिवृहण्या स्त्री० ( प्रतिवृहण्या ) पुष्टि, पोषण उपचय, पुष्टि Nourishment सूय० २, २, ८,  
 पडिवोहि त्रि० ( प्रतिबोधिन ) प्रतिबोध प्राप्त इतना प्रतिबोध प्राप्त करने वाला One who is instructed आया० २, ३, १, ८,  
 पडिभाग पुं० ( प्रतिभाग ) अंश, भाग अंश, भाग A portion, A part भग० २५, ७,  
 पडिभोग् त्रि० ( प्रतिभोगिन् ) परिभोग इतना परिभोग करने वाला One who enjoys आया० २, ३, १, ८,  
 परिरुन्न-व त्रि० ( प्रतिरूप ) (१) योग्य, उचित योग्य, उचित Fit, Worthy भग० १५, दस० ६, १, (२) पु० विनयनी अेक भेद विनय का एक भेद A kind of politeness वव० १,  
 पडिरुवसि त्रि० ( प्रतिरूपिन् ) रमणीय, सुंदर रमणीय, सुन्दर Beautiful, Handsome आया० २, ४, २, १,  
 पडिलेहि त्रि० ( प्रतिलेखिन् ) निरीक्षक निरीक्षक An observer, An inspector सूय० १, ३, ३, ५,  
 पडिवज्जण्या स्त्री० ( प्रतिपादना ) प्रतिपादन सिद्ध इतनु ते प्रतिपादन Proving (२) स्वीकार, स्वीकार Acceptance नदी० २३२,  
 पडिवरण त्रि० ( प्रतिपन्न ) (१) आश्रित, आश्रये आवेक्षो आश्रित. Restored to, A dependent ओव० ठ० ७; (२) लेखे स्वीकार स्वी होयते जिसने स्वीकार किया हो वह One who ac-

cepted ठ० ४, १,  
 पडिविरइ स्त्री० ( प्रतिविरति ) निवृत्ति. निवृत्ति Abstaining from work. पयह० २, ३,  
 पडिसीसअ न० ( प्रतिशीर्षक ) अनापटी माथु सिर के प्रति रूप सिर, पिसाच आदि का बनाया हुआ सिर An artificial head पयह० १, २,  
 पडिवृहण त्रि० ( प्रतिवृहण ) (१) वधनार-बढ़ने वाला One that increases. आया० १, २, ५, ५, (२) न० वृद्धि, पुष्टि वृद्धि, पुष्टि Growth, Increase, Development आया० १, २, ५, ४,  
 पडिसेवेत्तार त्रि० ( प्रतिपेवितु ) निषेध इरेल वस्तुनी सेवा इतना प्रतिषिद्ध वस्तु की सेवा करने वाला One who serves a prohibited thing ठ० ७,  
 पडीणा स्त्री० ( प्रतीची ) पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा The west ठ० ६, सूय० २, २, ५८,  
 पडुप्पण्य-न्न त्रि० ( प्रत्युत्पन्न ) (१) प्राप्त, भणवेलु प्राप्त, लब्ध Procured, Obtained, Secured (२) उत्पन्न थयेलु उत्पन्न, जात Produced, ठ० ४, २,  
 पढम-सरय पु० ( प्रथम शरत् ) भागसर महीनो मार्गशीर्ष मास The Margashirsha month भग० १५,  
 पणित्तु त्रि० ( प्रणितार्थ ) चोर चोर A thief दस० ७, ३७,  
 पणित्तु त्रि० ( प्रस्निग्ध ) विशेष त्रिन्ध; भूय श्रील्लु विशेष स्निग्ध Very oily, Very innetnous अणुजो० २१५,  
 पणित्तु न० ( प्रणितार्थ ) अक्षिपण,

क्षमना अभिलाष, कामना Desire, Ambition 'वज्जेजा पण्हणव' उक्त १६, १४,  
 परीय त्रि० ( प्रगीत ) (१) मनोज, सुष्ठु मनोज, सुन्दर Beautiful, Charming भग० २, ४, (२) सम्यक् प्रक्षरे आचरन्तु क्षरेलु सम्यग् आचरित Properly practised, Well-performed सूय० नि० ११४,  
 परील्लण न० ( प्रखोदन ) प्रेरण प्रेरणा Instigation, Inciting ठ० ८,  
 परणत्त त्रि० ( प्रज्ञस ) रथेलु प्रगीत, रचित Made, Compiled, Composed, भग० ११, ११, श्रौच०  
 परणवेत्तार त्रि० ( प्रज्ञापयितृ ) प्रतिपादक, प्रक्षयलु क्षरार प्रतिपादक, प्ररुपण करने वाला One who proves, One who explains ठ० ७,  
 परणा स्त्री० ( प्रज्ञा ) मनुष्यनी दश अवस्थाओ मानी पाथमी अवस्था मनुष्य की दश अवस्थाओ में पाचवीं अवस्था The fifth of ten states of human life तदु० १६,  
 परणासग त्रि० ( पन्चासक ) पथास वर्षनी उभरतु पचास वर्ष की उम्र का Fifty years old तदु० १७,  
 परहवण न० ( प्रस्नवन ) अरु ते चरण, करना Thuckling, Dropping, Oozing विवा० १, २,  
 पतिरण-न्न. त्रि० ( प्रतीर्ष ) पार पडोथेलु पार पहुँचा हुआ Crossed, Surpassed परह० २, १,  
 पत्तच्छेज्ज न० ( पत्रच्छेध ) नस्तीतु क्षम, दोतथीतु क्षम नक्षत्री का काम, खोदने का काम Act of carving, Engraving आया० २, १०, १,

पत्थुय त्रि० ( प्रस्तुत ) प्राप्त प्राप्त, लब्ध Procured, Obtained सूय० १, ४, १, १७,  
 पत्थोत्तार त्रि० ( प्रस्तोतृ ) (१) प्रस्ताव क्षरार, आर ल क्षरार प्रस्ताव करनेवाला, One who begins (२) प्रवर्तक प्रवर्तक An originator परह० १, २,  
 पद्धइ स्त्री० ( पद्धति ) पक्षि, श्रेण्ण पक्षि, श्रेण्ण A lot, A line ठ० २, ४,  
 पधाविच्च त्रि० ( प्रधावित ) दोडेलु दौडा हुआ Run परह० १, ४,  
 पप्फुसिय न० ( प्रस्पष्ट ) उत्तम अर्थ उत्तम स्पर्श The excellent touch राय० १८,  
 पवाह पु० ( प्रवाध ) प्रक्षु पीडा प्रकृष्ट पीडा Agony, Excessive pain, Anguish विवा० १, ६,  
 पमासा स्त्री० ( प्रमासा ) अहिंसा, दया Abstaining from the taking of life, No killing Mercy परह० २, १,  
 पमासिय त्रि० ( प्रमापित ) क्षेलेलु उक्त, कथित Told, Said, Narrated सूय० १, १, १, १६,  
 पमइल त्रि० ( प्रमलिन ) धल्लु मेलु अति मलिन Very dirty नाया० १, १,  
 पमज्जणिया-पमज्जणी स्त्री० ( प्रमार्जनी ) सावथी, अडु क्काडू, भूमि साफ करने का उपकरण A broom, A besom नाया० १, ७,  
 पमार पु० ( प्रमार ) (१) भरथुने आर ल. मरण का प्रारम्भ Beginning of the death भग० १२, (२) परापररति भारुते बुरी तरह मारना To kill badly ठ० २, १,  
 पमिलाण त्रि० ( प्रम्लान ) पृथु म्लान

यथेलु, डरभायेलु अतिशय सुरक्षाया  
हुआ Very much withered,  
Faded टा० ३, १,  
पमोक्खण न० ( प्रमोचन ) परित्याग परि-  
त्याग Abandoning, Giving  
up नाया० १, २,  
पय. न० ( पद ) ओक प्रकाशनी जण कूट,  
जाल-विशेष A kind of net सूय०  
१, १, २, २,  
पयइ स्त्री० ( प्रकृति ) सधिनो अभाव सधि  
का अभाव Absence of joints  
अणुजो० ११२,  
पयइद्द पु० ( पतङ्गेन्द्र ) वायुव्यतर जतिनी  
देवोनी धद्द वानव्यन्तर जातीय देवों का  
इन्द्र The lord of Vanvyan-  
tara gods टा० २, ३,  
पयचुल्ल पु० न० ( प्रपञ्चुल्ल ) माञ्जरीने  
पड्डवानी ओक प्रकाशनी जण नत्स्य वधन  
विशेष, मच्छी पकडने का एक प्रकार का  
जाल An iron coid for catch-  
ing fish चिवा० १, २,  
पयड्ड त्रि० ( प्रकाशड ) प्रयड्ड, अतिउग्र,  
उत्कट अत्युग्र, उत्कट Fierce,  
Fierocious, Frightful पण्ह०  
१, ३,  
पयखेम न० ( पद-खेम ) डरपायु शिव,  
कल्याण Welfare, Well-being  
'पयखेममण्णो' दस० ६, ३, ६,  
पयड्डिय. त्रि० ( प्रपतित ) पडेकु गिरा हुआ  
Fallen नाया० १, २,  
पयत्त त्रि० ( प्रदत्त ) दीयेकु दिया हुआ  
Given भग० ( ७ ) समत अनुज्ञात,  
समत Agreed or consented to,  
Approved of अणुत्त० ३,  
पयर पु० न० ( प्रतर ) ओक प्रकाशनी आलू-  
पयु वृत्त पत्राकार आभूषण-विशेष, एक

प्रकार का गहना A kind of orna-  
ment, नाया० १, १,  
पयर न० ( प्रतर ) ओक प्रकाशनी गणित  
श्रेणीथी गणुदी श्रेणी गणित विशेष,  
श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी. A kind of  
arithmetical अणुजो० १०३,  
पया स्त्री० व० ( प्रजा ) ( १ ) ज-पुआतो  
समूह जन्तु-समूह A collection of  
insects 'अरए पयासु' आया० सूय०  
१, २, २, ६, ( २ ) सतान वाली स्त्री.  
सतान वाली स्त्री A female having  
children 'पयासु अमोहदसी' आया०  
सूय० १, १०, १२,  
परगामण न० ( पर्यङ्गन ) यथापयु चलाना,  
चक्रमण करना To make to pro-  
ceed, To set in motion भग०  
१०, ११,  
परक्रम पु० न० ( पराक्रम ) ( २ ) पर-आक्रमण,  
पर-पराजय पर-आक्रमण, पर-पराजय  
Another's defeat टा० ४, १, ( २ )  
गमन, गति गमन, गति Motion,  
Going सूय० २, १, ६,  
परगासय त्रि० ( प्रकाशक ) प्रकाश डगनार  
प्रकाश करने वाला One who illumi-  
nates तदु० ४६,  
परभविअ त्रि० ( परभविक ) आगामी ज-भ  
साथे मथध गभनाड आगामी जन्म से  
संबन्ध रखने वाला Pertaining to  
the future birth टा० ६,  
परम्मुह त्रि० ( पराद्मुख ) विमुख विमुख,  
मुह-फिरा With the face turned  
away from, Adverse to नाया०  
१, २,  
परय न० ( परक ) अतिशयना, अविदना.  
आधिक्य, अतिशय Excess,  
Abundance उक्त० ३३, १४,

परा स्त्री० ( परा ) अेक प्रकारनु धास तृण-  
विशेष. A kind of grass पण्ह०  
२, ३ ,  
परि अ० ( परि ) पुन पुन , बारबार पुन  
पुन , फिर फिर Again and again ,  
Often , Now and then पण्ह०  
१, १ ,  
परिअट्टया स्त्री० ( परिवर्तना ) डरी डरी  
थुते फिर फिर होना To be again  
and again पण्ह० १, १,  
परिअट्टय त्रि० ( पर्यटक ) परिभ्रमणु करनार  
परिभ्रमण करने वाला A wanderer ,  
A rambler 'मेहगिरिसययपरियट्टय'  
कण्प० ३३ ,  
परिअट्टिय त्रि० ( परिवर्तित ) अदलावेणु  
वदलाया हुआ Changed , Altered  
अ० ३, ४ ,  
परिघोळण न० ( परिघोळन ) विचार विचार  
A thought अ० ४, ४ ,  
परिचारणा स्त्री० ( परिचारणा ) मैथुन-  
प्रवृत्ति मैथुन-प्रवृत्ति Copulation,  
Sexual-intercourse अ० २, १ ,  
परिणाम पु० ( परिणाम ) (१) स्वभाव ,  
धर्म स्वभाव , धर्म Nature ,  
Character अ० ६ , (२) त्रि०  
पण्डित करनार परिणत करने वाला A  
transformer 'दिव्रता परिणामे'  
चव० १० ,  
परिणामणया-परिणामणा स्त्री० ( परिणामना )  
इथात० अरुते परिणामना , रूपान्तर-  
करण Transformation पण्ह०  
३४ ,  
परिणण त्रि० ( परिण ) जाल , जाननार  
जाता , जानकार A knower , One  
who understands आया० १, २,  
६, ४ ,

परिताण न० ( परित्राण ) (१) रक्षणु रक्षय.  
Protection जण वजेरे अथन  
वागुरादि बधन A net , A snare  
सूय० १, १, २, ६ ,  
परितीकय त्रि० ( परीतीकृत ) सक्षिभ करेणु  
सक्षित किया हुआ , लघुकृत Abbe-  
viated , Shortened , Abridged.  
नाया० १, १ ,  
परिनिव्वुअ-ड त्रि० ( परिनिवृत ) (१) शान्त;  
हंडु शान्त , ठडा Calmed , Paci-  
fied सूय० १, ३, ३, २१ ,  
परिपूणग पु० ( परिपूर्णक ) धी दूध गणवानु  
इपडु धी-दूध गालने का कपडा , छानना  
A filter नदी० २४ ,  
परिफोसिय त्रि० ( परिस्पृष्ट ) अडेणु , २५शं  
इरेण हुआ हुआ Touched 'उदग-  
परिफोसियाय' नाया० १, १६ ,  
परिडभट्ट त्रि० ( परिअट्ट ) पतित , अथलित  
पतित , स्वलित Fallen , Dropped-  
नाया० १, १३ ,  
परिभाइय त्रि० ( परिभाजित ) विभक्त इरेणु .  
विभक्त किया हुआ Separated,  
Divided आया० २, २, ३, २,  
परिभावइत्तार त्रि० ( परिभावयितु ) प्रभावक,  
उन्नति करनार प्रभावक , उन्नति कर्ता  
One who prospers अ० ४, ४ ,  
परिमडण न० ( परिमण्डन ) अल इरेणु,  
विलथा अलकरण , विभूषा , Decora-  
tion , Adoration उक्त० १६, ६ ,  
परियाइअ त्रि० ( पर्याप्त ) सपूर्युं इरेणु अडणु  
अरेणु सपूर्युं रूप से गृहीत Entirely  
seized , Caught अ० २, ३ ,  
परियाण न० ( परियान ) (१) गमन गमन.  
Motion अ० १०, (२) वाहन वाहन,  
यान A carriage अ० ८, (३)  
अवतरणु अवतरण Descending.

थयेथु , इभायेथु अतिशय मुरझाया  
हुआ Very much withered ,  
Faded. डा० ३, १,

परमोत्तम न० ( प्रमोचन ) परि-  
त्याग Abandoning , Giving  
up नाया० १, २,

पर्य न० ( पद ) ऐक प्रशान्ती नग कृत् ,  
जाल-विशेष A kind of net सूय०  
१, १, २, ८,

पर्य स्त्री० ( प्रकृति ) सधिते अभाव सधि  
का अभाव Absence of joint-  
अणुजो० ११०,

पर्य पु० ( पतङ्ग ) वायुव्यतः नतिना  
देवोना ध्रु वानव्यन्तर जातीय देवों का  
इन्द्र The lord of Vanyanta-  
tara gods डा० २, ३,

पर्य पु० न० ( प्रपञ्चल ) भाउकीने  
पडोयानी ऐक प्रशान्ती नग मल्ल चधन  
विशेष, मच्छी पकडने का एक प्रकार का  
जाल An non cord for catch-  
ing fish विवा० १, ८,

पर्य त्रि० ( प्रकाशक ) प्रयत्न , अतिउग्र ,  
उत्कट अत्युग्र , उत्कट Fierce ,  
Ferocious , Frightful परह०  
१, ३,

पर्य-खेम न० ( पद-खेम ) इत्याणु शिव ,  
कल्याण Welfare , Well-being  
'पर्यखेममप्यपो' दस० ६, ४, ६,

पर्य त्रि० ( प्रपतित ) पडेणु गिरा हुआ  
Fallen नाया० १, ८,

पर्य त्रि० ( प्रदत्त ) दीधेणु दिया हुआ  
Given भग० (२) सभत अनुज्ञात ,  
समत Agreed or consented to,  
Approved of अणुत्त० ३,

पर्य पु० न० ( प्रतर ) ऐक प्रशान्ती आणू-  
पणु वृत्त पत्राकार आभूषण-विशेष , एक

प्रकार का गहना A kind of orna-  
ment, नाया० १, १,

पर्य न० ( प्रतर ) ऐक प्रशान्ती गणित  
श्रेणीथी गणुथी श्रेणी गणित विशेष,  
श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी. A kind of  
arithmetic अणुजो० १०३,

पर्य स्त्री० व० ( प्रजा ) (१) अनुभोने  
अभूषण जन्तु-समूह A collection of  
insects 'अरण्य पर्यासु' आया० सूय०  
१, ५, २, ६, (२) सतान वाली स्त्री  
सतान वाली स्त्री A female having  
children 'पर्यासु अमोहदली' आया०  
सूय० १, १०, १५,

पर्य न० ( पर्यङ्गन ) यथावत चलाना,  
चक्रण करना To make to pro-  
ceed , To set in motion भग०  
१०, ११,

पर्य पु न० ( पर्यक्रम ) (२) पर-आक्रमण,  
पर-पराजय पर-आक्रमण , पर-पराजय  
Another's defeat डा० ४, १, (२)  
गमन , गति गमन , गति Motion,  
Going सूय० २, १, ६,

पर्य त्रि० ( प्रकाशक ) प्रकाश करनेवाला  
प्रकाश करनेवाला One who illumi-  
nates तदु० ४६,

पर्य त्रि० ( परभविक ) आगामी अनुभ  
साथे सम्पन्न शभनार आगामी जन्म से  
संबन्ध रखने वाला Pertaining to  
the future birth डा० ६,

पर्य त्रि० ( पराङ्मुख ) विमुख विमुख,  
मुह-फिरा With the face turned  
away from, Advise to नाया०  
१, २,

पर्य न० ( परक ) अतिशयता , अधिस्त  
आधिक्य , अतिशय Excess ,  
Abundance उक्त० ३४, १४,

परा स्त्री० ( परा ) अेक प्रकारनु धास तृण-  
विशेष. A kind of grass. पृष्ठ०  
२, ३ ,  
परि अ० ( परि ) पुन पुन , बार बार पुन  
पुन , फिर फिर Again and again ,  
Often , Now and then पृष्ठ०  
१, १ ,  
परिअट्टया स्त्री० ( परिवर्तना ) धरी धरी  
थपुते फिर फिर होना To be again  
and again पृष्ठ० १, १ ,  
परिअट्टय त्रि० ( पर्यटक ) परिभ्रमणु करनार  
परिभ्रमण करने वाला A wanderer ,  
A rambler 'मेरुगिरिलयपरियट्टय'  
कप० ३६ ,  
परिअट्टिय त्रि० ( परिवर्तित ) थदवावेणु  
बदलाया हुआ Changed , Altered  
ठ० ३, ४ ,  
परिघोलण न० ( परिघोलन ) विचार विचार  
A thought ठ० ४, ४ ,  
परिचारणा स्त्री० ( परिचारणा ) मैथुन-  
प्रवृत्ति मैथुन-प्रवृत्ति Copulation,  
Sexual-intercourse ठ० २, १ ,  
परिणाम पु० ( परिणाम ) (१) थवलाव ,  
धर्म स्वभाव , धर्म Nature,  
Character ठ० ६ , (२) त्रि०  
पगिणुन करनार परिणत करने वाला A  
transformer 'दिदृता परिणामे'  
वच० १० ,  
परिणामणया-परिणामणा स्त्री० ( परिणामना )  
अपानत उरुते परिणमाना , रूपान्तर-  
करण Transformation पृष्ठ०  
३४ ,  
परिणण त्रि० ( परिण ) जाल , जानकार  
जानता , जानकार A knower , One  
who understands आया० १, २,  
६, ४ ,

परिताण न० ( परित्राण ) (१) रक्षाणु रक्षण  
Protection लण वगेरे थधन  
बागुरादि बधन A net , A snare  
सूय० १, १, २, ६ ,  
परितीकय त्रि० ( परीतीकृत ) सक्षिप्त धरेणु  
सक्षिप्त किया हुआ , लघुकृत Abbre-  
viated , Shortened , Abridged.  
नाया० १, १ ,  
परिनिव्वुअ-ड त्रि० ( परिनिवृत ) (१) शान्त;  
ठंडु शान्त , ठडा Calmed , Paci-  
fied सूय० १, ३, ३, २१ ,  
परिपूणग पु० ( परिपूर्णक ) धी दूध गणवानु  
अपडु धी-दूध गालने का कपडा , छानना  
A filter नदी० २४ ,  
परिफोसिय त्रि० ( परिस्पृष्ट ) थडेणु , २५श  
धरेणु छुआ हुआ Touched 'उदग-  
परिफोसियाणु' नाया० १, १६ ,  
परिणमट्ट त्रि० ( परिअट्ट ) पतित , २थलित  
पतित , स्वलित Fallen , Dropped.  
नाया० १, १३ ,  
परिभाइय त्रि० ( परिभाजित ) विलकत अडेणु .  
विभक्त किया हुआ Separated,  
Divided आया० २, २, ३, २,  
परिभावइत्तार त्रि० ( परिभावयितृ ) प्रलापड,  
उन्नति करनार प्रभावक , उन्नति कर्ता  
One who prospers ठ० ४, ४ ,  
परिमडण न० ( परिमडन ) थथल उरुणु,  
विलपूपा अलकरण , विभूपा , Decora-  
tion, Adoration उक्त० १६, ६ ,  
परियाइअ त्रि० ( पर्यात्त ) सपूरुणु अडेणु  
अडेणु सपूरुणु रूप से गृहीत Entirely  
seized , Caught ठ० २, ३ ,  
परियाण न० ( परियाण ) (१) गमन गमन.  
Motion ठ० १० , (२) वाहन वाहन,  
यान A carriage ठ० ८ , (३)  
अपतणु अवतरण Descending.

डा० ३, ३, (४) न० (परिराण) २६५.  
 रक्षण A protection सू० १, १,  
 २, ६,  
 परियाणित्र पु० न० (परियानिक) (१)  
 वाहन. यान, गहन A carriage (२)  
 ऐक प्रजातु विमान. विमान विगेष A  
 kind of celestial airship डा० ८,  
 परियाय पु० (पर्याय) (१) अलिप्राय, मन  
 अभिप्राय, मत An interview,  
 'परियायहिं लोय' सू० १, १, ३, ६, (२)  
 प्रत्यर्थ प्रत्यर्थ Chastity श्राव० ४,  
 (३) जिनदेवने प्रयत्नजाननी उत्पत्तिनी  
 अभय जिनदेव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति  
 का समय 'The time of illumina-  
 ting of omniscience of Jina-  
 deo नाया० १, ८,  
 परियारग त्रि० (परिचारक) विषय सेवन  
 श्रानर विषय सेवन करने वाला A sen-  
 sualist प० २, डा० २, २,  
 परियावज्जशा स्त्री० (पर्यापादन) आसेवन  
 आसेवन Zealous practice डा० ३,  
 ४,  
 परियावशिष्या स्त्री० (परियापनित्र) शिष्य  
 भर्था, स्थिति कालान्तर तक अवस्थान,  
 स्थिति Lasting for long time,  
 Everlasting नाया० १, १४,  
 परियावराण स्त्री० त्रि० (पर्यापन्न) स्थित,  
 रहेशु स्थित, अवस्थित Remained,  
 Stayed श्राया० २, १, ११, ७-८, भग०  
 ३४, २,  
 परिवाविया स्त्री० (परिवापित) ऐक प्रक्षरनी  
 शिक्ष, इग्रीथी भक्षानतोलु आरोपण दीक्षा-  
 विशेष, फिर से महाव्रतों का आरोपण A  
 kind of initiation डा० ४, ४,  
 परिविच्छ्रय त्रि० (परिविचत) सर्पथा छिन-  
 छेद्येशु. सर्वथा-छिन्न, हत Pierced,

Out, Killed सू० १, ३, १, २,  
 परिवुन्नित्र त्रि० (पर्युक्ति) गथेशु, युग्मेशु  
 गत, गुजरा हुआ Gone, Passed  
 श्राया० २, ३, १, ३,  
 परिवृद्ध त्रि० (परिवृद्ध) चथुण स्थूल Large;  
 Great, Bulky उत्त० ७, ६,  
 परिसक्रिय त्रि० (परिशक्ति) डरेशु भीत  
 Fearod, Dronced प० १, ३,  
 परिसठाविय त्रि० (परिसस्थापित) स्थापन  
 श्रेशु. सस्थापित Established तदु०  
 ३८,  
 परिसा स्त्री० (परिपद) परिवार परिवार  
 Retinue, Train डा० ३, २,  
 परिसाडिय त्रि० (परिशक्ति) पाडेशु,  
 देशेशु गिरायाहुआ Felled, Thrown  
 down. दस० ६, १, ६६,  
 परिसित न० (परिपिक) भी यथु ते परिपेक,  
 सेचन To sprinkle प० १, १,  
 परिसावि त्रि० (परिसाविन्) श्रमथ ध  
 श्राना कर्मबन्ध करने वाला One who  
 secures Karmic bondage. भग०  
 २६, ६,  
 पलव त्रि० (प्रलव) (१) लटकतु लटकने  
 वाला, लटकता Hanging, Swing-  
 ing प० १, ४, राय० (२) उच्यते  
 पर्यतनु ऐक शिष्यर रुचक पर्वत का एक  
 शिखर A summit of the Ru-  
 chaka mountain डा० ८,  
 पलग न० (पलक) ऐक प्रक्षरतु इण फल-  
 विशेष A kind of fruit श्राया० २,  
 १, ८, ६,  
 पलासिआ स्त्री० (पलासिका) शालनी पनावे-  
 ली लाडडी त्वकाष्टिका, छाल की बनी हुई  
 लकड़ी A stick made of bark.  
 सू० १, ४, २, ७,  
 पलित्र न० (पलित) श्रम, श्रम कर्म,

काम A work, An action  
आया० १, ६, २, २, —ट्टाण-टाण  
न० (स्थान) शरभातु कर्म-स्थान,  
कारखाना A factory आया० १, ६,  
२, २,

पलिओच्छन्न त्रि० ( पलितावच्छन्न )  
दुःकर्मी कुकर्मी A wicked. आया०  
१, ६, १, ३,

पलिकखीण त्रि० (परिखीण) क्षय पायेल  
चय प्राप्त Consumed, Exhausted  
सूय० २, ७, ११, श्रोव०

पलिच्छिन्न त्रि० (परिच्छिन्न) शपेक्षु  
विच्छिन्न, काटा हुआ Cut सूय० १,  
१६, ६,

पलिमथ पु० (परिमन्थ) विनाश विनाश  
Destruction, Ruin सूय० २,  
७, २६,

पवक त्रि० (प्लवक) (१) तरनार तैरने वाला  
A swimmer पण्ह० १, १ टी, (२)  
पु० पक्षी पक्षी Bird (३) सुपर्णु उमार  
नामनी अेक देव जति सुपर्णु कुमार नामक  
देव जाति A kind of gods called  
Suparna Kumara पण्ह० २, ४,

पवरपुडरीय पु० न० (प्रवरपुडरीक) अेक  
देव-विमान एक देव विमान A parti-  
cular celestial air-ship आया०  
२, १, ६, २,

पवह त्रि० (प्रवह) (१) बहना बहने वाला  
One that flows (२) टपकना  
टपकने वाला, बहने वाला One that  
oozes विवा० १, १,

पवाइ त्रि० (प्रवादिन्) (१) वाद करना  
वादी वाद करने वाला, वादी A dis-  
putant An antagonist (२)  
दर्शनिक दर्शनिक One familiar  
with the systems of philoso-

phy सूय० नि० ३२,

पवाय. पु० (प्रपात) भाडे गर्त, गढा  
A pit नाया० १, १४, (२) पतन  
पतन Falling ठा० २, ३, —दह  
पु० (द्रह) ते कुड, जथा पर्वत अपरधी  
नदी पडती होय वह कुड, जहा पर्वत पर  
से नदी पडती हो. A basin where  
river falls from a mountain.  
ठा० २, ३,

पविइरण-न्न त्रि० (प्रविकीर्ण) दे देक्षु. विचिस,  
निरस्त Thrown नाया० १, १,

पवित्थरिल्ल त्रि० (प्रविस्तरिन्) विस्तार  
वाक्षु विस्तार वाला Extensive,  
Vast पण्ह० १, ६,

पवियक्किय न० (प्रवितर्कित) विदक्षु, विदक्ष  
विकल्प, वितर्क Guess, Conjecture,  
Supposition उक्त० २३, १४,

पवुट्ट वि० (प्रवृष्ट) भूय परसेक्षु खूब बरसा  
हुआ, जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह  
Profusely rained आया० २, ४,  
१, १३,

पवेस पु० (प्रवेश) लीतनी भूयता भीत  
की स्थूलता Largeness of the  
wall ठा० ४, २,

पव्वक-ग पु० न० (पर्वक) अेक प्रकृत  
वाद्य वाद्य-विशेष A kind of musi-  
cal instrument पण्ह० २, ६,

पव्वयगिह न० (पर्वतगृह) पर्वतनी शुद्ध  
पर्वत की गुफा A den of a moun-  
tain आया० २, ३, ३, १,

पसग पु० न० (प्रसङ्ग) मैथुन मैथुन,  
काम-क्रीडा Copulation, Coition,  
Sexual inter-course पण्ह० १, ४,  
पसगि त्रि० (प्रसङ्गिन्) प्रसग करना,  
आसक्त प्रसग करने वाला, आसक्त  
One strongly attached to,



One devoted to, One addicted to 'जूयप्पमगी' नाया० १, २,  
 पसज्भ-पसज्भ अ० ( प्रमत्त ) भुनी गीते,  
 प्रमत्त गीते खुले तौर से, प्रकट रीति से  
 Openly, Publicly, Clearly  
 सूय० १, २, २, १६,  
 पसद्ध त्रि० ( प्रमोद ) अनेक दिवस गभीने  
 भुत्तुं श्रेष्ठु अनेक दिन रस कर खुला  
 किया हुआ. Opened after many  
 days दस० ५, १, ७२,  
 पसत्था पु० ( प्रशास्त्र ) गणितनी अध्यापक  
 क्षेत्राचार्य, गणित का अध्यापक, A  
 teacher of arithmetic ठा० ३, १,  
 (२) धर्म शास्त्र अध्यापना० वर्म शास्त्र का  
 पाठक A religious instructor  
 ठा० ३, १, श्रो०  
 पसिणविज्ञा स्त्री० ( प्रश्नविद्या ) अेक प्रश्न-  
 नी विद्या मन्त्र-विद्या-विशेष A kind  
 of science A kind of logic  
 ठा० १०,  
 पसुभूय त्रि० ( पशुभूत ) पशु तुल्य पशु-  
 तुल्य Brutal सूय० १, ४, २, १८,  
 पहराय पु० ( प्रभराज ) भरत क्षेत्रना श्लु  
 प्रतिवाभुदेव भरतक्षेत्र का छठवा प्रतिवासु-  
 देव Sixth Pitrivasudeo of  
 Bharata सम० १५४,  
 पहारेत्तार त्रि० ( प्रधारयितु ) चिंतन करने  
 करने वाला One that medi-  
 tates, One who contemplates  
 'पहारेत्ता भवति' भग० ५, ६,  
 पहास पु० ( प्रहास ) अट्टहास, विशेष हास्य  
 अट्टहास, विशेष हास्य Excessive  
 laughter, A boisterous laugh-  
 ter दस० १०, ११,  
 पहोइ त्रि० ( प्रधाविन् ) धोना० धोने वाला  
 A washer दस० ४, २६,

पहोयण स्त्री० न० ( प्रमान ) प्रमादन,  
 पभाणुते प्रचालन Washing,  
 Cleaning 'दत्तपहोयणा य' दस० ३, ३,  
 पाइम त्रि० ( पाल्य ) पाडवा योग्य गिराने  
 योग्य Fit to fell, Felleable आया०  
 २, ४, २, ७,  
 पाड पु० ( पाडु ) गुफा गुदा The anus-  
 ठा० ६,  
 पाडकाम त्रि० ( पातुकाम ) पीवानी छत्र  
 पाणु पीने की इच्छा वाला A wisher  
 to drink, Desirous to drink  
 'एदुद्ध पाडकामे से ख' नाया० १, १८,  
 पाडड न० ( प्रावृत ) पत्र, श्रेष्ठ वस्त्र,  
 कपड़ा A garment, A cloth.  
 ठा० ५, १,  
 पाओस पु० ( प्रद्वेय ) द्वेष मस्सर, प्रद्वेय  
 Malice, Rancour, Spite ठा०  
 ४, ४,  
 पागडिद. त्रि० ( प्रकपिन् ) अग्रगामी अग्र-  
 गामी A leader नाया० १, १,  
 पागय त्रि० ( प्राकृत ) (१) स्वाभाविक.  
 स्वाभाविक, स्वभाव-सिद्ध Natural  
 (२) आर्यावर्तनी प्राचीन लोकभाषा.  
 आर्यावर्त की प्राचीन लोक भाषा An  
 ancient language of Arya-  
 country. 'सक्या पागया चैव' ठा० ७,  
 पाजावच्च पु० ( प्राजापत्य ) (१) वनस्पति  
 नी अधिष्ठाता देव वनस्पति का अधिष्ठाता  
 देव A presiding god of  
 vegetable. (२) वनस्पति वनस्पति.  
 Vegetable ठा० ५, १,  
 पाडणा स्त्री० ( पातना ) (१) पाडुते गिराना,  
 पाडना To fell (२) परिभ्रमण.  
 परिभ्रमण, इधर-उधर घूमना To  
 wander, Roaming विवा० १,  
 १,

पाडय पु० ( पाटक ) भहोरजे, शेरी  
महला, रथ्या A street, A lane  
'चडालपाडय गतु' विवा० १, ८,  
पाडिपह न० ( प्रतिपथ ) अलिभुभ, सामे  
अभिमुख, सामने In the front of  
सूय० २, २, ३१,  
पायी स्त्री० ( पानो ) अेड प्रक्षरणी वेद-धत्ता.  
वह्नी-विशेष A kind of creeper  
'पायी सामावह्नी गुजावल्ली' पत्र० १,  
पाय त्रि० ( पाक्य ) पाड-येअय पाक-योग्य  
To be cooked, Matured वस०  
७, २२,  
पायत न० ( पादान्त ) गीतनो अेड भेद  
गीत का एक भेद, पाद वृद्ध गीत A  
kind of song राय० १४,  
पायस न० ( पायन ) पीयसयु ते पिलाना,  
पान कराना Causing to drink,  
Watering नाया० १, ७,  
पायपुङ्गव न० ( पादप्रोच्छन ) अेड प्रक्षरनु  
पात्र पात्र-विशेष, शराव A kind of  
vessel, A earthenware vessel  
आया० २, १०, १,  
पार पु० न० ( पार ) (१) पडोड, आगामी  
नर-भ परलोक, आगामी जन्म The  
next world, The next birth  
(२) मनुष्य लोके सिवाय नरके वगेरे  
मनुष्य लोक भिन्न नरकआदि Hell etc  
except the earth सूय० १, ६, २८,  
पारय त्रि० ( पारय ) समर्थ समर्थ Able,  
Strong, Powerful आया० २, ३,  
२, ३,  
पारासर न० ( पाराशर ) (१) अेड गोत्र, ने  
पसिष्ट गोत्रनी अेड शाभा छे गोत्र विशेष,  
जो वशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है A  
lineage which is the branch of  
the Vashistha one (२) त्रि० ते

गोलभा उत्पन्न थयेक उस गोत्रमें उत्पन्न.  
Born in that lineage डा० ७,  
पारिहस्तिय त्रि० ( पारिहस्तिक ) अेड लावथी  
निपुण स्वभाव से निपुण Naturally  
proficient डा० ६,  
पारेवई स्त्री० ( पारावती ) क्षुतरनी भाद  
कबूतरी, कबूतर की मादा A hen-pi-  
geon, A female dove विवा० १, ३,  
पावय त्रि० ( प्रावृत ) आच्छादित, ढाकेलु  
आच्छादित, ढका हुआ Covered,  
Concealed. सूय० २, ७, ३,  
पासादिय त्रि० ( प्रसादित ) (१) प्रसन्न  
क्षरेलु प्रसन्न क्रिया हुआ Pleased,  
Satisfied, Propitiated, Glad-  
dened (२) न० प्रसन्न क्षुते  
प्रसन्न करना Propitiation, Act of  
appeasing Pleasing. नाया० १, ६,  
पासिय त्रि० ( पाशिक ) क्षसामा क्षसपनर  
फालेमें फँसाने वाला An entrapper,  
One who brings into a snare  
पयह० १, २,  
पाहुड न० ( प्राभूत ) सावधकर्म, पाप  
क्रिया सावध-कर्म, पाप क्रिया A sin  
आया० २, २, ३, १,  
पिअदसय पु० ( प्रियदर्शन ) अेड प्रक्षरनी  
देव देव-विशेष A kind of god  
डा० २, ३,  
पिगुल पु० ( पिङ्गल ) अेड प्रक्षरनु पक्षी  
पक्षि-विशेष A kind of bird पयह०  
१, १,  
पिंडवाइय त्रि० ( पिण्डपातिक ) नेने लिह्ला  
भा आहारनी भाषि थरु छुय ते भक्त  
लाभ वाला, जिसको भिक्षा में आहार की  
प्राप्ति हो वह One who has got  
food in begging डा० ५, १,  
पिंडी स्त्री० ( पियडी ) गोणाला वगु वरु-

लाकारवस्तु Agobular substance,  
A circular article सू० २, ६,  
२६,  
पिंडेसिय त्रि० ( पिण्डैपिक ) लिङ्गानी गोव  
ङ्गनाग भिन्ना की रोज करने वाला. A  
beggar भग० ६, ३३,  
पिचिय त्रि० ( पिचि ) भाडेकी छल वृत्ती  
हुई छाल Pounded bark, ङ० १, ३,  
पीणाइय त्रि० ( पीनायिक ) गर्वधी निर्वृत,  
गर्वधी ट्रेक्षु गर्व मे निर्वृत, गर्व से  
किया हुआ Performed with  
pride 'पीणाइयविरसरडियसडय' नाया०  
१, १,  
पीणाया स्त्री० ( पीनाया ) गर्व, अहंकार  
गर्व, अहकार Pride, Arrogance,  
Vanity. नाया० १, १,  
पुडरिकि, त्रि० ( पुण्डरीकिन् ) पुडरीकनाथ,  
ङ्गभवाथ पुण्डरीक वाला. Having  
a lotus-flower. सू० २, १, १,  
पुड्म, त्रि० ( पुत्तिमत् ) (१) दुर्गंधी, दुर्गन्धी  
Stinking, Bad-smelling (२)  
अपवित्र अपवित्र, Unholy, Impure  
तद्गु० ३८,  
पुवउ, पु० न० ( पुवचस् ) पुदिग शब्द,  
व्याकरणोक्त सस्कार युक्त शब्द विशेष,  
पुल्लिग शब्द. A masculine word.  
पन्न० ११,  
पुक्खल, पु० ( पुक्कर ) पद्म केसर पद्म केसर  
The filament of a lotus. आया०  
२, १, ८,  
पुक्खल, पु० ( पुक्कल ) (१) अ० वि०  
एक विजय, प्रदेश-विशेष A parti-  
cular region ङ० २, ३, (२) अ०  
अनार्य देश, अनार्य देश-विशेष. An  
Anaryan country (३) त्रि० ते  
देशमा उत्पन्न थयेल. उस देश में उत्पन्न,

उसमें रहने वाला. Born in that  
country. भग० ६, ३३, (४) सपूर्थ,  
परिपूर्थ, सपूर्ण, परिपूर्ण, Quite full.  
सू० २, १, १, —विभग. न०  
( विभङ्ग ) पद्म ८६, पद्म-कन्द. A lotus  
stalk. आया० २, १, ८,  
पुग्गल, पु० ( पुद्गल ) (१) अ० प्रक्षरनु  
पुद्ग. वृक्ष-विशेष A kind of tree.  
(२) न० अ० प्रक्षरनु पुद्ग, फल विशेष.  
A kind of fruit. (३) भास मास.  
Flesh, Meat. वस० १, ६, ७३,  
पुट्टवत् त्रि० ( स्पृष्टवत् ) जेणे उपर्ग ट्रेथी  
छायते जिसने स्पर्श किया हो वह, One  
who has touched. आया० १, ७,  
८, ८,  
पुट्टि, स्त्री० ( पुट्टि ) अहि सा, दया. अहिंसा,  
दया Non-killing, Mercy पण्ड०  
२, १,  
पुट्टिय त्रि० ( पुट्टिज ) प्रश्नथी उत्पन्न थयेल.  
प्रश्न जनित, Produced by a ques-  
tion. ङ० २, १,  
पुट्टिय, त्रि० ( स्पृष्टिज ) स्पर्श जनित, स्पर्श-  
जनित, Produced by a touch.  
ङ० २, १,  
पुड, पु० न० ( पुट ) औषधि पत्रवधानु अ०  
पात्र. औषधि पत्रवधानु का पात्र-विशेष A  
kind of vessel नाया० १, १३, (२)  
पु० परिभाषु विशेष परिमाण विशेष  
A particular measure (३) पुट-  
परिमित वस्तु पुट परिमित वस्तु A  
substance measuring Puta  
राय० ३४,  
पुढची स्त्री० ( पृथिवी ) (१) धादि-यादि शुष्क  
वाणा पदार्थ, माटी पत्थर धातु वगैरे.  
काठिन्यादि गुण वाला पदार्थ, द्रव्य विशेष—  
मृत्तिका, पाषाण, धातु आदि. A thing

having qualities of hardness etc viz—clay, stone, metal etc पन्न० १, (२) ऐक दिक् कुमारी देवी एक दिक्कुमारी देवी A Dikku-ma11 goddess ठा० न,  
 पुढोचम त्रि० (पृथिव्युपम) पृथ्वी समान सहन करने की तरह सब सहन करने वाला An endure1 like the earth सू० १, ६, २६,  
 पुढोसिय त्रि० (पृथ्वीश्रित) पृथ्वीना आश्रयमा रहेलु पृथ्वी के आश्रय में रहा हुआ Resorted to the earth सू० १, १२, १३, आया०  
 पुत्ताणुपुत्तिय त्रि० (पौत्रानुपुत्रिक) पुत्र पौत्रादिने योग्य पुत्र-पौत्रादि के योग्य Worthy to be descendants 'पुत्ताणुपुत्तिय विरिंति कप्पेत्ति' नाया० १, १,  
 पुप्फ० न० (पुष्प) दूध फूल Flower —नालिया स्त्री० (नालिका) दूधनु दीट पुष्प का बँट The stalk of a flower तहु० ४, —निजास पु० (निर्यास) दूधनी रस पुष्प रस Juice of flowers जीवा० ३,  
 पुप्फणदि पु० (पुष्पनन्दिन्) ऐक राजनु नाम एक राजा का नाम A name of the king ठा० १०,  
 पुम पु० (पुस्) पु३५, न० पुरुष, नर A man, A male उक्त० १४, ३, —आणमणी स्त्री० (आज्ञापनी) पु३५ ने आज्ञा देनागी भाषा पुरुष को आज्ञा देने वाली भाषा, भाषा-विशेष A Commanding language to men पन्न० ११, —पन्नवणी स्त्री० (प्रज्ञापनी) पु३५ना लक्षणेनु प्रतिपादन करनेवाली भाषा भाषा-विशेष, पुरुष के लक्षणों का

प्रतिपादन करने वाली भाषा. A language narrating characters of men पन्न० ११, —वयण न० (वचन) पुलिग शब्दनु उच्चारण। पुलिग शब्द का उच्चारण Pronunciation of the masculine word. पन्न० ११,  
 पुरिसविजय पु (पुरुषविजय) ऐक प्रकारनु गान ज्ञान-विशेष A kind of loie. सू० २, २, २७,  
 पुरेकार पु० (पुरस्कार) सम्मान, आदर. सम्मान, आदर Honour, Respect उक्त० २६, ७,  
 पुरेवाय. पु० (पुरोवात) (१) समेह वायु. समेह वायु The moist wind (२) पूर्वं दिशाने पवन पूर्व दिशा का पवन The eastern wind नाया० १, ११,  
 पुल पु० (पुल) श्लेष्की छोटा फोडा, फुनसी. Tumour 'ते पुला मिज्जति' ठा० १०;  
 —पुल त्रि० (पुल) उन्नत, उच्च. समुच्चित, उन्नत High, Lofty. 'पुलनिपुलाए' दस० १०, १६,  
 पुव्व न० (पूर्व) ६६, १२-१५ आदि युगल. द्वन्द्व, बधु-वर आदि युग्म A pair, A couple 'पुव्वहायाणि' आया० २, ११, १३,  
 पुव्व-दारिअ त्रि० (पूर्व-द्वारिक) पूर्व दिशा में गमन करनेवाला श्लेषकारी (नक्षत्र). पूर्व दिशा में गमन करने में कल्याणकारी (नक्षत्र) Beneficial in going in the east सम० १२,  
 पुव्वपुट्टवया स्त्री० (पूर्वप्रेषपदा) ऐक नक्षत्र नक्षत्र-विशेष A particular constellation सू० प० १०, ४,  
 पुस्तदेवय न० (पुस्तदेवत) ऐक नेनेतर

शास्त्र जैनेतर शास्त्र विशेष A Non-Jain  
scripture नदी० १२४,  
पुहत्त. न० ( पृथक्त्व ) ५८२५, ५८५५  
बहुत्व Abundance, Plenty,  
Numerousness भग० १, २,  
ठा० १० ;  
पूइ स्त्री० ( पूति ) (१) अपवित्रता अपवित्रता  
Impurity, Unholiness तहु० ३८,  
(२) ओंके प्रक्षारण वक्ष वृद्ध विशेष.  
एकात्मिक वृद्ध की एक जाति A kind of  
tree पन्न० १,  
पूइयालुग. न० ( पूयालुक ) पाण्डिमा थनागी  
ओंके प्रक्षारणी वनस्पति जल में होने वाली  
वनस्पति-विशेष A kind of veg-  
table growing in water आया०  
२, १, ८,  
पूयइ पु० ( पूयकिन् ) दुर्दोष हलवाई A  
confectioner नदी० १६४,  
पेणी. स्त्री० ( पैणी ) हरिणीना ओंके लेद  
हरिणी का एक भेद A kind of deer  
पयह० १, ४,  
पेलव त्रि० ( पेलव ) (१) पातलु पतला,  
कृश Slender, Thin, Lean  
(२) सूक्ष्म, लघु सूक्ष्म, लघु Minute,  
Atomic, Small नाया० १, १,  
पोत्र न० ( पोत ) वस्त्र, कपडु वस्त्र, कपडा  
A garment, A cloth ठा०  
३, १,  
पौडरी स्त्री० ( पौडरी-पुण्डरीका ) ०५ थु द्वीपना  
मेरुनी उत्तरे स्थित पर रहनेवाली ओंके  
दिक्कुमारीदेवी जम्बू द्वीप के मेरु के उत्तर  
रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारीदेवी A  
Dikkumari goddess dwelling  
on the Ruchak mountain  
situated in the north of the  
Jambudvīpa's Meru ठा० ८,

पोरिसीय. त्रि० ( पौरिसिक ) पुरुष प्रमाण,  
पुरुष-प्रमाण, पुरुष-परिमित High as a  
man. 'कुंभी महताहियपोरिसीया' सूय०  
१, २, १, २४,  
पोरस. पु० ( पुरुष ) अत्यन्त वृद्ध पुरुष  
अत्यन्त वृद्ध पुरुष A very old  
man, An aged सूय० १, ७, १०,  
पोसग त्रि० ( पोषक ) (१) पुष्टि क्षरक पुष्टि  
कारक Tonic, Nourishing,  
Nutritive (२) पालन संरक्षक  
पालन कर्ता, A guardian, A pro-  
tector पयह० १, २,  
फल न० ( फल ) अग्रभाग अग्रभाग. The  
front 'कुताइफलेण' आया० १, ६,  
३, १०,  
फलमत त्रि० ( फलवत् ) क्षुब्धालु फल  
वाला. Fruitful, Fertile नाया०  
१, ४,  
फलासव पु० ( फलासव ) ओंके प्रक्षारण भक्ष  
मद्य-विशेष A kind of wine  
पन्न० १७,  
फलिह पु० ( स्फटिक ) रत्नप्रला पृथ्वीना  
ओंके स्फटिकभय जल रत्नप्रला पृथ्वी का  
एक स्फटिकमय काण्ड A crystal  
region of the Ratnaprabha.  
ठा० १०,  
फासामय त्रि० ( स्पर्शमय ) स्पर्शमय स्पर्श  
मय, स्पर्श से निर्वृत्त. Tangible  
'फासामयाओ सोक्लाओ' ठा० १०,  
फुर पु० ( स्फुर ) ओंके प्रक्षारण शस्त्र शस्त्र  
विशेष A kind of weapon पयह०  
१, ३,  
फुल्लया. स्त्री० ( पुष्पदा ) ओंके प्रक्षारणी लता  
बल्ली-विशेष, शत पुष्पा, सोया का गाछ  
A kind of creeper पन्न० १,  
फोड. पु० ( स्फोट ) क्षेपण, क्षेपण फोडा,

ब्रह्म-विशेष A tumour टा० १० ,  
 फोस पु० ( फोस ) गुद , अथान देश  
 अथान देश, गुदा. The anus. तंदु० २०,  
 वभ पु० ( बहान् ) (१) अध्यायना अधिप्रायक  
 देव अष्काय का अधिप्रायक देव The  
 presiding god of water टा०  
 ५, १, (२) ऐक जैन मुनितु नाम एक  
 जैन मुनि का नाम The name of a  
 Jain saint कप्प० (३) सत्य अनुष्ठान  
 सत्य अनुष्ठान True performance.  
 सूय० २, ५, १, (४) निषिद्धय सुभ  
 निर्विकल्प सुख Unalteinative  
 happiness आया० १, ३, १, २,  
 —चय न० ( व्रत ) धर्मार्थ ब्रह्मचर्य  
 Celibacy, Chastity, Absti-  
 nence. नाया० १, १,  
 वगी स्त्री० ( वकी ) अथानी मात बगुली,  
 बगुले की मादा A hen-crane विवा०  
 १, ३,  
 वत्थि-पुडग पु० न० ( वस्ति-पुटक ) पेटनी  
 अदरने भाग पेट का भीतर प्रदेश The  
 interior of a stomach निर० १,  
 १,  
 वद्मग पु० ( वदक ) ऐक प्रक्षरतु पाद्य तूण-  
 वाद्य-विशेष A kind of musical-  
 instrument राय० ४६,  
 वलीवद पु० ( वलीवर्द ) अणद बैल, वृषण  
 An ox, A bullock विवा० १, २,  
 वहस्सइ पु० ( बृहस्पति ) (१) ऐक आत्मभुने  
 पुत्र एक ब्राह्मण-पुरोहित पुत्र A son of  
 a Brahmin (२) विपाक सूत्र ऐक  
 अध्यायन विपाक सूत्र का एक अध्ययन  
 A chapter in the Vipaka  
 scripture विवा० १, १,  
 वहिस्ता अ० ( वहिस्तात् ) अहार बाहर  
 Outward सू० प० ६,

बहुरय न० ( बहुरजस् ) येवजानेषु ऐक प्रक्षरतु  
 आद्य खाद्य-विशेष, चिउडा की तरह का एक  
 प्रकार का खाद्य A kind of eatable  
 आया० २, १, १, ३,  
 बहुल पु० ( बहुल ) आचार्य महागिरिनी  
 शिष्य, ऐक प्राचीन जैन मुनी आचार्य  
 महागिरि के शिष्य, एक प्राचीन जैन मुनि  
 A pupil of the preceptor  
 Mahagiri, An ancient Jain  
 Muni. नदी० ४६,  
 बाल न० ( बाल्य ) भूर्धता, अणपण्य बालत्व,  
 बालपन, मूर्खता Foolishness, In-  
 fancy, Childhood Ignorance.  
 उक्त० ७, ३७, पु० ( बाल ) सयभरहित  
 असयत, सयम रहित A non-self-  
 controller टा० ४, ३,  
 बालवियण पु० स्त्री० ( बालव्यजन ) आमर  
 चामर A fly-diveer नाया० १, ३,  
 बाहा स्त्री० ( बाधा ) पीडा पीडा, परस्पर  
 सश्लेष से होने वाली पीडा Pain,  
 Affliction. भग० १४, ८,  
 बिजडि. पु० ( द्विजटिन् ) ऐक महाग्रह एक  
 महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष A great  
 constellation सू० प० २०,  
 बिच्चोत्र. पु० ( बिच्चोक ) क्षमविक्षर. काम-  
 विकार Passions अखुजो० १३६,  
 बिच्चोइत्र. न० ( बिच्चोक्ति ) स्त्रीनी शृंगार  
 येष्टने ऐक लेट स्त्री की शृंगार चेष्टा का  
 एक भेद A kind of an amorous  
 gesture of a woman पण्ड० २, ४,  
 विलकोलीकारक. त्रि० ( विलकोलीकारक )  
 भीमने व्यामुग्ध क्षरवाभाटे विच्यर वचन  
 जोलनार दूसरे को व्यामुग्ध करने के लिये  
 विस्तर वचन बोलने वाला A speaker  
 of discordant words to infatu-  
 ate others पण्ड० १, ३,

विल्लल. पु० ( विल्लल ) (१) अेक अनार्थ देश  
अनार्थ देश विशेष An Anayan  
country (२) ते देशमा रहेनारी  
मनुष्य जाति उस देश में रहने वाली  
मनुष्य-जाति. A human race dwel-  
ling in that country पृष्ठ० १, १,  
वीमच्छ. पु० ( वीमत्स ) साहित्य प्रसिद्ध अेक  
अस साहित्य प्रसिद्ध एक रस The dis-  
gusting sentiment, one of the  
nine Rasas in poetry अणुजो  
१३२,

बुद्ध पु० ( बुद्ध ) आचार्य आचार्य A pre-  
ceptor उक्त० १, ७, —पुत्र पु० ( पुत्र )  
आचार्यना शिष्य. आचार्य-शिष्य A  
pupil of a preceptor उक्त० १, ७,  
बुद्धंत. पु० न० ( बुद्धान्त ) नीचेना भाग अघो  
भाग, नीचे का हिस्सा The lower  
part सू० प० २०,

बुद्धमाणि त्रि० ( बुद्धमानिन् ) चेताने पडित  
माननार निज को पण्डित मानने वाला  
Fancying oneself to be learn-  
ed सू० १, ११, २२,

बुद्धि स्त्री० ( बुद्धि ) अहिंसा, दया अहिंसा,  
दया Non-killing, Mercy पृष्ठ०  
२, १,

बुध त्रि० ( बुध ) जालनार बोलने वाला A  
speaker सू० १, ७, १०,

बेभेल पु० ( बेभेल ) विध्यायणी नीचेनु  
अेक स्थान विन्ध्याचल के नीचे का एक  
सन्निवेश A situation on the  
foot of the Vindhya-chala  
mountain भग० ३, २,

बेहिम त्रि० ( द्वैधिक ) जे टुकडा करवा जेज्य  
दो टुकडे करने योग्य, खण्डनीय Wo-  
thy to be divided into two  
pieces दस० ७, ३२,

बोलग पु० न० ( ब्रोड ) (१) डूधपुते  
मज्जन, डूधना To drown, To  
sink (२) जे थाप, आकर्षण कर्षण,  
खींचाव Attraction विवा० १, ६,  
भगा स्त्री० ( भगा ) अेक प्रकारती पनअपति.  
वनस्पति-विशेष A kind of vege-  
table टा० २, ३,

भडग न० ( भाण्डक ) गृह, स्थान गृह,  
स्थान A house, A habitation.  
जीवा० ३

भडिया स्त्री० ( भाण्डिका ) थाणी स्थाली,  
थलिया A large plate टा० ८,  
भत त्रि० ( नगवत् ) लगवान, अेश्वर्यशाली  
भगवान्, ऐश्वर्यशाली Glorious,  
Illustrious, Supreme, Divine,  
Majestic टा० ३, १,

भडग पु० ( भटक ) (१) अेक अनार्थ देश  
अनार्थ देश-विशेष An Anayan  
country (२) ते देशमा रहेनारी  
मनुष्य जाति उस देश में रहने वाली एक  
स्लेच्छ जाति An Anayan tribe  
residing in that country पृष्ठ०  
१, १,

भद्रा स्त्री० ( भद्रा ) अहिंसा, दया अहिंसा,  
दया Non-killing, Mercy पृष्ठ०  
२, १,

भयकर त्रि० ( भयकर ) प्राणिवध, हिंसा  
प्राणिवध, हिंसा Killing, Depriv-  
ing of life पृष्ठ० १, १,

भयत त्रि० ( भयत्र ) लयथी रक्षा करनार  
भय से रक्षा करने वाला A protector  
from fear सू० १, १६, ६,

भर पु० ( भर ) (१) प्रचुरता, अतिशय  
प्रचुरता, अतिशय Abundance,  
Plenty (२) लारे कर-अडित कर  
राजदेय भाग की प्रचुरता, कर की गुस्ता

- Heaviness of taxes 'करोहिय भरोहिय' चिवा० १, १,  
 भल्ल पु० ( भल्ल ) गी० भालू, रीछ A  
 bear परह० १, १,  
 भव त्रि० ( भव ) (१) लायी थनाइ होने  
 वाला, भावी To be in future,  
 What will take place ठा० १,  
 (२) पु० जन्म, उत्पत्ति जन्म, उत्पत्ति  
 Both, Production, Creation  
 ठा० ४, ३, (३) नरकादि योनि नरकादि  
 योनि, जन्म स्थान The generating  
 cause of hell etc ठा० २, ३, ४, ३,  
 भव्य त्रि० ( भव्य ) (१) सुंदर सुन्दर  
 Beautiful, Grand, Handsome.  
 (२) थतु वर्तमान होना, वर्तमान  
 Being. नाया० १, १६,  
 भाग पु० ( भाग ) (१) पूजा पूजा, मजन  
 Worship, Devotion सूय० १,  
 ८, २२, (२) अवकाश, भाडीका  
 अवकाश Space, Vacancy सू०  
 प० १०, ३,  
 भायण न० ( भाजन ) आकाश आकाश,  
 गगन The sky भग० २०, २,  
 भार पु० ( भार ) परिग्रह, धन धान्यादिने  
 सग्रह परिग्रह, धन धान्यादि का सग्रह  
 Possession, Taking under  
 one's protection परह० १, ५,  
 भारिअ, त्रि० ( भारिक ) भारी भारी,  
 भार वाला, गुरु Heavy, Weighty  
 नाया० १, ६,  
 भाव पु० ( भाव ) आत्मा आत्मा The  
 soul भग० १७, ३, —प्राण. पु०  
 ( प्राण ) ज्ञान आदि आत्माना अतरंग  
 शुद्ध ज्ञान आदि आत्मा का अन्तरङ्ग गुण  
 Knowledge etc the internal  
 virtues of the soul. पत्र० १,  
 भासाविजय पु० ( भासाविजय ) (१) भाषा  
 ने निरुथ, भाषा का निरुथ. Settle-  
 ment of the language (२) दृष्टि-  
 वाद नामे आरभो अंग दृष्टिवाद, बारहवा  
 जैन अंग-ग्रन्थ The twelfth Anga  
 scripture of Jainism called  
 Diastivada. ठा० १०,  
 भासिल्ल त्रि० ( भाषावत् ) भाषावाणु  
 भाषा-युक्त, वाणी युक्त An orator,  
 A speaker उक्त० २७, ११,  
 भिंग. पु० ( भृङ्ग ) डोयला कोयला Coal  
 नाया० १, १,  
 भिक्खु पु० स्त्री० ( भिद्ध ) भौद्ध सन्यासी  
 बौद्ध-सन्यासी A Bauddha monk  
 'चउच्चिह भिक्खुसमयस्मि' सूय० नि० ३१,  
 —पडिमा स्त्री० ( प्रतिज्ञा ) साधुने  
 निमित्त साधु का उद्देश, साधु के निमित्त  
 For saints आया० २, ६, १, ४,  
 भिच्च त्रि० ( भुच्य ) पोषण डरवा योग भर-  
 णीय, पोषणीय Worthy to be  
 nourished परह० १, २,  
 भिज्ज न० ( भेज ) अेक प्रकारने डो कर-  
 विशेष, दण्ड-विशेष A kind of tax  
 चिवा० १, १,  
 भिज्जमय त्रि० ( अभिश्चित ) दोषने विषय,  
 सुंदर लोभ का विषय, सुन्दर. Attra-  
 ctive, Beautiful भग० ६, ३,  
 भोजण न० ( भोजन ) उपभोग उपभोग  
 Enjoyment, Tasting सूय० २  
 १, १७,  
 भोगविस पु० ( भोगविष ) सर्पनी अेक जति  
 सर्प की एक जाति A kind of sei-  
 pent पत्र० १,  
 भोगि. न० ( भोगिन् ) शरीर, देह शरीर,  
 देह. A body भग० २, ६,  
 मकाइ. पु० ( मङ्कति ) अेक अतर्क मङ्कति.



- एक अन्तर्कृद् महर्षि A saint who freed himself from birth and death अत० ६, १,
- मकार पु० (मकार) 'म' अक्षर 'म' अक्षर The word 'म' अ० १०,
- मगल न० (मङ्गल) भुगामत प्रशसा वाक्य, खुशामद Flattery, False praise सू० १, ७, २५,
- मगलिञ्च त्रि० (माङ्गलिक) प्रशसा वाक्य भेदना प्रशसा वाक्य बोलने वाला A minstrel, A congratulator 'मुहमगलिण' सू० १, ७, २५,
- मडलचत त्रि० (मण्डलवत्) भ्रमण यात्रा भ्रमण करने वाला A wanderer in a circle सू० ५० १, ७,
- मडावण न० (मण्डन) सजाना, विभूषित करने से सजाना, विभूषित कराना To decorate, To adorn — घाई स्त्री० (घात्री) सजाने वाली दासी, सजाने वाली दासी A maid-servant आया० २, १५, ११,
- मद पु० (मन्द) रोगी रोग-ग्रस्त, रोगी A patient उक्त० ८, ७,
- मदिञ्च त्रि० (मान्दिक) मन्दता वाला, मन्द Dull, Lazy, Inactive 'बालेय मदिण मूडे' उक्त० ८, ५,
- मदुय पु० (मन्दुक) जल-जन्तु-विशेष A kind of water-insect पृष्ठ० १, १,
- मस न० (मास) फल का गर्भ, फल का गुहा The interior of a fruit आया० २, १, १०, ५-६,
- मसी स्त्री० (मासी) गन्ध-द्रव्य विशेष, जटामासी. A kind of fragrant substance पृष्ठ० २, ५,
- मगर पु० (मकर) शङ्ख राहु The planet called Rahu सू० ५० २०,
- मगसिर, स्त्री० न० (मृगशिरस्) नक्षत्र-विशेष A particular constellation, Name of the fifth lunar mansion consisting of three stars अ० २, ३,
- मगत्थ, त्रि० (मार्गस्थ) (१) मार्गमा शङ्खु. मार्ग में स्थित Way-faring. (२) सोण वर्षाधी वधारे उमरवाणु. सोलह से ज्यादा वर्ष की उमर वाला. Sixteen years old सू० २, १, ६,
- मघ, पु० (मघ) मेघ मेघ A cloud भग० ३, २, पञ्च० २,
- मच्छ पु० न० (मत्स्य) माछावाला आकार वाली एक वनस्पति A kind of vegetable having the form of a fish आया० २, १, १०, ५-६,
- मज्जार, पु० (मार्जार) अक्षर प्रक्षरने वाला, वायु-विशेष. A kind of wind. भग० १५,
- मज्जावीञ्च त्रि० (मद्यपीत) पीने पीधी होय ते. जिसने मद्यपान किया हो वह. A drunkard, Drunk विवा० १, ६,
- मडुय, पु० (मडुक) वाद्य-विशेष A kind of musical instrument राय० ४६,
- मणसीकय, त्रि० (मनसिकृत) चिन्तित Meditated, Thought. पञ्च० ३४,
- मणालिया स्त्री० (मृणालिका) मूल का मूल The fibrous root of a lotus तदु० २०,
- मणिचइया स्त्री० (मणिचयिता) अक्षर नगरी.

नगरी विशेष A name of a city  
 विवा० २, ६,  
 मखिवइ, खी० (मखिन्ति) ऐ नामनी ऐठ  
 नगरी, नगरी विशेष A particular  
 city. विवा० २, ६,  
 मखोमय, त्रि० (मनोमय) मानसिक, मान-  
 सिक Mental. पयह० १, ३,  
 मखोरह पु० (मनोरथ) पक्षने तृतीय  
 दिवस पच का तृतीय दिवस. The  
 third day of a lunar fortnight  
 सू० प० १०, १४,  
 मखोरह, पु० (मनोरथ) पक्षने तृतीय दिवस  
 पच का तृतीय दिवस. The third day  
 of a lunar fortnight. सू० प०  
 १०, १४,  
 मत्त न० (मत्त) धरु मय, दारु Liquor,  
 Wine डा० ७,  
 मत्थय पु० न० (मस्तक) गर्भ, इल पगेरे  
 ने मध्य भाग गर्भ, फल आदि का मध्य  
 भाग The interior of a fruit  
 etc आया० २, १, ८, ६,  
 मन्ना खी० (मान्या) स्वीकार अभ्युपगम,  
 स्वीकार Acceptance डा० १,  
 ममि त्रि० (मामक) माइ मेरा, मदीय  
 Mine 'मम वा ममि वा' सूय० २, २, ६,  
 मय न० (मत) मनन, ज्ञान. मनन, ज्ञान  
 Meditation, Knowledge सूय०  
 २, १, २०,  
 मय पु० न० (मय) हाथीना गन्धमयी  
 अरु प्रवाही द्रव्य हाथी के गण्डस्थल से  
 फरता प्रवाही पदार्थ The juice or  
 ichor that exudes from the  
 temples of an elephant in  
 iunt नया० १, १,  
 मरहट्ट पु० न० (महाराट्ट) (१) मोठी देश  
 बडा देश The great country

(२) पु० महाराष्ट्र देशना निवासी, मराठ.  
 महाराष्ट्र देश का निवासी, मराठा In-  
 habitants of Maharashtra,  
 The Marathi पयह० १, १,  
 मरुअवसम पु० (मरुद्वेषम) धरु इन्द्र  
 The lord of gods पयह० १, ४,  
 मरुय त्रि० (मरुज) मरु देशमा उत्पन्न यथेव.  
 मरु देश में उत्पन्न Produced in  
 Marwar पयह० १, ४,  
 मल्ल पु० (मल्ल) (१) ली तने देश इय  
 स्तल सीत का अष्टम्भन-स्तम्भ A  
 pillar of a wall (२) छपराना  
 आधार भूत धरु छपर का आधार भूत  
 काष्ठ A pillar of a roof अग०  
 ८, ६,  
 महती खी० (महती) से तातवाणी वीक्षु  
 वीणा विशेष, सो ताँत वाली वीणा A  
 kind of lute राय० ४६,  
 महद्दि खी० (महादि) (१) मोठी याचना  
 बडी याचना A great begging  
 (२) परिग्रह परिग्रह Possession  
 पयह० १, २,  
 महाघण्टु पु० (महाघण्टु) अण्डेवनेो ऐठ  
 पुत्र बलदेव का एक पुत्र A son of  
 Baladeo निर० १, २,  
 महापउम पु० (महापन्न) श्रेष्ठि राननेो  
 ऐठ पौत्र राजा श्रेष्ठिक का एक पौत्र A  
 grandson of the king Shie-  
 nika निर० १, १,  
 महापउमा खी० (महापन्ना) श्रेष्ठि रान  
 नी ऐठ पुत्र वधू श्रेष्ठिक राजाकी एक पुत्र  
 बधू A daughter-in-law of the  
 king Shrenika निर० १, १,  
 महापालि खी० (महापालि) (१) मोठी  
 पय वडा पय A particular  
 measure of time (२) सागरोपम-

परिमित अवस्थिति सागरोपम-परिमित  
 भव-स्थिति-आयु Existence upto  
 Sagoropama ( a particular  
 measure of time ) 'जा सा पत्नि-  
 महापाली' उक्तं १८, २८,  
 महालय पु० न० ( महालय ) (१) उत्सवो  
 तु स्थान उत्सवों का स्थान A festive  
 place सम० ७२, (२) मोट्टु स्थल  
 बडा आलय A big situation. (३)  
 त्रि० मोट्टु शरीरवाणु बृहत्काय, बडा  
 शरीर वाला. Large bodied, Gi-  
 gantic सूय० २, ५, ६,  
 महाविगद्री स्त्री० ( महाविकृति ) अति विक्षो-  
 षणत्वं पशु-मधु, मास, मद्य अने माभयु  
 अति विकार जनक ये वस्तु—मधु, मास,  
 मद्य और माखन Cause of pertur-  
 bation ११/ Honey, flossh,  
 liquor and butter ठ० ४, १,  
 महासउषि. स्त्री० ( महाशकुनि ) ओ३ विधा-  
 धर स्त्री एक विद्याधर-स्त्री A female  
 semi-divine being पण्ह० १, ४,  
 महिच्छा त्रि० ( महच्छा ) महत्वाकांक्षी  
 महत्वाकाङ्क्षी Desirous of mighti-  
 ness सूय० २, २, ६१,  
 महिस्सर पु० ( महेश्वर ) ओ३ छन्द, भूतपादि  
 देवोना उत्तर दिशाना छन्द एक इन्द्र, भूत  
 वादि देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र  
 Name of an India ठ० २, ३,  
 महि. स्त्री० ( महि ) ओ३ नदी, नदि-विशेष A  
 name of a river. ठ० ५, २,  
 महुसिगी. स्त्री० ( मधुशुद्धी ) ओ३ प्रक्षरनी  
 पनस्पति, वनस्पति विशेष A kind of  
 vegetable, पत्र० १,  
 माणव पु० ( मानव ) महावीर भगवानने  
 ओ३ गणु भगवान् महावीर का एक गण  
 A body of followers of Lord

Mahavi ठ० ६,  
 माणवग य० पु० ( मानवक ) ओ३ निधि,  
 अस्त्र-शस्त्रोनी पूर्ति करना निधि एक  
 निधि, अस्त्र-शस्त्रों की पूर्ति करने वाला निधि  
 A particular treasure ठ० ६,  
 माणी स्त्री० ( मानिका ) २५६ पद्योनु ओ३  
 माप २५६ पलों का एक माप A meas-  
 ure of 256 minutes अष्टुजो०  
 १५२,  
 मारा स्त्री० ( मारा ) प्राणिवधनु स्थान प्राणि  
 वध का स्थान, शूना A place of exe-  
 cution, A slaughter-house  
 नाया० १, १६,  
 मास पु० ( माप ) (१) ओ३ अनार्थ देश.  
 अनार्थ देश-विशेष An Anayan  
 country (२) ते देशमा रडेनारी  
 मनुष्य जाति देश-विशेष में रहने वाली  
 मनुष्य-जाति. A human-race habi-  
 tating in that country पण्ह०  
 १, १,  
 मित्रवाह, त्रि० ( मित्तवादिन् ) आत्मा आदि  
 पदार्थों पर परिमित मानना. आत्मा आदि  
 पदार्थों को परिमित मानने वाला A  
 believer of soul etc in limit  
 ठ० ८,  
 मिउ, त्रि० ( मृदु ) मनोम, सुंदर मनोज्ञ, सुन्दर,  
 Beautiful, Handsome नदी० ५२,  
 मित्तकेसी स्त्री० ( मित्रकेशी ) ३५८ पर्वत उपर  
 रडेनारी ओ३ दिक्कुमारी देवी, रुचक पर्वत  
 पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी A Dik-  
 kumari goddess residing on  
 the Ruchaka mountain. ठ० ८,  
 मित्तएदि पु० ( मित्रनन्दिन् ) ओ३ राजनु  
 नाम एक राजा का नाम A name of  
 the king. विवा० २, १०,  
 मित्तदाम पु० ( मित्रदाम ) ओ३ कुलदर पु३पु३

नाम. एक कुलकर पुरुष का नाम Name of a Kulakara सम० १२०,  
 मिरिह-मिरीह पु० स्त्री० ( मरीचि ) किरण, प्रकाश, तेज किरण, प्रभा, तेज A ray of light, Lustre. Radiance. श्रोत्र० ठा० ४, १, पृष्ठ० १, ४,  
 मिस्ताकूर. पु० न० ( मिश्राकूर ) ओष्ठ प्रक्षरनुपाध खाद्य-विशेष A kind of eatable 'मिस्ताकूर भोच्चा' सू०प० १०, १७,  
 मुञ्ज. त्रि० ( स्मृत ) याद करेणु याद किया हुआ Remembered, Recollected. सूय० २, ७, ३८,  
 मुडपरसु पु० ( सुयडपरसु ) तीक्ष्ण कुवाडी नगा कुलशाबा, तीक्ष्ण कुडार. A sharp axe. पृष्ठ० १, ३,  
 मुण्डिअ त्रि० ( मुण्डिक ) पागल, भूताविष्ट ग्रह-गृहीत, भूताविष्ट, पागल Possessed by ghosts. भग० १२,  
 मुदा. स्त्री० ( मुद ) हर्ष, शुशी. हर्ष, खुशी Delight, Glee. — गर त्रि० ( कर ) हर्षजनक हर्ष-जनक, Delighting सूय० १, ६, ६,  
 मुमुक्षु स्त्री० ( मुमुक्षु ) मनुष्यनी दश दशाभ्यामानी नवमी दशा, ८० थी ८० वर्षनी अवस्था मनुष्य की दश दशाओं में नववी दशा, ८० से ९० वर्ष तक की अवस्था. The ninth of the ten states of human life ठा० १०,  
 मुह न० ( मुख ) ( १ ) अग्रभाग अग्रभाग, The front सू० प० ४, ( २ ) उपाय, उपाय. A remedy उक्त० २२, १६,  
 मूय. न० ( मौन ) चुपड़ी चुप्पी Silence पृष्ठ० २, ४,  
 मूयग पु० ( मूयक ) मेवाड देशभा प्रसिद्ध ओष्ठ प्रक्षरनुपाध मेवाड देश में प्रसिद्ध एक

प्रकार का तृण A kind of grass famous in Mewar पृष्ठ० २, ३,  
 मूरग त्रि० ( भलक ) लागतार, थूरी करतार भागने वाला, चूरने वाला A breaker पृष्ठ० १, ४,  
 मे अ० ( मे ) ( १ ) भाड़ मेरा Mine ( २ ) भासथी मुक्त से By me ठा० १,  
 मेहण न० ( मेहन ) ( १ ) उरसु, उरसु करना, टपकना To ooze, To leak. ( २ ) मूत्र प्रसवण, मूत्र Urine 'महु मेहण' आया० १, ६, १, २,  
 मेहा स्त्री० ( मेधा ) अत्युत्कृष्ट ज्ञान अवग्रह ज्ञान. The first of the four varieties of Matijana. नदी० १७४,  
 मोडग त्रि० ( मोटक ) वाणतार मोडने वाला. One who twists or bends पृष्ठ० १, ४,  
 रड्अ त्रि० ( रचित ) भलेख आदिनी पाठनी भीत महल आदि की पीठ भित्ति. The behind wall of the palace etc अखुजो० १२४,  
 रक्खोवग त्रि० ( रक्षोपग ) रक्षुभा तत्पर रक्षण में तत्पर Ready to protect. राय० ११३,  
 रट्टिअ, पु० ( रट्टिक ) देशनी अन्तर राप्पवाभाटे नियुक्त करेण राज-प्रतिनिधि, सुभो. देश की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूबा A governor पृष्ठ० १, २,  
 रत्तपपाय, पु० ( रत्तपपात ) ओष्ठ प्रक्ष-कुष्ठ. ब्रह्म विशेष A basin ठा० २, ३,  
 रमिअ न० ( रत्त ) रमथु, झीजा. रमण, झीजा A spot, Merment. नाया० १, ६,  
 रयणी स्त्री० ( रजनी ) ( १ ) मध्यम आभनी ओष्ठ मूर्च्छना. मध्यम आभकी एक मूर्च्छना. An intonation of the fifth

note in music. ग० ७, (२) प३०५  
 आभनी ऐकं मूर्च्छना. पदज्ञ ग्राम की एक  
 मूर्च्छना. A modulation of the  
 first note in music. ग० ७,  
 रयत्ताण, न० (रजत्ताण) जैन मुनिनु ऐकं  
 उपकरणं जैन मुनि का एक उपकरण. An  
 implement of the Jain saint.  
 पण्ह० २, ५,  
 रसण, न० (रसन) शूल जिह्वा, जीभ, A  
 tongue पण्ह० १, १,  
 रसिञ्च, न० (रसित) शब्द, अवाण शब्द,  
 आवाज A sound, पण्ह० १, १,  
 रह पुं० (रभस) उत्साह उत्साह Zeal,  
 Enthusiasm सू० १, ५, १, १८,  
 रहनेमि पुं० (रयनेमि) नेमिनाथ भगवान  
 ना भाई भगवान् नेमिनाथ का भाई A  
 brother of Lord Neminatha.  
 उक्त० २२, ३६,  
 रहनेमिज्ज न० (रयनेमीय) उत्तराध्ययन  
 सूत्रनु आदीसु अध्ययन उत्तराध्ययनसूत्र  
 का बाईसवाँ अध्यायन The twenty-  
 second chapter in the Utra-  
 dhyayan scripture उक्त० २२,  
 राइशिञ्च त्रि० (राजन्त्य) राजनी समान  
 वैभव वाजे, श्रीमत् राजा के समान  
 वैभव वाला, श्रीमन्त King-like  
 magnificent सू० १, २, ३, ३,  
 रायनीइ स्त्री० (राजनीति) राजनी शासन  
 करनेवाली रीति राजा की शासन करने की  
 रीति A method of ruling of  
 the king राय० ११७,  
 रावण पु० (रावण) ऐकं प्रकृतनु वृक्ष  
 गुल्म-विशेष. A kind of tree पन्० १,  
 राहु पु० (राहु) कृष्ण पुद्गल-विशेष कृष्ण  
 पुद्गल-विशेष A kind of black  
 material molecule. सू० ५०२०,

रिञ्च न० (रिञ्च) (१) गमन, गमन Going,  
 Departing 'पुरश्चो रिय सोहमारणे'भग०  
 (२) सत्य सत्य. Truth भग० ८, ७,  
 रिद्ध पु० (रिद्ध) ऐकं साह जेने कृष्णे भार्थे  
 छतो एक दस साँढ, जिसको कृष्ण ने मारा  
 था A bullock who was killed  
 by Shree Krishna पण्ह० १, ४,  
 रु स्त्री० (रू) रोग रोग, विमारी A  
 disease तदु० ४६,  
 रुञ्जग, पु० (रुचक) शान्ति, प्रकाश कान्ति,  
 प्रभा Lustre, Radiance, Bril-  
 liance पण्ह० १, ४,  
 रुञ्जगावई स्त्री० (रुचकावती) ऐकं भद्राष्टी  
 एक इन्द्राणी A queen of the  
 Lord of gods नाया० २,  
 रुक्ल पु० न० (रुक्) सयम, विरति  
 सयम, विरति Self-control सू०  
 १, ४, १, २२,  
 रुरु पु० (रू) (१) ऐकं पन्यपति वनस्पति  
 विशेष A kind of vegetable पन्०  
 १, (२) ऐकं अनार्य देश एक अनार्य  
 देश An Anaryan country  
 (३) ऐकं अनार्य मनुष्यजाति एक अनार्य  
 मनुष्यजाति A human tribe of  
 that country पण्ह० १, १,  
 रुञ्जग-रुञ्जय पु० न० (रूपक) (१)  
 ऐकं गृहस्थ एक गृहस्थ A house-  
 holder, A gentleman नाया० २,  
 (२) श्वादेवीनु सिंहासन, रूपादेवी का  
 सिंहासन A throne of the goddess  
 named Rupadevi नाया० २,  
 —डिसय, न० (अवतसक) श्वादेवीनु  
 भवन रूपादेवी का भवन A place of  
 Rupadevi नाया० २,  
 रूच, पु० न० (रूप) अभाव, स्वभाव,  
 Nature ग० ६,

रोगिणिम्ना, स्त्री० ( रोगिणिका ) रोगना करण्ये  
 देवाती दीक्षा रोग के कारण ली जाती  
 दीक्षा Initiation on account of  
 a disease ठ० १०,  
 रोह. पु० ( रौद्र ) (१) ऐकं रत्न , श्रील  
 अण्डेय अने वासुदेवना पिता, एक नृपति ,  
 तृतीय बलदेव और वासुदेव का पिता, A  
 name of a king , The father  
 of the third Baldeo and  
 Vasudeo ठ० ६, (२) त्रि० दारुण ,  
 बय कर दारुण , भयकर , भीषण, Terri-  
 ble, Flightful. ठ० ४, ४, (३) न०  
 ऐकं ध्यान, ध्यान-विशेष. One of the  
 four meditations. ओव०  
 रोम. न० ( रोम ) आशुभा यत्तु भीक्षु, खान  
 में होता लवण Salt of a mine  
 दस० ३, ८,  
 लचा, स्त्री० ( लच्चा ) दाय घुप, रिशवत, A  
 bribe. पणह० १, ३,  
 लच्छ. पु० ( लच्छ ) चोरानी ऐकं जति, चोरों  
 की एक जाति A kind of thieves  
 विवा० १, १,  
 लभण. पु० ( लम्भन ) मत्स्यनी ऐकं जति.  
 मत्स्य की एक जाति. A kind of fish.  
 विवा० १, ८,  
 लभिञ्च. त्रि० ( लम्भित ) प्राप्त करवेक्षु . प्राप्त  
 कराया हुआ , प्रापित. Caused to  
 obtain सूय० २, ७, ३७,  
 लज्जावण. त्रि० ( लज्जन ) शरभावनार शर-  
 मन्दा करने वाला. One that makes  
 ashamed पणह० १, ३,  
 लज्जाविय त्रि० ( लज्जित ) शरभावेक्षु लज्जावा  
 हुआ Made ashamed , Put to  
 shame पणह० १, ३,  
 लडि स्त्री० ( लडि ) अडि सा अडिसा Non-  
 killing पणह० २, १,

लया स्त्री० ( लता ) दाडडी, छडी. कम्बा, यदि  
 A stick नाया० १, २, विवा० १, ६,  
 लहु-लहुञ्च त्रि० ( लघु ) पु० लुच्छ, नि सार  
 Insignificant, Trifling. पणह०  
 १, २, २, २,  
 लिञ्च त्रि० ( लावणिक ) लवण्युथी सस्कारेक्षु  
 लवण से सस्कृत Seasoned by  
 salt विवा० १, २,  
 लिच त्रि० ( लिच ) वीक्षणेषु सवेष्टित  
 Whipped सूय० १, ३, ३, १३,  
 लिप्यासन न० ( लिप्यासन ) अडीया मपी-  
 भाजन, दोत An ink-stand राय०  
 ६६,  
 लुपइचार त्रि० ( लोपयितृ ) लोप करनार.  
 लोप करनेवाला One who violates.  
 सूय० २, २, ६,  
 लूसय त्रि० ( लूपक ) (१) परिताप करनार  
 परितापकर्ता One that gives pain-  
 आया० २, १, ६, ४, (२) चोर, तस्कर  
 चोर, तस्कर A thief वव० ४,  
 लेप्या स्त्री० ( लेप्या ) लेपनक्रिया लेपन क्रिया,  
 Act of besmearing उक्त० १६, ६२,  
 लोग पु० ( लोक ) ऐकं प्रक्षरनु परिभाष्य.  
 मान-विशेष, श्रेणीसे गुणित प्रतर A  
 kind of measure अणुजो० १७३,  
 लोगुत्तर पु० ( लोकोत्तर ) (१) मुनि, साधु  
 मुनि, साधु A saint. (२) न० जिन-  
 शासन जिन शासन Jaina doc-  
 trine (३) जैन सिद्धान्त जैन सिद्धान्त.  
 Jaina Scripture अणुजो० २६,  
 लोगुत्तरिञ्च त्रि० ( लोकोत्तरिक ) (१) साधुनु-  
 साधु का Pertaining to a saint.  
 (२) जिन शासननु जिन शासन का.  
 Relating to Jaina doctrine.  
 अणुजो० २६,  
 लोभण्य त्रि० ( लोभनक ) लोभी. लोभी.

Greedy , Avaricious आया० २,  
१२, २,  
लोहार पु० (लोहकार) लुहार लोहार A  
blacksmith ठ० ८,  
लोहित्र न० (लोहित) दौशिक गोत्रनी अेक  
शाखा गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की  
एक शाखा है A lineage which is  
the branch of the Kaushika  
ग० ७,  
वद्मत त्रि० (वाद्मत) पयनपाणु वचनवाला  
Wordy आया० २, १, ६, १,  
वद्भूमि स्त्री० (वद्भूमि) लाटदेशनी अेक  
प्रदेश लाट देशका एक प्रदेश A region  
of the Lata country. आया० १,  
६, ३, २,  
वद्भसेना. स्त्री० (वद्भसेना) अेक ध-द्राणी,  
दक्षिणतय पाणुव्यतरे-द्रनी अेक अग्रम-  
हिणी एक इन्द्राणी, दाचिणात्य वाणव्यन्त-  
रेन्द्र की एक अग्रमहिणी A crowned  
queen of the lord of Vanavy-  
antar gods नाया २,  
वद्भस्त्रदेव पु० (वैश्वदेव) अग्नि वैश्वानर,  
अग्नि Fire निर० ३, १,  
वङ्कण न० (वङ्कन) पाकु डरपुते वक्कीकरण,  
कुटिल बनाना Bending, Act of  
twisting ठ० २, १,  
वग त्रि० (व्यङ्ग) विस्त अग पाणु विकृत  
अग वाला Having deformed  
limbs पण्ड० १, ४,  
वली स्त्री० (वाली) वासनी लणी वास की जाली  
A lattice of bamboos ठ० ३, १,  
वक्ष्वाय पु० (व्याख्यात) भोक्ष भोक्ष, मुक्ति  
Salvation, Redemption आया०  
१, २, ६, ८,  
वग्नु. त्रि० (वल्गु) (१) सुंदर सुन्दर,  
शोभन. Beautiful, Handsome

सूय० १, ४, २, ४,  
वग्ध त्रि० (वैयाघ्र) व्याध-यर्भनु अनेलु  
व्याघ्र-चर्म का बना हुआ Made of a  
tiger's hide आया० २, २, १, २,  
वच्छ. त्रि० (वत्स) पत्स नामनी गोत्रभा उत्पन्न  
थयेद वत्स नाम के गोत्रमें उत्पन्न Born  
in the Vatsa family. ठ० ७,  
वच्छ त्रि० (वात्स्य) वात्स्य गोत्रनु. वात्स्य  
गोत्र का. Relating to the Vatsya  
lineage नदी० ४८,  
वज्र पु० (वर्ज) हिंसा, प्राणवध हिंसा,  
प्राणवध Killing, Slaughtering  
पण्ड० १, १,  
वज्र पु० (वज्र) (१) हिंसा, प्राणवध हिंसा,  
प्राण-वध Killing, Slaughtering  
पण्ड० १, १, (२) पाप पाप A sin  
सूय० १, ४, २, १६,  
वट्ट न० (वृत्त) वर्तन, प्रवृत्ति वर्तन, प्रवृत्ति  
Behaviour, Conduct सूय० १,  
४, २, २,  
वडेंसा स्त्री० (वतसा) दिनर नामक दिन-  
रे-द्रनी अेक अग्र महिणी किंनर नामक  
किन्नरेन्द्र की एक अग्रमहिणी A crown-  
ed queen named Kinnar of  
Kinnarendia ठ० ४, १, नाया० २,  
वडेंसिया स्त्री० (वतसिका) अवत सनी भाङ्क  
डरपु अवतस की तरह करना, मुकुट  
स्थानापन्न करना Anything that  
serves as an ornament ठ० ३, १,  
वणकर्मनत न० (वनकर्मन्त) पतरपतिनु  
डरपानु वनस्पति का कारखाना A  
manufactory of vegetable  
आया० २, २, २, १०,  
वणी स्त्री० (वनी) लीभथी प्राप्त धन मीख  
से प्राप्त धन Wealth secured by  
begging ठ० २, ३,

वत्त न० (वार्त) आरोग्य आरोग्य  
 Healthy state उत्त० १८, ३८,  
 वत्ति स्त्री० (वृत्ति) प्रवृत्ति प्रवृत्ति Acti-  
 vity सूय० २, ४, २,  
 वत्थु. न० (वास्तु) गृहादि-निर्माण-शास्त्र  
 गृहादि-निर्माण-शास्त्र Architecture,  
 The science of building नाया०  
 १, १३,  
 वद्धमाण न० (वर्धमान) अेक प्रक्षरनु गृह  
 गृह-विशेष A kind of house उत्त०  
 ६, २४,  
 वद्धीसक-ग पु० न० (वद्धीसक) अेक  
 प्रक्षरनु षाद्य वाद्य-विशेष, एक प्रकार का  
 वाद्य A kind of musical instru-  
 ment पणह० २, ५,  
 वप्प पु० (वप्र) जैथी जमीन उन्नत-  
 भू-भाग, ऊँची-जमीन Lofty ground  
 आया० २, १, ५, २,  
 वयमत त्रि० (व्रतवत्) व्रती व्रती One  
 who observes a vow आया० २,  
 १, ६, १,  
 वरसरक न० (वरसरक) अेक प्रक्षरनु षाद्य  
 खाद्य-विशेष A kind of eatable  
 पणह० २, ५,  
 वराह पु० (वराह) सुविधिनाथ भगवान्ना  
 प्रथम शिष्य भगवान् सुविधिनाथ का  
 प्रथम शिष्य The first pupil of  
 Lord Suvidhinatha सम० १५२,  
 वरिद्ध पु० (वरिद्ध) अगतक्षेत्रना लावी  
 आगमा अक्षरती भरतक्षेत्रका भावी वारहवा  
 चक्रवर्ती राजा The future twelfth  
 Chakravarti of Bharatshetra  
 सम० १५४,  
 वलय न० (वलय) असत्य पथन, अुं  
 अमत्य वचन, मृषा, झूठ A lie  
 पणह० १, २,

वलिमोडय पु० (वलिमोटक) वनस्पतिभा  
 गांक्षु अक्षरक्षरे वेषन वनस्पति में ग्रन्थि  
 का चक्राकार वेष्टन Moon-like form  
 of covering of knots in vege-  
 table पण० १,  
 ववगय त्रि० (व्यपगत) भरेलु मृत  
 Dead, Deceased पणह० २, ५,  
 ववसिय ववस्सिय त्रि० (व्यवसित) (१)  
 उद्योग वालु उद्यत, उद्यम-युक्त In-  
 dustrious, Diligent 'पयासुहे सुह  
 ववसियो' उत्त० २२, ३०, (२) तनेलु  
 त्यक्त Abandoned, Gave up ओव०  
 (३) पराक्रमी पराक्रमी Valorous,  
 Mighty अ० ४, १, (४) न० व्यवसाय,  
 कर्म व्यवसाय, कर्म Business नाया०  
 १, १,  
 ववहरण न० (व्यवहरण) व्यवहार  
 Intercourse, Dealings नाया०  
 १, ८  
 वववय पु० (वववज) अेक प्रक्षरनु तृण  
 तृण-विशेष A kind of grass पणह०  
 २, ३,  
 वस पु० न० (वश) अण, सामर्थ्य बल,  
 सामर्थ्य Strength, Power,  
 Potency नाया० १, १७, ओव०  
 वसभकरण न० (वृषभकरण) अेक स्थान  
 न्या अणदने आधनामा आवेष्टे, गमालु  
 वह स्थान जहा बैल बाधे जाते हैं A  
 manger आया० २, १०, १४,  
 वस्तु न० (वसु) (१) सयम, आग्रि  
 सयम, चारित्र Self-control सूय०  
 १, १३, १८, (२) सोनु सुवर्ण, सोना  
 Gold कल्प० ६८,  
 वस्तु स्त्री० (वस्तु) धृगानेन्द्री अेक पटरानी  
 ईशानेन्द्र की एक पटरानी A crowned  
 queen of Ishanendra अ० ८,



नाया० २,  
 वह पु० ( व्यथ ) लाठी नो प्रहार लकड़  
 आदि का प्रहार A blow of a lathi  
 सू० १, ६, २, १४, उक्त० १, १६,  
 वहण्या स्त्री० ( वहना ) निर्वाह निर्वाह  
 Maintenance, Sustenance  
 नाया० १, २,  
 वा श्र० ( वा ) (१) अध्याय, निश्चय  
 अवधारण, निश्चय Resolution,  
 Determination श्र०, (२) उपमा  
 उपमा A simile सू० १, ४, २,  
 १६, बव० १, (३) पादपूर्ति पादपूर्ति  
 Filling out a line उक्त० २८, २६,  
 वाइ त्रि० ( वादिन् ) दर्शनिक, धर्म धर्म  
 अनुयायी दार्शनिक, तीर्थिक, इतर धर्म  
 का अनुयायी A follower of non-  
 Jaina doctrine श्र० ४, ४,  
 वाइअ न० ( वाद्य ) वाद्य वाद्यवादी कला  
 वाजा बजाने की कला An art of  
 playing on the musical in-  
 strument सम० ८३,  
 वाउभाम पु० ( वातोद्भाम ) अनवस्थित  
 पवन अनवस्थित पवन Unsteady  
 wind पन्० १,  
 वाउलिअ त्रि० ( व्याकुलित ) क्षोभ पाभेक्ष  
 विलोलित, क्षोभ-प्राप्त Agitated  
 पण० १, ३,  
 वाघुगिण्य त्रि० ( व्याधुर्गित ) डोलायमान  
 थथेक्ष दोलायमान, डोलता, Trem-  
 bling, Shivering नाया० १, १,  
 वाजि पु० ( वाजिन् ) अश्व, घोड़ा, अश्व,  
 घोड़ा, A horse विवा० १, ७,  
 वाणिजा स्त्री० ( वाणिज्या ) व्यापार, व्यापार,  
 Business, Trade, Commerce  
 नाया० १, १६,  
 वायखध पु० ( वातस्कन्ध ) धनवात आदि

वायु, धनवात आदि वायु, A thick  
 and hard wind etc. श्र० २, ४,  
 वायगवश. पु० ( वाचकवश ) ऐक जैन मुनि  
 वंश, एक जैन मुनि वंश, A descend-  
 ant of Jain saints नदी० २०,  
 वायरुह. पु० ( वातरुह ) ऐक प्रकारकी  
 पत्र-पत्रि, वनस्पति-विशेष A kind of  
 vegetable, पत्र० १,  
 वायव, त्रि० ( वायव ) वायु रोगवाण वायु  
 रोग वाला, वात-रोगी, Having rheu-  
 matism, Having gout विवा० १, १,  
 वायव्य, त्रि० ( वायव्य ) वायव्य प्रुष्टानु-  
 वायव्य कोण का Pertaining to the  
 North west direction, अणुजो०  
 २१६,  
 वार. पु० ( वार ) (१) ऐक वृक्ष वृक्ष विशेष,  
 A kind of tree, (२) न० ऐक  
 प्रकारनु फल-विशेष A kind of  
 fruit, पत्र० १७  
 वालवि. पु० ( व्यालवित् ) मधारी, मधारी;  
 सापों को पकड़ने आदि का व्यवसाय करने  
 वाला, A juggler, A snake-  
 charmer, A conjurer पण० १, २,  
 वालि. पु० ( वालिन् ) कपि-राज, कपि-राज,  
 A king of monkeys अणुजो १४२,  
 वास. पु० ( वास ) द्वीन्द्रिय जन्तु की ऐक  
 जाति, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति, A  
 kind of insect having two  
 senses, पत्र० १,  
 वासव. पु० ( वासव ) ऐक राजकुमार, एक  
 राजकुमार, A name of a prince.  
 विवा० १, १  
 वासवदत्त. पु० ( वासवदत्त ) विजयपुर नगर  
 नो ऐक राजा, विजयपुर नगर का एक  
 राजा, A king of Vajayapura  
 city, विवा० २, ४,

वासिक-क. त्रि० ( वार्षिक ) वर्षाक्षणे थनार.  
 वर्षाकाल-भावी, Growing in rainy  
 season. सू० प० १२,  
 चाह पु० (वाह) घोड़े अश्व, घोडे A horse  
 सू० १, २, ३, ४,  
 विअ. त्रि० (विद्) (१) ज्ञानक्षर, विद्वान्.  
 Learned, Well-versed सू०  
 १, १, ४, २,  
 विअ पु० (व्यय) विनाश विगम, विनाश  
 Destruction, Ruin श० १, ३,  
 विअइ स्त्री० (विगति) विनाश विगम, विनाश  
 Destruction, Ruin श० १,  
 विअतिअ त्रि० (व्यङ्गित) भङ्गित खण्डित, छिन्न  
 Broken, Scattered प० १, ३,  
 विअइ त्रि० (व्यदे) धर्माशु लज्जित,  
 लजा-युक्त Shameful, Ashamed  
 नाया० १, ८, त्रि० (विकट) (१) प्रगट,  
 खुल्लु प्रकट, खुला Open, Public,  
 Clear सू० १, २, २, २२, (२) धल्लु  
 प्रभूत, प्रचुर Abundant, Plen-  
 tiful, Excessive सू० २, २, १८,  
 विअइइक त्रि० (विकर्षक) भेयनार,  
 आन्ध्रलु धरनार खींचने वाला, A  
 diavol प० १, ४,  
 विअत्त त्रि० (व्यक्त) (१) परिस्फुट, व्यक्त.  
 परिस्फुट Open, Clear सू० १, १,  
 २, २६, (२) वृद्ध वृद्ध, परिणत-वयस्क.  
 Old, Aged सम० ३५,  
 विअल त्रि० (विकल) हीन, अस पूर्यु हीन,  
 अस्तपूर्ण Lacking, Wanting,  
 Incomplete प० १, ३,  
 विअउरी स्त्री० (विजनयित्री) प्रसव करे वाली  
 व्याने वाली, प्रसव करने वाली. A fem-  
 ale who gives birth नाया० १, २,  
 विअर. पु० (विचार) (१) अवकाश, भाडी  
 अवकाश A space, Vacancy

विवा. १, २,  
 विआस. पु० (विकाश) (१) मोह पगेरेनु  
 पुद्लु रहनुते, मुह आदि की फाड—  
 खुलापन Expanding of mouth  
 etc. 'थूल वियास मुहे' सू० १, २, २, ३,  
 विइकिरण. त्रि० (व्यतिकरी) व्यापेलु, देहा  
 अेलु व्याप्त, फैला हुआ. Spread.  
 भग० १, १,  
 विउकृति. स्त्री० (व्युत्कान्ति) उत्पत्ति उत्पत्ति  
 Production भग० १, ७, स्त्री०  
 (व्यवक्रान्ति) मरथु. मरण, मौत Death.  
 भग० १, ७,  
 विउमत त्रि० (विद्वस्) विद्वान् विद्वान्, विज्ञ  
 Learned, Well-versed 'विउम  
 ना पयहिज सथव' सू० १, २, २, ११,  
 विउसमथ. त्रि० (व्युपशमन) विनाशक  
 विनाशक Destructive, Ruous.  
 'सग्दुक्खपावाण विउसमथ' प० २, १,  
 विउस्सिय त्रि० (व्युच्छिन्न) विविधरीते आश्रित  
 विविध तरह से आश्रित Various-  
 ly resorted to 'ससार ते विउस्सिया'  
 सू० १, १, २, २३,  
 विओवाय. पु० (व्यवपात) नाश अश, नाश  
 Destruction, Ruin सू० १, ३,  
 ३, ४,  
 विओसिज्जा अ० (व्युत्सज्य) परित्याग करीते  
 परित्याग कर Having abandoned  
 आया० १, ६, २, १,  
 विओसिय त्रि० (विकोशित) नग्न कोश-रहित,  
 निरोवरथ, नगा Naked, Nude  
 प० १, ३,  
 विकट्टिय त्रि० (विकृत) कापेलु काटा हुआ  
 Cut तहु० ४४,  
 विकोचण्या स्त्री० (विकोपना) विपाड विपाक  
 The result 'इदिअत्यविकोचण्याया'  
 श० ६,

विष्णुकड त्रि० ( विप्रकट ) विशेष ३पे प्रगट  
विशेष रूप से प्रकट Excessively  
clear अग० ७, १०,  
विष्णुगविभय त्रि० ( विप्रगङ्गिमत ) अत्यंत  
धील-उद्धत अत्यन्त घृष्ट Obstinate,  
Stubborn सूय० १, १, २, ५,  
विष्णुगिट्ट त्रि० ( विप्रकृष्ट ) धातु दीर्घ, लम्बा  
Long, Extensive नाया० १, १५,  
विषच्छइय न० ( विप्रत्ययिक ) आरभा ७न  
अ ग अथनु अेक सूत्र बारहवें जैन अग-  
ग्रन्थ का सूत्र-विशेष The twelfth  
Anga scripture of Jainism  
सम० १२८,  
विष्णुजहणा-त्रा खी० ( विप्रहासि ) परित्याग  
प्रकृष्ट त्याग, परित्याग Abandoning,  
Giving up उच्च० २६, ७३, ओव०  
पन्न० ३६,  
विष्णुमाय. पु० ( विप्रमाद् ) विविध प्रमाद  
विविध प्रमाद A variety of idle-  
ness सूय० १, १४, १,  
विष्णुपरियास पु० ( विपर्यास ) परिभ्रमण  
परिभ्रमण Wandering, Roam-  
ing सूय० १, १२, १३, १, १३, १२,  
विष्णुलाञ्छ पु० ( विप्रलाप ) विक्षेप इरपीते,  
रेपुते परिद्वेदन रोना, क्रन्दन La-  
mentation तदु० ८७,  
विष्णुकाडग त्रि० ( विपाटक ) शीरनार, विक्षरक  
चीरने वाला, विदारक A tearer, A  
divider पयह० १, ४,  
विषवद्ध त्रि० ( विवद्ध ) (१) विशेष अद्ध  
विशेष वद्ध Well tied (२) मोह  
पाशेस मोहित Fascinated सूय०  
१, ३, २, ६,  
विभाइम त्रि० ( विभाज्य ) विभाग योग्य  
विभाग योग्य Dividable अ० ३, २,  
विभासा खी० ( विभाषा ) अेक भङ्गानदी एक

महानदी A great river अ० ५, ३,  
विभूइ खी० ( विभूति ) अहिंसा अहिंसा  
Non-killing पयह० २, १,  
विमल. पु० ( विमल ) अहिंसा, दया अहिंसा,  
दया Non-killing, Mercy पयह०  
२, १,  
विमलवर पु० ( विमलवर ) आनत-प्राणुत  
द्वेषदोकेना ध-इतु अेक भुसाइरी विमान  
आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक  
पारियानिक विमान A travelling  
air-ship of the Lord of heaven  
called Anata-pianat अ० १०,  
विमलवाहण. पु० ( विमलवाहन ) (१) आनत  
वर्षना आनी प्रथम तीर्थ डर, भारत-वर्ष के  
भावी प्रथम जिनदेव The first future  
Jindeo of Bharat-varsha अ०  
६, (२) सलवनथ लगवानतु पूर्ण  
७-भनु नाम भगवान समवनाथ का पूर्व-  
जन्मीय नाम Name of Lord  
Sambhav Nath in the former  
existence सम० १५१,  
विमलोत्तर पु० ( विमलोत्तर ) अेरवत वर्षना  
अेक आनी ७नदेव ऐरवत वर्ष का एक  
भावी जिनदेव A future Jinadeo  
of Anvata kshetra सम० १५४,  
विमुक्त त्रि० ( विमुक्त ) सग रहित, नि सग  
सग-रहित, नि सग Not attached  
or devoted, Indifferent to  
आया० २, १६, ८,  
विमुक्ति. खी० ( विमुक्ति ) अहिंसा अहिंसा.  
Non-killing पयह० २, १,  
विमुहिअ त्रि० ( विमुखित ) पराइभुअ इरेलु  
पराइमुख किया हुआ Made adverse,  
Made unfavourable पयह० १, ३,  
विमोयग त्रि० ( विमोचक ) छोडनार, इर  
अरनार छोडने वाला, दूर करने वाला A

remove 'नतेदुक्खविमोयणा' सूय० १,  
६, ३,

विमोयणा स्त्री० (विमोचना) छुटकारे  
छुटकारा Release, Liberation,  
Acquittance सूय० १, १३, २१,  
विमोह पु० (विमोह) (१) विशेष मोह,  
गलशत विशेष मोह, घबराहट Perplex-  
ity, Delusion, Confusion  
सम्पत्त० २२६, (२) आचारांग सूत्रनु अेक  
अध्ययन आचारांग सूत्र का एक अध्ययन  
A chapter in Acharanga  
Sutra सम० १५, ङ० ६, टी,

विरामण न० (विरमण) विराम पाभयुते,  
निवृत्त थयुते निवर्तन, विरमाना Rest,  
Retired life 'वेरिविरामणपज्जवसाण'  
पण्ह० २, ४,

विराली स्त्री० (विराली) अउरिन्द्रिय ७४ तुनी  
अेक जति चतुरिन्द्रिय जलु की एक जाति.  
A kind of insect having four  
senses उक्त० ३६, १४८,

विल न० (विल) अेक प्रकारनु भीडु नमक  
विशेष, एक तरह का नोन A kind of  
salt आया० २, १, ६, ६,

विलवग त्रि० (विलम्बक) धारणु क्षणा  
धारण करने वाला One who holds  
सूय० १, ७, ८,

विलिडिअ त्रि० (व्यलीकित) व्यथीक्षुका,  
दुःखी व्यलीकयुक्त Unhappy, Af-  
flicted भग० १५,

विलु पइत्तार त्रि० (विलोप्ट) लोप इरनार,  
क्षपनार विलोप-कर्ता, काटने वाला  
A cutter सूय० २, २, ६,

विल्ली स्त्री० (विल्ली) अेक प्रकारनी पनपती  
शुद्ध वनस्पति विशेष A kind of  
vegetable पत्र० १,

विषम्भ. त्रि० (विषम्भ) (१) सागी री

पूर्ण इरेलु अच्ची तरह पूर्ण किया हुआ  
Well-completed (२) अत्यत  
पाकेलु अत्यन्त पका हुआ Well-ma-  
tured (३) उदयमा आवेद, क्षालिमुष्प.  
उदय में आगत, फलामिमुख Matured  
ङ० ५, २,

विवच्छा स्त्री० (विवरसा) अेक महानदी  
एक महा नदी A great river ङ० १०,  
विवर न० (विवर) अेकत एकान्त, विजन  
Solitary, Loneliness विवा० १, २,

विवहण न० (विष्यधन) विनाश विनाश  
Ruin, Destruction नाया० १, १,  
विवाइअ त्रि० (विपादित) ७७ अनथी भारी  
नाभवाभा आव्यो होयते व्यापादित, जो  
जान से मार डाला गया हो वह One  
who is killed उक्त० १६, ५६-६३,

विवाग पु० (विपाक) (१) प्रकर्ष प्रकर्ष  
Prosperity ङ० ४, ४ टी, (२)  
पाकक्षण पाककाल. Maturity उक्त०  
३२, ३३,

विविन्न त्रि० (विविक्त) (१) विविध, अनेक  
विध विविध, अनेक विध Diverse,  
Varied, Various आया० १, ८,  
८, ६-१०,

विविदिअ त्रि० (विविदित) विशेष रूपे  
जाने विषय रूप से ज्ञात, Well-  
understood पण्ह० २, १,

विवेग पु० (विवेक) प्रायश्चित प्रायश्चित्त  
Atonement, Expiation for  
sin आया० १, ५, ४, ४,

विसघडिय त्रि० (विसघटित) अलग थथेद  
वियुक्त, जो जुदा हो वह Separated,  
Divided नाया० १, ८,

विसघाइय त्रि० (विसघातित) सहत इरेल  
इरेल सहत किया हुआ Mafefium  
अयुजो १७६,

विसर्भोग पुं० ( विसर्भोग ) साथे भेसति  
लो०न वगेरेते। अत्यवहार साथ बैठ कर  
भोजन आदि का अत्यवहार No usage  
of eating etc ढ० ३, ३,

विसर्वायण न० (विसर्वादन) (१) अत्यय धन  
अत्यय कथन A lie (२) ङाई बचना,  
ढाई Deceit, Cheating उक्त०  
२६, ४८,

विसर्वायणा स्त्री० (विसर्वादाना) (१) अत्यय  
धन अत्यय कथन A lie (२) ङाई  
बचना, ङाई Deceit, Cheating  
ढ० ४, १,

विसर्वादि पुं० ( विसर्वादिन् ) प्रथम अणदेव  
ना पूर्वखतनु नाम प्रथम बलदेव का  
पूर्वभवतीय नाम Name of the first  
Baladao of the previous life  
सम० १५३,

विसर्वाय. न० ( विशय ) (१) धर गृह, घर  
A house, A habitation उक्त०  
७, १, (२) सलप, सलपना सम्भव,  
सभावना Probability, Likeli-  
hood आया० नू० १,

विसर्वायि, त्रि० (विसर्वायिन्) (१) शींगल पणु  
सिंग वाला Having horns (२) पुं०  
हाथी हाथी, हस्ती An elephant  
(३) शींगल श्रुगाटक, सिंघाढा The  
fruit of an aquatic plant (४)  
ऋषल नाम्ब औषध ऋषल नामक औषध  
A medicine called Rashabha  
अयुजो० १४२,

विसर्वाला स्त्री० ( विशाला ) महावीर प्रभुनी  
माता नाम भगवान् महावीर की माता  
का नाम The mother of Lord  
Mahavira सूय० १, २, ३, २२,

विसर्वाही स्त्री० ( वैशाही ) (१) वैशाख मास  
नी पूर्णिमा वैशाख मासकी पूर्णिमा The

day of fullmoon of the Var-  
shakha month (२) वैशाख मासकी  
अभावस वैशाख मास की अभावस The  
new-moon day of the Varsha-  
kha month सू० प० १०, ६,

विसर्वादिदिष्टि स्त्री० ( विशिष्टदिष्टि ) अहिंसा.  
अहिंसा. Non-killing पण्ह० २, १,  
विसर्वायि त्रि० ( विश्रुत ) विदित विज्ञात  
Known पण्ह० १, ४,

विसर्वादि त्रि० ( विशुद्ध ) उत्कृष्ट विभूति,  
उज्ज्वल Brilliant, Shining  
पत्र० १७,

विसर्वायण न० ( खेदन ) (१) भेद खेद  
Sorrow (२) पीडा पीडा Pain,  
Affliction पण्ह० १, ५,

विसर्वायणा स्त्री० ( विशोधना ) शुद्धि-करण  
शुद्धि-करण Purifying ढ० ८,

विसर्वाय त्रि० ( विशोधक ) शुद्धि करण  
शुद्धि कर्ता One who purifies  
सूय० १, ३, ३, १६,

विसर्वायि त्रि० ( विश्वमृत ) जगत्-पूरक  
जगत्-पूरक The Saviour of the  
world उक्त० ३, २,

विहग पुं० ( विभङ्ग ) विभाग, अंश विभाग,  
टुकडा, अंश A part, A portion  
पण्ह० १, ३,

विहाराण न० ( विघान ) व्याकरणोक्त अर्थ  
प्रधानी विधि व्याकरणोक्त विधि-विशेष  
A kind of application in  
grammar. पण्ह० २, २,

विहारातर त्रि० ( विघातृ ) पालुपनि देवोना  
उत्तर दिशांनो धन् प्रणपनि देवों का उत्तर  
दिशा का इन्द्र The northern lord  
of Panapanni gods ढ० २, ३,

विहिंस त्रि० ( विहिंस ) हिंसा करने वाला  
करने वाला. A killer, A slayer.

आया० १, ६, ४, ३,  
 विहिसण. न० ( विहिसन ) विविध प्रकारे  
 मारणुते विविध प्रकार से मारना Kill-  
 ing by various means पृष्ठ० १, १,  
 विहेडय त्रि० ( विहेटक ) अनादर करनार  
 अनादर कर्ता One that insults  
 दस० १०, १०,  
 विहेडि त्रि० ( विहेटिन् ) (१) हिंसा करनार  
 हिंसा करने वाला A killer (२) पीडा  
 करनार पीडा करने वाला One that  
 afflicts सू० १, ८, ४,  
 विहेडिय त्रि० ( विहेडित ) पीडित पीडित  
 Pained, Afflicted भक्त० १३३,  
 वीर्यक्रम्ह न० ( वीर्यक्रम ) (१) ऐकं गोत्र  
 गोत्र विशेष A name of a lineage  
 (२) पु० स्त्री० ते गोत्रमा उत्पन्न थयेत  
 उस गोत्र में उत्पन्न Born in that  
 family ठा० ७,  
 वीह पु० स्त्री० ( वीचि ) (१) सम्बन्ध सम्प्रयोग,  
 सम्बन्ध Relation भग० १०, २,  
 (२) पृथग् भाव, अुदाई पृथग् भाव,  
 अुदाई Diversity, Separation.  
 भग० १४, ६टी,  
 वीह स्त्री० ( विकृति ) (१) दुष्ट क्रिया विरूप  
 कृति, दुष्ट क्रिया Wicked action  
 (२) त्रि० दुष्ट क्रिया वाणु दुष्ट क्रियावाला  
 Wicked भग० १०, २,  
 वीहगाल त्रि० ( वीतङ्गार ) गग रहित  
 राग-रहित Free from attachment  
 भग० ७, १,  
 वीहं अ० ( विविच ) अथग अथने, अुदा  
 अथने पृथग् होकर, अुदा होकर Being  
 separated भग० १०, २,  
 वीहं अ० ( विचिन्त्य ) चिन्तन करणे चिन्तन  
 करणे Having thought भग० १०, २,  
 वीडिअ त्रि० ( वीडित ) गन्भाण लज्जित,

शरमिन्दा Bashful, Ashamed.  
 नाया० १, ८,  
 वीरंगय पु० ( वीरङ्गद ) (१) महावीर प्रभु  
 पासे दीक्षा लेनार ऐकं राज्ञ भगवान्  
 महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा  
 A king who was initiated by  
 Lord Mahavira. ठा० ८,  
 वीरजस पु० ( वीरजस ) महावीर प्रभुनी  
 पासे दीक्षा लेनार ऐकं राज्ञ. भगवान्  
 महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा  
 A king who was initiated by  
 Lord Mahavira ठा० ८,  
 वीरविराली, स्त्री० ( वीरविराली ) ऐकं क्षत्त  
 वल्ली-विशेष. A kind of creeper  
 पत्र० १,  
 वीरलेस. पु० न० ( वीरलेस ) ऐकं देवविमान.  
 एक देवविमान, Name of a celestial  
 aerial car सम० १२,  
 वीरल्ल पु० ( वीरल्ल ) ऐकं पक्षी, रयेन पक्षी.  
 A kind of bird पृष्ठ० १, १,  
 वीरसिद्ध. पु० न० ( वीरसुष्ट ) ऐकं देवविमान.  
 एक देव विमान. A particular ce-  
 lstial aerial car सम० १२,  
 वीसइम. न० ( विंशतिम ) ऐकं साथे नव  
 दिवसना उपवास. लगातार नव दिनों का  
 उपवास. Nine fasts at a time  
 नाया० १, १,  
 बुक्कम पु० ( व्युक्कम ) उत्पत्ति. उत्पत्ति.  
 Production, Creation, सू० २,  
 ३, १, २, ३, १७,  
 बुग्गहअ त्रि० ( बुद्गहअ ) कलह करक  
 कलह करक. Quarrelsome दस०  
 १०, १०,  
 बुच्चमाण त्रि० ( उच्चमाण ) जे अुदेवाभा  
 आवेते. जो कहा जाता हो वह. Which  
 is to be said. सू० १, ६, ३१,

अ० ( उक्त्वा ) कृतीने कहकर.  
 Having said. सू० २, २, ८१,  
 बुद्ध. त्रि० ( वृद्ध ) शात, निर्विकार  
 शान्त, निर्विकार. Calm, Silent,  
 Unchangeable टा० ८, अ० ११  
 मुनिनु नाम. एक जैन मुनि का नाम  
 A name of a Jain Saint कप्प०  
 वुसी स्त्री० ( वृषी ) मुनिनु आसन मुनि का  
 आसन A seat of a saint. — मत  
 त्रि० ( मत् ) सयमी, साधु, मुनि, सयमी,  
 साधु, मुनि A saint, A sadhu.  
 सू० १, ८, १६, १, ११, १२, १, १२, ४,  
 वेद. पु० ( वेद ) ( १ ) आचारंग आदि जैन  
 सूत्र. आचारंग आदि जैन शास्त्र A Jain  
 scripture, २ e. Acharanga etc  
 आया० १, ३, १, २, ( २ ) ज्ञानकार विज्ञ,  
 जानकार A knower, A learned  
 भग०  
 वेदग्रहणहिय, त्रि० ( छिन्नवेदक ) जेना पुत्र  
 यिह्न आदि क्षयवाभा आया लोयते. जिस-  
 का पुरुष चिह्न आदि काटा गया हो वह  
 One whose generative organs  
 etc are cut सू० २, २, ६३,  
 वेदच्छ, न० ( वैकच्छ ) ( १ ) अ० प्रक्षरने  
 यव, मर्दट यव बन्ध-विशेष, मर्दट  
 बन्ध A kind of physical make-  
 up ( २ ) यव ७पथी नीचे लटकने  
 कन्धके नीचे लटकना. Hanging from  
 the shoulder नाया० १, ८,  
 वेदवत. त्रि० ( वेदवत् ) वेदने ज्ञानकार  
 वेदों का जानकार Versed in Vedas.  
 आया० १, ३, १, २,  
 वेदारणिक. त्रि० ( वैचारणिक ) विचार  
 सयध विचार-सम्बन्ध Relating to  
 meditation. टा० २, १,  
 वेदालिय, त्रि० ( वैक्रिय ) विक्रियाथी ७पन

थयैव विक्रिया से उत्पन्न. Produced by  
 transformation सू० १, २, २, १७,  
 वेदाली स्त्री० ( वैताली ) अ० नगरी नगरी  
 विशेष A name of a city. नाया०  
 १, १६,  
 वेदत्र. त्रि० ( वैदिक ) ( १ ) वेद सयधी. वेद-  
 श्रित, वेद-सबन्धी Relating to  
 Vedas टा० ३, ३,  
 वैजयत पु० न० ( वैजयन्त ) ( १ ) जम्बूद्वीप,  
 लवण समुद्र, धातकी पड, क्षोद संसुद्र,  
 पुष्करवर द्वीप अने पुष्करोद समुद्र  
 दक्षिण द्वारना अधिष्ठाता देव. जम्बूद्वीप,  
 लवण समुद्र, धातकी खण्ड, कालोद  
 समुद्र, पुष्करवर द्वीप और पुष्करोद समुद्र  
 के दक्षिण द्वारों के अधिष्ठाता देव  
 The presiding god of the  
 southern door of Jambudvīpa,  
 Lavan sea, Dhatki khand,  
 Kaloda sea, Pushkar dvīpa and  
 Pushkroda. टा० ४, २, जीवा० ३, २,  
 ( २ ) त्रि० प्रधान, श्रेष्ठ प्रधान, श्रेष्ठ  
 Excellent, Best. सू० १, ६, २०,  
 वेदिम पु० स्त्री० ( वेदिम ) अ० प्रक्षरने  
 भाव साधविशेष A kind of east-  
 able पण्ड० २, ५,  
 वेणइय न० ( वैनयिक ) विनय, नम्रता  
 विनय, नम्रता Courtesy, Polite-  
 ness, Humility टा० १, २,  
 दस० ६, १, १०,  
 वेदिग पु० ( वैदिक ) अ० ४७५ मनुष्य जाति.  
 एक इन्ध मनुष्य जाति A kind of  
 human race टा० ६,  
 वेदिश. न० ( वैदिश ) विदिशा तरफ नग०.  
 विदिशा तरफ का नगर A city of the  
 oblique direction अणुजो० १४६;  
 वेदेह पु० ( वैदेह ) अ० ४७५ मनुष्य जाति.

एक इम्य मनुष्य-जाति, A kind of human race शं० ६,  
 वेदेहि पु० ( विदेहिन् ) विदेह देशनो राजा  
 विदेह देश का राजा A king of Vi-  
 deha county उत्त० ६, ६२,  
 वेयावच्च वेयावडिय.न० (वेयावृत्त्य-वेयावृत्त्य)  
 सेवा, शुश्रूषा सेवा, शुश्रूषा Service  
 नाया० १, ५,  
 वेरत्तिय. त्रि० ( वैरात्रिक ) रात्रिना त्रीणा  
 प्रहरणो समय रात्रि के तृतीय प्रहर का  
 समय The third Prahara ( a  
 period of three hours ) of a  
 night उत्त० २६, २०,  
 वेरुलिय पु० न० ( वैदुर्य ) (१) इत्यक्ष पर्यंत  
 नु अेक शिखर रुचक पर्वतका एक शिखर  
 A summit of the Ruchaka  
 mountain शं० ८, (२) त्रि० वैदुर्य  
 रत्नवाणु वैदुर्य रत्न वाला Having  
 sapphires जीवा० ३, ४, राय०  
 वेसमण पु० ( वैश्रमण ) अेक राजकुमार  
 एक राजकुमार Name of a prince  
 विवा० २, ६,  
 वेसमणदत्त पु० ( वैश्रमणदत्त ) अेक राजानु  
 नाम एक राजा का नाम A name of  
 a king विवा० १, ६,  
 वेसमणपुपम पु० ( वैश्रमणपुपम ) वैश्रमण्युना  
 उत्पात पर्यंततु नाम वैश्रमण के उत्पात  
 पर्वत का नाम A pleasure-mount-  
 ain of Vaishnamana शं० १०,  
 वेह पु० ( वेघ ) (१) मिश्रण्यु अलुवेघ, अलु-  
 गम, मिश्रण Mixture (२) अेक  
 प्रकारनु लुगार घूत-विरोध, एक तरह का  
 जूआ A kind of gambling. सूय०  
 १, ६, १७, (३) अत्यंत द्वेष अत्रुणय,  
 अत्यन्त द्वेष Utter malice, Ex-  
 tremely rancour परह० १, ३,

वेहण न० ( वेघन ) छेद करणुते वेघन, छेद  
 करना Act of cutting राय० १४६;  
 वोगड त्रि० ( व्याकृत ) (१) कहेषु कहा  
 हुआ, प्रतिपादित Said, Told, Ex-  
 plained सूय० २, ७, ३८,  
 वोगसिञ्ज त्रि० ( व्युत्कर्षित ) ७६२ खडेव  
 निष्कासित, बाहर निकाला हुआ Drawn  
 out तदु० २,  
 वोसट्ट. त्रि० ( व्युत्सृष्ट ) (१) साक्षुक्ष विनातु.  
 परिष्कार रहित, साफसूफ-वर्जित Un-  
 clean, Dirty सूय० १, १६, १, (२)  
 क्षयोत्सर्गमा स्थित कायोत्सर्ग में स्थित  
 Absorbed into complete medi-  
 tation, दस० ५, १, ६१,  
 स त्रि० ( सत् ) विद्यमान विद्यमान Pre-  
 sent, Existent, Being सूय० १,  
 १, १, १६, —सल्लग पु० ( लग )  
 प्रशस्त सवरण्य, धिन्द्रिय सयम प्रशस्त  
 सवरण्य, इन्द्रिय सयम Self-control  
 सूय० २, २, ५७, —वाय पु० ( वाद )  
 प्रशस्तवाद प्रशस्तवाद Generous  
 discussion. सूय० २, ७, ५, —वाया  
 स्त्री० ( वाच् ) प्रशस्तवाणी प्रशस्त  
 वाणी Munificent speech सूय०  
 २, ७, ५  
 स न० ( स्व ) धन, द्रव्य धन, द्रव्य.  
 Wealth, Riches. आया० २, १,  
 १, ११, (२) कर्म कर्म Deed, Action  
 आया० २, १६, ६,  
 सइकाल. पु० ( स्मृतिकाल ) शिक्षा भणया  
 नो समय भिक्षा मिलने का समय The  
 time for begging दस० ५, २, ६;  
 सइम त्रि० ( शततम ) सोभु सौवा, १०० वां .  
 Hundredth नाया० १, १६;  
 सर्द. स्त्री० ( शची ) धन्नाणी, शके-दानी अेक  
 पटराणी इन्द्राणी, शकेन्द्र की एक पटरानी.



The crowned queen of Lord of gods ठा० ८, नाया० २,  
 सउणि पु० (शकुनि) दुर्योधनना मामा.  
 दुर्योधनका मामा The maternal un-  
 cle of Duryodhana नाया० १, १६,  
 संकटिञ्च त्रि० (सकर्तित) क्षपेक्षु काटा  
 हुआ Cut ठा० ४, ४,  
 सकुड त्रि० (सकुट) साउडु, सक्षीर्षु सकीर्षु,  
 सकुचित Narrow सू० प० १६,  
 सकुसुमिञ्च त्रि० (सकुसुमित) सारी रीते  
 क्षपेक्षु अच्छी तरह पुष्पित Well-  
 fertilized. राय० ३८,  
 सकोड पु० (सकोट) सटोय सकोडना,  
 सकोच, Contraction पपह० १, ३,  
 सखेविय, त्रि० (सखेपिक) सक्षेप युक्त,  
 सखेप-युक्त Abridged, Abbrevi-  
 ated. —दसा स्त्री० (दशा) ओ३  
 नैन ग्रन्थ. जैन ग्रन्थ-विशेष A Jain  
 volume ठा० १०,  
 सग पु० न० (सङ्ग) अथन. बन्धन, Tying,  
 Binding, Bondage 'भोगा इमे  
 सगकरा हवति' उक्त० १३, २७,  
 सगइ. स्त्री० (सगति) निथति, लाय्य नियति  
 Fortune, Destiny, Luck सू०  
 १, १, २, ३,  
 संगह पु० (सग्रह) (१) स्त्रीक्षर, अक्षु.  
 स्वीकार, ग्रहण Acceptance ठा० ८,  
 (२) क्षत्रमा सहाय क्षरतीते कष्ट आदि में  
 सहायता करना To help in trouble  
 ठा० १०, (३) त्रि० सअक्ष क्षरतीर सग्रह  
 करने वाला One who collects.  
 वव० ३, (४) ओ३ नक्षत्र नक्षत्र विशेष  
 A constellation, वव० १,  
 सगिरहण न० (सग्रहण) आश्रय दान. आश्रय-  
 दान Giving of repose. ठा० ८,  
 सगोफ सगोफ पु० (सगोफ) ओ३ अथ,

भट्ट अथ ३५ शुद्ध बन्ध-विशेष, मर्कट  
 बन्ध रूप गुम्फन A kind of corpo-  
 ral frame. उक्त० २२, ३५,  
 सघस. पु० (सघर्ष) (१) धस्युते विसाव,  
 रगद Rubbing (२) आधात आधात,  
 धक्का A blow नाया० १, १,  
 संघड. त्रि० (सघट) निरंतर निरन्तर  
 Constant, Continuons आया०  
 १, ४, ४, ४,  
 सचुरिणञ्च-संचुनिञ्च त्रि० (सचूर्णित) युरे  
 युरे क्लेश चूर चूर किया हुआ, Cut into  
 pieces नाया० १, १,  
 सजत्तिञ्च-ग त्रि० (सायात्रिक) पक्षायु थी  
 भुसाक्षरी स्तरीर जहाज से यात्रा करने  
 वाला, समुद्र मार्ग का मुसाफिर. A tra-  
 veller by a ship नाया० १, ८,  
 सजूह पु० न० (सयूथ) ग्रथनी रथनी,  
 ग्रन्थ-रचना पुस्तक-निर्माण Composi-  
 tion, A literary work अशुलो०  
 १४६,  
 सभायुराग पु० (सध्यानुराग) सा०नी  
 वादणीते रग साफ के बादल का रग  
 Colours of the eve, Twilight-  
 पन्न० २,  
 सण त्रि० (सज्ञ) ज्ञथुक्षर जानकार, ज्ञाता.  
 A knower, Learned आया० १,  
 ५, ६, १०,  
 सणाहिय त्रि० (सानाहिक) युद्धनी तैयारी  
 साथे सअथ सभनार, युद्ध की तैयारी से  
 सबन्ध रखने वाला Relating to the  
 preparation for battle. नाया०  
 १, १६,  
 संणि. त्रि० (सञ्चिन्) (१) सम्यग्दर्शन वायु  
 सम्यग्दर्शन वाला, सम्यक्त्वी Having  
 the right belief अग० (२) न०  
 ओ३ गोन, ओ३ वाशिठ गोननी थाया छे.

गोत्र-विशेष, जो वसिष्ठ गोत्र की शाखा है  
 A lineage which is the branch  
 of the Vashistha one (३) पुं०  
 स्त्री० ते गोत्रमा उत्पन्न थयेव उस गोत्र में  
 उत्पन्न Born in that family टा०७,  
 सण्णिपडिअ त्रि० (सनिपत्ति) पडेलु गिरा  
 हुआ Fallen विवा० १, ६,  
 सण्णिरुद्ध त्रि० (सनिरुद्ध) रोडेलु, अटकेवेलु  
 रुका हुआ, नियन्त्रित Stopped. आया०  
 २, १, ४, ४,  
 सतच्छिअ त्रि० (सतचित) ओलेलु छिला  
 हुआ, Scaped, Peeled पण्ह० १, १,  
 सतारिम त्रि० (सतारिम) तरया थोअथ  
 तैरने योग्य Swimable आया० २, ३,  
 १, १३,  
 सति-कम्मत्त न० (शान्ति-कर्मन्त) नथा  
 शान्ति-कर्म करनेवाला आवे ते स्थान. जहा  
 शान्ति कर्म किया जाता हो वह स्थान  
 आया० २, २, २, ६,  
 सतुयट्ट त्रि० (सत्वगवृत्त) जेथे पडुपु डेर-  
 थु छेय ते जिसने पार्श्व घुमाया हो वह,  
 जिसने करवट बदली हो वह. One who  
 has changed the side नाया० १, १३,  
 सथड सथडिय त्रि० (सत्तुत्) (१) धन  
 घन, निविड Solid, Compact,  
 Sound आया० २, १, ३, १०, (२)  
 पुम, जेथे पर्याप्त भोजन कर्तु छेय ते  
 तृप्त, जिसने पर्याप्त भोजन किया हो वह  
 Contented, Satisfied आया० २,  
 ४, २, ३, दस० ७, ३३, (३) अकत्रित  
 एकत्रित Collected, Gathered  
 आया० २, १, ६, १,  
 सथारग-य पु० (सस्तारक) (१) ओरडे  
 अथवरक, कमरा A room आया० २,  
 २, ३, १, (२) उपाश्रय उपाश्रय, साधु  
 का वास-स्थान A Janna monastery

वव० ४,

सथुअ त्रि० (सस्तुत्) सगत सबद्ध, सगत.  
 Proper, Right सू० १, १२, २,  
 सदिट्ट. त्रि० (सदिट्ट) छीलक छडेव. छुटा  
 हुआ, छिलका निकाला हुआ Scaped,  
 Peeled राय० ६७,  
 सदीण पुं० (सदीन) (१) अेक द्वीप द्वीप  
 विशेष A name of an island (२)  
 थोअ समय सुधी रहेनार दीवे अल्पकाल  
 तक रहने वाला दीपक A lamp last-  
 ing for a short time (३) श्रुतज्ञान  
 श्रुतज्ञान Scriptural knowledge  
 (४) क्षोभक्षुण्णिय, क्षोभ्य, क्षोभणीय.  
 Worthy to be agitated. आया०  
 १, ६, ३, ३,  
 सधय त्रि० (सधक) सधान करनेनार सधान  
 कर्ता. A joiner दस० ६, ४, ५,  
 सनक्खर न० (सज्जवर) अक्षर आदि अक्षरे  
 नी आकृति अकार आदि अक्षरोंकी आकृति  
 A figure of अ etc नदी १८७,  
 सनिलयण न० (सनिलयन) आश्रय, आधार.  
 आश्रय, आधार. A support; A  
 pationage, Protection 'सन्व-  
 दुक्खसनिलयण' पण्ह० १, ५,  
 सनिवाइ त्रि० (सनिवादिन्) सगत जोलनेनार,  
 व्याख्या छेनेनार सगत बोलने वाला, व्या-  
 जबी कहने वाला A proper speaker  
 भग० १, १,  
 सनिचाइय पु० (सन्निपातिक) भेण, सथेण  
 सनिपात, मेल, सयोग. A meeting.  
 ग्रणुजो० ११३,  
 संनिवाडिय त्रि० (सन्निपात्ति) नाश करेव  
 विध्वस्त किया हुआ. Ruined, De-  
 stroyed नाया० १, १६,  
 सनिवेशणया स्त्री० (सनिवेशना) सस्थापन  
 सस्थापन. Establishing २६०, उत्त, १,

The crowned queen of Lord of god- ठा० ८, नाया० २,  
 सञ्चयि पु० ( शकुनि ) दुर्योधनना मामा.  
 दुर्योधनका मामा The maternal un-  
 cle of Duryodhana नाया० १, १६,  
 सकटिश्च त्रि० ( सकतित ) अथेषु. काटा  
 हुआ Cut ठा० ४, ४,  
 सकुड त्रि० ( सकुट ) साङ्ग, सङ्गीर्ण सर्कार्य,  
 सकुचित Narrow सू० प० १६,  
 सकुसुमिश्च त्रि० ( सकुसुमित ) भागी रीते  
 प्रथेषु श्रद्धी तरह पुष्पित Well-  
 fortified. राय० ३८,  
 सकोड पु० ( सकोट ) सटोथ सकोडना,  
 सकोच. Contraction परह० १, ३,  
 सखेविय. त्रि० ( सचेपिक ) सक्षेप युक्त,  
 सचेप-युक्त Abridged, Abbrevi-  
 ated. —दसा स्त्री० ( दशा ) ऐक  
 जैन ग्रन्थ. जैन ग्रन्थ-विशेष A Jain  
 volume. ठा० १०,  
 सग पु० न० ( सङ्ग ) बधन बन्धन. Tying,  
 Binding, Bondage 'भोगा इमे  
 सगकरा हवति' उक्त० १३, २७,  
 सगद्. स्त्री० ( सगति ) नियति, भाग्य नियति  
 Fortune, Destiny, Luck सूय०  
 १, १, २, ३,  
 सगह पु० ( सग्रह ) (१) स्त्रीकार, ग्रहण.  
 स्वीकार, ग्रहण Acceptance ठा० ८,  
 (२) सहायता करन। To help in trouble  
 ठा० १०, (३) त्रि० सग्रह करने वाला  
 करने वाला One who collects  
 वव० ३, (४) ऐक नक्षत्र नक्षत्र विशेष  
 A constellation, वव० १,  
 सगिरहण न० ( सग्रहण ) आश्रय दान. आश्रय-  
 दान Giving of repose. ठा० ८,  
 सगोपक सगोफ पु० ( सगोफ ) ऐक यध,

भङ्ग यध ३५ युक्त. बन्ध-विशेष, मर्कट  
 बन्ध रूप गुम्फन A kind of corpo-  
 ral frame. उक्त० २, ३५,  
 सघस. पु० ( सघर्ष ) (१) धस्युते घिसाव,  
 रगद Rubbing (२) आधात आधात,  
 धवा A blow नाया० १, १,  
 सघड. त्रि० ( सघट ) निरन्तर निरन्तर  
 Constant, Continuous आया०  
 १, ४, ४, ४,  
 सञ्चुरिणश्च-सञ्चुन्निश्च त्रि० ( सञ्चुरित ) यूरे  
 यूरे अरेक्ष चूरचूर किया हुआ. Cut into  
 pieces नाया० १, १,  
 सजत्तिश्च-ग त्रि० ( सायात्रिक ) वहायु थी  
 भुसाक्षरी अरना जहाज से यात्रा करने  
 वाला, समुद्र मार्ग का मुसाफिर. A tra-  
 veller by a ship नाया० १, ८,  
 सजूह पु० न० ( सयूथ ) ग्रथनी रथनी,  
 ग्रन्थ-रचना पुस्तक-निर्माण Composi-  
 tion, A literary work अणुजो०  
 १४६,  
 सभायुराग पु० ( सध्यानुराग ) सायनी  
 वादलने रग साक के बादल का रग  
 Colours of the eve, Twilight  
 पत्र० २,  
 सण त्रि० ( सज्ञ ) ज्ञातृकार जानकार, ज्ञाता.  
 A knower, Learned आया० १,  
 ५, ६, १०,  
 सणाहिय त्रि० ( सानाहिक ) युद्धनी तैयारी  
 साथे साथ धरभनार. युद्ध की तैयारी से  
 सबन्ध रखने वाला Relating to the  
 preparation for battle. नाया०  
 १, १६,  
 सणि. त्रि० ( सन्नि ) (१) सम्यग्दर्शन वाला  
 सम्यग्दर्शन वाला, सम्यक्स्वी Having  
 the right belief अग० (२) न०  
 ऐक गोत्र, जे वाशिष्ठ गोत्रनी शाभा छे

गोत्र-विशेष, जो वसिष्ठ गोत्र की शाखा है  
 A lineage which is the branch  
 of the Vashistha one (३) पुं०  
 स्त्री० ते गोत्रमा उत्पन्न थयेथ उस गोत्र में  
 उत्पन्न Born in that family म०७,  
 सण्णिपडिअ त्रि० (सनिपडित) पडेलुं गिरा  
 हुआ Fallen विवा० १, ६,  
 सण्णिरुद्ध त्रि० (सनिरुद्ध) रोकेलु, अरुकेलेलु  
 रुका हुआ, नियन्त्रित Stopped. आया०  
 २, १, ४, ४,  
 सतच्छिअ त्रि० (सतचित) छेलेलु छिला  
 हुआ, Scraped, Peeled पण्ह० १, १,  
 सतारिम त्रि० (सतारिम) तरया थोअथ  
 तैरने योग्य Swimmable आया० २, ३,  
 १, १३,  
 सति-कम्मत्त न० (शान्ति-कर्मान्त) न्या  
 शान्ति-कर्म करयाभा आवे ते स्थान. जहा  
 शान्ति कर्म किया जाता हो वह स्थान  
 आया० २, २, २, ६,  
 सतुयट्ट त्रि० (सत्त्ववृत्त) नेले ५५थु केर-  
 थु छेथ ते जिसने पार्श्व घुमाया हो वह,  
 जिसने करवट बदली हो वह. One who  
 has changed the side नाया० १, १३,  
 सथड सथडिय त्रि० (ससृत) (१) धन  
 वन, निविड Solid, Compact,  
 Sound आया० २, १, ३. १०, (२)  
 तृप्त, नेले पर्याप्त भोजन कर्तुं छेथ ते  
 तृप्त, जिसने पर्याप्त भोजन किया हो वह  
 Contented, Satisfied आया० २,  
 ४, २, ३, दस० ७, ३३, (३) अकत्रित  
 एकत्रित Collected, Gathered  
 आया० २, १, ६, १,  
 सथारमय पु० (सस्तारक) (१) ओरडे।  
 अणवरक, कमरा A room आया० २,  
 २, ३, १, (२) उपाश्रय उपाश्रय, साधु  
 का वास-स्थान A Jaina monastery

वव० ४,  
 सथुअ त्रि० (सस्तुत) सगत सबद्ध, सगत.  
 Proper, Right सूय० १, १२, २,  
 सदिट्ट. त्रि० (सदिट्ट) छीलका छटेल छटा  
 हुआ, छिलका निकाला हुआ Scraped,  
 Peeled राय० ६७,  
 संदीण पुं० (सदीन) (१) अेक द्वीप द्वीप  
 विशेष A name of an island (२)  
 थोअ समय सुधी रडेनार दीवे। अल्पकाल  
 तक रहने वाला दीपक A lamp last-  
 ing for a short time (३) श्रुतज्ञान  
 श्रुतज्ञान Scriptural knowledge  
 (४) क्षोभणीय, चोभ्य, चोभणीय,  
 Worthy to be agitated. आया०  
 १, ६, ३, ३,  
 सधय त्रि० (सधक) सधान करनार सधान  
 कर्ता. A joiner दस० ६, ४, ६,  
 सनक्खर. न० (सज्जकर) अक्षर आदि अक्षरो  
 नी आउति अकार आदि अक्षरोंकी आकृति  
 A figure of अ etc नदी १८७,  
 सनिलयण न० (सनिलयन) आश्रय, आधार.  
 आश्रय, आचार. A support, A  
 patronage, Protection 'सव्व-  
 दुक्खसनिलयण' पण्ह० १, ६,  
 सनिवाइ त्रि० (सनिवादिन्) सगत थोअनार,  
 न्याअनी छेनार सगत बोलने वाला, न्या-  
 जवी कहने वाला A proper speaker  
 भग० १, १,  
 सनिवाइय पु० (सन्निपातिक) मेण, सयोग  
 सनिपात, मेल, सयोग. A meeting.  
 ग्रणुजो० ११३,  
 संनिवाडिय त्रि० (सन्निपातित) नाश करेथ  
 विध्वस्त किया हुआ. Ruined, De-  
 stroyed नाया० १, १६,  
 सनिवेशणया स्त्री० (सनिवेशना) सस्थापन  
 सस्थापन Establishing २६०. उक्त, १,

सपगिद्ध त्रि० (सप्रगृह्य) अति आसक्त अति  
आसक्त, Devotedly attached to.  
पृष्ठ० १, ४,  
सपगृहीत्र त्रि० (सप्रगृहीत) विशेष अलिमान  
युक्त. वरु प्रकर्षसे गृहीत, विशेष अभिमान  
युक्त. Arrogant, Very proud  
द्वन्द्व० ६, ४, २,  
सपराइय सपरादिय. त्रि० (सप्रणादित)  
सभाग्नीन-सु द्र शब्द वाणु समीचीन शब्द  
वाला Having beautiful words.  
जीवा० ३, ४,  
संपदाचण न० (सप्रदापन सप्रदान) अर्थ क्षरक  
कारक-विशेष The dative case ठ० ८,  
सपहिट् त्रि० (सप्रहृष्ट) हर्ष पावेल हर्षित,  
प्रमुदित Delighted उक्त० १२, ३,  
सपाइम त्रि० (सपात्तिम) गता, गति करना,  
जाने वाला, गति-कर्ता A goer आया०  
२, १, ३, ६, २, ३, १, १४,  
सपाय. पु० (सपात्) (१) निरर्थक असत्य  
थोलेपुते अर्थ का झूठ, निरर्थक असत्य  
भाषण Telling a useless lie  
पृष्ठ० १, २, (३) डालपु आलेपु ते चलन  
हिलन Moving to and fro उक्त०  
१८, २३,  
सपिट् त्रि० (सपिष्ट) पीसेलु, पीसेलु  
हुआ Pounded, Levigated सूय०  
१, ४, २, ८,  
सपुच्छणी स्त्री० (सपुच्छनी) सावरणी झाड़ू,  
समार्जनी A broom, A besom  
राय० २१,  
सपुड पु० न० (सपुट) सत्य, समूह सचय,  
समूह A collection, A multi-  
tude सूय० १, २, १, २३,  
सपुडिअ त्रि० (सपुडित) जोड़ेलु जुड़ा हुआ.  
Joined नाया० १, १,  
सपूयण न० (सपूजन) पूजन पूजन, अम्यर्चन

Worship. सूय० १, १०, ७,  
सभति. स्त्री० (सभान्ति) उत्सुकता सन्नम,  
उत्सुकता Eagerness, Earnestness  
भग० १६, २,  
सभतिय. त्रि० (सभान्तिक) सभ्रमथी अनेलु,  
उतावणीनी अनेलु सन्नम से बना हुआ.  
Hurriedly made भग० १६, २,  
सभार. पु० (सम्भार) भक्षा, शाक पगेरे  
भा नाभयाभा आपतो भसादो मसाला,  
शाक आदि में ऊपर ढाला जाता मसाला  
Spices, Condiment नाया० १, १६,  
सभिरण-न्न. त्रि० (सभिन्न) पीलेकुल ले  
वाणु विलकुल भिन्न-भेद वाला En-  
tirely divided, Completely  
separated पृष्ठ० २, १,  
समइ स्त्री० (समति) (१) अनुमति अनुमति  
A consent सूय० १, ८, १४, (२) पु०  
वायुक्षय, पवन वायुकाय, पवन The  
wind (३) वायुनाथना अधिष्ठाता देव  
वायुकाय का अधिष्ठाता देव A presid-  
ing god of the wind ठ० २, १,  
समिस्स त्रि० (समिन्न) उभाडेही छाल  
वाणु उखड़ी हुई छाल वाला Scratch-  
ed, Skinned आया० २, १, ८, ६,  
समुइ. पु० (सन्मुचि) आरतवर्षा भा लविष्य  
भा थनार अर्थ कुलकर पुरूप भारतवर्ष में  
भविष्य में होने वाला एक कुलकर पुरूप  
The future Kulkara of Bharat  
Varsha ठ० १०,  
समुच्छ्रिय त्रि० (संमुच्छ्रित) उत्पन्न थयेल.  
उत्पन्न Produced सू० प० ६,  
सलीड त्रि० (सलीड) सलेषुलु युक्त. सले-  
खना-युक्त Having austerity  
नदी० २०६,  
सलोत्र. त्रि० (सलोक) नेना उपर दृष्टि पी  
शके ते जिस पर दृष्टि पड़ सकती हो.

Which can be seen उक्त० २४, १६,  
 सचट्ट. पु० (सवर्त) अेक प्रक्षरते वायु वायु-  
 विशेष, तृणको उडानेवाला वायु A wind  
 of a particular class पत्र० १,  
 सवरिअ त्रि० (सवृत) आराधन करेक आरा-  
 धन, आसेवित. Worshipped पण्ह०  
 २, १,  
 संविकिरण त्रि० (सविकीर्ण) सारी रीते  
 व्यापेक्षु अच्छी तरह व्याप्त Well-  
 pervaded पत्र० २,  
 सविचरण-न्न त्रि० (सविचीर्ण) सेवन करेक  
 सविचरित, आसेवित. Enjoyed.  
 नाया० १, ५,  
 सविभागि त्रि० (सविभागिन) धीअने धर्ने  
 भोजन करेकर दूसरे को देकर भोजन करने  
 वाला. One who takes food after  
 giving others उक्त० ११, ६, ६, ६,  
 ६, २, २३,  
 सवुद्ध. त्रि० (सवृद्ध) पधेक्षु बढा हुआ  
 Remained सू० २, १, २६,  
 सवेयण त्रि० (सवेजन) वैशय्य जनक सवेग-  
 जनक Causing in difference to  
 the world ठ० ४, २,  
 सवेयण. त्रि० (सवेदन) बोधे जनक बोध-  
 जनक Instructive ठ० ४, २,  
 ससया स्त्री० (ससत) परिपद्, सभा परिपद्,  
 सभा A meeting, An assembly  
 उच० १, ४७,  
 संसेय पु० (ससेक) सिन्धु सिन्धु Spinn-  
 ing ठ० ३, ३,  
 ससेस. पु० (ससेष) सयध, सयोग सम्बन्ध,  
 सयोग Connection, Junction  
 आया० २, १३, १,  
 संहय त्रि० (सहय) भजेक्षु मिला हुआ  
 Procured, Secured पण्ह० १, ४,  
 सकथ. न० (सकथ) तापमोतु अेक उपकरण

तापमोतु का एक उपकरण. An imple-  
 ment of an ascetic निर० ३, १,  
 सकप्यम पु० (शक्रप्रभ) शक्रते अेक उत्पत्त  
 पर्वत शक्र का एक उत्पात-पर्वत. A  
 pleasure-mountain of India.  
 ठ० १०,  
 सक्कय. त्रि० (सक्कत) स मानित. समानित.  
 Honoured, Respected पण्ह० १, ४,  
 सककुलि स्त्री० (शक्कुलि) क्षान्तु छिद्र कर्ण-  
 विवर, कान का छिद्र. A hole of an  
 ear नाया० १, ८,  
 सगड पु० (शकट) अेक सार्थवाहन पुत्र.  
 एक सार्थवाह-पुत्र A son of the  
 leader of a caravan विवा० १, १,  
 सज्झाडय. त्रि० (स्वाध्यायिक) जेभा पढन  
 आदि आध्याय धर्म शके अेवे शास्त्रोक्त  
 देश, क्षण आदि जिसमें पठन आदि स्वा-  
 ध्याय हो सके ऐसा शास्त्रोक्त देश, काल  
 आदि A place, time etc pre-  
 scribed by sacred laws proper  
 for studying. ठ० १०,  
 सड्ढा. स्त्री० (अद्दा) अपृष्ट, अलिखाप  
 अभिलाप, स्पृहा, वाञ्छा Desire, Am-  
 bition विवा० १, १,  
 सण्णिप्पाय. पु० (शने प्रपात) श्वेधी लरेली  
 अेक पौद्गलिक वस्तु जीवों से मरी हुई  
 पौद्गलिक वस्तु विशेष A substance  
 of material molecules full of  
 souls ठ० २, ४,  
 सतग्घी स्त्री० (शतञ्जी) अेक प्रक्षरतु अस्त्र  
 अस्त्र-विशेष A kind of weapon.  
 पण्ह० १, १,  
 सतद्. स्त्री० (शतद्) अेक महानदी A  
 great river ठ० ६, ३,  
 सत्तच्छय. पु० (सत्तच्छद) अेक प्रक्षरतु  
 पृथ वृत्त-विशेष, सत्तवन का पेड, सतौना

सपगिद्ध त्रि० (सप्रगृह्य) अनि आसक्त अति  
 आमक्त Devotedly attached to  
 पण्ह० १, ४,  
 सपगगहीश्र त्रि० (सप्रगृहीत) विशेष अभिमान  
 युक्त खूब प्रकर्षसे गृहीत, विशेष अभिमान  
 युक्त. Arrogant, Very proud  
 दू० ६, ४, ०,  
 सपणाइय सपणादिय. त्रि० (सप्रणादित)  
 संपीथीन-मु० ६२ ग०८८ वा०० समीचीन शब्द  
 वाला Having beautiful words.  
 जीवा० ३, ४,  
 संपदावण न० (सप्रदापन सप्रदान) श्रेष्ठ शक्ति  
 कारक-विशेष The dative case ठा० ८,  
 सपहिट्ट त्रि० (सप्रहृष्ट) हर्ष पात्रेण हर्षित,  
 प्रसुदित Delighted उक्त० १२, ३,  
 सपाइम त्रि० (सपातिम) गति, गति कर्ता  
 जाने वाला, गति-कर्ता A goer आया०  
 २, १, ३, ६, २, ३, १, १४,  
 सपाय पु० (सपात) (१) निरर्थक असत्य  
 श्लेषपुत्रे व्यर्थ का झूठ, निरर्थक असत्य  
 भाषण Telling a useless lie  
 पण्ह० १, ४, (३) श्लेषपुत्रे चलन  
 हिलन. Moving to and fro उक्त०  
 १८, २३,  
 सपिट्ट त्रि० (सपिष्ट) पीसेलु, पीसेलु  
 हुआ Pounded, Levigated सू०  
 १, ४, २, ८,  
 सपुच्छणी स्त्री० (सपुच्छनी) सापरणी झाड़ू,  
 समार्जनी A broom, A besom  
 राय० २१,  
 सपुड पु० न० (सपुट्ट) सय्य, समूह सचय,  
 समूह A collection, A multi-  
 tude सू० १, ४, १, २३,  
 सपुडिअ त्रि० (सपुदित) जोड़ेलु जुड़ा हुआ  
 Joined नाया० १, १,  
 सपूयण न० (सपूजन) पूजन पूजन, अभ्यर्चन

Worship सू० १, १०, ७,  
 सभति स्त्री० (सभ्रान्ति) उत्सुकता सभ्रम,  
 उत्सुकता Eagerness, Earnestness  
 भग० १६, ४,  
 सभतिय त्रि० (सभ्रान्तिक) सभ्रमथी अनेलु,  
 उतापगथी अनेलु सभ्रम से बना हुआ  
 Hurriedly made भग० १६, ४,  
 सभार पु० (सम्भार) मसाला, शाक पत्रे  
 भा नापचामा आपतो मसाला मसाला,  
 शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला  
 Spices, Condiment नाया० १, १६,  
 सभिरण-ज. त्रि० (सभिन्न) श्लेषपुत्रे  
 वा०० विलकुल भिन्न-भेद वाला En-  
 tually divided, Completely  
 separated पण्ह० २, १,  
 समइ. स्त्री० (समति) (१) अनुमति अनुमति  
 A consent सू० १, ८, १४, (२) पु०  
 वायुकाय, पवन वायुकाय, पवन The  
 wind (३) वायुनायना अधिष्ठाता देव  
 वायुकाय का अधिष्ठाता देव A presid-  
 ing god of the wind ठा० ४, १,  
 समिस्स त्रि० (समिश्त्र) उभाउली श्लेष  
 वा०० उखड़ी हुई छाल वाला Scratch-  
 ed, Skinned आया० २, १, ८, ६,  
 समुइ. पु० (सन्मुचि) भारतवर्षमा भविष्य  
 भा अनार श्रेष्ठ कुलकर पुत्र्य भारतवर्ष में  
 भविष्य में होने वाला एक कुलकर पुत्र्य  
 The future Kulkar of Bharat  
 Vaisha ठा० १०,  
 संमुच्छिय त्रि० (समूर्च्छित) उत्पन्न शयेल.  
 उत्पन्न Produced सू० ५० ६,  
 सलीड त्रि० (सलीड) सखेपण्य युक्त. सखे-  
 खना-युक्त Having austerity  
 नदी० २०६,  
 संलोअ. त्रि० (सलोअ) नेना उपर दृष्टि पडी  
 शक्ति ते जिस पर दृष्टि पड़ सकती है.

Which can be seen उक्त० २४, १६,  
 संवह. पु० (सवर्त) अेक प्रक्षरनेो वायु वायु-  
 विशेष, तृणको उडानेवाला वायु A wind  
 of a particular class पत्र० १,  
 संवरिअ त्रि० (सवृत) आराधन करेक्ष आरा-  
 धन, आसेवित. Worshipped पण्ह०  
 २, १,  
 सविकिरण त्रि० (सविकीर्ण) सारी रीते  
 व्यापेक्ष अच्छी तरह व्यास Well-  
 pervaded पत्र० २,  
 सविविरण-अ त्रि० (सविवीर्ण) सेवन करेक्ष  
 सविवरित, आसेवित. Enjoyed.  
 नाया० १, २,  
 सविभागि त्रि० (सविभागिन्) भीजने धर्ने  
 भोजन करनार दूसरे को देकर भोजन करने  
 वाला One who takes food after  
 giving others उक्त० ११, ६, दप०  
 ६, २, २३,  
 सवुड्ड. त्रि० (सवृद्ध) पधेक्ष बढा हुआ  
 Remained सूय० २, १, २६,  
 संवेयण त्रि० (सवेजन) वैराग्य जनक संवेग-  
 जनक Causing in difference to  
 the world अ० ४, २,  
 संवेयण. त्रि० (सवेदन) ज्योष जनक बोध-  
 जनक Instructive. अ० ४, २,  
 ससया स्त्री० (ससत) परिषद्, सभा परिषद्,  
 सभा A meeting, An assembly  
 उक्त० १, ४७,  
 ससेय पु० (ससेक) सिथन सिंचन Sprin-  
 kling अ० ३, ३,  
 ससेस पु० (सक्षेप) सथप,सयोग सम्बन्ध,  
 सयोग Connection, Junction  
 आया० २, १३, १,  
 सहय त्रि० (सहत) भजेक्ष मिला हुआ  
 Procured, Secured पण्ह० १, ४,  
 सकथ. न० (सकथ) तापसीतु अेक उपकरण

तापसों का एक उपकरण. An imple-  
 ment of an ascetic निर० ३, १,  
 सकप्पम पु० (शक्रप्रम) शक्रनेो अेक उत्पात  
 परंत शक्र का एक उत्पात-पर्वत. A  
 pleasure-mountain of India.  
 अ० १०,  
 सकथ. त्रि० (सकृत) समानित समानित.  
 Honoured, Respected पण्ह० १, ४  
 सकुलि स्त्री० (शकुलि) क्षान्तु छिद्र कर्ण-  
 विवर, कान का छिद्र. A hole of an  
 ear नाया० १, ८,  
 सगड. पु० (शकट) अेक सार्थवाहन पुत्र.  
 एक सार्थवाह-पुत्र A son of the  
 leader of a caravan विवा० १, १,  
 सज्झाहय. त्रि० (स्वाध्यायिक) जेभा पढ़न  
 आदि स्वाध्याय थर्ष शके ज्येवेो शास्त्रोक्त  
 देश, क्षण आदि जिसमें पठन आदि स्वा-  
 ध्याय हो सके ऐसा शास्त्रोक्त देश, काल  
 आदि A place, time etc pre-  
 scribed by sacred laws proper  
 for studying. अ० १०,  
 सड्डा. स्त्री० (अड्डा) स्पृहा, वाछा Desire, Am-  
 bition विवा० १, १,  
 सखिप्पवाय. पु० (शनै प्रपात) ज्योधी लरेली  
 अेक पौद्गलिक वस्तु जीवों से भरी हुई  
 पौद्गलिक वस्तु विशेष A substance  
 of material molecules full of  
 souls अ० २, ४,  
 सतग्घी स्त्री० (शतघ्नी) अेक प्रक्षरतु अस्त्र  
 अस्त्र-विशेष A kind of weapon.  
 पण्ह० १, १,  
 सतह्. स्त्री० (शतह्) अेक महानदी A  
 great river अ० २, ३,  
 सत्तच्छय. पु० (सत्तच्छद) अेक प्रक्षरतु  
 वृक्ष वृक्ष-विशेष, सतवन का पेड, सतौना



A kind of 1100 नाया० १, १६,  
 सत्तद्धि स्त्री० न० (सत्तपट्टि) सप्तसप्त सदसठ  
 Sixty seven सू० प० १२,  
 सहल. न० (शाद्वल) धीधु धास हरित,  
 हरा घास. Green grass नाया० १, १,  
 सद्दल पु० (सद्दल) अेक प्रकरतु दधीयार  
 एक प्रकार का हथियार, कुन्त, चर्खा A  
 kind of weapon पयह० १, १,  
 सद्धिञ्च. त्रि० (अद्धिक) श्रद्धापाणु श्रद्धा  
 वाला Faithful, Confidential.  
 पयह० १, ३,  
 सपि त्रि० (सर्पिन्) हाथमा बाडडीनी  
 सहायथी आधनार अेक रोगी रोगी-  
 विशेष, हाथ में लकड़ी के सहारे से चल  
 सकने वाला रोगी-विशेष A kind of  
 patient पयह० २, ५,  
 सव्म. त्रि० (सभ्य) शिष्ट सभोचित, शिष्ट  
 Civilized, Educated 'असव्मभा-  
 सी' दस० ६, २, ८,  
 सम त्रि० (सम) (१) तटस्थ, मध्यस्थ,  
 उदासीन तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन,  
 राग द्वेष से रहित Neutral, Indif-  
 ferent सूय० १, १३, ६, ठ० ८,  
 (२) आकाश आकाश, गगन A sky  
 भग० २०, २,  
 समचक्रवाल न० (समचक्रवाल) गोलाकार  
 वृत्त, गोलाकार A circle, A round  
 सू० प० ४,  
 समज्भासिय. त्रि० (समध्यासित) अधिष्ठित  
 अधिष्ठित Presided, Authorized  
 सू० प० १०, १,  
 समखसीह. पु० (अमणसिंह) श्रेष्ठ मुनि  
 श्रेष्ठ मुनि The excellent saint  
 पयह० २, ५,  
 समखुन्न. त्रि० (समनोन्न) (१) सुंदर,  
 मनोहर सुन्दर, मनोहर. Beautiful,

Handsome (२) सुंदर वेप आदि  
 युक्त सुन्दर वेप आदि वाला Beauti-  
 fully dressed आया० १, ८, १, १,  
 समखुसद्व त्रि० (समनुश्रिष्ट) अनुश्रुत,  
 अनुमत अनुज्ञात, अनुमत Sanction-  
 ed, Consented आया० २, १, १०, ४,  
 समहिद्विद्वान्तर त्रि० (समधिद्वान्तु) अधिपति,  
 अधिपति अध्यक्ष, मुखी, अधिपति.  
 The president, The leader  
 आया० २, २, ३, ३, २, ७, १, २,  
 समाञ्चोग पु० (समायोग) स्थिरता स्थि-  
 रता Steadiness तदु० १४,  
 समाजुत्त न० (समायुक्त) जोडु ते सयोजन,  
 जोडना Joining, Connecting  
 राय० ४०,  
 समाधारणया. स्त्री० (समाधारण) समान  
 भावे स्थापन समान भाव से स्थापन  
 Generally founded उक्त० २६, १,  
 समाभरिञ्च त्रि० (समाभरित) आभरण  
 सहित आभरण-युक्त Ornamented  
 अणुजो० २५३,  
 समाहड त्रि० (समाहृत) विशुद्ध, निर्मल  
 विशुद्ध, निर्मल Pure, Clean.  
 आया० २, १, ३, ६,  
 समाहिञ्च त्रि० (समाहृत) ग्रहण करेह गृहीत  
 Took, Received आया० १, ८, ५, २,  
 समाहिञ्च त्रि० (समाख्यात) सन्त्यग् प्रकरे  
 कहेलु सन्त्यग् कथित Well-said सूय०  
 १, ६, २६, आया० २, १६, ४,  
 समाहिय त्रि० (समाहित) (१) शोभन,  
 सुंदर शोभन, सुन्दर Beautiful,  
 Elegant (२) अपीलस अवीमलस  
 undisgusting (३) निर्दोष निर्दोष  
 Innocent, Faultless, Pure  
 सूय० १, ३, १, १०,  
 समिञ्च. त्रि० (अमित) अमवाणु अम-युक्त

Fatigued, Tired भग० २, २,  
 समिञ्ज. त्रि० (समिक) सम, राग द्वेष रहित सम,  
 राग द्वेष रहित Free from attachment  
 and hatred पण्ड० २, २,  
 समिञ्ज. न० (सान्य) समता, रागादिना अभाव.  
 समता, रागादि का अभाव, समभाव  
 Absence of attachment etc  
 सूय० १, १६, २, आद्या० १, ८, ८, १४,  
 समिञ्जा. स्त्री० (समिता) धउता पोटा गोहू  
 का आटा Wheat flour नाया० १, ८,  
 समिजग. पुं० (समिञ्जक) त्रीन्द्रिय जतुनी  
 ओक जति त्रीन्द्रिय जतु की एक जाति  
 A kind of insect having three  
 senses उक्त० ३६, १३६,  
 समुक्करिस पु० (समुक्कर्ष) अतिशय उत्कर्ष  
 अतिशय उत्कर्ष Excessive pros-  
 perity उक्त० २३, ८८,  
 समुच्छिन्न त्रि० (समुच्छिन्न) क्षीण पापेल,  
 विनष्ट क्षीण, विनष्ट. Ruined, Des-  
 troyed. ङ० ४, १,  
 समुत्थिञ्ज त्रि० (समुत्थित) (१) उपस्थित  
 उपस्थित Present, In proximity  
 (२) प्राप्त थयेल प्राप्त Procured  
 सूय० १, ३, २, ६, (४) अनुष्ठान करेल  
 अनुष्ठित, विहित Performed,  
 Executed सूय० १, २, २, ३१,  
 समुत्त न० (समुक्त) (१) ओक गोत्र गोत्र-  
 विशेष A lineage (२) पु० स्त्री० ते  
 गोत्रमा उत्पन्न थयेल उस गोत्र में उत्पन्न  
 Born in that family ङ० ७,  
 समुदाहिय. त्रि० (समुदाहृत) प्रतिपादन  
 करेल, करेल प्रतिपादित, कथित Prov-  
 ed, उक्त० ३६, २१,  
 समुद्. पु० (समुद्र) शापिडत्य मुनिना शिष्य,  
 ओक जैन मुनि शापिडत्य मुनि के शिष्य  
 एक जैन मुनि Name of a Jaina

saint, pupil of Shandilya.  
 नदी० ४६,

समुद्दत्ता. स्त्री० (समुद्दत्ता) समुद्दत्त म-  
 ञ्जीभारती भार्या समुद्दत्त मञ्जीमार की  
 भार्या A wife of a fisher-man  
 named Samudradatta विवा०  
 १, ८,

समुद्देशण न० (समुद्देशन) सूत्रोना अर्थतु  
 अध्यापन सूत्रों के अर्थ का अध्यापन.  
 Teaching of scriptural mean-  
 ing. नदी० २०६,

समुवविट्ट त्रि० (समुवविष्ट) षेडुं. बैठा  
 हुआ Sat राय० ७२,

समुस्सय पु० (समुच्छ्रय) (१) उचाई  
 ऊचाई, उर्ध्वता Height सूय० २, ४,  
 ७, (२) उन्नति, उत्तमता उन्नति,  
 उत्तमता Prosperity सूय० १, १२, ७,  
 समेर त्रि० (समर्याद) मर्यादा युक्त मर्यादा  
 युक्त Limited ङ० ३, २,

सम्म त्रि० (सम्यन्त्) (१) सत्य, सात्यु  
 सत्य, सच्चा True सूय० १, ८, २३,  
 सम्म० ८७, (२) अविपरीत, अविरोध  
 अविपरीत, अविरुद्ध Not reverse,  
 Not adverse ङ० १, ३-४, (३)  
 शोभन, सुंदर शोभन, सुन्दर Beauti-  
 ful, Handsome. (४) उचित,  
 व्याजबी सगत, उचित, व्याजबी. Pro-  
 per, Suitable, Right सूय०  
 २, ४, ३,

सम्मावाय. पु० (सम्यग्वाद) (१) अविरोध-  
 वाद अविरोधवाद Uncontradic-  
 tory discussion (२) दृष्टिवाद,  
 पारमो अथ दृष्टिवाद, बारहवाँ जैन अंग  
 ग्रन्थ Drishtivada, The twelfth  
 Anga of Jainism. ङ० १०, (३)  
 सामाधिक, सथम-विशेष सामयिक, सयम

विशेष Right conduct abandon-  
ing all sinful acts आच० १,  
सम्मुद् स्त्री० (सन्मति) (१) सगत मति  
सगत मति Proper wisdom (२)  
सुदृष्ट बुद्धि सुन्दर बुद्धि, विशद बुद्धि  
Pure wisdom उक्त० २८, १७,  
सय पु० न० (शत) धल्यु भडोटी स०या  
पाण्य बहुत, भूरि, अनल्प सख्या वाला  
Plenty नाया० १, १,  
सयय पु० (शतक) (१) वर्तमान अपस-  
र्षिणी क्षणमा उत्पन्न थयेक अ०वत  
क्षेत्रना अ० जिनदेव वर्तमान अवसर्षिणी  
काल मे उत्पन्न देवत वर्ष के एक जिन-देव  
Name of a Jinadeo of Air-  
vata Kshetria in the modern  
Avasarpini सम० १२३,  
सयालि पु० (शतालि) भारत वर्षना लावी  
अदारमा जिनदेवनी पूर्वजन्मीय नाम  
भारतवर्ष के भावी अठारहवें जिनदेव का  
पूर्वजन्मीय नाम Name of the fu-  
ture Jindeo of Bharatvaisha  
of his previous life सम० १२४,  
सयावरी स्त्री० (सदावरी) त्रीन्द्रिय जटुनी  
अ० जति त्रीन्द्रिय जटु की एक जाति  
A kind of insect having three  
senses उक्त० ३६, १३६,  
सर त्रि० (सर) गमन करनर गमन-कर्ता  
A goat दस० ६, ३, ६,  
सरक्ख. पु० न० (सदरजल्) धूल, रज  
धूल, रज Dust दस० ५, १, ७,  
सरय पु० न० (सरक) अ० प्र०रनी द३  
मद्य-विशेष, गुड तथा घातकी का बना हुआ  
दारू A kind of liquor पयह०  
२, ५,  
सरस्सई स्त्री० (सरस्वती) अ० २०५५५  
एक राज-पत्नी A queen विवा० २, २,

सरि त्रि० (सदृश) सदृश, सरथु. सदृश,  
सरीखा, तुल्य Like, Equal,  
Same. भग० नाया० १, १, अत० ५,  
सरित्त्तार त्रि० (स्मृत) स्मरण करनर  
स्मरण-कर्ता One who reminds,  
A reminder ठ० ६,  
सरीरणाम पु० न० (शरीरनामन्) नाम  
कर्म्मनी अ० प्र०ति कर्म-विशेष, शरीर का  
कारणभूत कर्म A particular Kar-  
ma सम० ६७,  
सरीरवधण न० (शरीरवन्धन) अ० नामनी  
नाम कर्म्मनी अ० प्र०ति. कर्म-विशेष A  
particular Karma सम० ६७,  
सरीरसघायण न० (शरीरसघातन) अ०  
नामनी नाम कर्म्मनी अ० अ० नाम कर्म  
का एक भेद A variety of Nama  
Karma सम० ६७,  
सलाग न० (शालाक्य) चिकित्सा शास्त्र;  
आयुर्वेद अ० अ० चिकित्सा शास्त्र,  
आयुर्वेद का एक अंग Medical scien-  
ce विवा० १, ७,  
सलोग. पु० (श्लोक) श्लाघा, प्रशसा श्लाघा,  
प्रशसा Praise सूय० १, १३, १२,  
सल्ल पु० न० (शल्य) अ० प्र०रतु अ०  
अस्त्र-विशेष, तोमर, साग. A kind of  
weapon ठ० ३, ३,  
सल्लग त्रि० (शल्यक) शल्य पाण्य; द३  
वगेरे शल्यथी पीडित शल्य वाला, शूल  
आदि शल्य से पीडित Thorny.  
पयह० २, ५, (२) विज्ञान, ज्ञानपाण्य.  
परिज्ञान, जानकारी. Knowledge  
सूय० २, २, ५७,  
संभव त्रि० (श्रव्य) साधनवा योग्य श्रवण-  
योग्य Worthy to be heard.  
भग० १, १,  
संभवश्रीमद्. न० (सर्वतोभद्र) पाथ्यु अ०

५३ विमान पाचवा ऋषेयक विमान. The fifth Gravayaka celestial car. ङ० १० ,  
 सन्वगा स्त्री० ( सर्वगा ) उत्तर ३५३ पर्वत उपर रहेनारी अेक दिक्षुमारी देवी. उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्षुमारी देवी A Dikkumari goddess dwelling on the northern Ruchaka mountain. ङ० ८,  
 सन्वद्व पु० न० ( सर्वार्थ ) (१) सहस्रार देवलोकेतु अेक विमान सहस्रार देवलोक का एक विमान. A celestial aerial-car of the Sahasraara heaven सम० १०५, (२) पु० सर्व अर्थ सर्व अर्थ. Everything आया० १, ८, ८, २५,  
 सन्वभावविद पु० ( सर्वभावविद् ) आगामी क्षणमा भारतवर्षमा अनार आरमा जिन देव आगामीकाल में भारतवर्ष में होने वाले बारहवें जिनदेव Name of twelfth Jinadeo of Bharatvaisha in the future सम० १५३,  
 सन्वविग्गहित्र त्रि० ( सर्वविग्रहिक ) सर्वाथानु सर्व-सच्चित्त, सबसे छोटा Smallest भग० १३, ४,  
 सन्वय त्रि० ( सर्वद ) सर्वा देनार. सब देने वाला. All giver, पण्ह० २, १,  
 सन्वाव त्रि० ( सव्याप ) व्यापक, व्याप्तियुक्त. व्याप्ति-युक्त, व्यापक. Perwaded भग० १, ६,  
 ससि. पु० ( राशिन् ) दक्षिण ३५३ पर्वतनु अेक शिष्य दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूट A summit of the southern Ruchaka mountain ङ० ८,  
 सहीण, त्रि० ( स्वाधीन ) स्वाधीन, स्वयश स्वायत्त, स्ववश Independent दस० ८, ६ ,

सहोद. त्रि० ( सहोद ) थोरीना भालवाणु. चोरी के माल से युक्त, स-मोप One with the stolen property in his possession नाया० १, २,  
 साइ. पु० स्त्री० ( साति ) (१) अविश्वास अवि-श्रम्भ, अविश्वास Nonconfidence (२) असत्य पयन, झूठ असत्य-वचन, झूठ A lie पण्ह० १, २,  
 साइ पु० ( स्वाति ) भारतवर्षमा अनार अेक जिनदेवना पूर्वा जन्मनु नाम भारतवर्ष में होने वाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम Name of a future Jinadeo of Bharatvaisha of his previous life सम० १५४,  
 साइजोग पु० ( सातियोग ) मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म. Mohaniya Karma सम० ७१,  
 साप्या. स्त्री० ( साकेता ) अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी Ayodhya city नाया० १, ८,  
 सागरदत्त पु० ( सागरदत्त ) अेक जैन मुनि एक जैन मुनि Name of a Jaina saint सम० १५३,  
 साडणा. स्त्री० ( शाटना ) ५३ ५३ करीने पाउथानु क्षरथु, विनाशनु क्षरथु खरड र होकर गिराने का कारण, विनाश कारण Cause of ruin विवा० १, १,  
 साण त्रि० ( शण ) शथुनु थनेथु सन का बना हुआ, पाट का बना हुआ Made of linen. दस० ५, १, १८,  
 साणि स्त्री० ( शाणि ) शथुनु थनेथु कपडु शण का बना हुआ कपडा A cloth made of flax दस० ५, १, १८,  
 सात न० ( सात ) सुभ सुख. Happiness ङ० २, ४ , —वेप्रणिज्ज, न० ( वेदनीय ) सुभनु क्षरथुभूत कर्म सुख का कारण

विशेष Right conduct abandon-  
ing all sinful acts. श्राव० १,  
सम्मुद् खी० (सन्मति) (१) सगत मति  
सगत मति Proper wisdom (२)  
सुधर बुद्धि सुन्दर बुद्धि, विशद बुद्धि  
Pure wisdom उक्त० २८, १७,  
सय पु० न० (शत) धल्लु भडोटी स०या  
वाणु बहुत, भूरि, अनल्प सख्या वाला  
Plenty नाया० १, १,  
सयय पु० (शतक) (१) वर्तमान अयस-  
पिण्णी क्षणमा उत्पन्न थयेथ अयवत  
क्षेत्रना अेक जिनदेव वर्तमान अवसर्पिणी  
काल में उत्पन्न ऐवत वर्ष के एक जिन-देव  
Name of a Jinadeo of Au-  
vata Kshetia in the modern  
Avasarpini सम० १५३,  
सयालि पु० (शतालि) भारत वर्षना भावी  
अठारमा जिनदेवनी पूर्वजन्मीय नाम  
भारतवर्ष के भावी अठारहवें जिनदेव का  
पूर्वजन्मीय नाम Name of the fu-  
ture Jindeo of Bharatvarsha  
of his previous life सम० १५४,  
सयावरी खी० (सदावरी) त्रीन्द्रिय जलुनी  
अेक जति त्रीन्द्रिय जलु की एक जाति  
A kind of insect having three  
senses उक्त० ३६, १३६,  
सर. त्रि० (सर) गमन करनार गमन-कर्ता  
A goer दस० ६, ३, ६,  
सरक्ख. पु० न० (सदरजस्) धूल, रज  
धूल, रज Dust दस० ५, १, ७,  
सरय पु० न० (सरक) अेक प्रकारनो द्रव्य  
मद्य-विशेष, गुड तथा घातकी का बना हुआ  
दारु A kind of liquor पयह०  
२, ५,  
सरस्सई खी० (सरस्वती) अेक राजपत्नी  
एक राज-पत्नी A queen विवा० २, २,

सरि त्रि० (सद्य) सद्य, सरथु. सद्य,  
सरीखा, तुल्य Like, Equal,  
Same भग० नाया० १, १, अत० ५,  
सरित्त्तार त्रि० (स्मृत) स्मरण करनार  
स्मरण-कर्ता One who reminds,  
A reminder ठा० ६,  
सरीरयाम पु० न० (शरीरनामन्) नाम  
क्षर्भनी अेक प्रकृति कर्म-विशेष, शरीर का  
कारणभूत कर्म A particular Kai-  
ma सम० ६७,  
सरीरवधण न० (शरीरवधन) अे नामनी  
नाम क्षर्भनी अेक प्रकृति. कर्म-विशेष A  
particular Karma सम० ६७,  
सरीरसहायण न० (शरीरसहायन) अे  
नामनी नाम क्षर्भनी अेक भेद नाम कर्म  
का एक भेद A variety of Nama  
Karma सम० ६७,  
सलाग न० (शालाक्य) यिडित्सा शास्त्र,  
आयुर्वेदु अेक अग चिकित्सा शास्त्र,  
आयुर्वेद का एक अग Medical scien-  
ce विवा० १, ७,  
सलोग. पु० (श्लोक) श्लाघा, प्रशसा श्लाघा,  
प्रशसा Praise सूय० १, १३, १२,  
सल्ल पु० न० (शल्य) अेक प्रकारनु अस्त्र.  
अस्त्र-विशेष, तोमर, साग A kind of  
weapon ठा० ३, ३,  
सल्लग त्रि० (शल्यक) शल्य वाणु, कीटो  
पेजेरे शल्यथी पीडित शल्य वाला, शूल  
आदि शल्य से पीडित Thorny.  
पयह० २, ५, (२) विज्ञान, ज्ञानुपणु.  
परिज्ञान, जानकारी. Knowledge  
सूय० २, २, ५७,  
सन्व त्रि० (अन्य) साक्षणवा योग्य श्रवण-  
योग्य Worthy to be heard  
भग० १, १,  
सन्वत्रोभद्. न० (सर्वतोभद्) पायथु अवे-

यः विमान पाचवा त्रैवेयक विमान. The fifth Gravayaka celestial car. ङ० १०,

सव्वगा स्त्री० (सर्वगा) उत्तर इत्यत्र पर्वत उपर रहनेारी अत्र दिक्कुमारी देवी. उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी A Dikkumari goddess dwelling on the northern Ruchaka mountain. ङ० ८,

सव्वद्व पु० न० (सर्वार्थ) (१) सहस्रार द्वेषलोकतु अत्र विमान सहस्रार देवलोक का एक विमान, A celestial aerial-car of the Sahasraara heaven सम० १०२, (२) पु० सर्व अर्थ. सर्व अर्थ.

Everything आया० १, ८, ८, २२,

सव्वभावविउ पु० (सर्वभावविद्) आगाभी क्षणमा भारतवर्षमा थनार पारमा जिन देव आगामीकाल में भारतवर्ष में होने वाले बारहवें जिनदेव Name of twelfth Jinadeo of Bharatvaisha in the future. सम० १२३,

सव्वविग्गहिअ त्रि० (सर्वविग्रहिक) सर्वाथानि सर्व-सचिप्त, सबसे छोटा Smallest भग० १३, ४,

सव्वय त्रि० (सर्वद) सर्वा देनार. सब देने वाला. All give, पण० २, १,

सव्वाव त्रि० (सव्वाप) व्यापक, व्यापित्युक्त व्याप्ति-युक्त, व्यापक Pervaded. भग० १, ६,

ससि. पु० (शशिन्) दक्षिण इत्यत्र पर्वततु अत्र शिभर दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूट A summit of the southern Ruchaka mountain ङ० ८,

सहीण. त्रि० (स्वाधीन) स्वाधीन, स्वयं स्वयन्त, स्वयं Independent दस० ८, ६ ;

सहोद. त्रि० (सहोद) थोरिना भावपाणु. चोरी के माल से युक्त, स-मोप One with the stolen property in his possession नाया० १, २,

साइ पु० स्त्री० (साति) (१) अविश्वास अवि-श्रम्भ, अविश्वास Nonconfidence. (२) असत्य पयन, झूठ असत्य-वचन, झूठ A lie पण० १, २,

साइ पु० (स्वाति) लागतवर्षमा थनार अत्र जिनदेवना पूर्व जन्मना नाम भारतवर्ष में होने वाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम Name of a future Jinadeo of Bharatvaisha of his previous life सम० १२४,

साइजोग पु० (सातियोग) मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म. Mohaniya Karma सम० ७१,

सापया. स्त्री० (साकेता) अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी Ayodhya city नाया० १, ८,

सागरदत्त पु० (सागरदत्त) अत्र जैन मुनि एक जैन मुनि Name of a Jain saint सम० १२३,

साडणा. स्त्री० (शाटना) पड पड डरीने पाडणानु डारणु, विनाशनु डारणु. खण्ड र होकर गिराने का कारण, विनाश कारण. Cause of ruin विवा० १, १,

साण त्रि० (शाण) शणुनु पनेलु सन का बना हुआ, पाट का बना हुआ Made of linen. दस० २, १, १८,

साणि स्त्री० (शाणि) शणुनु पनेलु कपडु. शण का बना हुआ कपडा A cloth made of flax दस० २, १, १८,

सात न० (सात) सुभ सुख. Happiness ङ० २, ४, —वेगणिज्ज, न० (वेदनीय) सुभनु डारणुलूत कर्म सुख का कारण

भूत कर्म. The causing karma of happiness ङ० २, ४,  
 साधारणा स्त्री० (साधारणा) वासना, धारणा  
 वासना, धारणा, स्मरण-शक्ति. Remem-  
 bering power, Retentiveness  
 नदी० १७६,  
 साम पु० (श्याम) (१) ऐक जैन मुनि,  
 श्यामार्य एक जैन मुनि, श्यामार्य A  
 Jain saint named Shyama-  
 charya. नदी० ४६, (२) न० ऐक  
 प्रक्षरनु धास, गंध-तृण तृण-विशेष, गन्ध  
 तृण A kind of grass सूय० २, २, ११,  
 सामाण्य पु० (सामान्य) अल्पुपनी देवीने  
 ऐक छन्द अणुपनी देवी का एक इन्द्र A  
 lord of Anapanni gods ङ० २, ३,  
 सामिधेय न० (सामिधेय) समिधना बाधु  
 ने समूह काण्ड-समूह A collection  
 of woods (sacrificial sticks  
 for the sacred fire) अत० ३, ८,  
 सामिलि. न० (स्वामिलि) (१) वत्स गोत्र  
 नी ऐक शाखा गोत्र विशेष, जो वत्स गोत्र  
 की एक शाखा है A lineage which  
 is the branch of the Vatsa one  
 (२) पु० स्त्री० ते गोत्रमा उत्पन्न अथेद  
 उस गोत्र में उत्पन्न Born in that  
 family ङ० ७,  
 सामुदाय्य त्रि० (सामुदायिक) समुदायतु,  
 समुदाय साथे सभंध सम्पन्न समुदाय का,  
 समुदाय से संबन्ध रखने वाला Relating  
 to a multitude नाया० १, १६,  
 साय अ० (सायम्) सत्य, सायु सत्य, सच्चा  
 True ङ० १०,  
 सायग त्रि० (स्वादक) स्वाद लेना स्वाद लेने  
 वाला One who tastes दस० ४, २६,  
 सायणा. स्त्री० (शातना) पडन, छेदन खण्डन,  
 छेदन. Cutting, Piercing सम० २८,

सायणी. स्त्री० (शायनी-स्वापनी) मनुष्यनी दश  
 दशायोमानी दसभी—६० थी १०० वर्षनी  
 उभरवाणी दश मनुष्यकी दश दशाओं में  
 दसवीं—६० से १०० वर्ष की उम्र वाली दश  
 The tenth of the ten stages of  
 man तदु० १६,  
 सायासुख. न० (सातलौख्य) अतिशय सुभ  
 अतिशय सुख Excessive happiness.  
 जीवा० ३,  
 सार. पु० न० (सार) (१) न्याय युक्त न्याय्य,  
 न्याय-युक्त Just, Equitable सूय०  
 १, १, ४, १०, (२) पु० ऐक प्रक्षरनु वृक्ष  
 वृक्ष-विशेष A kind of tree पन्न० १,  
 सारग न० (साराङ्ग) श्रेष्ठ अथयव प्रधान दल,  
 श्रेष्ठ अथयव The best limb. पण्ड० २, ६,  
 सारक्खिअ त्रि० (सरचित) नेतु स रक्षायु  
 करवाभा आयु होयते जिसका संरक्षण किया  
 गया हो वह. What is protected.  
 पण्ड० २, ४,  
 सारय. त्रि० (स्वारत) आसक्त आसक्त, खुब  
 लीन Attached to आया० १, ४, ४, १,  
 सारवत. त्रि० (सारवत्) सारवाणु सारयुक्त  
 Substantial ङ० ७,  
 सारसी स्त्री० (सारसी) पडन आमनी ऐक  
 मूर्छना पडन ग्राम की एक मूर्छना An  
 intonation of the first note  
 in music ङ० ७,  
 सालि. पु० न० (शालि) गोणाक्षर ऐक प्रक्षर  
 नी पनपति, ऐक प्रक्षरनु वृक्ष बलयाकार  
 वनस्पति-विशेष, वृक्ष-विशेष A kind of  
 tree पन्न० १,  
 सावइचार त्रि० (श्रावयित्) सलगापना.  
 सुनाने वाला Causing to hear  
 सूय० २, २, ७६,  
 सावरी. स्त्री० (शावरी) ऐक प्रक्षरनी विद्य.  
 विद्या-विशेष. A kind of science

सूय० २, २, २७,  
 पु० न० (शस्य-सस्य) क्षेत्र-गत धान्य क्षेत्र-  
 गत धान्य. Corn, Grain पण्ड० १, ४,  
 सासणा स्त्री० (शासना) शिक्षा शिक्षा  
 Teaching पण्ड० २, १,  
 सासि त्रि० (शासिन्) श्वास रोगवाणु श्वास  
 रोग वाला Suffering from asth-  
 ama तदु० १०,  
 साहस्त्रिय त्रि० (साहस्रिक) हजारना परिमाण  
 वाणु हजार का परिमाण वाला Consist-  
 ing of a thousand नाया० १, १,  
 साहा. स्त्री० (श्लाघा) प्रशसा प्रशसा Praise.  
 सम० ११,  
 साधारण न० (सधारण) सारी रीते धारण  
 करण, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण,  
 टिकाना Well-holding आया० १,  
 ८, ८, १२,  
 साधारण न० (स्वाधारण) सहाय करनीते, उप-  
 कार करनी सहारा करना, उपकार करना.  
 Helping, Supporting सम० ११,  
 साधिकरण त्रि० (साधिकरणिन्) अधिकरण  
 वाणु, शरीर आदि अधिकरण वाणु अधि-  
 करण-युक्त, शरीर आदि अधिकरण वाला  
 Possessive भग० १६, १,  
 सिंगि पु० (शङ्किन्) (१) घेडा मेघ, भेडा  
 A lamb (२) पर्वत पर्वत A moun-  
 tain (३) भारतपर्वत अेक सीमा  
 पर्वत. भारतवर्ष का एक सीमा पर्वत The  
 terminating mountain of  
 Bharat Vaisha. (४) अेक भुनि  
 मुनि-विशेष A name of a saint  
 (५) वृक्ष वृक्ष A tree अणुजो० १४२,  
 सिंघाण पु न० (शिङ्घाण) अेक प्रकारना काला  
 पुद्गल. काला पुद्गल-विशेष A kind  
 of black material molecules  
 सू० प० २०,

सिंभ पु० न० (सिंभन्) अेक प्रकारना काला  
 कुष्ठ रोग-विशेष A kind of leprosy  
 भग० ७, ६,  
 सिद्धा. स्त्री० (सिद्धा) पृथ्वी विशेष, सिद्ध शिला  
 पृथिवी-विशेष, मुक्ति-स्थान, सिद्ध-शिला.  
 Siddhushila, a bode of salvation.  
 सम० २२,  
 सिद्धि स्त्री० (सिद्धि) (१) अणिमा आदि  
 योगनी शक्ति. अणिमा आदि योग की शक्ति.  
 A superhuman power or fa-  
 culty डा० १, (२) कृतार्थता, कृतकृत्यता  
 कृतार्थता, कृतकृत्यता Accomplish-  
 ment of objects डा० १,  
 सिष्प न० (शिष्प) (१) तेजस्काय तेजस्काय,  
 अग्नि-सघात Fine-embodiment,  
 Fine-beings (२) अग्निना अथ अग्नि  
 का जीव (३) पु० तेजस्कायना अधिष्ठाता  
 देव तेजस्काय का अधिष्ठाता देव The  
 presiding god of fire डा० १, १,  
 सिलिद्ध. त्रि० (शिष्ट) मनोस, सु-दर मनोज,  
 सुदर Beautiful, Charming  
 पण्ड० १, ४,  
 सिव. न० (शिव) अहिंसा अहिंसा. Non-  
 killing पण्ड० २, १,  
 सिसुयव. पु० न० (शिशुयव) अेक प्रकारनु  
 तृण विशेष A kind of grass.  
 पत्र० १,  
 सीअ त्रि० (शीत) अनुकूल अनुकूल Fa-  
 vourable सू० १, २, २, २२,  
 सीअ त्रि० (स्वीय) पोतनु, स्वकीय स्वकीय,  
 निजका. One's own भग० १२,  
 सीअल पु० (शीतल) अेक प्रकारना काला  
 पुद्गल कृष्ण-पुद्गल विशेष A kind  
 of black material molecules  
 सू० प० २०,  
 सीस पु० न० (शीष) (१) शुष्क स्तवक, गुच्छा.



A cluster, A bunch आया० २, १, ८, ६,  
 सीहसेण. पु० ( सिंहसेन ) महासेन राजानो  
 ओक पुत्र राजा महासेन का एक पुत्र. A  
 son of King Mahasen विवा० १, ६,  
 सु. अ० ( सु ) अनायास अनायास. Easily,  
 Readily. ठा० २, १,  
 सुअ. न० ( श्रुत ) अध्ययन, स्वाध्याय. अध्यन,  
 स्वाध्याय. Studying सम० २१,  
 सुअधर. त्रि० ( श्रुतधर ) शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ  
 Versed in scriptures पण्ड० २, १,  
 सुआ. स्त्री० ( शुच् ) यज्ञतु ओक उपकरण  
 वज्रे नाभवाणी कडकी यज्ञ का उपकरण  
 विशेष, धी आदि डालने की कुडकी. An  
 implement of a sacrifice उक्त०  
 १२, ४३-४४,  
 सुउज्जुयार. त्रि० ( सुभ्रजुकार ) अतिशय सयम  
 भा रहनेवाले अतिशय सयम में रहने वाला,  
 सुसयमी A strict self-controller  
 सूय० १, १३, ७,  
 सुउज्जुयार त्रि० ( सुभ्रजुचार ) अतिशय सरल  
 आचरण वाला अतिशय सरल आचरण  
 वाला Extremely simple. सूय०  
 १, १३, ७,  
 सुसुमा. स्त्री० ( सुसुमा ) धन सार्थवाहनी कन्या  
 तु नाम धन सार्थवाह की कन्या का नाम  
 A name of a daughter Dhana,  
 a leader of a caravan नाया० १, १८  
 सुगअ. त्रि० ( सुगत ) (१) सारी गति वाला  
 अच्छी गति वाला. One having fine  
 mode of walking. ठा० ४, १, (२)  
 सुस्थ सुस्थ Healthy (३) शुशी गुणी.  
 Virtuous ठा० ४, १,  
 सुगर. त्रि० ( सुकर ) सुभे साध्य थाय तेषु, सरल.  
 सुख-साध्य, अल्प परिश्रम से हो सके ऐसा.  
 Easy, Easily accomplished

आया० १, ६, १, ८,  
 सुगिम्ह. पु० ( सुग्रीष्म ) (१) चैत्र मासनी  
 पूषिमा चैत्र मास की पूर्णिमा, The  
 full-moon day of the month  
 Chaitra ठा० २, २,  
 सुघोसा. स्त्री० ( सुघोषा ) ओक प्रकृतनु वाद्य  
 वाद्य-विशेष A kind of musical  
 instrument राय० ४६,  
 सुजाय. पु० ( सुजात ) ओक राजकुमारतु नाम  
 एक राजकुमार. Name of a prince  
 विवा० २, ३,  
 सुज्जसिट्ट. पु० न० ( सूर्यसृष्ट ) ओक देव विमान  
 एक देव-विमान A particular cel-  
 estial car सम० १२,  
 सुतवस्सि. त्रि० ( सुतपस्वित्र ) सारे तपनी  
 अच्छा तपस्वी. Well-practising  
 penance सम० २१,  
 सुत्तिमई स्त्री० ( शुक्तिमती ) चेदि देशनी प्राचीन  
 राजधानी चेदि देश की प्राचीन राजधानी.  
 An ancient capital of Chedi  
 country नाया० १, १६,  
 सुधम्म. पु० ( सुधर्मन् ) ओक जैन मुनि एक  
 जैन मुनि. Name of a Jain saint  
 विवा० २, ४,  
 सुनिउण त्रि० ( सुनिपुण ) अत्यंत सूक्ष्म अत्यन्त  
 सूक्ष्म Very minute or atomic  
 सम० ११४,  
 सुपरुन्न. त्रि० ( सुपरुदित ) नेत्रे भोला अथाने  
 रोवानु शर न्युं छुपते जिसने जोर से  
 रोने का आरम्भ किया हो वह One who  
 began to weep loudly नाया० १, १८,  
 सुपावय त्रि० ( सुपापक ) अतिशय पापी अति-  
 शय पापी Extremely sinful. उक्त०  
 १२, १४;  
 सुपासा स्त्री० ( सुपासा ) ओक जैन साध्वी एक  
 जैन साध्वी A Jain female saint.

ङ० ६,  
 सुपेसल त्रि० (सुपेशल) अति मनोहर अति  
 मनोहर Beautiful, Handsome  
 उक्त० १२, १३,  
 सुप्यन्न. त्रि० (सुपन्न) सारी बुद्धिवाणु सुन्दर  
 बुद्धि वाला. Intelligent Intelle-  
 ctual सू० १, ६, ३३,  
 सुवाहु पु० (सुबाहु) अेक राजकुमार एक राज  
 कुमार A prince. विवा० २, १,  
 सुवम न० (शुभ्र) अेक प्रकारकी चादी एक  
 प्रकार की चादी A kind of silver  
 राय० ७६,  
 सुमह पु० (सुमति) अैरवत क्षेत्रमा थनार  
 दशमा कुक्षगर ऐरवत क्षेत्र में होने वाला  
 दसवा कुक्षकर पुरुष Name of the  
 future tenth Kulgar in An-  
 vata Kshetia सम० १२३,  
 सुरइ श्री० (सुरति) सुख सुख Happiness  
 पणह० १, ४,  
 सुरवराण पु० न० (सुरवरा) अेक देव विमान  
 एक देव विमान. A particular cel-  
 estial car सम० १०,  
 सुरसिट्ट पु० न० (सुरसृष्ट) अेक देव विमान  
 एक देव-विमान A particular cel-  
 estial car सम० १०,  
 सुलह त्रि० (सुरुह) अत्यन्त शुभु अत्यन्त  
 बूला Much and of diy सू०  
 १, १३, १२,  
 सुवच्छ पु० (सुवन्स) अत्यन्त देवोने अेक  
 अत्यन्त देवों का एक इन्द्र A lord  
 of Vyantai gods ङ० २, ३,  
 सुवराणकुसुम न० (सुवर्णकुसुम) सुवर्ण  
 युथिका अथवा नामकी धतानु कूल सुवर्ण-  
 युथिका लता का फूल. A flower of a  
 creeper called Suvaina yuthi-  
 ka राय० ३१,

सुवन्नकूलप्पवाय. पु० (सुवर्णकूलप्रपात) अेक  
 अथवा सुवर्णकूला नदी वले छे एक  
 द्रह जहा से सुवर्णकूला नदी बहती है. A  
 basin from which the Suvar-  
 nakula river flows ङ० २, ३,  
 सुविश्रज्जिअ त्रि० (सुव्यर्जित) विशेष ३५  
 उपार्जन कृत. विशेष रूप से उपार्जित.  
 Excessively procured तहु० २६,  
 सुविशीय. त्रि० (सुविनीत) अतिशय दुर  
 क्षेत्र अतिशय दूर किया हुआ. Entire-  
 ly removed उक्त० १, ४७,  
 सुविभज. त्रि० (सुविभज) अेना विभाग  
 अनायासे अर्ध शके ते. जिसका विभाग  
 अनायास हो सके वह Which can be  
 accidently separated ङ० २, १,  
 सुविम्हिअ त्रि० (सुविस्मित) अतिशय आश्चर्य  
 पायेल. अतिशय आश्चर्यान्वित. Exceed-  
 ingly astonished उक्त० २०, १३,  
 सुविसाय पु० (सुविसात) अेक देव विमान.  
 एक देव विमान. A particular  
 celestial car सम० ३८,  
 सुसभंत. त्रि० (सुसभ्रान्त) अतिशय व्याकुल  
 अतिशय व्याकुल Excessively  
 confused उक्त० २०, १३,  
 सुसवुअ त्रि० (सुसवृत) (१) जितेन्द्रिय  
 जितेन्द्रिय That has subdued his  
 passions (२) रोकेल रुका हुआ.  
 Stopped उक्त० २, ४२,  
 सुसर. पु० न० (सुस्वर) (१) अेक देव विमान.  
 एक देव-विमान A celestial aerial-  
 car सम० १७, (२) न० नाम कर्मनी  
 अेक भेद, अेना उदरथी सु हर स्वरनी प्राप्ति  
 थायते कर्म कर्म का एक भेद, जिसके उदय  
 से सुन्दर स्वरकी प्राप्ति हो वह कर्म A  
 variety of Nama Karma by  
 which sweet-tone is obtained

सम० ६७,

सुसुमारिया स्त्री० ( सुपुमारिका ) अेक

प्रकारनु वाजिन, वाद्य विशेष A kind of musical instrument राय० ४६,

सुहीरीमण त्रि० ( सुहीमनस् ) अत्यन्त

दुःखी, वधो शरभाण, अत्यन्त लज्जालु, अतिशय शरमिदा. Basheful, Ashamed सूय० १, ४, २, १७,

सूत्र त्रि० ( सूत ) जेष्ठे जन्म आभ्यो ज्ञेयते.

प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह, One that gave birth सूय० १, ३, २, ११, सूस्वर. पु० ( शूरवर ) (१) अेनामने अेक

द्वीप एक द्वीप An Island (२) अेनामने अेक समुद्र. एक समुद्र A sea सू० प० १६,

सूरियावत्त. पु० (सूर्यावत) मेरु पर्वत मेरु पर्वत

The Meru mountain सू० प० ५,

सूरियावरण पु० ( सूर्यावरण ) मेरु पर्वत,

मेरु पर्वत. The Meru mountain सू० प० ५,

सूलिका. स्त्री० (शूलिका) शूली, शूली-जिस पर

वध को चढाया जाता है. Gallows पण्ह० १, १,

सूसरपरिवादिणी. स्त्री० (सुस्वरपरिवादिनी)

अेक प्रकारनी वीणा एक तरह की वीणा A kind of lute पण्ह० २, ५,

सेत्र त्रि० ( एव्यत् ) आगामी, भविष्य.

आगामी, भविष्य Future भग० ५, ४, ङ० १०,

सेत्र. पु० ( सेय ) अेक अधम मनुष्य जति

एक अधम मनुष्य जाति. A Mean human race ङ० ७,

सेत्र. पु० ( श्वेत ) आभलकल्पा नगरीने

राज के जेष्ठे महावीर स्वाभी पासे दीक्षा लीधी હતી. आमलकल्पा नगरी का राजा जिसने महावीर प्रभु के पास दीक्षा ली थी

A king of Amal Kalpa city

initiated by Lord Mahavira

ङ० ८, राय ६,

सेत्रस. पु० ( श्रेयास ) योथा वासुदेव तथा

बालदेवना पूर्व जन्मना धर्म गुरु चतुर्थ

वासुदेव तथा बालदेव के पूर्व जन्म के धर्म

गुरु Name of a religious preceptor

of the fourth Vasudeo and

Baldeo in the previous birth

सम० १५३,

सेत्रावह पु० ( सेचनपथ ) पाण. नीक A

gutter, A drain आया० २, १०, २,

सेत्रा. स्त्री० ( श्वेतता ) सङ्केदपण्णु सफेदपन.

Whiteness सू० प० १, १,

सेज्जस. पु० ( श्रेयास ) महावीर प्रभुना पिता,

सिद्धार्थ राजा भगवान् महावीर का पिता,

राजा सिद्धार्थ The father of Lord

Mahavira आया० २, १५, ३,

सेत्तार. त्रि० ( सेक्त् ) सिन्धु नदीके सेचक,

सिंचन करने वाला One who sprinkles

कण्ठ० ८६,

सेल्लग. पु० ( शैल्यक ) लुण्णपरिसर्पनी अेक

जति, अेक जगु मुजपरिसर्प की एक जाति,

जन्तु-विशेष A kind of serpent

पण्ह० १, १,

सेवण. न० ( सेवन ) सेवा सेवा The act

of serving उक्त० ३५, ३,

सेवालोदाइ. पु० ( शेवालोदायिन् ) महावीर

प्रभुना समयने अेक जैनतर पुत्र भगवान्

महावीर के समय का एक अजैन पुरुष. A

non-Jain at the time of Lord

Mahavira भग० ७, १०,

सेहव त्रि० ( सेघाम्ल ) अेक प्रकारनु खाद्य.

खाद्य-विशेष. A kind of eatable

पण्ह० २, ५,

सोत्रामय त्रि० ( श्रोत्रमय ) श्रोत्रेन्द्रिय थी

उत्पन्न थयेल श्रोत्रेन्द्रिय-जन्म Produced by the ear ग० १०,  
 सौंडिया स्त्री० ( शुचिहका ) धरतु अेक प्रकर  
 तु पात्र दारू का पात्र-विशेष. A kind  
 of wine-glass ग० ८,  
 सौंदा. स्त्री० ( शुचडा ) धर सुरा, दारू Li-  
 quor, Wine आया० २, १, ३, २,  
 सोमणतिय. त्रि० ( स्वप्नान्तिक-स्वप्नान्तिक )  
 (१) सुध उष्या पथी करवाभा आवतु  
 प्रतिकमण्य-विशेष सोने के बाद किया जाता  
 प्रतिकमण्य-प्रायश्चित्त विशेष. Pratikra-  
 mana (criticism of sins) in the  
 early morning (२) स्वप्न विशेषभा  
 करवाभा आवतु प्रतिकमण्य स्वप्न-विशेष  
 में किया जाता प्रतिकमण्य Doing pra-  
 tikramana in the dream. ग० ६,  
 सोमप्यम पु० ( सोमप्रम ) यमरे-दना सोम  
 लोकपालने उत्पात पर्वत चमरेन्द्र के सोम-  
 लोकपाल का उत्पात पर्वत A pleasure-  
 mountain of Soma Lokapala  
 of Chamiendia ग० १०,  
 सोमय न० ( सौमक ) कौत्स गोत्रनी अेक  
 शाखा एक गोत्र जो कौत्स गोत्रकी शाखा है  
 A lineage which is the branch  
 of the Kautsa one ग० ७,  
 सोमा. स्त्री० ( सौम्या ) उत्तर दिशा उत्तर दिशा,  
 The north ग० १०, भग० १०, १,  
 सौरिअ पु० ( शौरिक ) अेक यक्ष एक यक्ष.  
 A demi-god विवा० १, ८,  
 सोसिल्ल त्रि० ( शोफवत् ) सोमनी रोग  
 वाजे शोफ-युक्त, सूजन रोग वाला Hav-  
 ing tumour-disease विवा० १, ७,  
 ह. अ० ( ह ) स मोधन सबोधन. Address-  
 ing आया २, १, ११, १, २,  
 हंता अ० ( हन्त ) कामण आम त्रण्य कोमल  
 आमत्रण. Tender address भग०

अणुजो० १६०, तदु० १४,  
 हस. पु० ( हस ) अेक प्रकरतु मणि मणि-  
 विशेष. A kind of precious  
 stone पन्न० १,  
 हट्ट. त्रि० ( हट्ट ) विस्मय पायेल विस्मित.  
 Astonished, Surprised उवा०  
 विवा० १, १,  
 हणण न० ( हनन ) विनाश. विनाश. Des-  
 truction पण्ह० २, २,  
 हणिहणि-हणिहणि अ० ( अहन्यहनि ) (१)  
 प्रतिदिन, ङमेश प्रतिदिन, हमेशा. Daily.  
 पण्ह० २, ३, (२) सर्वथा, सर्व रीति  
 सर्वथा, सब तरह से Totally, En-  
 tinely पण्ह० २, २,  
 हत्य पु० ( हस्त ) अेक नक्षत्र नक्षत्र विशेष  
 Name of a particular constel-  
 lation सम० १०, १७,  
 हत्यकर पु० ( हस्तकर ) अेक प्रकरनी  
 पनरूपति वनस्पति विशेष A kind of  
 vegetable आया० २, १०, २,  
 हत्यदु-हत्यदुय पु० न० ( हस्तान्दुक ) छेड, छे  
 दीने पाधवानु साधन हाथ बाधने का  
 काठ आदि का बन्धन विशेष A parti-  
 cular kind of fetter विवा० १, ६,  
 हत्यकप्प न० ( हस्तकल्प ) अेक नगर नगर-  
 विशेष A name of a city नाया०  
 १, १६,  
 हत्यल त्रि० ( हस्तल ) (१) भराय हाथवाणु.  
 खराब हाथ वाला Bad-handed  
 (२) पु० चोर चोर, तस्कर A thief.  
 पण्ह० १, ३,  
 हत्यारोह पु० ( हस्त्यारोह ) हाथीना महावत  
 हस्तिपक, हाथी का महावत. An eleph-  
 ant driver विवा० १, २,  
 हलिहपत्त. पु० ( हरिद्रपत्र ) यौरेन्द्रिय नृत्त  
 नी अेक जति चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक

जाति A kind of insect having four senses पन्न० १,  
 हलिसागर, पु० (हलिसागर) मत्स्यनी ओंके  
 ञति मत्स्य की एक जाति, A kind of fish पन्न० १,  
 हव्व. त्रि० (अर्वाच्) भीष्णु, परथी अन्य  
 अवर, पर से अन्य, Another सूय० २,  
 १, १, म, १०, १६, २४, २८, ३३,  
 हस्स. न० (हास्य) (१) हास्य, हासी हसी,  
 Laughter, Joke आया० १ २, १,  
 २, (२) पु० मडाकं दित नामना देवाना  
 दक्षिण दिशाना धन्द्र महाक्रन्दिता नामक  
 देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र, The  
 Southern Lord of Mahakran-  
 drita gods ठा० २, ३,  
 हस्सरइ पु० (हास्यरति) मडाकं दित निकायना  
 उत्तर दिशाना धन्द्र इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दिता  
 निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र The  
 northern Lord of Mahakran-  
 drita gods ठा० २, ३,  
 हाययी सी (हायनी) मनुष्यनी दश दशाओ  
 भानी छठी अवस्था मनुष्य की दश  
 दशाओं में छठी अवस्था The sixth of  
 the ten states of man ठा० १०,  
 तदु० १०,  
 हारवरमहावर पु० (हारवरमहावर) हावरा  
 समुद्रना ओंके अधिष्ठाता देव हारवर-समुद्र  
 का एक अधिष्ठाता देव, The presiding  
 god of Harvara sea जीवा० ३, ४,  
 हारवरावभासभद्र. पु० (हारवरावभासभद्र)  
 हावरावभास द्वीपना ओंके अधिष्ठाता देव  
 हारवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव  
 The presiding god of Harva-  
 ravbhasa island जीवा० ३, ४,  
 हारवरावभासमहाभद्र. पु० (हारवरावभास-  
 महाभद्र) हावरावभास द्वीपना ओंके

अधिष्ठाता देव हारवरावभास द्वीप का एक  
 अधिष्ठाता देव, The presiding god  
 of Harvaravbhasa island जीवा०  
 ३, ४,

हारवरावभासमहावर पु० (हारवरावभास-  
 महावर) हावरावभास समुद्रना ओंके  
 अधिष्ठाता देव हारवरावभास समुद्र का एक  
 अधिष्ठाता देव, The presiding god  
 of Harvaravbhasa sea जीवा०  
 ३, ४,

हारवरावभासवर. पु० (हारवरावभासवर)  
 हावरावभास समुद्रना ओंके अधिष्ठाता देव  
 हारवरावभास समुद्र का एक अधिष्ठाता देव  
 The presiding god of Har-  
 varavbhasa sea जीवा० ३, ४,

हासकुहय. त्रि० (हास्यकुहक) हास्यजनक  
 कौतुक कराने वाला हास्य-जनक कौतुक-कर्ता  
 One who creates curiosity  
 causing laughter दस० १०, २०,  
 हासगा. त्रि० (हासन) हास्य कराने वाला,  
 हसने वाला, हास्य करने वाला, One that  
 laughs आया० २, १५, ५,

हासि. त्रि० (हासिच्) हास्य कराने वाला  
 कर्ता One who laughs आया०  
 २, १५, ५,

हिंदुअ. पु० (हियडुक) आत्मा अने जन्मान्तर  
 मानने वाला मनुष्य, हिंदु आत्मा और  
 जन्मान्तर मानने वाला मनुष्य, हिन्दु. A  
 man believing in soul and  
 the next birth, A Hindu भग०  
 २०, २,

हीयमाणा. य-न० (हीयमानक) अविधिमानने  
 ओंके भेद, क्रमश ओच्छ्रयत अविधिमान  
 अविधिज्ञान का एक भेद, क्रमश कम होता  
 जाता अविधिज्ञान A variety of the  
 visual knowledge (the third of

the five kinds of knowledge )  
 ण० ६,  
 हेड. पु० न० (हेतु) अनुमान वाक्य, पंचावयव  
 वाक्य अनुमान वाक्य, पंचावयव वाक्य.  
 Reasoning, Logical inference  
 वत्त० ६, ८,  
 हेउचाय, पु० (हेतुवाद) आ२मे अ ग, दृष्टिवा६

बारहवा-जैन अग ग्रन्थ, दृष्टिवाद. The  
 twelfth Anga volume of Jain-  
 ism, Dīśhtivada ण० १०,  
 हेमाभ पु० ( हेमाभ ) चौथी नरकने। अेक  
 नरकवासो. चौथी नरक-पृथ्वीका एक नरक-  
 स्थान. An abode of the fourth  
 hell. निर० १, १,

इति श्रील्लिम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपूज्यपाद श्री १००८ श्री गुलावचन्द्र-  
 जित्स्वामिशिष्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-परिद्वत  
 प्रवरमुनिराज श्री १००८ श्री रत्नचन्द्रजित्स्वामि  
 विरचिते बृहदर्धभागधीकोपे पञ्चम भागे  
 सप्रमाण परिशिष्टार्द्ध भागधी  
 विभाग समाप्त ।  
 \* ॐ शान्ति शान्ति शान्ति \*

# महाराष्ट्री-प्र कृत-कोषः

अ]

[ अइट्ट

अ. पु० (अ) (१) अक्षर, प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम अक्षर. The first letter of Nagari alphabet हे० १, १, (२) विष्णु, कृष्ण Vishnu, Krishna से० १, १,  
अइ अ० (अधि) सभावना और आमंत्रण अर्थ का सूचक अव्यय As a particle of gentle inquiry or imitation, as a gentle address in the sense of "friend" हे० २, २०५,  
अइ अ० (अति) निन्दा Censure "अइपडिय" वृह० १,  
अइचिअ. त्रि० (अत्यञ्जित) (१) अभिषिक्त Crowned, Sprinkled, Coronated से० १३, ८, (२) उल्लङ्घित, अतिक्रान्त Overcome, Surpassed. Transgressed से० १३, ८, (३) दूर गया हुआ. Gone afar से० १३, ८६,  
अइछुण न० (अत्यञ्जन) (१) उल्लङ्घन, Transgression, Violation, Disregard से० १३, ३८, (२) आकर्षण, खींचाव Attraction से० ८, ६४,  
अइत. त्रि० (अनायत्) (१) नहीं आता हुआ Not coming (२) जो जाना जाता हो. That which cannot be known "चित्त अइतीहि" वजा० ४,  
अइदिय त्रि० (अतीन्द्रिय) इन्द्रियों से जिनका ज्ञान न हो वह Beyond the senses, That which cannot be perceived by senses विशेष० २८१८,

अइकाय पु० (अतिकाय) रावण का एक पुत्र Name of one of the sons of Ravana से० १६, ५६,  
अइक्ख त्रि० (अनीच्य) अदृश्य. Impeceptable, Invisible, Not capable of being seen तदु० ४६,  
अइक्ख त्रि० (अतीक्ष्ण) तीक्ष्णता रहित Blunt, Not sharp तदु० ४६,  
अइगम पु० (अतिगम) प्रवेश. Entrance, getting in विशेष० ३८६,  
अइगमण न० (अतिगमन) सूर्य का उत्तर दिशामें जाना The progress of the Sun to the north (of the equator), the period or time of the summer solstice भग०  
अइचिर अ० (अतिचिरम्) बहुत काल तक For a long time, Very long गा० ३४६,  
अइच्छा स्त्री० (अदित्ता) (१) देनेकी अनिच्छा. Non-desire for giving (२) प्रत्याख्यान विशेष A particular kind of a vow of demil विशेष० ३५०४,  
अइट्ट. त्रि० (अदृष्ट) (१) जो देखा गया न हो वह Unseen, unperceived हास्य० १४६, (२) न० कर्म, दैव, भाग्य Fate, fortune, destiny भवि० — (३) पुण्य. त्रि० (पूर्व) जो पहले कभी न देखा गया हो वह That which is never seen before गा० ४१४, ७४८,

अइद्दट्. त्रि० (अनिष्ट) (१) अमिय Un-favourable, disagreeable, undesirable (२) खराब, दुष्ट Bad, evil, ominous भवि०

अइइणि (सी) य त्रि० (अतिनीत) (१) फेंका हुआ. Thrown away से० ६, २६, (२) जो दूर लेजाया गया हो. Carried afar, that which is taken very far प्राप० अइइण त्रि० (अतितु) जहाज से उतरा हुआ Disembarked, landed from a ship पइ०

अइइतह. त्रि० (अवितथ) सत्य, सच्चा Not false, True उप० १०३१, टी

अइइन्न न० (अजीण) (१) बद्धजमी, अपचा Indigestion (२) त्रि० जो हजम हुआ न हो वह Undigested, undecomposed (३) जो पुराणा न हुआ हो, नूतन Flesh, new उव०

अइइन्न त्रि० (अदत्त) नहीं दिया हुआ Not given —आयाण. न० (आदान) चोरी Theft आया०

अइइप्पगे. अ० (अतिप्रगे) पूर्व प्रभात, बड़ी सवेर. Early morning, very early in the morning, in the early dawn सुर० ७, ७८,

अइइप्पसगि. त्रि० (अतिप्रसिद्धन्) अतिप्रसग दोष वाला Having a fallacy of unwarrantable stretch of a (grammatical) rule or principle अन्क० १०,

अइइप्पहाय न० (अतिप्रभात) बड़ी सवेर Early dawn गा० ६८,

अइइवल न० (अतिबल) (१) बड़ा सैन्य A big army हे० ४, ३२४, (२) पु० एक राजा, जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्विय चतुर्थ भव में पिता या पितामह था Name of a king

who was the father or grandfather of Bhagwan Rishbha-dev in his former fourth birth. आया० चू० (३) रावण का एक योद्धा Name of one of the warriors of Ravana पउम० २६, २७,

अइइभद्दा. स्त्री० (अतिभद्रा) भगवान् महावीर के प्रभास नामक ग्यारहवें गणधर की माता The mother of Prabhasa, the eleventh Ganadhar of Bhagwan Mahavira आया० चू०

अइइभूर्ई पु० (अतिभूति) एक जैन मुनि, जो पचम वासुदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, A Jain monk who was a teacher of the fifth Vasudeva in his former birth पउम० २०, १७६,

अइइय त्रि० (अतिग) (१) अतिक्रान्त Transgressed, overcome हे० २, २०४, (२) करने वाला A doer औप०

अइइयण न० (अत्यदन) बहुत खाना, अधिक भोजन करना Overfeeding वव० २, अइइयय त्रि० (अतिगत) गया हुआ, Passed away, gone से० ३०३,

अइइया स्त्री० (अजिका) बकरी, झंगी A She-goat उप० २३७,

अइइर अ० (अचिर) जल्दी, शीघ्र. At once, immediately, quickly स्वन्० ३७,

अइइर.न० (अजिर) आँगन, चौक. Compound, premises A court-yard. पाअ०

अइइरावण पु० (पेरावण) इन्द्र का हाथी. Name of the elephant of Indra पाअ०

अइइरावय पु० (पेरावत) इन्द्र का हाथी Name of the elephant of Indra भवि०

अइइराहा. स्त्री० (अचिराभा) विजली, चपला.



Lightning दे० १, ३४ टी,  
 अइरि न० (अतिरि) धनाढ्य. Wealthy,  
 well-to-do, 110h पद०  
 अइरूव त्रि० (अतिरूप) सुरूप, सुढौल  
 Beautiful, Handsome, Well-  
 formed पदम० २०, ११३,  
 अइरेइय. त्रि० (अतिरेकित) अतिरेक युक्त, अति  
 प्रभूत Very excessive, superfluous,  
 exuberant राय० ७८ टी,  
 अइरेण-ण. अ० (अचिरेण) जल्दी, शीघ्र  
 Soon, quickly गा० १३५, पदम० ६२,  
 ४, उवर० ४३,  
 अइवत्तिय. त्रि० (अतिवृत्तिक) (१) जिसका  
 उल्लघन किया गया हो वह Transgressed,  
 surpassed, violated (२) प्रधान, मुख्य,  
 Prime, Chief (३) उल्लघन करने  
 वाला Transgression violater,  
 surpasser आया०  
 अइवाइ त्रि० (अतिपातिन्) विनश्वर Pell-  
 shable, Transitory विशेष० १५७८,  
 अइवाय पु० (अतिवात) (१) उल्लघन Dis-  
 regard, Transgression (२) भयकर  
 पवन, तूफान. The stormy wind, hur-  
 ricane उप० ७६८ टी,  
 अइविरिय त्रि० (अतिवीर्य) (१) बलिष्ठ, महा-  
 पराक्रमी Very powerful, full of  
 valour (२) पु० इक्ष्वाकु वंश का एक राजा  
 Name of one of the ruling princes  
 in the lineage of Ikshvaku पदम०  
 ५, ५, (३) नन्दावर्त नगर का एक राजा  
 Name of a king of Nandavata  
 city पदम० ३७, ३,  
 अइस. त्रि० (ईदश) ऐसा, इस तरह का This,  
 of this sort हे० ४, ४०३,  
 अइसइ त्रि० (अतिशयिन्) (१) अतिशय  
 वाला, विशिष्ट, आश्चर्य कारक Possessing

(२) अतिशय गुण ( i e one of the  
 superhuman qualities attributed  
 to Jaina saints ), wonderful,  
 supernatural सु० च० २५७,  
 अइसत त्रि० (अदृश्यमान) जो दिखता न हो  
 Invisible, beyond the ken of  
 eye (eye-sight) से० १, ३५,  
 अइसधार्ण न० (अतिसंधान) ठगई, वचना  
 Cheating, deception पचा० ७,  
 अइसकणा स्त्री० (अतिप्लक्कणा) उत्तेजना,  
 प्रेरणा. Inspiration, Encourage-  
 ment निसी० चू०  
 अइसरिय न० (ऐश्वर्य) वैभव, संपत्ति, गौरव  
 Greatness, riches, prosperity  
 हे० १, १५१,  
 अइसायण. न० (अतिशायन) उल्लेखता, उल्लेख.  
 Rise, Eminence, Prosperity  
 चेइय० ५३३,  
 अइसार पु० (अतिसार) सग्रहणी रोग, अठर  
 की व्याधि विशेष Dysentery, Violent  
 straining at stool लहुअ० १५,  
 अइहर पु० (अतिभर) अवधि, मर्यादा  
 Limitation, Limit, boundry  
 अचु० २३,  
 अईअ पु० (अतीत) (१) भूतकाल Past  
 tense पद० ६०, (२) त्रि० जो दूर गया हो  
 Gone afar उच० १५,  
 अईसार पु० (अतीसार) रोग विशेष, सग्रहणी  
 रोग Dysentery, Violent straining  
 at stool सुख० १, ३,  
 अउचित्त न० (औचित्य) उचितपन Pio-  
 priety, Aptness, fitness प्रा० १०,  
 अउणोणित्ति. स्त्री० (अपुनर्निवृत्ति) अन्तिम  
 निवृत्ति, मोक्ष Final emancipation  
 or beatitude, absolution of  
 the soul from metempsychosis

अचु० १० ,  
 अउरण-अ. न० ( अपुण्य ) (१) पाप Sin  
 सुर० ६, २५, (२) त्रि० अपवित्र Unholy,  
 impure (३) पुण्य रहित, पापी Sinful  
 पडम० २८, ११२, सुर० २, ५१,  
 अउलीन त्रि० (अकुलीन) कुल-हीन, कुजाति,  
 सकर Low-born, hybrid गा० २५३,  
 अप अ० (अये) आमन्त्रण सूचक ग्रन्थय A  
 vocative particle expressing  
 invitation कपू०  
 अओ०ग त्रि० (अयोग्य) नालायक Unde-  
 serving Unfit स० ७६४,  
 अक पु० (अक) (१) नाटक का एक अश  
 An act of a drama धण० ४५, (२)  
 आसन विशेष A particular kind of  
 sitting posture चद० ४,  
 अकवाली स्त्री० (अकपाली) आलिंगन An  
 embrace काम० १६४,  
 अकुडग पु० (अकुटक) नागदन्तक, खूटी, ताल.  
 A peg or bracket projecting  
 from a wall and used to hang  
 things upon जे० १,  
 अकुल पु० (अकुश) (१) सीता का एक पुत्र,  
 कुल Name of one of the sons of  
 Sita पडम० ६७, १६, (२) नियन्त्रण करने  
 वाला, काबू में रखने वाला One who  
 checks or controls गड०  
 अकुलित्र त्रि० (अकुशित) अकुश की तरह  
 मुड़ा हुआ Curved like a hook से०  
 १४, २६,  
 अग त्रि० (अह्य) शारीरिक Bodily,  
 physically, relating to the body  
 सू० २, २,  
 अग पु० (अह) (१) राम का एक सुभट,  
 Name of one of the warriors of  
 Rama. पडम० ५६, ३७, (२) वेदाग, वेद

के शिचादि छ अग Six numbers of  
 Vedas such as Siksha etc ( i e.  
 the science of proper articula-  
 tion and pronunciation आचू०  
 (३) कारण, हेतु Reason, object पव० १,  
 (४) आत्मा, जीव. Soul. भवि० (५) भग-  
 वान् आदिनाथ के एक पुत्र का नाम. Name  
 of one of the sons of Bhagwan  
 Adinatha ती० १४, (६) न० लगातर  
 बारह दिनों का उपवास Fasting for  
 twelve days at a stretch सबोध० ५८,  
 —जाय, त्रि० (जात) बच्चा, लडका A  
 child उप० ६४८, —य त्रि० (ज) (१)  
 शरीर में उत्पन्न Born of the body,  
 (han) (२) पु० पुत्र, लडका A son.  
 उप० १३४ टी, —रक्षक त्रि० (रक्षक)  
 शरीर की रक्षा करने वाला, A body-guard,  
 a personal attendant सुपा० ५२७,  
 —सभूय, त्रि० (सभूत) सतान, बच्चा A  
 child, a son or daughter उप० ६४८,  
 —हारय. पु० (हारक) शरीर के अवयवों के  
 विक्षेप, हावभाव Bodily gesticulation,  
 movements of the limbs, a dance-  
 अजि० ३१,  
 अगइ पु० (अहजित्) इस नाम का एक गृह-  
 स्थ, जिसने भगवान् पारश्वनाथ के पास दीक्षा  
 ली थी Name of an individual  
 whose initiation took place at  
 the hands of Bhagwan Parshva-  
 natha निर०  
 अगइया स्त्री० (अहदिका) एक नगरी, तीर्थ  
 विशेष Name of a city, Name of  
 a holy place उप० ५५२,  
 अहइसि. पु० (अहपि) चपा नगरी के एक  
 ऋषि Name of a sage residing in  
 the city of Chaupa Nagri अचू०

अंगगीभाव. पु० (अङ्गाङ्गीभाव) अंगभेद भाव, अङ्गित्व The relation of a limb to the body, of the subordinate to the principal, Existence of absence of difference, Sameness सुपा० २१८,  
 अंगय पु० (अङ्गद) वाली नामक विद्याधर-राजा का पुत्र Name of the son of Vidyadhara Vah पदम० १०, १०, २६, ३७,  
 अगारवर्द्धि स्त्री० (अङ्गारवती) ससुमार नगर के राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. Name of one of the daughters of Dhundhumar, the king of the city called Sunsumara धम्म० ८ टी,  
 अंगि पु० (अङ्गिन्) (१) प्राणी, जीव. A being, one who has a body गण० ८, (२) त्रि० शरीर वाला Corporeal, embodied (३) अंग-ग्रन्थों का ज्ञाता, One who knows or is well versed in scriptures and books कण्ठ०  
 अगुअ पु० (इङ्गुद) (१) वृक्ष विशेष, Name of a particular kind of tree, Terminalia Catappa (२) न० इण्डु वृक्ष का फल The Nut of the tree named terminalia Catappa हे० १, ८६,  
 अगुव्यव त्रि० (अङ्गोद्भव) सतान, बच्चा Born of the body, hence a child उप० २६४,  
 अगुरि-री. स्त्री० (अङ्गुलि-ली) उगली A finger गा० २७७,  
 अंगो अ० (अङ्ग) भय सूचक अव्यय A vocative particle meaning "oh" or "Ah" i e expressing wonder or focal प्रति० ३६, प्रथी० २०२,

अचल पु० (अचल) कपड़े का शेष भाग. The border or end of a garment कुमा०  
 अचिय. त्रि० (अचिन्त) (१) युक्त, सहित. Full of, with having, or possessed of सुर० ४, ६७, (२) प्रशस्त, श्लाघित Esteemed, Honoured, glaced प्रासू० १८,  
 अचिया. स्त्री० (अचिका) आकर्षण Attraction, Drawing towards स० १०२,  
 अजण न० (अज्जन) लेप. Anointing, Smearing स० २८२, —सुदरी. स्त्री० (सुन्दरी) एक सती स्त्री०, हनुमान की माता Name of a pious woman, the mother of Hanuman or Maruti. पदम० १६, १२,  
 अजणा. स्त्री० (अज्जना) हनुमान की माता The mother of Hanuman पदम० १, ६०, —जणय पु० (जनय) हनुमान् The son of Anjana, Hanuman पदम० ४७, २८,  
 अजणाभा स्त्री० (अज्जनाभा) चौथी नरक पृथ्वी. Name of the fourth lower world (नर्क ४ e hell) इक०  
 अजिय त्रि० (अजित) आजा हुआ Painted the eye with collyrium से० ६, ४८,  
 अटि. पु० न० (अस्थि) हड्डी, हाड A bone पद० चार० ६,  
 अडाडय. त्रि० (अरडज) अण्डे से पैदा होने वाला Born from an egg पदम० १०२, ६७,  
 अत पु० (अन्त) (१) स्वरूप, स्वभाव Disposition, Nature से० ६, १८, (२) त्रि० नीरस वस्तु A thing or article having no flavour पद० २, ४, (३) मनोहर, सुंदर Handsome, lovey

से० ६, १८,  
 अत अ० (अन्तर) मध्य में In the midst,  
 in the middle हे० १, १४, —करण  
 न० (करण) हृदय, मन. Heart, con-  
 science. उप० ६ टी, नाट० —गय त्रि०  
 (गत) मध्यवर्ती, बीच वाला. Intervening,  
 Interposing हे० १, ६०, —प्पाअ पु०  
 (पात) समावेश, अन्तर्भाव Inclusion,  
 The being included or com-  
 prised in हे० २, ७७,  
 अतअ, त्रि० (आयात्) आता हुआ. Coming,  
 nearing, drawing near से० ६, ४६,  
 अतअ त्रि० (अन्तग) पारगामी, पार प्राप्त Ha-  
 ving gone to the end of thor-  
 oughly conversant or familiar  
 with से० ६, १८,  
 अंतअ. त्रि० (अन्तद) (१) अविनाशी, शाश्वत.  
 Everlasting, eternal (२) जिसकी  
 सीमा न हो वह That which has got  
 no bounds or limits, limitless  
 से० ६, १८,  
 अतग, अ० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर, सुंदर  
 Beautiful, Lovely से० ६, १८, (२)  
 अतर्गत, समाविष्ट Inclusion, internal,  
 being in the interior सूय० १, १५,  
 अतद्धा स्त्री० (अतर्धा) (१) तिरोधान  
 Concealment, covering (२) नाश  
 Destruction अचू०  
 अंतर न० (अन्तर) (१) रजोहरण A dust-  
 el (२) पात्र A vessel (३) पु० आचार,  
 कल्प Conduct, a rule, law, ordi-  
 nance कल्प०  
 अंतरग त्रि० (अन्तरङ्ग) भीतरी Inward,  
 internal विशेष० २०२७,  
 अंतरंजी स्त्री० (आन्तरंजी) नगरी विशेष  
 Name of a city विशेष० २३०३,

अतरसत्तु. पु० (अन्तरशत्रु) भीतरी शत्रु,  
 क्रोधकामादि An enemy like anger,  
 or passion etc residing within  
 (the body) सु० च० ८२,  
 अतरा अ० (अन्तरा) पहले, पूर्व में. Form-  
 erly, previous to, ago कल्प०  
 अतरावास पु० (अन्तरवर्ष—अन्तरावास)  
 वर्षाकाल Monsoon, Rainy season  
 कल्प०  
 अतरिक्ष पु० न० (अन्तरिक्ष) अतराल,  
 आकाश The air, sky, atmosphere  
 भग० १७, १०, स्वप्न० ७०, —जाय त्रि०  
 (जात) जमीन के ऊपर रही हुई प्रासाद मच  
 आदि वस्तु Houses and other thin-  
 gs situated upon the earth आया०  
 २, ५,  
 अतरिज्ज न० (अतरीय) (१) वस्त्र, कपडा  
 A garment, a cloth (२) शय्या का  
 नीचला वस्त्र. A cloth underneath  
 the bedding निसी० चू० १५,  
 अतरेण अ० (अन्तरेण) बिना, सिवाय.  
 without, except उक्त० १,  
 अतरेण अ० (अन्तरेण) बीच में, मध्य में.  
 In the middle, between स० ७६७;  
 अतिय न० (अन्तिक) (१) अवसान, अत.  
 Death, end आया० १, ८, (२) अन्तिम,  
 चरम Last. सूय० २, २,  
 अत्रेउरि त्रि० (अन्तरचारिन्) बीच में जाने  
 वाला, बीचक Going in the middle,  
 internal, inward हे० १, ६०,  
 अत्रेउरी स्त्री० (आन्तपुरी) रोगी का नाममात्र  
 लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या.  
 A science which makes a pati-  
 ent diseaseless and healthy no  
 sooner that the name of the  
 patient is uttered पव० ५,

अंतो अ० (अन्तर) बीच, भीतर Within, inside उप० १ टी, सुर० ३, ७४, गइया स्त्री० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना. A female who goes to receive (a guest) सुर० १५, १६१, -शिअसणी स्त्री० (निवसनी) जैन साध्वीयों को पहनने का एक वस्त्र. An undergarment worn by Jain nuns बृह० ३, -दहण न० (दहन) हृदयदाह Inward heat, internal fire तदु० -वीसभ पु० (विश्रम्भ) हार्दिक विश्वास. Internal trust or confidence, Sincere trust हे० १, ६०, -साला स्त्री० (शाला) घर का भीतरी भाग An internal part of the house उवा० पि० ३४३, -हुत्त त्रि० (सुख) भीतर Inside In the middle Between गा० ३७३,

अदोलि त्रि० (आन्दोलिन्) हिलाने वाला, कपाने वाला A mover to and fro, one who swings or shakes गा० २३७,

अदोलिर. त्रि० (आन्दोलितृ) झूलने वाला A swinger, one who rocks सुपा० ७८,

अध पु० (अन्ध) एक नरक स्थान, पाचवीं नरक का चौथा नरकेन्द्रक. A place of hell देवेन्द्र० ११,

अधकटइज्ज. त्रि० (अन्धकटकीय) अध पुरुष के कटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना. Moving aimlessly or thoughtlessly like a blind man does on thorns आया०

अधयग पु० (अन्धक) चानर वरा का एक राजकुमार Name of a prince in the lineage of monkey पदम० ६, १८६,

अंधअ-अधल त्रि० (अन्ध) अधा, नेत्रहीन Blind, sightless, one having no

eyes गा० ७०४, हे० २, १७३,

अधलरिल्ली स्त्री० (अन्धयित्री) अध बनाने वाली एक विद्या A science which causes persons blind, an art by which persons are blinded सुपा० ४२८,

अधिअ त्रि० (अन्धित) अन्ध बना हुआ. Become blind, सम्मत्त० १२१,

अधिआ स्त्री० (अन्धिका) चूत विशेष. A sort of gambling दे० २, १,

अधु पु० (अन्धु) कूप, कुआ, A well दे० १, १८,

अवट्ट पु० (अम्बट्ट) देश विशेष Name of a particular Country पदम० ६८, ६५,

अवर पु० न० (अम्बर) एक देव विमान. A divine car देवेन्द्र० १४४,

अवरतिलय पु० (अम्बरतिलक) पर्वत विशेष. Name of a mountain आच०

अवरवत्थ. (अम्बर वस्त्र) स्वच्छ वस्त्र A pure garment कण०

अवरिसि. पु० (अम्बकपि) उज्जयिनी नगरी का निवासी एक ब्राह्मण A Brahmin resident of the city of Ujjana आच०

अवु न० (अम्बु) पानी, जल Water पात्र० —अ (ज) न० कमल, पत्र A Lotus अशु० ५५, कुमा० —रुह न० (रुह) कमल A lotus पात्र० —वह पु० (वह) मेघ, बारिस. Rains, a cloud गडड० —वाह पु० (वाह) मेघ बारिस A cloud, rains गडड०

अम पु० (अम्भस्) पानी, जल Water आ० १२,

अमो. पु० (अम्भस्) पानी, जल Water. —अ न० (ज) कमल A Lotus दे० ७,

मे० ६, १८,  
 अत. अ० (अन्तर) मध्य में. In the midst  
 in the middle हे० १, १४, —करण  
 न० (करण) हृदय, मा. Heart, con-  
 science. उप० ६ टी. नाट० —गय त्रि०  
 (गत) मध्यवर्ती, बीच वाला. Intervening,  
 Interposing हे० १, ६० —पात्र पु०  
 (पात्र) समावेश, अन्तर्भाव Inclusion,  
 The being included or com-  
 posed in हे० २, ७७,  
 अतअ. त्रि० (आयात) आना हुआ. Coming,  
 nearing, drawing near. मे० ६, ४६,  
 अतअ. त्रि० (अन्तग) पारगामी, पार प्राप्त Ha-  
 ving gone to the end of thor-  
 oughly conversant or familiar  
 with मे० ६, १८,  
 अतअ. त्रि० (अन्तद) (१) अविनाशी, शाश्वत  
 Everlasting, eternal (२) जिसकी  
 सीमा न हो वह That which has got  
 no bounds or limits, limitless  
 से० ६, १८,  
 अतग, अ० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर, सुंदर  
 Beautiful, Lovely से० ६, १८, (२)  
 अतर्गत, समाविष्ट Inclusion, internal,  
 being in the interior सू० १, १२,  
 अतद्धा स्त्री० (अतर्था) (१) तिरोधान.  
 Concealment, covering (२) नाश  
 Destruction. आचू०  
 न० (अन्तर) (१) रजोहरण A dust-  
 er (२) पात्र A vessel (३) पु० आचार,  
 कल्प Conduct, a rule, law, ordi-  
 nance कप्य०  
 अंतरग त्रि० (अन्तरङ्ग) भीतरी Inward,  
 internal विशेष० २०२७,  
 अतरजी स्त्री० (आन्तरज्जी) नगरी विशेष  
 Name of a city विशेष० २३०३,

अतरग्नन्तु. पु० (अन्तरशयु) भीतरी शयु,  
 कोषामादि. An enemy like anger,  
 or passion etc residing within  
 (the body) सु० च० ८४,  
 अतरा अ० (अन्तरा) पहले, पूर में. Form-  
 orly, previous to, ago कप्य०  
 अतरावास पु० (अन्तरवर्ष-अन्तरावास)  
 वर्षाकाल Monsoon, Rainy season  
 कप्य०  
 अतरिक्ष पु० न० (अन्तरिक्ष) अतराल,  
 आकाश The air, sky, atmosphere  
 भग० १७, १०, स्वप्न० ७०, —जाय त्रि०  
 (जात) जमीन के ऊपर नहीं हुई प्राणाद मच  
 आदि वस्तु Houses and other thin-  
 gs situated upon the earth आया०  
 २, ५,  
 अतरिज्ज न० (अतरीय) (१) वस्त्र, कपडा  
 A garment, a cloth (२) शय्या का  
 नीचला वस्त्र. A cloth underneath  
 the bedding निसी० चू० १५,  
 अतरेण अ० (अन्तरेण) बिना, सिवाय.  
 without, except उत्त० १,  
 अतरेण अ० (अन्तरेण) बीच में, मध्य में  
 In the middle, between स० ७६७;  
 अतिय न० (अन्तिक) (१) अवसान, अत  
 Death, and आया० १, ८, (२) अन्तिक,  
 चरम Last. सू० २, २,  
 अत्रेआरि त्रि० (अन्तरचारिन्) बीच में जाने  
 वाला, बीचक Going in the middle,  
 internal, inward हे० १, ६०,  
 अत्रेउरी स्त्री० (आन्तपुरी) रोगी का नाममात्र  
 लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या.  
 A science which makes a pati-  
 ent diseaseless and healthy no  
 sooner that the name of the  
 patient is uttered पव० ५,

अतो. अ० (अन्तर) बीच, भीतर. Within, inside उप० ६ टी, सुर० ३, ७४, गइया स्त्री० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना. A female who goes to receive (a guest) सुर० १५, १६१, -गिअसर्षी स्त्री० (निवसनी) जैन साध्वीयों को पहनने का एक वस्त्र, An undergarment worn by Jain nuns बृह० ३, -दहण न० (दहन) हृदयदाह Inward heat, internal fire तदु० -धीसभ पुं० (विश्रम्भ) हार्दिक विश्वास. Internal trust or confidence, Sincere trust हे० १, ६०, -साला स्त्री० (शाला) घर का भीतरी भाग. An internal part of the house उवा० पि० ३४३, -हुत्त त्रि० (मुख) भीतर. Inside In the middle Between गा० ३७३,

अदोलि त्रि० (अन्दोलिन्) हिलाने वाला, कपाने वाला A mover to and fro, one who swings or shakes गा० २३७,

अदोलिर त्रि० (अन्दोलितु) झूलने वाला A swinger, one who rocks सुपा० ७८,

अध पु० (अन्ध) एक नरक स्थान, पाचवी नरक का चौथा नरकेन्द्रक. A place of hell देवेन्द्र० ११,

अधकटइज्ज. त्रि० (अन्धकटकीय) अध पुरूप के कटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना Moving aimlessly or thoughtlessly like a blind man does on thorns आधा०

अधयग पु० (अन्धक) धानर वश का एक राजकुमार Name of a prince in the lineage of monkey पउम० ६, १८६,

अधरअ-अधल त्रि० (अन्ध) अधा, नेत्रहीन Blind, sightless, one having no

eyes गा० ७०४, हे० २, १७३,

अधलरिखी स्त्री० (अन्धयित्री) अध बनाने वाली एक विद्या A science which causes persons blind, an art by which persons are blinded सुपा० ४२८,

अधिअ त्रि० (अन्धित) अन्ध बना हुआ. Become blind, सम्मत्त० १२१,

अधिआ स्त्री० (अन्धिका) घृत विशेष. A sort of gambling दे० २, १,

अधु पु० (अन्धु) कूप, कुआ. A well दे० १, १८,

अधट्ट पु० (अन्धट्ट) देश विशेष. Name of a particular Country पउम० ६८, ६५,

अधर पु० न० (अन्धर) एक देव विमान A divine car देवेन्द्र० १४४,

अधरतिलय पु० (अन्धरतिलक) पर्वत विशेष. Name of a mountain ग्राव०

अधरवत्थ. (अन्धर वस्त्र) स्वच्छ वस्त्र A pure garment कप०

अधरिसि. पुं० (अन्धरिपि) उज्जयिनी नगरी का निवासी एक ब्राह्मण A Brahmin resident of the city of Ujjaina ग्राव०

अधु न० (अन्धु) पानी, जल Water पाअ० —अ (ज) न० कमल, पद्म A Lotus अधु० ५५, कुमा० —रुह. न० (रुह) कमल A lotus पाअ० —वह पु० (वह) मेघ, बारिस. Rains, a cloud गउड० —वाह पु० (वाह) मेघ, बारिस A cloud, rains गउड०

अभ पु० (अन्भस्) पानी, जल Water आ० १२,

अमो. पु० (अन्भस्) पानी, जल Water —अ न० (ज) कमल A Lotus दे० ७,

मे० २, १८;

अत. अ० (अन्तर) मध्य में. In the mid-st, in the middle ऐ० १, १४, —कर्मण. न० (परत) हृदय, मन. Heart, conscience. उप० ६ टी नाट० —अग्य नि० (गत) मध्यस्थी, बीच वाला Intervening, Interposing ऐ० १, ६०, —पात्र पु० (पात) समावेश, अन्तर्भाव Inclusion, The being included or compassed in. हे० २, ७७,

अतअ. त्रि० (आयात) आता हुआ. Coming, nearing, drawing near मे० ६, ४६, अतअ. त्रि० (अन्तग) पारगामी, पार प्राप्त. Having gone to the end of thoroughly conversant or familiar with से० ६, १८,

अतअ त्रि० (अत्तद) (१) अविनाशी, शाश्वत Everlasting, eternal (२) जिम्की सीमा न हो वह That which has got no bounds or limits, limitless से० ६, १८,

अतग, अ० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर, सुन्दर Beautiful, Lovely से० ६, १८, (२) अतर्गत, समाविष्ट Inclusion, internal, being in the interior सूय० १, १२, अतद्धा खी० (अतर्था) (१) तिरोधान Concealment, covering (२) नाश Destruction आचू०

अतर न० (अन्तर) (१) रजोहरण A dust-or (२) पात्र A vessel (३) पु० आचार, कल्प Conduct, a rule, law, ordinance कप०

अतरग त्रि० (अन्तरङ्ग) भीतरी Inward, internal विशे० २०२७,

अतरजी खी० (अन्तरञ्जी) नगरी विशेष Name of a city विशे० २३०३,

अतरस्मत्तु. पु० (अन्तरायु) भीतरी शत्रु, क्रोधकामादि An enemy like anger, or passion etc residing within (the body) सु० च० ८६,

अनग. थ० (अन्तर) पहले, पूर्व में. Formerly, previous to, ago कप०

अतरावाम्. पु० (अन्तरवर्ष-अन्तरावास) वर्षाकाल Monsoon, Rainy season कप०

अतरिम्न पु० न० (अन्तरित) अतराल, आकाश The air, sky, atmosphere भग० १७, १०, स्पन्द० ७०, —जाय त्रि० (जात) जमीन के ऊपर रही हुई प्रासाद मच आदि वस्तु Houses and other things situated upon the earth आया० २, ५,

अतरिज्ज न० (अतरीय) (१) वस्त्र, कपडा A garment, a cloth (२) शय्या का नीचला वस्त्र. A cloth underneath the bedding निसी० चू० १६,

अतरेण. अ० (अन्तरेण) बिना, सिवाय. without, except उक्त० १,

अतरेण अ० (अन्तरेण) बीच में, मध्य में In the middle, between स० ७६७,

अतिय न० (अन्तिक) (१) अवसान, अत. Death, end आया० १, ८, (२) अन्तिम, चरम Last. सूय० २, २,

अतेआरि त्रि० (अन्तरचारि) बीच में जाने वाला, बीचक Going in the middle, internal, inward हे० १, ६०,

अतेउरी खी० (अन्तपुरी) रोगी का नाममात्र लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या.

A science which makes a patient diseaseless and healthy no sooner that the name of the patient is uttered पच० ५,



अंतो अ० (अन्तर) बीच, भीतर. Within, inside उप० ६ टी, सुर० ३, ७४, गइया स्त्री० (गति) स्वागत के लिये सामने जाना. A female who goes to receive (a guest) सुर० १५, १६१, -शिअसणी स्त्री० (निवसनी) जैन साध्वीयों को पहनने का एक वस्त्र. An undergarment worn by Jain nuns वृह० ३, -दहण न० (दहन) हृदयदाह Inward heat, internal fire तदु० -वीसम पु० (विश्रम) हार्दिक विश्वास. Internal trust or confidence, Sincere trust हे० १, ६०, -साला स्त्री० (शाला) घर का भीतरी भाग. An internal part of the house उवा० पि० ३४३, -हुत्त त्रि० (सुख) भीतर. Inside In the middle Between गा० ३७३,

अंदोलि चि० (आन्दोलिन्) हिलाने वाला, कपाने वाला A mover to and fro, one who swings or shakes गा० २३७,

अदोलिर त्रि० (आन्दोलितृ) झूलने वाला A swinger, one who rocks सुपा० ७८,

अध पु० (अध) एक नरक स्थान, पाचवीं नरक का चौथा नरकेन्द्रक A place of hell देवेन्द्र० ११,

अधकटइज्ज. त्रि० (अधकटकीय) अध पुरुष के कटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना Moving aimlessly or thoughtlessly like a blind man does on thorns आया०

अधयग पु० (अधक) वानर वंश का एक राजकुमार Name of a prince in the lineage of monkey पउम० ६, १८६,

अंधरअ-अधल त्रि० (अध) अथा, नेत्रहीन Blind, sightless, one having no

eyes गा० ७०४, हे० २, १७३,

अधलरिल्ली स्त्री० (अन्धयित्री) अध वनाने वाली एक विद्या A science which causes persons blind, an art by which persons are blinded सुपा० ४२८,

अधिअ त्रि० (अन्धित) अन्ध बना हुआ. Become blind, सम्मत्त० १२१,

अधिआ स्त्री० (अन्धिका) द्यूत विशेष. A sort of gambling दे० २, १,

अधु पु० (अन्धु) कूप, कुआ. A well दे० १, १८,

अवट्ट पु० (अम्बट्ट) देश विशेष. Name of a particular Country पउम० ६८, ६५,

अवर पु० न० (अम्बर) एक देव विमान A divine car देवेन्द्र० १४४,

अवरतिलय पु० (अम्बरतिलक) पर्वत विशेष. Name of a mountain आव०

अवरवत्थ. (अम्बर वस्त्र) स्वच्छ वस्त्र A pure garment कप्प०

अवरिसि. पु० (अम्बरपि) उज्जयिनी नगरी का निवासी एक ब्राह्मण A Brahmin resident of the city of Ujjaina आव०

अबु न० (अम्बु) पानी, जल Water पाय० —अ (ज) न० कमल, पद्म A Lotus यच्चु० ५५, कुमा० —रुह न० (रुह) कमल A lotus पात्र० —वह पु० (वह) मेघ, बारिस Rains, a cloud गउड० -वाह पु० (वाह) मेघ, बारिस A cloud, rains गउड०

अम. पु० (अम्मस्) पानी, जल Water आ० १२,

अमो. पु० (अम्मस्) पानी, जल Water. —अ न० (ज) कमल A Lotus दे० ७,

३८, —इणो खीं (जिनी) कमलिनी, पद्मिनी.  
 A lotus shrub or Plant मै० ६१,  
 —निधि पु० (निधि) समुद्र. An ocean  
 श्रा० १२, —रह न० (रह) कमल, पद्म A  
 lotus उप० ६ टी,  
 अभोटि पु० (अभोधि) समुद्र An ocean,  
 a sea कुप्र० २७१,  
 अल पु० (अल) (१) भेद, विरुद्ध, Sort,  
 Variety विशेष० (२) पर्याय, धर्म, गुण.  
 Property, quality, characteristic  
 विशेष०  
 असिया रीं (अशिका) (१) नासिका का एक  
 रोग Name of the nasal disease  
 निती० चू० ३, (२) फुन्सी, फोदा. A  
 pimple निमी० चू० ३,  
 असु. पु० (अशु) किरण A ray लहुअ० ६,  
 —मालि. पु० (मालिन्) सूर्य, सूरज The  
 sun रयण० १,  
 अह. पु० न० (अहस्) मल Dirt, filth,  
 dust धर्मवि० १४६,  
 अहि पु० (अहि) पाद, पाव The foot कप्प०  
 अकपणं त्रि० (अकम्पन) (१) कप रहित  
 Steady, not shaking (२) पु० रावण  
 का एक पुत्र Name of one of the  
 sons of Ravana से० १४, ७०,  
 अकल्पिय. पु० (अकल्पिक) जिमको शास्त्र का  
 पूरा २ ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु A Jain  
 saint who does not possess suffi-  
 cient knowledge of Jain scrip-  
 tures वव० १,  
 अकथ. त्रि० (अकृत्य) (१) करने को अयोग्य  
 या अशक्य Unfit to be done or  
 impossible to be done (२) न०  
 अनुचित काम Improper action  
 —कारि. त्रि० (कारिन्) अकृत्य को करने  
 वाला Misdoer or wrong doer

पउम० ८०, ७१,  
 अकथमुह. त्रि० (अकृतमुह) अपठित, अगिहित  
 Illiterate, dunce बृह० ३,  
 अकरण न० (अकरण) मैथुन Sexual  
 union, Copulation वउ० ३,  
 अकार. पु० (अकार) 'अ' अक्षर, प्रथम स्वर  
 वर्ण 'The letter 'अ' (A), The  
 first letter of the Vowels विशेष०  
 ४६५,  
 अकारगवाह त्रि० (अकारकवादित्) आत्मा  
 को निष्क्रिय मानने वाला One who be-  
 lieves in the inactivity of the  
 soul or one who believes the  
 soul in active सूय० १, १,  
 अकिट्ट त्रि० (अट्टिष्ट) क्लेश रहित, बाधा रहित.  
 Devoid of affliction or abstru-  
 ction 'अकिट्टधम्मेषु' पउम० २३, २२,  
 अकुट. त्रि० (अकुण्ड) अपने कार्य में निपुण.  
 Clever or expert in one's own  
 business गउड०  
 अकुय. त्रि० (अकुच) निश्चल, स्थिर Steady,  
 determined निती० चू० १,  
 अक पु० (अक) (१) सूर्य, सूरज The sun  
 सुर० १०, २२३, (२) आक का पेड़ A  
 small tree with medical sap and  
 mind प्रासू० १६८, (३) सुवर्ण, सोना Gold  
 रयण० २४, (४) रावण का एक सुभट. One  
 of the warriors of Ravana पउम०  
 २६, २, —तूल. न० (तूल) आक की रुई  
 Cotton of the Calatropis Gigan-  
 tea पत्र० १, —जौंटीया खीं (बोन्दिका)  
 वही विशेष Name of a particular  
 kind of creeper पत्र० १,  
 अकृअ त्रि० (अकृत) नहीं किया गया. Not  
 done —पुव्व. त्रि० (पूर्व) जो पहले कभी  
 न किया गया हो. That which has

never been done formerly से०  
१२, २०,

अक्रदावणय त्रि० (आक्रन्दक) रुलाने वाला  
One who makes others weep or  
cry कुमा०

अक्रदिय न० (आक्रन्दित) विलाप, रोदन  
City of lamentation, Weeping  
से० ४, ६४, पडम० ११०, २,

अक्रतेअ पु० (अर्कतेजस्) विद्याधर वंश का  
एक राजा. A king born in the lineage  
of Vidyadhara पडम० २, ४६,

अक्रम पु० (आक्रम) (१) दबाना, चढाई  
करना Attacking, Invading (२)  
पराभव Defeat, overcoming आव०

अक्रमण न० (आक्रमण) (१) (२) देखो  
'अक्रम' शब्द Vide 'अक्रम' से० १४,  
६६, (३) पराक्रम. Valour, might,  
force विशेष० १०४६, (४) त्रि० आक्रमण  
करने वाला, Invader, one who over-  
comes से० ६, १,

अक्रा स्त्री० (अक्रा) कुदनी, दूती, A bawd,  
pocureess, a go-between, a she  
messenger कुम० १०,

अक्रासी स्त्री० (अक्रासी) न्यन्तर जातीय एक  
देवी A goddess of the lineage of  
Vyantara tube (२ e a kind of  
supernatural being) ती० ६,

अक्रूर. पु० (अक्रूर) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम.  
Name of the uncle of Shri  
Krishna रुमि० ४६,

अक्रोक्षय. त्रि० (एकाकिन्) एकिला, एकाकी  
Alone, lonely नाट०

अक्रोडण न० (आक्रोडन) इकट्ठा करना, सग्रह  
करना Collecting, Hoarding विशेष०  
अक्रोसिअ. त्रि० (आक्रोशित) कटु वचनों से  
जिसकी भर्त्सना की गई हो वह. One who

is rebuked with bitter words or  
unpalatable language सुर० ६, २३४,

अक्ख पु० (अक्ख) (१) रावण का एक पुत्र.  
Name of one of the sons of  
Ravana से० १४, ६२, (२) विभीतिक,  
बहडा का वृक्ष A kind of tree से० ६, ४४,

—माला स्त्री० (माला) जपमाला, A rosary  
string of beads (made of रुद्राक्ष  
seeds corals or crystals) पडम०

६६, ३१, —लया. स्त्री० (लया) रुद्राक्ष की  
माला A rosary made of the Ru-  
draksha seeds. दे० —चलय. न०

(चलय) रुद्राक्ष की माला A rosary made  
of Rudraksha seeds दे० २, ८१,

अक्खइय त्रि० (आख्यात) उक्त, कथित Said,  
mentioned, told सख०

अक्खइय त्रि० (अखइय) (१) सपूर्ण. Com-  
plete, full (२) अखइयत. Unbroken  
(३) निरन्तर, अविच्छिन्न Constant, In-  
cessant सुपा० २६६,

अक्खइल. पु० (आखइल) इन्द्र India  
पात्र०

अक्खइअ त्रि० (अखइअ) (१) सपूर्ण,  
खइय रहित Complete, unbroken  
से० ३, १२, (२) निरन्तर, अविच्छिन्न, In-  
cessant, without any break,  
Constant उर० ८, १०,

अक्खर पु० न० (अक्खर) ज्ञान, चेतना.  
Knowledge, animation Vitality  
विशेष० ४२२, —त्य पु० (अर्थ) शब्दार्थ.

Meaning of a word अभि० १२१,  
अक्खा स्त्री० (आख्या) नाम A name,  
Appellation विशेष० १६११,

अक्खाण. पु० (आख्याक) म्लेच्छों की एक  
जाति A tribe of Malechha. सूय० १, २,

अक्खाण न० (आख्याण) (१) कथन, निवेदन

Statement, Declaration कुमा०  
 (२) वार्ता, उपकथा A Story, A tale.  
 पउम० ४८, ७७,  
 अमरगण्य, न० (आख्यानरु) कहानी, वार्ता.  
 A tale, a legend उप० ५६७ टी,  
 अमरगण्य, न० (अमरगत) हाथी को पकड़ने के  
 लिए किया जाता गढ़ा, सड़ा A dig spe-  
 cially made for entrapping ele-  
 phants, pit-fall पाश्र०  
 अमरगण्य, न० (आख्याता) एक प्रकार की  
 जैन दीक्षा A particular kind of  
 Jain initiation पचू०  
 अमरगण्य, त्रि० (आधिक) पॉसा से जूआ खेलने  
 वाला, जुआडी One who gambles  
 with dice दे० ७, ८,  
 अमरगण्य, त्रि० (आख्यात) प्रतिपादित, कथित  
 Explained, expounded, demon-  
 strated श्रा० १४  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षिप्त) (१) व्याकुल Con-  
 founded, Confused (२) जिस पर  
 टीका की गई हो वह One against  
 whom or upon which comments  
 are made सुर० ३, ११५, (३) सामर्थ्य  
 से लिया हुआ Got or obtained by  
 force, might or power से० ४, ३१,  
 अमरगण्य, न० (अक्षेत्र) मर्यादित क्षेत्र के बहार  
 का प्रदेश A land beyond the pre-  
 scribed limits निसी० चू० १,  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षीणमहालय) त्रि० (अक्षीणमहालय)  
 जिससे थोड़ी जगह में बहुत लोगों का समावेश  
 हो सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति से युक्त  
 A palace possessing natural  
 capacity of containing many a  
 person comparatively in a small  
 space गच्छ० २,  
 अमरगण्य, त्रि० (अखण्डित) सपूर्ण, अखण्ड,

शुद्धि रहित Complete, defectless-  
 सु० च० ११६ ;  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षुण्ण) जो टूटा हुआ न  
 हो, अविच्छिन्न That which is not  
 broken, incessant, Constant  
 वृह० १,  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षुद्र) सूक्ष्म बुद्धि वाला  
 Sharp-witted, Shrewd, Intelli-  
 gent धर्म० २,  
 अमरगण्य, न० (अक्षोभ्य) क्षुद्रता का अभाव  
 Absence of merely nature, or  
 meanness उप० ६१५,  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षुब्धमान) जो होमको  
 प्राप्त न होता हो One who is not  
 capable of being agitated उप०  
 पू० ६२,  
 अमरगण्य, त्रि० (अक्षुण्ण) अन्यून, परिपूर्ण  
 Complete, not defective or defi-  
 cient उप० ७२८ टी०  
 अमरगण्य, पु० (अक्षेप) शीघ्रता, जल्दी  
 Quickness, Rapidity सुपा० १२६,  
 अमरगण्य, पु० (अक्षेप) (१) अर्थ की सगति के  
 लिए अनुक्त अर्थ को बतलाना A figure of  
 speech in which something really  
 intended to be said is apparently  
 suppressed or denied to convey  
 a particular meaning उप० १००२,  
 (२) उत्पत्ति Production उवर० ४८,  
 अमरगण्य, पु० (अक्षेपक) (१) खींच कर  
 लाने वाला, आकर्षक One which or  
 who attracts. (२) समर्थक पद, अर्थ  
 सगति के लिए अनुक्त अर्थ को बतलाने  
 वाला शब्द A word having similar  
 meaning, A word giving some  
 other sense of meaning than  
 suggested with a view to harm-

omise the sense given उप० ६६६,  
 (३)सन्निध्य कारक That which draws  
 noarer उवर० १८८,  
 अक्खोड पु० (अचोट) राजकुल को दी जाती  
 सुवर्ण आदि की भेंट Presentation of  
 gold etc to the royal family  
 वव० १,  
 अक्खोडिय त्रि० (कृष्ट) खींचा हुआ, बहार  
 निकाला हुआ Attracted, drawn  
 out कुमा०  
 अक्खोहणिज्ज त्रि० (अचोभणीय) जो कुछ  
 न किया जा सके That which is not  
 prone to agitation सुपा० ११४,  
 अक्खोहिणी स्त्री० (अचौहिणी) एक बड़ी सेना,  
 जिसमें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६२६१०  
 घोड़े और १०६३२० पैदल होते हैं A big  
 army which contains 21870 ele-  
 phants, 21870 Chariots, 65610  
 horses and 109350 foot police  
 पउम० २५, ७, ११,  
 अखडल. पु० (अखण्डल, इन्द्र India  
 पउम० ४६, ४४,  
 अखत्त न० (अचान्न) क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध,  
 जुलम Opposed to the character-  
 istic of a क्षत्रिय warrior, harass-  
 ment धम्म० ८ टी,  
 अखादिम. त्रि० (अखाद्य) खाने को अयोग्य,  
 अमचय Not eatable, That which  
 cannot be eaten कुमा०  
 अखाय त्रि० (अखात) नहीं खुदा हुआ Not  
 dug -तल न० (तल) छोटा तलाव A  
 small pond पाअ०  
 अखुट्टिअ त्रि० (अतुडित) अखूट, परिपूर्ण  
 That which cannot be exhaus-  
 ted, full of, fully complete कुमा०  
 अखोहा. स्त्री० (अचोभा) विद्या विशेष A

particular kind of a lore or sci-  
 ence पउम० ७, १३७,

अग पु० (अग) (१) वृक्ष, पेड़ A tree  
 (२) पर्वत, पहाड़ A mountain से० ६,  
 ४२,

अगइ. स्त्री० (अगति) निरुपाय. Without  
 having any recourse, remediless  
 अचू० १६,

अगटिम न० (अग्रन्थिम) (१) कदली फल,  
 केला A fruit of the plantain tree  
 वृह० १, (२) फल की फाक, टुकड़ा. A long  
 and thin piece of a fruit निर्मा०  
 चू० १६,

अगड पु० (अवट) कूप के पास पशुओं के जल  
 पीने के लिए जो गर्त बनाया जाता है वह A  
 pit rounded by four walls near  
 the well constructed for the  
 purpose of getting the cattle  
 drunk water from within which  
 is kept stored therein उप० २०५,

अगड त्रि० (अकृत) नहीं किया हुआ Not  
 done or performed वव० ६,

अगणिमुह. पु० (अग्निमुख) देव, देवता A  
 God, a divine being, a deity  
 आया० चू०

अगन्न त्रि० (अकर्ण्य) नहीं सुनने लायक,  
 अश्राव्य Not fit or proper to be  
 heard भवि०

अगम पु० (अगम) (१) वृक्ष, पेड़ A tree  
 or plant दसनि० १, ३५, (२) त्रि०  
 स्थावर, नहीं चलने वाला Immovable,  
 steady, standstill महानि० ४,

अगय. न० (अगद) औषध, दवाई Medi-  
 cine सुपा० ४४७,

अगार. पु० (अकार) 'अ' अक्षर The  
 Letter "A" विशेष० ४८४,

अंगारग. त्रि० ( अकारक ) अकर्ता. Not doing or acting सूत्रनि० ३०,  
अंगारी स्त्री० ( अंगारिणी ) गृहस्थ स्त्री. A housewife वच० ४,  
अंग त्रि० ( अद्य ) श्रेष्ठ, उत्तम Best, excellent, superior से० ८, ४४, (=) प्रधान, मुख्य. Chief, Major, Prime उत्त० १४,  
अंगथ. त्रि० ( अग्रन्थ ) धन रहित Devoid of wealth, moneyless, poor (२) जैन साधु A Jain saint श्रौच०  
अंगग्रन्थ पु० ( अग्रग्रन्थ ) सैन्य का अग्र भाग. The front part of an army से० ३, ४०,  
अंगग्री त्रि० ( अग्रणी ) अगुया, मुखिया, नायक A head or leader कम्प० नाट०  
अंगगद्द. न० ( अग्रार्ध ) पूर्वार्ध A first half निसी० चू० १,  
अंगगपहारि. त्रि० ( अग्रग्रहारिन् ) पहले प्रहार करने वाला One who deals the first blow श्राव० १,  
अंगगमणि पु ( अग्रमणि ) मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि A leader, A head उप० ७२८ टी,  
अंगगय त्रि० ( अग्रज ) (१) आगे उत्पन्न होने वाला, बड़ा भाई या बहन The first born brother or sister or elder brother or sister (२) पु० ब्राह्मण A Brahmin (The firstborn) नाट०  
अंगगलित्र. त्रि० ( अंगलित ) जो आगल से बंद किया गया हो वह Bolted, shut up with a bolt सुर० ६, १०,  
अंगगलोग. पु० ( अग्रलोक ) मुक्ति स्थान, सिद्धि क्षेत्र. The place where the soul is finally emancipated, the place where the desired object (liber-

ty or final emancipation) is accomplished श्रा० १२,  
अंगगहण न० ( अग्रहण ) अज्ञान Ignorant सुर० १२, ४६,  
अंगगहि त्रि० ( अग्रहिन् ) अग्रही, हठी Impertunate, persistent, insistent, Obstinate सू० १, १३,  
अंगगारण. न० ( उद्गारण ) वमन, वान्ति Vomiting, ejecting चार० ७,  
अंगगहार पु० ( अग्रधार ) ग्राम विशेष का नाम Name of a village सुपा० २४२,  
अंगगकोण पु० ( अग्निकोण ) पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा. The south east corner ruled by Agani Deva सू० च० ६८,  
अंगगज्जोय पु० ( अग्निद्योत ) भगवान् महावीर का पूर्वार्ध वीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम Name which was given to Bhagwan Mahavira on his twentieth birth in a Brahmin Family श्राया० चू०  
अंगगज्ज त्रि० ( अग्रज ) लेने के अयोग्य. Unfit for acceptance पउम० ३१, २४,  
अंगगदत्त पु० ( अग्निदत्त ) भगवान् पारश्वनाथ के समकालीन ऐश्वर्य क्षेत्र के एक तीर्थंकर देव Name of a god Tirthankara of Airavata County, who flourished in the time of Bhagwan Parshvanath तित्थ०  
अंगगदाए पु० ( अग्निदान ) सातवें वासुदेव के पिता का नाम Name of the father of the seventh Vasudeva पउम० २०, १८२,  
अंगगयय पु० ( आनेयक ) इस नाम का एक राज पुत्र. Name of a royal prince

उप० ६३७,  
 अग्निशिखाचारण पु० (अग्निशिखाचारण)  
 अग्नि शिखा में निर्वाधतया गमन करने की  
 शक्ति वाला साधु A saint possessing  
 such power as he can walk even  
 in fire easily and without any  
 pain or fear of being burnt. प्रव०  
 ६८,  
 अग्रे अ० (अग्रे) आगे, पहले Formerly,  
 previous to, before विंग० —यण,  
 त्रि० (तन) आगे का, पहले का Of for-  
 mer times आयम०  
 अग्रेय त्रि० (आग्नेय) (१) अग्नि सवधी,  
 अग्नि का Pertaining to fire पठम०  
 १२, १२६, विशेष० १६६०, (२) न० शस्त्र  
 विशेष Name of one of the arms  
 सुर० ८, ४१, (३) अग्नि कोण The south  
 east corner मवि०  
 अग्नोदय न० (अग्नेदक) समुद्रीय वेला की  
 वृद्धि और हानि The Tide and ebb of  
 the sea सम० ७६,  
 अग्घ पु० (अर्घ) एक देव विमान Name  
 of a divine cart देवेन्द्र० १३२,  
 अग्घविय. त्रि० (अर्घित) पूजित, सल्लुत,  
 सम्मानित Adored, worshipped,  
 welcome, honoured से० ११, १६,  
 गउड०  
 अग्घाइ त्रि० (आघ्रायिन्) सूँघने वाला, A  
 smeller काप्र० २६४,  
 अग्घाइर त्रि० (आघ्रातृ) सूँघने वाला A  
 smeller गा० ८८६,  
 अग्घिय त्रि० (अर्घित) (१) बहुमूल्य, कीमती  
 Valuable, rich, dear निसी० २, (२)  
 पूजित Worshipped, honoured दे०  
 १, १०७, से० २०२,  
 अघ न० (अघ) (१) पाप, कुकर्म Wrong

act. bad action, sin कुमा० (२) त्रि०  
 शोचनीय, शोक का हेतु Lamentable,  
 repentable, a cause of lamenta-  
 tion प्रयौ० ८०,

अचक्षुस्त त्रि० (अचक्षुः) जिसकी देखने  
 को मन न चाहता हो That which is  
 not liked to the eye, that whose  
 sight is disliked by the eye वृह० ३,  
 अचल. पु० (अचल) (१) पर्वत, पहाड़ A  
 mountain गउड० १२०, (२) एक राजा,  
 जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन  
 दीक्षा ली थी Name of a king who  
 was initiated in Jain religion  
 together with the younger bro-  
 ther of Shree Ramachandria  
 पठम० ८१, ४,

अचलप्य न० (अचलात्मन्) हस्त-प्रहेलिका  
 को ८४ लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो  
 वह, अन्तिम सख्या The last number,  
 the result of multiplication ar-  
 rived at by multiplying Hasta  
 Prahelika by 84,00,000 इक०  
 अचित्तिअ-अचित्तीअ त्रि० (अचिन्तनीय)  
 अनिर्वचनीय, जिसकी चिन्ता भी न हो सके  
 वह, अद्भुत Indescribable, undefin-  
 able, inconceivable, wonderful  
 लहुअ० ३,

अचित्ति त्रि० (अचिन्तित) आकस्मिक,  
 असम्भित Accidental, impossible  
 महा०

अचिराभा. स्त्री० (अचिराभा) बिजली, विद्युत्,  
 Lightning पठम० ४२, ३२,

अच्यग. त्रि० (अर्चक) पूजक Adorer,  
 worshipper. चैत्य० १२,

अच्यगल त्रि० (अच्यगल) निरकुल्य, अनिय-  
 न्त्रित Uncontrolled, free मोह० ८७,

अंगारग त्रि० ( अकारक ) अकर्ता Not doing or acting सूत्रनि० ३०,  
 अंगारी स्त्री० ( अंगारिणी ) गृहस्थ स्त्री A housewife वच० ४,  
 अंग त्रि० ( अज्य ) श्रेष्ठ , उत्तम Best, excellent, superior से० ८, ४४, (२) प्रधान, मुख्य Chief, Major, Prime उत्त० १४,  
 अंगथ. त्रि० ( अग्रन्थ ) धन रहित Devoid of wealth, moneyless, poor. (२) जैन साधु A Jain saint श्रौव०  
 अंगकक्षत्र पु० ( अग्रस्कन्ध ) सैन्य का अग्र भाग. The front part of an army से० ३, ४०,  
 अंगणी त्रि० ( अग्रणी ) अग्रग्रा, मुखिया, नायक A head or leader कल्प० नाट०  
 अंगरुद्ध न० ( अग्रार्थ ) पूर्वार्ध A first half निसि० चू० १,  
 अंग्रपहारि त्रि० ( अग्रप्रहारिन् ) पहले प्रहार करने वाला One who deals the first blow आच० १,  
 अंग्रमणि पु ( अग्रमणि ) मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि A leader, A head उप० ७२८ टी,  
 अंग्रगय त्रि० ( अग्रज ) (१) आगे उत्पन्न होने वाला, बड़ा भाई या बहन The first born brother or sister or elder brother or sister (२) पु० ब्राह्मण A Brahmin (The firstborn) नाट०  
 अंग्रलिङ्ग त्रि० ( अंगलित ) जो आगल से बंद किया गया हो वह Bolted, shut up with a bolt सुर० ६, १०,  
 अंग्रलोग. पु० ( अंग्रलोक ) मुक्ति स्थान, सिद्धि क्षेत्र. The place where the soul is finally emancipated, the place where the desired object (liber-

ty or final emancipation) is accomplished आ० १२,  
 अंग्रहण न० ( अग्रहण ) अज्ञान Ignorant सुर० १२, ४६,  
 अंग्रहि त्रि० ( आग्रहिन् ) आग्रही, हठी Impertunate, persistent, insistent, Obstinate सू० १, १३,  
 अंग्रारण न० ( उद्गारण ) वमन, वान्ति Vomiting, ejecting चारु० ७,  
 अंग्रगाहार पु० ( अग्रगाहार ) ग्राम विशेष का नाम Name of a village सुपा० २४५,  
 अंग्रिकोण पु० ( अग्रिकोण ) पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, The south east corner ruled by Agani Deva सू० च० ६८,  
 अंग्रिज्जोय पु० ( अग्रिजोय ) भगवान् महावीर का पूर्वव्य वीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम Name which was given to Bhagwan Mahavira on his twentieth birth in a Brahmin Family आया० चू०  
 अंग्रिज्जु त्रि० ( अग्रज्जु ) लेने के अयोग्य. Unfit for acceptance पदम० ३१, २४,  
 अंग्रिदत्त पु० ( अग्रिदत्त ) भगवान् पार्वनाथ के समकालीन ऐश्वर्य क्षेत्र के एक तीर्थंकर देव Name of a god Tirthankara of Airavata Country, who flourished in the time of Bhagwan Parshvanath तित्य०  
 अंग्रिदाण पु० ( अग्रिदान ) सातवें वासुदेव के पिता का नाम Name of the father of the seventh Vasudeva पदम० २०, १८२,  
 अंग्रियय पु० ( आग्नेयक ) इस नाम का एक राज पुत्र. Name of a royal prince.



उप० ६३७,

अग्निशिखाचारण, पु० (अग्निशिखाचारण)  
अग्नि शिखा में निर्वाधतया गमन करने की  
शक्ति वाला साधु A saint possessing  
such power as he can walk even  
in fire easily and without any  
pain or fear of being burnt. प्रव०  
६८,

अग्रे अ० (अग्रे) आगे, पहले Formerly,  
previous to, before पि० —यण.  
त्रि० (तन) आगे का, पहले का Of for-  
mer times आत्यम०

अग्नेय त्रि० (अग्नेय) (१) अग्नि सबधी,  
अग्नि का Pertaining to fire पदम०  
१२, १२६, विशे० १६६०, (२) न० शब्द  
विशेष Name of one of the aims  
सुर० ८, ४१, (३) अग्नि कोण The south  
east corner भवि०

अग्नोदय न० (अग्नेय) समुद्रीय वेला की  
वृद्धि और हानि The Tide and ebb of  
the sea सम० ७६,

अग्घ पु० (अर्घ) एक देव विमान Name  
of a divine cart देवेन्द्र० १३२,  
अग्घविय. त्रि० (अर्घित) पूजित, सकृत,  
सम्मानित Adored, worshipped,  
welcome, honoured से० ११, १६,  
गडह०

अग्घाद्. त्रि० (आघ्रायिन्) सूँघने वाला, A  
smeller काम० २६४,

अग्घाद् इर त्रि० (आघ्रातृ) सूँघने वाला A  
smeller गा० ८८६,

अग्घिय त्रि० (अर्घित) (१) बहुमूल्य, कीमती  
Valuable, rich, dear निसी० २, (२)  
पूजित Worshipped, honoured दे०  
१, १०७, से० २०२,

अघ न० (अघ) (१) पाप, कुकर्म Wrong

act, bad action, sin कुमा० (२) त्रि०  
शोचनीय, शोक का हेतु Lamontable,  
repentable, a cause of lamenta-  
tion प्रयौ० ८०,

अचक्षुस्त. त्रि० (अचक्षुय) जिसको देखने  
को मन न चाहता हो. That which is  
not liked to the eye, that whose  
sight is disliked by the eye वृह० ३,  
अचल. पु० (अचल) (१) पर्वत, पहाड़ A  
mountain गडह० १२०, (२) एक राजा,  
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन  
दीक्षा ली थी Name of a king who  
was initiated in Jain religion  
together with the younger bro-  
ther of Shree Ramachandria  
पदम० ८६, ४,

अचलप्प. न० (अचलात्मन्) हस्त-प्रहेलिका  
को ८४ लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो  
वह, अन्तिम सख्या The last number,  
the result of multiplication ar-  
rived at by multiplying Hasta  
Prahelika by 84,00,000 इक०

अचित्तिअ-अचित्तीअ त्रि० (अचिन्तनीय)  
अनिर्वचनीय, जिसकी चिन्ता भी न हो सके  
वह, अद्भुत Indescribable, undefin-  
able, inconceivable, wonderful  
लहुअ० ३,

अचित्ति त्रि० (अचिन्तित) आकस्मिक,  
असम्भविता Accidental, impossible  
महा०

अचिरामा, स्त्री० (अचिरामा) विजली, विद्युत्,  
Lightning पदम० ४२, ३२,

अच्चग त्रि० (अर्चक) पूजक Adorer,  
worshipper. चैत्य० १२,

अच्यगल त्रि० (अत्यगल) निरकृत्य, अनिय-  
न्त्रित Uncontrolled, free मोह० ८७,

अञ्चलत्थ त्रि० (अत्यर्थ) गभीर अर्थ वाला,  
Inscrutable, Difficult to be per-  
ceived or understood राय०  
अञ्चर-अञ्चरिञ्च-अञ्चरीञ्च न० (आश्चर्य)  
विस्मय, चमत्कार Surprise, wonder  
विक्र० ६४, प्रबो० १७, रभा० नाट०  
अञ्चा स्त्री० (अर्चा) पूजा, सत्कार Wor-  
ship, adoration, honour गड०  
अञ्चाहिञ्च-द न० (अत्याहित) (१) महाभीति,  
बड़ा मय A great calamity, danger,  
misfortune, evil or mishap  
(२) झूठ, असत्य False, Lying,  
Untruth स्वप्न० ४७, (३) ऐसा जोखमी  
कार्य, जिसमें प्राण हानि की संभावना हो A  
deed, hazardous अभि० ३७,  
अञ्चीकरण, न० (अर्चीकरण) (१) प्रशंसा  
praising (२) खुशामद Excessive  
and undue praise, hence syc-  
phancy निसी० चू० ५,  
अञ्चुञ्च पु० (अच्युत) विष्णु An epithet  
of Vishnu अञ्चु० ५,  
अञ्चुञ्चइ पु० (अच्युतपति) बारहवा देवलोक  
के इन्द्र The India of the Twelfth  
world of gods सु० च० ६१,  
अञ्चुइद पु० (अच्युतेन्द्र) ग्यारहवें और बारहवें  
देवलोक का स्वामी, इन्द्र विशेष The India  
of the eleventh and twelfth  
worlds of gods पठ० ११७, ७,  
अञ्चुग त्रि० (अत्युग्र) अत्यंत उग्र Very  
fierce, severe, stern प्रब० २२४,  
अञ्चुच्च त्रि० (अत्युच्च) खूब ऊंचा, विशेष उन्नत  
Very high or lofty उप० ६८६ टी,  
अञ्चुदार त्रि० (अत्युदार) अत्यन्त उदार  
Very generous स० ६००,  
अञ्चुन्नय त्रि० (अत्युन्नत) बहुत ऊंचा Very  
high कप्प०

अञ्चुम्भड त्रि० (अत्युद्भट) अति प्रबल,  
Very powerful or forceful भवि०  
अञ्चुवयार, पु० (अत्युपचार) विशेष सेवा  
Excessive service गा० ५१४,  
अञ्चुव्याय, त्रि० (अत्युद्घात) अत्यंत थका  
हुआ Extremely fatigued or  
tired बृह० ३,  
अञ्चेञ्चर न० (आश्चर्य) आश्चर्य, विस्मय  
Surprise, wonder विक्र० १५,  
अञ्छुञ्च, पु० (अच्छक) बहेडा का वृक्ष  
Name of a tree (२) न० स्वच्छ जल  
Pure water से० ६, ४७,  
अञ्छुञ्चर न० (आश्चर्य) विस्मय, चमत्कार  
Surprise, wonder कुमा०  
अञ्छुण, त्रि० (अच्छन्न) अगुप्त, प्रकट  
Open, visible, patent बृह० ३,  
अञ्छुरिञ्च-अञ्छुरिञ्ज-अञ्छुरीञ्च न०  
(आश्चर्य) विस्मय, चमत्कार Surprise,  
wonder हे० १, ५८, प्रयौ० ४२,  
अञ्छुहल्ल पु० (अच्छभल्ल) रीछ A  
bear पाय०  
अञ्छुइ त्रि० (आच्छादिन्) ढकने वाला,  
आच्छादक One who covers or pro-  
tects A cover, protector स० ३५१;  
अञ्छायत त्रि० (अच्छातान्त) तीक्ष्ण, धारदार  
Sharp edged पाय०  
अञ्छायण न० (आच्छादन) (१) वस्त्र, कपड़ा  
A garment or cloth आया० (२)  
ढकना, A lid, A cover दे० ७, ४५,  
अञ्छायणा स्त्री० (आच्छादना) ढकना, आच्छा-  
दित करना A lid, covering. बव० ३,  
अच्छिद्रण न० (आच्छेदन) (१) छीनना,  
Snatching away, taking away  
by force, extortion (२) थोड़ा  
छेद करना, काटना Cutting a little  
भग० १५,

अच्छिन्न-ज्ञ त्रि० (याच्छिन्न) (१) बलात्कार से छीना हुआ Extorted, snatched away पाठ०

अच्छिन्न-ज्ञ पु० (अच्छिन्न) वस्तु को नित्य मानने वाला पक्ष A school believing in the eternity or continuity of things प्रव०

अच्छिन्न, त्रि० (अस्पृश्य) छूने को प्रयोग्य Untouchable, unfit to be touched सु० च० २८१,

अच्छिन्न त्रि० (आसित) बैठा हुआ Seated पि० ४८०, ५६५,

अच्छोडण, न० (आच्छोदन) (१) सिंचन Sprinkling (२) आस्फालन Striking against वेणी० १०६, सुर० १३, ४१, सुपा० ५६३, (३) मृगया, शिकार Hunting, Chase दे० १, ३७,

अच्छोडिअ त्रि० (आच्छोदित) (१) सिक्त, सिंचा हुआ, Sprinkled, Watered सुर० २, २४५, (२) पटका हुआ, आस्फालित Striken against, flapped कुम० ४३३, अजड, त्रि० (अजड) (१) पक्क, विकसित Fully developed, Come to perfection गडड० (२) निपुण, चतुर Clever, proficient कुमा०

अजय पु० (अजय) पदपद छंद का एक भेद A variety of distinct part of the verse having six lines पिग०

अज्ञाय त्रि० (अज्ञान) अनजान, मूर्ख Ignorant, fool रथ० ८५,

अजिअ त्रि० (अजय्य) जो जीता न जा सके Invincible, Unconquerable सुपा० ७५,

अजिअनाह पु० (अजितनाथ) नववें रुद्र पुरुष, Name of the ninth Rudra विचार० ४७३,

अजिअवला, स्त्री० (अजितवला) भगवान् अजितनाथ की शासन देवी Name of a goddess serving Lord Ajitanatha प्रव० २७,

अजिअ स्त्री० (अजिता) भगवान् अजितनाथ की शासनदेवी Name of a goddess serving Lord Ajitanatha सति० ६,

अजियधर पु० (अजितधर) ग्यारह रुद्रों में आठवें रुद्र पुरुष The eighth Rudra out of the eleven ones विचार० ४३३,

अजिर न० (अजिर) बागान, चौक A court-yard, compound सण०

अज्जु न० (अयुत) दस हजार Ten thousand (10,000) महा०

अजुत्तिय त्रि० (अयुक्ति) युक्ति शून्य अन्याय, Without any reason or rhyme सुर० १२, ५४,

अज्ज त्रि० (अर्थ) (१) वैश्य A man of the third tribe (२) स्वामी, मालिक A master, husband दे० १, ५,

अज्ज न० (आज्य) घी, घृत Ghee, clarified butter पाठ०

अज्जत, त्रि० (आयत्) आगामी Futur, coming -काल पु० (काल) भविष्य काल Future time, future, time to come पाठ०

अज्जहिज्जो, अ० (अज्ज) आजकल Now-a-days उप० पृ० ३३४,

अज्जग पु० (अज्जक) उपार्जन करने वाला, पैदा करने वाला One who acquires, or gets सु० च० १२४,

अज्जम पु० (अयमन्) सूर्य The sun पि० २६१,

अज्जा स्त्री० (आर्या) गौरी, पार्वती An epithet of Parvati दे० १, ५,

अज्जु अ० (अद्य) आज, To-day हे० ४,

३४३, भवि० पिं०  
 अञ्जू स्त्री० (आर्या) सासू, अश्रू Mother-in-law हे० १, ७७,  
 अज्झक्ख त्रि० (अध्यक्ष) अधिष्ठाता, A president, superintendent, ruler, head, one who supervises कप्पू०  
 अज्झयण्णि त्रि० (अध्ययनित्र) पढने वाला, अभ्यासी A student, one who knows or goes over the Sastias विशेष० १४६६,  
 अज्झहिय त्रि० (अध्यधिक) अत्यत, अतिशयित Excessive, very much, too much महा०  
 अज्झाय पु० (अध्याय) ग्रन्थ का एक अश A chapter of a book विशेष० १११६,  
 अज्झारोव पु० (अध्यारोप) आरोप, उपचार. Ascribing, attributing or supposing धर्मस० ३६२, ३६३,  
 अज्झारोवण० न० (अध्यारोपण) (१) आरोपण, ऊपर चढाना Raising, elevating (२) पूछना, प्रश्न करना Questioning, inquiring विशेष० २६२८,  
 अज्झास० पु० (अध्यास) (१) ऊपर बैठना To sit upon (२) निवास स्थान Abode, residential place सु० च० २०,  
 अज्झेत्तार त्रि० (अध्येतृ) पढने वाला A student, learner विशेष० १४६६,  
 अट्ट० पु० न० (अट्ट) (१) दुकान, हाट A shop आ० १४, (२) महल के ऊपर का घर, अट्टारी A balcony कुमा०  
 अट्टणा स्त्री० (आवर्तना) आवृत्ति. Repetition, An edition प्राकृ० ३१,  
 अट्टण्ण त्रि० (आतंज) पीडित की पीडा को जानने वाला. One who knows the sufferings of the distressed पद्०  
 अट्टय० पु० (अट्टक) (१) हाट, दुकान A

shop आ० १२, (२) पात्र के छिद्र को बन्द करने में उपयुक्त द्रव्य विशेष A substance which is used in closing the hole in a vessel वृह० १,  
 अट्टिय त्रि० (अर्दित) व्याकुल, व्यग्र. Confused, Confounded ओव०  
 अट्ट पु० न० (अर्थ) (१) धन, पैसा Riches, wealth आया० (२) फल, लाभ. Fruit, advantage उक्त० १, (३) मोक्ष, मुक्ति Final emancipation उक्त० १,  
 अट्टपया स्त्री० (अष्टपदा) एक वृत्त, छन्द विशेष०  
 A particular kind of metre पिं०  
 अट्टपाहरिअ त्रि० (अष्टप्राहरिक) आठ प्रहर सबधी Relating to eight prahas (१ e 3 hours) सुर० १६, २१८,  
 अट्टाईस० त्रि० (अष्टाविंश) अठ्ठाईसवाँ. Twenty-eighth पिं०  
 अट्टाई (ई) स० स्त्री० (अष्टाविंशति) सख्या विशेष०, अठ्ठाईस Twenty-eight पिं० पि० ४४२,  
 अट्टाण० न० (अस्थान) (१) चेर्या का मुहल्ला. An abode of prostitutes वव० २, (२) त्रि० अयोग्य, गैरवाजवी Improper, unreasonnable सू० १, ७,  
 अट्टारसिय त्रि० (अष्टादशिक) अठ्ठारह वर्ष की उम्र का Eighteen years of age. वव० ४,  
 अट्टावय० पु० (अष्टापद) सुवर्ण, सोना Gold. धण० ८,  
 अट्टासीय० त्रि० (अष्टाशीत) अठ्ठासीवाँ Eighty-eighth पउम० ८८, ४४,  
 अट्टिसरक्ख पु० (अट्टिसरज्जक) कापालिक A follower of a certain Saiva sect (the left hand order) characterized by carrying skulls of men in the form of garlands

and eating and drinking from them वव० ७,

अट्टिसेय. न० (अस्थिपेय) (१) वस गोत्र की शाखारूप एक गोत्र A sect in the form of a branch of Vatsa sect (२) पु० इस गोत्र का प्रवर्तक पुरुष और उसकी सतान The founder of this sect of his children द्य० ७,

अड पु० (अवट) (१) कूप, कुआ A well पात्र० (२) कूप के पाम पशुओं के पानी पीने के लिये जो गत किया जाता है वह A pit rounded by walls on its four sides constructed near a well, for storing water therein with a view that cattles can drink water from it हे० १, २७१, अडिल्ला स्त्री० (अडिल्ला) छन्द विशेष Name of a metrie विंग०

अडोलिया स्त्री० (अडोलिका) (१) एक राज पुत्री Name of a royal princess (२) मूषिका, चूरी A she-mouse बृह० १, अडुय न० (अडुन) (१) चर्म, चमड़ा Hide, leather, skin (२) ढाल, फलक. A shield सुर० २, ५,

अडिया, स्त्री० (अडिका) मत्तलों की क्रिया विशेष A sort of play tricks practised by wrestlers विशेष० ३३५७,

अडुत्त त्रि० (आरब्ध) प्रारब्ध, शुरु किया हुआ Begun, commenced से० १३, ६,

अडुद्दु त्रि० (अर्धचतुर्थ) साढे तीन. Three and a half वि० ४५०,

अण पु० (अनस्) शकट, गाडी A car, cart धर्म० २, पु० (अण) (१) शब्द, आवाज A sound, Voice (२) गमन, गति Movement, Motion विशेष०

३४४०, (३) त्रि० कुत्सित, सराय. Bad, evil विशेष० २७६७,

अणईइ. त्रि० (अनीति) ईति रहित, गलभादिकृत उपद्रव से रहित Free from calamities or harm from locusts etc श्रोव०

अणग पु० (अनङ्ग) (१) कामदेव The God of Love गा० २३३, गडड, कप्यु० (२) एक राजकुमार, जो आनन्दपुर के राजा जितारी का पुत्र था Name of a prince who was one of the sons of Jitara, the king of Anandapur गच्छ० २, (३) त्रि० शरीर रहित, अगहीन, मृत Bodiless, dead गडड० सत्त० ४८, -धरिणी. स्त्री० (गृहिणी) रति, कामदेव की पत्नी Rati, the wife of the God of Love सुपा० ६६७, -वाण पु० (वाण) काम के वाण An arrow of the God of Love गा० ७४८, -सर. पु० (सर) काम के वाण A love-shaft गा० १०००,

अणगलवण पु० (अनङ्गलवन) रामचन्द्रजी का एक पुत्र, लव Lava, one of the two sons of Shree Ramchandrajee पउम० ६७, ६,

अणत पु० (अनन्त) (१) विष्णु, कृष्ण Vishnu, Krishna पउम० २, ११२, (२) शेष नाग Name of a celebrated serpent, said to have one thousand heads, and represented as forming the couch of Vishnu or supporting the entire world on his head से० ६, ८६,

अणतई. पु० (अनन्तजिद) चालु काल के चौदहवें जिन देव The fourteenth Tinthankara Bhagwan of the present

twenty four पदम० ५, १४८,  
 अणतरह, पु० ( अनन्तरथ ) राजा दशरथ के  
 बड़े भाई का नाम Elder brother of  
 king Dasaratha पदम० २२, १०१,  
 अणतरहिय, त्रि० ( अनन्तरहित ) अव्यवहित,  
 व्यवधान रहित, Immediate, Direct  
 आया०  
 अणस, त्रि० ( अनश ) अखण्ड whole,  
 unbroken, complete धर्मस० ७०६,  
 अणगार, त्रि० ( ऋणकार ) (१) करजा करने  
 वाला, One who incurs debt (२)  
 दुष्ट शिष्य, अपात्र A wicked student  
 one who is not a deserving  
 fellow उक्त० १,  
 अणगाल, पु० ( अकाल ) दुर्भिक्ष, अकाल  
 Death, famine बृह० ३,  
 अणगिण पु० ( अनग्न ) (१) जो नगा न हो,  
 वस्त्रों से आच्छादित Not naked, clo-  
 thed (२) कल्पवृक्ष की एक जाति जो वस्त्र  
 देती है Name of a desire-yielding  
 tree which gives clothes तदु०  
 अणगघ त्रि० ( ऋणघ्न ) ऋण नाशक, कर्ज  
 नाशक A destroyer of debts, on  
 who payes a debt दस०  
 अणघ त्रि० ( अनघ ) शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ  
 Pure, clear पचव० ४,  
 अणज्जाय पु० ( अनध्याय ) (१) अध्ययन का  
 अभाव Absence of study (२) जिसमें  
 अध्ययन निषिद्ध है वह काल The time  
 which is prohibited for study  
 नाट०  
 अणरण त्रि० ( अनन्य ) असाधारण, अद्वितीय  
 Extraordinary, Unparalleled  
 सुपा० १८६, सुर० १, ७, —तुल्ल त्रि०  
 ( तुल्य ) असाधारण, अनुपम Extraordi-  
 nary, Incomparable उप० ६४८

टी, —समाण त्रि० ( समान ) असाधारण,  
 अद्वितीय Matchless, Peerless उप०  
 ५६७ टी,  
 अणत्त त्रि० ( अनार्त्त ) अपीडित Not  
 afflicted or pained “दन्वावहमाईसु”  
 अत्तमणत्ते गवेसण कुणह” वव० १,  
 अणथत व० कृ० ( अतिष्ठत् ) (१) नहीं रहता  
 हुआ Not staying (२) अस्त होता  
 हुआ Setting पदम० १४, १३४,  
 अणप्य त्रि० ( अनल्प ) अधिक, बहुत Very  
 much, more ओव०  
 अणप्य, पु० ( अनात्मन् ) নিজसे भिन्न, आत्मा  
 से पर Beyond the soul, not  
 belonging the soul पदम० ३७, २२,  
 —वसग त्रि० ( वशक ) परवश, पराधीन,  
 dependent पदम० ३७, २२,  
 अणपपज्ज, पु० ( अनात्मज्ञ ) ( १ ) निर्बोध,  
 मूर्ख Ignorant, foolish. (२) पागल,  
 भूताविष्ट, पराधीन Mad, possessed by  
 a spirit, dependent निसी० चू० १,  
 अणभतर त्रि० ( अनभ्यन्तर ) भीतरी तत्व  
 को नहीं जानने वाला, रहस्य अनभिज्ञ One  
 who does not know the internal  
 secret अभि० ६१,  
 अणभिग्गह, न० ( अनभिग्रह ) ‘सर्वे देवा वन्द्या’  
 इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद, A sort  
 of false belief that all the gods  
 deserve salutation and honour  
 etc आ० ६,  
 अणमिस, त्रि० ( अनिमिप ) (१) विकसित,  
 खुला हुआ Blown, opened, Expan-  
 ded सुर० ३, १४३, (२) निमेष रहित,  
 पलक वर्जित Without a twinkling  
 of an eye सुपा० ३५४,  
 अणय पु० ( अनय ) अनीति, अन्याय  
 Immorality, injustice आ० २७,

स० २०१,

अणुरण पु० (अनुरण्य) साकेतपुर का एक राजा, जो पीछे से ऋषि हुआ था. Name of a king of Saketpur who after wards became a sage प० १०, ८७, अणुराय त्रि० (अराजक) राज-शून्य, जिसमें राजा न हो वह Having no king, Anarchical बृह० १,

अणुवच्च त्रि० (अनपत्य) सन्तान रहित, निर्वाश, Childless, Henless सु० च० २२६, अणुवद्विष्य त्रि० (अनवस्थित) पत्य विशेष, नाप विशेष A time-measurement A sort of standard by which time is measured or reckoned क० ग० ४, ७३,

अणुवत्थ त्रि० (अनवस्थ) अन्यवस्थित, अनियमित, असमस्त Irregular, not in order दे० १, १३६,

अणुवद् त्रि० (अनवद्य) निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध Innocent, not guilty, pure, holy, not sinful प्रा० २१,

अणुवयमाण व० कृ० (अनपवद्) (१) अपवाद नहीं करता हुआ One who does not make any exception, one who does not do anything reverse or contrary to its nature (२) सत्यवादी. One who has taken a vow to speak the truth forever व० ३, अणुवसर त्रि० (अनवसर) आकस्मिक, अचिन्तित. Occured accidentally, Unexpected, Sudden पा० ३

अणुह. न० (अनभस्) भूमि, पृथ्वी. Earth से० ६, ३,

अणुहा. स्त्री० (अधुना) इस समय Now, In this time प्रा० ८०,

अणुहिअत्र त्रि० (अहृदय) हृदय-रहित, निष्ठुर,

निर्दय. Cruel, heartless प्रा०, गा० ४१, अणुहियास. त्रि० (अनध्यासक) असहिष्णु, सहन नहीं करने वाला. One who does not bear or endure उ०

अणुइम (व) त. त्रि० (अनादिमत्) अनादि काल से प्रवृत्त Having no beginning, Existing from eternity प० ११८, ३२, भवि०

अणुइय त्रि० (अनादत्त) जिसका आदर न किया गया हो वह Dishonoured, unwelcomed उ० ८३३ टी,

अणुजीव त्रि० (अनाजीव) (१) आजीविका रहित Without means of livelihood or maintenance (२) निस्पृह, निरीह Free from desire दस० ३,

अणुभिग्गह. न० (अनभिग्रह) मिथ्यात्व का एक भेद. A kind of false belief प० ४, २,

अणुय त्रि० (अज्ञात) नहीं जाना हुआ, अपरिचित. Unfamiliar, Unacquainted प० २४, १७,

अणुय पु० (अनाक) मर्त्यलोक, मनुष्य लोक. World of mortals से० १, १,

अणुयग. त्रि० (अज्ञातक) स्वजन रहित, अकेला One having no family members or relations निसी० चू० ६,

अणुयग त्रि० (अज्ञायक) अज्ञान, निर्बोध Ignorant निसी० चू० ११,

अणुयत्त त्रि० (अनायत्त) पराधीन Dependent प० २६, २६,

अणुयसि त्रि० (अनार्य) जो ऋषि प्रणीत न हो वह Not belonging to the Rishi, not Vedic प० ११, ८०,

अणुयसि त्रि० (अन्याद्यश्) दूसरे के जैसा Like others नाट०

अणुविश्व त्रि० (आनायित) मगवाया हुआ

Sent for सिरि० ६६, ७१८,  
 अथावि ( बु ) द्वि स्त्री० ( अवृष्टि ) वर्षा का  
 अभाव Want of rain, drought,  
 famine पउम० २०, ८७, सम० ६०,  
 अथाससि त्रि० (अनाशसिन्) अनिच्छु, निस्पृह  
 Free from desire वृह० १,  
 अथाहि-अथाहिय त्रि० (अनाधि-क) मानसिक  
 पीडा से रहित Free from mental  
 pain. से० ३, ४४, पि० ३६२,  
 अणुउचिय. त्रि० (अनिकुञ्चित) टेढ़ा नहीं किया  
 हुआ, सरल Straight, Not-crooked  
 गउड०  
 अणिक त्रि० (अनेक) एक से ज्यादा More  
 than one, many नव० ४३,  
 अणिक्रिणी स्त्री० (अनीकिनी) ऐसी सेना जिस  
 में २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६२६१ घोड़े  
 और १०६३२ प्यादे हैं An army which  
 consists of 2187 elephants, 2187  
 charioteers, 6561 horses and  
 10935 foot soldiers पउम० २६, ६,  
 अणिट्रिय त्रि० (अनिष्ठित) असंपूर्ण In-  
 complete, not full गउड०  
 अणिमा पु० स्त्री० (अणिमन्) आठ सिद्धियों  
 में एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा बन जाने की शक्ति  
 One of the eight accomplish-  
 ments, or perfections, a science  
 by which one can assume a  
 very small form पउम० ७, १३६,  
 अणिय. त्रि० (अनित्य) अस्थिर, अनित्य Un-  
 steady, transitory उव०  
 अणिरिण त्रि० (अनृण) अण-करज रहित  
 Having no debt, free from debt  
 अभि० ४६, चारु० ६६,  
 अणिल पु० (अनिल) राजस वंशीय एक राजा.  
 Name of a king in the lineage  
 of Demons पउम० २, २६४,

अणिसीह. त्रि० (अनिशीथ) शास्त्र विशेष जो  
 प्रकाश में पढा या पढाया जाय Name of  
 a scripture which can be public-  
 ly studied, known and taught  
 आवम०  
 अणिस्सकड. त्रि० (अनिश्रीकृत) जिस पर  
 किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो, सर्व-  
 साधारण Very ordinary, very  
 common धर्म० २,  
 अणिहस त्रि० (अनीहस) इस माफिक नहीं,  
 विलक्षण Different, extraordinary,  
 unusual, strange स० ३०७,  
 अणीस त्रि० (अनीश) असमर्थ. Not  
 powerful, weak, powerless अभि०  
 ६०,  
 अणु अ० (अनु) (१) समीप, नजदीक Fac-  
 ing, near 'अणुकुडल' गउड० (२) लघु,  
 छोटा Small, little 'अणुगाम०' उक्त०  
 (३) क्रम, परिपाटी, Order 'अणुगुरु' वृह० १,  
 (४) में, भीतर Inside, in, within  
 'अणुजल' महा० (५) प्रतिनिधि Repre-  
 sentative, agent 'अणुप्यसु' निसी० चू०  
 २, (६) बहुत, अत्यत Much, very  
 much, too much 'अणुवक' मा० ६२,  
 अणुअ त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, मूर्ख Foolish,  
 ignorant गा० १८४, ३४२,  
 अणुअ त्रि० (अनुज) पीछे से उत्पन्न, छोटा  
 भाई या छोटी बहिन. Born after, after  
 born, younger brother or sister  
 अभि० ८२, पउम० २८, १००,  
 अणुअपा स्त्री० (अनुकम्पा) दया; करुणा  
 Mercy, kindness, compassion,  
 pity से० २, २४, गा० १६३,  
 अणुअपि. त्रि० (अनुकम्पिन्) दयालु, करुणा  
 करने वाला Kind, pitiful, merciful,  
 compassionate अभि० १०३,



follows महा० धर्म० ५, स० ६३०,  
 अणुगिइ स्त्री० (अनुकृति) अनुकरण, नकल  
 A copy, imitation आ० १,  
 अणुगिद्धि स्त्री० (अनुगृद्धि) अत्यासक्ति  
 Over attachment, devotion or  
 fondness उक्त० ३,  
 अणुगीय न० (अनुगीत) गाना, गीत A  
 song पदम० ३३, १४८,  
 अणुगुण त्रि० (अनुगुण) (१) अनुकूल,  
 उचित, योग्य Agreeable, proper, fit,  
 suitable नाट० (२) तुल्य, सदृश गुणवाला  
 Having similar merits, possess-  
 ing equal merits गडड०  
 अणुगूल त्रि० (अनुकूल) अनुकूल Agree-  
 able, suitable स० ३७८,  
 अणुगोष्म त्रि० (अनुग्राह्य) अनुग्रह के योग्य,  
 कृपा पात्र Fit to be favoured or  
 obliged प्राव०  
 अणुगृह पु० (अनवग्रह) जैन साधुओं को  
 रहने के लिये शास्त्र निषिद्ध स्थान A place  
 or abode prohibited by sastras  
 (scriptures) for the Jain saints  
 to reside in वृह० ३,  
 अणुगृहीत त्रि० (अनुगृहीत) जिस पर कृपा की गई हो वह,  
 आभारी Favoured, obliged, thank-  
 ful महा० सुपा० १६२, स० ६७,  
 अणुचय पु० (अनुचय) फैलाकर इकट्ठा करना  
 To collect together after spread-  
 ing, first to spread and then to  
 gather together उप० पृ० १५,  
 अणुचर त्रि० (अनुचर) सहचर, सेवक, नौकर.  
 An attendant, a waiter, a ser-  
 vant उक्त० २८,  
 अणुचिंतण न० (अनुचिन्तन) सोंच-विचार,  
 पर्यालोचन Constant thinking,

Meditation, आव० ४,  
 अणुचिंता स्त्री० (अनुचिन्ता) देखो अणुचिंतण  
 शब्द Vide 'अणुचिंतण' आव० ४,  
 अणुच्छहंत त्रि० (अनुत्सहमान) उत्साह नहीं  
 रखता हुआ One having no energy  
 or zeal पदम० १८, १८,  
 अणुच्छित्त त्रि० (अनुत्थित) नहीं छोड़ा हुआ,  
 अत्यक्त Not given up, unabandon-  
 ed गडड० २३८,  
 अणुच्छित्त त्रि० (अनुत्थित) (१) गर्व रहित,  
 विनीत Polite, prideless, modest.  
 (२) स्फीत, समृद्ध abundant, full of,  
 plentiful (३) सबसे उच्चत, सर्वोच्च  
 Highest, noblest. गडड०  
 अणुच्छूड त्रि० (अनुत्थित) अत्यक्त, नहीं छोड़ा  
 हुआ. Not given up, unabandoned  
 गा० ५२६,  
 अणुज पु० (अनुज) छोटा भाई A younger  
 brother स० ३८८,  
 अणुजाइ स्त्री० (अनुयाति) अनुसरण Fol-  
 lowing, an act of following  
 धर्मवि० ४६,  
 अणुजाइ त्रि० (अनुयायिन्) अनुसरण करने  
 वाला. One who follows or goes  
 behind सुपा० ४०५,  
 अणुजाण न० (अनुयाण) (१) पीछे चलना  
 Going behind pace after pace  
 (२) महोत्सव विशेष, रथयात्रा Name of  
 a festival, the solemn procession  
 of an idol placed in a car (usu-  
 ally drawn by men) वृह० १,  
 अणुजाणण न० (अनुज्ञान) अनुमति, सम्मति  
 Consent, assent, approval. स्व०  
 १, ६,  
 अणुजाणिय त्रि० (अनुज्ञात) सम्मत, अनुमत्.  
 Agreed to, assented to, approved,

permitted, allowed सुपा० ५८८,  
 अणुजाय. त्रि० (अनुयात) अनुगत, अनुसृत  
 followed उप० १३७ टी,  
 अणुजीवि त्रि० (अनुजीविन्) आश्रित, नौकर,  
 सेवक A dependent, servant, fol-  
 lower सुपा० २३७, पात्र० स० २४३,  
 —तण न० (त्व) आश्रय, नौकरी De-  
 pendence, service पि० ५६७,  
 अणुज्ज त्रि० (अनुद्य) उद्देश्य, लक्ष्य To be  
 intended or aimed at धर्म० १,  
 अणुज्ज त्रि० (अनुर्जस्) उत्साह रहित, अनु-  
 साही, हताश One without perseve-  
 rance, energy or inclination, one  
 who has given up all hopes,  
 hopeless कण्ठ०  
 अणुज्ज. त्रि० (अनोज्ज) तेज रहित, फीका.  
 Lustreless, pale “अणुज्ज दीश्वयया  
 निहरइ” कण्ठ०  
 अणुज्जा स्त्री० (अनुजा) अनुमति, सम्मति  
 Consent, assent, approval, poi-  
 mission पदम० ३८, २४,  
 अणुज्जिय त्रि० (अनुर्जित) बल रहित, निर्बल  
 Powerless having no ability or  
 capacity बृह० ३,  
 अणुज्जभाण. न० (अनुध्यान) चिन्तन, विचार  
 Thinking आवम०  
 अणुज्जिस्त्रि त्रि० (अनुज्जिन्) क्षीण होने  
 वाला One which is destined to  
 perish, perishable, destructible,  
 transitory, momentary बला०  
 अणुद्व त्रि० (अनुद्य) नहीं उठा हुआ, स्थित  
 Not stood up, scated, steady  
 श्लो० ७०,  
 अणुद्वि त्रि० (अनुद्ययिन्) अनुष्ठान करने  
 वाला One who performs, or  
 executes आया०

अणुद्वार त्रि० (अनुस्थान) क्रिया का अभाव  
 Absence of exertion उवा०  
 अणुद्वारण न० (अनुष्ठान) अनुष्ठान कराना  
 Causing to do an act कर०  
 अणुद्विय त्रि० (अनुद्वित) विधि से संपादित,  
 विहित, किया हुआ Performed or exe-  
 cuted according to the cere-  
 monies or rites पह० सुर० ४, १६६,  
 अणुद्विभ न० (अनुद्विप्) एक प्रसिद्ध छंद  
 A well known metre सुपा० ६५६,  
 अणुद्वय पु० (अनुनय) विनय, प्रार्थना An  
 humble supplication or entreaty,  
 A request in general महाश्रमि० ११६,  
 अणुद्वय, त्रि० (अनुज्ञात) अनुमत, अनुमोदित  
 Consented, approved, seconded  
 or supported पच्०  
 अणुद्वय पु० (अनुनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द,  
 Reverberation, echo विशेष० ३४०४,  
 अणुद्वयी त्रि० (अनुनीत) जिसका अनुनय  
 किया गया हो वह One who is request-  
 ed solicited, propitiated दे० ८, ४८,  
 अणुद्व. त्रि० (अनुद्वय) ठंडा, गरम नहीं वह  
 Cool, cold. पि० ३१२,  
 अणुद्विपि त्रि० (अनुतापिन्) पश्चात्ताप करनेवाला  
 One who repents, or regrets  
 वव० १,  
 अणुद्विप्य त्रि० (अनुद्विप्य) परिपूर्ण शरीर,  
 पूर्ण शरीर वाला Having complete  
 body, full-bodied “होइ अणुद्विप्यो  
 सो अविगलइदियपडिपुण्यो” वव० २,  
 अणुद्वि त्रि० (अनुद्वि) छोटा Small,  
 little, Principal, chief ‘अणुद्विरो  
 भाया’ पदम० ६, ४,  
 अणुद्विहाह त्रि० (अनुत्साह) हतोत्साह, निराश  
 One who has lost patience, perse-  
 verance, energy or hopes कुमा०

अणुदत्त. पु० (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने वाला स्वर Grace (accent), not elevated or raised (not pronounced with the Udatta accent), वृह० १, अणुदिण न० (अनुदिन) प्रतिदिन, हमेशा Daily, always कुमा०

अणुद्ध त्रि० (अनूर्ध्व) ऊचा नहीं, नीचा Small, not tall कुमा०

अणुद्धय त्रि० (अनुद्धत) सरल, भद्र, विनयी Humble, Modest, Simple उप० ७६८ टी,

अणुधम्म. पु० (अणुधर्म) गृहस्थ धर्म Duties of a gentleman, gentlemanliness विशे०

अणुधम्मिय. त्रि० (अनुधार्मिक) धर्म के अनुकूल, धर्मोचित Agreeable to religion or duty "एयं सु अणुधम्मिय तम्म" आया०

अणुधाविर त्रि० (अनुधावितृ) पीछे दौड़ने वाला One who runs behind An after runner उप० ७२८ टी,

अणुनाइ. त्रि० (अनुनादिन्) प्रतिध्वनि करने वाला One who reverberates echoes of sounds कप्प०

अणुनाय त्रि० (अनुज्ञात) अनुमत, जिसको अनुमति दी गई हो वह Consented, permitted, assented, approved सुपा० ४७७,

अणुपन्न त्रि० (अनुपन्न) प्राप्त Obtained, acquired, got कुम० ४०१,

अणुपयाण न० (अनुप्रदान) दान का बदला, प्रतिग्रहण. A donation in return of a gift सत्रोध० ३४,

अणुपरिवाडि-डी स्त्री० (अनुपरिपाटि-टी) अनुक्रम. Order, succession से० १२, ६६, पडम० २०, ११, ३२, १६,

अणुपवेस पु० (अनुप्रवेश) प्रवेश, भीतर जाना Entrance, going in निशी० चू० ७, अणुपुख न० (अनुपुङ्ग) मूल तक, अन्त पर्यन्त. Upto the end of last कुम० ३३,

केणुपेक्खा स्त्री० (अनुपेक्षा) भावना, चिंतन, विचार. Meditation, recollection, Thinking पडम० १४, ७७,

अणुप्पदाण न० (अनुप्रदान) फिर फिर दान देना Donating over and over again आव० ६,

अणुप्पभु पु० (अनुप्रभु) प्रतिनिधि, स्वामी के स्थानापन्न, A representative, an agent निसी० चू० २,

अणुप्पवित्ति. स्त्री० (अनुप्रवृत्ति) अनुप्रवेश, अनुगम Following, going after विशे० २१६०,

अणुप्पाइ त्रि० (अनुपातिन्) युक्त, सबद्ध, सबन्धी Relating, connected to, joined with निसी० चू० १,

अणुफुसिय. त्रि० (अनुप्रोच्छित) पोंछा हुआ, साफ किया हुआ Cleansed, Cleared से० ३४४,

अणुवध. पु० (अनुबन्ध) (१) सबन्ध Connection, continuity से० १३८, गडड०

(२) कर्मों का सबन्ध Connection due to actions done in a previous existence पचा० १२, (३) कर्मों का

विपाक, परिणाम A result of actions done in the previous birth उवर०

४, पचा० १८, (४) स्नेह, प्रेम. Affection, love से० २०६, सुर० ४, २०, (५) निर्नन्ध,

आग्रह Insisting upon, Persistence से० ४२८,

अणुवधेज्ञ त्रि० (अनुबन्धिन्) विच्छेद रहित, अनुगम वाला, अविनश्वर Eternal, ever-

lasting उप० २३३,

अणुवद्. त्रि० (अनुवद्) उत्पन्न Produced उत्तर० १२,

अणुव्यभूय. त्रि० (अनुवद्भूत) अग्रगट, अनुत्पन्न Unproduced, not issued out नाट०

अणुभव पु० (अनुभव) (१) कर्म-फल का भोग Result of consequence of actions done in the previous existence विशेष० (२) जान, बोध, निश्चय Understanding, experience, perception of knowledge पचा०

अणुभवया न० (अनुभवन) देखो 'अणुभव' शब्द. Vide 'अणुभव' श्राव० ४, विशेष० २०६०,

अणुभवि. त्रि० (अनुभविन्) अनुभव करने वाला One who experiences विशेष० १६५८,

अणुभव्य त्रि० (अनुभव्य) आसन्न भव्य One who is to get final emancipation in the near future सबोध० १४,

अणुभाव. पु० (अनुभाव) (१) मनोगत भाव की सूचक चेष्टा, जैसे भौं का चढाना वगैरह Gestures showing externally manifestations of indication of feelings नाट० (२) कृपा, महरवानी Favour, mercy स० ३१५,

अणुभावगा त्रि० (अनुभावक) बोधक, सूचक. Indicative, suggestive श्रावम०

अणुभासण न० (अनुभाषण) अनुवाद, युक्त बात का कहना Repetition, saying the same thing again नाट०

अणुमय त्रि० (अनुमत) उत्तम कुल वाला, श्रेष्ठ वंश वाला. One having a noble or excellent lineage कण्ठ०

अणुमेअ त्रि० (अनुमेय) अनुमान के योग्य Inferable, fit to be inferred

मै० ७३,

अणुमोयग त्रि० (अनुमोदक) अनुमोदन करने वाला One who seconds or supports विशेष०

अणुमुह. त्रि० (अनुमुस्र) विमुख, असमुस्र With the face averted or turned away from, Averse, opposed महा० अणुय पु० (अणुक) धान्य विणोप० A kind of coin प्रव० १५६,

अणुयत्तिय त्रि० (अनुवृत्त) अनुकूल किया हुआ, प्रसादित. Made agreeable, suitable, favoured सुपा० १३०,

अणुरगिय त्रि० (अनुरङ्गित) रंगा हुआ. Coloured भवि०

अणुरजण न० (अनुरङ्गन) राग, आसक्ति Attachment, love, devotion, affection विशेष० २१७७,

अणुरक्त त्रि० (अनुरक्त) अनुराग-प्राप्त, प्रेम-प्राप्त Beloved, Inspired with love. नाट०

अणुरा-अणुराइल त्रि० (अनुरागिन्) अनुराग वाला, प्रेमी Inspired with love स० ३३०, महा० सुर० १३, १२०,

अणुरोह. पु० (अनुरोध) (१) प्रार्थना Entreaty, solicitation, request महा० (२) दक्षिण्य, दक्षिण्यता. Proficiency, expertness, cleverness पात्र०

अणुरोहि त्रि० (अनुरोधिन्) अनुरोध करने वाला Compliant स० १२१,

अणुलड त्रि० (अणुलब्ध) (१) पीछे से मिला हुआ Obtained afterwards (२) फिर से मिला हुआ Acquired or obtained again नाट०

अणुलेविय. त्रि० (अनुलेपित) लिप्त, पोता हुआ Anointed with, besmeared with, rubbed with पउम० ८२, ७८,

अणुलक्षण त्रि० (अनुत्पण) अनुद्धत, अनुद्धत  
 Not obstinate, Mild बृह० ३,  
 अणुवक्र, त्रि० (अनुवक्र) अत्यंत वक्र, बहुत  
 टेढ़ा Much crooked माल० ६२,  
 अणुवक्र त्रि० (अनुपाख्य) नाम रहित,  
 अनिर्वचनीय Nameless, indescrib-  
 able, inexpressible बृह० १,  
 अणुवच्चिञ्ज त्रि० (अनुव्रजित) अनुसृत  
 Followed कुमा०  
 अणुवजीवि, त्रि० (अनुपजीविन्) (१) अनाश्रित  
 Independent (२) आजीविका रहित  
 Devoid of means for livelihood  
 or maintenance पचा० १५,  
 अणुवजुत्त त्रि० (अनुपयुक्त) असावधान, ख्याल  
 शून्य Unattentive अमि० १३१,  
 अणुवत्तग, त्रि० (अनुवर्तक) अनुकूल प्रवृत्ति  
 करने वाला, सेवा करने वाला One who  
 does or acts agreeably, an attend-  
 ant, a servant उव०  
 अणुवत्तण न० (अनुवर्तन) (१) अनुसरण  
 Following, going after स० २३६,  
 (२) अनुकूल प्रवृत्ति, Agreeable ac-  
 tions or acts गा० २६५, (३) पूर्व सूत्र के  
 पद का अन्वय के लिए नीचे के सूत्र में जाना,  
 Supplying from a preceding  
 Sūtra विश्व० ३५६८,  
 अणुवलद्वि श्चि० (अनुपलद्वि) (१) अभाव,  
 अभासि Non-existence, non-percep-  
 tion (२) अभाव-ज्ञान Non-recogni-  
 tion, knowledge of non-existence  
 'दुविहा अणुवलदीव' विश्व० १६८२,  
 अणुवलभमाण, त्रि० (अनुपलभ्यमान) जो  
 उपलब्ध न होता हो, जो जानने में न आता हो  
 That which can not be known  
 दल० नि० १,  
 अणुवत्सम, पु० (अनुपदाम) उपशम का अभाव

Non-control or restraint of the  
 senses उव०  
 अणुवाद् त्रि० (अनुवादिन्) अनुवाद करने  
 वाला, उक्त अर्थ को कहने वाला One who  
 repeats सत्त० १४ टी,  
 अणुवाद् त्रि० (अनुवाचिन्) पढ़ने वाला,  
 अभ्यासी A pupil, student, learner,  
 reader सत्त० १४ टी,  
 अणुवापञ्ज, त्रि० (अनुपादेय) ग्रहण करने के  
 अयोग्य Unfit of acceptance आवम०  
 अणुवाय त्रि० (अनुपाय) उपाय रहित, निरुपाय  
 Having no remedy उप० पृ० १४,  
 अणुवाय, पु० (अनुवाद) अनुभाषण, उक्त  
 बात को फिर से कहना Repetition दे०  
 १, १३१,  
 अणुवायण न० (अनुपातन) अवतारण, उता-  
 रना Causing to descend धर्म० २,  
 अणुवायय, त्रि० (अनुवाचक) कहने वाला,  
 अभिधायक One who recites or  
 reads सुपा० ६१६,  
 अणुवालण, न० (अनुपालन) रक्षण, परिपालन  
 Protection आया०  
 अणुवास पु० (अनुवास) एक स्थान में अमुक  
 काल तक रह कर फिर वहा ही वास करना,  
 Dwelling or residing in one and  
 the same place over again पचना०  
 अणुवचित्ति, श्चि० (अनुवृत्ति) (१) अनुकूल  
 वर्तन Acting according or suit-  
 ably to, pleasing, obedience कुमा०  
 (२) अनुसरण Following उप० ८३३टी,  
 अणुविद्ध त्रि० (अनुविद्ध) मयद्ध, जुडा हुआ  
 Joined or united with, connected  
 with मे० ११, १५,  
 अणुविहाय, न० (अनुविमान) अनुकरण, अनु-  
 सरण Following, imitation निगे०  
 २००,

अणुवेद्यण न० (अनुवेदन) फल भोग, अनुभव  
 Enjoyment of consequences, experience स० ४०३,  
 अणुवेत्त अ० (अनुवेत्त) निरन्तर, सदा Con-  
 constantly, always पात्र०  
 अणुसग. पु० (अनुपद्म) ससर्ग, सौवत Association, connection सट्टि० २८, २७,  
 अणुसधण-अणुसधाण न० (अनुसधान) (१) खोज, शोध Investigation (२) विचार, चिन्तन. Thinking, meditation आ० २०, (३) पूर्वापर का मिलान Union of the former and the latter पचा० १२,  
 अणुसद्वृ त्रि० (अनुशिष्ट) जिसको शिक्षा दी गई हो वह, शिक्षित One who is punished सुर० ११, २६,  
 अणुसरण न० (अनुसरण) अनुसरण The act of following विशेष० ६१३,  
 अणुसरिच्छ-स त्रि० (अनुसदृश) (१) समान, तुल्य Similar, equal to, congruent पउम० ६४, ७०, (२) योग्य, लायक Fit, proper से० ११, ११४, पउम० ८२, २६,  
 अणुसिखिर त्रि० (अनुशिक्षित) सीखने वाला One who learns or studies गा० ३७८,  
 अणुसिख त्रि० (अनुष्ण) गरम नहीं वह, ठण्डा Cool, cold, Chilly, not hot क० ग० १, ४६,  
 अणुसूयग. त्रि० (अनुसूचक) जासूस की एक श्रेणी A variety of spies "सूयग तहाणुसूयग-पडिसूयग-सन्वसूयग एव" वव० १,  
 अणुहरिय त्रि० (अनुहृत) जिसका अनुकरण किया गया हो वह, अनुकृत That which has been imitated or copied महा०  
 अणुहवण न० (अनुभवन) अनुभव, Experience, realisation स० २८७,  
 अणुहारि. त्रि० (अनुहारिन्) अनुकरण करने वाला, नकालची One who imitates

or copies कुमा०

अणूय-घ. पु० (अनूप) अधिक जल वाला देश, जल-बहुल स्थान A watery place  
 or country विशेष० १७०३, वव० ४,  
 अणूगसो ग्र० (अनेकशस्) अनेक बार, Frequently, often and often, often times आ० १४,  
 अणूच्छत त्रि० (अनिच्छत्) नहीं चाहता हुआ Not loving, not wishing उप० ७६८ टी,  
 अणूज्ज त्रि० (अज्ञेय) जानने को अयोग्य, जानने को अशक्य Not fit for knowing, impossible of being known महा०  
 अणूसण न० (अन्वेषण) खोज, तलास Investigation, discovery, inquiry महा०  
 अणूज्जगी स्त्री० (अनवद्याङ्गी) भगवान् महावीर की पुत्री का नाम Name of the daughter of Bhagwan Mahavira  
 Prabhū आया० च०  
 अणूवात्र त्रि० (अनवनत) नहीं नमा हुआ Unbent से० १, १,  
 अणूवमिअ, त्रि० (अनुद्धान) अशुष्क, गीला Not Dry, wet कुमा०  
 अणूज्ज त्रि० (अनर्द्र) (१) शुष्क, सूखा हुआ Not wet, dry. गा० २४१,—मणु  
 त्रि० (मनस्क) अकरुण, निष्ठुर, निर्दय. Pitiless, merciless, cruel, hard hearted, heartless काप्र० ८६,  
 अणूवमिय त्रि० (अनुपमित) उपमा रहित, अद्वितीय Incomparable, matchless, peerless पउम० २, ६३,  
 अणूहीया, त्रि० (अनवहीन) हीनता रहित, Having no defect or deficiency. पि० १२०,

अरण्यराण त्रि० (अन्योन्य ) परस्पर, आपस में Mutual पद०

अरण्यराण, त्रि० (अन्यान्य ) और और, अलग अलग Reciprocal गउड०

अरण्यराण, अ० (अन्यत्र) दूसरे में, भिन्न स्थान में Elsewhere, in another place गा० ६२२,

अरण्यराणी० (आज्ञा) आज्ञा, आदेश Command, order गा० २३, अभि० ६३, सुद्रा० १७,

अरण्यराणिरुच्छु त्रि० (अन्यादृश) दूसरे के जैसा Like another प्रामा०

अरण्यराणिस त्रि० (अन्यादृश) दूसरे के जैसा. Like another, of another kind पि० २४२,

अरण्य त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, निर्बोध, मूर्ख Foolish, ignorant, who knows nothing पद० गा० १८४,

अरण्येसिय त्रि० (अन्वेपित) जिसकी तहकीकात की गई हो वह That which has been searched for, invented, discovered or inquired into महा०

अतक्रिय त्रि० (अतर्कित) (१) धीकर नहीं देखा हुआ, अपरिलक्षित, That which is not well perceived or conceived वव०

८, (२) अचिन्तित, आकस्मिक Accidental, happened accidentally. महा०

अतड त्रि० (अतट) छोटा किनारा A small breach or shore वृह० १,

अतएहाअ, त्रि० (अतृप्याक) तृप्या रहित, नि स्पृह One who is devoid of desires अचु० ६४,

अतत्त. न० (अतत्त्व) असत्य, झूठ, गंर वाजवी False, Untruth, उप० ७०८,

अतत्थ त्रि० (अतथ्य) असत्य, कृत्र Untrue, False आया०

अतव. पु० (अस्तव) अप्रशसा, निन्दा Censure कुमा०

अतह. त्रि० (अतथा) उस माफिक नहीं. Not like that, unlike गउड०

अतिगाढ त्रि० (अतिगाढ) (१) अति निविड Very thick or dense (२) कि० वि०

अत्यन्त, बहुत Excessive, surpassingly, very much पउम० ८, ११३,

अतुलिय त्रि० (अतुलित) असाधारण, अद्वितीय. Uncommon, extraordinary, peerless, matchless unparalleled भवि०

अत्त अ० (अत्र) यहा, इस स्थान में Here, in this place नाह० —भव, त्रि०

(भवत्) पूज्य, माननीय An honourific, epithet meaning 'worthy' 'rever-

ed' 'honourable' 'your or his honou' and refering to a person

that is present or near the speaker अभि० ६१, पि० २६३,

अत्तव त्रि० (अत्तव्य) खाने लायक भव्य. Eatable, Fit for food नाट०

अत्ति पु० (अत्रि) इत्य नाम का पुरु ऋषि. Name of a sage गउड०

अत्ति स्त्री० (अर्ति) पीड़ा, दुःख Affliction, pain, trouble, calamity कुमा०

सुपा० १८२, —हर, त्रि० (हर) दुःख का नाश करनेवाला Pain-destroyer, that

which removes or destroys pain, trouble or affliction- अभि० १०३,

अत्तीकरण, न० (आत्मीकरण) अपने वग करना Self-controlling, self-restraining निमी० चू० २,

अत्तुकोसिय त्रि० (आत्मोत्कर्ष) गर्वित, अभिमानी Proud, conceited, arrogant शोच०

अत्तो अ० (अतस्) (१) इससे, इस हेतु से  
Hence, therefore, from this or  
that cause गडढ० (२) यहा से  
Hence, from this place, hence-  
forth माया०

अत्थडिल्लि त्रि० (अत्थडिल्ल) साधुओं के  
रहनेके लिए अयोग्य स्थान, चुद्र जन्तुओं से  
व्यास स्थान A place which is not  
proper for the saints to reside.  
श्लो० १३,

अत्थकिरिआ खी० (अर्थक्रिया) वस्तु का  
व्यापार, पदार्थ से होने वाली क्रिया An act  
or action which is being done  
by a thing or object धर्मस० ४६६,

अत्थण न० (अर्थन) याचना Request,  
entreaty, solicitation उप० ७२८टी,

अत्थत्थि त्रि० (अर्थार्थिन्) धनकी इच्छावाला।  
Desirous of wealth उप० १३६ टी,

अत्थमाविय त्रि० (अस्तमापित) अस्त हुआ  
Set in सम्मत्त० १६१,

अत्थाअ त्रि० (यस्तमित) अस्त हुआ, डूबा  
हुआ Set in पटम० १०, ६६, से० ६, १२,

अत्थाणिय त्रि० (अस्थानिन्) गैर-स्थान में  
लगा हुआ. Situated in the impro-  
per place भवि०

अत्थिय त्रि० (अर्थिक) धनी, धनवान्  
Wealthy, rich, well to do हे० २,  
१५६,

अत्थीकरण न० (अर्थीकरण) याचना, Re-  
quest, entreaty, solicitation  
निसी० चू० ४,

अत्थुरण न० (आस्तरण) बिछौना, A bed  
स० ६७,

अत्थुरिय त्रि० (आस्तरित) बिछाया हुआ,  
Spread over, strewed स० २३६,  
३० १, ११३,

अत्थोभय त्रि० (अस्तोभक) 'उत्त' 'वे' आदि  
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अदूषित (सूत्र)  
Not vitiated or corrupted by  
the use of meaningless words  
like उत्त (utta) etc वृह० १,

अदण न० (अदन) भोजन Dinner,  
meals, eating वृह० १,

अदय त्रि० (अदय) निर्दय, निष्ठुर Cruel,  
hard-hearted, merciless निसी०  
चू० २,

अदित्त त्रि० (अदत्त) (१) दर्प रहित, नम्र  
Polite, pudeless, modest वृह० १,  
(२) अहिसक Harmless or innocent  
श्लो० ३०२,

अदिहि खी० (अधृति) अधीराई, धीरज का  
अभाव Impatience, absence of  
patience पात्र०

अदोलि-र त्रि० (अदोलिन्) स्थिर, निश्चल  
Steady, motionless कुमा०

अद्. पु० (अद्) (१) मेघ, वर्षा, बारिस A  
cloud, rains हे० २, ७६, (२) वर्ष, सव-  
त्सर, सवत्. A year पुर० १३, ७०,

अद्. पु० (आर्द्र) (१) इस नाम का एक राजा  
Name of a king (२) एक प्रसिद्ध राज-  
कुमार और पीछे से जैन मुनि Name of a  
famous prince who became a  
Jain saint afterwards (३) त्रि० आर्द्र  
राजा के वंशज. One born in the line-  
age of Ardra king (४) इस नाम का  
एक नगर Name of a city सूय० २, ६,

अद्दइअ न० (अद्वैत) भेद का अभाव, भेद रहित  
None duality, identity, of one  
and uniform nature, equable  
नाट०

अद्दइज्ज त्रि० (आर्द्र) (१) आर्द्र कुमार  
सवन्धी Pertaining to Ardra kumar



अरण्यारण त्रि० (अन्योन्य) परस्पर, आपस में Mutual पद०  
 अरण्यारण, त्रि० (अन्यान्य) और और, अलग अलग Reciprocal गडड०  
 अरण्यारण, अ० (अन्यत्र) दूसरे में, भिन्न स्थान में Elsewhere, in another place गा० ६२५,  
 अरण्यारण स्त्री० (आज्ञा) आज्ञा, आदेश Command, order गा० २३, अभि० ६३, मुद्रा० २७,  
 अरण्यारिच्छु त्रि० (अन्यादृक्) दूसरे के जैसा Like another प्रामा०  
 अरण्यारिस त्रि० (अन्यादृश) दूसरे के जैसा Like another, of another kind पि० २४५,  
 अरण्यु त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, निर्वोध, मूर्ख Foolish, ignorant, who knows nothing पद० गा० १८४,  
 अरण्योसिय त्रि० (अन्वेषित) जिसकी तहकीकात की गई हो वह That which has been searched for, invented, discovered or inquired into महा०  
 अतक्रिय त्रि० (अतर्कित) (१) ठीकर नहीं देखा हुआ, अपरिलक्षित. That which is not well perceived or conceived वव० ८, (२) अचिन्तित, आकस्मिक Accidental, happened accidentally. महा०  
 अतड त्रि० (अतट) छोटा किनारा A small beach or shore बृह० १,  
 अतरहाअ त्रि० (अतृप्याक) तृप्या रहित, निस्पृह One who is devoid of desires अच्यु० ६४,  
 अतत्त. न० (अतत्त्व) असत्य, झूठ, गैर वाजवी False, Untruth, उप० २०८,  
 अतत्थ त्रि० (अतथ्य) असत्य, झूठा Untrue, False आया०

अतव. पु० (अस्तव) अप्रशसा, निन्दा Censure कुमा०  
 अतह. त्रि० (अतथा) उस माफिक नहीं Not like that, unlike गडड०  
 अतिगाढ त्रि० (अतिगाढ) (१) अति निविड Very thick or dense (२) कि० वि० अत्यन्त, बहुत Excessive, surpassingly, very much पउम० ८, ११३,  
 अतुलिय त्रि० (अतुलित) असाधारण, अद्वितीय. Uncommon, extraordinary, peerless, matchless unparalleled भवि०  
 अत्त अ० (अत्र) यहा, इस स्थान में Here, in this place नाह० —भव. त्रि० (भवत्) पूज्य, माननीय An honorific, epithet meaning 'worthy' 'revered' 'honourable' 'you or his honour' and referring to a person that is present or near the speaker अभि० ६१, पि० २६३,  
 अत्तव्व त्रि० (अत्तव्य) खाने लायक भक्ष्य. Eatable, Fit for food नाद०  
 अत्ति. पु० (अत्रि) इस नाम का एक ऋषि. Name of a sage गडड०  
 अत्ति स्त्री० (अर्ति) पीड़ा, दुख Affliction, pain, trouble, calamity कुमा० सुपा० १८५, —हर. त्रि० (हर) दुख का नाश करनेवाला. Pain-destroyer, that which removes or destroys pain, trouble or affliction अभि० १०३,  
 अत्तीकरण. न० (आत्मीकरण) अपने वश करना Self-controlling, self-restraining निसी० चू० ४,  
 अत्तुकोसिय त्रि० (आत्मीकर्षक) गर्विष्ठ, अभिमानी Proud, conceited, arrogant ओच०

अत्तो घ० (अतस्) (१) इससे, इस हेतु से  
Hence, therefore, from this or  
that cause गडढ० (२) यहा से  
Hence, from this place, hence-  
foith माया०

अत्यडिल त्रि० (अत्यडिल) साधुओं के  
रहनेके लिए अयोग्य स्थान, चुद्र जन्तुओं से  
व्याप्त स्थान A place which is not  
proper for the saints to reside  
श्लो० १३,

अत्यकिरिआ स्त्री० (अर्थक्रिया) वस्तु का  
व्यापार, पदार्थ से होने वाली क्रिया An act  
or action which is being done  
by a thing or object धर्मस० ४६६,

अत्यण न० (अर्थन) याचना Request,  
entreaty, solicitation उप० ७२८ टी,  
अत्यथि त्रि० (अर्थथिन्) धन की इच्छावाला  
Desirous of wealth उप० १३६ टी,  
अत्यमाविय त्रि० (अस्तमापित) अस्त हुआ  
Set in सम्मत्त० १६१,

अत्याअ त्रि० (अस्तमित) अस्त हुआ, दूबा  
हुआ. Set in पडम० १०, ६६, से० ६, ४२,  
अत्याखिय त्रि० (अस्थानिन्) गैर स्थान में  
लगा हुआ. Situated in the impro-  
per place भवि०

अत्यिय त्रि० (अर्थिक) धनी, धनवान्  
Wealthy, rich, well to do हे० २,  
१५६,

अत्यीकरण न० (अर्थीकरण) याचना. Re-  
quest, entreaty, solicitation  
निसी० चू० ४,

अत्युरण न० (आस्तरण) विछौना. A bed  
स० ६७,

अत्युरिय त्रि० (आस्तरित) विछाया हुआ.  
Spread over, strewn स० २३६,  
दे० १, ११३,

अत्योभय त्रि० (अस्तोभक) 'उत्त' 'वै' आदि  
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अद्रूपित (सूत्र)  
Not vitiated or corrupted by  
the use of meaningless words  
like उत्त (utta) etc वृह० १,

अदण न० (अदन) भोजन. Dinner,  
meals, eating वृह० १,

अदय त्रि० (अदय) निर्दय, निपुण Cruel,  
hard-hearted, merciless निसी०  
चू० २,

अदित्त त्रि० (अदत्त) (१) दर्प रहित, नम्र  
Polite, prideless, modest वृह० १,  
(२) अहिसक Harmless or innocent  
श्लो० ३०२,

अदिहि स्त्री० (अधृति) अधीराई, धीरज का  
अभाव Impatience, absence of  
patience पात्र०

अदोलि-र त्रि० (अदोलिन्) स्थिर, निश्चल  
Steady, motionless कुमा०

अद्. पु० (अब्द) (१) मेघ, वर्षा, वारिस A  
cloud, rains हे० २, ७६, (२) वर्ष, सव-  
त्सर, सवत्. A year मुर० १३, ७०,

अद्. पु० (आर्द्र) (१) इस नाम का एक राजा  
Name of a king (२) एक प्रसिद्ध राज-  
कुमार और पीछे से जैन मुनि Name of a  
famous prince who became a  
Jain saint afterwards (३) त्रि० आर्द्र  
राजा के वंशज. One born in the line-  
age of Adra king (४) इस नाम का  
एक नगर Name of a city स्य० २, ६,  
अद्दइअ न० (अद्दैत) भेद का अभाव, भेद रहित  
None duality, identity, of one  
and uniform nature, equable  
नाट०

अद्दइज्ज त्रि० (आर्द्रिय) (१) आर्द्र कुमार  
संबन्धी Pertaining to Ardia kumar

अरण्यराण त्रि० (अन्योन्य) परस्पर, आपस में Mutual पद०

अरण्यराण, त्रि० (अन्यान्य) और और, अलग अलग Reciprocal गडड०

अरण्यत्त, अ० (अन्यत्र) दूसरे में, भिन्न स्थान में Elsewhere, in another place गा० ६२२,

अरण्या खी० (आज्ञा) आज्ञा, आदेश Command, order गा० २३, अभि० ६३, मुद्रा० २७,

अरण्यारिच्छु त्रि० (अन्यादृक्) दूसरे के जैसा Like another प्रामा०

अरण्यारिस त्रि० (अन्यादृश) दूसरे के जैसा Like another, of another kind पि० २४२,

अरण्यु त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, निर्बोध, मूर्ख Foolish, ignorant, who knows nothing पद० गा० १८४,

अरण्योसिय त्रि० (अन्वेपित) जिसकी तहकीकात की गई हो वह That which has been searched for, invented, discovered or inquired into महा०

अतक्रिय त्रि० (अतर्कित) (१) ठीकर नहीं देखा हुआ, अपरिज्ञित, That which is not well perceived or conceived वव०

८, (२) अचिन्तित, आकस्मिक Accidental, happened accidentally, महा०

अतड त्रि० (अतट) छोटा किनारा A small breach or shore बृह० १,

अतएहाअ, त्रि० (अतृप्याक) नृप्या रहित, नि स्पृह One who is devoid of desires अच्यु० ६४,

अतत्त, न० (अतच्च) असत्य, झूठ, गैर वाजवी False, Untruth, उप० २०८,

अतत्थ त्रि० (अतथ्य) असत्य, झूठा Unttrue, False आया०

अतव, पु० (अस्तव) अप्रशंसा, निन्दा Censure कुमा०

अतह, त्रि० (अतथा) उस माफिक नहीं, Not like that, unlike गडड०

अतिगाढ त्रि० (अतिगाढ) (१) अति निविड Very thick or dense (२) कि० वि० अत्यन्त, बहुत Excessive, surpassingly, very much पउम० ८, ११३, अतुलिय त्रि० (अतुलित) असाधारण, अद्वितीय, Uncommon, extraordinary, peerless, matchless unparalleled भवि०

अत्त अ० (अत्र) यहा, इस स्थान में Here, in this place नाह० — भव, त्रि० (भवत्) पूज्य, माननीय An honorific, epithet meaning 'worthy' 'revered' 'honourable' 'your or his honour' and referring to a person that is present or near the speaker अभि० ६१, पि० २६३,

अत्तव्व त्रि० (अत्तव्य) खाने लायक भक्ष्य, Eatable, Fit for food नाट०

अत्ति, पु० (अत्रि) इस नाम का एक ऋषि Name of a sage गडड०

अत्ति खी० (अति) पीडा, दुःख Affliction, pain, trouble, calamity कुमा०

सुपा० १८२, —हर, त्रि० (हर) दुःख का नाश करनेवाला, Pain-destroyer, that which removes or destroys pain, trouble or afflictions अभि० १०३,

अत्तीकरण, न० (आत्मीकरण) अपने वश करना Self-controlling, self-restraining निसी० चू० ४,

अत्तुकोसिय त्रि० (आत्मोत्कर्षक) गर्विष्ठ, अभिमानी Proud, conceited, arrogant श्रोव०

अत्तो अ० (अतस्) (१) इससे, इस हेतु से  
Hence, therefore, from this or  
that cause गडड० (२) यहा से  
Hence, from this place, hence-  
forth माया०

अत्थण्डिल. त्रि० (अत्थण्डिल) साधुओं के  
रहनेके लिए अयोग्य स्थान, चुद्र जन्तुओं से  
व्याप्त स्थान A place which is not  
proper for the saints to reside  
शोध० १३,

अत्थकिरिआ खी० (अर्थक्रिया) वस्तु का  
न्यापार, पदार्थ से होने वाली क्रिया An act  
or action which is being done  
by a thing or object धर्मसं० ४६६,

अत्थण न० (अर्थन) याचना Request,  
entreaty, solicitation उप० ७२८ टी,

अत्थत्थि त्रि० (अर्थार्थिन्) धन की इच्छावाला  
Desirous of wealth उप० १३६ टी,

अत्थमाविय त्रि० (अस्तमापित) अस्त हुआ  
Set in सम्मत्त० १६१,

अत्थाअ त्रि० (अस्तमित) अस्त हुआ, डूबा  
हुआ. Set in पडम० १०, ६६, से० ६, ४२,

अत्थाणिय. त्रि० (अस्थानिन्) गैर-स्थान में  
लगा हुआ. Situated in the improper  
place भवि०

अत्थिय त्रि० (अर्थिक) धनी, धनवान्  
Wealthy, rich, well to do हे० २,  
१४६,

अत्थीकरण. न० (अर्थीकरण) याचना. Re-  
quest, entreaty, solicitation  
निसी० चू० ४,

अत्थुरण न० (आस्तरण) विज्ञाना. A bed  
सं० ६७,

अत्थुरिय त्रि० (आस्तरित) विज्ञाया हुआ.  
Spread over, strewed सं० २३६,  
दे० १, ११३,

अत्थोभय त्रि० (अस्तोभक) 'उत्त' 'वे' आदि  
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अदूषित (सूत्र)  
Not vitiated or corrupted by  
the use of meaningless words  
like उत्त (utta) etc वृह० १,

अदण न० (अदन) भोजन. Dinner,  
meals, eating वृह० १,

अदय त्रि० (अदय) निर्दय, निष्ठुर Cruel,  
hard-hearted, merciless निसी०  
चू० २,

अदित्त त्रि० (अदत्त) (१) दुर्प रहित, नम्र  
Polite, prideless, modest वृह० १,  
(२) अहिसक Harmless or innocent  
शोध० ३०२,

अदिहि खी० (अधृति) अधीराई, धीरज का  
अभाव Impatience, absence of  
patience पाअ०

अदोलि-त् त्रि० (अदोलिन्) स्थिर, निश्चल  
Steady, motionless कुमा०

अद्. पु० (अद्) (१) मेघ, वर्षा, बारिस A  
cloud, rains हे० २, ७६, (२) वर्षा, सव-  
त्सर, सवत्. A year सुर० १३, ७०,

अद्. पु० (आर्द्र) (१) इस नाम का एक राजा  
Name of a king (२) एक प्रसिद्ध राज-  
कुमार और पीछे से जैन मुनि Name of a  
famous prince who became a  
Jain saint afterwards (३) त्रि० आर्द्र  
राजा के वंशज. One born in the line-  
age of Ardra king (४) इस नाम का  
एक नगर Name of a city सूय० २, ६,  
अद्दइअ न० (अद्वैत) भेद का अभाव, भेद रहित  
None duality, identity, of one  
and uniform nature, equable  
नाट०

अद्दइज्ज त्रि० (आर्द्रिय) (१) आर्द्र कुमार  
सवन्धी Pertaining to Ardia kumar

(२) इस नाम का 'सूत्रकृतंग' सूत्र का एक अध्ययन Name of one of the chapters of a book of scripture named "Sutrikritanga सू० २, ६, अदि. पु० (अदि) पहाड, पर्वत A mountain गडड०

अदिष्ट त्रि० (अष्ट) (१) नहीं देखा हुआ Not seen, unperceived, unseen सुर० १, १७२, (२) दर्शन का अविषय Non-object of sight, that which is not the object of sight सम्म० ६६,

अद्विय त्रि० (अदित) पीटा हुआ, पीडित Severely beaten, greatly troubled वव० १०,

अद्विय त्रि० (अद्रित) आर्द्र किया हुआ, भीजाया हुआ Wetted, Moistened विक्र० २३,

अद्वेस त्रि० (अदश्य) देखने को अशक्य Invisible, impossible or not feasible of being seen or perceived स० १७०,

अद्वेस्लीकरण स्त्री० (अदश्यीकरण) (१) अदश्य करना Rendering invisible (२) अदश्य करने वाली विद्या A science which renders a thing invisible सुपा० ४२४,

अद्वेस्लीकारिणी स्त्री० (अदश्यीकारिणी) अदश्य बनाने वाली विद्या A science which makes a man invisible, unseeable सुपा० ४२४,

अद्वोहि त्रि० (अद्रोहिन्) द्रोह रहित, द्वेष वर्जित One without malice or ill will or feeling धर्म० ३,

अद्धन्निष्ठ त्रि० (अर्धच्छिक) विकृत आस्र वाला One having a crooked eye महानि० ३,

अद्धखल्ला स्त्री० (अर्धखल्ला) एक प्रकार का जूता, A kind of shoes बृह० ३,

अद्धचन्द्र न० (अर्धचन्द्र) एक जात का बाण, A kind of an arrow having a half-moon shape 'छिंदामि अद्धचन्द्रेण' सुर० ८, ३७,

अद्धणारीसर पु० (अर्धनारीश्वर) शिव, महादेव, God Siva. A form of Siva (half male and half female) कप्पू०

अद्धवच्चर पु० (अर्धवर्चर) देश विशेष Name of a country पउम० २७, ५,

अद्धर पु० (अधर) यज्ञ, याग A sacrifice पाञ्च०

अद्धाणिय त्रि० (अध्विक) पथिक, मुसाफिर. A traveller बृह० ४,

अद्धासिय, त्रि० (अध्यासित) अधिष्ठित, आश्रित Occupied, सुर० ७, २१४, उप० २६४ टी० (२) आरूढ Ascended, climbed स० ६३०,

अद्धुइअ त्रि० (अर्धोदित) थोडा कहा हुआ. Half-said, uttered पि० १२८,

अद्धुग्घाड, त्रि० (अर्धोद्घाट) आधा खुला. Half-open पउम० ३८ १०७,

अद्धत्त त्रि० (अर्धोक्त) थोडा कहा हुआ. Half said or uttered वव० १०,

अध अ० (अधस्) नीचे Down, below. आया०

अध अ० (अधस्) नीचे Down, below. पि० ३४५,

अधट्ट, त्रि० (अधृष्ट) अधीठ Modest, Polite, Courteous कुमा०

अधण त्रि० (अधन) निर्धन, गरीब Moneyless, Poor, Indignant गडड० सण०

अधणि त्रि० (अधनिन्) धन रहित, निर्धन. Poor, Indignant आ० १४,

अधमरण, त्रि० (अधमर्ण) करजदार, देनदार.

A debtor, One who owes धर्मवि०  
१४६, १३५,

अधिरोवित्र त्रि० ( अधिरोपित ) आरोपित  
Ascribed, Superimposed धर्मवि०  
१३७,

अधीश त्रि० ( अधीश ) नायक अधिपति  
A leader, lord, master कुम्भा० २३,

अनन्दि स्त्री० ( अनन्दि ) अमङ्गल, अकुशल  
Ominous, Inauspiciousness अलि०  
३७,

अनिमित्ती स्त्री० ( अनिमित्ती ) लिपि विशेष  
A particular kind of alphabet  
विशे० ४६४ टी०

अनियमित, त्रि० ( अनियमित ) (१) अव्य-  
वस्थित Irregular, not in order  
(२) असयत, इन्द्रियों का नियंत्रण नहीं करने  
वाला On who does not control  
or curb his senses पदम० ११४, २६,  
अन्नय पु० ( अन्नय ) एक की सत्ता में ही  
दूसरे की विद्यमानता, जैसे अग्नि की हयाती में  
ही धूम की सत्ता, नियमित सबन्ध Log-  
ical connection of cause and  
effect, state of constant and  
invariable concomitance of the  
Ketu and Sadhya उप० ४१३,  
स० ३५१,

अन्नि त्रि० (अन्यदीय) परकीय Belonging  
to another 'अन्न वा अन्नि वा'

अन्नियसुय पु० ( अन्निकासुत) एक विख्यात  
जैन मुनि Name of a well known  
Jain saint उप०

अनुक्ति स्त्री० ( अन्योक्ति ) साहित्य-प्रसिद्ध  
एक अलङ्कार Name of a well known  
figure of speech in literature,  
a transferred epithet मोह० ३७,  
सम्भक्त० १४५,

अन्नूण त्रि० (अन्यून) अहीन Complete,  
whole, entire, not defective or  
deficient धर्मवि० १२६,

अप स्त्री० न० (अप) पानी, जल, Water  
—काय पु० ( काय ) पानी के जीव  
Water-germs, germs born in  
water दे० १३,

अपग पु० (अपाङ्ग) (१) नेत्र का प्रान्त भाग  
The outer corner or angle of  
the eye (२) तिलक A sectarian  
mark on the forehead (३) वि०  
हीन अग वाला Having a defective  
limb नाट०

अपकरिस. पु० (अपकर्ष) हास Loss,  
decay, decline deterioration,  
destruction धर्मस० ८३७,

अपचय, पु० (अपचय) अपकर्ष, हीनता  
Diminution, decline उक्त० १, टी०  
अपचल त्रि० (अप्रत्यल) असमर्थ, अयोग्य  
incapable, unfit, not powerful,  
निसी० चू० ११,

अपच्छ त्रि० (अपथ्य) (१) अहितकर  
Unwholesome, पदम० ८२, ७२,  
(२) न० नहीं पचने वाला भोजन Undi-  
gestable food सुपा० ४३८,

अपज्जत्त त्रि० (अपर्याप्त) असमर्थ In-  
competent, not a match for गड०

अपडिपोगल त्रि० (अप्रतिपुद्गल) दरिद्र,  
निर्धन Indigent, Poor, Needy  
निसी० चू० ५,

अपडुप्पराणा-न्न त्रि० (अप्रत्युत्पन्न) प्रतिपत्ति  
में अकुशल Not clever in unde-  
standing or determination  
(what to do), वव० ६,

अपयष्ट त्रि० (अग्रयष्ट) नाश को अप्राप्त  
That which has not gone to

destruction, undestroyed, not destructed or perished सुर० ४, २४०,  
 अपय, स्त्री० (अप्रज) सन्तान रहित Childless, Without progeny बृह० १,  
 अपय पु० (अपद) (१) मुक्तात्मा. An emancipated soul, one who is emancipated अपयस्सपय नत्थि आया०  
 (२) सूत्र का एक दोष. A defect in hymns विशेष  
 अपरतिया, स्त्री० (अपरान्तिका) छन्द विशेष  
 Name of a metre अजि० ३४,  
 अपराह्या, स्त्री० (अपराजिता) औषधि विशेष  
 Name of a kind of plant or medicine ती० ७,  
 अपरिच्छरण-न्न त्रि० (अपरिच्छन्न) नहीं ढका हुआ, अनावृत Uncovered, not hidden, opened वव० ३,  
 अपविद्ध. त्रि० (अपविद्ध) (१) प्रेरित Impelled, Urged, Instigated, से० ७, ११, (२) न० गुरु वन्दन का एक दोष, गुरु को वन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना  
 A defect in the salutation to the teacher, Master or preceptor गुमा० २३,  
 अपह त्रि० (अप्रभ) निस्तेज, Lustreless, dim दे० १, १६४,  
 अपहारि त्रि० (अपहारिन्) अपहरण करने वाला One who or that takes away or steals स० २१७,  
 अपहिय (त्रि० अपहृत) छीना हुआ Plundered, stolen, robbed or taken away पउम० ७६, ५,  
 अपहु त्रि० (अप्रभु) (१) असमर्थ, Powerless, Unable, Incompetent (२) नाथ रहित, अनाथ Parentless, orphan पउम० १०१, ३५,

अपाण, न० (अपान) (१) पान का अभाव  
 Want of drinking, उप० ८४१,  
 (२) पानी जैसी ठडी पेय वस्तु विशेष  
 A drinkable thing as cold as water (३) पु० न० अपान वायु  
 On of the five lifewinds in the body which goes downwards and out at the anus सुपा० ६२०;  
 (४) जल वर्जित, निर्जल Without or devoid of water ज० २,  
 अपायावगम पु० (अपायापगम) जिनदेव का एक अतिशय One of the superhuman, qualities attributed to Jineshvara सवोध० २,  
 अपिह य० (अपृथक्) अपृथक्, अभिन्न Not separately, togetherwith, collectively कुमा०  
 अपुण्णभाव त्रि० (अपुनर्भाव) फिर से नहीं होने वाला, That which is not to born again पच० १,  
 अपेच्छ त्रि० (अपेक्ष्य) (१) देखने को अशक्य Impossible to be seen (२) देखने को अयोग्य Unfit to be seen उव०  
 अपेय. त्रि० (अपेय) पीने को अयोग्य, मद्य आदि Undrinkable things such as wine etc कुमा०  
 अपेय त्रि० (अपेत) गया हुआ, नष्ट. Lost, gone, perished, destroyed बृह० १,  
 अपेह्य. त्रि० (अपेक्षक) अपेक्षा करने वाला. One who expects or desires आव० ४,  
 अप्यभरि त्रि० (आत्मभरि) एकलपेटा, स्वार्थी. Selfish, caring for nobody but himself, self-centred उप० १७०,  
 अप्यकैर त्रि० (आत्मीय) स्वकीय, निजीय. Ones own, belonging to ones

अप्यक्

- अप्यक् त्रि० (अपक्व) नहीं पका हुआ, कच्चा  
Unripe, immatured, unseasoned  
सुपा० ४१३,  
अप्यगास. पु० (अप्रकाश) प्रकाश का अभाव,  
अन्धकार. Absence of light, dark-  
ness. निसी० चू० १,  
अप्यजाणुअ त्रि० (आत्मज्ञ) आत्मा का जान-  
कार One who knows himself  
प्राक्० १८,  
अप्यजाणुअ. त्रि० (अल्पज्ञ) अज्ञ, मूर्ख  
Foolish, ignorant प्राक्० १८,  
अप्यडिआर त्रि० (अप्रतिकार) इलाज रहित,  
उपाय रहित. Irremediable, helpless  
मा० ४३,  
अप्यडिविध पु० (अप्रतिबन्ध) प्रतिबन्ध का  
अभाव Absence of restraint or  
control (२) त्रि० प्रतिबन्ध रहित Un-  
impeded, unobstructed सुपा० ६०८,  
अप्यडिवुद्ध त्रि० (अप्रतिबुद्ध) (१) अजागृत  
Not awaken, sleeping, asleep (२)  
कोमल, सुकुमार Tender, delicate  
अभि० १६१,  
अप्यडिवरिय पु० (अप्रतिवृत्) प्रदोष काल,  
संध्या The twilight, evening-time  
वृह० १,  
अप्यडिहृत्थ त्रि० (अप्रतिहृत्थ) असमान,  
अद्वितीय Matchless, peerless, un-  
equal, unparallel से० १३, १२,  
अप्यडिहृत्थ त्रि० (अल्पद्विक) थोड़ी ऋद्धि  
वाला, अल्प वैभव वाला Having pros-  
perity to a small extent सुपा० ४३०,  
अप्यण त्रि० (आत्मीय) स्वकीय, निजका  
Ones own, belonging to the self  
'नो अप्यणा परया' सट्टि० १०५,  
अप्यणय. त्रि० (आत्मीय) स्वकीय, निजका

- Belong to one's self, one's own  
पडम० १०, १६, सुपा० २७६, हे० २, १५३,  
अप्यणा अ० (आत्मना) स्वयं, आप, निज,  
खुद Oneself पद्०  
अप्यणो अ० (आत्मन.) आप, खुद, निज.  
Oneself 'अप्यणो चैव' हे० २, २०६,  
अप्यतक्रिय त्रि० (अप्रतर्कित) अवितर्कित,  
असभावित That which is not con-  
sidered or imagined स० ५३०,  
अप्यत्त, पु० न० (अपात्र) (१) अयोग्य, नाला-  
यक, कुपात्र Unworthy, Undeserv-  
ing, Unfit 'हु अप्यत्ता' सुर० ३, ४५,  
गा० १५७, (२) त्रि० आधर रहित, भाजन  
शून्य Supportless सुर० १३, ४५,  
अप्यत्ति. स्त्री० (अप्राप्ति) नहीं पाना Non-  
acquisition सुर० ४, २१३,  
अप्यत्तियण न० (अप्रत्ययन) अविश्वास,  
अभ्रडा Diffidence, disbelief, dis-  
trust उप० ३१२,  
अप्यत्थ त्रि० (अप्रार्थ्य) प्रार्थना करने को  
अयोग्य. Not worthy of being  
requested, entreated, solicited or  
worshipped (२) नहीं चाहने लायक.  
Not worthy of being loved or  
desired सुपा० ३३६,  
अप्यदुद्दु त्रि० (अप्रद्विष्ट) जिस पर द्वेष न हो  
वह, प्रीतिकर Not hated or disliked,  
One who is not hostile श्लो० ७५४;  
अप्यभाय. न० (अप्रभात) (१) बड़ी सवेर  
The early dawn (२) त्रि० प्रकाश  
रहित, कान्ति वर्जित Lustreless, dark  
सुर० ११, ११०,  
अप्यरिचडिय त्रि० (अपरिपत्तित) अनष्ट,  
विद्यमान Existing, living, not de-  
stroyed or perished आ० ६,  
अप्यसज्ज् त्रि० (अप्रसज्ज) सहने को अशक्य,



सहन करने को अयोग्य Unbearable, Insufferable, Intolerable बव० ७,  
 अप्यसारिय. त्रि० (अप्रसारिक) निर्जन, विजन  
 Devoid of population lonely,  
 retired, solitary उप० १७०,  
 अप्यहिय त्रि० (अप्रथित) (१) अविस्तृत  
 Unspread, unextended (२) अ-  
 प्रसिद्ध Unknown, Insignificant  
 सुपा० १२५,  
 अप्याविय त्रि० (अर्पित) दिलाया हुआ  
 Caused to be delivered or given  
 सुपा० ३३१,  
 अप्याहिय. त्रि० (अध्यापित) (१) पाठित,  
 शिक्षित Taught से० ११, ३८, १४, ६१,  
 (२) न० सीख, उपदेश Advice, precept,  
 teaching उप० ५६२ टी,  
 अप्पिड्ढय त्रि० (अल्पदिक) अल्प सपत्ति  
 वाला Having prosperity to a  
 small extent पउम० २, ७४,  
 अप्पिणण न० (अर्पण) दान, भेंट A gift,  
 presentation, best owing उप०  
 १७४,  
 अप्पीह स्त्री० (अप्रीति) अप्रेम, अरुचि Dis-  
 like, disregard, aversion सुपा० २६४,  
 अप्पुट्ट त्रि० (अस्पृष्ट) नहीं छूया हुआ, अस-  
 युक्त Untouched, separate, not  
 joined सम्म० ८१,  
 अप्पुट्ट त्रि० (अपृष्ट) नहीं पूछा हुआ. Not  
 asked or queried सुपा० १११,  
 अप्पुल्ल त्रि० (आत्मिय) 'आत्मा में उत्पन्न  
 Self-produced, born of the self  
 हे० २, १६३, पढ० कुमा०  
 अप्पोलिय त्रि० (अप्रज्वलित) कच्ची, फल  
 फुलेरी Unripe, immature आ० २१,  
 अप्फडिअ त्रि० (आस्फालित) आस्फालित,  
 आहत Stricken or pressed against,

flapped विशे० २६८२ टी,  
 अप्फालिय. त्रि० (आस्फालित) (१) ताडित,  
 आहत. Beaten, caused to flap पि०  
 ३११, (२) वृद्धि प्राप्त, उन्नत Increased  
 राज०  
 अप्फुरण त्रि० (अपूर्ण) अपूर्ण, अधूरा In-  
 complete, deficient, unperfect,  
 not full गउड०  
 अप्फोडण न० (अस्फोटन) आस्फालन  
 Striking, flapping गउड०  
 अप्फुड. त्रि० (अस्फुट) अस्पष्ट, अत्यक्त In-  
 distinct, obscure सुर० ३, १०६, २१३,  
 गा० २६६, उप० ७२८ टी०  
 अप्फुसिय त्रि० (अभ्रान्त) भ्रम रहित De-  
 void of delusion or misappre-  
 hension कुमा०  
 अवला स्त्री० (अबला) स्त्री, महिला, जनाना  
 A woman, A lady पाअ०  
 अवाह पु० (अवाह) देश विशेष Name  
 of a country इक०  
 अवाहिर. अ० (अवाहिस्) बाहर नहीं, भीतर  
 Inside, within कुमा०  
 अवाहिरय त्रि० (अवाह्य) भीतरी, आभ्यन्तर  
 Internal, within बव० १,  
 अवाहिरिय त्रि० (अवाहिरिक) जिसके किले  
 के बाहर बस्ती न हो ऐमा गाव या शहर A  
 town or village where no body  
 lives out-side the fort वृह० १,  
 अवोह त्रि० (अवोध) बोध रहित, अज्ञान  
 Ignorant, foolish, stupid (०)  
 पु० ज्ञान का अभाव Want of under-  
 standing or knowledge धर्म १,  
 अन्वुञ्ज. न० (अवुद्) जमा हुआ शुक्र और  
 शोणित. A long round and collec-  
 ted mass or lump of semen or  
 blood तदु० ७,

अनुव्य, पु० (अबुद) पर्वत विशेष, जो आज-कल अबू नाम से प्रसिद्ध है Name of a mountain situated in the west of India (Abu) राज०

अनुवसि त्रि० (अअशिन) (१) अष्ट नहीं होने वाला Not fallen or depared नाद० (२) अनष्ट Unperished, Not destroyed or ruined कुमा०

अनुवराण न० (अभ्यर्थ) (१) निकट, नजदीक, Proximity, Vicinity (२) त्रि० सनीपस्थ Near, Proximate, Being close or near पउम० ६८, १८,

अनुवराणपुर, न० (अभ्यर्थपुर) नगर विशेष Name of a town or city पउम० ६८, १८,

अनुवत्त त्रि० (अभ्यक्त) (१) तैलादि से मर्दन, मालिश किया हुआ Smeared the body with unctuous or oily substances, smeared with oil (२) सिक्त, सिंचा हुआ Spinkled, waterd सुर० २, ७८,

अनुवय, पु० (अभक) पालक, बच्चा A child, An infant पाअ०

अनुवय पु० (अअक) यमरख Mica or tale जी० ४,

अनुवहिय त्रि० (अभ्यर्हित) सत्कार प्राप्त, गौरवशाली Greatly respectable or venerable, Honoured, respected बृह० १,

अनुवहुरिय त्रि० (अभ्यवहृत) सुक्त Eaten or taken as food सुख० २, १७,

अनुवहहार पु० (अभ्यवहार) भोजन, खाना Eating, taking food or drink विशेष० २२१,

अनुवसण, न० (अभ्यसन) अभ्यास, Constant study, Close application (to

anything) दस० नि० १, अनुवसिय, त्रि० (अभ्यस्त) सीखा हुआ.

Leant, Studied सुर० १, १८०, ६, १६, अनुवभागम पु० (अभ्यागम) समुखागमन, समीप स्थिति, Coming or going near, Arrival निती० चू० २,

अनुवितरुद्धि पु० (अभ्यन्तरोद्धिन्) कायोत्सर्ग का एक दोष A defect in controlling or abandoning (for the time being) the body चेइय० ४८७,

अनुविराण, त्रि० (अनिन्न) भेद को अप्राप्त Not changed or altered, unchanged, the same धर्म० २,

अनुवुक्खण न० (अभ्युक्खण) सिञ्चन करना, छिडकाव Spinkling over, Wetting स० १७६,

अनुवुक्खणीया स्त्री० (अभ्युक्खणीया) सीकर, आसार, पवन से गिरता जल A spray, particles of water falling by the wind बृह० १,

अनुवुक्खिय त्रि० (अभ्युक्खित) सिक्त Spinkled over, wetted स० ३४०,

अनुवुच्चय पु० (अभ्युच्चय) समुच्चय Aggregation, Mass भास० ६१,

अनुवुज्जय पु० (अभ्युज्जय) एकाकी विहार Going lonely, धम्म० १२ टी,

अनुवुणायत त्रि० कृ० (अभ्युणयत्) (१) ऊँचा करता हुआ Raising, lifting (२) उत्तेजित करता हुआ Encouraging, inciting गा० २६४,

अनुवुत्तिअ त्रि० (प्रदीप्त) (१) प्रकाशित Lighted illumined (२) उत्तेजित Encouraged, Inspired, incited से० ११, ३८,

अनुवुत्थ त्रि० (अभ्युत्थ) उत्पन्न Produced, born, महा०

अभ्युद्धरण न० (अभ्युद्धरण) (१) उद्धार  
Deliverance, redemption, saving,  
rescuing, extirpation सं० १४३,  
(२) त्रि० उद्धार-कारक. A saviour, one  
who lifts or raises हे० ४ ३६४,  
अभ्युच्चमड त्रि० (अभ्युच्चमड) अत्युच्चमड, विशेष  
उद्धत Very insolent or haughty  
भवि०  
अभ्युच्चगच्छाविश्रि त्रि० (अभ्युपगमित) स्वीकार  
कराया हुआ Made to consent or  
accept आक० पृ० ३०,  
अभ्युच्चगमना स्त्री० (अभ्युपगमना) स्वीकार,  
अगीकार Acceptance, admitting,  
Granting उप० ८०२,  
अभ्युच्चगत त्रि० (अभ्युपगत) स्वीकृत Grant-  
ed, accepted, Admitted सुर० ६,  
१८.  
अभ्युच्चवर्ण त्रि० (अभ्युपपन्न) अनुग्रह प्राप्त,  
अनुगृहीत Favoured, pitied नाट०  
पि० १६३, २७६,  
अभ्युच्चवृत्ति स्त्री० (अभ्युपपत्ति) अनुग्रह, मेहर-  
वानी A favour, Kindness अभि०  
१०४,  
अभ्युच्चिख्य त्रि० (अभ्युचित) सिक्त, सिंचा  
हुआ Watered, Sprinkled over  
सुर० ६, १६१,  
अभ्युच्चोज्ज त्रि० (अभ्युच्च) भोजन के अयोग्य  
Not to be eaten, prohibited as  
food, Unholy पि० १६०,  
अभाअ त्रि० (अभाग) अस्थान, अयोग्य स्थान  
An improper place से० ८, ४२,  
अभाइ त्रि० (अभागिन्) अभाग, हत भाग्य,  
कमनसीव Unfortunate, Unlucky  
चा० २६,  
अभागधेज त्रि० (अभागधेय) देखो 'अभाइ'  
शब्द Vide 'अभाइ' पडम० २८, ८६,

अभि. अ० (अभि) (१) चारों ओर In all  
the directions 'अभिदो' स्वप्न० ४२,  
(२) बलात्कार Force 'अभिओग' धर्म०  
२, (३) निरर्थक भी इस अन्वय का प्रयोग होता  
है Sometimes this particle used  
meaningless 'अभिमति' सुर० १६,  
६२, (४) उल्लंघन, अतिक्रमण Transgre-  
ssion (५) अत्यन्त ज्यादा Very much,  
Excessive (६) प्रतिकूल Un-  
favourable, Adverse 'अभिवाय'-  
आया० (७) सम्भावना Possibility, निरी०  
चू० १,  
अभिअण पु० (अभिजन) (१) कुल, A  
family or lineage (२) जन्म भूमि  
The birth place नाट०  
अभिओग पु० (अभियोग) उद्यम, उद्योग  
Exertion, Energetic effort सि०  
१८,  
अभिकखा, स्त्री० (अभिकाङ्क्षा) अभिलाषा,  
इच्छा. A desire, A wish आया०  
अभिक्रम पु० (अभिक्रम) (१) उल्लंघन  
Transgression (२) प्रारम्भ Begin-  
ning (३) समुख गमन, Going near,  
(४) गमन, गति A motion, Gait  
अभिगय, त्रि० (अभिगत) प्रविष्ट Entered  
बुह० १,  
अभिगहणी स्त्री० (अभिग्रहणी) भाषा का  
एक भेद, असत्य-सृष्टा वचन A variety  
of speech, A false language  
सवोष० २१,  
अभिजस न० (अभियजस्) इस नाम का एक  
जैन साधुओं का कुल (एक आचार्य की सत्तति)  
A particular multitude of Jain  
saints कप्प०  
अभिजुक्त, त्रि० (अभियुक्त) दुस्मन से घिरा  
हुआ Attacked or assailed by

enemies वेणी० १२०,  
 अभिद्विअ त्रि० ( अभीष्ट ) अभिलषित  
 Desired, Wished वजा० १६४,  
 अभिट्ठुय, त्रि० ( अभिष्टुत ) वंशित, श्लाघित,  
 प्रशंसित Praised आव० २,  
 अभिरांदिअ त्रि० ( अभिनन्दित ) जिसका  
 अभिनन्दन किया गया हो वह Congrat-  
 ulated सुपा० ३१०,  
 अभिखिपेया, स्त्री० ( अभिनिप्रजा ) अलग २  
 रही हुई प्रजा People living sep-  
 arately वव० ६,  
 अभिखिवेसि त्रि० ( अभिनिवेशिन् ) कदाग्रही  
 Head-strong, Pertinacious  
 अज्ज० १२७,  
 अभिखिवेह पु० ( अभिनिवेश ) उलटा मापना  
 Measuring reversely आवम०  
 अभिरण त्रि० ( अभिज्ञ ) जानकार, निपुण  
 Skilful Clever उप० २८०,  
 अभिद्धविय त्रि० ( अभिद्धत ) उपहृत, हैरान  
 किया हुआ Trouble, Tormented  
 सुर० १२, ६७,  
 अभिधाइ त्रि० ( अभिधायिन् ) वाचक, कहने  
 वाला Saying, Speaking विशे० ३४७२,  
 अभिधेज्ज अभिधेय न० ( अभिधेय ) अर्थ,  
 वाच्य, पदार्थ A substance The  
 subject, matter विशे० १ टी,  
 अभिनदि स्त्री० ( अभिनन्दि ) आनन्द, खुशी  
 Rejoicing, Delight अजि० ३७,  
 अभिनिव्वाणड. त्रि० ( अभिनिव्याकृत )  
 विभिन्न द्वार वाला Having separate  
 doors वव० १ टी,  
 अभिपह्हाणिय. ( अभिपर्याशित ) अध्वारोपित,  
 ऊपर रखा हुआ Raised above,  
 Elevated कुमा०  
 अभिभवण न० ( अभिभवन ) पराभव, पराजय,  
 तिरस्कार Defeat, Subjection सुपा०

४७६,

अभिभूइ स्त्री० ( अभिभूति ) पराभव, अभिभव  
 Defeat Subjugation द० ३०,  
 अभिमतिय त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र  
 से सस्कारित Consecrated, Made  
 sacred by repetition of special  
 formulas of Mantras सुर० १६, ६७,  
 अभिसुहिय त्रि० ( अभिसुखित ) समुल्ल किया  
 हुआ Presented in front सूयनि० १४६,  
 अभिरइ, स्त्री० ( अभिरति ) रति, सभोग, प्रीति,  
 अनुराग Pleasure, Delight, Com-  
 pulation विशे० ३२२३,  
 अभरमिय त्रि० ( अभिरमित ) अनुरक्त किया  
 हुआ Pleased, सुपा० ३४,  
 अभिरय त्रि० ( अभिरत ) अनुरक्त Pleased,  
 Contented सुपा० ३४, (२) तल्लीन, तत्पर.  
 Closely intent on, Exclusively  
 devoted to पठम० ३७, ६३, स० १२२,  
 अभिलासिण त्रि० ( अभिलापिन् ) चाहने  
 वाला, इच्छुक. Wishing or desiring  
 for वसु० स० ६२४, पठम० ३१, १२८,  
 अभिलासुग त्रि० ( अभिलापुक ) अभिलापी  
 Wishing or desiring for उप० ३२०  
 टी,  
 अभिवत्त त्रि० ( अभिव्यक्त ) आविर्भूत Mani-  
 fested धर्मस० ८८,  
 अभिवत्ति स्त्री० ( अभिव्यक्ति ) प्रादुर्भाव  
 Manifestation, Display उप० २८२,  
 अभिवाइय त्रि० ( अभिवादित ) प्रणत, नमस्कृत  
 Respectfully saluted सुपा० ३१०,  
 अभिविहि पु० स्त्री० ( अभिविधि ) मर्यादा,  
 व्याप्ति. Complete comprehension  
 of inclusion विशे० ८७४,  
 अभिवुट्टि स्त्री० ( अभिवृष्टि ) वृष्टि, वर्षा. Rain-  
 ing प्रव० ४०,  
 अभिसकण न० ( अभिसङ्घन ) शंका, वहेम A

doubt, Suspicion सन्देह० ४६,  
 अभिसरण न० (अभिसरण) प्रिय के पास जाना  
 Meeting or rendezvous of lovers  
 कुमा०  
 अभिसव. पु० (अभिपव) मद्य मास आदि से  
 मिश्रित चीज़ Distillation or extrac-  
 tion of liquors etc प्रव० ६,  
 अभिसिक्त. त्रि० (अभिपिक्त) जिसका अभिपेक  
 किया गया हो वह. Crowned, Installed,  
 Inaugurated आवम०  
 अभिसेगा स्त्री० (अभिपेका) (१) साध्वी, सन्या-  
 सिनी A female saint निसी० चू० १५,  
 (१) साध्वीयों की मुखिया, प्रवर्तिनी A lead-  
 ing female saint धर्म० ३, निसी० चू० ६,  
 अभिसेवण. न० (अभिपेवन) पूजा, सेवा, भक्ति  
 Worship, Adoration पठम० १४, ४६,  
 अभिहा स्त्री० (अभिधा) नाम, आख्या A  
 name, An appellation सण०  
 अभिहाण न० (अभिधान) (१) उच्चारण  
 Pronunciation सूय० नि० १३८, (२)  
 कथन, उक्ति Telling, Speaking  
 धर्मस० ११११, (३) कोष ग्रन्थ A dic-  
 tionary, A vocabulary चेइय० ७४,  
 अभिहेअ पु० (अभिधेय) वाच्य, पदार्थ, The  
 subject-matter विशेष० ८४१,  
 अमग्य पु० (अमार्ग) कुमत् कुदर्शन A bad  
 system of philosophy दम०  
 अमच्च पु० (अमर्त्य) देव, देवता A god,  
 A deity कुमा०  
 अमय पु० (अमृत) मोक्ष, मुक्ति Final  
 emancipation सम्म० १६७, प्रामा०  
 अमय. त्रि० (अमय) विकार रहित Devoid  
 of leviation from the natural  
 state विशेष०  
 अमयधडिअ पु० (अमृतधटिक) चन्द्रमा,  
 चाद The moon कुम० २१,

अमर त्रि० (आमर) दिव्य, देव सवन्धी Di-  
 vine, Heavenly पठम० ६१, ४६,  
 अमरगिरि पुं० (अमरगिरि) मेरु पर्वत The  
 mount Meru पठम० ६२, ३७,  
 अमरिसिय त्रि० (अमरिपित) मत्सरी, असहिष्णु  
 Impatient, Intolerant आवम० स०  
 २६२,  
 अमरी स्त्री० (अमरी) देवी A Goddess.  
 कुमा०  
 अमरीस पु० (अमरेश) इन्द्र Indra, The  
 God India, The lord of Gods.  
 चेइय० ३१०,  
 अमाण त्रि० (अमान) (१) गर्व रहित, नम्र.  
 Not proud, Polite, gentle कप्य०  
 (२) असंख्य Numberless, Innumoi-  
 able उव० ६ टी,  
 अमारि, स्त्री० (अमारि) हिंसा निवारण, जीवित-  
 दान Non-Killing सुपा० ११२, —घोस  
 पु० (घोष) अहिंसा की घोषणा Procla-  
 mation of non-killing सुपा० ३०६,  
 —पडह पु० (अटह) हिंसा निषेध का डियिडम  
 Public announcement for prohi-  
 biting killing सण० ६०,  
 अमियकुड न० (अमृतकुण्ड) नगर विशेष का  
 नाम Name of a city, सुपा० २७८,  
 अमियगइ स्त्री० (अमृतगति) एक छन्द विशेष  
 Name of a metre पिंग०  
 अमियजस. पु० (अमितयजस्) एक चक्रवर्ती  
 राजा का नाम Name of a universal  
 monarch महा०  
 अमियतेय पु० (अमिततेजस्) एक जैन मुनि  
 का नाम Name of a Jain saint.  
 उप० ७६८ टी,  
 अमिददल. पु० (अमितदल) इक्ष्वाकु वंश के  
 एक राजा का नाम Name of a king of  
 the Ikshvaku lineage पठम० २, ४,

अभियवेग पु० ( अभितवेग ) राक्षस वंश के एक राजा का नाम, Name of a king of the Raksasa family पउम० १, २६१, अभियासणिय, त्रि० ( अभितासनिक ) एक स्थान पर नहीं बैठने वाला, चंचल Active, Moving कण०  
 अभिमिला, स्त्री० ( अभिमिला ) पाढी, छोटो भैंस, A female young of a buffalo बृह० १, अभिमिलाशय पु० ( अभम्लान ) (१) कुरण्टक वृक्ष The globe-amaranth tree (२) न० कुरण्टक वृक्ष का पुष्प The flower of this tree दे० १, ३७,  
 अमु स० (अदस्) वह, अमुक That पि० ४३२,  
 अमुगत्य त्रि० ( अमुत्र ) अमुक स्थान में There, In that place सुपा० ६०२,  
 असुण त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, मूर्ख, Ignorant, Foolish बृह० १,  
 अमूस त्रि० ( अमृप ) सत्यवादी Truth-speaking कुमा०  
 अमोल्ल त्रि० ( अमूल्य ) जिसकी कीमत न हो सके वह, बहुमूल्य Priceless, Invaluable गउड० सुपा० ११६,  
 अमोहण, न० (अमोहन) (१) मोह का अभाव Absence of delusion of mind which prevents one from discerning the truth वव० १०, (२) पि० मुग्ध नहीं करने वाला Not infatuating कण०  
 अम्मपच, पु० ( आन्नदेव ) एक जैन आचार्य Name of a Jain Acharya प्रव० ७६, गा० ६०६,  
 अम्मो, अ० ( ) (१) आश्चर्य सूचक अव्यय A particle expressing exclamation हे० २, २०८, स्वप्न० २६, (२) माता का संबोधन, हेमाँ, Addressing

mother, 'O' Mother उवा० कुमा०  
 अम्मोस, त्रि० (अमर्त्य) अचम्य, क्षमाके अयोग्य Not pardonable or forgivable सु० च० ४८७,  
 अम्हकेर-अम्हकेर, अम्हच्चय, त्रि० (अस्मदीय) अस्मदीय, हमारा Oul, Ouls हे० २, ६६, सुपा० ४६६,  
 अम्मो, अ० (अहो) आश्चर्य सूचक अव्यय A particle showing surprise or wonder पड०  
 अय पु० (अग) (१) पहाड, पर्वत Mountain (२) साप, सर्प A serpent (३) सूर्य, सूरज The sun आ० २३,  
 अय, पु० (अज) (१) महादेव An epithet of Mahadeo (२) विष्णु An epithet of Vishnu (३) रामचन्द्र Ramchandra (४) ब्रह्मा Brahma (५) कामदेव Cupid, god of love आ० २३, (६) महाग्रह विशेष Name of a great planet (७) बीजोत्पादक शक्ति से रहित धान्य A sort of corn or grain पउम० ११, २५,  
 अय पु० (अय) (१) गमन, गति Going, Moving विशेष० २७६३, (२) लान, प्राप्ति Acquisition (२) अनुभव Experience विशेष० (४) भाग्य, नशीब Good fortune or luck आ० २३,  
 अय न० (अक) (१) दुःख Unhappiness (२) पाप Sin आ० २३,  
 अयड पु० (अकारड) (१) अनुचित समय Improper time महा० (२) अकस्मात्, हठात्, An accident पउम० १, १६४, से० ६, ४४, गउड०  
 अयपिर त्रि० (अजल्पितृ) नहीं बोलने वाला, मौनी Not speaking पि० २६६, ४६६,  
 अयंस, पु० (आदर्श) दर्पण, कौंच, A mir-

doubt, Suspicion सबोध० ४६,  
 अभिसरण न० (अभिसरण) प्रिय के पास जाना  
 Meeting or rendezvous of lovers  
 कुमा०  
 अभिसव पु० (अभिपव) मद्य मास आदि से  
 मिश्रित चीज Distillation or extrac-  
 tion of liquors etc प्रब० ६,  
 अभिसिक्त. त्रि० (अभिपिक्त) जिसका अभिपेक  
 किया गया हो वह Crowned, Installed,  
 Inaugurated आवम०  
 अभिसैगा स्त्री० (अभिपेका) (१) साध्वी, सन्या-  
 सिनी A female saint निसी० चू० १५,  
 (१) साध्वीयों की मुखिया, प्रवर्तिनी A lead-  
 ing female saint धर्म० ३, निसी० चू० ६,  
 अभिसेवा, न० (अभिपेवन) पूजा, सेवा, भक्ति  
 Worship, Adoration पडम० १४, ४६,  
 अभिहा स्त्री० (अभिधा) नाम, आख्या A  
 name, An appellation सख०  
 अभिहाण न० (अभिधान) (१) उच्चारण  
 Pronunciation सूय० नि० १३८, (२)  
 कथन, उक्ति Telling, Speaking  
 धर्म० ११११, (३) कोष ग्रन्थ A dic-  
 tionary, A vocabulary चेइय० ७४,  
 अभिहेअ पु० (अभिधेय) वाच्य, पदार्थ, The  
 subject-matter विशे० ८४१,  
 अमग्य पु० (अमार्ग) कुमत् कुदर्शन. A bad  
 system of philosophy दस०  
 अमच्च पु० (अमर्त्य) देव, देवता A god,  
 A deity कुमा०  
 अमय पु० (अमृत) मोक्ष, मुक्ति Final  
 emancipation सम्म० १६७, प्राप्ता०  
 अमय. त्रि० (अमय) विकार रहित Devoid  
 of levation from the natural  
 state विशे०  
 अमयधडिअ पु० (अमृतवटिक) चन्द्रमा,  
 चाट The moon कुप्र० ०१,

अमर त्रि० (आमर) दिव्य, देव सबन्धी Di-  
 vine, Heavenly पडम० ६१, ४६,  
 अमरगिरि पु० (अमरगिरि) मेरु पर्वत The  
 mount Meru पडम० ६२, ३७,  
 अमरिस्त्रिय त्रि० (अमरपित) मत्सरी, असहिष्णु  
 Impatient, Intoleant आवम० स०  
 २६२,  
 अमरी स्त्री० (अमरी) देवी A Goddess  
 कुमा०  
 अमरीस पु० (अमरेश) इन्द्र India, The  
 God India, The lord of Gods.  
 चेइय० ३१०,  
 अमाण त्रि० (अमान) (१) गर्व रहित, नम्र.  
 Not proud, Polite, gentle कष०  
 (२) असंख्य Numberless, Innume-  
 able उव० ६ टी,  
 अमारि. स्त्री० (अमारि) हिंसा निवारण, जीवित-  
 दान Non-Killing सुपा० ११२, —घोस  
 पु० (घोष) अहिंसा की घोषणा Proclam-  
 ation of non-killing सुपा० ३०६;  
 —पडह पु० (अटह) हिंसा निषेध का डिक्लरम  
 Public announcement for prohib-  
 biting killing सख० ६०,  
 अमियकुड न० (अमृतकुण्ड) नगर विशेष का  
 नाम Name of a city, सुपा० २७८,  
 अमियगद् स्त्री० (अमृतगति) एक छन्द विशेष  
 Name of a metrie पिंग०  
 अमियजस. पु० (अमितयजस्) एक चक्रवर्ती  
 राजा का नाम Name of a universal  
 monarch. महा०  
 अमियनेय पु० (अमितनेजस्) एक जैन मुनि  
 का नाम Name of a Jain saint.  
 उप० ७६८ टी,  
 अमियवल पु० (अमितवल) इक्ष्वाकु वंश के  
 एक राजा का नाम Name of a king of  
 the Ikshvaku lineage पडम० १, २,

अरस पु० ( अरस ) व्याधि विशेष, बवासीर  
Piles आ० २२,  
अरहद्विय त्रि० (अरघट्टिक) अरहद चलाने वाला  
One who drives a wheel or ma-  
chine for raising water from a  
well कुम० ४२४,  
अरहया स्त्री० (अहंया) (१) पूजा Wor-  
ship, Adoration (२) योग्यता Fit-  
ness, Propriety प्रा० २८,  
अरहमित्त पु० (अहमित्त) एक व्यापारी का  
नाम Name of a merchant गच्छ० २,  
अराइ पु० (अराति) रिपु, दुश्मन An ene-  
my कुमा०  
अराइ स्त्री० (अरात्रि) दिन, दिवस A day  
कुमा०  
अरागि त्रि० (अरागिन्) राग रहित, वीतराग  
One who has subdued his pas-  
sions प० ११७, ४१,  
अरिंजय, पु० (अरिंजय) (१) नगवान् ऋषभ-  
देव का एक पुत्र Name of a son of  
Lord Rshabhadeo (२) न० नगर  
विशेष Name of a city प० २, १०६,  
इक० सुर० २, १०३,  
अरिन्त न० (अरिन्त) पतवार, कन्हर, नाव की  
पीछे का डाढ़, जिससे नाव दाहिने बाये घुमायी  
जाती है A rudder or Helm धर्मवि०  
१३२  
अरिदमणी स्त्री० (अरिदमनी) विद्या विपेश A  
kind of magical skill प० ७, १४२,  
अरिदिहो अ० (अरिदिहो) पाद-पूरक अव्यय  
An expletive particle हे० २, २१७,  
अरिविद्धसी स्त्री० (अरिविध्वसी) रिपु का नाश  
करने वाली एक विद्या A kind of magi-  
cal skill destroying enemies  
प० ७, १४०,  
अरिसतास पु० (अरिमतास) राक्षस वश में

उत्पन्न लका का एक राजा Name of a  
king of Lanka born in the Ra-  
ksasa family प० २, २६२,  
अरुतुद. त्रि० (अरुतुद) (१) मर्म वेधक.  
Cutting or wounding the vital  
parts (२) मर्म स्पर्शी Touching the  
vital parts सम्मत्त० १२८,  
अरुणिम पु० स्त्री० (अरुणिमन्) लाली, रक्ता  
Reddish colour सुपा० २८,  
अरुणिय, त्रि० (अरुणित) रक्त, लाल. Red-  
dened, Dyed red, Impurpled ग० ३०  
अरे अ० (अरे) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
An interjection of. (१) आक्षेप  
Imputing (२) विस्मय, आश्चर्य Sur-  
prise, Wonder (३) परिहास Ridi-  
culing, Dending सत्ति० ३८, ४७,  
अरोअत्र, पु० (अरोचक) रोग विशेष, अन्न की  
अलचि Name of a disease, Loss of  
appetite आ० २२,  
अल न० (अल) विच्छेद के पुच्छ का अग्रभाग.  
The sting in the tail of a scor-  
pion. प्रा० १६,  
अलकरिय त्रि० (अलकृत) सुशोभित, विभूषित.  
Decorated, Ornamented सुपा०  
२८४, सुर० ४, ११८,  
अलकार पु० (अलङ्कार) (१) शास्त्र विशेष,  
साहित्य शास्त्र The science and art  
of rhetoric सिरि० २५, सिक्ता० २,  
(२) पु० न० एक देव विमान Name of a  
celestial car देवेन्द्र० १३२,  
अलघ त्रि० (अलङ्घ्य) (१) उल्लंघन करने  
को अयोग्य Improper to transgress.  
सुर० १, ४१, (२) उल्लंघन करने को अशक्य.  
Insurmountable, Inaccessible  
उप० २६७ टी,  
अलङ्क्य त्रि० (अलङ्क्य) लङ्क्य में न आसके



१०१, A looking-glass इक०  
 अयसमुह पु० (आदर्शमुल) इस नाम का एक  
 द्वीप Name of an island (२) द्वीप  
 विशेष का निवासी An inhabitant of  
 that island इक०  
 अयसा न० (अदन) (१) भक्षण Eating (२)  
 खोराक, भोजन Food स० १३०, उ० ८, ७,  
 अयसा न० (अयन) (१) गमन Going,  
 Moving (२) प्राप्ति, लाभ Acquisition  
 विशेष० ८३, (३) ज्ञान, निर्याय  
 Knowing, Understanding विशेष०  
 ८३, (४) त्रि० प्रापक, प्राप्त करने वाला One  
 who obtains विशेष० ६६०,  
 अयसु त्रि० (अज्ञ) अज्ञान, मूर्ख Ignorant,  
 Foolish सुर० ३, १६६,  
 अयसु त्रि० (अतनु) स्थूल, मोटा, महान्  
 Large, Great, Bulky सण०  
 अयसर. त्रि० (अजर) वृद्धावस्था रहित Not  
 subject to old age, Ever young  
 पडि० उव०  
 अयसर पु० न० (अतर) सागर, समुद्र The  
 sea द० २८, (२) त्रि० तरनेको अशक्य Un-  
 able to swim वृह० १, (३) असमर्थ, अशक्त  
 Unable, Weak निसी० चू० १, (४)  
 ग्लान, बिमार Sick, Diseased. वृह० १,  
 अयसामर. त्रि० (अजरामर) (१) जरा और  
 मरणसे रहित Devoid of old age and  
 death नव० २, (२) न० मुक्ति, मोक्ष  
 Salvation पडम० ८, १२७,  
 अयसि त्रि० (अयशस्विन्) अजली, यशोरहित,  
 कीर्तिशून्य Disreputable, Infamous  
 गडड०  
 अया स्त्री० (अजा) (१) माया, अविद्या,  
 (According to Sankhya philoso-  
 phy) Prakriti or Maya (२) प्रकृति,  
 कुदरत Nature हे० ३, ३२, पड०

अयाकिवाणिज्ज पु० (अजाकृपायीय) न्याय  
 विशेष, जैसे बकरी के गले पर अनधारी छुरी पडी  
 है उस माफिक अनधारा किसी कार्य का होना  
 A Name of a maxim, It takes  
 its origin from the unexpected  
 and sudden fall of a knife on the  
 neck of a goat (so as to kill it),  
 and is used to devote a very  
 unexpected and accidental oc-  
 currence आया०  
 अयाण न० (अज्ञान) अज्ञान, ज्ञान का अभाव  
 Absence of knowledge, Igno-  
 rance सत्त० ६३,  
 अयाण त्रि० (अज्ञ, अज्ञान) अज्ञान, अज्ञानी,  
 मूर्ख Ignorant, Foolish ओव० ७४,  
 पडम० २२, ८३, गा० २७६,  
 अयाल पु० (अकाल) अयोग्य समय, अनुचित  
 काल Improper time पडम० २२, ८६,  
 अयालिय त्रि० (अकालिक) आकस्मिक.  
 Accidental, Sudden रभा०  
 अर पु० (अर) (१) बूरी, पहिये का बीचका काष्ठ.  
 The spoke or radius of a wheel  
 आव० २, (२) समय का एक परिमाण, काल  
 चक्र का बारहवाँ हिस्सा A1a, a parti-  
 cular measure of time ती० २१,  
 अरडु पु० (अरटु) वृक्ष विशेष Name of  
 a tree उप० १०३१ टी,  
 अरण न० (अरण) हिंसा Killing. उव०  
 अरणाय. त्रि० (आरण्यक) जगली, जगलवासी.  
 Wild, Forest-born अभि० ६२,  
 अरर न० (अरर) (१) युद्ध A battle, A  
 war (२) ढकना A covering धम्म० ६ टी,  
 अररकुरी. स्त्री० (अररकुरी) नगरी विशेष.  
 Name of a city धम्म० ६ टी,  
 अररि. पु० न० (अररि) किनाडा, द्वार A  
 door प्रामा०

अरस पु० (अशंस) व्याधि विशेष, बवासीर  
Piles आ० २२,  
अरहट्टिय त्रि० (अरहट्टिक) अरहट्ट चलाने वाला  
One who drives a wheel or ma-  
chine for raising water from a  
well कुप्र० ४२४,  
अरहया स्त्री० (अर्हया) (१) पूजा Wo-  
ship, Adoration (२) योग्यता Fit-  
ness, Propriety प्राक० २८,  
अरहमिन्त. पु० (अर्हमिन्त्र) एक व्यापारी का  
नाम Name of a merchant गच्छ० २,  
अराह पु० (अराति) रिपु, दुश्मन An ene-  
my कुमा०  
अराह स्त्री० (अरात्रि) दिन, दिवस A day  
कुमा०  
अरागि त्रि० (अरागिन्) राग रहित, चीतराग  
One who has subdued his pas-  
sions पउम० ११७, ४१,  
अरिजय. पु० (अरिजय) (१) भगवान् ऋषभ-  
देव का एक पुत्र. Name of a son of  
Lord Rashabhadeo (२) न० नगर  
विशेष Name of a city पउम० १, १०६,  
इक० सुर० १, १०३,  
अरिन्त न० (अरिन्त्र) पतवार, कन्हर, नाच की  
पीछे का डड, जिससे नाच दाहिने बाये घुमायी  
जाती है A rudder or Helm धर्मवि०  
१३२  
अरिद्रमयी स्त्री० (अरिद्रमयी) विद्या विप्रेय A  
kind of magical skill पउम० ७, १४५,  
अरिद्रिहो अ० (अरिद्रिहो) पाद-पूरक यव्यय  
An opletive particle हे० २, २१७,  
अरिविद्धसी स्त्री० (अरिविध्वसी) रिपु का नाश  
करने वाली एक विद्या A kind of magi-  
cal skill destroying enemies.  
पउम० ७, १४०,  
अरिसतास पु० (अरिमतास) राक्षस वश में

उत्पन्न लका का एक राजा. Name of a  
king of Lanka born in the Ra-  
ksasa family पउम० १, २६१,  
अरुत्तुद्. त्रि० (अरुत्तुद्) (१) मर्म वेधक.  
Cutting or wounding the vital  
parts (२) मर्म स्पर्शी Touching the  
vital parts सम्मत्त० ११८,  
अरुषिम पु० स्त्री० (अरुषिमन्) लाली, रक्तता  
Reddish colour सुपा० १८,  
अरुषिय, त्रि० (अरुषित) रक्त, लाल. Red-  
dened, Dyed red, Impurpled गउड०  
अरे अ० (अरे) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
An interjection of. (१) आक्षेप  
Imputing (२) विस्मय, आश्चर्य Sur-  
prise, Wonder (३) परिहास Ridi-  
culing, Deiding सच्चि० ३८, ४७,  
अरोअन्न, पु० (अरोचक) रोग विशेष, अन्न की  
अरुचि Name of a disease, Loss of  
appetite आ० २२,  
अल. न० (अल) बिच्छू के पुच्छ का अग्रभाग.  
The sting in the tail of a scoo-  
pion, प्रास० १६,  
अलकारिय त्रि० (अलकृत) सुशोभित, विभूषित.  
Decoated, Ornamented सुपा०  
१८४, सुर० ४, ११८,  
अलकार पु० (अलङ्कार) (१) शास्त्र विशेष,  
साहित्य शास्त्र The science and art  
of rhetoric सिरि० ११, सिक्खा० २,  
(२) पु० न० एक देव विमान Name of a  
celestial car देवेन्द्र० १३५,  
अलघ त्रि० (अलङ्घ्य) (१) उल्लंघन करने  
को अयोग्य Improper to transgress.  
सुर० १, ४१, (२) उल्लंघन करने को अशक्य.  
Insurmountable, Inaccessible  
उप० १६७ डी,  
अलङ्कार त्रि० (अलङ्क्य) लङ्घ्य में न आसके

ऐसा. Invisible, Unobserved सुर०  
३, १३६, महा०  
अलक्षमाणा. त्रि० (अलक्षयमाणा) जो पिछाना  
न जा सक्ता हो, गुप्त Concealed, In-  
visible उप० ५१३ टी,  
अलक्षित त्रि० (अलक्षित) अज्ञात, अपरिचित.  
Unknown, Unobserved से० १३,  
४५, सुर० ४, १४०,  
अलय पु० (अलक) केश, घुघराले वाल. A  
curl, Lock of hair पाञ्च०स० ६६,  
अलि पु० (अलि) अमर. A black bee  
कुमा० —उल्ल न० (कुल) अमरों का समूह  
A flight or number of bees हे०  
४, २५३, —विरुय न० (विरुत) अमर का  
गुजारव Song or hum of a bee पाञ्च०  
अलि पु० स्त्री० (अलि) वृश्चिक राशि. The  
sign Scorpio of the zodiacal विचार०  
१०६,  
अलिया स्त्री० (अलिनी) अमरी A swarm  
of bees कुमा०  
अलिय न० (अलिक) कपाल The fore-  
head पाञ्च०  
अलिह्ला. स्त्री० (अलिह्ला) इस नाम का एक  
छन्द Name of a metre पिंग०  
अलिअ त्रि० (आद्रित) गिला किया हुआ  
Watered, Wetted गा० ४४०,  
अल्हाद पु० (आह्लाद) सुशी, प्रमोद, आनन्द  
Delight, Pleasure प्राप्०  
अव अ० (अप) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
A particle denoting (१) विपरीतता,  
उल्टापन Contrariety 'अवक्य, अवगुय'  
(२) वापिसी, पीछेपन 'अवकर्म' (३) बुरापन,  
खराबपन Bad, Corrupt 'अवमग्य,  
अवसद्' (४) न्यूनता, कमी, Less, In a  
less degree 'अवद्' (५) रहितपन, वियोग  
Exclusion. 'अववाय' (६) बहरपन.

Away 'अवकर्मण'

अव. अ० (अव) निम्न-लिखित अर्थों का सूचक  
अव्यय. A particle expressing  
(१) निम्नता Depressing, Bending  
down 'अवङ्गण' (२) पीछेपन 'अवङ्गण'  
(३) तिरस्कार, अनादर Disrespect  
'अवगण' (४) खराबी, बुराई Badness.  
अवगुण (५) गमन Going (६) अनुभव  
Experience (७) हानि, हास अवकास  
(८) अभाव Absence. अवलदि (९)  
मर्यादा Limit विशेष० ८२,  
अव पु० (अव) शब्द, अवाज A sound,  
A voice. आ० २३,  
अवअत्त त्रि० (अपवृत्त) स्वलित Stum-  
bled, Slipped से० १०, १८,  
अवइ त्रि० (अवतिन्) ब्रत शून्य, अविरत,  
असयत. Not observing religious  
rites बृह० १,  
अवउठण न० (अवगुण्डन) (१) ढकना A  
covering, A mantle (२) मुँह ढकने  
का बख, घँवट A veil for the face  
चार० ७०,  
अवऊढ, त्रि० (अवगूढ) आलिंगित Em-  
braced हे० २, ६, स० ४६६,  
अवऊहण. न० (अवगहन) आलिंगन An  
embrace, Embracing गा० ३३४,  
५५६, वजा० ७३,  
अवपस पु० (अपदेश) बहाना, छल A  
pretext, An excuse पाञ्च०  
अवचित्र. त्रि० (अवचित) नहीं ठगा हुआ.  
Not cheated or deceived वजा० १०,  
अवतर. त्रि० (अवान्तर) भीतरी, बीच का  
Situated or standing between  
आवम०  
अचतिवड्ढण. पु० (अचन्तिवचन) इस नाम  
का एक राजा. Name of a king आच० ४,

अवती. स्त्री० ( अवन्ती ) मालव देश की राजधानी, जो आजकल राजपुताना में 'उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध है Ujjain, the capital of Malva महा० सुपा० ३६६, आवम०  
 अवदिम त्रि० (अवन्ध) वन्दन करने को अयोग्य, प्रणाम करने को अयोग्य Unfit to be saluted. दस० चू० १,  
 अवकय. त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अपकार किया गया हो वह Haimed, Injured. उव० (२) अपकार, अहित Hurt, Offence सुपा० ६४१,  
 अवकारि त्रि० (अपकारिन्) अहित करने वाला, Injuring, Harmful, पउम० ६, ८५,  
 अवकिराणग-य पु० (अपकीर्यक) करकण्डू नामक एक जैन महर्षि का पूर्व नाम Name of a previous name of a Jain sage महा०  
 अवकिदि स्त्री० (अपकृति) अपकार, अहित Hurt, Injury, Disservice प्राकृ० १२,  
 अवकीरण. न० (अवकरण) छोड़ना, त्याग, उस्तरग Abandoning, आव० ५,  
 अवकूजिय न० (अवकूजित) हाथ को उचा नीचा करना Making hands down and up निसी० चू० १७,  
 अवकेसि पु० (अवकेशिन्) फल-वन्ध्य वनस्पति An unfruitful tree उर० २, ८,  
 अवकृत पु० (अवक्रान्त) नरक स्थान विशेष, प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवा नरकेन्द्रक Name of a hell-abode देवेन्द्र० ५,  
 अवकय. पु० (अवकय) भाडा; किराया Wages, Hire, Rent बृह० १,  
 अवस्त्रद पु० (अवस्त्रन्द) (१) शिविर, छावनी, सैन्य का पडाव A camp (२) नगर का रिपु सैन्य द्वारा वेष्टन, घेरा. Attack, Assault हे० २, ४, स० ४१२,

अवगाद्. स्त्री० (अपगति) (१) खराब स्थान. A bad place (२) गोपनीय स्थान A concealable place सुपा० ३४५,  
 अवगमण न० (अवगमन) (१) ज्ञान Know-ledge, Understanding (२) निर्याय, निश्चय, Determination विशेष० १८६, ४०१,  
 अवगमिअ-अवगय. त्रि० (अवगत) (१) ज्ञात, विदित, Knowledge, Perception. सुपा० २१८, (२) निश्चित, अवधारित. Determination स० १४०,  
 अवगार. पु० (अपकार) अपकार, अहितकरण. Harm, Injury. सुर० २, ४३,  
 अवगारय त्रि० (अपकारक) अपकार-कारक. Injuring, Harmful स० ६६०,  
 अवगास. पु० (अवकाश) फुरसत, Leisure, Interval महा०  
 अवगीय त्रि० (अवगीत) निन्दित Abused, Censured उप० पु० १८१,  
 अवगुडिय. त्रि० (अवगुडित) आच्छादित. Covered, Concealed महा०  
 अवगुण. पु० (अवगुण) दुर्गुण, दोष A fault, A demerit हे० ४, ३६५,  
 अवगूहण. न० (अवगूहन) आलिंगन Embracing सुर० १४, २२०, पउम० ७४, २४,  
 अवग्ग त्रि० (अव्यक्त) (१) अस्पष्ट Indistinct, Inarticulate (२) पु० अगीतार्थ, शास्त्रानभिज्ञ साधु A saint, not versed in scriptures उप० ८७४,  
 अवचय पु० (अवचय) इकट्ठा करना. Gathering, Collecting कुमा०  
 अवचिय त्रि० (अवचित) इकट्ठा किया हुआ. Gathered, Collected पात्र०  
 अवछुद. त्रि० (अपछन्दस्क) छन्द के लक्षण से रहित, छन्दो-दोष दुष्ट. Devoid of the laws of metre पिंग०

ऐसा. Invisible, Unobserved सुर०  
३, १३६, महा०  
अलक्ष्मण. त्रि० (अलक्ष्यमाण) जो पिछाना  
न जा सक्ता हो, गुप्त Concealed, In-  
visible उप० १६३ टी,  
अलक्षित त्रि० (अलक्षित) अज्ञात, अपरिचित  
Unknown, Unobserved से० १३,  
४५, सुर० ४, १४०,  
अलय पु० (अलक) केश, घुघराले वाल A  
curl, Lock of hair पाञ्च० स० ६६,  
अलि पु० (अलि) भ्रमर. A black bee  
कुमा० —उल्ल न० (कुल) भ्रमरों का समूह  
A flight or number of bees हे०  
४, २५३, —विरुय न० (विरुत) भ्रमर का  
गुजारव Song or hum of a bee पाञ्च०  
अलि पु० स्त्री० (अलि) वृश्चिक राशि. The  
sign Scorpio of the zodiacal विचार०  
१०६,  
अलिणी स्त्री० (अलिनी) भ्रमरी A swarm  
of bees कुमा०  
अलिय न० (अलिक) कपाल The fore-  
head. पाञ्च०  
अलिज्ञा. स्त्री० (अलिज्ञा) इस नाम का एक  
छन्द Name of a metre पिंग०  
अलिञ्ज त्रि० (आद्रित) गिला किया हुआ  
Watered, Wetted गा० ४४०,  
अलहाद पु० (आह्लाद) खुशी, प्रमोद, आनन्द  
Delight, Pleasure प्राप्त्र०  
अव अ० (अप) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
A particle denoting (१) विपरीतता,  
उल्टापन Contrariety 'अवकय, अवगुय'  
(२) वापिसी, पीछेपन 'अवकमह' (३) बुरापन,  
खराबपन Bad, Corrupt 'अवमग,  
अवसद्' (४) न्यूनता, कमी, Less, In a  
less degree 'अवद्द' (५) रहितपन, वियोग  
Exclusion. 'अववाय' (६) बहरपन,

Away 'अवकमय'

अव. अ० (अव) निम्न-लिखित अर्थों का सूचक  
अव्यय A particle expressing  
(१) निम्नता Depressing, Bending  
down 'अवहृण्य' (२) पीछेपन, 'अवहृण्य'  
(३) तिरस्कार, अनादर Disrespect.  
'अवगण्य' (४) खराबी, बुराई Badness,  
अवगुण्य (५) गमन Going (६) अनुभव  
Experience (७) हानि, हास अवकास  
(८) अभाव Absence. अवलद्धि (९)  
मर्यादा Limit विशेष० ८२,  
अव पु० (अव) शब्द, अवाज़ A sound,  
A voice. आ० २३,  
अवअत्त. त्रि० (अपवृत्त) स्वलित Stum-  
bled, Slipped से० १०, १८,  
अवइ त्रि० (अवतिन्) ब्रत शून्य, अविरत,  
असयत Not observing religious  
rites बृह० १,  
अवउठण न० (अवगुण्ठन) (१) ढकना A  
covering, A mantle (२) मुँह ढकने  
का वस्त्र, घुँघट A veil for the face  
चार० ७०,  
अवऊढ. त्रि० (अवगूढ) आलिंगित Em-  
braced हे० २, ६, स० ४६६,  
अवऊहण. न० (अवगहन) आलिंगन An  
embrace, Embracing गा० ३३४,  
५५६, वजा० ७४,  
अवपस पु० (अपदेश) बहाना, छल A  
pretext, An excuse पाञ्च०  
अवचिअ. त्रि० (अवञ्चित) नहीं ठगा हुआ.  
Not cheated or deceived वजा० १०,  
अवतर त्रि० (अवान्तर) भीतरी, बीच का.  
Situated or standing between  
आवम०  
अवतिवद्दण. पु० (अवन्तिवर्धन) इस नाम  
का एक राजा. Name of a king आव० ४,

अवती स्त्री० ( अवन्ती ) मालव देश की राजधानी, जो आजकल राजपुताना में 'उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध है Ujjain, the capital of Malva महा० सुपा० ३३६, आवम०  
 अवदिम त्रि० (अवन्य) वन्दन करने को अयोग्य, प्रणाम करने को अयोग्य Unfit to be saluted. दस० चू० १,  
 अवकय. त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अपकार किया गया हो वह Harmed, Injured. उव० (२) अपकार, अहित Hunt, Offence सुपा० ६४१,  
 अवकारि त्रि० (अपकारिन्) अहित करने वाला. Injuring, Harmful, पडम० ६, ८२,  
 अवकिराणग-य पु० (अपकीर्णक) करकण्डू नामक एक जैन महर्षि का पूर्व नाम Name of a previous name of a Jain sage महा०  
 अवकिदि स्त्री० (अपकृति) अपकार, अहित Hurt, Injury, Disservice प्राक० १२,  
 अवकीरण. न० (अचकरण) छोडना, त्याग, उत्सर्ग Abandoning, आव० २,  
 अवकूजिय न० (अचकूजित) हाथ को ऊचा नीचा करना Making hands down and up निसी० चू० १७,  
 अवकेसि पु० (अचकेशिन्) फल-वन्ध्य वनस्पति An unfruitful tree उर० २, ८,  
 अवकृत पु० (अचक्रान्त) नरक स्थान विशेष, प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवा नरकेन्द्रक Name of a hell-abode देवेन्द्र० ४,  
 अवक्य. पु० (अचक्य) भाडा; किराया Wages, Hire, Rent बृह० १,  
 अवकण्ड पु० (अचकन्द) (१) शिविर, छावनी, सैन्य का पदाव A camp (२) नगर का रिपु सैन्य द्वारा वेष्टन, घेरा, Attack. Assault हे० २, ४, स० ४१२,

अवगइ. स्त्री० (अपगति) (१) खराब स्थान. A bad place (२) गोपनीय स्थान A concealable place सुपा० ३४२,  
 अवगमण न० (अवगमन) (१) ज्ञान Knowledge, Understanding (२) निर्याय, निश्चय, Determination विशेष० १८६, ४०१,  
 अवगमिअ-अवगय. त्रि० (अवगत) (१) ज्ञात, विदित, Knowledge, Perception. सुपा० २१८, (२) निश्चित, अवधारित. Determination स० १४०,  
 अवगार. पु० (अपकार) अपकार, अहितकरण. Harm, Injury. सुर० २, ४२,  
 अवगारय त्रि० (अपकारक) अपकार कारक. Injuring, Harmful. स० ६६०,  
 अवगास. पु० (अचकाश) फुरसत, Leisure, Interval महा०  
 अवगीय त्रि० (अचगीत) निन्दित Abused, Censured उप० पृ० १८१,  
 अवगुठिय. त्रि० (अचगुठित) आच्छादित. Covered, Concealed महा०  
 अवगुण. पु० (अचगुण) दुर्गुण, दोष A fault, A demerit हे० ४, ३३२,  
 अवगूहण. न० (अचगूहन) आलिगन Emblicing सुर० १४, २२०, पडम० ७४, २४,  
 अवग त्रि० (अचव्यक्त) (१) असष्ट Indistinct, Inarticulate (२) पु० अगीतार्थ, शास्त्रानभिज्ञ साधु A saint, not versed in scriptures उप० ८७४,  
 अवचय. पु० (अचचय) इकट्ठा करना. Gathering, Collecting कुमा०  
 अवचिय. त्रि० (अचचित) इकट्ठा किया हुआ. Gathered, Collected पात्र०  
 अवछुद. त्रि० (अपछन्दस्क) छन्द के लक्षण से रहित, छन्दो-दोष दुष्ट, Devoid of the laws of metre वि०

अवजिम्भ पु० (अपजिह्व) दूसरी नरक पृथ्वी का आठवाँ नरकेन्द्रक, नरक स्थान विशेष. The eighth abode of the second hell देवेन्द्र० ६,  
 अवजीव त्रि० (अपजीव) जीव रहित, मृत, अचेतन Lifeless, Dead गडड०  
 अवजुय. त्रि० (अवयुत) पृथग्भूत, भिन्न. Seperate वच० ७,  
 अवज्जा स्त्री०(अवज्ञा) अनादर Disrespect, Disregard स० ६०४,  
 अवट्टा. स्त्री० (अवर्त्ता) राज मार्ग से बाहर की जगह A crowded place उप० ६६१,  
 अवट्टभ पु० (अवष्टम्भ) दृढता, हिम्मत Courage, Resolute determination. धर्मवि० १४०,  
 अवट्टद्ध त्रि० (अवष्टब्ध) (१) अवलम्बित. Hanging from or upon (२) आक्रान्त Overcome स० २८४,  
 अवट्टद्ध त्रि० (अवष्टब्ध) रोका हुआ Obstructed, Stopped द्रव्य० २७,  
 अवट्टाण. न० (अवस्थान) अवस्था, अवस्थिति State, Situation (२) व्यवस्था Arrangement बृह० ५,  
 अवडक पु० (अवटङ्क) प्रसिद्धि, ख्याति, Renown, Fame, Celebrity महा०  
 अवणामिय. त्रि० (अवनत) अवनत Bent down, Down cast सुपा० ४२६,  
 अवणामिय. त्रि० (अवनसित) नीचे किया हुआ, नमाया हुआ. Caused to bend down सुर० २, ४१,  
 अवणाय पु० (अपनय) निंदा Censure प्रव० १४३, विशेष० १४०३ टी,  
 अवणोयण न०(अपनोदन) अपनयन, दूरीकरण. Removing, Taking away. स० ६२१,

अवणहृअ पु० (अपहृव) अपलाप Denial or disowning of the truth, Dissimulation पद्०  
 अवतसिय त्रि० (अवतसित) विभूषित Decorated, Ornamented कुमा०  
 अवतारण. न० (अवतारण) (१) उतारना Causing to descend (१) योजना करना Arranging, Planning विशेष० ६४० ,  
 अवतासण न० (अवत्रासन) डराना Terrifying, Threatening पव० ७३ टी,  
 अवतित्थ. न० (अपतीर्थ) कुत्सित घाट, खराब किनारा A bad bank सुपा० १२,  
 अवत्त न० (अवत्र) आसन विशेष A kind of seat निसी० चू० १,  
 अवत्त त्रि० (अवात) पवन रहित Devoid of wind गच्छ० १,  
 अवत्त त्रि० (अव्यक्त) अस्पष्ट Indistinct, Not manifest or apparent विशेष०  
 अवत्थतर न० (अवस्थान्तर) जुदी दशा, भिन्न अवस्था Another or altered state सुर० ३, २०६,  
 अवदाण न० (अवदान) शुद्ध कर्म A pure act ती० १५,  
 अवदार न० (अपद्वार) (१) छोटी खिडकी A small door (२) गुप्त द्वार A secret door उप० ६६१,  
 अवधारण. न० (अवधारण) निश्चय, निर्णय Ascertainment, Determination श्रा० ३०,  
 अवधारणा स्त्री० (अवधारणा) दीर्घ काल तक याद रखने की शक्ति The faculty of retaining in the mind, A good retentive memory. सम्मत० ११८,  
 अवधीरिय त्रि० (अवधीरित) तिरस्कृत, अपमानित Disregarded, Disrespected

बृह० १, ४,  
 अवधूय त्रि० ( अवधूत ) (१) विचित्र  
 Shaken, Waved आव० ४, (२)  
 अवज्ञात, तिरस्कृत Discarded, Re-  
 jected शोध० १८ भा० टी,  
 अवनिहय पु० (अपनिद्रक) उजागर, निद्रा का  
 अभाव Wakefulness सुर० ६, ८३,  
 \*अवपक्का स्त्री० (अवपाक्या) तापिका, तवी, छोट्टा  
 तवा A pan नाया० १, १, टी-पत्र० ४३,  
 अवप्पओग पु० (अपप्रयोग) उल्टा प्रयोग,  
 विरुद्ध औपधियों का मिश्रण The reverse  
 of a long experiment बृह० १,  
 अवप्फार पु० (अवस्फार) विस्तार, फैलाव.  
 Spread, Expanse स० २८८,  
 अववध पु० (अववन्ध) वध, बन्धन A  
 bond or tie गडड०  
 अववद्ध त्रि० (अववद्ध) बधा हुआ, नियन्त्रित  
 Restrained, Controlled धर्म० ३,  
 अववाण त्रि० (अपवाण) बाण रहित De-  
 void of an arrow गडड०  
 अववोह पु० (अववोध) (१) ज्ञान, बोध  
 Knowledge, perception सुपा० १७,  
 (२) विकास Blowing, Expanding  
 गडड० (३) जागरण Waking धर्म० २,  
 अववोहि पु० (अववोधि) ज्ञान, निश्चय, निर्णय  
 Knowledge, Perception विशे०  
 ११२४,  
 अवभासण त्रि० (अवभासन) प्रकाश कर्ता  
 Luminous सुख० १, ४०,  
 अवभासि त्रि० (अवभासिन्) देदीप्यमान,  
 प्रकाशने वाला Luminous, Shining  
 गडड०  
 अवभासिय त्रि० (अवभासित) प्रकाशित Il-  
 luminated, Irradiated विशे०  
 अवभासिय त्रि० (अवनापित) आक्रुष्ट, अभि-  
 शप्त Scolded, Censured, Abused

वव० १,  
 अवमगग पु० (अपमार्ग) कुमार्ग, खराब रास्ता  
 A bad way कुमा०  
 अवमच्चु पु० (अपमृत्यु) अकाल मृत्यु, अनमौत  
 मरण A sudden or untimely death,  
 Accidental death कुमा०  
 अवमन्निय-अवमय त्रि० (अवमत) अवज्ञात,  
 अवगणित Despised, Contemned  
 सुर० १६, १२७, महा० उव०  
 अवमाणाण न० (अपमानन) अपमान, तिरस्कार  
 Disrespect, Insult स० १०,  
 अवमाणाणा स्त्री० (अवमानना) अवगणना  
 Dishonour, Disgrace, Disrespect.  
 काल०  
 अवमाणि त्रि० (अवमानिन्) अवज्ञा करने  
 वाला Contemning, Despising.  
 अभि० ६६,  
 अवमारुय पु० (अवमारुत) नीचे चलता पवन.  
 The downward wind गडड०  
 अवमुक्त त्रि० (अवमुक्त) परित्यक्त. Aban-  
 doned, Gave up पि० २६६,  
 अवमेह त्रि० (अपमेघ) मेघ रहित Devold  
 of rain गडड०  
 अवयस पु० (अवतस) (१) शिरो-भूषण  
 विशेष An ornament worn on the  
 head कुमा० गा० १७३, (२) कान का  
 आभूषण. An ornament of ears पात्र०  
 अवयरिअ त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अप-  
 कार किया गया हो वह Harmed, In-  
 jured (२) न० अपकार, अहित करण  
 Harm, Injury सुपा० ४२१,  
 अवयरिअ त्रि० (अवतीर्ण) (१) जन्मा हुआ.  
 Born (१) नीचे उतरा हुआ Descend-  
 ed, Alighted सुर० ६, १८६,  
 अवयाय पु० (अवचाय) अपराध, दोष A  
 fault, An offence उप० १०३१ टी,



अवयार पु० (अवतार) (१) उतरना Descending (२) देहान्तर धारण, जन्म ग्रहण A birth (३) मनुष्य रूप में देवता का प्रकाशित होना Incarnation of a deity स० ४१६, भवि० ४,  
 अवयारि त्रि० (अपकारिन्) अपकार करने वाला Injuring, Harmful स० १७६, विवे० ७६,  
 अवयारिय त्रि० (अवचालित) चलायमान किया हुआ, Moved, Shaken स० ४२,  
 अवयारिमुह. त्रि० (अपराद्मुख) (१) समुख Facing, Fronting (२) तत्पर Closely intent on, Eagerly engaged in पि० २६६,  
 अवयारि. त्रि० (अपरक्त) (१) विरक्त, उदास Free from passion or worldly attachment, In different उप० पृ० ३०८, (२) नाराज, नाखुश Dissatisfied, Displeased सुद्रा० २६७,  
 अवयारिण्यु. स्त्री० (अपरपाणि) एड़ी का पिछला भाग The behind part of the heel वव० ८,  
 अवयारि. अ० (अपरथा) अन्यथा Otherwise, In another way or manner पचा० ८,  
 अवयारिण्यु न० (अपराधित) (१) अपराध, गुनाह A fault, An insult स० ३२०, पउम० ६४, २२, (२) अपकार, अहित, अनिष्ट Ungratefulness, Ingratitude हे० ४, ४४२,  
 अवयारिह्य त्रि० (अपराधिन्) अपराधी, Offending, guilty. प्राक० २०,  
 अवयारिह्य त्रि० (अपराधिन्मुख) (१) पराद्मुख Averse, Opposed (२) पश्चिम दिशा की तरफ मुह किया हुआ With the face turned to the west आव० ४,

अवयारि-रिं अ० (उपरि) ऊपर On, Upon. प्रा०  
 अवयारिण्यु. त्रि० (अपरिगलित) पूर्ण, भरपूर Filled with, Full of स० ११, ८८,  
 अवयारि. त्रि० (अपरितन) उत्तरीय वस्त्र, चदर The upper garment हे० २, १६६, कुमा० गउड० पात्र०  
 अवयारि. स्त्री० (अपरोत्तरा) वायव्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा The north-west वव० ७,  
 अवयारि. त्रि० (अवरुद्ध) घिरा हुआ, Besieged विशे० २६७२,  
 अवयारि. त्रि० (अवलम्बिन्) अवलम्बन करने वाला Hanging down विशे० २३२६,  
 अवयारि. न० (अपलक्ष्य) खराब लक्षण, बुरी आदत The bad habit भवि०  
 अवयारि. त्रि० (अवलग्न) (१) आरूढ Mounted (२) लगा हुआ, सलग्न Clinging or adhering महा०  
 अवयारि. त्रि० (अपलपित) अपहृत, छिपाया हुआ Concealed स० २१२,  
 अवयारि. पु० (अपलाप) अपह्नव Concealment or denial of the truth. निसी० चू० १,  
 अवयारि. त्रि० (अवलुप्त) लोप प्राप्त Elected, Disappeared नाट०  
 अवयारि. -च० पु० (अवलेप) (१) अहकार, गर्व Pride, Airogance (२) लेप; लेपन Smearing, Plastering पात्र० महा० नाट० (३) अवज्ञा, अनानदर Insult, Disrespect गउड०  
 अवयारि. पु० (अवलेह) चादन. A form of medicine चजा० १०४,  
 अवयारि-य पु० (अवलोक) अवलोक, दर्शन.

Seeing, Beholding स० २७६, गडड०  
उप० ६८६ टी० सुपा० ६,  
अवलोक्य न० (अवलोकन) (१) दर्शन, विलो-  
कन, Looking at, Beholding गडड०  
(२) स्थान विशेष Name of a Place  
पडम० ८०, ४, (३) शिखर विशेष Name  
of a summit ती० ४,  
अवलोक्यणी स्त्री० (अवलोकनी) देवी विशेष  
Name of a goddess. सम्मत्त० १६०,  
अवलोक्यणी स्त्री० (अपलोपनी) विद्या विशेष  
A kind of magical skill पडम० ७,  
१३६,  
अवलोहं त्रि० (अपलोह) लोह रहित Devold  
of iron गडड०  
अववक्त्र त्रि० (अपवक्त्र) त्वचा रहित, De-  
void of skin गडड०  
अववर्ग पु० (अपवर्ग) मोक्ष, मुक्ति Salva-  
tion आवस०  
अववरक. पु० (अपवरक) कोठरी, छोटा घर.  
A small room मुद्रा ८१,  
अववाइत्र त्रि० (अपवादिक) अपवाद सबन्धी  
Relating to exception अङ्क० १०८,  
अववाइय. त्रि० (अपवादिक) अपवाद वाला  
Having exception नाट०  
अववीड पु० (अपवीड) निप्पीडन, दवाना,  
Pressing down गडड०  
अवस त्रि० (अवश) अकाम, अनिच्छु Not  
desuous धर्मस० ७००,  
अवसउण न० (अपशकुन) खराब शुक्न,  
अपशुकन An ill omen श्रौव ८१ भा,  
गा० २६१, सुपा० ३६३,  
अवस अ० (अवश्यम्) अवश्य, जरूर, निश्चय.  
Necessarily, Inevitably हे० ४,  
४२७,  
अवसद् पु० (अपशब्द) (१) अशुद्ध शब्द  
An ungrammatical word सुर०

१६, २४८, (२) खराब वचन A bad word  
हे० १, १७२, (३) अपकीर्ति, अपयश Dis-  
grace, Infamy कुमा०  
अवसप्पण. न० (अपसर्पण) अपसरण, अप-  
वर्तन. going away पडम० २६, ७८,  
अवसर. पु० (अवसर) (१) काल, समय  
Time पात्र० (२) प्रस्ताव, मौका Op-  
portunity प्रासू० २७, महा०  
अवसरण न० (अपसरण) (१) पीछे हटना.  
Retreating (२) निवृत्ति Abstain-  
ing from work, Inactivity गडड०  
अवसरिय. त्रि० (अवसरिक) सामायिक,  
समयोपयुक्त Seasonable, Timely सण०  
अवसरिर पु० (अपशरीर) रोग, व्याधि A  
disease उप० २६७ टी०  
अवसव्वय. न० (अपसव्वय) शरीर का दहिना  
भाग The right limb उप० पु० २०८,  
अवसाइत्र त्रि० (अपसादित) प्रसन्न नहीं  
किया हुआ Not appeased or pio-  
pitiated से० १०, ६३,  
अवसाय. पु० (अवसयाय) हिम, Frost,  
Den. गडड०  
अवसारिअ त्रि० (अपसारित) नहीं फैलाया  
हुआ, अविस्तारित Not spread or ex-  
tended से० १, १,  
अवसारिअ. त्रि० (अपसारित) (१) आकृष्ट,  
खींचा हुआ Attracted से० १, १, (२)  
दूर किया हुआ, हटाया हुआ Removed  
सुपा० २२२,  
अवसावण. न० (अवसावण) (१) काजी,  
Gruel वृह० १, (२) भात वगैर का पानी  
Boiled water of any cooked  
food सूक्त० ८६,  
अवसावणिया स्त्री० (अवसावणिका) सोलाने  
वाली विद्या, A kind of magical skill.  
धर्मवि० १२४,

अवसिञ्ज. त्रि० ( अपसृत ) पीछे हटा हुआ  
 Receded, Fallen back से० १३, ६३,  
 अवसिञ्ज त्रि० ( अवसित ) (१) समाप्त, पूर्ण,  
 Finished, Completed (२) ज्ञात,  
 जाना हुआ Known, Understood  
 विशेष० २४८२,  
 अवसिञ्ज त्रि० ( अवसिक्त ) सींचा हुआ  
 Sprinkled, Watered. रभा० ३१,  
 अवसेञ्ज पु० ( अवसेक ) सिञ्चन, छिटाकाव  
 Sprinkling, Bedewing अभि० २१०,  
 अवसेञ्ज त्रि० ( अवसेय ) जानने योग्य  
 Knowable विशेष० २६७१,  
 अवसेसिय त्रि० ( अवशेषित ) (१) बाकी का,  
 अवशिष्ट Remained (२) समाप्त किया  
 हुआ, पार पहुँचाया हुआ Finished,  
 Completed से० ४, ४७,  
 अवसोइया स्त्री० ( अवस्वापिका ) गाढ निद्रा.  
 Sound sleep सु० च० ६०६,  
 अवसोग त्रि० ( अपशोक ) (१) शोक रहित  
 Free from sorrow (२) देव विशेष  
 A kind of gods दीव०  
 अवसोण त्रि० ( अपशोण ) थोडा लाल Pale  
 1ed गउड०  
 अवसोवणी स्त्री० ( अवस्वापनी ) 'अवसोइया'  
 देखो 'अवसोइया' शब्द Vide 'अवसोइया'  
 सु० च० ४७,  
 अवस्त-अ ( अवश्यम् ) जरूर, निश्चय.  
 Necessarily, Inevitably पि० ३१५,  
 अवह त्रि० ( अवह ) नहीं बहता, अचालू, बध  
 Not flowing धर्मवि० १५१,  
 अवह स० ( उभय ) दोनों, युगल A couple,  
 A pair हे० २, १३८,  
 अवहइ. स्त्री० ( अपहति ) विनाश Destruc-  
 tion, Ruin विगे० २०१५,  
 अवहय त्रि० ( अपहत ) नष्ट, नाश प्राप्त.  
 Destroyed, Ruined से० १४, २८,

अवहय. त्रि० ( अवघातक ) अहिंसक Not-  
 killing ओष० नि० ७५०,  
 अवहर त्रि० ( अपहर ) अपहारक, छीन लेने  
 वाला. Taking or carrying away,  
 Stealing गा० १५६,  
 अवहरण न० ( अपहरण ) छीन लेना Taking  
 or carrying away कुमा० सुपा० २५०,  
 अवहार पु० ( अवधार्य ) ध्रुव राशि, गणित-  
 प्रसिद्ध राशि विशेष A particular sign  
 of the zodiac सुज० १०, ६, टी०  
 अवहार पु० ( अपहार ) बाहर करना, निकालना.  
 Removing or driving away  
 निसी० चू० ७,  
 अवहारय. त्रि० ( अपहारक ) छीनने वाला,  
 अपहरण करने वाला One who carries  
 or snatches away सुर० ११, १२,  
 अवहारि त्रि० ( अपहारिन् ) अपहारक, छीनने  
 वाला. One who carries or snatches  
 away सुपा० ५०३,  
 अवहारिय त्रि० ( अवधारित ) निश्चित Ascertain-  
 ed, Determined सुपा० ३३१,  
 स० ५७६, पउम० २३, ६,  
 अवहाविञ्ज त्रि० ( अवधावित ) गमन के लिए  
 प्रेरित Urged to go सिरि० ४३४,  
 अवहास पु० ( अवभास ) प्रकाश, तेज Light,  
 Lustie गउड० प्राप्त०  
 अवहासिणी स्त्री० ( अवहासिनी ) नासा रज्जु.  
 A nose-string गा० ६६४,  
 अवहासिय त्रि० ( अवभासित ) प्रकाशित.  
 Illuminated, Irradiated सुपा० १४२,  
 अवहिय त्रि० ( अपहित ) अहित Disad-  
 vantageous चड०  
 अवहिय, न० ( अवधृत ) अवधारण Ascertain-  
 ment, Determination वर० १,  
 अवहीण त्रि० ( अवहीन ) हीन, उतरता, कम,  
 दरजा वाला. Lower, Inferior नाट०

पि० १२०,

अवहीरण न० (अवधीरण) अवहेलना, तिरस्कार Treating with disrespect गा० १४६, अमि० ६८, गउड०

अवहीरिअ. त्रि० (अवधीरित) अवज्ञात, निरस्कृत Disrespected, Repulsed से० ११, ७, गउड०

अवहीला. स्त्री० (अवहेला) अनादर Disrespect, Disregard सिरि० १७६,

अवहूय. त्रि० (अवधूत) मार भगाया हुआ, Discarded, Rejected, Despised सर्वोध० २२,

अवहेडग-य पु० न० (अवहेटक) आधे सिर का रोग, आधासीसी रोग Name of a disease उत्तनि० ३,

अवहेलअ त्रि० (अवहेलक) तिरस्कारक One who disrespects or disregards सुपा० १०६,

अवहोमुद. त्रि० (उभयमुख) दोनों तरफ मुँह वाला Two-faced प्राक० ३०,

अवाइ त्रि० (अपायिन्) (१) दुःखी Unhappy (२) दोषी, अपराधी Guilty सुपा० २७५,

अवाउड. त्रि० (अन्यापूत) किसी कार्य में नहीं लगा हुआ Unemployed उप०पू०३००

अवाय त्रि० (अम्लान) अम्लान, म्लानि रहित, ताजा Not withered or faded, Fresh स० ३७२,

अवाय पु० (अवाय) (१) पानी का आगमन Coming of water (२) प्राप्ति Acquisition आ० २३,

अवाय त्रि० (अपान) वृक्ष रहित Devoid of trees आ० २३,

अवान त्रि० (अपाक) पाप रहित Free from sins आ० २३,

अवार त्रि० (अपार) पार रहित, अनन्त

Boundless, Unhmted मै० ६८, अवालुआ. स्त्री० (अवालुका) एक स्निग्ध द्रव्य.

A particular only substance तदु० अवाह पु० (अवाह) एक देश विशेष Name of a country इक०

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

अवि अ० (अपि) निम्न लिखित ग्रथों का सूचक अव्यय A particle denoting (१) प्रश्न A question से० ५, ४, (२) अवधारण, निश्चय Ascertainment गा०२०२, (३) विलाप Lamentation पाथ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है. Also used as expletive पउम० ८, १४६, पड० (५) समुच्चय. Totality, All विग्गे० ३५५१,

Bodiless, Incorporal (२) युद्ध  
रहित, कलह-वर्जित Free from battle  
सुपा० २३४,

अविच्छ, त्रि० (अवीप्स्य) वीप्सा रहित, व्याप्ति  
रहित Destitute of pervasion पङ्०

अविशिद्, त्रि० (अविनिद्र) निद्रा-विच्छेद-रहित  
Soundly sleeping गा० ६६,

अविद्-दा, अ० (अविद्-दा) विपाद सूचक  
अव्यय A particle expressing soli-  
low पि० २२, स्वप्न० २८,

अविधि पु० स्त्री० (अविधि) (१) विरुद्ध  
विधि Wrong or improper rites  
(२) विधि का अभाव Absence of  
ceremony बृह० ३, आया० चू० १,

अविज्ञान, त्रि० (अविज्ञान) (१) अज्ञान,  
Ignorant (२) अज्ञात, अपरिचित Un-  
known. पञ्चम० ५, २१६,

अविद्युद्ध त्रि० (अविद्युद्ध) अनियुक्त Not  
skilled सुपा० २८२,

अविद्युत्प त्रि० (अविकल्प) (१) भेद रहित.  
Destitute of option or alterna-  
tive सम्म० ३५, (२) क्रि० वि० नि सशय,  
सशय रहित Without doubt सम्म० ३५,

अविराम त्रि० (अविराम) (१) विराम रहित  
Stopless Pauseless (२) क्रि० वि०  
निरन्तर, हमेशा Always, Daily पाञ्च०

अविस्स, न० (अविश्च) मास और रुधिर  
Flesh and blood प्रब० ४०,

अविह्व त्रि० (अविभव) दरिद्र Poor,  
Indigent गडड०

अविह्वड त्रि० (अविघाट) अविघट Not  
formidable or frightful वव० ७,

अविहावित्र त्रि० (अविभावित) अनालोचित  
Not said or told गडड०

अविहीर त्रि० (अप्रतीच) प्रतीक्षा नहीं करने  
वाला Not waiting कुमा०

अवेक्षि त्रि० (अपेक्षिन्) अपेक्षा करनेवाला  
Expecting गडड०

अवेक्षिख्य त्रि० (अपेक्षित) जिसकी अपेक्षा  
हुई हो वह Looked for, Expected  
अभि० २१६,

अवेक्षिख्य त्रि० (अवेक्षित) अवलोकित  
Looked, Observed अभि० १६६,

अव्यग, न० (अव्यग) (१) पूर्ण अग, पूरा  
शरीर The whole body (२) त्रि०  
अविकल, अत्यून, सपूर्ण Perfect,  
Whole धर्म वि० १७, १२,

अव्यय, न० (अव्यय) 'च' आदि निपात An  
indeclinable particle चेद्दय० ६८३,  
अव्यय त्रि० (अव्रत) व्रत रहित Not obser-  
ving vows विशे० २४४२,

अव्याचार त्रि० (अव्यापार) व्यापार वर्जित  
Having no work, Unemployed  
स० ५०,

अव्याहार पु० (अव्याहार) नहीं बोलना, मौन  
Non speaking, Silence पाञ्च०

अव्यो अ० नीचे के अर्थों में से प्रकरण के अनु-  
सार किसी एक अर्थ का सूचक अव्यय A  
particle denoting (१) सूचना Inform-  
ation (२) सभाषण, Speaking  
(३) अपराध An offence (४) विस्मय  
Surprize, Wonder (५) आनन्द  
Delight, Joy (६) आदर Honour,  
Respect (७) भय Fear (८) पश्चात्ताप  
Repentance हे० २, २०४,

असङ्ग पु० न० (अशकुन) अपशकुन An ill  
omen पचा० ७,

असकल त्रि० (अश्रृखल) शृङ्खला रहित,  
अनियन्त्रित Unrestrained, Uncon-  
trolled कुमा०

असख, न० (असख्य) साख्य मत से भिन्न  
दर्शन Non-Sankhya (Name of

one of the six systems of Hindu philosophy) सुपा० १६६,  
 असगहिय त्रि० (असग्रहिक) (१) संग्रह नहीं करने वाला One who does not hoard, collect or compile. (२) पु० नैगम नय का एक भेद विशेष०  
 असजया न० (असजन) नि सङ्गता, अनासक्ति Indifference, want of attachment, regardlessness निसी० चू० १,  
 असजम. त्रि० (असयम) असमाधि Absence of abstract concentration वव० १,  
 असधिम त्रि० (असन्धिम) व्यवधान रहित, अखण्ड Devoid of intervention बृह० १,  
 असमत पु० (असमान्त) प्रथम नरक का छठवाँ नरकेन्द्रक, नरक स्थान विशेष Name of an abode of the hell देवेन्द्र० ४,  
 असवारिय त्रि० (असवृत) (१) अनाच्छादित Not covered or concealed (२) नहीं रुका हुआ Not obstructed or impeded कुमा०  
 अससि. त्रि० (अससिन्) अविनश्वर Not perishable or transient कुमा०  
 अससक. त्रि० (असक्य) जिसको न कर सके वह Impossible or impracticable सुपा० ६११,  
 असक त्रि० (अशक्त) असमर्थ Unable, Incapable कुमा०  
 असकण्डिज त्रि० (अशकनीय) अशक्य Impossible कुमा०  
 असड्ड त्रि० (अश्रद्ध) श्रद्धा रहित Devoid of trust or confidence कुमा०  
 असण न० (असन) क्षेपण, फेंकना Throwing or casting विशेष० २७१६,  
 असणि पु० (अशानि) एक नरक स्थान Name

of particular hell-abode देवेन्द्र० २६,  
 असणिण्यह पु० (अशनिग्रम) रावण के मामा का नाम Name of a maternal uncle of Ravana से० १२, ६१,  
 असणिवेग पु० (अशनिवेग) विद्याधरों का एक राजा Name of a Vidyadhar king पउम० ६ १५७,  
 असणी स्त्री० (अशनी) जिह्वा, जीभ A tongue सुख० २, ४२,  
 असण्य त्रि० (असज्ञ) सज्ञा रहित, अचेतन. Insensible, लहुअ० ६,  
 असत्ति स्त्री० (अशक्ति) सामर्थ्य का अभाव Inability, Incapacity —मत. त्रि० (मत) असमर्थ, अशक्त Unable, Weak पउम० ६६, ३६,  
 असत्थ. त्रि० (अस्वस्थ) अतदुरस्त, विमार Not well, Sick, Diseased सुर० ३, १२७,  
 असद् पु० (अशब्द) अकीर्ति, अपयश Infamy, Disgrace, Ill-repute गच्छ० २,  
 असद्भावि त्रि० (असद्भावित्) झूठ असत्य Unttrue, False महा०  
 असम, त्रि० (असम) असमान, असाधारण Unequalled, matchless सुर० ३, २४,  
 (२) एक, तीन, पाच आदि एकाई सख्या वाला, विषम Uneven, odd (as a number) गउड०  
 असमवाइ न० (असमवायिन्) नैयायिक और वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष (In logic) an accidental cause, not inherent and intimate relation विशेष० २०६६,  
 असमसर पु० (असमशर) कामदेव An epithet of Cupid, god of love गउड०

असलील त्रि० ( अश्लील ) असभ्य (भाषा)  
 Vulgar, Abusive, Coarse मोह० ८७,  
 असवराण० त्रि० ( असवर्ण ) असमान, असाधारण  
 Unequaled, Matchless सपण०  
 असवार पु० ( अश्ववार ) घुड़ सवार A  
 horseman, A rider धर्मवि० ४१,  
 असह त्रि० ( असह ) (१) असमर्थ Un-  
 able, Incapable वव० १, (२) असहिष्णु  
 Unable to bear or endure कुमा०  
 सुपा० ६२०, (३) खेद करने वाला Re-  
 gretting पाय०  
 असहाय त्रि० ( असहाय ) (१) सहाय रहित  
 Without companions or assist-  
 ants (२) एकाकी Lonely, Solitary  
 बृह० ४,  
 असागारिय० त्रि० ( असागारिक ) गृहस्थों के  
 आवागमन रहित (स्थान) (A place)  
 Not being visited by house-  
 holders वव० ३,  
 असाहण न० ( असाधन ) असिद्धि Non-  
 accomplishment सुर० ४, २४८,  
 असि स्त्री० ( असि ) बनारस की एक नदी का  
 नाम Name of a river near  
 Benaras ती० ३८, —कुड न० ( कुण्ड )  
 मथुरा का एक तीर्थ स्थान A holy place  
 of Mathura ती० ६,  
 असिद्ध त्रि० ( असिद्ध ) तर्क शाब्द प्रसिद्ध  
 दुष्ट हेतु, A fallacy विशे० २८२४,  
 असिय० त्रि० ( अशित ) अन्न, खादित Eaten  
 पात्र० सुपा० २१२,  
 असिचिण पु० ( अस्वप्न ) देव, देवता, A  
 god, A deity प्रामा०  
 असिसुई स्त्री० ( अशिषी ) शिष्य रहित स्त्री  
 A childless woman प्राक० २८,  
 असीद्ग० त्रि० ( अशीतिक ) अस्ती वर्ष की  
 उम्र वाला Eighty years old तदु० १७,

असीम त्रि० ( असीमन् ) निस्सीम Im-  
 measurable, Boundless उप० ७२८टी,  
 असु० पु० व० ( असु ) (१) प्राण The five  
 vital breaths or life-winds in the  
 body स० ३८३, (२) न० चित्त The  
 mind (३) ताप Heat प्राप्र० वृष० ११,  
 असुणि त्रि० ( अश्रोतृ ) नहीं सुनने वाला  
 Not hearing 'असुणि सुणसु' वजा० ७२,  
 असूया स्त्री० ( असूया ) असूया, असहिष्णुता  
 Envy, Intolerance, Jealousy दस०  
 असेव्व त्रि० ( असेव्य ) सेवा के अयोग्य Un-  
 fit to be served गडड०  
 असोभण० त्रि० ( अशोभन ) असुन्दर, खराब  
 Awkward, Bad पडम० ६६, १६,  
 असोयवाइ त्रि० ( अशौचवादिन् ) अशौच को  
 ही मानने वाला One believing in  
 impurity ओघ० नि० ३१८,  
 असोहि० स्त्री० ( अशोधि ) (१) अशुद्धि, Im-  
 purity, Foulness (२) विराधना  
 Opposing ओघ० नि० ७८८, —ठाण०  
 न० (स्थान) (१) पाप कर्म The sin (२)  
 अशुद्धि का स्थान A place of impurity  
 (३) दुर्जन का ससर्ग Contact of the  
 wicked ओघ० नि० ७६३,  
 अस्स न० ( आस्य ) मुख, मुँह, The  
 mouth गा० ६८६,  
 अस्स, न० ( अन्न ) (१) अश्रु, आसू Tears  
 (२) रुधिर, खून Blood प्राक० २६,  
 अस्सख० त्रि० ( असख्य ) सख्या रहित  
 Beyond calculation, Countless,  
 Innumerable उप० १७,  
 अस्सजय त्रि० ( अस्वयत ) गुरु की आज्ञानुसार  
 चलनेवाला, अस्वच्छदी Obedient आ० ३१,  
 अस्सदम पु० ( अश्वन्दम ) अश्व पालक A  
 horse-groom सु० व० ६४४,  
 अस्सत्थ पु० ( अस्वत्थ ) अतदुरस्त, विमार०

Not well, Sick माल० ६२, सुर० २, १२१,  
अस्सम पु० (आश्रम) (१) स्थान, जगह A  
place (२) ऋषियों का स्थान A  
hermitage, A dwelling or abode  
of ascetics अमि० ६६, स्वप्न० २२,  
अस्सु, पु० न० (अश्रु) आसू, A tear  
'अस्सू' संक्षि० १७,

अस्सुकुत्रि० (असुकुत्र) जिसकी चुगी माफ की  
गई हो वह, उप० २१७ टी,

अस्सोयव्व. त्रि० (अश्रोतव्य) सुननेके अयोग्य  
Unfit to be heard सुर० १४, २,

अह स० (अदस्) यह, वह This पाअ०

अह. न० (अघ) पाप A sin पाअ०

अहइ अ० (अयकिम्) स्वीकार सूचक अव्यय,  
हाँ, अच्चा Yes, Exactly so, Quite  
so नाट० प्रयो० २,

अहकार पु० (अहकार) अभिमान, गर्व  
Pride, Arrogance स्वप्न० ८२,

अहकारि त्रि० (अहकारिन्) अभिमानी, गर्विष्ठ  
Proud, Arrogant गउड०

अहणिस न० (अहर्निश) रात दिन, सर्वदा.  
Always Daily पिं०

अहरिणस न० (अहर्निश) रात दिन निरन्तर  
Always, Daily नाट०

अहन्न. त्रि० (अघन्य) अप्रशस्त्य, हतभाग्य  
Unfortunate, Unlucky सुर० २, ३७,

अहममिआ-अहममहिगया-अहममहिगा  
खी० (अहममिका) मैं इससे पहले हो जाऊँ  
ऐसी चेष्टा, अत्युत्कृष्टा Emulation,  
Competition, Assertion of su-  
periority गा० २८०, सुपा० २४, १३२,  
१४८,

अहम्माणि (अहम्मानिन्) अभिमानी Arro-  
gant, Proud आवम०

अहरीकय. त्रि० (अधरीकृत) तिरस्कृत, अव-  
गणित Contempered, Disregarded

सुपा० ४,

अहल त्रि० (अफल) निष्फल, निरर्थक  
Fruitless, Vain प्रासू० १३२, रमा०

अहह. अ० (अहह) इन अर्थोंका सूचक अव्यय  
A particle of interjection

implying (१) आमन्त्रण Calling  
(२) खेद Sorrow or regret (३)

आश्चर्य Wonder or surprise (४)  
दुःख Pain (५) आधिक्य, प्रकर्ष Excess

हे० २, २१७, आ० १४, कप्पू० गा० १२६,

अहासल त्रि० (अहास्य) हास्य रहित.  
Devoid of laughter सुपा० ६१०,

अहि. अ० (अधि) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
A particle expressing (१) अधिक्य,

विशेषता Access 'अहिगघ, अहिमास' (२)  
अधिकार, सत्ता Authority 'अहिगाय' (३)

ऐश्वर्य Supremacy 'अहिद्वार' (४)  
ऊचा, उपर, Over, Above 'अहिद्वार'

अहिआअ न० (अभिजात) कुलीनता, खान-  
दानी Noble birth गा० ३८,

अहिआइ, खी० (अभिजाति) कुलीनता  
Noble पड०

अहिउत्त त्रि० (अभियुक्त) (१) विद्वान्, पण्डित  
Well-versed or Learned, Pro-

ficient in (२) उद्यत, उद्योगी Diligent,  
Persevering पाअ० (३) शत्रु से विरा

हुआ Attacked or assailed वेणी०  
१२३ टी,

अहिओय पु० (अभियोग) (१) सबन्ध  
Connection गउड० (२) दोषारोपण

A charge, Accusation. स० २२६,  
अहिद पु० (अहीन्द्र) (३) ~~अहीन्द्र~~

नाग The lord of  
(२) श्रेष्ठ सर्प An exce-

कुमा०

अहिद्वुर न० (अहीन्द्रपुर)



असलील त्रि० ( अस्लील ) असभ्य (भाषा)  
 Vulgar, Abusive, Coarse मोह०८७,  
 असवर्ण. त्रि० (असवर्ण) असमान, असाधारण  
 Unequalled, Matchless सण्य०  
 असवार पु० (अस्वार) घुड़ सवार A  
 horseman, A rider धर्मवि० ४१,  
 असह त्रि० (असह) (१) असमर्थ Un-  
 able, Incapable वव० १ (२) असहिष्णु  
 Unable to bear or endure कुमा०  
 सुपा० ६२०, (३) खेद करने वाला Re-  
 gretting पात्र०  
 असाहाय त्रि० (असाहाय) (१) सहाय रहित  
 Without companions or assist-  
 ants (२) एकाकी Lonely, Solitary  
 वृह० ४,  
 असागारिय. त्रि० (असागारिक) गृहस्थों के  
 आवागमन रहित (स्थान) (A place)  
 Not being visited by house-  
 holders वव० ३,  
 असाहय न० (असाधन) असिद्धि Non-  
 accomplishment सुर० ४, २४८,  
 असि स्त्री० (असि) बनारस की एक नदी का  
 नाम Name of a river near  
 Benaras ती० ३८, —कुड न० (कुण्ड)  
 मथुरा का एक तीर्थ स्थान A holy place  
 of Mathura ती० ६,  
 असिद्ध त्रि० (असिद्ध) तर्क शास्त्र प्रसिद्ध  
 दुष्ट हेतु, A fallacy विशेष० २८२४,  
 असिय, त्रि० (अशित) भुक्त, खादित Eaten  
 पात्र० सुपा० २१२,  
 असिविण पु० (अस्वप्न) देव, देवता. A  
 god, A deity प्रामा०  
 असिसुई स्त्री० (अशिश्वी) शिशु रहित स्त्री.  
 A childless woman प्राक्० २८,  
 असीद्ग त्रि० (अशीतिक) अस्ती वर्ष की  
 उम्र वाला Eighty years old. तदु० १७,

असीम त्रि० (असीमन्) निस्सीम Im-  
 measurable, Boundless उप० ७२८टी,  
 असु. पु० व० (असु) (१) प्राण The five  
 vital breaths or life-winds in the  
 body स० ३८३, (२) न० चित्त The  
 mind (३) ताप Heat प्राप्र० वृप० ११,  
 असुणि त्रि० (अश्रोतृ) नहीं सुनने वाला  
 Not hearing 'असुणि सुणसु' वजा० ७२,  
 असूया स्त्री० (असूया) असूया, असहिष्णुता  
 Envy, Intolerance, Jealousy दस०  
 असेव्व त्रि० (असेव्य) सेवा के अयोग्य Un-  
 fit to be served गडड०  
 असोमण, त्रि० (अशोभन) अमुन्दर, खराब  
 Awkward, Bad पडम० ६६, १६,  
 असोयवाइ. त्रि० (अशौचवादिन्) अशौच को  
 ही मानने वाला One believing in  
 impurity ओव० नि० ३१८,  
 असोहि स्त्री० (अशोधि) (१) अशुद्धि, Im-  
 purity, Foulness (२) विराधना.  
 Opposing ओव० नि० ७८८, —ठाण.  
 न० (स्थान) (१) पाप कर्म The sin (२)  
 अशुद्धिका स्थान A place of impurity  
 (३) दुर्जन का ससर्ग Contact of the  
 wicked ओव० नि० ७६३,  
 अस्स न० (आस्य) मुख, मुँह. The  
 mouth गा० ६८६,  
 अस्स. न० (अस्स) (१) अश्रु, आसू Tears  
 (२) रुधिर, खून Blood प्राक्० २६,  
 अस्सख. त्रि० (असख्य) सरया रहित  
 Beyond calculation, Countless,  
 Innumerable उप० १७,  
 अस्सजय त्रि० (अस्वयत्) गुरु की आज्ञानुसार  
 चलनेवाला, अस्वच्छदी Obedient आ० ३१,  
 अस्सदम पु० (अश्वन्दम) अश्व पालक A  
 horse-groom सु० च० ६४४,  
 अस्सत्थ. पु० (अस्वस्थ) अतदुर्मन्, निमार

Not well, Sick माल० ६५, सुग० ३, १५१,  
 अस्सम पु० (आश्रम) (१) स्थान, जगह A  
 place (२) ऋषियों का स्थान A  
 hermitage, A dwelling or abode  
 of ascetics अभि० ६६, स्वप्न० २५,  
 अस्सु. पु० न० (अश्रु) आसू, A tear  
 'अस्सू' संधि० १७,  
 अस्सुकुत्रि० (अशुक्ल) जिसकी चुगी माफ की  
 गई हो वह. उप० ५१७ टी,  
 अस्सोयव्व. त्रि० (अश्रोतव्य) सुनने के अयोग्य  
 Unfit to be heard सुर० १४, २,  
 अह स० (अद्) यह, वह This पात्र०  
 अह. न० (अघ) पाप A sin पात्र०  
 अहद् अ० (अथकिम्) स्वीकार सूचक अव्यय,  
 हाँ, अच्चा Yes, Exactly so, Quite  
 so नाट० प्रथो० ५,  
 अहकार पु० (अहकार) अभिमान, गर्व  
 ,Pride, Arrogance स्वप्न० ८२,  
 अहकारि त्रि० (अहकारिन्) अभिमानी, गर्विष्ट.  
 Proud, Arrogant गडड०  
 अहणिस न० (अहर्निश) रात दिन, सर्वदा.  
 Always Daily पिंग०  
 अहणिस न० (अहर्निश) रात दिन निरन्तर  
 Always, Daily नाट०  
 अहन्न. त्रि० (अधन्य) अग्रशस्य, हतभाग्य  
 Unfortunate, Unlucky सुर० २, ३७,  
 अहमहमिआ-अहमहमिगया-अहमहमिगा  
 स्त्री० (अहमहमिका) मैं इससे पहले हो जाऊँ  
 ऐसी चेष्टा, अत्युत्कृष्टा Emulation,  
 Competition, Assertion of su-  
 periority गा० ५८०, सुपा० ५४, १३२,  
 १४८,  
 अहम्माणि (अहम्मानिन्) अभिमानी Arro-  
 gant, Proud आवम०  
 अहरीकय. त्रि० (अधरीकृत) तिरस्कृत, अच-  
 गणित Contempered, Disregarded

सुपा० ४,  
 अहल त्रि० (अफल) निष्फल, निरर्थक  
 Fruitless, Vain प्रासू० १३५, रमा०  
 अहह. अ० (अहह) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
 A particle of interjection  
 implying (१) आमन्त्रण Calling  
 (२) खेद Sorrow or regret (३)  
 आश्चर्य Wonder or surprise (४)  
 दुःख Pain (५) आधिक्य, प्रकर्ष Excess  
 हे० २, २१७, आ० १४, कप्पू० गा० ६५६,  
 अहासल त्रि० (अहास्य) हास्य रहित  
 Devoid of laughter सुपा० ६१०,  
 अहि अ० (अधि) इन अर्थों का सूचक अव्यय.  
 A particle expressing (१) अधिक्य,  
 विशेषता Access 'अहिगध, अहिमास' (२)  
 अधिकार, सत्ता Authority 'अहिगय' (३)  
 ऐश्वर्य Supremacy 'अहिद्वार' (४)  
 ऊचा, ऊपर. Over, Above 'अहिद्वा'  
 अहिआअ न० (अभिजात) कुलीनता, खान-  
 दानी Noble birth गा० ३८,  
 अहिआइ, स्त्री० (अभिजाति) कुलीनता  
 Noble पड०  
 अहिउत्त त्रि० (अभियुक्त) (१) विद्वान्, पण्डित  
 Well-versed or Learned, Pro-  
 ficient in (२) उद्यत्, उद्योगी Diligent,  
 Persevering पात्र० (३) शत्रु से विरा  
 हुआ Attacked or assailed वेणी०  
 १२३ टी,  
 अहिओय पु० (अभियोग) (१) सबन्ध  
 Connection गडड० (२) दोषारोपण  
 A charge, Accusation. स० २२६,  
 अहिंद पु० (अहीन्द्र) (१) सर्पों का राजा, शंष  
 नाग The lord of snakes अशु० १;  
 (२) श्रेष्ठ सर्प An excellent serpent  
 कुमा०  
 अहिंदपुर न० (अहीन्द्रपुर) वासुकि नगर A

city named Vasuki — वाह. पु०  
 (नाथ) विष्णु, अच्युत An epithet of  
 Vishnu अचु० २६,  
 अहिंसण न० (अहिंसन) अहिंसा Non-  
 killing धर्म० १,  
 अहिकखिर. त्रि० (अभिकाचिन्) अभिलाषी,  
 इच्छुक Desirous सण०  
 अहिकय, त्रि० (अधिकृत) जिसका अधिकार  
 चलता हो वह, प्रस्तुत Under discuss-  
 sion, Taken in hand विशेष० १२८,  
 अहिकिञ्च अ० (अधिकृत्य) अधिकार कर,  
 उद्देश कर With reference to, Re-  
 garding, Concerning आचु० १,  
 अहिक्षिप्त. त्रि० (अधिक्षिप्त) (१) तिरस्कृत  
 Contempted, Disregarded (२)  
 निन्दित Censured (३) स्थापित Es-  
 tablished. (४) परित्यक्त Abandoned  
 (५) क्षिप्त Thrown नाट०  
 अहिकखेव पु० (अधिक्षेप) (१) स्थापिन.  
 Establishment (२) प्रेरणा. Instiga-  
 tion नाट०  
 अहिगघ त्रि० (अधिगन्ध) अधिक गन्ध वाला  
 Very fragrant or scented गडड०  
 अहिगम पु० (अधिगम) (१) उपलम्भ,  
 प्राप्ति Acquisition (२) सेवा, भक्ति  
 Worship, Adoration (३) ज्ञान  
 Knowledge विशेष० ६०८,  
 अहिगमण न० (अधिगमन) ज्ञान, निर्णय,  
 उपलम्भ Knowledge, perception  
 विशेष०  
 अहिगमिय त्रि० (अधिगत) (२) ज्ञात  
 Known, Learnt (३) निश्चित As-  
 certained, Determined सुर० १, १८१,  
 अहिघाय पु० (अभिघात) आस्फालन, आघात  
 Striking, Beating, Smiting गडड०  
 अहिजाइ. स्त्री० (अभिजाति) कुलीनता

Noble birth प्राप्र०  
 अहिज्ज त्रि० (अभिज्ज) जानकार, निपुण Skil-  
 ful, Proficient पि० २६६, प्राप्.  
 अहिज्जण. न० (अध्ययन) पठन, अभ्यास  
 Study, Learning विशेष० ७ टी,  
 अहिज्जाविय. त्रि० (अध्यापित) पाठित, पढाया  
 हुआ Taught उप० पु० ३३,  
 अहिज्जिय त्रि० (अधीत) पठित, अभ्यस्त.  
 Studied सुर० ८, १२१, उप० २३० टी,  
 अहिद्वायग. त्रि० (अधिद्वायक) अध्यक्ष, अधि-  
 पति A superintendent or presi-  
 dent कुप्र० २१६,  
 अहिणदि त्रि० (अभिनिन्दिन्) आनन्द मानने  
 वाला Rejoicing, Delighting स०  
 ६७७,  
 अहिणव पु० (अभिनव) सेतुबंध काव्य का  
 कर्ता राजा प्रवरसेन Name of a king,  
 author of the poetry setubandha.  
 से० १, ६,  
 अहिणिविट्ट त्रि० (अभिनिविष्ट) आग्रह प्रस्त.  
 Obstinate, Perverse स० २७३,  
 अहिणिवेस. पु० (अभिनिवेश) आग्रह, हठ.  
 Obstinacy, Stubboinness स०  
 ६२३, अभि० ६५,  
 अहिणिवेसी. त्रि० (अभिनिवेशिन्) आग्रही.  
 Obstinate, Perverse पि० ४०२  
 अहिणी स्त्री० (अहि) नागिन A female  
 serpent वजा० ११४,  
 अहिणील. त्रि० (अभिनील) हरा, हरा रंग  
 वाला Green गडड०  
 अहिराणाण न० (अभिज्ञान) चिन्ह, निशानी.  
 A sign, A token अभि० १३,  
 अहिरणु त्रि० (अभिज्ञ) निपुण, ज्ञाता.  
 Knowing, Aware of हे० १, ५६,  
 अहिदायग त्रि० (अभिदायक) देने वाला,  
 दाता One who gives, A donor.

सुपा० ५४,

अहिदेवया स्त्री० (अधिदेवता) अधिष्ठाता

देव A presiding god सुपा० ६०, कर्पू०

अहिद्वय त्रि० (अभिद्वय) हैरान किया हुआ

Tormented, Harassed स० ५१४,

अहिमजु पु० (अभिमज्जु) अर्जुन के एक

पुत्र का नाम Name of one of the

sons of Arjuna कुमा०

अहिमतण त्रि० (अभिमन्त्रण) मन्त्रित करना,

मन्त्र से सस्कारना Consecrating,

Making sacred by repetition of

special formulas of Mantras भवि०

अहिमतिअ त्रि० (अभिमन्त्रित) मन्त्र से

संस्कृत Consecrated महा०

अहिमय. त्रि० (अभिमत) समत, इष्ट Deal,

Beloved, Agreeable स० २००,

अहिमाण पु० (अभिमान) गर्व, अहंकार

Arrogance, Pride प्रा० १७, सण०

अहिमाणि त्रि० (अभिसानिन्) अभिसानी,

गर्विष्ठ Arrogant, Proud, Conceit-

ed स० ४३१

अहिमार पु० (अभिमार) वृक्ष विशेष A

kind of tree उत्तनि० ३,

अहिमास पु० (अधिमास) अधिक मास

An intercalary (lunar) month

निसी० चू० २०, आव० १,

अहिमुख त्रि० (अभिमुख) समुख, सामने रहा

हुआ Towards, Facing से० १, ४४,

पडम० ८, १६७, गडड०

अहिमुहि (ही)हूअ. त्रि० (अभिमुखीभूत)

सामने आया हुआ Come or approach-

ed near पडम० १२, १०५, ४५, ६,

अहिय त्रि० (अधीत) पठित, अभ्यस्त

Studied, Learnt सुर० ४, १५४,

अहियार पु० (अभिचार) शत्रु के वध

के लिए किया जाता मन्त्रादि प्रयोग

Employment of magical spells  
for malevolent purposes गडड०

अहिर पु० (अामीर) अहीर, गोवाला A  
cow-head गा० ८११,

अहिरम्म त्रि० (अभिरम्य) सुन्दर, मनोहर  
Beautiful, Lovely, Charming

भवि०  
अहिराम त्रि० (अभिराम) सुन्दर, मनोरम

Beautiful, Handsome पात्र०  
अहिरामिण त्रि० (अभिरामिन्) आनन्द देने

वाला Pleasing, Delightful सण०  
अहिराय पु० (अधिराज) (१) राजा A king

बृह० ३, (२) स्वामी, पति. A husband.  
सण०

अहिराय न० (अधिराज्य) राज्य, प्रमुखत्व  
Supremacy, Imperial dignity

सहि० ७,  
अहिरूख त्रि० (अभिरूप) (१) सुन्दर, मनोहर.

Beautiful, Handsome अभि० २११,  
(२) अनुरूप, योग्य, Conformable or

suitable to विक्र० ३८,  
अहिरोहण न० (अधिरोहण) ऊपर चढ़ना,

आरोहण, Ascended, Mounted मा०  
४०,

अहिरोहि त्रि० (अधिरोहिन्) ऊपर चढ़ने  
वाला Ascending, Mounting अभि०

१७०,  
अहिल. त्रि० (अखिल) सकल, सब. All,

Whole गडड० रसा०  
अहिलकख. त्रि० (अभिलक्ष्य) अनुमान से

जानने योग्य Knowable by an in-  
ference गडड०

अहिलसिल त्रि० (अभिलषित) वाञ्छित  
Desired, Wished सुर० ४, २४८,

अहिलोल त्रि० (अभिलोल) चपल, चंचल.  
Unsteady, Fickle गडड०

अहिलोहित्रा स्त्री० (अभिलोभिका) लोलुपता,  
 तृष्णा Strong desire, Greed,  
 Avidity से० ३, ४७,  
 अहिवदिय त्रि० (अभिवन्दित) नमस्कृत,  
 Respectfully bowed or saluted  
 से० ६४१,  
 अहिवद्धिय त्रि० (अभिवर्धित) बढ़ाया हुआ  
 Increased से० २४७,  
 अहिवल्ली स्त्री० (अहिवल्ली) नाग वल्ली  
 A kind of creeper सिरि० ८७,  
 अहिवाहय, त्रि० (अभिवाहित) अभिनन्दित  
 Congratulated से० ३१४,  
 अहिवाल त्रि० (अधिपाल) पालक, रक्षक  
 A protector, A guide भवि०  
 अहिवासि त्रि० (अधिवासिन्) निवासी An  
 inhabitant, Living चेइय० ६८७,  
 अहिवासिय त्रि० (अधिवासित) सजाया हुआ,  
 तय्यान् किया हुआ, Made ready, Pre-  
 pared दस० ३, १ टी,  
 अहिसका स्त्री० (अभिशङ्का) भ्रम, सदेह  
 Doubt, Suspicion पदम० ४२, २१,  
 अहिसजमण न० (अभिसयमन) नियन्त्रण  
 Restraint, Control गडड०  
 अहिसरण, न० (अभिसरण) प्रिय के समीप  
 गमन Going to meet lover से०  
 २३३,  
 अहिसाम त्रि० (अभिश्याम) काला, कृष्ण वर्ण  
 वाला Black, Dark गडड०  
 अहिसारण, न० (अभिसारण) (१) आनयन,  
 Binging से० १०, ६२, (२) पति के  
 लिए सकेत स्थान पर जाना Assigment  
 or appointment of lovers गडड०  
 अहिसारिअ त्रि० (अभिसारित) आनीत  
 Brought ने० १, १३,  
 अहिसारिआ स्त्री० (अभिसारिका) नायक को  
 मिलने के लिए सकेत स्थान पर जाने वाली स्त्री,

A woman who goes to meet her  
 lover कुमा०  
 अहिसोढ त्रि० (अधिसोढ) सहन किया हुआ  
 Borne, Suffered, Endured उप०  
 १४७ टी,  
 अहिस्सग पु० (अभिष्वह) आसक्ति In-  
 tense attachment or devotion.  
 नाट०  
 अहिहय त्रि० (अभिहत) (१) आघातप्राप्त  
 Struck, Beaten. से० २, ७७, (२)  
 मारित, व्यापादित Killed से० १४, १२,  
 अहीकरण न० (अधिकरण) कलह, झगडा A  
 quarrel, A strife निसी०चू० १०,  
 अहीरु, त्रि० (अभीरु) निडर, निर्भिक, Fear-  
 less, Undaunted भवि०  
 अहीसर पु० (अधीश्वर) परमेश्वर God  
 प्रामा०  
 अहुआसेय त्रि० (आहुताशेय) यग्नि के अयो-  
 ग्य Unfit for fire गडड०  
 अहुल्ल, त्रि० (अफुल्ल) अविफालि Not  
 blown or opened कुमा०  
 अहूय त्रि० (अभूत) जो न हुआ हो What  
 has not been —पुत्र्य त्रि० (पूर्व) जो  
 पहिले कभी न हुआ हो Unprecedented;  
 What has not been ever कुमा०  
 अहेकम्म पु० न० (अध कर्मन्) अधोगति में  
 ले जाने वाला कर्म पिड० ६५,  
 अहेसर पु० (अहरीश्वर) सूर्य, सूरज The  
 sun महा०  
 अहो अ० (अहो) इन अर्थों का सूचक अव्यय,  
 A particular showing (१) चिन्मय,  
 आश्चर्य Surprise or wonder (२)  
 खेद, शोक, Sorrow or regret in  
 general (३) संबोधन, आसनत्रण Call-  
 ing out or addressing (४) निनर्क.  
 A thought (५) प्रयत्न Piare

('Bravo' 'well done') (६) असूया, द्वेष. Envy or jealousy गडड० हे० २, २१७,

आ अ० (आस्) इन अर्थों का सूचक अव्यय A particle expressing (१) खेद Sorrow or regret गा० ६२६, (२) दुःख Pain (३) क्रोध, गुस्सा Anger कप्प०

आअअ त्रि० (अगत) आया हुआ Allived, Came से० ३, ४, १२, १८, गा० ३०१,

आअव. त्रि० (आत,त्र) थोडा लाल A little red, Reddish से० ६, ३१, सुर० ३, ११०,

आइ पु० (आदि) (१) समीप, पास Vicinity, Proximity (२) प्रकार, भेद A variety, A kind (३) अवयव, अंश A part, A portion (४) प्रधान, मुख्य A chief, A minister (५) उत्पत्ति Production सम्म० ६५,

आइ. स्त्री० (आजि) सग्राम, लडाईं A battle, A war सथा

आइ. त्रि० (आदिन्) खाने वाला One that eats पचा० १८, ३६,

आइचवार. पु० (आदित्यवार) रविवार Sunday. कुम्भ० ४११,

आइच्चिय त्रि० (आदित्यिक) आदित्य-सम्बन्धी. Relating to the sun सू० नि० ८टी,

आइक्खण न० (आख्यान) कथन, उपदेश Instruction, Advice. बृह० ३,

आइगुण पु० (आदिगुण) सहभावी गुण आच० ४,

आइग्ग त्रि० (आदिग्ग) उद्विग्न, खिन्न Distressed, Troubled पात्र०

आइच्चगइ पु० (आदित्यगति) राक्षस वंश के एक राजा का नाम Name of a king of the Rakshasa family पउम० ५, २६१,

आइच्चपम न० (आदित्यपम) इस नाम का एक

नगर. Name of a city पउम० ५, ८२, आइच्चरक्ख. पु० (आदित्यरत्न) इस नाम का लका का एक राजपुत्र Name of a prince of Lanka पउम० ५, १६६,

आइच्चरय पु० (आदित्यरजस्) वानर वंश का एक विद्याधर राजा Name of a Vidya-dhar king of Vanar family पउम० ८, २३४,

आइद्धिय त्रि० (आकृष्ट) खींचा हुआ. Attracted हम्मिरी० १७,

आइत्थ. न० (आतिथ्य) अतिथि सत्कार Hospitable reception, Hospitality. प्राकृ० २१,

आइदि स्त्री० (आकृति) आकार. A form or figure प्राप० स्पन्म० २०,

आइद्ध त्रि० (अविद्ध) (१) प्रेरित Impelled, Instigated से० ७, १०, (२) स्पृष्ट, छुआ हुआ Touched से० ३, ३५, (३) पहना हुआ, परिहित Worn, Clothed आक० ३८,

आइन्न त्रि० (आदीर्ण) उद्विग्न, खिन्न. Grieved, Afflicted सुपा० ५६७,

आइय. त्रि० (आचित) (१) सचित, एकत्रीकृत. Gathered, Collected, Heaped (२) ग्रथित, गुम्फित, Composed कप्प०

आइवराह पु० (आदिवराह) कृष्ण, नारायण. An epithet of Vishnu से० ७, २,

आइवादिअ पु० (आतिवाहिक) देव विशेष, A kind of god अञ्ज० ८५,

आइनीइ स्त्री० (आदिनीति) साम रूप पहली राजनीति Conciliation, Pacific measures (the first of the four Upayas or expedients) सुपा० ४६२,

आइल पु० न० (आचील) पान का धूकना Spitting the betel-leaf प्रव०

आईसर पु० (आदीश्वर) भगवान् ऋषभदेव.

Lord Rashabhdeo सिरि० २२१,  
 आउचणा स्त्री० (आकुञ्चना) सकोच, गात्र-  
 सचेप Contraction of the body or  
 limbs कस०  
 आउचिअ त्रि० (आकुञ्चित) (१) सकुचित  
 Contracted (२) उठा कर धारण किया  
 हुआ Raised or held up से० ६, १७,  
 आउजि त्रि० (आकुञ्चिन्) (१) सकुचने वाला  
 One that contracts (२) निश्चल  
 Fixed, Immovable गउड०  
 आउच्छण न० (आप्रच्छन) आज्ञा, अनुज्ञा  
 An order, A command गा० ४७,  
 २००,  
 आउच्छा. स्त्री० (आपृच्छा) आज्ञा An  
 order कुप्र० १२४,  
 आउज्ज त्रि० (आवर्ज्य) सम्मुख करने योग्य  
 Sightly, Worthseeing-match-  
 able आवम०  
 आउज्जिय त्रि० (आतोयिक) वाद्य बजाने  
 वाला One that plays on a musi-  
 cal instrument सु० च० १६६,  
 आउट्ट त्रि० (आदत्) आदर युक्त Honou-  
 rable, Respectful पिड० ३१६, प्रव०  
 ११२,  
 आउट्ट त्रि० (आवृत्त) (१) निवृत्त, पीछे फिरा  
 हुआ. Returned उप० ६६८, (२) भ्रामित,  
 भुलाया हुआ. Caused to mistake  
 उप० ६००, (३) कृत, विहित Made,  
 Done, Performed राज०  
 आउट्टिम, त्रि० (आकुट्टय) कूट कर बैठाने  
 योग्य Compressible, Condensable  
 दसनि० २, १७,  
 आउट्टिय. पु० (आकुट्टिक) दण्ड-विशेष A  
 kind of punishment मत्त० २७,  
 आउट्ट. त्रि० (आनुष्ट) सतुष्ट Satisfied,  
 Contented. निर्मा० चू० १,

आउरणा त्रि० (आपूर्णा) पूर्ण, भरपूर, व्याप्त  
 Full, Filled पउम० ८, २०३,  
 आउत्थ त्रि० (आत्मोत्थ) आत्म कृत Made  
 by soul वव० ४,  
 आउत्तीभूअ त्रि० (आकुलीभूत) धवडाया  
 हुआ Confounded, Confused सुर०  
 २, १०,  
 आउविज्ञा स्त्री० (आयुर्विद्या) वैद्यक शास्त्र,  
 चिकित्सा शास्त्र The science of med-  
 icine आव०  
 आउह पु० (आयुध) विद्याधर वंश के एक  
 राजा का नाम Name of a king of  
 the Vidyadhar lineage पउम० २, ४४,  
 आउहि त्रि० (आयुधिन्) योद्धा, शस्त्र धारक  
 A warrior, A soldier विशेष०  
 आऊरिय. त्रि० (आपूरित) नरा हुआ, व्याप्त  
 Full of, Filled with सुर० २, १६६,  
 आपस पु० (आदेश) (१) निर्देश  
 Pointing out, Indicating निसी०  
 चू० (२) प्रमाण Measure "एस इत्य  
 आपसो". पि० नि० २१,  
 आपसिय त्रि० (आदिष्ट) जिसको आज्ञा दी गई  
 हो वह Ordered, Commanded भनि०  
 आओडण न० (आकोलन) मज्जत करना,  
 To make strong से० ६, ६,  
 आओहण न० (आयोधन) लडाई, युद्ध. A  
 war, A battle उप० ६४८ टी, सुर० ६,  
 २२०,  
 आत त्रि० (अन्त्य) अन्तका Last, Final  
 पचा० १८, ३६,  
 आकंखा. स्त्री० (आकाङ्क्षा) चाह, इच्छा, अभि-  
 लाषा A desire, A wish विशेष० ८२६,  
 आकप पु० (आकम्प) (१) थोड़ा काँपना. A  
 little trembling (२) आराधन.  
 Worshipping, Adoration वर० (३)  
 तत्परता; आवर्जन Readiness राज०

आकषण न० (आकम्पन) देखो 'आकप' शब्द  
 Vide 'आकप' वच०  
 आकषिय, त्रि० ( आकम्पित ) ईप्त् चलित,  
 कम्पित Shaken, Trembled, Moved  
 उप० ७२८ टी,  
 आकषिय त्रि० (आकम्पित) आवर्जित, प्रसन्न  
 किया हुआ. Pleas'd पिंड० ४३६,  
 आकड्डण. न० ( आकर्षण ) खींचाव At-  
 traction निसी० चू०  
 आकरणाण. न० (आकर्षण) श्रवण Healing  
 नाट०  
 आकर. पु० (आकर) (१) खान A mine,  
 (२) समूह A collection, A multi-  
 tude कुमा०  
 आकिट्टि स्त्री० (आकृष्टि) आकर्षण At-  
 traction धर्मवि० १२,  
 आखडल पु० (आखण्डल) इन्द्र Indra,  
 lord of gods सु० च० ४७,  
 आखडलभूइ पु० (आखण्डलभूति) भगवान्  
 महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी, Gau-  
 tam swami, prime pupil of Lord  
 Mahaviर पडम० ११८, १०२,  
 आगतुग-य त्रि० (आगन्तुक) कृत्रिम, अस्वा-  
 भाविक Unnatural, Artificial सुर०  
 १२, १०,  
 आगम पु० (आगम) समागम Inter-  
 course पच० ५, १४५,  
 आगमि त्रि० ( आगमिन् ) आने वाला,  
 आगामी Coming, Future. विशेष०  
 ३१५४,  
 आगमिञ्च त्रि० (आगमित) विदित, ज्ञात,  
 Known, Understood सुख० १, ३,  
 आगमिय त्रि० (आगमिक) (१) शास्त्र सक्धी,  
 शास्त्र प्रतिपादित Relating to scrip-  
 tures उवर० १५१, (२) शास्त्रोक्त वस्तु को  
 ही मानने वाला. One who believes

only in what is enjoined by the  
 sashtra सम्म० १४२,  
 आगमिर त्रि० (आगन्तु) आगमन आने वाला,  
 करने वाला One that comes सण०  
 आगमिस्सा त्रि० (आगमिप्यन्ती) भविष्य  
 (काल). The future (tense) पच०  
 ६०,  
 आगारिसग त्रि० (आकर्षक) (१) खींचने वाला  
 One that attracts (२) पु० अयस्का-  
 न्त, लोहचुम्बक. A magnet, A load-  
 stone आवम०  
 आगरिसण न० (आकर्षण) खींचाव At-  
 tracting, Pulling सम्मत्त० २१५,  
 आगरिसणी स्त्री० (आकर्षणी) विद्या विशेष  
 Name of a magical skill सुर०  
 १३, ८१,  
 आगरिसिय त्रि० (आकृष्ट) खींचा हुआ  
 Attracted, Drawn सुपा० १६६, महा०  
 आगल्ल त्रि० (आग्लान) ग्लान, विमार,  
 Sick, Diseased बृह० १,  
 आगहिञ्च त्रि० (आगृहीत) संग्रहीत Col-  
 lected, Gathered विशेष० २२०४,  
 आगाडपरण न० (आगाडप्रज्ञ) शास्त्र, आगम  
 A scripture or sastra "आगाडपरणेषु  
 य भावियप्पा" वच०  
 आगारिय त्रि० (आगारिक) गृहस्थ सम्बन्धी.  
 Relating to a householder विशेष०  
 आगारिय त्रि० (आकारित) (१) आहूत.  
 Called, Invited (२) परित्यक्त. A-  
 bandoned, Quitted आव०  
 आगासगमा, स्त्री० (आकाशगमा) विद्या  
 विशेष, जिसके बल से आकाश में गमन हो  
 सकता है A particular magical  
 skill by which one can go in  
 the sky पडम० ७, १४४,  
 आगासिया स्त्री० (आकाशिकी) आकाश में



गमन करने की लब्धि-शक्ति, A power of going through the sky सूयमि० १६३, आगिट्टि स्त्री० ( आकृष्टि ) आकर्षण Attraction सुपा० २३२, आगु. पु० ( आकु ) अभिलाष, इच्छा A desire A wish आक०  
 आघाय पु० ( आघात ) एक नरक स्थान, A particular hell abode देवेन्द्र० २६, आघुट्ट त्रि० ( आघुष्ट ) घोषित, जाहिर किया हुआ Proclaimed, Publicly announced भवि०  
 आघुस्मिय त्रि० ( आघुस्मित ) डोला हुआ, कम्पित, चलित Moving to and fro, Shaking पडम० १०, ३२, ८७, १६, आघोसण न० ( आघोषण ) हिंदेरा, घोषणा Proclamation, Public announcement महा०  
 आचरिय. त्रि० ( आचरित ) (१) अनुष्ठित, विहित Practised, Observed, Done, (२) आचरण Conduct, Behaviour प्रासू० १११,  
 आचिक्खिय त्रि० ( आख्यात ) कथित, उक्त Said, Told स० ११६,  
 आचुण्णिय त्रि० ( आचूर्णित ) चूर किया हुआ Pounded, Pulverised पडम० १७, १२०,  
 आच्छेदण न० ( आच्छेदन ) (१) नाश Destruction, Ruin (२) त्रि० नाशक A destroyer कुमा०  
 आजीरण पु० ( आजीरण ) स्वनाम ध्यात एक जैन मुनि Name of a Jaina saint 'आजीरणो य गीर्धो' सथा० ६७,  
 आजीवण न० ( आजीवन ) (१) आजीविका, जीवन निर्वाह का उपाय, Means of subsistence, Profession (२) जैन साधु के लिए भिक्षा का एक दोष A fault in

begging for a Jaina saint वच०  
 आजीविया स्त्री० ( आजीविका ) (१) निर्वाह. Vide 'आजीवण' (१) आव० (२) जैन साधु के लिए भिक्षा का एक दोष Vide 'आजीवण' (२) उत० टी  
 आजुत्त त्रि० ( आयुक्त ) अग्रमादी Careful, Vigilant निसी० चू०  
 आजुह न० ( आयुध ) हथियार. A weapon मै० २४  
 आडवर पु० ( आटम्बर ) (१) वाद्य का अवाज़. A sound of a musical instrument (२) आरोप, उपरी देखाव Show, External appendage पात्र. न० (३) यक्ष का मन्दिर A temple of a demi-god प्रव०  
 आडवरिल्ल त्रि० ( आडम्बरवत् ) आडम्बरी, Alligant, Proud पात्र०  
 आडविय त्रि० ( आटविक ) जगल में रहने वाला, जगली A forester, A woodman स० १२१  
 आडोव. पु० ( आरोप ) आडम्बर Show, External appendage सण०  
 आडत्तिय-आडविय, त्रि० ( आरब्ध ) प्रारम्भ किया हुआ Begun, Commenced मगल० २३, चंडय० १४८,  
 आढा स्त्री० ( आदर ) सम्मान Honour, Respect प्रव० २ गथा० १२५, सजोष० ५५,  
 आढिअ त्रि० ( आदत ) मन्कृत, सम्मानित Honoured, Respected हे० १, १४३,  
 आणतरिय न० ( आनन्तर्य ) अनुक्रम, परिपाटी An order or succession आया० चू०  
 आणद पु० ( आनन्द ) (१) पोटनपुर नगर का एक राजा, जो भगवान् अजितनाथ का मामाभाया. Name of a king of Potanpur who was a grand-father of Lord Ajitnath. पडम० ५, १०, (२) देश

विशेष Name of a country पडम०  
६८, ६६,  
आणविय, पु० (आनन्दित) रामचन्द्र के भाई  
भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजा,  
Name of a king who was initi-  
ated with Bharat, brother of  
Rama Chandia पडम० ८६, ३,  
आणविर० त्रि० (आनन्दित) आनदी, खुश  
रहने वाला, Happy, Delighted भवि०  
आणवण न० (आनयन) लाना Binging  
महा०  
आणवथ न० (आनर्थ्य) अनर्थता Useless-  
ness. समु० १५०,  
आणवत्त त्रि० (आज्ञावत्) आज्ञा मानने  
वाला Obedient, Submissive पचा०  
आणवइय त्रि० (आनायित) मगाया हुआ  
Sent for कुमा० २, २१,  
आणवमिय त्रि० (आनामित) आधीन किया  
हुआ Subdued, Subjected पडम०  
६८, ३७,  
आणवाल पु० (आलान) (१) बन्धन A  
fetter, A tie (२) हाथी बाधने की रज्जु-  
बोरी The rope that ties the ele-  
phant (३) जहा पर हाथी बाधा जाता है  
वह स्तम्भ, खीला The post to which  
an elephant is tied, A tying  
post हे० २, ११७, प्रामा०  
आणववण न० (आज्ञापन) आज्ञा, हुकम An  
order, A command पड०  
आणववण न० ( आनायन ) मगवाना  
Sending for सुपा० ५७८,  
आणववत्त न० (आज्ञापत्र) आज्ञापत्र, हुकम-  
नामा An edict, A written order  
से० १, १८,  
आणवविय. त्रि० (आज्ञापित) जिसको हुकम  
किया गया हो वह, फरमाया हुआ One who

is order सुपा० २६१,  
आणवविय त्रि० (आनायित) मगाया हुआ  
Sent for सुपा० ३८२,  
आणववण-न्न.न० (आनुगुण्य) (१) औचित्य,  
अनुरूपता Fitness, Propriety पचा०  
६, २६, (२) अनुकूलता Favourableness,  
suitableness धर्मस० ११८६,  
आणवचित्ति स्त्री० (अनुवृत्ति) अनुसरण  
Following स० ६१,  
आणवण पु० न० (अनूप) सजल प्रदेश A  
watery place or country धर्मस०  
६२६,  
आणववण त्रि० (आददान) ग्रहण करना Tak-  
ing, One that takes शु० १३८,  
आणवड त्रि० (आदात्) ग्रहण करने वाला  
One that takes विशेष० १५-६८,  
आणवणिय न० (आदानीय) लाभ, नफा  
Profit सुख० ४, ६,  
आणवच्छा. स्त्री० (आदिस्ता) ग्रहण करने की  
इच्छा A desire for taking आव०  
आणवोरण पु० (आधोरण) हस्तिपक The  
tidei or driver of an elephant  
धर्मवि० १३६,  
आणवत्ति.स्त्री० (अप्राप्ति) प्राप्ति. Acquisi-  
tion सवोष० ३५, प्रव० १४६,  
आणवइय त्रि० (आणवित) उत्पादित, जनित  
Produced विशेष० १७४६,  
आणवयण न० (आणवदन) सपादन Obtain-  
ing, Acquiring आवक० ८२, पचा० ६,  
१६,  
आणवड. पु० (आणवड) शिरो भूषण A  
crest-jewel शा० २८,  
आणवटु त्रि० (आणवट) जिसकी आज्ञा या सम्मति  
ली गई हो वह One who is asked  
सुर० १०, ५१,  
आणवण पु० (आणवण) पूरने वाला Filling;

Making full "मयखासरापूर सल्लि" कप०  
 आफस पु० (आस्पर्श) अल्प स्पर्श A slight touch हे० १, ४४,  
 आवध पु० (आवन्ध) सन्ध, सयोग Connection, Union गडड०  
 आवद्ध. त्रि० (आवद्ध) बधा हुआ Bound, Tied स० ३२८,  
 आभञ्ज त्रि० (आभाव्य) होने योग्य, सभाव्य About to be or happen व०  
 आभार पु० (आभार) बोझ, भार. A burden सु० ५० २३६,  
 आभास पु० (आभास) (१) जो वास्तविक में वह न होकर उसके समान लगता हो Any unreal or fallacious appearance (२) विपरीत कृमा०  
 आमिञ्चोगिय नि० (आमिचोगित) वशीकरण आदि से सङ्कत Captive आव०  
 आमिणदिय. पु० (आमिणदित) श्रावण मास The Shrivina month चद०  
 आभीर. पु० (आभीर) एक जुद्ध जाति, अहीर, गोबाला A cowherd सूर० ६, ६२,  
 आभोदञ्ज त्रि० (आभोगित) देखा हुआ Seen, Looked कप०  
 आमोग पु० (१) विलोकन, देखना Looking at उप० प्रदेश, स्थान, A place or region सुर० २, २३१,  
 आभोगि. त्रि० (आभोगिन) परिपूर्ण Quite full, Entire, Complete "जाञ्चो जलविहवामोगी" सु० च० २७२,  
 आमोप. पु० (आमोग) सर्प की फण, An expanded hood of a cobra स० ६१०,  
 आम. अ० (भवत्) आप. A respectful or honorific pronoun, translated by 'your honour,' your lordship,

worship or highness प्राकृ० ८१,  
 आम. अ० (आम) अनुमति प्रकारक अव्यय; हैं An interjection of assent or acceptance, 'oh', 'yes' गा० ४१७, सुर० २, २४२, स० ४२६,  
 आम पु० (आम) रोग, पीडा Disease, Sickness से० ६, ४४, —जर पु० (ज्वर) अजीर्ण से उत्पन्न बुझार A kind of fever गा० २१,  
 आम अ० (आम) (१) स्वीकार सूचक अव्यय, हैं. An interjection of assent or acceptance सुख २, १३, (२) अतिशय, अत्यन्त Excess धर्मस० ६४६,  
 आमतरणचरण न० (आमन्त्रणवचन) संबोधन विभक्ति The vocative case विशेष ३४२७,  
 आमघाय. पु० (अमाघात) अमारि-प्रदान, हिंसा-निवारण. Preventing or warding off killing पचा० ६, १२, २०, २१,  
 आमद्. पु० (आमर्द) सघर्ष, आघात. Rubbing together, Friction कुमा०  
 आमय त्रि० (आमत) समत, अनुमत Approved, Admitted विवे० १३६,  
 आमराय पु० (आमराज) एक प्रसिद्ध राजा. Name of a celebrated king ती० ७;  
 आमसिण त्रि० (आमसृण) (१) थोडा चिकना. A slight oily (२) उड्डसित Delighted से० १२, ४३,  
 आमिस त्रि० (आमिप) मनोहर, सुंदर. Beautiful, Handsome से० ६, ३१,  
 आमिस. न० (आमिप) नैवेद्य An offering of eatables presented to a deity or idol पचा० ६, २६, कुप्र० ४२३, ती० १३;  
 आमुक्क त्रि० (आमुक्क) (१) त्यक्त. Abandoned, Quitted गा० २३६, गडड० (२) उतारा हुआ Caused to descend.

आक० ३८, (३) परिहित. Worn or put on वेणी० १११ टी,  
 आमुद्द. त्रि०(आमृष्ट) (१) स्पृष्ट Touched (२) उल्टा किया हुआ Made upside down, Down-cast ओघ० नि०  
 आमेल्लिअ त्रि० (आपीडित) अवतसित, शिरो-भूषण से विभूषित, Ornamented with a crest-jewel से० ६, २१,  
 आमोअ पु० ( आमोद ) सुगध, अच्छा गध Fragrance, Perfume से० १, २३,  
 आमोअअ त्रि० (आमोदक) (१) सुगध उत्पन्न करने वाला (२) आनन्द जनक, Delighting, Pleasing से० ६, ४०,  
 आमोअअ त्रि० (आमोदद) सुगध देने वाला Casting fragrance से० ६, ४०,  
 आमोदअ त्रि० ( आमोदित ) हृष्ट, हर्षित Delighted, Pleased भवि०  
 आमोडग, न० (आमोटक) (१) फूलों से वालों का एक प्रकार का बन्धन विशेष A kind of special affinity of hair for flowers. (२) वाद्यविशेष A kind of musical instrument आया० चू०  
 आमोडिअ त्रि० (आमोदित) मर्दित Rubbed, Shampooed माल० ६०,  
 आय पु० (आय) (१) कारण, हेतु A cause or reason विशेष० १२२६, २६७६, (२) पठन Studying विशेष० ६५८ (३) गमन Going विशेष० २७६२,  
 आय त्रि० (आगत) आया हुआ Come, Approached काल०  
 आय त्रि०(आत्त) गृहीत Taken सथा० ३६,  
 आय पु० (आगस) (१) पाप A sin (२) अपराध, गुन्हा Fault, Offence आ० २३,  
 आयंप पु० (आकम्प) (१) काँपना, हिलना Tremor (२) त्रि० काँपने वाला One that trembles पडन० ६६, १८,

आयपिय त्रि० (आकम्पित) काँपाया हुआ. Trembled स० ३५३,  
 आयदृण. न० (आवर्तन) फिराना, Tuning round, Revolving. सु० च० ५३०,  
 आयडूहण न० (आकर्षण) आकर्षण, खींचाव. Attraction सु० च० १२, ७६,  
 आयडिडि स्त्री० (आकृष्टि) आकर्षण, खींचाव Attraction, Pulling. गडड०  
 आयरणण. न० (आकर्षण) अवण Healing महा०  
 आयत्त त्रि० (आयत्त) आधीन, स्ववरा Self-controlled गा० ३७६,  
 आयर पु० (आकर) (१) खानि, खान. A mine (२) समूह A collection of multitude काल० कप्पु०  
 आयर पु० (आदर) ख्याल, संभाल Attention, Care, Close application कप्पु०  
 आयरग पु० (आयरङ्ग) इस नाम का एक म्लेच्छ राजा Name of a Mlechha (Pariah) king पडन० २७, ६,  
 आयरणा स्त्री० (आचरणा) आचरण, अनुष्ठान Practising, Observing सट्टि० १४५, उचर० १४५,  
 आयरणा स्त्री० (आचरणा) परंपरा का रिवाज A custom of usage चेइय० २५,  
 आयवत्त पु० (आवर्त) भारत, हिंदुस्तान Hindustan, India इक०  
 आयाण. न० (आयान) (१) आगमन. Arrival, Approaching (२) अश्व का एक आभरण विशेष A particular ornament of a horse गडड०  
 आयामि त्रि० (आयामिन्) लम्बा. Long गडड०  
 आयामुखी. स्त्री० (आयामुखी) इस नाम की एक नगरी Name of a city स० ४३१,  
 आयाय त्रि० (आयात) आया हुआ Come,

Approached पउम० १४, १३०; कुम्मा० १६,  
 आयार पु० (आकार) इङ्कित, इसारा A sign  
 or hint पाय०  
 आयार पु० (आकार) 'आ' अक्षर. The  
 word 'आ' कुम्मा० ३२,  
 आयारिमय, न० (आचारिमक) विवाह के समय  
 दिया जाता एक प्रकार का दान A nuptial  
 gift स० ७७,  
 आयारिय त्रि० (आकारित) (१) आहूत,  
 बोलाया हुआ Called, Invited पउम०  
 ६१, २५, (२) न० आह्वान-वचन, आचपे  
 वचन A call or invitation से० १३,  
 ८०, अभि० २०२,  
 आयासतिलय न० (आकाशतिलक) नगर  
 विशेष Name of a city भवि०  
 आयासइत्तस त्रि० (आयासित्यवितृ )  
 तकलीफ देने वाला One that troubles  
 अभि० ६३,  
 आयासिअ त्रि० (आयासित) भिन्न Ex-  
 hausted, Fatigued गा० १६०,  
 आर त्रि० (आर) (१) पूर्व का Of the first  
 (२) मंगल ग्रह The planet Mars  
 पउम० १७, १०८, सुर० १०, २२४,  
 आरओ. अ० (आरतस्) शुरू करके, प्रारम्भ  
 करके Having begun or com-  
 menced विशेषे २२८५,  
 आरभिअ त्रि० (आरब्ध) प्रारब्ध, शुरू किया  
 हुआ Began or commenced भवि०  
 आरज्झ. त्रि० (आराध्य) पूज्य, माननीय  
 Honourable, Respectful अशु० ७१,  
 आररण त्रि० (आरण्य) जगली, जगल-  
 निवासी Wild, Forest-born से० ८,  
 २६,  
 आरत्तिय न० (आरात्रिक) आरती  
 Waving a light (or the vessel

containing it) at night before  
 an idol or the light so waved  
 सुर० १०, १६, कुमा०  
 आरभड न० (आरभट) इस नाम का एक  
 मुहूर्त. Name of a Muhurta (period)  
 गणि०  
 आरविद् त्रि० (आरविन्द) कमल सम्बन्धी.  
 Relating to a lotus गउड०  
 आरा अ० (आरात्) पूर्व भाग, Far from.  
 विशेषे १७४०,  
 आराडि स्त्री० (आराटि) चीत्कार, चिह्नाहट.  
 Cry, Lamentation सुख० २, १५,  
 आराव पु० (आराव) शब्द, आवाज A  
 sound or voice स० २७७, गउड०  
 आराह. त्रि० (आराध्य) आराधन-योग्य.  
 Deserved to be worshipped.  
 आश० ११,  
 आराहिय. त्रि० (आराधित) अनुरूप, योग्य.  
 Suitable or fit स० ६२३,  
 आरिय त्रि० (आकारित) आहूत, बोलाया  
 हुआ Called or invited "आरिओ  
 आगारिओ वा एगुहा" आव०  
 आरिय त्रि० (आरित) सेवित Seived  
 आया चू०  
 आरिस त्रि० (आरि) ऋषि सबधी. Re-  
 lating to sages कुमा०  
 आरुट्ट त्रि० (आरुट्ट) क्रुद्ध, रुष्ट Angry,  
 Wrathful पउम० २३, १४१,  
 आरुवणा. स्त्री० (आरोपणा) देखो 'आरोवणा'  
 शब्द Vide 'आरोवणा' विशेषे २६२८,  
 आरुह. त्रि० (आरुह) उत्पन्न, उद्भूत, जात  
 Produced गा० ७०२,  
 आरुहिय त्रि० (आरोपित) (१) स्थापित.  
 Established, Installed (२) ऊपर  
 बैठाया हुआ Caused to sit on से० ८,  
 १३,

आरेण अ० ( आरेण ) (१) पहले, अर्वाक  
Firstly विशेष० ३५१७, (२) प्रारंभ कर  
Having begun or commenced  
विशेष० २२८४,  
आरोग्य पु० ( आरोग्य ) एक ब्राह्मणोपासक  
का नाम Name of a Brahmin उप०  
५४०,  
आरोग्य, न० ( आरोग्य ) एकाशन तप A  
kind of religious austerity  
संबोध० १८,  
आरोलित्र त्रि० (पुञ्जित) एकत्रित, इकट्ठा किया  
हुआ Gathered, Collected कुमा०  
आरोवण् न० (आरोपण) (१) ऊपर चढाना  
Causing to ascend सुपा० २४६,  
आरोवणा. स्त्री० (आरोपणा) (१) ऊपर चढाना  
Causing to mount (२) प्ररूपणा, ग्याख्या  
का एक प्रकार A kind of lecture  
(३) प्रश्न, पर्यनुयोग A question विशेष०  
२६२७, २६२८,  
आरोविय त्रि० (आरोपित) (१) चढाया हुआ  
Caused to ascend (२) सस्थापित  
Established, Installed महा० पात्र०  
आरोलित्र त्रि० (आरोपित) क्रोपित, रुष्ट किया  
हुआ Angry, Wrathful से० ६, ६६,  
भवि०  
आरोह. पु० ( आरोह ) सवार, हाथी घोडा  
आदि पर चढने वाला A rider से० १३,  
७५,  
आरोहि त्रि० (आरोहिन्) (१) सवार होने  
वाला One that rides (२) हस्तिपक,  
हाथी का रचक A driver of an ele-  
phant गडड०  
आल न० ( आल ) कलकारोप, दोषारोपण  
Charge, Accusation स० ४३३,  
सत्त० २,  
आलकारिय त्रि० (आलङ्कारिक) (१) अल-

कार शास्त्र का ज्ञाता One that knows  
the science and art of rhetoric  
(२) अलङ्कार सबधी Relating to an  
ornament (३) अलङ्कार के योग्य Fit  
for an ornament जीव० ३,  
आलदित्र त्रि० (आलन्दिक्) आलद-समय  
विशेष का उल्लघन न कर कार्य करने वाला.  
One who does not transgress a  
particular period विशेष०  
आलवि त्रि० (आलम्बिन्) अवलम्बन करने  
वाला, आश्रयी Resting with, De-  
pendent on गडड०  
आलविस्वय त्रि० (आलक्षित) (१) ज्ञात,  
परिचित Familiar, Acquainted  
(२) चिन्ह से जाना हुआ Known by a  
sign गडड०  
आलग त्रि० (आलग्न) लगा हुआ, सयुक्त,  
Connected, United से० ५, ३३,  
आलत्त त्रि० (आलपित) सभापित, आभा-  
पित Talked पउम० १६, ४२, सुपा०  
२०८, आ० ६,  
आलद्ध त्रि० (आलब्ध) (१) ससृष्ट  
Commingled, Conjoined (२)  
सयुक्त Connected or united (३)  
स्पृष्ट, छुआ हुआ, Touched (४) मारा  
हुआ Beaten नाट०  
आलप्प त्रि० (आलाप्य) कहने के योग्य,  
To be said लहुअ० ८,  
आलभण न० (आलभन) विनाशन Des-  
truction, Ruin धर्मस० ८८२,  
आलय पु० न० (आलय) बौद्ध दर्शन प्रसिद्ध  
विज्ञान विशेष A particular science  
prescribed by Buddha phil-  
osophy धर्मस० ६६५, ६६६, ६६७,  
आलवाल न० (आलवाल) क्यारी, थावला  
A basin or trench for water

(round the root of a tree) पात्र०  
 आलसि त्रि० ( आलसिन् ) आलसी, सुस्त  
 Idle, Lazy, Slothful गच्छ० २, १,  
 आलाण. पु० ( आलान ) देखो 'आणाल' शब्द.  
 Vide 'आणाल' पात्र० से० २, १७, महा०  
 आलाणिय, त्रि० ( आलानित ) नियन्त्रित,  
 मजबूती से बाधा हुआ. Strongly tied  
 "दृढभुयदालाणियकमलाकरिणी निनी समर-  
 सीहो" सु० च० ४,  
 आलावणी स्त्री० ( आलावनी ) वाद्य विशेष  
 A kind of musical instrument  
 वजा० ८०,  
 आलि पु० ( आलि ) भ्रमर, भमरा A wasp  
 or black bee. पडि०  
 आलिंग त्रि० ( आलिङ्ग्य ) आलिंगन करने  
 योग्य To be embraced जीव० ३,  
 आलिंगिय त्रि० ( आलिङ्गित ) आरिण्ट,  
 जिसका आलिंगन किया गया हो वह Em-  
 braced काल०  
 आलिंद पु० ( आलिन्द ) बाहर के दरवाजे  
 के चौकड़े का एक हिस्सा A tollace  
 before a house अभि० १२६, अवि० २८,  
 आलिण्य न० ( आलेण्य ) (१) जिसका लेप  
 होता है वह चीज A thing used for  
 anointing निसी० चू० १२, (२) लेप  
 करना, विलेपन Smearing रथण० १२,  
 आलित्त. त्रि० ( आलिस ) खरडा हुआ, लिपा  
 हुआ Besmeared पिंड० २३४,  
 आलिद्ध त्रि० ( आलीढ ) चखा हुआ, आस्वा-  
 दित Tasted से० ६ २६,  
 आलिद्धिअ. त्रि० ( आलिद्धित ) चित्रित.  
 Pictured, Painted सुर० १, ८७,  
 आली. स्त्री० ( आली ) (१) पंक्ति, श्रेणी  
 A line or row (२) सखी, वयस्या  
 A female friend हे० १, ८३,  
 आलीढ त्रि० ( आलीढ ) आसक्त Ad-

dicted or attached to पडि०  
 आलीढ पु० न० ( आलीढ ) योद्धा का युद्ध  
 समय का आसन विशेष A particular  
 attitude of a soldier, the right  
 knee being advanced and the  
 left leg retracted वव० १,  
 आलीण त्रि० ( आलीन ) लीन, आसक्त,  
 तत्पर Addicted or attached to  
 पउम० ३२, ६,  
 आलुखण न० ( स्पर्शन ) स्पर्श, छूना.  
 Touching गडड०  
 आलुखिअ त्रि० ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट, हुआ हुआ,  
 Touched से० १, २१, पात्र०  
 आलुखिअ त्रि० ( दग्ध ) जला हुआ Bunt.  
 सुर० ६, २०३,  
 आलेक्ख-आलेक्खिय त्रि० ( आलेख्य )  
 चित्रित Pictured, Painted अद्भु० २२,  
 से० २, ४२, गा० ६४१, गडड०  
 आलेव पु० ( आलेप ) विलेपन, लेप An  
 ointment or unguent महा०  
 आलेसिय. त्रि० ( आरलेपित ) आलिंगन कराया  
 हुआ Caused to embrace. चेद्व्य० ३७६,  
 आलेह. पु० ( आलेख ) चित्र A Picture  
 आवम०  
 आलेहिअ त्रि० ( आलेखित ) चित्रित Pic-  
 tured, Painted महा०  
 आलोअ. पु० ( आलोक ) पृथ्वी का समान भाग,  
 सम भू भाग The equal part of the  
 earth ओष० नि० २६२,  
 आलोअग-य त्रि० ( आलोचक ) आलोचना  
 करने वाला Critic, Caviller आ० ४०,  
 पुष्प० ३२२, ३६०,  
 आलोइअ त्रि० ( आलोकवत् ) प्रकाश युक्त  
 Bright, Shining वजा० १६०,  
 आच. अ० ( आचव ) (१) जितना As much  
 as वि० ३६६, (२) जब तक, जब लग As

fa as, Till

आवंडु त्रि० ( आपण्डु ) थोडा सफेद, फीका

Pale, Whitish गा० २६२,

आवंडुर, त्रि० ( आपण्डुर ) देखो 'आवंडु'

शब्द Vide 'आवंडु' से० ६, ७४,

आवगण न० ( आवलान ) अश्व पर चढ़ने की कला. Art of riding भवि०

आवच्छेज्ज त्रि० ( अपत्यीय ) अपत्य स्थानीय One occupying in fallible position कप०

आवज्जिय त्रि० ( आवर्जित ) (१) प्रसन्न किया हुआ. Pleas'd, Propitiated (२) अभिमुख किया हुआ Moved to front side महा० सुर० ६, ३१, सुपा० २३२,

आवट्टणा स्त्री० ( आवर्तना ) आवर्तन Turning round, Revolution प्राह० ३१,

आवडण न० ( आपतन ) (१) गिरना Falling से० ६, ४२, (२) आ लगना Approaching, Coming सं० ३८४,

आवणिय पु० ( आपणिक ) सौदागर, व्यापारी A merchant, A dealer पात्र०

आवण्य त्रि० ( आपन्न ) आपत्ति युक्त. Afflicted, Distressed, Being in difficulty गा० ४६७,

आवत्त न० ( आतपत्र ) छत्र, छाता An umbrella पात्र०

आवत्तण न० ( आवर्तन ) चक्राकार अनण्य Circular motion, Gyration हे० २, ३०,

आवत्ति स्त्री० ( आपत्ति ) (१) दोष प्रसंग. (In phil) An undesirable conclusion "सन्धविमोक्त्वावत्ति" विशेष० १६३४, (२) आपदा, कष्ट Misfortune, Calamity विशेष० ६६,

आवदि, स्त्री० ( आवृत्ति ) आवरण Covering, Concealing, Obscuring. सच्चि० ६,

आवया स्त्री० ( आपद् ) आपदा, विपद, दुःख Misfortune, Calamity पात्र० धण० ४२, सुर० २, १८६,

आवलि पु० ( आवलि ) एक विद्यार्थी का नाम Name of a student पठम० ५, ६५,

आवलिय त्रि० ( आवलित ) वेष्टित Surrounded, Enclosed सूय० नि० २००,

आवली स्त्री० ( आवली ) (१) पदिक, श्रेणी A line, A row पात्र० (२) रावण की एक कन्या का नाम Name of a Ravan's daughter पठम० ६, ११,

आवाण्य न० ( आपाणक ) दुकान A shop सं० ५३०,

आवाय, पु० ( आपात ) (१) प्रारम्भ, शुरुआत. Commencement पात्र० से० ११, ७५, (२) तत्काल, तुरत The present or current moment, The instant आ० २३, (३) पतन, गिरना Falling down आ० २३, (४) सवन्ध, सयोग. Connection, Union उद० कस०

आवाय पु० ( आवाप ) (१) आलवाल A basin for water round the root of a tree (२) प्रक्षेप, फेंकना Throwing (३) शत्रु की चिन्ता Anxiety of an enemy (४) बोना, वपन Sowing seed आ० २३,

आवायण न० ( आपादन ) सपादन Obtaining, Gaining. धर्मसं० १०६८,

आवास पु० ( आवास ) पड़ाव, डेरा A camp सुपा० २५६, उप० पृ० १३०,

आवासणिया, स्त्री० ( आवासनिका ) आवास स्थान A residing place सं० १२२,

आवासय त्रि० ( आवासक ) आच्छादक Covering विशेष० ८७२,

आवासि त्रि० ( आवासिन् ) रहने वाला Residing, Living उद०



आवासिय. त्रि० (आवासित) सन्निवेशित, पडाव डाला हुआ. Camped सुर० २, १, सु० च० ४२६,

आवाहिय. त्रि० (आवाहित) (१) बुलाया हुआ, आहूत Called, Invited मवि० (२) मदद के लिए बुलाया हुआ देव का देवाधिष्ठित वस्तु Invoking a deity (to be present) सुर० ८, ४२,

आवित्र. त्रि० (आवृत्त) आच्छादित. Covered or concealed से० ६, ६२,

आविग्ग त्रि० (आविग्ग) उद्विग्न, उदासीन. Distressed, Troubled से० ६, ८६, १३, ६३,

आविट्ट त्रि० (आविष्ट) (१) आवृत्त, व्याप्त Possessed or full of सुपा० १८७,

आविष्मूय त्रि० (आविष्मूत्) उत्पन्न, प्रादुर्भूत Manifested, Appeared, Produced कण०

आवीञ्च त्रि० (आपीत) (१) पीत Drunk (२) शोषित Dried up. से० १३, ३१,

आवीह त्रि० (आवीचि) निरन्तर, अविच्छिन्न Constant, Continuous "गन्मभिह-मावीहसलिलच्छेष्टे" सु० च० ६२१,

आवीण. त्रि० (आपीन) स्तन, थन Udder or teat गउड०

आवीलण न० (आपीडन) समूह, निचय A Collection or heap गउड०

आवुञ्च पु० (आवुञ्च) नाटक की भाषा में पिता, बाप A father (in theatrical language) नाट०

आवुद त्रि० (आवृत्त) ढका हुआ Covered or concealed प्राकृ० ८, १२,

आवुदि. स्त्री० (आवृत्ति) आवरण Covering, concealing or obscuring प्राकृ०

८, १२,

आवूरण न० (आपूरण) पूर्ति Completion

स० ४३६,

आवेञ्च. पु० (आवेग) कष्ट, दुःख. Trouble, Difficulty से० १०, २७, ११, ७२,

आवेढ पु० (आवेष्ट) (१) वेष्टन Wrapping round (२) मण्डलाकार करना Making circular से० ७, २७,

आवेदण न० (आवेष्टन) देखो 'आवेढ' शब्द Vide 'आवेढ' गउड० पि० ३०४,

आवेयण. न० (आवेदन) निवेदन, मनोभाव का प्रकाश-करण Statement गउड०

आवेस पु० (आवेश) (१) अभिनिवेश Intention, Devotedness to an object (२) गुस्सा Fury, Agitation, Passion (३) भूत-ग्रह Demonical possession (४) प्रवेश Entering into, Entrance नाट०

आस पु० (आस) फेंकना Throwing विशेष० २७६५,

आसइ त्रि० (आश्रयिन्) आश्रय-स्थित Resting with or dependent on धर्मवि० १४७,

आसका. स्त्री० (आशङ्का) शङ्का, मय, वहम, सशय A doubt or suspicion. सुर० ६, १२१, महा० नाट०

आसकि त्रि० (आशङ्किन्) आशङ्का करने वाला Doubting गा० २०२,

आसकिर त्रि० (आशङ्किन्) आशङ्का करने वाला, वहनी, Doubtful, Suspicious सुर० १४, १७, गा० २०६,

आसग. पु० (आसङ्ग) (१) रोग A disease. (२) आसक्ति, अभिष्वग Attachment or devotion (to any object) (३) सवन्ध Association, Connection गउड०

आसगि त्रि० (आसङ्किन्) (१) आसक्त Strongly attached or devoted to

(२) सबन्धी, सयोगी Connected or united गडड०  
 आसजिअ. त्रि० (आसक) पीछे लगा हुआ Intent on सुर० ८, ३०, उत्तर० ६१,  
 आसदय न० (आसन्दक) आसन विशेष A small couch or oblong chair सुख० ६, १, महा०  
 आसदाण न० (आसन्दान) अवष्टम्भन, अवरोध, रूकावट Preventing, Obstructing. गडड०  
 आसधी. स्त्री० (अश्वगन्धी) वनस्पति विशेष A particular kind of vegetation. सु० च० ३२४,  
 आसवर. त्रि० (आशाम्बर) (१) नग्न, दिगम्बर Naked, प्रामा० (२) पु० जैन का एक मुख्य भेद A prominent part of Jains (३) दिगम्बर जैन A Digambar Jain से० २,  
 आससण. न० (आशसन) इच्छा, अभिलाषा. A desire, A wish भास० ६२,  
 आससिअ त्रि० (आशसित) अभिलषित Desired or wished गा० ७६,  
 आसड पु० (आसड) विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जैन ग्रन्थकार Name of a Jain author born in the thirteenth century of Vikrama विवे० १४३,  
 आसणिय त्रि० (आसनित) आसन पर बैठाया हुआ Caused to sit on a seat से० २६२,  
 आसतर पु० (अश्वतर) खच्चर A mule आ० १८,  
 आसत्त त्रि० (आसक्त) लीन, तत्पर Intent on महा० प्रासू० ६४,  
 आसत्याम पु० (अश्वत्यामन्) द्रोणाचार्य का प्रख्यात पुत्र Name of a celebrated

son of Drona कुमा०  
 आसद्धअ पु० (अश्वध्वज) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a Vidyadhar king पडम० २, ४२,  
 आसधम्म पु० (अश्वधर्म) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a Vidyadhar king पडम० २, ४२,  
 आसमेह पु० (अश्वमेध) यज्ञ विशेष A kind of sacrifice पडम० ११, ४२,  
 आसमि त्रि० (आश्रमिन्) आश्रम में रहने वाला, ऋषि, मुनि वगैरह One that lives in a hermitage, a sage etc पचव० १,  
 आससिय त्रि० (आशस्त) आशवासन-प्राप्त. Encouraged or consoled से० ३७८,  
 आसा. स्त्री० (आशा) (१) उत्तर रूचक पर बसने वाली एक दिक्कुमारी, देवी विशेष Name of a Dikkumari living on the north Ruchaka mountain (२) दिशा A direction उप० ६४८ टी,  
 आसाअ पु० (आसाद) तृप्ति Satisfaction. से० १, २६,  
 आसाअ पु० (आसाद) प्राप्ति Obtaining, Attaining से० ६, ६८,  
 आसाइअ त्रि० (आशातित) (१) अवज्ञात, तिरस्कृत Insulted, Dishonoured पुफ० ४२४, (२) न० अवज्ञा, तिरस्कार An insult विवे० ६२,  
 आसाइअ त्रि० (आसादित) चखा हुआ, थोड़ा खाया हुआ Tasted से० २, ४६,  
 आसायाण, न० (आशातन) अनन्तानुबन्धि कषाय का वेदन Pangs of old deep rooted passions विशेष०  
 आसार पु० (आसार) वेगसे पानी का बरसना To rain in cats and dogs से० १, २०, सु० च० ६०६,

आसार. पु० (आसार) समीकरण, चीणा को ठीक करना. Repairing, Mending कुप्र० १३६,  
 आसारिय. त्रि० (आसारित) ठीक किया हुआ, Repaired, Mended कुप्र० १३६,  
 आसालिया. स्त्री० (आशालिका) विद्या विशेष A kind of science पउम० १२, ६४, ६२, ६,  
 आसासत्र पु० ( आश्वासक ) (१) विश्राम स्थान, ग्रन्थ का अंश, सर्ग, परिच्छेद, अध्याय A chapter or section of a book से० २, ४६, (२) त्रि० आश्वासन देने वाला Consoling, Comforting पुष्प० ३८,  
 आसि त्रि० ( आशिन् ) खाने वाला, भोजक One that eats सट्टि० १३,  
 आसिअ. त्रि० (आशित) खिलाया हुआ, भोजित Given to eat से० ८, ६३,  
 आसिअ-य. त्रि० (आशिवक) अश्व का शिकक A cavalier "त आसिय विति" वव० ४,  
 आसिअ. त्रि० ( आसित ) (१) उपविष्ट, बैठा हुआ Seated से० ८, ६३, (२) रहा हुआ स्थित Stayed पउम० ३२, ६६,  
 आसिय त्रि० ( आशिन् ) खाने वाला, भोक्ता One that eats पउम० २६, ३७,  
 आसिय. पु० (आशिवन) आशिवन मास. The month Aso पात्र०  
 आसित्त पु० (आसित्त) नपुंसक का एक भेद A variety impotent person पुष्प० १२८,  
 आसिलिद्ध. त्रि० (आसिष्ट) आलिंगित Embraced नाट०  
 आसी. स्त्री० (आशिप्) आशीर्वाद. A blessing सुर० १, १३८, —वयया न० (वचन) आशीर्वाद Benediction सुपा० ४६०, —वाय पुं० (वाद) आशीर्वाद A blessing सुर० १२, ४३, सुपा० १७४,

आसु पुं० न० (अशु) आसू A tear सचि० १७,  
 आसेवण. न० ( आसेवन ) (१) परिपालन, सरक्षण Protecting, Maintaining सुपा० ४३८,  
 आसोअ त्रि० (आशोक) अशोक वृक्ष सबन्धी. Relating to the Asoka tree गउड०  
 आसोइया. स्त्री० (आसोतिका) औषधि विशेष. A kind of medicine सुपा० ३६७,  
 आहणण न० (आहनन) आघात. A blow उप० ३६६,  
 आहय त्रि० ( आहृत ) (१) आकृष्ट, खींचा हुआ Pulled or attracted (२) छीन हुआ Snatched away, Deprived of उप० २११ टी,  
 आहरण पु० न० (आभरण) भूषण, अलंकार. An ornament आ० १२, कप्पू०  
 आहरिसिय त्रि० (आघर्षित) तिरस्कृत, भर्षित Disregarded, Despised, Abused. आवम०  
 आहज्जा. स्त्री० ( आहल्या ) विद्याधर राजा की एक कन्या Name of a daughter of a Vidvadhari king पउम० १३, ३२,  
 आहव पु० ( आहव ) युद्ध, लड़ाई A battle, A war पात्र० सुपा० २८८;  
 आरा० ४१,  
 आहा स्त्री० (आभा) कान्ति, तेज Lustre, Light कप्पू०  
 आहा स्त्री० (आधा) (१) आश्रय, आधार A prop or support पि० नि० (२) साधु के निमित्त आहार के लिए मन प्रशिक्षण To apply mind for preparing food for sadhus पि० नि०  
 आहाण न० (आधान) स्थान, आश्रय A resting place 'सच्चगुणाहाण' आ० ४,  
 आहाण-य न० (आख्यान-क) (१) उक्ति,

वचन. A word (२) किंवदन्ती, कहावत, लोकोक्ति A proverb सुर० २, ६६ उप० ७२८ टी,

आहार पु० (आधार) अवधारण, याद रखना Remembering पुष्फ० ३२६,

आहारण त्रि० (आधारण) (१) धारण करने वाला One that holds or sustains (२) आधारभूत Base, Basis. से० ६, २०,

आहारण. त्रि० (आहारण) आकर्षक Attractive से० ६, २०,

आहारि त्रि० (आहारिन्) आहार कर्ता One that eats. अज्क० १११,

आहाविय. त्रि० (आधावित) दौड़ा हुआ. Run सिरि० ७२२,

आहाविर. त्रि० (आधावितृ) दौड़ने वाला A runner सण०

आहाह अ० (आहाह) आश्चर्य द्योतक अव्यय An interjection showing surprise or wonder. हे० २, २१७,

आहि. पु० स्त्री० (आधि) मन की पीडा Mental pain or anguish धम्म० १० टी,

आहिआइ. स्त्री० (अभिजाति) कुलीनता, खान-दानी Family-dignity से० १, ११,

आहितुडिअ पु० (आहितुडिअ) गारुडिक, सपहरिया. A snake-charmer, A juggler मुद्रा० ११६,

आहिपत्त. न० (आधिपत्य) मुखियापन, नेतृत्व Supremacy. उप० १०३१ टी,

आहिय. त्रि० (आहित) (१) सपूर्ण हितकर Entirely beneficial (२) विरचित, निर्मित. Performed, Done पाअ०

—ग्नि. पु० (अग्नि) अग्नि-होत्रीय ब्राह्मण A Brahmana who consecrates the sacred fire पउन० ३२, २,

आहियार पु० (अधिकार) अधिकार, सत्ता, हक Power, Authority पउम० २२, न,

आहिसारिअ. त्रि० (अभिसारित) नायक बुद्धि से गृहीत, पति-बुद्धि से स्वीकृत. Accepted as a husband से० १३, १७

आहेड. पु० न० (आखेट) शिकार, मृगया Hunting, Chase सु० च० १६७,

आहेडिय. त्रि० (आखेटिक) मृगया सम्बन्धी Relating to hunting सम्मत्त० २०६,

आहु. अ० (आहु) अथवा, या 01 नाट०

आहुअ त्रि० (आभूत) उत्पन्न, जात Produced 'आहुओ से गन्धो' वसु०

आहुअ पु० (आहूक) पिशाच विशेष A kind of fiend or goblin इक०

आहोइअ त्रि० (आनोगित) ज्ञात ; दृष्ट Known or seen स० ४८२,

इअ स० (एतत्-इदम्) यह This पि० ४०६, ४२६

इइ. अ० (इति) समाप्ति Completion (२) अवधि, हद Limit विशे० (३) मान, परिमाण Measure प्रव०-८४, (४) निश्चय Determination निसी० चू० ७, १५,

इइइ पु० (इन्द्रजिव) इस नाम का राक्षस वध का एक राजा, लक्ष्य Name of a king of the demon family पउम०-२, २६०,

(२) रावण के एक पुत्र का नाम Name of a celebrated son of Ravana से० १०, ५८

इंदजाल न० (इन्द्रजाल) माया-कर्म, झूठ कपट A deceit स० ४२४,

इंदतरु पु० (इन्द्रतरु) वृक्ष विशेष, जिसके नीचे भगवान् संभवनाथ को केवल ज्ञान हुआ था A kind of tree, under which Lord Sambhavnatha was enlightened पउम० २०, २८,

आसार. पु० (आसार) समीकरण, वीणा को ठीक करना Repairing; Mending कुम० १३६,

आसारिय. त्रि० (आसारित) ठीक किया हुआ, Repaired, Mended कुम० १३६,  
आसालिया. स्त्री० (आशालिका) विद्या विशेष A kind of science पउम० १२, ६४, १२, ६,

आसासत्र पु० ( आशवासक ) (१) विश्राम स्थान, ग्रन्थ का अग्र, सर्ग, परिच्छेद, अध्याय A chapter or section of a book से० २, ४६, (२) त्रि० आशवासन देने वाला. Consoling, Comforting पुष्प० ३८.

आसि त्रि० ( आशिन् ) खाने वाला, भोजक One that eats सङ्घि० १३,  
आसिअ. त्रि० (आशित) खिलाया हुआ, भोजित Given to eat से० ८, ६२,

आसिअ-य. त्रि० (आशिवक) अश्व का शिल्पक A cavalier "त आसिय विंति" वव० ४,  
आसिअ. त्रि० ( आसित ) (१) उपविष्ट, बैठा हुआ Seated से० ८, ६३, (२) रहा हुआ स्थित Stayed पउम० ३२, ६६,

आसिण त्रि० (आशिन्) खाने वाला, भोजक One that eats पउम० २६, ३७,  
आसिण पु० (आशिवन) आशिवन मास. The month Aso पाञ्च०

आसित्त पु० (आसिक) नपुंसक का एक भेद A variety impotent person पुष्प० १२८,

आसिलिट्ट त्रि० (आश्लिष्ट) आलिंगित Embraced नाट०

आसी. स्त्री० (आशिप्) आशीर्वाद. A blessing सुर० १, १३८, —वायण न० (वचन) आशीर्वाद Benediction सुपा० ४६०, —वाय पु० (वाद) आशीर्वाद A blessing सुर० १२, ४३, सुपा० १७४,

आसु पु० न० (अशु) आसु A tear सङ्घि० १७,

आसेवण. न० ( आसेवन ) (१) परिपालन, सरक्षण. Protecting, Maintaining सुपा० ४३८,

आसोअ त्रि० (आशोक) अशोक वृक्ष सबन्धी. Relating to the Asoka tree गडड०  
आसोइया. स्त्री० (आसोतिका) औषधि विशेष. A kind of medicine सुपा० ३६७,

आहणण न० (आहनन) आघात. A blow उप० ३६६,

आहय त्रि० (आहत) (१) आकृष्ट, खींचा हुआ Pulled or attracted (२) छीना हुआ Snatched away, Deprived of उप० २११ टी,

आहरण पु० न० (आभरण) भूषण, अलंकार. An ornament आ० १२, कप्प०

आहरिसिय त्रि० (आघर्षित) तिरस्कृत, भर्षित Disregarded, Despised, Abused. आवम०

आहला. स्त्री० ( आहल्या ) विद्याधर राजा की एक कन्या Name of a daughter of a Vidvadhari king पउम० १३, ३५,

आहव पु० (आहव) युद्ध, लड़ाई A battle, A war पाञ्च० सुपा० २८८, आरा० ४१,

आहा स्त्री० (आभा) कान्ति, तेज Lustre, Light कप्प०

आहा स्त्री० (आघा) (१) आश्रय, आश्रय A prop or support पि० नि० (२) साधु के निमित्त आहार के लिए मन प्रार्थना To apply mind for preparing food for sadhus पि० नि०

आहाण न० (आधान) स्थान, आश्रय A resting place. 'सन्वगुणाहाण' आव० ४, आहाण-य. न० (आख्यानक) (१) उक्ति,

वचन. A word (२) किंवदन्ती, कहावत, लोकोक्ति A proverb सुर० २, ६६, उप० ७२८ टी,

आहार पु० (आधार) अवधारण, याद रखना. Remembering पुष्क० ३२६,

आहारण त्रि० (आधारण) (१) धारण करने वाला One that holds or sustains (२) आधारभूत Base, Basis से० ६, १०,

आहारण. त्रि० (आहारण) आकर्षक Attractive से० ६, १०,

आहारि त्रि० (आहारिन्) आहार कर्ता One that eats अन्क० १११,

आहाविय त्रि० (आधावित) दौड़ा हुआ. Run सिरि० ७२२,

आहाविर त्रि० (आधावितृ) दौड़ने वाला A runner सण०

आहाह अ० (आहाह) आश्चर्य चोतक अव्यय An interjection showing surprise or wonder. हे० २, २१७,

आहि पु० स्त्री० (आधि) मन की पीड़ा Mental pain or anguish धम्म० १२ टी,

आहिआइ स्त्री० (अभिजाति) कुलीनता, खानदानी Family-dignity से० १, ११,

आहितुडिअ पु० (आहितुडिक) गारुडिक, सपहरिया A snake charmer, A juggler मुद्रा० ११६,

आहिपत्त. न० (आधिपत्य) मुखियापन, नेतृत्व Supremacy उप० १०३१ टी,

आहिय. त्रि० (आहित) (१) सपूर्ण हितकर Entirely beneficial (२) विरचित, निर्मित Performed, Done पात्र०

—गिग पु० (अग्नि) अग्नि-होत्रीय ब्राह्मण A Brahmana who consecrates the sacred fire पउम० ३१, १,

आहियार पु० (अधिकार) अधिकार, सत्ता, हक Power, Authority पउम० ११, ८,

आहिसारिअ. त्रि० (अभिसारित) नायक बुद्धि से गृहीत, पति-बुद्धि से स्वीकृत Accepted as a husband से० १३, १७,

आहेड. पु० न० (आपेट) शिकार, मृगया Hunting, Chase सु० च० १६७,

आहेडिय. त्रि० (आखेटिक) मृगया सबन्धी Relating to hunting सम्मत्त० २०६,

आहु अ० (आहु) अथवा, या ०१ नाट० आहुअ त्रि० (आभूत) उत्पन्न, जात Produced 'आहुओ से गब्यो' वसु०

आहुअ पु० (आहूक) पिशाच विशेष A kind of fiend or goblin इक०

आहोइअ. त्रि० (आभोगित) ज्ञात, दृष्ट Known or seen स० ४८२,

इअ स० (इतत्-इदम्) यह This पि० ४२६, ४२६

इइ अ० (इति) समाप्ति Completion (२) अवधि, हद Limit विशेष० (३) मान, परिमाण Measure प्रव० ८४, (४) निश्चय Determination निसी० चू० २, ११,

इइइ पु० (इन्द्रजित्) इस नाम का राजस वंश का एक राजा, लक्ष्य Name of a king of the demon family पउम० १, २६०, (२) रावण के एक पुत्र का नाम. Name of a celebrated son of Ravana से० १२, १८,

इदजाल न० (इन्द्रजाल) माया-कर्म, छल कपट A deceit स० ४१४,

इंदतरु पु० (इन्द्रतरु) वृक्ष विशेष, जिसके नीचे भगवान् समवनाथ को केवल ज्ञान हुआ था A kind of tree, under which Lord Sambhavnatha was enlightened पउम० २०, २८,

इदमेह पु० (इन्द्रमेघ) राक्षस वंश में उत्पन्न एक राजा Name of a king born in the demon family पठम० ५, २६१,  
 इदलोहा स्त्री० (इन्द्रलोहा) राजा त्रिकस्यत की पत्नी Name of a queen of king Triksanyat पठम० ५, ५१,  
 इदवज्जा स्त्री० (इन्द्रवज्जा) छन्द विशेष का नाम, जिसके पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं Name of a metre पिंग०  
 इदवसु. स्त्री० (इन्द्रवसु) ब्रह्मराज की एक पत्नी Name of a wife of Brahmaraja राज०  
 इदवाय पु० (इन्द्रवात) एक माण्डलिक राजा Name of a ruler of a province भवि०  
 इन्द्रसम्म पु० (इन्द्रशर्मन्) स्वनाम ख्यात एक ब्राह्मण Name of a Brahman आचम०  
 इन्द्रसामणिय पु० (इन्द्रसामानिक) इन्द्र के समान ऋद्धि वाला देव. A kind of god महा०  
 इदासणि पु० (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान A particular hell-abode देवेन्द्र० २१,  
 इंद्रिदिर पु० (इन्द्रिन्दिर) अमर, भमरा A wasp, A black bee पाद्य०  
 इन्द्रियजय. पु० (इन्द्रियजय) तप विशेष. A kind of religious austerity प्रव० २७०,  
 इदिर पु० (इन्द्रिर) अमर, भमरा A wasp, A black bee विक्र० २६,  
 इदिरा स्त्री० (इन्द्रिरा) लक्ष्मी Lakshmi, wife of Vishnu सम्मत० २२६,  
 इदीवर न० (इन्दीवर) कमल, पद्म A lotus पठम० १०, ३६,  
 इदुर पु० स्त्री० (उन्दुर) चूहा, मूषक A Mouse or rat नाट०

इध. न० (चिह्न) निशानी, चिन्ह A sign or mark. हे० १, १७७, २, ५०, कुमा०  
 इंधण न० (इन्धन) अस्त्र विशेष A kind of weapon पठम० ७१, ६४,  
 इधिय. त्रि० (इन्धित) उद्दीपित, प्रज्वलित. Kindled, Inflamed बृह० ४,  
 इक्किल त्रि० (एकाकिन्) एकिला Alone, Solitary सिरि० ३४६,  
 इक्खन्न त्रि० (ईच्छन्) देखने वाला A spectator गा० ५५७,  
 इक्खण न० (ईच्छण) अवलोकन, प्रेक्षण. Seeing, Beholding पठम० १०१, ७;  
 इक्खु पु० (इत्तु) सादा Sugar-cane —घर न० (गृह) उद्यान विशेष Name of a garden विशेष० —पेसिया. स्त्री० (पेशिका) गडदरी, ईख का टुकड़ा A piece of sugar-cane निसी० चू० १६,  
 इगुचाल त्रि० (एकचत्वारिंशत्) एकतालीस, ४१ Forty-one, 41 पि० ४४५,  
 इच्छिर त्रि० (इच्छित्) इच्छा करने वाला. Desiring or wishing कुमा०  
 इच्छु त्रि० (इच्छु) अभिलाषी. Desirous. गा० ७४०,  
 इट्ट पु० (इष्ट) (१) स्वाम्युपगत, स्व-सिद्धान्त. Beloved or favourite doctrine. धर्मस० ५१६, (२) न० तपो-विशेष, निर्विकृति तप A kind of austerity सनोध० ५८,  
 (३) याग-क्रिया Rate of a sacrifice. स० ७१३,  
 इट्टि. स्त्री० (इष्टि) (१) इच्छा, अभिलाषा-चाह A wish or desire सुपा० २४६;  
 (२) याग विशेष A kind of sacrifice अभि० २२७,  
 इडा स्त्री० (इडा) शरीर के दक्षिण भाग स्थित नाडी A particular vein in the right part of the body कुमा०

इतरेतरासय पु० ( इतरेतराश्रय ) तर्क शाखा  
प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा,  
(In philo) A particular defect,  
Mutual dependence, Inter-con-  
nection धर्मस० ११५८,  
इत्ताहे अ० (इदानीम्) इस समय, इस वक्त,  
अधुना Now, At this moment पाञ्च०  
इत्तिरिय. त्रि० ( इत्वरिक ) अल्पकालिक, जो  
थोड़े समय के लिए किया जाता हो What  
is done for a short time विशे०  
१२६५,  
इत्थत्थ पु० (स्थयर्थ) स्त्री विषय A subject  
of a woman पि० १६२,  
इत्थिणपुसग पु० न० ( स्त्रीनपुसक ) एक  
प्रकार का नपुसक, A kind of impo-  
tent person निसी० चू० १,  
इत्थेण त्रि० ( स्त्रैण ) स्त्रियों का समूह, स्त्री-  
जन Female, Feminine उप० ७२८  
टी,  
इभपाल पु० ( इभपाल ) हाथी का महावत  
A rider or driver of an elephant  
सम्मत्त० १५७,  
इयरेयर त्रि० ( इतरेतर ) अन्योन्य, परस्पर  
Mutual, Reciprocal राज०  
इरिण. न० ( ऋण ) करजा, ऋण A debt  
चार० ६६,  
इला. स्त्री० ( इला ) राजा जनक की माता  
Name of a mother of king  
Janak पञ्चम० २१, ३३,  
इसाणी. स्त्री० ( ऐशानी ) ईशान कोण, पूर्व  
और उत्तर के बीच की दिशा The north-  
east corner नाट०  
इसिपालिया स्त्री० ( ऋषिपालिता ) जैन मुनियों  
की एक शाखा A branch of Jaina  
saints कम्प०  
इसु पु० ( इपु ) बाण An arrow पाञ्च०

इस्सास पु० ( इष्वास ) (१) धनुष, शरसन  
A bow (२) बाण चपक, तीरदाज. An  
archer प्रारू०  
इह पु० ( इभ ) हाथी An elephant  
प्रारू०  
इह. न० ( चिह्न ) चिन्ह, निशान A sign  
or mark से० १, १२, पङ्०  
इहिं अ० ( इह ) यहा Here रभा०  
ई पु० ( ई ) प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण,  
स्वर विशेष The fourth letter of  
Prakrit-alphabets प्रामा०  
ईअ अ० ( इति ) इस तरह Thus 'ईय  
मणोविसईण' विशे० ५१४,  
ईइस त्रि० ( ईइश ) ऐसा, इस तरह का,  
इसके समान Such, Of thiskind.  
महा० स० १५,  
ईडा स्त्री० ( ईडा ) स्तुति Praise, Com-  
mendation चेइय० ८६८,  
ईसर पु० ( ईश्वर ) महादेव, शिव An  
epithet of Siva पञ्चम० १०६, १२,  
ईसाइय त्रि० ( ईर्ष्यायित ) जिसको ईर्ष्या हुई  
हो वह Envious, Jealous सुपा० ६१,  
ईसाण पु० ( ईशान ) प्रभु, स्वामी A lord  
or master विशे०  
ईसाणी स्त्री० ( ऐशानी ) (१) ईशान कोण  
The north-east corner (२) विद्या  
विशेष A kind of magical-skill  
पञ्चम० ७, १४१,  
ईसिअ. न० ( ईर्ष्यित ) (१) ईर्ष्या, द्वेष  
Envy, Jealousy गा० ५१०,  
ईहा स्त्री० ( ईहा ) इच्छा A wish or de-  
sire स० ६१२,  
ईहा स्त्री० ( ईहा ) चेष्टा, प्रयत्न. Effort,  
Activity. ओष० नि० ३,  
उ पु० ( उ ) (१) प्राकृत वर्णमाला का पञ्चम  
अक्षर, स्वर विशेष. The fifth letter of



Prakata alphabets प्रामा० (२) गति  
क्रिया Motion of going अवम० (३)  
उपयोग रखना, ख्याल रखना To be care-  
ful “उत्ति उद्योगकरयो” विशेष० ३१६८,  
उ, अ० (उ) निम्नोक्त अर्थों का सूचक अव्यय  
A particle of (१) संबोधन, ग्रामन्त्रण  
Addressing (२) कोप-वचन, क्रोधोक्ति  
Anger (३) अनुकम्पा, दया Compassion  
(४) नियोग हुकुम, Command  
(५) विस्मय, आश्चर्य Wonder (६)  
अगीकार, स्वीकार Acceptance (७)  
प्रश्न, पृच्छा Interrogation हे० २,  
२१७,  
उ, अ० (तु) (१) प्रशंसा Praise (२) पाद-  
पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है The  
particle is also used expletively  
उव० (३) समुच्चय, और Or कम्प० (४)  
विशेषण An adjective (५) कारण A  
cause or reason वव० १,  
उअ अ० (उत) इन अर्थों का सूचक अव्यय.  
A particle expressing (१) विकल्प,  
अथवा, Alternative (२) चिन्तक, विमर्श  
Thought (३) प्रश्न, पृच्छा Interro-  
gation कुमा० (४) समुच्चय Aggie-  
gation or mass (५) बहुत, अतिशय  
Excess हे० १, १७२,  
उअ न० (उद) पानी, जल Water पि०  
३४०,  
उअ, त्रि० (उदञ्च) उत्तर, उत्तर दिशा में स्थित.  
Situated in the north, Northern  
—महिहर, पु० (महिधर) हिमाचल पर्वत  
The Himalayas गड०  
उअअ, न० (उदक) पानी, जल Water  
गा० ५३, से० ६, ८८,  
उअअ न० (उदर) पेट, उदर The belly  
से० ६, ८८,

उअअरत्र त्रि० (उपकारक) उपकार करने वाला  
One who does a service or  
favour गा० ५०,  
उअअरि त्रि० (उपकारिन्) उपकार करने  
वाला One who does a service or  
favour विक० २५,  
उअइव्व, त्रि० (उपजीव्य) आश्रय करने योग्य,  
सेवा करने योग्य Worthy to be  
served से० ६, ६,  
उअत पु० (उदन्त) हकीकत, वृत्तान्त, समाचार  
News, Intelligence पाअ० प्रामा०  
उअजीवि त्रि० (उपजीविन्) आश्रित Liv-  
ing upon, Subsisting by अभि०  
१८६,  
उअचिट्टअ, न० (औपचिट्टक) आसन A seat,  
प्राकृ० १०,  
उअहि पु० (उदधि) (१) समुद्र, सागर A  
sea गड० (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर  
राजकुमार. Name of a Vidyadhar  
prince पवम० ५, १६६, (३) काल परि-  
माण, सागरोपम A particular mea-  
sure of time सुर० २, १३६, (४) स्वनाम  
ख्यात एक जैन मुनि Name of a Jaina  
saint पवम० २०, ११७,  
उअस त्रि० (उदास) (१) उदासी, दिलगीर  
Sad, Heavy (२) मध्यस्थ, तटस्थ  
Neutral, Indifferent पिंग०  
उअसीण, त्रि० (उदासीन) देखो ‘उअस’ शब्द  
Vide ‘उअस’ से० ५४६, नाट,  
उअत्र त्रि० (उचित) योग्य, लायक Fit,  
Proper से० ८, १०३,  
उअत्र त्रि० (उदित) (१) उदय प्राप्त, उदगत  
Risen. सु० च० १२७, (२) उक्त, कथित  
Said, Told विशेष० २३३, ८४६,  
उअपरकम पु० (उदितपराकम) इच्छाकु वरा  
के एक राजा का नाम Name of a king

of Ikshvaku family पञ्चम० ५, ६,  
 उडद पु० (उपेन्द्र) इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु  
 का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ  
 था Name of Vishnu or Krishna  
 as the younger brother of India  
 in his fifth or dwarf incarna-  
 tion हे० १, ६,  
 उडदराण त्रि० (उदीच्य) उत्तर दिशा सवन्धी,  
 उत्तर दिशा में बस Living or being  
 in the north आवम०  
 उडदखल-उडदहल पु० न० (उडदखल) उडदखल,  
 गूगल A wooden mortar used for  
 cleansing rice कुमा० पड० हे० १, १,  
 उडदत्रि त्रि० (सिक्त) सिक्त, छिड़का हुआ  
 Sprinkled, Watered सुपा० १३६,  
 उडद पु० (उडद) वृक्ष विशेष. A kind of  
 tree उप० १०३१ टी,  
 उडद त्रि० (उडद) उत्सुक, उत्कण्ठित,  
 Anxiously wishing for सुर० ३, ५३,  
 (२) एक विद्याधर राजा का नाम Name of  
 a Vidyadher king पञ्चम० १०, २०,  
 उडद त्रि० (उडद) कथित Said, Told पिंग०  
 उडदटा स्त्री० (उडदटा) उत्सुकता, औत्सुक्य  
 Ardent desire, Eagerness हे० १,  
 २५, ३०,  
 उडदडय त्रि० (उडदडक) पुलकित, रोमाञ्चित  
 Having the hairs of the body  
 erect गडड०  
 उडदत त्रि० (उडदतन्त) ऊँचा गया हुआ  
 Gone up भवि०  
 उडदतल त्रि० (उडदतल) अङ्कुरित  
 Sprouted, गडड०  
 उडदप पु० (उडदप) कम्प, चलन Tiem-  
 bling, Tiemor सण० गा० ७३५,  
 उडदपिय त्रि० (उडदपित) (१) चञ्चल किया  
 हुआ Trembled राज० (२) न० कम्प,

हिलन Tiembling, Tiemor गा०  
 ३६१,  
 उडदच्छ त्रि० (उडदच्छ) स्पष्ट, स्पष्ट Dis-  
 tinct, Clear पिंग०  
 उडदच्छा स्त्री० (उडदच्छा) छन्द विशेष.  
 Name of a metre पिंग०  
 उडदट्टि स्त्री० (अपकृष्टि) अपकर्ष, हानि.  
 Diminution, Reduction, Loss  
 वव० १,  
 उडदडिहय त्रि० (उडदडित) एक स्थानसे उठा  
 कर अन्यत्र स्थापित Shifted, Removed  
 पिंग० नि० ३६१,  
 उडदरण त्रि० (उडदरण) सुनने के लिए उत्सुक  
 Eager to hear से० ६, १६,  
 उडदत्तण न० (उडदत्तन) काट डालना, छेदन  
 Cutting off, Tearing out पुष्प० ३८८,  
 उडदप्य पु० (उडदप्य) शास्त्र-निषिद्ध आचरण  
 Any act contrary to sacred  
 precepts पचभा०  
 उडदमण न० (उडदमण) (१) उर्ध्व गमन  
 Going up, Ascending (२) बाहर  
 जाना Going out समु० १७२,  
 उडदरित्र त्रि० (उडदरिण) खोदा हुआ Dug.  
 महा०  
 उडदरिसण न० (उडदरिण) (१) उत्कर्ष, बढाई,  
 महत्व Eminence, Rise, Pros-  
 perity (२) स्थापन, आघात Establish-  
 ing गडड०  
 उडदरिसिय त्रि० (उडदरि) खींच निकाला  
 हुआ, उन्मूलित, Drawn out, Up-  
 rooted से० १४, ३,  
 उडदल त्रि० (उडदल) (१) धर्म रहित  
 Destitute of religion (२) न० चोरी  
 A theft पण्ड० १, ३, टी, (३) पु०  
 देश विशेष Name of a country  
 प्रबो० ७८,

उकलवण. न० ( उल्लम्बन ) फासी लटकना  
Hanging सं० ३५८,  
उकलवण. न० ( उल्कर्षण ) (१) अभिमान करना.  
To be proud (२) ऊँचा जाना Going  
up (३) निवर्तन, निवृत्ति Retiring  
(४) प्रेरणा. Exciting राज०  
उकलस. पु० ( उल्कर्ष ) अतिशय उल्कृतता  
Excess. भवि०  
उकलिट्ट. त्रि० ( उल्कृत ) लगातार दो दिन का  
उपवास Two fasts at a time सबोध०  
५८,  
उकलित्त. त्रि० ( उल्कीर्ण ) चर्चित, उपलिस  
Anointed, Smeared तदु० २६,  
उकलिरणग. न० ( उल्करणक ) अक्षत आदि से  
बढाना, बघावा, बघापन Performing  
certain ceremony of welcoming  
धर्मवि० ४६,  
उकलीलिय न० ( उल्कोडित ) उत्तम क्रीडा  
The best play पउम० ११५, ६,  
उकलीलिय त्रि० ( उल्कीलित ) कीलक से निय-  
न्त्रित Restrained by a nail सुपा०  
४७५,  
उककुजिय. न० ( उल्कूजित ) अव्यक्त शब्द An  
indistinct word निसी० चू०  
उकलस त्रि० ( उल्कृष्ट ) उत्तम, श्रेष्ठ Best,  
Eminent कुमा०  
उककोय. त्रि० ( उल्कोप ) प्रखर, उल्कट Powerful,  
Mighty सण०  
उककोवण. न० ( उल्कोपन ) उद्दीपन, उत्तेजन.  
Encouraging भवि०  
उककोविय त्रि० ( उल्कोपित ) अत्यंत क्रुद्ध किया  
हुआ, Made angry उप० पू० ७८,  
उककोसण न० ( उल्कोशन ) (१) क्रन्दन  
Lamentation (२) निर्मत्स्य, तिरस्कार  
Abusing, Disregarding. उव०  
उककोसा स्त्री० ( उल्कोशा ) कोशा नामक एक

प्रसिद्ध वेश्या. The celebrated Prosti-  
tute called Kosha धर्मवि० ६७,  
उककोसिअ त्रि० ( उल्कोशित ) भर्त्सित,  
तिरस्कृत, धूतकारा हुआ Abused, Dis-  
regarded उप० पू० ७८,  
उकख पु० ( उख ) जैन साध्वीओं के पहनने  
के वस्त्र-विशेष का एक अंश A part of  
garment worn by Jain nuns  
वृह० १,  
उकखइय त्रि० ( उल्खचित ) व्याप्त, भरा हुआ  
Full of से० १, ३३,  
उकखडण न० ( उल्खण्डन ) उल्कतन, विच्छेदन  
Cutting of, Teasing out विक्र० २८,  
उकखडिअ त्रि० ( उल्खण्डित ) खण्डित, छिन्न  
Cut, Broken से० ५, ४३,  
उकखलिय त्रि० ( उल्खण्डित ) उन्मूलित,  
उत्पादित Uprooted, Eradicated  
से० ६, २६,  
उकखवण. न० ( उल्खेपण ) (१) फेंकना, दूर  
करना Throwing (२) त्रि० दूर करने  
वाला Removing कुमा०  
उकखवणा स्त्री० ( उल्खेपणा ) बाहर करना,  
दूर करना. Removing वृह० १,  
उकखुडिअ त्रि० ( उल्खडित ) (१) खण्डित,  
छिन्न भिन्न Broken, cut कुमा० से० ४,  
२१, सुपा० २६२, (२) व्यय किया हुआ,  
खर्च किया हुआ Spent सुपा० १५,  
उकखुडिअ त्रि० ( उल्खण्ड ) कुण्ड, चोम प्राप्त  
Agitated से० ७, १६,  
उकखेविय. त्रि० ( उल्खेपित ) जलाया हुआ  
Bunt भवि०  
उकखोडिअ त्रि० ( उल्खोडित ) (१) उल्क्षित,  
बढाया हुआ Thrown or tossed up.  
पाय०  
उगध. त्रि० ( उद्गन्ध ) अत्यंत सुगन्धित Very  
fragrant गड०

उगम पु० (उद्गम) (१) उत्पत्ति, उद्भव  
Production राज० (२) उदय Rise  
सुर० ३, २५०,  
उगमिय त्रि० (उद्गमित) उपार्जित Ob-  
tained, Attained निरी० चू० २,  
उग्गाह. पु० (अवग्रह) (१) अवधारण, निश्चय  
Determination (२) पात्र, भाजन A  
vessel पचा० (३) साध्वीओं का एक उपकरण  
One of the belongings of the  
saints ओच० नि० ६६६, ६७६,  
उग्गाह त्रि० (उद्गाह) (१) अतिगाह, प्रबल  
Intense, Deep उप० ६८६ टी, सु० च०  
६४, (२) स्वस्थ, तदुरस्त Healthy वृ० १,  
उग्गामिय. त्रि० (उद्गमित) ऊपर उठाया हुआ  
Raised up सुख० १, १४,  
उग्गार-उग्गाल पु० (उद्गार) वचन, वक्ति  
A word गउड० (२) शब्द, आवाज, ध्वनि  
A sound गउड० (३) जल का छोटा प्रवाह  
A small water flow पात्र० (४)  
रोमन्थ, पयुराना Ruminating पात्र०  
उग्गाल पु० (उद्गाल) पान की पिचकारी  
Spittle प्रव० ३८,  
उग्गाहण न० (उद्ग्राहण) तगादा, दी हुई  
चीज की माग Dunning सु० च० ५७८,  
उग्गाहणिया क्री० (उद्ग्राहणिका) देखो  
'उग्गाहण' शब्द Vide 'उग्गाहण' 'उग्गाह-  
णियाहेव' सु० च० ६३२,  
उग्गाहा क्री० (उद्ग्राथा) छन्द विशेष Name  
of a metre पिंग०  
उग्गिरण-अ त्रि० (उद्गीर्ण) (१) उक्त, कथित  
Said, Told भवि० (२) उठया हुआ,  
ऊपर किया हुआ Raised up सुर० १६,  
१४७, सुपा० १३३८,  
उग्गिरण न० (उद्गारण) वान्ति, वमन  
Vomiting, Ejection (२) उक्ति, कथन  
Saying वव०

उग्गीय त्रि० (उद्गीत) (१) उच्च स्वर से गाया  
हुआ Sung loudly (२) न० सर्गीत,  
गीत, गान A song से० १, ६६,  
उग्गीव त्रि० (उद्गीव) उत्कण्ठित, उत्सुक.  
Anxiously desirous कुमा०  
उग्घडिअ, त्रि० (उद्घाटित) खुला हुआ  
Opened (२) छिन्न, नष्ट किया हुआ  
Destroyed से० ११, १३,  
उग्घाअ पु० (उद्घात) आरम्भ, प्रारम्भ  
Beginning, Commencement पात्र०  
उग्घाअ न० (उद्घात) निशीथ सूत्र का एक अंश,  
जिसमें प्रायश्चित्त का वर्णन है A section of  
Nishitha Sutra, containing the  
details of expiation 'उग्घायमग्घाय'  
आव० ३,  
उग्घाड त्रि० (उद्घाट) (१) व्यक्त, प्रकट  
Distinct, clear (२) परिपूर्ण, अन्वून  
Full "उग्घाडपरिसीस्यगो" सु० च० ६७,  
उग्घायण न० (उद्घातन) (१) पूज्य स्थान,  
वत्तम जगह The venerable place  
(२) सरोवर में जाने का मार्ग Way to go  
to tank  
उग्घार पु० (उद्घार) सिञ्चन, छिटकाव  
Sprinkling, स० १६८,  
उग्घोस पु० (उद्घोष) डोंडी पिटवाना, हिंदोरा  
पिटवा कर जाहिर करना Announcing  
aloud, Proclaiming स्वप्न० २१,  
उग्घोसिय त्रि० (उद्घोसित) जाहिर किया  
हुआ, घोषित Proclaimed, An-  
nounced भवि०  
उच्चइय. त्रि० (उच्चयित) एकत्रीकृत, इकट्ठा  
किया हुआ Collecting, Gathering  
काल०  
उच्चत्त त्रि० (उच्यक्त) पतित, त्यक्त Fallen  
(in moral sense), Abandoned,  
Wicked पात्र०

उच्चय पु० ( उच्चय ) नीची, स्त्री के कटी वस्त्र की नाडी The knot of a woman's ( wearing ) garment पाञ्च०  
 उच्चरिय. त्रि० ( उच्चरित ) उचीर्य, पार प्राप्त Crossed, Passed over महा०  
 उच्चरिय. (२) कथित, उक्त Said, Told विशेष० १०८३,  
 उच्चलण न० ( उच्चलन ) उन्मर्दन, उष्पीडन Rubbing, Kneading पाञ्च०  
 उच्चलिय त्रि० ( उच्चलित ) चलित, गत Gone, Moved भवि०  
 उच्चलिय त्रि० ( उच्चलित ) (१) गत, गया हुआ Gone ( २ ) समीप में आया हुआ Approached, सुर० ३, ७४,  
 उच्चवचित्रा स्त्री० ( उच्चवचित्रा ) ऊँचा नीचा करना, जैसे जैसे रखना Making up and down गा० ६६७,  
 उच्चवाञ्च पु० ( उच्चवाद ) प्रशंसा, श्लाघा Praise उप० ७२८ टी,  
 उच्चा अ० ( उच्चैस् ) ऊँचा High महा०  
 उच्चाङ्गण न० ( उच्चाटन ) (१) मन्त्र विशेष A kind of charm or magical incantation एक स्थान से दूसरे स्थान में उठा ले जाना Working this charm "उच्चाङ्गणमयामोहयाद्" सु० च० २६६,  
 उच्चाङ्गी स्त्री० ( उच्चाटनी ) विद्या विशेष, जिसके द्वारा वस्तु अपने स्थान से उठायी जा सकती है A kind of magical incantation सुर० १३, ८१,  
 उच्चिरण न० ( उच्चयन ) एकत्रोकरण Collecting, Gathering सु० च० ४६६,  
 उच्चिरिय त्रि० ( उचित ) इकट्ठा किया हुआ, अवचित Collected, Gathered पाञ्च०  
 उच्चिरि त्रि० ( उच्चैत् ) फूल वगैर को चुनने वाला A flower-gatherer कुमा०  
 उच्चैय त्रि० ( उच्चैत् ) चिन्तातुर मन वाला

Anxious-minded पाञ्च०  
 उच्छ पु० ( उच्चन् ) बैल, वृषभ An ox or bull हे० २, १७,  
 उच्छञ्च पु० ( उत्सव ) क्षण, उत्सव A festival, A joyous occasion हे० २, २२,  
 उच्छइञ्च त्रि० ( उच्छदित ) आच्छादित. Covered or concealed काल  
 उच्छखल त्रि० ( उच्छृङ्खल ) (१) शृङ्खला रहित, अवरोध रहित, बन्धन शून्य Unbridled ( २ ) उद्धत, निरकुश Impudent, Unrestrained गवड०  
 उच्छखलिय त्रि० ( उच्छृङ्खलित ) अवरोध रहित किया हुआ, खुला किया हुआ, Opened. गवड०  
 उच्छग पु० ( उत्सग ) मध्य भाग The middle part गवड० से० १०, २,  
 उच्छगिञ्च त्रि० ( उत्सङ्गित ) खोले में लिया हुआ Taken in the lap उप० ६४८ टी,  
 उच्छप्पण न० ( उत्सर्पण ) उन्नति, अभ्युदय Rise, Prosperity सु० च० २७१,  
 उच्छप्पणा स्त्री० ( उत्सर्पणा ) देखो 'उच्छप्पण' शब्द Vide 'उच्छप्पण' "उच्छप्पणात्कारेद्" सु० च० २०६, ६४६,  
 उच्छलितर त्रि० ( उच्छलितृ ) उछलने वाला Moving up. धर्मवि० १४, कुप्र० ३७३,  
 उच्छल त्रि० ( उच्छल ) उछलने वाला One that moves up भवि०  
 उच्छहिय त्रि० ( उत्सहित ) उत्साह युक्त Aduous, सण०  
 उच्छायण त्रि० ( उच्छादन ) नाशक A destroyer स० ३०३, ४६३,  
 उच्छालण न० ( उच्छालन ) उछालना, उत्सर्पण Throwing or tossing up कुमा०,  
 उच्छालिञ्च त्रि० ( उच्छालित ) फेंका हुआ, उच्छिन्न Thrown or tossed up. सुपा० ६७,

उच्छ्राह, पु० ( उत्साह ) पराक्रम, सामर्थ्य, शक्ति Strength, Fortitude आचू० १, हे० १, ११४, २, ४८, पउम० २०, ११८, उच्छ्राहण, न० ( उत्साहन ) उत्तेजन, प्रोत्साहन Encouraging, Exciting अप० ५६७टी उच्छ्राहिय त्रि० ( उत्साहित ) उत्तेजित, प्रोत्साहित, Encouraged, Excited पि० नि०

उच्छिद्य त्रि० ( उच्छिद्य ) अशिष्ट, असभ्य Rude, Unmannerly दस० ३, १ टी, उच्छिद्यत, त्रि० ( उच्छिद्यत ) फेंका हुआ Thrown or tossed up. से० ५, ६१, पात्र०

उच्छुभ्र त्रि० ( उत्सुक ) उत्कण्ठित Eager, Anxiously desirous हे० २, २२, उच्छुण्ण त्रि० ( उच्छुण्ण ) खरिडत, तोडा हुआ, Broken पात्र० ( २ ) आक्रान्त Full of, Occupied से० १०, २,

उच्छुभ्रण न० ( उत्क्षेपण ) ऊचा फेंकना Throwing or tossing up प्रव० ७३ टी, उच्छोडिय त्रि० ( उच्छोडित ) छुटाया हुआ, मुक्त किया हुआ, Released, Liberated सुर० १, १०५, २, ३६,

उच्छोभ, त्रि० ( उच्छोभ ) ( १ ) शोभा रहित Devoid of splendour ( २ ) पिशुनता, चुगली Back-biting, Slander राज० उज्ज न० ( उर्ज ) ( १ ) तेज, प्रताप, Splendour, Brilliance ( २ ) बल Power, strength कप०

उज्जअणी-उज्जइणी स्त्री० ( उज्जयिनी ) नगरी विशेष, मालव देश की प्राचीन राजधानी, उज्जैन नाम से आज कल भी प्रसिद्ध है Name of a city चाक० ३६, पि० ३८६,

उज्जमि, त्रि० ( उद्यमिन् ) उद्योगी, Industrious, Persevering कुम० ४१८, उज्जलण, न० ( उज्ज्वलन ) , देदीप्य-

मान, Burning, Shining "जालुजल-णगअवरव कल्पइ" कप०

उज्जलित्र पु० ( उज्ज्वलित ) तीसरी नरक भूमि का सातवा नरकेन्द्रक, A particular abode of the third hell देवेन्द्र० ८, उज्जल्ल न० ( उज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता, Splendour, Brilliance गा० ६२६,

उज्जाअर-उज्जागर पु० ( उज्जागर ) जागरण, निद्रा का अभाव, Wakefulness, Keeping awake गा० ४८२, वज्जा० ७६,

उज्जागरय पु० ( उज्जागरक ) ( १ ) जागरण, निद्रा का अभाव, Wakefulness, Keeping awake वजा० ६८,

उज्जाणिया स्त्री० ( औद्यानिका ) गोष्ठी, गोट A pleasure party 'उज्जाणियापु वचइ' निसी० चू० ८, स० १५१,

उज्जावण, न० ( उद्यापन ) व्रत का समाप्ति कार्य, Completing a vow प्रा०,

उज्जीवण न० ( उज्जीवन ) ( १ ) पुनर्जीवन, जिलाना Rebuth सुपा० ५०४, ( २ ) उदीपन, Illuminating, Lighting सण०

उज्जीविय, त्रि० ( उजीवित ) पुनर्जीवन, जिलाया हुआ Saved सु० २७०,

उज्जुआइअ त्रि० ( ऋजुकायित ) सरल किया हुआ Made straight से० १३, २०,

उज्जुद त्रि० ( उद्व्यूढ ) धारण किया हुआ Held सबोध० ५३,

उज्जुहत्थ पु० ( ऋजुहस्त ) दाहिना हाथ The right hand ओध० नि० ५११,

उज्जेणग पु० ( उज्जयक ) श्रावक विशेष, एक उपासक का नाम Name of a shra-vak आचू० ४,

उज्जोअण न० ( उद्योतन ) ( १ ) प्रकाशन, अवभासन Illuminating, ( २ ) प्रकाश करने वाला One that illuminates

उप० ७२६ टी, (३) सूर्य, रवि The sun  
(४) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य Name of a  
celebrated Jain Acharya. गु० ७,  
साध्य० ६२,  
उज्जीवण न० ( उद्योतन ) प्रकाशन Illu-  
minating, Lighting स० ६३१,  
उज्झा पु० ( उज्झ-उद्ध्य ) उपाध्याय, पाठक  
A teacher विशे ३१६८,  
उज्झात्र. ग त्रि० ( उज्झक ) त्याग करने वाला,  
छोडने वाला One that abandones  
or quits उप० १७६ टी,  
उज्झाणा स्त्री० ( उज्झा ) परित्याग Aban-  
doning, Leaving आव० ४, उप० २६३,  
उज्झरवणी स्त्री० ( अचकरपर्या ) उदक पान,  
जल प्रपात A water-fall निसी०चू० २,  
उज्झाव पु० (उपाध्याय) विद्यादातागुरु, शिक्षक,  
पाठक A teacher महा०सुर०१, १८०,  
उज्झासि त्रि० ( उद्भासिन् ) चमकने वाला,  
देदीप्यमान Shining, Radiant रभा०  
उट्टार पु० ( अवतार ) घाट, तीर्थ, जलाशय का  
तट A sacred bathing place  
पत्रम० ६८, ३०,  
उट्ट त्रि० ( उत्थ ) उत्थित, उठा हुआ Stand-  
ing up श्रोघ० नि० ७०, उवा०  
उट्टवण. न० ( उत्थापन ) ऊँचा करना, उठाना  
Raising up श्रोघ० नि० २१४,  
उट्टविय त्रि० ( उत्थापित ) उठाय हुआ, खड़ा  
किया हुआ Caused to get up सुर०  
६, १६०,  
उट्टाहत्र त्रि० ( उत्थित ) (१) जो तय्यार हुआ  
हो, प्रयुक्त Ready पत्रम० १२, ६६, (२)  
उत्पन्न, उत्थित Produced, Born  
स० ३७६,  
उट्टावित्र त्रि० ( उत्थापित ) (१) उठाय हुआ,  
खड़ा किया हुआ Caused to get up  
(२) उत्पादित Produced उप० ६४८ टी,

उट्टिय त्रि० ( उत्थित ) बाहर निकला हुआ  
Come out श्रोघ० नि० ६२,  
उट्टिर. त्रि० ( उत्थातृ ) उठने वाला, One  
that stands up सण०  
उट्टिसिय. त्रि० ( उद्द्युपित ) पुलकित, रोमा-  
न्चित Having the hair of the  
body erect श्रोघ० कुमा०  
उडक पु० ( उडक ) एक ऋषि, तापस विशेष.  
Name of a Rishi निसी० चू० १२,  
उडुवरिजिया स्त्री० ( उडुम्बरीया ) जैन  
मुनियों की एक शाखा Name of a  
branch of Jain saints कप्प०  
उडुगाय न० ( उडुगयन ) उड़ान, उड़ना. Flying  
up, Soaring. सुर० ८, १२,  
उडुगामर त्रि० (१) ( उडुगामर ) भय-युक्त  
Formidable, Terrific (२) आडम्बर  
वाला, दाप-टीप वाला Showy, Having  
external appendage. पात्र० (३)  
उडुमट, प्रबल Very strong or  
powerful कुम० १४२,  
उडुगामरिअ त्रि० ( उडुगामरित ) भयभीत किया  
हुआ Frightened कप्प०  
उडुगव त्रि० ( उडुगयक ) उठाने वाला One  
that causes to fly up पिंड० ४७१,  
उडुगवण न० ( उडुगयन ) उठाना Causing  
to fly up कुमा०  
उडुगविअ त्रि० ( उडुगयित ) उठाय हुआ  
Caused to fly up गा० ११०, पिंग०  
उडुगविर त्रि० ( उडुगयितृ ) उठाने वाला. One  
that causes to fly up वजा० ६४,  
उडुगिअ त्रि० ( औडू ) उडीसा देश का निवासी.  
An inhabitant of Orisa. नाट०  
उडुगिय. त्रि० ( उडुगिन ) उडा हुआ Flow  
up. धर्मवि० १३६,  
उडुगी स्त्री० ( औडुगी ) लिपि विशेष, उक्तल देश  
की लिपि A particular alphabets-

विशे० ४६४ टी,  
 उड्डुवाडिय पु० (उड्डुवाटिक) भगवान् महा-  
 वीर के एक गण का नाम. Name of a  
 particular class of Lord Maha-  
 vir. कप्प०  
 उड्डु त्रि० (ऊर्ध्व) खड़ा, दण्डायमान Stood  
 up, Standing up आच० ६, —गम  
 त्रि० (गम) ऊपर जाने वाला. One that  
 goes up सु० च० ४२६, —गामि त्रि०  
 (गामिन्) ऊपर जाने वाला Going up-  
 wards, Rising —दिस्ता. ऋ० (दिश) ऊर्ध्व  
 दिशा The upper direction  
 आन० ६,  
 उड्डुविय, त्रि० (ऊर्ध्वित) ऊँचा किया हुआ.  
 Raised up वजा० १४६,  
 उण न० (ऋण) ऋण, करजा A debt पद०  
 उण्णाअक त्रि० (उन्नयक) (१) वृद्धि-कारक  
 Prospering (२) छन्द शास्त्र प्रसिद्ध मध्य  
 गुरु चतुष्कल की सजा पिंग०  
 उण्णाग. पु० (वृद्धाक) ग्राम-विशेष. Name  
 of a village आचम०  
 उण्णाम पु० (उन्नम) उन्नति, ऊँचाई A  
 height से० ६, २६,  
 उण्णामिय त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ,  
 Raised up गा० १६, २५६, से० ६, ७१,  
 उण्णअ त्रि० (उन्नत) वितर्कित, विचारित.  
 Thought से० १३, ७७,  
 उण्णइ त्रि० (उन्नित) (१) विकसित, उल्ल-  
 सित Opened or expanded, Full-  
 blown गवड० (२) निद्रा-रहित Sleep-  
 less, Awake माल० ८२,  
 उण्णैस पु० न० (उण्णीय) पगडी, मुकुट  
 A turban, A diadem or crownet  
 हे० २, ७५,  
 उताहो अ० (उताहो) अथवा, या And, or  
 पि० ८२,

उत्तमण न० (उत्तम्भन) (१) अवरोध Ob-  
 struction (२) अवलंबन Support,  
 Help उप० पृ० २२१,  
 उत्तमय त्रि० (उत्तम्भक) (१) रोकने वाला  
 Obstructing (२) अवलम्बन देने वाला,  
 सहायक. Helping, Supporting उप०  
 पृ० २२०,  
 उत्तस. पु० (अवतस) शिरो भूषण, अवतस  
 An ornament worn on the head  
 गवड०  
 उत्तंस पु० (उत्तस) कर्णपूरक, कर्णभूषण  
 An ear-ring पात्र०  
 उत्तणुअ. त्रि० (उत्तलुक) अभिमानी, गर्विष्ट.  
 Arrogant, Proud पात्र०  
 उत्तत्त त्रि० (उत्तप्त) अति तप्त, बहुत गरम.  
 Very hot सु० च० ३७,  
 उत्तप्प. त्रि० (उत्तप्त) देदीप्यमान Shining;  
 Brilliant राज०  
 उत्तम त्रि० (उत्तम) (१) अन्त्य, अन्तिम.  
 Last, Final राज० (२) पु० मेरु पर्वत.  
 The mount Meru. इक० (३) राक्षस  
 वश का एक राजा Name of a king of  
 the demon family पडम० ५, २६४,  
 (४) एक दिन का उपवास A fast रुबोध०  
 २८,  
 उत्तम त्रि० (उत्तमस्) अज्ञान रहित Not  
 ignorant "ते उत्तमा हुति" कप्प०  
 उत्तमण्ण त्रि० (उत्तमण) लेनदार A cred-  
 itor. नाट०  
 उत्तम्मिअ त्रि० (उत्तान्त) खिन्न, दिलगीर.  
 Sorry, Grieved पात्र०  
 उत्तर न० (उत्तर) (१) ऊन का बना हुआ  
 वस्त्र, कम्बल वगैर A woollen garment  
 कप्प० (२) वर्षा कल्प कप्प० (३) पु० एक  
 जैन मुनि, आर्य महागिरि के प्रथम शिष्य  
 Name of a Jain saint, The promi-



उप० ७२६ टी, (३) सूर्य, रवि The sun.  
 (४) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य Name of a  
 celebrated Jain Acharya. गु० ७,  
 साध्य० ६२,  
 उज्जोवण न० ( उद्योतन ) प्रकाशन Illu-  
 minating, Lighting स० ६३१,  
 उज्ज्ग पु० ( उज्ज्ग-उद्ध्य ) उपाध्याय, पाठक  
 A teacher वि० ३१६८,  
 उज्ज्ग, ग त्रि० ( उज्ज्ग ) त्याग करने वाला,  
 छोड़ने वाला. One that abandones  
 or quits उप० १७६ टी,  
 उज्ज्गणी स्त्री० ( उज्ज्ग ) परित्याग Aban-  
 doning, Leaving आव० ४, उप० २६३,  
 उज्ज्गवराणी स्त्री० ( अचकरपणी ) उदक पान,  
 जल प्रपात A water-fall निली० चू० ५,  
 उज्ज्गाव पु० ( उपाध्याय ) विद्यादाता गुरु, शिक्षक,  
 पाठक A teacher महा० सुर० १, १८०,  
 उज्ज्गासि त्रि० ( उद्भासिन् ) चमकने वाला,  
 देवीज्यमान Shining, Radiant रभा०  
 उट्टार पु० ( अवतार ) घाट, तीर्थ, जलाशय का  
 तट A sacred bathing place  
 पञ्च० ६८, ३०,  
 उट्ट त्रि० ( उत्थ ) उत्थित, उठा हुआ Stand-  
 ing up शोध० नि० ७०, उवा०  
 उट्टवण, न० ( उत्थापन ) ऊँचा करना, उठाना  
 Raising up शोध० नि० २१४,  
 उट्टविय त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ, खडा  
 किया हुआ Caused to get up सुर०  
 ६, १६०,  
 उट्टाड्ग त्रि० ( उत्थित ) (१) जो तट्यार हुआ  
 हो, प्रगुण Ready पञ्च० १२, ६६, (२)  
 उत्पन्न, उत्थित Produced, Born  
 स० ३७६,  
 उट्टावित्र त्रि० ( उत्थापित ) (१) उठाया हुआ,  
 खडा किया हुआ Caused to get up  
 (२) उत्पादित Produced उप० ६४८ टी,

उट्टिय. त्रि० ( उत्थित ) बाहर निकला हुआ  
 Come out शोध० नि० ६२,  
 उट्टिर. त्रि० ( उत्थातृ ) उठने वाला, One  
 that stands up सण०  
 उट्टिसिय. त्रि० ( उद्घुषित ) पुलकित, रोमा-  
 ङ्चित्त Having the hair of the  
 body erect शोध० कुमा०  
 उडक पु० ( उडक ) एक ऋषि, तापस विशेष.  
 Name of a Rishi निमी० चू० १२,  
 उडुवरिजिया स्त्री० ( उडुम्बरीया ) जैन  
 मुनियों की एक शाखा Name of a  
 branch of Jain saints कण्प०  
 उडुगाण न० ( उडुगण ) उड़ान, उड़ना. Flying  
 up, Soaring. सुर० ८, २२,  
 उडुगामर त्रि० (१) ( उडुगामर ) भय-युक्त  
 Formidable, Terrific (२) आडम्बर  
 वाला, टाप-टीप वाला Showy, Having  
 external appendage. पाञ्च० (३)  
 उडुभट, प्रबल. Very strong or  
 powerful कुम० १४२,  
 उडुगामरिअ. त्रि० ( उडुगामरित ) भयभीत किया  
 हुआ Frightened कण्प०  
 उडुगाव त्रि० ( उडुगावक ) उड़ाने वाला One  
 that causes to fly up पिंड० ४७१,  
 उडुगावण न० ( उडुगावण ) उड़ाना Causing  
 to fly up कुमा०  
 उडुगाविअ त्रि० ( उडुगावित ) उड़ाया हुआ.  
 Caused to fly up गा० ११०, पिं०  
 उडुगाविर त्रि० ( उडुगावितृ ) उड़ाने वाला. One  
 that causes to fly up बजा० ६४,  
 उडुगिअ त्रि० ( औडू ) उड़ीसा देश का निवासी  
 An inhabitant of Orisa. नाट०  
 उडुगिय. त्रि० ( उडुगिय ) उडा हुआ Flown  
 up. धर्मवि० १३६,  
 उडुगी स्त्री० ( औडुगी ) लिपि विशेष, उत्कल देश  
 की लिपि A particular alphabets-

विशे० ४६४ टी,

उड्डुवाडिय पु० (उड्डुवाडिक) भगवान् महा-  
वीर के एक गण का नाम. Name of a  
particular class of Lord Maha-  
vil. कप्य०

उड्डु त्रि० (ऊर्ध्व) खडा, दण्डायमान Stood  
up, Standing up आ० ६, —गम  
त्रि० (गम) ऊपर जाने वाला. One that  
goes up सु० च० ४२६, —गामि त्रि०  
(गामिन्) ऊपर जाने वाला Going up-  
wards, Rising —दिस्ता. स्त्री० (दिश्)  
ऊर्ध्व दिशा The upper direction  
आ० ६,

उड्डुविय, त्रि० (ऊर्ध्वित) ऊँचा किया हुआ.  
Raised up वजा० १४६,

उण न० (ऋण) ऋण, करजा A debt पद्०  
उण्णात्रक त्रि० (उन्नायक) (१) उन्नति-कारक  
Prospering (२) छन्द शास्त्र प्रसिद्ध मध्य  
गुरु चण्डिकल की सजा पिंग०

उण्णाग. पु० (उन्नाक) ग्राम-विशेष. Name  
of a village आ० १०

उण्णाम पु० (उन्नाम) उन्नति, ऊँचाई A  
height से० ६, २६,

उण्णामिय त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ,  
Raised up गा० १६, २२६, से० ६, ७१,

उण्णित्त त्रि० (उन्नीत) विवर्कित, विचारित  
Thought से० १३, ७७,

उण्णित्त त्रि० (उन्निद्र) (१) विकसित, उल्ल-  
सित Opened or expanded, Full-  
blown गड० (२) निद्रा-रहित Sleep-  
less; Awake माल० २२,

उण्णित्त पु० न० (उण्णीप) पगडी, मुकुट  
A turban, A diadem or crown  
से० २, ७२,

उताही अ० (उताहो) अथवा, या And, or  
पि० २२,

उत्तमण न० (उत्तम्भन) (१) अवरोध Ob-  
struction (२) अवलम्बन Support,  
Help उप० पृ० २२१,

उत्तमय त्रि० (उत्तम्भक) (१) रोकने वाला  
Obstructing (२) अवलम्बन देने वाला,  
सहायक Helping, Supporting उप०  
पृ० २२०,

उत्तस. पु० (अवतस) शिरो भूषण, अवतस  
An ornament worn on the head  
गड०

उत्तंस पु० (उत्तस) कर्णपूरक, कर्ण-भूषण  
An ear-ring पात्र०

उत्तण्ण. त्रि० (उत्तणुक) अभिमानी, गर्वित.  
Arrogant, Proud पात्र०

उत्तत्त. त्रि० (उत्तत्त) अति तप्त, बहुत गरम.  
Very hot सु० च० ३७,

उत्तप्य त्रि० (उत्तप्य) देदीप्यमान Shining;  
Brilliant राज०

उत्तम त्रि० (उत्तम) (१) अन्त्य, अन्तिम.  
Last, Final राज० (२) पु० मेरु पर्वत.

The mount Meru. इक० (३) राक्षस  
वंश का एक राजा Name of a king of  
the demon family पउम० ५, २६४,

(४) एक दिन का उपवास A fast सूत्रो०  
२२,

उत्तम त्रि० (उत्तमस्) अज्ञान रहित Not  
ignorant "ते उत्तमा इति" कप्य०

उत्तमण्य त्रि० (उत्तमण्य) लेनदार A cred-  
itor. नाट०

उत्तमिअ त्रि० (उत्तान्त) खिन्न, दिलगीर.  
Sorry, Grieved पात्र०

उत्तर न० (उत्तर) (१) ऊन का बना हुआ  
वस्त्र, कम्बल वगैर A woollen garment  
कप्य० (२) वर्षा कल्प कप्य० (३) पु० एक  
जैन मुनि, आर्य महागिरि के प्रथम शिष्य  
Name of a Jain saint, The promi-

nent pupil of Arya Mahaguni  
कप्यं — करण न० ( करण ) उपस्कार,  
सस्कार विशेष, गुणाधान Ceremony,  
Rite, Propensity "उत्तरकरण कीर्त"   
श्राव० ५, —साहग-य त्रि० ( साधक )  
विद्या, मन्त्र वगैर का साधन करने वाले का  
सहायक A helper of one that ac-  
complishes magical skill etc सु०  
च० १५१,

उत्तरंग न० ( उत्तरङ्ग ) (१) दरवाजे के ऊपर  
का काष्ठ Door-Beam कुमा० (२) त्रि०  
चपल, चंचल Unsteady, Fickle  
मुद्रा० २६८,

उत्तरकुरु. स्त्री० ( उत्तरकुरु ) भगवान नमिनाथ  
की दीक्षा शिविका A palanquin of  
Lord Naminatha at the time of  
initiation विचार० १२६,

उत्तरा. स्त्री० ( उत्तरा ) दिगम्बर-मत-प्रवर्तक  
श्राचार्य शिवभूति की स्त्रनाम ख्यात भगिनी  
Name of a sister of Acharya  
Shivabhuti, founder of Digam-  
bar-doctrines विशेष०

उत्तरिय ( उत्तीर्य ) (१) उतरा हुआ, नीचे  
आया हुआ Come down सुर० ६, १५६,  
(२) पार पहुँचा हुआ Crossed over महा०

उत्तरोद्ग पुं० ( उत्तरोद्ग ) (१) ऊपर का होठ  
The upper lip पि० ३६७, (२) रमशू,  
मँझू Moustaches राज०

उत्तव. त्रि० ( उत्तव ) जिसने कहा हो वह  
One who has said or told पि० ५६६,

उत्तसिय त्रि० ( उत्तस्त ) (१) भय-भीत.  
Terrified (२) पीड़ित Harassed,  
Tormented सुर० १, २४६,

उत्ताडण. न० (उत्ताडन) ताडन करना Beat-  
ing कुमा०

उत्तार पु० (उत्तार) परित्याग Abandon-

ing, Leaving विशेष० १०४२, (२)  
उतारने वाला, पार करने वाला One that  
crosses over प्रासू० १३४,

उत्तारय त्रि० ( उत्तारक ) पार उतारने वाला  
One that transporting over स०  
६४७,

उत्तारिञ्च. त्रि० ( उत्तारित ) (१) पार पहुँचाया  
हुआ Crossed over (२) दूर किया हुआ  
Removed (३) बाहर निकाला हुआ  
Come out महा०

उत्ताल त्रि० ( उत्ताल ) (१) महान्, बड़ा  
Great (२) उतावला, शीघ्रकारी Hasty  
सुपा० ६२०, (३) उद्धत Insolent

उत्तास पु० ( उत्तास ) (१) ड़ास, भय Ex-  
treme fear, Terror (२) हैरानी  
Annoyance कप्य०

उत्तिण त्रि० ( उत्तूण ) तृण शून्य Not-  
grassy गा० १७०,

उत्तिणिञ्च त्रि० ( उत्तृणित ) तृण रहित किया  
हुआ Made grassless गा० ३१५,

उत्तिण त्रि० ( उत्तीर्य ) (१) बाहर निकाला  
हुआ Come out महा० (२) जो कम

हुआ हो What is lessened गडड०  
(३) रहित Without गडड० (४) निपटा

हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो वह Fin-  
ished, Completed गा० ५५५, (५)

उल्लङ्घित, अतिक्रान्त Transgressed,  
Violated राज०

उत्तिण त्रि० ( अवतीर्य ) नीचे उतरा हुआ.  
Descended, Come down महा०

उत्तित्थ. पु० न० ( उत्तीर्य ) कुपय, अपमार्ग  
A bad or wrong path भवि०

उत्तुंग त्रि० ( उत्तुङ्ग ) ऊँचा, उन्नत High  
or lofty महा० कप्य० गडड०

उत्तुड. त्रि० ( उत्तुड ) उन्मुख, ऊर्ध्वमुख.  
Raising the face up, Looking

up गवड०  
 उत्तेज्ज, त्रि० ( उत्तेजस् ) (१) तेजस्वी, प्रखर  
 Bright, Brilliant (२) पु० मात्रावृत्त  
 का एक भेद A variety of metric  
 विंग० नाट०  
 उत्तेज्जण, न० ( उत्तेजन ) उत्तेजन En-  
 couraging, मुद्रा० १६८,  
 उत्तेजित्त्रि त्रि० ( उत्तेजित ) प्रेरित, प्रोत्साहित  
 Excited, Instigated वस० ३, टी०  
 उत्थ, न० ( उत्थ ) (१) स्तोत्र विशेष A  
 particular verse (२) याग विशेष  
 Name of a sacrifice विशेष०  
 उत्थ त्रि० ( उत्थ ) उत्पन्न, उत्थित Pio-  
 duced सुपा० १६६, गवड०  
 उत्थइय त्रि० (अवस्तृत) व्याप्त, Peraded,  
 Spread से० ४, ३८,  
 उत्थघ, पु० ( उत्थम् ) ऊर्ध्वं प्रसरण, ऊँचा  
 फैलना Spreading upward से० ६, ३३,  
 उत्थघण, न० ( उत्थम्भन ) देखो 'उत्थघ' शब्द  
 Vide 'उत्थघ' गवड०  
 उत्थघि त्रि० ( उत्थेपिन् ) ऊँचा फेंकना  
 Throwing or crossing up गवड०  
 उत्थघित्त्रि त्रि० ( उत्थमित ) ऊँचा किया हुआ,  
 उन्नत किया हुआ Raised up कुमा०  
 उत्थघित्त्रि, त्रि० ( रुद्ध ) रोका हुआ Im-  
 peded, Obstructed कुमा०  
 उत्थघित्त्रि त्रि० ( उत्थमित ) उत्थापित, उठाया  
 हुआ Raised up से० ५, ६०,  
 उत्थभि त्रि० ( उत्थम्भिन ) (१) आघात-प्राप्त  
 Hurt (२) अवलम्बन करने वाला One  
 that helps or supports प्रासू० १२७,  
 उत्थमित्त्रि त्रि० ( उत्थमित ) (१) अवलम्बित  
 (२) रुका हुआ, उत्थमित Impeded,  
 Obstructed गा० ६२४, (३) बन्धनमुक्त  
 किया हुआ Released, Liberated  
 से० ५६८,

उत्थरिञ्ज त्रि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त, दबाया  
 हुआ Overcome, Overpowered  
 पात्र० भवि०  
 उत्थल न० ( उत्थल ) उन्मार्ग, कुपथ A  
 wrong way से० ८, ६,  
 उत्थलित्त्रि, त्रि० ( उत्थलित ) उछला हुआ,  
 Tossed up पात्र०  
 उत्थाइय त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ,  
 Raised up सुपा० ३५२,  
 उत्थाण न० ( उत्थान ) वीर्य, बल, पराक्रम  
 Valour, Strength, Prowess. विशेष०  
 २८२६,  
 उत्थारिय त्रि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त, दबाया  
 हुआ Overpowered कुमा० सुपा० ५४६,  
 उत्थुभण न० ( अवस्तोभन ) अनिष्ट की शान्ति  
 के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक,  
 थू थू आवाज करना. Making a sound  
 like 'Thu, Thu' वृह० १,  
 उद्भृत्त, त्रि० ( उद्भिन ) उदयवान्, उन्नतिशील,  
 Rising, Prospering. 'उद्भृत्तो' सु०  
 च० ६२२,  
 उद्भिर त्रि० ( उद्भित् ) ऊँचा जाने वाला  
 One that goes up or rises कुमा०  
 उद्भित्, पु० ( उद्भन्त ) हकीकत, समाचार, वृत्तान्त  
 Tidings, Intelligence 'वीद्भितो'  
 भग० से० ४, ५५, स० ३०,  
 उद्भृत्त पु० ( उद्भृत् ) एक नरक-स्थान A  
 particular hell-abode देवेन्द्र० २७,  
 उद्भृत्ता, स्त्री० ( उद्भृत्ता ) तृपा, तरल, पिपासा  
 Thirst उप० १०३१ टी,  
 उद्भयण पु० ( उद्भयन ) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध  
 मंत्री Name of a celebrated min-  
 ister of king Siddharaja कुप० १४३,  
 उद्भरि त्रि० ( उद्भरि ) स्वार्थी, एकलपेटा  
 Nourishing ones own belly,  
 Selfish पि० ३७६,

ment pupil of Arya Mahagiri  
कप्य० — करण न० ( करण ) उपस्कार,  
सस्कार विशेष, गुणाधान Ceremony,  
Rite, Propensity "उत्तरकरण कीरड्"  
श्राव० १, — साहृग-य त्रि० ( साधक )  
विद्या, मन्त्र वगैर का साधन करने वाले का  
सहायक A helper of one that ac-  
complishes magical skill etc सु०  
च० १२१,

उत्तरंग, न० ( उत्तरङ्ग ) (१) दरवाजे के ऊपर  
का काष्ठ Door-Beam कुमा० (२) त्रि०  
चपल, चंचल Unsteady, Fickle  
मुद्रा० २६८;

उत्तरकुह. स्त्री० ( उत्तरकुह ) भगवान नमिनाथ  
की दीक्षा शिविका A palanquin of  
Lord Naminatha at the time of  
initiation विचार० १२६,

उत्तरा. स्त्री० ( उत्तरा ) दिगम्बर-मत-प्रवर्तक  
आचार्य शिवभूति की स्त्रनाम ख्यात भगिनी  
Name of a sister of Acharya  
Shivabhuti, founder of Digam-  
bar-doctrines विशेष०

उत्तरिय ( उत्तीर्य ) (१) उतरा हुआ, नीचे  
आया हुआ Come down सुर० ६, १२६,  
(२) पार पहुँचा हुआ Crossed over महा०

उत्तरोट्ट पुं० ( उत्तरौट्ट ) (१) ऊपर का होठ  
The upper lip पि० ३६७, (२) श्मश्रू,  
मूँझ Moustaches राज०

उत्तव. त्रि० ( उत्तवद् ) जिसने कहा हो वह  
One who has said or told पि० २६६,

उत्तसिय. त्रि० ( उत्तस्त ) (१) भय-भीत,  
Terrified (२) पीडित Harassed,  
Tormented सुर० १, २४६,

उत्ताडण न० (उत्ताडन) ताडन करना Beat-  
ing कुमा०

उत्तार पुं० ( उत्तार ) परित्याग Abandon-

ing, Leaving विशेष० १०४२, (२)  
उतारने वाला, पार करने वाला One that  
crosses over प्रासू० १३४,

उत्तारय. त्रि० ( उत्तारक ) पार उतारने वाला  
One that transporting over स०  
६४७,

उत्तारिञ्च. त्रि० ( उत्तारित ) (१) पार पहुँचाया  
हुआ Crossed over (२) दूर किया हुआ  
Removed (३) बाहर निकाला हुआ  
Come out महा०

उत्ताल. त्रि० ( उत्ताल ) (१) महान्, बड़ा  
Great (२) उतावला, शीघ्रकारी Hasty  
सुपा० ६२०, (३) उद्धत Insolent

उत्तास पुं० ( उत्तास ) (१) त्रास, भय Ex-  
treme fear, Terror (२) हैरानी  
Annoyance कप्य०

उत्तिण त्रि० ( उत्तूय ) तृण शून्य Not-  
grassy गा० १७०,

उत्तिणिञ्च त्रि० ( उत्तूषित ) तृण रहित किया  
हुआ Made grassless गा० ३१२,

उत्तिण त्रि० ( उत्तीर्य ) (१) बाहर निकाला  
हुआ Come out महा० (२) जो कम  
हुआ हो What is lessened गड०

(३) रहित Without गड० (४) निपटा  
हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो वह Fin-  
ished, Completed गा० १२२, (५)

उल्लङ्घित, अतिक्रान्त. Transgressed,  
Violated राज०

उत्तिण त्रि० ( अवतीर्ण ) नीचे उतरा हुआ  
Descended, Come down महा०

उत्तिथ. पु० न० ( उत्तीर्थ ) कुपथ, अपमार्ग  
A bad or wrong path भवि०

उत्तुग त्रि० ( उत्तुङ्ग ) ऊँचा, उन्नत High  
or lofty महा० कप्य० गड०

उत्तुङ्ग. त्रि० ( उत्तुण्ड ) उन्मुल, ऊर्ध्व-मुल.  
Raising the face up, Looking

up गडड०  
 उत्तेज, त्रि० ( उत्तेजस् ) (१) तेजस्वी, प्रखर  
 Bright, Brilliant (२) पु० मात्रावृत्त  
 का एक भेद A variety of metre  
 पिग० नाट०  
 उत्तेज्जण. न० ( उत्तेजन ) उत्तेजन. En-  
 couraging. मुद्रा० १६८,  
 उत्तेजिञ्ज त्रि० ( उत्तेजित ) प्रेरित, प्रोत्साहित  
 Excited, Instigated दस० ३, टी०  
 उत्थ. न० ( उक्थ ) (१) स्तोत्र विशेष A  
 particular verse (२) याग विशेष  
 Name of a sacrifice विशेष०  
 उत्थ त्रि० ( उत्थ ) उत्पन्न, उत्थित Pro-  
 duced सुपा० १६६, गडड०  
 उत्थइय त्रि० (अवस्तुत) व्याप्त. Perivaded,  
 Spread से० ४, ३८,  
 उत्थघ. पु० ( उत्तम्भ ) ऊर्ध्वं प्रसरण, ऊँचा  
 फैलना Spreading upward से० ६, ३३,  
 उत्थघण. न० ( उत्तम्भन ) देखो 'उत्थघ' शब्द  
 Vide 'उत्थघ' गडड०  
 उत्थघि त्रि० ( उत्थेपिन् ) ऊँचा फेंकना  
 Throwing or crossing up गडड०  
 उत्थघिञ्ज त्रि० ( उन्नमित ) ऊँचा किया हुआ,  
 वन्नत किया हुआ Raised up कुमा०  
 उत्थघिञ्ज. त्रि० ( रुद्ध ) रोका हुआ Im-  
 peded, Obstructed कुमा०  
 उत्थघिञ्ज त्रि० ( उत्तम्भित ) उत्थापित, उठाया  
 हुआ Raised up से० १, ६०,  
 उत्थभि त्रि० ( उत्तम्भिन् ) (१) आघात-प्राप्त  
 Hunt (२) अवलम्बन करने वाला One  
 that helps or supports प्रासू० १२७,  
 उत्थभिञ्ज त्रि० ( उत्तम्भित ) (१) अवलम्बित  
 (२) रुका हुआ, स्तम्भित Impeded,  
 Obstructed गा० ६२४, (३) बन्धनमुक्त  
 किया हुआ Released, Liberated  
 स० १६८,

उत्थरिञ्ज त्रि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त, दवाया  
 हुआ Overcome, Overpowered  
 पाञ्च० भवि०  
 उत्थल न० ( उत्थल ) उन्मार्ग, कुपथ A  
 wrong way से० ८, ६,  
 उत्थल्लिञ्ज. त्रि० ( उत्थल्लित ) उल्ला हुआ.  
 Tossed up पाञ्च०  
 उत्थाइय त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ.  
 Raised up सुपा० ३१२,  
 उत्थाण न० ( उत्थान ) वीर्य, बल, पराक्रम.  
 Valour, Strength, Prowess. विगे०  
 २८२६,  
 उत्थारिय त्रि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त, दवाया  
 हुआ Overpowered कुमा० सुपा० १४६,  
 उत्थुमण न० ( अवस्तोभन ) अनिष्ट की शान्ति  
 के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक,  
 थू थू आवाज करना Making a sound  
 like 'Thu, Thu' वृह० १,  
 उदइल्ल. त्रि० ( उदयिन् ) उदयवान्, वन्नतिशील.  
 Rising, Prospering. 'उदइल्लो' सु०  
 च० ६२२,  
 उदधिर् त्रि० ( उदञ्चित् ) ऊँचा जाने वाला  
 One that goes up or rises कुमा०  
 उदत. पु० ( उदन्त ) हकीकत, समाचार, वृत्तान्त  
 Tidings, Intelligence 'वीओदतो'  
 भग० से० ४, ११, स० ३०,  
 उदड्ड पु० ( उदग्ध ) एक नरक-स्थान A  
 particular hell-abode देवेन्द्र० २७,  
 उदञ्जा. स्त्री० ( उदन्त्या ) तृपा, तरस, पिपासा.  
 Thirst उप० १०३१ टी,  
 उदयण पु० ( उदयन ) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध  
 मंत्री Name of a celebrated min-  
 ister of King Siddharaja कुप्र० १४३,  
 उदरभरि त्रि० ( उदरम्भरि ) स्वार्थी, एकलपेटा  
 Nourishing ones own belly,  
 Selfish पि० ३७६,

उदासि. त्रि० ( उदासिन् ) उदास , उदासीन  
Sad, Sorry रभा० स० ४२६,  
उदिय त्रि० ( उदित ) उक्त , कथित Said ,  
Told विशे० ३२७६,  
उद् त्रि० ( आर्द्र ) गिला, आर्द्र Wet ,  
Moistened पङ्०  
उद्द त्रि० ( उद्द ) प्रचण्ड, उद्धत Vehe-  
ment, Impetuous कुमा० गडड०  
उद्दुतुर त्रि० ( उद्दुतुर ) (१) जिसका दान्त बाहर  
आया हो वह One whose tooth is  
projected (२) ऊँचा High or lofty  
गडड०  
उद्दम्. पु० ( उद्दम्भ ) छन्द का एक भेद Name  
of a metre पिंग०  
उद्दम्. त्रि० ( उद्यत ) उद्यम-युक्त Industri-  
ous प्राक० २१,  
उद्दलण न० ( उद्दलन ) विदारण Breaking,  
Cutting गडड०  
उद्दव त्रि० ( उद्दव-उपद्रव ) (१) उपद्रव  
Injury, Trouble (२) विनाश, हिंसा  
Killing, Destruction आ० ७,  
उद्दाइआ स्त्री० ( उद्दोत्री-उपद्रोत्री ) उपद्रव करने  
वाली स्त्री A woman whot troubles  
“उद्दाइआए कोइ” ओघ० १८ भा० टी,  
उद्दाण त्रि० ( श्वव्रात ) मृत. Dead सुख०  
१, ३,  
उद्दाम त्रि० ( उद्दाम ) (१) प्रचण्ड, प्रखर  
Very hot, Stifling सुपा० २३४, (२)  
अव्यवस्थित Not in due order. हे०  
१, १७७,  
उद्दालिय. त्रि० ( आच्छिन्न ) छीना हुआ, खींच  
लिया गया Snatched away “तेहिं उद्दा  
लिया” सु० च० २३८, पाथ० कुमा० उप०  
पृ० ३२३,  
उद्दित. त्रि० ( उद्दीप्त ) प्रज्वलित Illumi-  
nated बृह० १,

उद्दीवण न० ( उद्दीपन ) (१) उत्तेजन En-  
couragement (२) त्रि० उत्तेजक One  
that encourages मै० ५८, रभा०  
उद्दीवणिज्ज. त्रि० ( उद्दीपनीय ) उद्दीपक, उत्तेजक.  
Instigating, Stirring up रभा०  
उद्दीविअ त्रि० ( उद्दीपित ) प्रदीपित, प्रज्वालित.  
Illuminated, Lighted पाथ० सुर०  
६, ८८,  
उद्दुअ त्रि० ( उद्दुत ) पलायित Gone  
away, Run away. पडम० ६, ७०,  
उद्दुय त्रि० ( उपद्रुत ) हैरान किया हुआ Tol-  
mented, Harassed स० १३१,  
उद्देश पु० ( उद्देश ) (१) व्यपदेश, व्यवहार  
Affair, Work (२) लक्ष्य An aim  
(३) अभिप्राय, मतलब. A brief state-  
ment विशे० (४) गुरु प्रतिज्ञा, गुरु वचन.  
Master's word विशे०  
उद्देशणा स्त्री० ( उद्देशन ) (१) पाठन, वाचना,  
अध्यापन Teaching (२) अधिकारिता,  
योग्यता Fitness, Propriety पचभा०  
उद्देहलिया स्त्री० ( उद्देहलिका ) वनस्पति  
विशेष. A kind of vegetation राज०  
उद्दसण, न० ( उद्दर्पण ) ( १ ) आक्रोश,  
निभर्त्सन A reproach (२) वध, हिंसा  
Killing राज०  
उद्दसिय त्रि० ( उद्दर्पित ) आक्रुष्ट, जिस पर  
आक्रोश किया गया हो वह Reproached  
or rebuked निसी० चू० ४,  
उद्दड त्रि० ( उद्दृत ) उठा कर रखा हुआ  
Raised or lifted up. धर्म० ३,  
उद्ददेहिय. न० ( और्ध्वदेहिक ) अग्नि संस्कार  
आदि अन्त्येष्टि क्रिया Funeral rite  
स० १०६,  
उद्दव. पु० ( उद्दव ) ऊधो, श्री कृष्ण का  
चाचा, मित्र, और भक्त Name of an  
uncle and friend of Shree

Krishna रुक्मि० ४६,  
 उद्धात्र त्रि० ( उद्धाव ) उद्धावित, ऊँचा गया  
 हुआ Gone or risen up 'बहत उद्धात्र'  
 से० ६, ३६,  
 उद्धात्र त्रि० ( उद्धावित ) फैला हुआ,  
 विस्तीर्ण, प्रसृत. Spread से० ३, ५२,  
 उद्धार पु० ( उद्धार ) (१) ऋण देना, उधार  
 देना To sell on credit सु० च० ५६७,  
 (२) त्राण, रक्षण Redemption, Rescu-  
 ing (३) अपवाद Exception राज०  
 उद्धारय, त्रि० ( उद्धारक ) उद्धारकारक One  
 that rescues or saves कुम० २,  
 उद्धावण न० ( उद्धावन ) (१) प्रबल प्रवृत्ति  
 The strong [perseverance (२)  
 दूर-गमन, दूर क्षेत्र में जाना Going away  
 (३) कार्य की शीघ्र सिद्धि A prompt  
 accomplishment of action आ० १,  
 उद्धावणा स्त्री० ( उद्धावना ) देखो 'उद्धावण'  
 शब्द. Vide 'उद्धावण'. धर्म ३,  
 उद्धमात्र त्रि० ( उद्धमापित ) उठा किया  
 हुआ, निवापित Extinguished  
 से० १, ८,  
 उद्धुर त्रि० ( उद्धुर ) (१) ऊँचा, उच्च,  
 High, Lofty पात्र० (२) प्रचण्ड, प्रबल  
 Strong, powerful सुर० ३, ३६, १२,  
 १०६,  
 उद्धुसि त्रि० ( उद्धुसित ) (१) रोमाञ्च A  
 thrill (of rapture, honor, surprise  
 etc, Horripilation अव० (२) रोमाञ्चित,  
 पुलकित With the hair erect or  
 thrilled with joy सुर० २, १०१, महा०  
 उद्धुलिय, त्रि० ( उद्धुलित ) (१) धूलि से  
 लपेटा हुआ Dusty, covered with  
 dust. (२) न्याप्त Full of, spread  
 कुमा०  
 उद्धुवणिया स्त्री० ( उद्धुवणिका ) धूप देना

Fumigation, perfuming सुर०  
 १४, १७४,  
 उद्धुवित्र त्रि० ( उद्धुपित ) जिसको धूप  
 किया गया हो वह, Fumigated, In-  
 censed विक्र० ११३,  
 उद्धोस. पु० ( उद्धर्ष ) (१) उल्लास Delight;  
 joy. (२) ऊँचा होना To be high.  
 "रोमुद्धोस जणोइ" सु० च० ६४,  
 उद्धन० ( उद्धर्ण ) ऊन, भेड़ या बकरी के रोम.  
 Wool -मय, त्रि० ( मय ) ऊन का बना हुआ,  
 Woolen सुपा० ४३२,  
 उद्धाडिय न० ( उद्धाटित ) हर्ष द्योतक आवाज  
 Crying out, Roar, Chipping स०  
 ३७६,  
 उद्धाह पु० ( उद्धाह ) ऊँचाई. A height.  
 पात्र०  
 उपाणहिय पु० स्त्री ( उपानह )जूता A shoe  
 or sandal सुपा ३६२,  
 उप्पइत्र त्रि० ( उत्पाटित ) उस्थापित, उठाया  
 हुआ. Raised से० १, ३०,  
 उप्पय पु० ( उत्पात ) उत्पत्ति, Production.  
 "मदुपडिवाउप्पयाई" विशेष ५७७,  
 उप्पयण न० ( उत्प्लवन ) जल में गोता लगाना.  
 Plunging into, Bathing से० ५, ६०,  
 उप्परिवाडि-डी स्त्री० ( उत्परिपाटि-टी ) बलदा  
 क्रम, विपर्यास, विपर्यय Contrariety,  
 Reverse. "उप्परिवाडीवहयो" गच्छा १,  
 उप्परोप्पर अ० ( उप्युपरि ) ऊपर ऊपर  
 High above, स० १४०,  
 उप्पवइय, त्रि० ( उत्पन्नजित ) जिसने दीक्षा  
 छोड़ दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ  
 बना हुआ One who re-enters an  
 household's life after religious  
 order स० ४८५,  
 उप्पाइ, त्रि० ( उत्पादिन् ) उत्पन्न होने वाला.  
 Produced, Born विशेष २८१६,



उप्पाड पु० ( उत्पाट ) उन्मूलन, उत्खनन  
 Uprooting, Eradicating उप०  
 १४६ टी, ६८६, टी,  
 उप्पाडिय त्रि० ( उत्पादित ) उत्पन्न किया  
 हुआ Produced भाव० १३,  
 उप्पादत्र त्रि० ( उत्पादक ) उत्पन्न कर्ता  
 Productive प्रयौ० १७,  
 उप्पिय त्रि० ( अर्पित ) अर्पण किया हुआ  
 Given हे० १, २६६,  
 उप्पियण न० ( वत्पान ) फिर श्वास लेना  
 Inhaling repeatedly. राज०  
 उप्पिलण न० ( वत्पान ) डूबना, Plung-  
 ing into पिंड० ४२२,  
 उप्पीडण न० ( वत्पीडन ) (१) कस कर  
 बाधना Tying tightly (२) दबाना  
 Pressing out से० ८ ६७,  
 उप्पीलण न० ( वत्पीडन ) पीडा, उपद्रव  
 Annoyance, Molestation स० २७०,  
 उप्पुणित्र त्रि० ( उत्प्लुत ) सूर्य से साफ सुथरा  
 किया हुआ Winnowed पा०  
 उप्पुणण त्रि० ( उत्पूर्णा ) पूर्ण, व्याप्त Full  
 of, Perivaded स० २५,  
 उप्पुल्लइय त्रि० ( उप्पुल्लकित ) रोमान्चित  
 Having the hairs of the body  
 erect स० २८१,  
 उप्पुसिअ त्रि० ( उत्प्रोन्धित ) लुप्त, प्रोन्धित  
 Lost, Deprived of, से० ६, ८५, गडड०  
 उप्पेक्खा स्त्री० ( उत्प्रेक्षा ) (१) अलंकार  
 विशेष Name of a figure of speech  
 (२) वितर्कणा, सम्भावना. Conjecture,  
 Guess गा० ३३६,  
 उप्पेलिअ त्रि० ( उन्नमित ) ऊँचा किया हुआ,  
 उन्नत किया हुआ Raised कुमा०  
 उप्पेह्ल पु० ( उन्नमन ) ऊँचा करना Raising  
 up पठम० ८, २७२,  
 उप्पेस पु० ( उत्पेप ) त्रास, भय, डर

Teiron, Holoion से० १०, ६१,  
 उप्पाल त्रि० ( कथक ) कहने वाला, सूचक.  
 A narrator, A relator स० ६४४,  
 उप्पालिअ त्रि० ( कथित ) (१) कथित  
 Said, Told (२) सूचित Suggested;  
 Hinted पात्र० उप० ७२८ टी, स० ४७८,  
 उप्फिडण न० ( उत्फेदन ) कुण्ठित होना.  
 To be blunted or dulled. स० ६६८,  
 उप्फिडिय त्रि० ( उत्स्फटित ) (१) कुण्ठित.  
 Blunted, Dulled (२) बाहर निकला  
 हुआ Come out सुर० १३, २१३,  
 उप्फुलिअ स्त्री० ( उत्फुलिका ) क्रीडा विशेष,  
 पाव पर बैठ कर बारबार ऊँचा नीचा होना A  
 kind of pleasure or play गा०  
 १६६,  
 उव्वण त्रि० ( उव्वण ) उत्कट Strong,  
 Powerful पि० २६६,  
 उव्वद्ध त्रि० ( उव्वद्ध ) (१) जिसने फौसी  
 लगाई हो वह, फासी लगा कर मरा हुआ,  
 Hung, (२) वेष्टित Enealed,  
 Surrounded सुर० ८, ५७,  
 उव्वुड त्रि० ( उव्वुडित ) उन्मग्न, तीर्थ  
 Sum, Crossed over गा० ३७, स०  
 ३६०,  
 उव्वुडुण न० ( उव्वुडन ) उन्मजन Swim-  
 ming कप्पू०  
 उव्वमड पु० ( उव्वभाण्ड ) उत्कट, भौंड, बहु-  
 रूपा A buffoon, A jester or  
 mime "उव्वमडो गीयसि" ठा० ६ टी०  
 उव्वमन त्रि० ( उव्वमन्त ) (१) आकुल  
 व्याकुल, खिन्न Confused, Confound-  
 ed सुर० १५, १२३, गा० ३८६, (२)  
 मूर्च्छित Fainted, swooning से० १,  
 ८, (३) भ्रान्ति युक्त, भौंचक्का, चकित हे०  
 २, १६४, (४) प्रथम नरक पृथिवी का चौथा  
 नरकेन्द्रक A particular abode of

the fourth hell वेवेन्द्र० ३,  
 उभमड. त्रि० ( उद्मट ) (१) प्रबल, प्रचण्ड  
 Powerful, strong सुपा० ४६, (२)  
 उद्धत, आडवरी Allogant, Proud.  
 पात्र०  
 उभमम पु० ( उद्भ्रम ) (१) उद्वेग  
 Regret, Sorrow (२) परिभ्रमण  
 Wandering नाट०  
 उभमविय त्रि० ( ऊर्ध्वित ) ऊँचा किया हुआ  
 Raised, Elevated उप० पृ० १३०  
 वजा० १४,  
 उभामग पु० ( उद्भ्रामक ) वायु विशेष,  
 जो नृण वगैर को ऊपर ले उठता है The  
 cyclone जी० ७,  
 उभमासिय त्रि० ( उद्भासित ) प्रकाशित  
 Illuminated, Radiated हेका० २८२,  
 सुपा० ७७,  
 उभिमउडि त्रि० ( उद्भ्रुकुटि ) भौ चढाया  
 हुआ With the eyebrows up,  
 With lifted eyebrows गउड०  
 उभमुत्तित्र त्रि० ( उद्विप्लव ) ऊँचा फेंका हुआ  
 Thrown upwards, Tossed कुमा०  
 उभमृत्र त्रि० ( उद्भ्रूत ) आगन्तुक कारण विशेष०  
 १४७६, ( २ ) उत्पन्न Produced,  
 Generated सुर० ३, २३६,  
 उभमेत्र पु० ( उद्भ्रमेद ) उद्भ्रम, उत्पत्ति, Pro-  
 duction गउड० सुर० ११, ११६,  
 उभ स०(न) उभय, दोनों Both प० ६, १८,  
 उमा स्त्री० ( उमा ) (१) गौरी, पार्वती God-  
 dess Parvati, The wife of God  
 Siva पात्र० (२) गणिका विशेष Name  
 of a harlot आया० चू० (३) स्त्री-विशेष  
 Name of a lady कुमा०  
 उमासाइ पु० ( उमास्वाति ) स्वनाम-धन्य एक  
 प्राचीन जैनाचार्य और विख्यात ग्रन्थकार The  
 sage Uma-Swati-an ancient Jain

ascetic and a well known author  
 सार्ध० १०,  
 उमीस. त्रि० ( उभिश्र ) मिश्रित Mixed  
 with कुमा०  
 उम्मऊह त्रि० ( उन्मयूह ) प्रसाशाली  
 Radiant, Shining गउड०  
 उम्मच्छुर. त्रि० ( उन्मत्सर ) (१) ईर्ष्यालु, द्वेषी  
 Envious से० ११, १४, ( २ ) उद्मट  
 Strong, Powerful गा० १२७, ६७१,  
 उम्मण त्रि० ( उन्मनस् ) उत्कण्ठित उत्सुक  
 Anxious, Eager उप० पृ० १८,  
 उम्मलण न० ( उन्मर्दन ) मसलना Rub-  
 bing, Kneading पात्र०  
 उम्महण. त्रि० ( उन्मथन ) नाशक, विनाशकारी.  
 Destructive, destroying सुर० ३,  
 २३१,  
 उम्माद्भ्र त्रि० ( उन्मादित ) उन्मत्त किया हुआ  
 Maddened, intoxicated पवम० २४,  
 ११,  
 उम्माय.पु० ( उन्माद ) आलिङ्गन Embrace  
 विशेष०  
 उम्मालिय त्रि० ( उन्मालित ) सुशोभित  
 Beautiful, Charming भवि०  
 उम्माह पु० ( उन्माथ ) विनाश. Destruc-  
 tion, Ruin महा०  
 उम्माहय. त्रि० ( उन्माथक ) विनाशक De-  
 structive Ruinous, महा० भवि०  
 उम्माहि. त्रि० ( उन्माथिन् ) विनाशक. De-  
 structive Destroying महा० टि०  
 उम्माहिय त्रि० ( उन्माथित ) विनाशित.  
 Destroyed, destructed, भवि०  
 उभिमय त्रि० ( उभिमत् ) प्रमित Measured  
 रमा०  
 उभिमल्ल. त्रि० ( उभमील ) ( १ ) विकसित  
 Blown, developed पात्र० से० १०, १०,  
 स० ७६, ( २ ) प्रकाशमान Lustrous,

bright से० ११, ६४, गड०  
 उम्मिल्लण न० ( उन्मीलन ) विकास, उल्लास  
 Blowing, Expanding गड०  
 उन्मीलणा. स्त्री० ( उन्मीलना ) प्रभव, उत्पत्ति  
 Birth, Production राज०  
 उम्मुअ. न० ( उल्लुक ) अलात, लूका A live  
 coal, A firebrand पाअ०  
 उम्मुट्ट. त्रि० ( उन्मुट्ट ) स्पृष्ट, छुआ हुआ  
 Touched पाअ०  
 म्मुद्धिअ त्रि० ( उन्मुद्धित ) (१) विकसित,  
 अफुल्ल Developed, Bloomed, Full  
 blown गड० कप्पू० (२) उद्घाटित, खोला  
 हुआ Opened सुपा० १४४,  
 उम्मुयणा न० ( उन्मुोचन ) परित्याग, छोड़ देना.  
 Giving up, abandoning सुर० २, १६०,  
 उम्मुयणा स्त्री० ( उन्मुोचना ) त्याग  
 Abandonment, Giving up आव० २,  
 उम्मुह त्रि० ( उन्मुह ) (१) समुख. In  
 front of, facing उप० पृ० १३४, (२)  
 ऊर्ध्व मुख With face upwards से०  
 ६, ८२,  
 उम्मुड त्रि० ( उन्मुड ) विशेष मूढ, अत्यन्त  
 सुग्ध. Extremely ignorant, Vacant  
 minded or illiterate - विसृष्ट्या स्त्री०  
 ( विसृष्टिका ) रोग विशेष. Cholera  
 सुपा० १६,  
 उम्मुल त्रि० ( उन्मुल ) उन्मूलन करने वाला,  
 विनाशक Destructive, Uprooting  
 गा० ३२२,  
 उम्मुलाणा. न० ( उन्मुलन ) उत्पाटित, मूल से  
 उखाड़ा हुआ Uprooting, Eradica-  
 tion गा० ४७२, सुर० ३, २४२,  
 उम्मोयणी स्त्री० ( उन्मोचिनी ) विद्या-विशेष.  
 Name of a particular science  
 of learning, by which one is  
 liberated or made free from any

sort of bond सुर० १३, ८१,  
 उम्हुइअ-उम्हुविय. त्रि० ( उप्पायित ) संतप्त,  
 गरम किया हुआ Heated, Warmed.  
 से० ४, १, पडम० २, ६६, गड०  
 उम्हाल त्रि० ( उप्पवत् ) गरम, परितप्त.  
 Warm, Heated (२) वाष्प युक्त With  
 vapour or steam गड०  
 उयर त्रि० ( उदार ) श्रेष्ठ, उत्तम Best,  
 Excellent पडम० १०, ८८,  
 उयरिया स्त्री० ( अपवरिका ) छोटा कमरा.  
 A small room सम्मत० ११६,  
 उयाइय न० ( उपयाचित ) मनौती A present  
 promised to a deity for the fulfil-  
 ment of a desired object सुपा०  
 ८, २७८,  
 उयाय त्रि० ( उपयात ) उपगत Approached,  
 Gone near राज०  
 उयारण न० ( अवतारण ) निष्कावर, हर्ष-दान A  
 kind of benedictory ceremony.  
 कुप्र० ६२,  
 उरसिज. पु० ( उरसिज ) स्तन, थन Teat;  
 The female breast. धर्मवि० ६६,  
 उरुरुह. न० ( उरुरुह ) जैन साध्वीओं का  
 उपकरण विशेष Name of a particular  
 upper garment worn by Jain  
 female ascetics ओघ० नि० ३१७,  
 उलय-च पु० न० ( उलय ) तृण विशेष.  
 Name of a particular soft grass  
 सु० च० २८१,  
 उलवी स्त्री० ( उलपी ) तृण-विशेष Soft grass  
 पाअ०  
 उलुग. पु० ( उलुक ) उल्लु, घूक, पेचक An  
 owl धर्मस० ६७१, १२६२,  
 उल्लु पु० ( उल्लु ) मगल-ध्वनि. An aus-  
 picious sound रसा०  
 उल्लञ्जण न० ( उल्लयन ) अर्पण, समर्पण.

Dedication, bestowing से० ११, २१,  
 उल्लूठ, त्रि० (उल्लूथ) उद्धत, Impudent,  
 Insolent, Rude काल  
 उल्लडग, पु० (उल्लयडक) छोटा मृदग, वाद्य  
 विशेष Name of a particular  
 organ of music राज०  
 उल्लवण त्रि० (उल्लवण) उल्लूठ Powerful,  
 Strong पचा० २,  
 उल्ललित्र त्रि० (उल्ललित) (१) चञ्चल  
 Active, Shrewd, Smart. गा० २६६,  
 (२) उपपन्न Outcome, born से० ६, ६८,  
 उल्लवण न० (उल्लपन) (१) बकवाद Pira-  
 ttle, An idle talk (२) कथन A  
 narration, A description "मण्यव-  
 ल्लहनामउल्लवण" सु० च० ४६८,  
 उल्लविर त्रि० (उल्लवितृ) (१) वक्ता, भाषक  
 A spokesman, a speaker, an  
 orator (२) बकवादी, वाचाट Loqua-  
 cious, Talkative सु० च० २२६,  
 उल्लाल पु० न० (उल्लाल) छंद-विशेष Name  
 of a particular metre पिंग०  
 उल्लवित्र त्रि० (उल्लवित) (१) उक्त, कथित  
 Said, mentioned (२) न० उक्ति, वचन  
 A word, saying गा० १८६,  
 उल्लविर त्रि० (उल्लवितृ) बोलने वाला, भाषक  
 A speaker, an orator हे० २, १६३,  
 सुपा० २२६,  
 उल्लासग त्रि० (उल्लासक) (१) विकसित होने  
 वाला. That which is to develop  
 (२) आनन्द जनक Pleasing, Delight-  
 ing श्रा० २७,  
 उल्लासण न० (उल्लासन) विकास Blowing,  
 Expanding सिरि० २३६,  
 उल्लासि त्रि० (उल्लासिन्) देखो 'उल्लासग'  
 शब्द Vide 'उल्लासग' कम्पू लडुअ० १,  
 मासू ६६,

उल्लिअ त्रि० (आर्द्रित) गीला किया हुआ.  
 Wetted, Moistened. गउड० हे० ३, १६,  
 उल्लिगण त्रि० (उल्लिगन) उपदर्शक A  
 guide, a demonstrator पच० १,  
 उल्लुअ त्रि० (उल्लन) (१) उन्मूलित Up-  
 rooted (२) न० उन्मूलन Uprooting,  
 Eradication प्राकृ० ७०,  
 उल्लुठ, त्रि० (उल्लुथ) उद्धत, Insolent,  
 Rude, Impudent सु० च० ४६६,  
 सुर० ६, २१६,  
 उल्लुलिअ त्रि० (उल्लुलित) चलित Shaken,  
 Stilled, Moved गा० २६७,  
 उल्लोय, पु० (उल्लोक) थोड़ी देर, थोड़ा  
 विलम्ब Some delay, A short delay.  
 राज०  
 उल्लोल, पु० (उल्लोल) (१) प्रवध. A  
 composition गउड० (२) त्रि० उद्धत,  
 उद्धत. Violently moving, Excess-  
 ively tremulous स० ६७, (३) उत्सुक.  
 Anxious, Eager गउड०  
 उव अ० (उप) (१) सदृशता, तुल्यता Re-  
 semblance, equality, likeness. (२)  
 एकवार Once (३) भीतर Inside,  
 within आव० ४,  
 उवअठ, त्रि० (उपकण्ठ) समीप का, आसन्न.  
 Near, proximate, close by गउड०  
 उवइरण, त्रि० (उपचीर्य) सेवित One who  
 is attended upon or served स० ३६६  
 उवउड त्रि० (उपगूढ) आलिंगित. Em-  
 braced पात्र० से० १, ३८, गा० १३३,  
 उवऊहण न० (उपगूहन) आलिंगन An  
 embrace से० १, ४८,  
 उवऊहिअ त्रि० (उपगूहित) आलिंगित.  
 Embraced गा० ६२१,  
 उवपस पु० (उपदेश) शास्त्र, सिद्धान्त A  
 scripture विशे० ८६४,

उचपसया क्री० (उपदेशना) उपदेश Advice,  
Instruction, Teaching विशेष ०२२८३,  
उचपसिय. त्रि० (उपदेशित) उपदिष्ट Instructed,  
advised "उचपसिय गुरुजयोरा" विशेष ०१०८०,

उचय्योग. पु० (उपयोग) प्रयोजन, आवश्यकता  
Usefulness, Necessity सु० च० ६४३,  
उचय्योगि त्रि० ( उपयोगिन् ) ( १ ) उपयुक्त,  
प्रयोजनीय Serviceable, useful ( २ )  
योग्य Fit, proper 'जमुचय्योगि' सु० च०  
६४३,

उचकट न० (उपकण्ठ) समीप Proximity,  
Vicinity सिरि० ११२१,

उचकप. पु० ( उपकल्प ) साधु को दी जाती  
मिच्छा, अन्न-दान वगैर Alms which is  
being given to monks पचभा०

उचकय त्रि० (उपकृत) जिसपर उपकार किया गया  
हो वह, अनुगृहीत Favoured, Obligated  
"अणुचकयपराणुगृहपरायणा" आव० ४,

उचकोसा. क्री० ( उपकोशा ) कोशा चेरया की  
छोटी बहिन A younger sister of  
Kosa who was a haitot कुम० ४२३,

उचकृत. त्रि० (उपकान्त) ( १ ) समीप में आनीत  
Brought near ( २ ) प्रारम्भ, प्रस्तावित  
Commenced, begun विशेष ० ६८७,

उचकम. पु० ( उपक्रम ) ( १ ) ज्ञान, निश्चय  
Knowledge, determination, re-  
solution ( २ ) अनुवर्तन, अनुकूल प्रवृत्ति  
Following, Compliance विशेष ०  
६२६, ६३०, ( ३ ) सस्कार, परिकर्म Deco-  
ration, ornamentation, educa-  
tion, culture

उचकसेस पु० ( उपकलेश ) ( १ ) बाधा. Ob-  
struction, obstacle ( २ ) शोक  
Sorrow, grief राज०

उचकखड. पु० न० ( उपकृत ) रसोई, पाक.

Cooked food नि० १४, —आम त्रि०  
( आम ) पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता है  
मुग वगैरह अन्न विशेष That which  
remains unripe, though cooked  
is a kind of pulse called Munga  
'उचकखडाम शाम जहा' निसी० चू० ११,

उचकखरण न० ( उपस्करण ) देखो 'उचकखर'  
शब्द Vide 'उचकखर' —साला. क्री०  
(शाला) रसोई घर, पाक गृह A kitchen.  
निसी० चू० ६,

उचकखला क्री० (उपाख्या) उपनाम. A sur-  
name, nickname धर्मस० ७२७,  
उचकखलाण. न० (उपाख्यान) उपाख्यान, कथा  
An episode, a short tale or nar-  
rative पउम० ३३, १४६,

उचकखलत्त त्रि० (उपक्षिप्त) प्रारम्भ, शुरू किया  
हुआ Commenced, begun सुद्रा० ६३,

उचकखलीण त्रि० (उपक्षीण) क्षय-प्राप्त De-  
cayed, consumed, disappeared  
धर्मवि० ४२,

उचकखवेअ. पु० (उपत्तेप) ( १ ) प्रयत्न, उद्योग  
An attempt, industry or work  
( २ ) उपाय A remedy, means मा० ३६,  
उचकखवेव पु० ( उपत्तेप ) बालोत्पादन, मुडन  
Clean shaving of the head,  
Tonsure तदु० १७,

उचग त्रि० ( उपग ) समीप में जाने वाला  
Approaching, going near विशेष  
२२६२,

उचगणिय त्रि० ( उपगणित ) गिना हुआ,  
सख्यात, परिगणित Numbered, coun-  
ted स० ४६१,

उचगणिय. त्रि० ( उपकल्पित ) विरचित  
Constructed, prepared or made.  
स० ७२१;

उचगरण. न० ( उपकरण ) बाह्य इन्द्रिय विशेष.

Name of an outward organ of senses. विशेषे १६४,

उच्चरित्र न० ( उपकृत ) उपकार A favour, obligation or assistance कुप्र० ४२,

उच्चगव त्रि० ( उपकृत ) जिस पर उपकार किया गया हो वह One who is obliged, helped or favoured स० २०१,

उच्चगारग. त्रि० ( उपकारक ) उपकार करनेवाला One who does service, favour or obligation स० ३२१,

उच्चगिभ्र. न० ( उपकृत ) ( १ ) उपकार. Obligation ( २ ) जिस पर उपकार किया गया हो वह One who is obliged or favoured स० ६३६,

उच्चगीय त्रि० ( उपगीत ) ( १ ) वर्णित, श्लाघित. Mentioned, described or praised ( १ ) न० संगीत, गीत, गान A song सार्थ० १०८,

उच्चग न० ( उपग्रह ) ( १ ) आषाढ मास The month of Asadha 'गण उच्चगमि' वच० १,

उच्चगह. पु० ( उपग्रह ) ( १ ) पुष्टि, पोषण Nourishing, Fostering विशेषे १८२० ( २ ) ग्रहण, अपादान Seizure, Confinement श्लो० नि० २१२,

उच्चगाहग त्रि० ( उपग्रहक ) उपकार कारक. One who obliges or favours कुलक० २३,

उच्चगाहित्र न० ( उपगृहीत ) उपकार Obligation, Favour तदु० २०,

उच्चगाहि त्रि० ( उपग्रहित्र ) सबन्धी, सबंध रखने वाला One who maintains connection. स० ४२,

उच्चघायग. त्रि० ( उपघातक ) विनाशक Destructive, ruinous धर्मस० २१२,

उच्चघायण न० ( उपघातन ) देखो 'उच्चघाय' शब्द Vide उच्चघाय विशेषे २२३,

उच्चचय पु० ( उपचय ) ( १ ) समूह A collection, A multitude पि० नि० २; श्लो० नि० ४०७, ( २ ) शरीर A body. श्रान० १,

उच्चचयण. न० ( उपचयन ) ( १ ) वृद्धि Increase, Growth ( २ ) परिपोषण, पुष्टि. Nourishment राज०

उच्चचया स्त्री० ( उपत्यका ) पर्वत के पास की नीची जमीन A land at the foot of a mountain, lowland ती० ११,

उच्चजाह स्त्री० ( उपजाति ) छन्द विशेष. A form of metre पि०

उच्चजाय त्रि० ( उपजात ) उत्पन्न Produced, सु० च० ६००,

उच्चजीवग त्रि० ( उपजीवग ) आश्रित Dependent, सु० च० ११६,

उच्चजय न० ( उपार्जन ) पैदा करना, कमाना. Earning Gaining सुर० ८, १४४,

उच्चट्ट त्रि० ( उपस्थ ) एक ही स्थान में सतत अवस्थित. Standing constantly in one and the same place, वच० ४,

—काल. पु० ( काल ) आने की बेला Future, The time to come वच० ४,

उच्चट्टप्य ( उपस्थाप्य ) ( १ ) उपस्थित करनेयोग्य. Fit to be presented with, ( २ )

घत, दीक्षा के योग्य Fit to be initiated बृह० ६,

उच्चट्टाण न० ( उपस्थान ) एक ही स्थान में विशेष काल तक रहना Staying for a

long time in one and the same place, वच० ४,—दोष. पु० ( दोष ) नित्य-

वास दोष. Fallacy of permanent abode, sin or offence of arising

of permanent stay वच० ४,

उवट्टाणा स्त्री० (उपस्थाना) जिसमें जैन साधु एक बार ठहर कर फिर भी शास्त्र निषिद्ध श्रवण के पहले ही आकर ठहरे वह स्थान. The place where a Jain monk again comes before the period prescribed by scriptures and stays where he has once stayed. वव० ४, उवणमिय, त्रि० (उपनमित) उपस्थापित Brought near सण०  
 उवणय त्रि० (उपनत) उपस्थित Approach- ed near, at hand, से० १, ३६,  
 उवणयण न० (उपनयन) उपसहार Sum- ming up वव० १,  
 उवणिकखेव पु० (उपनिक्षेप) धरोहर, रक्षा के लिए दूसरे के पास रखा धन An open deposit, any article given in another's charge by letting him know its form, quantity etc वव० ४,  
 उवणिगम पु० (उपनिर्गम (१) द्वार, दरवाजा Gate, Entrance से० १२, ६८, (२) उपवन, बगीचा A garden, गड्ड०  
 उवणिवाय पु० (उपनिपात) सबन्ध A sud- den and unexpected contact धर्म० ४२८,  
 उवणिसञ्जा स्त्री० (उपनिपत्) वेदात्त शास्त्र, वेदान्त रहस्य, ब्रह्म विद्या Name of a cer- tain mystical writings attached to Brahmanas, the chief aim of which is to ascertain the mean- ing of vedas, True knowledge regarding the supreme spirit, Sacred lore श्रु० ८,  
 उवणिहा स्त्री० (उपनिधा) मार्गण, मार्गण Beggng, Soliciting, Searching पचस०

उवणणास पु० (उपन्यास) (१) रचना, A pledge, a proposal or a state- ment. अमि० ६८, छल-प्रयोग Deceit- fully hinting at प्रयौ० २२,  
 उवतल, न० (उपतल) हस्त तल की चारों ओर का पार्श्व भाग Surface of a palm on its four sides निसी० चू० १,  
 उवताविय, त्रि० (उपतापित) (१) पीड़ित Distressed, Tormented, Pained (२) तप्त किया हुआ, गरम किया हुआ Heated, Warmed, सुर० २, २२६, सण०  
 उवत्त, त्रि० (उपात्त) गृहीत Accepted, Assumed पउम० २६, ४६, सुर० १४, १६०,  
 उवदस पु० (उपदश) (१) रोग विशेष, गर्मी, सुजाक, The venereal disease, chancre (२) श्रवलेह, चाटना. Sip चार० ६,  
 उवदसिर त्रि० (उपदर्शिन) दिखलाने वाला One who shows or exhibits सण०  
 उवदसिर, त्रि० (उपदर्शयितृ) दिखलाने वाला A guide, One who shows or exhibits पि० ३६०,  
 उवदा, स्त्री० (उपदा) भेंट, उपहार A present, an offering to a king or a great man, a Nazarana रमा०  
 उवदाण न० (उपदान) भेंट, नजराना A gift made for procuring favour or protection, A Nazarana, A present अवि०  
 उवदेशि, त्रि० (उपदेशिन्) उपदेशक An adviser, a preacher of religious doctrines चार० ४,  
 उवद्वयण न० (उपद्वयण) उपद्रव करना, उपसर्ग करना, Oppression, Tyranny. धर्म० ३,

उवह्विय त्रि० ( उपद्रुत ) पीडित, भयभीत  
 किया हुआ Visited by Calamities,  
 infested, oppressed आव० ४,  
 उवद्दुअ त्रि० ( उपद्रुत ) हैरान किया हुआ  
 Oppressed, tyrannised भक्त० १०२,  
 उवधाड पु० ( उपधातु ) निकृष्ट धातु An  
 inferior metal, semi-metal  
 सवोध० २३,  
 उवनिदधण, न० ( उपनिबन्धन ) (१)  
 सवन्ध. Binding (२) सवन्ध हेतु A  
 means of accomplishment विशेष०  
 १६३६,  
 उवन्नत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) स्थापित.  
 Established, deposited सं० ३१०,  
 उवन्नास पु० ( उपन्यास ) निवेदन A  
 proposal, statement दस नि० १, ८२,  
 उवप्पुय त्रि० ( उपप्लुत ) उपद्रुत, भय से  
 व्याप्त. Overcome with fear, Over-  
 whelmed with adversity राज०  
 उवमुजण, न० ( उपभोजन ) उपभोग  
 Enjoyment, usufruct सु० च० १६,  
 उवभोग-ज्ज, त्रि० ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य  
 Fit to be enjoyed राज० वृह० ३,  
 उवमा, स्त्री० ( उपमा ) (१) अलंकार विशेष  
 A simile or comparison ( In  
 Rhet ) विशेष० १११, (२) प्रमाण विशेष,  
 उपमान प्रमाण Analogy ( In phil. )  
 विशेष० ४७०,  
 उवमाण न० ( उपमान ) (१) दृष्टान्त, सादृश्य  
 Illustration, resemblance (२)  
 जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह A  
 standard of comparison, that  
 with which anything is com-  
 pared दस० नि० १,  
 उवमालिय त्रि० ( उपमालित ) विभूषित,  
 सुशोभित Adorned, beautified "कुव-

लयमालोवमालियसुह च" सु० च० ३४,  
 उवमिय त्रि० ( उपमित ) उपमा, सादृश्य  
 A simile, similarity, equality  
 विशेष० ६८६,  
 उवमेअ त्रि० ( उपमेय ) उपमा के योग्य. The  
 subject of comparison, that  
 which is compared मै० ७३,  
 उवयरण, न० ( उपकरण ) (१) साधन,  
 सामग्री. Instrument, means काप्र०  
 २६, गडड० (२) उपकार Obligation,  
 favour सत० ४१ टी०,  
 उवयरिय त्रि० ( उपकृत ) (१) उपकृत  
 Obligated, favoured (२) उपकार  
 Assistance, obligation, favour  
 वजा० १०,  
 उवयरिया स्त्री० ( उपचरिका ) दासी Female  
 attendant, servant उप० पृ० ३८७,  
 उवयार पु० ( उपचार ) (१) चिकित्सा,  
 शुश्रूषा A remedy, physicking,  
 application of cure or remedy,  
 service, attendance पचा० ६, (२)  
 कल्पना Supposed or fancied iden-  
 tification founded on resem-  
 blance 'उवयारयो खिचस्स' विशेष० (३)  
 आदेश Commandment आव०  
 उवयारग त्रि० ( उपचारक ) शुश्रूषा, सेवा  
 करने वाला Attendant, Servant  
 निसी० चू० ११,  
 उवयारय त्रि० ( उपकारक ) उपकार करने  
 वाला One who obliges, does  
 service or favour धम्म ८ टी०,  
 उवरइ स्त्री० ( उपरति ) विराम, निवृत्ति  
 Repose, rest, abstaining from  
 prescribed act, ceasing, stopping  
 विशेष० २१७७, २६४०,  
 उवरग पु० न० ( अपवरक ) सब से ऊपर का



- कमरा, अटारी, अट्टालिका. An inner apartment, the lying in chamber महा०
- उवरत त्रि० ( उपरक्त ) (१) राहु से प्रसित Eclipsed पात्र० (२) म्लान Faded, withered स० ४७३, (३) अनुरक्त, Attacked to, devoted, 'गुणोसुवरत्ता' सु० च० २५६,
- उवरुद्ध त्रि० ( उपरुद्ध ) (१) रक्षित Protected, Guarded (२) प्रतिरुद्ध, अवरुद्ध Obstructed, blocked साध० ६८, उप०पु० ३८५,
- उवरोह पु० ( उपरोध ) (१) नगर आदि का सैन्य द्वारा वेष्टन Impediment, a siege बृह० ३, (२) निर्बन्ध, आग्रह Insisting upon, Persistence स० ४५७,
- उवरोहि त्रि० ( उपरोधिन् ) उपरोध करने वाला० One who obstructs or blocks आव० ४,
- उवलभ पु० ( उपलभ ) लाभ, प्राप्ति. Acquisition, Acquirements सु० च० ६,
- उवलक्ष पु० ( उपलक्ष ) ज्ञान, खबर, मालूम Information, knowledge कुप्र० ३२६,
- उवलक्षिञ्च त्रि० ( उपलक्षित ) पहिचाना हुआ, परिचित Acquainted, familiar आ० १२,
- उवलगा त्रि० ( उपलग्न ) लगा हुआ, United, Connected, attached to 'पत्तोवलगाजलविंदु' कल्प०
- उवलद्ध त्रि० ( उपलब्ध ) उपालब्ध, जिसको उलहना दिया गया हो वह Reprimended, blamed उप० ७२८ टी०,
- उवलद्धि स्त्री० ( उपलब्धि ) प्राप्ति, लाभ Acquisition, acquirements विशेष०
- २०६,  
उवल्लेविय त्रि० ( उपलेपित ) लीपा हुआ, पोता हुआ besmeared कल्प०
- उवल्लोहिय त्रि० ( उपलोभित ) जिसको लालच दी गई हो वह One who is given temptation, one who is bribed उप० ७२८ टी०,
- उवचइ पु० ( उपपत्ति ) जार A paraimou धर्मवि० १२८,
- उवचज्जण न० ( उपवर्जन ) त्याग Abandonment, giving up "असमजसोवज्जणमिह" सु० च० ४७१,
- उवचरण त्रि० ( उपपन्न ) (१) सगत, दुक्त Proper, Appropriate, Right. पचा० ६, (२) प्रेरित Encouraged, Instigated "उवचरणो पावकम्मणा" उक्त० १६,
- उवचत्ति स्त्री० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति, न्याय. Reasoning, argument, Propriety पठम० २, ११७, उवर० ४६, (२) विषय A subject (३) सम्भव Possibility, Probability आचू० १,
- उवचसण न० ( उपवसन ) उपवास. A fast सु० च० ६१६,
- उवचाय, पु० ( उपपात ) (१) विनय, Courtesy (२) आज्ञा Order "उवगच्छो णिहेसो" वव० ४, (३) संप्राप्ति Acquisition निसी० चू० ५,
- उवचासि त्रि० ( उपवासिन् ) जिमने उपवास किया हो वह. One who fasts सु० च० ४७८,
- उवचिट्ट, त्रि० ( उपविष्ट ) बैठा हुआ Seated. आव०
- उवचिसण, न० ( उपवेशन ) बैठना Sitting, an act of sitting कुलक० ७,
- उववीड अ० ( उपपीड ) उपमर्दन Pressing

down रभा०

उवसधिञ्ज. त्रि० (उपसंहृत) जिसका उपसहार किया गया हो वह Summed up, concluded विशेष० १०११,

उवसठिय त्रि० (उपसस्थित) समीप में स्थित Situated near (२) उपस्थित Approached, arrived सख०

उवसधारिय. त्रि० (उपसधारित) सकल्पित Intended, conceived, premeditated निसी० चू० १,

उवसहरिय. त्रि० (उपसहृत) हटाया हुआ Cast away, driven away, removed afar महा०

उवसगिञ्ज त्रि० (उपसर्गित) हैरान किया हुआ Oppressed, harassed सिरि० १११७,

उवसज्जण न० (उपसर्जन) सबन्ध A connection, any person or thing subordinate to another, a substitute विशेष० ३००५,

उवसह पु० न० (उपशब्द) (१) प्रच्छन्न शब्द. A secret word (२) समीप का शब्द An approximate word तदु० ५०, (३) सुख-समय का शब्द A word used at the time of sexual intercourse तदु०

उवसपि त्रि० (उपसर्पिन्) समीप में जाने वाला Going near भवि०

उवसपिय त्रि० (उपसर्पित) पास गया हुआ Approached near पाञ्ज०

उवसमि पु० (उपशम) उपशान्ति. Pacification, allaying. सिरि० २३५,

उवसामिय त्रि० (श्रीपशमिक) (१) उपशम सबन्धी, (२) भाव विशेष "उवसामिञ्जो भावो" विशेष० ३४६४, (३) त्व विशेष. A particular kind of Samyaktva विशेष० ५२६,

उवसामिय त्रि० (उपशमित) शान्त किया हुआ Pacified वव० १,

उवसाहण त्रि० (उपसाधन) निष्पादक Productive सख०

उवसाहिय. त्रि० (उपसाधित) तय्यार किया हुआ Made ready पञ्ज० ३४, ८, सख०

उवसित्त त्रि० (उपसिक्त) सिक्त, छिटा हुआ Spinkled रभा०

उवसुत्त त्रि० (उपसुप्त) सोया हुआ Slept से० १५, ११,

उवसूचिय त्रि० (उपसूचित) सूचित Hinted, Intimated सख०

उवसेवय. त्रि० (उपसेवक) सेवा करने वाला, भक्त. A worshipper, A devotee भवि०

उवसोहा. स्त्री० (उपशोभा) शोभा, विभूषा Splendour, Beauty, Elegance सुर० ३, १०४,

उवस्सा स्त्री० (उपाश्रा) द्वेष Hate, Abhorrence, Repugnance वव० १,

उवस्सिय त्रि० (उपाश्रित) (१) द्वेषी Hatting, Disliking वव० १, (२) अनीकृत, स्वीकृत Accepted (३) समीप में स्थित. Situated in near (४) न० द्वेष, Hate, Dislike राज०

उवस्सुदि स्त्री० (उपश्रुति) अश्र फल को जानने के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य. The first sentence said to an astrologer for revealing the future हास्य० १३०,

उवह स० (उभय) दोनों, युगल Both कुमा० हे० २, १३८,

उवहा स्त्री० (उपधा) माया, कपट A deceit or fraud चर्म० ३,

उवहार पु० (उपहार) विस्तार, फैलाव. Spreading, Extension "पहासमुद-

श्रीवहारोहिं" कप्य०

उवहारुल्ल त्रि० ( उपहारवत् ) उपहार वाला

With a present or gift सच्चि० २०,

उवहास. पु० ( उपहास ) हाँसी, उद्धा Radic-

ule, Derision हे० २, २०१,

उवहास त्रि० ( उपहास्य ) हाँसीके योग्य.

Ridiculous सुर० १, २३२,

उवहासणिज्ज त्रि० ( उपहसनीय ) हास्यास्पद

Ridiculous, Laughing पठम० १०६,

२०,

उवहि पु० ( उदधि ) समुद्र, सागर A sea

से० १, ४०, ४२, भवि०

उवाइयाविय त्रि० ( अतिक्रान्त ) (१) उल्ल-

वित Transgressed. (२) गुजारा हुआ,

पसार किया हुआ, विताया हुआ Passed

कम०

उवाई स्त्री० ( उलावकी ) विद्या विशेष A

kind of magical skill विशेष० २४२४,

उवागम पु० ( उपागम ) समीप में आगमन

Coming near, Approaching राज०

उवागमण. न० ( उपागमन ) (१) समीप में

आगमन Approaching, Coming

near (२) स्थान, स्थिति Staying,

Abiding. आया० नि० ३११,

उवादाण न० ( उपादान ) (१) ग्रहण, स्वीकार

Acceptance, Taking (२) ग्राह,

जिसको ग्रहण किया जाय वह To be taken

or seized "नाश्रोवादाणे चिय" विशेष०

२३७०,

उवादिय. त्रि० ( उपजग्ध ) उपभुक्त Enjoyed

राज०

उवारुढ त्रि० ( उपारुढ ) आरुढ Mounted

स० ३३१,

उवालद्ध त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना

दिया गया हो वह Abused; Taunted

"उवाल्लभो य" निसी० चू० १,

उवावत्त पु० ( उपावृत्त ) वह अश्व जो लेटने से

श्रम मुक्त हुआ हो. A horse refreshed

by wallowing चारु० ७०,

उवासण न० ( उपासन ) उपासना, सेवा.

Service, Attendance स० २४३, मै०

८६,

उवासणा. स्त्री० ( उपासना ) (१) शौर कर्म,

हजामत वगैरह सफाई Shaving (२) सेवा,

शुश्रूषा Service, Attendance "उवा-

सणा मसुकम्ममाइया" आच०

उवादि. पु० स्त्री० ( उपाधि ) अस्वामाविक धर्म

Deception, Disguise धम्म० ११टी,

उविञ्च त्रि० ( उपेत ) युक्त, सहित En-

dowed with, Possessed of भवि०

उविद्. पु० ( उपेन्द्र ) (१) कृष्ण. Name of

Vishnu or Krishna कुमा० (२) एक

देव विमान A particular celestial

car देवेन्द्र० १४१,

उविद्वज्जा स्त्री० ( उपेन्द्रवज्रा ) ग्यारह अक्षरों

के पाद वाला एक छंद. Name of a metre

पिंग०

उविक्खिय ( उपेक्षित ) विरस्कृत, अनारद

Disdained, Contempted, Dis-

respected सु० च० ३३१,

उविकखेव. पु० ( उद्विच्छेप ) हजामत, मुण्डन.

Shaving तदु०

उवियग्ग त्रि० ( उद्विग्न ) खिन्न, उद्वेग प्राप्त.

Grieved, Afflicted, Sorrowful

राज०

उवेय. त्रि० ( उपेय ) उपाय-साध्य To be

effected by any means राज०

उवेहरण. न० ( उपेक्षण ) उपेक्षा, उदासीनता.

Indifference सर्वोच० १०, हिन० २३,

उवेहा स्त्री० ( उपेक्षा ) अनारद, उदासीनता

Indifference, Contempt मम० ३२;

—कर. त्रि० ( कर ) उपेक्षक, उदासीन. One

that contempts or disdains  
 आ० २८,  
 उन्वत त्रि० ( उद्धान्त ) ( १ ) वमन किया हुआ.  
 Vomited ( २ ) निष्क्रान्त, निर्गत Come  
 out सुपा० १३६,  
 उन्वक. त्रि० ( उद्धान्त ) ( १ ) बाहर निकाला  
 हुआ. Drawn out वव० १, ( २ ) वमन  
 किया हुआ Vomited "उवक्रियहयासेण"  
 सु० च० ४३५,  
 उन्वट्टण. न० ( उद्घर्त्तन ) ( १ ) दूसरे जन्म में  
 जाना, मरण Death आव० ४,  
 उन्वट्टण. न० ( अपवर्त्तन ) जीव का एक प्रयत्न  
 जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास होता है  
 A particular kind of soul-exer-  
 tion by which Kaim's long  
 duration is shortened विशेष० २५१४,  
 उन्वट्टण स्त्री० ( अपवर्त्तना ) देखो "उन्वट्टण"  
 ( अपवर्त्तन ) शब्द. Vide 'उन्वट्टण' विशेष०  
 २५१५, टी०  
 उन्वद्ध. त्रि० ( उद्बृद्ध ) वृद्धि प्राप्त. In-  
 creased, Grown आव०  
 उन्वय त्रि० ( उल्लवण ) प्रचण्ड, उद्भट Strong,  
 Powerful उप० पू० ७०, गडड० धम्म० ११टी,  
 उन्वत्त. त्रि० ( उद्बृत्त ) ( १ ) चित्त, उत्तान  
 Lying on the back, with the  
 face upwards से० ५, ६२, ( २ ) उल्ल-  
 सित Delighted हे० ४, ४३४, ( ३ )  
 उर्ध्वस्थित Tending upwards महा०  
 ( ४ ) घुमाया हुआ, फिराया हुआ Turned  
 round प्रा०  
 उन्वत्त त्रि० ( अपवृत्त ) उलटा रहा हुआ, विप-  
 रीत स्थित Stayed reverse से० १, ६१,  
 उन्वत्तण. न० ( उद्घर्त्तन ) ( १ ) पार्श्व का परिव-  
 र्तन Changing the back निसी० चू०  
 ४, ( २ ) ऊँचा रहना, ऊर्ध्व वर्त्तन. Staying  
 upwards ओघ० नि० १६, - - - )

उन्वत्तिय. त्रि० ( उद्घर्त्तित ) परिवर्तित, चक्राकार  
 घुमा हुआ Turned round से० ८५,  
 सुर० १२, १६६,  
 उन्वमिअ त्रि० ( उद्घान्त ) उलटा किया हुआ,  
 वमन किया हुआ. Vomited पात्र०  
 उन्वरिअ न० ( अपवरिका ) कोठरी, छोटा घर.  
 A small room सुर० १४, १७४,  
 उन्वसिय. त्रि० ( उद्घसित ) पीछे लौटा हुआ  
 Returned, Came back महा०  
 उन्वस त्रि० ( उद्घस ) उजाड, वस्ती-रहित  
 Barren, Uninhabited सुपा० १८८,  
 ४०६,  
 उन्वसिय त्रि० ( उद्घसित ) देखो 'उन्वस'  
 शब्द. Vide 'उन्वस' गा० १६४, सुर० २,  
 ११६, रत्ना० ५४१,  
 उन्वसी स्त्री० ( उर्वशी ) ( १ ) एक अप्सरा.  
 Name of a famous Apsaras or  
 nymph सण० ( २ ) रावण की एक स्वनाम  
 ख्यात पत्नी Name of a Ravan's  
 queen पव० ७४, ८,  
 उन्वहण न० ( उद्घहन ) ( १ ) धारण Holding,  
 Carrying ( २ ) उत्थापन. Raising,  
 Elevating गडड० नाट०  
 उन्वाअ. त्रि० ( उद्घात ) शुष्क, Dry गडड०  
 उन्वासिय. त्रि० ( उद्घासित ) ( १ ) उजाड किया  
 हुआ. Laid waste, Ruined पव०  
 २७, ११, ( २ ) दूर किया हुआ Removed  
 गा० १०६, ( ३ ) देश बाहर किया हुआ  
 Exiled, Banished सु० च० ५४२,  
 उन्वाह पु० ( उद्घाह ) विवाह Marriage.  
 नै० २१,  
 उन्विआइअ त्रि० ( उद्घेदित ) उत्पीडित  
 Pained, Afflicted से० १३, २६,  
 उन्विगिर त्रि० ( उद्घेजिन्तु ) उद्देग करने वाला  
 One that grieves चाका० ३८,  
 उन्वियण्डिज त्रि० ( उद्घेजनीय ) उद्देग प्रद

ओवहारोहि" कप्य०

उवहारल्ल त्रि० ( उपहारवत् ) उपहार वाला

With a present or gift सच्चि० २०,

उवहास. पु० ( उपहास ) हाँसी, ठूँडा Radicule, Derision हे० २, २०१,

उवहास त्रि० ( उपहास्य ) हाँसी के योग्य,

Ridiculous सुर० १, २३२,

उवहासखिज्ज त्रि० ( उपहसनीय ) हास्यास्पद

Ridiculous; Laughing पडम० १०६,

२०,

उवहि पु० ( उदधि ) समुद्र, सागर A sea से० २, ४०, ४२, भवि०

उवाइयाविय त्रि० ( अतिक्रान्त ) (१) उल्लं-

घित Transgressed, (२) गुजारा हुआ,

पसार किया हुआ, वितया हुआ Passed कम०

उवाई स्त्री० ( उलावकी ) विद्या विशेष A

kind of magical skill विशेष० २४२४,

उवानाम पु० ( उपागम ) समीप में आगमन

Coming near, Approaching राज०

उचागमण. न० ( उपागमन ) (१) समीप में

आगमन Approaching, Coming

near (२) स्थान, स्थिति Staying,

Abiding. आया० नि० ३११,

उवादाण न० ( उपादान ) (१) ग्रहण, स्वीकार

Acceptance, Taking (२) ग्राह्य,

जिसको ग्रहण किया जाय वह To be taken

or seized "नाओवादाणे चिय" विशेष०

२३७०,

उवादिय त्रि० ( उपलब्ध ) उपभुक्त Enjoyed

राज०

उवारूढ त्रि० ( उपारूढ ) आरूढ Mounted

स० ३३१,

उवालद्ध. त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना

दिया गया हो वह Abused, Taunted

"उवालब्धो य" निसी० चू० १,

उवावत्त. पु० ( उपावृत्त ) वह अश्व जो लेटने से  
श्रम मुक्त हुआ हो. A horse refreshed  
by wallowing चार० ७०,

उवासण न० ( उपासन ) उपासना, सेवा  
Service, Attendance स० २४३, मै०  
८६,

उवासणा. स्त्री० ( उपासना ) (१) चौर कर्म,

हजामत वगैरह सफाई Shaving (२) सेवा,

शुश्रूषा Service, Attendance "उवा-

सणा मसुकम्ममाइया" आच०

उवाहि. पु० स्त्री० ( उपाधि ) अस्वाभाविक धर्म

Deception, Disguise धम्म० ११ टी,

उविअ त्रि० ( उपेत ) युक्त, सहित. En-

dowed with, Possessed of भवि०

उविंद पु० ( उपेन्द्र ) (१) कृष्ण. Name of

Vishnu or Krishna कुमा० (२) एक

देव विमान A particular celestial

car देवेन्द्र० १४१,

उविंदघज्जा स्त्री० ( उपेन्द्रवज्रा ) ग्यारह अक्षरों

के पाद वाला एक छद्, Name of a metre

पिंग०

उविविस्वय ( उपेक्षित ) तिरस्कृत, अनादर.

Disdained, Contempted, Dis-

respected सु० च० ३३६,

उविषखेच. पु० ( उद्विषेच ) हजामत, मुखडन

Shaving तदु०

उवियग्ग त्रि० ( उद्विग्न ) खिन्न, उद्वेग प्राप्त.

Grieved, Afflicted, Sorrowful

राज०

उवेय त्रि० ( उपेय ) उपाय-साध्य To be

effected by any means राज०

उवेहण. न० ( उपेक्षण ) उपेक्षा, उदासीनता.

Indifference सर्वोष० १०, हित० २३,

उवेहा स्त्री० ( उपेक्षा ) अनादर, उदासीनता

Indifference, Contempt सम० ३२;

—कर त्रि० ( कर ) उपेक्षक, उदासीन. One

that contempts or disdains

श्रा० २८,

उत्वंत त्रि० (उद्धान्त) (१) वमन किया हुआ.

Vomited (२) निष्क्रान्त, निर्गत. Come

out सुपा० १३६,

उत्वंक. त्रि० ( उद्धान्त ) (१) बाहर निकाला

हुआ. Drawn out वच० १, (२) वमन

किया हुआ Vomited "उत्कियहयासेण"

सु० च० ४३५,

उत्वंदृण. न० ( उद्दर्शन ) (१) दूसरे जन्म में

जाना, मरण Death श्राव० ४,

उत्वंदृण. न० ( अपवर्तन ) जीव का एक प्रयत्न

जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास होता है

A particular kind of soul-exer-

tion by which Karm's long

duration is shortened विशेष० २५१४,

उत्वंदृणा स्त्री० ( अपवर्तना ) देखो "उत्वंदृण"

( अपवर्तन ) शब्द. Vide 'उत्वंदृण' विशेष०

२५१५, टी०

उत्वंद्द. त्रि० ( उद्बृद्ध ) वृद्धि प्राप्त. In-

creased, Grown श्राव०

उत्वंण त्रि० (उत्क्लण) प्रचण्ड, उद्भट Strong,

Powerful उप०पृ०७०, गवड०धम्म०११टी,

उत्वंत्त. त्रि० ( उद्बृत्त ) ( १ ) चित्त, उत्तान

Lying on the back, with the

face upwards से० ५, ६२, (२) उत्क-

सित Delighted हे० ४, ४३४, (३)

उर्ध्वस्थित Tending upwards महा०

(४) घुमाया हुआ, फिराया हुआ Turned

round प्राप०

उत्वंत्त त्रि० (अपवृत्त) बलदा रहा हुआ, विप-

रीत स्थित Stayed reverse से०१, ६१,

उत्वंत्तण, न० ( उद्दर्शन ) (१) पार्श्व का परिव-

र्तन. Changing the back निसी०चू०

४, (२) ऊँचा रहना, ऊर्ध्व वर्तन. Staying

upwards. श्रोव० नि० १६, . . .

उत्वंत्तिय. त्रि० (उद्दत्तित) परिवर्तित, चक्राकार

घुमा हुआ Turned round से० ८५,

सुर० १२, १६६,

उत्वंमिअ त्रि० (उद्धान्त) उलटा किया हुआ,

वमन किया हुआ, Vomited पाय०

उत्वंरिअ न० (अपचरिका) कोठरी, छोटा घर,

A small room सुर० १४, १७४,

उत्वंलिय. त्रि० ( उद्दलित ) पीछे लौटा हुआ

Returned, Came back महा०

उत्वंस त्रि० ( उद्दस ) उजाड, वस्ती-रहित.

Barren, Uninhabited सुपा० १८८,

४०६,

उत्वंसिय त्रि० ( उद्दसित ) देखो 'उत्वंस'

शब्द. Vide 'उत्वंस' गा० १६४, सुर० २,

११६, रत्ता० ५४१,

उत्वंसी स्त्री० ( उर्वशी ) (१) एक अप्सरा.

Name of a famous Apsaras or

nymph सण० (२) रावण की एक स्वनाम

ख्यात पत्नी Name of a Ravan's

queen पउम० ७४, ८,

उत्वंहण न० (उद्दहन) (१) धारण Holding,

Carrying (२) उत्थापन, Raising,

Elevating गवड० नाट०

उत्वाअ. त्रि० (उद्वात) शुष्क, Dry गवड०

उत्वासिय. त्रि० (उद्वासित) (१) उजाड किया

हुआ. Land waste, Ruined पउम०

२७, ११, (२) दूर किया हुआ Removed

गा० १०६, (३) देश बाहर किया हुआ

Exiled, Banished सु० च० ५४२,

उत्वाह पु० ( उद्वाह ) विवाह Marriage.

सै० २१,

उत्विआइअ त्रि० ( उद्देदित ) उत्पीडित

Pained, Afflicted से० १३, २६,

उत्विगिर त्रि० ( उद्देजिन्तु ) उद्देग करने वाला

One that grieves वाका० ३८,

उन्वियण्जिज त्रि० ( उद्देजनीय ) उद्देग प्रद

Afflictive, Distressing पउम० १६,  
३६, सु० च० ४६७,  
उच्चिरेयण न० ( उच्चिरेचन ) खाली करना  
Emptying काल०  
उच्चिल्ल त्रि० ( उच्चेल ) चचल, चपल Fickle,  
Unsteady सु० च० ३४,  
उच्चिल्लिर त्रि० ( उच्चिल्लितृ ) चलने वाला,  
Moving, Going सु० च० ८८,  
उच्चि स्त्री० ( उच्चि ) पृथ्वी The earth से०  
२, ३०,  
उच्चिण्ड त्रि० ( उच्चिण्ड ) (१) धारण किया हुआ,  
पहना हुआ Worn, Clad कुमा० ( २ )  
ऊँचा लिया हुआ, ऊपर धारण किया हुआ,  
Raised up से० ५, ५४, ६, ११, (३)  
परिणीत, कृत विवाह Married सु० च०  
४५६,  
उच्चिदण न० ( उच्चिदण ) (१) बन्धन The  
act of surrounding or enclosing  
(२) त्रि० बन्धन रहित किया हुआ Freed  
from bonds, Unbound राज०  
उच्चियग त्रि० ( उच्चियजक ) उच्चिग-कारक Afflic-  
tive, Distressing रयण० ४०,  
उच्चियगय पु० न० ( उच्चियजक ) एक नरक  
स्थान A particular hell-abode  
देवेन्द्र० २८,  
उच्चिल त्रि० ( उच्चिल ) उच्चिलित Moving or  
going on से० २, ३०,  
उच्चिलिअ त्रि० ( उच्चिलित ) फैला हुआ, प्रसृत  
Spread माल० १४२,  
उच्चिल त्रि० ( उच्चिल ) (१) उच्चिलित, उच्चिला  
हुआ Moved up, Jumped पउम० ६,  
७२, (२) प्रसृत, फैला हुआ, Spread पात्र०  
(३) उच्चिल स० ६२५,  
उच्चिलिअ त्रि० ( उच्चिलित ) (१) कम्पित  
Trembled गा० ६०५, (२) प्रसारित  
Spread स० ३३५,

उच्चिल्लिर त्रि० ( उच्चिल्लितृ ) सत्वर जाने वाला  
One that goes fast कुमा०  
उच्चिसर. पु० ( उच्चेश्वर ) इस नाम का एक  
राजा Name of a king कुमा०  
उच्चिण. पु० ( उच्चिणस् ) ग्रह विशेष, शुक्र  
Name of Sukia, regent of the  
planet Venus, son of Bhrgu  
पात्र०  
उच्चिअ त्रि० ( उच्चिअ ) Anxious, desir-  
ous, Eager सुपा० २२४,  
उच्चिखलअ त्रि० ( उच्चिखलक ) उच्चिखल,  
निरदकुश Unbridled, Unrestrain-  
ed पि० २१३,  
उच्चिग पु० ( उच्चिग ) क्रोड, बोला The  
lap नाट०  
उच्चिघट्ट त्रि० ( उच्चिघट्ट ) शरीर स्पर्श से रहित  
Without the touch of a body.  
उप० ५५५,  
उच्चिन्न त्रि० ( उच्चिन्न ) निज धर्म में आलसी  
साधु An idle saint गुमा० १२,  
उच्चिष्णयण न० ( उच्चिष्णयण ) (१) उन्नति  
Prosperity, Rise (२) त्रि० उन्नत करने  
वाला, बढ़ाने वाला Prospering "कटपद-  
पुष्णयण" सु० च० ५०६,  
उच्चिष्णया स्त्री० ( उच्चिष्णया ) उन्नति, प्रभा-  
वना Prosperity Rise उप० ३२६,  
(२) विख्यात करना, प्रसिद्ध करना Cele-  
brating, making known सम्मत०  
१६६,  
उच्चिसार पु० ( उच्चिसार ) अनेक दिन में पढ़ाने  
योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अध्यापन  
A scripture wich takes a long  
time to learn, being taught in a  
single day — कल्प पु० ( कल्प ) पाठन  
सबन्धी आचार विशेष, Particular ways  
of learning वृ० १,

उत्सारग त्रि० ( उत्सारक ) (१) दूर करने वाला One that removes or drives out of the way (२) उत्सार कल्प के योग्य बृह० १,  
 उत्सारिय त्रि० (उत्सारित) दूरीकृत, हटाया हुआ Removed सत्या० १७,  
 उत्सिखल त्रि० ( उच्छृङ्खल ) स्वैरी, स्वेच्छा-चारी, निरकुश. Wanton, Uncontrolled, Unrestrained. उप० १४६ टी,  
 उत्सिक्त्रि त्रि० (उत्सिक्त) (१) ऊचा फेंका हुआ Thrown up (२) ऊपर रखा हुआ Kept up स० १०३,  
 उत्सूय, त्रि० (उच्छून) सूजा हुआ Swollen उप० ११४, गडढः स० २०३,  
 उत्सूर न० ( उत्पूर ) संध्या, शाम, The evening सू० ७, ६३, उप० पृ० २२०,  
 उत्सेत्र. पु० (उत्सेक) (१) सिंचन Sprinkling (२) उन्नति Prosperity (३) गर्व Pride, Haughtiness. चारु० ४५,  
 उद. स० (उभ) दोनों, युगल Both पद०  
 उदय स० (उभय) युगल, दोनों Both कुमा० भवि०  
 उहार पु० (उहार) मत्स्य विशेष A kind of fish राज०  
 ऊ पु० (ऊ) प्राकृत वर्णमाला का षष्ठ स्वर वर्ण The sixth letter of the Prakṛita alphabets हे० १, १, ग्रामा०  
 ऊअट्ट त्रि० (अववृष्ट) वृष्टि से नष्ट Ruined by rain पात्र०  
 ऊआस. पु० (उपवास) भोजनाभाव A fast हे० १, १०३,  
 ऊढ त्रि० (ऊढ) (१) वहन किया हुआ, धारण किया हुआ. Borne, Carried गडढ० (२) परिणीत, विवाहित Married धर्म० १३६०,

ऊढा स्त्री० (ऊढा) विवाहिता स्त्री A girl who is married पाय०  
 ऊण न० (ऋण) करजा A debt नाट०  
 ऊणिमा स्त्री० (पूर्णिमा) पूर्णिमा The full-moon day महा०  
 ऊरण पु० (ऊरण) भेय, भेड. A goat विशेष०  
 ऊरी अ० (ऊरी) (१) अगीकार Acceptance (२) विस्तार, Spreading -कय. त्रि० (कृत) अगीकृत, स्वीकृत. Accepted उप० ७२८ टी,  
 ऊरुदग्ध. त्रि० (ऊरुदध्न) जघा-प्रमाण. As high as or reaching the thighs, knee-deep पद०  
 ऊरुद्दअस त्रि० (ऊरुद्वयस) देखो 'ऊरुदग्ध' शब्द Vide 'ऊरुदग्ध' पद०  
 ऊलसिञ्ज त्रि० (उल्लसित) उल्लसित De-lighted कुमा०  
 ऊस पु० (उल) किरण A ray (of light), A beam. हे० १, ४३, —मालि पु० (मालिन) सूर्य. The sun कुमा०  
 ऊसत्त त्रि० (उत्सक्त) देखो 'उसत्त' शब्द. Vide उसत्त कप्प० ग्रावम०  
 ऊसय. पु० (उच्छ्रय) उत्सेध, ऊँचाई A height जीवस० १०४,  
 ऊससण (उच्छ्वसन) उसास. Breathing.—लद्धि स्त्री० (लद्धि) श्वासोच्छ्वास की शक्ति. Power of breathing क० गं० १४४,  
 ऊससिर त्रि० (उच्छ्वसितु) उसास लेने वाला. One that breathes हे० २, १४५,  
 ऊसार. पु० (उत्सार) परित्याग Abandoning, Giving up भवि०  
 ऊसार पु० (आसार) वेगवाली वृष्टि A hard or sharp-driving shower हे० १, ७६, पद०



ऊसारि त्रि० (आसारिन्) वेग से बरसने वाला,  
 Raining in torrents कुमा०  
 ऊसास पु० ( उच्छ्वास ) मरण, Death  
 वृह० १,  
 ऊसासिञ्च त्रि० ( उच्छ्वासित ) बाधा रहित  
 किया हुआ से०, १२, ६२,  
 ऊसाह पु० ( उत्साह ) उत्साह, उछाह  
 Perseverance मा० १०,  
 ऊसित्त त्रि० ( उसित्त ) गर्वित, Allogant,  
 Proud (२) उद्धत Insolent (३)  
 बढ़ा हुआ, Increased (४) अतिशायित  
 Excelled, surpassed हे० १, ११४,  
 ऊसित्त त्रि० ( अत्रसित्त ) उपलिप्त Be-  
 smeared पाञ्च०  
 ऊसुञ्च त्रि० ( उत्सुक ) उत्कण्ठित Anx-  
 ious, desirous, Eager गा० २४३,  
 कुमा०  
 ऊसुञ्च त्रि० ( उन्सुकित ) उत्सुक किया हुआ  
 Made eager गा० ३१२,  
 ऊसुभिञ्च त्रि० ( उत्सलित ) उल्लास प्राप्त,  
 Delighted कुमा०  
 ऊह्य न० ( ऊह्य ) सख्या विशेष A  
 particular number राज०  
 ऊह्य स्त्री० ( ऊह्य ) तर्क, विचार बुद्धि  
 Reasoning, Arguing आवम०  
 ऊह्यपोह पु० ( ऊह्यपोह ) सोच-विचार Full  
 discussion, Consideration of  
 the pros and cons कुप्र० ६१,  
 ऊहिञ्च त्रि० ( ऊहित ) अनुमान से ज्ञात  
 Known by inference से० ६, ४२,  
 ए पु० ( ए ) स्वर वर्ण विशेष, A parti-  
 cular vowel हे० १, १, प्रात्या०  
 ए अ० ( ए-ये ) (१) स्मरण Remember-  
 ing (२) असूया, ईर्ष्या Envy (३) अनु-  
 कम्पा, करुणा Compassion (४) आह्वान  
 Calling मा० ६०४, हे० २, २१७, भवि०

एञ्च त्रि० ( एत ) आया हुआ, आगत Come,  
 Arrived सम्मत० ११६,  
 एईस त्रि० ( एताद्य ) ऐसा. Such, Such  
 like विशेष० २२४६,  
 एकत पु० ( एकान्त ) (१) सर्वथा An ex-  
 clusive recourse (२) तत्त्व, प्रमेय. An  
 object of certain knowledge (३)  
 जरूर, अवश्य Necessity (४) असाधा-  
 रण, विशेष Speciality, Differen-  
 tia से० ४, २३, (५) निर्जन, निराला A  
 lonely place गा० १०२,  
 एकैक त्रि० ( एकैक ) प्रत्येक, हर एक One  
 by one, Every one नाट०  
 एकैकसिन्ध न० ( एकसिन्ध ) तपो विशेष A  
 kind of religious austerity प्रव०  
 २७१,  
 एकैकैक त्रि० ( एकैक ) प्रत्येक, हर एक Every  
 one. हे० ३, १, पद्० कुमा०  
 एकार पु० ( अयस्कार ) लोहार A black-  
 smith हे० १, १६६, कुमा०  
 एकी स्त्री० ( एका ) एक ( स्त्री ) One  
 ( woman ) निसी० चू० १,  
 एग स० ( एक ) (१) सद्य, तुल्य.  
 The same. (२) अद्वितीय Peerless,  
 Matchless कुमा० — एासा. स्त्री०  
 ( नासा ) एक दिक्कमारी, देवी विशेष Name  
 of a Dikkumari आव० १,  
 एगतिय न० ( एकान्तिक ) मिथ्यात्व का एक  
 भेद A variety of wrong-belief.  
 सबोध० १२,  
 एगतिय त्रि० ( ऐकान्तिक ) (१) अद्वितीय  
 Peerless, Matchless स० १२६, (२)  
 जैनैत दर्शन Non-Jainism. सम्म० १३०  
 (३) अवश्यभावी Destined to take,  
 place, Inevitable. विशेष०  
 एगचूड पु० ( एकचूड ) विद्याधर वंश का एक

राजा Name of a king of the Vidyadhari family पडम०५,४५,  
 एजण्या स्त्री० (एजना) कम्प, कौपना Them-  
 bling, Shaking सूयनि० १६६,  
 एज्या. न० (आयन) आगमन. Approach,  
 Arrival वव० ३,  
 एडक पु० (एडक) मेप, मेड A goat, A  
 ram उप० पृ० २३४,  
 एड्या. स्त्री० (एडका) भेडी, An ewe पड०  
 एय पु० (एय) कृष्ण मृग, हरिय A kind  
 of black antelope कम्प० — शाहि  
 स्त्री० (शाभि) कस्तूरी Musk कम्प०  
 एयक. पु० ( एयाक ) चन्द्र, चन्द्रमा The  
 Moon कम्प०  
 एयिस पु० ( एयिस ) वृक्ष विशेष A kind  
 of tree उप० १०३१ टी,  
 एराह-एरिह अ० ( इदानीम् ) अधुना, सप्रति  
 Now-a-days महा० हे० २, १३४,  
 एरपञ्ज. न० ( एरपर्य ) तात्पर्य, भावार्थ Sub-  
 stance, Purport उप० ८५६ टी०  
 एरावय पु० ( एरावत ) (१) हृद विशेष Name  
 of a basin राज० ( २ ) वृद्ध शास्त्र-प्रसिद्ध  
 एक प्रकार का संकेत A particular  
 mark in prosody पिं० ( ३ ) लकुच  
 वृक्ष A kind of tree ( ४ ) सरल और  
 लम्बा इन्द्र-धनुष A straight and long  
 rain-bow (५) इरावती नदी का समीपवर्ती  
 देश Name of a country near the  
 river Havati (६) इन्द्र का हाथी An  
 elephant of Indra हे० १, २६८,  
 एलागच्छु न० ( एलकाञ्च ) स्वनाम ख्यात नगर  
 विशेष Name of a city उप० २११ टी,  
 एलालुय पु० न० ( एलालुक ) आलू की एक  
 जाति, कन्द विशेष Name of a parti-  
 cular bulbous root, A kind of  
 potatoes अशुक्त० ६,

एलिया स्त्री० ( एलिका ) ( १ ) एक जात की  
 मृगी A kind of deer ( २ ) भेडि  
 An ewe हे० ३, ३२,  
 एलु. पु० ( एलु ) वृक्ष विशेष A kind of  
 tree उप० १०३१ टी,  
 एव, अ० ( एव ) ( १ ) सादृश्य, तुल्यता.  
 Like, As ( showing similarity )  
 ( २ ) निग्रह Restraint ( ३ ) परिभव.  
 Defeat ( ४ ) थोड़ा थोड़ा A little. हे०  
 २, २१७,  
 एवंह्यास पु० ( एवहास ) इतिहास A history.  
 गडड० ८०२,  
 एव्हारु. पु० ( एवार्ह ) ककड़ी A cucumber.  
 कुमा०  
 ओ पुं० ( ओ ) स्वर वर्ण विशेष A parti-  
 cular vowel हे० १, १, प्रामा०  
 ओ अ० ( ओ ) ( १ ) सूचना. Hint, Sug-  
 gestion ( २ ) पश्चात्ताप, अनुत्ताप Re-  
 pentance कुमा० प्राप्र० हे० २, २०३, पड०  
 ( ३ ) संबोधन, आमन्त्रण Addressing.  
 नाट० चैत्य० ३४, ( ४ ) वितर्क A guess or  
 conjecture ( ५ ) प्रकोप Wrath ( ६ )  
 विस्मय, आश्चर्य Wonder प्राकृ० ७८,  
 ( ७ ) पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अन्यय  
 An expletive particle विशेष० २०२४,  
 ओञ्चत्त त्रि० ( अपगत ) अपगत. Gone  
 away पि० १६५,  
 ओञ्चराण त्रि० ( अवनत ) नमा हुआ, नीचे की  
 तरफ मुड़ा हुआ. Bent down से० ११,  
 ११८,  
 ओञ्चत्त त्रि० ( अपवृत्त ) ऊँचा किया हुआ,  
 बलदा किया हुआ Made downward  
 गा० ६५४,  
 ओञ्चत्तञ्च त्रि० ( अपवर्तितव्य ) ( १ ) अपवर्तन  
 योग्य Fit to be removed ( २ )  
 त्यागने योग्य , छोड़ने लायक. Proper to

be abandoned से० ३, ४८,  
 श्रीअरअ पुं० (अपवरक) कमरा, कोठरी  
 A small room सु० च० ४१५,  
 श्रीअरअ न० (उपकरण) साधन, सामग्री A  
 means, An implement गा० ६८१,  
 श्रीअरअ न० (अवतरण) उतरना, नीचे आना  
 Descending गड्ड०  
 श्रीअरअ त्रि० (अवतीर्ण) उतरा हुआ  
 Descended, Came down. पाअ०  
 श्रीअरअ त्रि० (औटरिक) पेट भरा, स्वार्थी.  
 Selfish शोच० नि० ११८,  
 श्रीअरिया स्त्री० (अपवरिका) कोठरी, छोटा  
 कमरा A small room सु० च० ४१५,  
 श्रीअर पु० (अपकार) अविष्ट, हानि  
 Harm, Injury कुमा०  
 श्रीअर पुं० (अवतार) (१) अवतार, देहान्तर-  
 धारण Incarnation. पद्० (२) उत्पत्ति,  
 जन्म, Birth स० १३१, (३) प्रवेश  
 Entrance विशेष० १०४०,  
 श्रीअरअ त्रि० (अवतारित) उतरा हुआ  
 Caused to descend से० ११, ६३,  
 उप० २६७ टी,  
 श्रीअरअ त्रि० (अवगाहित) जिसका अवगा-  
 हन किया गया हो वह Immersed से०  
 १, ४, ८, १००,  
 श्रीअरअ त्रि० (अवतीर्ण) उतरा हुआ  
 Descended पाअ० गा० ६३,  
 श्रीउटअ न० (अवगुण्ठन) स्त्री के मुँह पर  
 का चूड़, चूड़ A veil (for the face)  
 अमि० १६८,  
 श्रीऊल न० (अवचूल) लटकता हुआ चूड़ाखल,  
 आलम्ब The pendent cloth पाअ०  
 पडम० ८, २८३,  
 श्रीं अ० (श्रीम्) प्रणव, मुख्य मन्त्राक्षर  
 The sacred syllable om पडि०  
 श्रीवाल्लिअ त्रि० (छादित) ढका हुआ Cor-

ered or concealed कुमा०  
 श्रीवाल्लिअ त्रि० (प्लावित) (१) डुबाया हुआ.  
 Caused to plunge (२) व्याप्त  
 Spread through, Permeated कुमा०  
 श्रीकरग पु० (अवकरक) विष्ट Excite-  
 ment मन० ३०,  
 श्रीअरअ त्रि० (भविष्यत्) भविष्य में होने  
 वाला, भागी Being in future प्रा० ६६,  
 श्रीअरअ त्रि० (अवक्षिप्त) फेंका हुआ.  
 Thrown कस०  
 श्रीअरअ न० (अपकमन) हास Lessening;  
 Detraction राज०  
 श्रीअरअ त्रि० (अवगलित) खिसका हुआ.  
 Shipped, Fallen down गा० २०५,  
 श्रीअरअ स्त्री० (अवगाहना) अवस्थान;  
 अवस्थिति Residence, Abode विशेष०  
 श्रीअरअ त्रि० (अवगुण्ठित) लिप्त Be-  
 smeared वृह० १,  
 श्रीअरअ स्त्री० (अपकृष्टि) अपकर्ण, हलकाई;  
 तुच्छता Dishonour, Degradation  
 पडम० २६, १२०,  
 श्रीअर पु० (अरग) धान्य विशेष, ग्रीहि  
 विशेष A kind of corn पिंग०  
 श्रीअरअ न० (उद्गारण) उद्गार Re-  
 peating, Narration चार० ७,  
 श्रीअरअ स्त्री० (अपचायिका) तोड़ कर  
 (फूलोंको) इकट्ठा करना Gathering  
 (such as flowers etc) गा० ७६७,  
 श्रीअरअ न० (अवच्छादन) ढाकना, पिधान  
 A cover or lid. स० २२७,  
 श्रीअरअ त्रि० (आक्रान्त) (१) दबाया हुआ.  
 Overcome (२) उल्लङ्घित Trans-  
 gressed से० १३, ६३, १२, १३,  
 श्रीअर पु० (अरअ) भरना, पर्वत से निक-  
 लता जल-प्रवाह, A flow of water,  
 A spring गा० ६४०, हे० १, ६८, कुमा०

महा०

ओट्टिय त्रि० ( औट्टिक ) उट्टू-सवन्धी, उट्टू के बालों से बना हुआ Relating to, or produced from a camel कस० स० २८६,

ओट्टु पु० ( ओट्टु ) (१) उत्कल देश Name of a country called Utkala (२) उत्कल देश का निवासी, उट्टिया An inhabitant of this country पिंग०

ओट्टिअ त्रि० ( ओट्टीय ) उत्कल-देशीय Relating to Utkala County. पिंग०

ओखाविय त्रि० ( अवनमित ) नमाया हुआ, अवनत किया हुआ Caused to bend down गा० ६३२,

ओखामखी स्त्री० ( अवनामनी ) एक विद्या, जिसके प्रभाव से वृक्ष वगैरह स्वयं फलादि देने के लिये अवनत होते हैं A particular kind of magical skill निसी० चू० १,

ओखामिय-ओखाविय त्रि० ( अवनमित ) अवनत किया हुआ. Bent down से २, ३६, ६, ४, गा० १०३, नवि०

ओखिअत्त त्रि (अपनिवृत्त) पीछे हटा हुआ Caused to recede से० २, २८,

ओखिमिल्ल त्रि० ( अवनिमिलित ) मुद्रित, मुँदा हुआ. Closed, Sealed up से० ६, ८७, १३, ८२,

ओखोज्ज त्रि० ( उपनेय ) साचे में ढाल कर बनाया हुआ फूल आदि, साचे से बनता मोम का पूतला A flower prepared by founding, A putla of wax prepared by founding दसनि० २, १७,

ओखिण्ह न० ( औत्त्रिद्रय ) निद्रा का अभाव Sleeplessness, Wakefulness काम० ८२,

ओत्थअ त्रि० ( अवस्तृत ) (१) फैला हुआ,

प्रसृत Spread से० २, ३, (२) आच्छादित पिहित Covered, Concealed आवम० स० ७७, ३७६,

ओत्थरण न० (अवस्तरण) विज्ञाना A bed पडम० ४६, ८४,

ओत्थरिअ त्रि० (अवस्तृत) (१) विज्ञाना हुआ Spread out (२) व्याप्त. Full of, Permeated से० ७, ४७,

ओत्थाडिय त्रि० ( अवस्तृत ) विज्ञाना हुआ Spread out भवि०

ओदच्च न० ( औदात्य ) उदात्ता, श्रेष्ठता Excellence, Greatness. प्रारू०

ओदज्ज न० ( औदार्य ) उदारता Gene-rousy, Nobility. प्रारू०

ओदरिय त्रि० ( औदरिक ) पेट भरा, पेट भरने के लिए जो साधु हुआ हो वह Voracious, Gluttonous. निसी० चू० १,

ओदहण न० ( अवदहन ) तप्त किए हुए लोहे के कोश वगैर से दागना राज०

ओदारिय न० ( औदार्य ) उदारता Gene-rousy, Magnanimity प्रारू०

ओह त्रि० ( आर्द्र ) गीला Wet प्राक० २०, ओधूअ त्रि० ( अवधूत ) कम्पित. Trembled, Shaken नाट०

ओधूसरिअ त्रि० ( अवधूसरित ) धूसर रंग वाला, हलका पीला रंग वाला Greyish से० १०, २१,

ओनिडिय त्रि० ( अवनटित ) अवगणित, तितरस्कृत Contempered, Disregarded सम्मत० २१४,

ओपिअ त्रि० ( अर्पित ) समर्पित Given, Bestowed, Offered. हे० १, ६३,

ओभग्ग त्रि० ( अवभग्न ) भग्न, नष्ट Destroyed, Broken से० ३, ६३, १०, २६,

ओभासण न० ( अवभाषण ) याचना, प्रार्थना A request, An entreaty, A peti-

tion वव० न,

श्रीभेडिय. त्रि० (अवमुक्त) छुड़ाया हुआ, रहित  
क्रिया हुआ Caused to release or  
liberate महा०

श्रीमइल्ल. त्रि० (अवमलिन) मलिन, मैला  
Dirty से० २, २५,

श्रीमज्जाण. न० (अवमजन) स्नान-क्रिया  
Bathing वप० ६४८ टी,

श्रीमज्जिअ. त्रि० (अवमार्जित) जिसको स्पर्श  
कराया गया हो वह, स्पर्शित Touched  
से० ५६७,

श्रीमट्ट त्रि० (अवसृष्ट) सृष्ट, छुआ हुआ  
Touched. से० ५, २१,

श्रीमल्ल न० (अवमाल्य) निर्माल्य, देवोच्छिष्ट  
द्रव्य The remains of an offering  
to a deity. पङ्०

श्रीमालिअ त्रि० (उपमालित) (१) शोभित  
Beautiful (२) पूजित, अर्चित Wor-  
shipped. भवि०

श्रीमास पु० (अवमर्श) स्पर्श A Touch  
से० ६, ६७,

श्रीमीस त्रि० (अवमिश्र) (१) मिश्रित Mix-  
ed, Mingled (२) समीपस्थ Stood  
near (३) न० सामीप्य Proximity,  
Vicinity "कायमणियश्रीमीसे" शोध०  
नि० ७७२,

श्रीमुक्क त्रि० (अवमुक्त) परित्यक्त, Aban-  
doned, Quitted सम्मत० १५६,

श्रीमुच्छिअ. त्रि० (अवमुच्छिंत) महा-मूर्छा को  
प्राप्त Fainted, Swooning पडम० ७,  
१५८,

श्रीमोयरिय न० (अवमोदरिक) (१) न्यून-  
भोजन, तप विशेष A kind of religious  
austerity (२) दुर्भिक्ष, अकाल Dearth,  
Famine शोध० ७,

श्रीममाय. पु० (उन्माद) उन्मत्तता Madness

सवोध० २१,

श्रीय. न० (श्रीकस्) गृह, घर A house  
वव० ५,

श्रीयट्टण न० (अपवर्तन) पीछे हटना, वापिस  
लौटना Receding, Falling back.  
वप० ७६०,

श्रीयत्त. त्रि० (अववृत्त) अवनत, अधोमुख  
Bent down पाञ्च०

श्रीयत्तण. न० (अपवर्तन) खिसकाना, हटाना  
Removing, Transferring from  
one place to another पिंड० ५६३,

श्रीयार. पु० (अवतार) घाट, तीर्थ A  
sacred bathing place. चेद्व्य० ५१८,

श्रीरसिअ. त्रि० (अपतीर्ण) उतरा हुआ  
Descended, Alighted कुमा

श्रीरालियणाम न० (श्रीदारिकनामन्)  
श्रीदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म क० ग० १,

श्रीरिंकिय. न० (अवरिङ्कित) महिष की आवा-  
ज. A voice of a she-buffalo पडम०  
६४, ४३,

श्रीरंभिअ त्रि० (अपरुद्ध) आवृत्त, आवृद्धादित  
Covered, Concealed. गा० ६१४,

श्रीरुरण त्रि० (अवरुदित) रोया हुआ Wept.  
गा० ५३८,

श्रीरुद्ध त्रि० (अवरुद्ध) रुका हुआ, बंद किया  
हुआ Obstructed, Impeded गा०  
८००,

श्रीरोह पु० (अवरोध) सघात, समूह A  
multitude or heap राज०

श्रीलव पु० (अवलम्ब) नीचे लटकना.  
Hanging down स्वप्न० ७३,

श्रीलविअ त्रि० (उपलक्षित) पहिचाना हुआ  
Recognized सु० च० २५४,

श्रीलग्ग त्रि० (अवलग्न) पीछे लगा हुआ,  
अनुलग्न Clinging or adhering to-  
महा०

श्रोलगि त्रि० (अवलगिन्) सेवा करने वाला  
 One who serves रमा०  
 श्रोलगिञ्च त्रि० (अवलग्न) सेवित Seived,  
 Attended वजा० ३२,  
 श्रोलिद्विञ्च पु० (अलिन्दक) बाहर के दरवाजे  
 का प्रकोष्ठ A terrace before a house  
 door गा० २२४,  
 श्रोली, स्त्री० (आली) पक्ति, श्रेणी A line,  
 range or continuous line कुमा०  
 श्रोलुदिर त्रि० (विरचयितृ) भरने वाला  
 Oozing कुमा०  
 श्रोलुप. पु० (अवलपोप) मसलना, मर्दन करना  
 Smearing, Anointing गडड०  
 श्रोलोयण न० (अवलोकन) (१) देखना  
 Looking at, Beholding (२) दृष्टि,  
 नजर A look, A glance उप० पु० १२७,  
 (३) गवाच An all-hole, A round  
 window. सुख० २, ६,  
 श्रोलोयण. स्त्री० (अवलोकना) (१) देखना.  
 Looking at, Beholding (२) गवे-  
 पयत, खोज Searching after, Seek-  
 ing for वव० ४,  
 श्रोल्लद्वण पु० (अवलदन) एक नरक स्थान  
 A particular hell-abode देवेन्द्र० २८,  
 श्रोल्लण न० (आर्द्रयण) गीला करना, भिजाना.  
 Wetting, Moistening पि० १११,  
 श्रोल्लिञ्च. त्रि० (आर्द्रित) आर्द्र किया हुआ.  
 Wetted, Moistened गा० ३३०, सण०  
 श्रोवद्भ्य. त्रि० (श्रौपचयिक) उपचित, परिपुष्ट  
 Nourished, Brought up राज०  
 श्रोवगारिय. त्रि० (श्रौपकारिक) उपकार के  
 निमित्त का, उपकारार्थक Relating to  
 obligation देवेन्द्र० ३०६,  
 श्रोवट्ट पु० (अपवर्त) (१) हास, हानि  
 Diminution, Loss (२) भागाकार  
 (Math) The (common) division

which is applied to both or either  
 of the quantities of an equation  
 विशे० २०६२,

श्रोवट्टण. न० (अपवर्तन) हास, कमी Dimi-  
 nution, Reduction श्रावक० २१६,  
 श्रोत्रद्वणा स्त्री० (अपवर्तना) भागाकार, भाग-  
 हरण Division. (Math) राज०

श्रोवट्ट त्रि० (अववृष्ट) बरसा हुआ, जिसने  
 वृष्टि की हो वह Rained से० ६, ३४,  
 श्रोवट्ट पु० (अववर्ष) (१) वृष्टि, बारिस  
 Raining से० ६, २२,

श्रोवट्टिञ्च त्रि० (श्रौपस्थितिक) उपस्थिति के  
 योग्य, नौकर A servant प्रयौ० ११,  
 श्रोवडण न० (अवपतन) (१) अध पात A  
 down-ward fall (२) कम्पा-पात, A  
 sudden fall से० २, ३२,

श्रोवण न० (उपवन) बगीचा, आराम A  
 garden कुमा०

श्रोवत्त. त्रि० (अपवृत्त) फिराया हुआ.  
 Turned से० ६, ६१,

श्रोवयारिय त्रि० (श्रौपचारिक) उपचार  
 सबन्धी Metaphorical, Figurative  
 पचा० ६, पुष्प० ४०६,

श्रोवहारिञ्च त्रि० (श्रौपहारिक) उपहार  
 सबन्धी Relating to offering.  
 विक० ७२,

श्रोवारिञ्च त्रि० (अपवारित) आच्छादित,  
 ढका हुआ Covered, Concealed.  
 सै० ६१,

श्रोवास. पु० (अवकाश) अवकाश, खाली  
 जगह Place, Space, Room पाञ्च०  
 ग्राम० से० १, २४,

श्रोवाहिञ्च त्रि० (अपवाहित) (१) नीचे  
 गिराया हुआ Fallen down. से० ६, १६,  
 १३, ७२, (२) घुमा कर नीचे डाला हुआ.  
 से० ७, २२,

श्रीविद्ध त्रि० ( अपविद्ध ) प्रेरित, आहत.  
 Instigated से० ७, १२,  
 (१) नीचे गिराया हुआ Cast or thrown  
 off से० १३, २६,  
 श्रीवेहा. स्त्री० ( उपेक्षा ) (१) उपदर्शन, देखना  
 Looking at, Beholding (२)  
 अवधीरण Disrespect, Repulse.  
 "वाचारश्रीवेहा" शोध० नि० १७१,  
 श्रीवृत्त. ( अपवृत्त ) (१) पीछे फिरा हुआ  
 Returned (२) नमा हुआ. अवनत  
 Bent down से० ८, ८५,  
 श्रीसक त्रि० ( अवपक्रित ) अपसृत, पीछे  
 हटा हुआ Receded, Fallen back  
 पाश्च०  
 श्रीसकण न० ( अवपक्रण ) (१) अपसरण  
 Retreating. स० ६३, (२) उत्तेजन  
 Encouragement बृह० २,  
 श्रीसद न० ( औषध ) दवा, इलाज, A  
 medicine हे० १, २२७,  
 श्रीसद्विद्वा. त्रि० ( औषधिक ) वैद्य, चिकित्सक  
 A physician or doctor कुमा०  
 श्रीसराण त्रि० ( अपसन्न ) खिन्न De-  
 pressed, Afflicted, Distressed,  
 Drooping गा० ३८२, से० १३, ३०,  
 श्रीसराण त्रि० ( अपसन्न ) शिथिल, ढीला  
 Loose, Slackened पव० ३,  
 श्रीसन्न त्रि० ( अवसन्न ) निमग्न Plunged,  
 Immersed, Sunk दस चू० १, १८,  
 श्रीसर. पु० ( अवसर ) (१) अवसर, समय  
 Occasion, Time (२) अन्तर A  
 distance राज०  
 श्रीसरण न० ( अपसरण ) (१) हटना, दूर  
 होना Retreating (२) दूर करने वाला  
 One that removes कुमा० १  
 श्रीसरिअ. त्रि० ( अपसृत ) (१) पीछे हटा  
 हुआ. Retreated पव० १६, २३, पाश्च०

गा० ३११, (२) अपसरण Going back.  
 से० २, ८,  
 श्रीसरिअ त्रि० ( अवसृत ) आगत, पधारा  
 हुआ Came उप० ७२८ टी,  
 श्रीसरिअ त्रि० ( उपसृत ) समुखागत,  
 सामने आया हुआ. Came before पाश्च०  
 श्रीसव. पु० ( उत्सव ) उत्सव, आनन्द क्षण.  
 A festival प्रा०  
 श्रीसविय त्रि० ( उद्धृत ) ऊँचा किया हुआ  
 Raised, Lifted up पव० ८, २६६,  
 श्रीसद्विअ त्रि० ( आवसथिक ) चन्द्रार्चदानदि  
 व्रत को करने वाला One who fasts  
 till the moon rises गा० ३४६,  
 श्रीसाअ पु० ( अवश्याय ) हिम, ओस  
 Frost, Dew से० १३, १२,  
 श्रीसाय पु० ( अवश्याय ) ओस, निशा-जल  
 Hoar-frost जीवस० ३१,  
 श्रीसायण न० ( अवसादन ) परिशयान्त, नाश,  
 Destruction, Ruin विशेष०  
 श्रीसार. पु० (अपसार) अपसरण Retreat-  
 ing से० १३, १४,  
 श्रीसार पु० ( अवसार ) बख्तर, An  
 armour से० १२, १६,  
 श्रीसिय. त्रि० ( अवसित ) (१) पर्ववसित  
 Finished, Ended (२) उपशान्त  
 Pacified (३) जित, पराभूत, Defeated,  
 Conquered विशेष०  
 श्रीसुअ. त्रि० ( उत्सुक ) उत्कण्ठित Ana-  
 mous, Desirous, Eager प्रा०  
 श्रीसुक. त्रि० ( अवशुष्क ) सूखा हुआ. Dried  
 पव० २३, ७६, १, १४,  
 श्रीस्सक. पु० ( अवपक्र ) अपसर्पण, पीछे  
 हटना Retreating, going back.  
 पव० २,  
 श्रीस्साड पु० ( अवशाट ) नाश, विनाश  
 Destruction, Ruin. सण०

ओहट्ट त्रि० (अवघृष्ट) घिसा हुआ Rubbed,  
 पवम० ३७, ३,  
 ओहस्थिअ त्रि० (अपहस्तित) परित्यक्त, दूर  
 किया हुआ. Shunned, Avoided  
 मै० ३५,  
 ओहरण न० (अपहरण) उठा ले जाना, अपहार  
 Taking or carrying away,  
 Stealing उप० ६७६,  
 ओहलिय त्रि० (अवखलित) निस्तेज किया  
 हुआ, मलिन किया हुआ Made dirty or  
 foul सुर० १, १८६, सण०  
 ओहसिअ त्रि० (अपहसित) जिसका उपहास  
 किया गया हो वह Radiculed, Denied  
 गा० ६०, स० ४४८,  
 ओहाडण न० (अवघाटन) (१) ढकना A  
 cover, A lid वव० १, (२) प्रायश्चित्त  
 विशेष A kind of atonement or  
 expiation वव० १,  
 ओहाण न० (अपघान) स्थगन, ढकना  
 Concealment वव० ४,  
 ओहाण न० (अवधावन) अवक्रमण, पीछे  
 हटना Retreating निसी० चू० १६,  
 ओहावण न० (अवधावन) (१) अवसर्पण,  
 पलायन Running away वव० १, (२)  
 दीक्षा से भागना, दीक्षा को छोड़ देना वव० ३,  
 ओहावणा स्त्री० (अपभावना) तिरस्कार,  
 अनानदर Disregard, Disrespect उप०

१२६ टी, स० ४१०,  
 ओहावणा स्त्री० (अपहापना) लाचव, लघुता  
 Smallness, Littleness जय० २६,  
 ओहाविअ त्रि० (अवधावित) पलायित,  
 अपसृत Run away, Escaped.  
 दस० चू० १, २,  
 ओहाविअ त्रि० (अवभावित) (१) तिरस्कृत.  
 Disdained, Disrespected सु० च०  
 २२४, (२) ग्लान, ग्लानि-प्राप्त Weary,  
 Languid. वव० ८,  
 ओहास पु० (उपहास) हासी, हास्य Rid-  
 iculed, Derision प्राप्र० मै० ४३,  
 ओहासण न० (अवभाषण) याचना, माँग;  
 विशिष्ट भिक्षा Begging आव० ४,  
 ओहिअ त्रि० (अवतीर्ण) उतरा हुआ Des-  
 cended, Alighted कुमा०  
 ओहिएण त्रि० (अपभिन्न) रोका हुआ, अट-  
 काया हुआ Impeded, Obstructed  
 से० १३, २४,  
 ओहीअन त्रि० (अवहीयमान) क्रमशः कम  
 होता हुआ Gradually lessening से०  
 १२, ४२,  
 ओहीण त्रि० (अवहीन) पीछे रहा हुआ.  
 Remained back अभि० २६, (२)  
 अपगत, गुजरा हुआ Passed से० १२, ६७,  
 ओह्य त्रि० (अवधूत) उल्लिखित Trans-  
 gressed बृह० १,

क

क पु० (क) (१) प्राकृत वर्ण माला का प्रथम  
 व्यञ्जनाक्षर The first consonant-  
 letter of the Prakṛita alphabets  
 प्राप० प्रामा० (२) न० किण्वु पाप का स्वी-  
 कार Confession (of sins) आवम०  
 (३) पानी, जल Water स० ६११, (४)  
 सुख Happiness सुर० १६, २५,

कइ अ० (कदा) कब, किस समय When;  
 At what time गा० ८०३,  
 कइ अ० (कवचित्) कहीं, किसी जगह में.  
 In some places दस० चू० २, १४,  
 कइ पु० (कपि) बन्दर, वानर A monkey  
 पाश०  
 कइआ अ० (कदा) कब, किस समय When,



At what time गा० १३८, कुमा०  
कईद पु० ( कवीन्द्र ) श्रेष्ठ कवि. A great  
poet. गउड०

कइकच्छु स्त्री० ( कपिकच्छु ) वृक्ष-विशेष,  
केवाच Name of a plant गा० ५३२,  
कइगई स्त्री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक  
रानी One of the three wives of  
king Dasariatha पउम० ६५, २१,  
कइरथ पु० ( कपिरथ ) (१) वृक्ष विशेष, कैथका  
पेड़. The wood-apple tree (२) फल  
विशेष, कैथ The fruit of the above  
tree गा० ६४१,

कइद्वीव. पु० ( कविद्वीप ) द्वीप विशेष Name  
of an island पउम० ५५, १६,

कइद्वय पु० ( कपिद्वय ) (१) वानर-द्वीप के  
एक राजा का नाम Name of a king of  
Vanai dvip. पउम० ६, ८३, (२) अजुन.  
Name of Ajuna हे० २, ६०,

कइम त्रि० ( कतम ) बहुत में से कौनसा ?  
Who or which of many ? हे० १,  
४८, गा० ११६,

कइरव. न० ( कैरव ) कमल, कुमुद The  
white lotus opening at moon-  
rise. हे० १, १५२,

कइरविणी स्त्री० ( कैरविणी ) कुमुदिनी, कमलिनी  
A lotus plant bearing white  
lotuses कुमा०

कइलाससय. पु० ( कैलाशशय ) महादेव, शिव.  
An epithet of Mahadeo कुमा०

कइलासा. स्त्री० ( कैलाशा ) देव-विशेष की एक  
राजधानी A capital of a particular  
god जीव० ३,

कईस पु० ( कवीश ) श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि  
A great poet पिंग०

कईसर पु० ( कवीधर ) उत्तम कवि A great  
poet पिंग०

कउ पु० ( कतु ) यज्ञ A sacrifice कपू०  
कउच्छेअय. पु० ( कौचेयक ) पेट पर बधी हुई  
तलवार. A sword, A scimitar हे०  
१, १६२, पडू०

कउरअव पु० ( कौरव ) (१) कुरु देश का  
राजा. A ruler of the Kurus (२)  
पु० स्त्री० कुरु वंश में उत्पन्न Born in  
the Kuru family (३) कुरु ( देश या  
वंश ) से संबन्ध रखने वाला Relating to  
the Kurus (४) कुरु देश में उत्पन्न  
Born in Kuru county प्राप्र० नाट०  
हे० १, १६२,

कउल. न० ( कौल ) (१) तान्त्रिक मत का  
प्रवर्तक ग्रन्थ, कौलोपनिषद् वगैरे The doc-  
trine of Tantias, Kaulopnishad  
etc (२) शक्तिका उपासक A worship-  
per of शक्ति (३) तान्त्रिक मत को जानने  
वाला. Well-versed in Tanti  
doctrines (४) तान्त्रिक मत का अनुयायी.  
A follower of this doctrine (५)  
देवता-विशेष. A kind of gods गउड०

कउसल न० ( कौशल ) कुशलता, दक्षता,  
होशियारी Skilfulness, Cleverness  
हे० १, १६२, प्राप्र०

कउह पु० न० ( ककुद ) (१) सफेद छत्र वगैरे  
राज चिह्न. Any ensign or symbol of  
royalty (२) पर्वत का अग्रभाग, टोंच  
A summit or peak हे० १, २२५,

कउहा स्त्री० ( ककुम् ) (१) दिशा. A direc-  
tion कुमा० (२) शोभा, कान्ति Splen-  
dour, Beauty (३) चम्पा के पुष्पों  
की माला A wreath of Champaka  
flowers. (४) इस नाम की एक रागियी.  
A kind of music (५) शास्त्र. A  
sacred treatise or Sastra (६)  
विकीर्ण केस Scattered hair हे० १, २१;

कण-कणण-ण, अ० (कृते) वास्ते, निमित्त, लिए  
 For, For the sake of कुम्मा० १५,  
 कुमा० गा० ४७३, ५२५,  
 कणल्ल. त्रि० (कृत) किया हुआ Done. सुख०  
 २, १५,  
 कओरह त्रि० (कदुप्या) थोडा गरम Tepid,  
 Lukewarm. धर्मवि० ११२,  
 क अ० (कम्) उदक, जल Water तदु० ५३,  
 ककइ पु० (ककृति) वृक्ष-विशेष, नागबला  
 नामक औषधि Name of a medical  
 plant वप० १०३१ टी,  
 ककडुअ पु० (काकडुक) दुर्मेध माप, उरद की  
 एक जाति, जो कमी पकता ही नहीं, "ककडुओ  
 विवमासो" वव० ३,  
 ककति पु० (ककृति) ग्राम-विशेष Name  
 of a village. राज०  
 ककतिज्ज पु० स्त्री० (काकृतीय) माघराज  
 वंश में उत्पन्न. Born in the Magharaj  
 family. राज०  
 ककलास पु० (ककलास) कर्कोट, साप की  
 एक जाति, A lizard, A chameleon.  
 पाअ०  
 ककलोह पु० न० (ककलोह) एक प्रकार का  
 लोहा A kind of iron सु० च० २०७,  
 ककाल न० (ककाल) चमडी और मांस रहित  
 अस्थि-पंजर. A skeleton आ० १६,  
 वजा० २०,  
 ककोड न० (ककोट) (१) वनस्पति-विशेष,  
 ककरैल A kind of vegetable पाअ०  
 (२) पु० एक नागराज Name of the  
 principal cobra साप की एक जाति  
 A kind of serpent हे० १, २६, पड०  
 कखिर त्रि० (काडिचतृ) चाहने वाला, अभि-  
 लापी. Desirous, wishing for. गा०  
 २५, सु० च० २३७,  
 कचण पु० न० (काचन) (१) एक देव-विमान

Name of a celestial car देवेन्द्र०  
 १३१, सोने का, सुवर्ण का Golden.  
 वजा० १५८, —पह, न० (प्रभ) (१) रत्न  
 विशेष A kind of jewel (२) त्रि० रत्न  
 विशेष का बना हुआ Made of jewels  
 देवेन्द्र० २६६,  
 कचणार पु० (कञ्चनार) वृक्ष विशेष The  
 kovidara tree पडम, ५३, ७६, कुमा०  
 कचि-ची स्त्री० (कञ्चि-ञ्ची) (१) स्वनाम स्थात  
 एक देश Name of a country कुमा०  
 कटि-मेखला, कमर का आभूषण A waist-  
 band or girdle. पाअ० एक नगर विशेष  
 Name of an ancient city सुपा०  
 ४०६,  
 कचीरय न० (काञ्चीरत) सुरत-विशेष A  
 kind of sexual-union. वजा० १०८,  
 कचुअ पु० (कञ्चुक) (१) वृक्ष विशेष A  
 kind of tree हे० १, २५-३०, (२) उच्च,  
 कपडा. A garment पडम० ३४, १५,  
 कचुइ पु० (कञ्चुकिन्) (१) यव, जव  
 Barley (२) चणक, चना Gram (३)  
 जुआरि A gambler (४) जिसने कवच  
 धारण किया हो वह Furnished with  
 armour or mail. हे० ४, २६३,  
 कचइज्जत. त्रि० (कञ्चुकायमान) कञ्चुक की  
 तरह आचरण करना सुपा० १८१,  
 कचुलिआ. स्त्री० (कञ्चुलिका) कचली, चोली.  
 A bodice कप्पू०  
 कजिअ न० (काञ्जिक) काञ्जिक Soul  
 Guel सुर० ३, १३३, कप्पू०  
 कंटअत त्रि० (कण्टकायमान) कण्टक जैसा,  
 कण्टक की तरह आचरता. Like a thorn.  
 से० ६, २४, (२) पुलकित होता अचु० ५८,  
 कटइअ. त्रि० (कण्टकित) (१) कण्टक वाला,  
 Thorny स० १, ३२, (२) रोमाञ्चित,  
 पुलकित. Having the hair of the

holly erect. वृक्षां पात्र०  
 फंटेम य. पु० (कण्टक) (१) शोमान्त्र, पुत्रक  
 Horripilation, Erection of hair  
 गा० ११, (२) उपनिष शान्त प्रसिद्ध एक  
 वृषभ (In astro) Name of an  
 inauspicious conjunction ( of  
 planet ) गा० १३,  
 फंटेम पि० (कण्टक) (१) कण्टक वाला,  
 वनस्पति Thorny (२) पु० वृष विरोध  
 A kind of tree उप० १०३१ टी,  
 फंटेम्या. गी० (कण्टक) वास्तवि मिश्रेण. A  
 kind of vegetation वृ० १, धायाचू०  
 १।  
 फंटे. पि० (कण्टक) (१) कण्ट के रूपन  
 Being of the throat सरन, सुगम.  
 काय निर्मा० चू० १५,  
 फंटमाल. पु० गी० (कण्टमाल) रोग-विशेष  
 A kind of disease. कुम० ५०१,  
 फंटय. पु० (कण्टक) स्वनाम-ख्यात एक चोर  
 नायक. Name of a leader of thieves  
 मरा०  
 फण्टाल पि० ( कण्टक ) बड़ा गला वाला  
 Having a big throat धर्मवि० १०१,  
 फण्टीरव. पु० (कण्टीरव) सिंह, शार्दूल A  
 lion प्रयी० २१,  
 फण्ट पु० न० ( कण्ट ) (१) दण्ड, लाठी  
 A stick, A staff (२) निन्दित समुदाय.  
 A conspired multitude (३) पानी,  
 जल Water (४) पर्व Any division  
 of a work such as a chapter of a  
 book (५) वृक्षक स्तम्भ The trunk or  
 stem of a tree (६) वृक्ष की शाखा A  
 branch of a tree (७) गुच्छ, स्तम्भक A  
 cluster, A bunch. (८) घरव, घोडा  
 A horse (९) पृष्ठ भाग की लम्बी हड्डी  
 A spinal cord (१०) सुशामद Flat-

tery. (११) श्लाघा, प्रथमा Praise  
 (१२) गुणता, प्रवृत्तता, Concentration  
 (१३) एकान्त. A solitary place (४)  
 निर्जन. A desert or solitude १०५  
 ३०, (१५) अवसर, प्रस्ताव Opportunity  
 Occasion गा० ६६३, (१६) अनुसंधान  
 शयनपातवा भाग A kind of measure  
 प्र० ०६० टी,  
 फण्टच्छुरिय. पु० ( कण्टच्छुरिक ) (१) एक  
 नाम का एक ग्राम Name of a village  
 (२) एक ग्राम नायक A chief of a vil-  
 lage. व० ०,  
 फंडण न० ( कण्टन ) ब्रीहि वगैर को साफ  
 करना, तुप-पृथक्करण Threshing, Sepa-  
 rating the chaff from the grain  
 आ० २०,  
 कडलि-कडलिआ खी० ( कण्टिका ) कण्ट,  
 गुफा. A cave, A hollow पि० ३३३,  
 कडुआ पु० (कण्टुक) गेंद A ball रज०  
 कडुजुय त्रि० (कण्टुजु) बाण की तरह सीधा  
 Straight like an arrow स० ३१७,  
 गा० ३१३,  
 कडुय पु० (कान्दिक) हज्जबार्ह, मिठाई बेचने  
 वाला A confessional, A baker.  
 "कडुय कडुयस" श्रावण०  
 कडुय पु० (कण्टुय) स्वनाम ख्यात एक राजा,  
 जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी  
 दोहा ली थी Name of King who was  
 initiated with Rama's brother  
 Bharat पञ्ज० ८२६, ६,  
 कडूल त्रि० (कण्टूल) खान वाला, कण्ट-पुत्र.  
 Having an itchy sensation,  
 Itchy कुमा०  
 कत पु० (कान्त) पति, स्वामी A husband.  
 पात्र०  
 कत. त्रि० (कान्त) गल, गुजर हुआ.

Passed, Gone. प्राप०  
 कंता स्त्री० (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी  
 का नाम Name of Ravan's wife  
 पउम० ७४, ११, (२) एक योग दृष्टि राज०  
 कतार, त्रि० (कान्तार) (१) दुष्ट, दूषित  
 Wicked, Vicious (२) निराश्रय  
 Without shelter or refuge (३)  
 पागल Mad कप्पू०  
 कति. स्त्री० (कान्ति) (१) इस नाम की  
 रावण की एक पत्नी Name of Ravan's  
 queen पउम० ७४, ११, (२) इच्छा  
 Desire, Wish (३) चन्द्र की एक कला  
 One of the sixteen digits of the  
 moon राज० विक० १०७,  
 कति स्त्री० (क्रान्ति) (१) परिवर्तन, फेरफार.  
 Change (२) गमन, गति Young,  
 Proceeding नाट, विद्म० ६०,  
 कथा स्त्री० (कन्था) कथड़ी, गुदड़ी A  
 patched garment, A wallet हे०  
 १, १८७,  
 कथार पु० (कन्थार) वृक्ष विशेष Name  
 of a tree उप० २२० टी,  
 कंथारिया-कथारी. स्त्री० (कन्थारिका री)  
 वृक्ष विशेष A kind of tree उप०  
 १०-३१ टी,  
 कथेर पु० (कन्थेर) वृक्ष विशेष Name  
 of a tree, राज०  
 कंथेरी स्त्री० (कन्थेरी) कण्टकमय वृक्ष  
 विशेष A kind of thorny tree  
 उर० ३, २,  
 कंद पु० (कन्द) (१) मूल जड. A root  
 गडढ० (२) छन्द-विशेष Name of a  
 metre पिंग०  
 कद पु० (स्कन्द) स्वामी कर्तिकेय, पद्मानन  
 Name of Kartikeya कुमा० हे० २,  
 २, पद०

कदपि त्रि० (कन्दर्पिन्) कामोद्दीपक, कन्दर्प  
 का उत्तेजक Exciting or stimulating  
 desire of sensual enjoyment  
 वव० १,  
 कदलित्र-कदलिल्ल. त्रि० (कन्दलित) शकुरित  
 Spouted कुमा० पि० १६१,  
 कदविय. पु० (कान्दविक) हलवाई, मिठाई  
 बेचनेवाला. A confectioner, A baker  
 उप० २११ टी,  
 कदिर त्रि० (कन्दिर) कौटने वाला. Weep-  
 ing, Shedding tears भवि०  
 कदुअ पु० (कन्दुक) गेंद A ball. पात्र०  
 स्वप्न० ३६, मै० ६१,  
 कंधरा स्त्री० (कन्धरा) ग्रीवा, गरदन The  
 neck पात्र० सुर० ४, १६६, गण० ६,  
 कपि. त्रि० (कम्पिन्) कापने वाला Trem-  
 bling, Shaking कप्पू०  
 कपिअ त्रि० (कम्पित) कापा हुआ. Trem-  
 bled, Shaken कुमा०  
 कपिर त्रि० (कम्पितृ) कापने वाला Trem-  
 bling सु० च० ११८,  
 कपिल्ल त्रि० (कम्पवत्) कापने वाला Shak-  
 ing उप० ६ टी,  
 कव त्रि० (कन्न) (१) कामुक, कामी Lust-  
 ful, Libidinous (२) सुन्दर, मनोहर  
 Lovely, Beautiful पि० २६६,  
 कंवा स्त्री० (कन्वा) यष्टि, लकड़ी A stick,  
 A staff सु० च० ३६६,  
 कविची स्त्री० (कम्बि-म्बी) (१) दर्वी, कडछी  
 A ladle or spoon (२) लीला यष्टि,  
 छड़ी, शोक से हाथ में रखी जाती लकड़ी. A  
 stick उप० पू० २३७,  
 कडु पु० (कन्दु) (१) इस नाम का एक द्वीप  
 Name of an island पउम० ४२,  
 ३२, (२) पर्वत विशेष Name of a  
 mountain पउम० ४२, ३२,

body elect कुमा० पात्र०

कंटग-य पु० (कण्टक) (१) रोमान्च, पुलक  
Hormulation, Erection of han  
गा० ६७, (२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक  
कुयोग. (In astio) Name of an  
inauspicious conjunction ( of  
planets ) गण० १६,

कटिय त्रि० (कण्टिक) (१) कण्टक चाला,  
कण्टकयुक्त Thorny (२) पु० वृक्ष विशेष  
A kind of tree उप० १०३१ टी,  
कटिया स्त्री० (कण्टिका) वनस्पति-विशेष A  
kind of vegetation वृह० १, आयाचू०  
१,

कठ त्रि० (कण्ठय) (१) कण्ठ से उत्पन्न  
Being of the throat सरस, सुगम.  
Easy निसी० चू० १२,

कठमाल. पु० स्त्री० (कण्ठमाल) रोग-विशेष  
A kind of disease. कुम्भ० ४७१,

कठय पु० (कण्ठक) स्वनाम-ख्यात एक चोर  
नायक Name of a leader of thieves  
महा०

कंठाल त्रि० ( कण्ठवत् ) बड़ा गला वाला  
Having a big throat धर्मवि० १०१,

कठीरव पु० (कण्ठीरव) सिंह, शार्दूल A  
lion प्रयौ० २१,

कड पु० न० (कारड) (१) दण्ड, लाठी  
A stick, A staff (२) निन्दित समुदाय,  
A censured multitude (३) पानी,  
जल Water (४) पर्व Any division  
of a work such as a chapter of a  
book (५) वृक्षका स्तम्भ The trunk or  
stem of a tree (६) वृक्ष की शाखा A  
branch of a tree (७) गुच्छ, स्तम्भक A  
cluster, A bunch. (८) अरव, घोडा  
A horse (९) पृष्ठ भाग की लम्बी हड्डी  
A spinal cord (१०) खुशामद Flat-

tely (११) श्लाघा, प्रशंसा Praise  
(१२) गुप्तता, प्रच्छन्नता Concealment-  
(१३) एकान्त A solitary place (१४)  
निर्जन A desert or solitude हे० १,  
३०, (१५) अवसर, प्रस्ताव Opportunity,  
(Occasion गा० ६६३, (१६) अगुल का  
असख्यातवा भाग A kind of measure.  
प्रव० २६० टी,

कडच्छारिय. पु० ( काण्डच्छारिक ) (१) इस  
नाम का एक ग्राम Name of a village.  
(२) एक ग्राम नायक A chief of a vil-  
lage वव० ७,

कडण न० ( कण्डन ) व्रीहि वर्गै को साफ  
करना, तुप-पृथक्करण Threshing, Sepa-  
rating the chaff from the grain  
आ० २०,

कडलि-कडलिआ स्त्री० ( कन्दरिका ) कन्दरा,  
गुफा. A cave, A hollow पि० ३३३,  
कडुअ पु० (कन्दुक) गेंद A ball राज०  
कडुजुय त्रि० (काण्डजु) बाण की तरह सीधा.  
Straight like an arrow स० ३१७,  
गा० ३२२,

कडुय पु० (कान्दविक) हलवाई, मिठाई बेचने  
वाला A confectioner, A baker.  
“कश्चो कडुयस” श्रावम०

कडुरु पु० (कण्डुरु) स्वनाम ख्यात एक राजा,  
जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी  
दीक्षा ली थी Name of King who was  
initiated with Rama's brother  
Bharat पवम० ८२, ४,

कडूल. त्रि० (कण्डूल) खाज वाला, कण्डू-युक्त,  
Having an itchy sensation,  
Itchy कुमा०

कत पु० (कान्त) पति, स्वामी A husband-  
पाम०

कत. त्रि० ( कान्त ) गत, गुजरा हुआ.

Passed, Gone. प्राप०

कंता स्त्री० (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी का नाम Name of Ravan's wife पदम० ७४, ११, (२) एक योग दृष्टि राज० कंतार. त्रि० (कान्तार) (१) दुष्ट, दूषित Wicked, Vicious (२) निराश्रय Without shelter or refuge (३) पागल. Mad कम्प०

कान्ति. स्त्री० (कान्ति) (१) इस नाम की रावण की एक पत्नी Name of Ravan's queen पदम० ७४, ११, (२) इच्छा Desire, Wish (३) चन्द्र की एक कला One of the sixteen digits of the moon राज० विक० १०७,

कान्ति स्त्री० (कान्ति) (१) परिवर्तन, फेरफार. Change (२) गमन, गति Young, Proceeding नाट. विद्म० १०,

कथा स्त्री० (कथा) कथड़ी, गुदड़ी A patched garment, A wallet हे० १, १८७,

कथार पु० (कन्थार) वृक्ष विशेष Name of a tree उप० २२० टी,

कन्थारिया-कथारी. स्त्री० (कन्थारिका री) वृक्ष विशेष A kind of tree उप० १०-३१ टी,

कन्थेर पु० (कन्थेर) वृक्ष विशेष Name of a tree, राज०

कन्थेरी स्त्री० (कन्थेरी) कण्टकमय वृक्ष विशेष. A kind of thorny tree उर० ३, २,

कन्द पु० (कन्द) (१) मूल जड A root गडड० (२) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

कन्द पु० (स्कन्द) स्वामी कार्तिकेय, पडानन Name of Kartikeya कुमा० हे० २, २, पद०

कन्दपि त्रि० (कन्दपिन्) कामोद्दीपक, कन्दर्प का उत्तेजक Exciting or stimulating desire of sensual enjoyment वव० १,

कन्दलित्र-कदलिल्ल. त्रि० (कन्दलित) अकुरित Sprouted कुमा० पि० २१६,

कदविय. पु० (कन्दविक) हलवाई, मिठाई बेचनेवाला. A confectioner, A baker उप० २११ टी,

कदिर त्रि० (कन्दिर) कौदने वाला. Weeping, Shedding tears भवि०

कदुअ पु० (कन्दुक) गेंद A ball. पाय० स्वप्न० ३६, मै० ६१,

कधरा स्त्री० (कन्धरा) ग्रीवा, गरदन The neck पात्र० सुर० ४, १६६, गण० ६,

कपि. त्रि० (कम्पिन्) कापने वाला Trembling, Shaking कम्प०

कपिअ त्रि० (कम्पित) कापा हुआ. Trembled, Shaken कुमा०

कपिर त्रि० (कम्पितृ) कापने वाला Trembling सु० च० १६८,

कपिल्ल त्रि० (कम्पवत्) कापने वाला Shaking उप० ६ टी,

कव त्रि० (कम्प) (१) कामुक, कामी Lustful, Libidinous (२) सुन्दर, मनोहर Lovely, Beautiful पि० २१६,

कवा स्त्री० (कम्बा) यष्टि, लकड़ी A stick, A staff सु० च० ३१६,

कविची स्त्री० (कम्बि-म्बी) (१) दवाँ, कडछी A ladle or spoon (२) लीला यष्टि, छड़ी, शोख से हाथ में रखी जाती लकड़ी A stick उप० पृ० २३७,

कबु पु० (कम्बु) (१) इस नाम का एक द्वीप Name of an island पदम० ४२, ३२, (२) पर्वत विशेष Name of a mountain पदम० ४२, ३२,

कंभार, पु० व० ( कश्मीर ) इस नाम का एक प्रसिद्ध देश Name of a country. हे० २, ६८, पङ्० — जम्मू न० (जन्मन्) कुङ्कुम, केसर. Saffron कुमा०

कंस न० (कास्य) (१) वाद्य-विशेष. A kind of musical instrument (२) परिमाण-विशेष A kind of measure (३) जल पीने का पात्र, प्याला A drinking vessel (of brass) हे० १, २६, ७०,

कसाल, पु० (कास्याल) वाद्य विशेष A kind of musical instrument हे० २, ६२, सु० च० २०;

कसालिया. स्त्री० ( कास्यतालिका ) एक प्रकार का वाद्य A cymbal सु० च० २४२,

कसिञ्ज पु० (कास्यिक) कसेरा, कसारी, कास्यिकार A brazier, A worker in bell-metal से० १, ७०,

ककधु स्त्री० ( कर्कधु ) बैर का वृक्ष The jujube tree पाञ्च०

ककड न० (कर्कट) जल जन्तु-विशेष, कुलीर A water-insect पाञ्च०

ककडच्छ पु० (कर्कटाक्ष) ककडी A sort of cucumber कप०

ककराड्य. न० ( कर्करायित ) (१) कर्कर की तरह आचरित (२) दोषोच्चारण, दोष प्रकटन आच० ४,

ककसेण पु० ( कर्कसेन ) अतीत उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुलकर पुरुष Name of a Kulkaḥ boin in the last Utsarpini राज०

ककालुआ स्त्री० ( कर्करुका ) कृष्णाण्ड-वल्ली, कोहला का गाछ A creeper of the pumpkin gourd मृच्छ० २६,

ककि पु० ( कल्किन् ) भविष्य में होने वाला पाटलीपुत्र का एक राजा Name of a king of Pathliputra in future ती०

ककरेञ्ज पु० ( कर्करेक ) मयि विशेष की एक जाति A kind of precious stone मृच्छ० २०२,

कच्च न० ( काच ) काच, शीशा. Glass, Crystal कपू०

कच्चाइणी स्त्री० (काल्यायनी) देवी-विशेष, चण्डी.

Name of Parvati से० ४३७,

कच्चायणी. स्त्री० (काल्यायनी) पार्वती, गौरी.

Name of Parvati पाञ्च०

कच्चि अ० ( कच्चित् ) (१) प्रश्न Intelligation (२) मंगल Auspiciousness

(३) अभिलाष Desire (४) हर्ष Joy

पि० २७१, हे० २, २१७, २१८,

कच्चूर पु० ( कच्चूर ) वनस्पति-विशेष, कच्चूर,

काली हलदी A kind of fragrant

tree आ० २०,

कच्छ पु० ( कच ) (१) तृण, घास Grass

(२) वल्ली, लता A creeper (३) शुष्क

काष्ठों वाला जंगल. A forest of dead

trees, A drywood (४) जनानखाना

The harem of a king (५) हाथी को

बाँधने की डोर An elephant's rope

(६) पार्श्व, बाजू. The side of flank

(७) ग्रह-भ्रमण Moving of planets.

(८) कच्चा, श्रेणी A line (९) द्वार, दरवाजा.

A door (१०) वनस्पति विशेष, गूगल A

kind of vegetation (११) विभीतक

वृक्ष A kind of tree (१२) घर की

भीत A wall of a house (१३) स्पर्धा

का स्थान Emulation or rivalry

(१४) जल-प्राय देश A marshy ground

हे० २, १७,

कच्छ पु० व० ( कच्छ ) (१) कच्छ नाम का देश

Name of a country पउम० ६८, ६४,

( २ ) छन्द विशेष, दोधक छन्द का एक भेद

Name of a metre पिंग० (३) इड

वगैरह की वाटिका. A forest of sugarcanes (२) भगवान ऋषभदेव का एक पुत्र Name of a son of Lord Rishabhadeo आवम० (२) कच्छ विजय का एक राजा. Name of a king of Kachchha Vijaya

कच्छा स्त्री० (कत्ता) (१) विभाग, अंश A part or portion पउम० १६, ७०, (२) कमर पर बाधने का वस्त्र A cloth girt round the loins गा० ६८४, (३) शशय-कोटि Suspicion, A doubt (४) स्पर्धा स्थान Emulation or rivalry (५) घर की भौत A wall of a house (६) प्रकोट, The room near the gate of a palace हे० २, १७,

कच्छा स्त्री० (कच्छा) कटि-मेखला, कमर का आभूषण An ornament of the waist पाश०

कच्छु स्त्री० (कच्छु) (१) खुजली, खान, रोग-विशेष Scab, Itch प्रासु० २८,

कच्छुरिअ. त्रि० (कच्छुरित) व्याप्त, खचित Fixed, Blended कुम्मा० ६ टी,

कज्जलइअ त्रि० (कज्जलित) (१) कज्जल वाला Lamp-blackened (२) श्याम, काला Dark, Black पाश०

कज्जला. स्त्री० (कज्जला) इस नाम की एक पुष्करिणी Name of a well इक०

कज्जिय त्रि० (कार्यिक) कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी Seeking to gain one's object or purpose वव० ३,

कट्ट. त्रि० (कृत्) काटा हुआ, क्षिन्न. Cut, Rent वप० १८०,

कट्टिअ. त्रि० (कर्त्तित) काटा हुआ, क्षेदित Cut, Rent पिंग०

कट्टु. त्रि० (कर्त्) कर्त्ता, करने वाला A doer, One who makes or per-

forms पढ०

कट्ट. न० (कट्ट) (१) पाप. A sin (२) त्रि० कट्ट-दायक, पीढा कारक. Troublesome. हे० २, ३४, ६०,

कट्ट. पु० (काष्ठ) राजगृह नगर का निवासी एक स्वनाम ख्यात श्रेष्ठी Name of a prominent person of the city Rajagriha आवम० —करण न० (करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का नाम Name of a field of a landlord called Shyamaka कप्प०

कट्टण. न० (कर्षण) आकर्षण, खींचाव. Attraction गउड०

कट्टा. स्त्री० (कट्टा) (१) हद, सीमा. Bound-ary, Limit आ० १६, (२) प्रकर्ष Excellence, Eminence

कड. त्रि० (कड) यष्टि, लकड़ी A stick वसु०

कडइअ त्रि० (कडकित) वलय की तरह स्थित. Round like a bracelet से० १२, ४१;

कडकडा स्त्री० (कडकडा) अनुकरण शब्द विशेष, कडकड आवाज A sound like kud kud स० २२७, पि० ४२८;

नाट-मालती० २६,

कडकडिअ त्रि० (कडकडित) जिसने कड-कड आवाज किया हो वह, जीर्ण Worn out. सुर० ३, १६३,

कडकडित्तर त्रि० (कडकडायित्) कड कड आवाज करने वाला Sounding like kud kud. सण०

कडकिय न० (कडकित) कडकड आवाज A sound like kud kud सिरि० ६६२,

कडकखण. न० (कटाखण) कटाच करना. Looking-side long भवि०

कडग पु० (कटक) यवनिका, परदा A curtain वप० १६६ टी,

कडया न० (कडन) मार डालना, हिंसा



Killing कुमा० (२) मर्दन. Pressing, kneading (३) नाग करना. Destruction, Havoc (४) पाप Sin. (५) युद्ध War (६) विह्वलता, आकुलता Bewilderment हे० १, २१७,  
 कडण न० (कटन) (१) घर की छत A roof of a house (२) घर पर छत डालना Roofing a house गच्छा० १,  
 कडणी स्त्री० (कटनी) मेखला. A belt, A girdle "सुरगिरिकडणि" सु० च० ६१५,  
 कडयड पु० (कडकड) कड-कड आवाज A sound like kud kud पडम० ६४, ४४,  
 कडसार न० (कटसार) मुनि का एक उपकरण, आसन. A seat of a saint विचार० १२८,  
 कडह पु० (कटभू) वृक्ष-विशेष. Name of a tree वृह० १,  
 कडार पु० (कडार) (१) वर्ण विशेष, ताम्बा वर्ण, भूरा रंग The tawny colour (२) त्रि० कपिल वर्ण वाला, भूरा रंग का, मटमैला रंग का. Tawny सु० च० ३३, ६२,  
 कडाह पु० (कटाह) वृक्ष विशेष. A kind of tree पडम० १३, ७६,  
 कडि-वट्टी स्त्री० (कटिपट्टी) कमर का पट्टा A waist-band, A belt सु० च० ३३१,  
 कडु-कडुअ पु० (कडुक) (१) परुष, निधुर Bitter, Caustic नाट-रत्ना० ६६, (२) चनस्पति-विशेष, कुटकी A kind of vegetable हे० २, १५५,  
 कडुइअ त्रि० (कडुकित) (१) कडुआ किया हुआ Made pungent (२) दूषित. Bad गडड०  
 कडेवर. न० (कलेवर) शरीर, देह A body हे० ४, ३६५,  
 कड्डणया स्त्री० (कर्पणता) आकर्षण Attraction उप० पु० २७७,  
 कड्डाविय त्रि० (कर्पित) खिंचवाया हुआ,

बाहर निकलवाया हुआ Drawn or pulled out भवि०

कडिडय. त्रि० (कृष्ट) पठित, उच्चारित Uttered स० १८२,

कटोर त्रि० (कटोर) (१) कठिन, परुष, निधुर Harsh, Hard-hearted (२) पु० इस नाम का एक राजा Name of a king पडम० ३२, २३,

कण. पु० (कण)(१) एक म्लेच्छ देश Name of a Mlechha country राज० (२) बिन्दु A drop पात्र०

कण. पु० (कण) शब्द, आवाज A sound उप० पु० १०३,

कणइअ. त्रि० (कणवत्) बिन्दु वाला Having drops पात्र०

कणइकेउ पु० (कनकिकेतु) इस नाम का एक राजा Name of a king दस०

कणइपुर न० (कनकपुर) नगर विशेष, जो महाराजा जनक के भाई कनक की राजधानी थी A capital of king Kanak brother of king Janak ती०

कणकण. पु० (कणकण) कण कण आवाज A sound like kan kan आवम०

कणकणित्र. त्रि० (कणकणित) कण-कण आवाज वाला Having a sound like 'Kan Kan' कप्प०

कणग पु० (कनक) (१) बिन्दु A drop (२) शलाका, सलाई A small stick, pin, piece (of any thing) राज० (३) विल्व वृक्ष, बेल का पेड़. A species of tree उत्तर०

कणगुत्तम. पु० (कनकोत्तम) इस नाम का एक देव Name of a god दीव०

कणमन्त्र पु० (कणमन्त्र) वैशेषिक मत का प्रवर्तक एक ऋषि A nickname given to the philosopher who pro-

pounded the Vaisesika system of philosophy राज०

कण्ठ पु० ( कनक ) ( १ ) राजा जनक के एक भाई का नाम Name of a brother of king Janak पठम० २८, १३२, ( २ ) रावण का इस नाम का एक सुभट. Name of a warrior of Ravan पठम० १६, ३२, ( ३ ) वृक्ष विशेष, धतूरा The Dhatura tree से० ६, ४८, ( ४ ) न० छन्द विशेष Name of a metie पिंग० ( ५ ) एक देव विमान Name of a celestial car देवेन्द्र० १४४,

कण्ठ पु० ( कण्ठ ) वैशेषिक मत का प्रवर्तक ऋषि. A nickname given to the philosopher who propounded the Vaisesika system of philosophy विशेष० २१६४,

कण्ठिय न० ( कण्ठित ) ( १ ) आर्तस्वर Lamentation ( २ ) आवाज, ध्वनि A sound आव० ४,

कण्ठिल्ल न० ( कनिल्य ) नक्षत्र-विशेष का गोत्र Name of a lineage इक०

कण्ठिस न० ( कण्ठिश ) सस्य-शीर्षक, धान्य का अग्रभाग An ear of corn दे० २, ६,

कण्ठीणिगा स्त्री० ( कनीनिका ) ( १ ) आँख का तारा The pupil of the eye ( २ ) छोटी उंगली The little finger राज०

कण्ठ पु० ( कण्ठ ) इस नाम का एक परित्राजक, ऋषि विशेष Name of a sage अभि० २६२,

कण्ठ पु० ( कण्ठ ) ( १ ) कोटि-भाग, अग्रगण्य. The handle of ear of a vessel ( २ ) एक म्लेच्छ जाति Name of the Mlechchha tribe मूच्छ० १४२,

कण्ठ उज्ज पु० ( कान्यकुब्ज ) ( १ ) देश विशेष, दोघाच, गंगा और यमुना नदी के बीचका देश

Name of a country situated on a tributary of the Ganges ( २ ) न० उस देश का प्रधान नगर, कनौज The capital of this country now called Kanoja ती० कण्ठ

कण्ठा स्त्री० ( कन्था ) ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक राशि The sixth sign of the zodiac i. e. Vugo, ( In Astro ). पठम० १७, ६१, कण्ठ० पि० २८२,

कण्ठाड पु० ( कण्ठाट ) ( १ ) देश-विशेष, जो आजकल कर्णाटक नाम से प्रसिद्ध है Name of a country ( २ ) त्रि० उस देश में उत्पन्न. Born in that country कण्ठ० कण्ठाण्य न० ( कन्यानय ) चोल देश का एक प्रधान नगर The capital of the Chol country ती०

कण्ठि पु० ( कण्ठि ) एक नरक-स्थान. Name of a hell-abode देवेन्द्र० २६,

कण्ठिलायण न० ( कण्ठिलायन ) इस नाम का एक गोत्र Name of a lineage इक०

कण्ठुपल न० ( कण्ठुपल ) कान का आभूषण विशेष An ear-ornament कण्ठ०

कण्ठुगण्ठि स्त्री० ( कण्ठुपकण्ठिका ) कण्ठकण्ठि, कानाकानी Rumour ( lit. from ear to ear ) दे० २, ६१,

कण्ठ पु० ( कण्ठ ) ( १ ) देशावकाशिक व्रत को अतिचरित करने वाला एक उपासक. One who fasts Deshavka 11k. सु० च० २६२, ( २ ) विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिवभूति मुनि के गुरु Name of a celebrated Jain Acharya in the third century of Vikram, preceptor of Shivbhati, propounder of the Digambar school विशेष० २४२३,

कत्त त्रि० ( कल्लुस ) निर्मित. Made, Per-

Killing कुमा० (२) मर्दन Pressing, kneading (३) नाश करना. Destruction, Havoc (४) पाप Sin (५) युद्ध War (६) विह्वलता, आकुलता Bewilderment हे० १, २१७,  
 कडण. न० (कटन) (१) घर की छत A roof of a house (२) घर पर छत डालना Roofing a house गच्छा० १,  
 कडणी स्त्री० (कटनी) मेखला A belt, A gndle "सुरगिरिकडणि" सु० च० ६१५,  
 कडण्ड पु० (कडकड) कड़-कड़ आवाज A sound like kud kud पउम० ६४, ४४,  
 कडसार न० (कटसार) मुनि का एक उपकरण, आसन. A seat of a saint विचार० १२८,  
 कडह पु० (कटभू) वृक्ष-विशेष, Name of a tree बृह० १,  
 कडार पु० (कडार) (१) वर्ण विशेष, तामडा वर्ण, भूरा रंग The tawny colour (२) त्रि० कपिल वर्ण वाला, भूरा रंग का, मतमैला रंग का. Tawny सु० च० ३३, ६२,  
 कडाह पु० (कटाह) वृक्ष विशेष, A kind of tree पउम० १३, ७६,  
 कडि-वट्टी स्त्री० (कटिपट्टी) कमर का पट्टा. A waist-band, A belt सु० च० ३३१,  
 कडु-कडुअ पु० (कटुक) (१) परुष, निष्ठुर Bitter, Caustic नाट-रत्ना० ६६, (२) वनस्पति-विशेष, कुटकी A kind of vegetable हे० २, १५५,  
 कडुइअ त्रि० (कडुकित) (१) कडुआ किया हुआ Made pungent (२) दूषित Bad गडड०  
 कडेवर. न० (कलेवर) शरीर, देह A body हे० ४, ३६५,  
 कडहणया स्त्री० (कर्पणता) आकर्षण. Attraction उप० पु० २७७,  
 कड्हाविय. त्रि० (कर्पित) खिचवाया हुआ ;

वाहर निकलवाया हुआ Drawn or pulled out भवि०  
 कडिडय. त्रि० (कड) पठित, उच्चारित Uttered स० १८२,  
 कडोर त्रि० (कडोर) (१) कठिन, परुष, निष्ठुर. Haish, Hard-hearted (२) पु० इस नाम का एक राजा Name of a king. पउम० ३२, २३,  
 कण. पु० (कण)(१) एक म्लेच्छ देश Name of a Mlechha county राज० (२) विन्दु A drop पाअ०  
 कण. पु० (कण) शब्द, आवाज A sound उप० पु० १०३,  
 कणइअ. त्रि० (कणवत्) विन्दु वाला Having drops पाअ०  
 कणइकेउ पु० (कनकिकेउ) इस नाम का एक राजा. Name of a king दस०  
 कणइपुर न० (कनकपुर) नगर विशेष, जो महाराजा जनक के भाई कनक की राजधानी थी A capital of king Kanak brother of king Janak ती०  
 कणकण. पु० (कणकण) कण कण आवाज A sound like kan kan आचम०  
 कणकणिअ. त्रि० (कणकणवणित) कण-कण आवाज वाला Having a sound like 'Kan Kan' कप्प०  
 कणग पु० (कनक) (१) विन्दु A drop (२) शलाका, सलाई A small stick, pin, piece (of any thing) राज० (३) विल्व वृक्ष, बेल का पेड. A species of tree उत्तर०  
 कणगुत्तम. पु० (कनकोत्तम) इस नाम का एक देव Name of a god दीव०  
 कणभक्व पु० (कणभक्व) वैशेषिक मत का प्रवर्तक एक ऋषि A nickname given to the philosopher who pro-

pounded the Vaisheshika system of philosophy राज०

कण्य पु० ( कनक ) (१) राजा जनक के एक भाई का नाम Name of a brother of king Janak पदम० २८, १३२, ( २ ) रावण का इस नाम का एक सुभट Name of a warrior of Ravan पदम० ५६, ३२, (३) वृक्ष विशेष, धतूरा The Dhatura tree से० ६, ४८, ( ४ ) न० छन्द विशेष Name of a metre पिंग० (५) एक देव विमान Name of a celestial car देवेन्द्र० १४४,

कण्यद. पु० ( कण्यद ) वैशेषिक मत का प्रवर्तक ऋषि. A nickname given to the philosopher who propounded the Vaisheshika system of philosophy विशेष० २१६४,

कण्यि न० ( कणित ) ( १ ) आर्तस्वर Lamentation (२) आवाज, ध्वनि A sound आव० ४,

कण्यिज्ञ. न० ( कनित्य ) नक्षत्र-विशेष का गोत्र Name of a lineage इक०

कण्यिस न० ( कणित्स ) सस्य-शीर्षक, धान्य का अग्रभाग An ear of corn दे० २, ६,

कणीशिगा स्त्री० ( कनीनिका ) (१) शिख का तार The pupil of the eye ( २ ) छोटी उगली. The little finger राज०

कण्य पु० ( कण्य ) इस नाम का एक परि-त्राजक, ऋषि विशेष Name of a sage अभि० २६२,

कण्य पु० ( कर्ण ) (१) कोटि-भाग, अग्रग्रह. The handle or ear of a vessel ( २ ) एक म्लेच्छ जाति Name of the Mlechchha tribe मृच्छ० १५२,

कण्यउज्ज पु० ( कान्यकुब्ज ) (१) देश विशेष, दोआब, गंगा और यमुना नदी के बीचका देश

Name of a country situated on a tributary of the Ganges ( २ ) न० इस देश का प्रधान नगर, कनौज The capital of this country now called Kanoja ती० कपू०

कण्य। स्त्री० ( कन्या ) ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक राशि The sixth sign of the zodiac i e Virgo, (In Astro), पदम० १७, ६१, कपू० पि० २८२,

कण्य।ड पु० ( कर्णाट ) (१) देश-विशेष, जो आजकल कर्णाटक नाम से प्रसिद्ध है Name of a country ( २ ) त्रि० उस देश में उत्पन्न. Born in that country कपू० कण्य।ण्य न० ( कन्यानय ) चोल देश का एक प्रधान नगर The capital of the Chol country ती०

कण्य। पु० ( कर्ण ) एक नरक-स्थान, Name of a hell-abode देवेन्द्र० २६,

कण्य।लायण न० ( कर्णिलायन ) इस नाम का एक गोत्र Name of a lineage इक०

कण्य।पल. न० ( कर्णोत्पल ) कान का आभूषण विशेष An ear-ornament कपू०

कण्य।वगण्य। स्त्री० ( कर्णोपकर्णिका ) कर्णाकर्णी, कानाकानी Rumour ( lit, from ear to ear ) दे० २, ६१,

कण्य पु० ( कृष्ण ) (१) देशावकाशिक व्रत को अतिचरित करने वाला एक उपासक. One who fasts Deshavkanik. सु० च० १५२, (२) विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिव-भूति मुनि के गुरु Name of a celebrated Jain Acharya in the third century of Vikram, preceptor of Shivbhati, propounder of the Digambar school विशेष० २५५३,

कत्त त्रि० ( क्लृप्त ) निर्मित. Made, Per-

formed सच्चि० ४०,  
 कत्तरिञ्ज. त्रि० ( कर्त्तित ) कतरा हुआ, काटा  
 हुआ Cut सु० च० २४६,  
 कत्तरी, स्त्री० ( कर्त्तरी ) कतरनी, कैंची Scis-  
 sors कप्प०  
 कत्तव्य त्रि० ( कर्त्तव्य ) ( १ ) करने योग्य What  
 is fit or ought to be done स० १७२,  
 ( २ ) न० कार्य, काज, काम A work, A  
 duty श्रा० ६,  
 कत्तिकेञ्ज. पु० ( कार्तिकेय ) महादेव का एक  
 पुत्र, पदानन Name of Mahadeo's  
 son दे० ३, २,  
 कत्तिम त्रि०, कृत्रिम) वनावटी, कृत्रिम Arti-  
 ficial, Fictitious. सु० च० ८३,  
 कत्थ. अ० ( कुत ) कहा से From where,  
 Whence पङ्०  
 कत्थ त्रि० ( कथ्य ) वनस्पति विशेष A kind  
 of vegetation राज०  
 कत्थूरी, स्त्री० ( कस्तुरी ) हरिय के नाभि में  
 उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु Musk सु०  
 च० २४७,  
 कटुसायु. त्रि० ( कटुष्ण ) थोडा गरम Tepid,  
 Lukewarm प्रा० १०२,  
 कट्टमाल त्रि० ( कर्दमाल ) कीचड वाला  
 Muddy, Dirty सूयनि० १६१,  
 कट्टमिञ्ज त्रि० ( कर्दमित ) पङ्क युक्त, कीच  
 वाला Turbid, Muddy से० ७, २०, गडड०  
 कन्नस त्रि० ( कनीयस् ) कनिष्ठ, जघन्य,  
 Smaller, Less प्रब० १२७  
 कन्हसह न० ( कर्णसह ) जैन साधुओं के एक  
 कुल का नाम Name of a group of  
 Jain saints कप्प०  
 कप्प त्रि० ( कल्प्य ) ग्रहण योग्य Worthy  
 to be taken or accepted पचा० १२,  
 कप्प पु० ( कल्प ) ( १ ) काल-विशेष, देवों के दो  
 हजार युग परिमित समय A particular

measure of time अच्यु० १८, कुमा०  
 ( २ ) शस्त्र विशेष A kind of weapon  
 पउम० ६, ७३, ( ३ ) अधिवास, स्थान  
 A place बृह० १, ( ४ ) राजा नन्द का एक  
 मंत्री. Name of a minister of king  
 Nandairaja राज० ( ५ ) प्रचालन  
 Washing, Cleansing ( with  
 water ) पिंड० २६६, २७१, ३०५, गच्छु०  
 २, ३२, — धर त्रि० ( धर ) कल्प तथा  
 व्यवहार सूत्र का जानकार Wellversed  
 in Kalpa Sutra and Vyavahar  
 Sutra वव० १,  
 कप्पत पु० ( कल्पान्त ) प्रलय काल, सहर  
 समय. End of the world, Univer-  
 sal destruction कप्प०  
 कप्पट्टिया स्त्री० ( कल्पस्थिका ) लडकी, बालिका  
 A girl वव० ४,  
 कप्पट्टी स्त्री० ( कल्पस्था ) ( १ ) बालिका,  
 लडकी A girl, वव० ६, ( २ ) कुलाङ्गना,  
 कुलवधू A respectable or high-  
 born (chaste) woman. वव० ३,  
 कप्पणा स्त्री ( कल्पना ) ( १ ) रचना, निर्माण  
 Making, Forming ( २ ) प्ररूपण,  
 निरूपण निसी० नू० १,  
 कप्पर. पु० ( कर्पर ) खप्पर, कपाल, सिर की  
 खोपडी, The skull बृह० ४, नाट०  
 कप्पसुत्त. न० ( कल्पसूत्र ) श्री भद्रबाहु स्वामी  
 विरचित एक जैन ग्रन्थ. Name of a vol-  
 ume of Jainism composed by  
 Shree Bhdrabahu Swami कप्प०  
 कप्पिय त्रि० ( कल्पिक ) ( १ ) योग्य, उचित,  
 Fit; Proper वव० ८, ( २ ) गीतार्थ,  
 ज्ञानी साधु A learned saint "किं वा  
 अकल्पिष्ण" वव० १,  
 कप्फल न० ( कट्फल ) इय नाम की एक  
 वनस्पति, कायफल Name of a vegc-

tation हे० २, ७७,

कफ पु० (कफ) कफ, शरीर स्थित धातु विशेष, Phlegm, one of the three humours of the body राज०

कवरी, स्त्री० (कवरी) केश-पाश, धम्मिल्ल A braid or fillet of hair कुमा०  
वेणी० १८३,

कञ्चुर-कञ्चुरय. त्रि० (कञ्चुर) कवरा, चित-  
कवरा, चितला. Variegated, Spotted  
गडढ० अञ्चु० ६,

कञ्चुरिञ्च त्रि० (कञ्चुरित) अनेक वर्ण वाला,  
चितकवरा किया हुआ Variegated.  
“कञ्चुरियजम्मगिह” सु० च० १४, कुम्मा०  
६, पडम० ८२, ११,

क्रम पु० (क्रम) (१) परम्परा Regular  
course, order or succession सुर०  
३, २८, (२) न्याय, फैसला Judgement  
स्वन० २१,

कम. पु० (कलम) श्रम, थकावट, क्लान्ति  
Fatigue, Languor, Exhaustion  
हे० २, १०६, कुमा०

कमध. पु० न० (कवन्ध) रुड, मस्तक-हीन  
शरीर A headless trunk (especi-  
ally when it retains life हे० १,  
२३६, प्राप्र० कुमा०

कमठ-कमठग-य पु० (कमठक) (१)  
तापस विशेष, जिसको भगवान् पारश्वनाथ ने  
वाद में जीता था और जो मर कर दैत्य हुआ  
था Name of an ascetic, defeated  
by Lord Parshvanath and  
became a demon in the next  
birth यमि० २२, (२) कूर्म, कच्छप A  
tortoise पात्र० (३) वश, वास A  
bamboo (४) शल्ल का वृक्ष Name  
of a tree हे० १, १६६, (५) मैल, मल-  
Dnt, Filth निसी० चू० ३ (६) साध्विओं

के पहनने का एक वस्त्र A kind of cloth  
for a nun. श्लो० नि० ६७५,

कमण न० (क्रमण) (१) गति, चाल.  
Movement, Proceeding (२)  
प्रवृत्ति Continuous advance. आया०  
पू० ४,

कमणिया स्त्री (क्रमणिका) उपानत्, जूता  
A shoe वृह० ३,

कमणिल. त्रि० (क्रमणीवत्) जूता वाला,  
जूता पहना हुआ Having shoes वृह० ३,

कमणी. स्त्री० (क्रमणी) जूता, उपानत् A  
sandal or shoe वृह० ३,

कमणीय त्रि० (कमनीय) सुन्दर, मनोहर  
Beautiful, Handsome, Lovely  
सु० च० ३४, २६२,

कमल न० (कमल) (१) कमलाख्य इन्द्राणी  
का सिंहासन A throne of Indian  
called Kamala (२) सख्या विशेष

A particular number जो० २, (३)  
श्रेष्ठि विशेष, Name of a wealthy  
man सु० च० २७५, (४) एक देव विमान

Name of a celestial car देवेन्द्र  
१४२, (५) छद्म विशेष Name of a  
methe, पिंग० (६) एक जात का चावल,

कलम A kind of rice प्राप्र०—जोगि  
(योजि) पु० ब्रह्मा, विधाता. An epithet  
of Brahma पात्र०—खञ्जण पु० (नयन)

विष्णु, नारायण An epithet of  
Vishnu ससु० १५२, —वधु. पु० (बन्धु)  
(१) सूर्य, रवि The sun पडम० ७०, ६०,

(२) इस नाम का एक राजा Name of a  
king पडम० २२, ६८,

कमलक न० (कमलाङ्ग) सख्या विशेष,  
चौरासी लाख महापद की सख्या A parti-  
cular number जो० २,  
कमलवस्त्र. पु० (कमलाञ्ज) इस नाम का

एक यक्ष Name of a demi-god  
सण०

कमलजय न० (कमलजय) विद्याधरों का  
एक नगर Name of a city of  
Vidyadhars इक०

कमलपुर. न० (कमलपुर) विद्याधरों का  
एक नगर Name of Vidyadhars'  
city इक०

कमलमाला स्त्री० (कमलमाला) पोटनपुर  
नगर के राजा आनन्द की एक रानी, भगवान्  
अजितनाथ की मातामही-दादी Name a  
queen of king Ananda of Pata-  
npu city and grand-mother of  
Lord Ajitnatha पउम० १, १२,

कमलसेना स्त्री० (कमलसेना) एक राज  
पुत्री. Name of a princess महा०

कमला स्त्री० (कमला) (१) रावण की एक  
पत्नी. Name of Ravan's wife पउम०  
७४, ६, (२) लक्ष्मी An epithet of  
Lakshmi सु० च० २७५, (३) छन्द  
विशेष Name of a metre पिंग०  
—अर. पु० (कर) धनाढ्य, धनी A  
wealthy man को० १, २६,

कमलासण पु० (कमलासन) ब्रह्मा, विधाता  
An epithet of Brahma पाञ्च० दे०  
७, ६२,

कमलिणी. स्त्री० (कमलिनी) पद्मिनी, कमल का  
गाढ़ A lotus-plant पाञ्च०

कमलुम्भव पु० (कमलोद्भव) ब्रह्मा. An  
epithet of Brahma त्रि० ८२,

कमेलग-य पु० स्त्री० (कमेलक) उष्ट्र, जट  
A camel पाञ्च० उप० १०३१ टी,

कम्म—पु० न० (कर्मन्) व्याकरण प्रसिद्ध  
कारक विशेष (In gram) The object  
of an action. विशेष० २०६६, ३४२०,  
कम्मत्. त्रि० (कुर्वत्) हजामत करता हुआ.

Shaving. (२) हजाम, नापित, नाई A  
barbar कुमा०

कम्मत्साला स्त्री० (कुर्वच्छाला) जहा पर  
अस्तुरा आदि सजाया जाता हो वह स्थान A  
place of sharpening a razor etc  
निसी० चू० ८,

कम्मण न० (भोजन) भोजन A diet, A  
meal, कुमा०

कम्मस त्रि० (कल्मष) (१) मलिन Dirty;  
Filthy (२) न० पाप. A sin पाञ्च०  
हे० २, ७६, प्रासा०

कम्मसिद्ध पु० (कर्मसिद्ध) कारीगर, शिल्पी  
An artist, A mechanic आवम०  
कम्मरिया स्त्री० (कर्मकारिका) स्त्री नौकर,  
दासी. A maid-servant सु० च० ६३०,

कम्मि त्रि० (कर्मिन्) कर्म करने वाला;  
अभ्यासी A worker, A doer. गा०  
६६४,

कम्मल न० (कश्मल) १५, पाप. A sin.  
राज०

कयउरण त्रि० (कृतपुण्य) पुण्यशाली, भाग्य-  
शाली Fortunate, Lucky सु० च०  
६०६,

कय अ० (कृतम्) अलम्, बस Enough-  
उवर० १४४,

कयत पु० (कृतान्त) (१) शास्त्र, सिद्धान्त.  
A scripture सु० च० ११६, (२) रावण  
का एक सुभट Name of Ravan's  
warrior पउम० २६, ३१,

कयतमुह पु० (कृतान्तमुख) रामचन्द्र के एक  
सेनापति का नाम Name of Rama's  
general पउम० ६४, ६२,

कयंय पु० (कदम्ब) समूह A collection  
or multitude सबोध० २०,

कयंविय त्रि० (कदम्बित) अलंकृत, विभूषित.  
Decorated, Ornamented. कप्प०

कयग. पु० (कतक) (१) वृक्ष विशेष, निर्मली  
The cleaning nut-plant (२) न०  
कतक फल, निर्मली फल, पायपसारी The  
nut of this tree "जह कयगमजयाई"  
विशे० १३६,  
कयगघ त्रि० (कृतघ्न) उपकार न मानने वाला,  
कृतघ्न. Ungrateful सु० च० १८८,  
कयज्ज त्रि० (कदर्थे) कजूस, कृपण Miserly,  
Stingy राज०  
कयड्डि पु० (कपर्दिन्) इस नाम का एक  
यक्ष देवता Name of a demi-god  
सुपा० १४२,  
कयण, न० (कदन) हिंसा, मार डालना.  
Killing हे० १, २१७,  
कयत्थण न० (कदर्थन) हैरान, पीडन Op-  
pressing, Formenting सु० च० १८०,  
कयत्थिय त्रि० (कदर्थित) हैरान किया हुआ,  
पीडित. Harassed, Tormented सु०  
च० २२७,  
कयन्न त्रि० (कदन्न) खराब अन्न Bad  
food धर्मवि० १३६,  
कयपजलि त्रि० (कृतप्राञ्जलि) कृतप्राञ्जलि,  
नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो  
वह. Folding the hands in suppli-  
cation थाव०  
कयम त्रि० (कतम) बहुत में से कौन Who  
of which of many? सु० ४०२,  
कयमगला स्त्री० (कृतमङ्गला) इस नामकी एक  
नगरी Name of a city सत्या०  
कयर. पु० (ककर) (१) वृक्ष विशेष, करीर  
A kind of tree सु० २५६, (२) न०  
करीर का फल A fruit of this tree  
पभा० १४,  
कयल पु० (कदल) (१) कदली-वृक्ष, केला का  
गाछ The plantain tree. (२) न०  
कदली-फल, केला The plantain fruit

हे० १, १६७,  
कयवाउ. पु० (कुकवाकु) कुकट, कुकडा, सुर्गा  
A cook गडड०  
कयवाय. पु० (कुकवाक) कुकट, कुकडा, सुर्गा.  
A cook पात्र०  
कयसण न० (कदशन) खराब भोजन. Bad  
food. विवे० १३६,  
कर पु० (कर) करका, ओला Hails, A  
hail stone पडम० ६६, १२,  
करआ स्त्री० (करका) करका, ओला Hail  
stones अञ्चु० ६४,  
करक. पु० न० (करङ्क) (१) अस्थि-पञ्जर,  
हाड-पञ्जर A skeleton उप० ७२८ टी,  
(२) पानदान, पान वगैर रखनेकी छोटी पेट्टी. A  
betel-leaf-box कप्पू० (३) हड्डिओं का ढेर  
A heap of bones सुर० ६, २०३, (४)  
हड्डी, हाड A bone "करकचयमीसयो"  
सु० च० १७२,  
करजिअ त्रि० (भग्न) तोडा हुआ  
Broken, Cut कुमा०  
करडी स्त्री० (करएडी) (१) डिब्बा, पेटिका A  
small box आ० १४, (२) कुडी, पात्र-विशेष  
A particular vessel. उप० २६३,  
करविय त्रि० (करन्वित) न्याप्त, खचित  
Mixed, Intermingled. सु० च० ३४,  
करगह पु० (करग्रह) (१) हाथ से ग्रहण  
करण. Taking by hands गा० २४४,  
(२) पाणि-ग्रहण, शादी Marriage राज०  
करड पु० (करट) (१) काक, कौआ A  
crow. वर० १, १४, (२) कुसुम्भ वृक्ष.  
Name of a tree (३) गिरगिट, सरट  
A kind of animal (४) हाथी का  
गण्डस्थल An elephants cheek सु०  
च० १३६,  
करडि पु० (करटिन्) हाथी An elephant.  
सु० च० २०, १३६,



एक यत्त Name of a demi-god  
सण०

कमलजय न० (कमलजय) विद्याधरों का  
एक नगर Name of a city of  
Vidyadhars इक०

कमलपुर न० (कमलपुर) विद्याधरों का  
एक नगर Name of Vidyadhars'  
city इक०

कमलमाला स्त्री० (कमलमाला) पौतनपुर  
नगर के राजा आनन्द की एक रानी, भगवान्  
अजितनाथ की मातामही-दादी Name a  
queen of king Ananda of Pata-  
npu city and grand-mother of  
Lord Ajitnatha पउम० ५, ५२,

कमलसेना स्त्री० (कमलसेना) एक राज  
पुत्री. Name of a princess महा०

कमला स्त्री० (कमला) (१) रावण की एक  
पत्नी. Name of Ravan's wife पउम०

७४, ६, (२) लक्ष्मी An epithet of  
Lakshmi सु० च० २७५, (३) छन्द

विशेष Name of a metre पिंग०

—अर. पु० (कर) धनाढ्य, धनी A  
wealthy man को० १, २६,

कमलासण पु० (कमलासन) ब्रह्मा, विधाता  
An epithet of Brahma पात्र० दे०

७, ६२,  
कमलियाँ स्त्री० (कमलियाँ) पद्मिनी, कमल का  
गाळ A lotus-plant पात्र०

कमलुम्भव पु० (कमलोद्भव) ब्रह्मा. An  
epithet of Brahma त्रि० ८२,

कमेलग-य पु० स्त्री० (कमेलक) उष्ट्र, ऊट  
A camel पात्र० उप० १०३१ टी,

—पु० न० (कर्मन्) व्याकरण प्रसिद्ध  
कारक विशेष (In gram) The object

of an action विशेष० २०६६, ३४२०,  
कम्मंत. त्रि० (कुर्वन्) हजामत करता हुआ,

Shaving. (२) हजाम, नापित, नाई A  
barbar कुमा०

कम्मतसाला स्त्री० (कुर्वच्छाला) जहा पर  
अस्तुरा आदि सजाया जाता हो वह स्थान A  
place of sharpening a razor etc  
निसी० चू० ८,

कम्मण न० (भोजन) भोजन A diet, A  
meal, कुमा०

कम्मस त्रि० (कल्मष) (१) मलिन Dirty;  
Filthy (२) न० पाप, A sin पात्र०  
हे० २, ७६, ग्रामा०

कम्मसिद्ध पु० (कर्मसिद्ध) कारीगर, शिल्पी  
An artist, A mechanic. आवम०

कम्मरिया स्त्री० (कर्मकारिका) स्त्री नौकर,  
दासी, A maid-servant सु० च० ६३०,

कम्मि त्रि० (कर्मिन्) कर्म करने वाला,  
अभ्यासी A worker, A doer. गा०

६६४,  
कम्महल न० (कर्मल) १५, पाप, A sin

राज०

कयउरणा त्रि० (कृतपुराण) पुण्यशाली, भाग्य-  
शाली Fortunate, Lucky सु० च०

६०६,  
कय. अ० (कृतम्) अलम्, बस Enough.

उवर० १४४,  
कयत पु० (कृतान्त) (१) शास्त्र, सिद्धान्त.

A scripture सु० च० ११६, (२) रावण  
का एक सुभट Name of Ravan's

warrior पउम० ५६, ३१,

कयतमुह पु० (कृतान्तमुह) रामचन्द्र के एक  
सेनापति का नाम Name of Rama's

general पउम० ६४, ६२,  
कयंव पु० (कदम्ब) समूह A collection

or multitude सर्वोच० २०,  
कयविय त्रि० (कदम्बित) अलङ्कृत, विभूषित.  
Decorated, Ornamented कप्य०

कयग. पु० (कतक) (१) वृक्ष विशेष, निर्मली  
 The clearing nut-plant (२) न०  
 कतक फल, निर्मली फल, पायपसारी The  
 nut of this tree "जह कयगमजण्णार्ई"  
 विशे० ५३६,  
 कयगघ त्रि० (कृतघ्न) उपकार न मानने वाला,  
 कृतघ्न. Ungrateful सु० च० १८८,  
 कयज्ज त्रि० (कदर्थ) कजूस, कृपण Miserly,  
 Stingy राज०  
 कयड्ढि पु० (कपर्दिन्) इस नाम का एक  
 यक्ष देवता Name of a demi-god  
 सुपा० ५४२,  
 कयण, न० (कदन) हिंसा, मार डालना.  
 Killing हे० १, २१७,  
 कयत्थण न० (कदर्थन) हैरान, पीडन Op-  
 pressing, Formenting सु० च० १८०,  
 कयत्थिय त्रि० (कदर्थित) हैरान किया हुआ,  
 पीडित. Harassed, Tormented सु०  
 च० २२७,  
 कयन्न त्रि० (कदन्न) खराब अन्न Bad  
 food धर्मवि० १३६,  
 कयपजलि त्रि० (कृतमज्जलि) कृतमज्जलि,  
 नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो  
 वह. Folding the hands in suppli-  
 cation आव०  
 कयम त्रि० (कतम) बहुत में से कौन Who  
 or which of many? स० ४०२,  
 कयमगला स्त्री० (कृतमज्जला) इस नामकी एक  
 नगरी Name of a city सत्या०  
 कयर. पु० (ककर) (१) वृक्ष विशेष, करीर  
 A kind of tree स० २५६, (२) न०  
 करीर का फल A fruit of this tree  
 पभा० १४,  
 कयल पु० (कदल) (१) कदली-वृक्ष, केला का  
 गाड़ The plantain tree (२) न०  
 कदली-फल, केला The plantain fruit

हे० १, १६७,

कयवाउ. पु० (कुकवाकु) कुकट, कुकडा, मुर्गा  
 A cock गडड०  
 कयवाय. पु० (कुकवाक) कुकट, कुकडा, मुर्गा.  
 A cock पाय०  
 कयसण न० (कदशन) खराब भोजन. Baā  
 food. विवे० १३६,  
 कर पु० (कर) करका, ओला Hails, A  
 hail stone पडम० ६६, १५,  
 करआ स्त्री० (करका) करका, ओला Hail  
 stones अचु० ६४,  
 करक. पु० न० (करक) (१) अस्थि-पञ्जर,  
 हाड-पञ्जर A skeleton उप० ७२८ टी,  
 (२) पानदान, पान बगैर रखनेकी छोटी पेंटी. A  
 betel-leaf-box कप्पू० (३) हड्डियों का ढेर  
 A heap of bones सुर० ६, २०३, (४)  
 हड्डी, हाड A bone "करकचयभीसणे"  
 सु० च० १७५,  
 करजिअ त्रि० (भग्न) तोड़ा हुआ  
 Broken, Cut कुमा०  
 करडी स्त्री० (करण्डी) (१) डिब्बा, पेटिका A  
 small box आ० १४, (२) कुडी, पात्र-विशेष  
 A particular vessel. उप० ५६३,  
 करविय त्रि० (करम्बित) व्याप्त, खचित.  
 Mixed, Intermingled. सु० च० ३४,  
 करग्गह पु० (करग्गह) (१) हाथ से ग्रहण  
 करना. Taking by hands गा० ५४४,  
 (२) पाणि-ग्रहण, शादी Marriage राज०  
 करड पु० (करट) (१) काक, कौआ A  
 crow. वर० १, १४, (२) कुसुम्भ वृक्ष.  
 Name of a tree (३) गिरगिट, सरट  
 A kind of animal (४) हाथी का  
 गण्डस्थल An elephants cheek सु०  
 च० १३६,  
 करडि पु० (करटिन्) हाथी An elephant.  
 सु० च० ५०, १३६,

करण न० ( करण ) आसन, पदासन वगैरह  
 A particular posture or mode  
 of sitting (२) न्यायालय, न्याय-स्थल,  
 A Court of justice उप० पृ० ११७,  
 (३) जेल, कैदखाना A prison, A jail  
 भवि० (४) उपधि, उपकरण ओघ० नि०  
 ६६६,  
 करणसाला स्त्री० ( करणशाला ) न्याय  
 मन्दिर A court of justice दस० ३,  
 १ टी,  
 करभी, स्त्री० ( करभी ) (१) ष्ट्री A female  
 camel पिंड० धान्य भरने का एक बड़ा  
 पात्र, A large jar for grains वृह०  
 २, कस०  
 करमद् पु० ( करमन्द ) फल वाला वृक्ष-  
 विशेष A particular fruitful tree  
 गडड०  
 करय पु० ( करज ) नख A nail हे०  
 १, ३४,  
 कररुद्, पु० ( कररुद्र ) छन्द विशेष A kind  
 of metre पिंग०  
 करलाघव न० ( करलाघव ) कला विशेष,  
 हस्त लाघव A kind of art कप्प०  
 करलि-ली स्त्री० ( कदलि-ली ) (१) पताका  
 A flag or banner (२) हरिण की एक  
 जाति A kind of deer (३) हाथी का  
 एक आभरण, An ornament of  
 elephant हे० १, २२०, कुमा०  
 करवद्री स्त्री० ( करमन्दी ) लता विशेष, एक  
 जात का पेड़ Name of a creeper दे०  
 ८, ३२,  
 करवत्तिआ स्त्री० ( करपत्रिका ) जल पात्र-  
 विशेष A particular drinking  
 vessel आ० १०,  
 करवाल पु० ( करवाल ) खड्ग, तलवार. A  
 sword सु० च० ६०,

करवीर पु० ( करवीर ) वृक्ष विशेष, कनेर का  
 गाड़ A kind of tree गडड०  
 करह, पु० ( करम ) सुगंधी द्रव्य विशेष, A  
 kind of perfume गडड० ६६८,  
 करहच न० ( करहच ) छद विशेष A  
 particular metre पिंग०  
 करहाड पु० ( करहाट ) वृक्ष विशेष, करहार,  
 सैनफल, A kind of tree, गडड०  
 करादल्ल पु० ( करादल्ल ) स्वनाम ख्यात एक  
 राजा, Name of a king ती० ३७,  
 कराल, त्रि० ( कराल ) (१) भयानक, भयकर-  
 Dreadful, Formidable कप्प० (२)  
 फाडने वाला Gaping (३) विकसित-  
 Blown, Fully opened से० १०,  
 ४१, (४) व्यवहित, Separate by  
 anything intervening से ११, ६६,  
 (५) पु० इस नाम का विदेह देश का राजा  
 Name of a king of Videha coun-  
 try धर्म० १,  
 करालिञ्ज त्रि० ( करालित ) (१) दन्तुरित,  
 लम्बा और वहिर्निर्गत दात वाला Having  
 long or projected teeth से० १२,  
 १०, (२) व्यवहित किया हुआ, अन्तराल  
 वाला बनाया हुआ Separated से०  
 ११, ६६, (३) भयकर बनाया हुआ Made  
 terrible कप्प०  
 करावण न० ( कारण ) करवाना, बनवाना  
 Causing to do or make सु० च० ३३२,  
 कराविय त्रि० ( कारित ) कराया हुआ  
 Caused to do से० २६४, महा०  
 करिया पु० ( करिन् ) हाथी, हस्ती An  
 elephant, उप० ६ टी,  
 करिणी स्त्री० ( करिणी ) हस्तिनी, हथिनी A  
 female elephant सु० च० ४,  
 करिनाह, पु० ( करिनाथ ) (१) परावण, इन्द्र  
 का हाथी, A lordly elephant (२)

वत्तम हाथी A noble elephant सु०  
च० १०६,

करिस पु० ( कर्ष ) (१) आकर्षण, खींचाव  
Attracting. (२) विलेखन, रेखा करण  
Furlowing (३) मान विशेष, पल का  
चौथा हिस्सा A particular weight  
जो० १,

करिसग त्रि० ( कर्षक ) खेती करने वाला,  
कृषीबल. A cultivator, आचम०

करुणाइय त्रि० ( करुणायित ) जिस पर  
करुणा की गई हो वह Pitied गडड०

करुणि त्रि० ( करुणिन् ) करुणा करने वाला,  
दयालु. Tender-hearted, kind सण०  
करोडि. स्त्री ( करोडि ) सिर की हड्डी. The

skull सुख० २, २६,

कल. त्रि० ( कल ) मधुर, मनोहर. Sweet  
पात्र० —कठी स्त्री० ( कण्ठी ) कोकिला,  
कोयल The cuckoo. कण्पू०

कलक पु० ( कलङ्क ) लान्छन, चिन्ह A  
mark, A spot कुमा० गडड०

कलकण न० ( कलङ्कन ) कलकित करना  
Stained, Defamed प्रव० न,

कलकल. त्रि० ( कलङ्कल ) असमञ्जस, अशुभ  
Unbecoming, Improper सथा०

कलकित्र. त्रि० ( कलङ्कित ) कलकित, दागी.  
Stained, Defamed हे० ४, ४३८,

कलकिल्ल त्रि० ( कलङ्कित् ) कलक वाला, दागी  
Stained काल० पि० २६२,

कलतर न० ( कलान्तर ) व्याज, सूद Interest  
on money lent कुम० ३२४,

कलत्रुआ स्त्री० ( कलत्रुका ) एक गाँव का नाम,  
जहाँ पर भगवान् महावीर को कालहस्ती ने  
सताया था Name of a city राज०

कलत्रुलि पु० ( कलत्रुलि ) (१) क्षत्रिय विशेष  
A caste of kshatriyas (२) इस नाम  
का एक क्षत्रिय वंश A lineage of ksha-

triyas पिंग०

कलण न० ( कलन ) ( १ ) शब्द, आवाज.

Sounding (२) सख्यान, गिनती Num-

bering विशेष० २०२८, (३) धारण करना.

Putting on सु० च० २४, (४) जानना.

Knowing सु० च० १६, (५) प्राप्ति, ग्रहण.

Taking आ० १६,  
कलणा स्त्री० ( कलना ) ( १ ) कृति, करण  
Doing, Making कण्पू० ( २ ) धारण  
करना, लगाना Putting on, Weaving-

कण्पू०  
कलय. पु० ( कलाद ) सोनार, सुवर्णकार A  
goldsmith पड०

कययलित्त्तार. त्रि० ( कलकलायित् ) कलकल  
करने वाला Making noise वजा० ६६,  
कलरुद्दाणी स्त्री० ( कलरुद्दाणी ) इस नाम का  
एक छन्द Name of a metre पिंग०

कलल. न० ( कलल ) (१) वीर्य और श्लेशित  
का समुदाय Mixture of semen and  
blood पउम० ३६, २६, ११८, न, (२)  
कादा, कीचड, कर्दम Mud or mne  
गडड०

कललिय. त्रि० ( कललित ) कर्दमित, कीच वाला  
किया हुआ Made foul with mud.  
गडड०

कलविक पु० ( कलविक ) पक्षि-विशेष, चटक,  
गौरिया पक्षी A sparrow पात्र० गडड०  
कलस पु० ( कलश ) (१) स्कन्धक छन्द का  
एक भेद, छन्द विशेष. A variety of  
metre पिंग० (२) पु० न० एक देव-विमान.

A particular celestial car देवेन्द्र०  
१४०, (३) वाद्य-विशेष A kind of musi-  
cal instrument. राय० २० टी,

कलसिया स्त्री० ( कलशिका ) वाद्य विशेष A  
particular musical instrument.  
आया० चू० १

कलहण न० ( कलहन ) झगड़ा करना.  
Quarreling उब०

कलहाइत्र. त्रि० ( कलहायित ) कलह वाला,  
झगड़ाखोर A Fond of (prompting)  
quarrels पात्र०

कलहि त्रि० ( कलहिन ) झगड़ाखोर Fond  
of quarrels दे० २, २४,

कलहोय.न०(कलधौत) सुवर्ण, सोना. Gold  
सण०

कला स्त्री० (कला) समय का सूक्ष्म भाग A  
minute division of time. विशेष  
२०२८,

कलाइत्रा स्त्री० (कलाचिका) प्रकोष्ठ, कौनी से  
लेकर मणियन्त्र तक का हस्तावयव. The  
fore-arm, The part above the  
wrist पात्र०

कलागुरु, पु० ( कलागुरु ) कलाचार्य, विद्या-  
ध्यापक; शिक्षक A teacher of arts  
सु० च० २२,

कलाव पु० ( कलाप ) शरधि, तूण, जिसमें  
बाण रखे जाते हैं A quiver दे० २, १२,

कलावय न० ( कलापक ) चार पद्यों की एक  
वाक्यता A series of four stanzas  
on the same subject and forming  
one grammatical sentence स-  
म्मत० १८७,

कलि. पु० ( कलि ) (१) एक नरकावास A  
particular hell-abode देवेन्द्र० २६,  
(२) युग-विशेष, कलियुग The iron age  
वप० ८३३, (३) पर्वत विशेष. Name of  
a mountain ती० २४, (४) प्रथमभेद  
The first division निसी० चू० १२,  
(५) दुष्ट पुरुष A vile or wicked man  
पात्र० —जुग, न० (युग) कलियुग. The  
iron age ती० १२,

कलित्र त्रि० ( कलित ) (१) प्राप्त, गृहीत.

Taken, Seized. (२) ज्ञात, विदित  
Known पात्र०

कलित्रा स्त्री० ( कलिका ) अविक्सित पुष्प.  
An unblown flower, A bud पात्र०  
गा० ४४२,

कलिंग पु० ( कलिङ्ग ) आदिनाथ भगवान् का  
एक पुत्र Name of a son of Lord  
Adinatha ती० १४,

कलिङ्ग. पु० ( कलिङ्ग ) कट, चटाई A mat  
निसी० चू० १७,

कलिल त्रि० ( कलिल ) गहन, घना, दुर्भेद्य.  
Impervious, Impenetrable पात्र०  
कलुलित्र. त्रि० ( कलुपित ) पाप-ग्रस्त, मलिन.  
Sinful, bad से० १०, २, गडड०

कलुसीकय त्रि० ( कलुपीकृत ) मलिन किया  
हुया. Made turbid or muddy उब०

कल्ल न० ( कल्य ) (१) शब्द, आवाज A  
sound (२) सख्या, गिनती A number  
विशे० ३४४२, (३) दक्ष, चतुर Skilful,  
Dexterous दे० ८, ६२,

कल्लवत्त पु० ( कल्यवत्त ) कलेवा, प्रातर्भोजन.  
Morning meal, Breakfast स्वप्न०  
६०, नाट०

कल्लवाल पु० ( कल्यपाल ) कलवार, शराव  
बेचने वाला. A distiller मोह० १२,

कल्लाण पु० न० ( कल्लाण ) (१) विवाह,  
लग्न Marriage वसु० (२) देश विशेष  
Name of a country (३) नगरविशेष  
Name of a city ती० (४) निर्वाण,  
मोक्ष Final emancipation, Beauti-  
tude विशे० ३४४०, (५) समृद्धि, वैभव  
Prosperity कप्प० (६) तप विशेष A  
kind of austerity प्रव० (७) सुवर्ण  
Gold सिरि० ३७३,

कल्लाणी स्त्री० ( कल्याणी ) (१) कल्याण करने  
वाली स्त्री A female doing good, A

beneficial woman. गडड० ( २ ) दो वर्ष की बछिया A heifer of two years उत्तर० १०३,

कलिल. अ० ( कल्पे ) कल दिन, कल को To-morrow गा० ५०२,

कल्लोलिणी स्त्री० ( कल्लोलिनी ) नदी A river कप्प०

कवइय, त्रि० ( कवचित् ) बखतर वाला, वर्मित. Armoured, Mailed पडम० ७०, ७१,

कवग पु० ( कवर्ग ) 'क' से 'ङ' तक के पाच अक्षर Five letters form क to ङ. धर्मवि० १४,

कवट्टिअ. त्रि० ( कदथित ) पीडित, हैरान किया हुआ Tormented, Harassed हे० २, १२४,

कवड्ड पु० ( कपर्द ) बड़ी कौडी, वराटिका A small shell or cowrie जी० १२,

कवड्डि. पु० ( कपर्दिन् ) ( १ ) यज्ञ विशेष Name of a demi-god सुपा० २१२, ( २ ) महा-

देव, शिव An epithet of Siva कुमा० कवण त्रि० ( क्विम् ) कौन. Who? What? Which? पडम० ७२, ८, कुमा०

कवलण न० ( कवलन ) ग्रसन, भक्षण. Swallowing, Eating सु० च० ४७४,

कवलिअ त्रि० ( कवलित ) ग्रसित, भक्षित Eaten, Swallowed सु० च० १२१, ३१६,

कवि पु० ( कवि ) शुक्र, ग्रह विशेष The planet Venus सु० च० २६२,

कविअ न० ( कविक ) लगाम The bit of a bridle सु० च० २१३,

कवित्त न० ( कवित्त्व ) कविता, कवित Poetry सुर० १, ४२,

कविलिअ त्रि० ( कपिलित ) कपिल रंग वाला किया हुआ, भूट रंग से रंगित Coloured with a tawny Colour गडड०

कविस पु० ( कपिश ) वर्षा विशेष, काला-

पीला रंग, बदामी, कृष्ण-पीत-मिश्रित वर्षा The brown colour ( २ ) कपिश वर्षा वाला Brown, Reddish colour. पाअ० गडड०

कवोय पु० ( कपोत ) ( १ ) मलेच्छ देश विशेष. Name of a Mlechhha country. पडम० २७, ७,

कवोसण त्रि० ( कटुष्ण ) थोडा गरम. Tepid, Lukewarm प्राक० १,

कव्य पु० ( काव्य ) ( १ ) ग्रह-विशेष, शुक्र The planet Venus ( २ ) त्रि० वर्षा-नीय, श्लाघनीय worthy to be Praised. हे० २, ७६,

कवइत्त त्रि० ( काव्यवद् ) काव्य वाला. Poetic हे० २, १५६,

कव्वाय पु० ( कव्याद ) ( १ ) राक्षस, पिशाच. A demon, A goblin स० २१३, पडम० ७, १०, ( २ ) त्रि० कच्चा मांस खाने वाला.

Eating raw flesh पडम० २२, ३५, ( ३ ) मांस खाने वाला Flesh-eater पाअ०

कस. न० ( कप ) कर्म, कर्मपुद्गल A karmic atom. "कम्म कस भवो वा कस" विशेष १२२८,

कसण पु० ( कृष्ण ) ( १ ) वर्षा विशेष. Black colour ( २ ) त्रि० कृष्ण रंग वाला.

काला, श्याम Black हे० २, ७५, ११०; कुमा० —पक्ख पु० ( पक्ख ) कृष्ण पक्ष, बदि पखवार. The dark half of a lunar

month पाअ० सार पु० ( सार ) ( १ ) वृक्ष विशेष. A kind of tree ( २ ) हरिण की एक जाति. The spotted

antelope नाट मृच्छ० ३,

कसण त्रि० ( कृत्स्न ) सकल, सब, सर्व All Whole हे० २, ७५,

कसण्डिअ त्रि० ( कृष्णित ) काला किया हुआ. Blackened पाअ०

कसाय पु० ( कपाय ) (१) काथ, कादा A decoction (२) कपेला स्वाद वाला As ringent (३) कपाय रंग वाला, Brown-coloured (४) सुगन्धी, सुशब्ददार Odorous. Perfumed हे० २, १६०,  
 कसि त्रि० ( कपिन् ) मारने वाला, विनाशक Destructive, Ruinous सुख० १, १,  
 कसिञ्चा स्त्री० ( कशिका ) प्रतोद, चाबुक A whip सुर० १३, १७०,  
 कसुमीरा. स्त्री० ( कश्मीर ) एक उत्तर भारतीय देश Kashmir district प्राक्० २८, ३३,  
 कस्सव पु० ( काश्यप ) वंश विशेष A family by that name ( २ ) ऋषि विशेष Name of Rishi अभि० २६,  
 कह पु० ( कफ ) शरीरस्थ धातु विशेष Phlegm, one of the three humours of the body कुमा०  
 कहाञ्चा अ० ( कथवा ) वितर्क और आश्चर्य अर्थ को बतलाने वाला अन्वय A particle denoting 'how indeed or how possibly' से० ७, ३४,  
 कहाण्ण-य. न० ( कथानक ) (१) प्रसंग, प्रस्ताव. An occasion. स० १३३, १८८,  
 (२) प्रयोजन, कार्य, An object or aim स० १८१,  
 कहावण पु० ( कार्याण ) सिका विशेष A kind of coin हे० २, ७१, ६३ कुमा०  
 कहाविञ्च त्रि० ( कथित ) कहलाया हुआ सु० च० ६२, ४२७,  
 कहिया स्त्री० ( कथिका ) कथा, कहानी A story उप० १०३१ टी,  
 काइञ्चा स्त्री० ( कायिकी ) मूत्र, पेशाव Urine ओष० नि० २१६, (२) शौच क्रिया Voiding of excrement स० ६४६,

काइटी. स्त्री० ( काकन्दी ) इस नाम की एक नगरी, विहार की एक नगरी Name of a city सत्या० ७६,  
 काउमण त्रि० ( कर्तुमनस् ) करने की चाह वाला Desirous of doing उव० उप० पु० ७०, स० ६०,  
 काकदग पु० ( काकन्दक ) एक जैन महर्षि Name of a Jain saint कप्प०  
 काकदिय पु० ( काकन्दिक ) एक जैन महर्षि. Name of a Jain saint, कप्प०  
 काकदिया स्त्री० ( काकन्दिका ) जैन मुनिओं की एक शाखा A branch of Jain saints. कप्प०  
 कागतालसजीवगनाय. पु० ( काकतालसजीवक म्याय ) काकतालीय न्याय. The maxim of the crow and the palm-fruit It takes its origin from the unexpected and sudden fall of a palm-fruit upon the head of a crow ( so as to kill it ) at the very moment of its sitting on a branch of that tree, and as used to denote a very unexpected and accidental occurrence whether, welcome or unwelcome उप० १४२ टी,  
 कागतालिज्ज न० ( काकतालीय ) कौप का अतर्कित आगमन और ताल फल का अकस्मात् गिरना होता है ऐसा अवितर्कित सभब, अकस्मात् कार्य का होना ( Any thing ) taking place quite unexpectedly and accidently आया० टी०  
 कागथल पु० ( काकस्थल ) देश विशेष Name of a country दे० २, २७,  
 काग्ली स्त्री० ( काकली ) सूक्ष्म गीत ध्वनि, A Low and sweet tone ( २ ) स्वर

विशेष A particular voice सु०च०२६,  
 कागोणंद पु० (काकोनन्द) इस नाम की एक  
 ग्लेच्छ जाति. A particular class  
 of Mlechchhas, पत्रम० ३४, ४१,  
 काठिएण न० (काठिन्य) कठिनता Hard-  
 ness, Tightness धर्मस० २१, २४,  
 काढ पु० (क्वाथ) काढा A decoction,  
 solution prepared with a conti-  
 nued or gentle heat कुलक० ११,  
 काशिष्टा स्त्री० (काशेष्ट) लोहे की ईंट An  
 iron brick वच० ४,  
 काशीण पु० (कानीन) कुवारी कन्या से  
 उत्पन्नपुत्र The son of an unmarried  
 woman भवि०  
 काम पु० (काम) (१) रोग, विमारी A  
 disease दसनि०२, १२,—काम पु०(काम)  
 छन्द विशेष Name of a metrie पिंग०  
 कामध. पु० (कामान्ध) विषयानुर, तीव्र-कामी  
 Passionate, Love sick प्रासू०१७६,  
 कामघ्न न० (कामघ्न) आयतिल तप One  
 kind of religious austerity called  
 Ayambil सवोध० १८,  
 कामघड. पु० (कामघट) ईप्सित चीज को देने  
 वाला दिव्य कलश. A divine jar  
 accomplisher of desired objects  
 श्रा० १४,  
 कामडहण पु० (कामदहन) महादेव, शिव  
 Mahadev, Shanker, Shiv वजा०६८,  
 कामदाइणी स्त्री० (कामदायिनी) ईप्सित फल  
 को देने वाली विद्या विशेष. A kind of  
 magical skill granting every  
 desired object पत्रम० ७, १३२,  
 कामण न० (कामन) चाह, अभिलाष Wish,  
 Desire महा०  
 कामिअ. त्रि० (कामिक) (१) काम-सबन्धी,  
 विषय सबन्धी Pertaining to pas-

sions भक्त-१११, (२) न० तीर्थ विशेष  
 Pilgrimage by that name ती०२८,  
 —कामिअ (३) सरोवर-विशेष A parti-  
 cular lake, राज० (४) त्रि० इच्छा पूर्ण  
 करने वाला Fulfiller of desires स०३६०  
 कामिणी. स्त्री० (कामिनी) कान्ता, स्त्री A  
 lovely or beautiful woman सु०  
 च०२,  
 कायवर न० (कादम्बर) मद्य-विशेष, गुड का  
 दारू. A spirituous liquor distilled  
 from the molasses पत्रम० १०२, १२२,  
 कायवरी. स्त्री० (कादम्बरी) मदिरा, दारू A  
 spirituous liquor of wine पात्र०  
 पत्रम० ११३, १०, (२) अटवी-विशेष A  
 kind of hut or cottage. स०२५१,  
 (३) एक गुहा का नाम Name of a  
 cave कुप्र० ६३,  
 कायशिरोह पु० (कायनिरोध) शरीर व्यापार  
 का परित्याग Abandonment or ut-  
 terly given up of corporeal acts  
 श्राव० ४,  
 कायस्थ. पु० (कायस्थ) जाति विशेष, कायथ  
 जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति Name  
 of a particular caste सुद्रा० ७६,  
 मृच्छ० ११७,  
 कायवस्तु पु० (कायवन्धु) (१) ग्रह-विशेष  
 A particular planet (२) ग्रहाधि-  
 ष्टायक देव विशेष. A presiding god of  
 this planet राज०  
 काया. स्त्री० (काया) शरीर, देह The body  
 प्रासू० ११२,  
 कायाग पु० (कायाक) नट-विशेष, बहुरूपिया  
 A masker बृह० ४,  
 कारग त्रि० (कारक) (१) कराने वाला.  
 Causing to do विशेष (२) न० कर्ता,  
 कर्म वगैरह व्याकरण प्रसिद्ध कारक (In



gram) The relation subsisting between a noun and a verb in a sentence. विशेष० ३३८४, (३) उदाहरण, दृष्टान्त An example श्लोक० नि० १६, कारण न० (कारण) अपवाद An exception कण०

कारणित्र. पु० (कारणिक) न्याय कर्ता, न्यायाधीश A judge or magistrate सु० च० ११८,

कारणिज्ज त्रि० (कारणीय) प्रयोजनीय Having an object or a cause स० ३२६,

कारवस. पु० (कारवश) देश-विशेष Name of a country भवि०

कारविय त्रि० (कारित) कराया हुआ Caused to do सुर० १, २२६,

कारह त्रि० (कारभ) करभ-सबन्धी Pertaining to a young camel गडड०

कारागार पु० न० (कारागार) कैदखाना, जेल A jail or prison सु० च० १२२,

कारावय त्रि० (कारक) कराने वाला, विधायक. Causing to do स० २५७,

काल पु० (काल) (१) विलम्ब, देरी Delay स्वम० ६१, (२) उमर, वय Age स्वप्न० ४२, (३) ऋतु A season स्वप्न० ४२, (४) ज्योतिष शास्त्र-प्रसिद्ध एक कुयोग (In astrology) A particular inauspicious conjunction (of planets) गण० १६, (५) अभाव Privation, Non-existence, Nullity बृह० ४,

कालिंजर पु० (कालिंजर) (१) देश-विशेष Name of a country पिंग० (२) पर्वत विशेष Name of a mountain आव०

कालिखर पु० न० (कालाक्षर) (१) अल्प ज्ञान, अल्प शिक्षा A little knowledge (२) अल्प-शिक्षित A little educated

गा० ८७८,  
कालिखरित्र. त्रि० (कालाक्षरि) अक्षर जान वाला, शिक्षित Educated. कण०  
कालिग-य पु० (कालिक) भ्रमर, भमरा A male wasp राज०  
कालिपिट्ट पु० न० (कालपृष्ठ) (१) कर्ण का धनुष. Name of the bow of Karna (२) काला हरिय A species of antelope (३) कौञ्च पक्षी A curlew or heron पि० २३,  
कालरत्ति स्त्री० (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि, प्रलय काल The night of destruction at the end of the world गडड०  
कालसदीव पु० (कालसजीव) त्रिपुरासुर. Name of a demon called Tripura शक०  
कालसार. पु० (कालसार) मृग की एक जाति; काला मृग The black antelope गा० २५,  
कालसोअरिय, पु० (कालसौकरिक) स्वनाम ख्यात एक कसाई Name of a butcher शक०  
काला. स्त्री० (१) श्याम वर्ण वाली A black female (२) तिरस्कार करने वाली A woman who despises कुमा०  
कालाइकमय न० (कालातिक्रमक) तप विशेष; दिन के पूर्वार्ध तक आहार-त्याग A kind of a religious austerity सबोध० २८,  
कालि. पु० (कालिन्) विहार का एक पर्वत. A mountain of Behar ती० १३,  
कालिग पु० (कालिङ्ग) (१) देश विशेष. Name of a country श्रा० १२, (२) त्रि० कलिङ्ग देश में उत्पन्न Born in the Kalinga country पडम० ६६, २५,  
कालिंजर न० (कालिंजर) (१) जंगल विशेष. Name of a forest पडम० २८, ६,

तीर्थ स्थान-विशेष A particular holy-place ती० ६,

कालिंदी स्त्री० ( कालिन्दी ) (१) यमुना नदी The river Yamuna पात्र० (२) एक इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी The crowned queen of Shakiendra पदम० १०२, १२६,

कालिगी स्त्री० ( कालिकी ) संज्ञा विशेष, बहुत समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह विशेष० २०८,

कालिम पु० स्त्री० ( कालिमन् ) श्यामता, कृष्णता, दागीपन Blackness सुर० ३, ४४, श्रा० १२,

कालिय पु० ( कालिक ) इस नाम का एक सर्प Name of a serpent सु० च० १८१,

कालियसरिण, त्रि० ( कालिकसज्जिन ) कालिकी सज्ञा वाला, विशेष० २०६,

काली स्त्री० ( काली ) (१) पार्वती, गौरी An epithet of Parvati पात्र० (२) इस नाम का एक छंद. Name of a metrical form.

कालुसिय न० ( कालुष्य ) कलुपता, मलिनता Foulness, Turbidity आठ०

कालुस्स न० ( कालुष्य ) कलुपन, Dittiness, or Turbidity सा० २,

कालेय न० ( कालेय ) (१) काली देवी का अपत्य A son of 'Kali' goddess (२) सुगन्धी द्रव्य-विशेष, कालचन्दन Black sandalwood स० ७२,

कावध पु० ( कावध्य ) (१) एक महा-ग्रह One major planet (२) महाभिधायक देव विशेष A presiding god of this planet राज०

कावालित्र पु० ( कापालिक ) अघोर संप्रदाय का अनुष्य A follower of a certain Sava sect characterized by

carrying skulls of men in the form of garlands and eating and drinking from them सु० च० १७४,

कावालित्रा-कावालिणी स्त्री० ( कापालिकी ) कापालिक-व्रत वाली स्त्री, A woman having the Kapalika-vow. गा० ४०८, कावेत्र न० ( कापेय ) वानरपन, चञ्चलता Monkey-like behaviour अष्टु० ६२, कासव पु० ( कश्यप ) (१) इस नाम का एक ऋषि Name of a Rishi ग्राम० (२) हरिण की एक जाति A species of deer (३) एक जात की मछली. One kind of fish (४) दक्ष प्रजापति का जामाता Son-in-law of Dakshaprajapati (५) त्रि० दारू पीने वाला A drunkard हे० १, ४३, पद०

कासविजया स्त्री० ( काश्यपीया ) जैन मुनियों की एक शाखा A branch of Jain Muni ( Saints ) कल्प०

कासवी स्त्री० ( काश्यपी ) (१) पृथ्वी, धरित्री. The earth कुमा० (२) कश्यप गोत्रिया स्त्री A woman of the Kashyapa lineage कल्प०

कासा स्त्री० ( कृशा ) दुर्बल स्त्री A weak woman हे० १, १२७, पद०

कासाइया-कासाई स्त्री० ( कापायी ) कपाय रंग से रगी हुई साढी, लाल साढी A red coloured sari कल्प० उवा०

कासाय, त्रि० ( कापाय ) कपाय रंग से रगा हुआ Red coloured, Dyed of a reddish colour गड०

कासार न० ( कासार ) (१) तालाब, झोटा सरोवर. A pond or lake सु० च० १६६, (२) पक्वान्न विशेष, कँसार A particular sweat-meat स० १८६, (३) पु० समूह;

gram) The relation subsisting between a noun and a verb in a sentence. विशेष० ३३८४, (३) उदाहरण, दृष्टान्त An example श्लो० नि० १६, कारण न० (कारण) अपवाद An exception कण०

कारणिक पु० (कारणिक) न्याय कर्ता, न्यायाधीश A judge or magistrate सु० च० ११८,

कारणिञ्ज त्रि० (कारणीय) प्रयोजनीय Having an object or a cause स० ३२६,

कारवस. पु० (कारवस) देश-विशेष Name of a country भवि०

कारविय त्रि० (कारित) कराया हुआ Caused to do सुर० १, २२६,

कारह त्रि० (कारभ) करभ-सम्बन्धी Pertaining to a young camel गडड०

कारागार पु० न० (कारागार) कैदखाना, जेल A jail or prison सु० च० १२२,

कारावय त्रि० (कारक) कराने वाला, विधायक Causing to do स० ५५७,

काल पु० (काल) (१) विलम्ब, देरी Delay स्वप्न० ६१, (२) उमर, वय Age स्वप्न० ४२, (३) ऋतु A season स्वप्न० ४२, (४) ज्योतिष शास्त्र-प्रसिद्ध एक कुयोग (In astro) A particular inauspicious conjunction (of planets) गण० १६, (५) अभाव Privation, Non-existence, Nullity बृह० ४,

कालिंजर पु० (कालिंजर) (१) देश-विशेष Name of a country पिंग० (२) पर्वत विशेष Name of a mountain आचम०

कालिखर पु० न० (कालिखर) (१) अल्प ज्ञान, अल्प शिक्षा A little knowledge (२) अल्प-शिक्षित A little educated

गा० ८७८,  
कालिखरिञ्चि. त्रि० (कालिखरिञ्चि) अक्षर ज्ञान वाला, शिक्षित Educated. कण०  
कालिग-य पु० (कालिग) भ्रमर, भमरा. A male wasp राज०  
कालिपिट्ट पु० न० (कालिपिट्ट) (१) कर्ण का धनुष. Name of the bow of Karna (२) काला हरिण A species of antelope (३) क्रौञ्च पक्षी A curlew or heron पि० ५३,  
कालरत्ति स्त्री० (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि, प्रलय काल The night of destruction at the end of the world गडड०  
कालसदीव पु० (कालसदीव) त्रिपुरासुर. Name of a demon called Tripura. आक०  
कालसार. पु० (कालसार) मृग की एक जाति, काला मृग The black antelope गा० २५,  
कालसौअरिय. पु० (कालसौकरिक) स्वनाम ख्यात एक कसाई Name of a butcher आक०  
काला. स्त्री० (१) श्याम वर्ण वाली A black female (२) तिरस्कार करने वाली A woman who despises कुमा०  
कालाङ्कमय न० (कालाङ्कमय) तप विशेष; दिन के पूर्वार्ध तक आहार-त्याग A kind of a religious austerity सबोध० १८,  
कालि. पु० (कालिञ्ज) बिहार का एक पर्वत. A mountain of Behar ती० १३,  
कालिङ्ग पु० (कालिङ्ग) (१) देश विशेष. Name of a country आ० १२, (२) त्रि० कलिङ्ग देश में उत्पन्न Born in the Kalinga country पदम० ६६, ५५,  
कालिंजर न० (कालिंजर) (१) जंगल विशेष. Name of a forest पदम० ५८, ६८,

तीर्थ स्थान-विशेष A particular holy-place ती० ६,

कालिंदी स्त्री० ( कालिन्दी ) (१) यमुना नदी.

The river Yamuna पा० (२) एक इन्द्रायुषी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी The crowned queen of Shakiendra प० १०२, १२६,

कालिगी स्त्री० (कालिकी) संज्ञा विशेष, बहुत समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह विशेष० १०८,

कालिम पु० स्त्री० (कालिमन्) श्यामता, कृष्णता, दागीपन Blackness सुर० ३, ४४, श्रा० १२,

कालिय पुं० (कालिक) इस नाम का एक सर्प Name of a serpent सु० च० १८१, कालियसरिण, त्रि० (कालिकसश्त्रिन्) कालिकी संज्ञा वाला, विशेष० १०६,

काली स्त्री० (काली) (१) पार्वती, गौरी An epithet of Parvati पा० (२) इस नाम का एक छन्द, Name of a metre पिंग०

कालुसिय न० (कालुष्य) कलुपता, मलिनता Foulness, Turbidity श्रा०

कालुस्स न० (कालुष्य) कलुपन, Dirtiness, or Turbidity सा० २,

कालेय. न० (कालेय) (१) काली देवी का अपत्य A son of 'Kali' goddess (२) सुगन्धी द्रव्य-विशेष, कालचन्दन Black sandalwood स० ७२,

कावध पु० (कावध्य) (१) एक महा-ग्रह One major planet (२) ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष A presiding god of this planet राज०

कावालिका पु० (कापालिक) अधोर संप्रदाय का मनुष्य A follower of a certain Saina sect characterized by

carrying skulls of men in the form of garlands and eating and drinking from them सु० च० १७४,

कावालिका-कावालिका स्त्री० (कापालिका) कापालिक-व्रत वाली स्त्री, A woman having the Kapalika-vow. गा० ४०८, कावेश्र. न० (कापेय) वानरपन, चञ्चलता Monkey-like behaviour अचु० ६२, कासव पुं० (कश्यप) (१) इस नाम का एक ऋषि Name of a Rishi ग्राम० (२) हरिण की एक जाति A species of deer (३) एक जात की मछली, One kind of fish (४) दक्ष प्रजापति का जामाता Son-in-law of Dakshaprajapati (५) त्रि० दारु पीने वाला A drunkard हे० १, ४३, पङ्०

कासविज्जया स्त्री० (काश्यपीया) जैन मुनियों की एक शाखा A branch of Jain Munes (Saints) कप्प०

कासवी स्त्री० (काश्यपी) (१) पृथ्वी, धरित्री, The earth कुमा० (२) कश्यप गोत्रिया स्त्री A woman of the kashyapa lineage कप्प०

कासा स्त्री० (कशा) दुर्बल स्त्री A weak woman हे० १, १२७, पङ्०

कासाइया-कासाई स्त्री० (कापायी) कपाय रंग से रंगी हुई साडी, लाल साडी, A red coloured sari कप्प० व्वा०

कासाय. त्रि० (कापाय) कपाय रंग से रंगा हुआ Red coloured, Dyed of a reddish colour गड०

कासार न० (कासार) (१) तालाब, छोटा सरोवर. A pond or lake सु० च० १६६, (२) पक्वान्नविशेष, कँसार A particular sweat-meat स० १८६, (३) पुं० समूह;

जत्था A multitude or collection  
गउड०  
कासिञ्च न० ( कासित ) छींक. A sneeze  
राज०  
काहल. त्रि० ( कातर ) कातर, डरपीक  
Timid, Cowardly हे०१, २१४, २२४,  
काहल पु० न० ( काहल ) वाद्य विशेष A  
kind of musical instrument सुर०  
३, २६,  
काहला. स्त्री० ( काहला ) वाद्य-विशेष, महा  
द्वज. A kind of musical instru-  
ment, A large drum विक्र० ८७,  
किञ्चत त्रि०(कियत्) कितना How much,  
How great, How far, How  
many, Of what extent or quali-  
ties सण०  
किञ्चाडिञ्चा, स्त्री० ( कृकाटिका ) गला का  
उन्नत भाग The raised and straight  
part of the neck पाञ्च०  
किइ स्त्री० (कृति) कृति, किया, विधान Crea-  
tion, Work पङ्० प्राप्० उव०  
किंकरसञ्च पु० (किङ्करसत्य) (१) परमेश्वर,  
परमात्मा. Almighty, God . (२)  
अच्युत, विष्णु An epithet of Vishnu  
अच्यु० २,  
किंकार पु० न० ( क्रेङ्कार ) अव्यक्त शब्द-  
विशेष A kind of indistinct sound  
सिरि० २४१,  
किंकरि स्त्री० (किङ्करी) दासी, नौकरानी. A  
female servant कप्प०  
किंकायव्यया स्त्री० (किंकर्तव्यता) क्या करना  
है वह जानना Any situation in  
which one asks oneself what  
should be done —मूढ त्रि० (मूढ)  
किंकर्तव्य-विमूढ, हक्काबक्का, भौंचक्का, Being  
at a loss or perplexed what to

do महा०

किंकिञ्चजड त्रि० (किंकृत्यजड) हक्काबक्का, वह  
मनुष्य जिसे यह न सूझ पड़े कि क्या किया  
जाय. Being at a loss or perplexed  
what to do आ० २७,

किंकिणिञ्चा स्त्री०(किङ्किणिका) छुद्र घण्टिका.

A small bell सु० च० १२६,

किंकिणी स्त्री० (किङ्किणी) छुद्र घण्टिका A

small bell सु० च० १२४,

किञ्चहिय त्रि० ( किञ्चिदधिक ) कुछ ज्यादा

Some what or a little more सुपा०

४३० ,

किंदिय न० ( केन्द्र ) (१) वतुल का मध्य

भाग The centre of a circle (२)

ज्योतिष में इष्ट लग्न से पहला, चौथा, सातवां

और दसवा स्थान (In astro )Distance

of a planet from the first point of

its orbit in the 4th, 7th or 10th

degree “किंदियटाण्टियगुरुस्मि” सु० च०

३६ ,

किंदुअ पु० (कन्दुक) कन्दुक, गेंद A ball.

भवि०

किंनर पु० ( किन्नर ) (१) भगवान् धर्मनाथ

जी के शासन देव का नाम Name of a

Shasan Deo of Lord Dharma-

natha सति० ८, (२) देव-गन्धर्व, देव गायन

A celestial musician कुमा०

किनु अ० (किनु) पूर्वपक्ष, आक्षेप, आशका का

सूचक अव्यय A particle denoting

the prima facie argument, allure-

ment and doubt वव० १,

किंचयती स्त्री०(किंचदन्ती) जन-श्रुति, जन रच.

Rumour, Report हम्मिर० ३६,

किंसार. पु० ( किंसार ) सत्य-शुक, सत्य का

तीक्ष्ण अग्र भाग. The beard of corn.

दे० २, ६,

किंसुत्र पु० ( किंसुत्र ) (१) पलाश का पेड़,  
टैसू, ढाक One kind of tree having  
beautiful red blossoms but with-  
out any odour सुर० ३, ४६, (२) न०  
पलाश का पुष्प The blossom of this  
tree हे० १, २६, ८६,

किंकिंधा, स्त्री० (किंकिंधा) नगरी-विशेष A  
city named Kiskindha से० १४, २२,

किंकिंधि पु० (किंकिंधि) (१) पर्वत-विशेष.  
Name of a mountain प० ६, ४२,  
(२) इस नाम का एक राजा Name of a  
king प० ६, ४२,

किञ्चत, त्रि० ( कृत्यमान ) (१) छिन्न किया  
जाता, काटा जाता One which is being  
cut (२) पीड़ित किया जाता, सताया जाता.  
One which is being oppressed  
राज०

किञ्चा स्त्री० ( कृत्या ) (१) काटना, कर्तन  
Cutting उप० पृ० ३२६, (२) क्रिया,  
काम, कर्म An action or deed (३)  
देव वगैरह की मूर्तिका एक भेद A variety  
of idols of gods (४) जादुगिरि, जादू  
Witchcraft, Magic (५) रोग-विशेष,  
मदासारी का रोग A kind of disease  
हे० १, १२८,

किञ्चि स्त्री० (कृत्ति) (१) मृग वगैर का चमड़ा  
The hide of an antelope etc (२)  
चमड़े का वस्त्र The leather garment  
(३) भूर्जपत्र, भोजपत्र, The bark of the  
buch-tree used for writing upon  
etc (४) कृत्तिका नक्षत्र One of the  
lunar mansions, Pleiades प० हे०  
२, १२, ८६,

किञ्चि च० (कियञ्चिरम्) कितने समय तक,  
कन तक ? How long ? प० १२८ टी,

किञ्चु, त्रि० (कृञ्चु) (१) कष्ट-साध्य, कष्ट-युक्त

Causing trouble, Painful. हे० १,  
१२८, (२) कि० वि० दु ख से, मुश्किल से,  
With great difficulty, Painfully  
सुर० ८, १४८,

किञ्जिञ्च, त्रि० ( कृत् ) किया गया, निर्मित.  
Done, Made, Performed पिंग०

किट्ट, न० (किट्ट) रंग-विशेष. A species of  
colour उर० ६, २,

किट्टीकय त्रि० (किट्टीकृत) मिला हुआ, एका-  
कार Mingled, Mixed उव०

किडग त्रि० (क्रीडक) क्रीडा करने वाला A  
player of past time स्यू० १, ४, २ टी,

किडि पु० (किरि) सूकर, सूयर A hog  
or boar. हे० १, २२१, प०

किया पु० (किया) (१) घर्षण चिन्ह, घर्षण  
की निशानी. A mark of friction.

गडड० -किया (२) मास ग्रन्थि A gland.  
(३) सूखा घाव A dry wound सु०  
च० ३७०,

किया त्रि० (क्रयिन्) खरीदने वाला A  
purchaser or buyer सर्वो० १६,

किया त्रि० (क्रीत) किता हुआ, खरीदा हुआ  
Bought सु० च० ४३४,

किया पु० (किया) (१) रस्ती बनाने का  
काम करने वाली मनुष्य जाति A particular  
human tribe making stings.  
प० -किया (२) मनुष्य की एक जाति,  
जो बादित्र बनानी और बजाती है A class  
of human being making and  
playing musical instruments  
व० ३,

किया स्त्री० (किया) छोटा फोडा, फुन्सी.  
A small boil. स० १८०,

कियो, थ० (कियि) क्यों, किस लिए? For  
what purpose ? हे० २, २१६, पाञ्च  
गा० ६७, महा०

किरण त्रि० (कीर्ण) (१) उत्कीर्ण, खुदा हुआ.  
 Dug सुपा० २७१,  
 कितव पु० (कितव) धूतकर, जूझारी A  
 gambler. दे० ४, ८,  
 किर्त्तण न० (कीर्त्तन) (१) वर्णन, प्रतिपादन.  
 Description (२) कथन, उक्ति Tell-  
 ing विशेष० ६४०, गउड० कुमा०  
 किर्त्तय. त्रि० (कीर्त्तक) कीर्त्तन कर्ता Reli-  
 gious songs प्रव० २१६ टी  
 किर्त्ति पु० (कीर्त्ति) इस नाम का एक जैन मुनि,  
 जिसके पास पाचवें बलदेव ने दीक्षा ली थी.  
 Name of a Jain saint who in-  
 itiated the fifth Baladeo पदम०  
 २०, २०५,  
 किर्त्तिकर पु० (कीर्त्तिकर) भगवान आदिनाथ  
 के एक पुत्र का नाम. Name of a son of  
 Lord Adinatha राज०  
 किन्न त्रि० (क्लिन्न) आर्द्र, गीला Wet,  
 Moistened हे० ४, ३२६,  
 किन्चिस. न० (क्लिचिप) (१) मांस Flesh  
 स० २६३, (२) त्रि० पापी, दुष्ट Wicked  
 धर्म० ३, (३) कर्बुर, चितकबरा Varie-  
 gated तदु०  
 किन्चिसिया स्त्री० (क्लिचिपिकी) एक प्रकार की  
 भावना, धर्म गुरु वगैर की निन्दा करने की  
 आदत One kind of conception  
 Habit to speak evil of Religious  
 Gurus (Priest) & of others धर्म० ३  
 किमस्स पु० (किमश्च) नृप विशेष, जिसने इन्द्र  
 को सग्राम में हराया था, और शपथ लगाने से  
 जो मर कर अजगर हुआ था Name of a  
 king who defeated the lord of  
 gods in the battle and who be-  
 came a boa-constrictor by the  
 curse निसी० चू० १,  
 किमु. अ० (किमु) (१) वितर्क Guess, Con-

jecture. (२) निन्दा Censure, Re-  
 proach (३) निषेध Prohibition हे०  
 २, २१७, पिंग०  
 किमुय अ० (किमुत) इन अर्थों का सूचक अव्यय.  
 A particle denoting (१) प्रश्न  
 Question (२) विकल्प Doubt (३)  
 वितर्क Concoits, Conjectures (४)  
 अतिशय Excessive हे० २, २१८,  
 "किमुय सेसेहिं" विशेष० १०६१,  
 किम्मीर त्रि० (किर्मीर) (१) कर्बुर, कबरा.  
 Variegated, Spotted पात्र० (२)  
 पु० राक्षस विशेष जिसको भीमसेन ने मारा था  
 Name of a Rakshasa slain by  
 Bhima वेणी० ११७, (३) वंश विशेष A  
 lineage or family रभा०  
 कियत त्रि० (कियत्) कियत्, कितना How  
 much, How great, How far  
 सम्मत० २२८,  
 कियाराणग न० (क्रयाणक) किराना, करियाना,  
 बेचने योग्य चीज़. A thing for sale.  
 सुर० १, ६०,  
 किर अ० (किल) इन अर्थों का सूचक अव्यय  
 A particle expressing (१) सभावना.  
 Probability, Hope (२) हेतु, निश्चित  
 कारण Cause, Reason (३) वार्ता  
 प्रसिद्ध अर्थ, Proverbial meaning  
 (४) अरुचि. Disgust, Dislike (५)  
 अलीक, असत्य. Untruth or false-  
 hood. (६) सशय, सदेह Doubt or  
 Suspicion हे० २, १८६, पड० गा० १२६;  
 मास्० १७, दस० १, (७) पाद पूर्ति में भी  
 इसका प्रयोग होता है Used also as an  
 Expletive क० ग० ४, ७६,  
 किरणिल्ल त्रि० (किरणवत्) किरणवाला, तेजस्वी.  
 Brilliant, Radiant सुर० २, २४२,  
 किराय पु० (किरात) भील Name of a

degraded mountain tribe who live by hunting, A mountain-see, A Bhil सु० च० ३६१, सुर० २, २७, १८०, हे० १, १८३,  
 किरि. पु० (किरि) (१) भालु की आवाज Growling पउम० ६४, ४५, (२) सूकर, सूअर A Hog or boar गउड०  
 किरिया स्त्री० (क्रिया) शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान A religious rite or ceremony प्रव० १४६;  
 किरिडि. पु० (किरीटिन्) अर्जुन Name of Arjuna वेणी० १३२,  
 किरित त्रि० (क्रीत) किता हुआ, खरीदा हुआ Purchased प्राप्०  
 किरिय. पु० (किरीय) (१) एक म्लेच्छ देश A non-Aryan country (२) उसमें उत्पन्न म्लेच्छ जाति A Mlechehha tribe born in this country राज०  
 किरोलय न० (किरोलक) फल विशेष, किरोलिका वल्ली का फल One kind of fruit उर० ६, ५,  
 किलज न० (किलज) तृण-विशेष One kind of grass, धर्मवि० १३५, १३६,  
 किलकिलाइय न० (किलकिलायित) 'किलकिल' ध्वनि, हर्ष ध्वनि A sound of cry expressing joy or pleasure. आचम०  
 किलाचक्र न० (क्रीडाचक्र) इस नाम का एक छद, वृत्त Name of a metre पिंग०  
 किलाड पु० (किलाट) दूध का विकार विशेष, मलाई Milk-cream दे० २, २२,  
 किलिकिलि न० (किलिकिलि) इस नाम का एक विद्याधर का नगर A town or city of Vidyadhar इक०  
 किलिगिलिय न० (किलिकिलित) 'किलकिल' आवाज करना, हर्ष-घोतक ध्वनि-विशेष A sound of cry expressing joy or

pleasure स० ३७०, ३८५,  
 किलित्त त्रि० (क्लृप्त) कल्पित, रचित Prepared, Done प्राप्० पड० हे० १, १४५,  
 किलित्ति स्त्री० (क्लृप्ति) रचना, कल्पना. Allanging पि० ५६,  
 किलिसिअ त्रि० (क्लेशित) आयासित, क्लेश प्राप्त Distressed or grieved स० १४६,  
 किलिसिअ त्रि० (क्लेश) क्लेश प्राप्त, क्लेश-युक्त Distressed or troubled उप० पु० ११६,  
 किलेस. पु० (क्लेश) (१) खेद, थकावट. Fatigue, Weariness (२) दुःख का कारण The cause of root of unhappiness (३) शुभाशुभ कर्म. Karma बृह० १,  
 किलेसिय त्रि० (क्लेशित) दुःखी किया हुआ. Troubled, Pained सुर० ४, १६७, १६६,  
 किवा कजूस, अदाता A miser दे० २, ३१,  
 किवा स्त्री० (कृपा) दया, मेहरबानी. Mercy, Favour, Compassion. — वन्न त्रि० (पत्न) कृपा-प्राप्त, दयालु Kind, Merciful पउम० ६५, ४७,  
 किवालु. त्रि० (कृपालु) दयालु, दया करने वाला Kind, Compassionate पउम० ३४, २०, ६७, २०,  
 किचीडजोयि. पु० (कृपीटयोनि) अग्नि Fire. सम्मत्त० २२६,  
 किसग त्रि० (कृशाङ्ग) दुर्बल शरीर वाला Lean, Thin. गा० ६५७,  
 किसर पु० (कृशर) (१) पक्वान्न-विशेष, तिल, चावल और दूध की बनी हुई एक खाद्य चीज A kind of sweatmeat (२) खिचडी, चावल और दाल का मिश्रित भोजन विशेष Hotchpotch हे० १, १२८,  
 किसरा स्त्री० (कृशरा) खिचडी Hotchpotch हे० १, १२८.



किसलइय. त्रि० ( किसलयित ) अकुरित, नये अकुर वाला. Having a younger and tender shoot or foliage सुर० ३, ३६,  
 किसानु. पु० ( कृशानु ) (१) अग्नि, आग. Fire (२) वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष Name of a tree (३) तीन की संख्या. The number three हे० १, १२८, पङ्०  
 किसिअ. त्रि० ( कृशित ) दुबैलता-प्राप्त, कृशता युक्त Weak, Lean, गा० ४०, वजा० ४०,  
 किसिअ. त्रि० ( कृपित ) (१) विलिखित, रेखा किया हुआ Furrowed (२) जोता हुआ, कृष्ट Cultivated (३) खींचा हुआ Drawn हे० १, १२८,  
 किसीवल पु० ( कृपीवल ) कर्षक, किसान A Cultivator, A ploughman, A farmer. आ० १६,  
 कीइस त्रि० ( कीट्य ) कैसा, किस तरह का Of what kind or sort? Of what nature? स० १४०,  
 कीकस पु० ( कीकश ) (१) कृमि-जन्तु विशेष. One kind of insect (२) न० हड्डी, हाड A bone (३) त्रि० कठिन, कठोर Hard, Firm राज०  
 कीडइल त्रि० ( कीटवत् ) कीडा वाला, कीटक युक्त. Rotten गडबड  
 कीडण न० ( क्रीडन ) खेल, क्रीडा Play or game सुर० १, ११८,  
 कीडिया. स्त्री० ( कीटिका ) पिपीलिका, चींटी, An ant सुर० १०, १७६,  
 कीडी. स्त्री० ( कीटि ) पिपीलिका, चींटी An ant उप० १४७ टी, दे० २, ३,  
 कीणासगिह न० ( कीनाशगृह ) मृत्यु, मौत Death उप० १३६ टी,  
 कीर पु० ( कीर ) (१) देश विशेष, काश्मीर देश The country of Kashmir. (२) त्रि० काश्मीर देश सबधी Pertaining

to Kashmir. (३) काश्मीर देश में उत्पन्न. Born or produced in Kashmir. विशेष० ४६४ टी,  
 कीरल पु० ( कीरल ) देश-विशेष, Name of a country पउम० ६८, ६४,  
 कीरी स्त्री० ( कीरी ) लिपि विशेष, कीर देश की लिपि The written characters, letters or alphabet of the Kira country विशेष० ४६४ टी,  
 कीलणअ न० ( क्रीडनक ) खिलौना A Toy. अभि० २४२,  
 कीलाल न० ( कीलाल ) रुधिर, खून, रक्त. Blood उप० ८६, पात्र०  
 कीलालिअ. त्रि० ( कीलालित ) रुधिर-युक्त, खून वाला Bloody. गडबड  
 कीलिआ स्त्री० ( कीलिका ) छोटा खूँटा, खूटी. A small peg क० ग० १, ३६,  
 कीव पु० ( क्रीव ) नपुंसक. An impotent man बृह० ४,  
 कीस अ० ( कस्मात् ) क्यों, किस से, किस कारण से Why for? उव० हे० ३, ६८,  
 कु. अ० ( कु ) (१) अल्प, थोडा A little (२) निषिद्ध, निवारित Forbidden, Prohibited हे० २, २१७, से० १, २६, सम्म० १, (२) स्त्री० पृथ्वी, भूमि The earth सम्म० १ टी, से० १, २६,—त्तिअ. न० ( त्रिक ) (१) तीनों जगत्, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक The three worlds—Heaven, the earth and the lower (Hell) world (२) तीनों जगत् में स्थित पदार्थ. —त्तिअ त्रि० ( त्रिज ) तीनों जगत् में उत्पन्न वस्तु A produce of three world. आवम० —त्तिआवण पु० न० ( त्रिकावण ) तीनों जगत् के पदार्थ जहा मिल सके ऐसी दुकान. A shop where worldly-purchases can be made. —वलय. न० ( वलय )

पृथ्वी-मण्डल The circuit of the earth आ० २७,

कुड्ड, त्रि० ( कुचित ) सकुचा हुआ Contracted प्र० ६२,

कुड्ड त्रि० ( कुपित ) क्रुद्ध, कोप-युक्त Angry, Wrathful भवि०

कुड्ड पु० न० ( कुतुप ) स्नेह-पात्र, घी, तैल वगैर भरने का चमड़े का पात्र-विशेष A small leather bottle for Ghee, oil etc पात्र०

कुड्ड न० ( कुतूहल ) ( १ ) अपूर्व वस्तु देखने की लालसा-उत्सुकता Curiosity of seeing an extraordinary thing ( २ ) कौतुक, परिहास Joking, Jesting हे० १, ११७, कुमा०

कुड्ड अ० ( कुतश्चित् ) कहीं से, किसी से स० १८२,

कुड्ड अ० ( कुतोपि ) कहीं से भी काल०

कुड्डारी स्त्री० ( कुमारी ) वनस्पति विशेष, कुवार-पाठा, वीकुवार One kind of medical plant आ० २०, जी० १०, -

कुड्ड पु० ( कुड्ड ) देश विशेष, Name of a country भवि०

कुड्ड पु० ( कुड्ड ) इस नाम का एक असुर Name of a demon पात्र० — अरि, पु० ( अरि ) कार्तिकेय, स्कन्द An epithet of Kartikeya पात्र०

कुड्ड स्त्री० ( कुड्ड ) दण्डकारण्य की इस नाम की एक नदी Name of the river of the Dandakaranya पउम० ४२, १६,

कुड्ड न० ( कुड्ड ) एक प्रकार का जहाज A kind of ship. निसी० च० १६,

कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) ( १ ) कुटिल, वक्र Crooked or Curved ( २ ) मायावी, कपटी Deceitful वव० १,

कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) ( १ ) सकुचित Contracted सुपा० १८, ( २ ) कुटिल, वक्र.

Crooked or curved वव० १,

कुड्ड स्त्री० ( कुड्ड ) रुई से भरा हुआ पहनने का एक प्रकार का कपडा One kind of garment जीत०

कुड्ड न० ( कुड्ड ) नगर विशेष, हस्तिनापुर Hastinapur ( city name ).

पउम० ६२, ३४,

कुड्ड न० ( कुड्ड ) नगर विशेष.

Name of a city सुर० ३, ८८,

कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) ( १ ) मूर्ख, बुद्धि रहित Foolish, Blunt ( २ ) मद, अलस Indolent, Lazy आ० १६,

कुड्ड न० ( कुड्ड ) ( १ ) इस नाम का एक सरोवर Name of a lake ती० ३४, ( २ ) आज्ञा, आदेश. A command, An order कप्य०

कुड्ड पु० ( कुड्ड ) मगध देश का एक गाव Name of a village of the Magadha country कप्य०

कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) आज्ञाकारी. Obedient कप्य०

कुड्ड न० ( कुड्ड ) ग्राम विशेष Name of a village कप्य०

कुड्ड पु० न० ( कुड्ड ) ( १ ) एक देव विमान. A particular celestial aerial car देवेन्द्र० १४२, ( २ ) तप-विशेष A kind of religious austerity सबोध० २७, ( ३ ) पु० विदर्भ देश के एक राजा का नाम Name of a king of Vidarbha ( Town or country ) पउम० ३०, ७७,

कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) कुड्ड वाला Decorated with ear-rings भास० ३३, कुड्ड त्रि० ( कुड्ड ) वर्तुल, गोल आकार वाला Globular-Circular.

सुपा० ६२, कप्पू०  
 कुंडलिआ स्त्री० ( कुण्डलिका ) छन्द-विशेष.  
 Name of a metrie पिंग०  
 कुडाग. पु० ( कुण्डाक ) सनिवेश विशेष, ग्राम  
 विशेष Name of a village आवम०  
 कुंडिण न० ( कुण्डिन ) विदर्भ देश का एक नगर  
 Name of a city of the Vidarbha  
 country कुप्र० ४८,  
 कुडी स्त्री० ( कुण्डी ) (१) कुण्डा, पात्र विशेष  
 A bowl-shaped vessel सुपा० २६६,  
 (२) कमण्डल, सन्यासी का जल-पात्र A  
 water-pot used by ascetics महा०  
 कुत पु० ( कुन्त ) राम के एक सुभट का नाम  
 The name of Ram's warrior or  
 hero पउम० २६, ३८,  
 कुतल पु० ( कुन्तल ) (१) देश विशेष Name  
 of a country. सु० च० ६१, (२) केश,  
 बाल Hair सुर० १, १, सुपा० ६१, २००,  
 कुतला. स्त्री० ( कुन्तला ) इस नाम की एक रानी  
 Name of a queen दस०  
 कुतली. स्त्री० ( कुन्तली ) कुन्तल देश की रहने  
 वाली स्त्री A woman of Kuntal  
 country कप्पू०  
 कुताकुति न० ( कुन्ताकुन्ति ) बर्छे की लड़ाई  
 Battle of spears सिरि० १०३२,  
 कुथु पु० ( कुन्थु ) हरिवंश का एक राजा A  
 Raja of Hai Bansa पउम० २२, ६८,  
 कुद न० ( कुन्द ) (१) विद्याधरों का एक नगर,  
 A country of Vidyadhars इक०  
 (२) पु० न० छन्द विशेष A stanza  
 पिंग०  
 कुदा स्त्री० ( कुन्दा ) एक इन्द्राणी, मानिभद्र  
 इन्द्र की पटरानी Rani of Inder Mani  
 Bhadr (Raja of gods) इक०  
 कुंपय. पु० न० ( कूपक ) तैल बगैर रखने का  
 पात्र विशेष A large leathern vessel

for holding oil रयण० ३१,  
 कुपल पु० न० ( कुडमल ) (१) इस नाम का  
 एक नरक Name of a Hell (२) सुकुल,  
 कलि, कलिका A new bud. हे० १, २६,  
 कुमा० पड्०  
 कुम्भ पु० ( कुम्भ ) (१) कुम्भकर्ण का एक पुत्र  
 A son of Kumbhkarana से० २२,  
 ६२, (२) एक विद्याधर का सुभट का नाम.  
 Name of a warrior of a Vidya  
 Dhar (Demon) पउम० १०, १३, (३)  
 हाथी का गड-स्थल Part of head  
 of an elephant कुमा० (४) एक राशि  
 A zodiac विचार० १०६, (५) एक वाद्य  
 A kind of organ (musical instru-  
 ment). (६) ललाट, भाल प्रदेश Fore-  
 head प्रव० २,  
 कुम्भारण पु० ( कुम्भकर्ण ) रावण के छोटे  
 भाई का नाम Name of a younger  
 Brother of Ravna से० १५, ११,  
 कुम्भड न० ( कृष्णाण्ड ) फल-विशेष, कोहला  
 A pumpkin gourd कप्पू०  
 कुम्भसेण पु० ( कुम्भसेन ) उत्तरपिण्डी काल के  
 प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम  
 Name of a the 1st disciple of  
 1st Jain Tirthankara of that  
 time तित्थ०  
 कुम्भि. पु० ( कुम्भिन् ) हस्ती, हाथी Ele-  
 phant सय०  
 कुम्भी. स्त्री० ( कृष्णाण्डी ) कोहले का गाछ  
 Creeper of pumpkin gourd गडड०  
 कुम्भील पु० ( कुम्भील ) जलचर प्राणि विशेष,  
 नम्र, मगर Crocodile चार० ६४,  
 कुम्भोच्च. पु० ( कुम्भोच्च ) ऋषि- विशेष,  
 अगस्त्य ऋषि Name of a saint ( a  
 sage ) ( Agasta ) कप्पू०  
 कुकुहाडय न० ( कुकुहायित ) चलते समय का

शब्द विशेष Sound of moving तद्०  
 कुक्कुत्र त्रि० ( कुक्कुच ) भाङ की तरह शरीर के  
 अथर्वों की कुचेष्टा करने वाला An actor  
 like a Jester. प्रब० ६,  
 कुक्कुत्रा स्त्री० ( कुक्कुचा ) अन्नस्थन्दन, चरण  
 To drop, To rain बृह० ६,  
 कुक्कुड पु० ( कुक्कुट ) ( १ ) वनस्पति विशेष  
 Name of a forest leaf. ( २ ) विद्या  
 द्वारा किया जाता हस्त प्रयोग विशेष,  
 Hypocrisy, Interested obser-  
 vance of religious duties वव० १,  
 कुक्कुह, पु० ( कुक्कुभ ) पक्षि विशेष. Name of  
 of a Bird गड०  
 कुग्गाह पु० ( कुग्राह ) ( १ ) जल जन्तु विशेष.  
 An animal or reptile of water  
 "कुग्गाहगाहाइय" सु० च० ६२६, ( २ ) कदाग्रह,  
 हठ Perversity उप० ८३३ टी,  
 कुच्च पु० ( कुच ) स्तन, थन Breast कुमा०  
 कुचोज्ज. न० ( कुचोद्य ) कुतर्क Bad reason,  
 fallacy धर्मस० १३७५,  
 कुच्च न० ( कुर्च ) दाढ़ी-मूँछ Beard, Mous-  
 tache पात्र० अभि० २१२,  
 कुच्चिय त्रि० ( कुर्चिक ) दाढ़ी-मूँछ वाला One  
 who has beard and moustache  
 बृह० १,  
 कुच्छु पु० ( कुत्स ) ( १ ) ऋषि विशेष Name  
 of a saint ( २ ) गोत्र विशेष A lineage  
 "कुच्छुसगुत्स" कप्प०  
 कुच्छिमरि त्रि० ( कुच्छिमरि ) एक लपेटा,  
 स्वार्थी. Selfish, Voracious रभा०  
 कुच्छिपूर पु० ( कुच्छिपूर ) उदर पूर्ति Filling  
 or pumping the belly वव० ४,  
 कुच्छिमई. स्त्री० ( कुच्छिमती ) गर्भिणी, आपन्न-  
 सत्वा Pregnant पद्०  
 कुच्छेद्य पु० ( कौचेयक ) तलवार, खड्ग  
 Sword पद्०

कुज्ज. पु० न० ( कुज्ज ) पुष्प-विशेष Name  
 of a flower पद्०  
 कुट्टणी स्त्री० ( कुट्टनी ) ( १ ) मूसल, जिससे  
 चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं A pestle.  
 बृह० १, ( २ ) कूटनी, दूती A female  
 messenger, A procuress रभा०  
 कुट्टिणी स्त्री० ( कुट्टिनी ) कूटनी, दूती. A  
 female messenger, A procuress  
 कप्प० रभा०  
 कुट्ट. पु० ( कोष्ट ) उदर पेट Belly पडि०  
 कुट्ट. न० ( कुष्ट ) ( १ ) शाप, अभिशप्य शब्द.  
 Curse ( २ ) त्रि० शपित, अभिशप्य A  
 man who was cursed सु० च० २५०,  
 कुट्टा स्त्री० ( कुटा ) इमली, चिन्ता The  
 tamarind tree or fruit बृह० १,  
 कुड. पु० ( कुट ) ( १ ) घडा, कलश A pot.  
 विशेष० १४२६, ( २ ) वृक्ष, पेड. A tree  
 सु० च० ५६२,  
 कुडग पु० न० ( कुटङ्क ) ( १ ) कुक्ष, निकुञ्ज,  
 लता वगैर से ढका हुआ स्थान A place  
 covered by leaves or by creeper  
 गा० ६८०, हेका० १०५, ( २ ) गह्वर, कोटर  
 A cave राज०  
 कुडगा. स्त्री० ( कुटङ्का ) लता-विशेष Creepers  
 पत्रम० ५३, ७६,  
 कुडगी स्त्री० ( कुटङ्गी ) बाँस की जाली A  
 net of bamboos महा० सुर० १२, २००,  
 उप० पू० २८१,  
 कुडिलविडल न० ( कुडिलविडल ) हस्ति-  
 शिखा Training of Elephant. राज०  
 कुडिललय त्रि० ( कुडिलक ) कुटिल, टेढा, चक्र.  
 Bent भवि०  
 कुडुलेवणी स्त्री० ( कुडुलेवनी ) सुधा, खडी,  
 खटिका Plastering of a wall दे० २, ४२,  
 कुटार पु० ( कुटार ) कुल्हाड़ा, फरसा An  
 Axe दे० १, १६६, पद्०

कृष्णव न० ( कृष्णप ) ( १ ) मृत-शरीर, मुरदा  
Dead body पाञ्च० गडड० ( २ ) त्रि०  
दुर्गन्धी Bad smell. हे० १, २२१,  
कुत्तित्थ न० ( कुतीर्थ ) जलाशय में उतरने का  
खराब मार्ग A bad path for a pond  
of water प्रास्० ६०,  
कुत्थण न० ( कोथन ) सड़ना, सड़ जाना To  
decay वव० ४,  
कुत्थुह. पु० न० ( कौस्तुभ ) मणि-विशेष, जो  
विष्णु की छाती पर रहती है A precious  
stone which is born by Vishnu  
on his breast हेका० २५७,  
कुद्दव. पु० ( कोद्रव ) धान्य विशेष, कोदा, कोदव  
A kind of Corn सन्न्य० १२,  
कुप्पर. पु० ( कर्पर ) ( १ ) खप्पर, कपाल The  
skull ( २ ) भीत की परत, भीत का जीर्ण  
शीर्ण थर Decayed wall गडड०  
कुप्पास पु० ( कूर्पास ) कञ्चुक, काचली, जनानी  
कुरती A kind of shirt of a female  
हे० १, ७२, कप्प० पाञ्च०  
कुप्पिय त्रि० ( कुपित ) ( १ ) कुपित, क्रुद्ध  
Angry ( २ ) न० क्रोध, गुस्सा. Angel  
आया० चू० ४,  
कुवेर. पु० ( कुवेर ) ( १ ) कुवेर, यक्ष-राज, धनेश  
Name of a wealthy god पाञ्च०  
गडड० ( २ ) काञ्चनपुर के एक राजा का नाम,  
Name of a Raja of Kanchanpur  
पवम० ७, ४५, ( ३ ) भगवान् कुशुनाथ के प्रथम  
श्रावक का नाम Name of first Jain  
of Jain Tirthankar Kunthunath  
विचार० ३७८, ( ४ ) एक जैन मुनि Name  
of a Jain Saint. कप्प०—दिस्सा स्त्री०  
( दिश ) उत्तर दिशा North side सुर० २,  
८५, —नयरी. स्त्री० ( नगरी ) कुवेर की राज-  
धानी, अलका Capital of Raja Kubera,  
Alkapuri पाञ्च०

कुवेरा. स्त्री० ( कुवेरा ) जैन साधु गण की एक  
शाखा. Party of a Jain sadhus कप्प०  
कुमार पु० ( कुमार ) ( १ ) भगवान् वासुपूज्य  
का शासनाधिष्ठाता देव Name of a god  
of the time of Jain Tirthankar  
Basupuja सति० ७, ( २ ) कार्तिकेय,  
स्कन्द. Son of Shiva ( a god ) पाञ्च०  
( ३ ) शुक्र-पत्नी Pariot ( ४ ) घुडसवार  
Rider of horse ( ५ ) सिन्धु, नद.  
Name of a river ( ६ ) वरुण वृक्ष.  
Name of a tree हे० १, ६७,  
कुमारणदि पु० ( कुमारनन्दिर ) इस नाम  
का एक सोनार Name of a gold-  
smith, श्राव०  
कुमारधम्म पु० ( कुमारधर्म ) एक जैन साधु.  
A Jain faqn ( Muni ) mendicant.  
कप्प०  
कुमारा स्त्री० ( कुमारा ) इस नाम का एक सनि-  
वेश Name of a place "कुमाराए सनि-  
वेशे गञ्जो" श्रावम०  
कुमारिय. पु० ( कुमारिक ) शौनिक, कसाई  
Butcher. बृह० १,  
कुमारी. स्त्री० ( कुमारी ) ( १ ) नदी विशेष  
Name of a river ( २ ) जवूद्वीप का एक  
भाग The central part of the uni-  
verse according to Hindu geog-  
raphy ( ३ ) वनस्पति विशेष, अपराजिता  
A plant ( ४ ) सीता Name of wife  
of Rama ( ५ ) बडी इलायची Carda-  
mon ( ६ ) वन्ध्या ककड़ी की लता A  
kind of a creeper ( ७ ) पक्षि विशेष.  
Name of a bird हे० ३, ३२,  
कुमुञ्ज पु० ( कुमुद ) ( १ ) इस नाम का एक वानर.  
Name of a monkey से० १, ३४, ( २ )  
सख्या विशेष, कुमुदाह को चौरासी लाख से  
गुणाने पर जो सख्या लब्ध हो वह A cal-

eulation (Kumadang into 84  
 laes ) जो० २, (३) त्रि० पृथ्वी में आनन्द  
 पाने वाला. One who enjoys happi-  
 ness in the world (४) खराब प्रीति  
 वाला Evil thinking man से० १, २६,  
 कुमुत्रग न० (कुमुदाङ्ग) सख्या विशेष, महा-  
 कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या  
 लब्ध हो वह A calculation (maha-  
 kalam into 84 laes) जो० २,  
 कुमुद्रीणी स्त्री० (कुमुदिनी) (१) चन्द्र विकासी  
 कमल का पेड़ Name of a lotus tree  
 कुमा० रमा० (२) इस नाम की एक रानी  
 उप० १०३१ टी,  
 कुम्भी स्त्री० (कुम्भी) (१) स्त्री कच्छुआ, कच्छुपी  
 A tortoise (she) (२) नारद की माता  
 का नाम Mother of saint Narad  
 पदम० ११, ५२,  
 कुम्ह पु० व० (कुम्ह) देश विशेष Name  
 of a country हे० २, ७४,  
 कुय न० (कुच) (१) स्तन, धन Breast  
 (२) त्रि० शिथिल Loose वव० ७, (३)  
 अस्थिर Not fixed निसी० चू० १,  
 कुरगच्छी स्त्री० (कुरङ्गाची) हरिण के नेत्र जैसे  
 नेत्र वाली स्त्री, मृग-नयनी स्त्री A woman  
 of deer eyes वाश० २०,  
 कुरटय पु० (कुरण्टक) वृक्ष विशेष, पियवासा  
 Name of a tree उप० १०३१, टी,  
 कुरय, न० (कुरक) पुष्प-विशेष Flower  
 वजा० १०६,  
 कुररी, स्त्री० (कुररी) (१) छंद का एक भेद A  
 stanza पिंग० (२) मेपी, मेटी Goat  
 (she) रमा०  
 कुरल पु० (कुरल) केश, बाल Han सुपा०  
 २४, पात्र०  
 कुरवय, पु० (कुरवक) वृक्ष विशेष, कटसरैया,  
 Name of a tree गा० ६, मा० ४०,

विक्र० २६, स० ४१४, कुमा०  
 कुरु पुं० (कुरु) (१) भगवान् आदिनाथ का इस  
 नाम का एक पुत्र. Name of a son of  
 Jain Tirthankar Adinath ती० १६,  
 इस नाम का एक वंश Name of a fami-  
 ly. भवि०—खेत्त न० (चेत्र) (१) दिल्ली  
 के पास का एक मैदान. A ground near  
 Delhi (२) कुरु देश की राजधानी, हस्तिना-  
 पुर Name of a capital of Kuru  
 region Hastinapur भवि० ती० १६;  
 कुरुचद् पु० (कुरुचन्द्र) इस नाम का एक  
 राजा, Name of a king आवम०  
 कुरुदत्त, पु० (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एक  
 श्रेष्ठी Name of a richman. (२) इस  
 नाम का एक जैन महर्षि. Name of a Jain  
 saint सत्था०  
 कुरुविन्द पु० (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामक  
 रोग, एक प्रकारका जघा रोग A kind of  
 disease (२) मणि विशेष, रत्न की एक  
 जाति A ruby गडड०  
 कुरुविन्दा स्त्री० (कुरुविन्दा) इस नाम की एक  
 वाशिष्-भार्या, Name of a woman of  
 Vaish dynasty पदम० ५५, ३८,  
 कुल, पु० न० (कुल) (१) एक आचार्य की  
 सत्ति Dynasty, Family कप० (२)  
 साम्निष्य, साम्नीष्य The front or fore  
 part —आचार पु० (आचार) कुलाचार,  
 वंश परम्परा से चला आता रिवाज The  
 proper duty or practice of a  
 caste of a family वव० १, —जुअ.  
 त्रि० (युत) कुलीन Well born, of a  
 good family. प्रव० ६४, —तत्तु, पुं०  
 (तन्तु) कुल सत्तान, कुल संतति Good  
 progeny, good family वव० ६,—  
 महत्तरिया स्त्री० (महत्तरिका) कुल में प्रधान  
 स्त्री०, कुटुम्ब में मुखिया Head woman

of family सु० च० ७६, आव०  
 कुलकर, पु० (कुलङ्कर) इस नाम का एक राजा,  
 Name of a Raja पत्रम० ८२, २६,  
 कुलग्घ, पु० (कुलार्घ) एक अनार्य देश Name  
 of a country where there are no  
 alyans प्रव० २७४,  
 कुलडा स्त्री० (कुलटा) व्यभिचारिणी स्त्री,  
 पुश्चली An unchaste woman सुपा०  
 ३८४,  
 कुलय न० (कुलक) तीन या चार से ज्यादा  
 परस्पर सापेक्ष पद्य The connection of  
 several stanzas सम्मत्त० ७६,  
 कुलाञ्जल पु० (कुलाचल) कुल-पर्वत Name  
 of a mountain त्रि० ८२,  
 कुलाय न० (कुलाय) पक्षी का घर, नीड,  
 Nest of a bird पात्र०  
 कुलिक-य, पु० (कुलिक) ज्योतिष शास्त्र में  
 प्रसिद्ध एक कुयोग Bad time in astro-  
 logy गण० १८,  
 कुलिया स्त्री० (कुलिका) भीत Wall  
 बृह० २,  
 कुलिर पु० (कुलिर) मेघ वगैर वारह राशि में  
 चतुर्थ राशि, Name of 4th Zodiac  
 पत्रम० १७, १०८,  
 कुलिस, पु० न० (कुलिश) वज्र, इन्द्र का मुख्य  
 आयुध A weapon of Raja India  
 पात्र० ३५० ३२० टी,  
 कुलिसनिणाय पु० (कुलिशनिनाद) रावण  
 का इस नाम का एक सुभट A warrior of  
 Raja Ravan पत्रम० २६, २६,  
 कुलिसमज्झ न० (कुलिशमध्य) एक प्रकार की  
 तपश्चर्या, A kind of devotion पत्रम०  
 २२, २४,  
 कुलीण त्रि० (कुलीन) उत्तम कुल में उत्पन्न  
 Born in a good family प्रासू० ७१,  
 कुलीर पु० (कुलीर) जटु-विशेष, Name of

an insect, पात्र०  
 कुल्लउर न० (कुल्यपुर) नगर विशेष Name  
 of a city सत्या०  
 कुल्ला स्त्री० (कुल्या) (१) जल की नीक, सारिणी,  
 Diam कुमा० हे० २, ७६, (२) नदी,  
 कृत्रिम नदी Canal कपू०  
 कुल्लाग पु० (कुल्ल्याक) सनिवेश विशेष, मगध  
 देश का एक गाव A village of Magdh  
 county कपू०  
 कुस्त, पु० (कुश) राम के एक पुत्र का नाम  
 Name of a son of Raja Ram  
 chandria पत्रम० १००, २,  
 कुसट्ट पु० (कुशावर्त्त) आर्य देश विशेष  
 Name of an arya county सत्त०  
 ६७ टी,  
 कुसत्थ पु० न० (कुशास्त्र) कुसित शास्त्र,  
 अनाम प्रणीत सिद्धान्त A bad religious  
 book "सन्वे कुसत्था" निसी० चू० ११,  
 कुसल न० (कुशल) (१) सुख, हित, Com-  
 fort, Love (२) पुष्य Alnus, chari-  
 ty पत्रा० ६,  
 कुसला त्रि० (कुशला) नगरी विशेष, विनीता,  
 अयोध्या Name of a city (Ayudhya)  
 आवम०  
 कुसी स्त्री० (कुशी) लोहे का बना हुआ हथियार  
 A steel weapon वे० ८, ४,  
 कुसीलव पु० (कुशीलव) अभिनय-कर्ता-नट,  
 A tumbler one who exhibits  
 feats of activity कपू०  
 कुसुभ न० (कुसुम्भ) रंग विशेष Name of  
 colour आ० १२,  
 कुसुभिन्न त्रि० (कुसुम्भित) कुसुभ रंग वाला  
 Colour that of kusumbha or  
 safflower आ० १२,  
 कुसुभी स्त्री० (कुसुम्भी) वृक्ष विशेष, कम्प का  
 पेड़ Saffion plant पात्र०

कुसुमदत्त पु० (कुसुमदत्त) एक तीर्थकर देव का नाम, श्री सुविधिनाथ. Name of a Jain Tirthankar Shree Subidhinath पत्रम० १, ३,  
 कुसुमलया स्त्री० (कुसुमलता) छन्द विशेष Stanza अजि० १४,  
 कुसुमाञ्जर पु० (कुसुमाकर) इस नाम का एक छन्द Stanza of this name पिंग०  
 कुसुमाल त्रि० (कुसुमवत्) फूल वाला Flowery स० ६६७,  
 कुसुमावर्षी स्त्री० (कुसुमावती) इस नाम की एक नगरी Village or town of this name पत्रम० ५, २६,  
 कुसुमिल्ल त्रि० (कुसुमवत्) पुष्पित, पुष्प-युक्त Flowery सुपा० २२३,  
 कुसूल पु० (कुशूल) कोष्ठ, धान्य रखने के लिए मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का पात्र An earthen pot for keeping rice in husk पात्र०  
 कुस्सुमिण पु० (कुस्वम) दुष्ट स्वप्न Worst dream, Incubus सबोध० ४२,  
 कुहय. पु० न० (कुहक) वायु विशेष, दौड़ते हुए अश्व-उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार का वायु A kind of air, coming out of the belly of running horse गच्छ० २,  
 कुहर पु० ब० (कुहर) एक देश A country of this name पत्रम० ६८, ६७,  
 कुहाडी. स्त्री० (कुटारी) कुल्हाडी, कुडार Axe, Hatchet उप० ६६३,  
 कुहाचणा स्त्री० (कुहना) (१) आश्चर्य-जनक दम्भक्रिया, दम्भ चर्या Hypocrisy, assumed and false sanctity. (२) लोगों से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट-भेष A kind of deceit to collect money from public जीत०

कुहिल पु० स्त्री० (कुहमत्) कोयल पक्षी Cuckoo पिंग०  
 कुहु. स्त्री० (कुहु) कोकिल पक्षी की आवाज, Voice of a cuckoo पिंग०  
 कहेडगा स्त्री० (कुहेटका) कन्द विशेष, पिएडालु A kind of vegetable प्रव० ४,  
 कुइआ स्त्री० (कूपिका) कूई, छोटा कूप Small well चड०  
 कूचिआ स्त्री० (कूचिका) दादी मूँछ का बाल, Beard, moustache सबोध० ३१,  
 कूड न० (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास Fast of 27 days continuous सबोध० ५८, —कारि त्रि० (कारिन्) धोखेवाज, दगाखोर Hypocrite Deceitful सु० च० ६२७, —प्पओग पु० (प्रयोग) प्रच्छन्न पाप Hidden sin आव० ४,  
 कूडवाहि पु० (कूटवाहिन्) बलीवर्द, वैल. Oxen, ox आव० ५,  
 कूयिआ त्रि० (कूयित) सकोच प्राप्त, सकोचित Closed गडड०  
 कूयिय त्रि० (कूयित) सबा हुआ Decayed रूप० १६०,  
 कूय पु० (कूप) कूप, कुआ Well गडड० —दहर पु० (दुर्दुर) (१) कूप का मेढक Flieg of a well (२) वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो, अल्पज्ञ A man who never went out of his house उप० ६४८ टी,  
 कूर पु० (कूर) रावण का इस नाम का एक सुभट A warrior of Ravan's name पत्रम० २६, २६,  
 कूलकसा. स्त्री० (कूलकपा) तीर को तोड़ने वाली नदी River, stream, overflowing river बेणी० १२०,  
 कूलवालग पु० (कूलवालक) एक जैन मुनि. A Jain Saint आव०



of family नु० घ० ७६, शार०  
 कुलकर. पु० (कुलकर) इम नाम का एक राजा.  
 Name of a Raja प३म० ८२, २६,  
 कुलग्व.पु० (कुलार्ग) एक अनार्य देश Name  
 of a country where there are no  
 aryan प्र० २०४,  
 कुलटा. गी० (कुलटा) व्यभिचारिणी गी,  
 पुंशर्ला An unchaste woman सुपा०  
 ३८४,  
 कुलय न० (कुलर) तीन या चार से ज्यादा  
 परस्पर भापेय पद्य The connection of  
 several stanzas सम्मत्त० ७६,  
 कुलाञ्जल पु० (कुलाञ्जल) कुल-पर्वत Name  
 of a mountain त्रि० ८२,  
 कुलाय न० (कुलाय) पक्षी का घर, नीट.  
 Nest of a bird पात्र०  
 कुलिक-य. पु० (कुलिक) ज्योतिष शास्त्र में  
 प्रसिद्ध एक कुयोग Bad time in astro-  
 logy गण० १८,  
 कुलिया ची० (कुलिका) भीत Wall  
 वृह० २,  
 कुलिर पु० (कुलिर) मेघ वगैर चारह राशि में  
 चतुर्थ राशि. Name of 4th Zodiac  
 प३म० १७, १०८,  
 कुलिस. पु० न० (कुलिश) वज्र, इन्द्र का मुख्य  
 आयुध A weapon of Raja India  
 पात्र० उप० ३२० टी,  
 कुलिसनिगाय पु० (कुलिशनिनाद) रावण  
 का इस नाम का एक सुभट A warrior of  
 Raja Rawan. प३म० २६, २६,  
 कुलिसमज्झ न० (कुलिशमध्य) एक प्रकार की  
 तपश्चर्या. A kind of devotion प३म०  
 २२, २४,  
 कुलीण त्रि० (कुलीन) उत्तम कुल में उत्पन्न  
 Born in a good family. प्रासू० ७१,  
 कुलीर पु० (कुलीर) जल-विशेष. Name of

an insect. पात्र०  
 कुल्लडर न० (कुयपुर) नगर विशेष Name  
 of a city सन्धा०  
 कुला गी० (कुल्या) (१) जल की नीक, मारिणी,  
 Diam कुमा० पं० २, ७६, (२) नदी,  
 टर्मि नदी Canal कप्प०  
 कुलाग पु० (कुल्याक) मनिपेश विशेष, मगध  
 देश का एक गाव A village of Magdh  
 country कप्प०  
 कुस. पु० (कुश) राम के एक पुत्र का नाम  
 Name of a son of Raja Ram  
 chandria प३म० १००, २,  
 कुसट्ट पु० (कुशावर्त्त) आर्य देश विशेष  
 Name of an arya country सत्त०  
 ६७ टी,  
 कुसुतय पु० न० (कुशाख) कुसित शाख,  
 अनाप्त प्रणीत सिद्धान्त A bad religious  
 book "सच्चे कुसुतया" निसी० चू० ११,  
 कुसल न० (कुशल) (१) सुख, हित, Com-  
 fort, Love (२) पुण्य Alms, chari-  
 ty पचा० ६,  
 कुसला. त्रि० (कुशला) नगरी विशेष, चिनीला,  
 अयोध्या Name of a city (Ajudhia)  
 आचम०  
 कुसी. खी० (कुशी) लोहे का बना हुआ हथियार  
 A steel weapon दे० ८, ६,  
 कुसोलाच पु० (कुशीलव) अभिनय-कर्ता नट.  
 A tumbler one who exhibits  
 feats of activity कप्प०  
 कुसुभ न० (कुसुम्भ) रंग विशेष Name of  
 colour आ० १२,  
 कुसुभिश्च त्रि० (कुसुम्भित) कुसुभ रंग वाला  
 Colour that of kusumbha or  
 safflower आ० १२,  
 कुसुभी खी० (कुसुम्भी) वृक्ष विशेष, कसूम का  
 पेड़ Saffion plant पात्र०

कुसुमदंत पु० (कुसुमदन्त) एक तीर्थंकर देव का नाम, श्री सुविधिनाथ, Name of a Jain Tirthankar Shree Subdhi-nath पत्र० १, ३,  
 कुसुमलया स्त्री० (कुसुमलता) छन्द विशेष Stanza अजि० १५,  
 कुसुमाञ्जर पु० (कुसुमाकर) इस नाम का एक छन्द Stanza of this name पिंग०  
 कुसुमाल त्रि० (कुसुमवत्) फूल वाला Flowery स० ६६७,  
 कुसुमाचई स्त्री० (कुसुमावती) इस नाम की एक नगरी Village or town of this name पत्र० ५, २६,  
 कुसुमिल्ल त्रि० (कुसुमवत्) पुष्पित, पुष्प-युक्त Flowery सुपा० २२३,  
 कुसूल पु० (कुशल) कोष्ठ, धान्य रखने के लिए मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का पात्र An earthen pot for keeping rice in husk पाय०  
 कुसुमिण पु० (कुस्वम) दुष्ट स्वम Worst dream, Incubus सबोध० ४२,  
 कुहय पु० न० (कुहक) वायु विशेष, दौड़ते हुए अश्व-उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार का वायु A kind of air, coming out of the belly of running horse गच्छ० २,  
 कुहर पु० व० (कुहर) एक देश A country of this name पत्र० ६८, ६७,  
 कुहाडी स्त्री० (कुहारी) कुलहाडी, कुहार Aie, Hatchet उप० ६६३,  
 कुहावणा स्त्री० (कुहना) (१) आश्चर्य-जनक दमक्रिया, दम्भ चर्चा Hypocrisy, assumed and false sanctity. (२) लोगों से द्रव्य हासिल करनेके लिए किया हुआ कपट-भेद A kind of deceit to collect money from public जीत०

कुहिल पु० स्त्री० (कुहुमत्) कोयल पक्षी Cuckoo पिंग०  
 कुहु, स्त्री० (कुहु) कोकिल पक्षी की आवाज, Voice of a cuckoo पिंग०  
 कहेडगा स्त्री० (कुहेटका) कन्द विशेष, पिएडालु A kind of vegetable प्रव० ४,  
 कुइआ स्त्री० (कूपिका) कूई, छोटा कूप Small well चड०  
 कूचिआ स्त्री० (कूचिका) दाढ़ी मँछ का बाल, Beard, moustache सबोध० ३१,  
 कूड न० (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास Fast of 27 days continuous सबोध० ५८, —कारि त्रि० (कारिन्) धोखेबाज, दगाखोर Hypocrite Deceitful सु० च० ६२७, —पत्रोग पु० (प्रयोग) प्रच्छन्न पाप Hidden sin आव० ४,  
 कूडवाहि पु० (कूटवाहिन) बलीवर्द, बैल. Oxen, ox आव० ५,  
 कूशिआ त्रि० (कूशित) सकोच प्राप्त, सकोचित Closed गउड०  
 कूशिय त्रि० (कूशित) सडा हुआ Decayed कुप्र० १६०,  
 कूय पु० (कूप) कूप, कुआ Well गउड०  
 —दहर पु० (वर्दुर) (१) कूप का मेढक Flag of a well (२) वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो, अल्पज्ञ A man who never went out of his house उप० ६४८ टी,  
 कूर पु० (कूर) रावण का इस नाम का एक सुन्दर A wallion of Ravan's name पत्र० ५६, २६,  
 कूलकसा, स्त्री० (कूलकपा) तीर को तोड़ने वाली नदी River, stream, overflowing river बेणी० १२०,  
 कूलवालग पु० (कूलवालग), एक जैन मुनि, A Jain Saint आव०

कूच. पु० (कूप) स्नेह पात्र, कुतुप. Worthy of love यज्ञा० ७२, उप० ५१२, —मडुफ्र. पु० (मगडुक) (१) कूप का मेढक Frog of a well (२) अल्पज्ञ मनुष्य Applied to a person of no enterprise निर्मा० चू० १,  
 कूचर पु० न० (कूर्पर) रथ या गाड़ी वगीर का एक अयव, युगन्धर A part of country cart (Rath) से० १०, ८४,  
 कूचिय पु० (कूपिक) इम नाम का एक सनि-वेश-गाँव, A village of this name थायम०  
 कूचिय. न० (कूजित) अव्यक्त शब्द Coo सुपा० ५०८,  
 कूचिया. स्त्री० (कूपिका) (१) छोटा कूप Small well उप० ७०८ टी, (२) छोटा स्नेह पात्र Worthy of love राज०  
 कूची स्त्री० (कूपी) देखो "कुचिया" शब्द. See "Kuchia" word उप० ७२८ टी,  
 केअग-य. पु० (केतक) (१) वृक्ष विशेष, केतकी A fragrant plant (Keola) गडड० (२) न० केतकी पुष्प, केवदा का फूल Flower of a fragrant plant keola. गडड०  
 केअव न० (कैरव) कपट, दम्भ Deceit, cheat हे० १, १, गा० १२४,  
 केअर पु० (केदार) क्षेत्र, खेत Field सुर० २, ७८,  
 केअरिआ. स्त्री० (केदारिका) घास वाली जमीन, गोचर भूमि Meadow-Grassy plot of land for grazing cattle कप्प०  
 केउ. पु० (केतु) (१) ध्वज, पताका Flag सुपा० २२६, (२) हला-सूत्र, रुई का सूत Cotton yarn गडड० (३) पुं० न० एक देव-विमान. Aeroplane of a Deva.

देनेन्द्र० १३४,  
 केउपेत्त. न० (केनुचेय) मेव वृष्टि से ही जिसमें अन्न पैदा हो सकता हो ऐसा क्षेत्र विशेष, (1) A field in which produce is obtained by rain (2) Unirrigated land आव० ६,  
 केउमाल न० (केनुमाल) चैताढ्य पर्वत पर स्थित इस नाम का एक विद्याधर नगर Name of a city on Vaitadhya mountain occupied by a Vidya-dhar इक०  
 केउर पु० (केयूर) लवण समुद्र का एक पाताल कलश. An underground pot in west of Saltish sea. प्रव० २७२,  
 केऊव. पु० (केयूष) लवण समुद्र का एक पाताल कलश An underground pot in west of Saltish sea इक०  
 केकई. स्त्री० (कैरयी) राजा दशरथ की एक रानी Kakai-Rani of Raja Dasrath पउम० २२, १०८, उप० ५० ३७,  
 केकसिया. स्त्री० (कैकसिका) रावण की माता का नाम Name of Ravan's mother पउम० ७, ५४,  
 केकसी. स्त्री० (कैकसी) रावण की माता Mother of Ravana पउम० १०३, ११४,  
 केढ-केढव पु० (कैटम) (१) इस नाम का एक प्रतिवासुदेव राजा Raja Wasudev (A kind of king) पउम० ५, १५६,  
 (२) दैत्य विशेष Name of a demon. —रिउ पु० (रिपु) श्रीकृष्ण, नारायण Lord Krishna, God. कुमा०  
 केत्तिअ-ल त्रि० (कियत्) कितना ? How much हे० २, १५७, कुमा० पद० महा०  
 केय. न० (केत) चिन्ह, निशानी Sign प्रव० ४,  
 केरव न० (कैरव) (१) कुमुद, सफेद कमल.

White lotus (२) कैतव, कपट. Deceit, Trick. हे० १, १२२,  
 केरिच्छ त्रि० (कोट्) कैसा, किस तरह का  
 Like what, what kind or manner  
 of प्राप्त०  
 केरी. स्त्री० (ककटी) वृक्ष विशेष, करीर का गच्छ  
 A tree of this name उप० १०३१टी,  
 केवट्ट पु० (कैवर्त्त) धीवर, मच्छीमार  
 Fisherman पाञ० स० २५८, हे० २, ३०,  
 केवल अ० (केवलम्) केवल, फल, मात्र. Only  
 स्वप्न० ६२, ६३, महा०  
 केवलिन, त्रि० (केवलिक) (१) केवलज्ञान  
 वाला Omnisciant (२) परिपूर्ण, सपूर्ण  
 Complete विशेष० २६८१,  
 केवली स्त्री० (केवली) ज्योतिष विद्या विशेष  
 Astiology हास्य० १२६, १२६,  
 केसपुर न० (केशपुर) वैताढ्य पर स्थित एक  
 विद्याधर नगर A city of Vidyadhara  
 on Vaitadhyā mountain इक०  
 केसर पु० (कवीश्वर) उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि  
 Poet. उप० ७२८ टी,  
 केसर पु० न० (केसर) एक देव विमान  
 Name of an aeroplane of a god  
 देवेन्द्र० १४२,  
 केसर न० (केसर) (१) फल-विशेष A fruit  
 राज० (२) सुवर्ण, सोनु Gold (३) छंद  
 विशेष Name of a stanza हे० १, १४६,  
 (४) पुष्प-विशेष The flower of the  
 Nagkesari, Saffron गडड० ११२२,  
 केसरा. स्त्री० (केसरा) सिंह वगैरे के स्कन्ध पर  
 के बालों की सटा. Hairs of the neck  
 of a lion प्राप्त० ४१, गडड० प्रामा०  
 केसरिल्ल. त्रि० (केसरवत्) केसर वाला  
 Which holds Kesar गडड०  
 केसि पु० (केशि) असुर-विशेष, अश्व का रूप  
 धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण

ने मारा था A demon, who used to  
 change himself as horse, and  
 was killed by Lord Krishna. मुद्रा०  
 २६२, (२) सातवें बासुदेव की माता Name  
 of mother of the Seventh Basu-  
 dev पउम० २०, १८४,  
 कोइल, पु० (कोकिल) छन्द का एक भेद A  
 prominent figure in Hindu  
 Poetry पिंग०  
 कोइला स्त्री० (कोकिला) स्त्री-कोयल The  
 black or Indian cuckoo पाञ०  
 कोउरह, त्रि० (कदुष्ण) थोडा गरम Luke-  
 warm (Hot) धर्मवि० ११३,  
 कौंच पु० (कौन्च) (१) द्वीप विशेष A  
 principal division of the world  
 surrounded by sea ती० ४५, (२) इस  
 नाम का एक असुर A demon of this  
 name कुमा०  
 कौचरिखु पु० (कौन्चरिषु) कार्तिकेय, स्कन्द  
 Son of lord Shiva कुमा०  
 कौचवीरग पु० न० (कौन्चवीरक) एक प्रकार  
 का जहाज A kind of ship वृह० १,  
 कौचिगा स्त्री० (कुन्चिका) ताली, कुन्जी. Key  
 उप० १७७,  
 कौंड पु० (कौण्ड) देश-विशेष A country  
 of this name इक०  
 कौण्डिनपुर न० (कौण्डिनपुर) नगर विशेष  
 A city of this name रुक्मि० ११,  
 कोक पु० (कोक) (१) चक्रवाक पक्षी  
 Pleasant. (२) भेडिया Sheep  
 (He) इक०  
 कोकास. पु० (कोकास) इस नाम का एक  
 वर्धकि, वडई A carpenter of this  
 name आयाचू० १,  
 कोटीवरिस. न० (कोटीवर्ष) लाट देश की  
 प्राचीन राजधानी Old capital of Lat

कृष पु० (धूप) स्नेह पात्र, कुतुप. Worthy of love यज्ञा० ७२, उप० पृ० ४१०,  
—मडुफ़ा. पु० (मखदुक) (१) धूप का मेढ़क Frog of a well (२) अल्पज मनुष्य Applied to a person of no enterprise निगी० चू० १,  
कृषर. पु० न० (धूपर) रथ या गाड़ी वगैर का एक अवयव, युगन्धर A part of country cart (Rith) से० १०, ८४,  
कुविय पु० (कूपिक) इस नाम का एक निवेश-गाँव. A village of this name. शायम०  
कूविय. न० (कूजित) अन्यक्त शब्द Coo सुपा० २०८,  
कूविया. स्त्री० (कूपिका) (१) छोटा कूप Small well उप० ७०८ टी, (२) छोटा स्नेह पात्र Worthy of love राज०  
कूवी स्त्री० (कूपी) देखो "कुविया" शब्द See "Kuvia" word उप० ७२८ टी,  
केअरा-य. पु० (केतक) (१) वृक्ष विशेष, केतकी. A fragrant plant (Keora) गडड० (२) न० केतकी पुष्प, केवडा का फूल Flower of a fragrant plant keora. गडड०  
केअच न० (कैतव) कपट, दग्ध Deciot, cheat हे० १, १, गा० १२४,  
केअर पु० (केदार) क्षेत्र, खेत Field सुर० २, ७८,  
केअरिआ. स्त्री० (केदारिका) घास वाली जमीन, गोचर भूमि Meadow-Grassy plot of land for grazing cattle कपू०  
केउ. पु० (केतु) (१) ध्वज, पताका Flag सुपा० २२६, (२) गुला-सूत्र, रुई का सूत Cotton yarn गडड० (३) पु० न० एक देव-विमान. Aeroplane of a Deva

वेन्द० १३४,  
केउरेत्त. न० (केतुरेत्र) मेघ वृष्टि से ही जिसमें अन्न पैदा हो सकता हो ऐसा क्षेत्र विशेष.  
(1) A field in which produce is obtained by rain (2) Unri-gated land आन० ६,  
केउमाल न० (केतुमाल) वैतालदय पर्वत पर स्थित इस नाम का एक विद्याधर नगर Name of a city on Vaitadhyā mountain occupied by a Vidya-dhar इक०  
केऊर पु० (केयूर) लवण समुद्र का एक पाताल कलश. An underground pot in west of Saltish sea प्रव० २७२,  
केऊन. पु० (केयूप) लवण समुद्र का एक पाताल कलश An underground pot in west of Saltish sea इक०  
केकाई स्त्री० (कैकयी) राजा दशरथ की एक रानी Kakai-Rani of Raja Dasrath पउम० २२, १०८, उप० पृ० ३७,  
केकसिया. स्त्री० (कैकसिका) रावण की माता का नाम Name of Ravan's mother पउम० ७, २४,  
केकसी. स्त्री० (कैकसी) रावण की माता Mother of Ravana पउम० १०३, ११४,  
केढ-केढव पु० (कैटभ) (१) इस नाम का एक प्रतिवासुदेव राजा Raja Wasudev (A kind of king) पउम० २, १२६, (२) दैत्य विशेष Name of a demon —रिउ पु० (रिपु) श्रीकृष्ण, नारायण Lord Krishna, God कुमा०  
केत्तिअ-ल त्रि० (कियत्) कितना ? How much हे० २, १२७, कुमा० पढ० महा०  
केय. न० (केत) चिन्ह, निशानी Sign प्रव० ४,  
केरव न० (कैरव) (१) कुमुद, सफेद कमल.

White lotus (२) कैतव, कपट. Deceit, Trick. हे० १, १२२,  
 केरिच्छ त्रि० (कीदत्त) कैसा, किस तरह का  
 Like what, what kind of manner  
 of प्रामा०  
 केरी. स्त्री० (ककदी) वृक्ष विशेष, करीर का गाच्छ  
 A tree of this name ३५०१०३१टी,  
 केवट्ट पु० (कैवर्त्त) धीवर, मच्छीमार  
 Fisherman पाञ्च०स०२२८, हे०२, ३०,  
 केवल ग्र० (केवलम्) केवल, फल, मात्र. Only  
 स्वप्न० ६२, ६३, महा०  
 केवलित्र, त्रि० (केवलिक) (१) केवलज्ञान  
 वाला Omnisciant, (२) परिपूर्ण, सपूर्ण  
 Complete विशेष० २६८१,  
 केवली स्त्री० (केवली) ज्योतिष विद्या विशेष  
 Astrology हास्य० १२६, १२६,  
 केसपुर न० (केशपुर) वैताढ्य पर स्थित एक  
 विद्याधर नगर A city of Vidyadhari  
 on Vairadhya mountain इक०  
 केसर पु० (कवीश्वर) उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि  
 Poet, ३५० ७२८ टी,  
 केसर पु० न० (केसर) एक देव विमान  
 Name of an aeroplane of a god  
 देवेन्द्र० १४२,  
 केसर न० (केसर) (१) फल-विशेष A fruit  
 राज० (२) सुवर्ण, सोनु Gold (३) छंद  
 विशेष Name of a stanza हे०१, १४६,  
 (४) पुष्प-विशेष The flower of the  
 Nagkesari, Saffron गडड० ११२२,  
 केसरा. स्त्री० (केसरा) सिंह वगैर के स्कन्ध पर  
 के बालों की सटा, Hairs of the neck  
 of a lion प्रासू० २१, गडड० प्रामा०  
 केसरिल्ल त्रि० (केसरवत्) केसर वाला  
 Which holds Kesari गडड०  
 केसि पु० (केशि) असुर-विशेष, अश्व का रूप  
 धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण

ने मारा था A demon, who used to  
 change himself as horse, and  
 was killed by Lord Krishna. मुद्रा०  
 २६२, (२) सातवें वासुदेव की माता Name  
 of mother of the Seventh Vasu-  
 dev पउम० २०, १८४,  
 कोइल, पु० (कोकिल) छन्द का एक भेद A  
 prominent figure in Hindu  
 Poetry पिंग०  
 कोइला स्त्री० (कोकिला) स्त्री-कोयल The  
 black or Indian cuckoo पाञ्च०  
 कोउग्रह, त्रि० (कटुप्य) थोडा गरम Luke-  
 warm (Hot) धर्मवि० ११३,  
 कौच पु० (कौञ्च) (१) द्वीप-विशेष A  
 principal division of the world  
 surrounded by sea ती०४५, (२) इस  
 नाम का एक असुर A demon of this  
 name कुमा०  
 कौचरिषु पु० (कौञ्चरिषु) कार्तिकेय, स्कन्द  
 Son of lord Shiva, कुमा०  
 कौचवीरग पु० न० (कौञ्चवीरक) एक प्रकार  
 का जहाज A kind of ship वृह० १,  
 कौचिगा स्त्री० (कुञ्चिका) ताबी, कुञ्जी Key  
 उप० १७७,  
 कौड पु० (कौयड) देश-विशेष A country  
 of this name इक०  
 कौडिणपुर न० (कौडिडनपुर) नगर विशेष  
 A city of this name रुक्मि० ५१,  
 कोक पु० (कोक) (१) चक्रवाक पत्नी.  
 Pleasant. (२) भेडिया Sheep  
 (He) इक०  
 कोकास. पु० (कोकास) इस नाम का एक  
 वर्धकि, बढई A carpenter of this  
 name आयाचू० १,  
 कोटीवरिस. न० (कोटीवर्य) लाट देश की  
 प्राचीन राजधानी Old capital of Lat

country विचार० ४६,  
 कोट्टीर. पु० ( कोट्टीर ) इय नाम का एक  
 मुनि, आचार्य शिवभूति का एक शिष्य, Pupil  
 of Shivbhuti a Jain muni विशेष  
 २५५२,  
 कोट्टिम. पु० न० (कुट्टिम) (१) कपोदा, मदी  
 Hut (२) रत्न की खान A jewel-  
 mine (३) अनार का पेड़ The pome-  
 granate हे० १, ११६, प्राप्र०  
 कोट्टिम त्रि० (कुट्टिम) बनावटी, बनाया हुआ,  
 अकृत्रती Artificial पउम० ६६, ३६,  
 कोट्टिल-ल पु० (कौट्टिक) सुदगर, सुगरी,  
 मुगर Wooden dumbbell, mallet  
 राज०  
 कोट्टवाणी स्त्री० (कोट्टवाणी) जैन मुनि  
 गण की एक शाखा A party of Jain  
 munies कप्प०  
 कोट्टार पु० न० (कोट्टागार) नाण्डागार,  
 भण्डार A store, a Godown पउम०  
 २, ३,  
 कोट्ट पु० (कोट्ट) शृगाल, सियार Jachal  
 पङ्०  
 कोट्टिअ पु० (कोट्टिक) एक जैन मुनि Name  
 of a Jain muni कप्प०  
 कोट्टिअ त्रि० (कोट्टित) सकोचित Closed,  
 Laded धर्मस० ३८८,  
 कोट्टिगण-न्न न० (कौट्टिगण्य) इस नाम का  
 एक नगर A city of this name उप०  
 ६४८ टी,  
 कोट्टिवद्ध त्रि० (कोट्टिवद्ध) करोड सख्या वाला  
 Ten million, वव० ३,  
 कोट्टिल्ल (कौट्टिल्य) इस नाम का एक ऋषि,  
 चाणक्य मुनि A saint of this name  
 "Chanak Muni" वव० १,  
 कोणव. पु० (कौणव) राक्षस, पिशाच A  
 demon पाञ्च०

कोणायल पु० (कोणायल) भगवान शान्ति-  
 नाथ के प्रथम श्रावक का नाम. Name of  
 first follower (Saravah) of Jain  
 Tirthanker Shantinath विचार०  
 ३७८,  
 कोत्तिअ त्रि० (कौत्तिक) कौत्की, कुतुहली  
 Veberence, Dance गा० ६७२,  
 कोध. पु० (क्रोध) इय नाम का एक राजा,  
 जिसने दशरथी भरत के साथ जैन दीक्षा ली  
 थी A Raja of this name, who  
 became Jain saqn (Sadhu) along  
 with Bharat Son of Dashiath-  
 पउम० ८२, ४,  
 कोवेरी. स्त्री० (कौवेरी) विद्या विगेष A know-  
 ledge पउम० ७, १४२,  
 कोमारी स्त्री० (कौमारी) विद्या-विशेष A  
 knowledge पउम० ७, १३७,  
 कोमुई स्त्री० (कौमुदी) इस नाम की एक नगरी.  
 Name of a city पउम० ३६, १००,  
 कोरटग न० (कोरटक) इस नाम का भृगुकच्छ  
 (भडौच) शहर का एक उपवन A  
 garden of Bharatuch city वव० १;  
 कोल पु० (क्रोड) उत्सग, कोला Thigh  
 गड०  
 कोल. पु० (कोल) (१) देश विशेष A  
 country of this name पउम० ६८,  
 ६६, (२) अस्त्र विशेष A weapon of  
 this name धर्म० ५, (३) मनुष्य की  
 एक नीच जाति A low family of  
 shudrias आया० चू० ४,  
 कोल. त्रि० (कौल) (१) शक्ति का उपासक,  
 तान्त्रिक मत का अनुयायी Worshipper  
 of Shakti, A follower of the  
 doctrine taught by the Tantiā  
 (२) तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाला Fol-  
 lower of Tantiās. कप्प०

कोलगिणी. स्त्री० ( कोली, कोलकी ) कोल-  
जातीय स्त्री० Wife of a weaver, or  
a woman of low race आया० न० ७,  
कोलालिय. पु० ( कौलालिक ) मिट्टी का पात्र  
बेचने वाला Pottel. वृह० २,  
कोलाहलिय त्रि० ( कोलाहलिक ) कोलाहल  
वाला, शोरगुल वाला Noisy पत्र० ११७,  
१६,  
कोलिन न० ( कौलिन्य ) कुलीनता, खानदानी  
Of a good family धर्मवि० १४६,  
कोलीकय त्रि० ( क्रोडीकृत ) स्वीकृत, अंगीकृत  
Embraced गडड०  
कोलीय. न० ( कौलीन ) (१) किंवदन्ती, लोक-  
चर्चा, जन-श्रुति Rumour मा० ३७, (२)  
त्रि० वंश परंपरागत, कुल क्रम से आयात  
Family decent. (३) उत्तम कुलमें उत्पन्न  
High birth (४) तान्त्रिक मत का  
अनुयायी A follower of Tantrik  
Shakti नाट-महावी० १३३,  
कोलेय पु० ( कौलेयक ) खान, कुत्ता Dog  
सम्मत्त० १६०, धर्मवि० ५२,  
कोल्लइर न० ( कोल्लिकिर ) (१) नगर विशेष  
A city of this name आ० ३, (२)  
वार्धक्य, बुढ़ापन Old age पिंड०  
कोल्लापुर न० ( कोल्लापुर ) दक्षिण देश का एक  
नगर A city of this name in  
south country ती० ३४,  
कोल्लासुर. पु० ( कोल्लासुर ) इस नाम का  
एक दैत्य A demon of this name  
ती० ३४,  
कोवण त्रि० ( कोपन ) क्रोधी, क्रोध युक्त,  
Wrathful सु० च० ३२५,  
कोवाय. पु० ( कोर्पक ) अनार्य देश-विशेष A  
country of this name प्र० २७४,  
कोवि. त्रि० ( कोपिन् ) क्रोधी, क्रोध युक्त  
Wrathful सु० च० २२१,

कोवित्र त्रि० ( कोपित ) (१) क्रुद्ध किया हुआ  
Enraged (२) दूषित, दोष युक्त किया हुआ  
Falsely accused उब०  
कोवित्रार पु० ( कोविदार ) वृक्ष-विशेष A  
tree of this name विक्र० ३३,  
कोचिणी स्त्री० ( कोपिनी ) कोप-युक्त स्त्री  
Passionate or angry woman  
आ० १२,  
कोस पु० ( कोश-प ) (१) कुडमल. A young  
shoot कुमा० (२) मुकुल, कली A bud.  
गडड० ( ३ ) दिव्य भेद, तस लोहे का  
स्पर्श चगैर शपथ Judicial trial by  
ordeal or by fire, water, poison,  
heated bals of iron (४) अभिधान  
शास्त्र, शब्दार्थ-निरूपक ग्रन्थ Dictionary  
(५) पु० न० पान-पात्र, चपक A pot in  
which beetles are kept पत्र० ६  
नगर-विशेष A city of this name स०  
१३३, (७) तलवार की म्यान. A Sheath  
(८) गोल, वृत्रकार. Round सु० च० ७०,  
—अद्विच पु० ( अधिप ) खजानची, भडारी  
Cashier. सु० च० ७३,  
कोसपाण न० ( कोसपाण ) सोगन, शपथ  
An oath गा० ४४८,  
कोसल न० ( कौशल ) कुशलता, निपुणता, चातुरी  
Happiness, Complete, Intelli-  
gence कुमा०  
कोसल. पु० ( कोसल ) एक जैन महर्षि, सुकोसल  
मुनि Name of a Jain Saint (Su-  
kosal) पत्र० २२, ४४,  
कोसल्ल न० ( कोशल्य ) निपुणता, चतुराई.  
Cleverness सु० च० १६, सुर० १०, ८०,  
कुमा०  
कोसल्लया. स्त्री० ( कौशल्य ) निपुणता, चतुराई  
Complete, Cleverness सुपा० ६०३,  
कोसल्ला. स्त्री० ( कौशल्य ) राम की



माता. Name of mother of Raja Ramchander ji ( Kausalya )  
उप० पृ० ३७४,

कोसा स्त्री० (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध  
वेद्या, जिसके यहा जैन महपि श्री स्यूलभद्र  
मुनि ने निर्दिकार भाव से चातुर्मान क्रिया था  
Name of a prostitute ( Kosha )  
where Jain Saint Shri Sathul  
Bhadra passed his four many  
months in devotion controlling  
his passions विवे० ३३,

कोसिए त्रि० (कोष्ण) थोड़ा गरम Little  
hot, Moderately warm नाट-वेणी०  
कोसिय पु० (कौशिक) (१) उल्लू, घूक, उल्लू  
Owl पाय० सार्ध० ५६, (३) वृक्ष-विशेष  
Name of a tree (३) इन्द्र God  
Indra (४) नकुल An ichneumon  
(५) कोशाध्यक्ष, राजानची Cashier (७)  
इस नाम का एक राजा A Raja of this  
name (८) इस नाम का एक असुर A  
demon of this name (९) सर्प को  
पकड़ने वाला, गारुडिक A snake catcher  
(१०) अस्थि-सार, मज्जा. Marrow, Bone  
(११) शृ गार रस. Love, the passion  
है० १, १५६, (१२) तापस विशेष Name  
of a devotee भवि० (१३) पु० सर्प  
विशेष, चण्डकोशिक नामक दृष्टिविप सर्प, जिस  
को भगवान महावीर स्वामी ने प्रबोधित किया  
था A kind of snake, who was

made to understand by Bhagwan  
"Mahabhi " (१४) न० वीसवें नक्षत्र का  
गोत्र Family name of the 20th  
"Nakshatra"

कोसिया स्त्री० (कोशिका) (१) भारतवर्ष की  
एक नदी A river of India of this  
name कस० (२) इस नाम की एक विद्या-  
धर-राज-कन्या Name of a daughter  
of a Vidyadhar पत्र० ७, १४, (३)  
चमड़े का जूता. Shoe स० २२३,

कोसुम त्रि० (कौसुम) फूल-सवन्धी, फूल का  
बना हुआ Flowery गवड०

कोह पु० (कोथ) कोथली, थैला Bag विशेष०  
२६८८,

कोहभाण न० (क्रोधध्यान) क्रोध-युक्त चिन्तन.  
Thoughts आठ० ११,

कोहड पु० (कूमाण्ड) व्यन्तर श्रेयाय देव  
जाति विशेष. Name of a family of  
a sprite प्रव० १४,

कोहडी. स्त्री० (कूमाण्डी) कोहले का गाढ़ A  
pumpkin tree. हे० १, १२४,

कोहण पु० (क्रोधन) इस नाम का रावण का  
एक सुभट A warrior of this name  
of Raja Ravana पत्र० ५६, ३२,

कोहलित्र. त्रि० (कुतूहलिन) कुतूहली;  
कुतूहल प्रेमी Eager, Impatient-  
गा० ७६८,

कोहलिया स्त्री० (कूमाण्डिका) कोहले का गाढ़.  
A pumpkin tree गा० ७६८,

### ख

ख. पु० ( ख ) व्यञ्जन वर्ण विशेष, इसका  
स्थान कंठ है The second consonant  
of the Nagri alphabet which is  
spoken from throat प्रामा० प्राप्र०  
खड्ग त्रि० (क्षयित) क्षय प्राप्त, क्षीय Wast-

ing, decaying सुर० १६, १६१,  
खड्ग-ग पु० ( क्षयिक ) (१) क्षय, विनाश;  
उन्मूलन. Waste, destruction,  
To take out from the root  
(२) त्रि० क्षय से उत्पन्न, क्षय सवन्धी.

which has come to light after  
destructing karmas. (३) कर्मनाश से  
उत्पन्न. Created after destruction of  
Karmas विशेषे ३४६५, क० ग० १, १५,  
३, १६, ४, २२, सम्य० २३,  
खइत्त न० (खेत) खेतों का समूह, अनेक खेत  
Several fields पि० ६१,  
खइया. स्त्री० (खदिका) खाद्य-विशेष, सेका  
हुआ ब्रीहि Dried or parched grain  
भवि०  
खउड पुं० (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना-  
चार्य A Jain Saint of this name  
श्रावम०  
खउर पु० न० (खपुर) खैर वगैरह का चिकना  
रस, गोंद Gum निसी० चू० १६,  
खउर न० (खौर) खोर-कर्म, हजामत Shave  
हेका० १८६,  
खउरिअ त्रि० (खपुरित) खरखिटत, चिपकाया  
हुआ Stitched निसी० चू० ५,  
खउरिअ त्रि० (खौरित) मुखिडत, खुच्चित, केश  
रहित किया हुआ. Shaved, To uproot  
the hairs by hand. से० १०, ४३,  
खउरीकय त्रि० (खपुरीकृत) गोंद वगैर की  
तरह चिकना किया हुआ Greasy उच०  
खज त्रि० (खज्ज) लगडा, पगु, लूला Lame  
सु० च० २७६,  
खजा स्त्री० (खज्जा) छद् विशेष A stanza  
पिग०  
खजिअ त्रि० (खज्जित) जो लगडा हुआ हो,  
पगुभूत A Lame कपू०  
खड. पु० (खरड) एक नरक-स्थान A Hell  
of this name देवेन्द्र० २६, —कव्व  
न० (काव्य) छोटा काव्य-ग्रन्थ A book of  
small poetry सम्भत्त० ८४,  
खंडा न० (खरडन) (१) खरडन, धान्य वगै-  
रह का छिलका अलग करना To remove

husk of rice सु० च० १४, (२) त्रि०  
विनाश करने वाला, नाशक Destroyer  
सु० च० ४३२,  
खडणा स्त्री० (खरडना) विच्छेद, विनाश,  
Destruction निसी० चू० १,  
खडव न० (खरडव) इन्द्र का वन-विशेष. A  
garden of India of this name  
नाट०-वेणी० ११४,  
खडसो अ० (खरडश) टुकडा टुकडा, खरड  
खरड To cut into pieces पि० २१६,  
खडा स्त्री० (खरडा) मिस्री, चीनी, सक्कर  
Sugar शीघ्र० नि० ३७३,  
खडा. स्त्री० (खरडा) इस नाम की एक विद्याधर  
कन्या A daughter of a Vidya-  
Dhar of this name महा०  
खडाखडीकय त्रि० (खरडखरडीकृत) टुकडा  
टुकडा किया हुआ Broken into pieces  
सुर० १६, २६,  
खडामणिकचण न० (खरडामणिकान्चन) इस  
नाम का एक विद्याधर-नगर. A city of  
Vidya Dhar of this name इक०  
खडावत्त. न० (खरडावत्त) इस नाम का एक  
विद्याधर-नगर A city of a Vidya  
Dhar of this name इक०  
खडाहड त्रि० (खरडाखरड) टुकडा टुकडा किया  
हुआ Broken into pieces सुपा० ३८२,  
खडिअ स्त्री० (खरिडका) खरड, टुकडा  
A piece शभि० ६२,  
खतव्व त्रि० (खन्तव्व) क्षमा-योग्य, माफ करने  
लायक. Excusable त्रिक० ३८, भवि०  
खद पु० (स्कन्द) राम का इस नाम का एक  
सुभट A warrior of this name  
of Raja Ram पदम० ६७, ११,  
खदकुमार पु० (स्कन्दकुमार) एक जैन-मुनि  
A Jain Muni of this name उच०  
खदरुह न० (स्कन्दरुह) शास्त्र-विशेष A

माता. Name of mother of Raja Ramchander ji ( Kaushalya ) उप० पृ० ३७४,

कोसा स्त्री० (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या, जिसके यहा जैन महर्षि श्री स्थूलभद्र मुनि ने निर्विकार भाव से चालुमास किया था Name of a prostitute ( Koshha ) where Jain Saint Shri Sathul Bhadra passed his four many months in devotion controlling his passions विवे० ३३,

कोसिण त्रि० (कोष्ण) थोडा गरम Little hot, Moderately warm नाट-वेणी०

कोसिय पु० (कौशिक) (१) उल्लूक, घूक, उल्लू Owl पात्र० सार्ध० ५६, (३) वृक्ष-विशेष Name of a tree (३) इन्द्र God Indra (४) नकुल An ichneumon (५) कोशाध्यक्ष, खजानची Cashier (७) इस नाम का एक राजा A Raja of this name (८) इस नाम का एक असुर A demon of this name (९) सर्प को पकडने वाला, गारुडिक A snake catcher (१०) अस्थि-सार, मज्जा, Marrow, Bone (११) शृ गार रस. Love, the passion हे० १, १५६, (१२) तापस-विशेष Name of a devotee भवि० (१३) पु० सर्प विशेष, चण्डकोशिक नामक दृष्टिविष सर्प, जिस को भगवान महावीर स्वामी ने प्रबोधित किया था A kind of snake, who was

made to understand by Bhagwan "Mahabir" (१४) न० वीसवें नक्षत्र का गोत्र Family name of the 20th "Nakshattia"

कोसिया, स्त्री० (कोशिका) (१) भारतवर्ष की एक नदी A river of India of this name कस० (२) इस नाम की एक विद्या-धर-राज-कन्या, Name of a daughter of a Vidyadhar पउम० ७, ५४, (३) चमडे का जूता, Shoe स० २२३,

कोसुम त्रि० (कौसुम) फूल-सबन्धी, फूल का बना हुआ Flowery गडड०

कोह पु० (कोथ) कोथली, थैला Bag विशेष० २६८८,

कोहभाण न० (क्रोधघ्यान) क्रोध-युक्त चिन्तन. Thoughts आउ० ११,

कोहड पु० (कूप्माण्ड) व्यन्तर श्रेणीय देव जाति विशेष. Name of a family of a spite प्रव० १४,

कोहडी, स्त्री० (कूप्माण्डी) कोहले का गाड़ A pumpkin tree. हे० १, १२४,

कोहण पु० (कोधन) इस नाम का रावण का एक सुभट A warrior of this name of Raja Rawna पउम० ५६, ३२,

कोहलिअ त्रि० (कुतूहलिअ) कुतूहली; कुतूहल प्रेमी Eager, Impatient. गा० ७६८,

कोहलिया स्त्री० (कूप्माण्डिका) कोहले का गाड़. A pumpkin tree गा० ७६८,

ख

ख, पु० (ख) व्यञ्जन वर्ण विशेष, इसका स्थान कठ है The second consonant of the Nagri alphabet which is spoken from throat प्रामा० प्राप्र० खइअ त्रि० (क्षयित) क्षय प्राप्त, क्षीण Wast-

ing, decaying सुर० १६, १६१, खइअ-ग. पु० (क्षयिक) (१) क्षय, विनाश; उन्मूलन. Waste, destruction, To take out from the root. (२) त्रि० क्षय से उत्पन्न, क्षय सबन्धी.

which has come to light after  
destructing karmas. (३) कर्मनाश से  
उत्पन्न. Created after destruction of  
Karmas विशेष ३४६२, क० ग० १, १२,  
३, १६, ४, २२, सम्य० २३,  
खड्ग न० (खैत्र) खेतों का समूह, अनेक खेत  
Several fields पि० ६१,  
खड्या. स्त्री० (खदिका) खाद्य-विशेष, सेका  
हुआ व्रीहि Dried or parched grain  
भवि०  
खड्ड पु० (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना-  
चार्य A Jain Saint of this name  
श्रावम०  
खडर पु० न० (खपुर) खैर वगैरह का चिकना  
रस, गोंद Gum निसी० चू० १६,  
खडर न० (खौर) खौर-कर्म, हजामत Shave  
हेका० १८६,  
खडरिअ त्रि० (खपुरित) खरखिटत, चिपकाया  
हुआ Stitched निसी० चू० २,  
खडरिअ त्रि० (खौरित) मुगिडत, लुञ्जित, केश  
रहित किया हुआ, Shaved, To uproot  
the hairs by hand. से० १०, ४३,  
खडरीकय त्रि० (खपुरीकृत) गोंद वगैर की  
तरह चिकना किया हुआ Greasy उव०  
खज त्रि० (खज्ज) लगडा, पगु, लूडा Lame  
सु० च० २७६,  
खजा स्त्री० (खज्जा) छंद विशेष A stanza  
पिन०  
खजिअ त्रि० (खज्जित) जो लगडा हुआ हो,  
पगुभूत A Lame कप्प०  
खड. पु० (खण्ड) एक नरक-स्थान A Hell  
of this name देवेन्द्र० २६, —कण्व  
न० (कान्व) छोटा काव्य-ग्रन्थ A book of  
small poetry सम्मत्त० ८४,  
खंडा न० (खण्डन) (१) कण्डन, धान्य वगै-  
रह का छिलका अलग करना To remove

husk of rice सु० च० १४, (२) त्रि०  
विनाश करने वाला, नाशक Destroyer  
सु० च० ४३२,  
खड्या स्त्री० (खण्डना) विच्छेद, विनाश.  
Destruction निसी० चू० १,  
खडव न० (खण्डव) इन्द्र का वन-विशेष A  
garden of India of this name  
नाट०—वेणी० ११४,  
खडसो अ० (खण्डश) टुकडा टुकडा, खण्ड  
खण्ड To cut into pieces पि० २१६,  
खडा स्त्री० (खण्डा) मिस्री, चीनी, सकर  
Sugal शोध० नि० ३७३,  
खडा. स्त्री० (खण्डा) इस नाम की एक विद्याधर  
कन्या A daughter of a Vidya-  
Dhar of this name महा०  
खडाखडीकय त्रि० (खण्डखण्डीकृत) टुकडा  
टुकडा किया हुआ Broken into pieces  
सुर० १६, २६,  
खंडामणिकच्छा न० (खण्डामणिकान्वन) इस  
नाम का एक विद्याधर-नगर. A city of  
Vidya Dhar of this name इक०  
खडावत्त. न० (खण्डावर्त्त) इस नाम का एक  
विद्याधर-नगर A city of a Vidya  
Dhar of this name इक०  
खडाहड त्रि० (खण्डाखण्ड) टुकडा टुकडा किया  
हुआ Broken into pieces सुपा० ३८२,  
खडिआ स्त्री० (खण्डिका) खण्ड, टुकडा  
A piece अभि० ६२,  
खतव्व त्रि० (खन्तव्व) क्षमा-योग्य, माफ करने  
लायक Excusable विक० ३८, भवि०  
खद पु० (स्कन्द) राम का इस नाम का एक  
सुभट A warrior of this name  
of Raja Ram पडम० ६७, ११,  
खदकुमार पु० (स्कन्दकुमार) एक जैन-मुनि  
A Jain Muni of this name उव०  
खदरुह. न० (स्कन्दरुह) शास्त्र-विशेष A

Religious book of this name धर्मसं० ६३५,  
 खध पु० (स्कन्ध) छद्-विशेष A Stanza पिंग०  
 खधग्नि पु० (स्कन्धाग्नि) स्थूल काष्ठों की आग Fire of big pieces of a wood पात्र०  
 खधयष्टि स्त्री० (स्कन्धयष्टि) हाथ, भुजा Arm दे० २, ७१,  
 खधर. पु० स्त्री० (कन्धर) ग्रीवा, डोक Neck सण०  
 खधसालि पु० (स्कन्धसालिन्) व्यन्तर देवों की एक जाति A family of demons राज०  
 खधार. पु० ब० (स्कन्धार) देश-विशेष. A country of this name पउम० ६८, ६६,  
 खधाल त्रि० (स्कन्धमत) स्कन्ध वाला The trunk of a tree सु० च० १२६,  
 खभल्लिञ्ज त्रि० (स्तम्भनिगडित) खभे से बाधा हुआ Tied up with a pole से० ६, ८५,  
 खभाइत्त. न० (स्तम्भादित्य) गुजरात देश का एक प्राचीन नगर, खभात An old city in Gujrat (Khambhat) ती० २३,  
 खगामिणी स्त्री० (खगामिनी) विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से आकाश में गमन किया जा सकता है. A Knowledge, by aid of which one can fly in the sky पउम० ७, १४५,  
 खग्गाखग्नि न० (खद्गाखद्गि) तलवार की लड़ाई Battle of swords. सिरि० १०३२,  
 खज्ज पु० (खर्ज) वृक्ष-विशेष A tree of this name स० २५६,  
 खज्ज. त्रि० (खय्य) जिसका खय किया जासके वह One, who can be destructed १६०

खट्वाङ्ग. न० (खट्वाङ्ग) शिव का एक आयुध A weapon of Lord Shiva कुमा०  
 (२) प्रायश्चित्तात्मक भित्ता पात्र (३) तान्त्रिक मुद्रा विशेष A ring made of Tantias वजा० ८८,  
 खट्वाङ्ग पु० (खट्वाङ्ग) रत्नप्रभा नामक पृथ्वी का एक नरकावास A hell. स० ८६  
 खट्वा स्त्री० (खट्वा) खाट, पलंग, चारपाई A cot सुपा० ३३७, हे० १, १६५,  
 खट्वामल्ल. पु० (खट्वामल्ल) विमारी की प्रवृत्तता से जो खाट से उठ न सकता हो वह. Who is unable to move from bed on account of sickness बृह० १,  
 खड्ग न० (पडङ्ग) छद् अंग, वेद के छद् अंग-शिखा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छद्, निरुक्त Six parts, Six parts of Vedas —वि त्रि० (वित्) छहों अंगों का जानकार One who knows six parts of Vedas पि० २६५,  
 खट्कार पु० (खट्कार) आहट देना, ध्वनि के द्वारा सूचना. To Clack सुर० ११, ११२, विक० ६०,  
 खट्वाङ्ग पु० (खट्वाङ्ग) खट खट आवाज Sound of clack मोह० ८६,  
 खट्वाङ्ग पु० (खट्वाङ्ग) साँकल धगेरह की आवाज, खट्कार Sound of chain सु० च० ५०२,  
 खड्गिणी स्त्री० (खटिका) खड़ी, लडकों के लिखने की खड़ी Chalk कप्पू०  
 खडी स्त्री० (खटी) देखो 'खडिआ' शब्द See word "Khariya" प्रा०  
 खड्कय. पु० न० (खट्कृत) आहट देना, ध्वनि के द्वारा सूचना To clack सु० च० ४१४,  
 खण्य. न० (खनन) खोदना To dig पउम० ८६, ६०, उप० पृ० २२१,  
 खण्य त्रि० (खनक) खोदने वाला Digger,

One who digs दे० १, ८२,  
 खण्ड्या स्त्री० (क्षण्ड्या) रात्रि, रात Night  
 वप० ७६८ टी,  
 खण्ड्याविय त्रि० (खानित) खुदाया हुआ.  
 Which was dug into सु० च० ४२४,  
 खण्डित्त न० (खनित्र) खोदने का अस्त्र, खन्ती.  
 A spade. दे० ४, ४,  
 खण्डिय त्रि० (खमित) खुदा हुआ Exca-  
 vated सु० च० २२६,  
 खण्डिय त्रि० (क्षणिक) (१) क्षणविनश्वर, क्षण-  
 भगुर Frial विशेष० १६७२, (२) फुरसत  
 वाला, काम-धधा से रहित Who has no  
 work, Out of work, Unemployed  
 धर्म० ८ टी,  
 खण्डियवाद् त्रि० (क्षणिकवादिन्) सर्व पदार्थ  
 को क्षण-विनश्वर मानने वाला, बौद्धमत का  
 अनुयायी A follower of Budha,  
 who cosiders momentarily to every  
 thing in the world राज०  
 खण्डण. त्रि० (खन्ध) खोदने योग्य Fit to  
 dig दे० २, ३६,  
 खण्डपर. पु० (कर्पर) (१) मनुष्य-जाति-विशेष  
 Name of family of a human  
 being रभा० (२) खोपडी, कपाल Skull  
 हे० १, १८१, (३) घट जगैर का टुकडा A  
 piece of earthen part पत्र० २०,  
 १६६, (४) भिक्षा पात्र, कपाल Name of  
 a pot in which alm is collected  
 'Kapal' सु० च० ४६२,  
 खण्ड, त्रि० (क्षम) उचित, योग्य Able ade-  
 quate पत्र० २४, पात्र०  
 खण्डा, स्त्री० (क्षमा) पृथ्वी, भूमि Land,  
 Earth सू० च० ३४८, —हर. पु० (धर)  
 (१) पर्वत, पहाड Mountain (२) साधु,  
 मुनि Mendicant, Mum सु० च० ६२६,  
 खण्डाविय त्रि० (क्षमित) माफ किया हुआ

Who was excused हे० ३, १२२,  
 सुपा० ३६४,  
 खमिय त्रि० (क्षमित) माफ किया हुआ Who  
 was excused कुप्र० १६,  
 खय त्रि० (उग्र) आकाश तक ऊँचा पहुँचा हुआ  
 High up to sky. —राय पु० (राज)  
 पक्षियों का राजा, गरुड पक्षि. A bird, King  
 of birds पात्र० —चइ पु० (पति) गरुड  
 पक्षि. Lord of "Garuds" a bird से०  
 १२, २०,  
 खय न० (क्षत) (१) व्रण, घाव. Wound.  
 उप० ७२८ टी, (२) त्रि० व्रणित, घाया  
 हुआ Wounded श्रा० १४, सुपा० ३४६,  
 सुर० १२, ६१,  
 खय, त्रि० (खात) खोदा हुआ Excavated  
 पत्र० ६१, ४२,  
 खय पु० (क्षय) रोग-विशेष, राज-यक्ष्मा. Con-  
 sumption, Phthisis लहुअ० १२,  
 खयकर, त्रि० (क्षयकर) नाश कारक. Des-  
 troying पत्र० ७, ८१, ६६, ३४, पुष्प०  
 ८२,  
 खयतकर त्रि० (क्षयान्तकर) नाश कारक  
 Destroying पत्र० ७, १७०,  
 खयकाल पु० (क्षयकाल) प्रलय काल The  
 time of destruction of all things  
 भवि० हे० ४, ३७०,  
 खयगिग पु० (क्षयगिनि) प्रलय काल की आग  
 Fine of the time of destruction  
 of all things से० १२, ८१,  
 खयर पु० स्त्री० (खचर) (१) आकाश में  
 चलने वाला, पक्षी A bird who flies in  
 the sky जी० २०, (२) विद्याधर, विद्या  
 बल से आकाश में चलने वाला मनुष्य  
 Aerial, One who moves in the  
 air सु० च० २४०,  
 खयायार पु० स्त्री० (क्षयाचार) शिथिलाचार

साधु या साध्वी A degraded mendicant, A Sadhu or Sadhvi who was fallen from his or her acts वच० ३,  
 खर त्रि० (खर) विनश्वर, अस्थायी Uncertain विशेष० ४२७,  
 खर. पु० (खर) छन्द-विशेष A stanza पिंग०  
 खरट्या न० (खरट्यन) (१) निर्मत्सिन, पट्ट भाषण Bitter talk वच० २, (२) प्रेरणा To request ओघ० नि० ४०,  
 खरंट्या स्त्री० (खरट्यना) देखो 'खरट्या' शब्द See word "Kharanton" ओघ० नि० ७२,  
 खरटिअ त्रि० (खरटित) निर्मत्सित, Rebuked. कुप्र० ३१८,  
 खरकर्मिअ त्रि० (खरकर्मिन्) (१) निष्ठुर कर्म करने वाला Cruel, (२) कोटवाल, दण्डपाशिक Kotwal, A Police officer ओघ० २१८,  
 खरकिरण पु० (खरकिरण) सूर्य, सूरज Sun पिंग० सख०  
 खरड पु० (खरट) एक जघन्य मनुष्य-जाति, A race of human being of this name सुपा० ३६२,  
 खरडिअ त्रि० (लित्त) जिसको लेप किया गया हो वह, पोता हुआ Plastered ओघ० नि० ३७३,  
 खरदूसण पु० (खरदूपण) इस नाम का एक विद्याधर राजा, जो रावण का वहनोई था, Name of a Vidyadhar Raja, who was brother-in-law of Rawana पउम० १०, १७,  
 खरनिस्सण पु० (खरनिस्वन) इस नाम का रावण का एक सुभट A warrior of this name of Raja Rawana पउम० २६, ३०,

खरफरस पु० (खरपरस) एक नरक-स्थान, A place in hell देवेन्द्र० २७,  
 खरमुही. स्त्री० (खरमुखी) नपुंसक दासी, An eunuch (she) वच० ६,  
 खरय पु० (खरक) महावीर प्रभु के कान में से खीला निकालने वाला एक वैद्य A physician of this name who took out a nail from the ear of Mahabir Prabhu चैद्वय० ६६,  
 खरसन्नय न० (खरसन्नक) तिल का तैल Oil of Til seeds ओघ० नि० ४०६,  
 खलणा स्त्री० (खलना) (१) गिर जाना, निपतन To fall (२) अटकायत, रुकावट To stop वप० ३३६ टी, (३) विराधना, भङ्गन To fall out of his actions ओघ० नि० ७८८,  
 खलपू त्रि० (खलपू) खेले को साफ करने वाला A sweeper, one who sweeps the ground in a field where cow is kept कुमा० पङ्० प्रामा०  
 खलहर-ल पु० (खलखल) नदी के प्रवाह की आवाज The sound of floating river सुर० ३, ११, २, ७२,  
 खलिअ त्रि० (खलित) (१) रुका हुआ Stopped (२) गिरा हुआ, पतित Fallen हे० २, ७७, पाश्च०  
 खलिअ त्रि० (खलिक) खल से व्याप्त, खलिखित दे० ४, १०,  
 खलिया न० (खलिन) कायोत्सर्ग का एक दोष, A fault while contemplating प्रव० २,  
 खलिसार. त्रि० (खलित्) खलना करने वाला, One who makes mistake वजा० २८, सख०  
 खलिया स्त्री० (खलिका) तिल वगैर का तैल-रहित चूर्ण A compounded powder

of medicines without oil सुपा०  
 ४१४,  
 खलियार पु० (खलिकार) तिरस्कार, निर्मर्त्सना.  
 Curse पत्रम० ३६, ११६,  
 खलियारण न० (खलीकरण) तिरस्कार.  
 Curse पत्रम० ३६, ८४,  
 खलियारणा स्त्री० (खलीकरणा) वञ्चना, ठगाई.  
 Deception, To cheat स० २८,  
 खलियारिअ त्रि० (खलीकृत) (१) तिरस्कृत.  
 Cursed. पत्रम० ६६, २, (२) वञ्चित, ठगा  
 हुआ Deceived स० २८,  
 खलुखित्त, न० (खलुचेत्र) जहा पर जरूरी चीज  
 मिले वह चेत्र The place where the  
 needed thing can be obtained  
 वव०  
 खरलीड पु० (खरवाट) जिस के सिर पर बाल  
 न हों, गजा, चदला Bald हे० १, ७४, कुमा०  
 खविअ त्रि० (क्षपित) उद्धेजित, Submitted  
 to गा० १३४,  
 खभ्व त्रि० (खर्व) (१) वामन, कुब्ज Hump  
 backed पात्र० (२) लघु, थोडा Small,  
 little सिर० ६७२,  
 खसखस पु० (खसखस) पोस्त का दाना,  
 उशीर, खस The poppy स० ६६,  
 खसिअ (न० (कसित) रोग-विशेष, खाँसी  
 Cough हे० १, १८१,  
 खाअ त्रि० (खादित) भुक्त, भक्षित Eaten  
 गा० ६६८, भवि०  
 खाइ स्त्री० (खाति) परिखा, खाई Ditch  
 सुपा० २३४,  
 खाइर त्रि० (खादिर) खदिर-वृक्ष-सबन्धी  
 Derived from the Khan tree हे०  
 १, ६७,  
 खाण न० (खादन) भोजन, भक्षण Food  
 गा० ६६२, पत्रम० १४, १३६,  
 खाण, न० (ख्यान) कथन, उक्ति, To relate

राज०

खाणिअ त्रि० (खानित) खुदवाया हुआ To  
 dug, Excavated हे० ३, ५७,  
 खाम, त्रि० (खाम) (१) कृश, दुर्बल A kind  
 of grass, weak उप० ६८६ टी, पात्र०  
 खामिअ त्रि० (क्षमित) (१) सहन किया हुआ  
 For bearing (२) विलम्बित, विलम्ब  
 किया हुआ, Delayed. पत्रम० ४३, ४१, हे०  
 ३, १५३,  
 खाय पु० (खाद) पाचवी नरक भूमि का एक  
 नरक स्थान A place of the 5th hell  
 देवेन्द्र० ११,  
 खार, पु० (चार) एक नरक स्थान, A place  
 in a hell देवेन्द्र० ३०,  
 खारि, स्त्री० (खारि) एक प्रकार का नाप Name  
 of a measure गा० ८१२,  
 खारिय त्रि० (क्षरित) पानी में घिसा हुआ  
 Rubbed in water भवि० (२) क्षावित,  
 झरया हुआ Dropped वव० ६,  
 खारोदा स्त्री० (चारोदा) नदी विशेष. A river  
 of this name राज०  
 खालण न० (खालन) प्रक्षालन, पखारना To  
 wash, To clean सु० च० ३२८,  
 खार्वंत त्रि० (ख्यापयत्) प्रख्याति करता हुआ,  
 प्रसिद्धि करता. To make known उप०  
 ८३३ टी,  
 खासि त्रि० (कामिन्) खाँसी का रोग वाला  
 A patient suffering from cough  
 सु० च० ५७६,  
 खिइगोयर पु० (क्षितिगोचर) मनुष्य,  
 आदमी Man पत्रम० ५३, ४३,  
 खिइपइट्ट न० (क्षितिप्रतिष्ठ) नगर विशेष A  
 city of this name स० ६,  
 खिइसार पु० (क्षितिसार) इस नाम का एक  
 दुर्ग A fort of this name पत्रम०  
 ८०, ३,



खिंग. पु० (खिङ्ग) रडीबाज, च्यभिचारी A  
who is monger रमा०  
खिज्जिअय न० (खेदितक) छद्द विशेष A  
stanza अजि० ७,  
खिज्जित्तर. त्रि० (खेदितृ) खेद करने वाला,  
खिन्न होने की [आदत वाला Harassed,  
Pained कुमा० ७, ६०,  
खिङ्ग न० (खेल) खेल, क्रीडा, मजाक Play  
सु० च० ३०२,  
खिण्ण. त्रि० (खिन्न) (१) खिन्न, खेद प्राप्त  
Pained, Distressed (२) श्रान्त, थका  
हुआ Tired गा० २६६,  
खित्त त्रि० (चित्त) प्रेरित Who was re-  
quested —मण त्रि० (मनस्) चित्त-  
अम-वाला Fickle minded महा०  
खित्तज पु० (चेत्रज) गोद लिया हुआ लडका  
Adopted son कुप्र० २०८,  
खित्तय न० (चित्तक) छद्द-विशेष A stanza  
अजि० २४, २५,  
खित्तिअ त्रि० (क्षेत्रिक) (१) क्षेत्र सबन्धी.  
Relating to a field (२) पु० न्याधि  
विशेष A kind of sickness or dis-  
ease आ० १२,  
खिप्प अ० (क्षिप्रम्) शीघ्र, जल्दी Haste  
प्रासू० ३७, पडि०  
खिमा स्त्री० (क्षमा) पृथ्वी Earth चड०  
खिरिय त्रि० (क्षरित) (१) टपका हुआ.  
Leaked (२) गिरा हुआ Fallen पात्र०  
खीर न० (क्षीर) (१) पानी, जल. Water  
हे० २, १७, (२) बेला, दो दिन का उपवास  
Two days fast सबोध० ५८,  
खीरि त्रि० (क्षीरिन्) (१) दूधवाला Milky  
(२) जिसमें दूध निकलता है जैसे वृक्ष की जाति  
A kind of tree which gives milk  
उप० १०३१ टी,  
खीरी स्त्री० (क्षैरी) खीर, पकान्न विशेष

Preparation of milk and rice सु०  
च० ६३६,  
खीलिया स्त्री० (कीलिका) छोटी खूँटी Small  
nail आव०  
खिलीकरण न० (खिलीकरण) खाली करना,  
शून्य करना To Vacate मै० ८,  
खिल्लाण न० (खेलन) खिलौना, खेलनक Toy-  
सुर० १५, २०८,  
खिण्ण न० (क्षेण) (१) फेंकना, क्षेण To  
throw से० १२, ३६, (२) प्रेरण, इधर  
उधर चलाना To request, To send  
hither and thither से० ५, ३,  
खीयमाण त्रि० (क्षीयमाण) जिसका क्षय होता  
हो वह One who is destroying,  
Perishing गा० ६८६ टी,  
खीव पु० (क्षीव) मद-प्राप्त, मदोन्मत्त Drunk  
intoxicated दे० ८, ६६,  
खु अ० (खलु) (१) वितर्क, विचार An  
expression (२) सशय, संदेह Doubt  
(३) सभावना To think over (४)  
विस्मय, आश्चर्य Astonishment हे० २,  
१६८, पडू० गा० ६, १४२, ४०१, स्वम० ६,  
कुमा०  
खुडिअ त्रि० (खडिडत) झुटित, खरिडत;  
विच्छन्न Broken. हे० १, ५३, पडू०  
खुरण त्रि० (खुरण) मर्दित Rubbed गा०  
४४५, निसी० चू० १, (२) मग्न, लीन Im-  
mersed चड० ३८, सथा० (३) चूर्णित  
Broken into pieces दे० ५, ४५,  
खुद्ध. त्रि० (खुद्ध) चोम प्राप्त, घबडाया हुआ.  
Confused, Disturbed सु० च० ३२५;  
खुधा स्त्री० (खुध्) भूख Hungry.  
धर्मस० १०६२,  
खुब्भण न० (खोभण) चोम, घबडाहट Con-  
fusion राज०  
खुमिअ. न० (खुमित) (१) चोम, घबडाहट.

Frightened Alarmed ओष० (२)  
 कलह, क्लाडा. Quailed बृह० ३,  
 खुय न० (खुत) छँक Sneeze चेह्य० ४३३,  
 खुरप्प पु० न० (खुरप्र) एक तरह का जहाज  
 A kind of a ship सिरि० ३८३,  
 खरसाण पु० (खुरशान) (१) देश विशेष A  
 country of this name (२) खुरशान  
 देशकाराज King of khurashan पिंग०  
 खुरु, पु० (खुरु) प्रहरण विशेष, आयुध विशेष  
 A kind of a weapon. सुर० १३, १६३,  
 खूण, न० (खूण) (१) नुकसान, हानि Loss  
 सुर० ४, ११३, महा० (२) अपराध, गुनाह  
 Fault मह० (३) न्यूनता, कमी Diffi-  
 ciency, Deficiency सु० ८०७, ४३०,  
 खेअ पु० (खेद) सयम, विरति. Forbear-  
 ance, Humanity. —एण, त्रि० (ज्ञ)  
 निपुण, कुशल, चतुर Complete, Wise  
 ओष० नि० ६४७,  
 खेअ पु० (खेप) त्याग, मोचन Leaving,  
 Abandoning से० १२, ४८,  
 खेअण, न० (खेदन) (१) खेद, उहेग Sol-  
 low (२) खेद उपजाने वाला Who  
 pains कुमा०  
 खेअरिद पु० (खेचरेन्द्र) खेचरों का राजा.  
 The king of birds पउम० ६, ४२,  
 खेइय त्रि० (खेदित) खिन्न किया हुआ. Trou-  
 blod, Pained, Harassed स० ६३४,  
 खेड पु० (खेट) मृगया, शिकार Game  
 भवि०  
 खेडण न० (खेटन) खदेडना, पीछे हटाना To  
 push back उप० २२६,  
 खेडणअ, न० (खेलनक) खिलौना Toy नाट०  
 रत्ना० ६२,  
 खेडय, पु० (खेटक) (१) विष, जहर Poi-  
 son हे० २, ६, (२) ज्वर-विशेष A kind  
 of fever कमा०

खेडय, त्रि० (स्फोटक) नाशक, नाश करने वाला  
 Destructoi हे० २, ६, कुमा०  
 खेडय न० (खेटक) छोटा गाँव A small  
 village पाअ० सुर० २, १६२,  
 खेडावग त्रि० (खेलक) खेल करने वाला, तमा-  
 सगिर An actor उप० पु० १८८,  
 खेडिअ, पु० (स्फोटक) (१) नाश वाला,  
 नश्वर Rending. (२) अनादर वाला Dis-  
 respected हे० २, ६,  
 खेत्तकप्प पु० (खेत्रकल्प) (१) देश का रिवाज  
 A custom of the country बृह० ६,  
 (२) क्षेत्र-सबन्धी अनुष्ठान To worship  
 in connection with the country  
 (३) ग्रन्थ-विशेष, जिसमें क्षेत्र-विषयक आचार  
 का प्रतिपादन हो A religious book in  
 connection with the country पचू०  
 खेमलिज्या खी० (खेमलिया) जैन मुनि गण  
 की एक शाखा A party of Jain saints  
 कप्प०  
 खेलण-खेलणय न० (खेलनक) (१) क्रीडा,  
 खेल. Play (२) खिलौना Toy आक०  
 स० १२७,  
 खेव पु० (खेप) (१) न्यास, स्थापना To fix  
 विशेष० ६१२, (२) सख्या विशेष. Counting  
 क० ग० ४, ८१-८४, (३) विलम्ब, देरी  
 Late, delay स० ७२५,  
 खेवय त्रि० (खेपक) फेंकने वाला, Who  
 throws. गा० २४२,  
 खेविय त्रि० (खेदित) खिन्न किया हुआ  
 Annoyed, Harassed, Distressed,  
 Pained भवि०  
 खोपखा-खोखा खी० (खोखा) वानर की आवाज  
 Voice of a monkey गा० ४३२,  
 खोड पु० (स्फोट) फोडा Boil प्राक० १८,  
 खोडय पु० (खोटक) नख से चर्म का निष्पी-  
 डन To itch दे० २, ६,

खोशिंद पु० ( खोशिन्द ) राजा, भूमि पति  
King सण०  
खोद पु० ( खोद ) चूर्ण, बुकनी. Powder  
of digestive medicines. हस्मीर०

३४,  
खोम. पु० ( खोम ) इस नाम का रावण का एक  
सुमट A warrior of Ravana's name.  
पदम० २६, ३२,

ग

ग. पु० ( ग ) व्यञ्जन वर्ण विशेष. The third  
consonant of the nagri Alphabet  
प्रामा० प्राप्त०  
गअचत त्रि० ( गतवत् ) गया हुआ. Having  
gone प्राक० ३२,  
गइ. स्त्री० ( गति ) प्रकार, भेद State, mode  
of existence से० १, ११, — तस. पु०  
( तस ) अग्नि और वायु के जीव Insects of  
all and water. क० ग० ३, १३, ४, १६,  
गइद पु० ( गजेन्द्र ) ( १ ) ऐरावत हाथी, इन्द्र-  
हस्ती The king of Elephants,  
Elephant of "India" ( २ ) श्रेष्ठ-हाथी  
Best elephant गडड० कुमा०  
गउ-गउअ पु० ( गो ) बैल, वृषभ, साढ  
Ox, Bull हे० १, १२८, — पुच्छ पु०  
न० ( पुच्छ ) ( १ ) बैल का पूछ Tail of an  
ox ( २ ) बाण-विशेष Arrow कुमा०  
गउअ. पु० ( गवय ) गो-सुल्य आकृति वाला  
जगली पशु-विशेष A forest animal  
like an ox or cow, A Species of  
cow found in jungle कुमा०  
गउअ स्त्री० ( गो ) गैया, गौ. Cow हे० ११२८,  
गउड पु० ( गौड ) ( १ ) इस नाम का देश,  
बंगाल का पूर्वी भाग Name of a coun-  
tly Province of Eastern Bengal  
सु० च० ३८६, ( २ ) गौड देश का निवासी  
An inhabitant of Gaur county  
( province ) हे० १, २०२, ( ३ ) गौड देश  
का राजा Raja ( King ) of Gaur coun-  
try, गडड० कुमा० — चह पु० ( वध ) वाक्य-

तिराज का वनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक  
कान्य ग्रन्थ A book of poems com-  
piled by "Vakpati Raj", गडड०  
गउअ त्रि० ( गौय ) अग्रधान, अमुख्य Hid-  
den दे० १, ३,  
गउयी, स्त्री० ( गौयी ) शक्ति विशेष, शब्द की  
एक शक्ति Power of speaking दे० १, ३,  
गउरचिय त्रि० ( गौरवित ) गौरव युक्त किया  
गया हो वह One who has been  
honoured सुपा० ३२६, ३६०,  
गउरी स्त्री० ( गौरी ) ( १ ) गौर वर्ण वाली स्त्री A  
beautiful or a handsome lady कुमा०  
( २ ) पार्वती, शिव पत्नी "Parvati" Wife  
of Shiva सु० च० १०६, — पुत्त. पु०  
( पुत्र ) पार्वती का पुत्र, कार्तिकेय Son of  
Parvati, Kartik सु० च० ४०१,  
गगा स्त्री० ( गङ्गा ) गंगा नदी की अधिष्ठात्री  
देवी A principal goddess of River  
Ganges आवम०  
गजण त्रि० ( गञ्जन ) ( १ ) मर्दन-कर्ता One  
who sub- सिरि० २०६, ( २ ) न० अप-  
मान, तिरस्कार Disgrace सु० च० ४८०,  
( ३ ) न० कलक, दाग Slander चञा० १८,  
गजा स्त्री० ( गङ्गा ) सुर-गृह, मद्य की दुकान  
Shop of liquor दे० २, ८५ टी,  
गजिञ्ज. पु० ( गालिक ) कहय-पाल, ढारू बेचने  
वाला, कलाल Liquor seller दे० २, ८५ टी,  
गजिञ्ज त्रि० ( गञ्जित ) ( १ ) पराजित, अभि-  
भूत Vanquished उप० ६८६ टी. ( ० )  
हल, मारा हुआ, विनाशित Afflicted. विंग०

(३) पीडित Pained हे० ४, ४०६,  
 गंठि स्त्री० (गृष्टि) एक बार ग्यायी हुई गौ A  
 cow which has given the first  
 calf प्रा० ३२,  
 गंड पु० ( गण्ड ) (१) हाथी का कुम्भस्थल  
 An elephant's temple or cheek  
 प्र० २६, (२) पु० न० ऊल का जत्था, इड्ड-  
 समूह A bundle of sugar cane  
 उप० पू० ३१६, (३) छन्द-विशेष A Stanza  
 पिंग० —विश्वाय पु० (व्यतिपात) ज्योतिष  
 शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग The seventeenth  
 of the Astrological yogas सबोध०  
 २४,  
 गंडइया स्त्री० ( गण्डकिका ) नदी विशेष  
 Name of a river, आचम०  
 गण्डभेदत्रय पु० ( गण्डभेदक ) चोर विशेष,  
 पकटेमार Thief, Pick pocket  
 अवि० १७, अमि० १८४,  
 गण्डय पु० ( गण्डक ) गैंडा, जानवर विशेष  
 Rhinoceros प्रा०  
 गण्डीव, न० ( गण्डीव ) धनुष Bow महा०  
 प्रा०  
 गण्डीवि पु० ( गण्डीविन् ) अर्जुन, मध्यम-  
 पाण्डव (Ajun) The third son of  
 Raja Pandava वेशी० २८,  
 गण्डुअ, न० ( गण्डु ) ओसीसा, सिरहना Pillow  
 महा०  
 गण्डुअ न० ( गण्डुत् ) तृण-विशेष A kind  
 of grass दे० २, ७२,  
 गण्डुवहाण न० ( गण्डोपधान ) गाल का तकिया  
 Cheek pillow, A pillow which is  
 kept under the cheek प्र० ८४,  
 गण्डस पु० ( गण्डूप ) पानी का कुल्ला, Guggle  
 of water गा० २७०, सुपा० ४४६, उप०  
 ६८६ टी,  
 गती स्त्री० ( गन्ती ) शकट, गाडी County

cait, A cart drawn by oxen सु०  
 च० २७७,  
 गनुकाम, त्रि० ( गनुकाम ) जानेकी इच्छा वाला  
 One anxious to go, आ० १४,  
 गथि त्रि० ( ग्रन्थिन् ) रचना-कर्ता An author  
 सम्मत० १३६,  
 गध पु० ( गन्ध ) (१) लव, लेय. Little,  
 a small quantity से० ६, ३, (२)  
 वायव्यन्तर देवों की एक जाति A race of  
 demons ( Banveanter ) इक०  
 —मय पु० ( मृग ) कस्तूरी मृग, कस्तूरिया  
 हरिन A deer having musk सु० च० २,  
 —समिद्ध त्रि० ( समृद्ध ) (१) सुगन्धित,  
 सुगन्ध पूर्ण Fragrant, Sweet  
 smelling (२) न० नगर विशेष A city  
 आचम०  
 गधवाह पु० ( गन्धवाह ) पवन Air, समु०  
 १८०,  
 गधव्व, त्रि० ( गान्धर्व ) (१) गन्धर्व सवन्धी,  
 गधर्वसे सबध रखनेवाला One connected  
 with a singer (२) न० उत्सव हीन  
 विवाह, विवाह विशेष A marriage void  
 of ceremonies, A marriage आचम०  
 गधन्वि त्रि० ( गन्धर्विन् ) गाने वाला, Singer  
 ती० ३,  
 गधन्विअ त्रि० ( गान्धर्विक ) गधर्व विद्या में  
 कुशल, A musician or a singer सु०  
 च० १६६,  
 गधा स्त्री० ( गन्धा ) नगरी-विशेष A Vil-  
 lage, or a town इक०  
 गधाण न० ( गन्धान ) छंद विशेष A stanza.  
 पिंग०  
 गधिअ पु० ( गान्धिक ) गन्ध द्रव्य बेचने वाला,  
 पन्सारी Grocer दे० २, ८७,  
 गधुत्तमा स्त्री० ( गन्धोत्तमा ) मदिरा, शराब  
 Wine दे० २, ८६,

गभीर. पु० (गम्भीर) रावण का एक सुभट A warrior of Ravana पदम० २६, ३, (३) न० समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम का एक नगर. A city of this name at the shore सुर० १३, ३०,

गभीर, न० (गाम्भीर्य) (१) गम्भीरता. Gravity, Seriousness (२) अनौद्धत्य In-opposed, Humble सूयनि० ६६,

गभीरा स्त्री० (गम्भीरा) (१) मात्रा-छन्द का एक भेद Part of a stanza पिंग० (२) स्त्री० गभीर हृदयास्त्री Serious minded lady. चव० २,

गंभीरिञ्च न० (गाम्भीर्य) गभीरता, गम्भीरपन Seriousness, Gravity हे० २, १०७, गभीरिम पु० स्त्री० (गाम्भीर्य) गभीरता, गभीरपन Gravity, Seriousness सण०

गगणग पु० न० (गगनाङ्ग) छन्द-विशेष A stanza पिंग०

गगरी स्त्री० (गर्गरी) गगरी, छोटा घड़ा small earthen pot for water, Gharā सुपा० ३३६,

गच्छविहार पु० (गच्छविहार) गच्छ की समाचारी, गच्छ का आचार Conduct or manner of life of a party चव० १,

गच्छिज्ञ त्रि० (गच्छवत्) गच्छ वाला, गच्छ में रहने वाला One who lives in a party वृह० १,

गज्जय, न० (गर्जन) (१) गर्जन, भयानक ध्वनि, मेघ या सिंह का नाद Roar of a thunder, Roar of a lion (२) नगर विशेष A city, A town वप० ७६२,

गज्जयसद् पु० (गर्जनशब्द) पशु और हाथी की आवाज. Voice of elephant or animal वप० ७६२,

गज्जभ पु० (गर्जभ) पश्चिमोत्तर दिशा की पवन. Air of north-west. आचम०

गज्जल, त्रि० (गर्जल) गर्जन करने वाला. One who thunders निसी० चू० ७,

गज्जि स्त्री० (गर्जि) गर्जन, हाथी वगैर की आवाज Scream or roar of an elephant. कुमा० सुपा० ८६, उप० पृ० ११७,

गङ्गण पु० (गङ्गन) धरयोन्द्र की नाट्य सेना का अधिपति Lord of the dancing party (actors) of Indra of earth, "Dhayan India" राज०

गड न० (गड) (१) विस्तीर्ण शिला, मोटा पत्थर A slab of stone (२) गर्त, खाई Ditch सुर० १३, ४१,

गड्डह पु० स्त्री० ( गर्दभ ) गदहा, गधा Donkey. हे० २, ३७, —वाहण. पु० (वाहन) रावण, दशानन Ravan Raja कुमा०

गण पु० (गण) शिव का अनुचर A servant or obedient of lord Shiva पाञ्च० कुमा०

गण्णाद्या, स्त्री० (गणनायका) पार्वती, चंडी Parvati, wife of Shiva दे० २, ८७, गणविञ्च, त्रि० (गणित) गिनती कराया हुआ. Having been counted स० ६२६,

गणित्चर त्रि० (गणयितृ) गिनती करने वाला. Counter गा० २०८,

गणिय त्रि० (गणित) जैन साधुओं का एक कुल. A sect of Jain Sadhus. कल्प०

गणेश्वर. पु० (गणेश्वर) (१) गण का नायक Leader or head of "Ganas" (२) छन्द-विशेष A stanza पिंग०

गण्य त्रि० (गण्य) गणनीय, सम्बन्ध One that can be counted संबोध० १०,

गह्मिष्ठ पु० ( गर्दभिष्ठ ) उज्जयिनी का एक राजा. The king of Ujjain. निनी० चू० १०,

गह्मी. स्त्री० (गर्दमी) (१) गधी, गदही Sho

Ass पि० २६१, (२) विद्या विशेष. A knowledge काल०

गह्वय. पु० ( गर्भक ) चुद्र जन्तु-विशेष, जो गो-शाला वगैरे में उत्पन्न होता है. An insect, which is bred in Gaudshala (where cows are kept) जी० १७,

गन्न त्रि० ( गन्ध ) (१) माननीय, आदरास्पद. One deserving the respect उच० (१) न० गणना, गिनती Counting सुपा० २५३,

गन्धमास पु० ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर माघ तक का महीना 4 months from Katak to Magh (October to January) च० ७,

गच्छर. न० ( गह्वर ) (१) कोटर, गुहा. Cave (२) गहन स्थान, विपन्न स्थान Inaccessible आच० ४,

गम्भवई. स्त्री० ( गर्भवती ) गर्भिणी स्त्री Pregnant सु० च० २७६,

गमना त्रि० ( गमक ) बोधक, निश्चायक One who knows विशेष० ३१५,

गमण न० ( गमन ) (१) व्याख्यान, टीका. Speech, Annotation (२) पुण्य वगैरे नव नक्षत्र Nine "Nakshatras" राज० गमणिया स्त्री० ( गमनिका ) (१) सक्षिप्त-व्याख्यान, दिग्दर्शन Abridged speech राज० (२) गुजारना, अतिक्रमण To bring to pass उप० ७२८ टी,

गमणी स्त्री० ( गमनी ) जूता Shoe सुपा० ६१०,

गमिय त्रि० ( गमित ) (१) ज्ञापित, बोधित, निवेदित Known or thought of विशेष० ५५६, (२) गुजारा हुआ, अतिक्रान्त Passed गउड०

गमिर त्रि० ( गन्तु ) जाने वाला, One who

goes, Goer हे० २, १४५,

गम्म त्रि० ( गन्ध ) (१) जानने योग्य.

Worthy of knowledge (२) जो जीना जासके The one that could be known उवर० १७०, सुपा० ४२६, (३) हराने योग्य, आक्रमणीय. Worth vanquishing सुर० २, १२६, १५, १४४, (४) भोगने योग्य Worthy of use सुर० १२, ५२,

गय पु० ( गद ) रोग, बीमारी, Sickness. सु० च० ५७८,

गय त्रि० ( गत ) (१) विज्ञात, जाना हुआ Known गउड० (२) नष्ट, हत Ruin, Perish उप० ७२८ टी, —अयुगइअ. त्रि० (अनुगतिक) अध परम्परा का अनुयायी, अध-अद्बालु. Blind faith उवर० ४६; —वइया स्त्री० ( पतिक्र ) (१) विधवा, राड Widow पउम० २६, ४२, (२) जिस का पति विदेश गया हो वह स्त्री, भोषित-भर्तृका A lady whose husband has gone to foreign country गा० ३३२, पउम० २६, ४२, —वय. त्रि० ( वयस ) वृद्ध, बुढ़ा Old पाअ०

गय. पु० ( गज ) (१) इस नाम का एक सेठ A rich man of this name उप० ७६८ टी, (२) रावण का एक सुभट A warrior of Ravana पउम० ५६, २, —आरोह पु० ( आरोह ) हस्तिपक, महावत Driver of an elephant, Elephant's driver पाअ० —गपय. पु० ( अग्रपद ) पर्वत विशेष A mountain आक० —वधय पु० ( बन्धक ) हाथी को पकड़ने वाली एक जाति. One who drives or catches the elephant सुपा० ६४२, —मुह. पु० ( मुख ) (१) गणेश, गणपति Ganesh, son of Shiva

(२) यच्च विशेष A demon पात्र०  
 गयण न० (गगन) 'ह' अक्षर The thirty  
 third or last consonant of the  
 nagri alphabet. सिरि० ११६, -मयि  
 पु० (मयि) सूर्य, सूरज. The sun कुप्र० २१,  
 गयणगद्द, पु० (गगनगति) एक राजकुमार  
 A son of a Raja दस०  
 गयणमडल पु० (गगनमण्डल) एक राजा  
 A Raja of this name दस०  
 गयणिदु पु० (गगनेन्दु) विद्याधर वंश के एक  
 राजा का नाम A Raja of Vidyadhar  
 family पञ्च० २, ४२,  
 गयनिमीलिया स्त्री० (गजनिमीलिका) उपेक्षा,  
 उदासीनता To consider equally  
 स० ७२१,  
 गया स्त्री० (गया) स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशेष  
 A city of this name. उप० १२१,  
 गया. स्त्री० (गदा) एक देव विमान An aero-  
 plane of a deva देवेन्द्र० १३३,  
 गर पु० (गर) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध बवादि  
 करणों में से एक One of the famous  
 part of astronomy विशेष० ३३४८,  
 (३) न० विष, जहर Poison पात्र०  
 प्रास० ३६,  
 गरलिगावद्ध त्रि० (गरलिकावद्ध) निक्षिप्त,  
 उपन्यस्त Kept निरी० चू० १,  
 गरहण. न० (गर्हण) निन्दा, घृणा Cen-  
 suring, Blame पि० १३२,  
 गरिम पु० स्त्री० (गरिमन्) गुरुता, गुरुत्व,  
 गौरव Greatness हे० १, ३२, सुपा०  
 २३, १०६,  
 गरिह पु० (गर्ह) निन्दा, गर्हा To blame,  
 To censure पात्र०  
 गरुडय. त्रि० (गरुडित) बडा किया हुआ  
 The one who has been greatly  
 honoured. से० ६, २०, गडड०

गरुड पु० (गरुड) छद्द विशेष A stanza  
 पिग० —त्य न० (अस्त्र) अस्त्र-विशेष,  
 उरगास्त्र का प्रतिपत्ती अस्त्र, "Gained" An  
 enemy of sequent arrow पञ्च०  
 १२, १३०, ७१, ६६, —द्वय पु० (ध्वज)  
 विष्णु, वासुदेव Vishnu, Basudev.  
 One of the names of God पञ्च०  
 ६१, २७, वूह पु० (व्यूह) सेना की एक  
 प्रकार की रचना To organize the  
 army महा० पि० २४०,  
 गरुडक पु० (गरुडाङ्क) (१) विष्णु, वासुदेव  
 Name of God. (२) इक्ष्वाकु वंश के एक  
 राजा का नाम Name of a raja of  
 Ikshvaku dynasty, पञ्च० २, ७,  
 गरुल. पु० (गरुड) (१) सुपर्य कुमार देवों का  
 इन्द्र. "Suparan Kumal" Indra  
 of devas (२) एक देव विमान An  
 aeroplane of devas देवेन्द्र० १३४,  
 —ज्मय पु० (ध्वज) (१) गरुड पक्षी के  
 चित्र वाली ध्वजा Banner carrying  
 the emblem of "Garud" राय० (२)  
 वासुदेव Name of God (३) देव जाति  
 विशेष सुपर्याकुमार देव Suparankumar  
 Deva, A race of devas आवम०  
 गरुहस्त्रिञ्च त्रि० (गरुहस्त्रित) गला पकड कर  
 बाहर निकाला हुआ One who was  
 thrown out by neck वजा० १३८,  
 गलिञ्च त्रि० (गलित) (१) धालित, प्रचालित  
 Cleaned, Washed कुमा० (२) स्वलित,  
 पतित Fallen से० १, २, (३) नष्ट नाश-  
 प्राप्त Ruined, Perished सुपा० २४३,  
 सण०  
 गलिर त्रि० (गलिर) निरन्तर पिबलता, उपन्ता  
 Constantly drizzling आ० १४,  
 गल्ल. पु० (गल्ल) (१) गाल, कपाल  
 Cheek, Skull (२) हाथी का गरुड-स्थल,

कुम्भ-स्थल Temple of elephant.  
 पङ्क — मसूरिया स्त्री० (मसूरिका) गाल  
 का उपभान Pillow of cheek. जीत०  
 गवायत्री स्त्री० (गवादनी) इन्द्रवारुणी, वन-  
 स्पति विशेष A ding "Indiavarum"  
 दे० २, ८२,  
 गवेधुआ स्त्री० (गवेधुका) जैन मुनि गण की  
 एक शाखा One sect of Jain Mun-  
 es कम्प०  
 गवेसण्या स्त्री० (गवेपण्या) शुद्ध भिजा की  
 याचना Desire of pure bhojan ac-  
 cording to the career of Sadhus  
 शोध० नि० ३,  
 गवेसाविय त्रि० (गवेपित) दूसरे से खोजवाया  
 हुआ, दूसरे द्वारा खोज किया गया Sought,  
 Enquired शोध० नि० ६२२,  
 गवेसि त्रि० (गवेपिन्) खोज करने वाला  
 Discoverer, Explorer पुष्प० ४४०,  
 गवेसिअ त्रि० (गवेपित) अन्वेपित, खोजा हुआ  
 Searched सुर० १२, १२६,  
 गव्वर न० (गह्वर) कोटर, गुहा. Cave स०  
 ३६३,  
 गव्वि त्रि० (गर्विन्) अभिमानी, गर्व युक्त  
 Proud श्रा० १२,  
 गव्विट्ट. त्रि० (गर्विष्ठ) विशेष-अभिमानी, गर्व  
 करने वाला Proud दे० १, १२८,  
 गव्विर त्रि० (गर्विन्) अहंकारी, अभिमानी  
 Proud हे० २, १२६, हेका० ४२,  
 गव्वण न० (गवन) भक्षण, निगलना To  
 swallow. स० ३२७,  
 गह पु० (ग्रह) (१) सबन्ध Relation,  
 connection धर्मस० ३६३, (२) ज्ञान,  
 ग्रहण Knowledge, To obtain, To  
 accept धर्मस० १३६४, — भिन्न न०  
 (भिन्न) जिसके बीच से ग्रह का गमन हो वह  
 नक्षत्र Passing of a planet वव० १,

—सम. न० (सम) गेय काव्य का एक भेद  
 A part of a poetry दसनि० २, २३;  
 गहकल्लोल पु० (ग्रहकल्लोल) राहु,  
 ग्रह विशेष "Rahu" A "grah" "A  
 planet" पात्र०  
 गहचरिय. न० (ग्रहचरित) (१) ज्योतिष शास्त्र  
 Astronomy वव० ४,  
 गहण न० (ग्रहण) (१) इन्द्रिय An organ  
 sense विशेष० १७०७, (२) शिक्षा-विशेष  
 Teaching श्राव० (३) आदर, सम्मान  
 To honour (४) ज्ञान, अवबोध.  
 Knowledge. से० ४, ३३,  
 गहत्थि पु० (गभस्ति) किरण, Rays पात्र०  
 गह्वर पु० न० (गह्वर) (१) निकुञ्ज A  
 dense bush (२) वन, जगल Forest  
 (३) दम, कपट Cheat, Deceit (४) विपन्न  
 स्थान Inexcessible. — (५) रुदन To  
 weep (६) गुफा Cave (७) सकट.  
 Trouble प्राक्० २४,  
 गहवइ पु० (गृहपति) कृषक, खेती करने  
 वाला Farmer पात्र०  
 गहिल. त्रि० (ग्रहिल) भूतादि से श्रावित,  
 पागल. One ridden by demons  
 श्रा० १४,  
 गहिलिय-गहिल्ल त्रि० (ग्रहिल) आवेश युक्त,  
 पागल, भ्रान्त-चित्त Mad पवम० ११३,  
 ४३, पङ्क०, श्रा० १२, उप० २६७ टी, भवि  
 गह्वरिअ न० (गम्भीर्य) गहराई, गम्भीरपन.  
 Depth, Gravity ई० २, १०७,  
 गाअ पु० (गौ) बैल, वृषभ, साढ Ox,  
 Bull हे० १, १२८,  
 गाअ. त्रि० (गायक) गाने वाला. Singer  
 कुमा०  
 गाअक पु० (गवाङ्क) महादेव, शिव  
 Lord "Shiv" कुमा०  
 गाअण त्रि० (गायन) गाने वाला, गवैया.



Singer सुपा० २२, सण०  
 गाइअ त्रि० (गीत) (१) गाया हुआ Sung  
 सु० च० १६, (२) न० गीत, गान, गाना.  
 Song आव० ४,  
 गाइआ. स्त्री० (गायिका) गाने वाली स्त्री  
 She who sings गा० ६४४,  
 गाई स्त्री० (गौ) गैया, गौ. Cow. हे० १,  
 १२८, गा० २७१, सुर० ७, ६२,  
 गाण. न० (गान) गीत, गाना. Song हे०  
 ४, ६,  
 गाण त्रि० (गायन) गवैया, संगीत प्रवीण  
 Singer, song-complete (master)  
 दे० २, १०८,  
 गाघ त्रि० (गाघ) स्ताघ, अ-गहरा, Not  
 very deep, Shallow दे० २, २४,  
 गाम पु० (ग्राम) (१) प्राणि समूह, जन्तु निकर  
 A swarm विशेष० २८६६, —आचार.  
 पु० (आचार) विषय To think about  
 आवस० —शिद्धमण्य न० (निर्धमन)  
 गाव का पानी जाने का रास्ता, नाला  
 Village drain कप्प० —द्ध पु० न०  
 (अर्ध) (१) आधा गाव Half village.  
 (२) उत्तर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश  
 The northern part of Bharat  
 निसी चू० १२,  
 गामंड पु० (ग्रामक) गाव, छोटा गाव A  
 small village आ० १६,  
 गामणी त्रि० (ग्रामणी) (१) श्रेष्ठ, प्रधान,  
 नायक President से० ७, ६०, धय० १,  
 गा० ४४६, षड्०  
 गामाग. पु० (ग्रामाक) ग्राम विशेष, इस नाम  
 का एक सन्निवेश The village of this  
 name. आवस०  
 गामित्र. त्रि० (ग्रामिक) (१) ग्राम कामुखिया  
 Head man of a village निसी० चू० २,  
 (२) विषयामिलापी One who is after

the desires of Vishhaya  
 गामिणिआ. स्त्री० (गामिनिका) गमन करने  
 वाली स्त्री A lady who goes here  
 and there अजि० २६,  
 गामुअ. त्रि० (गामुक) जाने वाला One  
 who goes. स० १७२,  
 गामेयग, त्रि० (ग्रामेयक) गवार, गाव का  
 निवासी Villager वृह० १,  
 गायण त्रि० (गायन) गवैया, Singer  
 सिरि० ७०१,  
 गार पु० (आवन्) पत्थर, पापाय Stone.  
 वव० ४,  
 गारचिल्ल त्रि० (गौरववच्) देखो 'गारविय'  
 शब्द See "Shabd Galvia" क०  
 ग १, २६,  
 गारहृत्थ त्रि० (गार्हृत्थ) गृहस्थ-सम्बन्धी  
 Householder, Connected with  
 the household affairs प्रव० २३२,  
 गालिय. त्रि० (गालित) (१) अतिक्रान्त  
 Pass through (२) विनाशित One  
 who is perished (३) क्षिप्त महा०  
 गाव-गावाण पु० (आवन्) (१) पत्थर,  
 पापाय. Stone. पाअ० (२) पहाड़.  
 Mountain हे० ३, २६,  
 गाह. पु० (ग्रह) हठ, आग्रह Opposition,  
 Perversity विशेष० २२८६,  
 गाहा स्त्री० (गाथा) (१) प्रतिष्ठा, Assu-  
 rance (२) निश्चय To think about,  
 To find out आव० ४,  
 गाहाविय त्रि० (ग्रहित) जिसको ग्रहण  
 कराया गया हो वह. One, who has  
 been mad to accept or take.  
 सुर० ११, १८३,  
 गाहिणी स्त्री० (गाहिनी) छंद विगेष A  
 stanza पिंग०  
 गाहिपुर. न० (गाधिपुर) नगर विगेष. A

city of this name गडड०  
 गाहू स्त्री० (गाहू) छन्द विशेष A stanza  
 पिंग०  
 गिट्टि स्त्री० (गृष्टि) (१) एक बार ब्यायी हुई  
 She, who has delivered once  
 (२) एक बार ब्यायी हुई गौ Cow, who  
 has delivered once हे० १, २६,  
 गिरहावित्र त्रि० (ग्राहित) ग्रहण कराया हुआ,  
 Having been accepted धर्मवि०  
 ११६,  
 गिद्धि स्त्री० (गृद्धि) एक देव विमान A  
 Devas aeroplane देवेन्द्र० १३४  
 गिरिन्द्र पु० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ठ पर्वत Holy,  
 Worthy mountain (२) मेरु पर्वत  
 Meru, A mountain of this  
 name (३) हिमाचल Himachal, A  
 mountain of this name, Him-  
 alaya कप्प०  
 गिरिफुल्लिय न० (गिरिपुष्पित) नगर विशेष  
 A city of this name पिंड० ४६१,  
 गिरिस. पु० (गिरीश) महादेव, शिव Lord  
 Shiva. पाञ्च० —वास पु० (वास) कैलाश  
 पर्वत A mountain of this name  
 "Kailash" से० ६, ७२,  
 गिरीस पु० ( गिरीश ) (१) हिमाचल पर्वत.  
 A mountain of this name  
 "Himachal" Himalaya ( २ )  
 महादेव, शिव Lord Shiva पिंग०  
 गिलण न० ( गरण ) निगरण, भक्षण  
 Swallowing. हे० ४, ४४२,  
 गिलिअवत त्रि० ( गिलितवत् ) जिलने भक्षण  
 किया हो वह One, who has swal-  
 lowed पि० २६६,  
 गिन्वाण. पु० ( गीर्वाण ) देव, सुर, त्रिदश.  
 A deva उप० २३० टी,  
 गिहमेहि. पु० ( गृहमेधिन् ) गृहस्थ

Worldly affairs धर्मवि० २६  
 गिहिअ त्रि० (गृहीत) प्राप्त, उपात्त, ग्रहण  
 किया हुआ Accepted स० ४२८,  
 गिहिणी स्त्री० (गृहिणी) गृहिणी, भार्या, स्त्री.  
 Wife सुपा० ८३, श्रा० १६,  
 गिहेलुय पु० (गृहेलुक) देहली, द्वार के नीचे की  
 लकड़ी Bottom wood of the door  
 निली० चू० १३,  
 गी.स्त्री० (गिर) चाणी, भाषा, वाक्, Speech,  
 Speaking. गडड०  
 गीत्रा, स्त्री० (गीता) छंद विशेष A  
 stanza, Poetry पिंग०  
 गुज पु० ( गुञ्ज ) (१) गुञ्जारव करता वायु.  
 murmuring sound of air पञ्च०  
 १३, ४३, (२) पर्वत विशेष. A mountain  
 of this name पञ्च० ८, ६०, ६४, (४)  
 लता विशेष. A small shrub सुर० २,  
 ६, हल. न० ( फल ) फल विशेष, बुङ्गची  
 A fruit of this name, सुर० २, ६,  
 गुजिर त्रि० ( गुञ्जितृ ) गुन गुन आवाज  
 करने वाला One who murmurs, or  
 who utters in a low tone उप०  
 १०३१ टी,  
 गुठिअ स्त्री० (गुठित) (१) धूसरित. Any  
 thing of a grey tint (२) व्याप्त  
 Spread. (३) आच्छादित Covered.  
 दे० १, ८२,  
 गुंथण. न० ( ग्रन्थन ) गूथना, गठना  
 Stinging, tying or connecting  
 together. रयण० १८,  
 गुद न० ( गुन्द्र ) वृक्ष विशेष A tree of  
 this name पाञ्च०  
 गुफ पु० ( गुम्फ ) रचना, ग्रन्थन, गूथना To  
 string together, To work उप०  
 १०३१ टी,  
 गुग्गुल पु० ( गुग्गुल ) सुगन्धित द्रव्य विशेष,

गुगल. A fragrant gum resin सु० च० १५१,  
 गुग्गुली स्त्री० ( गुग्गुल ) गुगल का पेड़ A plant producing a fragrant gum resin जी० १०,  
 गुज्जर पु० ( गुर्जर ) ( १ ) भारत का एक प्रान्त, गुजरात देश A province in India "Gujrat" पिंग० ( २ ) त्रि० गुजरात का निवासी. An inhabitant of Gujrat, ( a province in India ) नाट०  
 गुज्जरत्ता. स्त्री० ( गुर्जरत्रा ) गुजरात देश, Province Gujrat, ( In India ) सार्ध० ६८,  
 गुडिआ स्त्री० ( गुटिका ) गोली A pill. गा० १७७,  
 गुण पु० न० ( गुण ) ( १ ) लाभ, फायदा Profit सु० च० १०३, व्याकरण प्रसिद्ध ए, ओ, और अर रूप स्वर विकार The substitution of E, O and E सु० च० १०३, ( ३ ) अश, विभाग अणुजो० Part ( ४ ) उपकार, हित. Assistance, Kindness पचा० ५, ( ५ ) प्रत्यञ्जा, धनुष का डोरा A bow string. कुमा० ( ६ ) अप्रधान, गौण. Secondary subordinate, हे० १, ३४,  
 गुणचन्द्र पु० ( गुणचन्द्र ) एक राजकुमार, A monarch's son named "Gun chandai " आचम०  
 गुणवृद्धि स्त्री० ( गुणवृद्धि ) लगातार आठ दिनों का उपवास Fast for eight consecutive days सर्वोद्य० २८,  
 गुणाविय त्रि० ( गुणित ) पढाया हुआ, पाठित Tutored, Instructed महा०  
 गुणित्त्र. त्रि० ( गुणित ) ( १ ) पठित, अधीत Read, Studied श्लो० नि० ६२, ( २ ) जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह, परा-वर्तित Repeated वच० ३,

गुणिल्ल. त्रि० ( गुणवत् ) गुणी, गुण युक्त Possessing attributes, Endowed with good qualities. पि० १६१,  
 गुत्ति. स्त्री० ( गुत्ति ) ( १ ) कैदखाना, जेल Prison, Jail. सु० च० ६३,  
 गुत्थ त्रि० ( ग्रथित ) गुम्फित, गूथा हुआ. Stung, Tied, Affixed स० ३०३,  
 प्रप० गा० ६३, कल्प०  
 गुद्दह न० ( गोद्रह ) नगर विशेष A city of this name मोह० ८८,  
 गुप्पई. स्त्री० ( गोप्पदी ) गौ का पैर डूबे बतना गहरा. A pit as much deep as will hold a cow's foot धम्म० १२ टी,  
 गुमिअ त्रि० ( भ्रमित ) भ्रमित, घुमाया हुआ. Whirling, Going round कुमा०  
 गुम्म, पु० न० ( गुल्म ) ( १ ) झाड़ी, वृक्ष-घटा. Bush. पात्र० ( २ ) सेना-विशेष, जिममे २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े और १३१ प्यादे हों ऐसी सेना The division of an army, a body of troops, consisting of nine platoons, nine elephants, nine chriots, twenty seven horses and forty five foot पउम० १६, १ ( ३ ) गच्छू का एक हिस्सा, जैन मुनि समाज का एक अंग A small party of Jain munis स्थान, जगह Place श्लो० १६३,  
 गुरु पु० ( गुरु ) ( १ ) शिक्षक, विद्या दाता, पढ़ाने वाला A spiritual teacher. Tutor वच० १, ( २ ) बड़ा, महान Big, Great ( ३ ) उत्कृष्ट, उत्तम Best, Great, Excellent क० ग० ४, ७० ७६, ( ४ ) बृहस्पति, ग्रह-विशेष A planet, 'Brahspati' पउम० १७, १०८, कुमा० ( ५ ) स्वर विशेष, दो मात्रा वाला आ, ई वर्ग स्वर;

जिसके पीछे अनुस्वार या सयुक्त व्यञ्जन हो  
ऐसा भी स्वर वर्ण The long vowel  
equal to two matras simple  
sound विंग०

गुरुणी स्त्री० ( गुरवीं ) (१) गुरु-स्थानीय स्त्री  
The wife of a Guru, or of a  
spiritual teacher. सुर० ११, २११,  
(२) धर्मोपदेशिका, साध्वी. A spiritual  
teacher (she) उप० ७२८ टी,

गुरेड. न० ( गुरेट ) तृण विशेष A kind  
of glass दे० १, ५४,

गुललात्रणिया स्त्री० ( गुडलात्रणिका ) (१)  
एक तरह की मिठाई, गोलपापड़ी A kind  
of sweetmeat prepared of Jagree  
(२) गुडधाना Jagree and Dhanya  
combined प्रब० २५६, सू० प० २० टी,

गुलु छ पु० ( गुलुच्छ ) गुच्छ, गुच्छा A  
bunch दे० २, ६२,

गुलुच्छ. पु० ( गुलुच्छ ) गुच्छा, स्तवक  
Bunch पात्र०

गुविल. त्रि० ( गुपिल ) गहन, गहरा, गाढ,  
निविड Strong, Good सुर० ६, ६६,  
उप० पु० ३०, (२) न० झाड़ी, जगल Bush,  
Jungle उप० ८३३ टी० पञ्च० ४४,

गुह पु० ( गुह ) कार्तिकेय, एक शिव पुत्र  
A son of Lord Shiva "Kartik"  
पात्र०

गूह. न० ( गूय ) गू, विष्टा Orduie तडु०  
गूहिय त्रि० ( गूहित ) छिपाया हुआ  
Hidden स० १८६,

गेंदुआ पु० ( कन्दुक ) गेंद Ball हे० १,  
५७, १८२, सुर० १, १२१,

गेज्ज त्रि० ( ग्राह ) ग्रहण-योग्य To fit  
to accept, to take हे० १, ७८,

गेहण न० ( ग्रहण ) आदान, उपादान, लेना  
To take उप० ३३६, स० ३७५,

गेहणया स्त्री० ( ग्रहणा ) ग्रहण, आदान  
To take उप० ५२६,

गेह्राचिय. त्रि० ( ग्राहित ) ग्रहण कराया हुआ.  
Taking, Seizing, Accepting.  
स० ५२६, महा०

गेहालु. त्रि ( गेहवत् ) घर वाला, गृही, ससारी  
Owner of the house पङ्०

गो पु० ( गो ) (१) स्वर्ग, देवभूमि  
Heaven सु० च० १४२, (२) स्त्री० वाणी,  
वाग् Speech (३) भूमि Earth सु०  
च० १४२, (४) भूप, राजा King वव० १,  
(५) रश्मि, किरण Rays. गड०, —उल.

न० ( कुल ) गायों का समूह Herd of  
cows, A multitude of cows  
आव० ३, (२) गोष्ट, गोवाडा Place  
where cows are kept, A cow  
house आवम०—भूमि, स्त्री० ( भूमि ) गायों  
के चरने की जगह Meadow आवम०  
—माहिस्क न० ( माहिपक ) गौ और भैंस का  
यूथ A multitude of cows and  
buffaloes स० ६८६, —वाड पु०  
( गौवाट ) गौओं का वाडा, A cow house  
दे० १, १४६,

गोअलिणी स्त्री० ( गोपालिनी ) ग्वालिन A  
female cowherd धर्मवि० ५५,

गोआ. स्त्री० ( गोदा ) नदी विशेष, गोदावरी  
नदी A river of this name  
"Godavari" गा० १७५,

गोआअरी स्त्री० ( गोदावरी ) नदी विशेष,  
गोदावरी A river of this name  
"Godavari" गा० ३५५,  
गोउलिअ. त्रि० ( गोकुलिक ) गो-धन पर नियुक्त  
पुरुष, गोकुल रक्षक Cowherd कुप्र० ३१,  
गोकुलरय पु० ( गोकुलर ) एक औपधि का  
नाम, गोखर A dung of this name  
"Gokhru" स० २५६,

- गुगल. A fragrant gum resin. सु० च० १५१,  
 गुग्गुली. स्त्री० ( गुग्गुल ) गुगल का पेड़ A plant producing a fragrant gum resin जी० १०,  
 गुज्जर पु० (गुर्जर) (१) भारत का एक प्रान्त, गुजरात देश A province in India "Gujrat" पिंग० (२) त्रि० गुजरात का निवासी. An inhabitant of Gujrat, (a province in India) नाट०  
 गुज्जरत्ता. स्त्री० (गुर्जरत्रा) गुजरात देश. Province Gujrat, (In India) सार्ध० ६८,  
 गुडिञ्चा स्त्री० (गुडिका) गोली A pill. गा० १७७,  
 गुण्य पु० न० (गुण्य) (१) लाभ, फायदा. Profit सु० च० १०३, न्याकरण प्रसिद्ध ए, ओ, ओरश्चरूप स्वर विकार The substitution of E, O and E सु० च० १०३, (३) अश, विभाग अखुजो० Part (४) उपकार, हित. Assistance, Kindness पचा० ५, (५) प्रत्यञ्ज, धनुष का डोरा A bow string. कुमा० (६) अप्रधान, गौण. Secondary subordinate. हें० १, ३४,  
 गुण्यचन्द्र पु० (गुण्यचन्द्र) एक राजकुमार. A monarch's son named "Gun chanda" आषम०  
 गुण्यवृद्धि स्त्री० (गुण्यवृद्धि) लगातार आठ दिनों का उपवास Fast for eight consecutive days सवोध० ५८,  
 गुण्यवित्ति त्रि० (गुण्यित) पढाया हुआ, पाठित Tutored, Instructed महा०  
 गुण्यित्रि त्रि० (गुण्यित) (१) पठित, अधीत Read, Studied ओघ० नि० ६२, (२) जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह, परावर्तित Repeated वच० ३,  
 गुणिल्ल. त्रि० (गुण्यवत्) गुणी, गुण युक्त Possessing attributes, Endowed with good qualities पि० १६१,  
 गुत्ति. स्त्री० (गुत्ति) (१) कैदखाना, जेल Prison, Jail. सु० च० ६३,  
 गुत्थ त्रि० (प्रथित) गुम्फित, मूँधा हुआ. Strung, Tied, Affixed स० ३०३, प्रप० गा० ६३, कप्पू०  
 गुद्दह न० (गोद्रह) नगर विशेप. A city of this name मोह० ८८,  
 गुप्पई. स्त्री० (गोप्पदी) गौ का पैर डूबे वतना गहरा A pit as much deep as will hold a cow's foot घम्म० १२ टी,  
 गुमिञ्च त्रि० (अमित) अमित, घुमाया हुआ. Whirling, Going round कुमा०  
 गुम्म, पु० न० (गुल्म) (१) झाडी, वृक्ष-घटा Bush. पाञ्च० (२) सेना-विशेप, जिसमें २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े और १३५ प्यादे हों ऐसी सेना The division of an army, a body of troops, consisting of nine platoons, nine elephants, nine chariots, twenty seven horses and forty five foot पउम० १६, १ (३) गच्छ का एक हिस्सा, जैन मुनि समाज का एक अंग A small party of Jain munis स्थान, जगह Place ओघ० १६३,  
 गुरु पु० (गुरु) (१) शिक्षक, विद्या दाता, पदाने वाला A spiritual teacher, Tutor वच० १, (२) बडा, महान् Big; Great (३) उत्कृष्ट, उत्तम Best, Great, Excellent क० ग० ४, ७२-७६, (४) बृहस्पति, ग्रह-विशेप A planet, "Brahspati" पउम० १७, १०८, कुमा० (५) स्वर विशेप, दो मात्रा वाला आ, ई वगैर स्वर,

जिसके पीछे अनुस्वार या समुक्त व्यञ्जन हो  
ऐसा भी स्वर वर्ण The long vowel  
equal to two matras simple  
sound षिंग०

गुरुणी स्त्री० ( गुरी ) (१) गुरु-स्थानीय स्त्री  
The wife of a Guru, or of a  
spiritual teacher सुर० ११, २११,  
(२) धर्मोपदेशिका, साध्वी A spiritual  
teacher (she) उप० ७२८ टी,

गुरेड न० ( गुरेट ) तृण विशेष A kind  
of grass दे० १, १४,

गुललावणिया स्त्री० ( गुडलावणिका ) (१)  
एक तरह की मिठाई, गोलपापड़ी A kind  
of sweetmeat prepared of Jagree  
(२) गुडधाना Jagree and Dhanya  
combined प्र० २१६, सू० प० २० टी,

गुलु छु पु० ( गुलुच्छ ) गुच्छ, गुच्छा A  
bunch दे० २, ६२,

गुलुच्छ पु० ( गुलुच्छ ) गुच्छा, स्तवक  
Bunch पात्र०

गुविल. त्रि० ( गुपिल ) गहन, गहरा, गाढ,  
निविड Strong, Good सुर० ६, ६६,  
उप० पृ० ३०, (२) न० झाडी, जगल Bush,  
Jungle उप० ८३३ टी० पत्र० ४४,

गुह पु० ( गुह ) कार्तिकेय, एक शिव पुत्र  
A son of Lord Shiva "Kautilk"  
पात्र०

गूह. न० ( गूथ ) गू, निष्ठा Oidure तद्गु०  
गूहिय त्रि० ( गूहित ) छिपाया हुआ  
Hidden स० १८६,

गेंदुअ पु० ( कन्दुक ) गेंद Ball हे० १,  
१७, १८२, सुर० १, १२१,

गोजभ त्रि० ( ग्राह्य ) ग्रहण-योग्य To fit  
to accept, to take हे० १, ७८,

गोहण न० ( ग्रहण ) आदान, उपादान, लेना  
To take उप० ३३६, स० ३७१,

गोहणया स्त्री० ( ग्रहणा ) ग्रहण, आदान  
To take उप० १२६,

गोह्राविय. त्रि० ( ग्राहित ) ग्रहण कराया हुआ.  
Taking, Seizing, Accepting.  
स० १२६, महा०

गोहालु त्रि ( गोहवत् ) घर वाला, गृही, ससारी  
Owner of the house पद०

गो पु० ( गो ) (१) स्वर्ग, देवभूमि  
Heaven सु० च० १४२, (२) स्त्री० वाणी,

वाग् Speech (३) भूमि Earth सु०  
च० १४२, (४) भूप, राजा King वच० १,

(५) रश्मि, किरण Rays. गडड०, —उल.  
न० ( कुल ) गायों का समूह Herd of

of cows, A multitude of cows  
आव० ३, (२) गोष्ट, गोवाडा Place

where cows are kept, A cow  
house आव०—भूमि. स्त्री० ( भूमि ) गायों

के चरने की जगह Meadow आव०  
—माहिसक न० ( माहिक ) गौ और बैस का

यूथ A multitude of cows and  
buffaloes स० ६८६, —वाड पु०

( गौवाट ) गौओं का बाटा, A cow house.  
दे० १, १४६,

गोअलिणी स्त्री० ( गोपालिनी ) ग्वालिन A  
female cowherd धर्मवि० १५,

गोआ. स्त्री० ( गोदा ) नदी विशेष, गोदावरी  
नदी A river of this name

"Godavari" गा० १७१,

गोआअरी स्त्री० ( गोदावरी ) नदी विशेष,  
गोदावरी A river of this name

"Godavari" गा० ३११,

गोउलिअ. त्रि० ( गोकुलिक ) गो-धन पर नियुक्त  
पुरुष, गोकुल रचक Cowherd कुप्र० ३१,

गोखुरय पु० ( गोखुरक ) एक औषधि का  
नाम, गोखर A drug of this name

"Gokhur" स० २१६,

- गोष्ट. पु० ( गोष्ट ) गोवाटा, गौश्रों के रहने का स्थान A cow house or pen महा० पउम० १०३, ४०, गा० ४४७,
- गोडा. स्त्री० ( गोला ) नदी विशेष, गोदावरी A river of this name "Godavi" गा० २८, १०३,
- गोडो. स्त्री० ( गौडी ) गुड की बनी हुई मटिरा; गुड की दार, Wine of Jagree, Liquor made of Jagree वृह० २,
- गोसाङ्गना स्त्री० ( गवाङ्गना ) गैया, गौ Cow सुपा० ४६२,
- गोत्त पु० ( गोत्र ) पर्वत, पहाड Mountain. श्रा० १४, — देवया स्त्री० ( देवता ) कुल देवी A family Goddess श्रा० १४,
- गोत्ति त्रि० ( गोत्रिन् ) कुटुम्बी, स्वजन One from the same family, Of one family cl race सुपा० १०६,
- गोत्तित्र त्रि० ( गोत्रिक ) समान गोत्र वाला, स्वजन Of one family of race श्रा० २७,
- गोथूभ न० ( गोरूप ) मानुषोत्तर पर्वत का एक शिखर. A top of mountain "Manushottai" द्वी०
- गोदा. स्त्री० ( गोदा ) नदी विशेष, गोदावरी नदी A river of this name "Godavi" पठ० गा० ६२२,
- गोध पु० ( गोध ) (१) म्लेच्छ देश A barbarian county (२) गोध देश का निवासी मनुष्य An inhabitant of a barbarian county राज०
- गोवल. न० ( गोवल ) गोधन, गोकुल, गौश्रों का समूह A Cow Pen सुपा० ४३३,
- गोयमज्जिया स्त्री० ( गौतमार्यिका ) जैन मुनि गण की एक शाखा A party of Jain munis कप्य०
- गोयमसमुत्त. त्रि० ( गौतमसगोत्र ) गौतम गोत्रीय One from the family of Gautama श्रावम०
- गोयर. पु० ( गोचर ) गौश्रों के चरने की जगह. Mondow. वृह० ३,
- गोयरी स्त्री० ( गौचरी ) भिक्षा, मधुकरि The alms-obtained from different places by a religious mendicant. सुपा० २६६,
- गोरग त्रि० ( गौराङ्ग ) शुद्ध शरीर वाला. One of white and pale body कप्य०
- गोरगिरि पु० ( गौरगिरि ) पर्वत विशेष, हिमाचल A mountain, Himalaya निसी० चू० १,
- गोरव न० ( गौरव ) आदर, सम्मान Respect विशेष० ३४७३,
- गोरवित्र, त्रि० ( गौरवित ) सम्मानित, जिसका आदर किया गया हो वह Respected, Respectable दे० ४, २,
- गोरव्य त्रि० ( गौरव्य ) गौरव-योग्य Respectable धर्मवि० ६४, कुप्र० ३७७,
- गोरस. पु० ( गोरस ) वाणी का आनन्द Sweet speech सिरि० ४०,
- गोरिअ. न० ( गौरिक ) विद्याधर का नगर विशेष A city of "Vidya Dhar" इक०
- गोरी. स्त्री० ( गौरी ) इस नाम की एक विद्या देवी A goddess of this name सति० ६, — कूड न० ( कूट ) विद्याधर-नगर विशेष A city of "Vidya Dhar" इक०
- गोल. पु० ( गोल ) (१) वृक्ष विशेष A tree. श्रु० २८, (२) गोलक, कुडा A big water jar सुपा० २७०,
- गोलिअ. पु० ( गौलिक ) गुड बनाने वाला One who prepares Jagree कव० ६,
- गोव्ल पु० ( गौव्य ) देश विशेष. A

country आचम०

गोवण न० (गोपन) (१) रक्षण. To save, To protect. (२) छिपाना To hide

श्रा० २८, वप० २६७ टी,

गोवद्धण. पु० (गोवर्धन) (१) पर्वत-विशेष. A mountain of this name "Govardhan" which was held by Lord Krishna on ३ finger दि० २६१, (२) ग्राम-विशेष A village of this name पठम० २०, ११२,

गोवय त्रि० (गोपक) छिपाने वाला, ढाकने वाला One who guards or protects सर्वोध० ३४,

गोवल्ल पु० न० (गोवल) गोत्र-विशेष A family, A race सू० प० १०, १६ टी,

गोवा पु० (गोप) ग्वाला, गौश्रों का पालन करने वाला A cowherd. प्रामा०

गोवालि पु० (गोपालिन्) ग्वाला, गोप, अहीर A cowherd सुपा० ४३२, ४३३,

गोवालिणी स्त्री० (गोपालिनी) गोप-स्त्री, अहीरिन. A cowherd's wife सुपा०

४३२,

गोवालिय पु० (गोपालिक) गोप, अहीर, ग्वाला A cowherd सुपा० ४३३,

गोवित्रा त्रि० (गोपित) (१) छिपाया हुआ. Having hidden (२) रक्षित Protected. सुर० १, ८८,

गोवित्रा, स्त्री० (गोपिका) गोपागना, अहीरिन A cowhead's wife कुमा० गा० ११४,

गोविदशिञ्जुत्ति स्त्री० (गोविदनिर्मुक्ति) इस नाम का एक जैन दार्शनिक ग्रन्थ A sacred book of Jainism निसी० चू० ११,

गोवी स्त्री० (गोपी) गोपागना, अहीरिन A cowherd's wife. सुपा० ४३२,

गोसथिय पु० (गोसन्धित) गोपाल, अहीर A cowherd राज०

गोसग्य पु० न० (गोसर्ग) प्रातःकाल, प्रभात. Morning पात्र०

गोहरे-गोहरेय पु० (गोघरे) जन्तु-विशेष, साप की तरह का जानवर An Iguava,

A kind of lizard like a snake पठम० ४८, ८२,

घ

घ पु० (घ) कण्ठ-स्थानीय वज्जन वर्ण विशेष The fourth consonant of the Sanskrit, A rattling or gunggling sound प्राप० प्रामा०

घटिय पु० (घटिक) चण्डाल का कुल-देवता, यक्ष-विशेष A family God of inferior caste of Hindus बृह० १,

घग्घर पु० (घर्घर) शब्द-विशेष One of the tones or notes in music गा० ८००, (२) खोखला गला. A sound of throat (३) खोखली आवाज Hollow sound सुर० २, ११२, (४) शाद्वल शैवाल वगैर का समूह Moss of scum

of water. गडड०

घटुक्य पु० (घटोक्च) भीम का पुत्र A son of "Bhim" हे० ४, २६६,

घट्ट पु० (घट्ट) (१) शर्करा प्रभा नामक नरक भूमि का एक नरकावास A place in hell "Sharkarprabha" इक० (२) न० जमाव, To gather श्रा० २८, (३) समूह, जल्था Crowd सु० च० २५६, (४) त्रि० गाढा, निविड Strong सु० च० ११,

घट्टसुत्र न० (घट्टाशुक) वस्त्र विशेष, बूटेदार, कौसुम्भ वस्त्र Spotted cloth कुमा०

घट्टण त्रि० (घट्टन) , हिला देने वाला.



One who shakes, Shaker पिंढ ६३३,  
 घट्टणया-घट्टणा स्त्री० (घटना) (१) विचार,  
 To think (२) पृच्छा Question  
 गृह० ४, (३) आघात, आह्वनन To  
 suffer so now in mind (४) चलन,  
 हिलन. To shake, To tremble  
 श्रोघ०नि०६,(५) कदर्यना, पीडा Trouble  
 घडचडग. पुं० ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान  
 सप्रदाय. A part of a family, race  
 मोह० १००,  
 घडण न० (घटन) घटना, कृति, निर्माण To  
 effort, To exert. से० ७, ७१,  
 घडण. स्त्री० न० (घटन) घटना, प्रसंग As-  
 sembling, Occurring त्रि० १३, (२)  
 सवन्ध, अन्वय Joining. चेह्य ६७, ४  
 घडा. स्त्री० (घटा) समूह, जत्था Crowd  
 गउड०  
 घडिआ स्त्री० (घटिका) (१) छोटा घडा,  
 कलशी Small pot गा० ४६०, आ०  
 २७, (२) घडी, मुहूर्त Time सुपा० १०८,  
 (३) समय बताने वाला यन्त्र, घटी-यन्त्र.  
 A watch. पात्र० —लय. न० (लय)  
 घण्टा गृह, घण्टा बजाने का स्थान. Clock  
 tower सुर० ७, १७,  
 घडुम्भव. त्रि० (घटोद्भव) (१) घट से उत्पन्न  
 One which came out of Jai  
 (२) पु० ऋषि विशेष, अगस्त्य-ऋषि A  
 Rishi of this name "Augasta"  
 प्रा०  
 घण. पु० (घन) हथौड़ा Hammer दे०  
 ६, ११, —रह पु० (रथ) एक जैन मुनि  
 A Jain muni पवम० २०, १६, —वाहण  
 पु० (वाहन) विद्याधरों के एक राजा का नाम  
 Name of a raja of "Vidyadhar"  
 पउम० ५, ७७, —विज्जुआ. स्त्री० (विद्युत)

देवी विशेष, एक, दिक्कुमारी देवी का नाम.  
 Name of a lady "Disba Kumari"  
 इक०—समय पु० (समय) वर्षा काल, वर्षा  
 ऋतु Rainy season. कुमा० पात्र०  
 घणा. स्त्री० (घृणा) घृणा, जुगुप्सा, गर्ह.  
 Blame censure प्रा०  
 घत्ता स्त्री० (घत्ता) छद् विशेष. A stanza  
 पिं०  
 घत्ताणद् न० (घत्तानन्द) छन्द-विशेष. A  
 stanza पिं०  
 घम्म पु० (घर्म) पसीना, स्वेद Perspira-  
 tion हे० ४, ३२७,  
 घयपूस पु० (घृतपुण्य) एक जैन महर्षि A  
 Jain saint कुलक० २२,  
 घयासव पु० (घृताश्रव) जिसका वचन धी की  
 तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमान् पुरुष A  
 man whose speech is sweet आवम०  
 घरगण न० (गृहङ्गण) घर का आगन, चौक.  
 Courtyard गा० ४४०,  
 घरकुडी. स्त्री० (गृहकुटी) (१) घर के बाहर की  
 कोठड़ी The outer cabin of the  
 house. (२) चौक के भीतर की कुटिया A  
 cabin in the court-yard of the  
 house श्रोघ० नि० १०५, (३) स्त्री का  
 शरीर Body of a female तडु०  
 घरट्ट पुं० (घरट्ट) अन्न पीसने का पाषाण यन्त्र  
 Grinding stone, Mill stone गा०  
 ८००, सण०  
 घरट्टी. स्त्री० (घरट्टी) शतघ्नी, तोप Gun  
 दे० ३, १०,  
 घरित त्रि० (गृहवत्) घर वाला, गृहस्थ  
 Owner of the house प्रा० ३५,  
 घरिल्ल. पु० (गृहिन) गृही, ससारी, घर-  
 बारी Owner of the house गा०  
 ७३६,  
 घरिल्ला. स्त्री० (गृहिया) घर वाली, पत्नी.

Female, wife, owner of the house कुमा०  
 घरिसण न० (घर्षण) घर्षण, रगड Rubbing against, To rub सण०  
 घसणी स्त्री० (घर्षणी) सर्प-रेखा Snake's mark स० ३५७,  
 घसुमर. त्रि० (घस्मर) खाने की आदत वाला Gluttonous, Voracious प्राकृ० २८,  
 घाह्त्रा स्त्री० (घातिका) (१) घात, हत्या Striking, Wounding, Killing (२) घाव करना To wound सुर० १६, १५०,  
 घाहर त्रि० (घ्रायन्) सूँघने वाला. One who smells गा० ८८६,  
 घाण पु० (घाण) घान, चक्की आदि में एक बार डालने का परिमाण As much of grain as is put into a mill at one time सुपा० १४,  
 घाणारिस. पु० न० (घ्राणार्शस्) नासिका में होने वाला रोग विशेष A disease of nose शोघ० नि० १८४,  
 घायय पु० (वातक) नरक-स्थान विशेष A place in hell .देवेन्द्र० २६, ३०,  
 घारण न० (घारण) विष के असर से होने वाली बेचैनी Uneasyness caused by poison सु० च० १२४,  
 घारिय त्रि० (घारित) जो विषके असर से बेचैन हुआ हो. One uneasy on account of poison उप० ४४२, उवर० ६७, सुपा० १२४, ४४७,  
 घास पु० (घर्ष) घर्षण, रगड Rubbing सुपा० १४.  
 घासेसणा स्त्री० (आसैषणा) आहार विषयक शुद्धि अशुद्धि का पर्यालोचन To think about the shuddhi or ashuddhi of eatables शोघ० नि० ३३८,

घिट्ट. त्रि० (घृष्ट) घिसा हुआ, रगडा हुआ. Rubbed, Pounded सुपा० २७८, गा० ६२६,  
 घिराण स्त्री० (घृणा) (१) जुगुप्सा Blame, Censure (२) दया, अनुकम्पा. Tenderness, Pity हे० १, १२८,  
 घित्तुमण. त्रि० (ग्रहीतुमनस्) ग्रहण करने की इच्छा वाला One who desires to censure सुपा० २०६,  
 घुणिय त्रि० (घुणित) घुणों से विद्ध A wood eaten by a weevil घृह० १,  
 घुमघुमिय त्रि० (घुमघुमित) (१) जिसने घुम घुम आवाज किया हो One who made a noise. (२) न० घुम घुम ध्वनि. A kind of noise सु० च० १०,  
 घुमण न० (घूर्णन) चक्राकार भ्रमण Revolving, Turning round कुमा०  
 घुमणावित्र त्रि० (घूर्णित) घुमाया हुआ. Rolling, Turning वज्जा० १२२,  
 घुमिमय त्रि० (घूर्णित) घूमा हुआ, चक्र की तरह फिरा हुआ Turned सु० च० ६४,  
 घुमिमर त्रि० (घूर्णितु) घूमने वाला, फिरने वाला, चक्राकार घूमने वाला One who turns or, revolves उप० पृ० ६२, गा० १८०, गडड०  
 घुमकार पु० (घुमकार) सूअर आदि की आवाज Voice or sound of pig किरात० ६,  
 घुलित्र त्रि० (घूर्णित) चक्राकार घूमा हुआ. Turned round कुमा०  
 घुसिणल्ल त्रि० (घुसृणवत्) कुङ्कुम वाला, कुङ्कुम-युक्त. One bearing mark of saffron on forehead कुमा०  
 घूणाग पु० (घूणाक) स्वनाम ख्यात सन्निवेश विशेष A village of this name "Ghunak". प्राया चू० १,

घूयारि. पु० ( घूकारि ) काक, कौआ Crow तडु०  
 घोडग पु० ( घोटक ) कायोत्सर्ग का एक दोप.  
 A blame in observation पत्र० ५,  
 घोडगभीच पु० ( घोटग्रीव ) अश्वग्रीव नामक  
 प्रतिवासुदेव, नृप विशेष Name of Basu-  
 dev raja "Ashvagriiv" श्रावम०  
 घोणस पु० ( घोनस ) एक जलित का साप A  
 kind of snake पत्रम० ३६, १७,  
 घोणा स्त्री० ( घोणा ) ( १ ) नाक, नासिका.  
 Nosa. पात्र० (२) घोड़े की नाक Nose of  
 the horse. ( ३ ) सूअर का मुख-प्रदेश  
 Face of the pig से० २, ६५, गउड०  
 घोलाणा स्त्री० ( घोलना ) पत्थर वगैरह का  
 पानी की रगड से गोलाकार होना. A stone  
 which turns round while being  
 rubbed in water से० ४७,  
 घोलाविश्र. त्रि० ( घोलित ) मिश्रित किया

हुआ Having mixed से० ४, ५२,  
 घोलिश्र. त्रि० ( घूर्णित ) अत्यंत लीन Im-  
 mersed, To tumble सुख० २, १३,  
 घोलिर त्रि० ( घूर्णितु ) घूमने वाला, चक्रा-  
 कार फिरने वाला Rolling, Turning,  
 One which rolls or turns round  
 गा० ३३८, स० ७८, गउड० ५  
 घोस न० ( घोप ) लगातार ग्यारह दिन का  
 उपवास A fast of eleven conse-  
 cutive days सर्वोध० १८,  
 घोससेण. पु० ( घोपसेन ) मातर्वे वासुदेव का  
 पूर्व जन्म का धर्म-गुरु, एक जैन मुनि A  
 Jain muni ( saint ), A spiritual  
 teacher of the previous life of  
 the 7th Vasudev पत्रम० २०, १७६,  
 घोसावण. न० ( घोपण ) घोपणा, डोंडी पिटवा  
 कर जाहिर करना Proclaiming by  
 beat of drum उप० २११,

च

च पु० ( च ) तालु स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष,  
 Ch The twentieth letter of the  
 Nagri alphabet. प्राप० प्रासा०  
 च अ० ( च ) इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता  
 अन्वय And, also, moreover  
 mutually, Equally (१) अवधारण,  
 निश्चय Positive, Certain. पत्रा०  
 १३, (२) भेद, विशेष Difference  
 निसी० चू० १, (३) अतिशय, आधिक्य  
 Too much निसी० चू० ४, (४)  
 अनुमति, सम्मति Opinion निसी० चू०  
 १, (५) पुन, फिर But. क० ग० ४, २३,  
 ६६, प्रासू० ५,  
 चआ. स्त्री० ( चच ) चमड़ी, त्वचा Hide  
 पड्०  
 चउकट्टि. स्त्री० ( चतु काठी ) चौखटा, द्वार

के चारों धोर का काठ, द्वार का ढाँचा.  
 Wooden, Frame of a door निसी०  
 चू० १,  
 चउकिया स्त्री० ( चतुष्किका ) आगन, छोटा  
 चौक Small courtyard सुर० ३, ७२,  
 चउगमण न० ( चतुर्गमन ) चारों दिशाएँ  
 Four sides कप्प०  
 चउड पु० ( चोड ) देश विशेष. A county  
 "Chau" सम्मत्त० ६०  
 चउप्पइथा. स्त्री० ( चतुष्पदिका ) छन्द विशेष.  
 A kind of poetry पिंग०  
 चउप्पाय पु० ( चतुष्पाद ) एक दिन का उप-  
 वास One day's fast सर्वोध० १८,  
 चउप्फल त्रि० ( चतुष्फल ) चौगुना Four  
 times सिरि० १५७.  
 चउवील स्त्री० न० ( चौवील ) छन्द विशेष

A kind of poetry पिंग०  
 चउव्वाहु पु० (चतुर्वाहु) (१) श्रीकृष्ण,  
 चतुर्भुज Lord Krishna, One who  
 has four hands (२) त्रि० चार हाथ  
 वाला One having four hands  
 नाट०  
 चउमट्टिआ स्त्री० (चतुष्टिका) कपडे के  
 साथ कुटी हुई मिट्टी, Earth pounded  
 with cloth निसी० चू० १८,  
 चउम्मुह. पु० (चतुर्मुख) दो दिन का उपवास,  
 चेला 2 days fast, Fast of 2 days  
 सबोध० २८,  
 चउरगय न० (चतुरङ्गक) एक तरह का जूआ  
 A kind of gambling मोह० ८६,  
 चउरत्त. (३) न० (चतुरन्त) चक्र, पहिया  
 Wheel चैइय० ३४३,  
 चउरसा स्त्री० (चतुरसा) छन्द विशेष A  
 stanza पिंग०  
 चउराणण त्रि० (चतुरानन) (१) चार मुह  
 वाला One who has 4 mouths  
 (२) ब्रह्मा, विधाता Brahma, Creator  
 of the world गउड०  
 चउरिमा स्त्री० (चतुरिमन्) चतुरता, चातुर्य,  
 निपुणता Wisdom completed  
 सहि० १६,  
 चउरुत्तरसय त्रि० (चतुरुत्तरशततम) एक सौ  
 चारवा, १०४वाँ One hundred and  
 fourth पउम० १०४, ३५,  
 चउवीसिगा स्त्री० (चतुर्विंशिका) समय मान  
 विशेष, चौबीस तीर्थंकर जितने समय में होते  
 हैं वतना काल, एक उत्सर्पिणी या एक अवस-  
 र्पिणी काल A total time of 24 Jain  
 Tirthankars महानि० ४,  
 चउवेद-य चउवेद त्रि० (चतुर्वेद) चारों  
 वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौबे, One who  
 knows four Vedas A race of

Brahmans धर्मस० १२३८, मोह० १०,  
 चउहत्थ, पु० (चतुर्हस्त) श्री कृष्ण Lord  
 Krishna सुख० ६, १,  
 चउहार पु० (चतुराहार) चार प्रकार का आहार,  
 अशन, पान, खादिम, स्वादिम. Food  
 of four kinds, Food, Water,  
 Sweetmeat, Fragrant articles  
 सु० च० २७३,  
 चकमिर. त्रि० (चक्रमित्) चक्रमण करने  
 वाला One who goes or walks  
 slowly hithor & thither सण०  
 चग त्रि० (चङ्ग) सुन्दर, मनोहर, रम्य.  
 Handsome, beautiful दे० ३, १,  
 उप० पु० १२६, सुपा० १०६, कर० ३२,  
 धम्म० ६ टी, कप्प० प्राप० सण० भवि०  
 चच पु० (चच्च) (१) पकप्रभा नरक पृथ्वी  
 का एक नरकावास A place in a hell  
 on the earth Pankpiabha इक०  
 (२) न० देव विमान-विशेष. A deva's  
 aeroplane इक०  
 चचरीअ पु० (चच्चरीक) अमर, भमरा A  
 large black bee दे० ३, ६,  
 चचल. पु० (चच्चल) रावण के एक सुभट का  
 नाम A warrior of Ravana पउम०  
 २६, ३६,  
 चचला स्त्री० (चच्चला) चच्चल स्त्री  
 Considerate woman, Fickle  
 minded woman (२) छन्द विशेष A  
 stanza. पिंग०  
 चंचल्लिअ त्रि० (चच्चलित) चच्चल किया हुआ,  
 Daving Unsettled. विक्र० २६,  
 चचा स्त्री० (चच्च) (१) नरकट की चदाई  
 A mat of reeds (२) चमरेन्द्र की राज-  
 धानी, स्वर्ग-नगरी विशेष Capital of  
 Chamander, A city in heaven  
 दीव०

चंचुर. त्रि० (चंचुर) चपल, चंचल Fickle minded, Inconsiderate कप्प०  
 चंड त्रि० (चण्ड) तेजस्वी, तेजिल. Famous, Splendid उप० पृ० ३२१, (२) पुं० राक्षस वंश के एक राजा का नाम Name of a Raja of Demons (३) क्रोध, कोप Anger, wiath पदम० ६, २६४, —किरण पुं० (किरण) सूर्य, रवि Sun उप० पृ० ३२१, —द्वीप पुं० द्वीप विशेष A big country इक० —माणु पुं० (मानु) सूर्य, सूरज Sun. कुस्मा० १३,  
 चंडसु. पु० (चण्डाशु) सूर्य, सूरज, रवि Sun कप्प०  
 चंडकोसिय पु० (चण्डकौशिक) एक सर्प जिसने भगवान् महावीर स्वामी को सताया था A serpent who had troubled Mahabir swami कप्प०  
 चंडराह पु० (चन्दनख) रावण का एक सुभट A warrior of Ravna पदम० २६, ३१,  
 चंडपञ्जोत्र पु० (चण्डप्रद्योत) उज्जयिनी के एक प्राचीन राजा का नाम Name of a Raja of Ujjain city in ancient time आवम०  
 चंडमा पु० (चन्द्रमस्) चन्द्रमा, चांद Moon पिग०  
 चंडातक न० (चण्डातक) स्त्री का पहनने का वस्त्र A Petticoat दे० ३, १३,  
 चंडाली स्त्री (चण्डाली) (१) चण्डाल जातीय स्त्री An outcaste female (२) विद्या-विशेष A knowledge पदम० ७, १४२,  
 चंडिम पु० स्त्री० (चण्डिमन्) चण्डता, प्रचण्डता Eminence सुपा० ६६,  
 चंडिल पु० (चण्डिल) हजाम, नापित Barber पात्र० गा० २६१,  
 चंडी स्त्री० (चण्डी) (१) क्रोधयुक्त स्त्री A

furious woman गा० ६०८, (२) पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी Palwati, wife of Lord Shiva. पात्र०

चंद्र पु० (चन्द्र) (१) नृप-विशेष A Raja-उप० ७२८ टी, (२) रामचन्द्र, दशरथी राम. Raja Ram Chandra Ji son of Raja Dashratha से० १, ३४, (३) राम के एक सुभट का नाम A warrior of Rama पदम० २६, ३८, (४) रावण का एक सुभट. A warrior of Ravana. पदम० २६, २, (५) राशि विशेष A sign of the zodiac भवि० (६) आह्लादक वस्तु Any thing giving pleasure (७) कपूर Camphor (८) स्वर्ण, सोना Gold (९) पानी, जल, Water. हे० २ १६४, (१०) एक जैन आचार्य A Jain Muni (saint) गच्छा० ६, (११) राधावेध की पुतली का नाम नयन, आल का गोला Pupil of the eye of "Radh-bedh" —चार. पु० (चार) चन्द्र की गति Move of moon चद० १०, —शागरी स्त्री० (नागरी) जैन मुनि गण की एक शाखा A sect of Jain muni कप्प०—दरि-सणिया स्त्री० (दर्शनिका) उत्सव विशेष, बच्चे के पहली बार के चन्द्र दर्शन के उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव A religious ceremony which is performed at the child's first sight of the moon राज०

चंद्रक पु० (चन्द्रक) विद्याधर वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा A famous Raja of Vidha Dha Dynesty पदम० ६, ४३,

चंद्रग पु० (चन्द्रक) देखो 'चद' शब्द. See "word Chand" —विज्ज न० (विज्य) राधावेध Radha Bedh, Eye of the

fish which was struck by an arrow by Ajuna before his marriage with Dalopdi in Dalopdi Soembei "चन्द्रगविष्क" सत्या० १२२, निसी० चू० ११,  
 चदण न० (चन्दन) छन्द-विशेष A stanza पिंग०  
 चंदणधखा. स्त्री० (चन्दनखा) रावण की एक बहिन का नाम Chanda Nakha, name of a sister of Ravana, पदम० १०, १८,  
 चन्द्रमाला स्त्री० (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार हार A necklace like the moon (२) छन्द विशेष A stanza पिंग०  
 चन्द्रमुही स्त्री० (चन्द्रमुखी) (१) चन्द्र के समान आह्लादक मुख वाली स्त्री A woman who has face like the moon. (२) कुश की पत्नी Chadermukhi wife of Kush (son of Sita) पदम० १०६, १२,  
 चन्द्रसेण पु० (चन्द्रसेन) (१) भगवान् आदिनाथ का एक पुत्र० Chandei Sen, A son of Bhagwan Adinath (२) एक विद्याधर राजकुमार A son of Vidya Dhai Raja महा०  
 चन्द्रसेहर पु० (चन्द्रशेखर) (१) नृप विशेष A Raja of this name (Chandei Shekhar) ती० ३८, (२) महादेव, शिव. Lord Shiva पि० ३६६,  
 चन्द्रहास. पु० (चन्द्रहास) खड्ग विशेष A sword of this name से० १४, २२, गडड०  
 चन्द्राश्रव पु० (चन्द्रातप) ज्योत्स्ना, चन्द्र की प्रभा, चन्द्रिका Moonlight से० १, २७,  
 चन्द्राभ त्रि० (चन्द्राभ) (१) चन्द्र के तुल्य आह्लादजनक To give delight or joy like the moon (२) आठवा जिनदेव,

चन्द्रप्रभ स्वामी. Eighth "Tutthankar" of Jainism Chandai Piabh Swami आया चू० २,  
 चद्रायय. पु (चन्द्रातप) (१) देखो 'चद्राश्रव' शब्द See "void Chandav" (२) आच्छादन विशेष, वितान, चद्रवा A cloth used as a canopy सुर० ३, ७२,  
 चद्रिअ. त्रि० (चान्द्रिक) चन्द्र का, चन्द्र-सवन्धी. Connected with the moon प्रव० १४१,  
 चद्रिआ स्त्री० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा, ज्योत्स्ना Moonlight. से० ५, २, गा० ७७,  
 चद्रिकोज्जलीय त्रि० (चन्द्रिकोज्ज्वलित) चन्द्रकान्ति से उज्ज्वल बना हुआ. That, which looks white on account of the moonlight falling on it. चड०  
 चद्रिमाइय न० (चान्द्रिक) 'ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का एक अध्यायन. A chapter of Suta's Gian Dharma Katha (A religious book of Jains) राज०  
 चद्रिल पु० (चन्द्रिल) नापित, हजाम. Barber गा० २६१,  
 चद्रोयर. पु० (चन्द्रोदर) एक राजकुमार A son of a Raja, धम्म०  
 चद्रपु पु० न० (चम्पक) एक देवविमान A Deva's aeroplane देवेन्द्र० १४२,  
 चद्रपयमाला स्त्री० (चम्पकमाला) छन्द विशेष A stanza पिंग०  
 चद्रिजिया. स्त्री० (चम्पीया) जैन मुनि गण की शाखा A sect of Jain munis कप०  
 चद्रोर पु० स्त्री० (चक्रोर) पक्षि-विशेष; चक्रोर पक्षी A bird of this name, Greek partridge सुपा० ४६७,  
 चक्रकत. पु० (चक्रकान्त) देव विशेष, स्वय-

भूमण्य समुद्र के अधिष्ठाता देव "Chakar kant" A God of this name, holding possession of "Soembhu Raman" sea दीव०

चक्रपाणि पु० (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती राजा, सम्राट् Emperor, A Sovereign of the world (२) वासुदेव, अर्धचक्रवर्ती राजा A Basudev, A Sovereign of the half world पउम० ७३, ३,  
चक्रपर पु० (चक्रचर) भिडुक, भिलारी Boggal उप० ६१७,  
चक्रवाई. स्त्री० (चक्रवाकी) चक्रवाक पक्षी की मादा The Ruddy goose (she). रभा०

चक्रवाल न० (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय Round tank पञ० १२, (२) आवश्यक कार्य, नित्य कर्म Daily work पचव० ४,  
चक्रार पु० (चक्रार) राक्षस वंश का एक राजा, एक लकापति A Raja of Ceylon, King of demons पउम० १, २६३,  
चक्राद्विप पु० (चक्राधिप) चक्रवर्ती राजा, सम्राट् Emperor, Sovereign of the world. सण०

चक्री. स्त्री० (चक्री) छंद विशेष A stanza पिंग०

चक्खण न० (आस्वादन) आस्वादन, चखना To taste उप० पु० २१२,

चक्खिअ. त्रि० आस्वादित, चखा हुआ Tasted हे० ४, २१८, गा० ६०३, वजा० ४६,

चक्खु पु० (चक्षु) इस नाम का एक कुल-कर पुरुष Name of a man पउम० ३, १३, (२) न० नेत्र Eyes —पडिलेहा. स्त्री० (प्रतिलेखा) आख से देखना To see with eyes निली० १, —चित्तिहय. त्रि० (वृत्ति हत) दृष्टि से अपरिचित Invisible, out

of sight वव० ८,

चच्चरिअ पु० (चच्चरीक) भ्रम, भवरा A beetle, A kind of insect पड०

चच्चरिया. स्त्री० (चच्चरिका) नृत्य विशेष A kind of dance रभा०

चच्चरी स्त्री० (चच्चरी) (१) गीत विशेष, एक प्रकार का गान A sort of song सु०च० ११, (२) हाथ की ताली की आवाज Cheers आव० १, (३) गाने वाली टोली, गाने वालों का यूथ Party of singers स० ४२, (४) छन्द विशेष Stanza पिंग०

चच्चा. स्त्री० (चर्चा) (१) शरीर पर सुगन्धी वस्तु का विलेपन, Smearing the body with perfume (२) विचार, चर्चा To talk about प्राक० ३८,

चच्चा स्त्री० (चर्चा) (१) आचरण, वर्तन Actions, Character (२) चलन, गमन To move about विशेष० २०४४,  
चट्टि त्रि० (चट्टिन्) चाटने वाला Locker कपू०

चट्टकारि त्रि० (चट्टकारिन्) 'चटत्' शब्द करने वाला A voice गउड०

चट्टड. पु० (चट्ट) ध्वनि-विशेष, विजली के गिरने की आवाज To roar, To cry aloud, Thunder clap सुर० २, ११०,

चट्टण न० (आरोहण) चढ़ना, ऊपर बैठना To mount, To sit over श्रोव० ३०, श्रा० १४, प्राक० १०१, उप० ७२८ टी,

चट्टु पु० (चट्टु) (१) प्रियवचन, प्रियवाक्य Agreeable discourse (२) व्रती का एक प्रकार का आसन. A posture of devotion amongst ascetics (३) उदर, पेट The belly (४) पु० न० प्रियसभापण, खुशामद Flattery हे० १, ६७, प्राप्र० —आरअ त्रि० (कारक) खुशामदी. Flatterer गा० ६०१,

चडुलग. त्रि० (चडुलक) खड २ किया हुआ  
Broken into pieces सूयनि० ७१,  
चरथरि पु० स्त्री० हास, हास्य To laugh  
दे० ३, २,  
चपेटा स्त्री० (चपेटा' कराघात, थप्पड, तमाचा  
Slap पड्  
चमक पु० (चमत्कार) विस्मय, आश्चर्य  
Astonishment, Surprise धम्म० ६  
टी, उप० ७६८ टी, —यर. त्रि० (कर)  
विस्मय जनक Surprising, Astonish-  
ing सण०  
चमत्कार पु० (चमत्कार) आश्चर्य, विस्मय  
Astonishment, Surprise सुर० १०,  
८, वज्रा० २४,  
चमत्किञ्च त्रि० (चमत्कृत) विस्मित, आश्चर्या  
न्वित, Surprised, Astonished. सुपा०  
१२२,  
चमरी स्त्री० (चमरी) चमर पशु की मादा  
Hide से० ७, ४८, स० ४४१, महा०  
चमुत्कार पु० (चमत्कार) (१) आश्चर्य, विस्मय  
Astonishment Surprise सुर०  
१३, ६७, (२) बिजली का प्रकाश. Flash  
of lightning सुर० २, ११०,  
चर्मयष्टि स्त्री० (चर्मयष्टि) चर्म-मय यष्टि, चर्म-  
दण्ड A whip, stick of leather कन्पू०  
चर्मयार पु० (चर्मकार) मोची, चमार,  
Cobbler, Shoemaker स० २८६,  
चय पु० (चय) (१) समूह, राशि Heap  
विशे० २२१६, सू० च० ५७१, (४) ईंटों  
की रचना-विशेष Edifice, Structure  
of bricks पिंड० २,  
चयराकणप. पु० (चयवनकल्प) (१) पतन-प्रकार,  
चारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार. Cause  
of degradation (२) शिथिल साधुओं  
का विहार Departure of degraded  
sadhus गच्छा० १,

चर पु० (चर) (१) गमन, गति To go  
(२) बर्तन Pot दस० आवम० (३) दूत;  
जासूस A spy पात्र० भवि०  
चरती, स्त्री० (चरन्ती) जिस दिशा में भगवान्  
जिनदेव वगैर ज्ञानी पुरुष विचरते हैं वह  
A direction where Jinadeo  
travels वव० १,  
चरि, पु० स्त्री० (चरि) (१) पशुओं को चरने  
की जगह Meadow (२) चारा, पशुओं के  
खाने की चीज, घास Grass कुप्र० १७,  
चरित्त. न० (चरित्र) जीवन कथा, जीवनी.  
Life, Autobiography सम्मत्त० १२०,  
चलचल, पु० (चलचल) घी में तली चीज  
के पहले तीन घान First three parts  
of any article fried in ghee  
निसी० चू० ४,  
चलणाओह. पु० (चरणायुध) कुक्कुट, मुर्गा.  
Cock पड्०  
चलिञ्च न० (चलित) विनष्ट Gone,  
Ruined धम्म० २,  
चलिर त्रि० (चलितृ) चलने वाला, Pio-  
ceeder, Traveller अस्थिर, चपल,  
चचल Swiftly, Fickle उप० ६८६,  
सुपा० ७६, २५७, स० ४१,  
चवल त्रि० (चपल) (१) आकुल, व्याकुल.  
Trembling (२) रावण का एक सुभट A  
warrior of Rawana पडम० ५६, ३६,  
चविञ्च त्रि० (च्युत) मृत, जन्मान्तर प्राप्त  
Dead कुमा० २, २६,  
चड्वाक-चड्वाग पु० (चार्वाक) नास्तिक,  
बृहस्पति का शिष्य, लोकायतिक. Disciple  
of Biahspati (A name of God  
or star) प्रबो० ७८, राज०  
चड्वागि त्रि० (चार्वाकिन्) (१) चवाने वाला.  
One who Chews (२) दुर्गवहारी.  
Bad worker, A man of bad



character वव० ३,  
 चण्विय त्रि० (चर्वित) चबाया हुआ Chewed.  
 सुर० १३, १२३,  
 चसग-य, पु० (चपक) (१) पान-पात्र, प्याला  
 Cup सुर० २, ११, पडम० ११३, १०,  
 चाइय त्रि० ( त्याजित ) छुटाया हुआ,  
 Separated धर्मवि० ८,  
 चाउअग्गी स्त्री० ( चार्वङ्गी ) सुन्दर अंग वाली  
 स्त्री. Beautiful body. प्राक० २६,  
 चाउड पु० (चामुण्ड) राक्षस वश का एक लका  
 पति. A demon, King of Ceylon  
 पडम० ५, २६३,  
 चाउडा स्त्री० (चामुण्डा) स्वनाम ख्यात देवी.  
 A goddess of Hindus, Name of  
 Durga हे० १, १७४, —काउअ. पु०  
 ( कामुक ) महादेव, शिव Mahadeo, a  
 God of Hindus कुमा०  
 चाउम्मासी स्त्री० ( चतुर्मासी ) चार मास,  
 चौमासा, आपाद से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन,  
 और फाल्गुन से अषाढ तक के चार महीने  
 Four months of rainy season  
 पडम० ११८, ५८,  
 चाउरत न० (चतुरन्त) चक्र, पहिया Wheel  
 चेइय० ३४४,  
 चाउरत न० ( चतुरन्त ) चोरी, लगन मंडप.  
 A place prepared for marriage  
 स० ७८,  
 चाउव्वेज्ज न० (चातुर्वैद्य) (१) चार प्रकार  
 की विद्या, न्याय, व्याकरण, साहित्य और धर्म  
 शास्त्र Knowledge of four kinds  
 (२) पु० चौबे, ब्राह्मणों की एक अङ्ग A  
 Brahman family महा०  
 चाडु पु० न० (चाटु) प्रिय वाक्य Pet talk  
 (२) खुशामद Flatter हे० १, ६७, प्राप्र०  
 चाडुअ पु० (चटुक) खुशामदी Flatterer  
 कुमा०

चाणकी स्त्री० ( चाणकी ) लिपि विशेष  
 Chanak's script. विशेष० ४६४,  
 चाय पु० (त्याग) दान A gift, Charity  
 To give सुर० १, ६२,  
 चायग-चायय पु० ( चातक ) पक्षी-विशेष,  
 चातक पक्षी. A kind of bird, Cuckoo  
 सण० पात्र  
 चार. पु० (चार) (१) कारागार, कैदखाना  
 Prison, Jail भवि० (२) अमुष्ठान,  
 आचरण Commencement of course  
 of proceeding, Conduct आयानि०  
 ४२, महा०  
 चारणिआ स्त्री० (चारणिका) गणित विशेष  
 The science of arithmetic. श्रोध०  
 नि० २१,  
 चारहडी स्त्री० (चारमटी) शौर्यवृत्ति, सैनिक-  
 वृत्ति. Valorous, Courageous सुपा०  
 ४४१, ४४२, हे० ४, ३६६,  
 चारागार न० (चारागार) कैदखाना, जेलखाना.  
 Jail, Prison सुर० १६, १७,  
 चारि त्रि० (चारिन्) प्रवृत्ति करने वाला  
 Worker विशेष० २४३टी,  
 चारिअ त्रि० (चारित) जिसको खिलाया गया  
 हो वह Who was fed स० २, २७,  
 चारिअ. पु० (चारिक) पचायत का मुखिया  
 पुरुष, समुदाय का अगुआ Headman  
 स० ४०६,  
 चारुवच्छि. पु० व० (चारुवस्ति) देश-विदेश  
 Name of a country पडम० ६८, ६४,  
 चारुसेगी स्त्री० (चारुसेनी) छंद-विशेष  
 Stanza पिंग०  
 चालण न० (चालन) चलाना, हिलाना. To  
 drive, To move रमा०  
 चालणिया स्त्री० (चालनिका) आखा, छानने  
 का पात्र A strainer, Sieve. उप०  
 १३४ टी,

चालिर. त्रि० ( चालयितृ ) चलाने वाला  
 Driver चलनेवाला Mover वजा० ७०,  
 चालुक्य पु० स्त्री० ( चालुक्य ) ( १ ) चालुक्य  
 वंश में उत्पन्न. Born in Chalukya  
 (Family) ( २ ) पु० गुजरात का प्रसिद्ध  
 राजा कुमारपाल Name of a Raja of  
 Guj-rat 'Kumarpal' कुमा०  
 चावल न० ( चापल ) चपलता, चचलता Ex-  
 pedition, Haste अमि० २४१,  
 चावल न० ( चापल्य ) चचलता, चपलता  
 Expedition, Haste स० २२६,  
 चावाली स्त्री० ( चावाली ) इस नाम का एक  
 गाव Name of a village आवम०  
 चाबिया त्रि० ( चर्वित ) चबाया हुआ Chewed.  
 धर्मवि० ४६, १४६  
 चावेडी स्त्री० ( चापेटी ) विद्या विशेष, जिससे  
 दूसरे को तमाचा मारने पर भीमार आदमी का  
 रोग चला जाता है a blow, a slap  
 with the open hand वव० २,  
 चाहिय त्रि० ( वाञ्छित ) ( १ ) वाञ्छित, अभि-  
 लषित Wished, desired ( २ ) अपेक्षित  
 Desired ( ३ ) च्याचित Wished. भवि०  
 चाहुआण पु० ( चाहुयान ) ( १ ) एक प्रसिद्ध  
 क्षत्रिय वंश, चौहाण वंश A Khashatriya  
 Family (Race). ( २ ) पु० स्त्री० चौहान  
 वंश में उत्पन्न सु० च० २२६,  
 चिअ अ० ( एव ) निश्चय की वतलाने वाला  
 अन्वय As, like हे० २, १८४, कुमा, गा०  
 १६, ४६,  
 चिअ अ० ( इव ) उपमा और उत्प्रेचा का सूचक  
 अन्वय Even Alike प्रा०  
 चिअ त्रि० ( चित ) इकट्ठा किया हुआ  
 Collected, accumulated ( २ ) व्याप्त  
 Occupied सु० च० २४१, ( ३ ) पुष्ट,  
 मासल. Stong, stout वष० ८७५ टी,  
 चिआ स्त्री० ( त्विप् ) कान्ति, तेज, प्रभा

Splendour, Beauty पद्०  
 चिइ. स्त्री० ( चिति ) उपचय, पुष्टि, वृद्धि  
 Collecting, Gathering प्रव० २,  
 ( २ ) बुद्धि, मेधा Sense, understand-  
 ing पाश्च०  
 चिइच्छत्र. त्रि० ( चिकित्सक ) ( १ ) दवा करने  
 वाला, इलाज करने वाला. Doctor ( २ )  
 पु० वैद्य Vaid. मा० ३३,  
 चिउर पु० ( चिकुर ) केश, बाल Hair गा०  
 १८८,  
 चिचा. स्त्री० ( चच्चा ) तृण की बनाई हुई चटाई  
 गौर Mat  
 चिचिअ त्रि० ( मण्डित ) भूषित, अलङ्कृत.  
 Ornamented, adorned कुमा०  
 चिचिल्लिअ त्रि० ( मण्डित ) विभूषित, अलङ्कृत.  
 Ornamented Adorned पाश्च० कुमा०  
 चित त्रि० ( चिन्त्य ) चिन्तनीय, विचारणीय;  
 विचार योग्य. To be considered, To  
 be thought of उप० ६८२,  
 चितविय त्रि० ( चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की  
 गई हो वह Considered, Thought-  
 over भवि०  
 चिता स्त्री० ( चिन्ता ) ( १ ) विचार, पर्यालोचन  
 Reflection Consideration पाठ०  
 कुमा० ( २ ) इष्ट प्राप्ति का संदेह Doubt of  
 gain. कुमा० ( ३ ) ध्यान. Reflection  
 आव० ४, —दिष्ट त्रि० ( दष्ट ) विचार पूर्वक  
 देखा हुआ Considered पाश्च० —मइय  
 त्रि० ( मय ) चिन्ता-युक्त Considering  
 गा० १३३,  
 चितायग त्रि० ( चिन्तक ) चिन्ता करने वाला.  
 ANXIOUS आवम०  
 चितिर त्रि० ( चिन्तयितृ ) चिन्ता-शील, चिन्ता  
 करने वाला ANXIOUS आ० २७, सण०  
 चिघ न० ( चिह्न ) ध्वजा, पताका A Banner.  
 पाश्च०

चिघाल. त्रि० ( चिह्नवत् ) चिह्न युक्त, निशानी वाला Having marks पउम० १०६, ७,  
 चिधिय त्रि० ( चिह्नित ) चिह्न युक्त Marked.  
 Spotted पि० २६७,  
 चिकण त्रि०, चिकण निविड, घना Greasy,  
 Thickly सुर० १४, २०६,  
 चिक्खल्लय. न० ( चिक्खल्लक ) काठियावाड का एक नगर. Name of a city in Kathiawar ती० २,  
 चिगिच्छण न० ( चिकित्सन ) चिकित्सा, इलाज Treatment, Healing. उप० १३२ टी,  
 —चिगिच्छा स्त्री० ( चिकित्सा ) दवा, प्रतीकार, इलाज. Medicine, Treatment स० १७,—सहिया स्त्री० ( सहिता ) चिकित्साशास्त्र, वैद्यक शास्त्र A book of medical treatment. स० १७,  
 चिञ्च त्रि० ( स्याज्य ) छोड़ने योग्य परिहरणीय, To abandon, To be left or avoided सुपा० ४६८,  
 चिण्ण त्रि० ( चित्त ) इकट्ठा किया हुआ. Collected सुपा० ३२३, कुमा०  
 चित्त न० ( चित्त ) बुद्धि, मति Sense श्राव० ४  
 चित्तण. न० ( चित्रण ) चित्र-कर्म To paint धर्मवि० ३४,  
 चित्तथलया स्त्री० ( चित्रकलता ) वल्ली-विशेष. A kind of herb हन्मीर० २८,  
 चित्तलिअ त्रि० ( चित्रलित-चित्रित ) चित्र युक्त किया हुआ Painted गा० २०८,  
 चित्तलेहा स्त्री० ( चित्रलेखा ) छद्मविशेष Poetiy अजि० १३,  
 चित्तसभूइय न० ( चित्रसभूतीय ) चित्र और सभूत नामक चाण्डाल विशेष के वृत्तान्त वाला उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन Story of the two chandals ( inferior class Hindus ) वत्त० १२, टी,

चित्तावडी. स्त्री० ( चित्रपटी ) वस्त्र विशेष; छूँट आदि कपडा, Spotted cloth स० ७३८,  
 चित्ती स्त्री० ( चैत्री ) चैत्र मास की पूर्णिमा. Last day of the month "Chait." ( March April ) इक०  
 चिवुअ न० ( चिबुक ) होठ के नीचे का अवयव Chin कुमा०  
 चिब्भड. न० ( चिर्मिट ) ककड़ी, फल-विशेष. A kind of fruit दे० ६, १४४,  
 चिभिड न० ( चिर्मिट ) देखो 'चिब्भड' शब्द. See word "Chibbhai " सुपा० ६३०, पाश०  
 चिर. न० ( चिर ) विलम्ब, देरी. Late. गा० ३४, दीर्घ काल तक रहने वाला To remain for a long time वजा० ५२;  
 —आरअ त्रि० ( कारक ) विलम्ब करने वाला. Retarder गा० ३४,  
 चिर अ० ( चिरम् ) दीर्घ काल तक, अनेक समय तक. For a very long time. स्वम० २६, जी० ४६,  
 चिरंतण. त्रि० ( चिरन्तन ) पुराना, बहुत काल का. Ancient, old महा०  
 चिरच्चिय त्रि० ( चिरचित ) चिर काल से उपचित Accumulated for a long time पच० ५, १६७,  
 चिरस्स अ० ( चिरस्य ) बहुत काल तक For a long time ( future ) उत्तर० १७६, कुमा०  
 चिराउ अ० ( चिरात् ) चिर काल से For a long time, From an ancient time कुम० ३६७,  
 चिरादण त्रि० ( चिरन्तन ) पुरातन, प्राचीन. Ancient बृह० ३,  
 चिराविय. त्रि० ( चिरायित ) ( १ ) जिसने विलय किया हो वह The man who was

late (२) विलम्बित, रोका हुआ De-  
tained (३) विलम्ब, देरी Late पदम०  
१०५, १०१,

चिह्न. पु० (चिह्न) (१) वृक्ष विशेष Name  
of a tree राज० (२) न० फल विशेष  
Name of a fruit पदम० ६६, १६,  
चिविट्ट-चिविड त्रि० (चिपिट) चिपटा, बैठा  
हुआ To sit on ground पि० २४८,  
पदम० २७, ३२, गड०

चिविडा स्त्री० (चिपिटा) गन्ध-द्रव्य-विशेष A  
kind of perfume fragrant दे० ३, ७१,  
चीश्च न० (चिता) मुर्दे को फूकने के लिए चुनी  
हुई लकड़ियों का ढेर A funeral pile  
pyre गा० १०४,

चीण पु० (चीन) धान्य-विशेष. A kind of  
COIN सण०

चीरकडसगापट्ट पु० (चीरकडसकपट्ट) जैन  
साधुओं का एक उपकरण विशेष, रजोहरण का  
वधन विशेष A cloth required for a  
Jain muni to be his (ogha) निसी०  
चू० २,

चीरग पु० (चीरिग) देखो 'चिरिग' शब्द  
( See "Cheig shabda" ( word )  
गच्छ० २,

चुइ स्त्री० (च्युति) च्यवन, मरण. To de-  
viate from राज०

चुकारपुर न० (चुङ्कारपुर) एक नगर Name  
of a city सम्मत्त० १४४,

चुविश्च त्रि० (चुम्बित) (१) चुम्बा लिया हुआ,  
कृत-चुम्बन Kissed (२) न० चुम्बन, चुम्बा  
Kiss दे० ६, ६८,

चुविर त्रि० (चुम्बित्) चुम्बन करने वाला  
Kisser भवि०

चुच्छ त्रि० (चुच्छ) (१) अल्प, थोडा In-  
sufficient (२) हीन, जघन्य, नगण्य  
Not in the least हे० १, २०४, पड०

चुरण पु० न० (चूर्ण) (१) धूली, रज, रेणु  
Dust, Powder (२) चूना Chalk;  
Lime. हे० १, १८४,

चुरण. न० (चौर्य) पद विशेष, गभीरार्थक पद,  
महार्थक शब्द Serious poem or Deep  
poem दसनि० २,

चुरणा. स्त्री० (चूर्णा) छन्द विशेष, वृत्त-विशेष  
A hymn पिंग०

चुरिण. स्त्री० (चूर्णि) ग्रन्थ की टीका विशेष.  
Translation of a book निसी० चू०  
चुरिणश्च त्रि० (चूर्णित) धूली से व्याप्त,  
Mixed with dust, or Reduced to  
dust दे० ३, १७,

चुन्नण न० (चूर्णन) चूर चूर करना To  
break into small pieces. खा० ३,

चुलिआला. स्त्री० (चुलियाला) छन्द-विशेष A  
sacred hymn पिंग०

चुलुश्च पु० न० (चुलुक) चुल्लु, पसर, एक हाथ  
का सपुटाकार The hand hollowed to  
hold water सुपा० २१६, प्रासू० १७,

चुलुचुलिश्च. त्रि० (स्पन्दित) (१) फरका हुआ,  
कुञ्ज हिला हुआ Shaken, Throbbing  
(२) न० स्फुरण, स्पन्दन पाञ्च०

चूरिश्च. त्रि० (चूर्णित) चूर चूर किया हुआ;  
टुकड़े टुकड़े किया हुआ A broken thing  
भवि०

चूला स्त्री० (चूडा) (१) शिखर, टोंच Top  
उप० ७२८ टी, (२) अधिक मास Extra  
month (३) अधिक वर्ष Extra year  
(४) ग्रन्थ का परिशिष्ट Remaining part  
of a book दसचू० १, (५) शेर की केसरा.  
Lion's mane (६) कुत वगैरह का  
अग्रभाग Point of a spear (७)  
अलंकार, आभूषण Ornament निसी० चू०  
१, —कम्म न० (कर्मन्) सत्कार विशेष;  
सुयजन. To cut hairs आचम०

चे अ० (चेत्) यदि, जो. If. विश० २२८६,  
 चेञ्च अ० ( एव ) अवधारण सूचक अव्यय,  
 निश्चय वताने वाला अव्यय. Like हे० २,  
 १८४,  
 चेष्टण० न० (स्थान) स्थिति, अवस्थान. Place  
 व० ४,  
 चेडय पु० (चेटक) मैला देवता, देव की एक  
 जघन्य जाति A low God सुपा० २१७,  
 चेडी स्त्री० (चेटी) देखो 'चेडिआ' शब्द.  
 Maid servant आवम०  
 चेत पु० (चैत्र) जैन मुनिश्रों का एक गच्छ.  
 Party of Jain Munis बृह० ६,  
 चेदीस. पु० (चेदीश) चेदि देश का राजा  
 , Raja of Chedi (Chedi-a city) सण०  
 चेयग त्रि० (चेतक) दाता, देने वाला Give  
 उप० १५७,  
 चेयणा स्त्री० (चेतना) ज्ञान, चैतन्य Memory,  
 An alive thing, a living आव० ६,  
 चेलहर. न० (चेलगृह) तम्बू, पट-मण्डप,  
 रावटी Tent स० २३७,  
 चेव. अ० (चैव) पाद पूरक अव्यय A word  
 which is used to complete a  
 stanza पउम० ८, ८८,  
 चेव अ० (इव) सादृश्य-बोलेक अव्यय Simi-

lar, Like. पउम० ३, ४,  
 चोज. न० (चोद्य) (१) प्रश्न, पृच्छा Ques-  
 tion (२) आश्चर्य, अद्भूत. Surprise.  
 (३) त्रि० प्रेरणा-योग्य Fit for request.  
 गा० ४०६,  
 चोरकार पु० (चौर्यकार) चोर, तस्कर. Their  
 सुपा० ३३४,  
 चोरकीड पु० (चोरकीट) विष्ठा में उत्पन्न होता  
 कीट Insect of night soil जी० १७,  
 चोरण न० (चोरण) (१) चोरी, चुराना To  
 steal, To rob सुर० ८, १२२, (२) त्रि०  
 चोर, चोरी करने वाला भवि०  
 चोराग (चोराक) इस नाम का एक सनिवेश.  
 Name of a village आवम०  
 चोरिआ. स्त्री० (चौरिका) चोरी, अपहरण.  
 Theft ग० २०६, पङ्० हे० १, ३४, सुर०  
 ६, १७८,  
 चोल पु० (चोल) देश विशेष, द्रविड और क-  
 लिङ्ग के बीच का देश, Name of a coun-  
 tly पिंग० सण०  
 चोवालय पु० न० (चतुर्द्वार) चौबारा, ऊपर का  
 शयन-गृह. Upper story of a house  
 with doors on four sides वस० २,  
 १० टी,

## छ

छ पु० (छ) (१) तालु स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-  
 विशेष A particular palatal conso-  
 nant प्राप० प्रामा० (२) आच्छादन, ढकना.  
 A covering; A lid आवम०  
 छउम. पु० न० (छम्) छल, बहाना. An  
 excuse, A pretence, A deceit  
 हे० २, ११२, पङ्०  
 छुंटाण न० (सेचन) सींचन, सिंचना. Sprin-  
 kling, Watering. सुपा० १३६, कुमा०  
 छुटिअ त्रि० (सिक्त) सींचा हुआ Sprinkled,

Watered सुपा० १३८,  
 छुडिअ त्रि० (मुक्त) परित्यक्त, छोड़ा हुआ.  
 Released आरा० भवि०  
 छुदण न० (वन्दन) वन्दन, प्रणाम, नमस्कार.  
 Salutation गुमा० ४,  
 छुदिअ त्रि० (छन्दित) (१) अनुज्ञात, अनुमत.  
 Allowed, Permitted ओच० नि० ३८०,  
 (२) निमन्त्रित. Invited निसी० चू० २,  
 छञ्चरण पु० (पङ्चरण) अमर, भमरा A  
 wasp कुमा०

छज्जिअ त्रि० ( रजित ) शोभित, अलंकृत  
Decorated, Adorned कुमा०  
छट्टी स्त्री० ( पटी ) जन्म के बाद किया जाता  
उत्सव विशेष A ceremony per-  
formed on the sixth day after  
delivery सुपा० २७८,  
छडा स्त्री० ( छदा ) (१) समूह, परम्परा A  
collection, A multitude सुर० ४,  
२४३, वा० १२, ( २ ) छँटा, पानी की बूद,  
A drop of water, पात्र०  
छडाल त्रि०(छटावत्) छटा वाला Beauti-  
ful, Lustrous पत्र० ३२, १८,  
छडुय त्रि० (छर्दक) (१) छोड़ने वाला One  
who releases कुप्र० ३१७, ( २ ) पु०  
एक सेठ का नाम A name of a banker  
कुप्र० ३६६,  
छडुवण न०(छर्दन)(१) वमन कराना, Vomit-  
ting ( २ ) त्रि० वमन कराने वाला One  
which causes to vomit (३) छुड़ाने  
वाला A deliverer, A liberator, कुमा०  
छडुवय त्रि०(छर्दक) त्याग कराने वाला, त्याजक  
One who causes to abandon दे०  
२, ६२,  
छडुवाविय त्रि० ( छर्दित ) (१) वमन कराया  
हुआ Caused to vomit (२) छुड़वाया  
हुआ Caused to release आचम०  
छड्ढि, स्त्री०(छर्दि) वमन का रोग Vomitting  
पद्० हे० २, ३६,  
छड्ढि स्त्री० (छर्दिस) छिद्र, दूषण A fault,  
A defect महा०  
छड्डिय, त्रि० ( छर्दित )! त्यक्त, मुक्त Aban-  
doned, QUITTED विशेष० २६०६,  
छणचंद्र. पु०(छणचन्द्र) शरद ऋतु की पूर्णिमा  
का चन्द्रमा The full moon of  
Autumn स० ३७१,  
छणससि पु० ( छणशशिन् ) देवो 'छणचंद्र'

शब्द Vide 'छणचंद्र' सुपा० ३०६,  
छणिदु. पु० (छणेन्दु) शरद ऋतु की पूर्णिमा  
का चन्द्रमा The full-moon of  
Autumn सुपा० ३३, ४०४,  
छत्त न० ( छत्र ) (१) लगातार तेतीस दिनों  
का उपवास Thirty-three fasts at a  
time सबोध० १८, (१) पु० न० एक देव  
विमान A celestial aeroplane  
देवेन्द्र० १४०,  
छत्त पु० ( छत्र ) विद्यार्थी, अभ्यासी A  
student, A scholar उप० पृ० ३३१,  
१६६ टी,  
छत्ता स्त्री० ( छत्रा ) नगरी विशेष Name of  
a city आचम०  
छत्तिवण पु०(सप्तपर्षा) वृक्ष-विशेष, सतीना,  
छत्तिवन. A kind of tree हे० १, २६२, कुमा०  
छप्पइगिह्ल. त्रि० ( पट्पदिकावत् ) युका-युक्त,  
युका वाला Having lice वृह० ३,  
छप्पइया स्त्री०(पट्पदिका) यूका, जू A louse  
श्रोव० नि० ७२४,  
छप्पय पु०(पट्पद) (१) त्रि० छ रथान वाला,  
Of six places ( २ ) छ प्रकार का Of  
six kinds विशेष० २८६१, (३) छन्दविशेष.  
A kind of verse पिस०  
छभासा स्त्री० ( पद्भाषा ) प्राकृत, सस्कृत,  
मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका और अपभ्रंश ये  
छ भाषाएँ The six languages e g  
Prakrit, Sanskrit, Magadhi,  
Shaursani, Paisachika, and Ap-  
bhansa रसा०  
छमा स्त्री० ( चमा-चमा ) पृथ्वी, धरिणी, भूमि  
The earth हे० २, १८, —हर पु०  
( धर ) पर्वत, पहाड़ A mountain पद्०  
छमी स्त्री०(शमी) वृक्ष विशेष, अग्नि गर्भ-वृक्ष  
A kind of tree हे० १, २६२,  
छम्मुह पु० ( पण्मुख ) स्कन्द, कार्तिकेय,

Skanda, Kartikeya, The son of Mahadeo हे० १, २६२,  
 छय न० (चल) ब्रण, घाव A blow हे० २, १७,  
 छय न० (छद) (१) पर्ण, पत्ती, पत्र A leaf  
 (२) आवरण, आच्छादन. Covering,  
 Obscuring. से० ६, ४७,  
 छलण न० ( छलन ) ( १ ) छगई, चञ्चना.  
 Cheating, Deceiving सुर० ६, १८१,  
 (२) प्रलेपण, फेंकना, Throwing आयानि०  
 ३११,  
 छलतथ त्रि० (पदर्थ) छ अर्थ वाला Having  
 six meanings विशेष० ६०१,  
 छलिअ त्रि० (स्खलित) स्खलना प्राप्त Shp-  
 ped, Stumbled ओघ० नि० ७८६,  
 छलिअ न० (छलिक) नाट्य-विशेष A kind  
 of a drama मा० ४,  
 छलिअ त्रि० (छलित) (१) शृङ्गार काव्य An  
 amorous poem (२) चोर का इसारा,  
 तस्कर-सज्ञा A sign of a thief राज०  
 छविअ त्रि० (स्पृष्ट) छुआ हुआ Touched  
 आ० २७,  
 छाइल त्रि० (छायावत्) छाया वाला, कान्ति-  
 युक्त Lustrous, Bright, Luminous  
 हे० २, १२६, पद०  
 छायाइत्तय त्रि० (छायावत्) छाया-वाला,  
 छाया-युक्त Having shades हे० २, २०३,  
 छार त्रि० ( चार ) ( १ ) पिघलने वाला, भरने  
 वाला A melter, Oozer ( २ ) गुड  
 Treacle, Molasses हे० २, १७, प्राप०  
 छाल पु० (छाग) अज, चकरा A goat हे०  
 १, १६१,  
 छालिया स्त्री० (छागिका) अजा, छगो A she  
 goat सुर० ७, ३०, सण०  
 छाली स्त्री० (छागी) अजा, छगी A she-  
 goat प्रामा०  
 छावलिय. त्रि० ( पञ्चालिक ) छत्रावलिका

परिमित समय वाला Measuring six  
 Avalikas (a particular measure  
 of time) विशेष० २३१  
 छाहा-छाहिया-छाही स्त्री० ( छाया ) ( १ )  
 छाडी, आतप का अभाव Shade (२) प्रति-  
 विम्ब, परछाई A reflection पद० प्राप०  
 सुर० २, २४७, ६, ६२, हे० १ २४६, मा० २४,  
 छिद्रण न० ( छेदन ) छेद, खण्डन, कर्तन.  
 Cutting, Tealing ओघ० नि० १६४,  
 छिदाचण न० ( छेदन ) कटवाना, दूसरे द्वारा  
 छेदन कराना Causing to cut महानि० ७,  
 छिदाविय त्रि० (छेदित) विच्छिन्न कराया गया  
 Caused to cut से० २२६,  
 छिपय. पु० (छिपक) कपडा छापने का काम  
 करने वाला A cloth-printer, A  
 stamper पाञ्च०  
 छिक त्रि० (छुस) स्पृष्ट, छुआ हुआ Touched  
 दे० ३, ३६, हे० २, १३८, से० ३, ४६,  
 —प्रोइया स्त्री० ( प्रोइका ) वनस्पति  
 विशेष A kind of vegetable विशेष०  
 १७२४,  
 छिकारिअ त्रि० ( छीकारित ) छी, छी आवाज  
 से आहूत, अन्यक्त आवाज से बुलाया हुआ  
 Called by sounding Chhi, Chhi  
 ओघ० नि० १२४,  
 छिछि अ० ( धिक् धिक् ) छी छी, धिक् धिक्,  
 अनेक धिक्कार, Fie, Shame, Push हे०  
 २, १७४, पद०  
 छिज त्रि० ( छेच ) ( १ ) जो खण्डित किया  
 जा सके, छेदने योग्य Worthy to be  
 pierced (२) न० छेद; विच्छेद, द्विधाकरण.  
 Cutting, Dividing ओघ० नि० ४६,  
 छिजत त्रि० ( क्षीयमाण ) क्षय पाता, दुर्बल  
 होता. Decaying मा० ३४७,  
 छिति स्त्री० ( छिति ) छेद, विच्छेद, खण्डन  
 Cutting, Dividing विशेष० १४२८,

छिदिय त्रि० ( छिद्रित ) छिद्रयुक्त, छिद्र वाला  
 Polous गडढ०  
 छिन्न. त्रि० ( छिन्न ) निर्धारित, निश्चित.  
 Determined, Resolved, बृह० १,  
 —मडव त्रि० ( छिन्न मडम्ब ) जिस गाव या  
 शहर के समीप में दूसरा गाव नगैरह नहीं A  
 village or a city where there is  
 no other village etc in its neigh-  
 bourhood or vicinity निसी०चू०१०,  
 छिवरण न० ( स्पर्शन ) स्पर्श, छूना Touching  
 उप० १८७ टी, ६७७,  
 छिविअ त्रि० ( स्पृष्ट ) ( १ ) छुआ हुआ  
 Touched ( २ ) स्पर्श, छूना. A touch  
 से० २, ८,  
 छिहा स्त्री० ( स्पृहा ) स्पृहा, अभिलाषा.  
 Desire, Ambition कुमा० हे० १,  
 १२८, पड्०  
 छिदिअ. त्रि० ( स्पृष्ट ) छुआ हुआ. Touched  
 कुमा०  
 छीण. त्रि० ( चीण ) चय प्राप्त, दुर्बल, कृश,  
 Destroyed हे० २, ३, गा० ८४,  
 छीयत त्रि० ( चुवव ) झँक करता Sneezing  
 ती० ८,  
 छीर न० ( चीर ) ( १ ) जल, पानी Water  
 ( २ ) दुग्ध, दूध. Milk हे० २, १७, गा० २६७,  
 छुकारण न० ( धिक्कारण ) धिक्कारना, निंदा  
 Scorning, Hating बृह० २,  
 छुच्छ त्रि० ( तुच्छ ) तुच्छ, चुद्र, हल्का  
 Trifling, Mean हे० १, २०४,  
 छुट्ट त्रि० ( छुटित ) छुटा हुआ, बन्धन-मुक्त  
 Released सुपा० ४०७, सुक० ८६,  
 छुट्टण न० ( छोटन ) छुटकारा, मुक्ति Salva-  
 tion आ० २७,  
 छुरण त्रि० ( चुरण ) ( १ ) चूर्णित, चूर २  
 किया हुआ Pounded, Levigated  
 ( २ ) विहत, विनाशित, Destroyed,

Perished ( ३ ) अभ्यस्त. Practised.  
 हे० २, १७, प्राप्र०

छुत्त त्रि० ( छुत्त ) स्पृष्ट, छुआ हुआ. Touched.  
 हे० २, १३८, कुमा०

छुध. त्रि० ( चुध ) भूखा. Hungry. प्राकृ० २२,  
 छुर पु० ( चुर ) ( १ ) पशु का नख, खुर A  
 nail of an animal ( २ ) वृक्ष-विशेष,  
 गोखरू. A kind of tree ( ३ ) बाण, शर,  
 तीर An arrow हे० २, १७, प्राप्र०

छुरण. न० ( चुरण ) अचलेपन Beaming.  
 कप्पू०

छुरहत्य पु० ( चुरहत्य ) नापित, हजाम A  
 barber दे० ३, ३१,

छुरिय त्रि० ( छुरित ) व्याप्त Perivaded  
 ( २ ) लिप्त Besmeared पउम० २८, २८,

छुरी. स्त्री० ( चुरी ) छुरी, चाकू A knife  
 प्रासू० ६२,

छुहा स्त्री० ( सुधा ) ( १ ) अमृत, पीयूष.  
 Nectar हे० १, २६२, कुमा० —अर. पु०

( कर ) चन्द्र, चन्द्रमा The moon पड्०  
 छुहाइअ त्रि० ( चुधित ) भूखा, बुभुक्षित.  
 Hungry पात्र०

छुहाउल. त्रि० ( चुदाकुल ) भूखा, बुभुक्षित.  
 Hungry गा० २८१,

छुहालु त्रि० ( चुधालु ) भूखा, बुभुक्षित.  
 Hungry उप० पु० १६०, १६० टी,

छेअ त्रि० ( छेक ) विशुद्ध निर्मल Pure,  
 Clean पचा० ३, ३२, ३८, ( २ ) न०कालोचित

हित Proper benefit धर्मस० २४३,  
 छेअ पु० ( छेद ) विनाश, नाश Destruction;  
 Ruin सुर० २, १६४, ( २ ) शुद्धि, परीक्षा

का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने का एक लक्षण.  
 A kind of examining पचव० ३,

छेअग त्रि० ( छेदक ) छेदन करने वाला, काटने  
 वाला A cutter विशे० २१३,

छेअग न० ( छेदन ) ( १ ) निश्चायक वचन. A



determining word बृह० १, (२)  
 सूक्ष्म अवयव A fine limb बृह० १,  
 छेदञ्ज. त्रि० (छेदक) छेदने वाला One who  
 cuts पि० २३३;  
 छेद पु० (चेप) मेरेण, चेपण Instigation  
 से० ४, १७,  
 छोडाविय त्रि० (छोटित) छुडवाया हुआ,  
 बन्धन मुक्त कराया हुआ Caused to  
 release स० ६२,  
 छोडिञ्ज त्रि० ( छोटित ) छोडा हुआ, बन्धन,

मुक्त किया हुआ Released सुपा० १०४,  
 स० ४३१,  
 छोलिय त्रि० (तष्ट) छिलका उतारा हुआ, तुप-  
 रहित किया हुआ Husked, Stripped  
 the husks from उप० १७५,  
 छोह पु० (चेप) चेपण, फेंकना Throwing  
 सुपा० २६८,  
 छोहिय त्रि० ( चोभित ) चोभ-प्राप्त, घबडाया  
 हुआ, व्याकुल किया गया Agitated,  
 Confused उप० १३७ टी,

## ज

ज. पु० (ज) तालु स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष  
 A particular palatal consonant  
 प्रासा० प्राप०

जअकार पु० ( जयकार ) जीत, अभ्युदय  
 Prosperity, Success, प्राक० ३०,

जइ पु० (यति) छद् शास्त्र में प्रसिद्ध विश्राम-  
 स्थान, कविता का विश्राम-स्थान A pause  
 in metre धम्म० १ टी,

जइ अ० ( यदा ) जिस समय, जिस वक्त,  
 At which time, When प्रा०

जइ अ० (यत्र) जहा, जिस स्थान में, Where,  
 षड्०

जइअन्व त्रि० ( जेतव्य ) जीतने योग्य Fit  
 for being conquered प्रवि० १२,

जइण त्रि० (जैन) जिनदेव का भक्त, जिनधर्मी  
 A devotee Jinadeo विशेष० ३८३,

जइत्त पु० (जैत्र) नृप-विशेष A name  
 of a king रभा०

जइया अ० ( यदा ) जिस समय, जिस वक्त  
 When उव० हे० ३, ६५,

जउ. पु० (यदु) (१) स्वनाम स्यात् एक राजा  
 A name of a king (२) सुप्रसिद्ध  
 क्षत्रिय वंश A well-known Kshatri-  
 ya family उव०—यदय्य पु० (नन्दन)

(१) यदुवंश में उत्पन्न Born in Yadu  
 lineage (२) श्रीकृष्ण Shree Krishna  
 उव०

जगम न० (जगम) छन्द विशेष. A name  
 of verse पिंग०

जगल पु० ( जङ्गल ) (१) निर्जल प्रदेश.  
 Desert बृह० १, (२) न० मांस Flesh,  
 Meat वजा० ४२,

जगुलि. स्त्री० (जाहुलि) विष उतारनेका मन्त्र,  
 विष-विद्या A spell for curing snake  
 bites ती० ४५,

जगुलिय पु० (जाहुलिक) गारुडिक, विष मन्त्र  
 का जानकार A snake-doctor पउम०  
 १०५, २७,

जंघाल त्रि० (जङ्घाल) द्रुत-गामी One  
 who walks fast दे० ८, ७५,

जतरा न० (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण, सयमन,  
 काबू Control, Restraint (२) रोकने  
 वाला, प्रतिरोधक One who prevents  
 से० ४, ४६,

जतपुरिस पु० ( यन्त्रपुर्य ) यन्त्र निर्मित  
 पुरूप, यन्त्र से पुरूप की चेष्टा करने वाला  
 पुतला A mechanical doll, A pup-  
 pet furnished with contrivan-

ees, such as strings, for moving the limbs आवम०

जंतित्र, त्रि० (यान्त्रिक) यन्त्र कर्म करने वाला, कल चलाने वाला. A diver of a machine गा० ११४,

जंपरा न० (जल्पन) उक्ति, कथन Telling श्रा० १२, गडड०

जपिर, त्रि० (जल्पि) जल्पाक, वाचाल Loquacious, Talkative दे० २, ६७,

जववत पु० (जामवत्) एक विद्याधर राजा A Vidyadhar king कुप्र० २१६,

जंबु पु० (जम्बु) जम्बुक, सियार A fox पडम० १०१, १७,

जवूसंड पु० (जम्बूपण्ड) इस नाम का एक ग्राम Name of a city श्राव०

जंबूसामि. पु० (जम्बूसामिन्) एक सुप्रसिद्ध जैन मुनि. Name of a celebrated Jaina saint आवम०

जंभग, त्रि० (जृम्भक) जभाई लेने वाला, Yawning, Gaping कप्प० सु० च० ४०,

जभा, स्त्री० (जृम्भा) एक देवी का नाम. A name of a goddess सिरि० २०३,

जमिय, न० (जृम्भित) जंभाई, Yawning, Gaping. कप्प०

जक्क, पु० (यक्) श्वान, कुत्ता A dog श्रोघ० नि० १६३,

ऊक्क पु० (यक्) (१) धनेश, यचाधिपति, कुवेर The name of the treasurer of God. (२) एक विद्याधर राजा, जो रावण का मौसेरा भाई था A Vidyadhar king, who was the son of Ravana's maternal uncle पडम० ८, १०२, —कहम पु० (कहम) केसर, अगार, चन्दन, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण Mixture of saffron, aloe-wood, camphor and musk. सवि०

जखिखद् पु० (यक्खेन्द्र) अरनाथ भगवान का शासनाधिष्ठायक देव A presiding god of the precept of Lord Ananatha प्रव० २६, सति० ८,

जखिखली, स्त्री० (यक्खिणी) यक्ष योनिक स्त्री, देवीयों की एक जाति A demi-goddess, A kind of deity आवम०

जख्खी स्त्री० (याक्खी) लिपि विशेष A particular language. विशेष० ४६४ टी,

जगार पु० (जगर) 'ज' अक्षर, 'ज' वर्ण The word 'ज' निसी० चू० १,

जगर पु० (जगर) सनाह, कवच, An armour दे० ३, ४१,

जगार पु० (यक्कार) 'यत्' शब्द The word 'यत्' निसी० चू० १,

जग्गवित्र, त्रि० (जागरित) जगाया हुआ, नींद से उठाया हुआ. Awaken सुपा० ३३१,

जग्गह पु० (यद्ग्रह) जो प्राप्त हो उसे ग्रहण करने की राजज्ञा An order of a king to take whatever is met "रखणा जगहो घोसिओ" श्रावम०

जगिअ, त्रि० (जागृत) जगा हुआ, त्यक्त-निद्र. Awaken गा० ३८२, कुमा० सुपा० १६३,

जगिर त्रि० (जागरितृ) (१) जागने वाला One who awakes (२) सावचेत रहने वाला Attentive, Cautious सुपा० २१८,

जच्चिरं, अ० (यच्चिरम्) जहा तक, जितने समय तक Till, Untill चव० ७,

जच्छ पु० (यक्कम्) रोग-विशेष, क्षय रोग Consumption, Phthisis प्राकृ० २२,

जज्ज त्रि० (जय्य) जो जीता जा सके वह, जीतने के शक्य Conquerable हे० २, २४

जज्जिग पु० (जय्यिक) एक जैन आचार्य का नाम A name of a Jaina precep-

tor ती० १२,  
 जट्ट पु० (जर्त) (१) देश विशेष A name of a country भवि० (२) उस देश का निवासी An inhabitant of that country हे० २, ३०,  
 जट्ट त्रि० (इष्ट) यजन किया हुआ, याग किया हुआ Sacrificed स० २२,  
 जट्टि स्त्री० (यष्टि) लकड़ी. A stick महा० प्राप्र०  
 जड त्रि० (जड) शिशिर, जाड़े से ठडा होकर चलने में अशक्त Unable to walk on account of extreme cold पात्र०  
 जडाउ-जडाउण पु० (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध गृध्र पक्षि विशेष. A name of a well known vulture पउम० ४४, २२, ४०,  
 जडागि पु० (जटाकिन्) देखो 'जटायु' शब्द Vide 'जटायु'. पउम० ४१, ६२,  
 जडाल त्रि० (जटावत्) जटा-युक्त, जटा-धारी One who wears matted hair हे० २, १२६,  
 जडासुर पु० (जटासुर) असुर-विशेष A name of a devil वेणी० १७७,  
 जडिअ त्रि० (जटित) जडित, जडा हुआ, खचित, सलग्न Fixed, Set महा० पात्र० (२) पिहित, ढका हुआ Covered सिरि० २१६,  
 जडिम पु० स्त्री० (जडिमन्) जडता, जडपन, जाड्य Stupidity, Dulness सु०च०६,  
 जडिल त्रि० (जटिल) व्याप्त, खचित Per- vaded सुपा० ४६२,  
 जडिलिय-जडिलिल त्रि० (जटिलित) जटा युक्त किया हुआ One who puts on matted hair सुपा० १२२, २६६,  
 जडिल त्रि० (जटिन्) जटा वाला Having matted hair चड०  
 जडू न० (जाड्य) जडता, जडपन Inertia,

Inactivity उप० ३२० टी, सार्ध० १३०,  
 जडर-जडल न० (जडर) पेट, उदर The stomach हे० १, २२४, प्राप्र० पड्०  
 जण त्रि० (जन) उत्पादक, उत्पन्न करने वाला Producing, Creating. विशे० ६६०,  
 जण पु० (जन) समुदाय, वर्ग A collec- tion, The class कुमा० पचव० ४, —जत्ता स्त्री० (जात्रा) जन समागम, Meeting of men दस०४, —ट्टाण. न० (स्थान) (१) दण्डकारण्य, दक्षिण का एक जंगल A name of a jungle in Deccan called Dandka-aranya (२) नगर विशेष, नासिक A name of a city called Nasika ती० २८, —चई. पु० (पति) लोगों का मुखिया. A chief or leader of men श्रोघ० —चय. पु० (व्रज) मनुष्य-समूह A crowd, A thiong पउम० ४, २, —वाय पु० (वाद) लोकापवाद, लोक में निंदा Public scandal, Popular censure "जण- वायभण्य" श्राव० १,  
 जणई स्त्री० (जनिका) उत्पादिका, उत्पन्न करने वाली. A female producer कुमा०  
 जणंगम पु० (जनङ्गम) चाण्डाल A bu- tcher उप० १०३१ टी, पात्र०  
 जणहण पु० (जनार्दन) श्रीकृष्ण, विष्णु Shree Krishna, God Vishnu. उप० ६४८ टी, पिण०  
 जणप्पवाद पु० (जनप्रवाद), लोकोक्ति. A proverb, A Maxim, A by-word मोह० ४३,  
 जणमेअण पु० (जनमेजय) स्वनाम-प्रसिद्ध नृप-विशेष A well-known king so called चारु० १२,  
 जणय त्रि० (जनक) (१) उत्पादक, उत्पन्न करने वाला One that produces प्राप्त् १६;

(२)पु० राजा जनक, सीता का बाप A king named Janaka, the father of Sita. पञ्चम० २१, ३३, (३) पु० न० माता-पिता, माँ बाप Parents सुपा० ३२६, २६८, —तणया स्त्री० (तनया) राजा जनक की पुत्री, सीता Sita, the daughter of the king Janaka से० १, ३७, —नदण पु० ( नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल Bhamandala, the son of the king Janak पञ्चम० ६२, २२, —नदण्णी. स्त्री० ( नन्दनी ) सीता, जानकी, राम-पत्नी. Sita, the wife of Rama पञ्चम० ६४, ४६,

जणयगया स्त्री० ( जनकाङ्गजा ) जानकी, सीता Sita, the daughter of the king Janak पञ्चम० ४१, ७८,

जणस्सुइ स्त्री० ( जनश्रुति ) किंवदन्ती, कहावत A proverb, A maxim धर्मवि० ११२, जणयत्ता स्त्री० ( यज्ञयात्रा ) वरात, विवाह की यात्रा A bride-groom's party वप० ६२४,

जणसेणी स्त्री० ( याज्ञसेनी ) द्रौपदी, पाण्डव-पत्नी. Draupadi, the wife of Pandavas वेणी० ३७,

जरिणय, पु० ( याज्ञिक ) याज्ञक, यज्ञ करने वाला, A sacrificer आवम०

जरहई स्त्री० ( जाह्वी ) गंगा नदी, भागीरथी. The Ganges अच्यु० ६,

जरहवी स्त्री० ( जाह्वी ) सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, भागीरथ की जननी The queen of Sagar Chakravarti and the mother of Bhagnatha पञ्चम० २, २०१,

जरहु, पु० ( जन्हु ) भरत वंशीय एक राजा A king of Bharat lineage प्राप्र० हे० २, ७२, —सुआ स्त्री० ( सुता ) गंगा नदी, भागीरथी The river Ganges. पाञ्च०

जरहुकना, स्त्री० ( जन्हुकन्या ) गंगा नदी The river Ganges कुम० ६६,

जन्न. त्रि० ( जन्म ) उत्पन्न होने योग्य, Produci- ble, Creatable धर्मस० २८०,

जपिर त्रि० ( जपितृ ) जाप करने वाला One who repeats in a muttering manner and tells the beads of a rosary पद०

जप्प त्रि० ( याप्य ) गमन कराने योग्य Worthy to go —जाण न० ( यान ) वाहन विशेष; शिविका, A palanquin, A litter दे० ६, १२२,

जप्पिअ. त्रि० ( जल्पित ) (१) उक्त, कथित. Told, Said (२) न० उक्ति, वचन A word अच्यु० २,

जम पु० ( यम ) (१) इस नाम का एक तापस Name of an ascetic आवम० (२) मृत्यु, मौत. Death. आव० ४, (३) सयमन, नियन्त्रण Restraining, Controlling. आवम०

जमदग्निजडा. स्त्री० ( यमदग्निजटा ) गन्ध द्रव्य विशेष, सुगन्धवाला A kind of frag- rant substance उत्तनि० ३,

जमलपय न० ( यमलपद ) प्रायश्चित्त विशेष A kind of expiation निसी० चू० १,

जमलोइय. त्रि० ( यमलौकिक ) (१) यमलोक संबंधी, यमलोक से संबध रखने वाला Re- lating to Yamaloka. (२) परमाधार्मिक देव, असुरों की एक जाति. A kind of demons

जमावण न० ( यमन ) (१) नियन्त्रण करना Restraining, Controlling (२) विषम वस्तु को सम करना Equalizing the unequal thing निसी० चू० १,

जमू स्त्री० ( जमू ) ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी का नाम The crowned queen of

tor ती० १२,  
 जट्ट पु० (जल) (१) देश विशेष A name  
 of a country भवि० (२) उस देश का  
 निवासी An inhabitant of that  
 country हे० २, ३०,  
 जट्ट त्रि० (इष्ट) यजन किया हुआ, याग किया  
 हुआ Sacrificed स० २२,  
 जट्टि स्त्री० (यष्टि) लकड़ी. A stick महा०  
 प्राप्०  
 जड त्रि० (जड) शिशिर, जाड़े से ठडा होकर  
 चलने में अशक्त Unable to walk on  
 account of extreme cold पात्र०  
 जडाउ-जडाउण पु० (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध  
 गृध्र पक्षि विशेष. A name of a well  
 known vulture. पत्रम० ४४, २२, ४०,  
 जडागि पु० (जटाकिन्) देखो 'जटायु'  
 शब्द Vide 'जटायु'. पत्रम० ४१, ६२,  
 जडाल त्रि० (जटावत्) जटा-युक्त, जटा-धारी  
 One who wears matted hair  
 हे० २, १२६,  
 जडासुर पु० (जटासुर) असुर-विशेष A  
 name of a devil वेणी० १७७,  
 जडिअ, त्रि० (जटित) जडित, जडा हुआ,  
 खचित, सलग्न Fixed, Set महा० पात्र०  
 (२) पिहित, ढका हुआ Covered सिरि०  
 २१६,  
 जडिम. पु० स्त्री० (जडिमन्) जडता, जडपन,  
 जाड्य Stupidity, Dulness. सु०च०६,  
 जडिल. त्रि० (जटिल) व्याप्त, खचित Per-  
 vaded सुपा० ४६२,  
 जडिलिय जडिलिल त्रि० (जटिलित) जटा  
 युक्त किया हुआ One who puts on  
 matted hair सुपा० १२२, २६६,  
 जडिल त्रि० (जटिन्) जटा वाला. Having  
 matted hair चड०  
 जडू न० (जाड्य) जडता, जडपन. Inertia,

Inactivity. उप० ३२० टी, सार्ध० १३०,  
 जडर-जडल न० (जडर) पेट, उदर The  
 stomach हे० १, २६४, प्राप्० पड्०  
 जण त्रि० (जन) उत्पादक, उत्पन्न करने वाला  
 Producing, Creating. विशे० ६६०,  
 जण पु० (जन) समुदाय, वर्ग A collec-  
 tion, The class कुमा० पचव० ४,  
 —जत्ता स्त्री० (जात्रा) जन समागम.  
 Meeting of men दस० ४, —ट्टाण. न०  
 (स्थान) (१) दण्डकारण्य, दक्षिण का एक  
 जगल A name of a jungle in  
 Deccan called Dandka-aranya  
 (२) नगर विशेष, नासिक A name of a  
 city called Nasika ती० २८, —वई.  
 पु० (पति) लोगों का मुखिया, A chief  
 or leader of men श्रोत्र० —वय.  
 पु० (वज) मनुष्य-समूह A crowd, A  
 throng पत्रम० ४, १, —वाय पु०  
 (वाद) लोकापवाद, लोक में निंदा Public  
 scandal, Popular censure "जण-  
 वायभयण" श्राव० १,  
 जणई स्त्री० (जनिका) उत्पादिका, उत्पन्न करने  
 वाली, A female producer कुमा०  
 जणंगम पु० (जनङ्गम) चाण्डाल A bu-  
 tcher उप० १०३१ टी, पात्र०  
 जणहण पु० (जनादेन) श्रीकृष्ण, विष्णु.  
 Shree Krishna, God Vishnu. उप०  
 ६४८ टी, पिग०  
 जणपवाद पु० (जनप्रवाद), लोकोक्ति A  
 proverb, A Maxim, A by-word.  
 मोह० ४३,  
 जणमेअण पु० (जनमेजय) स्वनाम-प्रसिद्ध  
 नृप-विशेष A well-known king so  
 called चार० १२,  
 जण्य त्रि० (जनक) (१) उत्पादक, उत्पन्न करने  
 वाला One that produces प्राप्० १६;

(२)पु० राजा जनक, सीता का बाप A king named Janaka, the father of Sita प० २१, ३३, (३) पु० न० माता-पिता, माँ बाप Parents सुपा० ३२६, २६८, —तणया स्त्री० (तनया) राजा जनक की पुत्री, सीता Sita, the daughter of the king Janaka से० १, ३७, —नदण पु० ( नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल Bhamandala, the son of the king Janak प० ६२, २२, —नदणी. स्त्री० ( नन्दनी ) सीता, जानकी, राम-पत्नी. Sita, the wife of Rama प० ६४, ४६,  
 जणयगया स्त्री० ( जनकाङ्गजा ) जानकी, सीता Sita, the daughter of the king Janak प० ४१, ७८,  
 जणस्सुइ स्त्री० ( जनश्रुति ) किंवदन्ती, कहावत A proverb, A maxim धर्मवि० ११२,  
 जणयत्ता स्त्री० ( यज्ञयात्रा ) बरात, विवाह की यात्रा. A bride-groom's party प० ६२४,  
 जणसेणी स्त्री० ( याज्ञसेनी ) द्रौपदी, पाण्डव-पत्नी. Draupadi, the wife of Pandavas वेणी० ३७,  
 जरिणय, पु० ( याज्ञिक ) याजक, यज्ञ करने वाला, A sacrificer आवम०  
 जरहई स्त्री० ( जाह्नवी ) गंगा नदी, भागीरथी. The Ganges अ० ६,  
 जरहधी स्त्री० ( जाह्नवी ) सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, भागीरथ की जननी The queen of Sagar Chakravarti and the mother of Bhagnatha प० २, २०१,  
 जरहु, पु० ( जण्डु ) भरत वंशीय एक राजा. A king of Bharat lineage प्रा० हे० २, ७२, —सुआ स्त्री० ( सुता ) गंगा नदी, भागीरथी The river Ganges पा०

जरहुकजा, स्त्री० ( जण्डुकन्या ) गंगा नदी The river Ganges कु० ६६,  
 जत्र. त्रि० ( जन्म ) उत्पन्न होने योग्य, Produci-ble, Creatable धर्मस० २८०,  
 जपिर त्रि० ( जपितृ ) जाप करने वाला, One who repeats in a muttering manner and tells the beads of a rosary प०  
 जप्य त्रि० ( याप्य ) गमन कराने योग्य Worthy to go —जाण न० ( यान ) वाहन विशेष, शिबिका. A palanquin, A litter दे० ६, १२२,  
 जपिअ त्रि० ( जल्पित ) (१) वक्त, कथित. Told, Said ( २ ) न० उक्ति, वचन A word अ० २,  
 जम पु० ( यम ) (१) इस नाम का एक तापस Name of an ascetic आवम० ( २ ) मृत्यु, मौत Death. आव० ४, (३) सयमन, नियन्त्रण Restraining, Controlling आवम०  
 जमदग्निजडा. स्त्री० ( यमदग्निजटा ) गन्ध द्रव्य विशेष, सुगन्धवाला A kind of frag- rant substance उ० ३,  
 जमलपय न० ( यमलपद ) प्रायश्चित्त विशेष A kind of expiation निसी० चू० १,  
 जमलोइय. त्रि० ( यमलौकिक ) (१) यमलोक संबंधी, यमलोक से संबध रखने वाला Re- lating to Yamaloka. (२) परमाधार्मिक देव, अमुरों की एक जाति. A kind of demons  
 जमावण न० ( यमन ) (१) नियन्त्रण करना Restraining, Controlling ( २ ) विषम वस्तु को सम करना. Equalizing the unequal thing निसी० चू० १,  
 जमू स्त्री० ( जम् ) ईशानेन्द्र की एक अम्र-महिषी का नाम The crowned queen of

Ishanendia इक०  
 जय न० (जगत्) जगत्, दुनिया, ससार. The earth, The world, Universe प्रासू० १२२, से० ६, १,  
 जयत पु० (जयन्त) इन्द्र का पुत्र The son of Indra पात्र०  
 जयती स्त्री० (जयन्ती) भगवान महावीर के आठवें गणधर की माता Name of the mother of the eighth Ganadhar of Lord Mahavira आव०  
 जयकम्मा स्त्री० (जयकर्मा) विद्या-विशेष A particular science पत्र० ७, १३६,  
 जयजत्ता स्त्री० (जययात्रा) शत्रु पर चढ़ाई The march of an army, Expedition, Invasion सु० च० २४१,  
 जयण त्रि० (जयन) जीतने वाला Conquering, Vanquishing कप्प०  
 जयमगला स्त्री० (जयमङ्गला) एक राज-कुमारी A name of a princess दस० ३,  
 जयसधि पु० (जयसन्धि) पुण्डरीक नामक राजा का एक मन्त्री A minister of the king Pundrika आव० ४,  
 जयसिरी स्त्री० (जयश्री) विजय श्री, जय लक्ष्मी. A city of victory or triumph आव०  
 जया स्त्री० (जया) (१) विद्या-विशेष A particular medicine पत्र० ७, १४१, (२) औषधि-विशेष A particular medicine राज०  
 जर पु० (जर) (१) रावण का एक सुभद्र A warrior of the king Ravana पत्र० २६, ३, (२) त्रि० जीर्ण, पुराना Old, Ancient.  
 जर त्रि० (जरत्) जीर्ण, पुराना, वृद्ध, बूढ़ा. Old कुमा० सुर० २, ६६-१०४, —गव पु० (गव) बूढ़ा बैल. An aged ox. वृह० २,

—गवी स्त्री० (गवी) बूढ़ी गौ An old cow गा० ४६२,  
 जरण न० (जरण) जीर्णता, आहार का हजम होना, हाजमा Digesting धर्मस० ११३२,  
 जरा स्त्री० (जरा) वसुदेव की एक पत्नी A wife of Vasudeo. कुप्र० ६६,  
 जरि त्रि० (जरिन्) वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged-वर० ३, १,  
 जल न० (जाल्ज) जडता, मन्दता Inertia, Inactivity; Sluggishness. सार्ध० ७३, से० १, २४,  
 जल न० (जल) वीर्य Sperma genital; Semen virile वजा० १०२,  
 जलजली पु० (जलजली) तर्पण, दोनों हाथों में लिया हुआ जल. Presenting water to the names of the deceased or to the Pitris collectively, A religious rite of offering water to the names of the deceased. सुर० ३, २१, कप्प०  
 जलकलव पु० (जलकदम्ब) कदम्ब वृक्ष की एक जाति A kind of tree गउड०  
 जलग पु० (ज्वलक) अग्नि, आग. Fire. पिड०  
 जलचारण पु० (जलचारण) जिसके प्रभाव से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक शक्ति रखने वाला मुनि A kind of saint having supernatural power of walking on water just like on earth गच्छा० २,  
 जलजलित्र त्रि० (जलजलित) जल जल शब्द से युक्त Having the sound Jala-Jala मित्ति० ६६४,  
 जलणजडि पु० (ज्वलनजटिन) विगाधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar lineage पत्र० ५, ४६,

जलमिच्छ पु० ( ज्वलनमित्र ) स्वनाम  
ख्यात एक प्राचीन कवि. A name of an  
ancient poet गउड०  
जलधर्मिणी स्त्री० ( जलस्तम्भिनी ) विद्या-  
विशेष A particular science पउम०  
७, १३६,  
जलरकु पु० ( जलरङ्कु ) पक्षि विशेष, ढेंक  
पक्षी A kind of bird गा० १७८, गउड०  
जलहि पु० ( जलधि ) चार की संख्या The  
number four विवे० १४४,  
जलोदर न० ( जलोदर ) रोग विशेष, जलन्धर,  
जठराम A kind of disease सण०  
जलोदरि त्रि० ( जलोदरिन् ) जलन्धर रोग  
से पीडित Diopsical राज०  
जल्लार पु० ( जल्लार ) (१) स्वनाम प्रसिद्ध  
एक अनार्य देश A name of an Aarya  
country. (२) जल्लार देश का निवासी  
An inhabitant of the Jallaar  
country इक०  
जव. पु० न० ( यव ) एक देव विमान An  
aeroplane देवेन्द्र० १४०,  
जवण, न० ( जपन ) जाप, पुन पुन मन्त्र का  
बहाराव. Repeating in a muttering  
manner and telling the beads of  
a rosary पउम० ८६, ६०, स० ६,  
जवण स्त्री० ( यावनी ) (१) यवन की स्त्री A  
wife of Yavana (२) यवन की लिपि,  
Yavani language विशेष० ४६४ टी,  
जवणी स्त्री० ( यवनी ) परदा, आच्छादक पट  
A veil, A curtain. (२) संचारिका, दूती.  
A female messenger, A female  
go-between अभि० १७  
जवमज्ज. न० ( यवमध्य ) (१) तप विशेष A  
kind of austerity पउम० २२, २४,  
जवस न० ( यवस ) तृण, घास Glass उप०  
२२ टी, उप० पु० ८४,

जवा स्त्री० ( जवा ) गुडहल का फूल. A kind  
of flower कुमा०  
जवञ्ज. त्रि० ( जपित ) जिसका जाप किया गया  
हो वह Muttered, Repeated inter-  
nally, प्रकरण विरि० ३६६, (२) न० अर्थ-  
यन, प्रकरण A chapter सुख० २, १३,  
जविय. त्रि० ( यापित ) (१) गमित, गुजारा  
हुआ Passed (२) नाशित Destroyed,  
Ruined कुमा०  
जह. अ० ( यत्र ) जहा, जिसमें Where.  
हे० २, १३१,  
जहणा स्त्री० ( हान ) परित्याग Abandon-  
ing, Quitting सवोध० २६,  
जहिच्छिया. स्त्री० ( यदच्छा ) मर्जी, स्वेच्छा,  
स्वच्छदत. Self-will, Acting as one  
likes विशेष० ३१६,  
जहिष्ठिल पु० ( युधिष्ठिर ) पाण्डु राजा का ज्येष्ठ  
पुत्र, जेष्ठ पाण्डव Yudhishthira, the  
eldest son of the king Pandu हे०  
१, १०७, प्राप्र०  
जात्रा स्त्री० ( यातृ ) देवर-भार्या. The wife  
of husband's younger brother.  
प्राकृ० ४३,  
जाइ त्रि० ( याजिन ) यज्ञ-कर्ता A sacrificer.  
दसनि० १, १४६,  
जाइ. स्त्री० ( जाति ) सामान्य नैयायिकों के मत  
से एक धर्म विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य  
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व ( In logic ).  
The properties which are pe-  
culiar to a class and distinguish  
it from all others, the essential  
characteristics of a species, as  
गोत्व, अश्वत्व of cows, horses etc.  
विरो० १६०१,  
जाइ स्त्री० ( जाति ) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध दूषणा-  
भास, असत्य दूषण Futile answer.



Ishanendra इक०  
 जय. न० (जगत्) जगत्, दुनिया, ससार, The earth, The world, Universe प्रासू० १२२, से० ६, १,  
 जयत पुं० (जयन्त) इन्द्र का पुत्र The son of India पात्र०  
 जयती स्त्री० (जयन्ती) भगवान महावीर के आठवें गणधर की माता Name of the mother of the eighth Ganadhar of Lord Mahavira आवम०  
 जयकम्मा स्त्री० (जयकर्मा) विद्या-विशेष A particular science पत्र० ७, १३६,  
 जयजत्ता स्त्री० (जययात्रा) शत्रु पर चढाई The march of an army, Expedition, Invasion सु० च० २४१,  
 जयण त्रि० (जयन) जीतने वाला Conquering, Vanquishing कप्प०  
 जयमगला स्त्री० (जयमङ्गला) एक राज-कुमारी A name of a princess दस० ३,  
 जयसन्धि पुं० (जयसन्धि) पुण्डरीक नामक राजा का एक मन्त्री A minister of the king Pundrika आव० ४,  
 जयसिरी स्त्री० (जयश्री) विजय श्री, जय लक्ष्मी A cry of victory or triumph आवम०  
 जया स्त्री० (जया) (१) विद्या-विशेष A particular medicine पत्र० ७, १४१, (२) औषधि-विशेष A particular medicine राज०  
 जर पु० (जर) (१) रावण का एक सुभट A warrior of the king Ravana पत्र० २६, ३, (२) त्रि० जीर्ण, पुराना Old, Ancient.  
 जर त्रि० (जरत्) जीर्ण, पुराना, वृद्ध, बूढ़ा. Old कुमा० सुर० २, ६६-१०४, —गव पु० (गव) बूढ़ा बैल An aged ox वृह० १,

—गवी स्त्री० (गवी) बूढ़ी गौ An old cow गा० ४६२,  
 जरण न० (जरण) जीर्णता, आहार का हजम होना, हाजमा Digesting धर्मस० ११३२,  
 जरा स्त्री० (जरा) वसुदेव की एक पत्नी A wife of Vasudeo. कुम० ६६,  
 जरि त्रि० (जरिन्) वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged-र० ३, १,  
 जल न० (जाह्य) जडता, मन्दता Inertia, Inactivity, Sluggishness. सार्ध० ७३, से० १, २४,  
 जल न० (जल) वीर्य Sperma genital; Semen virile वजा० १०२,  
 जलजली पु० (जलाञ्जली) तर्पण, दोनों हाथों में लिया हुआ जल, Presenting water to the names of the deceased or to the Pitris collectively, A religious rite of offering water to the names of the deceased. सुर० ३, २१, कप्प०  
 जलकलव पु० (जलकदम्ब) कदम्ब वृक्ष की एक जाति A kind of tree गडड०  
 जलग पु० (ज्वलक) अग्नि, आग. Fire. पिंड०  
 जलचारण पु० (जलचारण) जिसके प्रभाव से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक शक्ति रखने वाला मुनि. A kind of saint having supernatural power of walking on water just like on earth गच्छा० २,  
 जलजलित्र त्रि० (जलजलित) जल जल शब्द से युक्त Having the sound Jala-Jala सिरी० ६६४,  
 जलणजडि पु० (ज्वलनजटिन्) विद्याधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar lineage पत्र० २, ४६,

जलणमित्त पु० ( ज्वलनमित्र ) स्वनाम  
ख्यात एक प्राचीन कवि. A name of an  
ancient poet गडड०

जलथमिणी. स्त्री० ( जलस्तम्भिनी ) विद्या-  
विशेष A particular science. पडम०  
७, १३६,

जलरकु पु० ( जलरङ्कु ) पक्षि विशेष, ढँक  
पक्षी A kind of bird गा० १७८, गडड०

जलहि पु० ( जलधि ) चार की संख्या The  
number four विवे० १४४,

जलोयर न० ( जलोदर ) रोग विशेष, जलन्धर,  
जडराम A kind of disease सण०

जलोयरी त्रि० ( जलोदरिन् ) जलन्धर रोग  
से पीडित Diopsical राज०

जल्लार पु० ( जल्लार ) (१) स्वनाम प्रसिद्ध  
एक अनार्य देश A name of an Anarya  
country. (२) जल्लार देश का निवासी  
An inhabitant of the Jalla  
country इक०

जव. पु० न० ( यव ) एक देव विमान An  
aeroplane देवेन्द्र० १४०,

जवण. न० ( जपन ) जाप, पुन पुन मन्त्र का  
ब्यारण. Repeating in a muttering  
manner and telling the beads of  
a rosary पडम० ८६, ६०, स० ६,

जवण स्त्री० ( यावनी ) (१) यवन की स्त्री A  
wife of Yavana (२) यवन की लिपि.  
Yavani language विशेष० ४६४ टी,

जवणी स्त्री० ( यवनी ) परदा, आच्छादक पट  
A veil, A curtain (२) संचारिका, दूती.  
A female messenger, A female  
go-between अग्नि० २७

जवमज्ज. न० ( यवमज्ज ) (१) तप विशेष A  
kind of austerity पडम० २२, २४,

जवस न० ( यवस ) तृण, घास Glass उप०  
२८ टी, उप० पृ० ८४,

जवा स्त्री० ( जपा ) गुडहल का फूल. A kind  
of flower रुमा०

जवञ्ज. त्रि० ( जपित ) जिसका जाप किया गया  
हो वह Muttered, Repeated inter-  
nally. प्रकरण विरि० ३६६, (२) न० अच्य-  
यन, प्रकरण A chapter सुख० २, १३,

जविय. त्रि० ( यापित ) (१) गमित, गुजारा  
हुआ Passed (२) नाशित Destroyed,  
Ruined कुमा०

जह, अ० ( यत्र ) जहा, जिसमें Where.  
हे० २, १३१,

जहणा स्त्री० ( हान ) परित्याग Abandon-  
ing, Quitting सबोध० २६,

जहिच्छया. स्त्री० ( यच्छ्या ) मर्जी, स्वेच्छा,  
स्वच्छदता. Self-will, Acting as one  
likes विशेष० ३१६,

जहिद्विल पु० ( युधिष्ठिर ) पाण्डु राजा का ज्येष्ठ  
पुत्र, जेष्ठ पाण्डव Yudhishthira, the  
eldest son of the king Pandu हे०  
१, १०७, प्राप्र०

जाआ स्त्री० ( यावृ ) देवर-भार्या. The wife  
of husband's younger brother.  
प्राकृ० ४३,

जाइ त्रि० ( याजिन् ) यज्ञ-कर्ता A sacrificer.  
दसनि० १, १४६,

जाइ स्त्री० ( जाति ) सामान्य नैयायिकों के मत  
से एक धर्म विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य  
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व. ( In logic ).  
The properties which are pe-  
culiar to a class and distinguish  
it from all others, the essential  
characteristics of a species, as  
गोत्व, अश्वत्व of cows, horses etc.  
विशेष० १६०१,

जाइ स्त्री० ( जाति ) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध दूषणा-  
भास, असत्य दूषण Futile answer.

धर्मसं २६०, सं ७११,  
जाइणी स्त्री० (याकिनी) एक जैन साध्वी, A  
female Jaina saint उप० १०३६,  
जाइयन्व. न० (यात्न्य) गमन, गति Going,  
Motion सुख० २, १७,  
जाईअ त्रि० (जातीय) जाति-सम्बन्धी, Re-  
lating to the caste श्रावक० ४०,  
जाउ अ० (जातु) (१) कदाचित्, कभी If,  
Perhaps उक्कु० ११, (२) किसी तरह  
Any how उप० १४७, —करण पु०  
(कर्ण) पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र The  
lineage of the Purva-Bhadra-  
pada constellation इक०  
जाउ. स्त्री० (यातृ) (१) देवर-पत्नी The  
wife of the husbands younger  
brother (२) त्रि० जाने वाला A goer.  
सत्ति० ४,  
जाउहाण पु० (यातुधान) राक्षस, A demon,  
A giant उप० १०३१ टी, पात्र०  
जागदअ त्रि० (जागरूक) जागता Watch-  
ful धर्मवि० १३२,  
जाजावर. त्रि० (यायावर) गमनशील, विनश्वर  
Perishable, Mortal समस्त० १७४,  
जाणई स्त्री (जानकी) सीता, राम पत्नी  
Sitā, the wife of Rama पउम०  
१०६, १८, से० ६, ६,  
जाणावणा-जाणावणी स्त्री० (ज्ञानी)  
विद्या विशेष A kind of science. उप०  
पृ० ४२, महा०  
जाणाविय त्रि० (ज्ञापित) जनाया, विज्ञापित,  
मालूम कराया, निवेदित Made known,  
Announced, Declared सु० च०  
३२६, श्रावम०  
जाणि त्रि० (ज्ञानिन्) ज्ञाता, जानकार.  
Learned, Versed कुमा०  
जाणे अ० (जाने) उत्प्रेक्षा-सूचक अन्यय,

मानो An adverb signifying  
conjecture अभि० २५०,  
जाम पु० (याम) त्रि० यम सम्बन्धी, यमराज  
का Relating to Yama सु० च० ४०५,  
—दिसा स्त्री० (दिश) दक्षिण दिशा The  
south सु० च० ४०५,  
जामग्गहण न० (यामग्रहण) प्रहरिकत्व,  
पहरेदारी Watching सुख० २, ३१,  
जामि स्त्री० (जामि) बहिन, भगिनी A  
sister राज०  
जामिग. पु० (यामिक) प्राहरिक, पहरेदार. A  
watchman. उप० ८३३,  
जामिणी स्त्री० (यामिनी) रात्रि, रात. A  
night. उप० ७२८ टी,  
जामेअ पु० (यामेय) भानजा, भागिनेय A  
sister's son धर्मवि० २२,  
जायग त्रि० (याचक) मागने वाला, Beg-  
ging, Asking (२) भिचुक A beggar,  
A mendicant सु० च० ४१०,  
जार. पु० (जार) उपपत्ति A paramour  
हे० १. १७७,  
जाला अ० (यदा) जिस समय, जिस काल में,  
When हे० ३, ६२,  
जालाविअ. त्रि० (ज्वालित) जलाया हुआ  
Kindled, Inflamed सुपा० १८६,  
जालिय. त्रि० (जालिक) जाल-जीवि, वायुरिक  
A catcher of deer by a net गवड०  
जालिय त्रि० (ज्वालित) जलाया हुआ, सुल-  
गाया हुआ Kindled, Inflamed उव०  
उप० २६७ टी,  
जालुग्गाल. पु० (जालोद्गाल) मछली पकडने  
का साधन विशेष An iron cord to  
catch fish अभि० १८३,  
जावग त्रि० (यावक) अलक्तक, अलता, लाल  
का रंग Lac; Red dye सु० च० ६६,  
जावण न० (यापन) (१) बीताना, गुजारना.

Passing ( २ ) दूर करना, हटाना, Re-  
moving उप० ३२० टी,  
जावणा. स्त्री० ( यापना ) देखो 'जावण' शब्द.  
Vide ' जावण' उप० ७२८ टी,  
जावणिका, त्रि० ( यापनीय ) जो बिताया जाय,  
गुजरने योग्य Passable ( २ ) शक्ति युक्त  
Strengthly पडि० -तत न०(तन्त्र) ग्रन्थ  
विशेष A particular volume धर्म० २,  
जिअ त्रि० ( जित ) परिचित Familiar,  
Intimate with विशे० १६७२, —प्य.  
पु० ( आत्मन् ) जितेन्द्रिय, सयमी One  
who has conquered his passions  
or subdued the senses सु० च०  
२७२  
जिघिअ त्रि० ( घ्रात ) सूषा हुआ Smelt  
पाअ०  
जिभिया. स्त्री० ( जूम्भा ) जम्माई, मुख विकास  
Yawning, Gaping सु० च० २८३,  
जिगीसा स्त्री० ( जिगीषा ) जय की इच्छा  
Desire for victory कुप्र० २७८,  
जिह्. पु० ( ज्येष्ठ ) मास-विशेष The  
month Jyestha राज०  
जिह्वाणी. स्त्री० ( ज्येष्ठा ) जेठानी The wife  
of the husband's elder brother  
सु० च० ४८७,  
जिह्वाणी स्त्री० ( ज्यैष्ठी ) जेठ मास की अमावस  
The new-moon day of the month  
Jyestha सहि० ७८ टी,  
जिण्ण. न० ( जयन ) जय, जीत Victory  
सण०  
जिण्णदास पु० ( जिनदास ) स्वनाम ख्यात एक  
जैन मुनि और ग्रन्थकार, निशीथ सूत्र का  
चूर्णिकार Name of a Jaina saint  
and author निसी० च० २०,  
जिण्ण-पचयण न० ( जिन प्रवचन ) जैन आगम,  
जिन देवप्रणीत शास्त्र Jaina scriptures

विशे० १३२०,  
जिण्णपद. पु० ( जिनप्रभ ) एक जैन आचार्य  
A Jaina preceptor ती० ५,  
जिण्णभद्र पु० ( जिनभद्र ) स्वनाम प्रसिद्ध जैन  
आचार्य और ग्रन्थकार Name of a  
Jaina Acharya and author आव० ४,  
जिण्णिय. त्रि० ( जित ) पराभूत, वशीकृत.  
Defeated सुपा० २२२, रयण० २७,  
जिण्ण. त्रि० ( जीर्ण ) पचा हुआ Digested.  
( २ ) वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged वृह० १,  
जिण्णु त्रि० ( जिण्णु ) ( १ ) जित्वर, जीतने  
वाला, विजयी Victorious, Trium-  
phant प्रामा० ( २ ) पु० अर्जुन, मध्यम  
पादव Arjuna गडड० ( ३ ) जिण्णु;  
श्रीकृष्ण. Shree Krishna, God  
Vishnu ( ४ ) सूर्य, रवि The sun ( ५ )  
इन्द्र, देव नायक The lord of gods  
हे० २, ७२,  
जित्तिअ-जित्तिल. त्रि० ( यावत् ) जितना As  
much हे० २, १२६, पद्०  
जिज्ञासिय त्रि० ( जिज्ञासित ) जानने के लिए  
इष्ट, जानने के लिए चाहा हुआ Wished  
to know भास० ७२,  
जिन्म पु० ( जिह्म ) एक नरक-स्थान A hell.  
देवेन्द्र० ६२६,  
जिमण न० ( जेमन ) जीमन, भोजन Food.  
आ० १६, चैन्म्य० २६,  
जीअ स्त्री० ( ज्या ) ( १ ) धनुष की डोर A  
string of a bow कुमा० ( २ ) पृथिवी;  
भूमि The earth ( ३ ) माता, जननी.  
The mother हे० २, ११२, पद्०  
जीरण न० ( जीर्ण ) ( १ ) अन्न-पाक Digest-  
ing ( २ ) त्रि० पचा हुआ Digested  
पिंड० २७,  
जीव पु० ( जीव ) बृहस्पति, सुर-गुरु Name  
of the preceptor of the gods.

सु० च० १०८,  
 जीव, न० ( जीव ) सात दिन का लगातार  
 उपवास Seven fasts at a time  
 संबोध० १८, — विसिद्ध, न० ( विशिष्ट )  
 देखो ऊपर का अर्थ. Vide above.  
 जीचग पु० ( जीवक ) ( १ ) पक्षि-विशेष A  
 kind of bird उप० १८०, ( २ ) नृप-  
 विशेष A name of a king तिरथ०  
 जीवमजीव पु० ( जीवाजीव ) चेतन और जड  
 पदार्थ An animate and inanimate  
 thing आवम०  
 जीवा स्त्री० ( जीवा ) जीवन, जीना Living  
 विशेष० ३५२१,  
 जीवाउ पु० ( जीवातु ) जिलाने वाला औषध,  
 जीवनौषध A tonic food कुमा०  
 जीवाविय, त्रि० ( जीवित ) जिलाया हुआ  
 Saved one's life उप० ७६८ टी,  
 जीह्याल त्रि० ( जिह्यावत् ) लम्बी जीभ वाला  
 Having a long tongue पउम० ७,  
 १२०, नगि० ८, सुर० २, ६२,  
 जीहावित्र त्रि० ( लज्जित ) लजा युक्त किया  
 गया, लजाया गया, Ashamed कुमा०  
 जुअइ स्त्री० ( युवति ) तरुणी, जवान स्त्री० A  
 young woman गउड० कुमा०  
 जुअय न० ( युतक ) जुदा, पृथक् Separation  
 दे० ७, ७३,  
 जुअरज्ज न० ( यौवराज्य ) युवराजपन An  
 heir-apparent to the throne  
 स० २६८,  
 जुअली स्त्री० ( युगली ) युग्म, जोड़ा A  
 pair, A couple प्राक्० ३८,  
 जुइ पु० ( युगिन् ) स्वनाम ख्यात एक जैन  
 मुनि A name of a Jaina saint  
 पउम० ३२, १७,  
 जुउच्छ्रिय त्रि० ( जुगुप्सित ) निन्दित Cen-  
 sured, Reproached निसी० चू० ४,

जुजगा. स्त्री० ( योजना ) मन, वचन और शरीर  
 का व्यापार Movement of mind,  
 speech and body विशेष० ३३६०,  
 जुगधर, न० ( युगन्धर ) एक जैन आचार्य.  
 Name of a Jaina Acharya आवम०  
 जुगलि त्रि० ( युगलिन ) स्त्री पुरुष के युग्म रूप  
 से उत्पन्न होने वाला A pair, A couple  
 रयण० २२,  
 जुगुच्छ्रया-जुगुच्छ्रा. स्त्री० ( जुगुप्सा ) घृणा,  
 तिरस्कार. Contempt, Hatred स०  
 १६७, प्राप्र०  
 जुगुच्छ्रिय, त्रि० ( जुगुप्सित ) घृणित, निन्दित  
 Caluminated, Contempted कुमा०  
 जुग न० ( युग्म ) युगल, द्वन्द्व, उभय A  
 couple, A pair. कुमा० प्राप्र०  
 जुजभरण, न० ( शोधन ) युद्ध, लड़ाई. A bat-  
 tle, A war सुपा० १२७,  
 जुजिभ्रत्र त्रि० ( युद्ध ) ( १ ) लडा हुआ, जिसने  
 संग्राम किया हो वह Fought से० ११,  
 ३७, ( २ ) न० युद्ध, लड़ाई, संग्राम A war,  
 A battle स० १२६,  
 जुट्ट त्रि० ( जुष्ट ) सेवित Served, प्रामा०  
 जुगण्डुग न० ( जीर्यदुर्ग ) नगर विशेष A  
 city named Junagarha ती० २,  
 जुगहा स्त्री० ( ज्योत्स्ना ) चाँदनी, चन्द्र का  
 प्रकाश Moonlight. सु० च० १२१,  
 जुत्त त्रि० ( युक्त ) उद्युक्त, किसी कार्य में लगा  
 हुआ Engaged in प्रव० ६४,  
 जुअर त्रि० ( घूतकार ) जुअरी जूए का  
 खिलाडी A gambler रमा० भवि० सुपा०  
 ४००,  
 जुअरि. त्रि० ( घूतकारिन् ) जुआ खेलने वाला,  
 जूए का खिलाडी A gambler सु० च०  
 ४००,  
 जुड पु० ( जूट ) कुन्तल, केश-कलाप A  
 collection of hair भवि०

जूय न० (यूप) लगातार छह दिनों का उपवास  
Six fasts at a time संबोध० १८,  
जूरण न० (जूरण) (१) सूखना, झुरना.  
Languishing, Drooping (२) निन्द,  
गर्हण Censure, Contempt राज०  
जूरवण त्रि० (वञ्जन) उगने वाला Decent-  
ful कुमा०  
जूरावित्र त्रि० (क्रोधित) क्रुद्ध किया हुआ,  
(क्रोधित) Wrathful कुमा०  
जूरित्र त्रि० (खिल) खेद-प्राप्त Sorrowful,  
Afflicted पाञ्च०  
जूसिय त्रि० (छुट) क्षपित, क्षीण Dimi-  
nished, Worn away कप्प०  
जूहकाम न० (यूथकाम) लगातार चार दिनों  
का उपवास. Fast for four consec-  
utive days संबोध० १८,  
जेण अ० (येन) लक्षण-सूचक अव्यय An  
adverb signifying character हे०  
२, १८३, कुमा०  
जेत्तिअ-जेत्तिल. त्रि० (यावत्) जितना  
As much as हे० २, १९७, गा० ७१,  
गडड०  
जेम अ० (यथा) जैसे, जिस तरह से In  
the manner, Mentioned, Like.  
सु० च० ३८३,  
जेमणी० स्त्री० (जेमनी) जीमन A feast  
संबोध १७,  
जेमाविय त्रि० (जेमित) भोजित, जिसको  
भोजन कराया गया हो वह Fed उप०  
१३६ टी,  
जोअग. त्रि० (द्योतक) प्रकाशने वाला Shin-  
ing विशेष० १००३,  
जोअण न० (यौवन) युवावस्था, तरुणता  
Jurenility, Youthfulness उप०  
१४२ टी, गा० १६७,  
जोअणा स्त्री० (योजना) जोडना, संयोग करना

Joining उप० पू० ३२१,  
जोआ स्त्री० (द्यो) (१) स्वर्ग. The  
heavens पड० (२), आकाश The sky  
जोइ त्रि० (योगिन्) (१) युक्त, संयोगवाला.  
Connected or endowed with  
(२) चित्त निरोध करने वाला, समाधि लगाने  
वाला. (३) पु० मुनि, यति, साधु A saint,  
An ascetic सु० च० २१६, २१७,  
जोइअ त्रि० (दृष्ट) देखा हुआ, विलोकित  
Seen सुर० ३, १७३, महा० भवि०  
जोइअ त्रि० (योजित) जोडा हुआ Joined.  
स० २६४,  
जोइक पुं० न० (ज्योतिष्क) प्रदीप आदि  
प्रकाशक पदार्थ. Illuminating thing  
eg a lamp etc रभा०  
जोइणी स्त्री० (योगिनी) (१) योगिनी, सन्या-  
सिनी A female ascetic (२) एक  
प्रकार की देवी A kind of goddess  
सति० ११,  
जोइस पु० (ज्योतिष) (१) सूर्य, चंद्र आदि  
देवों की एक जाति A kind of gods,  
the sun, the moon etc कप्प० पचा०  
२, (२) त्रि० ज्योतिष शास्त्र का जानकार,  
जोतिषी An astronomer or astro-  
loger सु० च० १२६,  
जोइसिया पु० (ज्योत्स्न) शुद्ध पक्ष The  
bright half of the month जो० ४,  
जोईस (योगीश) योगिन्द्र, योगि-राज A  
great ascetic स० १,  
जोग.पु० (योग)बल, वीर्य, पराक्रम Streng-  
th, Prowess क० ग० ६, —पिंड पु०  
(पिण्ड) वशीकरण आदि के प्रयोग से  
प्राप्त की हुई भिन्ना Charity obtained  
by enchantment etc. पचा० १३,  
निसी० चू० १३,  
जोगत्थ त्रि० (योगस्थ) योग-निष्ठ, ध्यान-क्षीन,

Engrossed in meditation पत्रम०  
 १८, २३,  
 जोगत्थ पु० ( योगार्थ ) शब्द के अन्वयवर्णों का  
 अर्थ Meaning of words भास० २४,  
 जोगधर त्रि० ( योगधर ) समाधि में कुशल,  
 योगी An ascetic पत्रम० ११६, १७,  
 जोगिन्द. पु० ( योगीन्द्र ) महान् योगी, योगीश्वर  
 A great ascetic रयण० २६,  
 जोगिय. त्रि० ( भौगिक ) यत्र-प्रयोग से बना हुआ  
 Mechanical. उप० पृ० ६४,  
 जोगेस्वरी. स्त्री० ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष. A  
 name of a goddess सण०  
 जोगेसी. स्त्री० ( योगेशी ) विद्या विशेष  
 A particular science पत्रम० ७,

१४२,  
 जोगा त्रि० ( योग्य ) प्रभु, समर्थ, शक्तिमान.  
 Strong, Powerful निसी० चू० २०,  
 जोषिविहाय. न० ( योनिविधान ) उत्पत्ति शास्त्र  
 Engonics विशेष० १७७२,  
 जोरहाल त्रि० ( ज्योत्स्नावत् ) ज्योत्स्ना वाला.  
 चन्द्रिका-युक्त. Having moonlight  
 दे० २, १२६,  
 जोविय त्रि० ( दृष्ट ) विलोकित. Seen स०  
 १४७,  
 जोव्यय न० ( यौवन ) मध्य भाग. The  
 middle से० २, १,  
 जोस पु० ( भोष ) अदसान, अत The end.  
 सूय० १, २, ३, २ टी,

झ

झ पु० ( झ ) तालु स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष  
 A particular palatal consonant  
 प्रामा० प्राय०  
 झ पु० ( झ ) ध्यान Meditation, Con-  
 templation विशेष० ३१६८,  
 झंकार पु० ( झंकार ) नूपुर वगैर की आवाज  
 The sound of anklets etc सुर० ३,  
 १८, पङ्क्ति० सण०  
 झखण. न० ( उपालम्भ ) उपालम्भ, उलाहना  
 To reproach, To blame कुमा०  
 झखावण त्रि० ( सतापक ) सताप करने वाला  
 One who afflicts, One who gives  
 pain कुमा०  
 झखिर त्रि० ( नि श्वसितु ) नि श्वास लेने वाला  
 One who groans कुमा० ७, ४४,  
 झंझणा स्त्री० ( झञ्झना ) झन झन शब्द A  
 sound like zan zan गउड०  
 झंझा स्त्री० ( झञ्झा ) (१) प्रचण्ड वायु-विशेष  
 The tremendous wind गा० १७०,  
 सण० (२) वाद्य-विशेष A kind of musi-

cal instrument राय० १० टी,  
 झटण न० ( भ्रमण ) पर्यटन, परिभ्रमण Peri-  
 egrination, Roaming कुमा०  
 झपण न० ( भ्रमण ) (१) परिभ्रमण, पर्यटन.  
 Roaming, Wandering कुमा० (२)  
 त्रि० भ्रमण-कर्ता A wanderer कुमा० ४,  
 झपा स्त्री० ( झम्पा ) एकदम कूटना, झम्पा पात.  
 A sudden fall सु० च० १६८,  
 झपिञ्च त्रि० ( आच्छादित ) बन्द किया हुआ.  
 Shut पिं० महा०  
 झञ्झर पु० ( झंझर ) (१) वाद्य विशेष, झञ्झ.  
 A kind of musical instrument.  
 (२) पटह, ढोल A large drum (३)  
 कलियुग An iron age (४) नद-विशेष.  
 A name of a river पिं० २१४,  
 झडत्ति अ० ( झटिति ) शीघ्र, जल्दी, तुरन्त.  
 Speed उप० ७२८ टी० महा०  
 झडि. अ० ( झटिति ) शीघ्र, जल्दी, तुरन्त.  
 Speed गा० ६१३,  
 झणज्झणियञ्च त्रि० ( झणझणित ) झनझन

आवाज वाला Having the sound like Zan, Zan. पिं०

भ्रूणभ्रूणाख पु० ( भ्रूणभ्रूणाख ) झन झन आवाज The sound like Zan, Zan. महा०

भ्रूणग त्रि० (स्मारक) चिन्तन करने वाला, ध्यान करने वाला A contemplator. त दु० भ्रूणभ्रूण पु० (क्षरक्षर) निर्भर आदि की क्षर क्षर आवाज The sound like Zar-Zar of a spring. सुर० ३, १०,

भ्रूणण. न० ( चरण ) क्षरना, टपकना, पतन Oozing, Trickling वच० १, भ्रूणणा स्त्री० ( चरणा ) देखो 'क्षरण' शब्द Vide 'क्षरण' आवम०

भ्रूणिय त्रि० ( चरित ) टपका हुआ, गिरा हुआ, पतित Oozed, Trickled ओघ० नि० ७६०,

भ्रूणलक्षिण त्रि० ( दग्ध ) जला हुआ, भस्मी भूत. Buint सुपा० ६२७, है० ४, ३६२, भ्रूणणा स्त्री० ( क्षपणा ) (१) नाश, विनाश Destruction विशेष० ६६१, (२) अध्ययन, पठन Learning विशेष० ६२८,

भ्रूणस पु० ( रूप ) (१) एक देव-विमान An aeroplane देवेन्द्र० १४०, (२) एक नरक स्थान A hell देवेन्द्र० ११,

भ्रूणसय पु० ( रूपक ) छोटा मत्स्य A small fish दे० २, २७,

भ्रूणसिध पु० ( रूपचिह्न ) काम, स्वर Love कुमा०

भ्रूणस्य त्रि० ( ध्यान ) चिन्तित Meditated, Contemplated. सिरि० १२२२,

भ्रूणर त्रि० ( ध्यातृ ) ध्यान करने वाला, चिन्तक, Meditating, Thinking

आव० ४,

भ्रूणड न० ( भ्राट ) (१) लता-गहन, निकुञ्ज, झाड़ी. Thicket पात्र० सुर० ७, २४३, (२) वृक्ष, पेड़. A tree

भ्रूणडण न० ( भ्राटन ) (१) क्षय, क्षीणता Destruction. (२) प्रस्फोटन, भ्राडना. Bending राज०

भ्रूणडावण स्त्री० न० ( झाटन ) क्षडवाना, सफा कराना, मार्जन कराना Making clean. सुपा० ३७३,

भ्रूणणि त्रि० ( ध्यानिन् ) ध्यान करने वाला. A contemplator आरा० ८६,

भ्रूणमल त्रि० ( ध्मात् ) श्याम, काला Black धर्मस० ८०७,

भ्रूणमलिय. त्रि० ( ध्मात् ) काला किया हुआ. Made black कुम० १८,

भ्रूणवण न० ( ध्यापना ) दाह, जलाना, अग्नि सस्कार Burning. आवम०

भ्रूणजत-भ्रूणजमाण त्रि० ( क्षीयमाण ) जो क्षय को प्राप्त होता हो, कृश होता हुआ Perishing से० १, १८, उप० ७२८ टी, कुमा०

भ्रूणदली स्त्री० ( भ्रूणदली ) कीट विशेष A kind of insect गा० ४६४,

भ्रूणसिध त्रि० ( क्षुण्डित ) निन्दित, वृष्टित. Censured, Contempered कुमा०

भ्रूणिय. त्रि० ( स्मृत ) चिन्तित, याद किया हुआ. Meditated, Contemplated भवि०

भ्रूणल्लिआ स्त्री० ( क्षोलिका ) क्षोली, थैली, कोयली A bag दे० ३, २६,

भ्रूणस पु० ( क्षोप ) राशि विशेष, जिसके डालने से समान भागाकार हो वह राशि, A particular number वच० १,



प्रामा० प्राप०

टक. पु० ( टङ्क ) (१) पत्थर काटने का अस्त्र,  
टाकी, छिनी A small chisel से० ५, ३५,  
उप० पु० ३१५, (२) परिमाण विशेष, चार  
मासे का तोल. A kind of measure  
पिंग०

टकार पु० ( टङ्कार ) धनुष का शब्द A  
sound of a bow भवि०

टकिञ्ज त्रि० ( टङ्कित ) टाकी से काटा हुआ.

Cut by a chisel दे० ४, ५०,

टंकिया स्त्री० ( टङ्किका ) पत्थर काटने का अस्त्र,  
टाकी A chisel सम्मत्त० २२०,

टङ्क पु० ( टङ्क ) (१) देश विशेष A name  
of a country हे० १, १६५, (२) त्रि०

टङ्क-देशीय Pertaining to the

country Takka (३) पु० भाट की एक

जाति A caste of bards कुम० १२,

टगर पु० ( टगर ) (१) वृक्ष विशेष, टगर का

वृक्ष A kind of tree (२) सुगन्धित

काष्ठ विशेष A fragrant wood हे० १,  
२०५, कुमा०

टलटलिय त्रि० ( टलटलित ) टल टल आवाज  
वाला Having a sound like tal  
tal उप० ६४८ टी,

टसर पु० ( तसर ) टसर, एक प्रकार का कपड़ा.  
A kind of cloth हे० १, २०५, कुमा०

टिप्पण्य न० ( टिप्पणक ) विवरण, छोटी टीका.

A gloss, A comment. सु० च०

३२४,

टिविडिकिञ्ज त्रि० ( मण्डित ) अलङ्कृत, विभू-  
षित. Decorated, Ornamented  
पाञ्च०

टूवर पु० ( तूवर ) (१) जिसकी दाढ़ी-मूछ न

उगी हो ऐसा चपरासी A young peon

(२) जिसने दाढ़ी मूछ कटवा दी हो ऐसा

प्रतिहार A dool-keeper who has

shaved his mustaches. हे० १,

२०५, कुमा०

## ठ

ठ पु० ( ठ ) मूर्ध स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष  
A particular lingual consonant.

प्रामा० प्राप०

ठकार पु० ( ठकार ) ठ-अक्षर. The word  
'ठ' धर्मवि० २०,

ठक्कुर पु० ( ठक्कुर ) (१) ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत

A Kshatriya, A Rajputa सु० च०

४१२, (२) ग्राम वगैरह का स्वामी, नायक,

मुखिया A leader of a village  
आवम०

ठग पु० ( ठग ) ठग, धूर्त, वञ्चक. A cheater,  
A rogue. कुमा०

ठड्ड त्रि० ( स्तब्ध ) हकावका, कुपित, जह

Stunned हे० २, ३६, वज्जा० ६२,

ठण्य न० ( स्थान ) (१) बंद करना. To

shut, To close पचा० २, २५,

(२) रूकाव, अटकाव To stop, Pre-

venting (३) रोकने वाला One who

prevents उप० ६६६,

ठवणा स्त्री० ( स्थापना ) (१) अनुज्ञा, सम्मति

Permission, Consent (२) पर्वण्य,

आठ दिनों का जैन पर्व विशेष. The

eight holidays of the Jains निसी०

चू० १०,—कुल पु० न० ( कुल ) भिक्षा के लिये

प्रतिषिद्ध कुल Family prohibited

for begging. निसी० चू० ४,

ठवणी स्त्री० ( स्थापनी ) न्यास, न्याय रूपक

देला हुआ द्रव्य To establish आ० १४;

ठाण्य न० ( स्थान ) (१) कुकण्य देश का एक

नगर. A city of Kunkan country.

सिरि० ६३६, (२) तेरह दिन का लगातार  
उपवास A fast for thirteeen con-  
secutive days सबोध० १८,  
टाणग न० (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष.  
A particular motion of the  
body पचा० १८, १९,  
ठावर त्रि० (स्थावर) रहने वाला, स्थायी  
Parmanent, Settled अचु० १३,

ठीण त्रि० (स्त्यान) (१) जमा हुआ.  
Congealed कुमा० (२) ध्वनि कारक,  
आवाज करने वाला. One who sounds.  
(३) न० जमाव Congealing (४)  
आलस्य Idleness (५) प्रतिध्वनि. An  
echo हे० १, ७४, २, ३३,  
टेर. पु० स्त्री० (स्थविर) वृद्ध, वृद्धा Old,  
Aged गा० ८८३, पि० १६६,

ड

ड. पु० (ड) मूर्ध-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष.  
A particular lingual consonant  
प्रमा०, प्राप०  
डत्रोयर न० (दक्रोदर) पेट का रोग विशेष,  
जलोदर Dropsy निसी०चू० १,  
डडगा स्त्री० (दण्डका) दक्षिण देश का एक  
प्रसिद्ध अरण्य. A well-known jungle  
of the Deccan सुख० २, २७,  
डंडारण्य न० (दण्डारण्य) दक्षिण देश का  
एक प्रसिद्ध जंगल, दण्डकारण्य A famous  
forest in the south पउम० ६८, ४२,  
डवर. पु० (डम्बर) आडवर, आटोप. Pomp  
उप० १४२ टी, पिंग०  
डमित्र त्रि० (दाम्भिक) वञ्चक, मायावी,  
कपटी Illusory, Deceptive कुमा०  
पङ्०  
डस पु० (दश) (१) दत-कृत A wound  
made with the teeth (२) सर्प  
आदि का काटा हुआ घाव Snake-bites,  
(३) दोष A fault (४) खण्डन  
Breaking, Refutation (५) दात  
A tooth (६) वर्म, कवच An ailment  
(७) मर्म-स्थान A vital part प्राकृ० १९,  
(८) छुद्र जन्तु विशेष, डास A gadfly,  
A gnat जी० १८,  
डम्भ पु० (दम्भ) दाम, कुश, तृण-विशेष A

kind of grass हे० १, २१७,  
डमडमिय त्रि० (डमडमायित) जिसने डम डम  
आवाज किया हो वह Who has sounded  
'Dum, Dum' सु० च० १५१, ३३८,  
डर. पु० (दर) डर, भय, भीति Fear;  
Danger हे० १, २१७, सख०  
डरिअ त्रि० (त्रस्त) भयभीत, डरा हुआ.  
Terror-struck, Frightened कुमा०  
सुपा० ६५५, सख०  
डसण न० (दशन) (१) दश, दात से काटना.  
A bite, A sting हे० १, २१७, (२)  
दात A tooth कुमा०  
डसिअ त्रि० (दष्ट) डसा हुआ, काटा हुआ.  
Stung. सु० च० ४४१,  
डामर पु० (डामर) स्नानाम ख्यात एक जैन  
मुनि A name of a Jaina saint.  
पउम० २०, २१,  
डामर. त्रि० (डामर) भयकर Terrible;  
Dreadful सु० च० १५१,  
डिंडीर पु० न० (डिण्डीर) समुद्र का झाग;  
समुद्र कफ The foam of the sea.  
सु० च० २२२,  
डिडुयाण न० (डियडुयाण) नगर-विशेष A  
name of a city कुम० १८,  
डित्थ. पु० (डित्थ) (१) काष्ठ का बना हुआ  
हाथी. An elephant made of wood.

(२) पुरुष विशेष, जो श्याम, विद्वान् सुदर, युवा और देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष A man who is black, learned, beautiful, juvenile and handsome भास० ७७,

डोला. स्त्री० (दोला) हिंडोला, झूलना A see saw, A swing हे० १, २१७, पात्र० डोलात्रत त्रि० (दोलायमान) सशय करने वाला, डॉवाडोल Doubtful, Uncer-

tain अत्रु० ७,

डोलाइय त्रि० (दोलायित) सशयित, डॉवाडोल. Doubtful, Uncertain गा० १६६, डोलाविय त्रि० (दोलित) कम्पित, हिलाया हुआ Shaken, Trembled पउम० ३१, १२४,

डोलिर त्रि० (दोलावत्) डोलने वाला, कफने वाला One that trembles कुमा०

### ढ

ढ. पु० (ढ) मूर्ध स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष A particular lingual consonant प्रामा० प्राप०

ढक पु० (ढक्क) कुम्भकार जातीय एक जैन उपासक Name of a Jaina Upasaka of potter-caste विशे० २३०७,

ढढ पु० (ढयढय) एक जैन महर्षि, ढयढय ऋषि A Jaina sage सुख० २, ३१,

ढढण पु० (ढयढन) स्वनाम ख्यात एक जैन मुनि, A name of a Jaina saint. विवे० ३२, पडि०

ढदुल्लण न० (गवेषण) खोज, अन्वेषण Research कुमा०

ढक पु० (ढक्) (१) देश विशेष A name of a country (२) देश विशेष में रहने वाली जाति A human dwelling in that country. भवि० (३) भाट की एक जाति A class of bards उ० पू० ११२, ढणिय त्रि० (ध्वनित) शब्दित, ध्वनित Sounded सुर० १३, ८४, ढिडिडस. न० (ढिडिडस) देव विमान विशेष

An aeroplane इक०

ढिल्ली स्त्री० (ढिल्ली) भारतवर्ष की प्राचीन और अद्यतन राजधानी, ढिल्ली-शहर The ancient and modern capital of Bharatvaisha (India) पिंग०

ढु ढुल्लिअ त्रि० (गवेषित) अन्वेषित, ढूढा हुआ Searched पात्र०

ढुक्किअ त्रि० (ढौकित) (१) उपस्थित Present. (२) मिलित Procured (३) प्रवृत्त Engaged in पिंग.

ढेंक पु० (ढेक्क) पक्षि-विशेष A kind of bird वजा० ३४,

ढोइय त्रि० (ढौकित) (१) भेंट किया हुआ. Rewarded. (२) उपस्थित किया हुआ Presented सु० च० १६८,

ढोयण. न० (ढोकन) उपहार, भेंट A present, A reward सु० च० २८०,

ढोयणिया स्त्री० (ढौकनिका) उपहार. A present, A gift. धर्मवि० ७१,

ढोविय त्रि० (ढौकित) उपस्थापित, उपस्थित किया हुआ. Presented स० १०८,

### ण

ण. पु० (ण-न) मूर्ध-स्थानीय एक व्यञ्जन वर्ण A particular lingual consonant

प्राप० प्रामा०

ण. त्रि० (ण) जानकार, परिदत्त, विचक्षण

Learned, Versed कुमा० २, ८८,  
 शाहराय. न० ( नैरात्म्य ) आत्मा का अभाव  
 Absence of soul — वाद पु० ( वाद )  
 आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला दर्शन,  
 बौद्ध और चार्वाक मत A doctrine of  
 not believing in existence of  
 soul, Philosophy of Baudha and  
 Charvaka धर्मस० ११८२,  
 शागल पु० न० ( लाङ्गल ) एक देव विमान  
 An aeroplane देवेन्द्र० १३३,  
 शांगलि पु० ( लाङ्गलिन् ) बलभद्र, हली  
 Balabhadra, the brother of Shree  
 Krishna कुमा०  
 शागुलि पु० ( लाङ्गलिन् ) वानर, बन्दर A  
 monkey कुमा०  
 शाद. पु० ( नन्द ) गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का  
 पालक गोपाल A protector of Shree  
 Krishna वजा० १२२,  
 शादशा पु० ( नन्दन ) (१) भरतक्षेत्र का भावी  
 सातवाँ वासुदेव The future seventh  
 Vasudeo of Bharat Kshetia  
 सस० १२४, ( २ ) एक देव-विमान An  
 aeroplane देवेन्द्र० १४३,  
 शादशातनय. पु० ( नन्दनतनय ) श्रीकृष्ण.  
 Shree Krishna प्राकृ० २७,  
 शादशा स्त्री० ( नन्दना ) लडकी, पुत्री The  
 daughter प्रा०  
 शादशा स्त्री० ( नन्दनी ) पुत्री, लडकी. The  
 daughter स्तिरि० १४०,  
 शादा. स्त्री० ( नन्दा ) (१) भगवान् ऋषभदेव  
 की एक पत्नी A wife of Lord  
 Rishabhadeo पत्रम० ३, ११६, ( २ )  
 रावण की एक पत्नी. A queen of Rav-  
 ana पत्रम० ७४, १०,  
 शादा स्त्री० ( नन्दा ) भगवान् महावीर के अचल  
 आठ नामक गणधर की माता Name of

the mother of the Gandhara  
 called Achalbhatriee of Lord  
 Mahavira. आवम०

शादावत्त. न० ( नन्दावर्त ) लगातार इक्कीस दिन  
 का उपवास A fast for twenty one  
 consecutive days सबोध० १८,  
 शादि पु० स्त्री० ( नन्दि ) (१) वाञ्छित अर्थ  
 की प्राप्ति Acquisition of the des-  
 ired object (२) मंगल Auspicious.  
 बृह० १, अजि० ३८, ( ३ ) पु० एक जैन  
 मुनि, जो आगामी भव में द्वितीय बलदेव होगा.  
 A Jaina saint who will be the  
 second Baladeo in future पत्रम०  
 २०, १६०,  
 शादिआ पु० ( नन्दि ) जैन मुनि विशेष  
 Name of a Jaina saint कप्प०  
 शादिशी. स्त्री० ( नन्दिनी ) पुत्री, लडकी A  
 daughter पत्रम० ४६, २,  
 शादिवद्धशा पु० ( नन्दिवर्धन ) (१) भगवान्  
 महावीर का जेष्ठ भ्राता The elder  
 brother of Lord Mahavira, कप्प०  
 (२) न० नगर विशेष Name of a city  
 सु० च० ६८,  
 शादिस्सर-शादीसर पु० ( नन्दीश्वर ) एक देव-  
 विमान An aeroplane देवेन्द्र० १४४,  
 शाकार पु० ( शा-नकार ) 'श' या 'न' अक्षर.  
 The word श or न विशेष० २८६७,  
 शाकचर पु० ( नक्तञ्चर ) राक्षस A demon;  
 A ghost ( २ ) चोर A thief ( ३ )  
 बिडाल A cat ( ४ ) त्रि० रात्रि में चलने  
 फिरने वाला A fiend हे० १, १७७,  
 शाकखत्त त्रि० ( नक्षत्र ) (१) क्षत्रिय जाति के  
 अयोग्य कार्य करने वाला Doing harm  
 to the Kshatriya caste धर्मवि० ३,  
 (२) पु० न० एक देव-विमान An aero-  
 plane देवेन्द्र० १४३,

एकवन्तयोमि, पु० ( नक्षत्रनेमि ) विष्णु,  
 नारायण Vishnu, Narayana दे० ४, २२,  
 एकखाउह पु० ( नलायुध ) सिंह A lion  
 कुमा०  
 एकवित्र त्रि० ( नखिन् ) सुंदर नख वाला  
 Having beautiful nails वृह० १,  
 एकगणिका स्त्री० ( नगाणिका ) छन्द-विशेष A  
 verse, A poem पिंग०  
 एकधुस पु० ( नधुप ) इस नाम का एक राजा,  
 A name of a king. पउम० २२, ५५,  
 एकज्ञ न० ( ज्ञत्व ) जानकारी, पढिताई Learn-  
 ing, Wisdom कुमा०  
 एकचंग त्रि० ( नर्तक ) ( १ ) नाचने वाला,  
 Dancer ( २ ) पु० नट, नचवैया A  
 dancer वव० ६,  
 एकज त्रि० ( न्याय्य ) न्याय सगत Just,  
 Equitable प्राक्० १६,  
 एकट. पु० ( नट ) नट, नर्तकों की एक जाति. A  
 dancer कप्प०  
 एकट्टर पु० ( नाट्यकार ) नाटक करने वाला,  
 An actor सण्ण०  
 एकट्टवत्र त्रि० ( नर्तक ) नचाने वाला, One  
 who causes to dance कप्प०  
 एकट्टमत्त. पु० ( नर्तुमत्त ) स्वनाम ख्यात एक  
 विद्याधर. A name of the Vidya-  
 dhar महर०  
 एकट्ट पु० ( नट ) ( १ ) एक नरक स्थान A  
 hell देवेन्द्र० २८, ( २ ) न० पलायन To  
 get away कुम० ३७,  
 एकट्टव त्रि० ( नटवत् ) नट-प्राप्त Ruined,  
 Destroyed राज०  
 एकडाल न० ( ललाट ) कपाल The fore-  
 head हे० १, ४७, २५७, गडड०  
 एकडालिआ स्त्री० ( ललाटिका ) ललाट-शोभा,  
 कपाल में चन्दन आदि का विलेपन A  
 mark of Sandal-wood in the

forehead कुमा०  
 एकडावित्र त्रि० ( गोपित ) ( १ ) व्याकुल किया  
 हुआ Consumed ( २ ) खिन्न किया हुआ.  
 Afflicted सुपा० ३२५,  
 एकडी स्त्री० ( नदी ) लिपि विशेष A  
 particular script विशेष० ४६४,  
 एकडूल न० ( नडडूल ) ( १ ) नगर विशेष A  
 name of a city. मोह० ८८, ( २ ) पु०  
 देश-विशेष A name of a country.  
 ती० १५,  
 एकणु. अ० ( ननु ) ( १ ) अवधारण, निश्चय The  
 determination प्रासू० १६१, निसी०  
 चू० १, ( २ ) वितर्क, A thought ( ३ )  
 प्रश्न A question उप० सण्ण० प्रति० ५५,  
 एकत्त. न० ( नर्तन ) नाच, नृत्य. A dance  
 नाट-शकु० ८०,  
 एकत्ति स्त्री० ( ज्ञप्ति ) ज्ञान Knowledge.  
 धर्मस० ८२८, नदी० ६७ टी,  
 एकत्तिअ. पु० ( नप्तृक ) ( १ ) पौत्र, पुत्र का पुत्र.  
 The grand-son ( २ ) दौहित्र, पुत्री का  
 पुत्र The son of a daughter हे० १,  
 १३७, कुमा०  
 एकत्थियवाह त्रि० ( नास्तिकवादिन् ) आत्मा  
 आदि के अस्तित्व को नहीं मानने वाला A  
 non believer in the existence of  
 soul धर्मवि० ४,  
 एकपहुत्त त्रि० ( अप्रभूत ) अपर्याप्त Incom-  
 plete गडड०  
 एकपहुत्त. त्रि० ( अप्रभवत् ) अपर्याप्त होना  
 Incompetent, Incapable गडड०  
 एकमुइ पु० ( नमुचि ) स्वनाम ख्यात एक मन्त्री.  
 A name of a minister महा०  
 एकमेरु पु० ( नमेरु ) वृक्ष विशेष A kind of  
 tree सुर० ७, १६, म० ६३३,  
 एकम्म. पु० न० ( नर्मन् ) ( १ ) हर्षा, उपहान.  
 A laugh ( २ ) क्रीडा, खेलि. A sport,

A play हे० १, ३२, आ० १४, पात्र० शुद्धमया स्त्री० (नर्मदा) स्वनाम प्रसिद्ध नदी  
Name of a river सु० च० ३८०,  
शुद्धमया स्त्री० (नर्मदा) स्वनाम-ख्यात एक  
राजपत्नी A name of a queen स० ५  
शुद्ध. पु० (नग) वृक्ष, पेड़ A tree हे० १,  
१७७,  
शुद्ध. पु० (नय) (१) न्याय, नीति, Policy,  
Justice विशेष० ३३६२, सु० च० ३४८,  
(२) विधि Course, Method,  
Manner विशेष० ३३६२,  
शुद्धचक्र न० (नयचक्र) एक प्राचीन जैन प्रमाण  
ग्रन्थ An ancient Jaina philoso-  
phical volume सम्मत्त० ११७,  
शुद्धरा. न० (नयन) (१) जानना, ज्ञान Know-  
ing (२) निश्चय Determination  
विशेष० ६१४,  
शुद्धरगणा. स्त्री० (नगराङ्गना) वेश्या, गणिका  
A prostitute, A dancing girl  
आ० २७,  
शुद्ध पु० (नर) अर्जुन, मध्यम पाण्डव Ar-  
juna कुमा०  
शुद्धद्वय पु० (नरकेन्द्रक) नरक स्थान विशेष  
A hell देवेन्द्र० १,  
शुद्धसिंह पु० (नरसिंह) (१) बलदेव  
Baladeo कुम० १०३, (२) एक राजकुमार  
A prince कुम० १०६,  
शुद्धाश्र-शुद्धाच पु० न० (नाराच) (१) लोहमय  
बाण An iron arrow (२) सहन-  
विशेष, शरीर की रचना का एक प्रकार A  
kind of a physical make-up हे०  
१, ६७, (३) छन्दविशेष A poem, A  
verse पिंग०  
शुद्धाश्रय. पु० (नाराश्रय) श्रीकृष्ण, विष्णु  
Shree Krishna, Vishnu पिंग०  
शुद्धि. पु० (नरेन्द्र) गारुडिक, सर्प के विप

को उतारने वाला A cure of snake  
bite स० २१६,  
शुद्धीस पु० (नरेश) राजा, नर-पति. A king  
सुर० १२, ८०,  
शुद्धतम पु० (नरोत्तम) (१) उत्तम-पुरुष.  
The noble Man The best man.  
पठम० ४८, ७२, (२) श्रीकृष्ण Shree  
Krishna सिरि० ४२,  
शुद्धाड न० (ललाट) देखो 'शुद्धाल' शब्द.  
Vide शुद्धाल हे० २, १२३, कुमा०  
शुद्धाडतप. त्रि० (ललाटन्तप) ललाट को  
तपाने वाला One who heats the  
forehead, कुमा०  
शुद्धिण न० (नलिन) लगातार तेईस दिन का  
उपवास A fast for twenty-three  
consecutive days सबोध० २८,  
शुद्धिणोदग पु० (नलिनोदक) समुद्र-विशेष  
The sea दीव०  
शुद्धकारस्त्री स्त्री० (नमस्कारसहित) प्रत्याख्यान  
विशेष, व्रत-विशेष A kind of vow  
सबोध० २७,  
शुद्धरग-शुद्धरगय पु० (नवरङ्ग-क) (१) नूतन  
रङ्ग, नया वर्ण New colour सुर० ३,  
२२, (२) छन्द-विशेष A verse, A poem.  
पिंग० (३) कौसुम्भ रग का वस्त्र A red  
garment गडड० गा० २४१, सुर० ३,  
२२, पात्र०  
शुद्धरति स्त्री० (नवरात्रि) नव दिनों का आश्विन  
मास का एक पर्व The first nine days  
of the Asvina month सट्टि० ७८८ टी०  
शुद्धवहू स्त्री० (नववधू) नवोद्वा, दुलहिन A  
newly married woman हेका० २१,  
सुर० ३, २२,  
शुद्धा अ० (नवा) प्रश्नार्थक अन्वय, अथवा  
नहीं! An interrogative adverb  
रयण० ६७,

शवीण त्रि० ( नवीन ) नूतन, नया New  
मोह० ८३, धर्मवि० १३२,

शबुत्तरसय त्रि० ( नवोत्तरशततम ) एक सौ  
नववाँ. One hundred and ninth  
पउम० १०६, २७,

शवोढा स्त्री० ( नवोढा ) नव-विवाहिता स्त्री,  
दुलहिन A newly married woman.  
काम० १६७,

शन्व, त्रि० ( नव्य ) नूतन, नया, नवीन. New.  
श्रा० २७,

शसिञ्च त्रि० ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, Ruined,  
Perished कुमा०

शस्त्रा स्त्री० ( नासा ) नासिका, घ्राणोन्द्रिय  
The nose नाट-मृच्छ-६२,

शह पु० ( नभस् ) (१) श्रावण मास, The  
Shravana month (२) आकाश  
The sky —अर त्रि० (धर) (१) आकाश  
में विचरने वाला One who moves in  
the sky से० १४, ३८, (२) पु० विद्याधर  
A Vidyadhar सुर० ६, १८६,

शहकेउमडिय, न० ( नभ केतुमण्डित ) विद्या-  
धरों का एक नगर A city of Vidya-  
dharas इक०

शह्रगमा, स्त्री० ( नभोगमा ) आकाश गामिनी-  
विद्या A science by which one  
can go in the sky सुर० १३, १८६,  
शहराल पु० ( नखरिन् ) नख वाला श्वापद  
जन्तु An animal having nails  
उप० ४३० टी,

शहि अ० ( नहि ) निषेधार्थक अव्यय, नहीं A  
negative adverb स्वप्न० ४१, पिंग०  
सण०

शा अ० ( न ) निषेध सूचक अव्यय. A ne-  
gative adverb. गडड०

शाइला स्त्री० ( नागिला ) जैन मुनिओं की शाखा  
A branch of Jaina Saints कप्प०

शाउ त्रि० ( ज्ञात् ) जानकार, जानने वाला.  
Learned, Versed इ० ६,

शाग पु० न० ( नाक ) स्वर्ग, देवलोक The  
heaven, Paradise उप० ७१२,

शागरिञ्च पु० ( नागरिक ) नगर का रहने  
वाला A citizen रमा०

शागरिञ्चा, स्त्री० ( नागरिका ) नगर में रहने  
वाली स्त्री A female citizen महा०

शागरी स्त्री० ( नागरी ) (१) नगर में रहने  
वाली स्त्री A female citizen (२)

लिपि विशेष, हिंदी लिपि Hindi script-  
विशे० ४६४ टी,

शागिणी स्त्री० ( नागी ) (१) नागिन A  
female serpent (२) एक वणिक् पुत्री.

A Bania girl. कुमा० ४०८,

शागी स्त्री० ( नागी ) नागिन, सर्पिणी A  
female serpent आव० ४,

शाडङ्गी स्त्री० ( नाटकिनी ) नर्तकी, नाचने  
वाली स्त्री A female dancer बृह० ३,

शाडि, स्त्री० ( नाडि ) (१) रज्जु, रस्ती A string.  
(२) नाडी, नस, सिरा A vein कुमा०

शाडी स्त्री० ( नाडी ) देखो 'शाडि' शब्द  
Vide 'शाडि' हे० १, २०२,

शाभिनदण पु० ( नाभिनदन ) भगवान् ऋषभ-  
देव Lord Rishabhadeo पउम० ४, ६८;

शाम न० ( नाम ) नमन A bow, Saluta-  
tion विशे० २१७६,

शाम अ० ( नाम ) (१) प्रसिद्धि, ख्याति.  
Renown, Fame, Celebrity कप्प०

(२) अनुज्ञा, अनुमति. Permission,  
Consent विशे०

शामण न० ( नमन ) नमाना, नीचा करना Bow-  
ing down, Bending विशे० ३००८;

शामिय न० ( नामिक ) वाचक शब्द, पद.  
Expressing or signifying word.  
विशे० १००३,

शााय. पु० (न्याय) अक्षपाद-प्रणीत न्याय शास्त्र  
Logic, A system of Hindu philosophy founded by Akshapad  
सुख० ३, १, धर्मवि० ३८, (२) न्याय, नीति  
Justice, Equity (३) व्यपत्ति, प्रमाणा  
Reasoning, Argument पचा० ४,  
विशे०

शााय. पु० (नाक) स्वर्ग, देव-लोक The  
heaven पाञ्च०

शाायकारि त्रि० (न्यायकारिन्) न्याय कर्त्ता  
A judge आया० चू० १,

शाायग. पु० (नायक) हार का मध्य मणि  
The central gem of a neck-lace  
स० ६८६,

शाायगर त्रि० (न्यायकर) (१) न्याय-कर्त्ता  
A judge आ० १४,

शाार पु० (नार) चतुर्थ नरक-पृथ्वी का एक  
प्रस्तर A layer of the fourth hell.  
इक०

शाारइय त्रि० (नारकिः) (१) नरक पृथ्वी में  
उत्पन्न Born in the hell (२) पु० नरक  
का जीव One living in hell हे० १, ७६,

शाारग. पु० (नारङ्ग) (१) वृक्ष-विशेष, शतरे  
का वृक्ष A kind of tree (२) न०  
फल-विशेष, शतरा A kind of fruit  
पठम० ४१, ८, सुपा० २३०, २६३, गडड०  
कुमा०

शाारदीअ त्रि० (नारदीय) नारद-सम्बन्धी  
Relating to Narada प्रयौ० २१,

शाारसिंह त्रि० (नारसिंह) नरसिंह सम्बन्धी.  
Pertaining to Narsinha उप०  
६४४ टी,

शााराय पु० (नाराच) तोलने की छोटी तराजू,  
काटा. A small balance वजा० १२८,  
१२६,

शाारायण. पु० (नारायण) (१) विष्णु, श्रीकृष्ण,

Vishnu, Shree Krishna कुमा० स०  
६२२,

शाारायणी. स्त्री० (नारायणी) देवी-विशेष, गौरी;  
दुर्गा A goddess named Gauri,  
Durga गडड०

शाारिंग न० (नारिङ्ग) नारंगी का फल, मीठा  
नींबू. An orange कम्पू०

शाालय न० (नालक) धूल-विशेष. A kind  
of gambling मोह० ८६,

शााला-शाालि स्त्री० (नाडि) नाडी, नस, सिरा.  
A vein से० ६, २८,

शाालि स्त्री० (नालि) परिमाण विशेष, अजली.  
A kind of measure आवक० ३२,

शाालिपरी स्त्री० (नालिकेरी) नलियर का गाछ,  
The cocoanut tree गडड० पि० १२६;

शााली. स्त्री० (नाली) तीन हाथ और सोलह  
अगुल लंबी लट्टी A stick three  
hands and sixteen fingers  
(inches) long प्रव० ८१,

शााविअ पु० (नापित) नाई, हजाम A  
barber. हे० १, २३०, कुमा० पड्-साला.  
स्त्री० (शााला) नाइयों का अड्डा Hair  
cutting shop आ० १२;

शाासविय. त्रि० (नाशित) नष्ट किया हुआ,  
भगाया हुआ Ruined उप० ३२७ टी, कुमा०

शाासिर त्रि० (नाशितु) नष्ट होने वाला, विनश्वर.  
Penishable, Destructible कुमा०

शााहड पु० (नाहट) एक राजा का नाम. A  
name of a king ती० १२,

शााहल पु० (लाहल) ग्लेच्छ की एक जाति  
A non-Aryan tribe हे० १, २२६;  
कुमा०

शि. अ० (नि) (१) अधो भाग, नीचे Below;  
Under सण० (२) संशय A doubt.  
(३) आदर Honour, Respect (४)  
उपरम, विराम. A pause, Rest (५)



अन्तर्भाव, समावेश Accommodation  
(६) समीपता, निकटता Nearness (७)  
आक्षेप, निन्दा Censure (८) बन्धन  
Bondage (९) निषेध Prohibition  
(१०) दान Alms (११) राशि, समूह A  
collection (१२) मुक्ति, मोक्ष. Salva-  
tion हे० २, २१७, २१८,

शिञ्ज. त्रि० (नीत) ले जाया गया Carried  
away, Took away से० ५, ६, सण०  
शिञ्ज. त्रि० (नीच) नीच, जघन्य, निकृष्ट  
Low, Mean क० ग० ३, ३,

शिञ्जठ पु० (निग्रन्थ) भगवान बुद्ध. Loid  
Budha कुम० ४४२,

शिञ्जत त्रि० (निर्यत्) बाहर निकलता  
Coming out सम्मत० १५६,

शिञ्जव. पु० (नितम्ब) (१) स्त्री की कमर  
का पिछला भाग, कमर के नीचे का भाग  
The buttocks, Posterior (of a  
woman) कुमा० गडड० (२) मूल भाग  
The main part से० ८, १०१,

शिञ्जविणी स्त्री० (नितम्बिनी) (१) सुन्दर  
नितम्ब वाली स्त्री A woman with  
handsome hips (२) स्त्री, महिला  
A woman, A lady कप्पू० पाथ०  
सुपा० ५३६,

निञ्जसणी स्त्री० (निवसनी) वस्त्र, कपडा  
A garment, A cloth प्रव० ६२,

शिञ्जच्छिञ्ज त्रि० (दृष्ट) देखा हुआ Seen  
पाथ०

शिञ्जट् त्रि० (निवृत्त) न्यावृत्त, पीछे हटा  
हुआ Receded धर्म०

शिञ्जट्टि त्रि० (निवर्तिन्) निवृत्त होने वाला  
One who retires धर्मस० ७६४,

शिञ्जड न० (निकट) (१) निकट, समीप,  
पास Proximity, Nearness गा०  
४०२, सु० च० ३५२, (२) पास का, समीप

का. Proximate, Hard by पाथ०  
शिञ्जडिञ्ज त्रि० (निकटिक) समीप-वर्ती,  
पार्श्व में स्थित Stayed in nearness  
or stayed near कप्पू०

शिञ्जण त्रि० (नग्न) नगा, वस्त्र रहित.  
Naked, Nude प्रव० २७१,

शिञ्जमसो अ० (नियमश) निश्चय से;  
Certainly, Positively आ० १४,

शिञ्जमिय त्रि० (नियमित) नियम में रक्खा  
हुआ, नियन्त्रित. Restrained, Con-  
trolled से० ४, ३७,

शिञ्जया स्त्री० (नियता) जम्बू-वृक्ष विशेष;  
जिससे यह जम्बूद्वीप कहलाता है A rose  
apple tree इक०

शिञ्जलाद्दञ्ज-शिञ्जलाविञ्ज-शिञ्जलिञ्ज त्रि०  
(निगडित) साकल से नियन्त्रित, जकडा हुआ.  
Chained गा० ४५४, ५००, पाथ० गडड०  
से० ५, ४८,

शिञ्जदल त्रि० (निज) स्वकीय, आत्मीय.  
One's own महा०

शिञ्जारा न० (निपान) कूप या तालाब के पास  
पशुओं के जल पीने के लिये बनाया हुआ  
जल-कुण्ड A water trough, A  
trough near a well or pond for  
watering cattle उप० ७२८ टी,

शिञ्जामग त्रि० (नयामक) (१) नियम कर्ता;  
नियन्ता. A ruler, A regulator. सु०  
च० ३१६, (२) निश्चायक, विनिगमक One  
who ascertains or determines,  
Decisive, Conclusive दिशे० ३४७०;

शिञ्जामिञ्ज त्रि० (नियमित) नियम में रखा  
हुआ, नियन्त्रित Restrained, Control-  
led स० २६३,

शिञ्जच त्रि० (निष्कृप) निर्दय Cruel,  
Wicked प्रा० २६,

शिञ्जत्रि त्रि० (निवृत्त) परिवेष्टित Wrapped;

Encircled हे० १, १३१,  
 शिउज पु० ( निकुञ्ज ) (१) गहन, लता आदि  
 से निविड स्थान Density, A compact  
 place by creepers कुमा० गा० २१७,  
 शिउचिय त्रि० ( निकुञ्जित ) सकुचित, सकुचा  
 हुआ Contracted गा० २६३, से० ६,  
 १६, पाञ्च० स० ३३२,  
 शिउम पु० ( निकुम्भ ) कुम्भकर्ण का एक पुत्र  
 A son of Kumbhakarna से०  
 १२, ६२,  
 शिउभिला स्त्री० ( निकुम्भिला ) यज्ञ स्थान A  
 place for sacrifice से० १५, ३२,  
 शिउज्ज न० ( न्युञ्ज ) आसन विशेष  
 A kind of seat नदी० १२८ टी,  
 शिउत्त त्रि० ( निवृत्त ) निष्पन्न, सिद्ध  
 Accomplished उत्तर० १०४,  
 शिउत्त त्रि० ( निवृत्त ) विरत, उपरत  
 Retired प्राक्० ८,  
 शिउत्ति स्त्री० ( निवृत्ति ) विराम A pause,  
 Rest. प्राक्० ८,  
 शिउर न० ( नूपुर ) स्त्री के पाव का एक आभ-  
 रण. Anklets हे० १, १२३, कुमा०  
 शिउरंभ न० ( निकुरुम्भ ) समूह, जत्था A  
 collection, A multitude स० ४३७,  
 गा० ४८२ अ० पि० १७७,  
 शिऊढ त्रि० ( निगूढ ) गुप्त, प्रच्छुद्य  
 Concealed, Hidden अञ्चु० ४२,  
 शिओइअ. त्रि० ( नियोजित ) नियुक्त किया  
 हुआ, किसी कार्य में लगाया हुआ  
 Appointed स० ४४२, अभि० ६६,  
 शिओइअ त्रि० ( नैयोगिक ) नियोग-सम्बन्धी  
 Relating to authority or power  
 प्राक्० ६,  
 शिओग पु० ( नियोग ) (१) नियम, आवश्यक  
 कर्तव्य A duty, What ought to be  
 done विशेष० १८७६, (२) अनुयोग, सूत्र

की व्याख्या Comment on scriptures  
 विशेष० (३) सयम, त्याग, Restiant  
 शिओग पु० ( नियोग ) (१) सम्बन्ध.  
 Relation बृह० १; (२) अधिकार-प्रेरण.  
 A command, An order महा० (३)  
 नृप, राजा A king जीत० (४) गाव,  
 ग्राम A village (५) क्षेत्र, भूमि A  
 field बृह० १, —पुर न० (पुर) राजधानी.  
 A capital (२) देश, राष्ट्र A country  
 (३) राज्य A realm जीत०  
 शिओगि त्रि० (नियोगिन्) नियुक्त, आज्ञाप्राप्त,  
 अधिकारी Appointed, Entitled to  
 सु० च० ३७१,  
 शिदय त्रि० ( निन्दक ) निन्दा करने वाला A  
 calumniator, A defamator पञ्च०  
 ६०, २१,  
 शिदिअ त्रि० ( निन्दित ) जिसकी निन्दा की  
 गई हो वह Censured, Calumniated  
 गा० २६७, प्रासू० १२८,  
 शिदा त्रि० ( निन्द्य ) निन्दा योग्य, निन्दनीय  
 Censurable आया चू० १,  
 शिकायण. न० ( निकाचन ) निमन्त्रण An  
 invitation पिंड० ४७२,  
 शिकायणा स्त्री० ( निकाचना ) दापन, दिलाना  
 Causing to give राज०  
 शिकित्तय त्रि० ( निकर्तक ) काट डालने वाला  
 A cutter काल०  
 शिकूणिय त्रि० ( निकूणित ) टेढ़ा किया हुआ,  
 वक्र किया हुआ Bent दे० १, ८८,  
 शिकेयण न० ( निकेतन ) गृह, आश्रय, निवास-  
 स्थान. A residence, A house, A  
 dwelling सुर० १३, २१, महा०  
 शिकोय पु० ( निकोच ) सकोच, सिमट,  
 Contraction दे० ७, १२,  
 शिक्कइअव त्रि० ( निष्कैतव ) कपट-रहित.  
 Frank, Guileless. गा० ८२,

शिकचरण त्रि० ( निष्काञ्चन ) सुवर्ण रहित, धन रहित Destitute of gold or wealth सू० च० १६८,

शिकड, त्रि० ( निष्काण्ड ) काण्डरहित, स्क्न्ध-वर्जित Indivisible (२) अवसर रहित, Destitute of opportunity गा० ४६८,

शिकत त्रि० ( निष्कान्त ) निर्गत, बाहर निकाला हुआ Come out से० १, २६,

शिकति. स्त्री० ( निष्कान्ति ) निष्कमण्य, बाहर निकालना. To come out प्रा० २१,

शिकडिडिय. त्रि० ( निष्कृष्ट ) बाहर खींचा हुआ, बाहर निकाला हुआ Drawn out से० ६०, २१२,

शिकय. पु० ( निष्कय ) (१) बदला, उन्मत्त-पन Recompense, Requital सुपा० ३४१, पउम० ७, १२६, (२) भृति, वेतन, मजूरी Wages हे० २, ४,

शिकरण न० ( निष्करण ) तिरस्कार Contempt, Scorn, Hatred (२) परिभव Defeat (३) विनाश Ruin सर्वोध० १६, शिकरुण त्रि० ( निष्करुण ) करुणा रहित, दया वर्जित Cruel, Merciless. नाट० मालती० ३२,

शिकलक. त्रि० ( निष्कलङ्क ) कलक रहित, बेदाग. Stainless, Blotless से० ४१८, महा० सुपा० २५३,

शिकलुस. त्रि० ( निष्कलुप ) (१) निर्दोष, निर्मल Innocent, Pure (२) निहपद्रव, उपद्रव रहित Harmless, Inoffensive से० १२, ३४,

शिकवड त्रि० ( निष्कपट ) कपट रहित. Guileless, Frank उप० पू० १६०,

शिका. स्त्री० ( नीका ) वाम-नासिका. The left nostril. कुमा०

शिकाम. त्रि० ( निष्काम ) अनिलापा रहित

Desireless, Unambitious. बृह० १, शिकारण्य. त्रि० ( निष्कारणिक ) कारण रहित, हेतु शून्य Reasonless श्रोध० नि० ५,

शिक्रास पु० ( निष्कास ) निकास, बाहर निकालना. Export धर्मवि० १४६,

शिक्रिचिम त्रि० ( निष्कृत्रिम ) अकृत्रिम, असली, स्वाभाविक Natural उप० ६८६ टी,

शिक्रीलिय त्रि० ( निष्क्रीडित ) गमन, गति Going, Motion प्रव० २७१,

शिकुड पु० ( निष्कुट ) तापन, तपाना To heat, Warming राज०

शिकोरण न० ( निष्कोरण ) (१) पात्र बगैर के मुह का बन्द करना To shut the mouth of vessels etc (२) पात्र आदि का तक्षण Pausing of vessels etc. बृह० १,

शिक्व पु० न० ( निष्क ) सुवर्ण, काञ्चन Gold. दे० २, ४७,

शिक्वध त्रि० ( निष्कन्ध ) स्क्न्ध रहित Indivisible गा० ४६८ अ०

शिक्वयाण न० ( निखनन ) गाडना Digging कुम० १६१,

शिक्वत्त त्रि० ( निष्कृत्त ) कृत्त रहित, कृत्रिय-रहित Devoid of Kshtiyas पि० ३१६;

शिक्वय त्रि० ( निखात ) गाडा हुआ Dug कुम० २२,

शिक्वय त्रि० ( निचत ) निहत, मारा हुआ Killed पात्र०

शिक्ववित्र त्रि० ( निचपित ) नष्ट किया हुआ, विनाशित Ruined, Destroyed अ० ३१,

शिक्वेड. पु० ( निष्कवेड ) अश्रमता; नीचता, दुष्टता Meanness, Wickedness. सु० च० २७६,

शिक्वेवण न० ( निष्पेवण ) व्यवस्थापन, नियमन.

Arranging, Proper adjustment  
विशे० ६१२,

शिक्षलेखिय त्रि० (निश्चित) (१) न्यस्त, स्था-  
पित Established (२) मुक्त, परित्यक्त  
Abandoned सण०

शिक्षध्व न० (निखर्व) सरया-विशेष, सौ खर्व  
A particular number राज०

शिग्गद्विय त्रि० (निगदित) नियन्त्रित, Res-  
trained, Controlled हम्मर० ३०,

शिग्गम पु० (निगम) प्रकृष्ट बोध Eminent  
perception विशे० २१८७,

शिग्गमण न० (निगमन) अनुमान प्रमाण का  
एक अवयव, उपसहार ( In logic ) The  
Conclusion in a syllogism, A  
deduction (the fifth member of  
the five-membered Indian sylla-  
gism) दसनि० १,

शिग्गहण न० (निगहन) गोपन, छिपाना  
Concealing, Hiding पचा० १२,

शिग्गद्विअ त्रि० (निगदित) छिपाया हुआ,  
गोपित Concealed, Hidden सु० च०  
२१८,

शिग्गम. पु० (निर्गम) उत्पत्ति, जन्म Pro-  
duction, Both विशे० १२३६,

शिग्गमण न० (निर्गमन) (१) पलायन भाग  
जाना Running away, Retreating

(२) अपक्रमण Flight, Escape वच० १,

शिग्गमिय त्रि० (निर्गमित) (१) गमाया हुआ,  
पसार किया हुआ Passed सम्मत्त० १२३,  
(२) बाहर निकाला हुआ, निस्सारित  
Drawn out आ० १६,

शिग्गय त्रि० (निर्गज) हाथी रहित Devoid  
of elephant भवि०

शिग्गहण न० (निग्रहण) (१) निग्रह, शिक्षा,  
दण्ड Punishment सुर० १६, ७, (२)  
दमन, नियमन, नियन्त्रण, Subjugation,

Restraint प्रासू० १३२,

शिग्गद्विय. त्रि० (निगदित) (१) जिसका निग्रह  
किया गया हो वह Subdued, Res-  
trained, Controlled स० ११२, (२)  
पराजित, पराभूत Defeated आचम०

शिग्गालिय त्रि० (निर्गालित) गलाया हुआ  
Melted उप० पु० ८४,

शिग्गलिय त्रि० (निर्गलित) ध्वस्त, वमन  
किया हुआ Vomitted रा० ३५८,

शिग्घाय. पु० (निर्घात) राक्षस वश का एक  
राजा A king of the demon fami-  
ly पदम० ६, २२४,

शिचिअ त्रि० (निचित) (१) व्याप्त, भरपूर  
Brimful, Plentiful अजि० २,

शिचुल पु० (निचुल) वृक्ष-विशेष, बहुल वृक्ष-  
A kind of tree स० १११, कुमा०

शिञ्चकु त्रि० (निश्चक्षु) चक्षु-रहित, नेत्र-  
हीन, अन्धा Blind पदम० ८२, २१,

शिञ्चालोग त्रि० (नित्यालोक) सर्वदा प्रकाश  
वाला Daily illuminated कण्ठ०

शिञ्चित त्रि० (निश्चिन्त) चिन्ता रहित, बेफिकर  
Careless, Indifferent सु० च० २२२,  
विक्र० ४३, प्रासू० २७,

शिञ्चिट्ट. त्रि० (निश्चेष्ट) चेष्टा-रहित Mo-  
tionless. सुपा० १४,

शिञ्चेयण त्रि० (निश्चेतन) चेतना रहित  
Lifeless महा०

शिञ्चुज्जोअ पु० (नित्योद्योत) नन्दीश्वर द्वीप  
के मध्य का दक्षिण दिशा में स्थित एक अजन-  
गिरि. The Anjangu situated in  
the deccan of the middle of the  
Nandishvai dvipa. प्रव० २६६टी,

शिञ्चोरिक न० (निञ्चौर्य) (१) चोरी का अभाव  
Absence of theft (२) त्रि० चोरी-  
रहित Devoid of stealing उप०  
१३६ टी,

शिकचण त्रि० ( निष्काञ्चन ) सुवर्ण रहित,  
धन रहित Destitute of gold or  
wealth सू० च० १६८,

शिकड, त्रि० ( निष्काण्ड ) काण्डरहित, स्कन्ध-  
वर्जित Indivisible (२) अवसर रहित,  
Destitute of opportunity गा०  
४६८,

शिकत त्रि० ( निष्क्रान्त ) निर्गत, बाहर  
निकाला हुआ Come out से० १, ५६,  
शिकति, स्त्री० ( निष्क्रान्ति ) निष्क्रमण, बाहर  
निकालना To come out प्राक० २१;

शिकडिडिय, त्रि० ( निष्कृष्ट ) बाहर खींचा  
हुआ, बाहर निकाला हुआ Drawn out  
स० ६०, २१५,

शिकय, पु० ( निष्कय ) (१) बदला, उन्मत्त-  
पन Recompense, Requital सुपा०  
३४१, पउम० ७, १०६, (२) भृति, वेतन,  
मजूरी Wages हे० २, ४,

शिकरण न० ( निष्करण ) तिरस्कार Con-  
tempt, Scorn, Hatred (२) परिभव  
Defeat (३) विनाश Ruin सबोध० १६,  
शिकरुण नि० ( निष्करण ) क्रूरता रहित, दया  
वर्जित Cruel, Merciless. नाट०  
मालती० ३२,

शिकलक त्रि० ( निष्कलङ्क ) कलक रहित,  
वेदाग Stainless, Blotless स० ४१८,  
महा० सुपा० २५३,

शिकलुस त्रि० ( निष्कलुष ) (१) निर्दोष,  
निर्मल Innocent, Pure (२)  
निष्पद्रव, स्पद्रव रहित Harmless,  
Inoffensive से० १२, ३४,

शिकचड त्रि० ( निष्कपट ) कपट रहित,  
Guileless, Frank उप० पू० १६०,  
शिकी स्त्री० ( नीका ) वाम-नासिका. The  
left nostril कुमा०

शिकाम, त्रि० ( निष्काम ) अभिलाषा रहित

Desireless, Unambitious, बृह० १,  
शिकारण्य, त्रि० ( निष्कारणिक ) कारण  
रहित, हेतु शून्य Reasonless श्रव०  
नि० ५,

शिक्रास पु० ( निष्क्रास ) निष्कास, बाहर  
निकालना, Export धर्मवि० १४६,

शिक्रित्तिम त्रि० ( निष्कृत्रिम ) अकृत्रिम, असली,  
स्वाभाविक Natural उप० ६८६ टी,

शिक्रीलिय त्रि० ( निष्क्रीडित ) गमन, गति  
Going, Motion प्रव० २७१,

शिक्रुड पु० ( निष्क्रुट ) तापन, तपाना To  
heat, Warming राज०

शिकोरण न० ( निष्कोरण ) (१) पात्र वगैर  
के मुह का बन्द करना To shut the  
mouth of vessels etc (२) पात्र आदि  
का तत्त्वण Pairing of vessels etc  
बृह० १,

शिकख पु० न० ( निष्क ) सुवर्ण, काञ्चन  
Gold. दे० २, ४७,

शिककध त्रि० ( निष्कन्ध ) स्कन्ध रहित  
Indivisible गा० ४६८ अ०

शिकखणाय न० ( निष्खनन ) गाड़ना  
Digging कुम० १६१,

शिकखत्त त्रि० ( निष्कत्त ) कत्त रहित, कत्तिय-  
रहित Devoid of Kshatryas वि० ३१६,

शिकखय त्रि० ( निष्खात ) गाढा हुआ Dug  
कुम० २५,

शिकखय त्रि० ( निष्कत्त ) निहत, मारा हुआ  
Killed पाथ०

शिकखविश्र त्रि० ( निष्कपित ) नष्ट किया हुआ,  
विनाशित Ruined, Destroyed अच्यु०  
३१,

शिकखेड पु० ( निष्खेड ) अधमता, नीचता,  
दुष्टता Meanness, Wickedness. सु०  
च० २७६,

शिकखेवण न० ( निष्केपन ) व्यवस्थापन, नियमन

Arranging, Proper adjustment  
विशेष ११२,

शिक्षणविवरण त्रि० (निश्चित) (१) न्यस्त, स्था-  
पित Established (२) मुक्त, परित्यक्त  
Abandoned सख०

शिक्षणविवरण न० (निश्चय) सख्या-विशेष, सौ खर्व  
A particular number राज०

शिक्षणविवरण त्रि० (निगडित) नियन्त्रित, Res-  
trained, Controlled हमीर० ३०,

शिक्षणविवरण पु० (निगम) प्रकृत बोध Eminent  
perception विशेष २१८७,

शिक्षणविवरण न० (निगमन) अनुमान प्रमाण का  
एक अवयव, उपसहार ( In logic ) The  
Conclusion in a syllogism, A  
deduction (the fifth member of  
the five-membered Indian syllo-  
gism ) दसनि० १,

शिक्षणविवरण न० (निगहन) गोपन, छिपाना  
Concealing, Hiding पचा० १५,

शिक्षणविवरण त्रि० (निगहित) छिपाया हुआ,  
गोपित Concealed, Hidden सु० च०  
११८,

शिक्षणविवरण पु० (निर्गम) उत्पत्ति, जन्म Pro-  
duction, Birth विशेष १५३६,

शिक्षणविवरण न० (निर्गमन) (१) पलायन भाग  
जाना Running away, Retreating  
(२) अचक्रमण Flight, Escape चव० १,

शिक्षणविवरण त्रि० (निर्गमित) (१) गमना हुआ,  
पसार किया हुआ Passed सम्मत० १२३,  
(२) बाहर निकाला हुआ, निस्सारित  
Drawn out आ० १६,

शिक्षणविवरण त्रि० (निर्गज) हाथी रहित Devoid  
of elephant भवि०

शिक्षणविवरण न० (निग्रहण) (१) निग्रह, शिक्षा,  
दण्ड Punishment सुर० १६, ७, (२)  
दमन, नियमन, नियन्त्रण. Subjugation,

Restraint प्रासू० १३२,  
शिक्षणविवरण त्रि० (निगृहीत) (१) जिसका निग्रह  
किया गया हो वह Subdued, Res-  
trained, Controlled स० ११५, (२)  
पराजित, पराभूत Defeated आचम०

शिक्षणविवरण त्रि० (निर्गलित) गलाया हुआ  
Melted उप० पृ० ८४,

शिक्षणविवरण त्रि० (निर्गलित) वान्त, वमन  
किया हुआ Vomitted स० ३५८,

शिक्षणविवरण पु० (निर्वात) राजस वंश का एक  
राजा A king of the demon fami-  
ly पठम० ६, २२४,

शिक्षणविवरण त्रि० (निचित) (१) व्यास, भरपूर  
Bountiful, Plentiful अजि० ५,

शिक्षणविवरण पु० (निचुल) वृक्ष-विशेष, वज्रुल वृक्ष  
A kind of tree स० १११, कुमा०

शिक्षणविवरण त्रि० (निश्चक्षु) चक्षु-रहित, नेत्र-  
हीन, अन्धा Blind पठम० ८२, ५१,

शिक्षणविवरण त्रि० (नित्यालोक) सर्वदा प्रकाश  
वाला Daily illuminated कण०

शिक्षणविवरण त्रि० (निश्चिन्त) चिन्ता रहित, बेफिकर  
Careless, Indifferent सु० च० २२५,  
विक० ४३, प्रासू० २७,

शिक्षणविवरण त्रि० (निश्चेष्ट) चेष्टा-रहित Mo-  
tionless, सुपा० १४,

शिक्षणविवरण त्रि० (निश्चेतन) चेतना रहित  
Lifeless महा०

शिक्षणविवरण पु० (नित्योद्योत) नन्दीश्वर द्वीप  
के मध्य का दक्षिण दिशा में स्थित एक अजन-  
गिरि. The Anjanangi situated in  
the deccan of the middle of the  
Nandishvar dvipa. प्रव० २६६टी,

शिक्षणविवरण न० (निश्चौर्य) (१) चोरी का अभाव  
Absence of theft (२) त्रि० चोरी-  
रहित Devoid of stealing उप०  
१३६ टी,

शिच्छुडम. त्रि० ( निच्छुडन् ) कपट रहित, माया  
वर्जित Candid, Upright सु० च० ३२०,  
शिच्छुडिअ त्रि० ( छिन्न ) काटा हुआ Cut.  
कुमा० स० २२८, गडड०  
शिच्छुडारय त्रि० ( निस्सारक ) सार-रहित Use-  
less, Worthless श्रा० २७,  
शिजतिय त्रि० ( नियन्त्रित ) नियमित, अकुशित  
Restrained, Subdued सुर० ३, ४,  
शिजोजण न० ( नियोजन ) नियुक्ति, कार्य में  
लगाना Appointment, Employing  
उप० १७६ टी,  
शिजजण त्रि० ( निर्जन ) (१) मनुष्य-रहित  
Uninhabited, Unfrequented (२)  
शिजजच त्रि० ( निर्याप ) निर्वाह कराने वाला.  
One who maintains पचा० १५, १४,  
शिजजवणा स्त्री० ( निर्यापना ) निगमन, दर्शित  
अर्थ का प्रस्युच्चारण Vide 'शिगमण' विशे०  
२६३२,  
शिजजविड त्रि० ( निर्यापयित् ) निर्वाह कराने  
वाला One that maintains प्रव० ६४,  
शिजजामण न० ( निर्यापन ) बदला चुकाना  
Retaliating. वच० १,  
शिजजामिय त्रि० ( निर्यामित ) पार पहुँचाया  
हुआ, तारित Saved महा०  
शिजजायण न० ( निर्यातन ) वैर-शुद्धि, बदला.  
Revenge महा०  
शिजजायणा स्त्री० ( निर्यातना ) देयो 'शिजा-  
यण' शब्द Vide 'शिजायण' उप० ४३१ टी,  
शिजजुत्त त्रि० ( निर्युक्त ) (१) सबद्ध, सयुक्त  
Joined, Connected विशे० १०८५,  
(२) खचित, जडित Inlaid, Studded  
(३) प्ररूपित, प्रतिपादित. Explained,  
Expounded. आवम०  
शिजजूह पु० ( निर्यूह ) (१) नीच, झुदि, गृहा-  
च्छादन. A roof (२) द्वार, दरवाजा. A  
door सुर० २, ८३,

शिजजूहग, त्रि० ( निर्यूहक ) अन्यान्तर से उद्धृत  
करने वाला A compiler दसनि० १, १४,  
शिजजूहिअ त्रि० ( निर्यूहित ) रहित Desti-  
tute of प्रव० १३४,  
शिजभरणी स्त्री० ( निर्भरणी ) नदी, तरगिणी.  
A river कुमा०  
शिजभाइय त्रि० ( निध्यात ) (१) दृष्ट, विलो-  
कित Seen, Observed स० ३५२, घण०  
४५, (२) न० दर्शन, निरीक्षण Ob-  
serving महा०  
शिजभाडिय त्रि० ( निर्घाटित ) विनाशित.  
Ruined, Destroyed उप० ६४८ टी,  
शिजभाय. त्रि० ( निध्यात ) दृष्ट, विलोकित  
Observed, Inspected सु० च० ४४८,  
शिजभोडण न० ( छेदन ) छेदन, कर्तन Cut-  
ting, Piercing कुमा०  
शिड्टकिय त्रि० ( निष्टकित ) निश्चित, अवधारित.  
Ascertained, Decided सु० च० २६०,  
शिड्टइअ त्रि० ( चरित ) टपका हुआ Oozed,  
Leaked पात्र०  
शिड्टवण न० ( निष्ठापन ) (१) अत करना,  
समाप्ति Ending, Completing (२)  
नाश कारक, खतम करने वाला. A des-  
troyer सु० च० १६१,  
शिड्टवय त्रि० ( निष्ठापक ) समाप्त करने वाला.  
One who completes श्राव० ६,  
शिड्टीव पु० ( निष्ठीव ) थूक, मूह का पानी  
Spittle, Saliva रमा०  
शिड्टूहावण त्रि० ( निष्ठम्भक ) निश्चेष्ट  
करने वाला, स्तम्भ करने वाला An amazer  
A surprizer. कुमा०  
शिड्टूअ न० ( निष्ठ्यूत ) थूक Spittle,  
Saliva कुलक० ३०,  
शिड्ड न० ( नीड ) पक्षि-गृह A nest. पात्र०  
शिड्डहण न० ( निर्दहन ) जला देना.  
Burning उप० ५६३ टी,

शिरण्ट त्रि० (निर्मट) नाश-प्राप्त Ruined,  
Perished. सुर० ६, ६२,  
शिरण्टय, पु० ( निर्णय ) (१) फैसला.  
Judgment, Verdict सु० च० ६, ६,  
(२) निश्चय, अवधारण Ascertainment,  
Decision हे० १, ६३,  
शिरणास पु० ( निर्णय ) विनाश Ruin,  
Destruction भवि०  
शिरणासिय, त्रि० ( निर्णयित ) Ruined,  
Destroyed सुर० ३, २३१, भवि०  
शिरण्ट त्रि० (निर्मट) निद्रा-रहित Sleep-  
less. गा० ६२६,  
शिरण्टीञ्च त्रि० ( निर्णयित ) निश्चित, नक्की  
किया हुआ Determined, Resolved  
आ० १२,  
शिरण्टीञ्च त्रि० ( निम्नोन्नत ) ऊँचा-नीचा,  
विषम Uneven अभि० २०६,  
शिरण्टेह. त्रि० ( नि स्नेह ) स्नेह-रहित, Desti-  
tute of affection हे० ४, ३६७, सुर० ३,  
२२२, महा०  
शिरण्टिञ्च त्रि० ( निरुद्धित ) टूटा हुआ, छिन्न  
Broken अच्यु० २४,  
शिरण्टिञ्च त्रि० ( निस्तमस ) (१) अन्धकाररहित  
Destitute of darkness (२) अज्ञान  
रहित Devoid of ignorance अजि० ८,  
शिरण्टिस त्रि० ( निस्त्रिशा ) निर्दय, करुणा रहित  
Merciless, Cruel. सु० च० ३१५,  
शिरण्टुल त्रि० ( निस्तुल ) निरुपम, असाधारण  
Uncommon. उप० पृ० २३,  
शिरण्टुल न० ( निस्तुल ) असाधारण रूप से  
Uncommon in beauty सु० च० ३४५,  
शिरण्टुल न० ( निस्तनन ) विजय सूचक ध्वनि.  
A sound signifying success. सुर०  
२, २३३,  
शिरण्टाम त्रि० ( नि स्यामन् ) निर्बल, मंद  
Weak, Feeble सु० च० ४८६,

शिरण्टारग त्रि० ( निस्तारक ) पार जाने वाला, पार  
बतने वाला. One who carries to a  
successful termination सु० १८३,  
शिरण्टारण-शिरण्टिञ्च त्रि० ( निस्तीर्ण ) उत्तीर्ण,  
पार-प्राप्त  
Crossed, Penetrated सु० ३६७,  
शिरण्टरिसिय त्रि० ( निदर्शित ) उपदर्शित, बत-  
लाया हुआ Shown धर्मस० १०००,  
शिरण्टाह. पु० ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक  
नरक स्थान An abode of the third  
hell देवेन्द्र० ८,  
शिरण्टाह पु० ( निदाह ) असाधारण दाह.  
Extreme heat आब० ५,  
शिरण्टेस पु० ( निदेश ) आज्ञा, हुक्म A com-  
mand, An order कुम० ४२६,  
शिरण्टेसिञ्च त्रि० ( निदेशित ) (१) प्रदर्शित.  
Shown (२) उक्त, कथित Said पञ्चम०  
५, १४५,  
शिरण्टभाण न० ( निद्राध्यान ) निद्रा में होता  
ध्यान, दुर्ध्यान-विशेष Meditating in  
the sleep आउ०  
शिरण्ट त्रि० ( निर्वन्द ) द्वन्द्व रहित, क्लेश-वर्जित.  
Dual सुपा० ४५५,  
शिरण्टभ त्रि० ( निर्दम्भ ) दम्भ रहित, कपट रहित.  
Candid, Not hypocritical सु०  
च० १४७,  
शिरण्टलण न० ( निर्दलन ) (१) मर्दन, विदारण.  
Destroying, Devastating. (२)  
त्रि० मर्दन करने वाला A destroyer  
वजा० ४२,  
शिरण्टलिञ्च त्रि० ( निर्दलित ) मर्दित, विदारित  
Besmeared पाञ्च० सुर० ५, २२२,  
सार्च० ७६,  
शिरण्टाञ्च त्रि० ( निद्रात् ) जो नींद में हो. One  
who is sleeping से० १, ५६,  
शिरण्टाञ्च त्रि० ( निर्दाव ) अग्नि रहित Fireless.



से० १, २६,  
 शिवात्र त्रि० ( निर्दाय ) दाय-रहित, पैतृक  
 धन से वञ्चित Destitute of inherit-  
 ance से० १, २६,  
 शिवाइत्र त्रि० ( निद्रित ) निद्रा युक्त Slept  
 महा०  
 शिवाकरी स्त्री० ( निद्राकरी ) लता-विशेष A  
 kind of creeper दे० ७, ३४,  
 शिवाणी स्त्री० ( निद्राणी ) विद्या देवी विशेष  
 A goddess पत्र० ७, १४४,  
 शिवालु त्रि० ( निद्रावत् ) निद्रा वाला  
 Sleeping सञ्चि० २०, पि० २६२, प्राप्र०  
 शिवाच त्रि० ( निर्दाव ) (१) दावानल-रहित  
 Free from conflagration (२)  
 जगल रहित Having no forest स०  
 ६, ४३,  
 शिवाचत्र त्रि० ( निद्राप्रद ) निद्रा देने वाला  
 One giving sleep से० ६, ४३,  
 शिदिट्टु त्रि० ( निर्देश ) निर्देश करने वाला  
 One that points out or indicates  
 विशेष० १२०४,  
 शिदूसण त्रि० ( निर्दूषण ) निर्दोष Inno-  
 cent, Guileless धर्मवि० २०,  
 शिद्देशु पु० ( निर्देश ) (१) विशेष का ग्रन्थिधान  
 Specific mention, Particulariza-  
 tion विशेष० १२२६, (२) निश्चय पूर्वक  
 कथन Ascertainment विशेष० १२२६,  
 शिद्देश त्रि० ( निर्देश ) जिसको देश निकाले की  
 आज्ञा दी हो वह Banished, Exiled  
 पत्र० ४, ८२,  
 शिद्देशु त्रि० ( निर्देशक ) निर्देश करने वाला,  
 Pointing out, Indicating विशेष०  
 १२००, १२०८,  
 शिदोत्थ न० ( निर्दोस्य ) (१) दुःस्थता का  
 अभाव Absence of unhappiness  
 वच० ४, (२) त्रि० स्वस्थ Well in

health, Happy वच० ७,  
 शिद्धरण त्रि० ( निर्धान्य ) धान्य रहित.  
 Destitute of corn तदु०  
 शिद्धमण पु० ( निर्मान ) (१) यत्त विशेष.  
 Name of a demi-god आव० ४, (२)  
 न० तिरस्कार, अवहेलना Disdain,  
 Censure. उप० पृ० ३४६,  
 शिद्धाडाविय त्रि० ( निर्घाटित ) अन्य द्वारा  
 बाहर निकलवाया हुआ Caused to draw  
 out महा०  
 शिद्धाडिय त्रि० ( निर्घाटित ) निस्सारित,  
 निष्कासित Drawn out. पात्र० भवि०  
 शिद्धारण न० ( निर्धारण ) (१) गुण या जाति  
 आदि को लेकर समुदाय से एक भाग का  
 पृथक्करण Specifying or separating  
 one out of many (२) निश्चय,  
 अवधारण Certainly, Ascertain-  
 ment विशेष० ११६८,  
 शिद्धूम न० ( निर्धूम ) (१) एक तरह का  
 अपलक्ष्य A kind of vice. वच० २,  
 (२) त्रि० धूम रहित Smokeless कप्प०  
 पत्र० २३, १०,  
 शिधति स्त्री० ( निधति ) करण-विशेष, जिससे  
 कर्म पुद्गल निबिड रूप से व्यवस्थापित होता  
 है A kind of means of an action,  
 by which Karmas are strongly  
 bounded पत्र० २,  
 शिपडिय त्रि० ( निपतित ) नीचे गिरा हुआ.  
 Fallen down सण०  
 शिष्पद् त्रि० ( निष्पदेश ) (१) प्रदेश रहित.  
 Destitute of Pradesh (An in-  
 divisible unit of a substance) (२)  
 पु० परमाणु An infinitesimal parti-  
 cle, An atom, विशेष०  
 शिष्पद् त्रि० ( निष्पन्द ) चलन-रहित, स्थिर-  
 Steady, Firm से० २, ४२,

शिप्पकल त्रि० ( निष्पन्न ) पक्ष-रहित  
Impartial गडड०  
शिप्पकलवाय त्रि० ( निष्प्रत्यवाय ) ( १ )  
प्रत्यवाय-रहित, निर्विघ्न Free from  
obstructions श्रोत्र० २४ टी, (२) निर्दोष,  
विशुद्ध, पवित्र Pure, Innocent,  
सार्ध० ११७,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्प्रज्ञ ) बुद्धि-रहित, प्रज्ञा-  
शून्य Block-minded. उप० १७६ टी,  
शिप्पकल त्रि० ( निस्पन्न ) पत्र रहित Desti-  
tute of leaves वच० १,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्पसर ) प्रसर-रहित, जिसका  
फैलाव न हो Not spread पि० ३०२,  
शिप्पकल पु० ( निष्पाप ) एक दिन का उपवास  
A fast सबोध० १८,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्पीडित ) दबाया हुआ  
Pressed से० ५, २५,  
शिप्पकल न० ( निष्पुसन ) ( १ ) पोंछना,  
मार्जन Cleansing ( २ ) अभिमर्दन.  
Besmeaning हे० २, ५३,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्पुण्य ) पुण्य रहित.  
Destitute of good deeds कुप्र० ३१८,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्पुण्यक ) ( १ ) पुण्य-रहित  
Devoid of good deeds ( २ ) स्वनाम  
र्यात एक कुल पुत्र A son of Kulkai  
सुपा० ५४५,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्फटित ) ( १ ) विशीर्षा.  
Shattered, Broken to pieces  
( २ ) जिसका मिजाज ठिकाने पर हो One  
whose mind is even ( ३ ) अकुशा-  
रहित Unrestrained उप० १२८ टी,  
शिप्पकल त्रि० ( निष्फल ) फल रहित, निरर्थक  
Fruitless In vain से० १४, २६,  
गा० १३६,  
शिप्पकल न० ( निष्पादन ) निपजाना, निर्माण,  
कृति Producing, Causing आव० ४,

शिप्पकल त्रि० ( निष्फेटिका ) अपहरण,  
चोरी A theft सुख० २, १३, प्रत्र० १०७,  
शिप्पकल पु० ( निष्पेय ) ( १ ) पेपण, पीसना  
To pound, To levigate ( २ ) सघर्ष.  
Auction; Attitition हे० २, ५३,  
शिप्पकल पु० ( निबन्ध ) सम्बन्ध, सयोग.  
Connection, Union विशेष० ६६८,  
शिप्पकल त्रि० ( निविड ) सान्द्र, घना, गाढ.  
Dense गडड० कुमा०  
शिप्पकल त्रि० ( निविडित ) निविड किया  
हुआ, Compacted. गडड०  
शिप्पकल न० ( निमज्जन ) निमज्जन, डूबना.  
To sink, To drown पत्र० १०, ४३,  
शिप्पकल पु० ( निबोध ) ( १ ) प्रकृत बोध, उत्तम  
ज्ञान Excellent knowledge ( २ )  
अनेक प्रकार का बोध Perception of  
many kinds विशेष० २१८७,  
शिप्पकल न० ( निबोधन ) प्रबोध, समझाना.  
To explain पत्र० १०२, ६२,  
शिप्पकल त्रि० ( निर्वाह ) बाहर का, बाहर  
गया हुआ Outward वच०  
शिप्पकल त्रि० ( निर्भ्रान्त ) नि सदेह, सशय  
रहित Doubtless. नि० १४,  
शिप्पकल त्रि० ( निर्भाग्य ) भाग्य रहित, कम  
नसीब Unfortunate, Unlucky सु०  
च० ३८५,  
शिप्पकल त्रि० ( निर्भीक ) भय रहित, निडर.  
Fearless, Undaunted सु० च०  
१४३, २४६, २७२,  
शिप्पकल त्रि० ( निर्भिन्न ) ( १ ) विदारित;  
तोड़ा हुआ. Broken. पात्र० ( २ ) विद्ध.  
Pierced से० ५ ३४,  
शिप्पकल त्रि० ( निर्भीक ) भय रहित  
Fearless, Undaunted से० १३, ७०,  
शिप्पकल पु० ( निर्भेद ) भेदन, विदारण.  
Piercing सुपा० ३२७,

शिब्भेयण. न० (निर्भेदन) देखो 'शिब्भेय' शब्द  
Vide 'शिब्भेय' सुर० २, ६६,  
शिभालिय त्रि० (निभालित) दृष्ट, निरीक्षित.  
Seen, Observed उप० पृ० २८  
शिमिञ्च त्रि० (न्यस्त) स्थापित, निहित.  
Established कुमा० से १, ४२, स० ६,  
७६०,

शिमिण न० (निर्माण) देखो 'शिम्माण'  
शब्द Vide 'शिम्माण'. क० ग० १, २६,  
शिमिच्चि त्रि० (निमित्तिन्) निमित्त शास्त्र  
का जानकार. A fore-teller, An  
astrologer कुम० ३७८,  
शिमिल्ल त्रि० (निमीलित) जिसने नेत्र बंद  
किया हो One who shuts his eyes.  
से० ६, ६१, ११, २०,

शिमिलण न० (निमीलन) अर्चि सकोच  
Shutting the eye-lids, Winking  
सूय० १, २, १, १२, टी०

शिमिस न० (निमिञ्च) एक विद्याधर नगर  
A city of Vidyadharas. इक०

शिमिसि त्रि० (निमेपिन्) आँख मँदने वाला  
One who shuts his eyes सुपा० ४४,

शिमिसि त्रि० (निमेपिन्) आँख मँदने वाला  
One who shuts the eyes सु० च०  
४४,

शिमिइञ्च त्रि० (निर्मित) रचित, कृत,  
Made, Formed गा० २००, ६०० अ०

शिमिथण न० (निर्मथन) (१) विनाश.  
Destruction, Ruin (२) विनाशक  
A destroyer सु० च० ७१,

शिमिसु त्रि० (निश्मश्रु) तरुण, जवान, युवा  
Young, Juvenile दे० ४, ३२,

शिमिञ्चण न० (निञ्चण) विलेपन  
Besmearing भवि०

शिमिञ्चुर त्रि० (निमात्सर्य) मात्सर्य-रहित,  
ईर्ष्या-शून्य, Spiteless उप० पृ० ८४,

शिमिञ्चुञ्च न० (निर्मच्छिक) (१) मच्छिका का  
अभाव Absence of flies (२) विजन;  
निर्जनता Uninhabitance अमि० ६८;  
शिमिञ्जाय त्रि० (निर्मर्जाद) मर्यादा-रहित.  
Limitless दे० १, १३२,  
शिमिञ्जिय त्रि० (निर्माञ्जित) उपलिप्त.  
Smeared स० ७६,

शिमिण त्रि० (निर्मनस्) मन-रहित  
Mindless द्रव्य० १२,

शिमिण्युय. त्रि० (निर्मनुज) मनुष्य रहित.  
Uninhabited सण०

शिमिञ्चण न० (निर्माण) बनवाना, कराना.  
Causing to make कप्प०

शिमिह. पु० (निर्मथ) (१) विनाश Ruin,  
Destruction (२) विनाशक A des-

troyer Destructive, Ruinous भवि०

शिमिहण न० (निर्मथन) (१) विनाश.  
Ruin, Destruction. (२) विनाश-

कारक Destructive, Ruinous;  
सुपा० ७२,

शिमिइय त्रि० (गत) गया हुआ Gone;  
Passed. कुमा०

शिमिण त्रि० (निर्मान) मान रहित  
Humble, Polite से० ३, ४२,

शिमिणञ्च त्रि० (निर्मायक) निर्माण-कर्ता,  
बनाने वाला A maker से० ३, ४६,

शिमिणिञ्च त्रि० (निर्मित) रचित, बनाया  
हुआ. Made कुमा०

शिमिणिञ्च. त्रि० (निर्मानित) अपमानित;  
तिरस्कृत Dishonoured, Insulted-

भवि०

शिमिण्युस त्रि० (निर्मानुष) मनुष्य रहित.  
Uninhabited सुपा० ४४४,

शिमिण्य न० (निर्माय) तप-विशेष, निर्बिकृ-  
तिक तप A kind of austerity-  
सयोध० २८,

शिमिसस. त्रि० ( निर्मिश्र ) मिश्रा हुआ,  
मिश्रित Mixed —बल्ली स्त्री० (बल्ली)  
अत्यन्त नजदीक का स्नान, माता पितावगैरह  
A relative वव० १०,  
शिमिसस त्रि० ( निर्मिश्र ) मिश्रण रहित  
Mixtueless देवेन्द्र० २६०,  
शिमिसस त्रि० ( निर्मुक्त ) मुक्त किया गया  
Set free, Liberated सु० च० १७३,  
शिमिसस पु० ( निर्मोच ) मुक्ति, छुटकारा  
Liberation, Deliverance विशेष०  
२४६८,  
शिमिसस न० ( निर्मोदन ) विनाश Ruin,  
Destruction मै० ६१,  
शिमिसस त्रि० ( निर्मूल्य ) मूल्य रहित  
Valueless कुमा०  
शिमिसस त्रि० ( निर्मोह ) मोह-रहित Free  
from fascination कुमा० आ० १२,  
शिरइसय त्रि० ( निरतिशय ) अत्यन्त, सर्वा-  
धिक Extremely, Too much काल०  
शिरतय त्रि० ( निरन्तक ) अन्त-रहित End-  
less उप० १०३१ टी,  
शिरतराय त्रि० ( निरन्तराय ) (१) निर्बिघ्न,  
निर्बाध Free from obstructions  
(२) व्यवधान रहित, सतत Daily पत्र०  
४४, ६७,  
शिरध त्रि० ( नीरन्ध्र ) छिद्र-रहित Not  
porous विक्र० ६७,  
शिरवर त्रि० ( निरम्बर ) वस्त्र रहित, नन  
Naked, Nude आवम०  
शिरस त्रि० ( निरश ) अश रहित, अखण्ड,  
सपूर्ण Whole, Entire विशेष०  
शिरस्वर त्रि० ( निरस्वर ) मूर्ख, ज्ञान-रहित  
Foolish, A fool कप्प० वजा० ११८,  
शिरगार त्रि० ( निराकार ) आकार रहित  
Void of form or figure सत्रोध० ३८,  
शिरगाल त्रि० ( निरगल ) स्वच्छदी, स्वैरी,

निरकुश Self-willed, Wilful  
Wanton पात्र०  
शिरगाल त्रि० ( निरगल ) रुकावट से रहित.  
Unobstructed, Unrestrained,  
Unimpeded. सु० च० १६२, ४०१,  
शिरच्छण त्रि० ( निरर्चन ) अर्चन रहित.  
Destitute of worship उव०  
शिरण त्रि० ( निर्कर्ण ) ऋण रहित, कर्ज मुक्त  
Free from debt सु० च० २६३, २६६,  
शिरत्थ त्रि० ( निरस्त ) अपास्त, निराकृत  
Cast off, Driven, Expelled वव० ८,  
शिरज्ञय. पु० ( निरन्वय ) अन्वय रहित (In  
logic) Destitute of Anvaya  
(statement of the constant and  
invariable concomitance of the  
Hetu) (middle term) and the  
sadya (Major term) of an  
Indian syllogysm धर्मस० ४६६,  
शिरभिलष्य त्रि० ( निरभिलाष्य ) अनिर्वचनीय,  
वाणी से बतलाने में अशक्य Unut-  
terable, Indescribable, विशेष० ४८८,  
शिरप्पण त्रि० ( निरात्मीय ) अस्वकीय, परकीय.  
Pertaining to another कुप्र० ८६,  
शिरवइक्ष त्रि० ( निरपेक्ष ) अपेक्षा-रहित,  
निस्पृह Desireless, Unambitious  
विशे० ७ टी,  
शिरवग्राह त्रि० ( निरवग्रह ) निरकुश, स्वच्छदी,  
स्वैरी Unrestrained, Self-willed.  
Wanton पात्र०  
शिरवयव त्रि० ( निरवयव ) अवयव रहित,  
निरश Without parts or limbs.  
विशे०  
शिरवयास त्रि० ( निरवकाश ) अवकाश रहित  
Occassionless, Want of oppor-  
tunity गउड०  
शिरवराह त्रि० ( निरपराध ) अपराध रहित.

Faultless, Guiltless, Innocent महा०

शिरवराहि. त्रि० (निरपराधिन्) अपराध रहित Guiltless, Innocent, Faultless आव० ६,

शिरवसक. त्रि० (निरपशङ्क) दु शङ्का-रहित. Not suspicious भवि०

शिरवसर त्रि० (निरवसर) अवसर रहित. Destitute of opportunity गडड०

शिरवसाण त्रि० (निरवसान) अन्त-रहित Endless गडड०

शिरसण. न० (निरसण) निराकरण Prevention चेइय० ७२४,

शिरसि. त्रि० (निरसि) खड्ग रहित Without a sword गडड०

शिरसिअ त्रि० (निरस्त) परास्त, यपास्त Defeated दे० ५, ५६,

शिरहारि त्रि० (निरहारिन्) आहार रहित, उपोषित Fasting, Abstaining from food सु० च० २५२,

शिरहिलास त्रि० (निरभिलाप) इच्छा-रहित, निरीह Desireless, Unambitious गडड०

शिरहेउ-शिरहेउग-शिरहेतुग त्रि० (निहेतु-क) निष्कारण, कारण रहित Useless धर्मस० ४४३, ४९७, ४००,

शिराइय त्रि० (निरायत) लम्बा किया हुआ, विस्तारित. Lengthened, Spread से० ४, ५२, ७, ३६,

शिराउह. त्रि० (निरायुध) आयुध-वर्जित, नि-शस्त्र Devoid of weapon महा०

शिराकरिअ त्रि० (निराकृत) निषिद्ध Prohibited धर्मवि० १४६,

शिरागरिय त्रि० (निराकृत) हटाया हुआ, दूर किया हुआ Removed पठम० ४६, ५१, ६१, ५६,

शिरागस. त्रि० (निराकर्ष) निर्धन, रक. Poor, Indigent निसि० चू० २,

शिरासुवत्ति. त्रि० (निरसुवर्तिन्) अनुसरण नहीं करने वाला One that does not follow (२) सेवा नहीं करने वाला. One that does not serve उच०

शिरालव त्रि० (निरालम्ब) आलम्बन-रहित Supportless गा० ६५, आरा० ८,

शिरावराह त्रि० (निरपराध) अपराध रहित Guiltless, Innocent सु० च० ४२३,

शिरासय त्रि० (निराश्रय) निराधार Without support, Supportless वजा० १५२,

शिरिगिअ त्रि० (निलीन) आश्लिष्ट, आलिङ्गित Embraced कुमा०

शिरिण त्रि० (निऋण) ऋण रहित, कर्जमुक्त Free from debt अ० ३, १, टी०

शिरिणासिअ. त्रि० (गत) यात, गया हुआ. Gone, passed कुमा०

शिरिणासिअ त्रि० (पिष्ट) पीसा हुआ Pounded, Levigated. कुमा०

शिरिशिजिअ त्रि० (पिष्ट) पीसा हुआ. Levigated, Powdered कुमा०

शिरिति स्त्री० (निरिति) एक रात्रि का नाम Name of a night कण्ठ०

शिरिह. त्रि० (निरीह) निष्काम, निस्पृह Wishing nothing, Free from desire कुमा० सु० च० ४२१,

शिरईकय त्रि० (निरुज्जीकृत) नीरोग किया गया Freed from disease, Made healthy उप० ५६७ टी०,

शिरुकठ. त्रि० (निरुक्कण्ठ) उक्कण्ठा रहित, निरुसाह Dissipated, Void of zeal. नाट०

शिरुच्छ्रव त्रि० (निरुस्रव) उलसव-रहित. Devoid of festival अभि० १८६,

शिरुज्जम त्रि० (निरुज्जम) उच्चम रहित, आलसी  
 Idle. सु० च० ३८४,  
 शिरुत्त त्रि० (निरुत्त) अनुक्त Not said  
 सिरि० ८४६,  
 शिरुत्तत्त त्रि० (निरुत्त) विशेष ताप-युक्त,  
 सतत. Extremely warm उव०  
 शिरुत्तम त्रि० (निरुत्तम) अत्यंत श्रेष्ठ The  
 excellent, The best काल०  
 शिरुत्तर. त्रि० (निरुत्तर) उत्तर रहित क्रिया हुआ,  
 परास्त, Silenced सुर० १२, ६६,  
 शिरुवन्त्र त्रि० (निरुपाद्य) शब्द से न कहा  
 जा सके वह, अनिर्वचनीय Undescribable  
 धर्मस० २४१, १३००  
 शिरुवग त्रि० (निरूपक) प्रतिपादक One  
 that proves or explains सम्मत्त०  
 १६०,  
 शिरुवयार त्रि० (निरूपकार) उपकार रहित.  
 Devoid of obligation उव०  
 शिरुवहि त्रि० (निरुपधि) माया-रहित, निष्क-  
 पट Frank, Guileless वसनि० १,  
 शिरुवारिअ त्रि० (गृहीत) उपात्त, गृहीत  
 Taken कुमा०  
 शिरुवालभ त्रि० (निरुपालम्भ) उपालम्भ-  
 शून्य Stainless गडड०  
 शिरुवण न० (निरुपण) (१) विलोकन,  
 निरीक्षण Observance, Inspection  
 उप० ३३७, (२) दिखलाने वाला One that  
 shows पडम० ११, २२,  
 शिरुवणया स्त्री० (निरुपणा) निरुपण  
 Observing, Inspecting उप० ६३०,  
 शिरुत्राविअ त्रि० (निरूपित) गवेपित,  
 जिमकी खोज कराई गई हो वह What is  
 searched स० २३६, ७४२,  
 शिरुविअ त्रि० (निरूपित) (२) देखा हुआ.  
 Seen से० १३, १३, सुपा० ५२३, (०)  
 आलोचना कर कहा हुआ Said after

inspection (२) विवेचित, प्रतिपादित.  
 Proved हे० २, ४०, (४) दिखलाया हुआ.  
 Shown (५) गवेपित Searched प्रारू०  
 शिरुसुअ त्रि० (निरुसुक) उत्कण्ठा रहित  
 Without eagerness गडड०  
 शिरोगाम पु० (निरवनाम) नम्रता रहित,  
 गर्वित, उद्धत Proud, Arrogant उव०  
 शिरोचयार त्रि० (निरुपकार) उपकार को  
 नहीं मानने वाला Ungrateful. ओष०  
 ११३ भा०  
 शिरोवयारि त्रि० (निरुपकारिन्) देखो  
 'शिरोवयार' शब्द Vide 'शिरवयार' उव०  
 शिरोहग. त्रि (निरोधक) रोकने वाला. One  
 that prevents रभा०  
 शिरलयण न० (निलयन) बसति, स्थान A  
 house, A dwelling विशे०  
 शिरलीइर त्रि० (निलेतु) आश्लेष करने वाला  
 भेटने वाला One who embraces कुमा०  
 शिरुक्कण न० (निलयन) छिपना To hide  
 कुप्र० २५२,  
 शिरुच्छण त्रि० (निर्लक्षण) (१) मूर्ख,  
 बेवकूफ Foolish उप० ७६७ टी,  
 (२) अपलक्षण वाला, खराब. Bad  
 Defective. आ० १२,  
 शिरुलज्जिम. पु० स्त्री० (निर्लज्जिमन्) निर्ल-  
 ज्जपन, देशरमी. Shamelessness हे०  
 १, ३५,  
 शिरुलसिअ त्रि० (उल्लासित) उल्लास-युक्त,  
 विकसित Delighted कुमा०  
 शिरुलुअिय. त्रि० (सुक) त्यक्त, छोड़ा हुआ.  
 Abandoned कुमा०  
 शिरुलुत्त त्रि० (निर्लुप्त) विनाशित, Ruined,  
 Destroyed विक्र० २५,  
 शिरुलूरण न० (छेदन) छेद, विच्छेद A  
 cut कुमा०  
 शिरुलूरिय त्रि० (छिन्न) काटा हुआ, विच्छिन्न.

Faultless, Guiltless, Innocent  
महा०  
शिरवराहि. त्रि० (निरपराधिन्) अपराध रहित  
Guiltless, Innocent, Faultless  
आव० ६,  
शिरवसक त्रि० ( निरपशङ्क ) दु शङ्का-रहित.  
No० suspicious भवि०  
शिरवसर त्रि० ( निरवसर ) अवसर रहित.  
Destitute of opportunity गडड०  
शिरवसाण त्रि० ( निरवसान ) अन्त-रहित  
Endless गडड०  
शिरसण. न० ( निरसण ) निराकरण  
Prevention चेद्वय० ७२४,  
शिरसि. त्रि० ( निरसि ) खड्ग रहित With-  
out a sword गडड०  
शिरसिञ्च त्रि० ( निरस्त ) परास्त, अपास्त  
Defeated दे० ५, ५६,  
शिरहारि त्रि० ( निराहारिन् ) आहार रहित,  
उपोषित Fasting, Abstaining from  
food सु० च० २५२,  
शिरहिलास त्रि० ( निरभिलाष ) इच्छा-रहित,  
निरीह Desueless, Unambitious  
गडड०  
शिरहेउ-शिरहेउग-शिरहेतुग त्रि० (निहेतु-क)  
निष्कारण, कारण रहित Useless धर्मस०  
४४३, ४१७, ४००,  
शिराइय त्रि० ( निरायत ) लम्बा किया हुआ,  
विस्तारित. Lengthened, Spread से०  
४, ५२, ७, ३६,  
शिराउह. त्रि० ( निरायुध ) आयुध-वर्जित, नि-  
शस्त्र Devoid of weapon महा०  
शिराकरिञ्च त्रि० ( निराकृत ) निषिद्ध Pro-  
hibited धर्मवि० १४६,  
शिरागरिय त्रि० ( निराकृत ) हटाया हुआ, दूर  
किया हुआ Removed पठम० ४६, ५१,  
६१, ५६,

शिरागस. त्रि० ( निराकषे ) निर्धन, रक Poor,  
Indigent निसि० चू० २,  
शिरायुवत्ति त्रि० ( निरजुवतिन् ) अनुसरण  
नहीं करने वाला One that does not  
follow (२) सेवा नहीं करने वाला. One  
that does not serve उच०  
शिरालव त्रि० ( निरालम्ब ) आलम्बन-रहित  
Supportless गा० ६५, आरा० ८,  
शिरावराह त्रि० ( निरपराध ) अपराध रहित  
Guiltless, Innocent सु० च० ४२३,  
शिरासय त्रि० ( निराश्रय ) निराधार With-  
out support, Supportless वजा०  
१५२,  
शिरिग्धिञ्च त्रि० ( निस्तीन ) आश्लिष्ट, आलि-  
ङ्गित Embraced कुमा०  
शिरिण त्रि० ( निष्कृण ) ऋण रहित, कर्जमुक्त  
Free from debt डा० ३, १, टी०  
शिरियासिञ्च. त्रि० ( गत ) यात, गया हुआ.  
Gone, passed कुमा०  
शिरियासिञ्च त्रि० ( पिष्ट ) पीसा हुआ  
Pounded, Levigated. कुमा०  
शिरिणिञ्जिञ्च त्रि० ( पिष्ट ) पीसा हुआ  
Levigated, Powdered कुमा०  
शिरिति स्त्री० ( निरिति ) एक रात्रि का नाम  
Name of a night कप्य०  
शिरिगीह. त्रि० ( निरीह ) निष्काम, निस्पृह  
Wishing nothing, Free from  
desire कुमा० सु० च० ४२१,  
शिरईकय त्रि० ( निरुज्जीकृत ) नीरोग किया गया  
Freed from disease, Made  
healthy उप० ५६७ टी०  
शिरुक्कट. त्रि० ( निरुक्कण्ड ) उल्कण्डा रहित,  
निरुसाह Disspirited, Void of zeal  
नाट०  
शिरच्छुव त्रि० ( निरुसव ) उत्सव-रहित  
Devoid of festival अभि० १८६;

शिरुज्जम त्रि० (निरुद्यम) उद्यम रहित, आलसी  
Idle. सु० च० ३८५,  
शिरुत्त त्रि० (निरुक्त) अनुक्त Not said  
सिरि० ८४६,  
शिरुत्तत्त. त्रि० (निरुत्त) विशेष ताप-युक्त,  
सत्तम. Extremely warm उव०  
शिरुत्तम त्रि० (निरुत्तम) अत्यंत श्रेष्ठ The  
excellent, The best काल०  
शिरुत्तर. त्रि० (निरुत्तर) उत्तर रहित किया हुआ,  
परास्त, Silenced सुर० १२, ६६,  
शिरुवक्ख त्रि० (निरुपाध्य) शब्द से न कहा  
जा सके वह, अनिर्वचनीय Undescribable  
धर्मस० २४१, १३००  
शिरुवग त्रि० (निरूपक) प्रतिपादक One  
that proves or explains सम्मत्त०  
११०,  
शिरुवयार त्रि० (निरुपकार) उपकार रहित  
Devoid of obligation उव०  
शिरुवहि त्रि० (निरुपधि) माया-रहित, निष्क-  
पट Frank, Guileless दसनि० १,  
शिरुवारिअ त्रि० (गृहीत) उपात्त, गृहीत  
Taken कुमा०  
शिरुवालम त्रि० (निरुपालम्भ) उपालम्भ-  
शून्य Stanless गडड०  
शिरुवण न० (निरुपण) (१) विलोकन,  
निरीक्षण Observance, Inspection  
उप० ३३७, (२) दिखलाने वाला One that  
shows पउम० ११, २२,  
शिरुवणया. स्त्री० (निरुपण) निरुपण  
Observing, Inspecting उप० ६३०,  
शिरुवाविअ त्रि० (निरुपित) गवेपित,  
जिसकी खोज कराई गई हो वह What is  
searched स० १३६, ७४२,  
शिरुविअ त्रि० (निरुपित) (१) देखा हुआ  
Seen से० १३, १३, सुपा० १२३, (२)  
आलोचना कर कहा हुआ Said after

inspection (२) विवेचित, प्रतिपादित  
Proved हे० २, ४०, (४) टिपलाया हुआ,  
Shown (५) गवेपित Searched प्रारू०  
शिरुसुअ त्रि० (निरुसुक) उत्कण्ठा रहित  
Without eagerness गडड०  
शिरोगाम पु० (निरवनाम) नम्रता रहित,  
गर्वित, उद्धत Proud, Arrogant उव०  
शिरोवयार त्रि० (निरुपकार) उपकार को  
नहीं मानने वाला Ungrateful शोष०  
११३ भा०  
शिरोवयारि त्रि० (निरुपकारिन्) देखो  
'शिरोवयार' शब्द Vide 'शिरवयार' उव०  
शिरोहंग. त्रि (निरोधक) रोकने वाला, One  
that prevents रभा०  
शिलयण न० (निलयन) बसति, स्थान A  
house, A dwelling विशेष०  
शिलीइर त्रि० (निलेतु) आश्रय लेने वाला  
भेटने वाला One who embraces कुमा०  
शिलुक्कय न० (निलयन) छिपना To hide  
कुप्र० २५२,  
शिलुच्चण त्रि० (निर्लक्षण) (१) मूर्ख,  
बेवकूफ Foolish उप० ७६७ टी,  
(२) अपलक्षण वाला, खराब. Bad  
Defective. श्रा० १२,  
शिल्लज्जिम पु० स्त्री० (निर्लज्जिमन्) निर्ल-  
ज्जपन, बेशरमी. Shamelessness हे०  
१, ३५,  
शिल्लसिअ त्रि० (उल्लसित) उल्लास-युक्त,  
विकसित Delighted कुमा०  
शिल्लुच्चिय. त्रि० (मुक्त) त्यक्त, छोड़ा हुआ.  
Abandoned कुमा०  
शिल्लुत्त त्रि० (निलुत्त) विनाशित, Ruined,  
Destroyed विक्र० २५,  
शिल्लूरण न० (छेदन) छेद, विच्छेद A  
cut कुमा०  
शिल्लूरिय त्रि० (छिन्न) काटा हुआ, विच्छिन्न.



Cut, पउम० म, २५८,  
 शिल्लेवग पु० ( निर्लेपक ) रजक, धोबी. A  
 washerman आयाचू० ४,  
 शिल्लेवग न० ( निर्लेपन ) मल को दूर करना.  
 To exciete. वव० १,  
 शिल्लोह. त्रि० ( निर्लोभ ) लोभ रहित  
 Greedless सु० च० ३६१,  
 शिवट्ट त्रि० ( निवृत्त ) (१) निवृत्त, हटा हुआ  
 Detached (२) न० निवृत्ति Detach-  
 ment हे० ४, ३३२,  
 शिवडिर त्रि० ( निपतितृ ) नीचे गिरने वाला  
 One that falls down सुपा० ४६,  
 सण०  
 शिवराण त्रि० ( निपयण ) (१) बैठा हुआ  
 Seated सत्या० ६५, ७३, (२) पु० एक  
 प्रकार का कायोत्सर्ग जिसमें धर्म आदि किसी  
 प्रकार का ध्यान न किया जाता हो वह  
 A form of Meditation आव० ५,  
 (३) जिसमें आर्त और रौद्र ध्यान किया  
 जाय वह कायोत्सर्ग Act of stopping  
 the activities of the body and  
 meditating upon evil things  
 1 e Aita and Raudra medita-  
 tions आव० ५,  
 शिवरणुस्सिय पु० ( निपयणोत्सृत ) कायोत्सर्ग  
 विशेष, जिसमें धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान किया  
 जाता हो वह कायोत्सर्ग Act of stopping  
 the activities of the body and  
 contemplating upon religion  
 and good things आव० ५,  
 शिवत्तय, त्रि० ( निवर्त्तक ) (१) वापिस लौटाने  
 वाला, लौटने वाला One that returns  
 (२) लौटाने वाला, वापिस करने वाला One  
 that sends back. हे० २, ३०, प्राप्र०  
 शिवत्तिअ त्रि० ( निवर्त्तित ) रोका हुआ  
 प्रतिषिद्ध Stopped, Prevented स०

३६४,  
 शिवरुण. पु० ( निवस्य ) वृक्ष विशेष A  
 kind of tree उप० १०३१ टी,  
 शिवसय त्रि० ( निवसित ) जिसने निवास  
 किया हो वह. Dwelt, Resided महा०  
 शिवसिर त्रि० ( निवसितृ ) निवास करने  
 वाला One who dwells. गडड०  
 शिवह पु० न० ( निवह ) समूह, राशि, जटथा  
 A collection, A multitude. से०  
 २, ४२, सु० ३, ३५, प्रासू० १४४, वज्जा०  
 १२२,  
 शिवहिअ. त्रि० ( नष्ट ) नाश प्राप्त Ruined,  
 Perished कुमा०  
 शिवहिअ. त्रि० ( पिष्ट ) पीसा हुआ  
 Levigated. कुमा०  
 शिवाडिर. त्रि० ( निपातयितृ ) नीचे गिराने  
 वाला, One who falls down सण०  
 शिवाण न० ( निपान ) कूप या तालाब के  
 पास पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ  
 जल कुण्ड. A watering place for  
 animals स० ३१२,  
 शिवायण. न० ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध  
 शब्द सिद्धि, प्रकृति आदि के बिना ही विभाग  
 किये अखण्ड शब्द की निष्पत्ति (In  
 grammar) An irregular form of  
 a word विशेष० २३,  
 शिवारग त्रि० ( निवारक ) निषेध करने वाले,  
 रोकने वाला Preventing, Warding  
 off सु० च० ६३६,  
 शिवसि. त्रि० ( निवासिन् ) निवास करने वाला,  
 रहने वाला A resident, One who  
 dwells महा०  
 शिविट्ट त्रि० ( निविष्ट ) स्थित, बैठा हुआ.  
 Seated महा०  
 शिविसिर. त्रि० ( निवेष्ट ) बैठने वाला One  
 who sits. सण०

शिवुदि स्त्री० ( निवृत्ति ) परिवेष्टन Wap-  
ping. प्राकृ० १२,  
शिवेअग त्रि० ( निवेदक ) सम्मान पूर्वक ज्ञापन  
करने वाला One who proclaims. सु०  
च० २६८,  
शिवेअण-शिवेअणाय न० ( निवेदन ) नैवेद्य,  
देवता को अर्पित अन्न आदि. Some  
eatables offered to a deity प० ३२,  
३२, ८३,  
शिवेदइर त्रि० ( निवेदयितृ ) निवेदन करने वाला  
One who informs अभि० १३६,  
शिवेस पु० ( निवेश ) प्रवेश Entrance  
निंसी० चू० ४०,  
शिवेस पु० ( नृपेश ) महान राजा, चक्रवर्ती  
राजा An emperor, Universal  
monarch, Sovereign of the  
world सु० च० ४६३,  
शिव्व. न० ( नीव ) छद्दि, पटल-प्रान्त A tile  
पात्र०  
शिव्वकल त्रि० ( निर्बलकल ) वल्कल रहित  
Without a garment made of the  
inner bark of a tree पि० ६२,  
शिव्वट्टग. त्रि० ( निर्वर्तक ) बनाने वाला, कर्ता  
An author आव० ४,  
शिव्वडिअ त्रि० ( भूत ) पृथग् भूत, जो जुदा  
हुआ हो Separated से० ६, ८८, (२)  
स्पष्टीभूत, जो व्यक्त हुआ हो Clear,  
Plain सुर० ७, १०४,  
शिव्वडिअ त्रि० ( निव्यञ्ज ) सिद्ध, कृत, निवृत्त  
Accomplished पात्र० सुपा० १२२,  
शिव्वय त्रि० ( निवृत्त ) परिणत, परिणाम  
प्राप्त Transformed, Changed into  
दसनि० १,  
शिव्वरण. न० ( कथन ) दुःख निवेदन.  
Narration of unhappiness गा०  
२५५,

शिव्वरिअ त्रि० ( छिन्न ) काटा हुआ, खरिद्धत.  
Cut कुमा०  
शिव्ववण न० ( निर्वापण ) (१) बुझाना, शान्त  
करना To extinguish, To put out  
To pacify (२) शान्त करनेवाला, ताप को  
बुझानेवाला One who extinguishes,  
One who pacifies सुर० ३, २३७,  
शिव्वविअ त्रि० ( निर्वापित ) बुझाया हुआ, उद्द  
किया हुआ Extinguished, Extinct.  
गा० ३१७, सुर० २. ७४,  
शिव्वाघाया स्त्री० ( निर्व्याघात ) एक विद्या  
देवी A certain goddess प० ७,  
१४५,  
शिव्वाण न० ( निर्वाण ) (१) सुख, चैन,  
शान्ति Happiness उप० ७२८ टी,  
(२) बुझाना, विप्यापन. Putting out,  
Extinguished आव० ४, (३) त्रि०  
बुझा हुआ Blown. Extinguishing  
विशे० १६६१,  
शिव्वाय त्रि० ( निर्वाण ) बीता हुआ, व्यतीत.  
Passed से० १४, १४,  
शिव्वाय त्रि० ( विश्रान्त ) (१) जिसने विश्राम  
किया हो वह Reposed कुमा० (२) सुखित,  
निवृत्त Delighted, Pleased से० १३,  
२३,  
शिव्वालिय त्रि० ( भावित ) पृथक् किया  
हुआ Separated, Disunited. से०  
१४, ५४,  
शिव्वाच. पु० ( निर्वाप ) घी, शाक आदि का  
प्रमाण Measure for Ghee, vegeta-  
ble etc निंसी० चू० १,  
शिव्वावणा स्त्री० ( निर्वापणा ) बुझाना, उद्द  
करना, उपशान्ति Extinguishing गड०  
शिव्वासाण न० ( निर्वासन ) देश निकास।  
Banishment, Transportation;  
Exile स० ५३४, कुप्र० ३४३,

शिव्वासणा स्त्री० ( निर्वासना ) देश-निकाला  
 Banished, Exiled पदम० १६, ४१,  
 शिव्वाह. पु० ( निर्वाह ) (१) निभाना,  
 पार-प्राप्ति Maintaining (२) आजीविका,  
 जीवन-सामग्री Maintenance, Suste-  
 nance सुपा० ४८८,  
 शिव्वाहाह्य त्रि० ( निर्वाहक ) निर्वाह करने वाला  
 One who maintains रभा०  
 शिव्वाहित्र त्रि० ( निर्वाहित ) अतिवाहित,  
 विताया हुआ, गुजारा हुआ Passed से०  
 ६, ४२,  
 शिव्विआर त्रि० ( निर्विकार ) विकार-रहित  
 Free from passions गा० ५०६,  
 शिव्विकल्प शिव्विगल्प त्रि० ( निर्विकल्प )  
 सदेह रहित, नि सशय Doubtless कुमा०  
 गच्छ० २,  
 शिव्विगल्पग न० ( निर्विकल्पक ) बौद्ध-प्रसिद्ध  
 प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष, A kind of per-  
 ceptual knowledge in Baudhha  
 logic धर्मस० ३१३;  
 शिव्विघ्न त्रि० ( निर्विघ्न ) विघ्न-रहित, बाधा  
 वर्जित, Free from obstacles सुपा०  
 १८७, सण्ण,  
 शिव्विचिंत त्रि० ( निर्विचिन्त ) चिन्ता-रहित,  
 निश्चिन्त, Free from anxieties,  
 Care-free सुर० ७, १२३,  
 शिव्विदुगु छ त्रि० ( निर्विदुगुप्स ) घृणा-रहित  
 Free from contempt. धर्म० १,  
 शिव्विभाग त्रि० ( निर्विभाग ) विभाग-रहित  
 Divisionless दस० ५,  
 शिव्विचय त्रि० ( निर्विजन ) (१) मनुष्य-  
 रहित, Uninhabited (२) एकान्त-स्थल  
 Solitude, A lonely place सुर०  
 ६, ४२,  
 शिव्विराम त्रि० ( निर्विराम ) विराम रहित  
 Pauseless, Restless उप० पृ० १८३,

शिव्विलव क्रि० वि० ( निर्विलम्ब ) विलंब-  
 रहित, शीघ्र Quickly, Swiftly सु०  
 च० २५५, कुप्र० ५२,  
 शिव्विवेअ त्रि० ( निर्विवेक ) विवेक शून्य,  
 Indiscreet, Wanting in dis-  
 crimination सु० च० ३२३, ५००;  
 गडड० सुर० ८, १८१,  
 शिव्विसक त्रि० ( निर्विशङ्क ) शका रहित,  
 निर्भय Doubtless सुर० १२, १६,  
 शिव्विसय त्रि० ( निर्विषय ) अनर्थक, निरर्थक,  
 Useless पचा० १२, उप० ६२५,  
 शिव्विसिद्ध त्रि० ( निर्विशिष्ट ) विशेषता रहित,  
 समान, तुल्य Similai, Like, Equal.  
 उप० ५३० टी०,  
 शिव्विस्ती स्त्री० ( निर्विषी ) एक महौषधि  
 A kind of medicine ती० ५,  
 शिव्विसेस त्रि० ( निर्विशेष ) अभिन्न, जो  
 जुदा न हो Undivided, United से०  
 १५, ६५,  
 शिव्वीरा. स्त्री० ( निर्वीरा ) पुत्र रहित विधवा  
 स्त्री A widow having no child  
 मोह० ४६,  
 शिव्वुद्ध त्रि० ( निर्व्यूढ ) निर्वाहित, निभाया  
 हुआ. Maintained गा० ३२,  
 शिव्वूढ. त्रि० ( निर्व्यूढ ) (१) जिसका निर्वाह  
 किया गया हो वह Maintained, (२)  
 कृत, विहित, निर्मित Made, Formed  
 गा० २५५, से० १, ४६, (३) जिसने निर्वाह  
 किया हो वह, पार-प्राप्त One who has  
 maintained विवे० ४४, (४) त्यक्त, परि-  
 श्रुक्त Abandoned से० ५, ६२, (५)  
 बाहर निकाला हुआ, निस्सारित Drawn  
 out उप० १३१ टी०, (६) उसी ग्रन्थ से  
 उद्धृत कर बनाया ग्रन्थ A compiled  
 volume दसनि० १, १२,  
 शिव्वेर. त्रि० ( निर्वैर ) वैर-रहित, Free

from revenge अच्यु० १६,  
 शिवेत्तित्र त्रि० ( निर्वेत्तित ) प्रस्फुरित,  
 स्फूर्ति युक्त Active से० ११, १६,  
 शिवेस पु० ( निर्वेष ) द्वेष-रहित Envious  
 Free from envy से० ११, १६,  
 शिवेस पु० ( निर्वेश ) व्यवस्था Man-  
 agement अच्यु० १८,  
 शिवोद्व्य, त्रि० ( निर्वोद्व्य ) निर्वाह योग्य  
 Worthy for maintaining or  
 carrying to the end आव० ४,  
 शिवसग पु० ( निसर्ग ) निसर्जन, त्याग  
 Abandoning, Relinquishing विशेषे  
 शिवसग त्रि० ( नैसर्ग ) स्वभाव से होने वाला,  
 स्वाभाविक Natural सुपा० ६४८,  
 शिवसगिय त्रि० ( नैसर्गिक ) स्वाभाविक  
 Natural सण०  
 शिवसद पु० ( निपथ ) (१) स्वनाम क्यात  
 एक वानर, राम-सैनिक The name of a  
 monkey से० ४, १०, (२) देश-विशेष  
 A country (३) निपथ देश का राजा  
 The king of the Nishadba coun-  
 tly कुमा० (४) स्वर-विशेष A particu-  
 lar musical tone हे० १, २२६, प्राप्र०  
 शिवसरण त्रि० ( निपथ ) कायोत्सर्ग का एक  
 भेद, A way of stopping the acti-  
 vities of the body and medita-  
 ting upon the soul आव० १,  
 शिवसण, त्रि० ( नि सञ्ज ) सज्ञ-रहित  
 Signless से० ६, ३८,  
 शिवसण न० ( निशमन ) श्रवण, आकर्षण  
 Healing हे० १, २६६, गउड०  
 शिवसाण न० ( निशाण ) शान, एक प्रकार  
 का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है  
 A kind of stone used to sharpen  
 implements सु० च० २८,  
 शिवसाणिय, त्रि० ( निशाणित ) शान दिया

हुआ, पेनाया हुआ, तीक्ष्ण किया हुआ  
 Sharpened, Whetted सु० च० १६,  
 शिवसानाह, पु० ( निशानाथ ) चन्द्रमा The  
 moon सु० च० ४१६,  
 शिवसाम त्रि० ( निश्याम ) मालिन्य-रहित,  
 निर्मल Pure, Clean से० ६, ४७,  
 शिवसामि त्रि० ( निशमित ) (१) उपगमित,  
 दबाया हुआ Pressed. (२) समेटा हुआ,  
 सकुचित, Contracted, Compacted  
 स० ३१८,  
 शिवसामि त्रि० ( निगमयितृ ) सुनने वाला  
 A hearer सण०  
 शिवसाय पु० ( निपाद ) चाण्डाल A butch-  
 er. हे० ४, ३५,  
 शिवसायत त्रि० ( निशातान्त ) तीक्ष्ण धार  
 वाला, Sharpened पात्र०  
 शिवसिट्ट त्रि० ( निसृष्ट ) (१) अनुज्ञात  
 Ordered, Commanded वृह० २,  
 (२) बनाया हुआ Made, Formed  
 उप० ६८६ टी,  
 शिवसित त्रि० ( निष्पिक्त ) अत्यन्त सिक्त  
 Profusely sprinkled पद०  
 शिवसिरण न० ( निसर्जन ) निस्सारण,  
 Diving away भास० २,  
 शिवसिद्धि त्रि० ( नैशीथिक ) निज के लिए लाया  
 गया है ऐसा नहीं जाना हुआ भोजनादि पदार्थ  
 Food etc which is thought  
 not to be brought for one's own  
 purpose पिंड० ३३६,  
 शिवसीह पु० ( नृसिंह ) उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ  
 मनुष्य The excellent man कुमा०  
 शिवसीहिणी स्त्री० ( निशीथिनी ) रात्रि, रात  
 A night. उप० पृ० १२७,  
 शिवसुद पु० ( निसुन्द ) रावणका एक सुभट,  
 A warrior of Ravana पवम०  
 १६, २६,

शिसुभ पुं० ( निशुम्भ ) दैत्य-विशेष  
A demon पिंग०  
शिसुभिय, त्रि० ( निशुम्भित ) निपातित,  
व्यापादित Destroyed. सु० च० ४६०,  
शिसुडिअ त्रि ( नत्त ) भार से नमा हुआ  
Bent by burden पाअ०  
शिसुडिअ, त्रि० ( निशुम्भित ) निपातित  
Felled down से० १२, ६१,  
शिसुडिर त्रि० ( नन्न ) भार से नमा हुआ  
Bent by burden कुमा०  
शिसेज्जा स्त्री० ( निपद्या ) वस्त्र, कपड़ा  
A garment, A piece of cloth  
प्रव० १२७ टी,  
शिसेज्ज त्रि० ( निपेध्य ) निपेध-योग्य  
Worthy to be prohibited. धर्म-  
स० ६६३,  
शिसेवि त्रि० ( निपेविन् ) (१) सेवा करने  
वाला One who serves (२) आश्रय  
देने वाला One who seeks the pro-  
tection of स० १०,  
शिसेह पु० ( निपेध ) (१) अपवाद An  
exception शोच० नि० ५५, (२) प्रतिपेध,  
निवारण Prohibition, Atonement  
वप० प्रासू० १८१,  
शिसेहण, न० ( निपेधन ) निवारण, Preven-  
tion आवम०  
शिसेहणा, स्त्री ( निपेधना ) निवारण.  
Preventing, Warding off आव० १,  
शिसस् त्रि० ( निस्व ) निर्धन, धन रहित.  
Pool, Penniless पाअ०  
शिससंजम त्रि० ( निस्सयम ) रुचम-रहित  
Unrestrained पउम० २७, ६,  
शिसससय त्रि० ( नि सशय ) (१) सशय-रहित,  
नि सदेह Undoubted, Certain. (२)  
कि० वि० नि सन्देह, निरुचय Doubtlessly,  
Surely, Certainly भभि० १८४, आवम०

शिससण पुं० ( निस्वन ) शब्द, आवाज  
A sound कुप्र० २७,  
शिससत्त त्रि० ( नि सत्त्व ) धैर्य-रहित, सत्व-हीन  
Unenergetic, Weak, Impotent  
सु० च० ३५६,  
शिससरण त्रि० ( नि शरण ) शरण-रहित,  
त्राय-वर्जित Without protection.  
पउम० ७३, ३२,  
शिससा, स्त्री० ( निशा ) पक्षपात Partiality.  
वव० ३,  
शिससारय त्रि० ( नि सारक ) निकालने  
वाला One who draws out वप०  
२८० टी,  
शिससास पु० ( नि शास ) काल-मान विशेष  
A particular measure of time  
इक०  
शिससहार त्रि० ( नि स्वाधार ) निराधार,  
आलम्बन-रहित, Supportless, Helpless.  
सण०  
शिससिग त्रि० ( नि शृङ्ग ) शृङ्ग-रहित.  
Without horns सुपा० ३१३,  
शिससिरोह त्रि० ( नि स्नेह ) स्नेह रहित.  
Destitute of affection पि० १४०,  
शिससुग त्रि० ( नि शुक ) निर्दय, निष्करुण-  
Cruel, Merciless आ० १२,  
शिह त्रि० ( निम ) (१) समान, तुल्य, सहारा.  
Similar, Like. से० १, ५८, गा० ११४,  
(२) न० बहाना, व्याज, झूठ A pretence.  
पाअ०  
शिहस पु० ( निघर्ष ) घर्षण A friction;  
Attrition. गउड०  
शिहसण न० ( निघर्षण ) घर्षण An  
abrasion; A friction से० ५, ४६,  
गउड०  
शिहट्ट त्रि० ( निघृष्ट ) घिसा हुआ Rubbed.  
हे० २, १७४,

शिहरण न० ( निहनन ) निहत, मारना  
 Killing महा० स० १६३,  
 शिहरिअ त्रि० ( निहत ) मारा हुआ  
 Killed सुपा० १२८, सण०  
 शिहय त्रि० ( निखात ) गाढा हुआ Buried  
 स० ७२६,  
 शिहय पु० ( निवह ) समूह A collection,  
 A multitude. पड०  
 शिहसण न० ( निवर्षण ) धर्षण, रगड  
 A fiction, Attraction से० ६, १०,  
 गा० १२१, गडड० वज्जा० ११८,  
 शिहसिय त्रि० ( निघर्षित ) घिसा हुआ  
 Rubbed कज्जा० १२०,  
 शिहाय. पु० ( निघात ) आघात, आस्फालन  
 A blow से० १२, ७०, महा०  
 शिहालय न० ( निभालन ) निरीक्षण,  
 अवलोकन Observation, Inspection  
 उप० पु० ७२, सुर० ११, १२, सुपा० २२,  
 शिहालिअ त्रि० ( निभालित ) निरीक्षित  
 Observed, Inspected पात्र० स०  
 १००,  
 शिहि पु० स्त्री० ( निधि ) लगातार नौ दिन का  
 उपवास Nine day's fast सवोध० २८,  
 शिहिरण त्रि० ( निभिन्न ) विदारित  
 Pierced अच्यु० १६,  
 शिहिनाह. पु० ( निधिनाथ ) कुबेर, धनेश  
 The name of the treasurer of  
 gods पात्र०  
 शिहिल त्रि० ( निखिल ) सब, सकल. All,  
 Whole अच्यु० ६, आरा० २२,  
 शिहीण त्रि० ( निहीन ) तुच्छ, खराब, हलका  
 Mean, Insignificant उप० ७२८ टी,  
 शिहीण त्रि० ( निहीन ) न्यून Less,  
 Wanting कुप्र० ४२४,  
 शिहुअ त्रि० ( निभूत ) (१) गुप्त, पच्छन्न.  
 Concealed, Hidden से० १२, १६,

महा० ( २ ) विनीत, अनुदत्त Liberal.  
 Humble, Polite ने० ४, ५६, (३)  
 मन्द, धीमा Slow पात्र० महा० (४)  
 धारण किया हुआ Held (५) निर्जन,  
 एकान्त. Solitude, A lonely place.  
 (६) अस्त होने के लिए उपस्थित The time  
 of setting हे० १, १३१,  
 शिहुअण न० ( निधुवन ) सुरत, सभोग.  
 Sexual-inter-course. गा० ४८३,  
 शिहुअण न० ( निधुवन ) सुरत, सभोग.  
 Enjoyment, Sexual enjoyment  
 कप्पू० काप्र० १६४, मै० ४०,  
 शिहोडिय त्रि० ( पातित ) (१) गिराया हुआ  
 Felled down दस० ३, (२) विनाशित.  
 Destroyed उप० २६० टी,  
 शीका स्त्री० ( नीका ) डुल्या, नाली A  
 gutter, A drain कुमा०  
 शीखय त्रि० ( नि चत ) निखिल, सपूर्ण.  
 Complete, Perfect विचार० ८,  
 शीचअ न० ( नीचस् ) (१) नीचे, अध  
 Down, Under हे० १, १२४, (२) त्रि०  
 Below, Beneath कुमा०  
 शीशाविय त्रि० ( निर्नाथित ) दूसरे द्वारा ले  
 जाया गया, अन्य द्वारा आनीत Brought  
 by others उप० १३६टी,  
 शीशिअ त्रि० ( गत ) गया हुआ Gone,  
 Passed पात्र०  
 शीशिअ त्रि० ( नीत ) ले जाया गया.  
 Brought, Carried उप० २६७ टी,  
 सुपा० २६१,  
 शीमम. त्रि० ( निर्मम ) ममत्त्व रहित Free  
 from passions of love अज्ज० १०६,  
 शीयगम त्रि० ( नीचगम ) नीचे जाने वाला.  
 Which goes Down पुफ० ४४३,  
 शीयगमा स्त्री० ( नीचगमा ) नदी A river.  
 अत० ११६,

शीरजिञ्ज त्रि० ( भग्न ) तोडा हुआ, छिन्न.  
Broken कुमा०  
शीरध त्रि० ( नीरन्ध्र ) निरिच्छद Not  
porous कप्पू०  
शीरनिहि पु० ( नीरनिधि ) समुद्र, सागर  
A sea सु० च० २०१,  
शीरव त्रि० ( आक्षेपक ) आक्षेप करने वाला.  
An accusant, An accusee कुमा०  
शीरस त्रि० ( नीरस ) रस रहित, शुष्क Dry,  
Tasteless, Insipid. गडड० महा०  
शीरसजल न० ( नीरसजल ) आयुर्विज्ञान तप.  
A particular religious austerity  
लघोच० २८,  
शीराग-य. त्रि० ( नीराग ) राग रहित, वीत  
राग Free from affection गडड०  
कुम० १२५, कुमा०  
शीरेणु. त्रि० ( नीरेणु ) रज-रहित Free  
from dust गडड०  
शील पु० ( नील ) (१) रामचन्द्र का एक  
सुभट, वानर विशेष A warrior of  
Ramachandria से० ४, ५, (२) छन्द-  
विशेष A particular verse पिंग०  
शीलिम. पु० स्त्री० ( नीलिमन् ) नीलत्व,  
नीलापन, हरापन Blueness, Green-  
Bluishness सुपा० १३७,  
शीलिञ्ज त्रि० ( नि सृत् ) निर्गत, निर्यात  
Export, Exit कुमा०  
शीवी स्त्री० ( नीवी ) (१) मूल-धन, पूजी.  
Wealth (२) नारा, इजारबन्द. A  
string, A fillet पङ्० कुमा०  
शीसख त्रि० ( नि सख्य ) मख्या रहित, असख्य  
Innumerable, Numerous सु०  
च० ३२५,  
शीसदिञ्ज त्रि० ( नि प्यन्दिन् ) झरा हुआ,  
टपका हुआ Oozed, Leaked पाञ्च०  
शीसदिर. त्रि० ( नि प्यन्दिन् ) झरने वाला

टपकने वाला, Oozing, Trickling सु०  
च० २६,  
शीसद्. त्रि० ( नि सृष्ट ) प्रदत्त. Given वृह०  
(२) कि० वि० अतिशय, अत्यन्त Excessive,  
Profuse उप०  
शीसण पु० ( नि स्वन ) आवाज, शब्द, ध्वनि.  
A sound सुर० १३, १८२, कुम० २६,  
शीसत्त त्रि० ( नि सत्त्व ) सत्व हीन, बल-  
रहित Weak, Feeble, Powerless  
पञ्च० २१, ७५, कुमा०  
शीसद्. त्रि० ( नि शब्द ) शब्द-रहित.  
Soundless भवि०  
शीसरण न० ( नि सरण ) (१) निर्गमन  
Coming out से० ३, १८, (२)  
फिसलन, रपटन. To slip बव० ४,  
शीसरिञ्ज त्रि० ( नि सृत् ) निर्गत, निर्यात  
Gone forth or out सु० च० २४७,  
शीसल त्रि० ( नि शल्य ) (१) निश्चल, स्थिर  
Steady, Firm (२) बक्रता रहित, सपाट  
Straight, Smooth, Flat सुर०  
३, ७२,  
शीसल्ल त्रि० ( नि शल्य ) शल्य रहित. Dis-  
titude of hypocrisy superstition  
etc. etc (deceit etc ) Unso-  
phisticated भवि०  
शीसवत्त. त्रि० ( नि स्पत्न ) शत्रु रहित, विपक्ष  
रहित, Free from enemies,  
Impartial मृच्छ० ८, पि० २७६,  
शीससण न० ( नि शसन ) निश्वास To  
heave कुमा०  
शीसह त्रि० ( नि सह ) मन्द, असक्त Slow,  
Weak हे० १, १३, कुमा०  
शीसह त्रि० ( नि शास्त्र ) शास्त्र-रहित.  
Branchless गा० २३०,  
शीसाइ त्रि० ( नि स्वादिन् ) स्वाद रहित  
Tasteless, प्रवि० १०;

शीसामरण-शीसामन्न त्रि० ( नि सामान्य )  
 (१) असाधारण Uncommon, Extra-ordinary, गडड० सुपा० ६१, हे० २, २१२.  
 (२) गुरु Heavy, Weighty पात्र०  
 शीसार त्रि० ( नि सार ) सार-रहित, फल रहित  
 Useless, Worthless से० ३, ४८,  
 शीसारण. न० ( नि सारण ) निष्कासन, बाहर  
 निकालना Drawing out, Extorment  
 सुर० १६, २०३,  
 शीसारय. त्रि० ( नि सारक ) बाहर निकालने  
 वाला One that drives out से० ३, ४८,  
 शीसारिय त्रि० ( नि सारित ) निष्कासित,  
 Drawn out सुर० ५, १८८,  
 शीसेशी. स्त्री० ( नि श्रेणि ) सीढ़ी. A  
 ladder, A stair case सुर० १३, १५७,  
 शीहम्मिअ त्रि० ( निर्हत ) निगंत, नि सृत  
 Gone out दे० ४, ४३,  
 शीहरण. न० ( निर्हरण ) (१) परित्याग.  
 Abandonment, Quitting निसा०  
 चू० १,  
 शीहरअ. त्रि० ( निसृत ) निर्यात Gone out,  
 Export, Expenditure सुर० १,  
 १५५, ३, ७५, पात्र०  
 शीहरिअ. त्रि० ( निर्हटित ) प्रतिध्वनित  
 Reverberated, Resounded से०  
 ११, १२२,  
 शीहाय पु० ( निहाय ) अन्यक शब्द An in-  
 distinct word. सुख० ४, ६,  
 शीहार. पु० ( नीहार ) हिम, तृषार Snow,  
 Frost अक्षु० ७२, स्वप्न० ५२, कुमा०  
 शु अ० ( तु ) (१) व्यंग्य ध्वनि An ironi-  
 cal tone. (२) वक्रोक्ति Irony स० ३४६,  
 (३) विकल्प (४) अनुनय Reconcilia-  
 tion, Propitiation (५) हेतु, प्रयोजन  
 An object (६) अपमान. Dishonour  
 (७) अनुताप, अनुशय Repentence

(८) अपदेश, वहाना An excuse गडड०  
 हे० २१७, २१८,  
 सुत्त. त्रि० ( नुत्त ) (१) प्रेरित Instigated  
 (२) क्षिप्त, फेंका हुआ Thrown, cast  
 से० ३, १५,  
 शुमज्जण न० ( निमज्जन ) डूबना Drown-  
 ing राज०  
 शुमरण. त्रि० ( निपरण ) वेडा हुआ, उपविष्ट,  
 Sat. पड० हे० १, १७४,  
 शुमरण-शुमन्न त्रि० ( निमग्न ) डूबा हुआ,  
 लीन Absorbed in, Engrossed in.  
 हे० १, ६४, १७४,  
 शुमिअ. त्रि० ( न्यस्त ) स्थापित Establish-  
 ed कुमा०  
 शुमिअ त्रि० ( छ्वादित ) ढका हुआ Conceal-  
 ed, Hidden कुमा०  
 शुसा स्त्री० ( स्तुपा ) पुत्र-वधू, पुत्र की भार्या A  
 daughter-in-law प्रयौ० १०५,  
 शुतण त्रि० ( नूतन ) नया, नवीन, New.  
 मन० ३०,  
 शुमिअ त्रि० ( छ्वादित ) ढका हुआ, छिपाया हुआ  
 Hidden, Concealed से० १, ३२, पात्र०  
 कुमा०  
 शेअ अ० ( नैव ) नहीं हो, कदापि नहीं Never.  
 से० ४, ३०, गा० १३६, गडड० सुर० २, १८६,  
 सण०  
 शेअराण. न० ( नायन ) अन्य द्वारा नयन, पहु-  
 चाना Causing to carry उप० ७४६,  
 शेअराविअ त्रि० ( नायित ) अन्य द्वारा ले जाया  
 गया, पहुँचाया हुआ Carried, Borne.  
 स० ४२, कुम० २०७,  
 शेअण. न० ( नैपुण ) निपुणता, चतुराई. Profi-  
 ciency, Skill अभि० १३२,  
 शेअरिअ त्रि० ( नूपुरवत् ) नूपुर वाला,  
 Having anklets पि० १२६, गडड०  
 शेचद्वय. पु० ( नैचयिक ) धान्य का व्यापारी. A



grain-merchant. वव० ४,  
 शेच्छंत. त्रि० ( नेच्छत् ) नहीं चाहता हुआ.  
 Not loving हेका० ३०६,  
 रोम स०(नेम) अर्ध, आधा A half प्रामा०  
 रोमाल पु० न० ( नेपाल ) एक भारतीय देश,  
 नेपाल A particular district in  
 India, Nepal पउम० ६८, ६४,  
 शेमी स्त्री० ( नेमी ) चक धारा An edge of  
 a wheel दे० १, २०६,  
 शेरुत्ति स्त्री० ( नैरुत्ति ) व्युत्पत्ति Deriva-  
 tion, Etymology विशेष० २७८२,  
 शेरुत्तिय त्रि० ( नैरुत्तिक ) व्युत्पत्ति-निष्पन्न,  
 Derived, Etymological विशेष०  
 ३०३७,  
 शेवाइय त्रि० ( नैपातिक ) निरात निष्पन्न नाम,  
 अव्यय आदि Irregularly formed  
 viz—a noun, a preposition etc.  
 विशेष० २८४०,  
 शेवाल पु० ( नेपाल ) (१) एक भारतीय देश,  
 नेपाल Nepal उप० पृ० ३६३, कुप्र० ४२८,  
 (२) त्रि० नेपाल-देशीय. Pertaining to  
 Nepal पउम० ६६, ४६,  
 शेविज्ज—शेवेज्ज न० ( नैवेध ) देवता के आगे  
 धरा हुआ अन्न आदि Some eatables  
 offered to a deity स० १२२, आ० १६,  
 शेसज्ज त्रि० ( नैषद्य ) आसन विशेष से  
 उपविष्ट Sitting cross-legged प्रव०  
 ६७, पचा० १८,  
 शेहल पु० ( स्नेहल ) (१) छन्द-विशेष A  
 particular verse पिंग० (२) त्रि० स्नेही,

स्नेह-युक्त Affectionate, Loving  
 धर्मवि० १२५,  
 शेहालु त्रि० ( स्नेहवत् ) स्नेह-युक्त, स्निग्ध.  
 Affectionate, Loving हे० २, १५६,  
 शेो अ० ( जो ) (१) मिश्रण, मिश्रता  
 Mixture विशेष० ५०, (२) देश, भाग, अश.  
 A part, A portion विशेष० ८८८,  
 शेोजीव पु० ( नोजीव ) (१) अजीव, निर्जीव,  
 An inanimate thing (२) जीव का  
 प्रदेश Pradesh (an indivisible  
 unit of a substance ) of a soul  
 विशेष०  
 शेोमल्लिआ स्त्री० ( नवमल्लिका ) सुगन्धि  
 फूल-वाला वृक्ष-विशेष, वासती. A tree  
 having fragrant flowers नाट०  
 पि० १५४,  
 शेोहल. पु० ( नोहल ) अव्यक्त शब्द विशेष  
 A kind of indistinct word पङ्  
 पि० २६०, सच्चि० ११,  
 शेोहलिआ स्त्री० ( नवकलिका ) (१) ताजी  
 फली, नवोत्पन्न फली A fresh bean. हे०  
 १, १७०, (२) नूतन फल वाली. Having  
 fresh fruits कुमा० (३) नूतन फल का  
 उद्गम Product of fresh fruits  
 गा० ६,  
 शेोहा स्त्री० ( स्तुपा ) पुत्र की भार्या Daugh-  
 ter-in-law पि० १४८, सच्चि० १५,  
 शेहाविअ त्रि० ( स्नपित ) नहलाया हुआ,  
 जिसको स्नान कराया गया हो वह One  
 who has taken bath महा० भवि०

त

त पु० ( त ) दन्त स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष  
 A particular dental consonant  
 प्राप० प्रामा०  
 तइअ अ० ( तदा ) उस समय At that

time सुर० १, १२३,  
 तइलोई स्त्री० ( त्रिलोकी ) तीन लोक, स्वर्ग,  
 मर्त्य और पाताल The three world-  
 1० the heaven, The earth and

the hell सुपा० ६८,  
 तइलोक-तइलोय न० ( त्रैलोक्य ) देखो  
 'तइलोई' शब्द Vide 'तइलोई' पउम० ३,  
 १०५, ८, २०२, स० ५७१, सुर० ३, २०,  
 सुपा २८२, ३५, ४४८,  
 तई. स्त्री० ( त्रयी ) तीन का समुदाय. A  
 trio, A triad, An aggregate of  
 three सुपा० ५८,  
 तउपट्टिआ स्त्री० ( त्रपुपट्टिका ) कान का  
 आभूषण विशेष An ornament of the  
 ear हे० ५, २३,  
 तप्यारिस त्रि० ( त्वाहय ) तुम जैसा,  
 तुम्हारी तरह का. Like thou स० ५२,  
 तंडव न० ( ताण्डव ) बढताई Rudeness,  
 Insolence 'पासडितुअइचडतडवाडबरेहि  
 किं मुद्ध.' धम्म० ८ टी,  
 तडविय त्रि० ( ताण्डवित ) नचाया हुआ,  
 नर्तित Caused to dance गउड०  
 तडुल. पु० ( तण्डुल ) चावल Rice  
 गा० ६६१,  
 तत न० ( तन्त्र ) (१) देश, राष्ट्र Country  
 सुर० १६, ४८, (२) दर्शन, मत System  
 of philosophy उप० ६२२, (३)  
 स्वदेश चिन्ता Anxiety for native  
 country मुद्रा० १०८, —न्नु त्रि० ( त्र )  
 तन्त्र का जानकार One skilled in  
 magic सुपा० ५७६, —चाइ. पु० ( चादिन् )  
 विद्या-विशेष से रोग आदि को मिटाने वाला.  
 A curer by magical skill सुपा०  
 ४६६,  
 ततिसम न० ( तन्त्रीसम ) तन्त्री शब्द के  
 तुल्य या उससे मिला हुआ गीत, गेय कान्य  
 का एक भेद A kind of lyrical  
 poetry दसनि० २, २३,  
 ततुग पु० ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष A  
 kind of water-insect पउम० १४, १०,

कुप्र० २०६,  
 तव पु० ( स्तम्ब ) तृणादि का गुच्छ. A  
 bundle of grass हे० २, ४५, कुमा०  
 तववग्णी. स्त्री० ( ताम्रपर्णी ) एक नदी का  
 नाम The name of a particular  
 river कप्प०  
 तवाय पु० ( तामाक ) भारतीय ग्राम विशेष  
 A particular Indian village राज०  
 तविम. पु० स्त्री० ( ताम्रत्व ) शरणाता, ईपद्  
 रक्ता Roddishness गउड०  
 तवेरम पु० ( स्तम्बेरम ) हस्ती, हाथी An  
 elephant उप० पृ० ११७,  
 तवोलिअ पु० ( ताम्बूलिक ) तमोली, पान  
 बेचने वाला A seller of betel-leaves  
 and nuts आ० १२,  
 तक्किअ त्रि० ( तार्किक ) तर्क शास्त्र का जानकार  
 One versed in logic अचु० १०१,  
 तक्कु पु० ( तर्कु ) सूत बनाने का यन्त्र, तकुआ,  
 A thin iron rod in the spinning  
 wheel on which the spindle  
 revolves दे० ३, १,  
 तक्ख.पु० ( ताक्ख ) गरुड पक्षी The eagle  
 पक्ष०  
 तक्ख.पु० ( तक्खन् ) लकड़ी काटने वाला, बढई  
 A carpenter. विश्वकर्मा, शिल्पी विशेष  
 An artisan of gods हे० ३, ५६, पड०  
 तक्खग पु० ( तक्ख ) १-२ देखो 'तक्ख' शब्द  
 Vide 'तक्ख' (३) स्वनाम प्रसिद्ध सर्प-राज.  
 A serpent so called उप० ६२५,  
 तक्खसिला स्त्री० ( तक्खशिला ) प्राचीन ऐतिहा-  
 सिक नगरी An ancient historical  
 city in the extreme north-east  
 of India पउम० ४, ३८, कुप्र० ५३,  
 तगरा. स्त्री ( तगरा ) एक नगरी का नाम The  
 name of city सुख० २, ८,  
 तग्गधिय त्रि० ( तद्गन्धिक ) उसके समान गंध.

वाला. Smelling like it प्रासू० ३४,  
 तच्च न० (तच्च) सार, परमार्थ Moral,  
 Gist, essence आरा० ११२,  
 तच्च थ० (त्रि) तीन बार Three times,  
 Thrice सुर० २, २६,  
 तच्च त्रि (तच्च) उससे उत्पन्न Produced  
 by it धर्मवि० १२७,  
 तच्चरणी स्त्री० (तर्जनी) प्रथम अंगुली. The  
 index finger सुपा० १, कुमा०  
 तट्ट त्रि० (त्रस्त) (१) डरा हुआ, भीत A-  
 fraid, Frightened हे० २, १३६, कुमा०  
 तट्टि पु० (त्वष्टृ) तत्तक, विश्वकर्मा A car-  
 penter गडड०  
 तडक्कर पु० (तट्कार) चमकारा Glitter,  
 A gleam. 'तडितडक्करो' सुपा० १३३,  
 तडतडा स्त्री० (तडतडा) तड तड आवाज  
 A sound like Tad-Tad स० २२७,  
 तडिआ स्त्री० (तडित्) बिजली Light-  
 ning प्रामा०  
 तडिकेश. पु० (तडिकेश) राक्षस वंश का एक  
 राजा, एक लकापति A king of a giant  
 family पडम० ६, ६६,  
 तडिणी स्त्री० (तडिनी) नदी, तरिणी A  
 river. सण०  
 तडिम न० (तडिम) (१) भित्ति, भौत A wall  
 (२) पापाण आदि से बधा हुआ भूमि तल  
 Paved ground से० २, २, (३) द्वार के  
 ऊपर का भाग The upper part of a  
 door से० १२, ६०,  
 तडिवेअ पु० (तडिवेअ) विद्याधर वंश का  
 एक राजा A king of Vidyadhar  
 lineage पडम० २, १८,  
 तडुविअ-तडुविअ त्रि० (तत) विस्तीर्ण, फैला  
 हुआ Spread पात्र० महा० कुमा० सुर०  
 ३, ७२,  
 तडु स्त्री० (तडु) काठ की कड़वी. A spoon

of wood प्राक्क० २०,  
 तण्डुल त्रि० (तृणवत्) तृण वाला Grassy-  
 गडड०  
 तण्डुला स्त्री० (तनया) लडकी, पुत्री A  
 daughter कुमा०  
 तण्डुराय. पु० (तण्डुराज) तालवृक्ष, ताड़ का पेड़.  
 The palm tree गडड०  
 तण्डुल. त्रि० (तत) विस्तीर्ण Spread-  
 कुमा०  
 तण्डुलाअरअ त्रि० (तनुत्वकारक) कृशता  
 उपजाने वाला, दौर्बल्य जनक One that  
 weakens, Enervating गा० ३४८,  
 तण्डुलअ त्रि० (तनूकृत) दुर्बल किया हुआ, कृश  
 किया हुआ Enfeebled, Weakened  
 गा० १२२, पडम० १६, ४,  
 तण्डुलकय त्रि० (तनूकृत) पतला किया हुआ  
 Thinned, Rarified पात्र०  
 तण्डुलम पु० (तनुजन्म) पुत्र A son  
 धर्मवि० १४८,  
 तण्डुलमव त्रि० (तनूदभव) (१) शरीर से उत्पन्न.  
 Produced by the body (२) पु०  
 लडका A son भवि०  
 तण्डुलमवा स्त्री० (तनूदवा) लडकी A  
 daughter भवि०  
 तण्डुल पु० स्त्री० (तनुभू) (१) पुत्र, लडका  
 A son (२) पुत्री, लडकी A daughter.  
 आर०  
 तण्डुरुह पु० न० (तनुरुह) (१) केश, बाल.  
 Hair. रमा० (२) पु० पुत्र, लडका.  
 Son भवि०  
 तण्डु स्त्री० (तनु) शरीर, काया Body.  
 गा० ७४८, पात्र० ड० ५, —रह. पु० न०  
 (रह) केश Hair उप० २६७ टी,  
 तण्डु त्रि० (तनु) (१) शरीर में उत्पन्न  
 Produced by a body (२) पु० पुत्र.  
 लडका, पुत्र Son उप० ६८६,

तरणय पु० ( तर्यक ) वरप, बड़डा Calf  
पात्र० गा० १६, गडड०  
तरहाइअ. त्रि० ( वृष्णित ) तृपातुर Very  
thusty. धर्मवि६ १४१,  
तरहालु त्रि० ( वृष्णावत् ) वृष्णा वाला, प्यासा.  
Thusty 'समरतयहालू' पदम० ८, ८७,  
८, ४७,  
तत्त पु० ( तप्त ) (१) तीसरी नरक-भूमि का  
एक नरक-स्थान An abode of the third  
hell देवेन्द्र० ८, (२) प्रथम नरक-भूमि का  
एक नरक-स्थान An abode of the first  
hell देवेन्द्र० ४,  
तत्त अ० ( तत्र ) वहा, There —भव-होन.  
त्रि० ( भवत् ) पूज्य ऐसे आप You  
honou पि० २६३, अत्रि० २६,  
तत्तओ अ० ( तत्त्वत् ) वस्तुत, Really,  
Truly, In fact उप० ६८६,  
तत्तरणु त्रि० ( तत्त्वज्ञ ) तत्व का जानकार  
A philosopher पचा० १,  
तत्तिल्ल त्रि० ( वृत्तिमत् ) वृत्ति युक्त  
Ambitious राज०  
तत्थभव त्रि० ( तत्रभवत् ) पूज्य ऐसे आप  
You honou पि० २६३,  
तत्थय. त्रि० ( तत्रत्य ) वहा का रहने वाला  
One who lives there उप० २६७ टी,  
तत्थरि पु० ( त्रस्तुरि ) नय-विशेष A stand-  
point 'तत्थरिनएण ठविआ' अहु० ४,  
तदीय. त्रि० ( त्वदीय ) तुम्हारा Thy, You  
महा०  
तत्प न० ( तल्प ) शय्या, बिछौना Bed  
पात्र०  
नत्पज्ज न० ( तात्पर्य ) तात्पर्य Moral,  
Essence राज०  
तत्पण. स्त्री० न० ( तर्पण ) वृत्ति-करण, प्रीणन  
Satisfying, Pleasing सुपा० ११३,  
तत्पर त्रि० ( तत्पर ) आसक्त Devotedly

attached to, Enchanted दे० २, २०,  
तत्भूम त्रि० ( तद्भूम ) उसी भूमि में उत्पन्न  
Produced in that field, Born in  
the same land. वृह० १,  
तमग पु० ( तमङ्ग ) मतवारण, घर का वरण्डा.  
Verandah सुर० १३, १२६,  
तमधयार पु० ( तमोन्धकार ) प्रवल अंधकार,  
Deep darkness, Pitch darkness  
पदम० १७, १०,  
तमय पु० ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक  
नरक स्थान An abode of the fourth  
hell देवेन्द्र० १०, (२) पाँचवीं नरक भूमि  
का एक नरक-स्थान An abode of the  
fifth hell. देवेन्द्र० ११,  
तमस्सई स्त्री० ( तमस्वती ) घोर अन्धकार  
वाली रात Pitch dark night वृह० १,  
तमिस पु० ( तमिन् ) पाचवें नरक का एक  
नरक स्थान. An abode of the fifth  
hell देवेन्द्र० ११,  
तमी स्त्री० ( तमी ) रात्रि, रात Night  
गडड०  
तम्मिर त्रि० ( तमिन् ) खेद करनेवाला One  
who feels remorse, Repentant,  
Penitent गा० २८६,  
तय न० ( त्रय ) तीन का समूह, त्रिक A trio,  
An aggregate of three. चउ० ४६;  
आ० २८,  
तयाणि-तयाणि. अ० ( तदानीम् ) उस समय  
At that time पि० ३२८, हे० १, १०१,  
तरगवई. स्त्री० ( तरङ्गवती ) (१) एक नायिका.  
A dancing girl (२) कथा ग्रन्थ-विशेष  
A volume of stories दस० ३,  
तरगि त्रि० ( तरङ्गिन् ) तरग युक्त. Having  
waves, Wavy गडड० कपू०  
तरगिञ्ज त्रि० ( तरङ्गित ) तरग-युक्त Having  
waves, Wavy गडड० से० ८, ११, सुपा०

१२७, —नाह. पु० ( नाथ ) समुद्र, सागर  
Sea वजा० १२६,  
तरगिणी स्त्री० ( तरङ्गिणी ) नदी, सरिता  
River प्रासू० ६६, गडड० सुपा० २३८,  
—समुद्र, सागर Sea वजा० १२६,  
तरणि. पु० ( तरणि ) (१) सूर्य, रवि Sun  
कुमा० (२) घृतकुमारी का पेड़ A kind  
of vegetable (३) अर्क वृक्ष, अकवन  
वृक्ष Name of a tree हे० १, ३१,  
तरलण न० ( तरलन ) तरल करना, हिलाना  
To shake, Liquify कप्पू०  
तरलाविभ्र त्रि० ( तरलित ) चंचल किया हुआ  
Shaken, Trembled, Liquefied,  
Liquid गडड० भवि०  
तरलि त्रि० ( तरलित् ) हिलाने वाला. One  
that shakes कप्पू०  
तरलिभ्र त्रि० ( तरलित ) चंचल किया हुआ  
Shaken गा० ७८, उप० पृ० ३३० सार्ध०  
११५,  
तरसा अ० ( तरसा ) शीघ्र, जल्दी Speedily.  
सुपा० २८२,  
तरा स्त्री० ( त्वरा ) जल्दी, शीघ्रता Quick-  
ness, Haste पात्र०  
तरिहि अ० ( तर्हि ) तो, तब Then  
सुर० १, १३२, ११, ७१,  
तरुणिम पु० स्त्री० ( तरुणिमन् ) यौवन,  
जवानी Youthfulness कप्पू०  
तल न० ( तल ) स्वरूप. Natural state  
or condition कप्पू० कुमा० —प्यहार  
पु० (प्रहार) तमाचा, चपेटा. Slap on the  
face हे० —चट्ट न० ( पट्ट ) विद्धौने की  
चट्ट A bed sheet वजा० १०४,—चट्ट.  
न० ( पत्र ) ताड़ वृक्ष की पत्ती Leaf of a  
palm tree वजा० १०४,  
तलविट-तलवैट-तलवौट न० ( तालवृन्त )  
व्यञ्जन, पखा Fan हे० १, ६७, प्राप्र०

तलाई. स्त्री० ( तडागिका ) छोटा तालाव A  
puddle, A small pond कुमा०  
तलिण. त्रि० ( तलिन ) (१) तुच्छ, छुद्र  
Insignificant, Trifling से० १०, ७,  
(२) दुर्बल Week पात्र०  
तलिमा स्त्री० ( तलिमा ) वाद्य विशेष A kind  
of musical instrument विशेष० ७८टी,  
तल्लक पु० ( तल्लक ) सुरा-विशेष A kind  
of liquor राज०  
तवण. पु० ( तपन ) (२) रावण का एक प्रधान  
सुभट The leading warrior of  
Ravana से० १३, ८५, (२) न० शिखर-  
विशेष Summit दीव० (३) तीसरी  
नरक भूमि का एक नरक स्थान An abode  
of the third hell देवेन्द्र० ८,  
तवणिज्ज पु० न० ( तपनीय ) एक देव विमान.  
A celestial aerial car देवेन्द्र० १३२,  
तविभ्र त्रि० ( तपित ) तीसरी नरक-भूमि का  
एक नरक स्थान An abode of the  
third hell देवेन्द्र० ८,  
तविभ्रा स्त्री० ( तापिका ) तवा का हाथ A  
handle of an iron pan दे० १, १६३,  
तसण न० ( तसन ) (१) स्पन्दन, चलन,  
हिलन. Trembling राज०  
तसिभ्र. त्रि० ( तृपित ) तृपातुर, पिपासित.  
Thirsty. रण० ८४,  
तसेयर त्रि० ( त्रसेतर ) एकैन्द्रिय जीव, स्यावर  
प्राणी. An insect having one  
sense. सुपा० १६८,  
तह अ० ( तथा ) (१) और, तथा. And  
हे० १, ६७, (२) पाठ-पूति में प्रयुक्त किया  
जाता अन्वय An expletive adverb  
निसी० चू० १,  
ता. अ० ( तदा ) तब, उम समय At that  
time, Then रमा० कुमा० सण०  
ता अ० ( तर्हि ) तो, तब Then रमा० कुमा०

ता. स्त्री० ( ता ) लक्ष्मी The goddess of wealth, Riches. सुर० १६, ४८, ताअप्य. न० ( तादत्त्य ) तद्रूपता, अभेद, अभिन्नता Unity, Similarity प्राक० २४,  
ताइ त्रि० ( त्यागिन् ) त्याग करने वाला. One that abandones गा० २३०,  
ताइ पु० ( त्रायिन् ) मुनि साधु A saint दसनि० २, ६,  
ताइअ त्रि० ( त्रात् ) रक्षित Protected उच०  
ताड पु० ( ताल ) ताडका पेड़ The palm tree सं० २५६,  
ताडक पु० ( ताडक ) कान का आभूषण विशेष कुण्डल An ornament of ears. कप्प० कुमा०  
ताडाविय. त्रि० ( ताडित ) पिटाया गया Caused to beat सपा० २८८,  
ताडिअ त्रि० ( ताडित, (१) जिसका ताडन किया गया हो वह, पीटा हुआ Who is beaten पाअ० (२) जिसका गुणाकार किया गया हो वह What is multiplied आ० ६,  
ताडी स्त्री० ( ताड़ी ) वृक्ष विशेष A kind of tree गड०  
ताणव न० ( तानव ) कृशता, दुर्बलता Leanness, Weakness, Disability किरात० १५,  
ताणिय त्रि० ( तानित ) ताना हुआ Stretched स्त्री० १५,  
तादत्थ न० ( तादर्थ्य ) तदर्थ-भाव, इसके लिए For it श्रावक० १२४, १२७,  
तादवत्थ न० ( तादवत्थ ) स्वरूप का अभ्रंश, वही अवस्था, अभिन्न-रूपता, Unity धर्म-सं० ४०४, ४०५, ४१६,  
तामसन्ध न० ( तामसाब्ज ) कृष्ण वर्ण का यज्ञ विशेष A kind of black weapon

पडम० ८, १०,  
तायण न० ( त्राण ) रक्षण. Protection धर्मवि० १०८,  
तार त्रि० ( तार ) (१) निर्मल, स्वच्छ. Pure, Clear सं० ६, ४२, (२) चमकता, देदीप्यमान Shining पाय० (३) अति ऊँचा Very high सं० ६, ४, (४) पु० बानर विशेष Monkey सं० १, ३४, (५) चौथे नरक का एक स्थान An abode of the fourth hell देवेन्द्र० १०, (६) शुद्ध-मोती. A natural pearl (७) अण्व, श्लोकार The mystic name of the Hindu triad the word 'Om' (=) माया-बीज, 'ह्रीं' गच्छ The word 'Him', The source of unreality (६) तरण, तैरना To swim. हे० १, १७७, —चई स्त्री० ( बत्ती ) राज-कन्या A princess आचू० ४  
तारग न० ( तारङ्ग ) तरंग-समुद्र A multitude of waves सं० ६, ४२,  
तारग त्रि० ( तारक ) तारने वाला, पार उतारने वाला SAVIOUR उप० पू० ३२,  
तारा स्त्री० ( तारा ) (१) आँख की पुतली The pupil of the eye गा० ४११, ४३५, (२) बौद्धों की शासन देवी A commanding goddess of Buddhism. कुम० ४४२, —युग न० ( अयन ) कर्त्तविका का चलना, आँख की पुतली का हिलना Motion of the pupil of an eye सुपा० १८७;  
ताराडर न० ( तारापुर ) तारग स्थान The place of Taranga कुम० ४४२,  
ताराचद् पु० ( ताराचन्द्र ) एक राजकुमार Name of a prince धम्म० ७२ टी,  
तारातण्य. पु० ( तारातनय ) बानर विशेष, अङ्गद Name of a monkey, Angada. सं० १३, ६७,  
तारापट्ट पु० ( ताराप्रभु ) चन्द्रमा. Moon.

उप० ३२०,  
 तारामेची स्त्री० (तारामैत्री) नि स्वार्थ मित्रता  
 Selfless friendship कप्पू०  
 तारावद्. पु० ( तारापति) चन्द्रमा. Moon  
 गडड०  
 तारि त्रि० (तारिन्) तारने वाला A saviour  
 सम्मत्त० २३०,  
 तारी स्त्री० (तारी) तारक-जातीय देवी. A god-  
 dess of Taraka caste प्रव० १६४,  
 तारुअ त्रि० ( तारक ) तारने वाला  
 Saviour चेह्य० ५२१,  
 ताल पु० (ताल) चपेटा, तमाचा A slap  
 on the face से० ६, ५६,  
 तालक. पु० स्त्री० (ताडक) कुण्डल, कान का  
 आभूषण-विशेष An ornament of  
 ears (२) छन्द विशेष A kind of verse  
 पिंग०  
 तालकि पुं० स्त्री० ( तालकिन् ) छन्द विशेष  
 A particular verse पिंग०  
 तालग न० ( तालक ) ताला, द्वार बन्द करने  
 का यन्त्र. Lock उप० ३३६ टी,  
 तालज्जय पु० ( तालध्वज ) (१) बलदेव  
 Baldev आवम० (२) नृप विशेष The  
 king दस० १, (३) शत्रुजय पहाड The  
 shetrunjaya mountain ती० १,  
 ताला अ० ( तदा ) उस समय. At that  
 time हे० ३, ६५, काप्र० ५०१,  
 तालिअटिर त्रि० ( अमयितृ ) घुमाने वाला  
 One who turns कुमा०  
 ताली स्त्री० (ताली) (१) वृक्ष-विशेष A kind  
 of tree चार० ६३, (२) छन्द विशेष. A  
 verse पिंग० —पत्त न० (पत्र) तालवृक्ष  
 की पत्ती का बना हुआ पत्र A fan of the  
 palm-tree-leaves चार० ६३,  
 ताव पु० ( ताप ) (१) मताप, दुःख  
 Affliction. आव० ४ (२) सूर्य, रवि

Sun —दिसा स्त्री० ( दिश ) सूर्य-तापित  
 दिशा A direction warmed by  
 the sun-shine राज०  
 तावअ त्रि० ( तावक ) स्वदीय, तुम्हारा  
 Yours, Your अरुचु० ५३,  
 तावण न० (तापन) (१) गरम करना, तपाना  
 To heat, To warm निसी० चू० १,  
 (२) पु० इक्ष्वाकु वंश का एक राजा A king  
 of the Ikshvaku lineage. पञ्च० २, ५,  
 (३) चौथा नरक-भूमि का एक नरक-स्थान A  
 dwelling of the fourth hell देवेन्द्र०  
 ८, (४) तपाने वाला A heater त्रि० ६७,  
 तावसा, स्त्री० (तापसा) जैनमुनिश्रीकी एक शाखा  
 A sect of the Jaina saints कप्प०  
 ताविआ स्त्री० ( तापिका ) (१) तवा, पत्रा  
 आदि पकाने का पात्र. A griddle (२)  
 कढाही, छोटा कढाह A large deep  
 concave pan आवम०  
 तावी स्त्री० (तापी) नदी-विशेष Name of  
 a river पञ्च० ३५, १, गा० २३६,  
 तासिअ त्रि० (आसित) जियकी ग्राम उपजाया  
 गया हो वह The oppressed भवि०  
 ति अ० ( त्रि ) तीन बार Three time-  
 Thrice शोध० ५४२,  
 तिअ त्रि० ( त्रिज ) तीन से उत्पन्न होने वाला  
 Produced by three राज०  
 तिअकर पु० ( त्रिकर ) स्वनाम ख्यात एक  
 जैन मुनि A Jaina saint राज०  
 तिअडा स्त्री० ( त्रिजटा ) स्वनाम ख्यात एक  
 राक्षसी A gaintess so called से०  
 ११, ८०,  
 तिअणुअ न० ( त्र्यणुक ) तीन परमाणुओं से  
 बना हुआ द्रव्य A substance made of  
 three molecule- मम्म० १३६,  
 तिअभगी. स्त्री० ( त्रिभगी ) छन्द-पिंगोप.  
 A kind of verse पिंग०

तित्रय न० (त्रितय) तीन का समूह A trio,  
 An aggregate of three विशेष० १४३२,  
 त्रिअलुक्क-त्रिअलोय. न० ( त्रैलोक्य ) तीन  
 जगत् स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक Three  
 worlds i.e. the heaven, the earth  
 and the hell धर्मा० ६०, लहुअ० ६,  
 त्रिअस्. पु० ( त्रिदश ) देव, देवता A god  
 कुमा० सुर० १, ६, — गअ पु० ( गज )  
 ऐरावत हाथी, इन्द्र का हाथी An elephant  
 of India से० ६, ६१, — नाह पु० ( नाथ )  
 इन्द्र The lord of gods उप० ६८६ टी,  
 सुपा० ४४, — पहु पु० ( प्रभु ) इन्द्र,  
 देव-नायक The commanding god  
 सुपा० ४७, १७६, — रिस्ति पु० ( ऋषि )  
 नारद मुनि Narada, A celestial  
 sage कुम० ३७२, — विलया. स्त्री०  
 ( वनिता ) देवी, स्त्री देवता A goddess  
 सुपा० २६७, — सरि स्त्री० ( सरित् ) गंगा  
 नदी The Ganges कुम० ५, — सेल  
 पु० ( शैल ) मेरु पर्वत The mount  
 Meru सुपा० ४८,  
 त्रिअसजअ पु० ( त्रिकसयत ) एक राजर्षि  
 A king sage पउम० ५, ५१,  
 त्रिअसस्ति. पु० ( त्रिदशसूरि ) बृहस्पति  
 The preceptor of gods सम्मत्त० १२०,  
 त्रिणीकय त्रि० ( तृणीकृत ) तृण तुल्य माना  
 हुआ Insignificant कुम० ५,  
 त्रिअसीस पु० ( त्रिदशेश ) इन्द्र, देव-नायक  
 The lord of gods हे० १, १०,  
 त्रिअमा स्त्री० ( त्रियामा ) रात्रि, रात्,  
 Night अरु० ४६,  
 त्रिअज-त्रिदय त्रि० ( तृतीय ) तीसरा  
 Thud पि० ४४६, सदि० २०,  
 त्रिअखर न० ( त्रिपुक्कर ) वाद्य-विशेष A  
 kind of musical instrument.  
 अजि० ३१,

तिउण. त्रि० ( त्रिगुण ) सत्व, रजस् और तमस्  
 गुण वाला Having three qualities  
 incidental to created beings  
 namely Satta, Rajas and Tamas  
 अरु० ३०,  
 तिउर. न० ( त्रिपुर ) एक विद्याधर नगर  
 A Vidyadhar city इक० (२) असुर  
 विशेष, Name of a demon त्रि० ६४,  
 तिउरी स्त्री० ( त्रिपुरी ) नगरी-विशेष, चेदि  
 देश की राजधानी City, capital of the  
 Chedi county, कुमा०  
 त्रित त्रि० ( तीमित ) भीजा हुआ Wet.  
 स० ३३२, हे० ४, ४३१,  
 त्रितिणी. स्त्री० ( त्रिन्तिणी ) चिचा, इग्ली  
 का पेठ The tamara tree अरि० ७१,  
 त्रिदुहणी स्त्री० ( त्रिन्दुकिनी ) वृक्ष-विशेष  
 A kind of tree कुम० १०२,  
 त्रिकूड पु० ( त्रिकूट ) लका के समीप का  
 एक पहाड, सुवेल पर्वत The mount  
 Suwel near Lanka ( Ceylon )  
 पउम० ५, १२७, — सामिय पु० ( स्वामिन् )  
 सुवरे पर्वत का स्वामी रावण King  
 Ravana पउम० ६५, २१,  
 त्रिपल त्रि० ( तीपल ) (१) तेज, तीखा,  
 पैना Pointed, Sharpened महा०  
 गा० ५०४, (२) सूक्ष्म Atomic (३)  
 (३) चोखा, शुद्ध Pure कुमा० (४) क्रोधी,  
 गरम प्रकृति वाला Haughty, Wrath-  
 ful (५) उस्साही Zealous, Aident.  
 (६) आलस्य रहित Active (७) चतुर,  
 दक्ष Dexterous, Skilful (८) विष;  
 जहर Poison (९) जोहा Lion (१०)  
 युद्ध, सग्राम A battle, A war (११)  
 शस्त्र, हथियार A weapon (१२) समुद्र का  
 नोन The salt of a sea (१३) यवहार.  
 The carbonate of potassium.



( १४ ) श्वेत कुष्ठ White leprosy ( १५ )  
ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण-गण, यथा अश्लेषा,  
आर्द्रा, ज्येष्ठा, और मूल नक्षत्र. The seven  
class ( in Astro. ) viz Ashlesha,  
Ardra, Jyestha and Mula  
constellation हे० २, ७५, ८२,  
तिष्वखण न० ( तीक्ष्ण ) तेज-करण, उत्तेजन  
Encouragement, Support कुमा०  
तिखड त्रि० ( त्रिखण्ड ) तीन खण्ड वाला  
Having three parts उप० १८६ टी,  
तिखडाह्विचइ पु० ( त्रिखण्डाधिपति ) अर्ध  
चक्रवर्ती राजा, वासुदेव Vasudeva पउम०  
६१, २६,  
तिगसपुण्य न० ( त्रिसपूर्ण ) लगातार तीस  
दिन का उपवास Fast for thirty  
consecutive days सवोध० ५८,  
तिग्ग त्रि० ( तिग्ग ) तीक्ष्ण, तेज Sharpen-  
ed, Pointed हे० २, ६२,  
तिग्घ त्रि० ( तिग्घ ) तिगुना, तीन गुना  
Three-fold राज०  
तिचत्ता स्त्री० ( त्रिचत्तारिश्द ) तेतालीस  
Forty-three क० ग० ४, ५५,  
तिचूड पु० ( त्रिचूड ) विद्याधर वंश का एक  
राजा. A king of the Vidyadhar  
lineage. पउम० ५, ४५,  
तिजड पु० ( त्रिजट ) विद्याधर वंश के एक  
राजा का नाम A name of the Vidyad-  
har family. पउम० १०, २०, ( २ )  
राक्षस वंश का एक राजा A king of the  
demon lineage पउम० ५, २६२,  
तिजामा-तिजामी. स्त्री० ( त्रियामा ) रात्रि,  
रात A night कुप्र० २४७, रभा०  
तिज्ज त्रि० ( तार्थ ) तैरने योग्य Worthy of  
being saved भास० ६३,  
तिरण त्रि० ( तीर्थ ) शक्त, समर्थ Able,  
Powerful से० ११, २१,

तिरण न० ( स्तैन्य ) चोरी A theft उप०  
५६७ टी,  
तितउ पु० ( तितउ ) चालनी, आखा, छानने  
का पात्र A sieve प्रामा०  
तित्तिअ त्रि० ( तावत् ) उतना That  
much हे० २, १५६,  
तित्तिल त्रि० ( तावत् ) उतना That  
much पड०  
तित्थ न० ( तीर्थ ) ( १ ) दर्शन, मत A  
system of philosophy. सम्म० ८,  
विशे० १०४०, ( २ ) प्रथम गणधर The  
first Ganadhar नदी० १३० टी,  
तित्थि त्रि० ( तीर्थिन् ) ( १ ) दार्शनिक, दर्शन  
शास्त्र का विद्वान् A philosopher ( २ )  
किसी दर्शन का अनुयायी A follower  
of any philosophy. गु० ३,  
तित्थिअ त्रि० ( तीर्थिक ) देखो 'तित्थि' शब्द  
Vide 'तित्थि' प्रबो० ७३,  
तित्थीय त्रि० ( तीर्थीय ) देखो 'तित्थि' शब्द  
Vide 'तित्थि' विगे० ३१६६,  
तित्थेसर पु० ( तीर्थेश्वर ) जिनदेव, जिन भग-  
वान् A Tirthankar, Jineshvara.  
सुपा० ५१, ८६, २६०,  
तिदिव न० ( त्रिदिव ) स्वर्ग, देव-लोक The  
heaven सुपा० १४२, कुप्र० ३२०,  
तिपह न० ( त्रिपथ ) जहा तीन रास्ते एकत्रित  
होते हैं वह स्थान The place where  
three roads meet राज०  
तिपायण न० ( त्रिपातन ) ( १ ) शरीर इन्द्रिय  
और प्राण इन तीनों का नाश Destruction  
of three things e.g. the body,  
senses, and life ( २ ) मन, वचन और  
काया का विनाश The destruction of  
the mind, speech and body. पिंड०  
तिपुड. न० ( त्रिपुण्ड्र ) तिलक विशेष A kind  
of sign on the forehead स० ६,

तिपुर 'पु' ( त्रिपुर ) (१) दानव विशेष The demon (२) तीन नगर The three towns राज०  
 तिपुरा स्त्री० ( त्रिपुरा ) विद्या-विशेष A particular science सुपा० ३६७,  
 तिप्प त्रि० ( तृप्त ) सतुष्ट Satisfied, Pleased, Contented हे० १, १२८,  
 तिप्प पु० न० ( त्रेप ) अपान आदि धोने की क्रिया, शौच To go to privy, ablution गच्छ० २, ३२,  
 तिष्पाय न० ( त्रिपाद ) तप विशेष, नीति A kind of religious austerity सबोध० १८,  
 तिष्मगी स्त्री० ( त्रिभङ्गी ) छन्द विशेष A kind of verse पिंग०  
 तिमिलि पु० ( तिमिलि ) मत्स्य की एक जाति A kind of fish पडम० २२, ८३,  
 तिमिर न० ( तिमिर ) (१) निम्नचित्त कर्म A firm Karmic-bondage धर्म० २, (२) अल्पज्ञान A little knowledge (३) अज्ञान Ignorance आय० १,  
 तिमिस पु० ( तिमिप ) एक प्रकार का पौधा, पेठा, कुम्हडा A kind of plant कस्पू०  
 तिमिअ त्रि० ( स्तिमित ) आर्द्र, गीला Wet दे० १, ३७,  
 तिया स्त्री० ( छिन ) स्त्री, महिला A woman, A lady सुख० ४, ६,  
 तिरकरिणी-तिरकलरिणी स्त्री० ( तिरस्करिणी ) चवनिका, परदा A curtain पि० ३०६, अमि० १८६,  
 तिरकार पु० ( तिरस्कार ) तिरस्कार, अपमान, अवहेलना Dishonour, Disrespect Insult प्रबो० ४१, सुपा० १४४,  
 तिरत्त न० ( त्रिरात्र ) तीन रात Three nights 'किंपुण तिरत्त' कुप्र० ११८, स० ३४२,

तिरि-तिरिअ. अ० ( तिर्यक् ) तिरछा, टेढा. Curved प्राकृ० ८०, १६,  
 तिरिच्छी. स्त्री० ( तिरश्ची ) तिर्यक् स्त्री A female animal कुमा०  
 तिरोहिअ त्रि० ( तिरोहित ) अन्तर्हित, आच्छादित Concealed, Hidden, Covered राज०  
 तिलइअ त्रि० ( तिलकित ) तिलक की तरा आचरित, चिभूपित Decorated, Ornamented धर्म० ६,  
 तिलग-य न० ( तिलक ) (१) पुष्प विशेष A kind of flower कुमा० (२) एक त्रिआधर नगर A Vidyadhari city इक०  
 तिलग. पु० ( तिलक ) देग विशेष, एक भारतीय दक्षिण देश The decan region of India. कुमा० इक०  
 तिलकुटी स्त्री० ( तिलकुटी ) तिल की बनी हुई एक भोज्य वस्तु The sesame sweet-meat धर्म० २,  
 तिलमल्ली. स्त्री० ( तिलमल्ली ) एक खाद्य वस्तु An eatable धर्म० २,  
 तिलवट्टी स्त्री० ( तिलवट्टी ) तिल की बनी हुई एक खाद्य वस्तु The sesame eatable प्रब० ४ टी,  
 तिलेदल न० ( तिलतैल ) तिल का तेल The sesame-oil कुमा०  
 तिलोअय पु० ( तिलोचन ) महादेव, शिव Mahadeo, God Shiva आ० २८, पडम० १, १२२, पिंग०  
 तिलोत्तमा स्त्री० ( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गाय अम्तरा A female celestial dancer खप० ७६८ टी, महा०  
 तिल्ल. न० ( तिल्ल ) छन्द विशेष A kind of verse पिंग०  
 तिल्लग त्रि० ( तैलक ) तेल बेचने वाला. An oil-seller बृह० १,

तिल्लोदा स्त्री० (तैलोदा) नदी-विशेष A river  
 so called निसी० चू० १,  
 तिवग्ग पु० (त्रिवर्ग) (१) लोक, वेद और समय  
 इन तीन का वर्ग A class of the world,  
 Vedas and time (२) सूत्र, अर्थ और  
 उन दोनों का समूह A collection of  
 scriptures with meaning आचू०  
 १, आचम०  
 तिवरण पुं० (त्रिपर्ण) पलाश वृक्ष. A kind  
 of the wild tree कुमा०  
 तिवरणी स्त्री० (त्रिवर्णी) एक महौषधि A  
 kind of medicine ती० ५,  
 तिवय त्रि० (त्रिपद) तीन पाव वाला Three-  
 legged दे० ८, १,  
 तिवद्वा स्त्री० (त्रिपथगा) गंगा नदी The  
 Gange. से० ६, ८, अचू० ३,  
 तिविक्रम पु० (त्रिविक्रम) विष्णुकुमार नामक  
 एक प्रसिद्ध जैन मुनि A well-known  
 Jaina saint named Vishnu Ku-  
 mar धर्मवि० ८६,  
 तिसंक्रु पु० (त्रिशङ्कु) सूर्यवंशीय एक राजा A  
 king of the solar lineage अभि०  
 ८२,  
 तिसंथ त्रि० (त्रिसंथ) तीन बार सुनने से  
 अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला  
 Able to repeat the same after  
 hearing three times धर्मसं० १२०७,  
 तिसष्ट त्रि० (त्रिषष्ट) त्रैसठवा, ६३वा The  
 sixty-third पञ्चम० ६३, ७३,  
 तिसष्टि स्त्री० (त्रिषष्टि) त्रैसठ, ६३ Sixty-  
 three भवि०  
 तिसत्त त्रि० व० (त्रिसत्तन्) पच्चीस  
 Twenty one आ० ६,  
 तिसरिय न० (त्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला  
 हार Three lined necklace कप्य०  
 (२) वाद्य-विशेष A kind of musical

instrument पञ्चम० ११३, ११,  
 तिसिर. पु० व (त्रिशिरस्) (१) देश-विशेष  
 The country पञ्चम० ६८, ६९, (२) पुं०  
 नृप-विशेष The king पञ्चम० ६६, ४६,  
 (३) रावण का एक पुत्र A son of Ra-  
 vana से० १२, २६,  
 तिसीस पु० (त्रिशीर्ष) देव-विशेष A kind  
 of gods दीव०  
 तिसूलपाणि पु० (त्रिशूलपाणि) महादेव,  
 शिव. Mahadeo, God Shiva (२)  
 त्रिशूल को हाथ में रखने वाला सुमट. A  
 warrior with the three-pointed  
 spear in his hand पञ्चम० २६, ३२,  
 तिहत्तर. त्रि० (त्रिसप्त) तिहत्तरवा, ७३ वा  
 The seventy third पञ्चम० ७३, ३६,  
 तीमण न० (तीमन) कडी, खाद्य-विशेष.  
 Cully सख०  
 तीमिञ्च त्रि० (तीमित) आर्द्र, गीला  
 Wet, Moistened कुप्र० ३७३,  
 तीरद्व. पु० (तीरस्थ) साधु, मुनि, भ्रमण A  
 saint, A sage दसनि० २, ६,  
 तीसम त्रि० (त्रिंश) तीसवां Thirtieth-  
 भवि०  
 तीसिया स्त्री० (त्रिशिका) तीस वर्ष के उम्र  
 की स्त्री A female, thirty years  
 old वच० ७  
 तु ग पु० (तुङ्ग) छन्द विशेष A particular  
 verse पिंग०  
 तु गार. पु० (तुङ्गार) अग्निहोण का पवन.  
 The south-east wind आवम०  
 तुगिम. पु० स्त्री० (तुङ्गिमन्) ऊँचाई, उच्चत्व  
 Height, Loftiness सुपा० १०४, वजा०  
 १५०, कप्य० सख०  
 तुंगीय. पु० (तुङ्गीय) पर्वत-विशेष A  
 particular mountain मुर० १, २००,  
 तुद न० (तुन्द) उदर, पेट The stomach,

The belly. उप० ७२८ टी,  
 तुंबवण न० ( तुंबवन ) सनिवेश विशेष, एक  
 गाव का नाम A village so called.  
 सार्ध० २५,  
 तुविणी स्त्री० ( तुम्बिनी ) बन्नी विशेष A  
 particular creeper हे० ४, ४२७, राज०  
 तुवी स्त्री० ( तुम्बी ) जैन साधुओं का एक पात्र,  
 तरपनी A vessel of Jaina saint  
 सुपा० ६४१,  
 तुच्छिम पु० स्त्री० ( तुच्छत्व ) तुच्छता, Insig-  
 nificance, Meanness वजा० १२६,  
 तुट्ट त्रि० ( श्रुटित ) टूटा हुआ, छिन्न, खण्डित  
 Broken स० ७१८, सुक्त० १७,  
 तुट्टि त्रि० ( श्रुटित ) छिन्न, खण्डित  
 Broken कुमा०  
 तुट्टिर. त्रि० ( श्रुटितृ ) टूटने वाला Bittle  
 कुमा० सख०  
 तुट्टि स्त्री० ( तुट्टि ) कृपा, मेहरबानी Favour,  
 Kindness कुप्र० १,  
 तुडि स्त्री० ( श्रुटि ) (१) न्यूनता, कमी  
 Deficiency (२) दोष, दूषण A fault  
 हे० ४, ३६०, (३) सदेह, सशय A doubt,  
 Suspicion सुर० ३, १६१,  
 तुडिञ्च त्रि० ( श्रुटित ) टूटा हुआ, विच्छिन्न  
 Shattered to pieces अच्यु० ३३,  
 दे० १, १२६, सुपा ८५,  
 तुदणण न० ( तुलन ) फटे हुए वस्त्र का सन्धान  
 Sewing the torn garments. उप०  
 पु० ४१३,  
 तुदिरिह. अ० ( तुष्णीम् ) मौन, चुपकी Silence,  
 Taciturnity भवि०  
 तुद्वार पु० ( तुद्वकार ) रफू करने वाला, शिल्पी,  
 A carter, A dainer धर्मवि० ७३,  
 तुमतुम त्रि० ( त्वत्त्वम् ) तूकारे से बात करने  
 वाला Addressing disrespectfully  
 with thou, Theeing and thouing

सवोध० १७,  
 तुमुल पु० ( तुमुल ) (१) लोम-हर्षण युद्ध,  
 भयानक संग्राम. A terrible fight,  
 A horrible war गउड० (२) न० शोर-  
 गुल Noise, Disturbance पाद्य०  
 तुम्हकेर त्रि० ( त्वदीय ) तेरा Thy,  
 Thine कुमा०  
 तुम्हकेर. त्रि० ( युष्मदीय ) आपका, तुम्हारा  
 You, Yours हे० १, २४६, २, १४७,  
 तुम्हेच्चय त्रि० ( यौष्माक ) आपका, तुम्हारा.  
 You, Yours हे० २, १४६, कुमा० पङ्०  
 तुमग पु० ( तुमग ) रामचन्द्रका एक सुभट  
 A warrior of Ramachandria  
 पउम० २६, ३८,  
 तुमगिञ्चा स्त्री० ( तुमगिका ) घोड़ी A mare.  
 पाद्य०  
 तुम-तुम. स्त्री० ( त्वरा ) शीघ्रता, जल्दी  
 Speed, Haste दे० ५, १६,  
 तुमय पु० ( तुमय ) छन्द विशेष A  
 particular verse पिंग०  
 तुमवत. त्रि० ( त्वरावत् ) त्वरायुक्त, त्वरा वाला  
 Speedy, Hasty से० ४, ३०,  
 तुमिञ्चनिद्रा स्त्री० ( तुमिञ्चनिद्रा ) मरणदशा  
 The death-bed उप० पु० १४३,  
 तुमक पु० ( तुमक ) (१) देश विशेष,  
 तुर्किस्तान. Turkistan, a country  
 (२) त्रि० तुर्किस्तान का Relating to  
 Turkistan स० १३,  
 तुमक्री. स्त्री० ( तुमक्री ) लिपि विशेष A  
 kind of the alphabet विशेष० ४६४टी,  
 तुमण न० ( तुमण ) तौलना, तोलन  
 Weighing कप्प० वजा० १२७,  
 तुमणा स्त्री० ( तुमणा ) तौल, वजन  
 Weight धर्मवि० ६,  
 तुमय. त्रि० ( तौलक ) तौलने वाला A  
 weigher, A weigh man सुपा० १६७,

- तुलसिआ स्त्री० ( तुलसिका ) जता विशेष,  
तुलसी A holy plant of Tulsī,  
Holy basil कुमा०
- तुला स्त्री० ( तुला ) राशि विशेष Librae,  
The seventh sign in zodiac  
which the sun enters at the  
autumnal equinox in Septem-  
ber सुपा० ३६, —सम त्रि० ( सम ) राग  
द्वेपरहित, मध्यस्थ Free from passions,  
Impartial बृह० ६,
- तुलित्र त्रि० ( तुलित ) (१) उठाया हुआ,  
ऊचा किया हुआ Lifted से० ६, २०,  
(२) गुना हुआ Multiplied राज०
- तुवष्ट पु० ( स्वर्गवर्त ) शयन, लेटना,  
Sleeping ब्र० ४,
- तुहिण न० ( तुहिन ) हिम, तुपार. Snow,  
Ice. पात्र० —इरि. पु० ( गिरि ) हिमालय  
पर्वत The Himalayas गडड०—कर  
पु० ( कर ) चन्द्रमा The moon कप्प०
- तूयरी स्त्री० ( तूवरी ) रहर A kind of  
pulse. पिंड० ६२३,
- तूरचह. पु० ( तूर्यपति ) नटों का मुखिया  
The head of dancers बृह० १,
- तूरवित्र त्रि० ( स्वरित ) जिसको शीघ्रता कराई  
गई हो वह Caused to haste से० १०, ८३,
- तूरित्र पु० ( तौरिक ) वाद्य बजाने वाला  
A musician स० ७०२,
- तूलिल त्रि० ( तूलिकावत् ) तसवीर बनाने की  
कलम वाला, कूर्चिका युक्त Having a  
painting-brush गडड०
- तेत्र. पु० ( तेजस् ) (१) प्रताप Majesty,  
Dignity, Prowess ( २ ) महात्म्य,  
प्रभाव Awe ( ३ ) बल, पराक्रम Strength  
कुमा०
- तेत्रण न० ( तेजन ) (१) तेज करना, पैनाना  
Sharpening ( २ ) उत्तेजन En-
- couragement हे० ४, १०४, (३) त्रि०  
उत्तेजित करने वाला An encourager.  
कुमा०
- तत्रवित्र. त्रि० ( प्रदीप्त ) (१) जला हुआ.  
Burnt कुमा० (२) चमका हुआ, उद्दीप्त.  
Glistened, Glittered पात्र०
- तेत्रवित्र त्रि० ( तेजित ) तेज किया हुआ.  
Sharpened दे० ८, १३,
- तेत्रस्सि पु० ( तेजस्विन् ) इक्ष्वाकु वंश के  
एक राजा का नाम A king of the  
Ekshvaku lineage पञ्ज० ५, ५,  
तेत्रा स्त्री० ( त्रेता ) युग विशेष, दूसरा युग.  
The second of the four Yugas of  
the Hindus ती० २६,
- तेइच्छी स्त्री० ( चिकित्सा-चैकित्सी ) प्रतीकार,  
इलाज A remedy, Cure कप्प०
- तेइज्जग त्रि० ( तार्तीयक ) (१) तीसरा.  
The third (२) ज्वर-विशेष, तीसरे २ दिन  
पर आता ज्वर The intermittent  
fever उत्तनि० ३,
- तेँदु-तेँदुत्र-ग पु० ( तिन्युक ) गेंद, बन्दुक.  
A ball पञ्ज० १५, १३,
- तेज पु० ( तेज ) देश विशेष A particular  
country सम्भत्त० २१६,
- तेजपाल पु० ( तेजपाल ) गुजरात के राजा  
वीरधवल का एक यशस्वी मंत्री A  
renowned minister of Virdhaval,  
a king of Gujarat ती० २,
- तेजलपुर न० ( तेजलपुर ) गिरनार पर्वत के  
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ नगर A  
city established by the minister  
Tejapala near the mount Girnar.  
ती० २,
- तेण. ध्र० ( तेन ) लक्षण-सूचक शब्द A  
characterizing adverb हे० १, १८३;  
कुमा०

तेराप्पन्नोग पु० ( स्तेनप्रयोग ) (१) चोर  
को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना To  
instigate a thief to steal (२)  
चोरी के साधनों का दान या विक्रय. To  
give or sell the implements for  
stealing धर्म० २,  
तेराप्पि स्त्री० ( स्तेना ) चोर-स्त्री A wife of  
a thief सम्मत० १६१,  
तेराहाइअ त्रि० ( तृष्णित ) तृष्णा-युक्त, प्यासा  
Thirsty से० १३, ३६,  
तेतलि पु० ( तैतलित् ) धरणीन्द्र के गन्धर्व  
सेना का नायक The commander of  
an army of celestial choristers  
of Dhaendia. इक०  
तेत्तिअ त्रि० ( तावत् ) उतना That  
much प्राप्र० गडड० गा० ७१, कुमा०  
तेत्तिल त्रि० ( तावत् ) उतना That much  
हे० २, १५७, कुमा०  
तेत्तिल न० ( तैतिल ) ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-  
विशेष A Karana ( a division of  
the day ) famous in astrology  
सूयनि० ११,  
तेदह त्रि० ( तावत् ) उतना. That much  
हे० २, १५७, प्राप्र० षड० कुमा०  
तेमासिअ त्रि० ( त्रैमासिक ) (१) तीन मास  
में होने वाला One occurs during  
three months (२) तीन मास सबन्धी  
Relating to three months सू०  
६, २११, १४, २२८,  
तेर त्रि० ( त्रयोदश ) तेरहवा Thutenth.  
कम्म० ६, १६,  
तेरसुत्तरसय त्रि० ( त्रयोदशोत्तरशततम ) एक  
सौ तेरहवा, ११३ वा One hundred and  
thutenth पत्रम० ११३, ७२,  
तेरासि. पु० ( त्रैराशिक ) नपुंसक An impo-  
tent person. पिंड० ५७३;

तेलग पु० व० ( तैलङ्ग ) (१) देश-विशेष. A  
particular country (२) पु० स्त्री०  
देश विशेष का निवासी मनुष्य, An in-  
habitant of that country पिंग०  
तेलाडी स्त्री० ( तैलाटी ) कीट-विशेष, गधोली  
An insect दे० ७, ८४,  
तेल्लपाइया स्त्री० ( तैलपायिका ) छुद्र जन्तु विशेष  
An insect आचम०  
तेल्लिअ पु० ( तैलिक ) तेली, तेल घेचने वाला.  
An oil-man वव० ६,  
तेराणासा स्त्री० ( त्रिपञ्चाशत् ) त्रेपन, ५३,  
Fifty three प्राक० ३१,  
तो अ० ( तदा ) तब, उस समय Then, At  
that time कुमा०  
तोटय. न० ( त्रोटक ) छन्द विशेष A parti-  
cular verse पिंग०  
तोड पु० ( त्रोट ) त्रुटि. A defect उप० पु०  
१८,  
तोडिअ त्रि० ( त्रोटित ) तोडा हुआ. Broken  
महा० सण०  
तोणीर पु० न० ( तूणीर ) शरधि, भाया An  
allow case, A quiver पाअ० हे० १,  
१२४, भवि०  
तोमर न० ( तोमर ) छन्द-विशेष. A parti-  
cular verse पिंग०  
तोलण न० ( तोलन ) तौल करना, तौलना,  
नाप करना Weighing राज०  
तोल्ल न० ( तौल्य-तौल ) तौल, वजन  
Weighed कुप्र० १४६,  
तोलिय त्रि० ( तोलित ) तौला हुआ  
Weighed महा०  
तोसयर त्रि० ( तोषकर ) सतोष कारक Satis-  
factory काल०  
तोसलिय. पु० ( तोसलिक ) तोसलि ग्राम का  
अधीश क्षत्रिय A ruling Kshatriya  
of Tosali village आचम०

थ

थ पु० (थ) दन्त-स्थानीय व्यञ्जन-विशेष A particular dental consonant प्राप० प्रामा०

थइअ त्रि० (स्थगित) आच्छादित, ढका हुआ Covered, Concealed से० ५, ४३, गा० ५७०,

थइआडत्त पु० (स्थगिकावत्) ताम्बूल-पात्र वाहक नौकर A servant who carries betel-leaf box कुप्र० ७१,

थइआधर पु० (स्थगिकाधर) ताम्बूल पात्र का वाहक नौकर A servant who carries betel-leaf box सुपा० १०७,

थडड न० (स्थपुट) (१) विपम और उन्नत प्रदेश Uneven region (२) त्रि० नीचा ऊँचा Uneven गडड०

थडडिअ त्रि० (स्थपुटित) विपम और उन्नत प्रदेश वाला Having difficult and lofty region (२) नीचा-ऊँचा प्रदेश वाला Having uneven district गडड०

थभविज्ञा स्त्री० (स्तम्भविद्या) स्तम्भ करने की विद्या Magical skill of stupefying सुपा० ४६३,

थभण न० (स्तम्भन) गुजरात का एक नगर, सभात Cambay, a city of Gujrat ती० ५१,—पुर. न० (पुर) नगर विगोप सभात A city named Cambay सिन्ध० १,

थभणिया स्त्री० (स्तम्भनिका) विद्या विशेष A kind of science, धर्मवि० १२४,

थक् त्रि० (स्थित) रहा हुआ Stayed, Situated कुमा० वज्जा० ३८, सुपा० २३७, आरा० ७७, मट्टि० ६,

थक्किअ त्रि० (श्रान्त) थका हुआ Fatigued, Weary, Tired विंग०

थड्ड. त्रि० (स्तम्भ) (१) निश्चल Fixed, Immovable. (२) अभिमानी, गर्विष्ठ

Insolent, Arrogant सुपा० ४३७, ५८२,

थड्डिअ त्रि० (स्तम्भित) स्तम्भ किया हुआ Brought to a stand (२) स्तम्भ, निश्चल Insensible, Motionless (३) न० गुरु-वन्दन का एक दोष, अकड रह कर गुरु को किया जाता प्रणाम A fault in saluting the spiritual teacher गुमा० २३,

थण पु० (स्तन) कुच, पयोधर, थन A nipple, A pap कुमा० काप्र० १६१, —जीवि. त्रि० (जीविन्) स्तन-पान कर निभने वाला बालक A child living on sucking, A suckling आ० १४, —घई स्त्री० (वती) बड़े स्तन वाली A female having big breasts गडड०—विसारि त्रि० (विसारिन्) स्तन पर फैलने वाला Spreading on breasts गडड०—सुत्त न० (मूत्र) उर सूत्र A necklace of pearls hanging over the breast—हर पु० (भर) स्तन का बोझ The weight or heaviness of breasts हे० १, १८६,

थण्यय पु० (स्तनन्धय) स्तन पान करने वाला बालक, छोटा बच्चा A small child, An infant, A suckling सुर० १०, ३७, अचु० ६३,

थणण न० (स्तनन) आक्रोश, अभिशाप. A curse, A malediction राज०

थणय पु० (स्तनक) दूसरी नरक-भूमि का एक नरक स्थान. An abode of the second hell देवेन्द्र० ६,

थणलोलुअ पु० (स्तनलोलुप) दूसरी नरक भूमि का एक नरक-स्थान A dwelling of the second hell देवेन्द्र० ७;

थशिश्र पुं० ( स्तनित ) एक नरक-स्थान A dwelling in a hell देवेन्द्र० ६, २६,  
 थशिश्र त्रि० ( स्तनवत् ) स्तन वाला।  
 Having breasts कण्ठ०  
 थशिश्रल पुं० ( स्तनक ) छोटा स्तन A small teat गडड०  
 थन्न न० ( स्तन्य ) स्तन का दूध Milk of breasts, Breast-milk — जीवि त्रि० ( जीविन् ) छोटा बच्चा A small young one सुपा० ६१६,  
 थप्पण न० ( स्थापन ) न्यास, न्यसन De-positing, Establishment कुम० ११७,  
 थपिपत्र त्रि० ( स्थापित ) रक्ता हुआ, न्यस्त Deposited, Established पिंग०  
 थय त्रि० ( स्तुत ) व्याप्त, भरपूर, Pevaded, Full of से० १, १,  
 थयण न० ( स्तवन ) स्तुति, स्तवन, गुण-कीर्तन Praising ग्राव० २,  
 थरु पु० ( त्सरु ) खड़ा-मुष्टि A hilt of handle of a sword दे० ५, २४,  
 थरुणण पु० ( थरुकिन ) (१) देश विशेष A county so called (२) उस देश का निवासी. An inhabitant of that county इक०  
 थल न० ( स्थल ) ग्रास लेते समय खुले हुए मुह की काक, खुले हुए मुह की खाली जगह. A hollow place in the open mouth at the time of taking morsel वव० ७, —इल्ल त्रि० ( वत् ) स्थल युक्त Spacious गडड०—कुक्कुडि-यड. न० ( कुक्कुटयड ) कबल प्रवेप के लिये खुला हुआ मुख A mouth opened for taking a morsel वव० ७,—चार पु० ( चार ) जमीन पर चलना To walk on the ground—नलिणी स्त्री० ( नलिनी ) जमीन में होने वाला कमल का

गाढ़ A lotus-plant growing in ground कुमा०  
 थलीघोडय पु० ( स्थलीघोटक ) पशु विशेष A kind of beast वव० ७,  
 थल्लिया स्त्री० ( स्थालिका ) थल्लिया, छोटा थाल, भोजन करने का वरतन A large plate पउम० २०, १६६,  
 थवइ पु० ( स्थपति ) वर्धकि, चढई A carpenter दे० २, २२,  
 थवणिया स्त्री० ( स्थापनिका ) न्यास, जमा रखी हुई वस्तु Capital, Deposited सुपा० २७५,  
 थविय त्रि० ( स्थापित ) न्यस्त, निहित. Deposited भवि०  
 थविय त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गई हो वह, श्लाघित Praised, Eulogized सुपा० ३४३,  
 थविर. त्रि० ( स्थविर ) वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged धर्मवि० १३४,  
 थाइयी स्त्री० ( स्थायिनी ) वर्ष वर्ष पर प्रसव करने वाली घोड़ी A mare delivering every year राज०  
 थाणय. न० ( स्थानक ) आलवाला, कियारी A basin for water near the root of a tree दे० ५, २७,  
 थाणीय त्रि० ( स्थानीय ) स्थानापन्न Reached to a place, Officiating. स० ६६७,  
 थाणु पु० ( स्थाणु ) (१) महादेव, शिव, Mahadeo, Shiva हे० २, ७, कुमा० पात्र० (२) खीला A nail (३) स्तम्भ. A pillar राज०  
 थाणैसर न० ( स्थानेश्वर ) समुद्र के किनारे पर का एक शहर A city on the sea-shore उप० ७२८ टी, स० १४८,  
 थावण न० ( स्थापन ) न्यास, आधान Placing, Depositing स० २३३,



थिञ्ज त्रि० ( स्थित ) रहा हुआ Stayed,  
Situating. स० २७०, विशेष० १०३२, भवि०  
थिगण त्रि० ( स्थान ) कठिन, जमा हुआ  
Collected into a mass, Congealed  
हे० १, ७४, २, ६६, से० २, ३०,  
थिवुग पु० ( स्तिबुक ) कन्द-विशेष A  
kind of tuberous root सुख० ३६, ६६,  
थिवुग-थिवुय पु० ( स्तिबुक ) जल-बिन्दु  
A drop of water विशेष० ७०४, ७०५,  
—सकम पु० ( सक्रम ) कर्म प्रकृतिश्रों का  
आपस में सक्रमण विशेष Transition  
of Karmic natures among them-  
selves पचा० २,  
थिमिञ्ज त्रि० ( स्तिमित ) मन्थर, धीमा  
Slow पाञ्च०  
थिरिम पु० स्त्री० ( स्थैर्य ) स्थिरता Firm-  
ness, Stability, Steadiness. सण०  
थुञ्ज त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गई हो  
वह, प्रशंसित Praised, Eulogized  
धण० २०, अजि० १८,  
थुइचाय पु० ( स्तुतिवाद ) प्रशंसा-वचन.  
A laudatory speech, Panegyric  
चेद्वय० ७४४,  
थुक न० ( थूकृत ) थूक, कफ, खखार  
Spittle, Saliva दे० ४, ४१,  
थुक्किञ्ज त्रि० ( थूकृत ) थूका हुआ Spitted  
सुपा० ३४६,  
थुण्ण न० ( स्तवन ) गुण-कीर्तन, स्तुति.  
Praise, Commendation सुपा० ३७,  
थुणाग पु० ( स्थूणाक ) शक्तिवेश विशेष, ग्राम-

विशेष A particular village श्रवम०  
थुण्णिर त्रि० ( स्तोत्र ) स्तुति करने वाला  
One who praises काल०  
थुत्त न० ( स्तोत्र ) स्तुति-पाठ. Praise,  
Reciting of praises भवि०  
थुत्थुकारिय त्रि० ( थुत्थुकारित ) थुत्तकारा  
हुआ, तिरस्कृत, अपमानित Despised,  
Scorned, Insulted भवि०  
थुत्थुकार पु० ( थुत्थुकार ) तिरस्कार  
Hatred, Contempt, Disdain प्रयौ०  
८१,  
थुल्ल त्रि० ( स्थुल ) मोटा, तगडा Fat;  
Stout, Corpulent पिंड० ४२६,  
थुवञ्ज त्रि० ( स्तावक ) स्तुति करने वाला.  
A praiser, Panegyrist हे० १, ७५,  
थुवण न० ( स्तवन ) स्तुति, स्तव Praise,  
Laudation कुप्र०  
थेञ्ज त्रि० ( स्थेय ) (१) रहने योग्य  
Inhabitable (२) जो रह सकता हो  
One who can live. (३) पु० फैसला  
करने वाला, न्यायाधीश A judge हे० ४,  
२६७,  
थेण्ण पु० ( स्तेन ) चोर, तस्कर A thief  
हे० १, १४७,  
थेरिञ्ज न० ( स्थैर्य ) स्थिरता. Steadiness,  
Stability, Firmness कुमा०  
थोम-थोमय पु० ( स्तोमक ) 'च' 'वे'  
आदि निरर्थक अव्ययका प्रयोग. An use of  
useless adverbs च, वै etc गृह० १,  
विशे० ६६६ दी,

द

दृश्ञ त्रि० ( दयित ) अभीष्ट, वाञ्छित  
Desired, Wished सुर० ३, २३८,  
—यम. त्रि० ( तम ) अत्यन्त प्रिय Exceeding-  
ly loved (२) पु० पति, भर्ता A

husband. पउम० ७७, ६२,  
दृश्च पु० ( दैत्य ) दानव, असुर. A  
demon, An evil spirit दे० १, १२१;  
कुमा० पाञ्च० —गुरु. पु० ( गुरु ) गुरु.

The planet Venus, Name of the preceptor of demons पाञ्च-दृङ्घ्न, न० (दैन्य) दीनता, गरीबपन Poverty, Miserable-state हे० १, १२१, दृष्ट पु० न० (देव) देव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारब्ध Fate, Destiny, Fortune 'अहवा कुविभ्रो दृष्टो' सुर० ८, ३४, हे० १, १२३, कुमा० महा० पठम० २८, ६०, दृष्टि त्रि० ( दैविक ) देव-सम्बन्धी, दिव्य. Relating to the gods, Divine स० २०६, दृष्टि त्रि० ( दृष्टि ) बड़े दात वाला, हिंसक जन्तु A wild boar, A savage animal, A beast of prey नाट-वेणी० २४, दृष्ट पु० ( दृष्ट ) (१) दुःख-जनक, परिताप जनक, Painful, Troublesome (२) छन्द विशेष A particular verse पिंग० (३) एक जैन उपासक का नाम A name of a Jain Upasaka सया० ६१, (४) दृष्ट-नायक, सेनापति A general चव० १, —जुज्झा, न० ( युद्ध ) (१) यष्टि-युद्ध, Stick against stick, Fighting with sticks and staves, Cudgelling —लत्तित्र त्रि० (लात) दृष्ट देने वाला One who inflicts a punishment, One who inflicts a fine चव० १, —पासिग पु० (पाशिक) कोतवाल A police magistrate. कुम० १२२, स० २६२, उप० १०३१ टी, —रास पु० (रास) एक प्रकार का नाच A kind of dance कप्पू दृष्टअल पु० ( दृष्टकल ) छन्द-विशेष A kind of verse पिंग० दृष्टग-दृष्टय पु० (दृष्टक) (१) कर्ण-कुण्डल नगर का एक राजा A king of Karna Kundla city. पठम० १, १६, (२)

दृष्टाकार वाक्य पद्धति, ग्रन्थाश-विशेष. A sentence in the form of a stick. राज० (३) न० दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल A famous forest of the Deccan (India). पठम० ३१, २२, —गिरि. पु० (गिरि) पर्वत विशेष A mountain. पठम० ४२, १४,

दृष्टलइत्र त्रि० (दृष्टलातिक) दृष्ट लेने वाला. One who exacts a fine चव० १, दृष्टारविखग पु० ( दृष्टारचिक ) दृष्ट धारी प्रतीहार A door-keeper with a staff निसी० चू० ६,

दृष्टारण्य न० ( दृष्टारण्य ) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल A renowned forest of the Deccan ( India ) पठम० ४१, १, ७६, २,

दृष्टाचण न० ( दृष्टन ) सजा कराना, निग्रह कराना Causing to punish. श्रा० १४, दृष्टाचित्र त्रि० (दृष्टित) जिसको दृष्ट दिलाया गया हो वह. Caused to punish, one chastised ओच० २६७ टी,

दृष्टिअ पु० (दृष्टिक) (१) सामन्त राजा A neighbouring king चव० २६८, (२) राजकुलानुगत पुरुष A descendant of royal family चव० ६१, (३) दृष्टपाशिक, कोतवाल A police-magistrate, Kotwal धर्मस० २६६, (४) दृष्ट वाला. Punished चव० ४, (५) पु० दृष्ट-दाता, अपराध विचार-कर्ता. One who inflicts a punishment चव० १,

दृष्टिअ त्रि० (दृष्टित) जिसको सजा दी गई हो वह Punished सुपा० ४६२,

दत्त त्रि० ( दत् ) दान करता, देता One giving, Donor पिंग० २६४,

दत्त त्रि० ( दान्त ) (१) जिसका दमन किया गया हो वह, वश में किया हुआ Restrain-

धिञ्च. गि० ( गिग ) रहा हुआ Stayed,  
Situating. सं० २७०; गिगे० १०३२; भवि०  
धिगण गि० ( ग्याण ) कठिन, जमा हुआ  
Collected into a mass; Congealed.

हे० १, ७४; २, ६६, से० २, ३०;

धिगुग. पु० ( गिगुक ) पन्थ-विशेष A  
kind of tuberculous root सुग० ३६, ६६,

धिगुग-धिवुय पु० ( सियुक ) जल-बिन्दु  
A drop of water गिगे० ७०४, ७०२,

—रक्रम. पु० ( सक्रम ) कर्म प्रवृत्तियों का

आपस में मगमग विशेष Transition  
of Karmic nature among them-  
selves पन्था० २,

धिमिञ्च. त्रि० ( स्तिमित ) मन्थर, धीमा  
Slow पाथ०

धिमि. पु० गी० ( स्थैर्य ) स्थिरता Firm-  
ness, Stability, Steadiness. मण०

धुञ्च त्रि० ( स्तुत ) निमयी स्तुति की गई हो  
वह, प्रशंसित Praised, Eulogized  
धण० ५०; अजि० १८;

धुञ्चाय पु० ( स्तुतित्राद ) प्रशंसा-वचन.  
A laudatory speech, Panegyric  
चेद्वय० ७४४,

धुक न० ( धूकृत ) धूक, कफ, खखार  
Spittle, Saliva दे० ४, ४१,

धुक्किञ्च त्रि० ( धूकृत ) धूका हुआ Spitted  
सुपा० ३४६,

धुणण न० ( स्तवन ) गुण-कीर्तन, स्तुति.  
Praise, Commendation सुपा० ३७,

धुणाग पु० ( स्थूणाक ) शक्तिवेश विशेष, ग्राम-

विशेष A particular village आवाम०  
धुणिर त्रि० ( स्तोत्र ) स्तुति करने वाला  
One who praises काल०

धुत्त न० ( स्तोत्र ) स्तुति-पाठ. Praise,  
Reciting of praises भवि०

धुत्तुकारिण्य त्रि० ( युत्तुकारित ) धुत्तकार  
हुआ, तिरस्कृत, अपमानित Disprised,  
Scorned, Insulted भवि०

धुत्तुकार पु० ( धुत्तुकार ) तिरस्कार  
Hatred; Contempt, Disdain प्रयो०  
८१,

धुत्त त्रि० ( स्थुत्त ) मोटा, तगड़ा Fat,  
Stout, Corpulent पिंड० ४२६,

धुचय त्रि० ( स्तावक ) स्तुति करने वाला.  
A praiser, Panegyrist हे० १, ७२,

धुचण न० ( स्तवन ) स्तुति, स्तव. Praise,  
Laudation धुप्र०

धेञ्च त्रि० ( स्थेय ) (१) रहने योग्य  
Inhabitable (२) जो रह सकता हो  
One who can live. (३) पु० फैसला  
करने वाला, न्यायाधीश A judge हे० ४,  
२६७,

धेण. पु० ( स्तेन ) चोर, तस्कर A thief  
हे० १, १४७,

धेरिञ्च. न० ( स्थैर्य ) स्थिरता. Steadiness,  
Stability, Firmness कुमा०

धोम-धोमय पु० ( स्तोम-क ) 'च' 'वै'  
आदि निरर्थक अन्वयका प्रयोग. An use of  
useless adverbs च, वै etc वृह० १,  
विशे० ६६६ टी,

द

दृञ्च त्रि० ( दधित ) अभीष्ट, वाञ्छित  
Desired, Wished सुर० ३, २३८,  
—यम. त्रि० ( तम ) अत्यन्त प्रिय Exceeding-  
ly loved (२) पु० पति, भर्ता A

husband. पउम० ७७, ६२,  
दृञ्चव पु० ( दैत्य ) दानव, असुर. A  
demon, An evil spirit हे० १, १२१,  
कुमा० पाञ्च० —गुरु. पु० ( शुक्र ) शुक्र.

The planet Venus, Name of the preceptor of demons पाञ्च०  
 द्विज. न० (दैन्य) दीनता, गरीबपन Poverty,  
 Mis rable-state हे० १, १२१,  
 द्विज पु० न० (द्वैव) द्वैव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारब्ध.  
 Fate, Destiny, Fortune. 'अहवा कुविभो दह्वो' सुर० ८, ३४, हे० १, १२३, कुमा०  
 महा० पउम० २८, ६०,  
 द्विविग त्रि० ( दैविक ) देव- सम्बन्धी, दिव्य.  
 Relating to the gods, Divine  
 स० १०६,  
 दृढि त्रि० ( दृष्टिन् ) बड़े दात वाला, हिंसक  
 जन्तु A wild boar, A savage animal,  
 A beast of prey नाट-वेणी० २४,  
 दंड पु० ( दण्ड ) (१) दुःख-जनक, परिताप  
 जनक. Painful, Troublesome (२)  
 छन्द विशेष A particular verse  
 पिंग० (३) एक जैन उपासक का नाम. A  
 name of a Jain Upasaka सथा० ६१,  
 (४) दण्ड- नायक, सेनापति A general  
 वव० १, —जुज्झ. न० ( युद्ध ) (१) यष्टि-  
 युद्ध. Stick against stick, Fighting  
 with sticks and staves, Cud-  
 gelling —लत्तित्र त्रि० (लात) दण्ड  
 देने वाला One who inflicts a pun-  
 ishment, One who inflicts a fine  
 वव० १, —पासिग पु० (पाशिक) कोतवाल A  
 police magistrate. कुप्र० १२५, स०  
 २६५, उप० १०३१ टी, —रास पु० ( रास )  
 एक प्रकार का नाच A kind of dance  
 कप्प०  
 दंडअल पु० ( दण्डकल ) छन्द-विशेष A  
 kind of verse पिंग०  
 दंडग-दंडय पु० ( दण्डक ) (१) कर्ण-कुण्डल  
 नगर का एक राजा A king of Karna  
 Kundla city. पउम० १, १६, (२)

दण्डाकार वाक्य पद्धति, ग्रन्थाश-विशेष. A  
 sentence in the form of a stick.  
 राज० (३) न० दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध  
 जंगल A famous forest of the De-  
 ccan (India) पउम० ३१, २५, —गिरि.  
 पु० (गिरि) पर्वत विशेष A mountain.  
 पउम० ४२, १४,  
 दंडलइत्र त्रि० (दण्डलातिक) दण्ड लेने वाला.  
 One who exacts a fine वव० १,  
 दंडारखिलग पु० ( दण्डारक्षिक ) दण्ड धारी  
 प्रतीहार A door-keeper with a  
 staff निसी० चू० ६,  
 दंडारण्य न० ( दण्डारण्य ) दक्षिण भारत का  
 एक प्रसिद्ध जंगल A renowned forest  
 of the Deccan ( India ) पउम० ४१,  
 १, ७६, ५,  
 दंडावण न० ( दण्डन ) सजा कराना, निग्रह  
 कराना Causing to punish, था० १४,  
 दंडावित्र त्रि० (दण्डित) जिसको दण्ड दिलाया  
 गया हो वह. Caused to punish, one  
 chastised ओष० १६७ टी,  
 दंडिअ पु० (दण्डिक) (१) सामन्त राजा A  
 neighbouring king प्रव० २६८, (२)  
 राजकुलानुगत पुरुष A descendant of  
 10yal family प्रव० ६१, (३) दण्डपार-  
 शिक, कोतवाल A police-magistrate;  
 Kotwal धर्मस० १६६, (४) दण्ड वाला.  
 Punished वव० ४, (५) पु० दण्ड-दाता,  
 अपराध विचार-कर्ता. One who inflicts  
 a punishment वव० १,  
 दंडिअ. त्रि० (दण्डित) जिसको सजा दी गई हो  
 वह Punished सुपा० ४६२,  
 दत्त त्रि० ( ददत् ) दान करता, देता One  
 giving, Donor पिंड० १६४,  
 दत्त. त्रि० ( दान्त ) (१) जिसका दमन किया  
 गया हो वह, वश में किया हुआ Restrain-

od, Biddled प्रा० १६५, (२) दो उप-  
वास, बेला Two fasts सवोच० २८,  
दंतच्छत्र पु० (दन्तच्छद) श्रोष्ठ, होठ. A lip.  
पात्र०  
दंतपुर. न० (दन्तपुर) नगर विशेष A parti-  
cular city चव० १,  
दन्तबलहिया. स्त्री० (दन्तबलहिका) उद्यान-  
विशेष A garden स० ७०,  
दन्ति. पु० (दन्ति) पर्वत-विशेष. A moun-  
tain so called पडम० १२, ६,  
दन्तुर त्रि० (दन्तुर) (१) उन्नत दातवाला, जिसके  
दोँत उभड़ खाभड़ हैं Having long  
and projecting teeth (२) ऊँचा नीचा  
स्थान, विषम स्थान An uneven place.  
(३) आगे आया हुआ, आगे निकल आया, हुआ  
Projected कर्प०  
दन्तुरिय त्रि० (दन्तुरित) बेरो 'दन्तुर' शब्द  
Vido 'दन्तुर'. उप० १०३१ टी० सुपा० २००,  
दंद् पु० (दंद्) (१) कलह, झगडा  
Quarrel, Strife (२) युद्ध, सग्राम.  
Wai, Battle, Contest सुपा० १४७,  
कुमा०  
दपद्. पु० व० (दम्पति) स्त्री पुरुष का युगल,  
पति-पत्नी A couple, husband and  
wife सिरि० २४८,  
दभ. पु० (दभ) (१) माया, कपट Deceit,  
Fraud हे० १, १२७, (२) छन्द विशेष  
A particular verse पिंग० (३) झगडा,  
वञ्चना A deceit, Trickery प्रब० २,  
दभन. त्रि० (दभनक) दम्भी, ठग Rogue.  
सुल० २, १७,  
दम्बोलि पु० (दम्बोलि) चक्र. A thunder-  
bolt, कुप्र० २७०,  
दस. पु० (दश) दत्तचत, सर्प या अन्य किसी  
विषैले कीड़े का काटा हुआ भाग A sting,  
A bite हे० १, २६० टी०,

दसग त्रि० (दर्शक) दिखलाने वाला One  
who shows, exhibitioner स० ४८१,  
दसण न० (दशन) दात से काटना Biting  
or crushing with teeth, Chewing.  
से० १, १७,  
दसशि त्रि० (दर्शनि) किसी धर्म का अनु-  
यायी, A follower of a religion  
सुपा० २६६, (२) दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का  
जानकार One familiar with the  
systems of philosophy कुप्र० २६,  
कुमा० २१,  
दसावण न० (दर्शन) दिखाना. To show-  
उप० २११ टी,  
दसावित्र त्रि० (दर्शित) दिखलाया हुआ.  
Shown, Displayed सुपा० ३८६,  
दक्ष. त्रि० (दक्ष) जो दात से काटा गया हो  
वह Bitton पद०  
दक्ष. पु० (दक्ष) भगवान् मुनिसुव्रत स्वामी  
का एक पौत्र A grandson of Lord  
Munisuvrata पडम० २१, २७,  
दक्षण. न० (दर्शन) (१) अवलोकन,  
निरीक्षण Observation, Inspection.  
(२) देखनेवाला, निरीक्षक One who sees,  
Inspector कुमा०  
दक्षवित्र. त्रि० (दर्शित) दिखलाया हुआ.  
Shown पात्र० कुमा०  
दक्षला. स्त्री० (दाक्षा) (१) बल्ली-विशेष,  
दाख का पेड़ A creeper of grapes;  
Vine (२) फल विशेष, दाख, अमूर.  
Grape. कर्प० सुपा० २६७, २३६,  
दक्षलायणी. स्त्री० (दाक्षायणी) गौरी, शिव-  
पत्नी Parvati, Gauri, wife of Lord  
Shiva. पात्र०  
दक्षिण त्रि० (दक्षिण) (१) दक्षिण दिशा  
में स्थित Situated in the south.  
सुर० १, १८, गडड० (२) निपुण, चतुर.

Skilled, Proficient प्राप्त० ( ३ )

हितकर, अनुकूल, Favourable. ( ४ )

अपसव्य, वामेतर, दाहिना Right कुमा०

—पच्छिमा. स्त्री० ( पश्चिमा ) दक्षिण

और पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत कोण

South-west direction आवम०

—पुच्चा स्त्री० ( पूर्वा ) अग्नि कोण, South-

east direction चद० १,

दक्खिणा स्त्री० ( दक्षिणा ) ( १ ) दक्षिण

दिशा, The south जो० १, ( २ ) दक्षिण

देश Southern Country कप्पू०

—कखि त्रि० ( काङ्खिन् ) दक्षिणा का

अभिलाषी Desirous of the Deccan

पउम० ३०, ६३, —यण न० ( यन ) ( १ ) सूर्य

का दक्षिण दिशा में गमन Inclination

or Passing of the Sun towards

the South. The first half of the

year in which the sun moves

from the south to the north, the

Summer Solstice ( २ ) कर्क की

सक्रान्ति से धन की सक्रान्ति तक के छ मास

का काल The second half of the

year in which the sun moves

from the north to the south,

the winter solstice. जो० १,

दक्खिणण ज० न० ( दाक्षिण्य ) ( १ ) उदारता,

औदार्य Generosity, Liberality

( २ ) सरलता, मादर्य Gentleness,

Frankness, Straightness सुर० १,

६५, २, ६२, प्रासू ८, ( ३ ) अनुकूलता

Favourableness, Agreeableness

दस० २,

दक्खिण्य. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ

Shown भवि०

दद्धतिय त्रि० ( दार्ढान्तिक ) जिम पर दृष्टान्त

दिया गया हो वह अर्थ Thing some

explained or illustrated by an  
example उप० पु० १४३,

दढ त्रि० ( दढ ) ( १ ) अति निविड, प्रगाढ.

Dense, Impervious ( २ ) कठोर,

कठिन, Hard, Harsh पचा० ४, ( ३ )

क्रि० वि० अतिशय, अत्यन्त. Excessive,

Much पचा० १, ७, —धिइय त्रि०

( धृतिक ) अतिशय धैर्य वाला, Having

excessive patience पउम० २६, २२,

—मूढ त्रि० ( मूढ ) नितान्त मूर्ख,

Exceedingly foolish दे० १, ४,

दढभूमि. स्त्री० ( दढभूमि ) एक गाव का नाम

Name of a village आवम०

दढिअ त्रि० ( दढित ) दढ किया हुआ

Fixed, Confirmed. कुमा०

दत्त त्रि० ( दत्त ) न्यस्त, स्थापित Estab-

lished, Placed ( २ ) पु० स्वनाम-ख्यात

एक श्रेष्ठ पुत्र A son of a wealthy

man उप० ५६२, ७६८ टी, ( ३ ) एक जैन

मुनि A Jaina saint आक० ( ४ ) एक जैन

आचार्य. A Jaina preceptor कुप० ६,

दत्त. न० ( दात्र ) दाती, घास काटने की

हसिया An instrument of grass-

cutting or sickle दे० १, १४,

दत्तिय पु० ( दत्तिका ) वायु-पूर्ण चर्म

Leather full of air राज०

दत्तिया. स्त्री० ( दात्रिका ) ( १ ) छोटी दांती,

घास काटने का शस्त्र विशेष A small

scythe राज० ( २ ) दान देने वाली स्त्री A

female donor चारू० २,

दद्धुर पु० ( दद्धुर ) ( १ ) वाद्य-विशेष A

kind of musical instrument, गड०

( २ ) प्रहार, आघात A blow, धर्मवि० ८५,

दद्धुल त्रि० ( दहुमत् ) दाद रोग वाला

Having ringworm सिरि० ११६,

दक्षि त्रि० ( दक्षिन् ) अभिमानी, गर्विष्ठ.

od, Biddled प्रासू० १६२, (२) दो उपवास, बेला Two fasts सबोध० २८,  
 दंतच्छत्र पु० (दन्तच्छत्र) ओष्ठ, होठ, A lip.  
 पात्र०  
 दंतपुर न० (दन्तपुर) नगर विशेष A particular city चव० १,  
 दंतवलहिया. स्त्री० ( दन्तवलहिका ) उद्यान-विशेष A garden स० ७०,  
 दति पु० (दन्तिन्) पर्वत-विशेष. A mountain so called पठम० १२, ६,  
 दंतुर त्रि० (दन्तुर) (१) उन्नत दातवाला, जिसके दाँत उभड़ खाभड़ हैं Having long and projecting teeth (२) ऊँचा नीचा स्थान, विषम स्थान An uneven place. (३) आगे आया हुआ, आगे निकल आया, हुआ Projected कप्प०  
 दंतुरिय त्रि० ( दन्तुरित ) देखो 'दन्तुर' शब्द Vide 'दंतुर'. उप० १०३१ टी० सुपा० २००,  
 दद पु० ( द्दन्द् ) ( १ ) कलह, क्लेश Quarrel, Strife ( २ ) युद्ध, संग्राम War, Battle, Contest सुपा० १४७, कुमा०  
 दपद्. पु० व० ( दम्पति ) स्त्री पुरुष का युगल, पति-पत्नी A couple, husband and wife सिरि० २४८,  
 दंभ. पु० ( दम्भ ) ( १ ) माया, कपट Deceit, Fraud हे० १, १२७, ( २ ) छन्द विशेष A particular verse पिंग० ( ३ ) ठगाई, वञ्चना A deceit, Trickery प्रव० २, दंभग. त्रि० ( दम्भक ) दम्भी, ठग Rogue. सुख० २, १७,  
 दंभोलि पु० ( दम्भोलि ) वज्र. A thunderbolt, कुम० २७०,  
 दस पु० ( दश ) दंतचत, सर्प या अन्य किसी विषैले कीड़े का काटा हुआ घाव A sting, A bite हे० १, २६० टी०,

दसग त्रि० ( दर्शक ) दिखलाने वाला One who shows, exhibitioner स० ४८१;  
 दसख. न० ( दशन ) दात से काटना Biting or crushing with teeth, Chewing. से० १, १७,  
 दसणि त्रि० ( दर्शनिन् ) किसी धर्म का अनुयायी. A follower of a religion सुपा० ४१६, (२) दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का जानकार One familiar with the systems of philosophy कुम० २६, कुम्मा० २१,  
 दसावण न० ( दर्शन ) दिखाना To show. उप० २११ टी,  
 दसावित्र त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. Shown, Displayed सुपा० ३८६,  
 दक्क. त्रि० ( दष्ट ) जो दात से काटा गया हो वह Bitten पद्०  
 दक्ष पु० ( दक्ष ) भगवान् मुनिसुवत स्वामी का एक पौत्र A grandson of Lord Munisuvrata पठम० २१, २७,  
 दक्षिण. न० ( दर्शन ) ( १ ) अवलोकन; निरीक्षण Observation, Inspection ( २ ) देखनेवाला, निरीक्षक One who sees, Inspector कुमा०  
 दक्षवित्र. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. Shown पात्र० कुमा०  
 दक्षला. स्त्री० ( द्राक्षा ) ( १ ) चल्ली-विशेष, दाख का पेड़ A creeper of grapes; Vine ( २ ) फल विशेष, दाख, अगूर. Grape कप्प० सुपा० २१७, २३६,  
 दक्षायणी, स्त्री० ( दक्षायणी ) गौरी, शिव-पत्नी Parvati, Gauri, wife of Lord Shiva. पात्र०  
 दक्षिण त्रि० ( दक्षिण ) ( १ ) दक्षिण दिशा में स्थित Situated in the south. सुर० ३; १८, गवड० ( २ ) निपुण, चतुर.

Skilled, Proficient. प्रामा० (३)  
 हितकर, अनुकूल. Favourable. (४)  
 अपसव्य, वामेतर, दाहिना Right कुमा०  
 —पच्छिमा. स्त्री० (पश्चिमा) दक्षिण  
 और पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत कोण  
 South-west direction आचम०  
 —पुव्वा स्त्री० (पूर्वा) अग्नि कोण, South-  
 east direction चद० १,  
 दक्खिणा स्त्री० (दक्षिणा) (१) दक्षिण  
 दिशा, The south जो० १, (२) दक्षिण  
 देश Southern Country कप्प०  
 —कखि त्रि० (कादिक्खन्) दक्षिणा का  
 अभिलाषी Desirous of the Deccan  
 पउम० ३०, ६३, —यण न० (यन) (१) सूर्य  
 का दक्षिण दिशा में गमन Inclination  
 or Passing of the Sun towards  
 the South The first half of the  
 year in which the sun moves  
 from the south to the north, the  
 Summer Solstice (२) कर्क की  
 सक्रान्ति से धन की सक्रान्ति तक के छ मास  
 का काल The second half of the  
 year in which the sun moves  
 from the north to the south,  
 the winter solstice. जो० १,  
 दक्खिणण न० न० (दाक्षिण्य) (१) उदारता,  
 औदार्य Generosity, Liberality  
 (२) सरलता, मादवं Gentleness,  
 Frankness, Straightness सुर० १,  
 ६१, २, ६२, प्रासू० न. (३) अनुकूलता.  
 Favourableness, Agreeableness  
 दस० २,  
 दक्खिण्य. त्रि० (दर्शित) दिखलाया हुआ.  
 Shown भवि०  
 ददुत्तिय त्रि० (दार्शनिक) जिस पर दृष्टान्त  
 दिया गया हो वह अर्थ. Thing some

explained or illustrated by an  
 example उप० पृ० १४३,  
 दद त्रि० (दद) (१) अति-निविड, प्रगाढ  
 Dense, Impevious (२) कठोर,  
 कठिन, Hard, Harsh पचा० ४, (३)  
 क्रि० वि० अतिशय, अत्यन्त. Excessive,  
 Much पचा० १, ७, —धिइय त्रि०  
 (धृत्तिक) यतिशय धैर्य वाला, Having  
 excessive patience पउम० २६, २२,  
 —मूढ त्रि० (मूढ) नितान्त मूर्ख,  
 Exceedingly foolish दे० १, ४,  
 ददभूमि. स्त्री० (ददभूमि) एक गाव का नाम.  
 Name of a village आचम०  
 ददित्त त्रि० (ददित) दद किया हुआ  
 Fixed, Confirmed. कुमा०  
 दत्त त्रि० (दत्त) न्यस्त, स्थापित Estab-  
 lished, Placed (२) पु० स्वनाम-ख्यात  
 एक श्रेष्ठ पुत्र A son of a wealthy  
 man उप० २६२, ७६८ टी, (३) एक जैन  
 मुनि A Jaina saint आका० (४) एक जैन  
 आचार्य. A Jaina preceptor कुम० ६,  
 दत्त. न० (दात्र) दाती, वास काटने की  
 हस्तिया An instrument of grass  
 cutting or sickle दे० १, १४,  
 दत्तिय पु० (दात्रिक) वायु-पूर्ण चर्म  
 Leather full of air राज०  
 दत्तिया. स्त्री० (दात्रिका) (१) छोटी दाती,  
 वास काटने का शस्त्र विशेष A small  
 scythe राज० (२) दान देने वाली स्त्री A  
 female donor चारू० २,  
 ददुदुर पु० (ददुर) (१) वाद्य-विशेष A  
 kind of musical instrument. गढ०  
 (२) प्रहार, आघात A blow, धर्मवि० ८२,  
 ददुदुल त्रि० (ददुमत्) दाद रोग वाला  
 Having ingworm सिरि० ११६,  
 दम्पि. त्रि० (दम्पिन्) अभिमानी, गर्विष्ठ-



Arrogant, Proud कप्पुं  
 दण्डिअ. त्रि० ( दर्पिक ) दर्प-जनित  
 Produced by arrogance उवर० १३१,  
 दण्डुल्ल त्रि० ( दर्पवत् ) अहकार वाला.  
 Arrogant, Insolent हे० २, १६४, ५६०  
 दण्डिभय न० ( दामिक ) गोत्र-विशेष Name  
 of a lineage सू० प० १०, १६ टी,  
 दमग त्रि० ( दमक ) दमन करने वाला A  
 tyrant, An oppressor निसी० चू० ६,  
 दमणग-य पु० न० ( दमनक ) (१) छन्द-  
 विशेष A particular verse पिंग०  
 (२) गन्ध-द्रव्य-विशेष A fragrant  
 substance राज०  
 दमधर पु० ( दमधर ) एक जैन मुनि का नाम  
 Name of a Jaina saint पउम०  
 २०, १६३,  
 दमयन्ती स्त्री० ( दमयन्ती ) राजा नल की पत्नी  
 का नाम The queen of king Nala  
 पठि० कुप्र० १४, १६,  
 दमिल्ल पु० ( द्रविड ) (१) एक भारतीय देश  
 A region of India (२) पु० स्त्री०  
 उसके निवासी मनुष्य An inhabitant  
 of that district कुप्र० १०२, इक०  
 दमम. पु० ( द्रम्म ) सोने का सिक्का, सोना-मोहर  
 A gold-coin उप० पृ० ३८७, हे० ४, ४२२,  
 दय न० ( दक ) पानी, जल Water. वृह० १,  
 दयावर. त्रि० ( दयावर ) क्यालु Kind,  
 Merciful, Compassionate पउम०  
 २६, ४०, उप० पु० १६१,  
 दर. पु० न० ( दर ) (१) गुफा, कन्दरा. Cave  
 (२) गर्त, गडहा A pit धर्मवि० १४०,  
 (३) भय, डर Fear, Dread कुमा०  
 दरमलिय. त्रि० ( मर्दित ) आहत, चूर्णित  
 Beaten, Pounded भवि०  
 दरि स्त्री० ( दरि ) गुफा, कन्दरा. Cave  
 —आर. पु० ( वर ) किन्नर. A mythical

being with a human figure and  
 the head of a horse से० ६, ४४,  
 दरिअ. त्रि० ( दीर्घ ) डरा हुआ, भीत Fear-  
 ed, Frightened कुमा० सुपा० ६४२;  
 दरिआ स्त्री० ( दरिका ) कन्दरा, गुफा Den,  
 Cave नाट-विक्र० ८४,  
 दरिइ त्रि० ( दरिद्रिन् ) निर्धन, दीन, गरीब-  
 Poor 'अम्हे दरिद्रिपो' महा० सण०  
 दरिद्रिय त्रि० ( दरिद्रित ) दु स्थित, जो धन-  
 रहित हुआ हो Poor and wretched.  
 महा० पि० २५७,  
 दरिसणीय न० ( दर्शनीय ) भेट, उपहार.  
 A present, A gift सुर० १०, ६,  
 दरिसाणव न० ( दर्शन ) (१) दर्शन, साक्षा-  
 त्कार. Observing, Seeing आर १,  
 (२) त्रि० दर्शक, दिखलाने वाला. One  
 who shows भवि०  
 दरिसाव न० ( दर्शन ) दर्शन, साक्षात्कार-  
 Looking at, Face to face महा०  
 सुपा० ११२,  
 दरिसिअ त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ.  
 Showed, Displayed कुमा० उव०  
 दल न० ( दल ) (१) सैन्य, लश्कर.  
 Army, A body of troops कुमा०  
 (२) धन, सम्पत्ति. Wealth, Riches  
 सुपा० ६३८,  
 दलण न० ( दलन ) (१) पीसना, चूर्णन.  
 Levigating, Pounding Grind-  
 ing. सुपा० १४, ६१६, (२) चूर्ण करने  
 वाला One who levigates सुपा०  
 २३४, ४६७, कुम० १३२, ३८३,  
 दलिअ. त्रि० ( दलित ) विकसित Bloomed,  
 Expanded से० १२, १, (२) पीसा  
 हुआ, Levigated, Crushed पात्र-  
 गा० ६६१, (३) विदारित, खिड़ित Broken;  
 Torn सुर० ४, १२२

द्वदवा. स्त्री० ( द्वदवा ) दोग वाली गति  
 Speedy motion पउम० ८, १७३,  
 द्वरिया स्त्री० ( द्वरिका ) छोटी रस्सी.  
 Sting विशेष०  
 दवावण न० ( दापन ) दिलाता Causing  
 to give निसी० च० २,  
 दवावित्र त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ  
 Caused to give सुपा० १३०, स० १६३,  
 महा० उप० पृ० ३८६, ७२८ टी,  
 दवित्र त्रि० ( द्रवित ) द्रव-युक्त, पनीली वस्तु  
 Liquid, Fluid शोध०  
 दविडी स्त्री० ( द्राविडी ) लिपि विशेष. A  
 particular alphabet विशेष० ४६४ टी,  
 दव्य पु० न० ( द्रव्य ) (१) गौण, अग्रधान,  
 Subordinate, Secondary, Un-  
 essential (२) बाह्य, अतथ्य External,  
 Exterior पचा० ४, ६, (३) न० योग्यता  
 Fitness, Propriety पचा० ६, १०,  
 —लिंगि त्रि० ( लिङ्गिन् ) भेषधारी साधु  
 A disguised saint गु० १०,—वेय  
 पु० ( वेद ) पुरुष आदि का बाह्य आकार. The  
 external form of man etc राज०  
 दसकठ पु० ( दशकण्ठ ) रावण, Name  
 of a celebrated demon, King of  
 Lanka से० १५, ६१,  
 दसकधर पु० ( दशकन्धर ) राजा रावण  
 The king Ravana of Lanka  
 गउढ०  
 दसगगीव पु० ( दशग्रीव ) रावण, King  
 Ravana पउम० ७३, ८,  
 दसण न० ( दशण ) डशा, काटना, Biting,  
 Stinging प्रव० ३८,  
 दसणच्छय पु० ( दशनच्छद ) होठ, A lip  
 सुर० १२, २३४,  
 दसवल पु० ( दशवल ) भगवान् बुद्ध Lord  
 Buddha पाथ० हे० १, २६२,

दसमासिञ्च त्रि० ( दशमासिक ) दस मासे का  
 तौल वाला, दस मासे का परिमाण वाला  
 Weighing ten Mashas ( A kind  
 of weight ) कप्प०  
 दशवद्वय पु० ( दशवदन ) राजा रावण  
 King Ravana से० १०, ६,  
 दन्ना स्त्री० ( दशा ) (१) सौ वर्ष के प्राणी की  
 हजार वर्ष की अवस्था A hundred years  
 old creature's course of life  
 after every ten year- दल्पि० १,  
 (२) सूत या ऊन का छोटा और पतला धागा  
 A cotton or woollen small and  
 thin thread शोध० ७२६,  
 दसाणण पु० ( दसानन ) राक्षसेश्वर रावण  
 Ravana, a king of demons. से०  
 ३, ६३,  
 दसुत्तरस्य न० ( दशोत्तरशत ) (१) एक सौ  
 दस One hundred and ten (२)  
 त्रि० एक सौ दसवा, ११०वा One  
 hundred and tenth पउम० ११०, ४५,  
 दहण. पु० ( दहन ) अग्नि Fire उप०  
 पृ० २२, सुपा० ४७४, श्रा० २८,  
 दहणी स्त्री० ( दहनी ) विद्या विशेष A kind  
 of magical skill पउम० ७, १३८,  
 दहावण. त्रि० ( दाहक ) जलाने वाला One  
 who burns or kindles सण०  
 दहि स्त्री० ( दधि ) तेला, लगातार तीन दिन का  
 उपवास Three fasts at a stretch.  
 सवोध० ५८,  
 दहिमुह पु० ( दधिमुख ) (१) द्वीप-विशेष A  
 particular island पउम० ५१, १,  
 (२) एक नगर City. पउम० ५१, २,  
 दहिवाहण पु० ( दधिवाहन ) नृप-विशेष.  
 Name of a king महा०  
 दहिसर पु० ( दधिसर ) खाद्य द्रव्य-विशेष  
 A kind of eatable दे० ३, २६, ५, ३६,

दाइ. त्रि० ( दायिन् ) दाता, देने वाला, A donor उप० पु० १६२,  
 दाइअ पु० (दायिक) (१) पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार A partner of patrimony उप० पु० ४७, महा० (२) समान गोत्रीय A kinsman of the same family कप०  
 दाइजय न० ( देयक ) पाणि ग्रहण के समय वधु-वर को दिया जाता द्रव्य. A nuptial present given to the bride and the bride-groom सिरि० ४६६,  
 दाडिमी स्त्री० ( दाडिमी ) अनार का पेड़ The pomegranate tree पि० २४०,  
 दाढि त्रि० ( दद्विन् ) सूअर, बराह A wild boar पडम० ७, १८,  
 दाण पु० न० ( दान ) हाथी का मूद Ichor or the juice that exudes from the temples of an elephant in 1ut पत्र० पद० गडड०  
 दाणपरमिया स्त्री० ( दानपारमिता ) दान, उत्सर्ग, समर्पण Giving, Granting, Donation धर्मस० ७३७,  
 दाणविरय. पु० ( दानविरत ) एक राजा King सुपा० १००,  
 दाथ त्रि० ( द्वास्थ ) (१) द्वार पर स्थित Stood on the door (२) प्रतीहार, चपरासी. A door-keeper दे० ६, ७२,  
 दापण न० ( दापन ) दिलाना Causing to give सत्त० २६ टी,  
 दामट्टि पु० ( दामार्थिन् ) सौधर्म देवलोक के इन्द्र के वृषभ-सैन्य का अधिपति देव A commanding god of the bullock-army of the lord of the Saudharma heaven इक०  
 दामवत त्रि० ( दामन्वत् ) माला वाला Having a garland कुमा०

दामिय. त्रि० ( दामित ) नयमित, नियन्त्रित. Restrained; Bridled. सण०  
 दामोअर पु० ( दामोदर ) श्रीकृष्ण वासुदेव. Shree Krishna Vasudeo ती० ४,  
 दारगला स्त्री० (द्वारगला, दरवाजे का आगल. The bolt of a door. गा० ३२२,  
 दारदु-दारत्थ. त्रि० ( द्वारस्थ ) (१) द्वार में स्थित Stood in the door (२) पु० दरवान, प्रतीहार A door-keeper वृह० १,  
 दारपाल पु० (द्वारपाल) दरवान, द्वार-रक्षक A gate-keeper or janitor or porter. उप० ५३० टी० सुर० १०, १३६, महा०  
 दारवालय पु० (द्वारपालक) दरवान, प्रतीहार A door-keeper, A janitor पडम० १७, १६, सुपा० ४६६,  
 दारय त्रि० ( दारक ) विदारण करनेवाला, विध्वंसक One who destroys कुम्र० १३०,  
 दारिअ त्रि० ( दारित ) विदारित, फाटा हुआ Torn, Divided, Split, Rent पात्र०  
 दारिद् न० ( दारिद्र्य ) आलस्य Idleness, Laziness प्रामा०  
 दारिद्रिय. त्रि० ( दारिद्रित ) दरिद्रता-प्राप्त, दरिद्र. Indigent, Poor पडम० २४, २५,  
 दारुगाम पु० ( दारुग्राम ) ग्राम-विशेष Village पडम० ३०, ६०,  
 दारुण त्रि० ( दारुण ) (१) क्रोध युक्त, रौद्र. Indignant, Wrathful, Fierce. वव० १, (२) कष्ट, दुःख Evil, Misery, Suffering, Hardship स० ३२२; (३) दुर्भिक्ष, अकाल, Scarcity of provisions, Death, Famine. उप० १३६ टी,  
 दारुणी. स्त्री० ( दारुणी ) विद्या-देवी-विशेष. Name of goddess पडम० ७, १४०,  
 दारुपुत्तय पु० ( दारुपुत्रक ) कठपुतला A wooden doll, Puppet अरुचु० ८२,

दाव पु० ( दाव ) ( १ ) वन, जगल A forest or jungle ( २ ) देव, देवता, A god से० ६, ४३, ( ३ ) जगल की अग्नि A forest-conflagration पाअ०  
—अगाल पु० ( अगल ) जगल की आग A forest-conflagration. सण० सुपा० १६७, पडि०—गिग पु० ( अग्नि ) जगल की आग A fire in the forest, a forest on fire सण० सुपा० १६७, पडि०  
दावण न० ( दावण ) दिलाना. Causing to give. सुपा० ४६६,  
दावणया स्त्री० ( दापना ) दिलाना To cause to give स० २१, पडि०  
दाविअ त्रि० ( दाशित ) दिखलाया हुआ, प्रदर्शित Shown, Displayed पाअ० से० १, २३, ५, ८०,  
दाविअ त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ Caused to give सुपा० २४१,  
दाविअ त्रि० ( दावित ) ( १ ) नरमया हुआ, टपकाया हुआ Caused to ooze ( २ ) नरम किया हुआ Made soft, Softened अचु० ८८,  
दास पु० ( दशी ) दर्शन, अवलोकन Looking at, Seeing, Observation पड्०  
दास पु० ( दास ) धीवर. A hunter, A fowler 'केवटो धीवरो दासो' पाअ०  
दासरहि पु० ( दासरथि ) राजा दशरथ का पुत्र रामचन्द्र Name of Rama, a son of Dasanatha से० १, १४,  
दाससच्च पु० ( दाससत्य ) श्रीकृष्ण Shree Krishna अचु० १७,  
दाहण न० ( दाहन ) जलाना, भस्म कराना Burning, Reducing to ashes पडम० १०२, १६१,  
दाहविय त्रि० ( दाहित ) जलवाया हुआ, आग लगवाया हुआ Bunt, हम्मिर० २७,

दाहियपह पु० ( दक्षिणपथ ) ( १ ) दक्षिण देश की ओर का रास्ता. A road to the Daccan. ( २ ) दक्षिण देश The southern part of India, The Deccan 'गच्छामि दाहियपह' पडम० ३२, १३,  
दाहिणी. स्त्री० ( दक्षिण ) दक्षिण दिशा The south. कुमा०  
दि० त्रि० व० ( द्वि ) दो, दो की सख्या वाला Two हे० १, ६४, से० ६, २३,  
दिअ पु० ( द्विज ) ( १ ) दन्त, दात A tooth. ( २ ) ब्राह्मण आदि तीन वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य The first three castes of the Hindus viz A Brahmana, Kshatriya and Vaishya ( ३ ) वृक्ष विशेष, टिंकर का पेड़ A kind of tree. हे० १. ६४, —राय पु० ( राज ) ( १ ) उत्तम द्विज The best Brahmana ( २ ) चन्द्रमा. The moon, सुपा० ४१२, कुप० १६,  
दिअ पु० ( द्विक ) काक, कौआ A crow. वप० ७६८ टी,  
दिअ पु० ( द्विप ) हस्ती, हाथी An elephant हे० २, ७६,  
दिअ त्रि० ( हत ) हत, मार डाला हुआ. Killed कुप० १६,  
दिअ त्रि० ( वित ) छिन्न Cut, Torn, Rent. धम्मो० १,  
दिअचर त्रि० ( दिगम्बर ) नग्न, बखर-रहित. Stark naked, Unclothed ( २ ) पु० एक जैन संप्रदाय. A Jain Sampadaya, A Jain sect भवि० डवर० १२२, कुप० ४४३,  
दिअस. पु० न० ( दिवस ) दिन, दिवस A day गठड० पि० २६४, —कर. पु० ( कर ) सूर्य, रवि The sun से० १, २३, —नाह. पु० ( नाथ ) सूर्य, सूरज. The sun. पडम० १४, ८३;

- दिउण त्रि० ( द्विगुण ) दूना, दुगुना Two fold, Double, Twice पि० २६८,  
 दिक्काण. पु० ( द्वेकाण ) संप आदि लग्नों का दशवौं हिस्सा The tenth part of the Masha etc (the sign of Aries of the zodiac ) राज०
- दिग्धिआ. स्त्री० ( दीधिका ) बापी, सीढ़ी वाला कूप A large well with steps leading down to the water's edge स्वप्न० २६, विक० १३६,  
 दिच्छा स्त्री० ( दित्सा ) देने की इच्छा Desire of giving कुप्र० २६६,  
 दिट्ट. त्रि० ( दृष्ट ) ( १ ) अभिमत Approved Accepted, Admitted ( २ ) ज्ञात, प्रमाण से जाना हुआ Known, Understood उप० ८८२, बृह० १, —पाठि त्रि० ( पाठिन ) , चरक सुश्रुतादि का जानकार Knowing or familiar with Charaka and Sushruta श्लो० ७४,  
 दिट्टित्त्रि त्रि० ( द्वाष्टान्तिक ) जिस पर उदाहरण दिया गया हो वह Explained by illustration विशेष० १००२ टी,  
 दिट्टि स्त्री० ( दृष्टि ) तारा, मित्रा आदि योग दृष्टि Yogic dristi (A kind of vision) called Tara and Mitra सिरि० ६२३,  
 दिट्टिकीव पु० ( दृष्टिकीव ) नपुंसक विशेष A kind of impotent person निसी० चू० ४,  
 दिट्टिवध. पु० ( दृष्टिवन्ध ) नजर याधना Fascination or deception of the sight, Jugglery उप० ७२८ टी,  
 दिट्टिराय पुं० ( दृष्टिराय ) ( १ ) दर्शन राग, अपने धर्म पर अनुराग Affection for one's own religion धर्म० ७, ( २ ) चाचुप स्नेह Optical love. अभि० ७२,  
 दिट्टिल्ल. त्रि० ( दृष्टिमत् ) प्रशस्त दृष्टि वाला Having praiseworthy eyes. पठ० २८, २२,  
 दिट्टिविस पु० ( दृष्टिविष ) जिसकी दृष्टि में विष हो ऐसा सर्प. A serpent से० ४, २०,  
 दिणइद पु० ( दिनेन्द्र ) सूर्य, रवि. The sun. सण०  
 दिणवधु पु० ( दिनवन्धु ) सूर्य, रवि The sun पुष्प० ३७,  
 दिणमुह न० ( दिनमुख ) प्रभात, प्रात काल. Morning, The day-break पात्र०  
 दिणरयणिकरी स्त्री० ( दिनरजनिकरी ) विद्या-विशेष A kind of magical skill. पठ० ७, १३८,  
 दिणिद पु० ( दिनेन्द्र ) सूर्य, रवि The sun. सुपा० २४०,  
 दिणिस पुं० ( दिनेश ) ( १ ) सूर्य, सूरज Sun कप्पू० ( २ ) बारह की सख्या A number of twelve विवे० १४४,  
 दिणोत्तय. त्रि० ( दत्त ) दिया हुआ Given श्लो० २२ भा० टी  
 दित्त. त्रि० ( दीप्त ) ( १ ) तीक्ष्णीभूत, निशित. Sharpened, Whetted लहुअ० ११;  
 दित्त त्रि० ( दस ) ( १ ) मारने वाला A killer. ( २ ) हानि-कारक Injurious श्लो० ३०२;  
 दित्तिल्ल त्रि० ( दीप्तिमान् ) प्रकाश वाला. Bright, Shining सम्मत० १२६,  
 दिदिक्खा-दिदिच्छा स्त्री० ( दिदक्षा ) देखने की इच्छा Desire of giving राज० सुपा० २६४,  
 दिद्ध त्रि० ( दिग्ध ) जिस Smeared; Anointed, Daubed निसी० चू० १;  
 दिव्व त्रि० ( दीप् ) चमकने वाला, तेजस्वी. Shining, Brilliant, Radiant से० १६१,  
 दिरय पु० ( द्विरद ) हस्ती, हाथी An elephant से० १, २४,

दिवाहति पु० ( दिवाकीर्ति ) चाण्डाल, भंगी  
 A pariah, A scavenger दे० ५, ४१,  
 दिवाकिसि, पु० ( दीवाकीर्ति ) नापित,  
 हजाम A barber कुप० २८८,  
 दिवासुह न० ( दिवासुख ) प्रभात Morning,  
 Dawn, Day-break गड०  
 दिवायर पु० ( दिवाकर ) (१) सिद्धसेन नामक  
 विख्यात जैन कवि और तार्किक A well-  
 known poet and philosopher  
 named Siddhasena (२) पूर्वधर मुनि.  
 A saint versed in Purvas सम्मत्त०  
 १४१,  
 दिवायरत्थ न० ( दिवाकरात्थ ) प्रकाश कारक  
 अस्त्र-विशेष A kind of missile,  
 casting light. पडम० ६१, ४४,  
 दिवित्र पु० ( द्विविद ) चानर-विशेष A kind  
 of monkey से० ४, ८, १३, ७२,  
 दिविज त्रि० ( दिविज ) (१) स्वर्ग-में उत्पन्न  
 Born in the heaven (२) पु० देव,  
 देवता A god अजि० ७,  
 दिव न० ( दिव्य ) (१) शपथ विशेष, आरोप  
 को शुद्धिके लिए किया जाता अग्निप्रवेश आदि.  
 A kind of oath, A solemn decla-  
 ration उप० ८०४, (२) प्राचीन काल में  
 अपुत्रक राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार  
 जनक घटना से राज-गद्दी के लिए किसी मनुष्य  
 का निर्वाचन होता था वह हस्ति गर्जन, अश्वहोषा  
 आदि अलौकिक प्रमाण In the old days,  
 when a king died heirless, any  
 person appointed as a king on  
 the base of wonderful events  
 The trumpeting of an elephant,  
 neighing of a horse etc were  
 supernatural proofs उप० १०३१ सी,  
 (३) तेजा, तीन दिन का लगातार उपवास  
 Three fasts at a time तबोध० ५८,

—माणुस. न० ( मानुष ) देव और मनुष्य  
 सबन्धी हकीकतों का जिसमें वर्णन हो ऐसी  
 कथा वस्तु. A story describing the  
 details relating to gods and  
 man सं० २,

दिस पु० ( दिश ) एक देव-विमान A  
 celestial air-ship देवेन्द्र० १३१,

दिस त्रि० ( दिश्य ) दिशा में उत्पन्न Pro-  
 duced in any quarter से० ६, १०;  
 दिसआ स्त्री० ( द्यद् ) पत्थर, पापाण.  
 Stone, पद्०

दिसात्रक न० ( दिशाचक्र ) दिशाओं का  
 समूह A collection of directions  
 गा० १३०,

दिसागत्र पु० ( दिग्गज ) दिग्-हस्ती. One  
 of the eight elephants said to  
 guard and preside over the  
 eight cardinal points से० २, ३;  
 १०, ४६,

दिसादति पु० ( दिग्दन्तिन् ) दिग्-हस्ती.  
 Vido 'दिसागत्र' सुपा० ४८,

दिसामत्त न० ( दिग्मात्र ) अत्यल्प, सञ्चित.  
 The mere direction or indica-  
 tion, Hint. उप० ४७३,

दिसेभ पु० ( दिगिभ ) दिग्गज, दिग्-हस्ती  
 Vido 'दिसागत्र' गड०

दिस्स त्रि० ( दश्य ) देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान  
 का विषय Visible, Worthy to be  
 seen. यर्मसं० ४२८,

दिहि. स्त्री० ( धृति ) धैर्य, धीरज Patience.  
 हे० २, १३१, कुमा०

दिहा अ० ( द्विधा ) दो प्रकार Indeci-  
 nable-In two parts, Two kinds;  
 Dilemma हे० १, ६७,

दिहिम. त्रि० ( धृतिमत् ) धैर्य-शाली, धीर.  
 Firm, Steady, Resolute कुमा०

- दीव पु० (द्वीप) सौराष्ट्र का एक नगर, दीव A city called Diva in Saurashtra प्रव० १११,
- दीवञ्च न० (दीपक) छन्द विशेष A particular verse अजि० २६,
- दीवण्यु त्रि० (द्वीपञ्च) द्वीप के मार्ग का जानकार. Knowing the road to Diva उप० ५६२,
- दीवाली. स्त्री० (दीपाली) (१) दीप-पङ्क्ति A row of lights, Nocturnal illumination (२) दीवाली, पर्व विशेष, कार्तिकवदि अमास The festival called Diwali held on the night of new moon in the Ashvina month दे० ३, ४३,
- दीवावली स्त्री० (दीपावली) देखो 'दीवाली' शब्द Vide 'दीवाली' ती० १६,
- दीविग्रम. पु० (दीपिकाङ्ग) कल्प वृक्ष की एक जाति जो अन्धकार को दूर करती है. A kind of tree which removes darkness पउम० १०२, १२५,
- दीवी. स्त्री० (दीपिका) लघु प्रदीप. A small lamp आ० १६,
- दीवृत्सव. पु० (दीपोत्सव) कार्तिक वदि अमास, दीवाली The festival called Diwali held on the night of new moon in the Ashvina. ती० १६,
- दीह पु० (दीव) (१) दो मात्रा वाला स्वर-वर्ण Long vowel पिंग० (२) कोशल देश का एक राजा A king of Koshala country उप० पृ० २८, —शिद्दा. स्त्री० (निद्रा) मरण, मौत The death राज० —दसि त्रि० (दशिन्) दूरदर्शी, दूरन्देशी, Provident, Prudent, Far-sighted सुर० ३, ३, स० ३२, —दिट्टि त्रि० (दष्टि) (१) दूर दर्शी, दूरन्देशी Provident,
- Long-sighted (२) स्त्री० दीर्घ-दर्शिता. Providence, Foresight घर्म० १,—पेहि. त्रि० (प्रेक्षिन्) दूर-दर्शी Provident; Far-sighted पउम० २६, २२, ३१, १०६,
- दीहघ. त्रि० (दिवसान्ध) दिन को देखने में असमर्थ. Unable to see in the day प्रासू० १७६,
- दीहडक त्रि० (दीर्घदष्ट) जिसको साप ने काटा हो वह, One who is stung by a serpent निसी० चू० १,
- दीहपट्ट. पु० (दीर्घपृष्ठ) यवराज का एक मन्त्री. A minister of Yavraja वृह० १,
- दीहरिय त्रि० (दीर्घित) लम्बा किया हुआ. Lengthened, Elongated गड०
- दु पु० (दु) वृक्ष, पेड़ गड्ग. A tree उर० ६,
- दु अ० (द्विस) दो बार, दो दफा Two times, Twice सुर० १६, ५२,
- दु अ० (दुर्) (१) मुश्किली, कठिनाई. Difficulty (२) निन्दा Blame; Censure हे० २, २१७, प्रासू० २७८; सुपा० १४३,
- दुअ त्रि० (दुत) पीडित, हैरान किया हुआ. Pained, Harassed, Tormented. उप० ३२० टी,
- दुअक्खर त्रि० (द्वयक्खर) (१) अज्ञान, मूर्ख, अल्पज्ञ Foolish, Silly उप० १२६ टी, (२) पु० स्त्री० दास, नौकर A servant. पिं०
- दुअणुअ पु० (द्वयणुक) दो परमाणुओं का स्कन्ध An aggregate of two atoms विशेष० २१६२,
- दुअर त्रि० (दुष्कर) मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा सके वह Difficult प्राकृ० २६,
- दुअल्ल न० (दुक्कल) (१) वस्त्र, कपड़ा A cloth, A garment (२) सहिन वस्त्र;

सूक्ष्म वस्त्र A very fine garment.

हे० १, ११६, ग्राम०

दुआइ पु० (द्विजाति) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और  
वैश्य ये तीन वर्ण। The three castes  
of Hindus e g A Brahman,  
Kshatriya and Vaishya हे० १,  
६४, २, ७६,

दुउखिअ, त्रि० (द्विगुणित) दूना, दुगुना  
Twice, Double, Two-fold. कुमा०  
दुडुभ-दुडुह. पु० (दुन्दुभ) (१) सर्प की  
एक जाति A kind of serpent दे०  
७, ११,

दुक्कम्म न० (दुष्कर्मन्) पाप, निन्दित काज  
Sin, Wicked action. आ० २७,  
भवि०

दुकाल पु० (दुष्काल) अकाल Famine,  
Death सिरि० ४१,

दुक्कदिर. त्रि० (दुष्कन्दिन्) अत्यन्त आक्रन्द  
करने वाला. One who laments  
profusely भवि०

दुक्कप्प पु० (दुष्कल्प) शिथिल साधु का  
आचरण, पतित साधु का आचार Conduct  
of the feeble saint पचभा०

दुक्कम्म. न० (दुष्कर्मन्) दुष्ट कर्म, असदाचरण  
Wicked action, Bad conduct  
सुपा० २८, १२०, १००,

दुक्करकरण, न० (दुष्करकरण) पाच दिन का  
लगत्तार उपवास FIVE fasts at a time  
सबोध० १८,

दुक्कुल न० (दुष्कुल) निन्दित कुल A bad  
or low family धर्म० १,

दुखल क्वि० (दु ख) कष्ट से, मुश्किली से  
With great difficulty or tro-  
uble वसु० (२) त्रि० दु ख वाला, दु खित,  
दु ख-युक्त Unhappy, Miserable  
चै० ३३,—आराह त्रि० (आराध्य) दु ख

से आराधन योग्य Worshipable with  
great difficulty वजा० ११२,—आवह  
त्रि० (आवह) दु ख-प्रद. Painful,  
Troublesome पडम० १२, १००,—  
कर त्रि० (कर) दु ख जनक Painful,  
Troublesome सुपा० १६२,—मज्जिय.  
त्रि० (अर्जित) जिसने दु ख उपाजन किया हो  
वह One who has got pain,

दुखलत्त त्रि० (दु खार्त) दु ख से पीडित.  
Distressed, Afflicted. सुपा० १६१;  
स० ६४२, प्रासू० १४४,—गवेसण. न०  
(गवेण) दु ख से पीडित की सेवा, आर्त  
शुश्रूषा Service of the distressed.  
पचा० १६,

दुखलरिय पु० (दुष्करिक) दास, नौकर.  
A servant निसी० चू० १६,

दुखलरिया स्त्री० (दुष्करिका) (१) दासी, नौक-  
रानी A maid-servant निसी० चू० १६,  
(२) वैश्या, वरागना A harlot, A prosti-  
tute, A concubine निसी० चू० १६,

दुखलविअ त्रि० (दु खित) दु खी किया हुआ.  
Distressed, Afflicted. उप० ६३४;  
भवि०

दुखलोह पु० (दु खौघ) दु ख, राशि.  
Flood of unhappiness पडम० १०३,  
१२२, सुपा० १६१,

दुखलोह त्रि० (दु खोम) कष्ट-क्षोभ्य, सुस्थिर  
Steady, Immoveable सुपा० १६१,  
६२६,

दुखड त्रि० (द्विखण्ड) दो टुकड़े वाला. Hav-  
ing two pieces उप० ६८६ टी, भवि०

दुगच्छा स्त्री० (जुगुप्सना) घृणा, निन्दा Cen-  
sure, Reproach. पडम० ६२, ६२,  
दुगच्छा स्त्री० (जुगुप्सा) घृणा, निन्दा Dis-  
gust, Aversion, Contempt पाअ०  
कुम० ४०७, १



दुगसंपुराण. न० ( द्विकसपूर्णा ) लगातार बीस दिन का उपवास. Twenty fasts at a time सबोध० २८,  
 दुगुच्छुग त्रि० ( जुगुप्सक ) घृणा करने वाला One who abhors or abominates श्राव० २,  
 दुगुच्छुण न० ( जुगुप्सन ) घृणा, निन्दा Disgust, Abhorrence पि० ७४,  
 दुग्गुदुग पु० ( दौगुन्दुक ) एक समृद्धि शाली देव A flourishing god सुपा० ३२८,  
 दुग्गाठि स्त्री० ( दुग्गन्थि ) दुष्ट ग्रन्थि A bad knot. पि० ३३३,  
 दुग्गाय. न० दुर्गत) (१) दरिद्रता Distress (२) दुःख Pain, Affliction सबोध० ४,  
 दुग्गाह त्रि० ( दुग्गह ) जिसका ग्रहण दुःख से हो सके वह Which can be taken with difficulty Difficult to be gained or accomplished उप० पू० ३६०,  
 दुग्गा स्त्री० ( दुर्गा ) (१) पार्वती, गौरी Parvati, Gauri पात्र० सुपा० १४८, (२) पवि विशेष A kind of bird आ० १६,  
 दुग्गाई-दुग्गायवी-दुग्गादेई-दुग्गावी स्त्री० ( दुर्गादेवी ) (१) पार्वती, गौरी. Parvati (२) देवी विशेष Durga goddess पङ्० हे० १, २७०, कुमा०—रमणा पु० ( रमण ) महादेव, शिव Mahadeo, Shiva पङ्० दुग्गाह त्रि० ( दुर्गाह ) अत्यन्त गुप्त, अति-प्रच्छन्न Much concealed वव० ७,  
 दुग्घड. त्रि० ( दुग्घट ) असंगत, Improbable, Inconsistent, धर्मवि० २७०,  
 दुग्घडिअ त्रि० ( दुग्घटित ) दुःख से सयुक्त Unhappy (२) खराब रीति से बना हुआ Badly made 'दुग्घडिअमचअस्स' गा० ६१०,  
 दुग्घर न० ( दुग्घह ) दुष्ट घर A bad house भवि०

दुग्घास. पु० ( दुग्घास ) दुर्भिक्ष, अकाल. Dearth, Famine. वृह० ३,  
 दुग्घच न० ( दौत्य ) दूत कर्म, समाचार पहुँचाने का कार्य Message, Mission Errand पात्र०  
 दुग्घज्ज-दुग्घय त्रि० ( दुस्त्यज ) दुःख से त्यागने योग्य. Difficult to be abandoned कुमा० उप० ७६८ टी,  
 दुग्घार त्रि० ( दुग्घार ) दुराचारी Vicious, Licentious भवि०  
 दुग्घारि त्रि० ( दुग्घारिन् ) दुराचारी, दुष्ट आचरण वाला Vicious, Wicked स० २०३,  
 दुग्घितिय. त्रि० ( दुग्घिन्तित ) (१) दुष्ट-चिन्तित Badly meditated पडम० ११८, ६७, (२) न० खराब चिन्तन. Vile contemplation पङ्०  
 दुग्घिगिच्छु त्रि० ( दुग्घिगिच्छु ) जिसका प्रतीकार मुश्किल से हो वह Difficult to be cured स० ७६१,  
 दुग्घेट्टिय न० ( दुग्घेट्टिय ) गारीक दुष्ट आचरण Wicked gesture पङ्० सुर० ६, २३२,  
 दुग्घेडु त्रि० ( दुग्घेडु ) दुस्त्यज, दुःख से छोड़ने योग्य. Difficult to be abandoned धर्मवि० १२४,  
 दुग्घेज्ज त्रि० ( दुग्घेज्ज ) जिसका छेदन दुःख से हो सके वह Difficult to be cut पडम० ३१, २६,  
 दुज्जीह पु० ( द्विजिह्व ) (१) सर्प, साप A snake, A serpent (३) दुर्जन, खल पुरुष An insincere person A wicked man सट्ठि० ६३, कुमा०  
 दुज्जाय. त्रि० ( दुर्जात ) दुःख से निम्न होने योग्य Difficult to come out से० १२, ६२,  
 दुज्जित पु० ( दुर्जित ) एक प्राचीन जैन मुनि.

An ancient Jaina Saint कल्प०  
 दुर्जजीव. न० ( दुर्जीव ) आजीविका का भय  
 Fear of maintenance विशेष० ३४५२,  
 दुर्जेत्र त्रि० ( दुर्जेय ) दुःख से जीतने योग्य  
 Conquerable with difficulty सुपा०  
 २४८, महा०  
 दुर्जभाण न० ( दुर्ध्यान ) दुष्ट चिन्तन. Bad  
 meditation धर्म० २,  
 दुर्दृष्ट्य पु० ( दुष्टात्मन् ) दुष्ट जीव, पापी प्राणी  
 An evil soul पउम० ६, १३६, ७२, १२,  
 दुर्दिणत्र. त्रि० ( दून ) पीडित, दुःखित Dis-  
 tressed, Afflicted गा० ११,  
 दुर्दिणकलेव त्रि० ( दुर्निक्षेप ) दुःख से स्थापन  
 करने योग्य Difficult to be estab-  
 lished गा० १२४,  
 दुर्दिणमित्र. त्रि० ( दुर्नियोजित ) दुःख से जोडा  
 हुआ Joined with difficulty. से०  
 १२, १६,  
 दुर्दिणमित्त न० ( दुर्निमित्त ) खराब शकुन,  
 अपशकुन. An ill omen, An evil au-  
 gury पउम० ७०, ५,  
 दुर्दिणविट्ट त्रि० ( दुर्निविष्ट ) दुराग्रही Obsti-  
 nate, Persistent निसी०चू० ११,  
 दुर्दण्येय त्रि० ( दुर्जेय ) जिसका ज्ञान कष्ट साध्य  
 हो वह Difficult to be known, In-  
 comprehensible उवर० १२८, उप०  
 ३२८,  
 दुत्तडी स्त्री० ( दुस्तटी ) खराब किनारा A bad  
 shore or bank धम्म० १२ टी,  
 दुत्तव त्रि० ( दुस्तव ) कष्ट से तपने योग्य, दुःख  
 से करने योग्य ( तप ) Difficult to be  
 observed or practised धर्मा० १७,  
 दुत्तुड पु० ( दुस्तुण्ड ) दुस्तुख, दुर्जन A vic-  
 ked man सुपा० २७८,  
 दुत्थ, न० ( दौ स्थ्य ) दुर्गति, दुःस्थिता A bad  
 state, 'दुत्थेवि धीरा' कुम० ५४, सुपा० २४४,

दुत्थिअ त्रि० ( दु स्थित ) (१) दुर्गत, विपत्ति-  
 ग्रस्त Distressed, In trouble रयण०  
 ७२, भवि० सण० (२) निर्धन, गरीब In-  
 digent, Poor कुम० १४६,  
 दुद्दस त्रि० ( दुर्दस ) दुरात्सोक, जो कठिनाई में  
 देखा जा सके Which can be seen  
 with difficulty उत्तर० १४१,  
 दुद्दम पु० ( दुर्दम ) राजा अश्वघ्रीव का एक दूत.  
 A messenger of the king Ashva-  
 griva. आक०  
 दुद्दय त्रि० ( दुर्दय ) दुःख से देने योग्य Diffi-  
 cult to be given उप० ६२४,  
 दुद्दस त्रि० ( दुर्ध्वस ) जिसका नाश मुश्किली से  
 हो. Difficult to be perished सुर०  
 १, १२,  
 दुद्दर त्रि० ( दुर्धर ) (१) दुर्जय Invincible;  
 Unconquerable कुमा० ( ० ) पु०  
 रावण का एक सुभट A warrior of Ra-  
 vana पउम० ५६, ३०,  
 दुद्दसमुद्द पु० ( दुग्धसमुद्द ) चीर समुद्र, जिस  
 का पानी दूध के जैसा स्वादिष्ट है The sea  
 of milk गा० ३८८,  
 दुद्धोअहि-दुद्धोदहि पु० ( दुग्धोदधि ) चीर  
 समुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है  
 A sea, of which water is milk-  
 like tasteful, An ocean of milk.  
 गा० ४७२, उप० २११ टी,  
 दुन्नय. पु० ( दुर्नय ) (१) अनेक धर्म वाली  
 वस्तु में किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य  
 धर्म का प्रतिवाद करने वाला पक्ष. A party  
 which disowns or conceals other  
 natures and accepts only one  
 nature of a thing having num-  
 erous natures सम्म० १५, (२) त्रि०  
 दुष्ट नीति वाला, अन्याय कारी Having  
 or of wicked policy उप० ७६८ टी,

—कारि त्रि० (कारिन्) अन्याय करने वाला  
 Unjust सुपा० ३४६,  
 दुःखिग्गह त्रि० (दुःखिग्गह) जिसका निग्रह दुःख  
 से हो सके वह, अनिवार्य, Irrepressible,  
 Ungovernable उप० पृ० ११३,  
 दुःखिचार त्रि० (दुःखिचार) रोकने के लिये  
 अशक्य, जिसका निवारण मुश्किल से हो सके  
 वह Difficult to be checked,  
 Iresistible सुपा० १२३, महा०  
 दुःखिचारणीय त्रि० (दुःखिचारणीय) देखो  
 'दुःखिचार' शब्द Vide 'दुःखिचार' स०  
 ३४३, ७४१,  
 दुष्परिचरणीय त्रि० (दुष्परित्यजनीय) दुस्त्यज,  
 दुःख से छोड़ने योग्य, Difficult to be  
 abandoned काल०  
 दुष्पुत्र पु० (दुष्पुत्र) कुपुत्र, कपूत A dis-  
 obedient son पउम० २६, २३,  
 दुष्पेच्छ त्रि० (दुष्पेच्छ) दुर्दर्श, अदर्शनीय  
 Difficult to be seen भवि०  
 दुष्पति पु० (दुष्पति) दुष्ट स्वामी A wicked  
 husband भवि०  
 दुष्पक्षाल त्रि० (दुष्पक्षाल) जिसका प्रक्षालन  
 कष्ट साध्य हो वह Difficult to be  
 washed सुपा० ६०८,  
 दुष्पञ्चुपेक्षित त्रि० (दुष्पञ्चुपेक्षित) ठीक  
 ठीक नहीं देखा हुआ Badly seen प्रब० ६,  
 दुष्पजीवि त्रि० (दुष्पजीविन्) दुःख से जीने  
 वाला Living with difficulty  
 दसन्० १,  
 दुष्पडिगर त्रि० (दुष्पडिगर) जिसका प्रतीकार  
 दुःख से किया जा सके Difficult to be  
 resisted बृह० ३,  
 दुष्पडिपूर त्रि० (दुष्पडिपूर) पूरने के लिये  
 अशक्य, Difficult to be filled तदु०  
 दुष्पण्डित्य त्रि० (दुष्पण्डित्य) दुष्पण्डित,  
 जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह Which

is misused सुपा० १४०,  
 दुष्पधस त्रि० (दुष्पधस) दुर्धर्म, दुर्जय, In-  
 vincible पि० ३०५,  
 दुष्परिद्वय त्रि० (दुष्परिचित) अपरिचित,  
 Unacquainted से० १३, १३,  
 दुष्परिणाम त्रि० (दुष्परिणाम) जिसका परि-  
 णाम खराब हो, दुर्विपाक Whose result  
 is bad भवि०  
 दुष्परिमास त्रि० (दुष्परिमास) कष्ट साध्य स्पर्श  
 वाला Difficult to be touched से०  
 ६, २४,  
 दुष्परिवर्तण त्रि० (दुष्परिवर्तन) (१)  
 जिसका परिवर्तन दुःख से हो सके वह,  
 Difficult to be changed (२) न०  
 दुःख से पीछे लौटना To return with  
 difficulty तदु०  
 दुष्प्रवच पु० (दुष्प्रवच) दुष्ट प्रवच An  
 evil trick भवि०  
 दुष्प्रवाय पु० (दुष्प्रवाय) दुष्ट वायु A bad  
 wind भवि०  
 दुष्प्रह त्रि० (दुष्प्रह) जहा दुःख से जा सके  
 वह, दुर्गम Difficult to be known,  
 Hard to be understood. मोह० ७२,  
 दुष्प्राय न० (दुष्प्राय) तप-विशेष, आयविल  
 तप A kind of austerity सवोध० १८,  
 दुष्पितृ पु० (दुष्पितृ) दुष्ट पिता An evil  
 father सुपा० ३८७, भवि०  
 दुष्प्रिय त्रि० (दुष्प्रिय) अम्रिय Dishked,  
 Disagreeable — द्वासासि त्रि० (द्वासासि)  
 अम्रिय-वक्ता Speaking unkind or  
 harsh words सुपा० ३१४,  
 दुष्पेक्षणीय त्रि० (दुष्पेक्षणीय) कष्ट से  
 दर्शनीय Difficult to be seen नाट०  
 वेणी० २६,  
 दुष्फड त्रि० (दुष्फड) मुश्किल में फटने  
 योग्य Difficult to be rent त्रि० ८३

दुष्म त्रि० (दुग्ध) (१) दुहा हुआ. Milked  
 (२) न० दुहन. To milk प्राक्० ७७,  
 दुष्मरणि स्त्री० (दुर्भरणि, दु ख से निर्वाह, Diffi-  
 cult to be maintained सुपा० ३७०,  
 दुष्माव पुं० (दुर्भाव) (१) हेय पदार्थ  
 An object fit to be left or aban-  
 doned पठम० ८६, ६६, (२) खराब असर  
 A bad impression सुर० ३, १६,  
 दुष्माव. पु० (द्विर्भाव) द्वित्व, दुगुणापन  
 Twice, Double चेड्य० ६६०,  
 दुष्माव पु० (द्विर्भाव) विभाग, जुदाई A  
 division सुर० ३, १६,  
 दुष्मूह स्त्री० (दुर्भूति) अशिव, अमंगल,  
 Inauspiciousness बृह० ३,  
 दुष्मेज्ज. त्रि० (दुर्मेघ) तोडने को अशक्य  
 Unable to break पि० ८४, २८७,  
 नाट मृच्छ० १३३,  
 दुष्मव. न० (द्विभव) वर्तमान और आगामी  
 जन्म The present and future birth  
 श्रा० २७,  
 दुष्मकत न० (दुष्मकान्त) एक विद्याधर नगर  
 A Vidyadhari city इक०  
 दुष्मत्त त्रि० (द्विमात्र) दो मात्रा वाला स्वर  
 वर्ष. A long vowel हे० १, ६४,  
 दुष्मासिय त्रि० (द्वैमासिक) दो मास का, दो  
 मास सम्बन्धी Two months old, Of  
 two months सण०  
 दुष्मुहुत पु० न० (दुष्मुहूर्त) खराब मुहूर्त, दुष्ट  
 समय An inauspicious moment  
 सुपा० २३७,  
 दुष्महिला स्त्री० (दुर्मेहिला) दुष्ट स्त्री० A  
 wicked lady ओष० ४६४ टी,  
 दुष्माण पुं० (दुर्मान) झूटा अभिमान,  
 निन्दित गर्व Allogance अच्चु० ६४,  
 दुष्मार पु० (दुर्मार) विषम मार, भयकर ताडन.  
 Heavy beating, Merciless flogg-

ing 'दुष्मारेण मथो सोधि' श्रा० १२,  
 दुष्मारय. पुं० (दुर्मारुत) दुष्ट पवन Bad  
 wind भवि०  
 दुष्मिञ्ज त्रि० (दून) उपतापित, पीडित  
 Pained, Afflicted गा० ७४, २२४,  
 ४२३, भवि० काप्र० ३०,  
 दुष्मिल. स्त्री० न० (दुर्मिल) छन्द विशेष  
 A kind of verse. पिं०  
 दुष्मोञ्ज. त्रि० (दुर्मोक) दु ख से छोडने योग्य.  
 Difficult to be abandoned. अभि०  
 २४४,  
 दुष्कलर त्रि० (द्व्यकलर) परुष, कठार.  
 Haish, Severe, Stern भवि०  
 दुष्ग्रह. पु० (दुष्ग्रह) कदाग्रह. Foolish  
 obstinacy, Pertinacity कुप्र० ३७६,  
 दुष्जम्बवसिय न० (दुष्जम्बवसित) दुष्ट चिन्तन  
 An evil meditation सुपा० ३७७,  
 दुष्मास. पु० (दुष्मास) खराब आदत,  
 A bad habit सुपा० १६७,  
 दुष्मिगम त्रि० (दुष्मिगम) दुर्बोध, कष्ट से  
 जो जाना जा सके. Difficult to be  
 known राज०  
 दुष्मञ्च पु० (दुष्मात्य) दुष्ट मंत्री. An  
 evil minister कुप्र० २६१,  
 दुष्वगम त्रि० (दुष्वगम) दुर्बोध Difficult  
 to be understood कुप्र० ४८,  
 दुष्सण पु० (दुष्सन) (१) सर्प, साप.  
 Snake, Serpent (२) दुर्जन, दुष्ट मनुष्य.  
 An evil man सुपा० ६६७,  
 दुष्हिगम त्रि० (दुष्हिगम्य) दु ख से जानने  
 योग्य, दुर्बोध. Difficult to be known  
 'दुष्हिगमा' सम्म० १६१,  
 दुराणु पु० (दुरानन) विद्याधर वंश का  
 एक राजा. A king of the Vidyadhari  
 lineage पठम० ६, ४६,  
 दुराणुवत् त्रि० (दुरनुवर्त) जिसका अनुवर्तन

क साध्य हो वह Difficult to be followed वच० ३,  
 दुरायार त्रि० ( दुराचार ) (१) दुराचारी, दुष्ट आचरण वाला Vicious, Dissolute सु० २, १६३, १२, २२६, वेणी० १७१, (२) पु० दुष्ट आचरण Wicked conduct भवि०  
 दुरायारि त्रि० ( दुराचारिन् ) देखो 'दुरायार' शब्द. Vide 'दुरायार' भवि०  
 दुरारोह त्रि० ( दुरारोह ) जिस पर दुःख से चढ़ा जा सके वह, दुरध्यास Difficult to be ascended गा० ४६८,  
 दुरालोच त्रि० ( दुरालोक ) जो दुःख से देखा जा सके, देखने को अशक्य Difficult to be seen से० ४, ८, कुमा०  
 दुरालोच्य त्रि० ( दुरालोक्य ) देखो 'दुरालोच' शब्द Vide 'दुरालोच' भवि०  
 दुरावह त्रि० ( दुरावह ) दुर्धर, दुर्बह Difficult to be borne पउम० ६८, ६,  
 दुरास त्रि० ( दुरास ) (१) दुष्ट आशा वाला Evil minded (२) खराब इच्छा वाला Having bad motives भवि० सचि० १६,  
 दुरासय. त्रि० ( दुरासय ) दुष्प्राप, दुर्लभ Difficult to be attained (२) दुर्जय, Invincible राज०  
 दुरिक्ष त्रि० ( दुरीक्ष ) देखने को अशक्य Difficult to be seen कुमा०  
 दुरिष्ट. न० ( दुरिष्ट ) खराब यजन-याग A bad sacrifice दसनि० १, १०५,  
 दुरुक्त न० ( दुरुक्त ) दुष्टोक्ति, दुष्ट वचन Foul language सार्ध० १०१,  
 दुरुत्तर त्रि० ( दुरुत्तर ) दुष्ट उत्तर, अयोग्य जवाब An unsuitable answer हे० १, १४,  
 दुरुत्तार त्रि० ( दुरुत्तार ) दुःख से पार करने योग्य Difficult to be penetrable सुपा० २१७,

दुरुचशीय त्रि० ( दुरुचनीत ) जिसका उपनय दुपित हो ऐसा ( उदाहरण ) (In logic) Whose Upanaya (the fourth member of the five-membered Indian syllogism) is false दसनि० १,  
 दुरुचयार त्रि० ( दुरुचयार ) जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो वह Difficult to be cured तदु०  
 दुसुच्चा स्त्री० ( दुर्वा ) तृण-विशेष, दूब A kind of grass स० १२४, उप० ३१८,  
 दुरुहण न० ( आरोहण ) अधिरोहण, ऊपर चढ़ बैठना Ascending स० ११,  
 दुरेह पु० ( द्विरेफ ) भ्रमर, भमरा A wasp पाश० हे० १, ६४,  
 दुरोत्तर न० ( दुरोदर ) जूआ, धूत A gambler पाश०  
 दुलह. पु० ( दुर्लभ ) एक वशिक पुत्र A Bania son सुपा० ६१७,  
 दुल्लभ त्रि० ( दुर्लभ ) दुराप, दुष्प्राप्य Difficult to be attained उप० पृ० १३६, सुपा० १६३, सय०  
 दुल्लक्ष त्रि० ( दुर्लक्ष्य ) (१) दुर्विज्ञेय, जो दुःख से जाना जा सके, अलक्ष्य Difficult to be known से० ८, ५, स० ६६, वजा० १३६, आ० ७८, (२) जो कठिनाई से देखा जा सके Difficult to be seen. कप्प०  
 दुल्लग्न न० ( दुर्लग्न ) दुष्ट लग्न, दुष्ट मुहूर्त An inauspicious election or time मुद्रा० २१२,  
 दुल्लिख त्रि० ( दुर्ललित ) (१) दुष्ट आदत वाला, Having bad habits (२) दुष्ट इच्छा वाला Having wicked desires सुपा० ४८५, ३२८, (३) व्यसनी, दुष्ट आदत वाला Addicted to

any vice, Vicious सुपा० २१६, (४)  
दुर्विदग्ध, दु शिचित्त Unskilled, Stupid  
पात्र० (५) न० दुराशा, दुर्लभ वस्तु की  
अभिलाषा Desire for an object  
obtainable with difficulty महा-  
नि० ६,

दुर्वर्द्ध स्त्री० (दुपदी) कृन्द विशेष A kind  
of verse सं० ७१,

दुव्यगया स्त्री० (दुपदाङ्गजा) राजा दुपद की  
लडकी, द्वौपदी, पाण्डवों की पत्नी. Diupa-  
di, a princess of the king Du-  
pada. उप० ६४८ टी,

दुव्यगरुहा स्त्री० (दुपदाङ्गरुहा) देखो 'दुव्यगया'  
शब्द Vide 'दुव्यगया' उप० ६४८ टी,

दुव्ययण न० (दुर्वचन) खराब वचन, दुष्ट उक्ति  
Abuse पत्र० ३५, ११,

दुवारपाल पु० (द्वारपाल) दरवान, प्रतीहार  
A door-keeper. सुर० १, १३४, २,  
१४८,

दुवारि त्रि० (द्वारिन्) (१) द्वार वाला.  
Having doors (२) दरवान, प्रतीहार  
A door-keeper 'रायदुवारी तहि' सुपा०  
२६६,

दुवियड्ड त्रि० (दुर्विदग्ध) दु शिचित्त, जान-  
कारी का झूठा अभिमान करने वाला Proud  
of knowledge उप० ८३३ टी,

दुवियप्प पु० (दुर्विकल्प) दुष्ट वितर्क A  
bad idea भवि०

दुविल्लय पु० (दुविल्लक) एक अनार्य देश A  
Non-Aryan country प्रब० २७४,

दुव्वसणा न० (दुर्वसन) खराब आदत, डुरी  
आदत. Bad habit सुपा० १८४, ४८६,  
भवि०

दुञ्जाय पु० (दुवाञ्च) दुर्वचन, दुष्ट उक्ति  
Foul expressions or abuse  
'दुञ्जायो न य कायन्वो' पत्र० १०३, १४३,

दुञ्जाय पु० (दुवाञ्च) दुष्ट पवन. Bad air.  
शमि० ४,

दुञ्जार त्रि० (दुवाञ्च) कठिनाई से रोकने योग्य.  
अवार्य Difficult to be prevented.  
से० १२, ६३, उप० ६८६ टी, सुपा० १६७,  
४७१, शमि० ११६,

दुञ्जास पु० (दुवाञ्च) एक ऋषि Name  
of a sage शमि० ११८,

दुञ्जिदप्प त्रि० (दुर्ज) दु ख से अर्जन करने  
योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य Difficult  
to be earned कुप्र० २३८,

दुञ्जिणीअ त्रि० (दुविनीत) अविनीत, उद्धत.  
Obstinate, Insolent पत्र० ६६,  
३५, काल०

दुञ्जिभच्च त्रि० (दुर्विभाव्य) दुर्लक्ष्य, दु ख से  
जिसकी आलोचना हो सके वह Difficult  
to be expressed सं० ५, १ टी,

दुञ्जिभाव त्रि० (दुर्विभाव) देखो 'दुञ्जिभच्च'  
शब्द Vide 'दुञ्जिभच्च'. विशेष०

दुञ्जिलसिय न० (दुर्विलसित) (१) स्वच्छन्दी  
विलास Wanton enjoyment (२)  
निकृष्ट कार्य, जघन्य काम A low action  
उप० १३६ टी,

दुञ्जिहअ न० (दुर्विहित) दुष्ट अनुष्ठान A  
wicked performance दसवृ० १, १२;  
दुसकड न० (दुसकट) विषम विपत्ति Pain-  
ful difficulty भवि०

दुसथ त्रि० (द्विसथ) दो बार सुनने से ही  
उसे अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला.  
Having a power of remembering  
after hearing twice धर्मसं० १२०७;  
दुसाह त्रि० (दुसाध) दु साध्य, कष्ट-साध्य  
Difficult to be accomplished.  
पत्र० ८६, २२;

दुसिम्बिय त्रि० (दुशिचित्त) दुर्विदग्ध.  
Unskilled पत्र० २५, २१,

क साध्य हो वह Difficult to be followed वच० ३,  
 दुरायार त्रि० (दुराचार) (१) दुराचारी, दुष्ट आचरणवाला Vicious, Dissolute सुर० २, १६३, १२, २२६, वेणी० १७१, (२) पु० दुष्ट आचरण Wicked conduct भवि०  
 दुरायारि त्रि० (दुराचारिन्) देखो 'दुरायार' शब्द. Vide 'दुरायार' भवि०  
 दुरारोह त्रि० (दुरारोह) जिस पर दुःख से चढ़ा जा सके वह, दुरध्यास Difficult to be ascended गा० ४६८,  
 दुरालोअ त्रि० (दुरालोक) जो दुःख से देखा जा सके, देखने को अशक्य Difficult to be seen से० ४, ८, कुमा०  
 दुरालोयण त्रि० (दुरालोकन) देखो 'दुरालोअ' शब्द Vide 'दुरालोअ' भवि०  
 दुरावह त्रि० (दुरावह) दुर्धर, दुर्बह Difficult to be borne पठम० ६८, ६,  
 दुरास त्रि० (दुराश) (१) दुष्ट आशा वाला Evil minded (२) खराब इच्छा वाला Having bad motives. भवि० सच्चि० १६,  
 दुरासय त्रि० (दुरासद) दुष्प्राप, दुर्लभ Difficult to be attained (२) दुर्जय, Invincible राज०  
 दुरिदम्ब त्रि० (दुरीच) देखने को अशक्य Difficult to be seen कुमा०  
 दुरिट्ट. न० (दुरिट्ट) खराब यजन-याग A bad sacrifice दसनि० १, १०५,  
 दुरुक्त न० (दुरुक्त) दुशक्ति, दुष्ट वचन Foul language सार्ध० १०१,  
 दुरुत्तर त्रि० (दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर, अयोग्य जवाब An unsuitable answer हे० १, १४,  
 दुरुत्तार त्रि० (दुरुत्तार) दुःख से पार करने योग्य Difficult to be penetrable सुपा० २१७,

दुरुवर्णीय त्रि० (दुरुपनीत) जिसका उपनय दुपित हो ऐसा (उदाहरण) (In logio) Whose Upanaya (the fourth member of the five-membered Indian syllogism) is false दसनि १,  
 दुरुवयार त्रि० (दुरुपचार) जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो वह Difficult to be cured तद्०  
 दुरुव्या खी० (दुर्वा) तृण-विशेष, दूब A kind of grass स० १२४, उप० ३१८,  
 दुरुहण न० (आरोहण) अधिरोहण, ऊपर चढ़ बैठना Ascending स० ५१,  
 दुरेह पु० (द्विरेफ) अमर, अमरा A wasp पाअ० हे० १, ६४,  
 दुरीअर न० (दुरीदर) जूआ, घूत A gambler पाअ०  
 दुलह. पु० (दुर्लभ) एक वणिक पुत्र A Bania son सुपा० ६१७,  
 दुल्लभ त्रि० (दुर्लभ) दुराप, दुष्प्राप्य. Difficult to be attained उप० पृ० १३६, सुपा० १६३, सण०  
 दुल्लक्ष त्रि० (दुर्लक्ष्य) (१) दुर्विज्ञेय, जो दुःख से जाना जा सके, अलक्ष्य Difficult to be known से० ८, ५, स० ६६, वजा० १३६, आ० २८, (२) जो कठिनाई से देखा जा सके Difficult to be seen. कप०  
 दुल्लग्न न० (दुर्लग्न) दुष्ट लग्न, दुष्ट मुहूर्त An inauspicious election or time मुद्रा० २१५,  
 दुल्ललिअ. त्रि० (दुर्ललित) (१) दुष्ट आदत वाला, Having bad habits (२) दुष्ट इच्छा वाला Having wicked desires सुपा० ४८५, ३२८, (३) न्यसनी, दुष्ट आदत वाला Addicted to

any vice, Vicious सुपा० २१६, (४)  
 दुर्विदग्ध, दु शिचित्त Unskilled, Stupid  
 पात्र० (२) न० दुराशा, दुर्लभ वस्तु की  
 अभिलाषा Desire for an object  
 obtainable with difficulty महा-  
 नि० ६,  
 दुवई स्त्री० (दुपदी) ज्ञन्द विशेष A kind  
 of verse सं० ७१,  
 दुवयगया स्त्री० (दुपदाङ्गजा) राजा दुपद की  
 लडकी, द्रौपदी, पाण्डवों की पत्नी. Diupa-  
 di, a princess of the king Du-  
 pada. उप० ६४८ टी,  
 दुवयगरुहा स्त्री० (दुपदाङ्गरुहा) देखो 'दुवयगया'  
 शब्द. Vide 'दुवयगया' उप० ६४८ टी,  
 दुवयण न० (दुर्वचन) खराब वचन, दुष्ट उक्ति  
 Abuse पत्र० ३२, ११,  
 दुवारपाल पु० (द्वारपाल) दरवान, प्रतीहार  
 A door-keeper. सुर० १, १३४, २,  
 १४८,  
 दुवारि त्रि० (द्वारि) (१) द्वार वाला.  
 Having doors (२) दरवान, प्रतीहार  
 A door-keeper 'रायदुवारी तर्हि' सुपा०  
 २६२,  
 दुवियड्ड त्रि० (दुर्विदग्ध) दु शिचित्त, जान-  
 कारी का झूठा अभिमान करने वाला Proud  
 of knowledge उप० ८३३ टी,  
 दुवियप्प पु० (दुर्विकल्प) दुष्ट वितर्क A  
 bad idea भवि०  
 दुविलय पु० (दुविलक) एक अनार्यदेश A  
 Non-Aryan country पत्र० २७४,  
 दुव्यसण न० (दुर्वसन) खराब आदत, बुरी  
 आदत. Bad habit सुपा० १८४, ४८६,  
 भवि०  
 दुन्वाय पु० (दुवाच्) दुर्वचन, दुष्ट उक्ति  
 Foul expressions or abuse  
 'दुन्वाओ न य कायव्यो' पत्र० १०३, १४३,

दुन्वाय पु० (दुवात्) दुष्ट पवन. Bad air.  
 शमि० ४,  
 दुन्वार त्रि० (दुवार) कठिनाई से रोकने योग्य.  
 अवार्य Difficult to be prevented.  
 सं० १२. ६३, उप० ६८६ टी, सुपा० १६७,  
 ४७१, अमि० ११६,  
 दुन्वास पु० (दुवासस्) एक ऋषि Name  
 of a sage अमि० ११८,  
 दुन्विदृप्प त्रि० (दुर्ज) दु ख से अर्जन करने  
 योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य Difficult  
 to be earned कुप्र० २३८,  
 दुन्विणीअ त्रि० (दुविनीत) अविनीत, उद्वत.  
 Obstinate, Insolent पत्र० ६६,  
 ३२, काल०  
 दुन्विभव्व त्रि० (दुर्विभाव्य) दुर्लच्य, दु ख से  
 जिसकी आलोचना हो सके वह Difficult  
 to be expressed ठा० २, १ टी,  
 दुन्विमाच त्रि० (दुर्विभाव) देखो 'दुन्विभव्व'  
 शब्द Vide 'दुन्विभव्व'. विशेष०  
 दुन्विलसिय न० (दुर्विलसित) (१) स्वच्छन्दी  
 विलास Wanton enjoyment (२)  
 निकृष्ट कार्य, जघन्य काम A low action  
 उप० १३६ टी,  
 दुन्विहिअ न० (दुर्विहित) दुष्ट अनुष्ठान. A  
 wicked performance दसचू० १, १२;  
 दुसकड न० (दुसकट) विपम विपत्ति Pain-  
 ful difficulty भवि०  
 दुसथ त्रि० (दुसस्थ) दो बार सुनने से ही  
 उसे अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला.  
 Having a power of remembering  
 after hearing twice धर्मसं० १२०७;  
 दुसाह त्रि० (दुसाध) दु साध्य, कष्ट-साध्य  
 Difficult to be accomplished.  
 पत्र० ८६, २२,  
 दुसिन्खिय त्रि० (दुशिचित्त) दुर्विदग्ध.  
 Unskilled पत्र० २५, २१,



दुस्सउग न० (दु शकुन) अपशकुन An ill omen, An evil augury यमि० २०,  
 दुस्सचर त्रि० (दुस्सचर) जहाँ दु ख से जाया जा सके, दुर्गम Difficult to be passed, Impassable स० २३१, सचि० १७,  
 दुस्सचार. त्रि० (दुस्सचार) देखो 'दुस्सचर' शब्द Vide 'दुस्सचर' सुर० १, ६६,  
 दुस्संत पु० (दुप्यन्त) चन्द्रवशीय एक राजा, शकुन्तला का पति A king of the lunar lineage पि० ३२६,  
 दुस्सज्ज त्रि० (दुस्साध्य) दुष्कर Difficult to be done सुपा० ८, १६६,  
 दुस्सत्त. त्रि० (दु सत्त्व) दुरात्मा, दुष्ट जीव An evil soul पउम० ८७, ६,  
 दुस्सल त्रि० (दु शल) दुर्विनीत, अविनीत Imprudent, Stubborn, Obstinate बृह० १,  
 दुस्सासण पु० (दु शासन) दुर्योधन का एक छोटा भाई A younger brother of Duryodhana चार० १२, वेणी० १०७,  
 दुस्साधिअ. त्रि० (दौ साधिक) दु साध्य कार्य को करने वाला One who performs difficult action पि० ८४,  
 दुस्सिकल. त्रि० (दु शिक्ल) दुष्ट शिक्षा वाला, दुशिक्षित, दुर्विदग्ध Badly educated उप० १४६ टी, कुप्र० २८३,  
 दुस्सिक्खअ त्रि० (दु शिक्षित) देखो 'दुस्सिक्ख' शब्द Vide 'दुस्सिक्ख' गा० ६०३,  
 दुस्सिलिट्ठ. त्रि० (दु शिलिट्ठ) कुत्सित श्लेष वाला Having bad relation पि० १३६  
 दुहड. त्रि० (द्विखण्ड) दो टुकड़े वाला Cut into two pieces रभा०  
 दुहद त्रि० (दु खद) दु ख देने वाला, दु ख जनक Painful, Troublesome सुपा० ४३४,

दुहभागि त्रि० (दु खभागिन्) दु खमें भागीदार A partner in distress सुपा० ४३१;  
 दुहमच्चु पु० (दु खमृत्यु) अपमृत्यु, अकाल मोत Untimely death, Accidental death सुर० ८, २३,  
 दुहावण. त्रि० (दु खन) दु खी करने वाला. One that afflicts सय०  
 दुहाविअ त्रि० (द्विअ) खण्डित Broken. पाअ० कुमा०  
 दुहाविअ त्रि० (दु खित) दु खी किया हुआ. Pained, Afflicted गउड०  
 दुहि त्रि० (दु खिन्) दु खी, व्यथित, पीड़ित. Distressed, Pained उप० ६८६ टी,  
 दुहिण पु० (दुहिण) ब्रह्मा चतुर्मुख. Brahma अचु० १६,  
 दुहित पु० (दौहित्र) लडकी का लडका. Grandson, Son of a daughter. उप० पृ० ७४,  
 दुहितिया खी० (दौहित्रिका) लडकी की लडकी. Grand daughter, Daughter of a daughter उप० पृ० ७४,  
 दुहिती खी० (दौहित्री) लडकी की लडकी A grand daughter श्रु० ११७,  
 दूत्त न० (दूतीत्व) दूती का कार्य, दूतीपन. Duty of a female messenger पउम० १३, ४२,  
 दूय त्रि० (दून) हैरान किया हुआ Harassed; Afflicted स० ७६३,  
 दूमग. न० (दौभाग्य) दुष्ट भाग्य, खराब नसीब. Ill luck, Misfortune उप० पृ० ३१,  
 दूमयाअ त्रि० (दुर्मनायित) जो उदास हुआ हो, उद्विग्नमनस्क Sad, Gloomy, Sorrowful नाट-मालती० ६८,  
 दूरतिअ. त्रि० (दूरान्तरित) अत्यंत व्यवहित. Separated by a long distance. गा० ६२८,

दूरग त्रि० (दूरग) दूरवर्ती Far situated  
 उप० ६४८ टी० कुमा०  
 दूरचर. त्रि० (दूरचर) दूर रहने वाला One  
 living at distance धम्मो० १०,  
 दूरस्थ. त्रि० (दूरस्थ) दूरस्थित, दूरवर्ती Being  
 at a distance, Remote कुमा०  
 दूरह्य त्रि० (दूरवत्) दूरस्थित, दूरवर्ती  
 Being at a distance, Remote  
 आव० ४,  
 दूरवर्ति त्रि० (दूरवर्तिन्) दूरमें रहने वाला  
 Living at a distance, Far re-  
 moved, Remote पि० १४,  
 दूरीकय त्रि० (दूरीकृत) दूर किया हुआ, Re-  
 moved to a distance श्रा० २८,  
 दूरीह्यत्र. त्रि० (दूरीभूत) जो दूर हुआ हो  
 Removed, Has been separated  
 from सुपा० ११८,  
 दूस न० (दूप्य) तवू, पटकुटी A tent  
 —हर न० (गृह) तवू, पटकुटी A  
 pavilion स० २६७,  
 दूसत्र त्रि० (दूपक) दोष प्रकट करने वाला  
 One who discloses faults वजा०  
 १८,  
 दूसग त्रि० (दूपक) (१) दूषित करने वाला  
 Corrupting, Polluting, Vitiat-  
 ing सुपा० २७५, स० १२४, (२) दूपण  
 निकालने वाला, दोष देखने वाला One  
 who finds fault with धर्मवि० ८५,  
 दूसण पु० (दूपण) (१) रावण की मौसी का  
 लडका A son of Ravan's mother's  
 sister पउम० १६, २५, (२) दूषित करने  
 वाला A seducer, A corrupter  
 स० ५२८,  
 दूसम त्रि० (दूपम) (१) खराब, दुष्ट  
 Wicked, Vicious (२) पु० काल विशेष,  
 पाचवीं आरा. The fifth Ara. 'दूसमे

काले' सट्टि० १५६,  
 दूसमित्त पु० (दूप्यमित्त) मौर्य वंश के नाश  
 होने पर पाटलिपुत्र में अभिषिक्त एक राजा.  
 A king annointed or appointed  
 in Pataliputra after the extinc-  
 tion of the Maurya lineage राज०  
 दूसहणीअ त्रि० (दूसहनीय) दुसह,  
 असह Unbearable, Insufferable;  
 Intoleable पि० ५७१,  
 दूसाहिअ त्रि० (दौसाधिक) दुसाध जाति  
 में उत्पन्न, अस्पृश्य जाति का Of the  
 untouchable caste प्राक० १०,  
 दूसि पु० (दूपिन्) नपुंसक का एक भेद  
 A kind of impotent person.  
 'वेपुस सज्जए दूसी' वृह० ४  
 दूसिअ पु० (दूपित) एक प्रकार का नपुंसक  
 A kind of hermaphrodite वृह० ४,  
 दूसिअ स्त्री० (दूपिका) आँसू का मैल  
 Rheum of the eyes कुमा०  
 दूहअ त्रि० (दुखक) दुखजनक Painful,  
 Troublesome 'असईय दूहअो चदा'  
 वजा० १८,  
 दूहविअ त्रि० (दुखित) दुखी किया हुआ;  
 दूभाया हुआ Distressed, Afflicted  
 'किं केणवि दूहविया' कुम्मा० १२,  
 दूहिअ. त्रि० (दुखित) दुख युक्त Unhap-  
 py, Miserable हे० १, १३, सट्टि० १७,  
 दे अ० (दे) पाद पूरक अव्यय. An exple-  
 tive adverb प्राक० ८१,  
 देअराणी स्त्री० (देवरपत्नी) देवरानी, पति  
 के छोटे भाई की बहू A wife of the  
 husband's younger brother दे०  
 १, १७१, कुमा०  
 देउलवाडय पु० न० (देवकुलपाटक) मेवाड़  
 का एक गाँव A village in Mewar.  
 वजा० ११६,

देउलिआ. स्त्री० ( दिक्कुलिका ) छोटा देव स्थान  
 A small temple उप० पृ० ३११,  
 ३२० टी,  
 देवखालिआ त्रि० ( दर्शित ) दिखाया हुआ,  
 बतलाया हुआ. Shown, Displayed  
 सुर० १, १७२,  
 नेपाल. पु० ( देवपाल ) एक मंत्री का नाम.  
 Name of a minister ती० २,  
 देव पु० ( देव ) पूज्य, पूजनीय A title  
 of honour पचा० १, —त्युइ स्त्री०  
 ( स्तुति ) देव का गुणानुवाद Praise  
 of the god प्राप्त् —द्रव्य न० ( द्रव्य )  
 देव सम्बन्धी द्रव्य God's wealth क०  
 ग० १, २६, —देव पु० ( देव ) (१)  
 परमेश्वर, परमात्मा Providence, God  
 सुपा० २००, (२) इन्द्र, देवों का स्वामी The  
 Lord of gods आया चू० २, —नट्टिआ  
 स्त्री० ( नर्तिका ) नाचने वाली देवी, देव-नटी  
 A dancing goddess अजि० ३१,  
 —भूमि स्त्री० ( भूमि ) स्वर्ग, देवलोक  
 The heaven (२) मरण, मृत्यु The  
 death सुपा० २८२, —नयरी स्त्री०  
 ( नगरी ) अमरावती, स्वर्गपुरी, Amara-  
 vati, The city of Indra पञ्च० ३२,  
 ३२, रिसि पु० ( ऋषि ) नारद मुनि  
 Divine sage called Narada पञ्च०  
 ११, ६८, ७८, १०, —सुदरी स्त्री०  
 ( सुन्दरी ) देवाङ्गना, देवी A goddess,  
 A female deity अजि० २८, —हर.  
 न० ( गृह ) देव मन्दिर A temple  
 उप० ४११,  
 देवउत्त पु० ( देवगुप्त ) ऐश्वर्य के एक  
 भावी जिनदेव A future Jinadeo of  
 Airvata region स० १२४,  
 देवउलिया. स्त्री० ( देवकुलिका ) देहरी, छोटा  
 देव मन्दिर. A small temple. कुप्र० १४४,

देवग न० ( दिव्याङ्ग ) देवदूष्य वस्त्र A  
 divine garment उप० ७३८,  
 देवगण न० ( देवाङ्गण ) स्वर्ग The  
 heaven सम्मत० १६०,  
 देवकुलिय पु० ( देवकुलिक ) पूजारी A  
 worshiper आवम०  
 देवगिह न० ( देवगृह ) देव मन्दिर A  
 temple. सुपा० १३, ३४८,  
 देवच्चय. त्रि० ( देवार्चक ) देव की पूजा करने  
 वाला One who worships a god  
 (२) पु० मन्दिर का पूजारी Monk or  
 Priest कुप्र० ४४१, ती० १२,  
 देवपर. त्रि० ( देवपर ) भाग्य पर ही श्रद्धा  
 रखने वाला Trusting to fate, A  
 fatalist पङ्०  
 देवय त्रि० ( देवत ) देवसम्बन्धी Relating  
 to the god, Divine प्रब० १२२,  
 देवरक्ष पु० ( देवरक्ष ) राक्षसवशीय एक  
 राज-कुमार A prince of the demon-  
 lineage पञ्च० २, १६६,  
 देवसाल न० ( देवशाल ) एक नगर का नाम.  
 Name of a city उप० ७६८ टी,  
 देवसिआ स्त्री० ( देवसिका ) एक पतिव्रता  
 स्त्री, जिसका दूसरा नाम देवसेना था A  
 chaste and dutiful woman whose  
 second name was Devasena.  
 पुष्क० ६७,  
 देवायरिय पु० ( देवाचार्य ) एक सुप्रसिद्ध जैन  
 आचार्य A well-known Jaina  
 preceptor गु० ७,  
 देविदय. पु० ( देवेन्द्रक ) देव विमान विशेष.  
 A celestial aerial car देवेन्द्र० १२८,  
 देविड्ड. स्त्री० ( देविर्दि ) (१) देव का वैभव  
 Divine grandeur (२) पु० एक  
 सुप्रसिद्ध जैन आचार्य और अत्यन्त A  
 notorious Jaina preceptor and

author. कम्प०

द्वैविय त्रि० ( द्वैविक ) देव सम्बन्धी Divine  
सुर० ४, २३६,

देवी स्त्री० ( देवी ) (१) दुर्गा, पार्वती Durga,  
Parvati कम्पू० (२) एक विद्याधर कन्या  
A vidyadhari girl. पञ्ज० ६, ४,

देवीकिय त्रि० ( देवीकृत ) देव का बनाया हुआ।  
Made by god गा० २६२,

द्वैसतरिअ त्रि० ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का,  
विदेशी Foreign उप० १०३१ टी, कुप्र०  
४१३,

द्वैसणु त्रि० ( देशज्ञ ) देश की स्थिति को  
जाननेवाला. Knowing the condition  
of the country उप० १०६ टी,

द्वैसभूषण. पु० ( देशभूषण ) एक केवल ज्ञानी  
महर्षि A learned saint पञ्ज० ३६,  
१२२,

द्वैसि त्रि० ( द्वैपिन् ) द्वेष करने वाला An  
enemy रयण० ३६,

द्वैसि-द्वैसिअ त्रि० ( द्वैशिन् ) (१) अग्नि,  
आशिक, भाग वाला Having parts  
विशे० २२४७, (२) दिखलाने वाला Guide  
(३) उपदेशक. A spiritual teacher,  
Preacher विशे० १४२६, भास० २८,

द्वैसिअ त्रि० ( देश-द्वैशिक ) देश में उत्पन्न,  
देश-सम्बन्धी Provincial, Native,  
Born in the country उप० ७६८ टी,  
अच्छु० ६, —सह पु० ( शब्द ) देशी  
भाषा का शब्द A provincial word  
बजा० ६,

द्वैसिअ त्रि० ( द्वैशिक ) पथिक, मुसाफिर. A  
traveller पञ्ज० २४, १६, उप० पु० ११६,  
(२) प्रवास में गया हुआ Gone to  
peregrinate सुर० १०, १६२, —सहा  
स्त्री० ( सभा ) धर्मशाला An inn, A  
public house उप० पु० ११६,

द्वैस्स त्रि० ( दृश्य ) देखने योग्य. To be  
seen, Visible (२) देखने को शक्य To  
be looked at स० १६६,

द्वैहरय न० ( द्वैहरत ) मैथुन Sexual  
intercourse, Coition, Copulation.  
बजा० १०८,

द्वैहली स्त्री० ( द्वैहली ) चौखट, द्वार के नीचे की  
लकड़ी The threshold of a door,  
The still or lower part of the  
wooden frame of a door गा०  
२२६, दे० १, ६२, कुप्र० १८३,

द्वै अ० ( द्विधा ) दो प्रकार से, दो तरह In  
two ways सुपा० २३३, ३१२,

द्वै त्रि० ब० ( द्वि ) दो, उभय, युग्म Two.  
हे० १, ६४,

द्वै. पु० ( दोस् ) हाथ, बाहु The arm.  
विक० ११३, रभा० कम्प०

द्वैअई स्त्री० ( द्विपदी ) छन्द विशेष A kind  
of metrie पिंग०

द्वैखर पु० ( द्वयखर ) परह, नपुंसक An  
impotent person बृह० ४,

द्वैखडिअ त्रि० ( द्विखण्डित ) जिसके दो टुकड़े  
किये गये हों वह Separated into two  
pieces भवि०

द्वैगुदय. पु० न० ( दोगुन्दक ) एक देव विमान.  
A celestial airship देवेन्द्र० १४६,

द्वैचूड पु० ( द्विचूड ) विद्याधर वर के एक  
राजा का नाम Name of a king of  
the Vidyadhari lineage पञ्ज० २, ४२,

द्वैच्च अ० ( द्विच् ) दो बार, दो बर. Two  
times, Twice 'द्वैच्च तच्च' सुर० २, २६,

द्वैचग न० ( द्वितीयाङ्ग ) (१) दूसरा अङ्ग  
The second portion (२) पकाया हुआ  
शाक Cooked vegetable बृह० १,  
(३) तीमन, कढ़ी Curry, A kind of  
Indian soup श्लो० २६७ भा०

दोजीह पुं० ( द्विजिह्व ) (१) दुर्जन  
Wicked man (२) साप. Snake  
सुर० १, २०,  
दोणसुया स्त्री ( द्रोणसुता ) लक्ष्मण की स्त्री,  
विशल्या. Name of a Laxamana's  
wife पत्रम० ६४, ४४,  
दोणी. स्त्री ( द्रोणी ) पानी का बड़ा कुँडा. An  
oval vessel for water, A bucket  
कुम० ४४१,  
दोच्छडी स्त्री ( दुस्तटी ) दुष्ट नदी A bad  
river उप० १३० टी, सुपा० ४६३,  
दोत्थ. न० ( दौ स्थ्य ) दुस्थता, दुर्दशा, दुर्गति  
A bad state, A distressful  
condition वच० ४, ७,  
दोहाण त्रि० ( दुर्दान ) दुख से देने योग्य  
Difficult to be given सचि० ४,  
दोहू त्रि० ( दोधु ) दोहन-कर्ता A milker  
दस० १, १ टी,  
दोधअ, दोधक न० ( दोधक ) कुन्द विशेष  
A kind of metle पिंग०  
दोभाय त्रि० ( द्विभाग ) दो भाग वाला, दो  
खण्ड वाला Having two parts उप०  
१४७ टी,  
दोमुह त्रि० ( द्विसुख ) (१) दो मुँह वाला  
Having two mouths (२) पु० नृप  
विशेष A king महा० (३) दुर्जन A  
wicked man गा० २४३,  
दोलगाय न० ( दोलनक ) झूलन, अन्दोलन  
Swinging, Oscillating दे० ८, ४३,  
दोलया-दोला स्त्री ( दोला ) झूला, हिंडोला  
A swing, A swinging board  
सुपा० २८६, कुमा०  
दोलाइय. त्रि० ( दोलायित ) (१) हिला हुआ.  
Swung (२) सशयित Doubtful,  
हेका० ११६,  
दोलायमाण त्रि० ( दोलायमान ) (१) हिलता

हुआ Swinging (२) सशय करता हुआ  
Doubting सुपा० ११७, गठ०  
दोलिया स्त्री० ( दोला ) देखो 'दोला' शब्द.  
Vide दोला सुर० ३, ११६,  
दोलिर. त्रि० ( दोलयितृ ) झूलने वाला One  
who swings कुमा०  
दोस पुं० ( दोस् ) हाथ, बाहु Aim से०  
२, १,  
दोसा स्त्री० ( दोष ) रात्रि, रात Night.  
सुर० १, २१,  
दोसायर पु० ( दोषाकर ) (१) चन्द्र, चाद  
Moon उप० ७२८ टी, सुपा० २७५, (२)  
दोषों की खान, दुष्ट A wicked man  
सुपा० २७५,  
दोसारअण पु० ( दोषारत्न ) चन्द्र, चाद  
Moon पद०  
दोसासय पु० ( दोषशय ) दुष्ट दोष युक्त,  
दुष्ट A wicked पत्रम० ११७, ४१,  
दोसि त्रि० ( दोषिन् ) दोष वाला, दोषी.  
Faulty, Defective कुम० ४३८,  
दोसील त्रि० ( दुशील ) दुष्ट स्वभाव वाला  
Ill-natured प्रव० ७३,  
दोसोलह त्रि० न० ( द्विपोडशन् ) बत्तीस  
Thirty-two कम्प०  
दोह पु० ( दोह ) दोहन Milking दे०  
२, ६४,  
दोह पुं० ( दोहा ) दोहने योग्य Milkable  
भास० ८६,  
दोहगि. त्रि० ( दौर्भागिन् ) दुष्ट भाग्य वाला,  
कमनसीब, मन्द भाग्य Unfortunate,  
Unlucky आ० १६,  
दोहय. त्रि० ( दोहक ) दोहनेवाला A milker.  
गा० ४६२,  
दोहा अ० ( द्विधा ) दो प्रकार In two  
ways हे० १, ३७,  
दोहाइअ त्रि० ( द्विधाकृत ) जिसका दो खण्ड

किया गया हो Divided into two parts हे० १, ६७, कुमा०  
दोहि. त्रि० ( दोहिन् ) भरने वाला, टपकने वाला An oozer गा० ६३६,  
दोहि त्रि० ( दोहिन् ) द्रोह करने वाला. Spiteful, Malicious भवि०  
दोहिरण त्रि० ( द्विभिन्न ) जिसका दो टुकड़ा

किया गया हो. Having two parts. प्राक० ११,  
दोहित्त पु० ( दोहित् ) लडकी का लडका. A son of a daughter सुपा० ३६४,  
दोहिती स्त्री० ( दोहित्री ) लडकी की लडकी A grand-daughter, A daughter of a daughter. महा०

## ध

ध पु० ( ध ) दन्त-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष A particular dental consonant प्राप० प्रामा०  
धख पु० ( ध्वाङ्ख ) काक, कौआ A crow उप० ८२३, पचा० १२,  
धत न० ( ध्वान्त ) (१) अन्धकार. Darkness सुर० १, १२, कर० ११, (२) अज्ञान Ignorance देवेन्द्र० २,  
धत त्रि० ( ध्मात ) शब्द युक्त, शब्दित Wordy पिंड०  
धधुक्कय न० ( धधुक्कय ) गुजरात का एक नगर, जो आज कल धधुका नाम से प्रसिद्ध है A city in Gujarat called Dhandhuka सुपा० ६२८, कुप्र० २०,  
धसाडिअ त्रि० ( मुक्त ) परित्यक्त Abandoned. कुमा०  
धगधगाइअ त्रि० ( धगधगायित ) धग् धग् आवाज वाला. Sounding 'Dhug, Dhug कप्प०  
धख. पु० ( धन ) कुबेर, धन-पति Kuber, a god of riches सुपा० ३१०,  
धणइत्त-धणइल्ल त्रि० ( धनवत् ) धनी, धन वाला Wealthy, Rich कुप्र० २४५, पि० २६२, सच्चि० ३०,  
धणजय पु० ( धनजय ) (१) अर्जुन, मध्यम पाण्डव Name of Arjuna वेशी० ११०, (२) बद्धि, अग्नि An epithet of fire

(३) सर्प-विशेष A kind of serpent.  
(४) वायु-विशेष शरीर व्यापि पवन A kind of wind (५) वृक्ष-विशेष A kind of tree हे० १, १७७, २, १८२,  
(६) श्रेष्ठि-विशेष Name of a wealthy man आब० ४, (७) एक राजा A king आबम०  
धणइत्त पु० ( धनाढ्य ) एक जैन मुनि A Jaina saint कप्प०  
धणणदि पु० स्त्री० ( धननन्दि ) दुगुना देव-द्रव्य Two fold wealth of god 'देवद्रव्य दुगुण धणणदी भणणइ' दस० १;  
धणणत्थि. त्रि० ( धनार्थिन् ) धन का अभिलाषी. Desiring for wealth, Seeking for wealth रयण० ३८,  
धणणपवर पु० ( धनप्रवर ) एक श्रेष्ठी. Wealthy person महा०  
धणण्पमा स्त्री० ( धनप्रभा ) कुण्डलवर द्वीप की राजधानी A capital of Kundalvar island. दीव  
धणणित्त पु० ( धनमित्र ) एक जैन मुनि. A Jaina saint पडम० २०, १७१,  
धणण. पु० ( धनद ) (१) एक सार्थवाह A leader of a caravan सुपा० २०६, (२) एक विद्याधर राजा, जो राजा रावण की मौसी का लडका था, A Vidyadhar king पडम० २०, १७१; (३) धन देने

वाला. A giver of wealth रयण० ३८,  
 धणसचया. स्त्री० ( धनसचया ) एक वणिग्-  
 महिला Name of a Bania lady महा०  
 धणसम्म पु० ( धनशर्मन् ) एक वणिक.  
 Name of a Bania गच्छ० २,  
 धणसिरि स्त्री० ( धनश्री ) एक वणिग्-महिला,  
 Name of a Bania lady आव० ४,  
 धणसेण पु० ( धनसेन ) एक राजा Name  
 of a king. दंस० ४,  
 धणाल. त्रि० ( धनवत् ) धनी. Wealthy,  
 Rich प्रा०  
 धणावह त्रि० ( धनावह ) ( १ ) धन को धारण  
 करने वाला, धनी Wealthy. ( २ ) पु०  
 एक श्रेष्ठी Name of a wealthy  
 person. दस०  
 धणि त्रि० ( धनिन् ) धनिक, धनवान्,  
 Wealthy, Rich हे० २, १५६,  
 धणिअ त्रि० ( धन्य ) धन्यवाद के योग्य  
 प्रशसनीय, स्तुति पात्र Blessed, Praise-  
 worthy पउम० ५६, २५, अचु० ४२,  
 धणिअ पु० ( धनिक ) यवन मत का प्रवर्तक  
 पुरुष-विशेष A founder of Non-  
 Aryan creed. मोह० १०१, १०२,  
 धणु पु० न० ( धनुप् ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक  
 राशि The sign sagittarius of the  
 zodiac विचार० १०६, सबोध० ५२,  
 धणुल्ल. त्रि० ( धनुमत् ) धनुष वाला  
 Aimed with a bow. प्रा० ३५,  
 धणुही स्त्री० ( धनुप् ) कामुक A bow  
 कुप्र० २७४, स० ३८१,  
 धणोसर पु० ( धनेश्वर ) एक प्रसिद्ध जैन मुनि  
 और ग्रन्थकार A well-known Jaina  
 saint and author सुर० १, २४६,  
 १६, २५०,  
 धण्ण. त्रि० ( धन्य ) ( १ ) कृतार्थ  
 Successful ( २ ) लाभ के योग्य

Bestowing wealth. ( ३ ) स्तुति-पात्र,  
 प्रशसनीय Praise-worthy कप्प०  
 धत्त त्रि० ( धत्त ) निहित, स्थापित.  
 Established राज०  
 धत्ती स्त्री० ( धात्री ) धाई, उपमाता A  
 nurse, A foster-mother स्वप्न०  
 १२२, ( २ ) पृथ्वी, भूमि Earth ( ३ ) आमल  
 का वृक्ष A kind of tree. हे० २, ८१,  
 धत्तूर पु० ( धत्तूर ) वृक्ष विशेष, धत्तूर  
 The white thorn-apple ( २ ) धत्तूर  
 का पुष्प A flower of that tree.  
 सुपा० १२४,  
 धत्तूरिअ. त्रि० ( धात्तूरिक ) जिसने धत्तूरे  
 का नशा किया हो वह One who has  
 drunk Dhatura ( the white  
 thorn-apple ) सुपा० १२४, १७६,  
 धत्थ त्रि० ( ध्वस्त ) ध्वस-प्राप्त, नष्ट  
 Perished, Ruined हे० २, ७६, सण०  
 धन्न. न० ( धान्य ) धनिया Coriander  
 seeds दसनि० ६, —आगार. न० ( आगार )  
 कोद्यागार, धान रखने का गृह A granary,  
 A store-house for grain निसी०  
 चू० ८, —कीड पु० ( कीड ) नाज में होने  
 वाला कीट विशेष A kind of insect  
 of grain जी० १७, —पत्थय पु०  
 ( प्रस्थक ) धान का एक नाप, A measure  
 for corn वव० १, —पिडग. न० ( पिटक )  
 नाज का एक नाप A measure of  
 grain वव० १,  
 धन्ना स्त्री० ( धान्य ) अन्न, अनाज Corn,  
 Grain उप० ६८६ टी,  
 धमण न० ( धमन ) ( १ ) आग में तपाना.  
 Heating आया० नि० १, १, ७, ( २ )  
 मखा, धमनी Bellows राज०  
 धमिअ त्रि० ( ध्मात् ) जिसमें वायु भर दिया  
 गया हो Blown, कुप्र० १४६,

धर्मिय त्रि० (ध्मात्) आग में तपाया हुआ।  
 Heated, Inflamed. माहे० ४७,  
 धम्म पु० ( धर्म ) (१) वर्तमान अवसर्पिणी  
 काल में उत्पन्न पन्दरहवें जिन-देव The  
 fifteenth Jinadeo of the present  
 Avasarpini पडि० (२) एक वखिक.  
 Name of a Banna उप०७२८ टी, (३)  
 स्थिति, मर्यादा Limit आया० चू० (४)  
 धनुष, कामुक. A bow. सुर० १, १४,  
 पात्र० (५) एक जैन मुनि A Jaina  
 saint कप० (६) आचार, रीति, व्यवहार  
 Usage, Custom कप० (७) एक देव  
 विमान. A celestial an-ship देवेन्द्र०  
 १४३, (८) एक दिन का उपवास. A fast  
 सवाध० १८, —अणुट्टाण. न० (अनुष्ठान)  
 धर्म का आचरण, Acting according  
 to religion, Virtuous or moral  
 conduct. धर्म० १, —अहिगरणिय.  
 पु० (अधिकरणिक) न्यायाधीश, न्याय-कर्ता.  
 A judge, A magistrate सुपा०  
 ११७, —अहिगारि त्रि० (अधिकारिन्)  
 धर्म-ग्रहण के योग्य Worthy to prac-  
 tise religion. धर्म०, —आइगर. त्रि०  
 (आदिकर) धर्म का प्रथम प्रवर्तक The  
 first founder of religion (२) पु०  
 जिन-देव. A Jinadeo धर्म० २, —उत्त.  
 पु० (पुत्र) शिष्य A pupil, A dis-  
 ciple प्रारू०, —काय पु० (काय) धर्म का  
 साधन भूत शरीर A body for prac-  
 tising religion पचा० १८, —गुरु  
 पु० (गुरु) धर्म-दर्शक गुरु, धर्माचार्य A  
 religious teacher द्र० १, —गुव. त्रि०  
 (गुप्) धर्म रक्षक A protector of  
 a religion. पडू० —तित्थयर. पु०  
 (तीर्थकर) जिन भगवान् Jinadeo,  
 Tirthankar पडि० —दार पु० ब०

( दार ) धर्म-पत्नी A lawful wife  
 कप्पू० —पिवासिय त्रि० (पिपासित) धर्म  
 की प्यास वाला Solicitous for relig-  
 ion. तदु० —प्पवाइ. त्रि० (प्रवादिन्)  
 धर्मोपदेशक A religious instructor  
 or preacher आया नि० १, ४, २,  
 —प्पावाउय. त्रि० (प्रावादुक) धर्म-प्रवादी;  
 धर्मोपदेशक A religious preacher—  
 आया० नि० १, १४, १, —व्य. पु० (व्यय)  
 धर्मार्थ दान, धर्मादा Charity. सुपा०  
 ६१७, —विज्ज पु० (वैद्य) धर्माचार्य. A  
 religious teacher. पचव० १, —सत्थ.  
 न० (शास्त्र) धर्मप्रतिपादक शास्त्र A code  
 of religion, A scripture, Juris-  
 prudence दस० ४, —साला. स्त्री०  
 (शाला) धर्म स्थान A charitable  
 institution कठ० ३३,  
 धम्मउर न० (धर्मपुर) नगर-विशेष Name  
 of a city दस० १,  
 धम्मजस पु० (धर्मजस) जैन मुनि विशेष.  
 Name of a Jain saint आव० ४,  
 धम्मत्थ न० (धर्मास्त्र) अस्त्र-विशेष, एक प्रकार  
 का हथियार A kind of a weapon  
 पउम० ७१, ६३,  
 धम्मदास पु० ( धर्मदास ) भगवान् महावीर  
 का एक शिष्य और उपदेश माला का कर्ता  
 A pupil of Lord Mahavira and  
 author of Upadeshamala उव०,  
 धम्मदेव पु० ( धर्मदेव ) एक प्रसिद्ध जैन  
 आचार्य A well-known Jain pre-  
 ceptor सार्ध० ७८,  
 धम्मप्पह पु० ( धर्मप्रभ ) एक जैन आचार्य.  
 A Jain preceptor. रयण० १८,  
 धम्मबुद्ध त्रि० ( धर्मबुद्ध ) (१) धार्मिक, धर्म-  
 मति Religious, Pious, Virtuous  
 (२) पु० एक राजा का नाम Name of a



king. उप० ७२८ टी,  
 धम्मि त्रि० ( धम्मिन् ) (१) धर्म युक्त, द्रव्य,  
 पदार्थ. Having the properties or  
 nature of wealth ( २ ) धार्मिक,  
 धर्म-परायण Virtuous, Pious. सुपा०  
 २६, ३३६, ५०६, वजा० १०६, (३) तर्क  
 शास्त्र प्रसिद्ध पक्ष (In logic) Name of  
 a Paksha धर्म० ६६,  
 धम्ममुत्तर त्रि० ( धर्मोत्तर ) (१) गुणी, गुणों से  
 श्रेष्ठ Pie-eminent in Virtue आया०  
 चू० ५, (२) धर्म का प्राधान्य Supre-  
 macy of religion पडि०  
 धम्मसेहल पु० ( धम्मिल ) एक जैन मुनि A  
 Jain saint आव० ६,  
 धर्मरट्ट पु० ( धृतराष्ट्र ) हल पक्षी Goose,  
 Swan पाश्र०  
 धर. पु० ( धर ) पर्वत, पहाड़ Mountain  
 से० ८, ६३, पाश्र०  
 धरण पु० ( धरण ) (१) श्रेष्ठि विशेष  
 Name of a wealthy man उप०  
 ७२८ टी, सुपा० ५५६, (२) न० धारण करना  
 Bearing, Holding से० ३, ३, सार्थ०  
 ६, वजा० ४८, (३) सोलह तोले का एक  
 परिमाण. A measure of weight  
 equal to sixteen tolas जो० २,  
 (४) तोलने का साधन A balance, A  
 means for weighing जो० २, (५)  
 त्रि० धारण करने वाला Bearing Hold-  
 ing कुमा०  
 धरणिद पु० ( धरयोन्द्र ) नागकुमारों का  
 दक्षिण दिशा का इन्द्र The lord of the  
 south of Nagakumaras पउम० ५,  
 ३८,  
 धरणिचर. पु० ( धरणिचर ) मनुष्य A man,  
 Human-being पउम० १०१, ४७,  
 धरणिधर. पु० ( धरणिधर ) (१) पर्वत,

पहाड़ Mountain अजि० १७, (२)  
 अयोध्या नगरी का एक सूर्यवशीय राजा. A  
 king of Ayodhya from the solar  
 race पउम० ५, ५०,  
 धरणिधरप्पवर पु० ( धरणिधरप्रवर ) मेरु  
 पर्वत The mount Meru अजि० १५;  
 धरणिधरवह पु० ( धरणिधरपति ) मेरु  
 पर्वत The mount Meru अजि० १७-  
 धरा स्त्री० ( धरा ) पृथ्वी, भूमि, Earth.  
 गड० सुपा० २०१, — धर पु० ( धर ) पर्वत;  
 पहाड़ The mountain से० ६, ७६;  
 ३८, स० २६६, ७०३, उप० ७६८ टी,  
 धराधीस पु० ( धराधीश ) राजा A  
 king मोह० ४३,  
 धराविअ त्रि० ( धारित ) (१) पकड़ा हुआ-  
 Caught, Seized स० २०६, सुपा०  
 ३२५, सच्चि० ३४, (२) स्थापित, Estab-  
 lished 'धराविय मडय' कुम० १४०,  
 धरिअ त्रि० ( धृत ) रोका हुआ Retained.  
 स० २०६,  
 धरिणी स्त्री० ( धरिणी ) पृथ्वी, भूमि Earth.  
 पाश्र०  
 धरिती स्त्री० ( धरित्री ) पृथ्वी, भूमि Earth.  
 श्रु० १२७, सम्भत्त० २२६,  
 धरिम. न० ( धरिम ) एक तरह का नाप;  
 तौल, Measure जो० २,  
 धरिसण. न० ( धरण ) (१) परिभव;  
 अन्निभव. Defeat (२) सहति, समूह An  
 assemblage, A multitude (३)  
 अमर्ष, असहिष्णुता Non-endurance,  
 Intolerance, Impatience (४)  
 हिंसा Killing. (५) बन्धन, योजन. A  
 bondage निसी० चू० १; राज०  
 धवण न० ( धावन ) धौन, चावल आदि  
 का धोवन जल Water of the washed  
 rice etc सुक्त० ८६,

धवल पु० ( धवल ) (१) उत्तम बैल A good ox (२) पुं० न० कृन्द-विशेष. A kind of mettle पिंग० (३) न० लगातार १६ दिन का उपवास Sixteen fasts at a time सबोध० १८,  
 धवलक न० ( धवलार्क ) ग्राम-विशेष, जो आजकल 'धोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है Dholaka a well-known city in Gujrat ती० ३,  
 धवलचंद्र. पु० ( धवलचन्द्र ) एक जैन मुनि Name of a Jain saint दे० ४७,  
 धवललगा न० ( धवलन ) सफेद करना, श्वेतीकरण Whitening, White-washing कुमा०  
 धवला स्त्री० ( धवला ) गौ, गैया Cow गा० ६३८,  
 धवलाइत्र. त्रि० ( धवलायित ) (१) उत्तम बैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह Who has worked as a good ox (२) न० उत्तम वृषभ की तरह आचरण. Piac-tising like a noble ox. सार्ध० ६,  
 धवलिम पु० स्त्री० ( धवलिमन् ) सफेदपन, शुक्लता. Whiteness सुपा० ७४,  
 धवलित त्रि० ( धवलित ) सफेद किया हुआ Whitenes भवि०  
 धवली स्त्री० ( धवली ) उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया. A good cow गड०  
 धसित्र. त्रि० ( धसित ) धसा हुआ Assailed, Assaulted, Attacked हम्मीर० १३,  
 धाइत्र त्रि० ( धावित ) दौड़ा हुआ. Run. से० ८, ६८, भवि०  
 धाउ पु० ( धातु ) स्वभाव, प्रकृति Nature स० २४१, — धाइत्र त्रि० ( धादिक ) औषध आदि के योग से ताम्र आदि का सोना चगीर बनाने वाला, किमियागर Mineralogist कुप्र० ३६७,

धाउसोसण न० ( धातुसोपण ) शायविल तप. A religious austerity or penance सबोध० १८,  
 धाडण न० ( धाटन ) बाहर निकालना A living away वव० ४;  
 धाडावित्र. त्रि० ( निस्सारित ) बाहर निकाला हुआ, निर्वासित Driven away पडम० २२८,  
 धाडित्र त्रि० ( नि सृत ) बाहर निकला हुआ Come out side कुमा०  
 धाडित्र त्रि० ( निस्सारित ) निर्वासित, बाहर निकाला हुआ, Driven outside पडम० १०१, ६०, स० २६८, उप० ७२८ टी,  
 धाडी. स्त्री० ( धाटी ) (१) डाकुओं का दल A gang of plunderers सुर० २, ४, प्रारू० (२) हमला, आक्रमण, धावा. Assault, Attacking कप्पू०  
 धागा स्त्री० ( धाना ) धनिया, एक जात का मसाला Coriander seeds प्रारू०  
 धागुक त्रि० ( धानुक ) धनुर्धर, धनुर्विद्या में निपुण. An archer उप० पृ० ८६, सुर० १३, १६२, वेणी० ११४, कुप्र० ४२२,  
 धाम पु० न० ( धामन् ) (१) अहकार, गर्व Pride, Arogance. (२) रस आदि में लम्पटता Lasciviousness of tastes etc (३) त्रि० गर्व-युक्त Arrogant Proud (४) रस आदि में लम्पट Lascivious in tastes etc सबोध० १६,  
 धाय त्रि० ( धात ) तुष्ट, सतुष्ट Satisfied; Pleased, Contented ओच० ७७ भा, सुर० २, ६७,  
 धार न० ( धार ) धारा सम्बन्धी जल. Water of the stream (२) धारण करने वाला. Holding, Bearing राज०  
 धारणा स्त्री ( धारणा ) मर्यादा, स्थिति. Continuance in one state आचम०

(२) मन की स्थिरता. Stable mind; Steady mind (३) अवधारण, निश्चय Determination आवाम०

धारा स्त्री० (धारा) (१) प्रवाह, खाली A flow, A current. महा० (२) अश्व की गति-विशेष The pace of a horse कुमा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी A city of Malwa district मोह० ८८, —कयव पु० (कदम्ब) कदम्ब की एक जाति, जो वर्षा से फूलती फूलती है A tree which blossoms only in the rainy-season कुमा० —धर. पु०

(धर) मेघ Cloud सुपा० २०१,

धारि त्रि० ( धारिन् ) धारण करने वाला Holding, Sustaining कल्प०

धारिय त्रि० ( धारित ) धारण किया हुआ Sustained, Held भवि०

धावण न० ( धावन ) प्रहालन, धोना. To wash कुम० १६४,

धावणया स्त्री० ( धान ) स्तन-पान करना Suckling of the breast उप० ८३३,

धावित्र त्रि० (धावित) दौड़ा हुआ Run भवि०

धाविर त्रि० (धावित्) दौड़ने वाला, Running सुपा० १४,

धि अ० ( धिक् ) धिक्कार, छी An interjection of censure ( 'Fie', 'shame' ) रमा०

धिइ स्त्री० ( धृति ) धारण करना Causing to hold आवाम० (२) तेजा, लगातार तीन दिनका उपवास Three fasts सर्वोप० १८,

धिकय. त्रि० ( धिक्कृत ) (१) धिक्कार हुआ Reproached, Condemned, Disregarded वव० १, (२) न० धिक्कार, तिरस्कार Reproach, Contempt वृह० ६,

धिकरिअ त्रि० ( धिक्कृत ) धिक्कार हुआ Despised, Disregarded कुम० १२७

धिज्जाइ पु० स्त्री० (द्विजाति धिग्जाति) ब्राह्मण; विप्र Brahman आवाम०

धिज्जाइय-धिज्जाइय. पु० स्त्री० (द्विजातिक, धिग्जातीय ) ब्राह्मण, विप्र Brahman महा० उप० १२६, आव० ३,

धिट्ट त्रि० ( धृष्ट ) उदत्त, धोत, प्रगल्भ (२) निर्लज्ज, बेशरम. Shameless, Indecent, Impudent हैं० १, १३०, सुर० २, ६, गा० ६२७, आ० १४,

धिद्रिम पु० स्त्री० ( धृष्टत्व ) धृष्टता, धीमार्ह. Arrogance, Insolence सुपा० १२०;

धिप्पिर त्रि० ( दीप्र ) देदीप्यमान चमकीला. Shining, Brilliant, Radiant कुमा०

धिय अ० ( धिक् ) धिक्कार, छी An interjection of censure, Fie, Shame. उप० ६३४,

धिसण पु० ( धिषण ) बृहस्पति, सुर-गुर. Name of a Brihaspati, preceptor of the gods पाञ्च०

धिसि अ० ( धिक् ) धिक्कार, छी Fie, Shame. सुपा० ३६२, सण०

धी अ० ( धिक् ) धिक्कार, छी Fie, Shame. उप० वै० ११,

धीआ स्त्री० ( दुहितृ ) लडकी, पुत्री Daughter मृच्छ० १०६६, पि० ३६२, महा० भवि० पञ्च० ४२,

धीघण त्रि० ( धीघन ) (१) बुद्धिमान्, विद्वान्. Learned, Wise, Intelligent (२) एक मन्त्री का नाम Name of a minister उप० ७६८ टी,

धीर त्रि० ( धीर ) (१) बुद्धिमान्, परित्त; विद्वान् Learned, Intelligent, Wise. उप० ७६८ टी, धर्म० २, (२) सहिष्णु Able to endure (३) पु० परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव Providence, Jinadeo (३) गणधर-देव Ganadhara आव० ३,

धीर न० (धैर्य) धीरज, धीरता. Patience  
हे० २, ६४, कुमा०  
धीरव्या. न० (धीर्य) धीरज देना, सात्त्विक  
Consolation वच० १,  
धीरविय. त्रि० (धीरित) जिसको सात्त्विक दिया  
गया हो वह, आश्वासित Consoled. स०  
६०४,  
धीरिम पु० स्त्री० (धीरत्व) धैर्य, धीरज Pa-  
tience उप० पृ० ६२, सुपा० १०६, भवि०  
कुम० १२०,  
धीवर. पु० (धीवर)(१) मच्छीमार, जालजीवी  
Fisherman, कुमा० कुम० २४७, (२)  
त्रि० उत्तम बुद्धि वाला, Intellectual,  
Wise उप० ७६८टी, कुम० २४७,  
धुञ्ज. त्रि० (धृत) (१) त्यक्त Abandoned  
(२) उच्छलित. Moved upward से०  
४, ४, (३) न० कर्म A deed (४) त्रि० कम्पित  
Trembled, Shaken (५) न० कम्प  
Tremol, Shivering. प्राकृ० ७०  
धुधुमार पु० (धुधुमार) नृप-विशेष Name  
of a king कुम० २६३,  
धुग्ण. न० (धूनन) परित्याग Abandance  
राज०  
धुग्णा स्त्री० (धूनन) कम्पन, Tremol,  
Shivering श्लो० १६२ भा,  
धुग्णाविञ्ज त्रि० (धून्ति) कपाया हुआ  
Shaken, Trembled वप० ७६८ टी,  
धुरिय त्रि० (धृत) कम्पित, हिलाया हुआ  
Shivered, Shaken सुपा० ३२०,  
२०१,  
धुत्त त्रि० (धूर्त) (१) जूआ खेलने वाला  
Gambler (२) पु० धतूरे का पेड़. A  
white thorn apple (३) लोहे का काट  
Incrustation on Iron (४) लवण  
विशेष, एक प्रकार का नोन A kind of  
salt हे० २, ३०,

धुत्तारिञ्ज त्रि० (धूर्ति) ठगा हुआ, वञ्चित  
Cheated, Deceived उप० ७२८ टी,  
धुत्ति. स्त्री० (धूर्ति) जरा, बुढापा Old  
age राज०  
धुत्तिञ्ज त्रि० (धूर्ति) वञ्चित, प्रतारित.  
Cheated, Deceived सुपा० ३२४,  
श्रा० १२,  
धुत्तिम पु० स्त्री० (धूर्तत्व) धूर्तता, धृतपन,  
ठगाई Decent, Cheating हे० १, ३२,  
कुमा० श्रा० १२,  
धुत्ती स्त्री० (धूर्ता) धूर्त स्त्री A wicked  
woman वजा० १०६,  
धुत्तीरय न० (धत्तूरक) धतूरे का पुष्प A  
flower of the thorn apple वजा०  
१०६,  
धुम्म (धूम्र) (१) वर्ण विशेष, कपोल-वर्ण  
A kind of colour (२) त्रि० कपोल  
वर्ण वाला Smoke-coloured, Grey.  
से० १२, ६०,  
धुम्मवल्ग पु० (धुम्नाच) एक राक्षस Name  
of a demon से० १२, ६०,  
धुर पु० (धुर) कर्जदार, ऋणी A debtor  
सुपा० ४२६,  
धुरधर त्रि० (धुरधर) भार को वहन करने में  
समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँचाने में शक्ति-  
मान्, भार-वाहक Able to carry out  
important duties, Pre-eminent  
से० ३, ३६, (२) नेता, मुखिया, अग्रगुणा  
A chief, a leader सण० उत्तर० २०,  
(३) पु० गाढी, हल आदि खींचने वाला बैल  
A beast of burden  
धुरा स्त्री० (धुर) (१) भार, बोझ, A load,  
A burden (२) चिन्ता Anxiety.  
हे० १, १६, — धार त्रि० (धार) धुरा की  
वहन करने वाला, धुरन्धर Bearing the  
burden. पठम० ७, १७१,

धुरीण त्रि० (धुरीण) धुरन्धर, मुखिया,  
अगुआ A chief, a leader धर्मवि०  
१३६, सम्मत० ११८,

ध्रुव त्रि० (ध्रुव) (१) अवश्य-भावी Desti-  
ned to take place, Inevitable  
(२) पु० अश्व के शरीर का आवर्त A circle  
on the body of a horse कुमा०  
(३) कर्म Deeds (४) ससार World

ध्रुवण त्रि० (धावन) कपाने वाला, हिलाने  
वाला Shivering, Trembling, कुमा०  
ध्रुविया. स्त्री० (ध्रुविता) कर्म-विशेष, ध्रुव  
बन्धिनी कर्म प्रकृति A kind of Karmas.  
पच० ५, ६६,

ध्रुणिय. त्रि० (धनित) कम्पित Trembled,  
Shaken कुप्र० ६८,

धूम पु० (धूम) (१) हिंग आदि का वजार  
Seasoning पिंड० २५० (२) क्रोध, गुस्सा  
Anger, Wrath, Indignation (३)  
क्रोधी Indignant, Angry सवोध० १६,  
—इगाल पु० व० (अङ्गार) द्वेष और  
राग Like and dislike ओव० २८८  
भा० —केउ पु० (केतु) (१) अग्नि,  
आग Fire. (२) अशुभ उत्पात का सूचक  
तारा पुञ्ज A meteor गउड० —चारण,  
पु० (चारण) धूम के अवलम्बन से आकाश  
में गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विशेष A  
class of saints having the power  
to fly around through in the sky  
with the help of smoke. गच्छ०  
२, —जोषि पु० (योनि) बादल, मेघ,

Cloud पात्र० —द्वय. पु० (ध्रज)  
अग्नि, वह्नि Fire पात्र० उप० १०३१ टी,  
—वडल पु० न० (पटल) धूम-समूह A  
collection of clouds हे० २, १६८,  
धूमल त्रि० (धूमल) धूआ वाला Smoky.  
उप० २६४ टी,

धूमिअ. त्रि० (धूमित) (१) धूम युक्त  
Smoky पिंड० (२) झोंका हुआ.  
Seasoned दे० ६, ८८,

धूलिकलव पु० (धूलिकदम्ब) ग्रीष्म ऋतु में  
विकसने वाला कदम्ब वृक्ष A kind of  
tree blooming in the summer.  
कुमा०

धूसर पु० (धूसर) (१) हलका पीला रंग,  
हैपट पाखडु वर्ण The light yellow  
colour (२) धूसर रंग वाला, हैपट पाखडु  
वर्ण वाला. Of a dusty or greyish  
colour प्रासू० ८४, गा० ७७४, से० ६, ८२,  
धूसरिअ. त्रि० (धूसरित) धूसर वर्ण वाला  
Grey, of a dusty colour पात्र०  
भवि०

धोअ-धोअ त्रि० (ध्येय) ध्यान-योग्य Wor-  
thy to be meditated अजि० १४,

धोअग त्रि० (धावक) (१) धोने वाला A  
washer (२) पु० धोबी A washer-  
man. उप० पृ० ३३३,

धोज. त्रि० (धुर्य) (१) धुरीण, भार-वाहक.  
One who carries a burden. (२)  
अगुआ, नेता, धुरन्धर. A chief, A  
leader वव० १,

## प

प अ० (प्र) प्रकर्ष. Intensity, High  
degree, Excess 'पओल' से० २, ११,

प. पु० (प) (१) ओष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण  
विशेष. A particular labial conso-

nant प्राप० (२) पाप-त्याग. Aban-  
doning of sins आवम० (३) उत्पत्ति  
Production. (४) ख्याति, प्रसिद्धि.  
Fame, Reputation. (५) व्यवहार.

Social intercourse. (६) चारों ओरसे.  
On all sides निसी० चू० १, हे० २,  
२१७, (७) प्रलवण, मूत्र० Uine विशेष०  
७८१, (८) फिरफिर Often times,  
Again and again निसी० चू० ३,  
१७, (९) गुजरा हुआ, विनष्ट Dead,  
Deceased. डा० ४, २, टी,

पञ्चगम. पु० ( पञ्चगम ) छद्-विशेष A  
kind of metie पिंग

पञ्चघ पु० (प्रजङ्घ) राक्षस विशेष Demon.  
से० १२, म३,

पइ. अ० ( प्रति ) अपेक्षा सूचक अव्यय A  
particle indicating expectation  
दसनि० ३, १,

पइ पु० (पति) (१) रचक A protector  
सुपा० ३६, अजि० १७, १६, (२) श्रेष्ठ, उत्तम  
The best, excellent. अजि० १७,  
—घर न० (गृह) ससुराल, Father-in-  
law's house पद० —द्वया स्त्री० (व्रता)  
पतिसेवा परायण स्त्री, कुलवती स्त्री A  
devoted faithful and loyal wife,  
A chaste and virtuous wife गा०  
४१७, सुर० ६, ६७,

पइउवचरण न० (प्रत्युपचरण) प्रत्युपचार,  
प्रति-सेवा Service in requital रभा०

पइच्छन्न पु० (प्रतिच्छन्न) भूत-विशेष A  
kind of ghost राज०

पइद्दा स्त्री० (प्रतिष्ठा) (१) आदर, सम्मान  
Honour, Respect. (२) कीर्ति, यश  
Fame, Glory (३) व्यवस्था Arrange-  
ment, Management. (४) स्थापना,  
संस्थापन. Establishing (५) समाधान  
शका निरास पूर्वक स्वपक्ष स्थापन Clearing  
up a doubt चेद्वय० २३२,

पइद्दाण. न० (प्रतिष्ठान) नगर-विशेष Name  
of a city आक० २१,

पइद्दाविय. त्रि० (प्रतिष्ठापित) संस्थापित.  
Established सं० ६२, ७०२,

पइद्विय त्रि० (प्रतिष्ठित) (१) आश्रित.  
Restoring to प्राप्त० ७०,

पइणियय त्रि० (प्रतिनियत) नियम-सगत,  
नियमित. Punctual, Regular. धर्मस०  
२६६,

पइरण त्रि० (प्रकीर्ण)(१) विक्षिप्त, फेंका हुआ.  
Thiown गा० १४०, (२) अनेक प्रकार  
से मिश्रित Mixed, Miscellaneous.

पचु०—कहा स्त्री० (कथा) उत्सर्ग, सामान्य  
नियम The general rule निसी० चू०  
२, —तच. पु० (तपस्) तपश्चर्या-विशेष.  
A kind of austerity पचा० १६,

पइरण स्त्री० (प्रतिज्ञा) तर्क शास्त्र प्रसिद्ध अनु-  
मान प्रमाण का एक अवयव, साध्य वचन का  
निर्देश A proposition, A statement  
of the proposition to be proved,  
The first member of the five  
membered syllogism दसनि० १,

पइत्त त्रि० (प्रदीप्त) जला हुआ, प्रज्वलित.  
Kindled, Inflamed, Illuminated.  
से० १२, ७३,

पइदियह. न० (प्रतिदिवस) प्रतिदिन, हर  
रोज. Daily, Every day सुर० १, २०,

पइनियय त्रि० (प्रतिनियत) मुकरर किया  
हुआ, नियुक्त किया हुआ, Appointed.  
आवम०

पइप्पईय न० (प्रतिप्रतीक) प्रत्यग, हर अग  
Every hmb रभा०

पइभाषाण न० (प्रतिभाषान) प्रतिभा से  
उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यक्ष. Vivid  
perception धर्मस० १२०६,

पइसुह त्रि० (प्रतिमुख) समुख Negl,  
Facing, Present. उप० ७४४,

पइरिक्त त्रि० (प्रतिरिक्त) (१) विशाल,

विस्तीर्ण Extensive, Spacious  
 दे० ६, ७१, ( २ ) तुच्छ, हलका. Low,  
 Mean. से० १, २८,  
 पइलाइया. स्त्री० ( प्रतिलादिका ) हाथ के  
 थल चलने वाली सर्प की एक जाति A  
 kind of snake राज०  
 पइव पु० ( प्रतिप ) एक यादव का नाम.  
 Name of a Yadava राज०  
 पइवरिस. न० ( प्रतिवर्ष ) हरएक वर्ष.  
 Every year पि० २२०,  
 पइचाइ त्रि० ( प्रतिवादिन् ) प्रतिपक्षी, प्रति-  
 वादी. An opponent, Adversary  
 विशेष० २४८८,  
 पइसारिय त्रि० ( प्रवेशित ) जिसका  
 प्रवेश कराया गया हो. Introduced,  
 Brought in महा० भवि०  
 पईअ त्रि० ( प्रतीत ) ( १ ) विज्ञात  
 Known, Understood ( २ ) विश्वस्त.  
 Trustworthy, Reliable ( ३ ) प्रसिद्ध,  
 विख्यात Well-known, Renowned,  
 Famous विशेष० ७०६,  
 पईअ. न० ( प्रतीक ) अंग, अवयव. A  
 limb, A member रभा०  
 पईइ स्त्री० ( प्रतीति ) ( १ ) विश्वास, Trust,  
 Conviction ( २ ) प्रसिद्धि, Fame,  
 Renown राज०  
 पईव त्रि० ( प्रतीप ) ( १ ) प्रतिकूल  
 Contrary, Unfavourable, Ad-  
 verse ( २ ) शत्रु, दुश्मन्, An enemy.  
 अ० ६४८ टी, हे० १. २३१,  
 पउजग त्रि० ( प्रयोजक ) प्रेरक, प्रेरणा करने  
 वाला Inciting, Stimulating.  
 पचव० १,  
 पउजण त्रि० ( प्रयोजन ) प्रयोग करने वाला  
 One who uses or employs. पउम०  
 १४, २०,

पउजखया, पउजणा स्त्री० ( प्रयोजना ) प्रयोग  
 An experiment A trial श्लो०  
 ११४, वज्जा० २,  
 पउजिअ त्रि० ( प्रयुक्त ) जिसका प्रयोग  
 किया गया हो वह Used, employed-  
 Applied. सुपा० १४०, ४४७,  
 पउट्ट ( प्रवृष्ट ) बरसा हुआ Rained-  
 हे० १, १३१,  
 पउट्ट. त्रि० ( प्रसुष्ट ) ( १ ) विशेष सेवित Well  
 served, Devoted to. ( २ ) न० अति  
 बन्धिष्ठ Remained food चड०  
 पउट्ट त्रि० ( प्रद्विष्ट ) द्वेष-युक्त Malicious,  
 Spiteful सुपा० ४७६,  
 पउण. त्रि० ( प्रगुण ) तैयार Ready, Pre-  
 paired दस० ३,  
 पउणाड पु० ( प्रपुनाट ) वृक्ष विशेष, पमाड का  
 पेड, चकवड A kind of tree दे० ६,  
 २ टी,  
 पउत्त पु० ( पौत्र ) लड़के का लड़का. A  
 grandson, The son of a son.  
 प्राक० १०, श्रु० ११७,  
 पउत्ति स्त्री० ( प्रवृत्ति ) ( १ ) समाचार, वृत्तान्त  
 Tidings, News पाद्य० सुर० २, ४८,  
 ३, ८४, ( २ ) कार्य, काज A deed, An  
 action  
 पउम न० ( पद्य ) ( १ ) दिन का नववा सुहूर्त.  
 The ninth period of the day.  
 जो० २, ( २ ) राजा रामचन्द्र An epithet  
 of Rama पउम० १. २, २५, ८, ( ३ )  
 चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर  
 वस्त्रों की पूर्ति करता है A treasure of  
 the Chakravarti giving curative  
 beautiful clothes उप० ६८६ टी, —  
 आगर. पु० ( आकर ) ( १ ) कमलों का समूह  
 A multitude of lotuses ( २ ) सरोवर.  
 A large pond उप० १३३ टी, —

चरिय न० (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की जीवनी Biography of Rama Chandra (२) प्राकृत भाषा का एक प्राचीन ग्रन्थ, जैन रामायण. Jaina Ramayana, An ancient work in Prakrit language पडम० ११८, १२१, —दल न० (दल) कमल पत्र. A lotus-leaf शरू०

पडमशास्रभ. पु० ( पद्मनाभ ) (१) वासुदेव, निष्णु Vasudeo, An epithet of Vishnu पडम० ४०, १, (२) आत्मासी उत्सर्पिणी काल में भरतचेत्र में होने वाले प्रथम जिनदेव The first Jindeo of Bharat in the future Utsarpini प्रव० ४६,

पडमपुर न० (पद्मपुर) एक दक्षिणात्य नगर, जो आज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है. A city in the deccan, which is called Nasika now-a-days राज०

पडमप्पह पु० (पद्मप्रभ) विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य A Jaina preceptor in the thirteenth century of Vikrama विचार० ३,

पडममालि पु० (पद्ममालिन्) विद्याधर वंश के एक राजा का नाम. Name of a king of the Vidyadhar lineage पडम० १, ४२,

पडमरह पु० (पद्मरथ) (१) विद्याधर वंश का एक राजा. A king of the Vidyadhar race पडम० १, ४३, (२) मथुरा नगरी के राजा जयसेन का पुत्र A prince of Jayasena, king of Muttia महा०

पडमसेण पु० (पद्मसेन) (२) नागकुमार जातीय एक देव का नाम A god of Nagakumar caste दीव०

पडमसेहर. पु० (पद्मशेरवर) पृथ्वीपुर नगर के

एक राजा का नाम A king of Pithvipul. धम्म० ७,

पडमा स्त्री० (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्या का नाम Name of a daughter of a Vidyadhar family. पडम० ६, २४; (२) रावण की एक पत्नी A queen of Ravana पडम० ७४, १०, (३) लक्ष्मी. Name of Lakshmi, the goddess of fortune (४) दूसरे बलदेव और वासुदेव की माताका नाम Name of the mother of the second Baldeo and Vasudeo (५) लेश्या विशेष One of the six thought-tints राज०

पडमाणण पु० (पद्मानन) एक राजा का नाम. Name of a king उप० १०३१ टी,

पडमाभ पु० (पद्माभ) षष्ठ तीर्थंकर का नाम. Name of the sixth Tirthankar पडम० १, २,

पडमिणी स्त्री० (पद्मिनी) श्रेष्ठी की स्त्री का नाम. Name of a wife of a rich man उप० ७२८ टी,

पडरव पु० (पौरव) पुर नामक चन्द्र-वशीय नृप का पुत्र A prince of the king of the lunar race named Puru सच्चि० ६,

पडरिस-पडरुस पु० (पौरस) पुरुषत्व, पुरुषार्थ. Manliness, Heroism; Prowess हे०१, १११, १६२, प्राप्, सच्चि० ६, पडरिस त्रि० (पौरुषेय) पुरुष-कृत Made or established by man धर्मस० ८६२,

पडल्ल त्रि० (पक्व) पका हुआ. Cooked, Roasted Ripe पचा० १,

पडविय त्रि० (प्रभुपित) विशेष क्रुपित, क्रुद्ध Very angry, Enraged, Incensed. महा०



पप अ० ( प्राक् ) पहले, पूर्व Before, Previously 'कय पप होइ' श्लोक० ४७ भा, 'पत्ता पप व पत्ता' श्लोक० १६८,  
 पपस पु० ( प्रदेश ) (१) परिमाण विशेष A sort of measure (२) छोटा भाग A small part राज०  
 पपसण न० ( प्रदेशन ) उपदेश Instruction, Advice आया० चू० १,  
 पपत्रोग. पु० ( प्रयोग ) (१) शब्द-योजना Application of the words भास० ६३, (२) प्रेरणा Instigation आ० १४, (३) शास्त्रार्थ, वादविवाद Discussion, Controversy —कम्म० न० ( कर्मन् ) मन आदि की चेष्टा से आत्म प्रदेशों के साथ बधने वाला कर्म The Karmic bondage with the soul procured by the mental movement राज० —करण. न० ( करण ) जीव के व्यापार द्वारा होनेवाला किसी वस्तु का निर्माण Creation of any thing by the effort of living-being विशेष —फड्डय. न० ( स्पर्धक ) मन आदि के व्यापार स्थान की वृद्धि द्वारा कर्म परमाणुओं में बढने वाला रस A disposition to realise ones own self, A feeling to realise ones own deeds in their true perspective कम्मप० २३,  
 पपत्रोगसा. अ० ( प्रयोगण ) जीव-प्रयत्न से By the effort of a living-being. पि० २६४,  
 पपत्रोजग त्रि० ( प्रयोजक ) विनिश्चायक, निर्णायक, गमक Decisive, Conclusive What ascertains or determines घर्मस० १२२३,  
 पपत्रोरसि पु० ( पयोरसि ) समुद्र A sea सम्मत० १७४,

पपत्रोली स्त्री० ( प्रतोली ) (१) नगर के भीतर का रास्ता A street, A main road; A principal street through a town. (२) नगर का दरवाजा A gate of a city पाश्च० सुपा० २६१, आ० १२;  
 पपत्रोवाह. पु० ( पयोवाह ) मेघ, बादल A cloud पवम० ८, ४६, से० १, २४, सुर० २, ८२,  
 पपत्रोस त्रि० ( प्रदोष ) प्रभूत दोषों से युक्त. Corrupt, Bad से० २, ११,  
 पपत्रोहर पु० ( पयोधर ) (१) मेघ, बादल. A cloud वज्जा० १००, (२) छन्द विशेष. A kind of metrie पिंग०  
 पक पु० न० ( पङ्क ) (१) पाप. Sin (२) असयम, इन्द्रिय बगैर का अतिग्रह. Absence of control of the senses especially निसी० चू० १, —आवलित्त्रा. स्त्री० ( आवलिका ) छन्द-विशेष A kind of metrie पिंग०  
 पकिल त्रि० ( पङ्किल ) कर्दम वाला Muddy; Turbid, Dirty आ० २८, गा० ७६६; कप्प० कुप्र० १८७,  
 पकेरुह न० ( पङ्केरुह ) कमल, पद्म Lotus. कप्प० कुप्र० १४१,  
 पख पु० ( पच ) पन्द्रह दिन, परखवादा. Fortnight राज०  
 पगुरण० न० ( प्रावरण ) वस्त्र, कपड़ा. A garment, Especially an upper garment हे० १, १७५, कुमा० गा० ७८२,  
 पचउल न० ( पचकुल ) पचायत An assembly of arbitration usually consisting of five persons, A jury स० २२२,  
 पचउलिय पु० ( पचकुलिक ) पचायत में बैठ कर विचार करने वाला One who investigates in an assembly of

arbitration usually consisting of five persons. स० २०२,

पंचकल्प पु० ( पञ्चकल्प ) श्रीभद्रबाहु स्वामी कृत एक प्राचीन ग्रन्थ का नाम An ancient volume composed by Bhadrabahu Swami पंचमा०

पंचकल्लाणय न० ( पञ्चकल्याणक ) (१) तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण. Death, ( of a heavenly or hellish deity ) birth, initiation, omniscience and final emancipation of the Tirthankar ( २ ) काम्पिलपुर, जहा तेरहवें जिनदेव विमलनाथ के पाचों कल्याणक हुए थे Kampilpura where there bore five Kalyanaks of Jindeo Shree Vimal Nath ती० २४,

पंचकोट्टग पु० ( पञ्चकोटक ) पुरुष Man तदु०

पंचग. त्रि० ( पञ्चक ) पाच ( रूपया आदि ) कीमत का Costing five ( rupees etc ) दशनि० ३, १३,

पंचगव न० ( पञ्चगव्य ) गौ के पाच पदार्थ दही, दूध, घृत, गोमय और मूत्र, पंचगव्य. The five products of the cow taken collectively, i.e. milk, curds, gheel urine and cowdung कम्प०

पंचगाह न० ( पञ्चगाथ ) गाथा-बद्ध वाले पाच पद्य A collection of five poems कस०

पंचतिर्थी स्त्री० ( पञ्चतीर्थी ) पाँच तीर्थों का समुदाय. A collection of five holy places. धर्म० २,

पंचनायि. त्रि० ( पञ्चज्ञानिच ) मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल इन पाँच ज्ञानों से युक्त,

सर्वज्ञ Omniscient. Having universal knowledge. सम्म० ६६,

पंचपञ्ची. स्त्री० ( पञ्चपञ्ची ) मास की दो अष्टमी, दो चतुर्दशी, और शुक्ल पंचमी ये पाँच तिथियाँ. Five lunar days i.e. two eighth days, two fourteenth days and one bright fifth day of the lunar-month रयण० २६,

पंचपुड त्रि० ( पञ्चपुण्ड्र ) पाच स्थानों में पुण्ड्र चिह्न वाला. Having the sectarial marks in five places पिंडभा० ४३,

पंचवाण पु० ( पञ्चवाण ) कामदेव Cupid, God of love. सुर० ४, २४६, कुमा०

पंचमधारा ( पञ्चमधारा ) अश्व की एक तरह की गति A kind of pace of the horse महा०

पंचमुह पु० ( पञ्चमुख ) सिंह, पचानन A lion. उप० १०३१ टी,

पंचवत्थुग न० ( पञ्चवस्तुक ) श्री हरिभद्रसूरि रचित ग्रन्थ विशेष A volume composed by Acharya Haribhadra suri पचव० १, १,

पंचवयण पु० ( पञ्चवदन ) सिंह, मृगराज A lion सम्मत्त० १३८,

पंचसगह पु० ( पञ्चसग्रह ) श्री हरिभद्रसूरि कृत एक जैन ग्रन्थ. A volume composed by Acharya Haribhadrasiuri. पच० १,

पंचसमिय त्रि० ( पञ्चसमित ) पाँच समितिओं का पालन करने वाला One who is careful in walking, talking, begging food, taking, leaving etc, One having five Samitis स० ८,

पंचसर पु० ( ) कामदेव Cupid; God of love. पाञ्च० सुर० २, ६३, सुपा० ६०, रभा०

पंचसीस, पुं० (पञ्चशीर्षं) देव-विशेष. A kind of god दीव०  
 पंचसुत्तग. न० ( पञ्चसूत्रक ) श्री हरिभद्रसूरि  
 निर्मित एक जैन ग्रन्थ, A Jaina volume  
 composed by Acharya Han-  
 bhadrāsūri पसू० १,  
 पंचसेल-ग पु० ( पञ्चशैल-क ) लवणोदधि में  
 स्थित और पाँच पर्वतों से विभूषित एक छोटा  
 द्वीप A small island adorned by  
 five mountains in the Lavana  
 ocean महा० बृह० ४,  
 पंचाउह. पु० ( पञ्चायुध ) कामदेव Cupid,  
 God of love सय०  
 पंचामय न० ( पञ्चामृत ) ये पाच वस्तु— दही,  
 दूध, घी, जल तथा सक्कर The collection  
 of five sweet things z e Cuid,  
 milk, Ghee, water and sugar  
 सिरि० २१८,  
 पंचाल, पु० ( पाञ्चाल ) कामशास्त्र-प्रयोक्ता एक  
 ऋषि A sage, author of the erotic  
 science सम्मत्त० १३७,  
 पंचालिन्ध्रा. स्त्री० ( पञ्चालिका ) पुतली, काष्ठादि  
 निर्मित छोटी प्रतिमा A doll, A wooden  
 puppet कप्प०  
 पंचालिन्ध्रा स्त्री० ( पाञ्चालिका ) (१) द्रुपद-  
 राज की कन्या, द्रौपदी Name of Drau-  
 padi, princess of Drupada वेणी०  
 १२८, (२) गान का एक भेद A sort of  
 song कप्प०  
 पंचासग न० ( पञ्चाशक ) श्री हरिभद्रसूरि कृत  
 एक जैन ग्रन्थ A Jaina volume com-  
 posed by Acharya shree Hari-  
 bhadrā Sūri पचा०  
 पंचिया स्त्री० ( पञ्चिका ) (१) पाँच की सव्या  
 वाला A collection of five (२)  
 पाँच दिन का A collection of five

days वव० १,  
 पंचेसु पु० ( पञ्चेपु ) कामदेव, कदर्प Cupid,  
 God of love कप्प० रमा०  
 पच्छि पुं० ( पच्छिन् ) पञ्खी, पक्षी A bird.  
 वप० १०३१ टी,  
 पञ्जर पु० न० ( पञ्जर ) (१) आचार्य, उपाध्याय,  
 प्रवर्तक आदि मुनि गण A collection  
 of saints, viz Acharya, Upadhy-  
 aya, Pravartaka etc (२) वन्मार्ग-  
 गमन-निषेध, सन्मार्ग-प्रवर्तन Going to-  
 wards the right path (१) स्वच्छन्दता-  
 प्रतिषेध Prohibition of wantonness  
 वव० १,  
 पञ्जरिय त्रि० ( पञ्जरित ) जिजरे में बंद किया  
 हुआ Caged, Confined गवड०  
 पञ्जल त्रि० ( पाञ्जल ) सरल, सीधा  
 Straightforward, Candid, Sin-  
 cere सुपा० ३१४, वजा० ३०,  
 पङ् त्रि० ( पाण्ड्य ) देश विगेष में उत्पन्न  
 Born in particular country कप्प०  
 पण्डर पु० ( पाण्डर ) (१) क्षीरवद नामक द्वीप  
 का अधिष्ठाता देव A presiding god  
 of the Kshirav ar island. राज० (२)  
 श्वेत वर्ण, सफेद रंग White colour.  
 (३) त्रि० श्वेत वर्ण वाला, सफेद Whitish,  
 Pale-white कप्प० — भिन्नु पु०  
 ( भिन्नु ) श्वेतान्तर जैन सप्रदाय का मुनि  
 A Shwetambar Jain saint स०  
 २२२,  
 पण्डिच्यमाणि. त्रि० ( पाण्डिच्यमाणिन् ) पठितार्ह  
 का अभिमान रखने वाला Fancying  
 oneself to be learned, A con-  
 ceited person चेड्य० १६,  
 पण्डु पु० ( पाण्डु ) (१) नृप विगेष, पाण्डुओं का  
 पिता Name of the father of the  
 Pandava वप० ६२८ टी, सुपा० ३७०,

(२) रोग विशेष, पाण्डु रोग Jaundice, A kind of disease —तरण्य. पु० (तनय) पाण्डुराज का पुत्र, पाण्डव A son of Pandu गण्ड० ४८२,

पंडुय. पु० (पाण्डुक) (१) सर्प की एक जाति A kind of serpent आया० २०१,

पंडुर पु० (पाण्डुर) (१) श्वेत वर्ण, सफेद रंग. The white colour (२) पीत-मिश्रित श्वेत वर्ण The yellowish-white colour कप० उत्र०

पंडुरजा स्त्री० (पाण्डुरायां) एक जैन साध्वी का नाम. Name of a Jain female saint. आचम०

पंडुरस्थिय पु० (पाण्डुरास्थिक) एक गाव का नाम Name of a village आया० चू० १, पत त्रि० (ग्रान्त) जीर्ण, फटा-टूटा Torn, Tattered. बृह० २, (२) हरिद्र, निर्धन Pool, Indigent श्लो० ६१,

पति स्त्री० (पत्कि) सेना-विशेष, जिसमें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाच पदाती हों ऐसी सेना A kind of army consisted of one elephant, one chariot three horses and five foot soldiers पत्र० २६, ४,

पथ पु० (पान्य) पथिक, मुसाफिर A traveller हे० १, ३०, अच्यु० ७४,

पफुल्ल त्रि० (प्रफुल्ल) विकसित Blooming, Blossomed पिंग०

पसय त्रि० (पासन) कलङ्कित करने वाला, दुष्पण लगाने वाला Disgracing, Dishonouring, Defiling हे० १, ७०, सुपा० ३४२,

पंसु पु० (पथ्य) कुंजर An axe, A hatchet. हे० १, २६,

पसुमूसिय पु० (पाण्डुपथिक) मनुष्य-विशेष A Vidyadhai राज०

पसुल. पु० (पासुल) (१) पुंश्चल, परकी-लम्पट A profligate or licentious person गा० २१०, २६६, (२) त्रि० धुलि-युक्त. Dusty, Covered with dust गण्ड०

पसुला स्त्री० (पासुला) कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री An unchaste or licentious woman कुमा०

पसुलित्र. त्रि० (पासुलित) धूलि युक्त किया हुआ Dusty गण्ड०

पंसुली स्त्री० (पासुली) कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री An unchaste or licentious woman पाण्ड०सुर० १२, २, हे० २, १७६,

पकपण न० (प्रकम्पन) कम्प, कापना Trembling, Shivering आच० ४,

पकपिञ्ज त्रि० (प्रकम्पित) प्रकम्प-युक्त, काँपा हुआ Trembled, Shaken आच० २,

पकपिर. त्रि० (प्रकम्पित) कापने वाला Shaking, Trembling उप०पृ० १३२,

पकड्दृश. न० (प्रकर्षण) आकर्षण, खींचाव. The act of drawing away, Attracting निसी० चू० २०,

पकप्य पु० (प्रकल्प) (१) अपवाद, बाधक नियम An exception उप० ६७७ डी,

निसी० चू० १, (२) कल्पना Imagination, Thought निसी० चू० १, (३) प्ररूपणा.

Explanation (४) विच्छेद, प्रहट वेदन Destruction, Ruin निसी० चू० १;

(५) जैन साधुओं का एक प्रकार का आचार, स्थविर-कल्प A kind of conduct of Jain saints पचमा० —जइ पु० (पति)

निशीथ अध्ययन का जानकार साधु A saint, learned of Nishith chapter.

धर्म० १, —धर त्रि० (धर) निशीथ अध्ययन का जानकार A knower of Nishitha chapter निसी० चू० २०,

पकप्पया स्त्री ( प्रकल्पना ) ( १ ) कल्पना  
 Imagination चेह्य० १४१, अज्झ०  
 १४२, ( २ ) प्ररूपया, व्याख्या Explanation,  
 Exposition. निसी० चू० १,  
 पकप्पधारि. त्रि० ( प्रकल्पधारिन् ) निशीथ  
 सूत्रकाजानकार Learned of Nishitha  
 Sutra. चव० १,  
 पकप्पि त्रि० ( प्रकल्पिन् ) निशीथ सूत्र का  
 जानकार A knower of the Nishitha  
 Sutra. चव० १,  
 पकप्पिअ त्रि० ( प्रकल्पित ) ( १ ) सकल्पित  
 Thought, Resolved, Willed  
 द्र०२, ( २ ) निर्मित Made महा०(३) काटा  
 हुआ Cut, Rent अज्झ० १०२,  
 पकय, त्रि० ( प्रकृत ) प्रवृत्त, कार्य में लगा  
 हुआ Engrossed into, Engaged  
 in उप० ६२०,  
 पकहिअ त्रि० ( प्रकथित ) जिसने कहने का  
 प्रारम्भ किया हो वह Began to speak  
 उप० १०३१ टी, वसु०  
 पकित्तिअ त्रि० ( प्रकीर्तित ) वर्णित  
 Described, Represented श्रु० १०८,  
 पकिरण न० ( प्रकिरण ) देने के लिए फेंकना  
 To throw for giving चव० १,  
 पक्खिअ त्रि० ( प्रकृजित ) ऊचे स्वर से  
 चिल्लाया हुआ. Voiced loudly उप०  
 पु० ३३२,  
 पकोव. पु० ( प्रकोप ) गुस्सा, क्रोध Wrath,  
 Anger श्रा० १४,  
 पकत त्रि० ( प्रकात ) प्रस्तुत, प्रकृत Under  
 discussion, Taken in hand कुमा०  
 २७,  
 पक्कन्न, न० ( पक्कन्न ) केवल धी में बनी हुई  
 वस्तु, मिठाई आदि Sweetmeat सुपा०  
 ३८७,  
 पक्कम. पु० ( प्रक्रम ) प्रस्ताव, प्रसंग

Proceeding, Course सुपा० ३७४;  
 पक्काइय त्रि० ( पक्वीकृत ) पकया हुआ.  
 Cooked वज्जा० ६२,  
 पक्ख पु० ( पक् ) ( १ ) तरफ, ओर A  
 side, A wing ( २ ) मित्र, सखा. A  
 friend ( ३ ) तरफदार One belong  
 ing to any party ( ४ ) तीर का पख  
 Feather of an arrow हे० २, १४७;  
 ( ५ ) तरफदारी Partisanship, Taking  
 up a side चव० १, —आवडिअ. त्रि०  
 ( आपतित ) पक्षपाती Partiality हे०  
 ४, ४०१, —आवाइया स्त्री० ( आवापिका )  
 होम विशेष A kind of sacrifice स०  
 ७५७, —वाइल्ल. त्रि० ( पातिन् ) पक्षपात  
 करने वाला Partial उप० ७२८ टी,  
 धम्म० १ टी, —वाय. पु० ( वाद ) पक्ष-  
 सवन्धी विवाद An ex parte statement,  
 Stating a case उप० पु० ३१०,  
 पक्खत न० ( पक्खन्त ) पाच में से अन्यतर  
 इन्द्रिय. Any of the five senses  
 निसी० चू० ६,  
 पक्खर पु० ( प्रचर ) चरण, टपकना  
 Oozing, Dropping कर्पूर० २६,  
 पक्खरिअ त्रि० ( सनद्ध ) कवचित, सनद्ध,  
 कवच से सज्जित Clad in armour,  
 encoutied, Mailed सुपा० १०२,  
 कुप्र० १२०, भवि०  
 पक्खवत्. त्रि० ( पक्खत् ) तरफदारी वाला,  
 Siding with or adhering to a  
 party, Partial. चव० १,  
 पक्खाउज्ज न० ( पक्खात्त) पक्खावज, एक  
 प्रकार का बाजा A kind of musical  
 instrument कप्पु०  
 पक्खाय त्रि० ( प्रख्यात ) प्रसिद्ध, विभूत.  
 Famous, Notorious मारू०  
 पक्खिआपक्खिअ. पु० ( पाक्खिआपक्खि )

नपुसक-विशेष, जिसको एक पद में तीव्र  
विषयामिलाप होता हो और एक पद में अल्प  
ऐसा नपुसक A sort of impotent  
person पुष्प० १२७,  
पक्खिनाह पु० (पक्खिनाथ) गरुड पक्षी  
Name of the king of birds  
धर्मवि० ८४,  
पक्खीण त्रि० (प्रक्षीण) अत्यंत क्षीण  
Decayed, Wasting महा०  
पक्खोडण न० (शदन) धूनन, कपाना. Trem-  
bling कुमा०  
पक्खोडिअ त्रि० (शदित) निह्राटित, क्षाब्ध कर  
गिराया हुआ. Thrown down, Cut  
down पाद्य०  
पखल. त्रि० (प्रखर) प्रचण्ड, तीव्र Very  
pungent, sharp. प्राप्र०  
पगइ वी० (प्रकृति) (१) प्रकृत अर्थ, प्रस्तुत  
अर्थ The matter or subject in  
hand विशेष० २५०२, (२) सत्व, रज और  
तम की साम्यावस्था Natural condition  
of Satva, Rajas, and Tamas  
(३) पु० बलदेव के एक पुत्र का नाम A  
son of Baladeo राज०  
पगडीकय त्रि० (प्रकटीकृत) व्यक्त किया हुआ  
Manifested, Displayed सुपा० १८१,  
पगम्भ त्रि० (प्रगल्भ) समर्थ Daunt,  
Brave, Intrepid वप० २६४ टी,  
पगम्भा स्त्री० (प्रगल्भा) भगवान् पार्श्वनाथ  
की एक शिष्या A female disciple of  
Lord Parshvanatha आवम०  
पगय पु० (प्रकृत) गाव का अधिकारी A  
chief of a village प्रव० २६८,  
पगय. त्रि० (प्रगत) (१) प्राप्त Obtained,  
Gained (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ  
किया हो Gone forth or forward  
सुपा० ०३५, (३) सगत Appropriate,

Proper श्रावक० १८६,  
पगर पु० (प्रकर) समूह, राशि A heap,  
A multitude सुपा० ६२२,  
पगरिसण न० (प्रकर्षण) (१) उत्कर्ष,  
श्रेष्ठता. Excellence, Superiority.  
(२) आधिक्य, अतिशय Excess, Abun-  
dance, Preponderance यति० १६,  
पगहिय त्रि० (प्रगृहीत) ग्रहण किया हुआ,  
उपात्त Held forth or out. सुर० ३,  
१६७,  
पगाइय त्रि० (प्रगीत) जिसने गाने का प्रारम्भ  
किया हो One who began to sing.  
स० ७३६,  
पगार पु० (प्रकार) (१) रीति Manner,  
Mode 'एव्य पगारेण सन्व' महा०  
पगास. पु० (प्रकाश) (१) प्रसिद्धि, ख्याति.  
Fame, Renown. (२) आविर्भाव,  
प्रादुर्भाव. Becoming visible or ma-  
nifest राज०  
पगासणया स्त्री० (प्रकाशन) प्रकाश, आलोक  
Light, lustre, brightness ओघ०  
२५०,  
पगासय त्रि० (प्रकाशक) प्रकाश करने वाला  
Disclosing evincing. विशेष० ११२२,  
पगिट्ट त्रि० (प्रकृष्ट) प्रधान, मुख्य Chief,  
principal. सुपा० ७७,  
पगीअ त्रि० (प्रगीत) (१) गाया हुआ  
Sung पडम० ३७, ४८,  
पगह. पु० (प्रग्रह) (१) उपधि, उपकरण.  
Material, means ओघ० ६६६,  
(२) लगाम Rein, bridle से० ६, २७,  
१२, २६,  
पघसण न० (प्रघर्षण) पुन पुन घर्षण.  
Restless-friction निसी० चू० ३,  
पद्योस पु० (प्रद्योष) उद्घोषण. Proclama-  
tion, public announcement भवि०

पद्योसिय त्रि० ( प्रघोषित ) घोषित किया हुआ उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुआ Declared, announced, proclaimed भवि०  
 पचकमावण, न० ( प्रचङ्कमण ) पाव से सचारण, पाव से चलाना Moving or going about, walking ओघ० १०५ टी०  
 पचार पु० ( प्रचार ) विस्तार, फैलाव Prevalence मोह० २०,  
 पचिय, त्रि० ( प्रचित ) समृद्ध Prosperous, flourishing स्वप्न० ६६,  
 पचुन्निय त्रि० ( प्रचूर्णित ) चूर चूर किया हुआ Pounded, pulverized, shattered to pieces सुर० २, ८७,  
 पचेलिम, त्रि० ( पचेलिम ) पक, पका हुआ Ripe, cooked सुपा० ८३,  
 पच्वगिरा स्त्री० ( प्रत्यङ्गिरा ) विद्यादेवी-विशेष Goddess of the science of magic सुपा० ३०६,  
 पच्वत पु० ( प्रत्यन्त ) अनार्य देश An Anaryan country प्रथी० १६,  
 पच्वक्ख, त्रि० ( प्रत्यक् ) प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय Perceptible, visible सुर० ३, १७१,  
 पच्वग्ग त्रि० ( प्रत्यग् ) (१) प्रधान, मुख्य Chief, principal स० २४, (२) श्रेष्ठ, सुंदर Beautiful, excellent उप० ६८६ टी, सुर० १०, १५२, (३) नवीन, नया New पात्र०  
 पच्वड्डिअ त्रि० ( चरित ) ऋता हुआ Oozed, dropped हे० २, १७४,  
 पच्वद्यीय, त्रि० ( प्रत्यनीक ) विरोधी, प्रतिपत्नी, दुश्मन Hostile, Inimical उप० १४६ टी, सुपा० ३०७,  
 पच्वत्त त्रि० ( प्रत्यक्त ) जिमका त्याग करने

का प्रारम्भ किया गया हो वह Began to abandon उप० ८२८,  
 पच्वत्थरण न० ( प्रत्यास्तरण ) विह्वलना Beding. पि० २८५,  
 पच्वत्थि त्रि० ( प्रत्यर्थिन् ) प्रतिपत्नी, विरोधी, दुश्मन, Hostile, opposed, inimical. उप० १०३१ टी, पात्र० कुप्र० १४१,  
 पच्वद्ध न० ( पर्य्वार्ध ) पिछला आधा, उत्तरार्ध. The latter half गडड०  
 पच्वद्धचक्खवट्टि, पु० ( प्रत्यर्धचक्रवर्तिन् ) वासुदेव का प्रतिपत्नी राजा, प्रतिवासुदेव. Prativasudeo ती० ३,  
 पच्वत्थास पु० ( प्रत्याभास ) निगमन, प्रत्युच्चारण Quotation of a word or the word quoted विशे० २६३२,  
 पच्वभिजाणिअ त्रि० ( प्रत्यभिज्ञात ) पहिचाना हुआ Recognised स० ३६०,  
 पच्वभिणाण, न० ( प्रत्यभिज्ञान ) पहिचान. Recognition. स० २१२,  
 पच्वय पु० ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति, ज्ञान, बोध Knowledge, cognition वव० विशे० २१४०, (२) निर्णय, निश्चय. Determination विशे० २१३२, (३) ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ Object, राज० (४) शब्द, आवाज Sound, Word (५) छिद्र, चिक्कर Hole, (६) आधार, आश्रय Support, Prop हे० २, १३,  
 पच्ववत्थय त्रि० ( प्रत्यवस्तृत ) (१) विह्वलय हुआ Spread (२) आच्छादित, Covered, concealed आवम०  
 पच्ववत्थाण न० ( प्रत्यवस्थान ) प्रतिवचन; खरडन Refuting (in argument) वृह० १,  
 पच्ववाय, पु० ( प्रत्यवाय ) (१) पाप Sin. सुपा० १६२, (२) दुःख, पीडा Pain, affliction कुप्र० ५४०,

पञ्चह न० ( इत्यह ) हररोज, प्रतिदिन  
Always अभि० ६०,  
पञ्चाएस पु० न० ( प्रत्यादेश ) दृष्टान्त, निदर्शन,  
उदाहरण Example, Illustration  
स० ३५, उव० कुम० ५०, पात्र०  
पञ्चाण्यण न० ( प्रत्यानयन ) वापिस ले आना  
Bringing back, Recovery मुद्रा०  
२७०,  
पञ्चादिष्ट त्रि० ( प्रत्यादिष्ट ) निरस्त, निराकृत  
Rejected, repulsed पि० १४५,  
मृच्छ० ६,  
पञ्चात्थरण न० ( प्रत्यास्तरण ) सामने होकर  
लड़ना To indulge in hand to  
hand fighting राज०  
पञ्चादेश पु० ( प्रत्यादेश ) निराकरण.  
Refusal, rejection, repudiation.  
अभि० ७२, १७८,  
पञ्चायण न० ( प्रत्यायन ) ज्ञान कराना, प्रतीति-  
जनन Convincing, producing  
assuance विगे० २१३६,  
पञ्चारित्र त्रि० ( प्रचारित ) चलाया हुआ  
Prevailed सिरि० ४३६,  
पञ्चारिय त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना  
दिया गया हो वह Taunted, censured  
भवि०  
पञ्चालीढ न० ( प्रत्यालीढ ) चाम पाद को  
पीछे हटा कर और दक्षिण पाव को आगे रख  
कर खड़े रहने वाले धानुष्क की स्थिति A  
particular attitude in shooting  
वव० १,  
पञ्चावररह. पु० ( प्रत्यावराह ) मध्याह्न के  
बाद का समय, तीसरा पहर Afternoon.  
विवा० १, ३ टी, पि० ३३०,  
पञ्चासत्ति. स्त्री० ( प्रत्यासत्ति ) समीपता,  
सामीप्य Close proximity or con-  
tinguity मुद्रा० १६१,

पञ्चासा स्त्री० ( प्रत्यासा ) (१) आकाङ्क्षा;  
वाञ्छा, अभिलाषा Desire, ambition  
(२) निराशा के बाद की आशा Hope;  
Expectation स० ३६८, (३) लोभ,  
लालच A bribe, temptation. उव०  
पृ० ७६,  
पञ्चाहुत्त कि० वि० ( पश्चान्मुख ) पीछे, पीछे  
की तरफ Behind 'पञ्चाहुत्त नियत्तो'  
धर्मवि० ५४,  
पञ्चुच्चार पु० ( प्रत्युच्चार ) अनुवाद, अनु-  
भाषण Repetition स० १८४,  
पञ्चुजीवित त्रि० ( प्रत्युजीवित ) पुनर्जीवित  
Restored to life, resuscitated  
गा० ६३१, कुम० ३१,  
पञ्चुट्टित्र. त्रि० ( प्रत्युत्थित ) जो सामने खड़ा  
हुआ हो वह Risen to meet or  
encounter सुर० १, १३४,  
पञ्चुत्त त्रि० ( प्रत्युत्त ) फिर से बोया हुआ.  
Sown again दे० ७, ७७, गा० ६१८,  
पञ्चुत्फलित त्रि० ( प्रत्युत्फलित ) वापिस  
आया हुआ Returned से० १४, ८१.  
पञ्चुत्तमट त्रि० ( प्रत्युत्तमट ) अतिशय प्रबल  
Excellent सबोध० ५३,  
पञ्चुल्ल अ० ( प्रत्युत्त ) प्रत्युत्त, उलटा On  
the contrary 'पञ्चुल्ल मम' वव० १;  
पञ्चुवयारि त्रि० ( प्रत्युपकारिन् ) प्रत्युपकार  
करने वाला One who serves in  
return सुपा० ५६५,  
पञ्चुवेक्षित त्रि० ( प्रत्युपेक्षित ) अवलोकित,  
निरीक्षित Observed, Inspected,  
स० ४४१,  
पञ्चुह पु० न० ( प्रत्युह ) विघ्न, अतराय.  
An obstacle, hinderance, im-  
pediment पात्र० कुम० ५२,  
पञ्चेत्र न० ( प्रत्येक ) प्रत्येक, हर एक Every  
one पट्ट०



पञ्चोणामिणी स्त्री० ( प्रत्यवनामिनी ) विद्या विशेष, जिसके प्रभाव से वृक्ष आदि फल देने के लिये स्वयं नीचे नमते हैं A sort of magical skill उप० पृ० १२५,  
 पञ्च त्रि० ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी आहार Salutory, wholesome. हे० २, २१, प्राप्र० कुमा० स० ७२४, सुपा० २७६,  
 पञ्च न० ( पश्चात् ) (१) चरम, शेष Ultimate, Final चद० १, (२) पीछे, पृष्ठ भाग Back portion (३) पश्चिम दिशा West वज्जा० १६,  
 पञ्चओ अ० ( पश्चात् ) पीछे, पृष्ठ की ओर. Behind महा० से० १०, ३०, सुपा० २२१,  
 पञ्चदण न० ( पञ्चदन ) आस्तरण, शय्या के ऊपर का आच्छादन वस्त्र Bed-Sheet, coverlet स्वप्न० ६०,  
 पञ्चद्व. न० ( पश्चार्ध ) पीछला आधा, उत्तरार्ध Lattei half गवड० महा०  
 पञ्चभाग. पु० ( पश्चाद्भाग ) दिवस का पीछला भाग Afternoon. राज०  
 पञ्चा अ० ( पश्चात् ) परलोक, परजन्म Next world. राज० (२) पीछला भाग Back portion. (३) चरम, शेष Ultimate, final हे० २, २१,  
 पञ्चा स्त्री० ( पथ्या ) हरीतकी Mygriobalous used as an astingent हे० २, २१,  
 पञ्चात्र त्रि० ( पञ्चाय ) प्रचुर छाया वाला, Densely shaded अभि० ३६८,  
 पञ्चामुह. त्रि० ( पश्चान्मुख ) पराङ्मुख, जिसने मुह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह Having the face turned away or averted, turning the back upon आ० १२,  
 पञ्चायण न० ( पथ्यदन ) पाथेय, रास्ते में खाने का भोजन Provisions for a journey. महा०

पञ्चायावि त्रि० ( पश्चात्तापिन् ) पश्चात्ताप करने वाला. One who repents उप० ७२८ दी,  
 पञ्चित्ति त्रि० ( प्रायश्चित्तिन् ) प्रायश्चित्त का भागी, दोषी One who makes an atonement उप० ३७६,  
 पञ्चिम न० ( पश्चिम ) (१) पश्चिम दिशा West उवा० ७४ टी० (२) पश्चिम दिशा का, पश्चात्य Western महा० हे० २, २१, प्राप्र०  
 पञ्चिमा स्त्री० ( पश्चिमा ) पश्चिम दिशा. West कुमा० महा०  
 पञ्चिमिल्ल. त्रि० ( पश्चात्य ) पीछे से उत्पन्न, पीछे का Posterior, later विशेष० १७६२,  
 पञ्चुत्ताव. पु० ( पश्चात्ताप ) पङ्कतावा, पश्चात्ताप Repentance, contition सम्मत्त० १६०, धर्मवि० ३५, १२२, १३०;  
 पञ्जलिर त्रि० ( प्रज्वलितृ ) अत्यन्त जलने वाला. One that burns सुपा० १,  
 पञ्जाला स्त्री० ( प्रज्वाला ) अग्नि-शिखर. Blaze, Aflame कुप्र० ११७,  
 पञ्जण्युओग-पञ्जण्युजोग पु० ( पर्यनुयोग ) प्रश्न Question धर्मस० १७६, २६२,  
 पञ्जत्त त्रि० ( पर्याप्त ) (१) समर्थ, शक्तिमान्. Able, competent, adequate (२) लब्ध Obtained, gained (३) न० तृप्ति Satisfaction. प्राप्र० (४) सामर्थ्य. Strength, power (५) निवारण. Keeping off, Warding off (६) योग्यता. Propriety; suitableness, Fitness हे० २, २४, प्राप्र० (७) न० लगातार चौतिस दिन का उपवास Thirty-four fasts at a time सबोध० ५८,  
 पञ्जत्ति. स्त्री० ( पर्याप्ति ) (१) प्राप्ति Obtaining, acquisition (२) तृप्ति. Satis-

faction, Contentment, उप० ७६८  
टी, (३) अन्त, न End, conclu-  
sion. सुख० २, ८,

पञ्जलित्र पु० (प्रज्वलित) तीसरी नरक भूमि  
का एक नरक-स्थान An abode of the  
third hell देवेन्द्र० ८,

पञ्जलिरि त्रि० (प्रज्वलितृ) (१) जलने  
वाला Burning, Blazing (२) खूब  
चमकने वाला Bright, Shining.  
सुपा० ६३८, सण०

पञ्जव. पु० ( पर्यव ) परिच्छेद, निर्णय  
Determination — कसिण न० (कृत्स्न)  
चतुर्दश पूर्व-ग्रन्थ तकका ज्ञान, श्रुत ज्ञान-  
विशय Knowledge of fourteen  
Purvas. पचमा०

पञ्जा छी० ( पथा ) मार्ग, रास्ता Road,  
Way सम्म० १२७, कुप० १७६,

पञ्जा छी० (पर्याय) अधिकार, प्रबन्ध-भेद  
Topic Paragaph or section  
दे० ६, १, पात्र०

पञ्जाश्रर पु० (प्रजागर) जागरण, निद्रा का  
अभाव Waking, wakefulness  
अभि० ६६,

पञ्जाउल त्रि० (पर्याकुल) विशेष आकुल  
व्याकुल. Confused स० ७२, ६७३, हे०  
४, २६६,

पञ्जाय पु० (पर्याय) (१) पूर्ण प्राप्ति.  
Obtaining, acquisition विशे० ८३,  
(२) प्रकार, भेद A kind आवम० (३)  
अवसर. Lapse, course, expitition  
(of time) (४) निर्माण Creation,  
Formation. हे० २, २४, (५) तात्पर्य,  
भावार्थ, रहस्य Purport, meaning  
सूयनि० १३६,

पञ्जालिण न० ( प्रज्वालन ) सुलगाना  
Burning उप० २६७ टी,

पञ्जालित्र त्रि० (प्रज्वालित) जलाया हुआ.

Bunt सुपा० १२१, प्रासू० १८,  
पञ्जुच्छुत्र त्रि० (पर्युत्सुक) अति उत्सुक.

Eagerly desirous, anxious नाट०  
पञ्जुरण पु० (प्रद्युम्न) (१) कामदेव. An  
epithet of Cupid, god of love

कुमा० (२) वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतु-  
र्व्यूह रूप विष्णु का एक अंश हे० २, ४२,  
(३) एक जैन मुनि Jain saint निसी०  
चू० १,

पञ्जुत्त. त्रि० (प्रयुक्त) जटित, खचित.  
Fastened, joined, fixed inland;  
set, studded स० ३१२,

पञ्जुदास. पु० (पर्युदास) निषेध, प्रतिषेध.  
Prohibition विशे० १८३,

पञ्जुन्न. त्रि० (प्रद्युम्न) धनी, श्रीमन्त, प्रभूत  
धन वाला. Wealthy, Rich सुपा० ३२,  
पञ्जुवासय त्रि० (पर्युपासक) सेवा करने  
वाला A worshiper काल०

पञ्जुस्सत्र-पञ्जुसुत्र त्रि० (पर्युत्सुक) अति  
उत्सुक, विशेष उत्कण्ठित Eagerly de-  
sirous, anxious. अभि० १०६, पि०  
३२७,

पञ्जोदय त्रि० (प्रद्योतित) प्रकाशित Illu-  
minated उप० ७२८ टी,

पञ्जोयण पु० (प्रद्योतन) एक जैन आचार्य  
Jaina preceptor राज०

पञ्जुट्टिका छी० (पञ्जुट्टिका) जून्ड विशेष  
Kind of a metre पिग०

पञ्जुत्तर न० (प्रचरण) टपकना. Oozing,  
trickling वजा० १०८,

पञ्जुत्तरि त्रि० (प्रचरित) टपका हुआ  
Oozed, trickled पात्र० कुमा० महा०  
सच्चि० १५,

पटउडी छी० (पटकुटी) तबू, वस्त्र गृह.  
Tent सुर० १३, ६,

पञ्चोद्यामिणी स्त्री० ( प्रत्यवनामिनी ) विद्या विशेष, जिसके प्रभाव से वृक्ष आदि फल देने के लिये स्वयं नीचे नमते हैं A sort of magical skill उप० पू० १५५,  
 पञ्छ त्रि० ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी आहार Salutory, wholesome हे० २, २१, प्राप्र० कुमा० स० ७२४, सुपा० २७६,  
 पञ्छ न० ( पश्चात् ) (१) चरम, शेष Ultimate, Final चद० १, (२) पीछे, पृष्ठ भाग Back portion. (३) पश्चिम दिशा West वज्जा० ६६,  
 पञ्छओ अ० ( पश्चात् ) पीछे, पृष्ठ की ओर. Behind महा० से० १०, ३०, सुपा० २२१,  
 पञ्छदण्ड न० ( पञ्छदन ) आस्तरण, शय्या के ऊपर का आच्छादन वस्त्र Bed-Sheet, coverlet स्वप्न० ६०,  
 पञ्छद्ध. न० ( पश्चार्ध ) पीछला आधा, उत्तरार्ध Latter half गडड० महा०  
 पञ्छभाग. पु० ( पश्चाद्भाग ) दिवस का पीछला भाग Afternoon राज०  
 पञ्छा अ० ( पश्चात् ) परलोक, परजन्म Next world राज० (२) पीछला भाग Back portion. (३) चरम, शेष Ultimate, final हे० २, २१,  
 पञ्छा स्त्री० ( पथ्या ) हरीतकी Mygriobalous used as an astringent हे० २, २१,  
 पञ्छात्र त्रि० ( पञ्छाय ) प्रचुर छाया वाला. Densely shaded अभि० ३६८,  
 पञ्छामुह. त्रि० ( पश्चान्मुख ) पराङ्मुख, जिसने मुह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह Having the face turned away or averted, turning the back upon आ० १२,  
 पञ्छायण न० ( पथ्यदन ) पायेय, रास्ते में खाने का भोजन Provisions for a journey महा०

पञ्छायाचि त्रि० ( पश्चात्तापिन् ) पश्चात्ताप करने वाला. One who repents उप० ७२८ टी,  
 पञ्छित्ति त्रि० ( प्रायश्चित्तिन् ) प्रायश्चित्त का भागी, दोषी One who makes an atonement उप० ३७६,  
 पञ्छिम न० ( पश्चिम ) (१) पश्चिम दिशा West उवा० ७४ टी० (२) पश्चिम दिशा का, पश्चात्य Western महा० हे० २, २१, प्राप्र०  
 पञ्छिमा स्त्री० ( पश्चिमा ) पश्चिम दिशा. West कुमा० महा०  
 पञ्छिमिह्न त्रि० ( पश्चात्य ) पीछे से उत्पन्न; पीछे का Posterior, later विशेष० १७६२.  
 पञ्छुत्ताव. पु० ( पश्चात्ताप ) पङ्कतावा, पश्चात्ताप Repentance, contrition सम्मत्त० १६०, धर्मवि० ३५, १२२, १३०,  
 पञ्जलिर त्रि० ( प्रज्वलितृ ) अत्यन्त जलने वाला. One that burns सुपा० १,  
 पञ्जाला स्त्री० ( प्रज्जाला ) अग्नि-शिखा. Blaze, Aflame कुप० ११७,  
 पञ्जणुओग-पञ्जणुजोग पु० ( पर्यनुयोग ) प्रश्न Question धर्मस० १७६, २६२,  
 पञ्जत्त त्रि० ( पर्याप्त ) (१) समर्थ, शक्तिमान्- Able, competent, adequate (२) लब्ध Obtained, gained (३) न० तृप्ति Satisfaction. प्राप्र० (४) सामर्थ्य- Strength, power (५) निवारण. Keeping off, Warding off (६) योग्यता, Propriety, suitableness, Fitness हे० २, २४, प्राप्र० (७) न० लगातार चौतिस दिन का उपवास Thirty-four fasts at a time सनोध० १८,  
 पञ्जत्ति. स्त्री० ( पर्याप्ति ) (१) प्राप्ति Obtaining, acquisition (२) तृप्ति, Satis-

faction, Contentment, उप० ७६८  
टी, (३) अन्त, अवसान End, conclu-  
sion. सुख० २, ८,

पञ्जलित्र पु० (प्रज्वलित) तीसरी नरक भूमि  
का एक नरक-स्थान An abode of the  
third hell देवेन्द्र० ८,

पञ्जलिर त्रि० (प्रज्वलितृ) (१) जलने  
वाला Burning, Blazing (२) खूब  
चमकने वाला Bright, Shining  
सुपा० ६३८, सण०

पञ्जव. पु० ( पर्यव ) परिच्छेद, निर्णय  
Determination —कसिण न०(कृत्स्न)  
चतुर्दश पूर्व-ग्रन्थ तक का ज्ञान, श्रुत ज्ञान-  
विशय Knowledge of fourteen  
Purvas. पचमा०

पञ्जा वी० ( पचा ) मार्ग, रास्ता Road,  
Way सम्म० १२७, कुम० १७६,

पञ्जा वी० (पर्याय) ग्रथिकार, प्रबन्ध-भेद  
Topic Paragraph or section  
दे० ६, १, पात्र०

पञ्जात्रर पु० (प्रजागर) जागरण, निद्रा का  
अभाव Waking, wakefulness  
अभि० ६६,

पञ्जाउल त्रि० (पर्याकुल) विशेष आकुल  
व्याकुल, Confused स० ७२, ६७३, हे०  
४, २६६,

पञ्जाय पु० (पर्याय) (१) पूर्ण प्राप्ति.  
Obtaining, acquisition विशेष० ८३,  
(२) प्रकार, भेद A kind आवस० (३)  
अवसर Lapse, course, expiation  
(of time) (४) निर्माण Creation,  
Formation हे० २, २४, (५) तात्पर्य,  
भावार्थ, रहस्य Purport, meaning  
सूयनि० १३६,

पञ्जालण न० ( प्रज्वालन ) सुलगाना  
Burning उप० २६७ टी,

पञ्जालित्र त्रि० (प्रज्वालित) जलाया हुआ.  
Bunt. सुपा० १२१, प्रासू० १८,

पञ्जन्जुत्र त्रि० (पर्युत्सुक) अति उत्सुक.  
Eagerly desirous, anxious नाट०

पञ्जुराण. पु० (प्रद्युम्न) (१) कामदेव. An  
epithet of Cupid, god of love  
कुमा० (२) वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतु-  
र्व्यूह रूप विष्णु का एक अंश हे० २, ४२,  
(३) एक जैन मुनि Jain saint निसी०  
चू० १,

पञ्जुत्त. त्रि० (प्रयुक्त) जटित, खचित.  
Fastened, joined, fixed inlaid;  
set, studded स० ३१२,

पञ्जुदास. पु० (पर्युदास) निषेध, प्रतिषेध.  
Prohibition विशेष० १८३,

पञ्जुन्न. त्रि० (प्रद्युम्न) धनी, श्रीमन्त, प्रभूत  
धन वाला. Wealthy, Rich सुपा० ३२,  
पञ्जुवासय त्रि० (पर्युपासक) सेवा करने  
वाला A worshiper काल०

पञ्जुस्सत्र-पञ्जुसुत्र. त्रि० (पर्युत्सुक) अति  
उत्सुक, विशेष उत्कण्ठित Eagerly de-  
sirous, anxious. अभि० १०६, पि०  
३२७,

पञ्जोइय त्रि० (प्रद्योतित) प्रकाशित Illu-  
minated उप० ७२८ टी,

पञ्जोयण पु० (प्रद्योतन) एक जैन आचार्य  
Jaina preceptor राज०

पञ्जद्विआ वी० ( पञ्जद्विका ) छन्द विशेष  
Kind of a metre पिंग०

पञ्जरण न० (प्रचरण) टपकना, Oozing,  
trickling. वज्रा० १०८,

पञ्जरिअ त्रि० (प्रचरित) टपका हुआ  
Oozed, trickled पात्र० कुमा० महा०  
सच्चि० १५,

पटउडी वी० ( पटकुटी ) तबू, वस्त्र गृह.  
Tent सुर० १३, ६,

पटोला स्त्री० (पटोला) वल्ली-विशेष, कोशातकी, चार-वल्ली. Kind of a creeper सिरि० ६६६,  
 पट्ट पु० (पट्ट) (१) रथ्या, मुहल्ला A street. 'मलियपट्टे गत्तुय' सुपा० ३७३,  
 (२) पट्टा, चकनामा, किमी प्रकार का अधिकार पत्र. A royal grant or edict कुम० ११, (३) सिंहासन, गद्दी A throne कुम० २८, सुपा० २८५, (४) शाक विशेष A kind of vegetable —इल्ल पु० (वत्) पटेल, गाव का मुखिया Chief, Leader of a village —उडी. स्त्री० (कुटी) तबू, वख-गृह Tent सुर० १३, १५७,—वासिआ स्त्री० (वासिता) एक शिरोभूषण A kind of ornament of the head —साला स्त्री० (शाला) वपाश्रय, जैक मुनि को रहने का स्थान An abode of Jaina saints सुपा० २८५,  
 पट्टदेवी स्त्री० (पट्टदेवी) पटरानी The chief queen सिरि० १२१२,  
 पट्टसुत्त न० (पट्टसूत्र) रेशमी वख Silk धर्मवि० ७२,  
 पट्टिय त्रि० (पट्टिक) पट्टे पर दिया जाता गाव वगैर A village given on contract सुपा० २७३,  
 पट्ट त्रि० (पट्ट) (१) कुशल, निपुण Clever, Sharp, Shrewd, Skilful (२) प्रधान, मुखिया Chief, principal, leader राज०  
 पट्टन्तर त्रि० (पट्टचर) अनुयायी, अनुगामी A follower कुमा०  
 पट्टवणा स्त्री० (प्रस्थापना) (१) प्रकृत स्थापना. Establishing (२) प्रायश्चित्त-प्रदान 'दुविहा पट्टवणा सल्लु' वव० १,  
 पट्टविआ त्रि० (प्रस्थापित) भेजा हुआ Sent away, Despatched पात्र० कुमा०

पट्टाण न० (प्रस्थान) प्रयाण Going or setting forth. सुपा० १४२,  
 पट्टिउकाम, त्रि० (प्रस्थातुकाम) प्रयाण का इच्छुक Desirous for setting forth. आ० १४,  
 पडसुआ स्त्री० (प्रतिश्रुत्) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि. Echo, Reverberation हे० १, ८८, (२) प्रतिज्ञा Promise कुमा०  
 पडकुडी स्त्री० (पडकुटी) तबू, वख गृह Tent दे० ६, ६, ती० ३,  
 पडचर पु० (पडचर) चोर, तस्कर. Thief नाट-मृच्छ० १३८,  
 पडशीअ त्रि० (प्रत्यनीक) विरोधी, प्रतिपक्षी, वैरी Hostile, inimical स० ४६६,  
 पडपुत्तिया स्त्री० (पट्टुत्रिका) छोटा वख, रुमाल Handkerchief सबोध० ५,  
 पडहिय पु० (पाटहिक) ढोल बजाने वाला, ढोली One who beats a drum. प० ४८, ८६,  
 पडहिया स्त्री० (पट्टहिका) छोटा ढोल A small drum सुर० ३, ११५,  
 पडाइअ. त्रि० (पलायित) जिसने पलायन किया हो वह, भागा हुआ Fled, retreated, escaped से० १५, १५,  
 पडाइया स्त्री० (पताक्रिका) छोटी पताका. Small flag कुम० १४५,  
 पडायाणीय त्रि० (पर्यायित) जिस पर पर्याय बोधा गया हो वह Saddled कुमा० २, ६३,  
 पडि. अ० (प्रति) (१) विशेष, विशिष्टता. Distinguished, distinct. (२) प्रतिदान, बदला Requital, recompense 'पडिदेइ' विगो० ३२४१, (३) फिर से Again 'पडिपडिय' सार्ध० ६४, दे० ६, १३, (४) प्रतिनिधिपन Representation 'पडिच्छद्द, उप० ७२८ टी, (५) प्रतिकूलता, विपरीतपन Un-

favourableness से० २, ४६, ( ६ )  
 सामीप्य, निकटता Vicinity, near-  
 ness 'पडिवेसिअ' सुपा० १५२, ( ७ )  
 आधिक्य, अतिशय Excess, superi-  
 ority 'पडियाणद' ( ८ ) सादृश्य,  
 तुल्यता Similarity, equality 'पडि-  
 इद' पडम० १०५, १११, ( ९ ) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है This word is  
 sometimes used meaninglessly  
 पडम० १०५, ९, ( १० ) प्रकर्ष Su-  
 periority, eminence वव० १, ( ११ )  
 सपूर्णता Perfectness चेइय० ७८२,  
 पडिअ. त्रि० ( पतित ) जिसने चलने का  
 प्रारम्भ किया हो वह One who began  
 to walk 'आगयमगोण य पडिअ' वसु०  
 पडिअकिअ त्रि० ( प्रत्यङ्कित ) ( १ ) विभूषित  
 Decorated, ornamented ( २ ) उप-  
 लिप्त Besmeared भवि०  
 पडिअग्गिअ त्रि० ( अनुव्रजित ) अनुसृत  
 Followed दे० ६, ७४,  
 पडिअग्गिअ त्रि० ( प्रतिजागृत ) भक्ति से  
 आहत Honqured with devotion  
 स० २१,  
 पडिअग्गिर त्रि० ( प्रतिव्रजित ) अनुसरण करने  
 की आदत वाला. Habituated to follow  
 कुमा०  
 पडिअत्तरा न० ( परिवर्तन ) फेरफार. Change  
 से० ५, ६६,  
 पडिअमिअ पु० ( प्रत्यभिन्न ) मित्र शत्रु, मित्र  
 होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह A friend  
 changed into an enemy राज०  
 पडिअम्मिय. त्रि० ( प्रतिकर्मित ) मण्डित,  
 विभूषित Decorated, adorned दे०  
 ६, ३५,  
 पडिअरणा स्त्री० ( प्रतिचरणा ) ( १ ) बीमार  
 की सेवा-शुश्रूषा Service of the dis-

eased. ओघ० ८३, ( २ ) भक्ति, आदर, संतकार.  
 Devotion, respect; adoration.  
 उप० १३६ टी, ( ३ ) आलोचना, निरीक्षण  
 Inspection, observation ओघ०  
 ८३, ( ४ ) प्रतिक्रमण, पाप-कर्म से निवृत्ति.  
 Repenting, criticism of sins ( ५ )  
 सत्-कार्य में प्रवृत्ति Good deeds आव० ४,  
 पडिआयण न० ( प्रत्यापान ) फिर से पान  
 Drinking again 'वंतस्स य पडिआयण'  
 दस० चू० १, १,  
 पडिआयण न० ( प्रत्यादान ) फिर से ग्रहण.  
 Holding again दस० चू० १, १,  
 पडिआर पु० ( प्रत्याकार ) तलवार की ग्यान  
 Scabbard, sheath 'एक्कम्मि पडिआरे'  
 महा० स० २१५,  
 पडिआरि त्रि० ( प्रतिचारिन् ) सेवा करने वाला  
 A devotee, one who serves वव० १,  
 पडिइ स्त्री० ( पतिति ) पतन, पात. Fall,  
 decline, ruin वव० ५,  
 पडिइद पु० ( प्रतीन्द्र ) ( १ ) इन्द्र, देवराज.  
 The lord of gods. पडम० १०५, ९,  
 ( २ ) इन्द्र का सामानिक देव, इन्द्र के तुल्य  
 वैभव वाला देव A god having the  
 same position as Indra पडम० १०५,  
 १११, ( ३ ) वानर वंश के एक राजा का नाम.  
 A king of the Vanal lineage.  
 पडम० ६, १५२,  
 पडिइधण न० ( प्रतीन्धन ) अस्त्र विशेष, इन्ध्यास्त्र  
 का प्रतिपत्नी अस्त्र. A kind of missile  
 पडम० ७१, ६४,  
 पडिउवण. न० ( पतिनुम्बन ) सगम, सयोग A  
 conjunction, Union, combina-  
 tion से० २, २७,  
 पडिउट्टिअ त्रि० ( प्रत्युत्थित ) जो फिर से खड़ा  
 हुआ हो वह Risen again से० १५, ८०,  
 पडम० ६१, ४०,

पटोला स्त्री० (पटोला) वल्ली-विशेष, कोशातकी,  
चार-वली Kind of a creeper सिरि०  
६६६,

पट्ट पु० (पट्ट) (१) रथ्या, मुहवला. A  
street. 'मल्लियपट्टे गत्तुण' सुपा० ३७३,  
(२) पट्टा, चक्रनामा, किमी प्रकार का अधिकार  
पत्र A royal grant or edict  
कुम० ११, (३) सिंहासन, गद्दी A  
throne कुम० २८, सुपा० २८२, (४)  
शाक विशेष A kind of vegetable  
—इल्ल पु० (वत्) पट्टेल, गाव का

मुखिया Chief, Leader of a village  
—उडी. स्त्री० (डुटी) तबू, वज्र-गृह Tent  
सुर० १३, १७७,—वासिअा स्त्री० (वासिता)

एक गिरोभूषण A kind of ornament  
of the head —साला स्त्री० (शाला)  
व्याश्रय, जैक मुनि को रहने का स्थान An  
abode of Jain saints सुपा० २८२,

पट्टदेवी स्त्री० (पट्टदेवी) पटरानी The  
chief queen सिरि० १२१२,

पट्टसुत्त न० (पट्टसुत्त) रेशमी वस्त्र Silk  
धर्मवि० ७२,

पट्टिय. त्रि० (पट्टिक) पट्टे पर दिया जाता गाव  
वगैर A village given on contract  
सुपा० २७३,

पट्ट त्रि० (पट्ट) (१) कुशल, निपुण Clever,  
Sharp, Shrewd, Skilful (२) प्रधान,  
मुखिया Chief, principal, leader  
राज०

पट्टचर त्रि० (पट्टचर) अनुयायी, अनुगामी  
A follower कुमा०

पट्टवणा स्त्री० (प्रस्थापना) (१) प्रकृत स्थापना.  
Establishing (२) प्रायश्चित्त-प्रदान  
'दुविहा पट्टवणा खलु' वच० १,

पट्टविअ त्रि० (प्रस्थापित) भेजा हुआ Sent  
away, Despatched पाअ० कुमा०

पट्टाण न० (प्रस्थान) प्रयाण Going or  
setting forth. सुपा० १४२,

पट्टिकाम. त्रि० (प्रस्थातुकाम) प्रयाण का  
इच्छुक Desirous for setting forth-  
आ० १४,

पडसुअा स्त्री० (प्रतिध्रुत्) प्रतिशब्द, प्रति-  
ध्रनि, Echo, Reverberation हे० १,  
८८, (२) प्रतिज्ञा Promise कुमा०

पडकुडी स्त्री० (पडकुटी) तबू, वज्र-गृह  
Tent दे० ६, ६, ती० ३,

पडचर पु० (पडचर) चोर, तस्कर.  
Thief नाट-मृच्छ० १३८,

पडणीअ त्रि० (प्रत्यनीक) विरोधी, प्रतिपक्षी,  
वैरी Hostile, inimical स० ४६६,

पडपुत्तिया स्त्री० (पटपुत्तिका) छोटा वस्त्र,  
रूमाल Handkerchief सबोध० २,

पडहिय. पु० (पाटहिक) ढोल बजाने वाला,  
दोली. One who beats a drum.  
पवम० ४८, ८६,

पडहिया स्त्री० (पटहिका) छोटा ढोल A  
small drum सुर० ३, ११२,

पडाइअ. त्रि० (पलायित) जिसने पलायन  
किया हो वह, भागा हुआ Fled, retreat-  
ed, escaped से० १२, १२,

पडाइया स्त्री० (पताकिका) छोटी पताका.  
Small flag कुम० १४२,

पडायाणीय त्रि० (पर्यायित) जिस पर पर्याय  
बाँधा गया हो वह Saddled कुमा० २, ६३,

पडि. अ० (प्रति) (१) विशेष, विशिष्टता.  
Distinguished, distinct. (२)  
प्रतिदान, बदला Requital, re-  
compense 'पडिदेइ' विशेष० ३२४१,

(३) फिर से Again 'पडिपडिय' सार्ध०  
६४, दे० ६, १३, (४) प्रतिनिधिपन Re-  
prensation 'पडिच्छुद, उप० ७२८  
टी, (५) प्रतिकूलता, विपरीतपन Un-

favourableness से० २, ४६, ( ६ )  
 सामीप्य, निकटता Vicinity, near-  
 ness 'पडिवेसिअ' सुपा० ५५२, ( ७ )  
 आधिक्य, अतिशय Excess, superi-  
 ority 'पडियाणद' ( ८ ) सादृश्य,  
 तुल्यता Similarity, equality 'पडि-  
 इद' पउम० १०५, १११, ( ९ ) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है This word is  
 sometimes used meaninglessly  
 पउम० १०५, ६, ( १० ) प्रकर्ष Su-  
 periority, eminence वव० १, ( ११ )  
 सपूर्णता Perfectness चेइय० ७८२,  
 पडिअ. त्रि० ( पतित ) जिसने चलने का  
 प्रारम्भ किया हो वह One who began  
 to walk 'आगयमगोए य पडिअ' वसु०  
 पडिअकिअ त्रि० ( प्रत्यङ्कित ) ( १ ) विभूषित  
 Decorated, ornamented ( २ ) उप-  
 लिस Besmeared भवि०  
 पडिअगिअ त्रि० ( अनुव्रजित ) अनुसृत  
 Followed दे० ६, ७४,  
 पडिअगिअ त्रि० ( प्रतिव्रजित ) भक्ति से  
 आहत Honoured with devotion  
 से० २१,  
 पडिअगिर त्रि० ( प्रतिव्रजित ) अनुसरण करने  
 की आदत वाला Habituated to follow  
 कुमा०  
 पडिअत्तण न० ( परिवर्तन ) फेरफार, Change  
 से० ५, ६६,  
 पडिअमित्त पु० ( प्रत्यमित्र ) मित्र शत्रु, मित्र  
 होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह A friend  
 changed into an enemy राज०  
 पडिअम्मिय. त्रि० ( प्रतिकर्मित ) मण्डित,  
 विभूषित. Decorated, adorned दे०  
 ६, ३५,  
 पडिअरणा खी० ( प्रतिचरणा ) ( १ ) बीमार  
 की सेवा-शुभ्रपा Service of the dis-

eased ओघ० ८३, ( २ ) भक्ति, आदर, सत्कार.  
 Devotion, respect; adoration.  
 उप० १३६ टी, ( ३ ) आलोचना, निरीक्षण  
 Inspection, observation ओघ०  
 ८३, ( ४ ) पतिक्रमण, पाप-कर्म से निवृत्ति.  
 Repenting, criticism of sins ( ५ )  
 सत्-कार्य में प्रवृत्ति Good deeds आन० ४,  
 पडिआयण न० ( प्रत्यापान ) फिर से पान  
 Drinking again 'वत्स य पडिआयण'  
 दस० चू० १, १,  
 पडिआयण न० ( प्रत्यादान ) फिर से ग्रहण.  
 Holding again दस० चू० १, १,  
 पडिआर पु० ( प्रत्याकार ) तलवार की म्यान  
 Scabbard, sheath 'एक्कम्मि पडियारे'  
 महा० स० २१५,  
 पडिआरि त्रि० ( प्रतिचारिन् ) सेवा करने वाला  
 A devotee, one who serves वव० १,  
 पडिइ खी० ( पतिति ) पतन, पात. Fall,  
 decline, ruin वव० ५,  
 पडिइद पु० ( पतीन्द्र ) ( १ ) इन्द्र, देवराज.  
 The lord of gods. पउम० १०५, ६,  
 ( २ ) इन्द्र का सामानिक देव, इन्द्र के तुल्य  
 वैभव वाला देव A god having the  
 same position as Indra पउम० १०५,  
 १११, ( ३ ) वानर वंश के एक राजा का नाम.  
 A king of the Vanar lineage.  
 पउम० ६, १५२,  
 पडिइधण न० ( पतीन्धन ) अस्त्र विशेष, इन्ध्यास्त्र  
 का प्रतिपत्नी अस्त्र. A kind of missile  
 पउम० ७१, ६४,  
 पडिउवण. न० ( पतिवुन्धन ) सगम, सयोग A  
 conjunction, Union, combina-  
 tion से० २, २७,  
 पडिउट्टिअ त्रि० ( प्रत्युत्थित ) जो फिर से खड़ा  
 हुआ हो वह Risen again से० १५, ८०,  
 पउम० ६१, ४०,



पडिउत्तर. न० ( प्रत्युत्तर ) जवाब, उत्तर  
 Answer सुर० २, १२८, भवि०  
 पडिउत्तरण न० ( प्रत्युत्तरण ) पार जाना, पार  
 उतरना To cross निसी० चू० १,  
 पडिउत्ति खी० ( प्रत्युक्ति ) खबर, समाचार  
 News, tidings महा०  
 पडिउत्थ, त्रि० ( पर्युपित ) सपूर्ण रूप से  
 श्रवस्थित. To appear perfectly  
 dressed well equipped, ready  
 से० ४, २०,  
 पडिउद्ध. त्रि० ( प्रतिबुद्ध ) (१) जागृत, जगा  
 हुआ Awakened, roused से० १२,  
 २२, (२) प्रकाश-युक्त Bright, shining  
 से० १, २७,  
 पडिउपयार पु० ( प्रत्युपकार ) उपकार का  
 बदला, प्रतिफल Requital of an obli-  
 gation, service in return पउम०  
 ४८, ७२, सुपा० ११२,  
 पडिओसह न० ( प्रत्यौषध ) एक औषध का  
 प्रतिपक्षी औषध A medicine given  
 to counteract the effect of the  
 other medicine सम्मत० १४२,  
 पडिकाय पु० ( प्रतिकाय ) प्रतिविम्ब, प्रतिमा  
 An effigy, image, चेह्य० ७२,  
 पडिकिदि खी० ( प्रतिकृति ) (१) प्रतिकार,  
 इलाज. Prevention, remedy (२)  
 बदला Requital, return (३) प्रति-  
 विम्ब, मूर्ति. Idol, reflected image  
 अभि० १६६,  
 पडिकिय न० ( प्रतिहृत ) प्रतिविम्ब, प्रतिमा  
 A reflection, image, चेह्य० ७२,  
 पडिकूल त्रि० ( प्रतिकूल ) (१) अनिष्ट, अन-  
 भिमत Unpleasant, Disagreeable  
 (२) विरोधी, विपक्ष Hostile, Adverse,  
 Contrary हे० २, २७,  
 पडिकूलया. खी० ( प्रतिहूलना ) प्रतिकूल

आचरण An offensive or hostile  
 action or conduct. (२) प्रतिकूलता,  
 विरोध. Unfavourableness धर्मवि०  
 १८,  
 पडिकूलिय त्रि० ( प्रतिकूलित ) प्रतिकूल किया  
 हुआ Made unfavourable or  
 hostile राज०  
 पडिकूचग पु० ( प्रतिकूपक ) कूप के समीप का  
 कूप A small well near a well  
 स० १००,  
 पडिकेसव पु० ( प्रतिकेशव ) वासुदेव का प्रति-  
 पक्षी राजा, प्रतिवासुदेव Prativasudeo,  
 opponent of Vasudeo पउम० २०,  
 २०४,  
 पडिकमय त्रि० ( प्रतिक्रामक ) प्रतिक्रमण करने  
 वाला One who repents आनि० ४,  
 पडिकखअ त्रि० ( प्रतीक्षक ) प्रतीक्षा करने  
 वाला, वाट जोहने वाला. One who waits  
 for गा० १२७,  
 पडिकखभ पु० ( प्रतिस्तम्भ ) अर्गला, आगल  
 A bolt से० ६, ३३,  
 पडिकखण. न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा, वाट.  
 Waiting for दे० १, ३४, कुमा०  
 पडिकखलण न० ( प्रतिखलन ) (१) पतन  
 Falling (२) अवरोध. Hinderance,  
 obstruction आवम०  
 पडिकखलिअ त्रि० ( प्रतिखलित ) (२) पर-  
 वृत, पीछे हट्टा हुआ Retreated, retired.  
 से० १, ७, (२) रुका हुआ. Prevented.  
 से० १, ७, भवि०  
 पडिकखाविअ त्रि० ( प्रतीक्षित ) (१) स्थापित.  
 Established (२) हृत. Done, made  
 'जेण पडिकखाविअ' कुमा०  
 पडिकिअ त्रि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी प्रतीक्षा  
 की गई हो वह Waited for, expected  
 दे० ८, १३,

पडिखलित्र त्रि० ( प्रतिस्खलित ) ( १ ) रुका हुआ Detained भवि० ( २ ) रोका हुआ Preventd सुपा०  
 पडिगमय न० ( प्रतिगमन ) व्यावर्तन, पीछे लौटना Returning, going back वव० १०,  
 पडिगय पु० ( प्रतिगज ) प्रतिपक्षी हाथी. A hostile elephant गडड०  
 पडिगाहिय, त्रि० ( प्रतिगृहीत ) लिया हुआ, उपात्त. Received, taken. सुपा० १४३,  
 पडिग्गाहय त्रि० ( प्रतिग्राहक ) प्रत्यादाता, वापिस लेने वाला One who takes back दे० ७, २६,  
 पडिघायग त्रि० ( प्रतिघातक ) प्रतिघात करने वाला One who gives a counter-blow, or repulsive उप० २६४ टी,  
 पडिघोलिर त्रि० ( प्रतिघूर्णितृ ) डोलने वाला, हिलने वाला Shaking, moving to and fro से० ६, २१,  
 पडिचक्र न० ( प्रतिचक्र ) अनुरूप, चक्र-समुदाय Corresponding wheels or circles राज०  
 पडिचरग पु० ( प्रतिचरक ) जासूस, चर पुरुष A detective बृह० १,  
 पडिचार. पु० ( प्रतिचार ) ( १ ) ग्रह आदि गति का परिज्ञान Knowledge of the planets etc ( २ ) रोगी की सेवा-शुश्रूषा का ज्ञान स० ६०३,  
 पडिचारय. पु० ( प्रतिचारक ) नौकर, कर्मकर A servant सुपा० ३०४,  
 पडिचोइय त्रि० ( प्रतिचोदित ) ( १ ) प्रेरित Instigated, impelled उप० पृ० ३६४, ( २ ) प्रतिभणित, जिसको उत्तर दिया गया हो, One who is answered or replied पडम० ४४, ४६  
 पडिच्छुद्र पु० न० ( प्रतिच्छुद्र ) ( १ ) मूर्ति,

प्रतिबिम्ब. A reflection, image उप० ७२८ टी, स० १६१, ६०६, ( २ ) तुल्य, समान. Similarity, equality से० ८, ४६,  
 पडिच्छुदीकय त्रि० ( प्रतिच्छुन्दीकृत ) समान किया हुआ. Equalized कुमा०  
 पडिच्छुग. त्रि० ( प्रत्येपक ) ग्रहण करने वाला, A receiver. निसी० चू० ११,  
 पडिच्छुण न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा, बाट. Waiting for. उप० ३७८,  
 पडिच्छुणा स्त्री० ( प्रत्येपणा ) ग्रहण, आदान Taking निसी० चू० १६,  
 पडिच्छुा स्त्री० ( प्रतीक्षा ) ग्रहण, अंगीकार. Acceptance, receiving, taking. द्र० ३३, सण०  
 पडिछा स्त्री० ( प्रतीक्षा ) प्रतीक्षण, बाट. Waiting for ओष० १७६,  
 पडिच्छाया, स्त्री० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिबिम्ब Reflection उप० २६३ टी,  
 पडिच्छिर त्रि० ( प्रतीचितृ ) प्रतीक्षा करने वाला. One who waits for वजा० ३६,  
 पडिजागय त्रि० ( प्रतिजागरक ) सेवा-शुश्रूषा करने वाला One who serves. उप० ७६८ टी,  
 पडिजगिय त्रि० ( प्रतिजगृत ) जिसकी सेवा शुश्रूषा की गई हो वह. One who is served सुर० ११, २४,  
 पडिजागर पु० ( प्रतिजागर ) ( १ ) सेवा शुश्रूषा. Service ( २ ) चिकित्सा. Medical treatment, curing, healing. 'पडिजागरदाण' सुपा० २७६;  
 पडिजायशा स्त्री० ( प्रतियातना ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा. A reflection, image; picture चेइय० ७२,  
 पडिजुवइ स्त्री० ( प्रतिजुवति ) ( १ ) स्व-समान अन्य युवति A young woman ( २ ) सपत्नी Second wife कुम० ४,

पडिउत्तर. न० ( प्रत्युत्तर ) जवाब, उत्तर  
 Answer सुर० २, १५८, भवि०  
 पडिउत्तरण न० ( प्रत्युत्तरण ) पार जाना, पार  
 उतरना To cross निखी० चू० १,  
 पडिउत्ति खी० ( प्रत्युक्ति ) खबर, समाचार  
 News, tidings महा०  
 पडिउत्थ. त्रि० ( पयुपित ) सपूर्ण रूप से  
 अवस्थित To appear perfectly  
 dressed well equipped, ready  
 से० ४, ५०,  
 पडिउद्ध त्रि० ( प्रतियुद्ध ) (१) जागृत, जगा  
 हुआ Awakened, roused से० १२,  
 २२, (२) प्रकाश-युक्त Bright, shining  
 से० ५, २७,  
 पडिउपयार पु० ( प्रत्युपकार ) उपकार का  
 बदला, प्रतिफल Requital of an obli-  
 gation, service in return पउम०  
 ४८, ७२, सुपा० ११५,  
 पडिओसह न० ( प्रत्योपध ) एक औपध का  
 प्रतिपक्षी औपध A medicine given  
 to counteract the effect of the  
 other medicine सम्मत्त० १४२,  
 पडिकाय पु० ( प्रतिकाय ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा.  
 An effigy, image. चेह्य० ७८,  
 पडिकिदि खी० ( प्रतिकृति ) (१) प्रतिकार,  
 हलाज Prevention, remedy (२)  
 बदला Requital, return (३) प्रति-  
 बिम्ब, मूर्ति. Idol, reflected image  
 • अभि० १६६,  
 पडिकिय न० ( प्रतिकृत ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा  
 A reflection, image चेह्य० ७५,  
 पडिकूल त्रि० ( प्रतिकूल ) (१) अनिष्ट, अन-  
 भिमत Unpleasant, Disagreeable  
 (२) विरोधी, विपक्ष Hostile, Adverse,  
 Contrary हे० २, ६७,  
 पडिकूलाया. खी० ( प्रतिकूलना ) प्रतिकूल

आचरण An offensive or hostile  
 action or conduct (२) प्रतिकूलता,  
 विरोध. Unfavourableness धर्मवि०  
 ५८,  
 पडिकूलिय त्रि० ( प्रतिकूलित ) प्रतिकूल किया  
 हुआ Made unfavourable or  
 hostile राज०  
 पडिकूवग पु० ( प्रतिकूपक ) कूप के समीप का  
 कूप A small well near a well  
 से० १००,  
 पडिकोसव पु० ( प्रतिकेशव ) वासुदेव का प्रति-  
 पक्षी राजा, प्रतिवासुदेव Prativasudeo,  
 opponent of Vasudeo पउम० २०,  
 २०४,  
 पडिकमय त्रि० ( प्रतिकामक ) प्रतिक्रमण करने  
 वाला One who repents आनि० ४,  
 पडिकखअ त्रि० ( प्रतीक्षक ) प्रतीक्षा करने  
 वाला, बाट जोहने वाला One who waits  
 for गा० २५७,  
 पडिकखभ पु० ( प्रतिस्तम्भ ) अर्गला, आगल.  
 A bolt से० ६, ३३,  
 पडिकखण. न० ( प्रतीक्ष्य ) प्रतीक्षा, बाट  
 Waiting for दे० १, ३४, कुमा०  
 पडिकखलण न० ( प्रतिस्खलन ) (१) पतन  
 Falling (२) अवरोध. Hinderance,  
 obstruction आवम०  
 पडिकखलिअ त्रि० ( प्रतिस्खलित ) (२) परा-  
 वृत, पीछे हटा हुआ Retreated, retired.  
 से० १, ७, (२) रुका हुआ Prevented.  
 से० १, ७, भवि०  
 पडिकखाविअ त्रि० ( प्रतीक्षित ) (१) स्थापित.  
 Established (२) कृत. Done, made  
 'जेण पडिकखाविअ' कुमा०  
 पडिकिलअ. त्रि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी प्रतीक्षा  
 की गई हो वह Wanted for, expected  
 दे० ८, १३,

पडिखलिअ त्रि० (प्रतिखलित) (१) रुका हुआ Detained भवि० (२) रोका हुआ. Preventd सुपा०  
 पडिगमण न० (प्रतिगमन) व्यावर्तन, पीछे लौटना Returning, going back वव० १०,  
 पडिगय पु० (प्रतिगज) प्रतिपत्नी हाथी. A hostile elephant गउड०  
 पडिगाहिय, त्रि० (प्रतिगृहीत) लिया हुआ, उपात्त. Received, taken. सुपा० १४३,  
 पडिगाहाय त्रि० (प्रतिग्राहक) प्रत्यादाता, वापिस लेने वाला One who takes back दे० ७, २६,  
 पडिघायग त्रि० (प्रतिघातक) प्रतिघात करने वाला One who gives a counter-blow, or repulsive वप० २६४ टी,  
 पडिघोलिर त्रि० (प्रतिघुर्णित) डोलने वाला, हिलने वाला Shaking; moving to and fro से० ६, २१,  
 पडिचक्र न० (प्रतिचक्र) अनुरूप, चक्र-समुदाय Corresponding wheels or circles राज०  
 पडिचरग पु० (प्रतिचरक) जासूस, चर पुरुष A detective बृह० १,  
 पडिचार, पु० (प्रतिचार) (१) ग्रह आदि गति का परिज्ञान Knowledge of the planets etc (२) रोगी की सेवा-शुश्रूषा का ज्ञान स० ६०३,  
 पडिचारय पु० (प्रतिचारक) नौकर, कर्मकर A servant सुपा० ३०४,  
 पडिचोइय त्रि० (प्रतिचोदित) (१) प्रेरित Instigated, impelled उप० पृ० ३६४, (२) प्रतिभणित, जिसको उत्तर दिया गया हो, One who is answered or replied परम० ४४, ४६  
 पडिच्छद्र पु० न० (प्रतिच्छन्द) (१) मूर्ति,

प्रतिबिम्ब. A reflection, imago उप० ७२८ टी, स० १६१, ६०६, (२) तुल्य, समान. Simlality, equality से० ८, ४६,  
 पडिच्छदीकय त्रि० (प्रतिच्छन्दीकृत) समान किया हुआ. Equalized कुमा०  
 पडिच्छग, त्रि० (प्रत्येपक) ग्रहण करने वाला, A receiver. निसी० चू० ११,  
 पडिच्छगा न० (प्रतीचण) प्रतीचा, वाट. Waiting for. उप० ३७८,  
 पडिच्छगाा स्त्री० (प्रत्येपणा) ग्रहण, आदान Taking निसी० चू० १६,  
 पडिच्छा स्त्री० (प्रतीच्छा) ग्रहण, अंगीकार. Acceptance, receiving, taking. द्र० ३३, सण०  
 पडिच्छा स्त्री० (प्रतीचा) प्रतीचण, वाट. Waiting for ओष० १७२,  
 पडिच्छाया स्त्री० (प्रतिच्छाया) प्रतिबिम्ब. Reflection उप० २६३ टी,  
 पडिच्छिर त्रि० (प्रतीचित) प्रतीचा करने वाला. One who waits for वजा० ३६,  
 पडिजागय त्रि० (प्रतिजागरक) सेवा-शुश्रूषा करने वाला One who serves. वप० ७६८ टी,  
 पडिजागिय त्रि० (प्रतिजागृत) जिसकी सेवा शुश्रूषा की गई हो वह One who is served सुर० ११, २४,  
 पडिजागर पु० (प्रतिजागर) (१) सेवा-शुश्रूषा. Service (२) चिकित्सा. Medical treatment, curing, healing. 'पडिजागरद्वाए' सुपा० २७६,  
 पडिजायगा स्त्री० (प्रतियातना) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा. A reflection, imago; picture चेइय० ७२,  
 पडिजुवइ स्त्री० (प्रतिजुवति) (१) स्व-समान अन्ध युवति A young woman (२) सपरनी Second wife कुमा० ४,

पडिजोग पु० (प्रतियोग) कामंश्च आदि योग का प्रतिघातक योग, चूर्ण विशेष Thing to counteract the effects of magic, A special powder prepared by magic सुर० ८, २०४,  
 पडिट्ट त्रि० (पट्टि) अत्यंत निपुण, Skilful, dexterous, proficient. सुर० १, १३२, १३, ६६,  
 पडिट्टुचिअ त्रि० (परिस्थापित) सस्थापित Established से० २, २२,  
 पडिट्टुचिअ त्रि० (प्रतिष्ठापित) जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो वह Installed, inaugurated अजु० ६४,  
 पडिट्टाय न० (प्रतिस्थान) हर जगह, In every place, every where धर्म-वि० ४,  
 पडिणव त्रि० (प्रतिनव) नया, नूतन New विक्र० २६,  
 पडित्त त्रि० (प्रतित्तन्त्र) स्वशास्त्र ही में प्रसिद्ध अर्थ According to each scripture 'सोड पडित्तो' बृह० १,  
 पडित्तु खी० (प्रतित्तनु) प्रतिमा, प्रतिबिम्ब A reflection, image, picture चेह्य० ७२,  
 पडित्तपिय त्रि० (प्रतित्तपित) भोजन आदि से तृप्त किया हुआ Satisfied with food etc वच० १,  
 पडित्तुल्ल त्रि० (प्रतित्तुल्य) समान, सदृश Similar, Like पत्र० २, १४६,  
 पडित्थिर त्रि० (परिस्थिर) स्थिर Firm, Steady, Fixed से० २, ४,  
 पडिदाण न० (प्रतिदान) दान के बदले में दान Restoration, Giving back, Restitution उप० २६० टी,  
 पडिदासिया खी० (प्रतिदासिका) दासी A maid servant. दस० ३, १ टी,

पडिदिसा-पडिदिसि खी० (प्रतिदिशु) विदिशा, विदिक् An intermediate point of the compass राज० पि० ४१३,  
 पडिनमुक्कार पु० (प्रतिनमस्कार) नमस्कार के बदले में नमस्कार-प्रणाम, Salutation in return रमा०  
 पडिनियत्ति खी० (प्रतिनिवृत्ति) वापिस लौटना, प्रत्यापतन, Returning मोह० ६३,  
 पडिनिवेस पु० (प्रतिनिवेश) आग्रह, कदाग्रह. Foolish obstinacy, Pertinacity-पञ्च० ६,  
 पडिनिसिद्ध त्रि० (प्रतिनिषिद्ध) निवारित Prohibited उप० पृ० ३३३,  
 पडिपडिय त्रि० (प्रतिपतित) फिर से गिरा हुआ Fallen again सार्ध० ६४,  
 पडिपाहुड न० (प्रतिप्राभृत) बदले की भेंट. A present in return सुपा० १४२,  
 पडिपिल्लण न० (प्रतिप्रेरण) (१) प्रेरणा Instigation सुर० १२, १४१, (२) ढक्कन, पिधान, A cover, A lid (३) त्रि० प्रेरणा करने वाला An instigator कुप्र० १३१,  
 पडिपील्लण न० (प्रतिपीडन) विशेष पीडन, अधिक दबाव Oppressing, Molesting गउड०  
 पडिपुच्छिअ त्रि० (प्रतिपृष्ट) जिससे प्रश्न किया गया हो Asked गा० २८६,  
 पडिपुत्त पु० (प्रतिपुत्र) प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र A grandson सुपा० ६,  
 पडिपूयग-पडिपूयय त्रि० (प्रतिपूजक) पूजा करने वाला. A worshiper राज०  
 पडिपूरिय त्रि० (प्रतिपूरित) पूर्ण किया हुआ. Filled पत्र० १००, २०, ११२, ७,  
 पडिपेल्लिय त्रि० (प्रतिपेरित) जिसको प्रेरणा की गई हो, प्रेरित One who is instigated सुर० १२, १८०, महा०

पडिपोत्तय. पुं० (प्रतिपुत्रक) नप्ता, कन्या का पुत्र, लडकी का लडका. A son of a daughter. सुपा० १६२,  
 पडिष्फद्धि त्रि० (प्रतिस्पर्धिन्) स्पर्धा करनेवाला Rival, competitor. हे० १, ४४, २, ५३, प्राप्०सद्धि० १६,  
 पडिष्फलणा. स्त्री० (प्रतिफलना) (१) स्वलना Shipping (२) सक्रमण Passing from one point to another सुपा० ८७,  
 पडिष्फलिञ्च-पडिष्फलिञ्च त्रि० (प्रतिफलित) (१) प्रतिबिम्बित, सक्रान्त Reflected. से० १५, ३१, हे० १, १७, (२) स्वलित Slipped पाञ्च०  
 पडिविध पु० (प्रतिबन्ध) व्याप्ति, नियम. Invariable and inseparable connection धर्मस० १११, (२) अत्यादर बहुमान Honour, respect उप०७७६, उवर० १४६,  
 पडिविधञ्च-ग त्रि० (प्रतिबन्धक) प्रतिबन्ध करने वाला, रोकने वाला Impeding, obstructing, hindering अभि० २५३, उप० ६४५,  
 पडिविधञ्च न० (प्रतिबन्धन) प्रतिबन्ध, रुकावट Obstruction, impediment, Obstacle पि० २१८,  
 पडिविद्ध त्रि० (प्रतिबद्ध) (१) उपजनित, उत्पादित. Produced गडड० १८२;  
 (२) व्यवस्थित. Managed पचा० १३,  
 (३) वेष्टित Wrapped गडड०  
 पडिविद्य न० (प्रतिविम्ब) परछाईं, प्रतिच्छाया A shadow सुपा० २३६, (२) प्रतिमा, प्रतिमूर्ति Reflection, image पाञ्च० ग्रामा०  
 पडिविज्झणा-पडिविज्झणा. स्त्री० ( प्रति-बोधना) (१) बोध, समझ Preception, knowledge (२) जागृति Waking,

waken से० १५६,  
 पडिवुद्ध त्रि० ( प्रतिबुद्ध ) (१) बोध-प्राप्त Perceived प्राप्तू० १३५, उव० (२) न० प्रतिबोध Perception, knowledge  
 पडिवोद्दग त्रि० ( प्रतिबोधक ) (१) बोध देने वाला An instructor. (२) जगाने वाला Enlightened or one who has shaken off sleepishness or ignorance विशे० २४७ टी,  
 पडिभग पुं० ( प्रतिभङ्ग ) भग, विनाश Destruction, ruin से० ५, १६,  
 पडिभट्ट पुं० ( प्रतिभट्ट ) प्रतिपक्षी योद्धा A warrior on the opposite side. से० १३, ७२, आरा० ५६, भवि०  
 पडिभणिय त्रि० ( प्रतिभणित ) प्रत्युत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो वह That which is answered महा० सुपा० ६०, (२) निराकृत Refuted धर्मस० ६५०, (३) न०-प्रत्युत्तर, निराकरण. An answer धर्मस० ६१,  
 पडिभमिय त्रि० ( प्रतिभ्रान्त-परिभ्रान्त ) घूम हुआ, Roamed भवि०  
 पडिभय न० ( प्रतिभय ) भय, डर Fear, terror पडम० ७३, १२,  
 पडिभाग पु० ( प्रतिभाग ) प्रतिबिम्ब A reflection राज०  
 पडिभिण्ण त्रि० ( प्रतिभिन्न ) सबद्ध, सलग्न Closely attached, united with, adhering to से० ४, ५, (२) भेद-प्राप्त Divided प्रव० १६, चेद्दय० ६४२,  
 पडिभुञ्जग. पुं० ( प्रतिभुञ्ज ) प्रतिपक्षी-भुञ्जग, वेश्या-लपट. Whisk (made of cotton strings, and generally used by the monks of Jain Sect). कर्पूर० २७,  
 पडिभू पु० ( प्रतिभू ) जामिनदार, मनौतिया- A bail, guarantor नाट-चैत० ७५,

पडिजोग पु० (प्रतियोग) कार्मण आदि योग का प्रतिघातक योग, चूर्ण विशेष Thing to counteract the effects of magic, A special powder prepared by magic सुर० ८, २०४,  
 पडिट्ट त्रि० (पट्टि) अत्यंत निपुण, Skilful, dexterous, proficient. सुर० १, १३२, १३, ६६,  
 पडिट्टविअ त्रि० (परिस्थापित) सस्थापित Established से० २, १२,  
 पडिट्टविअ त्रि० (प्रतिष्ठापित) जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो वह Installed, inaugurated अञ्जु० ६४,  
 पडिटाण न० (प्रतिस्थान) हर जगह, In every place, every where धर्म-वि० ४,  
 पडिणव त्रि० (प्रतिनव) नया, नूतन New विक० २६,  
 पडितन त्रि० (प्रतितन्त्र) स्वशास्त्र ही में प्रसिद्ध अर्थ According to each scripture 'सोड पडिततो' बृह० १,  
 पडितणु खी० (प्रतितनु) प्रतिमा, प्रतिबिम्ब A reflection, image, picture चेह्य० ७२,  
 पडितणिय त्रि० (प्रतितर्पित) भोजन आदि से तृप्त किया हुआ Satisfied with food etc बव० १,  
 पडितुल्ल त्रि० (प्रतितुल्य) समान, सदृश Similar, Like पउम० २, १४६,  
 पडित्थिर त्रि० (परिस्थिर) स्थिर Firm, Steady, Fixed से० २, ४,  
 पडिदाण न० (प्रतिदान) दान के बदले में दान Restolation, Giving back, Restitution उप० २६७ टी,  
 पडिदासिया खी० (प्रतिदासिका) दासी A maid servant. दस० ३, १ टी,

पडिदिस्सा-पडिदिसि खी० (प्रतिदिश) विदिशा, विदिक् An intermediate point of the compass राज० पि० ४१३,  
 पडिनमुक्कार पु० (प्रतिनमस्कार) नमस्कार के बदले में नमस्कार-प्रणाम. Salutation in return रमा०  
 पडिनिवन्ति खी० (प्रतिनिवृत्ति) वापिस लौटना, प्रत्यापत्तन. Returning मोह० ६३,  
 पडिनिवेश पु० (प्रतिनिवेश) आग्रह, कदाग्रह. Foolish obstinacy, Pertinacity-पञ्च० ६,  
 पडिनिसिद्ध त्रि० (प्रतिनिषिद्ध) निवारित. Prohibited उप० पृ० ३३३,  
 पडिपडिय त्रि० (प्रतिपतित) फिर से गिरा हुआ Fallen again सार्ध० ६४,  
 पडिपाहुड न० (प्रतिप्राभृत) बदले की भेंट. A present in return सुपा० १४२,  
 पडिपिल्लण न० (प्रतिप्रेरण) (१) प्रेरणा Instigation सुर० १२, १४१, (२) ढकन, पिघान. A cover, A lid (३) त्रि० प्रेरणा करने वाला An instigator कुम० १३१,  
 पडिपीलण न० (प्रतिपीडन) विशेष पीडन, अधिक दबाव Oppressing, Molesting गउड०  
 पडिपुच्छिअ त्रि० (प्रतिपुष्ट) जिससे प्रश्न किया गया हो Asked गा० २८६,  
 पडिपुत्त पु० (प्रतिपुत्र) प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र A grandson सुपा० ६,  
 पडिपूयग-पडिपूयय त्रि० (प्रतिपूजक) पूजा करने वाला A worshiper राज०  
 पडिपरिय त्रि० (प्रतिपूरित) पूर्ण किया हुआ. Filled पउम० १००, २०, ११२, ७,  
 पडिपेल्लिय त्रि० (प्रतिपेरित) जिसको प्रेरणा की गई हो, प्रेरित One who is instigated सुर० १२, १८०, महा०

पडिपोत्तय. पु० (प्रतिपुत्रक) नप्ता, कन्या का पुत्र, लडकी का लडका. A son of a daughter सुपा० १६२,

पडिप्फद्धि त्रि० (प्रतिस्पर्धिन) स्पर्धा करनेवाला Rival, competitor हे० १, ४४, २, २३, प्राप्०सहि० १६,

पडिप्फलणा, स्त्री० (प्रतिफलना) (१) स्वलना Slipping (२) सक्रमण Passing from one point to another सुपा० ८७,

पडिप्फलित्त-पडिफलित्त त्रि० (प्रतिफलित) (१) प्रतिबिम्बित, सक्रान्त Reflected. से० १२, ३१, हे० १, १७, (२) स्वलित Slipped पात्र०

पडिबन्ध. पु० (प्रतिबन्ध) व्याप्ति, नियम. Invariable and inseparable connection धर्मस० १११, (२) अत्यादर बहुमान Honour, respect उप० ७७६, उवर० १४६,

पडिवधञ्ज-ग त्रि० (प्रतिबन्धक) प्रतिबन्ध करने वाला, रोकने वाला Impeding, obstructing, hindering अभि० २२३, उप० ६४५,

पडिवधण न० (प्रतिबन्धन) प्रतिबन्ध, रुकावट Obstruction, impediment, Obstacle पि० २१८,

पडिवद्ध त्रि० (प्रतिवद्ध) (१) उपजमित, उत्पादित. Produced गउड० १८२; (२) व्यवस्थित. Managed पचा० १३, (३) वेष्टित Wrapped गउड०

पडिविच न० (प्रतिविम्ब) परछाई, प्रतिच्छाया A shadow सुपा० २३६, (२) प्रतिमा, प्रतिमूर्ति Reflection, image पात्र० प्राप्ता०

पडिवुज्झणया-पडिवुज्झणा स्त्री० (प्रतिबोधना) (१) बोध, समझ Perception, knowledge (२) जागृति Waking,

waken स० १२६,

पडिवुद्ध त्रि० (प्रतिबुद्ध) (१) बोध-प्राप्त Perceived प्राप्त् १३२, उव० (२) न० प्रतिबोध Perception, knowledge पडिवोद्दग. त्रि० (प्रतिबोधक) (१) बोध देने वाला An instructor. (२) जगाने वाला Enlightened or one who has shaken off sleepishness or ignorance विशे० २४७ टी,

पडिभंग पु० (प्रतिभङ्ग) भग, विनाश Destruction, ruin से० २, १६,

पडिभड पु० (प्रतिभट) प्रतिपक्षी योद्धा A warrior on the opposite side से० १३, ७२, आरा० २६, भवि०

पडिभणिय त्रि० (प्रतिभणित) प्रत्युत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो वह That which is answered महा० सुपा० ६०, (२) निराकृत Refuted धर्मस० ६२०, (३) न० प्रत्युत्तर, निराकरण, An answer धर्मस० ६१,

पडिभमिय त्रि० (प्रतिभ्रान्त-परिभ्रान्त) घूमा हुआ, Roamed भवि०

पडिभय. न० (प्रतिभय) भय, डर Fear, terror पउम० ७३, १२,

पडिभाग पु० (प्रतिभाग) प्रतिविम्ब A reflection राज०

पडिभिरण त्रि० (प्रतिभिन्न) सबद्ध, सलग्न Closely attached, united with, adhering to से० ४, ५, (२) भेद-प्राप्त Divided प्रव० १६, चेद्वय० ६४२,

पडिभुञ्जंग. पु० (प्रतिभुज्ज) प्रतिपक्षी-भुज्जग, बेरया-लपट. Whisk (made of cotton strings, and generally used by the monks of Jain Sect). कपूर्० २७,

पडिभू पु० (प्रतिभू) जामिनदार, मनीतिया. A bail, guarantor नाट-चैत० ७५,



पडिम त्रि० ( प्रतिम ) समान, तुल्य.

Similar, alike मोह० ३२,

पडिमल्ल पु० ( प्रतिमल्ल ) प्रतिपक्षी मल्ल

An antagonist भवि०

पडिमा स्त्री० ( प्रतिमा ) मूर्ति, प्रतिबिम्ब A

reflection, image दसनि० १, पात्र०

गा० १, ११४,

पडिमाण न० ( प्रतिमान ) प्रतिमा, प्रतिबिम्ब.

A reflection, idol चेह्य० ७२,

पडिमु डया स्त्री० ( प्रतिमुयडना ) निषेध,

निवारण. Prohibition. बृह० १,

पडिमुक्त त्रि० ( प्रतिमुक्त ) छोटा हुआ

Released से० ३, १२,

पडिमोत्रणा स्त्री० ( प्रतिमोचना ) छुटकारा

Liberation; release से० १, ४६,

पडिमोत्रण न० ( प्रतिमोचन ) छुटकारा

Liberation, release स० ४१,

पडियक्क न० ( प्रतिचक्र ) युद्ध कला-विशेष A

made of fighting 'ईरुत्ये पडियक्के'महा०

पडियगगाय न० ( प्रतिजागरण ) सन्हाल, खबर

Watchfulness, vigilance, atten-

tion धर्मस० १०१३,

पडियरण न० ( प्रतिकरण ) प्रतीकार, इलाज

Counter-action, obviating, pre-

vention पिंड० ३६६,

पडियरिअ त्रि० ( प्रतिचरित ) सेवित Served

मोह० १०२,

पडियारणा स्त्री० ( प्रतिवारणा ) निषेध

Prohibition पचा० १७, ३४,

पडिर त्रि० ( पतिवृ ) गिरने वाला. One who

falls कुमा०

पडिरक्खिय त्रि० ( प्रतिरक्षित ) जिसकी रक्षा

की गई हो वह Protected भवि०

पडिरव पु० ( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द

An echo, reverberation गड०

गा० २५, सुर० १, २४४,

पडिराय पु० ( प्रतिराग ) लाली, रक्तपन

Redness, crimson hue. गड०

पडिरुद्ध त्रि० ( प्रतिरुद्ध ) रोका हुआ, अटकाया

हुआ सुपा० ८२, वजा० २०,

पडिरोव पु० ( प्रतिरोप ) पुनरावृत्ति Instal-

ling again. कुम० २२,

पडिरोह पु० ( प्रतिरोध ) रूकावट Impedi-

ment, Hinderance गड० गा० ७२४,

पडिरोहि त्रि० ( प्रतिरोधिन् ) रोकने वाला.

One who hinders गड०

पडिलग त्रि० ( प्रतिलग्न ) लगा हुआ, सबद्ध.

Adhered to, stuck. से० ६, ८६,

पडिलाहण न० ( प्रतिलाभन ) दान, देना.

Giving रभा०

पडिलिहिअ त्रि० ( प्रतिलिखित ) लिखा हुआ.

Written ति० १४,

पडिलीण त्रि० ( प्रतिलीन ) अत्यन्त-लीन Com-

pletely absorbed in धर्मवि० २३,

पडिलेहणी स्त्री० ( प्रतिलेखनी ) साधु का एक

उपकरण A mendicants act of

favour or assistance, or a Jain

saint requirements or his arti-

cles of utmost need. प्रव० ६१,

पडिलेहय त्रि० ( प्रतिलेखक ) निरीक्षक, देखने

वाला An inspector शोध० ४,

पडिलोम न० ( प्रतिलोम ) १) पञ्चानुपूर्वी,

उलटा क्रम Inverted order सुर० १६,

४८, निसीचू० १, (२) उदाहरण का एक दोष

A defect of illustration (२) अप-

वाद दसनि० १, Exception राज०

पडिवहर, न० ( प्रतिवैर ) वैरका बदला Retali-

ation of hostilities, revenge भवि०

पडिवच्चण, न० ( प्रतिवच्चन ) बदला Requi-

tal, recompense पउम० २६, ७३,

पडिवक्ख, पु० ( प्रतिपच्च ) (१) छन्द विशेष.

A kind of metre पिंग० (२) विपर्यय,

वैपरीत्य Contianity, reverse, in-  
version सण०

पडिविखय त्रि० ( प्रतिपक्षिक ) विरुद्ध पक्ष  
वाला, विरोधी An opponent सण०

पडिविज्ञण. न० ( प्रतिपत्ति ) स्वीकार, अगी-  
कार. Acceptance कुप्र० १४७,

पडिविज्ञण न० ( प्रतिपादन ) अगीकारण, स्वी-  
कार करवाना Causing to accept  
कुप्र० १४७, ३८६,

पडिविज्ञय. त्रि० ( प्रतिपादक ) स्वीकार करने  
वाला One who accepts स० १०१,

पडिविज्ञावण न० ( प्रतिपादन ) स्वीकारण,  
स्वीकार कराना Causing to accept  
कुप्र० ६६,

पडिविज्ञाविय त्रि० ( प्रतिपादित ) स्वीकार कराय  
हुआ Caused to accept महा०

पडिविद्वृत्र न० ( प्रतिपट्टक ) एक प्रकार का रेशमी  
कपडा A kind of silk कप्प०

पडिविद्व्हावत्र त्रि० ( प्रतिवधापक ) (१) बधाई  
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला  
One who acknowledges greetings  
and congratulations (२) बधाई  
के बदले में बधाई देने वाला One who  
congratulates in exchange of  
greetings कप्प०

पडिवरण त्रि० ( प्रतिपन्न ) स्वीकृत, अगीकृत  
Accepted पड्०

पडिवत्त पु० ( परिवर्त ) परिवर्तन Change  
नाट० सृच्छ० ३१८,

पडिवत्ति स्त्री० ( प्रतिपत्ति ) (१) प्रवृत्ति, खबर  
News पडम० ४७, ३०-३१, (२) अग्नि-  
ग्रह-विशेष A kind of vow for tak-  
ing food. (३) परिपाटी, क्रम. Order,  
succession आव० ४,

पडिवयण न० ( प्रतिवचन ) (१) प्रत्युत्तर,  
जवाब An answer. गा० ४१६, सुर० २,

१२३, सुपा० १४३, भवि० (३) आदेश, आज्ञा.  
A command, An order 'देहि मे  
पडिवयण' आवम० (३) पुं० हरिवंश के एक  
राजा का नाम. A king of the Hari-  
vansa lineage. पडम० २२, ६७,

पडिवविय. त्रि० ( प्रत्युत्त ) फिर से बोया हुआ  
Re-sown, re-planted दे० ६, १३;  
पडिवसम पु० ( प्रतिवृषम ) मूल स्थान से दो  
कोस की दूरी पर स्थित गाँव Village  
situated four miles away from  
the centre प्रच० ७०,

पडिवह पुं० ( प्रतिवध-परिवध ) वध, हत्या  
Act of killing पडम० ७३, २४,

पडिवाइ. त्रि० ( प्रतिवादिन् ) प्रतिवाद करने  
वाला, वादी का विपक्षी Opponent  
defendant भवि० ११, ३,

पडिवाइ. त्रि० ( प्रतिपादिन् ) प्रतिपादन करने  
वाला One who explains or ex-  
pounds भवि० ११, ३,

पडिवाइत्र. त्रि० ( प्रतिपातित ) (१) फिर से  
गिराया हुआ. Felled again, pulled  
down or fallen (२) नष्ट किया हुआ.  
Ruined, perished भवि०

पडिवाइत्र त्रि० ( प्रतिपादित ) जिसका प्रतिपा-  
दन किया गया हो, निरूपित Explained;  
expounded अद्भु० १, स० ४६, १४३;  
पडिवाइत्र त्रि० ( प्रतिवाचित ) (१) लिखने के  
बाद पढा हुआ, फिर से बाचा हुआ Re-  
vised कुप्र० १६७;

पडिवाइय. त्रि० ( प्रतिपादक ) प्रतिपादन करने  
वाला One who explains नाट० चैत०  
३४,

पडिवाय पु० ( प्रतिपात्त ) (१) पुन पतन, फिर  
से गिरना. To pull down again नव०  
३६, (२) नाश, ध्वंस Ruin; destruc-  
tion विशेष० १७७,

पडिवाय पु० (प्रतिवाद) विरोध Opposition, impediment भवि०  
 पडिवाय पु० (प्रतिवात) प्रतिकूल पवन An opposite or unfavourable wind आदम०  
 पडिवायण न० ( प्रतिपादन ) निरूपण. Demonstration. कुम० १२६,  
 पडिवालण न० ( प्रतिपालन ) (१) रक्षण Protection (२) प्रतीक्षा, वाट. Await नाट—महा० ११८, उप० ६६६,  
 पडिवालिन्र त्रि० ( प्रतिपालित ) (१) रक्षित Protected. (२) प्रतीक्षित, जिसकी वाट देखी गई हो वह Awaited, or expected महा०  
 पडिवास. पु० ( प्रतिवास ) औषध आदि को विशेष उक्त बनाने वाला चूर्ण आदि A medicine which makes other medicines strong उर०८,६, सुपा० ६७,  
 पडिवासर न० (प्रतिवासर) प्रतिदिन, हर रोज Daily गड०  
 पडिवित्थर पु० (प्रतिविस्तर) परिकर, विस्तर Spreading, extension, expansion सू० २, २, ६२ टी, राज०  
 पडिविद्धसन न० ( प्रतिविध्वसन ) विनाश, ध्वस Destruction, ruin राज०  
 पडिविपिय. न० ( प्रतिविमिय ) अपकार का बदला, बदले के रूप में किया गया अनिष्ट To requital or retaliate महा०  
 पडिविहाण. न० ( प्रतिविधान ) प्रतीकार Counter-action, obviating स० २६७  
 पडिवेसिअ त्रि० (प्रतिवेशिक) पडोसी, पडोस में रहने वाला Neighbour सुपा० २२२,  
 पडिसका स्त्री० (प्रतिशङ्का) भय, शका Fear, suspense पडम० ६७, १५,  
 पडिसत त्रि० ( प्रतिशान्त ) विश्रान्त Rest

बृह० १,  
 पडिसमुह न० ( प्रतिसमुख ) समुख, सामने. Face to face. महा०  
 पडिसलाव पु० (प्रतिसलाप) प्रत्युत्तर, जवाब Answer स० १, २६, ११, ३४,  
 पडिसडण न० (प्रतिशदन) (१) सब जाना. Decaying, withering (२) विनाश. Destruction काल०  
 पडिसत्थ. पु० ( प्रतिसार्थ ) प्रतिकूल यूथ. Unfavourable company निसी० चू० ११,  
 पडिसद् पु० ( प्रतिशब्द ) (१) प्रतिध्वनि. An echo, everberation पडम० १६, २३, भवि० (२) उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब. Answer पडम० ६, ३५,  
 पडिसदिय, त्रि० (प्रतिशब्दित) प्रतिध्वनि युक्त Echoed, resounded सम्भत्त० २१८,  
 पडिसय. पु० ( प्रतिश्रय ) उपाश्रय, साधु-निवास स्थान A place of Jaina saints, seat of a Jain monk or saint दस० २, १ टी,  
 पडिसर पु० (प्रतिसर) (१) सैन्य का पश्चाद् भाग The rear of an army प्रा०० (२) हस्त-सूत्र, ककण Bracelet घर्म० २;  
 पडिसरण न० (प्रतिसरण) ककण Bracelet. पचा० ८, १५,  
 पडिसरीर न० ( प्रतिशरीर ) प्रतिमूर्ति Reflection, image 'पट्टविमो पडि सरीर व' घर्मवि० ३,  
 पडिसलागा स्त्री० ( प्रतिशलाका ) पत्य-विशेष. A particular duration of time क० ग० ४, ७३,  
 पडिसवत्त. त्रि० ( प्रतिसपत्न ) विरोध Opponent, enemy दसनि० ६, १८,  
 पडिसाइण स्त्री० ( प्रतिशान्ता ) च्युत करना; अष्ट करना To pollute, defile दव० १;

पडिसाय. त्रि० ( शान्त ) शान्त, शम-प्राप्त  
Calm and quiet, or peaceful कुमा०

पडिसार पु० ( प्रतिसार ) (१) सजावट  
Preparations (२) अपसारण (३)  
विनाश Destruction (४) पराङ्मुखता.  
Having the face turned away  
हे० १, २०६,

पडिसार पु० ( प्रतिसार ) अपसारण, Re-  
moving to a distance हे० १, २०६,  
पडिसारण न० ( प्रतिस्मरण ) याद दिवाना  
To remind वव० १,

पडिसारित्र. त्रि० ( प्रतिसारित ) (१) दूर  
किया हुआ, अपसारित Driven, expel-  
led. से० ११, १, (२) विनाशित  
Ruined, destroyed से० १४, २८,  
(३) पराङ्मुख Turning the face  
away से० ३३, ३२,

पडिसिद्धि. स्त्री० ( प्रतिसिद्धि ) (१) अनुरूप  
सिद्धि A corresponding or suitable  
accomplishment (२) प्रतिकूल सिद्धि  
A contrary accomplishment हे०  
१, ४४, पद्०

पडिसिलोम पु० ( प्रतिश्लोक ) श्लोक के  
उत्तर में कहा गया श्लोक A verse  
recited as a reply to another  
verse सम्मत० १४६,

पडिसिविणम्र पु० ( प्रतिस्वप्नक ) स्वप्न  
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न  
A contradictory dream कप्प०

पडिसीस्र क. न० ( प्रतिशीर्षक ) कृत्रिम मुह,  
मुह का परदा An artificial face,  
or veil कप्प०

पडिसुण्णा स्त्री० ( प्रतिश्रवणा ) (१)  
श्रीकार, स्वीकार, Acceptance (२)  
मुनि भिक्षा का एक द्रोण, आधा कर्म द्रोण वाली  
भिक्षा लाने पर उसका स्वीकार और अनुमोदन

Faults or shortcomings of a  
mun's ( Monk ) teachings  
धर्म० ३,

पडिसुण्णा त्रि० ( प्रतिशून्य ) खाली, रिक्त,  
शून्य Empty, vacant. 'नय निलया  
निच्चपडिसुण्णा' ठ० १टी,

पडिसुद्ध त्रि० ( परिशुद्ध ) अत्यन्त शुद्ध  
Absolutely pure चेइय० ८०७,

पडिसुया स्त्री० ( प्रतिश्रुता ) प्रव्रज्या-विशेष, एक  
प्रकार की दीक्षा. A kind of initiation  
ठ० १०टी,

पडिसुहड पु० ( प्रतिसुभट ) प्रतिपक्षी योद्धा  
A warrior on the opposite side  
काल०

पडिसुयग. पु० ( प्रति सूचक ) गुप्त-चरों की एक  
श्रेणी, नगर द्वार पर रहने वाला जासूस. A  
class of detectives वव० १,

पडिस्सति स्त्री० ( परिश्रान्ति ) परिश्रम.  
Fatigue, weariness, exhaustion  
नाट-सूच्य० ३२१,

पडिस्सय पु० ( प्रतिश्रय ) जैन साधुओं का  
रहने का स्थान, उपाश्रय An abode of  
Jain monks श्रोक० ८७ भा, उप०  
२७१, स० ६८७,

पडिस्सावि. त्रि० ( प्रतिश्राविन् ) धरने वाला,  
टपकने वाला One that oozes, leak-  
ing राज०

पडिहट्ट अ० ( प्रतिहृत्य ) अर्पण करके  
Having offered कस० बृह० ३,

पडिहड पु० ( प्रतिभट ) प्रतिपक्षी योद्धा A  
warrior on the opposite side  
से० ३, २३,

पडिहृत्य त्रि० ( प्रतिहस्त ) तिरस्कृत Dis-  
regarded, despised चड०

पडिहा स्त्री० ( प्रतिभा ) बुद्धि-विशेष, नूतन २  
उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि Genus,

- bright conception, vivid imagination कुमा०
- पडिहार पु० (प्रतिहार) इन्द्रनियुक्त देव A god appointed by India प्रव० ३६,
- पडिहारिय त्रि० (प्रतिहारित) अवरुद्ध, रोका हुआ Obstructed, impeded स० २४६,
- पडिहास पु० (प्रतिभास) प्रतिभास, प्रतिभास Readiness of wit, quick-witted हे० १, २०६, पङ्०
- पडिहासिय त्रि० (प्रतिभासित) जिसका प्रतिभास हुआ हो Looked, appeared उप० ६८६ टी,
- पडिहुआ—पडिहु पुं० (प्रतिभू) ज्ञामिन, ज्ञानान्त देने वाला, मनौतिया, Surety पात्र० दे० २, ३८,
- पडो. स्त्री० (पदी) वस्त्र, कपडा, A garment गठड० सुर० ३, ४१,
- पडोव त्रि० (प्रतीप) प्रतिकूल, प्रतिपक्षी, विरोधी An opponent, an enemy. भवि०
- पडुत्तिया स्त्री० (प्रत्युत्तिका) प्रत्युत्तर, जवाब An answer. भवि०
- पडोयार पु० (प्रत्युपकार) उपकार का उपकार Requite राज०
- पड पु० (पड) भारतीय देश विशेष A particular region of India इक०
- पडग त्रि० (पाठक) पढने वाला Student, scholar कल्प०
- पडम त्रि० (प्रथम) (१) नूतन, नया. New (२) प्रधान, मुख्य. Chief, principal, eminent कल्प० —समोसरण न० (समवसरण) वर्षाकाल The rainy season, monsoon 'पडमसमोसरण भरणइ' निसी० चू० १,
- पढावत्र त्रि० (पाठक) अध्यापक Teacher प्राक० ६०,
- पढावरण. न० (पाठन) पढाना. Teaching कुम० ६०,
- पढावित्र. त्रि० (पाठित) पढाया हुआ Taught सुपा० ४२३, कुम० ६१,
- पढावित्रचंत त्रि० (पाठितवत्) जिसने पढाया हो वह. Teacher or tutor प्राक० ६१,
- पढाविउ-पढाविर. त्रि० (पाठयितु) अध्यापक. Teacher प्राक० ६०,
- पढिर त्रि० (पठितु) पढने वाला Student. सण०
- पढुक्क त्रि० (प्रदौकित) भेंट के लिए उपस्थापित Prestented for offering भवि०
- पण पु० (पण)(१) शर्त, होड Stake, bet, wager महा० (२) प्रतिज्ञा, To take an oath or determination आक० (३) धन Riches, wealth (४) विक्रय वस्तु, क्रयायक A commodity for sale. ती० ३,
- पणइ स्त्री० (प्रणति) प्रणाम, नमस्कार Salutation पडम० ६६, ६६, सुर० १२, १३३, कुमा०
- पणइ त्रि० (प्रणयिन्) (१) प्रणय वाला, स्नेही, प्रेमी Loving, affectionate. (२) पु० पति, स्वामी. Husband पात्र० गठड० ८३७, (३) याचक, प्रार्थी Beggar. गठड० २४६, २४१, सुर० १, १०८, (४) भृत्य, दास Servant 'पणइलवो' गठड० ७६७,
- पणगया स्त्री० (पणगना) वेश्या, वारागना. Prostitute, harlot उप० १०३१ टी, सुपा० ४६०, कुम० २,
- पणग. न० (पणक) तप-विशेष, नीवी तप A kind of penance सबोध० २७,
- पणच्चण न० (पनर्तन) नृत्य, नाच Dance सुपा० १२४,
- पणमण न० (प्रणमन) प्रणाम, नमस्कार.

Salutation उच० सुपा० २७, २६१,  
 पर्यामित्र त्रि० ( प्रयमित ) नमाया हुआ  
 Bent नवि०  
 पर्यामिर त्रि० ( प्रयन्तृ ) प्रणाम करने वाला,  
 नमने वाला One who bows or salu-  
 tes कुमा० कुम० ३५०, सया०  
 पर्याय त्रि० ( प्रयत् ) (१) जिसको प्रणाम किया  
 गया हो वह Bowed, Saluted. सुपा०  
 २४०, (२) जिसने नमस्कार किया हो वह  
 One who has saluted. सुर० १, ११२,  
 सुपा० ३६१,  
 पर्याप्त पुं० ( प्रयाय ) प्रार्थना Prayer,  
 solicitation, गवड०  
 पर्यायवत् त्रि० ( पर्यायवत् ) स्नेह वाला, प्रेमी  
 Loving, affectionate उप० १३१,  
 पर्याय्य पुं० ( पर्याय ) ओंकार, ओं अक्षर The  
 sacred syllable-“Om” सिरि० १६६,  
 पर्यायीसी स्त्री० ( पञ्चविंशतिका ) पचीस का  
 समूह A collection of twenty five  
 सबोध० २५,  
 पर्यासुदरी स्त्री० ( पर्यासुन्दरी ) वेश्या Prosti-  
 tute, harlot धर्मवि० १२७,  
 पर्यामित्र त्रि० ( अर्पित ) समर्पित, देने के लिए  
 धरा हुआ Given, handed over  
 पात्र० कुमा० हेका० २०,  
 पर्यामित्र त्रि० ( प्रयमित ) नमाया हुआ  
 Bowed, saluted से० ४, ३१, गा० २२,  
 पर्यामित्र त्रि० ( प्रयत् ) नत, नमा हुआ  
 Bowed, saluted स० ३१६,  
 पर्याल पुं० ( प्रयाल ) मोरी, पानी आदि जाने  
 का रास्ता Drain, gutter, channel  
 से० १३, २४, उर० १, ५, ६,  
 पर्यालित्रा स्त्री० ( प्रयालिका ) (१) परम्परा  
 Succession, coming of from  
 ages, or ancestral (२) पानी जाने का  
 रास्ता Channel कुमा०

पर्याली. स्त्री० ( प्रयाली ) मोरी, पानी जाने का  
 रास्ता Drain, channel गवड०  
 पर्यास, पुं० ( प्रयास ) विनाश, उच्छेदन  
 Destruction, ruin. आवम०  
 पर्यासण त्रि० ( प्रयाशन ) विनाश करने वाला  
 Destructor पडि० कप्य०  
 पर्याय त्रि० ( प्रयात ) रचित Made  
 सूयनि० ११२,  
 पर्याय न० ( पर्याय ) शर्त, होड, एक तरह का  
 जूआ Bet, A sort of gambling  
 or hazard भास० ६२,  
 पर्याहि पुं० स्त्री० ( प्रयाधि ) (१) कामना,  
 अभिलाष Desire, ambition स० ८७,  
 (२) पुं० चर पुरुष, दूत Spy, An  
 emissary सुर० ३, ४, सुपा० ४६२, पात्र०  
 (३) व्यवस्थापन. Management राज०  
 पर्याहिय त्रि० ( प्रयाहित ) प्रयुक्त, व्यापृत  
 Appointed दसनि० ८,  
 पर्या न० ( पर्या ) पत्र, पत्ती Leaf कुमा०  
 पर्या त्रि० ( पर्या ) पर्या सबन्धी, पत्ती से सबन्ध  
 रखने वाला. Relating to or made of  
 leaves, Leafy राज०  
 पर्याई. स्त्री० ( पर्यागी ) भगवान् धर्मनाथ की  
 शासन देवी A governing deity of  
 Lord Dharamnatha प्रच० २७,  
 पर्यागासन पुं० ( पर्यागाशन ) गवड पत्ती.  
 An epithet of Ganesha. पिना०  
 पर्याति स्त्री० ( पर्याति ) (१) विद्यादेवी विशेष.  
 A goddess of science (२) विद्या  
 विशेष A branch of science आया०  
 चू० १,  
 पर्यापरिणाय. पुं० ( पर्यापरिणयि ) व्यन्तर देवों  
 की एक जाति A class of Viyantai  
 gods इक०  
 पर्यायवच न० ( प्रयापन ) शास्त्र, सिद्धान्त.  
 Scripture विशे० ८६४,

पर्याग त्रि० ( प्रज्ञ ) विद्वान Learned man. पचा० १७, २७,  
 पर्यावत त्रि० ( प्रज्ञावत् ) ज्ञानवान्, Wise, intelligent राज०  
 पर्याविसा स्त्री० ( पञ्चविंशति ) पचीस. Twenty five पद्०  
 परहवाहण. न० ( प्रश्नवाहन ) जैन मुनि-गण का एक कुल A group of Jain saints ती० ३८,  
 परहुअ त्रि० ( प्रस्तुत ) (१) चरित, ऋरा हुआ Oozed, Dropped (२) जिसने ऋरने का आरम्भ किया हो One that began to ooze पउम० ७६, २०, हे० २, ७५,  
 परहुइर. त्रि० ( प्रस्नोत् ) क्षरनेवाला Trickleing, leaking गा० ४६२,  
 परहोत्तर. न० ( प्रश्नोत्तर ) सवाल जवाब Question with answer सुर० १६, ४१, कप्प०  
 पतारण त्रि० ( प्रतारक ) बञ्चक, ठग Cheat, impostor. धर्मस० १४७,  
 पत्त. न० ( पात्र ) (१) आधार, आश्रय, स्थान Support कुमा० (२) लगातार बचीस उपवास Thuty two fasts at a stretch सबोध० १८,  
 पत्त. त्रि० ( प्रात् ) प्रसारित Spread कप्प०  
 पत्तट्ट त्रि० ( प्राप्ताथ ) (१) बहु शिचित, विद्वान्, अति कुशल Learned, skilful दे० ६, ६८, सुर० १, ८१, सुपा० १२६, (२) समर्थ Powerful जीवस० २८१,  
 पत्तणा स्त्री० ( प्रपणा ) प्राप्ति Acquisition. पच्० ४,  
 पत्तल न० ( पत्र ) पत्ती, पर्ण Leaf हे० २, १७३, ४, ३८७, प्रामा० सण०  
 पत्तलण. न० ( पत्रल ) पत्र-समृद्ध होना, पत्र-बहुल होना Abounding in leaves गा० ६२६,

पत्ति स्त्री० ( प्राप्ति ) लाभ Acquisition, or gain दे० १, ४२, उप० २२६, वेद्व्य० ८६४,  
 पत्ति पु० ( पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पांच पैदल हों, The smallest division of an army consisting of one chariot, one elephant, three horsemen and five foot-soldiers (२) पैदल चलने वाली सेना An army of foot-men. उप० ७२८ टी,  
 पत्तिआ स्त्री० ( पत्रिका ) पर्ण, पत्ती Leaf. कुमा०  
 पत्तिअ-ग. न० ( प्रत्येक ) पृथक पृथक, अलग अलग Each, every one क० ग० १, २०,  
 पत्तेय. त्रि० ( प्रत्येक ) बाह्य कारण Each, single नदी० १३०, १३१ टी,  
 पत्थ पु० ( पार्थ ) (१) अर्जुन, मध्यम पाण्डव. Arjuna स० ६१२, वेणी० १२६, कुमा० (२) पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम A king of the Panchala region. पउम० ३७, ८, (३) भद्रिलपुर नगर का एक राजा A king of Bhaddilapur सुपा० ६२६,  
 पत्थ. पु० ( प्रार्थ ) (१) प्रार्थन, प्रार्थना Prayer (२) दो दिन का उपवास. Two fasts at a time सबोध० १८,  
 पत्थण न० ( प्रार्थन ) प्रार्थना Prayer, solicitation महा० भवि०  
 पत्थरण न० ( प्रस्तरण ) विछौना. Bedding. धर्मवि० १४७,  
 पत्थरिअ. त्रि० ( प्रस्तुत ) विछाया हुआ. Spread, पात्र०  
 पत्थार पु० ( प्रस्तार ) विस्तार Area उवर० ६६, (२) नृण-वन A forest of grass (३) पल्लवादि-निर्मित गरया A bed

of leaves and flowers (४) पिंगल-  
प्रसिद्ध प्रक्रिया-विशेष (In prosody) A  
tabular representation of the  
long and short vowels of a metrie  
with all its varieties प्राप्त०

पत्थिञ्च. त्रि० ( प्रार्थिक ) प्रार्थी, प्रार्थना करने  
वाला. Prayer, one who solicites  
blessings for others उच०

पत्थिञ्च त्रि० ( प्रस्थित ) विशेष आस्था वाला,  
प्रकृत श्रद्धा वाला. Full of faith,  
believer. उच०

पत्थिव. त्रि० ( पार्थिव ) पृथ्वी का विकार.  
Earthen, earthy. राज०

पदक्खिण्ण त्रि० ( प्रदक्षिण ) (१) जिसने दक्षिण  
की तरफ से लेकर मण्डलाकार भ्रमण किया हो  
One who circumambulated from  
left to right or who has travel-  
led round about from the south  
to all directions (२) न० दक्षिणावर्त्त  
भ्रमण Circumambulation from  
left to right or walking round  
about प्रथी० ३५,

पदक्खिण्णा. स्त्री० ( प्रदक्षिणा ) दक्षिण की ओर  
से मण्डलाकार भ्रमण. Circumambula-  
tion from left to right, or walk-  
ing round about नाट-चैत० ३८,

पदहण. न० ( प्रदहन ) सताप, गरमी. Heat,  
warmth कुमा०

पदाइ. त्रि० ( प्रदायिन् ) देने वाला Donor  
नाट-विक्र० ८,

पदायग त्रि० ( प्रदायक ) देने वाला Donor  
विशे० ३२००,

पदीविञ्चा स्त्री० ( प्रदीपिका ) छोटा दिया.  
Small lamp नाट-मृच्छ० ५१,

पटुभ्मेइय. न० ( पदीभेदक ) पद विभाग और  
शब्दार्थ मात्र का पारायण A lecture on

the analysis of the formation of  
words and their meanings राज०  
पटूमिय त्रि० ( प्रदीवित ) अत्यन्त पाबित. Ex-  
tremely harassed or tortured बृह०  
३,

पटूसणया स्त्री० ( प्रद्वेषण ) द्वेष, मात्सर्य  
Jealousy, malice उप० ४८६;

पदेस पु० ( प्रद्वेष ) द्वेष Hatred, dislike,  
abhorrence धर्म सं० १७;

पद् न० ( पद्य ) श्लोक, वृत्त, काव्य. Stanza  
or verse प्राकृ० २१,

पद्धइ. स्त्री० ( पद्धति ) (१) मार्ग, रस्ता  
Road, way सुपा० १८६, (२) परिपाटी,  
क्रम Method, manner, course  
आवम० (३) प्रक्रिया, प्रकरण Chapter  
वजा० २,

पधाचण न० ( प्रधावन ) (१) दौड, वेग से गमन.  
Running fast or galloping (२)  
कार्य की शीघ्र सिद्धि Rapid accomp-  
lishment of an object आ० १, (३)  
प्रक्षालन Cleansing, washing off  
धर्मस० १०७८,

पधूवण. न० ( प्रधूपन ) (१) धूप देना Fumi-  
gation, Perfuming (२) एक प्रकार  
का आलेपन द्रव्य A kind of smear-  
ing substance कस०

पञ्जंगणा स्त्री० ( पख्याङ्गना ) वेश्या, चाराङ्गना.  
Harlot, prostitute. उप० १०३१ टी

पन्नया. स्त्री० ( पन्नगा ) भगवान् धर्मनाथ जी की  
शासन देवी. A presiding deity of  
Lord Dharmanatha सनि० १०,

पन्नाडिञ्च त्रि० ( मृदित ) जिसका मर्दन किया  
गया हो Crushed, pounded. पाञ्च०  
कुमा०

पपलीया त्रि० ( प्रपलायित ) भागा हुआ Fled,  
retreated, fugitive पि० ३४६, ३६७,



नाट-मृच्छ० २८  
 पवित्रामह पु० (प्रपितामह) (१) विधात, ब्रह्मा, An epithet of Brahma राज०  
 (२) पितामह का पिता Paternal great Grandfather. धर्मस० १४६  
 पपुत्र त्रि० (प्रप्लुत) (१) व्याप्त Spread, covered with 'व्यपपुत्र' प्रव० ४ टी  
 (२) न० कूदना, लॉघना Leaping, jumping. गडड० १२८  
 पपुत्रण. न० (प्रस्पन्दन) प्रचलन, फरकना Palpitating, vibrating, trembling राज०  
 पपुत्रिण पु० (प्रस्फुरित) नरकावास विशेष A particular hell देवेन्द्र० २६  
 पपुत्रिण त्रि० (प्रस्फुरित) फरका हुआ Trembled, palpitated दे० ६, १६.  
 पपुत्रल. त्रि० (प्रफुल्ल) विकसित, खिला हुआ Blooming, blossomed, full blown ३प०पृ० ११४, पडम० ३, ६६, सुर० २, ७६, पड०गा० ६३६, ६७०, काप्र० १६१  
 पपुत्रिण त्रि० (प्रफुल्लित) देखो 'पपुत्रल' शब्द Vide 'पपुत्रल' सम्मत्त० १८६, भवि०  
 पपुत्रिण त्रि० (प्रस्फोटित) (१) निष्फोटित, झाड़ कर गिराया हुआ Winnowed, whisked पात्र० पडि० (२) फोडा हुआ, तोडा हुआ Broken सवोध० १७  
 पवल त्रि० (प्रवल) बलिष्ठ, प्रचण्ड, प्रखर Very strong, powerful, mighty कुमा०  
 पवुद्ध. त्रि० (प्रबुद्ध) (१) प्रवीण, निपुण Wise, learned, clever से० १२, ३४, (२) जागा हुआ, Awakened, roused सुर० ५, २२६, (३) जिसने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की हो Knowing, conversant with  
 पवोधण न० (प्रबोधन) प्रकृत बोधन Know-

ledge, wisdom राज०  
 पवोह पु० (प्रबोध) (१) जागरण Wakefulness, Sleeplessness (२) ज्ञान, समझ Knowledge, wisdom, understanding चारु० २४, पि० १६०  
 पवोहित्र त्रि० (प्रबोधित) (१) जगाया हुआ Awakened, aroused जिसको ज्ञान कराया गया हो. Instructed, informed सुपा० ३१३  
 पवम त्रि० (प्रह) नम्र. Humble, modest प्राकृ० २४  
 पवमट्ट-पवमसि त्रि० (प्रभ्रष्ट) (१) विस्मृत Forgotten से० १४, ४२, (२) पु० नरकावास विशेष Hell, देवेन्द्र० २८  
 पवभार पु० (प्रभार) प्रकृत भार Heavy load. धम्म० ८ टी, (२) ऊपर का भाग. Top, upper part से० ४, २०, (३) एक देश, एक भाग. Part, portion से० १, २८, (४) उत्कर्ष, परभाग Excellence, superiority गडड०  
 पवभूत्र त्रि० (प्रभूत) उत्पन्न Produced, sprung from धर्मवि० ३५  
 पवभोत्र पु० (प्रभोग) भोग, विलास Amorous pastime, diversion, pleasure, enjoyment दे० ६, १०  
 पभकरावर्द स्त्री० (प्रभङ्गरावर्ती) विदेह वर्ष की एक नगरी A city of Videha region. आयाचू० १  
 पभजण पु० (प्रभञ्जन) (१) वायु, पवन. Wind से० १४, ६६, (२) मानुषोत्तर पर्वत के एक शिखर का अधिपति देव A presiding god of the summit of the Manushottara mountain राज०  
 —तण्य त्रि० पु० (तनय) हनुमान. Name of a powerful monkey-chief से० १४, ६६

पभंसख न० (प्रअशन) स्वलना, Stumbling, shipping, tripping धर्मस० १०७६

पभणिय. त्रि० (प्रभणित) उक्त, कथित Said सख०

पभवा स्त्री० (प्रभवा) तृतीय वासुदेव की पटरानी. A crowned queen of the third Vasudeo प० २०, १८६

पभविय त्रि० (प्रभूत) जो समर्थ हुआ हो Mighty, powerful धर्मवि० १२३

पभा. स्त्री० (प्रभा) प्रभाव Dignity, Grandeur देवेन्द्र० ३२०

पभाचर्द स्त्री० (प्रभावती) (१) रावण की एक पत्नी का नाम Name of a queen of Ravana प० ७४, ११, (२) बलदेव के पुत्र निषध की भार्या A wife of Nishadha, son of Baladeo आयाचू० १

पभावग त्रि० (प्रभावक) (१) प्रभाव बढ़ानेवाला, शोभा की वृद्धि करने वाला Dignifying श्रा० ६, ३० २३, (२) उन्नति कारक Piospering (३) गौरव जनक Creating honour. सबोध० ३१, कुप० १६८

पभावाल. पु० (प्रभापाल) वृक्ष विशेष A kind of tree राज०

पभास पु० (प्रभास) (१) एक जैनमुनि का नाम Name of a Jaina saint. धर्म० ३, (२) एक चित्रकार का नाम Name of a painter धर्म० ३१ टी

पभिद्-पभिर्द् पभीद् पभीद् अ० (प्रभृति) प्रारम्भ कर, शुरु कर, लेकर From, ever since, beginning with 'बालभावाओ पभिद्' सुर ४, १६७, कप० महा० स० ७३६, २७५ टि

पभु पु० (प्रभु) (१) इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम. Name of a king of Ikshvaku lineage प० ५, ७ (२) स्वामी, मालिक Master, owner,

proprietor प० ६३, २६, वृह० २. (३) राजा, नृप King, ruler. निसी० चू० २ (४) त्रि० योग्य, लायक Fit, proper, suitable 'पभुचित्वा' निसी० चू० २०

पभुत्त त्रि० (प्रभुक्त) (१) जिसने खाने का प्रारम्भ किया हो One who began to eat सुर० १०, ५८, (२) जिसने भोजन किया हो One who has eaten स० १०४

पमक्खण० न० (पम्रच्छण) (१) अभ्यञ्जन, विलेपन. Smealing (२) विवाह के समय किया जाता एक तरह का उबटन A smealing ceremony observed at the time of marriage स० ७४.

पमक्खिअ त्रि० (पम्रचित) (१) विलिप्त Smeared विवाह के समय जिस को उबटन किया गया हो. One who is annointed at the time of marriage. वसु०

पमज्जय. त्रि० (प्रमार्जक) प्रमार्जन करने वाला. Cleansing, Purifying दे० ५, १८

पमज्जिय त्रि० (प्रमृष्ट प्रमार्जित) साफ किया हुआ Cleansed महा०

पमद् पु० (प्रमर्द) (१) ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध एक योग A particular combination of stars in astrology (२) मर्दन करने वाला One who annoints (३) विनाशक. Destructive, ruinous 'भवद्दहपमद्' सबोध० ३७

पमद्दण न० (प्रमर्दन) (१) रूई की पूर्ण बनाना Making a roll of cotton ready for spinning पिंड० ६३ (२) त्रि० विनाश करने वाला. Destructive, ruinous सबोध० ३७

पमद्दय. त्रि० (प्रमर्दक) प्रमर्दन-कर्ता. Crushing, destroying दसनि० १०, ३०

पमय पु० (प्रमद) (१) आनन्द, हर्ष. Joy, pleasure, delight काल० श्रा० २७,  
 (२) न० धतूरे का फल. A Dhattua fruit —च्छीं स्त्री० (अक्षी) स्त्री, महिला Woman, lady. सुपा० २३०, —चण  
 न० (वन) राजा के अन्त पुर स्थित वन A pleasure-garden attached to the royal harem से० ११, ३७  
 पमा स्त्री० (प्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण A measure कुमा० (२) प्रमाण, न्याय Accurate conception or notion, evidence, proof 'अतिपसगो पमा-सिद्धो' धर्मस० ६८१  
 पमाण न० (प्रमाण)(१) संख्या Number. जी० २६, (२) पु० न० सत्य रूप से जिसका स्वीकार किया जाय Authority, Warrant. (३) माननीय, आदरणीय Worthy of honour (४) सच्चा, सही, ठीक, यथार्थ True, Real, Correct 'पमाणो तसि' सुपा० ११०, श्रा० १४, प्रा० ३३, —वाय पु० (वाद) न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र. Science of logic समत्त० ११७  
 प्रमाणिञ्च त्रि० (प्रमायित) प्रमाण रूप से स्वीकृत Regarded as an authority सुपा० ११०, श्रा० १२  
 प्रमाणिञ्च-प्रमाणी स्त्री० (प्रमायिका-प्रमाणी) छन्द विशेष A kind of metre विंग०  
 प्रमाय पु० (प्रमाद) दुःख, कष्ट. Mishap, calamity 'समुपाइयसुप्रमाया' सत्त० ३२,  
 प्रमारणा स्त्री० (प्रमारणा) बुरी तरह मारना To slay mercilessly वच० ३,  
 प्रमिय त्रि० (प्रमित) परिमित, नापा हुआ Measured पच० २, २०  
 प्रमुक्त त्रि० (प्रमुक्त) परित्यक्त Abandoned, Gave up हे० २, १७, पद्०

प्रमुच्छिञ्च पु० (प्रमुच्छित) नरकावास विशेष. A hell देवेन्द्र० २७  
 प्रमुद्ध त्रि० (प्रमुग्ध) अत्यन्त सुग्ध. Very lovely or charming नाट—मालती० ४४  
 प्रमुह त्रि० (प्रमुख) (१) तल्लीन दृष्टि वाला Face, turning the face towards—'एगप्पमुहे' आया० (२) न० प्रकृत आरम्भ, आदि. आपात. Commencement 'प्रमुहे हवति' पउम० १०८, ३१, पाञ्च०  
 प्रमेय त्रि० (प्रमेय) प्रमाण-विषय, सत्य पदार्थ Demonstrable धर्मस० ११६०  
 प्रमेह. पु० (प्रमेह) रोग-विशेष, मेह रोग, मूत्र-दोष, बहुमूत्रता A general name for a urinary disease ( such as gleet, diabetes &c. ) निसी० चू० १,  
 प्रमोञ्च. पु० (प्रमोद) राजस वश के एक राजा का नाम, एक लका-पति A king of Demon race. पउम० ५, २६३.  
 प्रमोयणा स्त्री० (प्रमोदना) प्रमोदन, प्रमोद, आह्लाद Delight, pleasure, joy. चेह्य० ४११  
 प्रमाञ्च-प्रमाइञ्च. त्रि० (म्लान) (१) विशेष म्लान, अत्यन्त मुरझाया हुआ. Faded, withered गा० २६, (२) शुष्क. Dry धर्मवि० ५३  
 प्रमुह त्रि० (प्रमुह) पूर्व की ओर जिसका मुह हो Turned towards or facing the east भवि० वज्रा० १६४  
 प्रम्ह पु० न० (प्रमम्) (१) अक्षि-जोम, आँख के बाल An eyelash पाञ्च०, (२) पख, पख. Wing हे० २, ७४, प्रा० (३) केश का अग्र भाग The point of hair से० ६, ००  
 प्रम्हय. त्रि० (प्रमज) (१) पक्ष से उत्पन्न Produced by hair. (२) न० एक

प्रकार का सूना A kind of thread  
पचमा०

पम्हलिय त्रि० ( पचमलित ) धवलित, सफेद  
किया हुआ Whitened, made white  
स० ३६.

पम्हलाविय त्रि० ( विस्मारित ) भुलाया  
हुआ, विस्मृत कराया हुआ Caused to  
forget सुख० २, ६.

पम्हुसिअ त्रि० ( विस्मृत ) जिसका विस्मरण  
हुआ हो. Forgotton कुमा० उप०  
७६८ टी

पम्हुहण त्रि० ( स्मृत् ) स्मरण करने वाला  
One that remembers कुमा०

पय पु० न० ( पद ) (१) शब्द-समूह, वाक्य  
Sentence. 'उचमपया इह' उप०  
१०३८, आ० २३, (२) पाद-चिन्ह, पदाङ्क  
Foot-mark सुर० २, २३२, सुपा०  
३२४, आ० २३, प्रासू० ५०, (३) निमित्त,  
कारण Cause (४) पदवी, अधिकार  
Rank, position, office 'जुवरायपय'  
सुर० २, १०२, महा० (५) त्राण, शरण  
Protection, preservation, shel-  
ter, (६) प्रदेश. Region (७) व्यवसाय  
Exeition आ० २३, —रक्ष पु०  
( रक्ष ) पदाति, प्यादा A foot soldier.  
भवि० हे० ४, ४१८, —विभाग. पु०  
( विग्रह ) पद-विच्छेद Separation of  
words विशेष० १००६, —विभाग पु०  
( विभाग ) बसर्ग और बपवाद का यथा-स्थान  
निवेश, सामाचारी विशेष Portion, Par-  
tition of inheritance, the nu-  
meration of a fraction, आ० १  
पर्यंग पु० ( पतङ्ग ) (१) सूर्य, रवि Sun  
'द्विदुग्गयपयगो' उप० ७०८ टी, पाञ्च०, (२)  
रंग विशेष, रञ्जन द्रव्य-विशेष A kind of  
colour. उर० ६, ४, सिरि० १०२७

पयपण न० ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति  
Speech, Expression उप० पृ० २१७.

पर्यंपिय त्रि० ( प्रकम्पित ) अति कापा हुआ  
Excessively trembled स० ३७७.

पयसण न० ( प्रदर्शन ) दिखलाना  
Showing, manifesting, exhibit  
स० ६१३

पयसिअ त्रि० ( प्रदर्शित ) दिखलाईया हुआ.  
Shown, displayed, exhibited  
सुर० १, १०१, १२, ३२

पयच्छया न० ( प्रदान ) दान, अर्पण  
Donate, offerings सुर० २, १२१, (२)  
त्रि० देने वाला Donor सण०

पयडावअ. त्रि० ( प्रवर्तक ) प्रवृत्ति कराने वाला  
Prompting, inducing, insti-  
gating कण्प०

पयडाविअ त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ,  
किसी कार्य में लगाया हुआ Prompted,  
incited, instigated महा०

पयड त्रि० ( प्रकट ) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध  
Renowned, famous, celebrated  
'विस्सुओ पयडो' पात्र०

पयडण. न० ( प्रकटन ) (१) व्यक्त करना,  
जाहिर करना The act of manifest-  
ing or disclosing सण० (२) त्रि०  
प्रकट करने वाला. Manifesting, dis-  
playing भर्मवि० ६६.

पयडावण न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना,  
Causing to manifest भवि०

पयडाविय. त्रि० ( प्रकटित ) प्रकट कराया हुआ  
Caused to manifest, काल० भवि०

पयडीकय. त्रि० ( प्रकटीकृत ) प्रकट किया  
हुआ Manifested, displayed महा०

पयडीभूअ-पयडीहूअ त्रि० ( प्रकटीभूत ) जो  
प्रकट हुआ हो Appeared सुर० ६, १८४,  
आ० १६, महा० सण०

पमय पुं० (प्रमद) (१) आनन्द, हर्ष Joy, pleasure, delight काज० आ० २७,  
(२) न० धतूरे का फल. A Dhattua fruit —छ्ठी स्त्री० (अस्त्री) स्त्री, महिला Woman, lady. सुपा० २३०, —वण न० (वन) राजा के अन्त पुर स्थित वन A pleasure-garden attached to the royal harem से० ११, ३७  
पमा स्त्री० (प्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण A measure कुमा० (२) प्रमाण, न्याय Accurate conception or notion, evidence, proof 'अतिष्पसगो पमा-सिद्धो' धर्मस० ६८१  
प्रमाण न० (प्रमाण) (१) संख्या Number. जी० २६, (२) पु० न० सत्य रूप से जिसका स्वीकार किया जाय. Authority, Warrant. (३) माननीय, आदरणीय Worthy of honour (४) सच्चा, सही, ठीक, यथार्थ True, Real, Correct 'प्रमाणो तेषि' सुपा० ११०, आ० १४, प्रासू० ३३, —वाय पुं० (वाद) न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र. Science of logic समन्त० ११७  
प्रमाणित्र त्रि० (प्रमाणित) प्रमाण रूप से स्वीकृत Regarded as an authority सुपा० ११०, आ० १२  
प्रमाणित्रा-प्रमाणी स्त्री० (प्रमाणित्रा-प्रमाणी) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०  
प्रमाय पु० (प्रमाद) दुःख, कष्ट. Mishap, calamity 'ससुप्पाइयसुप्पमाया' सत्त० ३२,  
प्रमारणा स्त्री० (प्रमारणा) बुरी तरह मारना To slay mercilessly वव० ३,  
प्रमित त्रि० (प्रमित) परिमित, नापा हुआ Measured पच० २, २०  
प्रमुक्त त्रि० (प्रमुक्त) परित्यक्त Abandoned, Gave up हे० २, ३७, पद्०

पमुच्छ्रि पु० (प्रमुच्छ्रित) नरकावास विशेष A hell देवेन्द्र० २७  
प्रमुद्ध त्रि० (प्रमुग्ध) अत्यन्त सुग्ध. Very lovely or charming नाट—मालती० ४४  
प्रमुह त्रि० (प्रमुख) (१) तल्लीन दृष्टि वाला Face, turning the face towards. 'प्राग्मुखे' आया० (२) न० प्रकृष्ट आरम्भ, आदि. आपात. Commencement 'प्रमुहे हवति' पउम० १०८, ३१, पाञ्च०  
प्रमेय. त्रि० (प्रमेय) प्रमाण-विषय, सत्य पदार्थ Demonstrable धर्मस० ११६०  
प्रमेह. पु० (प्रमेह) रोग-विशेष, मेह रोग, मूत्र-दोष, बहुमूत्रता A general name for a urinary disease ( such as gleet, diabetes &c. ) निसी० चू० १,  
प्रमोञ्च पु० (प्रमोद) राक्षस वश के एक राजा का नाम, एक लक्ष्मण-पति A king of Demon race. पउम० ५, २६३.  
प्रमोयणा स्त्री० (प्रमोदना) प्रमोदन, प्रमोद, आह्लाद Delight, pleasure, joy-चेह्य० ४११  
प्रम्माञ्च-प्रम्माइञ्च, त्रि० (म्लान) (१) विशेष म्लान, अत्यन्त मुरझाया हुआ. Faded, withered गा० २६, (२) शुष्क Dry. धर्मत्रि० ५३  
प्रम्मुह त्रि० (प्राङ्मुख) पूर्व की ओर जिसका मुंह हो Turned towards or facing the east भवि० वजा० १६४  
प्रम्ह पु० न० (पद्मन्) (१) अक्षि-लोम, आँख के बाल An eyelash पाय०, (२) पख, पाख. Wing हे० २, ७४, प्राप० (३) केश का अग्र भाग The point of hair से० ६, २०  
प्रम्हय. त्रि० (पद्मज) (१) पद्म से उत्पन्न. Produced by han (२) न० एक

प्रकार का सूना A kind of thread  
पचमा०

पम्हलिय त्रि० ( पचमलित ) धवलित, सफेद  
किया हुआ Whitened, made white  
स० ३६.

पम्हलाविय त्रि० ( विस्मारित ) भुलाया  
हुआ, विस्मृत कराया हुआ Caused to  
forget सुख० २, २.

पम्हुसिअ त्रि० ( विस्मृत ) जिसका विस्मरण  
हुआ हो. Forotton कुमा० उप०  
७६८ टी

पम्हुहण त्रि० ( स्मृत् ) स्मरण करने वाला  
One that remembers कुमा०

पय. पु० न० ( पद ) (१) शब्द-समूह, वाक्य  
Sentence 'उवएमपया इह' उप०  
१०३८, आ० २३, (२) पाद-चिन्ह, पदाङ्क  
Foot-mark सुर० २, २३२, सुपा०  
३५४, आ० २३, प्रासू० १०, (३) निमित्त,  
कारण Cause (४) पदवी, अधिकार  
Rank, position, office 'जुवरायपप' सुर० २, १७२, महा० (५) त्राण, शरण  
Protection, preservation, shel-  
ter, (६) प्रदेश. Region (७) व्यवसाय  
Ereition आ० २३, —रफस पु०  
( रच ) पदाति, प्यादा A foot soldier.  
भवि० हे० ४, ४१८, —विभाह. पु०  
( विग्रह ) पद-विच्छेद Separation of  
words विशेष० १००६, —विभाग पु०  
( विभाग ) उत्सर्ग और उपवाद का यथा-स्थान  
निवेश, सामाचारी विशेष Portion, Par-  
tition of inheritance, the nu-  
meration of a fraction, आ० १  
पयग पु० ( पतङ्ग ) (१) सूर्य, रवि Sun  
'दिहउगयपयगो' उप० ७०८ टी, पात्र०, (२)  
रग विशेष, रञ्जन द्रव्य-विशेष A kind of  
colour. उर० ६, ४, सिरि० १०२७

पयपण न० ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति  
Speech, Expression उप० पृ० २१७.

पर्यपिय त्रि० ( प्रकम्पित ) अति कापा हुआ  
Excessively trembled स० ३७७.

पयसण न० ( प्रदर्शन ) दिखलाना  
Showing, manifesting, exhibit  
स० ६१३.

पयसिअ त्रि० ( प्रदर्शित ) दिखलाया हुआ.  
Shown, displayed, exhibited  
सुर० १, १०१, १२, ३२

पयच्छण न० ( प्रदान ) दान, अर्पण  
Donate, offerings सुर० २, १५१, (२)  
त्रि० देने वाला Donor सण०

पयट्टावअ त्रि० ( प्रवर्तक ) प्रवृत्ति कराने वाला  
Prompting, inducing, insti-  
gating कण०

पयट्टाविअ त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ,  
किसी कार्य में लगाया हुआ Prompted,  
incited, instigated महा०

पयड त्रि० ( प्रकट ) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध  
Renowned, famous, celebrated  
'विस्सुओ पयडो' पात्र०

पयडण. न० ( प्रकटन ) (१) व्यक्त करना,  
जाहिर करना The act of manifest-  
ing or disclosing सण० (२) त्रि०  
प्रकट करने वाला. Manifesting, dis-  
playing भर्मवि० ६६.

पयडावण न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना,  
Causing to manifest भवि०

पयडाविय. त्रि० ( प्रकटित ) प्रकट कराया हुआ  
Caused to manifest. काल० भवि०

पयडीकय त्रि० ( प्रकटीकृत ) प्रकट किया  
हुआ Manifested, displayed महा०

पयडीभूअ-पयडीहूअ त्रि० ( प्रकटीभूत ) जो  
प्रकट हुआ हो Appeared सुर० ६, १८४,  
आ० १६, महा० सण०

पयत्ताविञ्च त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ Prompted, incited, instigated काल०

पयत्थ पु० ( पदार्थ ) शब्द का प्रतिपाद्य, पद का अर्थ The meaning of a word विशेष० १००३, चेङ्गञ्च० २७१, (२) तत्त्व Sum and substance सुपा० २०५

पयत्थ पु० ( पदस्थ ) पदाति, प्यादा Foot-soldier 'सहपयत्थेण' पउम० ६, १८२,

पयार. पु० ( प्रदर ) (१) योनिका रोग-विशेष A kind of disease which is common among the women folk (२) विदारण, भंग Tearing, breaking (३) शर, बाण Arrow दे० ६, १४

पयार पु० न० ( प्रतर ) गणित विशेष, सूची से गुंथी हुई सूची A kind of mathematical calculations क०ग०५, १७, जीवस १२, १०२

पयारण न० ( प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग Occasion, opportunity (२) प्रकार्य प्रतिपादक ग्रन्थ. A book on a particular subject (३) प्रकार्य प्रतिपादक ग्रन्थाय Chapter, section 'जुम्हदग्द पयारण'. हे० १, २४६

पयारण न० ( प्रतरण ) प्रथम दातव्य भिक्षा. Alms that can be given on the very out-set राज०

पयल त्रि० ( प्रचल ) चलायमान, चलने वाला Trembling, shaking, tremulous पउम० १००, ६

पयलाइञ्च. न० ( प्रचलायित ) (१) निद्रा, नींद Sleep (२) नींद के कारण बैठे २ सिर का झोलना. Nodding of the head owing to sleep से० १२, ४२

पयल्ल. त्रि० ( प्रस्त ) फैला हुआ Spread.

पाञ्च०

पयल्लिर त्रि० ( प्रसृमर ) फैलने वाला. One that spreads कुमा०

पयल्लिर. ( प्रचलितु ) शिथिल होने वाला, ढीला होने वाला One that becomes dilatory, One who is slackened or relaxed कुमा० ६, ४३ (२) लटकने वाला One that hangs down or dangles कुमा० ६, ४३

पयविञ्च त्रि० ( प्रतप्त ) गरम किया हुआ, तपाया हुआ Heated, warmed गा० १८५, से० २, २५.

पयवी स्त्री० ( पदवी ) मार्ग, रास्ता. Way, road, path पाञ्च० गा० १०७, सुपा० ३७८, (२) विरुद, पदवी Position, rank, office उप० पृ० ३८३

पयाइ पु० ( पदाति ) प्यादा, पैदल चलने वाला सैनिक Foot-soldier हे०२, १३८, पद्० कुमा० महा०

पयाग पु० न० ( प्रयाग ) तीर्थ-विशेष, जहा गंगा और जमुना का सगम है Name of a place of pilgrimage at the confluence of the Ganges and Jamuna near the modern Allahabad पउम०८२, ८१, हे०१, १७७.

पयारण्द. पु० ( प्रजानन्द ) एक कुलकर पुरुष का नाम Name of a Kulkar पउम० ३, ५३

पयापाल पु० ( प्रजापाल ) एक जैन मुनि जो पाचवें बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे A Jaina Saint, preceptor of fifth Baladeo in a former birth पउम० २०, १६२

पयार पु० ( प्राकार ) किला, दुर्ग Fortress, fortification पउम०३०, ४६.

पयार पु० ( प्रचार ) (१) प्रकृत-प्राप्ति

Excellent gain or acquisition.  
 दसनि० १, ४१ (२) आचार, आचरण  
 Conduct, character दसनि० १, १३५  
 पर्यायिञ्च त्रि० (प्रतारित) ठगा हुआ, धञ्चित  
 Cheated, deceived पाञ्च० सुर० ४,  
 १५५  
 पर्यायद्, पु० (प्रजापति)(१) ब्रह्मा, विधाता An  
 epithet of Brahma पाञ्च० सुपा० ३०५,  
 (२) दक्ष, कश्यप आदि ऋषि An epithet  
 of sages-Daksha, Kashyapa etc  
 (३) राजा, नरेश King, ruler (४) सूर्य,  
 रवि Sun (५) बह्नि, अग्नि Fire (६)  
 त्वष्टा A carpenter (७) पिता, जनक  
 Father, progenitor (८) कीट-विशेष  
 A kind of insect (९) जामाता  
 Son-in-law हे० १, १७७, १८०  
 पर्यायण न० (प्रतापन) अग्नि Fire  
 कुप्र० ३८६  
 पर्यावि. त्रि० (प्रतापिन्) प्रतापशाली  
 Glorious, dignified (२) पु०  
 इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम King  
 of Ikshvaku race पडम० ५, ५  
 पर्यासण न० (प्रकाशन) प्रकाश करण  
 Illuminating, making known.  
 सुपा० ४१६, (२) त्रि० प्रकाशक, प्रकाश  
 करने वाला Publisher 'परमत्थपर्यासण  
 वीर' पुष्क० १  
 पर्यासि त्रि० (प्रकाशिन्) प्रकाश करने वाला  
 Shining, सण० हम्मीर० १४  
 पर्यासिर त्रि० (प्रकाशित्) प्रकाश करने  
 वाला, Disclosing, making known  
 मवि०  
 पर त्रि० (पर) (१) प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकृष्ट  
 Highest, greatest, distinguished,  
 आ० २३ (२) दूरवर्ती Distant, re-  
 mote. निसी० चू० १ (३) न० केवल, फल

Alone, mere, only कुमा० मवि०  
 —उट्ट. त्रि० (पुष्ट) (१) अन्य से पालित,  
 Fed or nourished by another  
 (२) पु० कोकिल पक्षी Cuckoo हे० १,  
 १७६ —गण्डिचय. त्रि० (गण्डिय) भिन्न गण  
 से सम्बन्ध रखने वाला. Belonging to  
 निसी० चू० ८ —गरिहभ्राण न० (गर्हा-  
 ध्यान) इतर की निन्दा का विचार Consi-  
 deration of another's censure  
 पाड० —चित्तणु, त्रि० (चित्तज्ञ) अन्य  
 के मन के भाव को जानने वाला Knowing  
 the mind of another उप० १७६ टी  
 —छद्द-छद्द त्रि० (छद्द) पराधीन, परतत्र  
 A dependant राज० पाञ्च० —जाणुञ्च.  
 त्रि० (ज्ञ) (१) पर को जानने वाला  
 Knowing others (२) प्रकृष्ट जानकार  
 Knowing excellently प्राकृ० १८  
 —द्वारा स्त्री० (अर्थ) दूसरे के लिए  
 Intended or disigned for an-  
 other —शिंदभ्राण न० (निन्दाध्यान)  
 अन्य की निन्दा का चिन्तन. Consider-  
 ation idea of another's censure  
 आड० —तीर न० (तीर) सामने वाला  
 किनारा Opposite bank पाञ्च०  
 —त्त न० (त्त) (१) भिन्नत्व, पार्थक्य  
 Separation (२) वैशेषिक दर्शन में  
 प्रसिद्ध गुण-विशेष A particular  
 quality of vaisheshikas विशेष० २४६१  
 —दारि त्रि० (दारिन्) परकी लगपट  
 An adulterer 'परदारियाए आयाओ'  
 सुर० ६, १७६, —भाग पु० (भाग) (१)  
 श्रेष्ठ अथ An excellent part (२)  
 अन्य का हिस्सा. Another's share (३)  
 अत्यन्त उत्कर्ष Prosperity उप० पृ० ६७  
 —महेला स्त्री० (महेला) (१) उत्तम स्त्री  
 A noble lady. (२) परकीय स्त्री



Another's wife सुपा० ४७०,—वाय  
 पु० ( वाच् ) (१) सज्जन, सुजन Good  
 man (२) त्रि० श्रेष्ठ वाणी वाला Eloquent,  
 orator आ० २३.  
 परञ्चो अ० ( परतस् ) (१) बाद में, परली  
 तरफ On the opposite side 'अद्वीप  
 परञ्चो' महा० ( २ ) भिन्न में, इतर में  
 Among others कुमा० (३) इतर से,  
 अन्य से From another  
 पर. अ० ( परत् ) गत वर्ष Last year  
 'पर परारि' वै० २, 'अज्ज पर' प्रासू० ११०  
 परतु अ० ( परन्तु ) किन्तु But सुपा०  
 ४६६  
 परक्कम पुं० न० ( पराक्रम ) (१) उत्साह.  
 Zeal, enthusiasm (२) चेष्टा, प्रयत्न.  
 Effort, exertion आया० चू० १,  
 प्रासू० ६३  
 परक्कमि त्रि० ( पराक्रमिन् ) पराक्रम सपन्न  
 Prowess धर्मवि० १६, १२०.  
 पर-घाय पु० ( पराघात ) (१) दूसरे को  
 आघात पहुंचाना To kill, to take  
 to a slaughter-house (२) कर्म-  
 विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य बलवानों  
 की दृष्टि में अजेय समझा जाता है A  
 penance by which a man  
 becomes invincible. 'परघातदयापाणी'  
 क० ग० १, ४४  
 परत्त अ० ( परत्र ) (१) जन्मान्तर में, परलोक  
 में In the next world सुपा० २०८,  
 (२) न० जन्मान्तर, Rebirth 'परत्ते  
 नरयगद्' सुपा० २२१, 'कि परकेण' वजा०  
 १३८  
 परदारिअ पु० ( पारदारिक ) परस्त्री-लम्पट  
 Adulterater पत्र० १०५, १०७  
 परम. न० ( परम ) (१) सुख Happiness.  
 दल० ४, (२) लगातार पाच दिनोंका उपवास

Five fasts at a time सबोध० १८  
 —बोधिसत्त पु० ( बोधिसत्त्व ) परमाहंत,  
 अर्हन् देव का परम भक्त A devotee of  
 Arhana मोह० ३,—सखिज्ज न० (सख्येय)  
 सख्या विशेष Number क० ग० ४, ७१,  
 —हेला स्त्री० ( हेला ) उक्कृष्ट तिरस्कार.  
 Contempt, disdain सुपा० ४७०  
 परमट्ट. पु० ( परमार्थ ) (१) सत्य पदार्थ,  
 वास्तविक चीज A true object 'अथ  
 परमट्ट' धर्म० १, (२) सयम, चारित्र Con-  
 duct, character (३) पु० न० तत्त्व,  
 सत्य The highest or most Sub-  
 lime truth 'परमट्टनिट्ठिअट्ठा' पडि०  
 धर्म० २  
 परमत्थ. न० ( परमास्त्र ) सर्वोत्तम हथियार,  
 अमोघ अस्त्र. An unfailing weapon.  
 से० १, १  
 परमन्न न० ( परमन्न ) एक दिन का उपवास  
 Fast सबोध० १८  
 परम-पया स्त्री० ( परात्मता ) मुक्ति, मोक्ष  
 Salvation, final emancipation  
 'परमप्य पत्तो' सुपा० १२७,  
 परमिट्ठि पु० ( परमेष्टिन् ) (१) ब्रह्मा,  
 चतुरानन. Brahma पात्र० सम्मत्त० ७८,  
 (२) अर्हन्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और  
 मुनि Aihan, Siddha, Acharya,  
 Upadhyaya and Muni सुपा० ६५,  
 आप० ६८, गण० ६, निपा० २०  
 परमुक्क त्रि० ( परामुक्क ) परित्यक्त Aban-  
 doned, gave up पटम० ७१, २६.  
 परमुवगारि-परमुवयारि. त्रि० ( परमोप-  
 कारिन् ) बड़ा उपकार करने वाला One  
 who is serviceable to others.  
 सुर० २, ४२, ०, ३७  
 परमेसर. पुं० ( परमेश्वर ) सर्वेश्वर-सपन्न,  
 परमात्मा God सम्मत्त० १४४, भवि०

परसुराम पु० ( परशुराम ) जमदग्नि ऋषि का पुत्र, जिसने इक्ष्वाकु बर नि क्षत्रिय पृथ्वी की थी Name of a celebrated Brahmana warrior, son of Jamadagni, who exterminated Kshatriya race twenty-one times कुमा० पि० २०८

परहुत्त त्रि० ( पराभूत ) पराजित, हराया हुआ Defeated पञ्च० ६१, ८

परा. अ० ( परा ) (१) आभिमुख्य, समुखता Facing, (२) त्याग Giving up, abandoning, (३) घर्षण Rubbing, friction, (४) प्राधान्य, सुख्यता. Ascendancy, supremacy, (५) विक्रम. Chivalrous, heroic, (६) गति, गमन Motion, (७) भङ्ग Breaking, (८) अनादर. Disregard, disrespect, (९) तिरस्कार Contempt, disdain, (१०) प्रत्यावर्तन Returning, coming back हे० २, २१७, (११) भूय, अत्यन्त Very much, in a high degree, excessively आ० २३

पराइ स्त्री० ( परकीया ) इतर से सबन्ध रखने वाली. Another's wife, A woman not one's own हे० ४, ३५०, ३६७

पराकय त्रि० ( पराकृत ) निराकृत, निरस्त Refuted अञ्क० ३०

पराजय पु० ( पराजय ) परिभव, अभिभव Defeat, discomfiture राज०

पराणग त्रि० ( परकीय ) अन्य का, दूसरे का Belonging to another 'पराणगपि' गन्ध० २, ५०

पराणयण. न० ( परानयन ) पहुँचाना Send off 'पराणयणो का लज्जा' उप० ७२८ टी

पराणिय त्रि० ( पराणीत ) पहुँचा हुआ Reached. भवि०

पराभवित्र त्रि० ( पराभूत ) अभिभूत, हराया हुआ Defeated धर्मवि० ६८

परामरिस पु० ( परामर्श ) (१) विवेचन, विचार Consideration, reflection, thought प्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति A paramour, a gallant man. (३) स्पर्श Touch (४) न्याय शास्त्रोक्त न्याप्ति-विशिष्ट रूप से पक्ष का ज्ञान ( In logic ) Deduction, ascertaining that the पक्ष of subject possesses the हेतु हे० २, १०५

पराय पु० ( पराग ) (१) धूली, रज Dust 'रेशू पसू रश्रो पराश्रो य' पाञ्च० (२) पुष्प-रज. Pollen कुमा० गड०

परारि अ० ( परारि ) गत या आगामी तीसरा वर्ष A year after the next to come, or the future third year. प्रासू० ११०, वै० २

परावत्त पु० ( परावर्त ) परिवर्तन, हेराफेरी Change स० ६२, उप० पृ० २७, महा०

परावत्ति. त्रि० ( परावर्तिन् ) परिवर्तन करने वाला Revolutioneily 'परावत्तिणी गुलिया' महा०

परावत्ति स्त्री० ( परावृत्ति ) परिवर्तन, हेराफेरी Change उप० १०३१ टी

परावत्तिय त्रि० ( परावर्तित ) परिवर्तित, बदला हुआ Changed महा०

परासर पु० ( पराशर ) पशु विशेष A kind of beast राज०

परासु त्रि० ( परासु ) प्राण-रहित, मृत Lifeless, dead आ० ७४, धर्मस० ६७

पराहुत्त-पराहुत्त त्रि० ( पराभूत ) अभिभूत, हराया हुआ Defeated उप० ६४८ टी, पाञ्च०

परि अ० ( परि ) (१) सर्वतो भाव, समताव, चारों ओर On all sides गा० २२, (२)

परिचर पुं० ( परिचर ) सेवक, भृत्य  
 Servant गड०  
 परिचरणा न० ( परिचरण ) सेवा. Service  
 संबोध० ३६  
 परिचरणा स्त्री० ( परिचरणा ) सेवा Service  
 सम्मत्त० २१५.  
 परिचरिय त्रि० ( परिकरित—परिवृत ) (१)  
 परिवार-युक्त Having a family महा०  
 भवि० सख० (२) परिवेष्टित Surrounded,  
 encircled महा० सिरि० १२२२  
 परिचरलिय त्रि० ( गत ) गया हुआ. Gone  
 कुमा०  
 परिचरारत्र त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भृत्य.  
 Servant चार० ५३  
 परिचरालिअ त्रि० ( वेष्टित ) लपेटा हुआ,  
 वेठा हुआ Encompassed, wrapped  
 up कुमा० पात्र०  
 परिइरण त्रि० ( परिकीर्ण ) व्याप्त Perva-  
 ded सम्मत्त० १२६  
 परिउवण० न० ( परिउव्वन ) सर्वत चुम्बन  
 Kissing गा० २२, हास्य० १३४  
 परिउवणा स्त्री० ( परिउव्वना ) देखो 'परिउवण'  
 शब्द Vide परिउवण 'गडपरिउवणा पुल्लि-  
 अग' गा० २०  
 परिउज्जिय० त्रि० ( पयुंजित ) सर्वथा त्यक्त  
 Entirely abandoned सख०  
 परिउट्ट त्रि० ( परिउष्ट ) विशेष तुष्ट  
 Completely satisfied, delighted.  
 स० ७३४  
 परिउसिअ त्रि० ( पयुंषित ) वासी, ठण्डा,  
 भाप निकला ( भोजन ) Stale, not  
 fresh दे० १, ३७  
 परिउड त्रि० ( परिगूढ ) चाम, कृश, पतला  
 Thin, slim, slender 'परिउडा' गा०  
 १२६  
 परिउरण न० ( परिपूरण ) परिपूर्ति

Completion, fulness नाट-शकु० द.  
 परिओस पु० ( परितोष ) आनन्द, सतोष,  
 खुशी Pleasure, delight, content-  
 ment से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स०  
 ६, सुपा० ३७०  
 परिओसिय, त्रि० ( परितोषित ) सतुष्ट किया  
 हुआ. Satisfied, से० १३, २५, भवि०  
 परिकद. पु० ( परिकद ) आक्रन्द, चिह्लाहट  
 Weeping, cry हस्मीर० ३०  
 परिकपि त्रि० ( परिकम्पिन् ) अतिशय कापने  
 वाला One who trembles गड०  
 परिकपिर. त्रि० ( परिकम्पितृ ) विशेष काँपने  
 वाला, Trembling, Shivering सख०  
 परिकडिण त्रि० ( परिकडिन ) अत्यन्त कठिन.  
 Very difficult. गड०  
 परिकव्वुर त्रि० ( परिकव्वुर ) विशेष कबरा.  
 Variegated, spotted. गड०  
 परिकम्म-परिकम्मण न० ( परिकम्मं ) (१)  
 गणित विशेष A particular method  
 of calculation (२) सख्यात विशेष,  
 एक तरह की गणना. An arithmetical  
 calculation (३) निष्पादन Pro-  
 ducing पव० १३३  
 परिकलण न० ( परिकलन ) उपभोग En-  
 joyment 'भमरपरिकलणखमकमलभूसि-  
 यसरो' सुपा० ३  
 परिकलिअ त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त,  
 सहित Having, possessing सिरि०  
 ३८१, (२) व्याप्त Perwaded सम्मत्त०  
 २१५, (३) प्राप्त Obtained 'अजलिप-  
 रिकलियजल' धर्मवि० २५  
 परिकवलणा स्त्री० ( परिकवलना ) भक्षण.  
 Eating 'हरियपरिकवलणापुट्टगासकुला'  
 सुपा० ३  
 परिकविल त्रि० ( परिकपिल ) सर्वतोभाव से  
 कपिल वर्ण वाला. Tawny, reddish

परिपाटी, क्रम. Order, succession  
 पिंग० (३) सामीप्य, समीपता Nearness,  
 vicinity. गडड० ७७६ (४) विनिमय,  
 बदला Exchange, barter 'परियाण'  
 भवि० (५) अतिशय, विशेष. Excess स०  
 ७३४, (६) सपूर्णता, Perfectness 'परिद्विध'  
 प्रव० ६६, (७) बाहरपन Out side. श्रावक०  
 २८४, (८) ऊपर Upward. हे० २, २११,  
 सुपा० २६६, (९) शेष, बाकी Remain-  
 ing (१०) पूजा Worship (११) व्या-  
 पकता Persuading (१२) उपरम, निवृत्ति  
 Ceasing, stopping (१३) शोक  
 Grief, distress. (१४) किसी प्रकार की  
 प्राप्ति Acquisition (१५) आख्यान.  
 Legend, story (१६) सतोप भाषण  
 Consolatory speech (१७) भूषण,  
 श्लंकार Ornament (१८) आलिंगन  
 Embracing (१९) नियम Rule  
 (२०) वर्जन, प्रतिषेध Prohibition  
 हे० २, १२७, भवि० गडड० (२१) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है An adverb  
 used uselessly गडड० १०, सण०  
 परिभ्रतणा. स्त्री० (परियन्त्रणा) अतिशय  
 यन्त्रणा Excessive restriction  
 नाट—मालती० २८  
 परिभ्रतिभ्र त्रि० ( श्लिष्ट ) आलिंगित  
 Embraced कुमा०  
 परिभ्रमिभ्र त्रि० ( परिजृम्भित ) विकसित.  
 Blown, fully opened or expan-  
 did से० २, २०  
 परिभ्रट्ट पु० (परिवर्त) (१) पलटाव, बदला  
 Change, alternation (२) समय  
 का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसरिणी-उत्स-  
 र्पिणी परिमित काल. A period, lapse or  
 expiration of time विवा० १, १,  
 सुर० १६, १४५, प्रव० १६२

परिभ्रट्टग. त्रि० ( परिवर्तक ) परिवर्तन करने  
 वाला Revolutionary निसी०चे० १०.  
 परिभ्रट्टण न० (परिवर्तन) पलटाव, बदला  
 करना Exchange, barter पिंड० ३२४,  
 वै० ६७  
 परिभ्रट्टणा. स्त्री० ( परिवर्तना ) Change.  
 (२) द्विगुण, उपकरण Furniture,  
 wears, selected articles of a Jain  
 monk पि० २८६ (३) बदला करना.  
 Exchange, barter पिंड० ३२५  
 परिभ्रड्डिभ्र त्रि० (परिकृष्ट) खींचा हुआ.  
 Attracted. सुपा० ३१  
 परिभ्रड्डिय त्रि० (पर्यटित) परिभ्रान्त, भटका  
 हुआ. Wanderings roaming out.  
 सिक्खा० १७  
 परिभ्रड्डि. स्त्री० (परिवृद्धि) विशेष वृद्धि  
 Growth, Increase प्राक० २१  
 परिभ्रण पु० (परिजन) (१) परिवार, कुटुम्ब,  
 पुत्र-कलत्र आदि पालनीय वर्ग. Family  
 (२) अनुचर, अनुगामी Attendant,  
 follower गा० २८३, गडड० पि० ३५०.  
 परिभ्रत्त त्रि० (परिवृत्त) पलटा हुआ  
 Revolved, turned over भवि०  
 परिभ्रत्तमाणी स्त्री० (परिवर्तमाना) कर्म-  
 प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के  
 बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय  
 को प्राप्त होती है A kind of karma.  
 पंच० ३, १४, ३, ४३, क० ग० ५, १ टी  
 परिभ्रत्ता स्त्री० (परिवर्ता) देखो 'परिभ्रत्तमाणी'  
 शब्द Vide परिभ्रत्तमाणी क० ग० ५, १  
 परिभ्रत्तिभ्र त्रि० (परिवर्तित) मोटा हुआ.  
 Bent 'वालिभ्रय परिभ्रत्तिभ्र' पात्र०  
 परिभ्रर. पु० (परिकर) (१) कटि-बन्धन.  
 Girth, waist band. 'सन्नद्धबद्धपरियर-  
 भडेहि' भवि० (२) परिवार Retinue,  
 train गडड० चेद्वय० ६४

परिचर पु० ( परिचर ) सेवक, भृत्य  
Servant गड०  
परिचरणा न० ( परिचरण ) सेवा. Service  
सबोध० ३६  
परिचरणा स्त्री० ( परिचरण ) सेवा Service  
सम्मत० २१५  
परिचरिय त्रि० ( परिकरित—परिवृत ) (१)  
परिवार-युक्त Having a family महा०  
भवि० सण० (२) परिवेष्टित Surrounded,  
encircled महा० सिरि० १२८२.  
परिचरलिय त्रि० ( गत ) गया हुआ Gone.  
कुमा०  
परिचरत्र त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भृत्य.  
Servant चारु० ५३  
परिचरालि त्रि० ( वेष्टित ) लपेटा हुआ,  
बेठा हुआ Encompassed, wrapped  
up कुमा० पात्र०  
परिइरण त्रि० ( परिकीर्ण ) व्याप्त Perva-  
ded सम्मत० १५६  
परिउवण, न० ( परिउम्बन ) सर्वत उम्बन  
Kissing गा० २२, हास्य० १३४  
परिउवणा स्त्री० ( परिउम्बना ) देखो 'परिउवण'  
शब्द Vide परिउवण 'गडपरिउवणा पुलङ्-  
ग्रग' गा० २०  
परिउज्झिय, त्रि० ( पयुंजित ) सर्वथा त्यक्त  
Entirely abandoned सण०  
परिउट्ट त्रि० ( परितुष्ट ) विशेष तुष्ट  
Completely satisfied, delighted.  
स० ७३४  
परिउत्ति त्रि० ( पयुंषित ) बासी, ठण्डा,  
भाप निकला ( भोजन ) Stale, not  
fresh दे० १, ३७  
परिऊढ त्रि० ( परिगूढ ) चाम, कृया, पतला  
Thin, slim, slender 'परिऊढा' गा०  
१६६  
परिऊरण न० ( परिपूरण ) परिपूर्ति

Completion, fulness नाट-शकु० द.  
परिओस पु० ( परितोष ) आनन्द, सतोष,  
खुशी Pleasure, delight, content-  
ment से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स०  
६, सुपा० ३७०  
परिओसिय, त्रि० ( परितोषित ) सतुष्ट किया  
हुआ. Satisfied, से० १३, २५, भवि०  
परिकद, पु० ( परिक्रद ) आक्रन्द, चिलाहट  
Weeping, cry हम्मीर० ३०  
परिकपि त्रि० ( परिकम्पिन् ) अतिशय कापने  
वाला One who trembles गड०  
परिकपिर, त्रि० ( परिकम्पितृ ) विशेष कॉपने  
वाला, Trembling, Shivering सण०  
परिकटिण, त्रि० ( परिकठिन ) अत्यन्त कठिन.  
Very difficult गड०  
परिकन्चुर त्रि० ( परिकर्चुर ) विशेष कबरा.  
Variegated, spotted गड०  
परिकम्म-परिकम्मण न० ( परिकम्मन् ) (१)  
गणित विशेष A particular method  
of calculation (२) सख्यात विशेष,  
एक तरह की गणना. An arithmetical  
calculation (३) निष्पादन Pro-  
ducing प्रब० १३३  
परिकलण न० ( परिकलन ) उपभोग En-  
joyment 'भमरपरिकलणखमकमलभूसि-  
यसरो' सुपा० ३  
परिकलि त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त,  
सहित Having, possessing सिरि०  
३८१, (२) व्याप्त Pervaded सम्मत०  
२१५, (३) प्राप्त Obtained 'अजलिप-  
रिकलियजल' धर्मवि० २५  
परिकवलणा स्त्री० ( परिकवलना ) भक्ष्य.  
Eating 'हरियपरिकवलणापुडुगासकुला'  
सुपा० ३  
परिकविल त्रि० ( परिकपिल ) सर्वतोभाव से  
कपिल वर्ण वाला. Tawny, reddish

परिपाटी, क्रम. Older, succession  
 पिगं (३) सामीप्य, समीपता Nearness,  
 vicinity गडडं ७७६ (५) विनिमय,  
 बदला. Exchange, barter 'परियाण'  
 भविं (५) अतिशय, विशेष. Excess सं  
 ७३४, (६) सपूर्णता. Perfectness 'परिद्विश्र'  
 प्रव० ६६, (७) बाहरपन Out side श्रावक०  
 २८४, (८) ऊपर Upward. हे० २, २११,  
 सुपा० २६६, (९) शेष, बाकी. Remain-  
 ing (१०) पूजा Worship (११) न्या-  
 पकता Persuading (१२) उपरम, निवृत्ति  
 Ceasing, stopping (१३) शोक  
 Grief, distress. (१४) किसी प्रकार की  
 प्राप्ति Acquisition (१५) आख्यान.  
 Legend, story (१६) सतोप भाषण  
 Consolatory speech (१७) भूषण,  
 श्रलकार Ornament (१८) आलिंगन  
 Embracing (१९) नियम Rule  
 (२०) वर्जन, प्रतिषेध Prohibition  
 हे० २, १२७, भविं गडडं (२१) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है An adverb  
 used uselessly गडडं १०, सण०  
 परिभ्रतणा स्त्री० (परिभ्रतणा) अतिशय  
 यन्त्रणा Excessive restriction  
 नाट—मालती० २८  
 परिभ्रतिश्र त्रि० ( श्लिष्ट ) आलिंगित  
 Embraced कुमा०  
 परिभ्रमिश्र त्रि० ( परिजृम्भित ) विकसित.  
 Blown, fully opened or expan-  
 did से० २, २०  
 परिभ्रट्ट पु० (परिवर्त) (१) पलटाव, बदला  
 Change, alternation (२) समय  
 का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसर्पिणी-उत्स-  
 र्पिणी परिमित काल. A period, lapse of  
 expiration of time विवा० १, १,  
 सुर० १६, १४५, प्रव० १६२

परिभ्रट्टग त्रि० (परिवर्तक) परिवर्तन करने  
 वाला. Revolutionary निसी०चे० १०.  
 परिभ्रट्टण न० (परिवर्तन) पलटाव, बदला  
 करना Exchange, barter पिंड० ३२४,  
 वै० ६७  
 परिभ्रट्टणा स्त्री० (परिवर्तना) Change  
 (२) द्विगुण, उपकरण Furniture,  
 wears, selected articles of a Jain  
 monk पि० २८६ (३) बदला करना.  
 Exchange, barter पिंड० ३२४  
 परिभ्रड्डिष्ठ त्रि० (परिकृष्ट) खीचा हुआ.  
 Attracted. सुपा० ३१  
 परिभ्रड्डिय. त्रि० (पर्यटित) परिभ्रान्त, भटका  
 हुआ. Wanderings roaming out.  
 सिक्खा० १७  
 परिभ्रड्डिद्ध स्त्री० (परिवृद्धि) विशेष वृद्धि.  
 Growth, Increase प्राक० २१  
 परिभ्रण पु० (परिजन) (१) परिवार, कुटुम्ब,  
 पुत्र-कलत्र आदि पालनीय वर्ग Family  
 (२) अनुचर, अनुगामी Attendant,  
 follower गा० २८३, गडडं पि० ३५०.  
 परिभ्रत्त त्रि० (परिवृत्त) पलटा हुआ  
 Revolved, turned over भविं  
 परिभ्रत्तमाणी स्त्री० (परिवर्तमाना) कर्म-  
 प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के  
 बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय  
 को प्राप्त होती है. A kind of karma.  
 पच० ३, १४, ३, ४३, क० ग० ५, १ टी.  
 परिभ्रत्ता स्त्री० (परिवत्ता) देखो 'परिभ्रत्तमाणी'  
 शब्द Vide परिभ्रत्तमाणी क० ग० ५, १  
 परिभ्रत्तिश्र त्रि० (परिवर्तित) मोड़ा हुआ.  
 Bent 'वालिश्रय परिभ्रत्तिश्र' पाद्य०  
 परिभ्रर. पु० (परिकर) (१) कटि-बन्धन.  
 Girth, waist-band. 'सन्नद्धवद्धपरियर-  
 भडेहि' भविं (२) परिवार Retinue,  
 train गडडं चेइय० ६४

परिचर पु० ( परिचर ) सेवक, भृत्य  
 Servant गड०  
 परिचरण न० ( परिचरण ) सेवा. Service  
 संबोध० ३६  
 परिचरणा स्त्री० ( परिचरणा ) सेवा Service  
 सम्मत्त० २१५  
 परिचरिय त्रि० ( परिकरित—परिवृत ) (१)  
 परिवार-युक्त Having a family महा०  
 भवि० सण० (२) परिवेष्टित Surrounded,  
 encircled महा० सिरि० १२८२  
 परिचलिय त्रि० ( गत ) गया हुआ Gone  
 कुमा०  
 परिचरारत्र त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भृत्य.  
 Servant चारु० ५३  
 परिचालिअ त्रि० ( वेष्टित ) लपेटा हुआ,  
 वेठा हुआ Encompassed, wrapped  
 up कुमा० पात्र०  
 परिहरण त्रि० ( परिकीर्ण ) व्याप्त Peiva-  
 ded सम्मत्त० १५६  
 परिउवण न० ( परिउम्बन ) सर्वत उम्बन  
 Kissing गा० २२, हास्य० १३४  
 परिउवणा स्त्री० ( परिउम्बना ) देखो 'परिउवण'  
 शब्द Vide परिउवण 'गडपरिउवणा पुलह-  
 अग' गा० २०  
 परिउज्झिय त्रि० ( पर्युज्झित ) सर्वथा त्यक्त  
 Entirely abandoned सण०  
 परिउट्ट त्रि० ( परितुष्ट ) विशेष तुष्ट  
 Completely satisfied, delighted.  
 स० ७३४  
 परिउत्तिअ त्रि० ( पर्युपित ) वासी, ठण्डा,  
 भाप निकला ( भोजन ) Stale, not  
 fresh दे० १, ३७  
 परिऊढ त्रि० ( परिगूढ ) चाम, कृश, पतला  
 Thin, slim, slender 'परिऊढा' गा०  
 १६६  
 परिऊरण न० ( परिपूरण ) परिपूर्ण

Completion, fulness नाट-शकु० ८.  
 परिओस पु० ( परितोष ) आनन्द, सतोष,  
 खुशी Pleasure, delight, content-  
 ment से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स०  
 ६, सुपा० ३७०  
 परिओसिय त्रि० ( परितोषित ) सतुष्ट किया  
 हुआ. Satisfied, से० १३, २५, भवि०  
 परिकद पु० ( परिकद ) आक्रन्द, चिह्लाहट  
 Weeping, cry हम्मीर० ३०  
 परिकपि त्रि० ( परिकम्पिन् ) अतिशय कापने  
 वाला One who trembles गडड०  
 परिकपिर त्रि० ( परिकम्पितृ ) विशेष कांपने  
 वाला, Trembling, Shivering सण०  
 परिकदिण त्रि० ( परिकठिन ) अत्यन्त कठिन.  
 Very difficult गडड०  
 परिकच्युर त्रि० ( परिकचुर ) विशेष कबरा.  
 Variegated, spotted. गडड०  
 परिकम्म-परिकम्मण न० ( परिकर्मन् ) (१)  
 गणित विशेष A particular method  
 of calculation (२) सख्यात विशेष,  
 एक तरह की गणना. An arithmetical  
 calculation (३) निष्पादन Pro-  
 ducing प्रव० १३३  
 परिकलण न० ( परिकलन ) उपभोग En-  
 joyment 'भमरपरिकलणखलमकमलभूसि-  
 यसरो' सुपा० ३  
 परिकलिअ त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त,  
 सहित Having, possessing सिरि०  
 ३८१, (२) व्याप्त Peivaded सम्मत्त०  
 २१५, (३) प्राप्त Obtained. 'अंजलिप-  
 रिकलियजल' धर्मवि० २५  
 परिकवलण स्त्री० ( परिकवलना ) भक्षण  
 Eating 'हरियपरिकवलणापुट्टगासकुला'  
 सुपा० ३  
 परिकविल त्रि० ( परिकविल ) सर्वतोभाव से  
 कपिल वर्ण वाला. Tawny, reddish

परिपाटी, क्रम, Oidol, succession  
 पिगं (३) सामीप्य, समीपता Nearness,  
 vicinity गडड० ७७६ (४) विनिमय,  
 बदला. Exchange, barter 'परियाय'  
 भवि० (५) अतिशय, विशेष. Excess स०  
 ७३४, (६) सपूर्णता. Perfectness 'परिदृष्ट'  
 प्रव० ६६, (७) बाहरपन Out side. श्रावक०  
 २८४, (८) ऊपर Upward हे० २, २११,  
 सुपा० २६६, (९) शेष, बाकी Remaining  
 (१०) पूजा Worship (११) न्या-  
 पकता Porvading (१२) उपरम, निवृत्ति.  
 Coasing, stopping (१३) शोक  
 Grief, distress. (१४) किसी प्रकार की  
 प्राप्ति Acquisition (१५) आख्यान.  
 Legend, story (१६) सतोप भाषण  
 Consolatory speech (१७) भूषण,  
 अलंकार Ornament (१८) आलिंगन  
 Embracing (१९) नियम Rule  
 (२०) वर्जन, प्रतिषेध Prohibition  
 हे० २, १२७, भवि० गडड० (२१) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है An adverb  
 used uselessly गडड० १०, सण०  
 परिभ्रतणा. स्त्री० (परियन्त्रणा) अतिशय  
 यन्त्रणा Excessive restriction  
 नाट—मालती० २८  
 परिभ्रतिभ्र त्रि० (रिलट) आलिंगित  
 Embraced कुमा०  
 परिभ्रभिभ्र त्रि० (परिजुम्भित) विकसित.  
 Blown, fully opened or expan-  
 did से० २, २०  
 परिभ्रट्ट पु० (परिवर्त) (१) पलटाव, बदला.  
 Change, alternation (२) समय  
 का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसर्पिणी-उत्स-  
 र्पिणी परिमित काल, A period, lapse of  
 expuation of time विवा० १, १,  
 सुर० १६, १४५, प्रव० १६२

परिभ्रट्टग त्रि० (परिवर्तक) परिवर्तन करने  
 वाला. Revolutionary. निसी० चें० १०.  
 परिभ्रट्टण न० (परिवर्तन) पलटाव, बदला  
 करना Exchange, barter पिंड० ३२४,  
 वै० ६७  
 परिभ्रट्टणा. स्त्री० (परिवर्तना) Change-  
 (२) द्विगुण, उपकरण Furniture,  
 wears, selected articles of a Jain  
 monk पि० २८६ (३) बदला करना.  
 Exchange, barter पिंड० ३२४  
 परिभ्रड्डिभ्र त्रि० (परिकृष्ट) खींचा हुआ.  
 Attracted. सुपा० ३१  
 परिभ्रड्डिय. त्रि० (पर्यटित) परिभ्रान्त, भटका  
 हुआ Wanderings roaming out  
 सिक्खा० १७  
 परिभ्रड्डिह स्त्री० (परिवृद्धि) विशेष वृद्धि.  
 Growth, Increase प्राकृ० २१  
 परिभ्रण पु० (परिजन) (१) परिवार, कुटुम्ब,  
 पुत्र कलत्र आदि पालनीय वर्ग. Family  
 (२) अनुचर, अनुगामी Attendant,  
 follower गा० २८३, गडड० पि० ३५०.  
 परिभ्रत्त त्रि० (परिवृत्त) पलटा हुआ  
 Revolved, turned over भवि०  
 परिभ्रत्तमाणी स्त्री० (परिवर्तमाना) कर्म-  
 प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के  
 बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय  
 को प्राप्त होती है A kind of karma.  
 पच० ३, १४, ३, ४३, क० ग० ५, १ टी.  
 परिभ्रत्ता स्त्री० (परिवर्ता) देखो 'परिभ्रत्तमाणी'  
 शब्द Vide परिभ्रत्तमाणी क० ग० ५, १  
 परिभ्रत्तिभ्र त्रि० (परिवर्तित) मोटा हुआ.  
 Bent 'बालिभ्रय परिभ्रत्तिभ्र' पाथ०  
 परिभ्रर. पु० (परिकर) (१) कटि-बन्धन  
 Girth, waist-band. 'सन्नद्धवद्धपरियर-  
 भडेहि' भवि० (२) परिवार Retinue,  
 train गडड० चेद्वय० ६४



परिचर पु० ( परिचर ) सेवक, भृत्य  
 Servant गड०  
 परिचरण न० ( परिचरण ) सेवा. Service  
 सवोध० ३६  
 परिचरणा स्त्री० ( परिचरणा ) सेवा Service  
 सम्मत० २१५  
 परिचरिय त्रि० ( परिकरित—परिवृत ) (१)  
 परिवार-युक्त Having a family महा०  
 भवि० सख० (२) परिवेष्टित Surrounded,  
 encircled महा० सिरि० १२८२  
 परिचरलिय त्रि० ( गत ) गया हुआ Gone  
 कुमा०  
 परिचरारत्र त्रि० ( परिचरक ) सेवक, भृत्य.  
 Servant चार० ५३  
 परिचरालिअ त्रि० ( वेष्टित ) लपेटा हुआ,  
 वेढा हुआ Encompassed, wrapped  
 up कुमा० पात्र०  
 परिइरण त्रि० ( परिकीर्ण ) व्याप्त Peiva-  
 ded सम्मत० १५६  
 परिडवण. न० ( परिसुम्बन ) सर्वत सुम्बन  
 Kissing गा० २२, हास्य० १३४  
 परिडवणा स्त्री० ( परिसुम्बना ) देखो 'परिडवण'  
 शब्द Vide परिडवण 'गडपरिडवणा पुलङ्-  
 ग्रग' गा० २०  
 परिडज्जिय, त्रि० ( पर्युज्जित ) सर्वथा त्यक्त  
 Entirely abandoned सख०  
 परिडट्ट त्रि० ( परितुष्ट ) विशेष तुष्ट  
 Completely satisfied, delighted.  
 स० ७३४  
 परिडसिअ त्रि० ( पर्युषित ) वासी, ड्यडा,  
 भाप निकला ( भोजन ) Stale, not  
 fresh दे० १, ३७  
 परिऊढ त्रि० ( परिगूढ ) चाम, कृश, पतला  
 Thin, slim, slender 'परिऊढा' गा०  
 १६६  
 परिडरण न० ( परिपूरण ) परिपूर्ति

Completion, fulness नाट-शकु० द.  
 परिओस पु० ( परितोष ) आनन्द, संतोष,  
 खुशी Pleasure, delight, content-  
 ment से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स०  
 ६, सुपा० ३७०  
 परिओसिय, त्रि० ( परितोषित ) सतुष्ट किया  
 हुआ. Satisfied, से० १३, २५, भवि०  
 परिकद. पु० ( परिकद ) आक्रन्द, चिलाहट  
 Weeping, cry हस्मीर० ३०.  
 परिकपि त्रि० ( परिकम्पित ) अतिशय कापने  
 वाला One who trembles गड०  
 परिकपिर. त्रि० ( परिकम्पित ) विशेष कांपने  
 वाला, Trembling, Shivering सख०  
 परिकडिण. त्रि० ( परिकठिन ) अत्यन्त कठिन.  
 Very difficult गड०  
 परिकब्बुर त्रि० ( परिकर्बुर ) विशेष कबरा.  
 Variegated, spotted. गड०  
 परिकम्म-परिकम्मण न० ( परिकम्मन् ) (१)  
 गणित विशेष A particular method  
 of calculation (२) सख्यात विशेष,  
 एक तरह की गणना. An arithmetical  
 calculation (३) निष्पादन Pro-  
 ducing प्रव० १३३  
 परिकलण न० ( परिकलन ) उपभोग En-  
 joyment 'भमरपरिकलणखलकमलभूसि-  
 यसरो' सुपा० ३  
 परिकलिअ त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त,  
 सहित Having, possessing सिरि०  
 ३८१, (२) व्याप्त Peivaded सम्मत०  
 २१५, (३) प्राप्त Obtained. 'अजलिप-  
 रिकलियजल' धर्मवि० २५  
 परिकवलणा स्त्री० ( परिकवलना ) भक्षण  
 Eating 'हरियपरिकवलणापुहुगासकुला'  
 सुपा० ३  
 परिकचिल त्रि० ( परिकपिल ) सर्वतोभाव से  
 कपिल वर्ण वाला Tawny, reddish

परिपाटी, क्रम. Order, succession  
 पिंग० (३) सामीप्य, समीपता. Nearness,  
 vicinity. गडड० ७७६ (४) विनिमय,  
 बदला. Exchange, barter 'परियाय'  
 भवि० (५) अतिशय, विशेष. Excess स०  
 ७३४, (६) सपूर्णता. Perfectness 'परिदृष्ट'  
 प्रव० ६६, (७) बाहरपन Out side श्रावक०  
 २८४, (८) ऊपर Upward हे० २, २११,  
 सुपा० २६६, (९) शेष, बाकी. Remain-  
 ing (१०) पूजा. Worship (११) व्या-  
 पकता Persuading (१२) वपरम, निवृत्ति.  
 Ceasing, stopping (१३) शोक  
 Grief, distress. (१४) किसी प्रकार की  
 प्राप्ति Acquisition (१५) आख्यान.  
 Legend, story (१६) सतोप भाषण  
 Consolatory speech (१७) भूषण,  
 अलंकार Ornament (१८) आलिंगन  
 Embracing (१९) नियम Rule  
 (२०) वर्जन, प्रतिषेध Prohibition  
 हे० २, १२७, भवि० गडड० (२१) निरर्थक  
 भी इसका प्रयोग होता है An adverb  
 used uselessly गडड० १०, सण०  
 परिभ्रतणा स्त्री० (परियन्त्रणा) अतिशय  
 यन्त्रणा Excessive restriction  
 नाट—मालती० २८  
 परिभ्रतिभ्र त्रि० ( शिल्प ) आलिंगित  
 Embraced कुमा०  
 परिभ्रभिभ्र त्रि० (परिजृम्भित) विकसित.  
 Blown, fully opened or expan-  
 did से० २, २०  
 परिभ्रष्ट पु० (परिवर्त) (१) पलटाव, बदला  
 Change, alternation. (२) समय  
 का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसरिणी-उत्स-  
 र्पिणी परिमित काल. A period, lapse or  
 expiration of time विवा० १, १,  
 सुर० १६, १४५, प्रव० १६२

परिभ्रष्टग. त्रि० (परिवर्तक) परिवर्तन करने  
 वाला Revolutionary. निसी० चें० १०  
 परिभ्रष्टण न० (परिवर्तन) पलटाव, बदला  
 करना Exchange, barter पिंड० ३२४,  
 वै० ६७  
 परिभ्रष्टणा स्त्री० (परिवर्तना) Change.  
 (२) द्विगुण, उपकरण Furniture,  
 wears, selected articles of a Jain  
 monk पि० २८६ (३) बदला करना.  
 Exchange, barter पिंड० ३२५  
 परिभ्रडिष्ठ त्रि० (परिकृष्ट) खीचा हुआ.  
 Attracted. सुपा० ३१  
 परिभ्रडिय. त्रि० (पर्यटित) परिभ्रान्त, भटका  
 हुआ. Wanderings roaming out.  
 सिक्खा० १७  
 परिभ्रडिद्ध स्त्री० (परिवृद्धि) विशेष वृद्धि  
 Growth, Increase प्राक० २१  
 परिभ्रण पु० (परिजन) (१) परिवार, कुटुम्ब,  
 पुत्र-कलत्र आदि पालनीय वर्ग. Family  
 (२) अनुचर, अनुगामी Attendant,  
 followor गा० २८३, गडड० पि० ३५०.  
 परिभ्रत्त त्रि० (परिवृत्त) पलटा हुआ  
 Revolved, turned over भवि०  
 परिभ्रत्तमाणी स्त्री० (परिवर्तमाना) कर्म-  
 प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के  
 बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय  
 को प्राप्त होती है A kind of karma.  
 पच० ३, १४, ३, ४३, क० ग० ५, १ टी  
 परिभ्रत्ता स्त्री० (परिवृत्ता) देखो 'परिभ्रत्तमाणी'  
 शब्द Vide परिभ्रत्तमाणी क० गं० ५, १  
 परिभ्रत्तिभ्र त्रि० (परिवर्तित) मोड़ा हुआ.  
 Bent 'बालिभ्रय परिभ्रत्तिभ्र' पाश०  
 परिभ्रर. पु० (परिकर) (१) कटि-बन्धन  
 Girth, waist band. 'सन्नद्धयद्परिभ्रर-  
 भडेहि' भवि० (२) परिवार Retinue,  
 train गडड० चेद्वय० ६४

परिगलिर त्रि० (परिगलित्) गल जाने वाला, क्षीण होने वाला Exhausting, fading सख०

परिग्रहावत त्रि० (परिग्रहवत्) परिग्रह-युक्त, Having possession पि० ३६६  
परिघघर. त्रि० (परिघघरं) ब्रैठी हुई आवाज़ Indistinct, purring, gurgling 'विहयसदपरिघघरा वाणी'. गडड०

परिघट्टण न० (परिघट्टन) (१) आघात Blow. वज्जा० ३८, (२) निर्माण, रचना. Formation निसी० चू० १

परिघट्टिय त्रि० (परिघट्टित) आहत, ताडित Beaten जीव० ३

परिघुम्भिर त्रि० (परिघुम्भितृ) शनै शनै कापने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला Shaking, trembling slowly प३म० ८, २८३, गा० १४८

परिघोलिर त्रि० (परिघूर्णितृ) डोलने वाला Shaking, reeling गडड०

परिचचल त्रि० (परिचचल) अतिशय चपल Unsteady, fickle वै० १४

परिचरणा स्त्री० (परिचरणा) सेवा, भक्ति. Devotion सुपा० १५६

परिचलित्र त्रि० (परिचलित) विशेष चला हुआ Walked, extensive travelling दे० २, ६

परिचारत्र त्रि० (परिचारक) सेवा करने वाला, सेवक Servant नाट-मालावि० ६,

परिचिंतिय त्रि० (परिचिन्तित) जिसका चिन्तन किया गया हो Thought, reflected upon सण

परिचिंतिर त्रि० (परिचिन्तयितृ) चिन्तन करने वाला Thinker. सण०

परिचुविय त्रि० (परिचुम्बित) जिसका चुम्बन किया गया हो Kissed 'परिचुवियनहम्' उप० ५६७ टी

परिच्ययण न० (परित्यजन) परित्याग Abandoning स० ३३

परिच्यथ त्रि० (परित्याज्य) त्याग करने लायक Fit to be abandoned सबोध० ५४

परिच्छरण-न्न त्रि० (परिच्छन्न) परिच्छद-युक्त, परिवार सहित Surrounded with a retinue वव० ४

परिच्छरण-न्न त्रि० (परिच्छन्न) (१) काटा हुआ Cut 'नयसुहतरहापरिच्छरणा' पञ्च० ६५, (२) निर्णयित, निश्चित Determined. आव० ४

परिच्छन्ति स्त्री० (परिच्छन्ति) (१) परिच्छेद, निर्णय Determination (२) परीक्षा, जाँच Examination, test. उप० ८२५

परिच्छेत्रग त्रि० (परिच्छेदक) निश्चय करने वाला One who determines उप० ८२३ टी

परिजापेय त्रि० (परिजल्पित) उक्त, कथित. Said सुपा० ३६४

परिजजर. त्रि० (परिजर्जर) अतिजीर्ण Worn out, torn, shattered उप० २६४ टी ६८६ टी

परिजडिल. त्रि० (परिजडिल) अतिशय जटिल. Complicated, intermixed, intermingled. गडड०

परिजवण न० (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र आदि का पुन पुन उच्चारण Uttering of prayers विशेष० ११४०, सुर० १२, २०१.

परिजाइय त्रि० (परिजाचित) मागा हुआ. Begged धर्मस० १०४५

परिजुण त्रि० (परिजीर्ण) दरिद्र, निर्धन. Poor, indigent 'परिजुणयो उ दरिद्रो' वव० ४,

परिजुक्त त्रि० (परियुक्त) सहित Accompanied, associated सबोध० १,

on all sides गडड०  
 परिकविस त्रि० (परिकपिश) अतिशय कपिश  
 रग वाला Tawny, reddish गडड०  
 परिकसण, न० (परिकर्षण) कशिश, खीचाव,  
 Attraction गडड०  
 परिकहण न० (परिकथन) आग्यान, प्ररू-  
 पण Legend, story सुपा० २  
 परिकहण खी० (परिकथना) देतो 'परिकहण'  
 शब्द Vide परिकहण आवम०  
 परिकिञ्चिन्न, त्रि० (परिकीञ्चित) व्यावयित,  
 स्तुतवित Narrated, praised, ex-  
 tolled श्रु० ११०  
 परिकीलिर, त्रि० (परिकीडित) अतिशय क्रीडा  
 करने वाला One that plays or  
 amuses oneself much सण०  
 परिकुडिल त्रि० (परिकुटिल) विशेष वक्र  
 Crooked, bent सुर० १, १  
 परिकुद्ध, त्रि० (परिकुद्ध) अत्यन्त क्रुपित,  
 Very angry धर्मवि० १२४  
 परिकोमल त्रि० (परिकोमल) सर्वथा कोमल  
 Very delicate गडड०  
 परिकखञ्ज त्रि० (परीक्षक) परीक्षा करने वाला  
 Examinee. सुपा० ४२७, श्रा० १४  
 परिकखञ्ज त्रि० (परिचल) आहत, जिसको  
 घाव हुआ हो Wounded, injured  
 से० ८, ७३  
 परिकखण्णा, खी० (परीक्षणा) परीक्षा Exami-  
 nation पडम० ६१, ३३  
 परिकखलिन्न त्रि० (परिखलित) स्खलना  
 प्राप्त, Shipped पि० ३०६  
 परिकखाम त्रि० (परिखाम) अतिशय कृश,  
 Emaciated, wasted away, lean  
 उत्तर० ७२; नाट-रत्ना० ३  
 परिकख त्रि० (परीक्षिन्) परीक्षक, परखने  
 वाला Examiner श्रा० १४  
 परिकखय त्रि० (परीक्षित) जिसकी परीक्षा

की गई हो, Examined, tested.  
 प्रासू० १५  
 परिकिञ्चिविय त्रि० (परिकिञ्चित) फेंका हुआ,  
 Thrown हम्मौर० ३२  
 परिकखण, न० (परीक्षण) परीक्षा-करण,  
 Examining, testing पव० ३८  
 परिकखविय त्रि० (परिकखवित) परिकीण  
 Emaciated, worn away,  
 Exhausted 'परिकखवियसरीरो' महा०  
 परिकखाम, त्रि० (परिकखाम) अति दुर्बल,  
 विशेषकृश Emaciated, lean गा०  
 १६६.  
 परिकखुहिय त्रि० (परिकुञ्च) अतिशय चोम  
 को प्राप्त Agitated भवि०  
 परिकेइय, त्रि० (परिकेदित) विशेष खिन्न  
 किया हुआ. Depressed, afflicted,  
 distressed सण०  
 परिकपण न० (परिकल्पन) कल्पना Imagi-  
 nation, thought धर्मस० ६८१  
 परिकपण खी० (परिकल्पना) देखो 'परिकपण'  
 शब्द Vide 'परिकपण'. धर्मस० ३०५  
 परिकपिण्य त्रि० (परिकल्पित) जिसकी  
 कल्पना की गई हो Imagined स० ११३,  
 धर्मस० ६६६  
 परिकगण न० (परिकगण) (१) गुण, पर्याय,  
 Quality, attribute 'परिकगणपञ्चाश्रो'  
 सम्म० १०६, (२) समन्ताद् गमन Going  
 in all sides. निसी० चू० ३  
 परिकगिर त्रि० (परिकगिन्) जाने वाला,  
 One who goes. सण०  
 परिकार पु० (परिकार) परिवार Family,  
 attendants, train परिकारविहवकाल-  
 मादीयिणाड, धर्मस० ६२६  
 परिकलिय त्रि० (परिकलित) गला हुआ,  
 परिकीण Melted कुम० ७, महा० सुपा०  
 ८७, ३६२

परिगलितर त्रि० (परिगलितु) गल जाने वाला, क्षीय होने वाला Exhausting, fading सण०  
 परिग्रहावत त्रि० (परिग्रहवत्) परिग्रह-युक्त. Having possession पि० ३६६  
 परिघघर. त्रि० (परिघर्षर) वैठी हुई आवाज़ Indistinct, purring, gurgling 'विद्वयसदपरिघघरा वायी' गडढ०  
 परिघट्टण न० (परिघट्टन) (१) आघात Blow. वज्जा० ३८, (२) निर्माण, रचना. Formation निसी० चू० १  
 परिघट्टिय त्रि० (परिघट्टित) आहत, ताडित Beaten जीव० ३  
 परिघुम्भिर त्रि० (परिघुम्भितृ) शनै शनै कापने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला Shaking, trembling slowly पउम० ८, २८३, गा० १४८  
 परिघोलिर त्रि० (परिघुम्भितृ) डोलने वाला Shaking, reeling गडढ०  
 परिचचल त्रि० (परिचञ्चल) अतिशय चपल Unsteady, fickle वै० १४  
 परिचरणा स्त्री० (परिचरणा) सेवा, भक्ति Devotion सुपा० १२६  
 परिचलित्र त्रि० (परिचलित) विशेष चला हुआ Walked, extensive traveling दे० ५, ६  
 परिचारत्र त्रि० (परिचारक) सेवा करने वाला, सेवक Servant नाट-मालवि० ६,  
 परिचिन्तिय त्रि० (परिचिन्तित) जिसका चिन्तन किया गया हो Thought, reflected upon सण०  
 परिचिन्तितर त्रि० (परिचिन्तयितृ) चिन्तन करने वाला Thinker. सण०  
 परिचुविय त्रि० (परिचुम्भित) जिसका चुम्बन किया गया हो Kissed 'परिचुवि-यनहमा' उप० २६७ टी

परिच्ययण न० (परित्यजन) परित्याग Aban- doning स० ३३  
 परिच्यय त्रि० (परित्याज्य) त्याग करने लायक Fit to be abandoned सवोध० २४  
 परिच्छुरण-न्न त्रि० (परिच्छन्न) परिच्छद-युक्त, परिवार सहित Surrounded with a retinue वव० ४  
 परिच्छुरण-न्न त्रि० (परिच्छन्न) (१) काटा हुआ Cut 'नयसुहृत्पहापरिच्छुरणा' पन्व० ६५, (२) निर्णीत, निश्चित Determined. श्राव० ४  
 परिच्छुत्ति स्त्री० (परिच्छुत्ति) (१) परिच्छेद, निर्णय Determination (२) परीक्षा, जाँच Examination, test, उप० ८६५  
 परिच्छेन्नग त्रि० (परिच्छेदक) निश्चय करने वाला One who determines उप० ८५३ टी  
 परिजपिय त्रि० (परिजपित) उक्त, कथित. Said सुपा० ३६४  
 परिजज्जर, त्रि० (परिजर्जर) अतिजीर्ण Worn out, torn, shattered उप० २६४ टी ६८६ टी  
 परिजडिल, त्रि० (परिजटिल) अतिशय जटिल. Complicated, intermixed, intermingled गडढ०  
 परिजवण न० (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र श्रादि का पुन पुन उच्चारण Uttering of prayers विशेष० ११४०, सुर० १२, २०१.  
 परिजाइय त्रि० (परियाचित) मागा हुआ. Begged. धर्मस० १०४५  
 परिजुरण त्रि० (परिजीर्ण) दरिद्र, निर्धन. Poor, indigent 'परिजुरणो उ दरिद्रो' वव० ४,  
 परिजुक्त, त्रि० (परियुक्त) सहित Accompanied, associated सवोध० १,

परिज्झामिय त्रि० ( परिध्मात ) श्याम किया हुआ Blackened, darkened निसी० चू० १

परिट्टवण न० ( प्रतिष्ठापन ) प्रतिष्ठा कराना Installation, inauguration चेह्य० ७७६

परिट्टवणा स्त्री० ( परिष्ठापना ) परित्याग. Abandoning 'परिट्टवणाए काउस्सगो' बृह० ४

परिट्टवणा स्त्री० ( प्रतिष्ठापना ) प्रतिष्ठा कराना Installing चेह्य० ७७६

परिट्टविय स्त्री० ( प्रतिष्ठापित ) सस्थापित Installed, inaugurated भवि०

परिट्टाद् त्रि० ( परिष्ठापिन् ) परित्यागी One who abandones नाट-साहि० १६२

परिट्टाण न० ( परिस्थान ) परित्याग Abandoning नाट०

परिट्टाचअ त्रि० ( परिस्थापक ) परित्याग करने वाला One who abandones नाट०

परिट्टिअ त्रि० ( परिस्थित ) सपूर्ण रूप से स्थित Fully established प्रब० ६६

परिणानु त्रि० ( परिणान्तु ) परिणाम को प्राप्त होने वाला, परिणत होने वाला, Transforming, Changing into विशे० ३२३४

परिणमण न० ( परिणमन ) परिणाम Transformation धर्मस० ४७२, उप० ८६८

परिणयण ( परिणयन ) विवाह Marriage उप० १०१४, सुपा० २७१

परिणाइ पु० ( परिज्ञाति ) परिचय Recognition, acquaintance 'परिणाइ तक्खण्येण' पउम० २३, २५

परिणामय त्रि० ( परिणामक ) परिणत करने वाला One that transforms बृह० १

परिणामि त्रि० ( परिणामिन् ) परिणत होने वाला Bound to nature श्रावक० १८३,—कारण न० ( कारण ) कार्य रूप में

परिणत होने वाला कारण, उपादान कारण An action directed to result in a practical shape, or an act of generosity उवर० २७

परिणामिअ त्रि० ( परिणामिक ) (१) परिणाम-जन्य, परिणाम से उत्पन्न. Produced by transformation (२) परिणाम सम्बन्धी Relating to transmutation (३) पु० परिणाम Transformation (४) भाव विशेष 'A particular feeling or sense 'परिणामिअो सव्वो' विशे० २१७६, ३४६४

परिणाय त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, परिचित Recognised, acquainted पउम० ११, २७

परिणायण न० ( परिणायन ) विवाह करना. To celebrate or perform marriage ceremony सुपा० ३६८

परिणायिअ त्रि० ( परिणायित ) जिसका विवाह कराया गया हो Bride or bridegroom सुपा० १६५, धर्मवि० १३६, कुम० १४

परिणिज्जरा स्त्री० ( परिनिज्जरा ) विनाश, लय. Destruction, ruin पउम० ३१, ६

परिणिज्जय त्रि० ( परिनिजित ) पराभूत, पराजय-प्राप्त Defeated पउम० ५२, २१.

परिणिट्ठिअ त्रि० ( परिनिष्ठित ) परिज्ञात. Recognized, acquainted वव० १०

परिणिट्ठिया स्त्री० ( परिनिष्ठिता ) (१) कृषि-विशेष, जिसने दो या तीन बार तुण्य शोधन किया हो Cultivation (२) दीक्षा-विशेष, जिसमें बारबार अतिचारों की आलोचना की जाती हो वह दीक्षा. A kind of initiation राज०

परिणिव्वुइ स्त्री० ( परिनिवृत्ति ) मुक्ति, मोक्ष. Salvation, final emancipation.

श्राया० कल्प०

- परिणित्रय, त्रि० ( परिणीत ) जिसका विवाह किया गया हो Married महा० प्रासू० ६३, सण० भवि०
- परिणील त्रि० ( परिणील ) सर्वथा हरे रंग का Completely green गडड०
- परिणयाण त्रि० ( परिज्ञान ) ज्ञान, जानकारी, Knowledge. धर्मस० १२५३, उप० पृ० २७४
- परिणिण त्रि० ( परिजिन् ) परिज्ञान-युक्त Having thorough knowledge वच० १
- परितविर त्रि० ( परितान्न ) विशेष-सात्र-अरुण-वर्ण वाला Copper-Coloured गडड०
- परितडुविय त्रि० ( परितत ) खूब फैलाया हुआ Extensively Spread out सण०
- परितणु त्रि० ( परितनु ) अत्यन्त पतला Very slender सुपा० २८
- परिनलित त्रि० ( परितलित ) तला हुआ Fried शोध० ८८
- परितविय त्रि० ( परितह ) परिताप-युक्त Warm, सण०
- परितावित्र त्रि० ( परितापित ) तला हुआ Fried शोध० १४७
- परितुट्टिर त्रि० ( परितुट्टितृ ) टूटने वाला, Bustle, सण०
- परितुट्ट त्रि० ( परितुष्ट ) सतोप-प्राप्त, सतुष्ट Satisfied, contented उप० चेह्य० ७०१
- परितुलिय त्रि० ( परतुलित ) तौला हुआ Weighed सण०
- परितोसिय त्रि० ( परितोषित ) सतुष्ट किया हुआ Contented, satisfied सण०
- परित त्रि० ( परीत ) व्याप्त Perished निरि० १८३, (२) लघु, छोटा, Small

(३) तुच्छ, हल्का Mean, debased.

उप० २७०, ६६४, —करण न० ( करण )

लघुकरण, Lessening उप० २७०

परित्ताइ, त्रि० ( परित्रायिन् ) रक्षण-कर्ता.

Protector सुपा० ४०२

परिथमित्र, त्रि० ( परिस्तम्भित ) स्तम्भ किया

हुआ Astonished सुपा० ४७५

परिथूर-परिथूल त्रि० ( परिस्थूर ) विशेष

स्थूल, खूब मोटा Bulky धर्मस० ८३८

चेह्य० ८५४, श्रा० ११

परिदिगाण त्रि० ( परिदत्त ) दिया हुआ Given.

अभि० १२५

परिदिद्ध त्रि० ( परिदिग्ध ) उपलित Smeared

सुख० २, ३७

परिदेवण न० ( परिदेवन ) विलाप Lamentation

सबोध० ४६, सवे० ८

परिदेवि त्रि० ( परिदेविन् ) विलाप करने वाला

One who laments, नाट-शाकु० १०१

परिधम्म पु० ( परिधर्म ) छन्द विशेष A

kind of metrie पिंग०

परिधवलिय त्रि० ( परिधवलित ) खूब सफेद

किया हुआ Whitened सण०

परिधाम पु० न० ( परिधामन् ) स्थान

Place सुपा० ४६३

परिधावित्र, त्रि० ( परिधावित ) दौडा हुआ

Run, हम्मीर० ३२

परिधाविर त्रि० ( परिधावितृ ) दौडने वाला

Runner. सण०

परिधूणिय त्रि० ( परिधूनित ) अत्यन्त कपाया

हुआ Trembled सम्मत० १३६

परिधूसर, त्रि० ( परिधूसर ) धूसर वर्ण वाला

Greyish वजा० १२८, गडड०

परिनट्ट त्रि० ( परिनष्ट ) विनष्ट Perished,

ruined महा०

परिनिविट्ट त्रि० ( परिनिविष्ट ) ऊपर बैठा

हुआ Seated above सुपा० २६६

परिनिविड त्रि० (परिनिविड) विघ्नप निविड  
Dense, compact महा०  
परिनिव्वुअ त्रि० (परिनिवृत) स्वस्य Good  
health, at ease सुपा० १८३  
परिपंडुर-ल. त्रि० (परिपाण्डुर) विशेष पाण्डुर  
धूसर वर्ण वाला Whitish, greyish  
सुपा० २२६, कप्प० गडड० से० १०, ३३  
परिपथग त्रि० (प्रतिपथक) दुश्मन, विरोधी,  
प्रतिकूल Opponent, enemy स० १०२  
परिपथिअ-ना त्रि० (परिपथिक) देखो  
'परिपथग' शब्द Vide परिपथग स० ७४६,  
उप० ६३६  
परिपक्क त्रि० (परिपक) पका हुआ Ripen-  
ed प्र० ४, भवि०  
परिपाग पु० (परिपाक) विपाक, फल  
Fruit, result 'पुण्यभवविहिअसुचरिअ-  
परिपागो' रथण० २२  
परिपाडल त्रि० (परिपाटल) सामान्य लाल  
रंग वाला, गुलाबी रंग का Pale red  
गडड०  
परिपाडिअ त्रि० (परिपाटित) फाडा हुआ,  
विदारित Torn दे० ७, ६१  
परिपालण न० (परिपालन) रक्षण Protec-  
tion कुम० २२६, सुपा० ३०८  
परिपालिय त्रि० (परिपालित) रक्षित  
Protected भवि०  
परिपिज्जर त्रि० (परिविज्जर) विशेष पीत-रक्त  
वर्ण वाला Yellow गडड०  
परिपिट्ठण न० (परिविट्ठन) पीटना, ताड़न  
Beating चव० १  
परिपीडिय त्रि० (परिपीडित) जिसको पीडा  
पहुँचाई गई हो Afflicted, distressed  
भवि०  
परिपुच्छण न० (परिपुच्छन) प्रश्न, पूछना  
Question भवि०  
परिपुच्छिअ-परिपुट्ट त्रि० (परिपुट्ट) पूछा

हुआ, जिज्ञासित Asked गा० ६२३, भवि०  
सुपा० ३८७  
परिपूरिय त्रि० (परिपूरित) भरपूर, व्याप्त.  
Abundant, plentiful सुर० २, ११  
परिपेरिय त्रि० (परिपेरित) जिसको प्रेरणा की  
गई हो Instigated सुपा० १८६  
परिपेलव त्रि० (परिपेलव) (१) सुकर, सहल  
Easy से० ३, १३. (२) अटक Un-  
steady (३) नि सार Strength (४)  
वराक, दूरी Distance, weak. राज०  
परिपेसण न० (परिपेसण) भेजना. Send-  
ing भवि०  
परिपेसल त्रि० (परिपेशल) सुन्दर, मनोहर.  
Beautiful, handsome सुपा० १०६.  
परिपेसिय. त्रि० (परिपेसित) भेजा हुआ.  
Sent भवि०  
परिप्पमाण न० (परिप्रमाण) परिमाण  
Measure भवि०  
परिप्पुय. त्रि० (परिप्पुत) आप्पुत, व्याप्त.  
Spread through, pervaded राज०  
परिप्पुया खी० (परिप्पुता) दीक्षा विशेष  
A kind of initiation. राज०  
परिप्फद् पु० (परिस्पन्द) (१) रचना विशेष.  
A kind of arrangement 'जयह  
वायापरिप्फद्दे' गडड० (२) समन्तात् चलन.  
Moving on all sides चार० ४२ (३)  
चेष्टा, प्रयत्न An effort, exertion.  
गडड०  
परिप्फुड त्रि० (परिस्फुट) अत्यन्त स्पष्ट.  
Quite plain, manifest, distinctly  
visible से० ११, ६०, सुर० ४, २१४;  
भवि०  
परिप्फुरण न० (परिस्फुरण) हिलान, चलन  
Quivering सण०  
परिप्फुरिअ त्रि० (परिस्फुरित) स्फूर्ति-युक्त.  
Tremulous भवि०



- परिफस पु० ( परिस्पर्श ) स्पर्श, छूना  
Touching पि० ७४, ३११.
- परिफसण न० ( परिस्पर्शन ) देखो 'परिफस'  
शब्द Vide 'परिफस'. उप० ६८६ टी
- परिफगु त्रि० ( परिफल्गु ) निस्सार, असार  
Inspid, useless, worthless  
धर्मस० ६५३
- परिफुडिय त्रि० ( परिफुडित ) फूटा हुआ,  
भग्न Torn, destroyed पठम० ६८,  
१०
- परिफुल्लिअ. त्रि० ( परिफुल्लित ) फूला हुआ,  
कुसुमित Flowered, furnished  
with flowers पिग०
- परिफुसिय त्रि० ( परिफुसित ) पोंछा हुआ  
Effaced उप० पृ० ६४
- परिभ्रमण न० ( परिभ्रमण ) पर्यटन  
Wandering or roaming about,  
travelling महा०
- परिभ्रमिअ त्रि० ( परिभ्रान्त ) भटका हुआ  
Wandered, roamed वै० ६३, सण०  
भवि०
- परिभ्रमीअ त्रि० ( परिभ्रीत ) भय-प्राप्त  
Frightened, alarmed पठम० ५३,  
३६
- परिभग्न त्रि० ( परिभग्न ) भागा हुआ  
Broken आत्मानु० १४
- परिभमिर, त्रि० ( परिभ्रमितृ ) पर्यटन करने  
वाला Traveller सुपा० २६६.
- परिमत्त पु० ( परिभवत् ) पारवैथ्य साधु,  
शिथिलाचारी मुनि. A saint of loose  
conduct चव० १
- परिभवण न० ( परिभवन ) पराभव, तिरस्कार,  
Contempt, disregard, disrespect  
राज०
- परिभविअ त्रि० ( परिभूत ) तिरस्कृत, अभिभूत  
Contempt, disrespect धर्मवि० ३६

- परिभावि त्रि० ( परिभावित् ) परिभव करने  
वाला. Humiliating, despising.  
अभि० ७१.
- परिभासा स्त्री० ( परिभाषा ) (१) तिरस्कार  
Censure, reproof (२) चूर्ण, टीका  
विशेष A style of prose-composi-  
tion राज०
- परिभासिय त्रि० ( परिभाषित ) प्रतिपादित  
Explained, expounded सूय० नि०  
८८, भास० २१.
- परिभीय, त्रि० ( परिभीत ) डरा हुआ  
Frightened, feared. उव०
- परिभुजण न० ( परिभोजन ) परिभोग,  
Enjoyment उप० १३४ टी
- परिभोद् त्रि० ( परिभोगित् ) परिभोग करने  
वाला Enjoying पि० ४०५, नाट-शकु०  
३५
- परिमउअ त्रि० ( परिमृदुक ) (१) विशेष  
क्रीमल Very soft, tender or deli-  
cate (२) अल्पन्त सुकर, सरल Easy.  
धर्मस० ७६१, ७६२
- परिमउलिअ त्रि० ( परिमुकुलित ) चारों ओर  
से सङ्कुचित Contracted on all sides.  
सण०
- परिमथर त्रि० ( परिमन्थर ) मन्द, धीमा  
Slow, dull, lazy, inactive.  
गठड० स० ७१६
- परिमथिअ त्रि० ( परिमथित ) अल्पन्त  
आलोडित Churned, stirred round.  
सम्मत्त० २२६
- परिमद् त्रि० ( परिमन्द ) मन्द, अशक्त  
Slow, tardy, inactive सुर० ४, २४०.
- परिमगि, त्रि० ( परिमगित् ) खोज करने वाला.  
Searching, inventing गा० २६१
- परिमजिर त्रि० ( परिमजितृ ) डूबने वाला.  
Sinking, plunging सुपा० ६

परिमट्ट त्रि० (परिमृष्ट) (१) घिसा हुआ, Rubbed से० ६, २; ८, ४३ (२) आस्फालित Struck with violence 'परिमट्टमेरुसिहरो' से० ४, ३७. (३) मार्जित, शोधित Cleansed, purified कप्प०

परिमट्टा स्त्री० (परिमर्दा) सबाधन, दबाना, पैचन्पी आदि, Shampooing, rubbing निशी० चू० ३

परिमलण. न० (परिमर्दन) (१) परिमर्दन Shampooing (२) विचार, Thought, गा० ४२८, गडड०

परिमलित्र त्रि० (परिमलित-परिमृदित) जिसका मर्दन किया गया हो Crushed, pressed गा० ३३७, से० ७, ६२, महा० वज्रा० ११८

परिमहिय. त्रि० (परिमहित) पूजित Honoured, worshipped, esteemed पउम० १, १

परिमाह स्त्री० (परिमाति) परिमाण Measure. 'सुगहपरिमाह व' भवि०

परिमासि त्रि० (परिमर्शिन) स्पर्श करने वाला One that touches पि० ६२

परिमित्र त्रि० (परिवृत) परिकरित, वेष्टित Surrounded, encircled पउम० १०१, भवि०

परिमिलाण त्रि० (परिम्लान) म्लान, विच्छाय, निस्तेज Faded, withered महा०

परिमिल्लिर. त्रि० (परिमोक्त) परित्याग करने वाला One that abandones. सण०

परिमुट्ट त्रि० (परिमृष्ट) स्पृष्ट Touched मा० ४४

परिमुषिञ्च त्रि० (परिज्ञात) जाना हुआ Known पउम० १६, ६१, सण०

परिमुसण न० (परिमोषण) (१) चोरी Theft, stealing (२) वञ्चना, ठगई

Cheating, deceit गा० २६

परिमुसिञ्च त्रि० (परिमृष्ट) स्पृष्ट Touched. महानि० ४, भवि०

परिमोयण न० (परिमोचन) मोच, छुटकारा. Liberation, deliverance सुर० ४, २५०

परिमोस. पु० (परिमोष) चोरी Stealing, theft. महा०

परियचण न० (पर्यञ्चन) स्पर्श करना, Touching सुख० ३, १

परियचिञ्च त्रि० (पर्यञ्चित) विभूषित Adorned, decorated भवि०

परियचिञ्च त्रि० (पर्यञ्चित) पूजित Worshipped. भवि०

परियवण न० (परिकल्पन) कल्पना Imagination, thought धर्मस० १२०८

परियय. पु० (परिचय) जान-पहचान, विशेष रूप से ज्ञान Acquaintance, familiarity गडड० से० १५, ६६, अभि० १३१.

परियाइत्त त्रि० (पर्याप्त) काफी Enough, sufficient राज०

परियाईय. त्रि० (पर्यायातीत) पर्याय को अतिक्रान्त To exceed the limits of one's rank, or disregard of the rank or position. राज०

परियाण न० (परिदान) (१) विनिमय, बदला, लेनदेन Barter, exchange. (२) समन्ताद् दान Giving on all sides भवि०

परियाणण न० (परिज्ञान) जानकारी. Knowledge. स० १३

परियाणिञ्च त्रि० (परिज्ञात) जाना हुआ, विदित Known पउम० ८८, ३३, रत्न० १८, भवि०

परियालोयण न० (पर्यालोचन) विचार, चिन्तन, Circumspection, atten-

tive, observation. सुपा० १००.

परियासिय त्रि० (परिवासित) वासी रखा हुआ. Kept stale कस०

परिरमण न० (परिरम्भन) आलिङ्गन Embracing. पाञ्च० गा० ८३५, सुपा० २, ३६६.

परिरक्षण न० (परिरक्षण) परिपालन Protecting, defending, "maintaining" गा० १०६, भवि०

परिरक्षला स्त्री० (परिरक्षा) देखो 'परिरक्षण' शब्द. Vide परिरक्षण पउम० १६, १३, धर्मवि० १३, गउड०

परिरद्ध. त्रि० (परिरव्य) आलिङ्गित Embraced गा० ३६८

परिरय. पु० (परिरय) पर्याय, समानार्थक शब्द A synonym, convertible term 'एगपरिरयत्तिवा' आया०चू० १

परिलधि त्रि० (परिलङ्घिन्) लङ्घन करने वाला Fasting, abstinent गउड०

परिलवि त्रि० (परिलम्बिन्) लटकने वाला Hanging गउड०

परिलम्भि. त्रि० (परिलम्भित) प्राप्त कराया हुआ Caused to procure 'परिलम्भिञ्चो पसन्नप्वा' पउम० ८४, १,

परिलग. (परिलग्न) लगा हुआ, व्यापृत. Adhered or clung to उप० ३५६ टी

परिलीण त्रि० (परिलीन) निलीन Shut or wrapt up, hidden into पाञ्च०

परिविञ्च. त्रि० (परिविञ्चित) जो ठगा गया हो Cheated, deceived. दे० ४, १८

परिविधि त्रि० (परिविधिन्) विरोधी, दुस्मन. Opponent, an enemy पि० ४०५, नाट-विक० ७

परिविदिय. त्रि० (परिविन्दित) स्तुत, पूजित. Worshipped, praised पउम० १, ६

परिवग्ग पु० (परिवर्ग) परिजन वर्ग Retinue, train, family पउम० २३, २४

परिवज्जणा स्त्री० (परिवर्जना) परित्याग Abandoning, quitting, leaving उव०

परिवट्टण न० (परिवर्तन) आवर्तन, आवृत्ति Edition. आगमपरिवट्टण' सवोध० ३६

परिवट्टुल त्रि० (परिवर्तुल) गोलाकार Circular स०, ६८.

परिवड्ढण न० (परिवर्धन) परिवृद्धि, बढाव. Growing growth गउड० धर्मस० ८७५

परिवड्ढि स्त्री० (परिवृद्धि) देखो 'परिवड्ढण' शब्द Vide 'परिवड्ढण' से० ५, २

परिवर्णित्त्र. त्रि० (परिवर्णित) जिसका वर्णन किया गया हो Narrated, described आत्म० ७

परिवर्त्तित त्रि० (परिवर्त्तिन्) बदलने वाला One that changes 'रूवपरिवर्त्तित्थी विज्जा' कुम० १२६, महा०

परिवस्थ न० (परिवस्त्र) वस्त्र, कपडा Garment भवि०

परिवरिय त्रि० (परिवृत) परिकरित, वेष्टित Surrounded, encircled सुपा० १२५

परिवलइञ्च. त्रि० (परिवलयित) वेष्टित Encompassed, encircled सुख० १०, १

परिवसणा. स्त्री० (परिवसना) पर्युपणा-पूर्व A holiday of Palyushana निसी० चू० १०

परिवहण न० (परिवहन) ढोना Carry, bear, convey. गउड०

परिवाह त्रि० (परिवादिन्) निन्दा करने वाला Consuer, abuser उव०

परिवाइय. त्रि० ( परिवाचिन ) पढा हुआ  
 Learned पउम० ३७, १२  
 परिवाई स्त्री० ( परिवादिनी ) कलङ्क वार्ता  
 Blame, stain, stigma 'जणपरिवाई  
 लहु' पउम० ६२, ४१  
 परिवाडि स्त्री० ( परिपाटि ) सूत्रार्थ-वाचना,  
 अध्यापन. Teaching 'थिरपरिवाडी गहि-  
 यवको' धर्मवि० ३६, कुलक० ११  
 परिवाडिअ. त्रि० ( घटित ) रचित A-  
 ranged कुमा०  
 परिवाद पु० ( परिवाद ) निन्दा, दोष-कीर्तन  
 Censure, abuse. धर्मस० ६२४  
 परिवायग-य पु० ( परिव्राजक ) सन्यासी,  
 साधु Saint, ascetic सण०सुर० १२, २  
 परिवार न० ( परिवार ) म्यान Sheath,  
 scabbard पात्र०  
 परिवारण न० ( परिवारण ) आच्छादन, ढकना.  
 Cover, a lid दे० १, ६६  
 परिवास न० ( परिवासस् ) वस्त्र, कपडा  
 Garment, clothing or clothes  
 भवि०  
 परिवासि त्रि० ( परिवासिन् ) बसने वाला  
 One that dwells, inhabitant  
 सुपा० ४२  
 परिवसिय त्रि० ( परिवसित ) सुवासित,  
 सुगन्ध-युक्त Fragrant, perfumed,  
 scented 'भयपरिमलपरिवसियदूरे' भवि०  
 परिवाह पु० ( परिवाह ) जल का उछाल, बहाव  
 Over-flowing of water, inunda-  
 tion 'परिवाहो विअ' गा० ३७७  
 परिवाहण न० ( परिवाहन ) अश्वदि-खेलन  
 Horse riding etc 'आसपरिवाहणनि-  
 मित्त' स० ६१, महा०  
 परिविट्ठ त्रि० ( परिविट्ठ ) परोसा हुआ  
 Served diet स० १८६, सुपा० ६२३  
 परिविद्ध. त्रि० ( परिविद्ध ) जो विधा गया

हो Pierced through, wounded,  
 stabbed सुपा० २७०.  
 परिविष्फुरिय. त्रि० ( परिविष्फुरित ) स्फूर्ति-  
 युक्त Tremulous, quivering, सण०  
 परिवियलिय त्रि० ( परिविगलित ) चुआ हुआ,  
 टपका हुआ Trickled, oozed सण०  
 परिवियलिर त्रि० ( परिविगलितु ) झरने  
 वाला, चूने वाला Trickling, oozing-  
 सण  
 परिविरल त्रि० ( परिविरल ) विशेष विरल.  
 Rare, scarcely found, uncom-  
 mon गउड० गा० ३२६  
 परिविलसिर त्रि० ( परिविलसितु ) विलासी.  
 Sensual, amorous, voluptuous.  
 सण  
 परिविसाय. पु० ( परिविपाद ) समन्तात् खेद.  
 Grief or sorrow धर्मवि० १२६  
 परिविहुरिय त्रि० ( परिविधुरित ) अति पीडित.  
 Extremely distressed or afflicted.  
 'मणिसजुयदेविकरपरिविहुरिआ' सुर० १२, १२.  
 परिवीइअ त्रि० ( परिवीजित ) जिसको हवा की  
 गई हो One who is fanned उप०  
 २११ टी  
 परिवीठ न० ( परिपीठ ) आसन विशेष A  
 special sitting posture, a seat.  
 भवि  
 परिवुत्थ त्रि० ( पर्युपित ) (१) रखा हुआ.  
 Situated (२) न० वास, निवास  
 Dwelling गउड० २४०  
 परिवूढ त्रि० ( परिव्यूढ ) वहन किया हुआ,  
 ढोया हुआ. Borne, carried 'चिरपरिवूढ  
 इम लोह' धर्मवि० ७  
 परिवेढ पु० ( परिवेढ ) वेढन, घेरा En-  
 closing, surrounding. 'सेवापरसुहड-  
 परिवेढ' सिरि० ६३८  
 परिवेढाविय. त्रि० ( परिवेढित ) वेढित कराया

हुआ Surrounded encircled पि०  
३०४

परिवेष्टित, त्रि० ( परिवेष्टित् ) कम्पन शील  
Trembling, tremulous गडड०

परिवेष्टि, त्रि० ( परिवेष्टिन् ) समीप में रहने  
वाला, Neighbour गडड

परिवेष्टि त्रि० ( परिवेष्टित् ) परिवेष्टित Sur-  
rounded, encompassed 'तारापरि-  
व्वञ्जोवि' वसु०

परिवेष्टि त्रि० ( परिवेष्टिन् ) विशेष व्यय Cost  
much नाट-मूच्छु० ७

परिवेष्टि, पु० ( परिवेष्टिन् ) खर्चा, खर्च करने का  
धन Money for current expenses  
दस० ३, १ टी.

परिसग, पु० ( परिपङ्ग ) सग, सोहवत  
Company हमीर० १६

परिसग पु० ( परिपङ्ग ) आलिङ्गन An  
embrace पडम० २१, ५२

परिसगय त्रि० ( परिसगत ) युक्त-सहित  
With, along with, accompanied  
by धर्मवि० १३

परिसथयि त्रि० ( परिसस्थापित ) आश्वासित  
Consoled encouraged स० ५६६

परिसङ्ग, न० ( परिपङ्कण ) परिभ्रमण  
Wandering, loaming. से० ५,  
५५, १३, ५६, सुपा० २०१

परिसङ्गि त्रि० ( परिपङ्कित ) (१) गत.  
Gone भवि० (२) न० परिक्रमण, परिभ्रमण  
Wandering, travelling गा० ६०६

परिसुह त्रि० ( परिश्लक्ष्ण ) सूक्ष्म, छोटा  
Subtle, minute, atomic से० १, १.

परिसन्न त्रि० ( परिपण ) जो हैरान हुआ हो,  
पीडित Afflicted, distressed पडम०  
१७, ३०.

परिसमत्त त्रि० ( परिसमाप्त ) सपूर्ण, जो पूरा  
हुआ हो Finished, completed से०

१५, ३५, सुर० १५, २५०.

परिसमाप्ति, स्त्री० ( परिसमाप्ति ) समाप्ति,  
पूर्णता Finishing, completion  
उप० ३५७, स० ५२

परिसर पु० ( परिसर ) नगर आदि के समीप  
का स्थान A neighbouring place  
of a town etc सुपा० १३०, मोह० ७६.  
परिसह्यि त्रि० ( परिशह्यित ) शल्य युक्त.  
Thorny सण०

परिसाडणा स्त्री० ( परिशाटना ) (१) पृथकरण.  
Analysis. सूयनि० ७, २० (२) वपन,  
बोना Sowing वव० १

परिसाम त्रि० ( परिश्याम ) कृष्ण, काला  
Black, dark गडड०

परिसामल त्रि० ( परिश्यामल ) कृष्ण, काला.  
Black, dark गडड०

परिसामि त्रि० ( शान्त ) शान्त, शम-युक्त.  
Calm, quiet, tranquil कुमा०

परिसाहिय त्रि० ( परिकथित ) प्रतिपादित,  
उक्त Explained, expounded सण०

परिसिद्धिल त्रि० ( परिशिथिल ) विशेष शिथिल,  
ढीला Loose, Relaxed गडड०

परिसिक्त त्रि० ( परिपिक्त ) सींचा हुआ.  
Watered, sprinkled गा० १८५,  
सण०

परिसिङ्ग त्रि० ( पर्यद्वत् ) परिषद् वाला.  
Having an assembly बृह० ३

परिसीलण न० ( परिशीलन ) अभ्यास, आदत्त.  
Practice, habit, constant con-  
tact, रमा० सण०

परिसीलिय त्रि० ( परिशीलित ) अभ्यस्त.  
Practised सण०

परिसुत्त त्रि० ( परिसुप्त ) सर्वथा सोचा हुआ.  
Slept नाट-उत्तर० २३

परिसुद्धि स्त्री० ( परिसुद्धि ) विशुद्धि, निर्मलता  
Complete purification गडड० ३०६५

परिसूत्राणा स्त्री० (परिसूचना) सूचना Hint, information सुपा० ३०

परिसेस पु० (परिशेष) अनुमान प्रमाण का एक भेद, परिशेष्य अनुमान Termination, conclusion धर्मसं० ६८, ६९

परिसेसिञ्च त्रि० (परिशेषित) (१) बाकी बचा हुआ. Remaining (२) परिच्छिन्न, निर्णित Determined, ascertained 'तहवि परिसेसिञ्चो' गा० ४०१

परिसेह पु० (परिवेध) प्रतिषेध, निवारण Prohibition 'पावट्टाणाण्य जोड परिसेहो' काल०

परिसोण त्रि० (परिशोण) लाल रंग का Red गडड०

परिसोसण. न० (परिशोषण) सुखाना Drying गा० ६२८

परिस्सावि त्रि० (परिस्राविन्) (१) चूने वाला, टपकने वाला Oozing, trickling (२) गुप्त बात को प्रकट कर देने वाला One who discloses a secret or mysterly गच्छ० १, २२, पचा० १५, १४

परिस्सावि त्रि० (परिश्राविन्) सुनाने वाला One who tells or narrates द्रव्य० ४६

परिहट्टण न० (परिवट्टन) (१) अभिघात, आघात, A blow से० १०, ४१ (२) घर्षण, घिसना To rub से० ८, ४३.

परिहट्टिञ्च त्रि० (मृदित) जिसका मर्दन किया गया हो. Pressed, crushed 'परिहट्टिञ्चो माणो' कुमा० पात्र०

परिहरण न० (परिधरण) धारण करना Holding वच० १

परिहरिञ्च त्रि० (परिधृत) धारण किया हुआ. Held 'परिहरिञ्चकण्यकु डलगडस्थलमण्यहरेसु' गा० ३६८ अ०

परिहव पु० (परिभव) पराभव, तिरस्कार

Disrespect, degradation. से० १३, ४६, गा० ३६६, हे० ३, १८०.

परिहवण. न० (परिभवन) देखो 'परिहव' शब्द Vide 'परिहव' स० २७२

परिहविय त्रि० (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत Contempered, insulted उप०, पृ० १८०

परिहस्स त्रि० (परिहस्व) अत्यन्त लघु. Atomic, minute स० ८.

परिहार. पु० (परिहार) करण, कृत Creation, work, composition वच० १.

परिहार पु० (परिहार) विषय An object of sense वच० १

परिहारि त्रि० (परिहारिन्) परिहार करने वाला. One who abandones or leaves बृह० ४

परिहाविञ्च त्रि० (परिहापित) हीन किया हुआ Lessened वच० ४

परिहाविञ्च. त्रि० (परिधापित) पहिराया हुआ Caused to wear or put on. महा० सुर० १०, १७, स० ५२६, कुम० ६

परिहासणा स्त्री० (परिभाषणा) उपात्तम्भ. Abuse, taunt, reproof आप० १

परिहिडिय त्रि० (परिहिडित) परिभ्रान्त, भटका हुआ Roamed, wandered. पठम० ६, १३१

परिहुत त्रि० (परिभुक्त) जिसका भोग किया गया हो Enjoyed से० १, ६४, दे० ३६.

परिहुञ्च त्रि० (परिभूत) पराजित, अभिभूत. Defeated गा० १३४, पठम० ३, १, स० २८

परीघाय पु० (परिघात) निर्घातन, विनाश. Destruction, ruin प्रच० ६४

परीरम पु० (परिरम्भ) आलिगन An embrace कुमा०

परीवज्ज त्रि० (परिवर्ज्य) वर्जनीय To be

avoided or shunned क०गं० ६, ६, टी  
 परीसण. न० (परिवेषण) परीसना. To  
 serve food. दे० २, १४  
 परुइय. त्रि० (परुदित) जो रोने लगा हो.  
 Weeping स० ७२२  
 परुवग त्रि० (परुपक) प्रतिपादक Ex-  
 plaining, Illustrating उव० कुप्र०  
 १२१  
 परुविअ त्रि० (परुपित) प्रकाशित Cleared  
 or displayed, manifested, pub-  
 lished 'उत्तमकचयरयणपरुविअभासुरभू-  
 सयामासुरिअगा' अत्रि० २३  
 परेण. अ० (परेण) बाद. अनन्तर After-  
 wards महा०  
 परोक्क न० (परोक्) पीछी, आखों की ओट  
 में Afterwards 'मम परोक्के किं' महा०  
 परोवआर पु० (परोपकार) दूसरे की भलाई  
 Doing good to others, benevo-  
 lence नाट—मृच्छ० १६८  
 परोवयारि त्रि० (परोपकारिन्) दूसरे की  
 भलाई करने वाला. One who does  
 good to others, benevolent  
 पडम० २०, १.  
 परोह पु० (प्ररोह) (१) उत्पत्ति Production  
 (२) वृद्धि Growth कुमा० (३)  
 अकुट, बीजोद्भेद Germination 'परोहे  
 रेहइ' धर्मवि० १६८, हे० १, ४४.  
 पल. न० (पल) मांस Flesh, meat  
 कुप्र० १२६  
 पलड पु० (पलगण्ड) राज, चूना पोतने  
 वाला कारीगर Plasterer, mason  
 'पलगडे पलडो' प्राकृ० ३०  
 पलव पु० न० (प्रलव) (१) एक तरह का  
 धान का कोठा Granary वृह० २ (२)  
 मूल Root कस० वृह० १  
 पलवज पु० (प्लव) पीपल का पेड़ A

particular tree कुमा० पि० १३०.  
 पलत्त त्रि० (प्रलपित) (१) कथित, उक्त,  
 प्रलाप-युक्त Said, told सुपा० ११४,  
 से० ११, ७६ (२) प्रलाप, कथन. Talk,  
 discourse  
 पलय पु० (प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्तकाल.  
 The time of universal destruc-  
 tion (२) जगत् का अपने कारण में लय.  
 The destruction of the whole  
 world से० २, २ पडम० ७०, ३१ (३) विनाश  
 Destruction 'जायवजाहपलपु' ती० ३.  
 (४) चैष्टा-ह्य Loss of consciousness  
 (५) छिपना. Hiding हे० १, १८७  
 —क पु० (अर्क) प्रलय काल का सूर्य.  
 The sun at the time of univer-  
 sal destruction पडम० ७०, ३१.  
 —घण पु० (घन) प्रलय का मेघ A cloud  
 at the dissolution of the world  
 सण०  
 पलल न० (पलल) माँस Flesh, meat  
 कुप्र० १२०.  
 पलवण न० (प्लवन) उछलना, उच्छलन.  
 Jumping, leaping 'पलवण आक-  
 वघाओ' ओच० ३४८  
 पलविर त्रि० (प्रलपितृ) बकवादी Loqua-  
 cious, talkative दे० ७, २६  
 पलहुअ त्रि० (प्रलघुक) स्वल्प, थोडा A  
 little छोटा Small. से० ११, १३  
 गड०  
 पलाणिअ. त्रि० (पलायनित) जिसने पलायन  
 किया हो, भागा हुआ. Fled, retreated,  
 run-away 'पलाणिओ दूर' सुपा० ४६४.  
 पलात. त्रि० (प्रलात) गृहीत. Taken. चड०  
 पलाव पु० (प्लाव) पानी की बाढ़  
 Inundation, an overflow of  
 water तद्० २० टी

परिसूत्रणा. स्त्री० (परिसूचना) सूचना Hint, information. सुपा० ३०  
 परिसेस पु० (परिशेष) अनुमान प्रमाण का एक भेद, परिशेष्य अनुमान Termination, conclusion धर्मसं० ६८, ६९  
 परिसेसिअ त्रि० (परिशेषित) (१) बाकी बचा हुआ Remaining (२) परिच्छिन्न, निर्णीत Determined, ascertained 'तहवि परिसेसिअ' गा० ४०१  
 परिसेह. पु० (परिषेध) प्रतिषेध, निवारण Prohibition 'पावट्याण्यण जोड परिसेहो' काल०  
 परिसोण त्रि० (परिशोण) लाल रंग का Red गडड०  
 परिसोसण. न० (परिशोषण) सुखाना Drying गा० ६२८  
 परिस्सावि त्रि० (परिस्साविन्) (१) चूने वाला, टपकने वाला Oozing, trickling (२) गुप्त बात को प्रकट कर देने वाला One who discloses a secret or mysterly गच्छ० १, २२, पचा० १२, १४  
 परिस्सावि त्रि० (परिस्साविन्) सुनाने वाला One who tells or narrates द्रव्य० ४२  
 परिहृण न० (परिघटन) (१) अभिघात, आघात, A blow से० १०, ४१ (२) घर्षण, घिसना To rub. से० ८, ४३.  
 परिहृष्टिअ त्रि० (मृदित) जिसका मर्दन किया गया हो Pressed, crushed 'परिहृष्टिअो माणो' कुमा० पाञ्च०  
 परिहरण न० (परिहरण) धारण करना Holding वच० १  
 परिहृरिअ त्रि० (परिघृत) धारण किया हुआ Held 'परिहरिअकणअकु डलगडस्थलमणहरेसु' गा० ३६८ अ०  
 परिह्व पु० (परिभव) पराभव, तिरस्कार.

Disrespect, degradation से० १३, ४६, गा० ३६६, हे० ३, १८०.  
 परिह्वण. न० (परिभवन) देखो 'परिह्व' शब्द Vide 'परिह्व' स० २७२  
 परिह्विय त्रि० (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत Contempered, insulted उप०, पु० १८०  
 परिह्वस्स त्रि० (परिह्वस्व) अत्यन्त लघु. Atomic, minute स० ८.  
 परिहार. पु० (परिहार) करण, कृत Creation, work, composition वच० १.  
 परिहार पु० (परिहार) विषय An object of sense वच० १  
 परिहारि त्रि० (परिहारिन्) परिहार करने वाला. One who abandones or leaves वृह० ४  
 परिहाविअ त्रि० (परिहापित) हीन किया हुआ Lessened वच० ४  
 परिहाविअ. त्रि० (परिहापित) पहिराया हुआ Caused to wear or put on महा० सुर० १०, १७, स० २२६, कुम० ६  
 परिहासणा स्त्री० (परिभाषणा) उपालम्भ. Abuse, taunt, 1eproof. आप० १  
 परिहिडिय त्रि० (परिहिडित) परिभ्रान्त, भटका हुआ Roamed, wandered. पठम० ६, १३१  
 परिहुत त्रि० (परिभुक्त) जिसका भोग किया गया हो Enjoyed से० १, ६४, दे० ३६.  
 परिहुअ त्रि० (परिभूत) पराजित, अभिभूत. Defeated गा० १३४, पठम० ३, ६, स० २८  
 परीघाय पु० (परिघात) निर्घातन, विनाश Destruction, ruin प्रव० ६४  
 परीरम पु० (परिरम्भ) आलिङ्गन An embrace कुमा०  
 परीवज्ज त्रि० (परिवर्ज्य) वर्जनीय To be



avoided or shunned क०गं० ६, ६, टी  
 परीसण, न० (परिवेषण) परोसना. To  
 serve food. दे० २, १४  
 परुइय त्रि० (परुदित) जो रोने लगा हो.  
 Weeping स० ७२२  
 परूवण त्रि० (परूपक) प्रतिपादक Ex-  
 plaining, Illustrating उव० कुप्र०  
 १८१  
 परूविअ त्रि० (परुपित) प्रकाशित Cleared  
 or displayed, manifested, pub-  
 lished 'उत्तमकचणारयणपरूविअभासुरभू-  
 सणभासुरिअगा' अजि० २३  
 परेण अ० (परेण) बाद, अनन्तर After-  
 wards महा०  
 परोक्ख न० (परोक्) पीछी, आखों की ओट  
 में Afterwards 'मम परोक्खे कि' महा०  
 परोवआरि पु० (परोपकार) दूसरे की भलाई  
 Doing good to others, benevo-  
 lence नाट—मूच्छ० १६८  
 परोवयारि त्रि० (परोपकारिन्) दूसरे की  
 भलाई करने वाला. One who does  
 good to others, benevolent  
 पउम० २०, १  
 परोह पु० (प्ररोह) (१) उत्पत्ति Produc-  
 tion (२) वृद्धि Growth कुमा० (३)  
 अक्र, बीजोद्भेद Germination 'परोहे  
 रेह' धर्मवि० १६८, हे० १, ४४.  
 पल. न० (पल) मांस Flesh, meat  
 कुप्र० १८६  
 पलड पु० (पलगण्ड) राज, चूना पोतने  
 वाला कारीगर Plasterer, mason  
 'पलगडे पलडो' प्राकृ० ३०  
 पलंय पु० न० (पलम्ब) (१) एक तरह का  
 धान का कोठ. Granary वृह० २ (२)  
 मूल Root कस० वृह० १  
 पलम्ब पु० (पल्ल) पीपल का पेड़ A

particular tree कुमा० पि० १३२  
 पलत्त त्रि० (प्रलपित) (१) कथित, उक्त,  
 प्रलाप-युक्त Said, told सुपा० ११४,  
 से० ११, ७६ (२) प्रलाप, कथन, Talk,  
 discourse  
 पलय पु० (प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्तकाल.  
 The time of universal destruc-  
 tion (२) जगत् का अपने कारण में लय.  
 The destruction of the whole  
 world से० २, २ पउम० ७२, ३१ (३) विनाश  
 Destruction 'जायवजाइपलय' ती० ३.  
 (४) चेष्टा-क्षय Loss of consciousness  
 (५) छिपना, Hiding हे० १, १८७  
 —क पु० (अर्क) प्रलय काल का सूर्य.  
 The sun at the time of univer-  
 sal destruction पउम० ७२, ३१.  
 —घण पु० (घन) प्रलय का मेघ A cloud  
 at the dissolution of the world  
 सण०  
 पलल. न० (पलल) माँस Flesh, meat  
 कुप्र० १८७  
 पलवण न० (पलवन) उछलना, उच्छलन  
 Jumping, leaping 'पलवण आऊ  
 वधाओ' ओच० ३४८  
 पलविर त्रि० (प्रलपितु) चकवादी Loqua-  
 cious, talkative दे० ७, २६  
 पलहुअ त्रि० (प्रलयुक्त) स्वल्प, थोड़ा A  
 little छोटा Small, से० ११, १३  
 गउड०  
 पलायिअ. त्रि० (पलायनित) जिसने पलायन  
 किया हो, भागा हुआ. Fled, retreated,  
 run-away 'पलायिओ दूर' सुपा० ४६४  
 पलात त्रि० (प्रलात) गृहीत Taken, चढ०  
 पलाव पु० (प्लाव) पानी की बाढ़  
 Inundation, an overflow of  
 water तदु० २० टी

पलाचण न० ( नाशन ) नष्ट करना  
 Destroying, ruining, कुमा०.  
 पलाचिञ्च त्रि० ( प्लावित ) डुबोया हुआ,  
 भिगाया हुआ Moistened, wetted सुर०  
 १३, २०४, कुम० ६०, ६७, सण०.  
 पलाचिञ्च ( प्रज्ञापित ) अनर्थक घोषित करवाया  
 हुआ. Caused to proclaim non-  
 sensically भवि०  
 पलाविर त्रि० ( प्रलपितृ ) बकवाद करने  
 वाला A chatterer, babbler  
 'असबद्धपलाविरस्त' सुपा० २०१, 'एलो एव  
 पलाविरो' सुपा० २७७  
 पलिञ्च न० ( पलित ) भूरा Grey (१) ताप  
 Heat (२) पक्क, काला Mud, mire (३)  
 शिथिल Loose (४) वृद्ध, बूढ़ा Old,  
 aged. हे० १, २११ (५) पका हुआ, पक्क.  
 Ripened धर्म० २, निसी० चू० १५ (६)  
 जरा प्रस्त Decrepitude राज०  
 पलिउचि त्रि० ( परिकुञ्चित् ) मायावी, कपटी  
 Deceitful, Fraudulent बव० १  
 पलिउचिय त्रि० ( परिकुञ्चित ) (१) वञ्चित  
 Deceived, cheated (२) माया,  
 कृद्विज्ञता Deceit, fraud, trick बव०  
 १ (३) गुरु-वन्दन का एक दोष, पूरा वन्दन  
 किये वगैरे ही गुरु के साथ बातें करने लग  
 जाना A fault in the salutations  
 of a preceptor प्रव० २  
 पलिञ्चोच्छ्रित त्रि० ( पर्यवच्छिन्न ) देखो  
 'पलिञ्चोच्छ्रित' शब्द Vide 'पलिञ्चोच्छ्रित'  
 पि० २१७  
 पलिभाग पु० ( प्रतिभाग ) सादृश्य, समानता.  
 Similarity, likeness राज०  
 पलिभेय पु० ( परिभेद ) चूरना. Leviga-  
 ting, pounding निसी० चू० ५  
 पलिमथ पु० ( परिमन्थ ) सुस्त Slow,  
 dull. सुधा व्यापार, व्यर्थ-क्रिया Fruit-

less deed श्रावक० १०६, ११२  
 पलिमथग. पु० ( परिमन्थक ) विलम्ब  
 Tardiness, delay, procrastina-  
 tion राज०  
 पलिमद् त्रि० ( परिमर्द ) मालिश करने वाला.  
 Smearing निसी० चू० ६  
 पलियचण. न० ( पर्यन्चन ) परिभ्रमण  
 Wandering, travelling सुर० ७,  
 २४३  
 पलिविञ्च. त्रि० ( प्रदीपित ) जलाया हुआ  
 Set on fire, inflamed पङ्० हे० १,  
 १०१  
 पलीण त्रि० ( प्रलीन ) (१) प्रलय-प्राप्त  
 Destroyed सुर० ४, १२४ (२) छिपा  
 हुआ, विलीन Hidden सुर० ६, २८,  
 पलीच पु० ( प्रदीप ) दीपक, दिया Lamp.  
 प्राक० १२, पङ्०  
 पलीविञ्च. त्रि० ( प्रदीप्त ) प्रज्वलित  
 Inflamed, kindled पाञ्च०  
 पलीविञ्च त्रि० ( प्रदीपित ) जलाया हुआ  
 Lighted, inflamed उव०  
 पलुद्द त्रि० ( प्रलुडित ) लेटा हुआ Lying  
 on its sides दे० १, ११६  
 पलुद्द त्रि० ( प्लुट ) दग्ध, जला हुआ  
 Scorched, burnt सुर० ६, २०६,  
 सुपा० ४  
 पलेव पु० ( प्रलेप ) एक जाति का पत्थर,  
 पापाण विशेष A kind of stone  
 जी० ३  
 पलोद्द त्रि० ( प्रलोकित ) देखा हुआ. Seen  
 गा० ११८, महा०  
 पलोद्द त्रि० ( प्रलोकितृ ) श्रेयक A  
 spectator, looker on गा० १८०,  
 भवि०  
 पलोद्द त्रि० ( पर्यस्त ) (१) क्षिप्त, फेंका हुआ  
 Thrown. (२) हत. Killed. (३) विनिष्ट

Disturbed हे० ४, २२८ ( ४ ) पतित, गिरा हुआ Fallen गा० १७० ( १ ) प्रवृत्त Engaged in 'तत्रो पलोद्दण जवा' कुमा० पलोद्दण न० ( पलोद्दण ) कुलकाना, गिराना Rolling उप० पृ० ११०  
 पलोभविश्र. त्रि० ( प्रलोभित ) लुभाया हुआ Allured, tempted धर्मवि० ११२  
 पलोभि त्रि० ( प्रलोभिन् ) विशेष लोभी Greedy, covetous धर्मवि० ७  
 पल्लक पु० ( पल्लक ) शाक विशेष, कन्द-विशेष A kind of vegetable आ० २०, जी० ६, प्रव० ४, सबोध० ४४  
 पल्लव पु० ( परिवर्त ) काल-विशेष, अनन्त काल चक्रों का समय A period, lapse or expiration of time धण० ४७.  
 पल्लव पु० ( पल्लव ) ( १ ) देश विशेष A particular country सवि० ( २ ) विस्तार Extension, expansion कप्प०  
 पल्लविल्ल त्रि० ( पल्लववत् ) पल्लव-युक्त Sprouting, having young shoots. सुपा० २, धण० २४  
 पल्लाण न० ( पर्याण ) अश्व आदि का साज Saddle 'किं करयो पल्लाण' प्रवि० १७, प्राप्र०  
 पल्लाणिअ. त्रि० ( पर्याणित ) पर्याण युक्त Saddled कुमा०  
 पल्लहत्थण. न० ( पर्यसन ) फेंक देना, प्रक्षेपण Throwing 'भुवणपल्लहत्थणपवणो' मोह० ६२.  
 पल्लहत्थाविय त्रि० ( विरेचित ) बाहर निकला हुआ, Purged, evacuated कुमा०  
 पल्लहाय पु० ( प्रह्लाद ) ( १ ) हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का पुत्र. Name of a son of the Demon Hiranya-kasipu हे० २, ७६. ( २ ) आठवा प्रतिवासुदेव राजा

Eight Prativasudeo पउम० ५, १२६.  
 ( ३ ) एक विद्याधर नरेश A Vidyadhar king. पउम० १२, ५.  
 पल्लहायण. त्रि० ( प्रह्लादन ) ( १ ) आनन्द-दायक. Gladdening, delighting. सुपा० २०७ ( २ ) पु० रावण का एक सुभट A warrior of Ravana पउम० २६, ३६.  
 पल्लह्यीय पु० व० ( प्रह्लीक ) देश विशेष A particular country पउम० ६८, ६६  
 पव पु० ( प्लव ) ( १ ) पूर Inundation, flood कुमा० ( २ ) उच्छलन, कूटना Leaping, jumping ( ३ ) तरण, तैरना Swimming ( ४ ) भेक, मेंढक Frog. ( ५ ) वानर, वकरो Monkey ( ६ ) चाण्डाल, डोम An outcast, a man of a low tribe. ( ७ ) जल-काक The diver-bird. ( ८ ) पाकुड का पेड़ A kind of tree ( ९ ) कारण्डव पक्षी The Karandava bird ( १० ) शब्द, आवाज Sound ( ११ ) रिपु, दुश्मन Enemy. ( १२ ) भेय, मेंढा Goat. ( १३ ) जल-कुष्ठ Water-fowl ( १४ ) जल, पानी Water ( १५ ) जलचर पक्षी Water-bird ( १६ ) नौका, नाव Raft, canoe. हे० २, १०६  
 पवग पु० ( प्लवङ्ग ) ( १ ) वानर Monkey से० २, ४६ ४, ४७ ( २ ) वानर वशीय मनुष्य A man of Vanar race. —नाह पु० ( नाथ ) वानर वशीय राजा, बाली Name of a celebrated monkey chief पउम० ६, २६. —वह. पु० ( पति ) वानर-राजा A king of monkeys पि० ३७६  
 पवगम पु० ( प्लवङ्गम ) छन्द-विशेष A kind of metre. पि०  
 पवंचिअ त्रि० ( प्रपञ्चित ) विस्तारित

Expanded, amplified आ० १४, कुप्र० ११८  
 पवज्जण न० ( प्रपदन ) स्वीकार, अगीकार.  
 Acceptance स० २७१, पचा० १८, ८  
 आचक० १११  
 पवज्जिय त्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अगीकृत  
 Accepted. धर्मवि० २३, कुप्र० २६२,  
 सुपा० ४०७.  
 पवज्जिय (पवादित) वजाया हुआ Triumpe-  
 ted, blown स० ७६२  
 पवट्ट त्रि० ( प्रवृत्त ) जिसने प्रवृत्ति की हो  
 Begun, commenced, proceeded  
 with पङ्० हे० २, २६ टि  
 पवट्टय त्रि० ( प्रवर्तक ) प्रवृत्ति कराने वाला  
 Prompting, inducing, instiga-  
 ting राज०  
 पवट्टि स्त्री० ( प्रवृत्ति ) प्रवर्तन Commence-  
 ment हम्मीर० १२  
 पवट्टिअ त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ  
 Prompted, induced भवि० दे०  
 पवड्ढ त्रि० ( प्रवृद्ध ) बढ़ा हुआ full-  
 grown, increased अज्ज० ७०  
 पवड्ढिय त्रि० ( प्रवर्धित ) बढ़ाया हुआ  
 Increased, augmented भवि०  
 पवण त्रि० ( प्रवण ) तत्पर Closely  
 intent on, exclusively devoted  
 to. कुप्र० १३४ (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ,  
 Healthy 'पवणो पुञ्ज' उप० २६७ टी,  
 कुप्र० ४१८  
 पवण पु० ( पवन ) हनुमान का पिता The  
 father of Hanumat से० १, ४८.  
 —तणय पु० ( तनय ) हनुमान An  
 epithet of Hanumat से० १, ४८  
 —णदण, न० ( नन्दन ) हनुमान An epi-  
 thet of Hanumat पञ्ज० १६, २७  
 सम्मत० १२३. —पुत्त पु० ( पुत्र ) हनुमान

An epithet of Hanumat पञ्ज०  
 २२, २८  
 पवणजय पु० ( पवनजय ) हनुमान का पिता.  
 The father of Hanumat पञ्ज०  
 १५, ६ (२) एक श्रेष्ठ पुत्र A son of a  
 Sahukal कुप्र० ३७७  
 पवणगइ पु० ( पवनगति ) (१) हनुमानका पिता.  
 The father of Hanumat पञ्ज०  
 १२, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मदर का  
 पुत्र A son of the king of Vanara  
 Dvipa पञ्ज० ६, ६८  
 पवणवेग पु० ( पवनवेग ) (१) हनुमान का  
 पिता The father of Hanumat.  
 पञ्ज० १५, ६५. (२) एक जैन मुनि A  
 Jaina saint पञ्ज० २०, १६०  
 पवणिय त्रि० ( प्रवणित ) स्वस्थ किया हुआ,  
 तदुरस्त किया हुआ, Cured, heald उप०  
 ७६८ टी  
 पवन्न त्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अगीकृत Ac-  
 cepted चेद्वय० ११२, प्रालू० २१  
 पवमाण पु० ( पवमान ) पवन, वायु The  
 wind कुप्र० ४४४, सुपा० ८६  
 पवय पु० ( प्लवग ) वानर, कपि Monkey-  
 पञ्ज० ६५, ५०, हे० ४, २२०, पाथ० से० २,  
 ३७, १५, १७ —अहिव पु० ( अधिप )  
 वानरों का राजा, सुग्रीव. Name of a  
 monkey chief से० २, ४०, १२, ७०.  
 —वइ पु० ( पति ) वही पूर्वोक्त अर्थ A  
 king of monkeys, Sugriva से० २,  
 ४०, १२, ७०  
 पवयण. पु० ( प्राजन ) कोड़ा, चाबुक Whip,  
 a goad दे० २, ६७  
 पवयण न० ( प्रवचन ) जैन सच Jaina  
 Sangha 'पवयण तित्थ' पचा० ८, ३६,  
 विश्व० १११०, उप० ४०३ टी.  
 पवसण न० ( प्रवसन ) प्रवास, निदेश-यात्रा,

सुसाफिरी Travelling, going on a journey स० १६६, उप० १०३१ टी  
 पवसिञ्ज. त्रि० (प्रोपित) प्रवास में गया हुआ  
 Gone abroad on a journey गा०  
 ४५, न३०, सुर० ५, २११, सुपा० ४७३  
 पवह. पु० (प्रवाह) (१) प्रवृत्ति Com-  
 mencement (२) व्यवहार Trans-  
 action, dealing (३) उत्तम अथ  
 An excellent horse हे० १, ६८. (४)  
 प्रभाव Appearance, dignity राज०  
 पवहण न० (प्रवहण) गादी आदि वाहन A  
 carriage, a vehicle in general  
 बसु० चार० ७०  
 पवहाविञ्ज. त्रि० (प्रवाहित) बहाया हुआ  
 Caused to flow भवि०  
 पवाइञ्ज त्रि० (प्रवात) बहा हुआ (वायु)  
 Blown 'पवाइया कलबवाया' स० ६८६,  
 पउम० ५७, २७ स० ३६  
 पवाय पु० (प्रवाद) (१) किवदन्ती, जन-श्रुति  
 Rumour, popular saying or be-  
 lief सुपा० ३००, उप० पू० २६ (२) मत,  
 दर्शन A doctrine or theory pre-  
 scribed in a system  
 पवाय पु० (प्रपात) Cliff, waterfall,  
 bank or to face an enemy (१)  
 तट-रहित निराधार पर्वत-स्थान A barren  
 mountaneous region or place  
 (२) रात में पडने वाली धाड. A sudden  
 attack during the night time  
 राज०  
 पवायण न० (प्रवाचन) प्रपठन, अध्ययन  
 Learning, studying, perusing.  
 सम्पत्त० ११७  
 पवायणा स्त्री० (प्रवाचना) देखो 'पवायण'  
 शब्द Vide 'पवायण' विशेष० २८३५  
 पवालिञ्ज त्रि० (प्रपालित) जो पालने लगा हो

Protected, guarded. उप० ७२८ टी  
 पवासि-पवासु त्रि० (प्रवासिन्) सुसाफिर  
 A traveller गा० ६८, पड्० पि० ११८,  
 हे० ४, ३६५  
 पवाहण न० (प्रवाहन) (१) जल, पानी  
 Water आवम० (२) बहाना, बहन कराना.  
 Causing to flow चेइय० ५२३  
 पवि. पु० (पवि) वज्र, इन्द्र का अस्त्र-विशेष  
 The thunderbolt of India उप०  
 २११ टी, सुपा० ४६७, कुमा० धर्मवि० ८०  
 पविञ्जभिञ्ज त्रि० (प्रविवृम्भित) प्रोल्लसित,  
 समुत्पन्न. Produced. गा० ५३६ अ०  
 पविकसिय त्रि० (प्रविकसित) प्रकर्ष से  
 विकसित Fully opened or expand-  
 ed राज०  
 पविक्खिञ्ज त्रि० (प्रवीक्षित) निरीक्षित, अव-  
 लोकित Observed, inspected स०  
 ७४६  
 पविञ्ज पु० (पविञ्ज) दर्भ, तुण्ड-विशेष A  
 kind of grass दे० ६, १४  
 पविञ्जाविय त्रि० (प्रवर्तित) प्रवृत्त किया हुआ.  
 Engaged in भवि०  
 पविञ्जारि त्रि० (प्रविस्तारिन्) फैलाने वाला.  
 Spreading गडड०  
 पविभाग पु० (प्रविभाग) पृथग २ विभाग  
 Division विशेष० १६४२.  
 पविमुक्क त्रि० (प्रविमुक्त) परित्यक्त Aban-  
 doned सुर० ३, १३६  
 पवियभिर त्रि० (प्रविवृम्भित) उल्लसित  
 होने वाला Delighting  
 (२) उत्पन्न होने वाला Producing सण०  
 पवियारणा स्त्री० (प्रविचारणा) काम-क्रीडा,  
 मैथुन Coition, sexual intercourse.  
 देवेन्द्र० ३४७  
 पविरजिञ्ज त्रि० (भग्न) तोड़ा हुआ Broken-  
 कुमा० दे० ६, ७४

पवित्रिक त्रि० ( प्रवित्रिक ) एकदम शून्य,  
बिलकुल खाली Quite empty गडबड  
६८५.

पविलुप्त त्रि० ( प्रविलुप्त ) बिलकुल नष्ट  
Entirely perished उप० १८७ टी

पबुद्ध न ( प्रबुद्ध ) त प्रभूत वृष्टि, वर्षण  
Heavy rain 'काले पबुद्ध' अभि २२०  
पबुद्ध. त्रि० ( प्रबुद्ध ) बडा हुआ, विशेष बृद्ध  
Very old टे० १, ६.

पबुद्धि स्त्री० ( प्रबुद्धि ) बढाव, Increase,  
growth पच० ५, ३३.

पबुक्त त्रि० ( प्रोक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने  
बोलना आरम्भ किया हो One who began  
to speak पउम० २७, १६, १४, २१ (२)  
उक्त, कथित Told, said धर्मवि० ८२

पबद्ध त्रि० ( प्रबुद्ध ) धारण किया हुआ Held  
स० ५११

पबेडय त्रि० ( प्रवेपित ) कम्पित Trembled  
पउम० ५, ७८

पबेष्टिय. त्रि० ( प्रवेष्टित ) वेडा हुआ En-  
compassed, encircled, सुर० १२, १०४

पबेयण न० ( प्रवेदन ) प्ररूपण, प्रतिपादन  
Explaining expounding (२)  
ज्ञान, निर्णय, Knowledge. (३) अनुभावन  
Indication of feelings by signs  
or gestures etc राज०

पबेविर त्रि० ( प्रवेपितु ) कँपने वाला  
Trembling. पउम० ८०, ६४

पबेस पु० ( प्रवेश ) नाटक का एक हिस्सा  
Entrance on the stage कम्पू०

पबेस पु० ( प्रद्वेष ) अधिक द्वेष Malice,  
rancour भवि०

पबेसिय त्रि० ( प्रवेशित ) घुसाया हुआ.  
Caused to enter, thrust in,  
सण०

पबोक्त पु० ( प्रपौत्रे ] ) पौत्र का पुत्र

Grandson. आक० ८.

पब्वइ न० ( पर्वतिन् ) गोत्र विशेष, काश्यप गोत्र  
की एक शाखा A particular lineage  
branch of Kashyapa race (२) पु०  
स्त्री० उस गोत्र में उत्पन्न Born in  
that Family राज०

पब्वइद् पु ( पर्वतेन्द्र ) मेरु पर्वत. The  
mount Meru सू० प० ५ टी

पब्वई स्त्री० ( पार्वती ) गौरी, शिव पत्नी Name  
of Duiga, wife of shiva, पात्र०

पब्वंग, पु० न० ( पर्वङ्ग ) सख्या विशेष A  
particular number इक०

पब्वक ग पु० ( पर्वक ) घुटना Knee तृण  
विशेष A kind of grass निसी० चू० १.

पब्वयय पु० न० ( पर्वतक ) एक ब्राह्मण पुत्र का  
नाम Name of a Brahmana's son-

पउम० ११, ६, (२) एक राजा King भवि०  
(३) एक राजकुमार Prince उप० ६३७

पब्वाइअ स्त्री ( प्रवाजित ) (१) जितको दीक्षा  
दी गई हो One who is initiated सुपा०

५६६, (२) दीक्षा देना Init iation राज०  
पब्वाइय त्रि० ( प्लान ) पिच्छाय, शुष्क.

Faded, withered कुमा० ६, १२.

पब्वाय पु० ( प्रवात ) प्रकृष्ट पवन Hurri-  
cane, stormy wind, gale गा० ६२३.

पब्वालण न० ( प्लावन ) तराबोर करना.  
Moistening, wetting से० ६, १५.

पब्वालिअ त्रि० ( प्लावित ) जल-ब्यास, तराबोर  
किया हुआ Moistened, sprinkled.

पात्र० कुमा० से० ६, १०  
पब्वालिअ. त्रि० ( छादित ) ढका हुआ.  
Covered कुमा०

पब्वालण न० ( प्रवाजन ) दीक्षा देना.  
Initiating उव० श्लो० ४४२ टी

पब्विद्ध त्रि० ( प्रबुद्ध ) महान, बडा Huge,  
great से० १४, ५१.

पण्डित न० (प्रविद्ध) गुरु वन्दन का एक दोष, वन्दन के बिना ही समाप्त किये भागना.  
A fault in saluting a preceptor  
प्र० २

पसग पु० न० (पसङ्ग) (१) परिचय, उपलक्ष  
Acquaintance, intimacy स० ३०५.  
(२) आपत्ति, अनिष्ट प्राप्ति Calamity  
स० १७४ (३) आसक्ति Attachment  
(४) प्रस्ताव, अधिकार A subject,  
resolution, right गडड० भवि० पचा०  
६, २६.

पसति. स्त्री० (प्रशान्ति) नाश, विनाश  
Ruin, destruction 'सन्वदुस्वप्सतीय'  
अभि० ३.

पससय त्रि० (प्रशसक) प्रशंसा करने वाला  
Admirer आ० ६, भवि०

पसज्झ-पसज्झ अ० (पसज्झ) हठात्,  
बलात्कार से Forcibly, violently.  
स० ३१

पसज्जचेय न० (प्रसज्जचेत्स) धर्म-निरपेक्ष  
चिच, कदाग्रही मन Pernicious mind.  
दसचू० १, १४.

पसदिल त्रि० (प्रशिथिल) विशेष ढीला  
Exceedingly loose. हे० १, ८६

पसएणचद् पु० (प्रसएणचन्द्र) भगवान्  
महावीर के समय का एक राजर्षि. A royal  
sage, contemporary of Lord  
Mahavira उव० पडि०

पसत्त त्रि० (पसक्त) चिपका हुआ  
Attached to, connected with गडड०  
५१ (२) आसक्त. Excessively at-  
tached, addicted to. गडड० ५३१, उव०  
(३) आपत्ति-प्रस्त, अनिष्ट प्राप्ति के दोष से  
पुक्त Fallen into misfortune विशे०  
१८५६

पसत्ति स्त्री० (पसक्ति) आसक्ति, अभिप्रेक्ष

Attachment, addiction, adhor-  
ence उप० १३१ (२) आपत्ति-दोष A  
wrong philosophical conclusion  
or inference अल्फ० ११६.

पसत्थि स्त्री० (प्रशस्ति) वशोक्तीर्तन, वश-  
वर्णन Description of family गडड०  
सम्मत० ८३

पसप्प पु० (प्रसर्प) विस्तार, फैलाव  
Extension द्रव्य० १०

पसम पु० (प्रशम) लगातार दो उपवास  
Two fasts at a time सबोध० ५८.

पसम. पु० (प्रश्रम) विशेष मेहनत, खेद  
Labour, exertion आव० ४

पसमाविश्र त्रि० (प्रशमित) प्रशान्त किया  
हुआ Pacified, soothed स० ६२

पसमिण् त्रि० (प्रशमिन्) प्रशान्त करने वाला  
नाश करने वाला Destructor 'पावपस-  
मिणपासणिण' एभि० १७

पसय त्रि० (प्रसृत) फैला हुआ Spread.  
वजा० ११२, १४४

पसरण न० (प्रसरण) विस्तार, फैलाव.  
Extension कम्पू०

पसव न० (प्रसव) पुष्प, फूल Flower  
'कुसुम पसव पसूअ च' पात्र० 'तहेव होति  
पसवाणि' दसनि० १, ३६

पसवि त्रि० (प्रसवित्) जन्म देने वाला  
Pro-creator or parents नाट-शकु०  
७४

पसविय त्रि० (प्रसूत) जिसने जन्म लिया  
हो Child or issue 'सयमेव पसविया'  
सुर० १०, २३०, सुपा० ३६

पसविर त्रि० (प्रसवितृ) जन्म देने वाला.  
One who gives birth नाट०

पसस्त त्रि० (प्रशस्त्य) स्तुति करने योग्य  
Praiseworthy, commendable.  
सुपा० ६४६

पसाइय त्रि० ( प्रसादित ) प्रसन्न किया हुआ  
Appeased, propitiated स० ३८६,  
१७६, (२) प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ  
Awarded for having been  
pleased with 'पसाइय कडयवत्याइ' सुर०  
१, १६३

पसार पु० ( प्रसार ) विस्तार, फैलाव  
Extension कप्प०

पसाहग त्रि० ( प्रसाधक ) साधक, सिद्ध करने  
वाला Accomplishing, perfecting  
धर्मस० २६ — तम त्रि० ( तम ) उत्कृष्ट  
साधक The best accomplisher (२)  
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण  
कारक Grammatically established.  
विशे० २११२

पसाहण न० ( प्रसाधन ) सिद्ध करना, साधना  
Accomplishment सुर० ३, १२ (२)  
उत्कृष्ट साधन The best attainment  
'भवसमुद्दे पसाहण' स० ७४४

पसाहाचिय त्रि० ( प्रसाधित ) विभूषित कराया  
गया, सजवाया हुआ Ornamented,  
decorated भवि०

पसाहि त्रि० ( प्रसाधित ) सिद्ध करने वाला  
Accomplishing समोच० ८, १४

पसाहिल्ल त्रि० ( प्रशाखिन् ) प्रशाखा युक्त  
Having many branches सुर० ८,  
१०८

पसिअ त्रि० ( प्रसृत ) फैला हुआ, विस्तीर्ण  
Spread, extended 'पसिअच्छि' गा०  
६२०, ६२३

पसिकखअ त्रि० ( प्रशिषक ) सीखने वाला.  
A student, studying गा० ६२६ अ०

पसिज्जण न० ( प्रसदन ) प्रसन्न होना  
Pleasing 'खणपसिज्जण' गा० ६७५

पसिण पु० न० ( प्रश्न ) दर्पण आदि में देवता  
आह्वान, मन्त्र विद्या-विशेष Invocation

of a deity in a mirror etc a  
kind of magical-skill बृह० १.

पसिणिय त्रि० ( प्रश्नित ) पूछा हुआ Asked.  
सुपा० १६, ६२५

पसिद्ध त्रि० ( प्रसिद्ध ) प्रकर्ष से मुक्ति को  
प्राप्त, मुक्त Finally emancipated.  
सिरि० ५६५.

पसीस पु० ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, A  
grand pupil पवम० ४, ८६

पसुत्ति, स्त्री० ( प्रसुप्ति ) कुष्ठ रोग विशेष, नखादि  
विदारण होने पर भी अचेतनता. Paralysis,  
a kind of disease राज०

पसुमेह पु० ( पशुमेघ ) जिसमें पशु का भोग  
दिया जाता हो An animal sacrifice.  
पवम० १२, १२

पस् त्रि० ( प्रस् ) प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता  
Pro-creator मोह० २६

पसुञ्जण न० ( प्रसवन ) जन्म-दान Bearing  
children सुपा० ४०३

पसूइय, पु० ( प्रसूतिक ) वातरोग-विशेष  
A kind of gout or rheumatism.  
सिरि० ११७

पसूण, न० ( प्रसून ) फूल, पुष्प Flower  
कुमा० सण०

पसेअ पु० ( प्रस्वेद ) पसीना. Perspiration  
दे० ६, १

पसेढि, स्त्री० ( प्रश्रेणि ) अवान्तर-श्रेणि-पक्ति  
Subordinate line पि० ६६

पसेविआ स्त्री० ( प्रसेविका ) थैली, कोयली  
Sack, bag दे० ५, २५.

पस्सओहर त्रि० ( पश्यतोहर ) देखते हुए  
चोरी करने वाला One who steals  
before a person's eyes 'नणु एमो  
पस्सओहरो तेणो' उप० ७०८ टी

पह त्रि० ( पद्ध ) नम्र. Humble, modest.  
(२) विनीत Submissive (३) आत्मक.



Attached to, addicted to प्राकृ० २४  
 पहजण पु० ( प्रमज्जन ) (१) वायु, पवन  
 Wind पाद्य० (२) एक राजा, King भवि०  
 पहत्थ पु० ( प्रहस्त ) रावण का मामा Name  
 of a maternal uncle of Ravana  
 से० १२, २५  
 पहय त्रि० ( प्रहत ) घृष्ट, घिसा हुआ Rub-  
 bed से० १, २८, वृह० १  
 पहय त्रि० ( प्रहत ) जिस पर प्रहार किया गया  
 हो Wounded, beaten 'पहया अहि-  
 मत्तियजलेण, महा०  
 पहर पु० ( प्रहार ) (१) मार, प्रहार. Strik-  
 ing, beating हे० १, ६८, पड्० प्राप०  
 सवि० २, (२) जहा पर प्रहार किया गया हो  
 A place where some thing is  
 beaten से० २, ४  
 पहरण न० ( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया Struck,  
 beat से० ३, ३८.  
 पहरिअ त्रि० ( प्रहत ) (१) प्रहार करने के  
 लिए उद्यत Ready to strike सुर० ६,  
 १२६, (२) जिस पर प्रहार किया गया हो  
 Beaten, struck भवि०  
 पहरिस पु० ( प्रहय ) आनन्द, खुशी Ex-  
 treme joy, exultation, rapture  
 'आमोओ पहरितो तोसो' पाद्य० सुर० ३, ४०  
 पहल्लिर त्रि० ( प्रधूर्णितु ) घूमने वाला, डोलता  
 Shaking, moving to and fro  
 कुमा० सुपा० २०४  
 पहव पु० ( प्रभव ) एक जैन महर्षि A Jaina  
 sage कुमा०  
 पहविय. त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो  
 Powerful, strong 'नो पहविय नरिद-  
 स्स' सुपा० ६१५  
 पहसण न० ( प्रहसन ) (१) उपहास, परिहास  
 Ridicule, derision (२) नाटक का  
 एक भेद, रूपक-विशेष A farce, a

kind of low comedy 'पहसणप्पाय  
 कामसत्थवयण' स० ७१३, १७७, हास्य०  
 ११६  
 पहसिय त्रि० ( प्रहसित ) (१) जिसका उपहास  
 किया हो. Rediculed भवि० (२) न०हास्य  
 Laughter, mirth वृह० १ (३) पु०  
 पवनजय का एक विद्याधर-मित्र A Vidya-  
 dhar friend of Pavananjaya.  
 पडम० १२, २६  
 पहाण पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्त्री  
 Minister भवि०  
 पहायर पु० ( प्रभाकर ) (१) सूर्य, रवि  
 Sun (२) रामचन्द्र के भाई भरत के साथ  
 दीक्षा लेने वाला एक राजर्षि A royal sage  
 initiated with Bharata, brother  
 of Ramachandra पडम० ८२, २  
 पहारि. त्रि० ( प्रहारित ) प्रहार करने वाला  
 Stricker, one who beats सुपा०  
 २१२, प्रासू० ६८  
 पहारिय त्रि० ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार  
 किया गया हो. One who is beaten,  
 struck स० २६८  
 पहारिय. त्रि० ( प्रधारित ) विकल्पित, चिन्तित  
 Thought, reflected राज०  
 पहावई स्त्री० ( प्रभावती ) आठवें वासुदेव की  
 पटरानी A crowned queen of  
 eighth Vasudeo पडम० २०, १८७  
 पहाविर त्रि० ( प्रधावितु ) दौड़ने वाला  
 Runner बजा० ६२, गा० २०२.  
 पहासा स्त्री० ( प्रहासा ) देवी-विशेष A  
 particular deity. महा०  
 पहिअ ( प्रथित ) प्रसिद्ध, विख्यात Famous,  
 celebrated, renowned (२) राक्षस  
 वंश का एक राजा, एक लका पति A king  
 of the demon family पडम० २,  
 २६२.

पहिंसय. त्रि० (प्रहिंसक) हिंसा करने वाला  
 Killer ओष० ७२३  
 पहिरावण. न० (परिधापन) (१) पहिराना,  
 Causing to put on (२) पहिरावन,  
 अेंट में या इनाम में दिया हुआ वस्त्रादि A  
 present of garments etc आ० २८  
 पहिराविय त्रि० (परिधापित) पहिराया हुआ  
 Caused to put on महा० भवि०  
 पहिरिय. त्रि० (परिहित) पहिरा हुआ, पहना  
 हुआ Put on, dressed सम्मत्त० २१८  
 पहिल्लिर. त्रि० (प्रधूर्णितृ) खूब हिलने वाला,  
 अत्यन्त हिलता हुआ Trembling,  
 tremulous सम्मत्त० १८७  
 पहु पु० (प्रभु) (१) परमेश्वर, परमात्मा  
 God कुमा० (२) एक राज पुत्र Prince  
 वसु०  
 पहुक पु० (पृथुक) खाद्य पदार्थ विशेष,  
 चिउडा An eatable, parched and  
 flattened ice. दे० ६, ४४  
 पहुण पु० (प्राधुण) अतिथि, महमान.  
 Guest, visitor उप० ६०२  
 पहुणाय न० (प्राधुण्य) अतिथि, अतिथि,  
 सत्कार Hospitable reception of  
 guests, hospitality रभा०  
 पहुत्त त्रि० (प्रभूत) (१) पर्याप्त, काफी  
 Enough 'पजत्त च पहुत्त' पाओ० गउड०  
 गा० २७७, (२) समर्थ Powerful,  
 strong से० २, ६, (३) पहुँचा हुआ  
 Having arrived at ती० १५  
 पहुवी स्त्री० (पृथ्वी) भूमि, धरती Earth  
 नाट—मालती० ७२ —पहु पु० (प्रभु)  
 राजा. King. हम्मीर० १७ —वहु. पु०  
 (पति) राजा Ruler हम्मीर० १६,  
 पहुअ. त्रि० (प्रभूत) (१) बहुत, प्रचुर Much,  
 abundant स० ४५६, (२) उद्गत  
 Sprung from (३) भूत Produced

(४) उन्नत. High, lofty पाहु० ६२  
 पहोलिर त्रि० (प्रधूर्णितृ) हिलने वाला,  
 डोलना Trembling गा० ७८, ६६६,  
 से० ३, ४६, पाओ०  
 पाइ त्रि० (पायिन्) पीनेवाला Drinking  
 गा० २६७, हि० ६  
 पाइडि स्त्री० (प्रावृत्ति) प्रावरण, वस्त्र  
 Garment गा० २३८.  
 पाइभ न० (प्रातिभ) प्रतिभा, बुद्धि विशेष  
 Genius, bright conception कुम०  
 १५५.  
 पाईण न० (प्राचीन) (१) गोत्र-विशेष A  
 particular lineage (२) पु० स्त्री० उस  
 गोत्र में उत्पन्न Born in that family  
 'येरे अज्जभइवाहु पाईणसगोत्ते' कप्य०  
 पाउंछण-पाउंछणग न० (पादप्रोच्छन-क) जैन  
 मुनि का एक उपकरण, रजोहरण A whisk  
 (made of wool, carried by  
 Jaina ascetics to remove dust),  
 प्रव० ११२ टी, ओष० ६३०, पचा० १७, १२  
 पाउग्ग त्रि० (प्रायोग्य) उचित, लायक.  
 Proper, suitable सुर० १५, २३३  
 पाउग्गह पु० (पतद्ग्रह) पात्र Vessel.  
 आयानि० २८८  
 पाउअभव त्रि० (पापोद्भव) पाप से उत्पन्न.  
 Produced by sins उप० ७६८ टी  
 पाउल त्रि० (पापकुल) हलके कुल का, जघन्य  
 कुल में उत्पन्न Low-born 'पाउलाण  
 दवियजाय' स० ६२६, सुर० १०, ५  
 पाउसिय त्रि० (प्रावृत्तिक) वर्षा-सम्बन्धी.  
 Relating to rainy-season राज०  
 पाउसिअ. त्रि० (प्रोपित) प्रवास में गया  
 हुआ Gone abroad on a journey.  
 'नियइ पाउसियइहयाओ' सुपा० ७०  
 पाओ अ० (प्रायस्) बहुत करके, प्राय.  
 Mostly, generally आ० २७

पात्रोगिय. त्रि० ( प्रायोगिक ) प्रयत्न-जनित, अस्वाभाविक. Unnatural चेइय० २५३.  
पाकम्म. न० ( प्राकाम्य ) योगकी आठ सिद्धियों में से एक सिद्धि. Irresistible will, considered as one of the eight attributes of siddhis 'पाकम्मगुणोण सुखी भुवि कुप्र० २७७

पाकार पु० ( प्राकार ) किला, दुर्ग Fort उप० पृ० ८४

पाग पु० ( पाक ) (१) पचन क्रिया Digestion सुपा० ३७४, (२) दैत्य विशेष, Name of a demon गडड० (३) विपाक, परिणाम. Ripeness, maturity, result धर्मस० ६३२, (४) बलवान दुश्मन Powerful enemy आवस०

पागयभासा स्त्री० ( प्राकृतभाषा ) प्राकृत भाषा. Prakrit language. आ० २३ —वागरण न० ( व्याकरण ) प्राकृत भाषा का व्याकरण. The grammar of Prakrit विशेष० ३४५२

पाडचर पु० ( पाडचर ) चोर, तस्कर Thief पात्र० दे० ६, ३४.

पाडण. न० ( पातन ) (१) गिराना, पादना To pull down सूयनि० ७२, (२) परिभ्रमण, इधर उधर घूमना Wandering, roaming कुमा० २, ३७

पाडय त्रि० ( पातक ) गिराने वाला One who pulls down मृच्छ० २४२

पाडला स्त्री० ( पाटला ) वृक्ष विशेष, पाटल का पेड़, पाटरी A kind of tree गा० ४५६, सुर० ३, ५२, पडम० २०, ३८

पाडलिय त्रि० ( पाटलित ) श्वेत-रक्त वर्ण वाला क्रिया हुआ Whitened गडड०

पाडव न० ( पाटव ) पटुता, निपुणता Dexterity, proficiency धम्म० १० टी

पाडहिग-पाडहिय त्रि० ( पाटहिक ) ढोल

बजाने वाला, ढोली A drum-beater स० २१६.

पाडिअ त्रि० ( पाटित ) फाटा हुआ, विदारित Torn, split, broken स० ६६६

पाडिचरण न० ( प्रतिचरण ) सेवा, उपासना Devotion उप० पृ० ३४६

पाडिच्छुय त्रि० ( प्रतीप्सक ) ग्रहण करने वाला. One that accepts सुख० २, १३

पाडिप्पवग पु० ( पारिप्लवक ) पक्षि-विशेष A particular bird पडम० १४, १८

पाडिप्फडि त्रि० ( प्रतिस्पर्धिन् ) स्पर्धा करने वाला Rivaling, competing हे० १, ४४, २०६

पाडिवय पु० ( प्रातिपद ) एक भावी जैन आचार्य A future Jaina preceptor विचार० ५०६

पाडिवेसिय त्रि० ( प्रातिवेरिमक ) पड़ोसी Neighbour सुपा० ३६४

पाडिस्सुइय. न० ( प्रातिश्रुतिक ) अभिनय का एक भेद A kind of acting राज०

पाडतर न० ( पाठान्तर ) भिन्न पाठ Different readings आवक० ३११.

पाडण न० ( पाठन ) अध्यापन, Teaching, lecturing उप० पृ० १२८, प्राकृ० ६१, सम्मत्त० १४२

पाडणया स्त्री० ( पाठना ) देखो 'पाडण' शब्द Vide 'पाडण' पचभा० ४

पाडावअ त्रि० ( पाठक ) अध्यापक Teacher प्राकृ० ६०

पाडावण न० ( पाठन ) अध्यापन Teaching प्राकृ० ६१

पाडाविअ त्रि० ( पाठित ) अध्यापित. Taught प्राकृ० ६१

पाडाविअवत त्रि० ( पाठितवत् ) जिसने पढाया हो Teacher प्राकृ० ६१

पाडाविउ-पाडाविर त्रि० ( पाठयित् ) पढाने

पहिंसय त्रि० (प्रहिंसक) हिंसा करने वाला  
 Killer श्रोत्र० ७२३  
 पहिरावण न० (परिधावन) (१) पहिराना,  
 Causing to put on (२) पहिरावन,  
 भेंट में या इनाम में दिया हुआ वस्त्रादि A  
 present of garments etc आ० २८  
 पहिराविय त्रि० (परिधापित) पहिराया हुआ  
 Caused to put on महा० भवि०  
 पहिरिय. त्रि० (परिहित) पहिरा हुआ, पहना  
 हुआ Put on, dressed सम्मत्त० २१८  
 पहिल्लिर. त्रि० (प्रघृणितृ) खूब हिलने वाला,  
 अत्यन्त हिलता हुआ Trembling,  
 tremulous सम्मत्त० १८७  
 पहु पु० (प्रभु) (१) परमेस्वर, परमात्मा  
 God कुमा० (२) एक राज पुत्र Prince  
 वसु०  
 पहुक. पु० (पृथुक) खाद्य पदार्थ विशेष,  
 चिउड़ा An eatable, parched and  
 flattened rice. दे० ६, ४४  
 पहुण पु० (प्रावुण) अतिथि, महमान,  
 Guest, visitor उप० ६०२  
 पहुणहय न० (प्रावुण्य) अतिथ्य, अतिथि,  
 सत्कार Hospitable reception of  
 guests, hospitality रमा०  
 पहुत्त त्रि० (प्रभूत) (१) पर्याप्त, काफी  
 Enough 'पहुत्त च पहुत्त' पात्र० गउड०  
 गा० २७७, (२) समर्थ Powerful,  
 strong से० २, ६, (३) पहुँचा हुआ  
 Having arrived at. ती० १५  
 पहुवी स्त्री० (पृथ्वी) भूमि, धरती Earth  
 नाट—मालती० ७२ —पहु पु० (प्रभु)  
 राजा, King. हमीर० १७ —चइ. पु०  
 (पति) राजा Ruler हमीर० १६.  
 पहुअ. त्रि० (प्रभूत) (१) बहुत, प्रचुर Much,  
 abundant स० ४२६, (२) उद्गत  
 Sprung from (३) मूल Produced

(४) उन्नत. High, lofty प्राक० ६२.  
 पहोलिर त्रि० (प्रघृणितृ) हिलने वाला,  
 डोलना Trembling गा० ७८, ६६६,  
 से० ३, ४६, पात्र०  
 पाइ त्रि० (पायिन्) पीनेवाला Drinking  
 गा० २६७, हि० ६  
 पाइडि स्त्री० (प्रावृत्ति) प्रावरण, वस्त्र  
 Garment गा० २३८.  
 पाइभ न० (प्रातिभ) प्रतिभा, बुद्धि-विशेष  
 Genius, bright conception कुम०  
 १२२.  
 पाईण न० (प्राचीन) (१) गोत्र-विशेष A  
 particular lineage (२) पु० स्त्री० वस  
 गोत्र में उत्पन्न Born in that family  
 'येरे अज्जभइवाहु पाईणसगोत्ते' कप्प०  
 पाउच्छण-पाउच्छणग न० (पादप्रोच्छन-क) जैन  
 मुनि का एक उपकरण, रजोहरण A whisk  
 (made of wool, carried by  
 Jaina ascetics to remove dust),  
 प्रव० ११२ टी, श्रोत्र० ६२०, पत्रा० १७, १२  
 पाउग्ग त्रि० (प्रायोग्य) उचित, लायक,  
 Proper, suitable सुर० १५, २३३  
 पाउग्गह पु० (पतद्ग्रह) पात्र. Vessel.  
 आयानि० २८८  
 पाउम्भव त्रि० (पापोद्भव) पाप से उत्पन्न.  
 Produced by sins उप० ७६८ टी,  
 पाउल त्रि० (पापकुल) हलके कुल का, जन्म  
 कुल में उत्पन्न Low-born 'पाउलाय  
 दवियजाय' स० ६२६, सुर० १०, २  
 पाउसिय त्रि० (प्रावृषिक) वर्षा-सम्बन्धी.  
 Relating to rainy-season राज०  
 पाउसिअ. त्रि० (प्रोपित) प्रवान में गया  
 हुआ Gone abroad on a journey.  
 'नियइ पाउसियइहयाओ' मुपा० ७०  
 पाओ अ० (प्रायम्) बहुत करने, प्राय.  
 Mostly, generally आ० २०.

पात्रोगिय. त्रि० ( प्रायोगिक ) प्रयत्न-जनित,  
अस्वाभाविक. Unnatural चेइय० २५३.

पाकम्म. न० ( प्राकाम्य ) योगकी आठ सिद्धियों  
में से एक सिद्धि. Irresistible will,  
considered as one of the eight  
attributes or siddhis 'पाकम्मगुणेष  
सुणी भुवि कुम्प० २७७

पाकार पु० ( प्राकार ) किला, दुर्ग Fort  
उप० पृ० ८४

पाग पु० ( पाक ) (१) पचन क्रिया Digestion  
सुपा० ३७४, (२) दैत्य विशेष,  
Name of a demon गडड० (३) विपाक,  
परिपाम. Ripeness, maturity,  
result धर्मस० ६६५, (४) बलवान  
दुश्मन Powerful enemy आवम०

पागयभासा स्त्री० ( प्राकृतभाषा ) प्राकृत  
भाषा Prakrit language. आ० २३  
—वागरण न० ( व्याकरण ) प्राकृत भाषा का  
व्याकरण, The grammar of Prakrit  
विशे० ३४५५

पाडचर पु० ( पाटचर ) चोर, तस्कर Thief  
पात्र० दे० ६, ३४.

पाडण. न० ( पातन ) (१) गिराना, पाटना  
To pull down सूयनि० ७२, (२)  
परिभ्रमण, इधर उधर घूमना Wander-  
ing, roaming. कुमा० २, ३७

पाडय त्रि० ( पातक ) गिराने वाला One  
who pulls down मृच्छ० २४५

पाडला स्त्री० ( पाटला ) वृक्ष विशेष, पाडल का  
पेड, पाडरि A kind of tree गा०  
४५६, सुर० ३, ५२, पठम० २०, ३८

पाडलिय त्रि० ( पाटलित ) श्वेत-रक्त वर्ण  
वाला किया हुआ Whitened गडड०

पाडव न० ( पाटव ) पटुता, निपुणता Dex-  
terity, proficiency धम्म० १० टी

पाडहिग-पाडहिय त्रि० ( पाटहिक ) डोल

बजाने वाला, दोली A drum-beater  
स० २१६.

पाडिअ त्रि० ( पाटित ) फाटा हुआ, विदारित  
Torn, split, broken स० ६६६

पाडिचरण न० ( प्रतिचरण ) सेवा, उपासना  
Devotion उप० पृ० ३४६

पाडिच्छय त्रि० ( प्रतीप्सक ) ग्रहण करने वाला.  
One that accepts सुख० २, १३

पाडिप्पवग पु० ( पारिप्पवक ) पच्छि-विशेष  
A particular bird पठम० १४, १८

पाडिप्फडि. त्रि० ( प्रतिस्पर्धिन् ) स्पर्धा करने  
वाला Rivalling, competing हे०  
१, ४४, २०६

पाडिवय पु० ( प्रातिपद ) एक भावी जैन  
आचार्य A future Jaina preceptor  
विचार० ५०६

पाडिवेसिय त्रि० ( प्रातिवेशिक ) पड़ोसी  
Neighbour सुपा० ३६४

पाडिस्सुइय. न० ( प्रातिभुतिक ) अभिनय का  
एक भेद A kind of acting राज०

पाडतर न० ( पाठान्तर ) भिन्न पाठ Dif-  
ferent readings आवक० ३११.

पाडण न० ( पाठन ) अध्यापन Teaching,  
lecturing उप० पृ० १२८, प्राकृ० ६१,  
सम्मत्त० १४२

पाडणया स्त्री० ( पाठना ) देखो 'पाडण' शब्द  
Vide 'पाडण' पत्रभा० ४

पाडावअ त्रि० ( पाठक ) अध्यापक Teacher  
प्राकृ० ६०

पाडावण न० ( पाठन ) अध्यापन Teaching  
प्राकृ० ६१

पाडाविअ त्रि० ( पाठित ) अध्यापित,  
Taught प्राकृ० ६१

पाडाविअवत त्रि० ( पाठितवत् ) जिसने  
पढ़ाया हो Teacher प्राकृ० ६१

पाडाविड-पाडाविर त्रि० ( पाठयितृ ) पढ़ाने

वाला Teacher. प्राक० ६१, ६०  
 पादित्र त्रि० (पाठित) पढाया हुआ अध्यापित  
 Taught प्रा०  
 पादित्रा स्त्री० (पाठिका) पढाने वाली स्त्री  
 Teacheress, mistress कप्पू०  
 पादिउ-पादिह्रि. त्रि० (पाठयितृ) अध्यापक,  
 पढाने वाला Teacher. प्राक० ६१  
 पाढीण पु० (पाठीन) मत्स्य-विशेष मत्स्य की  
 एक जाति A kind of fish गा० ४१४,  
 विक्र० ३२  
 पाणतकर त्रि० (प्राणान्तकर) प्राण-नाशक  
 Fatal, destructive to life सुपा०  
 ६१४  
 पाणतिय त्रि० (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला  
 Fatal, destructive to life 'पाण-  
 तिया वई पहु' सुपा० ४५२  
 पाणायाम पु० (प्राणायाम) योगाङ्ग-विशेष,  
 रेचक, कुम्भक, पूरक, नामक प्राणों को दमने  
 का उपाय Restraining or suspen-  
 ding of the breath. गड०  
 पाणिणि पु० (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण-  
 कार ऋषि Name of a celebrated  
 grammarian. हे० २, १४७.  
 पाणिणीअ त्रि० (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी  
 पाणिनि का Relating to or com-  
 posed by Panini हे० २, १४७  
 पावद्ध त्रि० (प्रावद्ध) विशेष बँधा हुआ,  
 पारित Completely tied or fettered  
 निसी० चू० १६  
 पामर पु० (पामर) (१) कृषिवल, कर्षक, खेती  
 का काम करने वाला गृहस्थ A cultiva-  
 tor's family पात्र० वज्रा० १३४, गड०  
 दे० ६, ४१, सुर० १६, ४३ (२) मूर्ख, बेवकूफ,  
 अज्ञानी Fool, idiot गा० १६४, आ० १२  
 पामा स्त्री० (पामा) रोग विशेष, सुजली, न्यान  
 Skin-disease सुपा० २२७

पामाड पु० (पमाट) पमाड, पमार, पवाड,  
 चकवड, वृक्ष-विशेष A kind of tree  
 पात्र०  
 पामुक त्रि० (प्रमुक) परित्यक्त Abon-  
 doned पात्र० स० ६५७  
 पामोक्ख पु० (प्रमोक्ख) मुक्ति, छुटकारा.  
 Liberation, emancipation, उ०  
 ६४८ टी  
 पाय पु० (पाक) (१) पचन क्रिया Diges-  
 tion (२) रसोई Kitchen प्राक० १६,  
 उ० ७२८ टी  
 पाय पु० (पात) सम्बन्ध Relation 'पुणो  
 पुणो तरलदिद्धिवाएहि' सुर० ३, १३८  
 पाय पु० (पाय) पान, पीने की क्रिया Act  
 of drinking. आ० २३  
 पाय पु० (पाद) (१) गमन, गति Motion  
 आ० २३, (२) अशु, किरण A ray of  
 light, 'असू रस्सी पाया' पात्र० अजि० २८,  
 (३) साजु, पर्वत का कटक The foot of  
 a mountain पात्र० (४) एकाशन तप  
 Eating once in a day. सर्वो० २८.  
 (५) छ अगुलों की एक नाप A measure  
 of six inches डक०  
 पायक्खिण न० (प्रादक्षिण्य) प्रदक्षिणा  
 Circumambulation from left to  
 right पत्र० ३०, ६२  
 पायग न० (पातक) पाप Sin आत्र० २४८.  
 पायड त्रि० (प्रावृत) आच्छादित Covered.  
 विशेषे २५७६ टी  
 पायडिअ त्रि० (प्रकटित) व्यक्त किया हुआ.  
 Manifested, displayed कुप्र० ४, से०  
 १, ५३, गा० १६६, २६०, गड० स० ४६८,  
 पायडिअ त्रि० (प्रकट) सुलत Evident,  
 plain, clear वज्रा० १०८  
 पायमूल.न० (पादमूल) मनुष्यों की एक साधारण  
 जाति, नर्तकों की एक जाति A common

human race, 'समागयाई पायमूलाई'  
स० ७२१, ७२२, ७३४

पायय, न० (पातक) पाप Sin अच्यु० ४३  
पायालकापुर न० (पातालकापुर) पाताल-  
का, रावण की राजधानी Capital of  
Ravana's empire, पायालकारपुर सिन्ध  
पञ्च० ६, २०१.

पायालपुर न० (पातालपुर) नगर विशेष.  
City. पञ्च० ४५, ३६

पायाविद्य त्रि० (पायित) पिलाया हुआ  
Caused to drink पञ्च० ११, ४१

पायाहिण, न० (प्रादक्षिण्य) दक्षिण की ओर  
Going around from left to  
right, 'पायाहियेण तिहि' सिरि० १६६

पार पु० न० (पार) मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण  
Final emancipation, बृह० ४

पारगय त्रि० (पारगत) पार-प्राप्त One  
who has gone to the other side  
or a shore कुम० २१

पारपञ्ज न० (पारम्पर्य) परम्परा, Heredi-  
tary, age long रभा० १५.

पारपर-पारपरिय न० (पारम्पर्य) परम्परा  
Hereditary, ancestral पञ्च० २१,  
८०, आरा० १६, धर्मस० १११८, १३१७,  
सूयनि० १२७

पारपरिय, त्रि० (पारम्परिक) परंपरा से  
चला आता, Hereditary, ancestral  
वप० ७२८ टी

पारभिय त्रि० (पारम्भ्य) आरम्भ, उपकान्त  
Begun, commenced धर्मवि० १४४,  
सुर० २, ७७, १२, १५६, सुपा० ५५

पारकेर-पारक त्रि० (परकीय) पर का,  
अन्यदीय Belonging to another. हे०  
१, ४४, २, १४८, कुमा०

पारद्ध त्रि० (पारम्भ्य) (१) जिसका प्रारम्भ  
किया गया हो Begun, commenced

'पारद्धा य विवाहनिमित्त' महा० (२) जो  
प्रारम्भ करने वाला हो, One who is to  
begin 'पारद्धो नच्चि' महा०

पारद्धि स्त्री० (पापद्धि) शिकार, मृगया  
Hunting, chase. हे० १, २३५, कुमा०  
३७० पृ० २५७, सुपा० २१६

पारमिया स्त्री० (पारमिता) बौद्धशास्त्र-परिभाषित  
प्राणतिपात-विरमणादि शिष्टा-व्रत, अहिंसा  
आदि व्रत Fasting owing to Non-  
violence धर्मस० ६८८

पारम्म न० (पारम्य) परमता, उत्कृष्टता  
Excellence, eminence अज्ज० ११४

पारय पु० (पारद) धातु विशेष, पारा,  
रस-धातु Quick-silver, mercury  
—महण न० (मर्दन) आयुर्वेद-विहित रीति  
से पारे का मारण, रसायन-विशेष Ayu-  
vedic medicines 'सेवति पारयमहण  
स० २८६

पारय पु० (प्रावारक) (१) पट, वस्त्र  
Garment (२) आच्छादक Covering  
हे० १, २७१ कुमा०

पारवस्स न० (पारवश्य) परवशता, पराधी-  
नता Dependence रयण० ८१

पारस, पु० (पारस) मणि-विशेष, जिसके  
स्पर्श से लोहा सुवर्ण हो जाता है A kind  
of jewel, a kind of stone that  
turns iron into gold सबोध० ५३

पारसिय त्रि० (पारसिक) फारस देश का  
Persian 'सहसा पारसियसुत्रो सुपा० २६७,  
३६०

पारसी स्त्री० (पारसी) फारसी लिपि Persian  
script विशेष० ४६४ टी

पारसीअ त्रि० (पारसीक) फारस देश का  
निवासी A persian पञ्च०

पारायण न० (पारायण) पुराण पाठ विशेष A  
lecture on, or a recitation from

- the Puranas or mythological works सुख० २, १३.
- पारावार पु० ( र ) समुद्र, Ocean, sea पात्र० कुम्भ० ३७०.
- पाराविद्ध त्रि० ( पारित ) जिसको पारण कराया गया हो Whose fasts might have been concluded कुम्भ० २१२
- पारासर पु० ( पाराशर ) (१) भिक्षुक. A newly initiated ascetic (२) कर्म-त्यागी सन्यासी Ascetic 'अतएव पारासरा अस्थि' सुख० २, ३१
- पारिश्चोसिय त्रि० ( परितोषिक ) तुष्टि जनक दान, प्रसन्नता सूचक दान, पुरस्कार. Present, reward सम्मत्त० १२२, स० १६२, सुर० १६, १८२, विचार० १७१
- पारिडि स्त्री० ( प्रावृत्ति ) प्रावरण, वस्त्र, कपडा Garment 'पारिडि बहुल्लेण' गा० २३८
- पारितावणी स्त्री० ( पारितापनी ) दूसरे को परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला कर्म-बन्ध A Karmic-bondage by afflicting others नव० १७
- पारिभद् पु० ( पारिभद्र ) फरहद का पेड A kind of tree कम्प०
- पारिय. पु० ( पारिजात ) (१) कल्प-वृक्ष विशेष A kind of wish-yielding tree, one of the trees of heaven supposed to have the properties of fulfilling people's wishes or prayers (२) फरहद का पेड A kind of tree कुमा० ५, १३, (३) न० फरहद का फूल जो रक्त वर्ण का और अत्यन्त शोभायमान होता है A kind of flower सवि०
- पारियत्त पु० ( पारियात्र ) देश विशेष Name of a country. 'पत्तो पारियत्तविमय' कुम्भ० ३६६.
- पारिचज्ज. न० ( पारिजाज ) सन्यासीपन, सन्यास Asceticism पद्म० ८२, २४.
- पारिच्चाई स्त्री० ( परिचाजी ) परिचाजिका-सन्यासिनी A female ascetic उप० पु० २७६.
- पारिच्चाय त्रि० ( पारिचाज ) सन्यासी सब-धी. Relating to asceticism राज०
- पारिसज्ज त्रि ( पारिषद्य ) सभ्य, समासद. One present at an assembly, spectator, member धर्म० वि० ६.
- पारिसाइणिया स्त्री ( परिशादनिकी ) परिशादन-परित्याग से होने वाला कर्म-बन्ध A Karmic-bondage by abandonment आब० ४.
- पारिहासय न० ( पारिहासक ) कुल विशेष, जैन मुनिओं के एक कुल का नाम Name of a group of Jain saints कम्प०
- पारीण त्रि० ( पारीण ) पार प्राप्त Going over to the other or opposite side, or changing sides 'धीवरसत्याय पारीणो' कर्मवि० १३, सिचि० ४८६, सम्मत्त० ७५
- पारोन्ध त्रि० ( पारोच ) परोच विषयक, परोच सबन्धी Relating to invisibility. स० धर्म० ५०२
- पारोहि त्रि० ( प्ररोहिन् ) प्ररोह वाला, अक्रुर वाला Having sprouts or shoots गडढ०
- पालक न० ( पालङ्क्य ) तरकारी विशेष, पालक का साग A species of vegetable. वृह० १
- पालय पु० ( पालम्ब ) अगलंभन, महारा. Support, सुपा० ६३५, (०) दीर्घ, लया Long ध्वजा के नीचे लटकता वस्त्रान्धन. The end of the Sari or Dhoti which remains hanging under the armpit of the female- पात्र०



पालय त्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्षण-कर्ता  
Protector, guardian सुपा० २७६,  
सार्ध० १०, (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र A  
son of Shree Krishna प्रव० २, (३)  
भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त  
अवती (उज्जैन) का एक राजा A king of  
Avanti (Ujjain), enthroned  
at the time of Lord Mahavi's  
death विचार० ४६२

पालास. पु० (पालाश) पलाश सबन्धी.  
Belonging to the Palas tree  
(२) न० पलाश वृक्ष का फल. A palas  
fruit गडड०

पालीं स्त्री० (पाली) पक्ति, श्रेणी Line,  
row गडड०

पालेव पु० (पादलेप) पैर में किया हुआ लेप  
Besmeearing on a foot पिंड० १०३

पावण न० (प्रापण) योग की एक सिद्धि. A  
particular accomplishment of  
yoga 'पावणसत्तोए छिवइ' कुम० २७७

पावरण पु० (पावरण) एक श्लेच्छ जाति  
A non-Aryan Sudia tribe मृच्छ०  
११२

पावरिय. त्रि० (प्रावृत) आच्छादित. Cover-  
ed, concealed कुम० ३८

पावाइय त्रि० (प्राज्ञिक) सन्यासी.  
Ascetic रथण० २२

पावालित्त्रा स्त्री० (प्रपालिका) प्रपापर नियुक्त  
स्त्री A woman who distributes  
water to travellers गा० १६१

पावालु-अ (प्रवासिन्-क) प्रवास करनेवाला  
Traveller, way-farer, sojourner  
पि० १०२, हे० १, ६५, कुमा०

पावित्र त्रि० (प्रापित) प्राप्त करवाया हुआ  
Caused to obtain सण० नाट-मृच्छ०  
२७

पावित्र. त्रि० (प्लावित) सराबोर किया हुआ,  
खूब भिजाया हुआ Moistened, Wet-  
ted कुमा०

पावुत्र त्रि० (प्रावृत) आच्छादित Covered,  
screened सच्चि० ४.

पासदण. न० (पस्यन्दन) झरना, टपकना.  
Oozing, trickling बृह० १

पासल्लि त्रि० (पारिवन्) पार्श्व-शायित Slept  
on the side. 'उत्ताणगपासल्ली नेसज्जी'  
प्रव० ६७, पचा० १८, १९

पासल्लिअ त्रि० (पारिवन्-तिर्यक्त) (१) पार्श्व  
में किया हुआ Left side (२) टेढ़ा  
किया हुआ Bent गडड० पि० ५६५

पासाकुसुम न० (पाशाकुसुम) पुष्प-विशेष  
A kind of flower 'पासाकुसुमेहिं ताव'  
गा० ८१६

पासादिय त्रि० (प्रासादित) महल वाला,  
प्रासाद युक्त Having a palace or  
mansion सूय० २, ७, १, टी

पासि त्रि० (पारिवन्) पार्श्वस्थ, शिथिला-  
चारी साधु A saint having a loose  
conduct 'पासिसारिच्छो, सबोध० ३५

पासिय त्रि० (पाशित) पाश-युक्त En-  
snared, fettered राज०

पासिया स्त्री० (पाशिका) छोटा पाश A  
small snare महा०

पासिल्ल त्रि० (पारिवन्)(१) पास में रहेनेवाला.  
Dwelling in the neighbourhood  
(२) पार्श्वशायी Sleeping on the side.  
प्रव० ५४, तट्टु, १३, भग०

पासेइय त्रि० (प्रस्वेदित) प्रस्वेद-युक्त Per-  
spired भवि०

पासेल्लिय त्रि० (पार्श्ववत्) पार्श्व शायी  
Sleeping on the side. राज०

पाहरिय त्रि० (प्राहरिक) पहरेदार. Door-  
keeper स० ५२५, सुपा० ३१२, ४२५.

पालय त्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्षण-कर्ता  
 Protector, guardian सुपा० २७६,  
 सार्धं० १०, (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र A  
 son of Shree Krishna प्रव० २, (३)  
 भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त  
 अवती (उज्जैन) का एक राजा A king of  
 Avanti (Ujjan), enthroned  
 at the time of Lord Mahavi's  
 death विचार० ४६२

पालास. पु० (पालाश) पलाश सबन्धी.  
 Belonging to the Palas tree  
 (२) न० पलाश वृक्ष का फल. A palas  
 fruit गडड०

पाली स्त्री० (पाली) पक्ति, श्रेणी Line,  
 row गडड०

पालेव पु० (पादलेप) पैर में किया हुआ लेप  
 Besmearing on a foot पिंड० २०३

पावण न० (प्रापण) योग की एक सिद्धि. A  
 particular accomplishment of  
 yoga 'पावणसत्तीष्ट द्विवद्' कुम० २७७

पावरण पु० (प्रावरण) एक म्लेच्छ जाति  
 A non-Aryan Sudia tribe मृच्छ०  
 १५२

पावरिय. त्रि० (प्रावृत) आच्छादित Cover-  
 ed, concealed कुम० ३८

पावाइय त्रि० (प्राव्राजिक) सन्यासी.  
 Ascetic रयण० २२

पावालिका स्त्री० (प्रपालिका) प्रपापर नियुक्त  
 स्त्री A woman who distributes  
 water to travellers गा० १६१

पावासु-अ (प्रवासिन्-क) प्रवास करनेवाला  
 Traveller, way-farer, sojourner  
 पि० १०५, हे० १, ६५, कुमा०

पावित्र त्रि० (प्रापित) प्राप्त करवाया हुआ  
 Caused to obtain सण० नाट-मृच्छ०  
 २७

पावित्र. त्रि० (प्लावित) सरावोर किया हुआ,  
 खूब भिजाया हुआ Moistened, Wet-  
 ted कुमा०

पावुत्र त्रि० (प्रावृत) आच्छादित Covered,  
 screened सच्चि० ४.

पासदण. न० (प्रस्पन्दन) झरना, टपकना.  
 Oozing, trickling बृह० १

पासल्लि त्रि० (पारिवन्) पार्श्व-शयित Slept  
 on the side. 'उत्ताणगपासल्ली नेसजी'  
 प्रव० ६७, पचा० १८, १५

पासल्लिअ त्रि० (पारिवन्-तिर्यक्त) (१) पार्श्व  
 में किया हुआ Left side (२) टेढ़ा  
 किया हुआ Bent गडड० पि० ५६५

पासाकुसुम न० (पाशाकुसुम) पुष्प-विशेष  
 A kind of flower 'पासाकुसुमेहि ताव'  
 गा० ८१६

पासादिय त्रि० (प्रासादित) महल वाला,  
 प्रासाद युक्त Having a palace or  
 mansion स्य० २, ७, १, टी

पासि त्रि० (पारिवन्) पार्श्वस्थ, शिथिला-  
 चारी साधु A saint having a loose  
 conduct 'पासिसारिच्छो, सबोध० ३५

पासिय त्रि० (पाशित) पाश-युक्त En-  
 snared, fettered राज०

पासिया. स्त्री० (पाशिका) छोटा पाश A  
 small snare महा०

पासिल्ल त्रि० (पारिवन्) (१) पास में रहनेवाला.  
 Dwelling in the neighbourhood  
 (२) पार्श्वशायी Sleeping on the side.  
 प्रव० ५४, तदु, १३, भग०

पासेइय त्रि० (प्रस्वेदित) प्रस्वेद-युक्त Per-  
 spired भवि०

पासेल्लिय त्रि० (पार्श्ववन्) पार्श्व शायी  
 Sleeping on the side. राज०

पाहरिय त्रि० (प्राहरिक) पहरेदार. Door-  
 keeper स० ५२५, सुपा० ३१२, ४५५.

the Puranas or mythological works. सुख० २, १३.

पारावार पु० ( पारावार ) समुद्र, Ocean, sea. पाश्र्व० कुप्र० ३७०.

पाराविश्र त्रि० ( पारित ) जिसको पारण कराया गया हो Whose fasts might have been concluded कुप्र० २१२

पारासर पु० ( पारासर ) (१) भिक्षुक. A newly initiated ascetic (२) कर्म-त्यागी सन्यासी Ascetic 'अत्रेवि पारासरा अस्थि' सुख० २, ३१

पारिञ्चोसिय त्रि० ( परितोषिक ) तुष्टि जनक दान, प्रसन्नता सूचक दान, पुरस्कार Present, reward सम्मत्त० १०२, स० १६२, सुर० १६, १८२, विचार० १७१

पारिडि स्त्री० ( प्रावृत्ति ) प्रावरण, वस्त्र, कपड़ा Garment. 'पारिडि यहल्लोण' गा० २३८  
पारितापणी स्त्री० ( पारितापनी ) दूसरे को परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला कर्म-बन्ध A Karmaic-bondage by afflicting others नव० १७

पारिभद्र पु० ( पारिभद्र ) फरहद का पेड़ A kind of tree कप्प०

पारिय, पु० ( पारिजात ) (१) कल्प-वृक्ष विशेष A kind of wish-yielding tree, one of the trees of heaven supposed to have the properties of fulfilling people's wishes or prayers (२) फरहद का पेड़ A kind of tree कुमा० २, १३, (३) न० फरहद का फूल जो रक्त वर्ण का और अत्यन्त शोभायमान होता है A kind of flower भवि०  
पारियन्त पु० ( पारियात्र ) देश विशेष Name of a country, 'पत्तो पारियन्तविसय' कुप्र० ३६६

पारिञ्चज्ज न० ( पारिञ्चाज्य ) सन्यासीपन,

संन्यास Asceticism पञ्च० ८२, २४.  
पारिञ्चार्ई स्त्री० ( परिवाजी ) परिवाजिका-सन्यासिनी A female ascetic उप० पृ० २७६.

पारिञ्चाय त्रि० ( पारिञ्चाज ) सन्यासी सबन्धी. Relating to asceticism राज०

पारिसज्ज त्रि ( पारिपथ ) सभ्य, सभासद. One present at an assembly, spectator, member धर्म० वि० ६.  
पारिसाडणिया स्त्री ( परिशाटनिकी ) परिशाटन-परित्याग से होने वाला कर्म-बन्ध A Karmaic-bondage by abandonment आब० ४

पारिहासय न० ( पारिहासक ) कुल विशेष, जैन मुनिश्रों के एक कुल का नाम Name of a group of Jain saints कप्प०

पारीण त्रि० ( पारीण ) पार प्राप्त. Going over to the other or opposite side, or changing sides 'धीवरसथाय पारीणो' कर्मवि० १३, सि० ४८६, सम्मत्त० ७२

पारीकख त्रि० ( पारोच ) परोच विषयक, परोच सबन्धी Relating to invisibility. स० धर्म० २०२

पारोहि त्रि० ( प्ररोहिन् ) प्ररोह वाला, अकुर वाला Having sprouts or shoots गड०

पालक न० ( पालङ्क्य ) तरकारी विशेष, पालक का साग A species of vegetable. बृह० १

पालव पु० ( पालव ) श्वलवन, सहारा. Support, सुपा० ६३२, (२) दीर्घ, लवा. Long ध्वजा के नीचे लटकता वस्त्राल्बल. The end of the Sari or Dhoti which remains hanging under the armpit of the females पाश्र्व०

पालय त्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्षण-कर्ता  
 Protector, guardian सुपा० २७६,  
 सार्ध० १०, (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र A  
 son of Shree Krishna प्रब० २, (३)  
 भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त  
 श्रवती (उज्जैन) का एक राजा A king of  
 Avanti (Ujjain), enthroned  
 at the time of Lord Mahavi's  
 death विचार० ४६२

पालास. पु० (पालाश) पलाश सवन्धी.  
 Belonging to the Palas tree  
 (२) न० पलाश वृक्ष का फल, A palas  
 fruit गडड०

पाली स्त्री० (पाली) पक्ति, श्रेणी Line,  
 10W गडड०

पालेव पु० (पादलेप) पैर में किया हुआ लेप  
 Besmearing on a foot पिंड० १०३

पावण न० (प्रापण) योग की एक सिद्धि, A  
 particular accomplishment of  
 yoga 'पावणसत्तीप द्विवह' कुप्र० २७७

पावरण पु० (पावरण) एक स्लेच्छ जाति  
 A non-Aryan Sudra tribe मृच्छ०  
 १२२

पावरिय. त्रि० (प्रावृत) आच्छादित. Cover-  
 ed, concealed कुप्र० ३८

पावाइय त्रि० (प्रावाजिक) सन्यासी.  
 Ascetic रथण० २२

पावालित्त्रा स्त्री० (प्रपालिका) प्रपापर नियुक्त  
 स्त्री A woman who distributes  
 water to travellers गा० १६१

पावासु-अ (प्रवासिन्-क) प्रवास करनेवाला  
 Traveller, way-farer, sojourner  
 पि० १०५, हे० १, ६५, कुमा०

पावित्र त्रि० (प्रापित) प्राप्त करवाया हुआ  
 Caused to obtain सण० नाट-मृच्छ०  
 २७

पावित्र. त्रि० (प्लावित) सराबोर किया हुआ,  
 खूब भिजाया हुआ Moistened, Wet-  
 ted कुमा०

पावुत्र त्रि० (प्रावृत) आच्छादित Covered,  
 screened सचि० ४.

पासदण. न० (प्रस्यन्दन) झरना, टपकना.  
 Oozing, trickling वृह० १

पासल्लि त्रि० (पार्श्विन्) पार्श्व-शयित Slept  
 on the side. 'उत्ताणगपासल्ली नेसज्जी'  
 प्रब० ६७, पचा० १८, १५

पासल्लिअ त्रि० (पार्श्वित-तिर्यक) (१) पार्श्व  
 में किया हुआ Left side (२) टेढ़ा  
 किया हुआ Bent गडड० पि० १६१

पासाकुसुम न० (पाशाकुसुम) पुष्प विशेष  
 A kind of flower 'पासाकुसुमेहिं ताव'  
 गा० ८१६

पासादिय त्रि० (प्रासादित) महल वाला,  
 प्रासाद युक्त Having a palace or  
 mansion सूय० २, ७, १, टी

पासि त्रि० (पार्श्विन्) पार्श्वस्थ, शिथिला-  
 चारी साधु A saint having a loose  
 conduct 'पासिसारिच्छो, सभोध० ३२

पासिय त्रि० (पाशित) पाश-युक्त En-  
 snared, fettered. राज०

पासिया स्त्री० (पाशिका) छोटा पाश A  
 small snare महा०

पासिल्ल त्रि० (पार्श्विक) (१) पास में रहनेवाला,  
 Dwelling in the neighbourhood  
 (२) पार्श्वशायी Sleeping on the side.  
 प्रब० १४, लहु, १३, भग०

पासेइय त्रि० (प्रस्वेदित) प्रस्वेद-युक्त Per-  
 spired भवि०

पासेल्लिय त्रि० (पार्श्विन्) पार्श्व शायी  
 Sleeping on the side. राज०

पाहरिय त्रि० (माहरिक) पहरदार. Door-  
 keeper स० १२१, सुपा० ३१२, ४२५.

प्राहुणिक पु० (प्राहुणिक) अतिथि, मेहमान  
Guest काम० २२४

प्राहुणिक-ग-य न० ( प्राहुणिक ) अतिथि,  
अतिथि का सत्कार. Hospitable  
reception of guests कुम० ४२, उप०  
१०३१ टी.

प्राहुणिक न० ( पाथेय ) मुसाफिरी में खाने का  
भोजन Provisions for a journey,  
viaticum महा० अभि० ७६, स० ६८,  
सुपा० ४२४

प्राहुणिक, पु० ( प्रियकर ) (१) एक चक्रवर्ती  
राजा A Chakravarti king, or  
emperor उप० ६७२, (२) रामचन्द्र के  
पुत्र लव का पूर्व जन्म का नाम Name of  
a former birth of Lava, son of  
Ramchandra पउम० १०४, २६

प्राहुणिक, त्रि० ( प्रियवद ) मधुर भाषी  
Sweet-speaking, sweet-tongued  
or polite सुर० १, ६२; ४, ११८, महा०

प्राहुणिकारिणी स्त्री० ( प्रियकारिणी ) भगवान्  
महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी  
Trishala, mother of Lord Maha-  
vira कल्प०

प्राहुणिक पु० ( प्रियग्रन्थ ) एक प्राचीन जैन  
मुनि, आचार्य सुस्थित और सुप्रतिवद का एक  
शिष्य. An ancient Jaina saint कल्प०

प्राहुणिका स्त्री० ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमें  
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१६  
प्यादे हों A division of an army  
consisting of 243 elephants,  
243 chariots, 729 horses and  
1215 foot soldiers. पउम० २६, ६

प्राहुणिक पु० ( पितामह ) ब्रह्मा, चतुरानन  
Brahma से० १, १७, पात्र० उप० २६७  
टी, स० २३१, —तयात्र पु० ( तनय )  
जान्त्रिक, बानर विशेष A particular

monkey — तथ न० ( अस्त्र ) अस्त्र विशेष,  
ब्रह्मास्त्र A kind of missile से० १२, ३७  
प्राहुणिकी. स्त्री० ( पितामही ) पिता की माता,  
दादी. Grandmother सुपा० ४७२.

प्राहुणिक पु० ( प्रियालु ) वृक्ष-विशेष, खिन्नी,  
खिरनी का गाड़ A kind of tree  
ईर० २, १३

प्राहुणिक. पु० ( पितृव्य ) चाचा, बाप का भाई  
Uncle विचार० ४७८

प्राहुणिक पु० ( पितृमेध ) यज्ञ विशेष, जिसमें  
बाप का होम किया जाय A Sacri-  
fice, A Havan or sacred fire in  
which father is offered as an  
object of sacrifice पउम० ११, ४२

प्राहुणिक न० ( पितृवन ) श्मशान Cemetery  
सुपा० ३२६

प्राहुणिका स्त्री० ( पितृप्वलु ) फूफी, पिता की  
बहिन Father's sister or aunt  
पद०

प्राहुणिक. स्त्री० ( प्रेङ्गा ) हिंडोला, डोला Swing.  
पात्र०

प्राहुणिक पु० ( पिङ्गल ) (१) यज्ञ-विशेष  
Demon सिरि० ६६६, (२) चक्रवर्ती का  
एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक  
निधान Name of a treasurer of  
chakravarti उ० ६, उप० ६८६ टी

(३) कृष्ण पुद्गल विशेष. A dark mole-  
cule (४) प्राकृत विंगल का कर्ता एक कवि  
Name of a reputed poet, the  
father of Prakrit prosody विंग०  
(५) प्राकृत का एक छन्द-ग्रन्थ A work  
of Prakrit prosody विंग०

प्राहुणिककुमार. पु० ( पिङ्गलकुमार ) एक  
राजकुमार, जिसने भगवान् सुपाशर्वनाथ के  
समीप दीक्षा ली थी A prince who  
was initiated by Lord Supar-

shvanatha सुपा० ६६  
 पिंगलिका त्रि० ( पिङ्गलित ) नीला-पीला किया हुआ Reddish-brown, brown से०  
 ४, १८, गडड० सुपा० ८०  
 पिंगलिका त्रि० ( पैङ्गलिक ) पिंगल-सबन्धी  
 Relating to Pingala prosody  
 पिंग०  
 पिंगिका त्रि० ( गृहीत ) ग्रहण किया हुआ  
 Taken, seized कुमा०  
 पिंगिम, पु० स्त्री० ( पिङ्गिम् ) पिंगता, पीला-  
 पन Yellowness गडड०  
 पिंगीकय, त्रि० ( पिङ्गीकृत ) पीला किया हुआ  
 Yellow-coloured 'अथथयधुसिणिककु-  
 प्यकपिंगीकय च्च' लहुअ० ७  
 पिङ्गी स्त्री० ( पिङ्गी ) साधु का एक उपकरण  
 Whisk (A wooden brush of a  
 Jain Saint) विचार० १२८  
 पिङ्गरा न० ( पिङ्गरा ) रक्त मिश्रित पीत  
 वर्ण वाला करना Reddish-yellow,  
 Tawny सख०  
 पिङ्गरिका त्रि० ( पिङ्गरित ) पिङ्गर वर्ण वाला  
 किया हुआ Yellowish, brownish  
 हम्मिर० १२, गडड० सुपा० ५२४  
 पिङ्गिका त्रि० ( पिङ्गित ) पीजा हुआ Caused,  
 combed दे० ७, ६४  
 पिङ्ग पु० ( पिङ्ग ) (१) घर का एक देश A  
 part of a house, (२) गन्ध द्रव्य  
 विशेष, सिंहलक A kind of fragrant  
 substance, incense (३) जवा-पुष्प  
 The Chinrose (४) गज कुम्भ The  
 frontal circular drawings on  
 the forehead of an elephant  
 (५) मदनक वृक्ष, दमनक वृक्ष Name of  
 a plant (६) न० आजीविका Liveh-  
 hood, sustenance (७) लोहर. Iron  
 (८) आद, पित्तों के नाम पर दिया हुआ

दान A ball or lump of rice  
 offered to manes at obsequial  
 ceremonies or shraddhas (९) सरत  
 Gathered (१०) घन, निविड Dense,  
 close है० २, ८५, —कपिअ त्रि०  
 ( कल्पिक ) सर्वथा निर्दोष भित्ता लेने वाला  
 Receiving entirely faultless  
 begging चव० ३, —घर न० ( गृह )  
 कर्दम से बना हुआ घर A muddy hut  
 or house. चव० ४, —द्वारा न० ( दान )  
 पियड देने की क्रिया, श्राद्ध The funeral  
 oblation made to the deceased  
 ancestors धर्मवि० २६

पिङ्गा न० ( पिङ्गन ) (१) द्रव्यों का एकत्र  
 सरलेप Forming globes पिङ्ग भा० २  
 (२) ज्ञानावरणीयादि कर्म Karma, Gna-  
 na-varniyadi etc पिङ्ग० ६६

पिङ्गत्थ पु० ( पिङ्गत्थ ) जिन भगवान् की  
 अवस्था विशेष A stage of jiva ( life  
 or soul ) 'न पिङ्गत्थपयथावस्थतरभावणा  
 सम्म', सवोध० २

पिङ्गार पु० ( पिङ्गार ) गोप, ग्वाला cow-  
 herd गा० ७३१

पिङ्गिया स्त्री० ( पिङ्गिका ) (१) पियडी, पिङ्गली,  
 ज्ञान के नीचे का मोंसल अवयव The calf  
 of the leg महा०

पिङ्गी स्त्री० ( पिङ्गी ) (१) घर का आधार भूत  
 काष्ठ विशेष, पीढा A beam on which  
 the planks of the floor are fixed.  
 गडड० (२) खजूर विशेष A special  
 kind of dates नाद-शकु० ३५

पिङ्ग पु० स्त्री० ( पिङ्ग ) कोकिल पक्षी The  
 (Indian) cuckoo पिंग० दे० ६, ५१.

पिङ्गलगा त्रि० ( प्रेक्षक ) निरीक्षक, दृष्टा.  
 Spectator. ती० १०, धर्मवि० १५

पिङ्गलगा न० ( प्रेक्षण ) निरीक्षण Obsei-

पाटुशिखर पु० ( प्रायुषिक ) अतिथि, मेहमान.  
 Guest काण० २२४  
 पाटुश्याय-ग-य न० ( प्रायुषय क ) आतिथ्य,  
 अतिथि का सत्कार. Hospitable  
 reception of guests कृप० ४२, उप०  
 १०३१ टी.  
 पाहेअ न० ( पायेय ) सुसाफिरी में खाने का  
 भोजन Provisions for a journey,  
 viaticum महा० अभि० ७६, स० ६८,  
 सुपा० ४२४  
 पिअकर. पु० ( मियकर ) (१) एक चक्रवर्ती  
 राजा A Chakravarti king, or  
 emperor उप० ६७२, (२) रामचन्द्र के  
 पुत्र लव का पूर्व जन्म का नाम Name of  
 a former birth of Lava, son of  
 Ramchandra पत्रम० १०४, २६  
 पिअवय. त्रि० ( मियवद ) मधुर भाषी  
 Sweet-speaking, sweet-tongued  
 or polite सुर० १, ६५; ४, ११८, महा०  
 पिअकारिणी स्त्री० ( मियकारिणी ) भगवान्  
 महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी  
 Trishala, mother of Lord Maha-  
 vira कल्प०  
 पिअगय पु० ( मियग्रन्थ ) एक प्राचीन जैन  
 मुनि, आचार्य सुस्थित और सुप्रतिबद्ध का एक  
 शिष्य An ancient Jaina saint कल्प०  
 पिअणा स्त्री० ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमें  
 २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१५  
 प्यादे हैं A division of an army  
 consisting of 243 elephants,  
 243 chariots, 729 horses and  
 1215 foot soldiers. पत्रम० ५६, ६  
 पिआमह पु० ( पितामह ) ब्रह्मा, चतुरानन  
 Brahma से० १, १७, पात्र० उप० ५६७  
 टी, स० २३१, —तयाअ पु० ( तनय )  
 जात्रवान्, वानर विशेष A particular

monkey.—तथ न० ( अख ) अख विशेष,  
 ब्रह्माख A kind of missile से० १५, ३७  
 पिआमही. स्त्री० ( पितामही ) पिता की माता,  
 दादी. Grandmother सुपा० ४७२.  
 पिआलु पु० ( मियालु ) वृक्ष-विशेष, खित्री,  
 खिरनी का गाछ A kind of tree  
 ईर० २, १३  
 पिइज्ज पु० ( पितृव्य ) चाचा, बाप का भाई  
 Uncle विचार० ४७८  
 पिइमेह पु० ( पितृमेघ ) यज्ञ विशेष, जिसमें  
 बाप का होम किया जाय. A Sacri-  
 fice, A Havan or sacred fire in  
 which father is offered as an  
 object of sacrifice पत्रम० ११, ४२  
 पिइवय न० ( पितृवन ) श्मशान Cemetery  
 सुपा० ३५६  
 पिउच्चा स्त्री० ( पितृवसु ) फूझी, पिता की  
 बहिन Father's sister or aunt  
 पद०  
 पिखा. स्त्री० ( पेङ्का ) हिंडोला, डोला Swing.  
 पात्र०  
 पिंगल पु० ( पिङ्गल ) (१) यज्ञ-विशेष  
 Demon सिरि० ६६६, (२) चक्रवर्ती का  
 एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक  
 निधान Name of a treasurer of  
 chakravarti उ० ६, उप० ६८६ टी  
 (३) कृष्ण पुद्गल विशेष A dark mole-  
 cule (४) प्राकृत पिंगल का कर्ता एक कवि  
 Name of a reputed poet, the  
 father of Prakrit prosody पिंग०  
 (५) प्राकृत का एक छन्द-ग्रन्थ A work  
 of Prakrit prosody पिंग०  
 पिंगलकुमार, पु० ( पिङ्गलकुमार ) एक  
 राजकुमार, जिसने भगवान् सुपाशर्वनाथ के  
 समीप डीछा ली थी A prince who  
 was initiated by Lord Supar-

पियाग पु० न० (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य  
A bow of Lord Shiva (२) महादेव  
का शूलाख A trident of Lord Siva  
धर्मवि० ३१

पिरिणया स्त्री० (पिरिणिका) गन्ध द्रव्य विशेष,  
ध्यामक, गन्ध-नृत्य A kind of incense  
उत्तनि० ३

पित्तल न० (पित्तल) धातु-विशेष, पीतल  
Brass कुम० १४४

विध अ० (पृथक्) अलग, जुदा Sepa-  
rately, singly हे० १, १८८, कुमा०

पिप्पल पु० न० (पिप्पल) पीपल वृक्ष, अरव-  
त्य The Pipal tree उप० १०३१ टी,  
पात्र० हि० १०

पिष्टुट्रिं (प्लुट्रिं) दग्ध Bunt हे० २,  
१०६

पिलोस पु० (प्लोस) दाह, दहन Burning,  
combustion हे० २, १०६

पिसग पु० (पिशग) (१) पिंगल वर्ण,  
मटियाला रंग Tawny colour (२)  
पिंगल रंग वाला Reddish-brown  
आप० कुम० १०५, ३०६

पिसल पु० (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर योनिक  
देवों की एक जाति Fiend, goblin,  
devil हे० १, १६३, कुमा० पात्र० उप०  
२६४ टी, ७६८ टी

पिसाचि त्रि० (पिशाचिन्) भूताविष्ट  
Possessed by a fiend हे० १, ११७  
कुमा० पङ्० चट०

पिसुश्रिं त्रि० (कथित) (१) कहा हुआ  
Told (२) सूचित Informed सुपा०  
२३, पात्र० कुम० २७८

पिहण न० (पिधान) (१) ढकन Cover,  
lid सुर० १६, १६५

पिहणिया स्त्री० (पिधान) आच्छादन, ढकना  
Cover, lid स० ५१.

पिहाणिआ. स्त्री० (पिधानिका) ढकनी.  
Cover, lid पात्र०

पिहाणी. स्त्री० (पिधानी) ढकना Cover,  
lid दे०

पिहु पु० (पृथु) एक राजा का नाम Name  
of a king. पडम० ६८, ३४.

पिहुरोम पु० (पृथुरोम) मीन, मत्स्य  
Fish दे० ६, ५० टी

पीअ, त्रि० (पीत) (१) जिसका पान किया  
गया हो Drunk, quaffed. से० १,  
४०, दे० ६, १४४ (२) जिसने पान किया  
हो. One who has drunk प्राप्म०

पीअसी स्त्री० (प्रेयसी) प्रेम-पात्र स्त्री A  
beloved wife कुमा०

पीइकर पु० न० (प्रीतिकर) एक विमानावाह,  
आठवाँ प्रैवेयक विमान A celestial aer-  
ial car of the eighth Graiveyake  
देवेन्द्र० १३७, प्रव० १६४.

पिइधम्मिय. न० (प्रीतिधर्मिक) जैन मुनियों  
का एककुल A particular collection  
of Jain saints कप्प०

पीडिअ त्रि० (पीडित) (१) पीटा से अभिभूत,  
दु खित Pained, pinched, harassed  
(२) दबाया गया Squeezed, pressed  
हे० १, २०३, महा० पात्र०

पीड न० (पीठ) (१) तल A pedestal  
'चत्तूण नेडपीड' कुमा०, (२) पु० एक जैन  
महर्षि A Jain sage. सट्टि० ८१ टी

—चय पु० (बन्ध) ग्रन्थ की अवतरणिका-  
भूमिका Preface 'आसदी पीडिआ'  
पडम० ३, १६

पीडिआ स्त्री० (पीठिका) आसन विशेष,  
मन्च A kind of seat 'आसदी पीडिआ',  
पात्र०

पीण्य न० (प्रीण्य) खुश करना Pleasing,  
Satisfying धर्मवि० १४८



vance, inspection राज०  
 पिक्विलय त्रि० (पेक्षित) दृष्ट, Seen, view-  
 ed, beheld. पि० ३६०.  
 पिचु पु० (पिचु) कपास, रुई Cotton. दे०  
 ६, ७८, —लया स्त्री० (लता) पूनी, रुई  
 की पूनी A roll of cotton दे० ६, १६  
 पिचुमद् पु० (पिचुमन्द) निम्ब वृक्ष, नीम  
 का पेड़. Nimbatree मोह० १०३.  
 पिच्छ न० (पिच्छ) पूँछ, लागूल Tail  
 गठ०  
 पिच्छल त्रि० (पिच्छल) (१) स्निग्ध, स्नेह  
 युक्त Affectionate, loving (२) मसृण  
 Slimy, shippy सण०  
 पिच्छा स्त्री० (पेक्षा) निरीक्षण Obser-  
 vance, inspection. —भूमि स्त्री०  
 (भूमि) रंग-मण्डप A theatre, play-  
 house पाद्य०  
 पिच्छिर. त्रि० (पेक्षितृ) पेक्षक, द्रष्टा Spec-  
 tator, observer सुपा० ७८, कुमा०  
 पिच्छल त्रि० (पिच्छल) (१) स्नेह युक्त,  
 स्निग्ध Affectionate, loving (२)  
 मसृण, चिकना Slimy, slippery गठ०  
 हास्य० १४०, दे० ६, ४७  
 पिच्छी स्त्री० (पिच्छी) पीछी Feather-  
 bush गा० १७२  
 पिच्छी स्त्री० (पृथ्वी) (१) पृथ्वी, धरती  
 Earth कुमा०, (२) बड़ी इलायची Large  
 cardamoms (३) पुनर्नवा A herb  
 (४) कृष्ण जीरक Black cumin-seed  
 (५) हिंगुपत्री Vermillion हे० १, १२८  
 पिच्चा स्त्री० (पेया) यवागू Rice-gruel  
 पिंड० ६२४  
 पिच्चावित्र त्रि० (पायित) जिसको पान  
 कराया गया हो Caused to drink सुख०  
 २, १७  
 पिट्टणा स्त्री० (पिट्टना) ताड़न Beating

श्रोत्र० ३२७  
 पिट्टिय त्रि० (पिट्टित) पीटा हुआ, ताड़ित.  
 Beaten सुख० २, १५  
 पिट्ट त्रि० (स्पृष्ट) (१) छुआ हुआ Touch-  
 ed (२) न० स्पर्श Touch प्रब० १५७  
 पिट्ट त्रि० (पृष्ट) (१) पूछा हुआ Asked  
 (२) न० प्रश्न, पृच्छा Question 'जपसि  
 विद्याथय जपसे पिट्ट' गा० ६४३  
 पिट्टव्व त्रि० (प्रष्टव्य) पूछने योग्य Worthy  
 to be asked रभा०  
 पिट्टायय पु० न० (पिट्टातक) केसर आदि  
 गन्ध द्रव्य. Scented or perfumed  
 powder गठ० स० ७३४  
 पिट्टिचपा स्त्री० (पृष्टचम्पा) चम्पा नगरी  
 के पास की एक नगरी A city near  
 Champa city कण्य०  
 पिट्टी स्त्री० (पैठी) आटे की बनी हुई मदिरा.  
 A liquor distilled from meals or  
 flour बृह० २  
 पिड पु० (पिट) कब्जा, अधिनता Posses-  
 sion, control 'मह पिडे पडिओ' सुपा०  
 १७६  
 पिडिआ स्त्री० (पिटिका) (१) वशा मय भाजन  
 विशेष. A particular vessel of  
 bamboo दे० ४, ७, ६, १, (२) छोटी  
 मन्जूषा, पेटी, पिटारी Box उप० १८७,  
 १६७ टी  
 पिड अ० (पृथक्) अलग, जुदा separate-  
 ly, singly. पद्०  
 पिडर पु० न० (पिटर) (१) गृह-विशेष  
 Abode (२) सुस्ता, मोथा A herb, &  
 medicine (३) मन्थान द्रव्य, मथनिया.  
 A churning-stick हे० १, २०१, पद्०  
 पिशाह पु० (पिनाकिन्) महादेव, शिव.  
 An epithet of Lord Shiva पाद्य०  
 गठ०

पिशाग पु० न० (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य  
A bow of Lord Shiva (२) महादेव  
का शूलास्त्र A trident of Lord Siva  
धर्मवि० ३१  
पिशाग्या स्त्री० (पिशाग्या) गन्ध द्रव्य विशेष,  
ध्यामक, गन्ध-नृण A kind of incense  
उत्तनि० ३  
पित्तल न० (पित्तल) धातु-विशेष, पीतल  
Brass कुप्र० १४४  
पिघ अ० (पृथक्) अलग, जुदा Sepa-  
rately, singly हे० १, १८८, कुमा०  
पिपल पु० न० (पिपल) पीपल वृक्ष, अरव-  
त्य The Pipal tree उप० १०३१ टी,  
पात्र० हि० १०  
पिलुट्ट त्रि० (प्लुट) दग्ध Bunt हे० २,  
१०६  
पिलोस पु० (प्लोप) दाह, दहन Burning,  
combustion हे० २, १०६  
पिसग पु० (पिशाग) (१) पिंगल वर्ण,  
मटियाला रंग Tawny colour (२)  
पिंगल रंग वाला Reddish-brown  
आप० कुप्र० १०५, ३०६  
पिसल पु० (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर योनिक  
देवों की एक जाति Friend, goblin,  
devil हे० १, १६३, कुमा० पात्र० उप०  
२६४ टी, ७६८ टी  
पिसाचि त्रि० (पिशाचिन्) भूताविष्ट  
Possessed by a fiend हे० १, ११७  
कुमा० पद० चड०  
पिसुण्डि त्रि० (कथित) (१) कहा हुआ  
Told (२) सूचित Informed सुपा०  
२३, पात्र० कुप्र० २७८  
पिहाण न० (पिधान) (१) ढकन Cover,  
lid सुर० १६, १६५  
पिहाणिया स्त्री० (पिधान) आच्छादन, ढकना  
Cover, lid स० ५१.

पिहाणिया, स्त्री० (पिधानिका) ढकनी,  
Cover, lid पात्र०  
पिहाणी, स्त्री० (पिधानी) ढकना Cover,  
lid दे०  
पिहु पु० (पृथु) एक राजा का नाम Name  
of a king. पउम० ६८, ३४.  
पिहुरोम पु० (पुथुरोम) मीन, मत्स्य.  
Fish दे० ६, १० टी  
पीअ त्रि० (पीत) (१) जिसका पान किया  
गया हो Drunk, quaffed से० १,  
४०, दे० ६, १४४ (२) जिसने पान किया  
हो. One who has drunk प्राप्र०  
पीअसी स्त्री० (प्रेयसी) प्रेम-पात्र स्त्री A  
beloved wife कुमा०  
पीइकर पु० न० (प्रीतिकर) एक विमानावाह,  
आठवाँ त्रैलोक्यक विमान A celestial aer-  
ial car of the eighth Graiveyake  
देवेन्द्र० १३७, प्रव० १६४.  
पिइधम्मिय. न० (प्रीतिधम्मिक) जैन मुनियों  
का एककुल A particular collection  
of Jain saints कप्प०  
पीडिअ त्रि० (पीडित) (१) पीडा से अभिभूत,  
दुःखित Pained, pinched, harassed  
(२) दबाया गया Squeezed, pressed  
हे० १, २०३, महा० पात्र०  
पीडि न० (पीठ) (१) तल A pedestal  
'चतुष्पै नैडपीड' कुमा०, (२) पु० एक जैन  
महर्षि A Jain sage, सट्टि० ८१ टी  
—वय पु० (बन्ध) ग्रन्थ की अवतरणिका-  
भूमिका Preface 'नय पीठबधरहिय'  
पउम० ३, १६  
पीडिअ स्त्री० (पीडिका) आसन विशेष,  
मन्च A kind of seat 'आसनदी पीडिअ',  
पात्र०  
पीशाण न० (प्रीशाण) खुश करना Pleasing,  
satisfying धर्मवि० १४८

पीयिम पु० स्त्री० (पीनता) पुष्टता, मांसलता  
Fatness, हे० २, १५४.  
पीलावय. त्रि० ( पीडक ) (१) पीलने वाला.  
An oppressor (२) पु० तेली, यन्त्र से  
तेल निकालने वाला An oil-man. वज्रा०  
११०  
पीलिम त्रि० ( पीडावत् ) दाब वाला, 'दाबने  
से बना हुआ Formed by pressing  
दसनि० २, १७.  
पीलु पु० ( पीलु ) हाथी Elephant.  
पात्र० स० ७३५.  
पीलुश्च पु० ( पीलुक ) शावक, बच्चा  
Child गा० १०२  
पीसय. त्रि० ( पेपक ) पीसने वाला Grinding,  
pounding सुपा० ६३  
पीहग पु० ( पीटक ) नवजात शिशु को पिलाई  
जाती एक वस्तु A medicine to be  
administered to a new born  
baby उप० ३११  
पुत्र न० ( प्लुत ) (१) तिर्यग् गति An  
oblique pace (२) कर्षणा, कल्प-गति  
Jump, leap विशेष० १४३६ टी  
पुखिश्च त्रि० ( पुखित ) पुख-युक्त किया हुआ  
Furnished with feathers 'घण्टे  
तिकली सरो पुखिश्चो' कम्पू०  
पुगव त्रि० ( पुङ्गव ) श्रेष्ठ, उत्तम Excellent,  
distinguished, pre-eminent  
सुपा० ५, ८०, श्रु० ४१, गउड०  
पूछ पु० न० ( पुच्छ ) पूछ, लागूल Tail  
माकू० १२, हे० १, २६  
पुंछण न० ( प्रोञ्चन ) रजोहरण, जैन मुनि  
का एक उपकरण A woolen-brush of  
a Jain saint बृह० १  
पुच्छिश्च त्रि० ( प्रोञ्चित ) पोंछा हुआ, मृष्ट.  
Swept with care पात्र० कुमा० भवि०  
पंजईय. त्रि० ( पुञ्जित ) (१) एकत्रित.

Gathered, collected से० ६, ६३,  
पडम० ८, २६१, (२) व्यास, भरपूर Fall  
पडम० ८, २६१  
पुजक-य त्रि० ( पुञ्जक ) राशि रूप से स्थित  
Lying in a heap 'न उष्य पुजक-  
पुंजका' पिंड० ८२  
पुजाचिय. त्रि० ( पुञ्जित ) एकत्रित कराया  
हुआ Caused to collect काल०  
पुड. पुं० ( पुण्ड ) (१) इक्षु-विशेष A kind  
of sugar-cane पडम० ४२, ११,  
गा० ७४०, (२) त्रि० धवल, श्वेत,  
सफेद White नाया० १, १७ टी, (३)  
तिलक A mark on the forehead  
स० ६, पिडभा० ४३, कुप० २६४  
पुडघच्छण न० ( पुडूवर्धन ) नगर-विशेष  
Name of a city स० २२५  
पुडरीश्च पु० ( पुण्डरीक ) (१) ग्यारह रुद्र  
पुरुषों में सातवा रुद्र Name of the  
seventh out of eleven Rudras.  
विचार० ४७३ (२) व्याघ्र, शार्ङ्गल Tiger  
पात्र०, (३) पु० न० तप-विशेष A kind  
of religious austerity प्रच० २७१  
पुडरीश्च त्रि० ( पौण्डरीक ) प्रधान, मुख्य.  
Chief, principal (२) कान्त, श्रेष्ठ,  
उत्तम Excellent, pre-eminent  
सूयनि० १४७, १४८  
पुनाग पु० ( पुन्नाग ) वृक्ष-विशेष, पुष्प-प्रधान  
एक वृक्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुलतान-चम्पक,  
पाटल का गाछ Name of a tree उप०  
पृ० १८, ७३६ टी, सम्मत्त० १७५, (२) श्रेष्ठ  
पुरुष, उत्तम मर्द A distinguished  
man धम्म० १२ टी, सम्मत्त० १७५.  
पुसण न० ( पुसन ) मार्जन Cleansing-  
कुमा०  
पुसद् पु० ( पुशब्द ) पुरुष वाचक नाम De-  
signation of a male being कुमा०

पु सली स्त्री० (पुश्चली) कुलटा, न्यभिचारिणी  
स्त्री. An unchaste woman वजा०  
६८, धर्मवि० १३७  
पु सिञ्ज त्रि० (पुसित) पोंछा हुआ Swept  
carefully दे० १, ६६  
पुक्करिय त्रि० (पुक्कृत) पुकारा हुआ Called  
out सुपा० ३८१.  
पुक्कार पु० (पुकार) पुकार, डाक, आह्वान  
Calling सुपा० २१७, महा० सण०  
पुष्करकल पुं० (पुष्कराल) विष्णु, श्रीकृष्ण  
An epithet of Vishnu, Shree  
Kishna (२) कश्मीर के एक राजाका नाम  
Name of a king of Kashmira  
सुपा० २४२  
पुष्कल पु० (पुष्कर) (१) एक विजय,  
प्रान्त-विशेष, जिसकी मुख्य नगरी का नाम  
श्रौपथि है A particular region इक०  
पुष्कल त्रि० (पुष्कल) अत्यन्त प्रभूत  
Much, abundant कुम० ४१०  
पुच्छण न० (प्रच्छन-प्रश्न) पृच्छा Asking  
स्यनि० १६३, धर्मवि० ८, श्रावक० ६३ टी  
पुच्छिर त्रि० (प्रष्ट) प्रश्न-कर्ता Questioning  
गा० २६८  
पुज्जण न० (पूजन) पूजा, अर्चा Worship  
कुम० १२१  
पुजा स्त्री० (पूजा) पूजा, अर्चा Worship,  
adonation उप० पु० २४२  
पुज्जिय त्रि० (पूजित) सेवित, अर्चित  
Adored, worshipped भवि०  
पुड पु० न० (पुट) (१) खाल, ढोल आदि  
का चमड़ा Hide 'हुरुत्तपुडसदाणसडिया'  
उवा० ६४ टी, गडड० ११६७, कुमा०  
(२) आच्छादन, ढकन Cover, lid  
उवा० गडड०, (३) कमल, पद्म Lotus  
विक्र० २३  
पुडभयेण न० (पुटभदेन) नगर, शहर City

कल०

पुडिया स्त्री० (पुटिका) पुड़ी, पुडिया A  
vessel made of a leaf दे० २, १२.  
पुड्वी त्रि० (पृथिवी) (१) पृथ्वीकाय का  
जीव Earthly beings जी० २.  
(२) भगवान सुपाश्वनाथ की माता का नाम  
Mother of Lord Suppashva-  
natha राज०  
पुड्वीभूय त्रि० (पृथगभूत) जो अलग हुआ हो  
Separated, divided सुपा० २३६  
पुण्य अ० (पुनर्) (१) भेद, विशेष.  
Division विशेष० ८११ (२) अवधारण,  
निश्चय Determination (३)  
पद्मान्तर On the other hand (४)  
समुच्चय Collection पण्ड० २, ३, गडड०  
कुमा० जी० ३७, प्रासू० ६, १२, १६८, स्वप्न०  
७२, रिंग०, (५) पाद पूर्ति में भी इयक  
प्रयोग होता है Used also for filling  
out a line निसी० चू० १, —करण  
न० (करण) फिर से बनाना. Remaking.  
(२) जिसकी फिर से बनावट की जाय  
Reforming 'होइ पुणकरण' उव०  
—एणव त्रि० (नव) फिर से नया बना हुआ,  
तजा Re-cast, fresh उप० ७६६ टी,  
कप्पू० —पुण्य अ० (पुनर्) फिर फिर, बारबार.  
Again and again, repeatedly  
पुणकरण न० (पुन करण) बारबार बनाना,  
बारबार निर्माण Making repeated.  
दे० १, ३२, —भू स्त्री० (भू) फिर से  
विवाहित स्त्री, जिसका पुनर्लग्न हुआ हो A  
remarried woman 'अथि पुण्यभूकप्पो  
ति' कुम० २०८, २०६  
पुण्य त्रि० (पवन) पवित्र करनेवाला Clean-  
sing, purifying कुमा०  
पुण्य पु० (पुष्य) जो उपवास, बेला Two  
fasts at a time, सबोध० १८

पुराण पु० ( पूर्ण ) ( १ ) इक्षुवर समुद्र का अधिपत्यक देव. A presiding god of Ikshuvara sea राज०, ( २ ) तिथि विशेष, पक्ष की पाचवीं, दसवीं और पन्द्रहवीं तिथि The fifth, tenth, and fifteenth date of a fortnight. ( ३ ) शिखर-विशेष Summit इक०

पुराणकलसा स्त्री० ( पुरयकलशा ) लाट देश के एक गाँव का नाम Name of a vilge of Lata country राज०

पुराणधरा पु० ( पुरयधन ) विद्याधरों का एक स्वनाम ख्यात राजा A ling of Vidyadharas पउम० २, ६२

पुराणचन्द्र पु० ( पूर्णचन्द्र ) विद्याधर वंश के एक राजा का नाम Name of a king of Vidyadhar race पउम० २, ४४

पुराणपति पु० ( पूर्णपति ) इक्षुवर द्वीप का अधिपति देव A presiding god of Ikshuvara Dvipa राज०

पुराणमत त्रि० ( पुरयवत् ) पुरय वाला, भाग्यवान् Lucky, fortunate हे० २, १२६ चन्द०

पुराणाह पु० न० ( पुरयाह ) ( १ ) पुरय दिन, शुभ दिवस A happy or auspicious day गा० १६२, गउड०, ( २ ) वाद्य-विशेष A kind of musical instrument 'पुराणाहत्तुरेय' स० ४०१, ७३४

पुरिणामसी ( पूर्णमासी ) पूर्णिमा The day of full moon सबोध० ३६

पुत्तलय पु० ( पुत्रक ) पूतला Doll, puppet सिर० ८६१, ६२, ६४

पुत्तुल्ल स्त्री० ( पुत्र ) पुत्र, लडका Son प्राकृ० ३२

पुत्रकलस पु० ( पुरयकलश ) एक राजा का नाम Name of a king उप० ७६८ टी

पुत्रजसा स्त्री० ( पुरययशस् ) एक स्त्री का

नाम. Name of a woman, उप ७२८ टी.

पुत्रतल पु० ( पूर्णतल ) एक जैनमुनि गच्छ A particular gathering of Jaina saints कुप्र० ६

पुत्रपत्तिया. स्त्री० ( पुरयप्रत्यय ) एक जैन मुनि शाखा A branch of Jaina saints कप्प०

पुत्रय त्रि० ( पूर्णप्राय ) करीब करीब-सपूर्णा, कुछ-कम पूर्ण Generally full उप० ७२८ टी

पुत्रभागि त्रि० ( पुरयभागिन् ) पुरय का भागी, पुरय शाली Lucky, fortunate सुपा० ६४१

पुत्रयण पु० ( पुरयजन ) यत्, एक देव-जाति. Demi-god पात्र०

पुत्रसम पु० ( पुरयशर्मन् ) एक ब्राह्मण का नाम Name of Brahmana उप० ७२८ टी

पुत्रसार पु० ( पुरयसार ) एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी Name of a wealthy man. उप० ७२८ टी -

पुष्प पुं० ( पुष्प ) स्त्री का रज Menstrual discharge, menses ( २ ) विकास. Blooming, blossoming ( ३ ) आँख का एक रोग A disease of the eyes. ( ४ ) कुबेर का विमान A car or vehicle of Kubera हे० १, २३६, २, २३, ६०; १२४, —चिचिणिया स्त्री ( चायिनी ) फूल बिनने वाली स्त्री. A female flower gatherer पात्र०, —छुज्जिया स्त्री० ( छुज्जिका ) पुष्प पात्र विशेष A kind of vessel made of flowers राज०, —लावी स्त्री० ( लावी ) फूल बनाने वाली स्त्री A female flower gatherer पात्र० दे० १, ६, —चई स्त्री० ( वती ) ऋतुमती स्त्री A woman in her courses दे० ६, ६४, गा० ४८०;

(२) बीसवें जिनदेव की प्रवृत्तिनी-प्रमुख साध्वी का नाम A chief female saint of the twentieth Jinadeo प्र० ६  
 पुष्करि प० (पुष्पगिरि) एक पर्वत का नाम Name of a mountain प० ७६, १०  
 पुष्पदन्ती स्त्री० (पुष्पदन्ती) दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी Name of Damayanti's mother कु० ४८  
 पुष्पपुर (पुष्पपुर) पाटलिपुत्र, पटना शहर Patnāputra, ancient name of the modern city of Patna राज०  
 पुष्पवायु प० (पुष्पवायु) कामदेव An epithet of the god of love, cupid रभा०  
 पुष्पभद्र स्त्री० न० (पुष्पभद्र) नगर-विशेष, पटना शहर Patna city राज०  
 पुष्पय प० (पुष्पक) (१) फेन, डियडीर Foam पात्र० (२) ललाट का एक पुष्पाकार आभूषण An ornament  
 पुष्पम प० स्त्री० (पुष्पत्व) पुष्पवन Blossoming हे० २, १२४.  
 पुर न० (पुर) शरीर, देह Body कु० ४३८  
 पुरजय प० (पुरजय) एक विद्याधर राजा A Vidyadhari king — पुर न० (पुर) एक विद्याधर नगर A Vidyadhari city इक०  
 पुरदर प० (पुरन्दर) (१) गन्ध-द्रव्य-विशेष A kind of fragrant substance हे० १, १७७, (२) वृक्ष-विशेष, चव्य का पेड़ A kind of tree 'पुरदरकुसुमदामसुविशेष' सूझ्या जाया' उप० ६८६ टी, (३) एक राजपि Name of a loyal sage प० २१, ८०, (४) मन्दर कुन्ज नगर का एक विद्याधर राजा A Vidyadhari

king of Mandarkunja city प० ६, १७०,—दिसि स्त्री० (दिशा) पूर्व दिशा East उप० १४२ टी  
 पुरदरजसा स्त्री० (पुरन्दरयशस्) एक राज-कन्या का नाम Name of a princess उप० ६७३  
 पुरधि-ध्री स्त्री (पुरन्ध्री) (१) बहु कुटुम्ब वाली स्त्री House-wife (२) पति और पुत्र वाली स्त्री A woman whose husband and children are alive कुमा० कु० १०७, सुपा० २६, पाय०, (३) अनेक काल पहले ब्याही हुई स्त्री० An elderly married woman कप्पू  
 पुरचद्र प० (पुरचन्द्र) विद्याधर वंश का एक राजा A king of Vidyadhari lineage प० ५, ४४  
 पुरदेव. प० (पुरादेव) भगवान् आदिनाथ Lord Adinatha 'पुरदेवजिष्णस्स निम्बाण' प० ४, ८७  
 पुरस्सर त्रि० (पुरस्सर) अग्र-गामी Going or moving in front कप्पू  
 पुरात्रण. त्रि० (पुरातन) पुराना, प्राचीन. Ancient नाट-चैत० १३१.  
 पुरिकोवेर प० व० (पुरिकोवेर) देश-विशेष. Name of a country प० ६८, ६७  
 पुरिमिज्ञ त्रि० (पूर्वीय) पहले का, पुरातन, प्राचीन Ancient, old 'आसि नरा पुरिमिज्ञा चेद्दय० ११५  
 पुरिज्ञ त्रि० (पौरस्त्य) पुरो-भव, पुरोवर्ती, अग्र-गामी Going before or in front से० १३, २, हे० २, १६३, प्रा० ४६०  
 पुरिज्ञ त्रि० (पौर) पुर-भव, नागरिक Relating to a city or town प्रा० ३३, हे० २, १६३  
 पुरिज्ञा अ० (पुरा) (१) निरन्तर-क्रिया-

करण, विच्छेद रहित क्रिया करना Continuous activity, an activity which is free from clearing effects (२) प्राचीन, पुराना Ancient (३) पुराने समय में In former times, formerly (४) भावी, Future (५) निकट, सन्निकट. Near (६) इतिहास, पुरावृत History हे० २, १६४.

पुरिज्ञा. अ० ( पुरस् ) आगे, अग्रत Before, in front हे० २, १६४

पुरिस्ताइय न० ( पुरुषायित ) विपरीत मेथुन A kind of coitus or mode of sexual enjoyment in which the woman incites the man दे० १, ४२

पुरिसाहृत्र त्रि० ( पुरुषायितृ ) विपरीत रत करने वाला Displeasure, that which displeases 'दरपुरिसाहृत्र विमसिरि' गा० ५२, ४४६

पुरिसुत्तिम-पुरिसोत्तम पु० ( पुरुषोत्तम ) (१) भगवान् अनन्तनाथ का प्रथम श्रावक The first Shrivaka of Lord Anantanaatha विचार० ३७८, (२) श्रीकृष्ण Shree Krishna सम्मत्त० २२६

पुरी स्त्री० ( पुरी ) नगरी, शहर City कुमा०, —नाह पु० ( नाथ ) नगरी का अधिपति, राजा King, ruler उप० ७२८ टी

पुरु पु० ( पुरु ) स्वनाम ख्यात एक राजा Name of a king अभि० १७६, (२) प्रचुर, प्रभूत Much, abundant, excessive प्राक० २८

पुरुरव पु० ( पुरुवस् ) एक चन्द्र-वशीय राजा A king of the lunar race वि० ४०८, ४०९

पुरुहूअ पु० ( पुरुहूत ) इन्द्र, देव-राज Indra, a lord of gods गउड०

पुरेस पु० ( पुरेश ) नगर स्वामी King, ruler. भवि०

पुरोत्तमपुर न० ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याधर नगर का नाम, Name of a Vidyadhar city इक०

पुरोह पु० ( पुरोधस् ) पुरोहित Family-priest उप० ७२८ टी, धर्मवि० १४६

पुलअण त्रि० ( दर्शन ) देखने वाला, प्रेक्षक. Spectator कुमा०

पुलअण न० ( पुलकन ) पुलकित होना Election of the hairs of the body, Homipilation कप्प०

पुलइअ त्रि० ( इष्ट ) देखा हुआ Seen गा० ११८, सुर० १४, ११, पाअ०

पुलदल्ल त्रि० ( पुलकित ) रोमान्च युक्त रोमाञ्चित Having the hairs of the body erect वज्जा० १६४

पुलाग-य पु० न० ( पुलाक ) (१) लेहसन आदि दुर्गन्ध द्रव्य A vegetable with bad smelling e g Garlic etc (२) दुष्ट रस वाला द्रव्य A substance having a bad juice 'गधेय रसपुलाए य' बृह० ५

पुलिया न० ( पुलिन ) लगातार बाईस दिनों का उपवास Twenty-two fasts at a time सबोध० १८

पुलुठ त्रि० ( प्लुष्ट ) दग्ध Burnt पाअ०

पुलोअण न० ( दर्शन-प्रलोकन ) विलोकन Looking at, observing दे० ६, ३०, गा० ३२२

पुलोइअ त्रि० ( इष्ट-प्रलोकित ) (१) देखा हुआ. Seen, observed सुर० ३, १६४, (२) अवलोकन Observation, inspection. से० ७, ५६

पुलोम पु० ( पुलोमन् ) दैत्य विजेष Name of a demon, the father-in-law

of India —तणया स्त्री (तनया) शची, इन्द्राणी Sachi, daughter of Puloman and wife of India पात्र०

पुलोमी स्त्री० ( पौलोमी ) इन्द्राणी Sachi, daughter of Puloman, and wife of India प्राक्० १०, हे० १६०

पलोस पु० ( प्लोप ) दाह, दहन Burning, combustion गडड०

पुव्व त्रि० ( पूर्व ) ( १ ) समस्त, सकल All, whole ( २ ) ज्येष्ठ भ्राता Eldest हे० २, १३२ पड०, ( ३ ) कारण, हेतु Reason —एह पु० ( ह ) तप-विशेष

A religious austerity सबोध० २८, —पय न० ( पद ) उत्सर्ग-स्थान A place prescribed by a general rule or precept निली०

च० १, —सुय न० ( श्रुत ) पूर्वं का ज्ञान Knowledge of the past life राज०,

—सूरि पु० ( सूरि ) प्राचीन आचार्य An ancient Acharya जीव १

पुन्वय पु० ( पूर्वज ) पूर्व पुरुष, पुरखा Ancestor, forefather सुपा० २३२

पु-वा स्त्री० ( पूर्वा ) पूर्व दिशा East कुमा० पुव्वामेव, अ० ( पूर्वमेव ) पहले ही Formerly, before कस०

पुन्वाचईण्य न० ( पूर्वाचकीर्णक ) नगर विशेष City इक०

पुन्निम पु० स्त्री० ( पूर्वत्व ) पहिलापन, प्रथमता Priority पड०

पुस पु० ( पौष ) मास-विशेष, पौष-मास The month of Pausha 'पुसो' प्राक्० १०

पुसिअ त्रि० ( प्रोच्छ्रित-मृष्ट ) पोंछा हुआ Cleansed properly, swept carefully गडड० से० १०, ४२, गा० २४

पुसिअ पु० ( पृपत् ) मृग-विशेष The spotted antelope गा० ६२६

पुह-पुह अ० ( पृथक् ) अलग, जुदा Separate हे० १, १८८, —ध्रुय. त्रि० अलग, जो जुदा किया हुआ हो Separated अज्ज० ६०

पुहई स्त्री० ( पृथ्वी ) एक नगरी का नाम Name of a city पउम० २०, १८८

पुहईसर पु० ( पृथ्वीश्वर ) राजा King, ruler सुपा० १०७, २४१

पुहस्त न० ( पृथक्त्व ) ( १ ) विस्तार, Expanse, magnitude राज०, ( २ ) त्रि० भिन्न, अलग. Separate, different 'अत्यपुहस्तस' विशेष० १०६६

पुहवि-वी स्त्री० ( पृथ्वी ) भगवान् श्रैयासनाथ की दीक्षा शिविका A palanquin at the time of initiation of Lord Shieyansnatha विचार० १२६, ( २ ) एक छन्द का नाम Name of a metrie पिंग०.

पुहवीचद्. पु० ( पृथ्वीचन्द्र ) एक राजा. Name of a king यति० २०

पुहवीपाल पु० ( पृथ्वीपाल ) एक राजकुमार Name of a prince उप० ६८६ दी

पुहवीपुर न० ( पृथ्वीपुर ) एक नगर का नाम Name of a city उप० ८४४

पुहवीस पु० ( पृथ्वीश ) राजा. King, sovereign हे० १, ६

पुहु त्रि० ( पृथु ) विशाल, विस्तीर्ण Broad, wide, expansive प्राक्० २८

पूअ पु० ( पूग ) ( १ ) वृक्ष-विशेष, सुपारी का गड्ड The areca or betel-nut tree. गडड० ( २ ) न० फल-विशेष, सुपारी The areca or betel-nut स० ३४२

पूअ न० ( पूत ) तालाब, कुआ आदि खुदवाना, अन्न-दान करना, आदि जन समूह के हित का कार्य An act of pious liberality. स० ७१३



- पूत्र. न० (पूत) लगातार छ दिनों का उपवास  
Six fasts at a time सत्रोच० १८
- पूत्रल पु० (पू) त्रपू, पूत्रा, खाद्य-विशेष  
A kind of eatable दे० ६, १८.
- पूत्रारह पु० (पूजारथ) राक्षस वश में उत्पन्न  
एक राजा, एक लक्ष-पति Name of a  
king born in a demon family  
पठम० ५, २५६
- पूत्राहिज्ज त्रि० (पूजाहार्य) पूजित-पूजक  
Venerable, worshipful ठा० ५, ३, टी
- पूड्डी स्त्री० (पूति) रोग-विशेष, एक नासिका  
का रोग, नासा कोथ A kind of  
disease विशेष० २०८
- पूडूम वि० (पूज्य) पूजा के योग्य, समाननीय,  
Deserving respect, worthy of  
honour 'जया य पूडूमो' दसचू० १, ४
- पूग पु० (पूग) समूह, सघात Multitude,  
collection, gathering. मोह० २८
- पूगी. स्त्री० (पूगी) सुपारी का पेड़ The  
areca or betel-nut tree —फल  
न० । फल) सुपारी The areca or  
betel-nut रथण० १५
- पूयावस्था स्त्री० (पूजना) पूजा करना  
Worshipping, adoring, मबोध० १५
- पूर पु० (पूर) खाद्य-विशेष A kind  
of eatable 'कपूरपूरसहिष् तबाले' सुर०  
२, ६०, (२) त्रि० पूरा, पूर्ण Full,  
complete स० ३६३
- पूरतिआ स्त्री० (पूरयन्तिका) राजा की एक  
परिपक्ष-परिवार An assembly of a  
king राज०
- पूरण न० (पूरण) (१) शूर्प, सूप A  
winnowing fan दे० ६, १६ (२) पूर्ति  
Filling up, completing 'समस्तापूरण'  
सिरि० ६६८, (३) पालन Nourishing  
maintaining आया० चू० २.
- पूरिग स्त्री० (पूरिका) मोटा कपडा A big  
garment राज०
- पूरी स्त्री० (पूरी) तन्तुवाय का एक उपकरण  
An implement of a weaver दे०  
६, १६
- पूल पु० न० (पूल) घास की अट्टिया.  
A bundle of grass उप० ३२० टी,  
कुप्र० २१५
- पूस पु० (पूषन्) सूर्य, रवि Sun हे० ३,  
१६, (२) मणि-विशेष Piccious stone  
पठम० ६, ३६
- पूसगिरि पु० (पूयगिरि) एक जैन मुनि A  
Jaina saint कप्प०
- पूसमित्त पु० (पुष्यमित्र) एक राजा King.  
विचार० ४६३
- पूसमित्तिय न० (पुष्यमित्रीय एक जैन मुनि-  
कुल A group of a Jaina saints  
कप्प०
- पेश्र पु० (प्रेत)(१) व्यन्तर भेद, एक देव जाति  
Evil spirits. सुपा० ४६१, ४६२, जय०  
२६, (२) मृतक Dead, attainment  
of eternal bliss पठम० ५, ६०
- पेश्र त्रि० (प्रेथस्) अतिथय प्रिय  
Dearer, beloved सम्मत्त० १७५.  
—रुम्म न० (कर्मन्) अन्त्येष्टि क्रिया मृत का  
दाहादि कार्य Obsequial or funeral  
rites पठम० २३, २४, —अहिव पु०  
(अधिप) यम, जमराज An epithet of  
Yama-raj, or Demons पाथ्र०  
करणिज्ज न० (करणीय) अन्त्येष्टि क्रिया  
Obsequial or funeral rites पठम०  
७५, १, —नाह. पु० (नाथ) यमराज, जम  
Demon स० ३१६, —भूमि मी स्त्री०  
(भूमि) श्मशान Cemetery सुपा०  
२६५, —लोय पु० (लोक) श्मशान Cem-  
etery, Burial grounds पठम० ८६,

४३,—वइ पु० (पति) यम Demon उप०  
 ७२८ टी,—वण न० (वन) श्मशान.  
 Cemetery पात्र० सुर० १६, २०४,  
 वजा० २, सुपा० २१२  
 पेञ्जा स्त्री० (पेया) यवागू, पीनेकी वस्तु-विशेष  
 Rice-gruel हे० १, २४८  
 पेईहर न० ( पितृगृह-पैतृकगृह ) पीहर, स्त्री के  
 पिता का घर A woman's father's  
 house 'घणसिरिपेईरम्मि' सुपा० ६०३  
 पेऊल न० (पीयूष) अमृत, सुग Nectar,  
 ambrosia हे० १, १०२, गा० ६२, कपू०  
 —अहण पु० (अशन) देव, सुर Gods  
 कुमा०  
 पैखिअ त्रि० (दंष्ट्रित) कम्पित Trembled  
 कपू०  
 पैडविर त्रि० ( प्रस्थापयितृ ) प्रस्थापन करने  
 वाला Establishing कुमा०  
 पैकलअ-ग त्रि० (पेक्षक) देखने वाला, निरीक्षक,  
 द्रष्टा Spectator सुर० ७, ८०, स०  
 ३७६, महा०  
 पेन्-अण न० (प्रेक्षण) निरीक्षण, अवलोकन,  
 देखना Viewing, seeing सुपा० १६६,  
 अमि० २३  
 पेकखा स्त्री० (प्रेक्षा) निरीक्षण, अवलोकन,  
 देखना Viewing, beholding पउम०  
 ७२, २६  
 पेच्छ त्रि० (पेक्ष) द्रष्टा, दर्शक Spectator  
 'अपरमत्थपेच्छो' स० ७१२  
 पेच्छय त्रि० (पेक्षक) द्रष्टा, निरीक्षक Spec-  
 tator, beholder पउम० ८६, ७१, स०  
 ३६१, गा० ४६८  
 पेच्छि त्रि० (पेक्षि) पेक्षक, द्रष्टा Spec-  
 tator, On-looker चेइय० १०६, गा०  
 २१४  
 पेच्छिअ त्रि० (पेक्षित) (१) निरीक्षित,  
 अवलोकित Viewed, beheld कुमा०

(२) न० निरीक्षण, अवलोकन A look, a  
 glance सुर० १२, १८३, गा० २२२  
 पेन्छिर त्रि० (पेक्षिन्) निरीक्षक द्रष्टा  
 Spectator, beholder गा० १७४,  
 ३७१  
 पेञ्ज त्रि० (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय Respect-  
 able राज०  
 पेडक-य न० (पेटक) समूह, यूथ A col-  
 lection, multitude 'नदपेडकसनिहा  
 जाण' सवोध० १५, सुपा० २४६, सिरि०  
 १६३, महा०  
 पेडावइ पु० (पेटकपति) यूथ का नायक  
 A leader of a multitude सुपा०  
 २४६  
 पेडिआ स्त्री० (पेटिका) मञ्जूपा. Box.  
 सुद्रा० २४०  
 पेडाल त्रि० (पीठवत्) पीठ-युक्त Having  
 a back गउड०  
 पेडाल पु० (पेडाल) (१) ग्यारह रुद्र पुरुषों  
 में से दसवा The tenth of eleven  
 Rudras विचार० ४७३, (२) एक ग्राम  
 जहा भगवान् महावीर का विचरण हुआ था  
 A city, visited by Lord Maha-  
 villa 'पेडालग्राममागओ भयव' आचम०,  
 (३) न० एक उद्यान Garden 'तीसे चाहिं  
 पेडाल नाम उजाण', आच० १  
 पेडिया स्त्री० (पीठिका) ग्रन्थ की भूमिका,  
 प्रस्तावना Preface जसु०  
 पेमालुअ त्रि० (प्रेमिन्) प्रेमी, अनुरागी.  
 Loving, affectionate उप० ६८६ टी  
 पेम्मा स्त्री० (प्रेमा) हृन्द-विशेष A kind  
 of a metie पिंग०  
 पेरग त्रि० (पेरक) प्रेरणा करने वाला, पूर्व-  
 पक्षी Instigator धर्मस० २८७  
 पेरखा स्त्री० (पेरणा) प्रेरणा. Impelling,  
 inciting, instigation नमन्त ० १२७.

पेरिअ. त्रि० ( प्रेरित ) जिसको प्रेरणा की गई हो Incited, instigated, impelled.

दे० ८, १२, भवि०,

पेल्लिअ त्रि० ( पीडित ) पीडित. Afflicted, pained दे० ६, २७, महा०

पेस त्रि० ( प्रेष्य ) भेजने योग्य. Deserving to be sent हे० २, ६२

पेसण न० ( प्रेषण ) आज्ञा, आदेश Command, order से० ३, २४

पेसण स्त्री० ( पेपण ) पीसना, पेपण Pounding, pulverizing उप० २६७, टी

पेसविअ त्रि० ( प्रेषित ) भेजवाया हुआ, प्रस्थापित Sent पाअ० उप० पृ० २८

पेसाय त्रि० ( पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी. Demoniacal, infernal बृह० २

पेसिअर पु० ( प्रेषितकार ) नौकर, भृत्य, कर्मकर Servant पडम० ६, ३४

पेहाविय त्रि० ( प्रेक्षित ) दर्शित, दिखलाया हुआ Shown, displayed उप० पृ० ३८८.

पेहि त्रि० ( प्रेक्षिन् ) निरीक्षक Spectator वव०

पोअ त्रि० ( प्रोत ) परोया हुआ Pierced, transfixed दे० १, ७६

पोअण न० ( प्रोतन ) परोना, गुम्फन Piercing, transfixing आचम०

पोअणा स्त्री० ( प्रोतना ) परोना Piercing transfixing उप० ३२६.

पोइय त्रि० ( प्रोत ) परोया हुआ Pierced, transfixed दे० ७, ४४, उप०, पृ० १०६, पाअ०

पौडरीअ-ग न० ( पौण्डरीक ) गणित-विशेष, रज्जु गणित A kind of mathematics सूयनि० १२४

पोकण न० ( पुक्करण-व्याहरण ) (१) पुकार, आह्वान Calling aloud (२) पुकारने वाला One who calls. कुमा०

पोकरिय. त्रि० ( पुक्कृत ) पुकारा हुआ. Called out, cried aloud. सुर० ६,

१६४, (२) पुकार Loud cry दस० ३.

पोक्खर. न० ( पुक्कर ) (१) जल, पानी. Water (२) पद्म-कोप The calyx of a lotus (३) हाथीकी सूँड का अग्र भाग.

The tip of an elephant's proboscis (४) आपण, दुकान Shop (५) अस्ति-कोप, तलवारकी म्यान The sheath of a sword (६) मुख, मुँह Mouth

(७) कुष्ठरोग की औषधि Medicine (८) द्वीप-विशेष Name of an island (९) युद्ध, लड़ाई War, battle (१०) शर, बाण. Arrow (११) आकाश Sky.

'पोक्खरं' हे० १, ११६, २, ४, सच्चि० ४, (१०) नाग-विशेष A big serpent

(१३) रोग-विशेष disease (१४) सारस पक्षी The crane or swan (१५) एक राजा का नाम King, (१६) पर्वत-विशेष Mountain, (१७) बरह्म-पुत्र.

Son of god Valuna 'पोक्खरो' प्राप्०

पोच्छाहण न० ( प्रोत्साहन ) उत्तेजन Excitement, instigation देखी० १०५.

पोच्छाहिअ त्रि० ( प्रोत्साहित ) विशेष उत्साहित किया हुआ, उत्तेजित Incited, instigated. सुर० १३. २६

पोट्ट पु० ( पुत्र ) लडका Son 'चारमड पोटेण' वव० १ टी

पोट्टिल. पु० ( पोट्टिल ) एक जैन मुनि A Jain saint पडम० २०, २१

पोट्टिस. पु० ( पोट्टिस ) एक कवि का नाम Name of a poet कप्प०

पोढ. त्रि० ( प्रौढ ) (१) समर्थ Powerful, strong पाअ०, (२) निपुण, चतुर. Quickwitted, skilful (३) प्रगल्भ. Bold, confident उप० पृ० ८६, रंभा०

- वाय पु० (वाद) प्रतिज्ञा-पूर्वक-प्रत्याख्यान  
An emphatic assertion गा० २२०.  
पोढा स्त्री० (प्रौढा) (१) तीस से पचपन वर्ष  
तक की स्त्री A woman of advanced  
age ड्रुप० १२२ (२) नायिका का एक  
भेद One of the four principal  
female characters in poetic  
compositions प्राक० १०  
पोढि स्त्री० (प्रौढि) प्रौढता, प्रौढपन Full  
growth or development. ड्रुप० ४०७  
पोढिम पु० स्त्री० (प्रौढिमन्) प्रौढता,  
प्रौढपन Full growth मोह० २  
पोत्त न० (पोव) प्रवहण, नौका Boat,  
barge तेष पोत्तायि' उप० २६७ टी  
पोत्तिआ स्त्री० (पौत्तिका) पुत्र की लडकी  
Grand daughter रभा०  
पोत्थिया स्त्री० (पुत्थिका) पोथी, पुस्तक.  
Book, 'पोत्थियावलगाहत्या' काल०  
पोफल न० (पुगफल) सुपारी Nuts हे-  
१, १७०, कुमा०  
पोफली स्त्री० (पुगफली) सुपारी का पेड़  
Tree of nuts. हे० १, १७०, कुमा०  
पोमाढ पु० (पमाट) पमाड, पमार, चक्रवड  
का पेड़ One of the species of trees  
स० १४४  
पोमावई स्त्री० (पशावती) क्षुद्र विशेष A

- kind of metro पिंग०  
पोर. पु० (पुतर) जल में होने वाला चुद्र-जन्तु  
Watery-insects हे० १, १७०, कुमा०  
पोरव पु० (पौरव) राजा पुर की सतन.  
Descendants of king Puru  
अभि० ६२  
पोरवाड पु० (पौरवाट) एक जैन धावक कुल  
A lineage of Jain Shrivakas.  
सो० २  
पोराण त्रि० (पौराण) (१) पुराण-सम्बन्धी,  
Relating to the Puranas (२)  
पुराण शास्त्र का ज्ञान Versed in  
puranic tales राज०  
पोरिस न० (पौरिस) (१) पुरुषत्व पुरुषार्थ  
Manliness, exertion प्रासू० १७, (२)  
पराक्रम Heroism, valour कुमा०  
पोरिस त्रि० (पौरसेय) पुरुष-जन्म, पुरुष  
प्रणीत. Derived from a man,  
made or propounded by a man  
धर्मस० ८६२ टी  
पोलिआ स्त्री० (पौलिका) साब-विशेष, पूरी,  
Puri, or a loaf fried in butter or  
ghee. उप० ७२८ टी, राज०  
पोह. पु० (प्रोध) गरव के मुख का प्रान्त भाग  
The nose or nostrils of a horse  
गड०

## फ

- फ पु० (फ) श्रोत्र-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष  
A particular labiale consonant  
प्राप्त०  
फंद पु० (स्पन्द) किञ्चित् चलन Tremor,  
vibration पड्० सख०  
फंदरा स्त्री० (स्पन्दरा) किञ्चित् चलन.  
Tremor, vibration सुयनि० ८ टी.  
फंस. पु० (स्पर्श) स्पर्श, छुसावट, Touch

- पाय० प्राप्त० प्राक० २७, गा० २६६.  
फसण न० (स्पर्शन) छूना, स्पर्श करना.  
Touching उप० २३० टी, धर्मवि० ४३,  
मोह० २६  
फसण त्रि० (पासन) अपशद, अधम Low,  
mean, wicked 'कुलफसणो' सुख० २,  
६ स० १६८, भवि०  
फक्रिया, स्त्री० (फक्रिका) ग्रन्थ का विषय

पेरिअ. त्रि० ( प्रेरित ) जिसको प्रेरणा की गई हो Incited, instigated, impelled.

दे० ८, १२, भवि०,

पेल्लिअ त्रि० ( पीडित ) पीडित. Afflicted, pained दे० ६, १७, महा०

पेस त्रि० ( प्रेष्य ) भेजेने योग्य. Deserving to be sent हे० २, ६२

पेसण न० ( प्रेषण ) आज्ञा, आदेश Command, order से० ३, १४

पेसण स्त्री० ( पेपण ) पीसना, पेपण Pounding, pulverizing उप० १६७, टी

पेसविअ त्रि० ( प्रेषित ) भेजवाया हुआ, प्रस्थापित Sent पाठ० उप० पृ० १८

पेसाय त्रि० ( पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी. Demoniacal, infernal बृह० २

पेसिअर पु० ( प्रेषितकार ) नौकर, सृत्त्य, कर्मकर Servant पदम० ६, ३५

पेहाविय त्रि० ( प्रेक्षित ) दर्शित, दिखलाया हुआ Shown, displayed उप० पृ० ३८८

पेहि त्रि० ( प्रेक्षिन् ) निरीक्षक Spectator उव०

पोअ त्रि० ( पोत ) विरोया हुआ Pierced, transfixed दे० १, ७६

पोअण न० ( प्रोतन ) विरोना, गुम्फन Piercing, transfixing आवम०

पोअण स्त्री० ( प्रोतना ) विरोना Piercing transfixing उप० ३५६.

पोइय त्रि० ( प्रोत ) विरोया हुआ Pierced, transfixed दे० ७, ४४, उप०, पृ० १०६, पाअ०

पोडरीअ-ग न० ( पौण्डरीक ) गणित-विशेष, रज्जु गणित A kind of mathematics सूयनि० १५४

पोक्कण न० ( पूक्करण-व्याहरण ) (१) पुकार, आह्वान Calling aloud (२) पुकारने वाला One who calls. कुमा०

पोक्करिय. त्रि० ( पूक्कृत ) पुकारा हुआ Called out, cried aloud. सुर० ६, १६४, (२) पुकार Loud cry दस० ३.

पोक्खर. न० ( पुक्कर ) (१) जल, पानी. Water (२) पद्म-कोप The calyx of

a lotus (३) हाथीकी सूंख का अग्र भाग. The tip of an elephant's proboscis (४) आपण, दुकान Shop (५)

असि-कोप, तलवारकी म्यान The sheath of a sword. (६) मुख, मुह Mouth

(७) कुष्ठरोग की औषधि Medicine (८) द्वीप-विशेष Name of an island (९)

युद्ध, लड़ाई War, battle (१०) शर, बाण. Allow (११) आकाश Sky.

'पोक्खर' हे० १, ११६, २, ४, सचि० ४, (१२) नाग-विशेष A big serpent.

(१३) रोग-विशेष disease (१४) सारस पक्षी The crane or swan (१५)

एक राजा का नाम King, (१६) पर्वत-विशेष Mountain, (१७) वरुण-पुत्र.

Son of god Varuna 'पोक्खरो' प्राण०

पोच्छाहण न० ( प्रोत्साहन ) उत्तेजन Excitement, instigation वेद्यी० १०५.

पोच्छाहिअ त्रि० ( प्रोत्साहित ) विशेष उत्साहित किया हुआ, उत्तेजित Incited,

instigated. सुर० १३ २६

पोट्ट पु० ( पुत्र ) लडका Son 'चारभट्ट पोट्टेण' उव० १ टी

पोट्टिल. पु० ( पोट्टिल ) एक जैन मुनि A Jain saint पदम० २०, २१

पोट्टिस पु० ( पोट्टिस ) एक कवि का नाम. Name of a poet कम्पू०

पोढ त्रि० ( प्रौढ ) (१) समर्थ Powerful, strong पाठ०, (२) निपुण, चतुर.

Quickwitted, skilful (३) प्रगल्भ. Bold, confident उप० पृ० ८६, २भा०

—चाय पु० (वाद) प्रतिज्ञा-पूर्वक-प्रत्याख्यान  
An emphatic assertion गा० १२२.  
पोढा स्त्री० (प्रौढा) (१) तीस से पचपन वर्ष  
तक की स्त्री. A woman of advanced  
age कुप्र० १८५ (२) नायिका का एक  
भेद One of the four principal  
female characters in poetic  
compositions प्राकृ० १०  
पोढि. स्त्री० (प्रौढि) प्रौढता, प्रौढपन Full  
growth or development. कुप्र० ४०७  
पोढिम पु० स्त्री० ( प्रौढिमन् ) प्रौढता,  
प्रौढपन Full growth. मोह० २  
पोत्त. न० ( पोव ) प्रवहण, नौका Boat,  
baige 'तेण पोत्तायि' उप० ५६७ टी  
पोत्तिआ स्त्री० ( पौत्रिका ) पुत्र की लडकी  
Grand daughter रभा०  
पोत्थिया स्त्री० ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक.  
Book. 'पोत्थियावल्लगहल्था' काल०  
पोष्फल न० ( पुगफल ) सुपारी Nuts हे-  
१, १७०, कुमा०  
पोष्फली स्त्री० ( पुगफली ) सुपारी का पेड़  
Tree of nuts हे० १, १७०, कुमा०  
पोमाढ पु० ( पमाड ) पमाड, पमार, चकवड  
का पेड़ One of the species of trees  
स० १४४  
पोमावई स्त्री० ( पमावती ) छन्द विशेष A

kind of metrie पिंग०.

पोर. पु० ( पुतर ) जल में होने वाला चुद्र-जन्तु  
Watery-insects हे० १, १७०, कुमा०  
पोरव पु० ( पौरव ) राजा पुरु की सतान.  
Descendants of king Puru  
अभि० ६५  
पोरवाड पु० ( पौरवाट ) एक जैन श्रावक कुल  
A lineage of Jain Shrivakas.  
त्ती० २  
पोराण त्रि० ( पौराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी.  
Relating to the Puranas (२)  
पुराण शास्त्र का ज्ञाता Versed in  
puranic tales राज०  
पोरिस न० ( पौरुष ) (१) पुरुषत्व, पुरुषार्थ  
Manliness, exertion प्रासू० १७, (२)  
पराक्रम Heroism, valour कुमा०  
पोरिस त्रि० ( पौरुषेय ) पुरुष-जन्म, पुरुष  
प्रणीत. Derived from a man,  
made or propounded by a man  
धर्मस० ८६२ टी  
पोलिआ स्त्री० ( पौलिका ) खाव विशेष, पूरी,  
Puri, or a loaf fried in butter or  
ghee. उप० ७२८ टी, राज०  
पोह. पुं० ( प्रोथ ) शश्व के मुख का प्रान्त भाग  
The nose or nostrils of a horse  
गडड०

## फ

फ पु० (फ) ओष्ठ-स्थानीय व्यन्जन वर्ण विशेष  
A particular labiale consonant  
प्राप्र०  
फद् पु० ( स्पन्द ) किञ्चित् चलन Tremor,  
vibration पड्ड० सखा०  
फंदणा स्त्री० ( स्पन्दना ) किञ्चित् चलन  
Tremor, vibration स्यनि० ८ टी  
फस. पु० ( स्पर्श ) स्पर्श, छुआवट. Tough

पात्र० प्राप्र० प्राकृ० २७, गा० २६६  
फसण न० ( स्पर्शन ) छूना, स्पर्श करना.  
Touching उप० ५३० टी, धर्मवि० ४३,  
मोह० २६  
फसण त्रि० ( फसन ) अपशद, अधम Low,  
mean, wicked 'कुलफसणो' सुख० २,  
६, स० १६८, भवि०  
फकिया. स्त्री० ( फकिका ) ग्रन्थ का विपम

स्थान, कठिन स्थान Seat of the sacred books, a difficult position सर० १६, २४७

फगु त्रि० ( फलु ) असार, निरर्थक, तुन्ड, Useless, vain सुर० ८, ३, सर्वोध० १६, गा० ३६६ अ०

फगुगुण पु० ( फाल्गुन ) अर्जुन, मध्यम पाण्डु पुत्र० Arjuna, the third Pandava वजा० १३०

फगुरक्षिप्य पु० ( फलगुरक्षित ) एक जैन मुनि. A Jaina saint आव० १

फगुसिरि स्त्री० ( फलुश्री ) इस अवसर्पिणी काल के पंचम आरे में होने वाली अन्तिम जैन साध्वी Name of the last female saint present at the end of the fifth era of Avasarpini विचार० २३४

फडाल त्रि० ( फटावल् ) फन वाला Having a hood हे० २, १२६, चड०

फडिअ त्रि० ( स्फटित ) खोदा हुआ Dug 'फडिया ऋडति', सुपा० ६१३

फडिइ पु० ( परिध ) (१) धर्मला, आगल A wooden bolt से० १३, ३८, (२) कुंठार Axe, hatchet से० ५, २४

फणि पु० ( फणिन् ) (१) दो कला या एक गुरु अक्षर की सज्ञा A sign of a word of two syllables पिंग०, (२) प्राकृत पिंगल का कर्ता, पिंगलाचार्य Pingalacharya, author of Prakrit prosody पिंग०

फणिंद पु० ( फणीन्द्र ) पिङ्गलकार The author of Pingala पिंग०

फणिपहु पु० ( फणिप्रभु ) (१) नागकुमार देवों का एक स्वामी, धरणेन्द्र Dharanendra, lord of Nagakumar gods ती० ३, (२) शेष नाग An

epithet of the serpent demon Sesha धर्मवि० १७

फणिराय पु० ( फणिराज ) (१) शेष नाग King of serpents, a ruling dynasty was also known by this name in ancient India कुप्र० २७२ (२) पिंगल-कर्ता. The author of Pingala पिंग०

फणिलता स्त्री० ( फणिलता ) नाग लता वल्ली विशेष An insect कप्पू०

फणिवइ पु० ( फणिपति ) (१) इन्द्र विशेष, धरणेन्द्र Dharanendra सुपा० ३१, (२) नाग राज The serpent-king मोह० २६, (३) पिङ्गलकार The author of Pingala पिंग०

फणिसेहर पु० ( फणिशेखर ) प्राकृत पिङ्गल का कर्ता. The author of Prakrit posody पिंग०

फद्ध पु० ( स्पर्धा ) स्पर्धा, हिंस. Emulation, rivalry कुमा०

फद्धा स्त्री० ( स्पर्धा ) स्पर्धा, हिंस Rivalry, competition दे० ८, १३, कुमा० ३ १८

फद्धि त्रि० ( स्पर्धिन् ) स्पर्धा करने वाला. Rivaling, emulating प्राकृ० २३,

फरअ पु० न० ( स्फरक ) अस्त्र-विशेष A kind of missile 'फरएहिं द्वाइजय' धर्मवि० ८०

फरिसिय, त्रि० ( स्फुट ) छुआ हुआ Touched कुप्र० १६, ४२

फत पु० न० ( फल ) (१) उद्देश्य Intention (२) प्रयोजन Aim, purpose. (३) त्रिफला A particular medicine (४) जायफल Nutmeg (५) बाण का अग्रभाग The point or head of an arrow (६) फल Ploughshare,

crop, produce (७) दान Gift, alms (८) मुष्क, अण्डकोष Testicles (९) ढाल, Shield (१०) ककरोल, गन्ध द्रव्य-विशेष A fragrant substance हे० १, २३

फलण न० (फलन) फलना Fructifying सुपा० ६

फलहिआ-फलही स्त्री० ( फलहिका-फलही ) काठ आदि का तट्टा A board, plank ती० ११, सु० १, १२१

फलावह, त्रि० ( फलावह ) फलप्रद, फल को धारण करने वाला. Bearing fruits पठम० १४, १४.

फलित्र त्रि० ( फलित ) विकसित Blown, blossomed 'फुडिय फलित्र' पात्र०

फलिषी स्त्री० ( फलिनी ) मियगु वृक्ष A creeper दे० १, ३२, ६, ४६, पात्र० कुमा० गा० २६३.

फलिह पु० ( परिच ) (१) अख विशेष, लोहे का मुगदर आदि अख An non club. (२) गृह, घर House (३) काच-घट. A glass pitcher. (४) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक योग An astriological conjunction हे० १, २३२, पात्र०

फलिह पु० ( स्फटिक ) एक विमानावात, देव विमान विशेष A celestial aeroplane देवेन्द्र० १३२, इक०, (२) कुण्डल पर्वत का एक कूट A summit of the mount Kundala (३) रुचक पर्वत का एक शिखर A summit of the mount Ruchaka राज०,—गिरि पु० ( गिरि ) कैलाश पर्वत Name of a mountain पात्र०

फलिहस पु० ( फलिहसक ) वृक्ष विशेष A kind of a tree दे० ४, १२

फली स्त्री० ( फली ) काठ आदि की छोटी तल्टी A small wooden stab सुपा० ३८२

फलज. त्रि० ( फल्य ) सूत का वस्त्र, सूती कपडा A cotton garment वृह० १.

फाय त्रि० ( स्फौत ) (१) वृद्ध Old, aged (२) विस्तीर्ण. Expanded (३) ख्यात. Famous, renowned विशेष० २२०७

फार त्रि० ( स्फार ) (१) प्रचुर, बहुत. Numerous, copious धर्मवि० २५, ( ० ) विशाल, विपुल. Vast, (३) विस्तृत, फैला हुआ Spread सु० २, २३६, काम० १७०, सुपा० १६४, कुम० २१

फारक त्रि० ( स्फारक ) स्फारकाय को धारण करने वाला One who undertakes travells. 'फारका नमुदवययथो' धर्मवि० ८०.

फाला स्त्री० ( फाला ) फालाङ्ग, लाफ, Leap, jump कुम० २७८, कुलक० ३२

फालिहद् पु० ( पारिभद्र ) (१) फरहद का पेठ A particular tree, (२) देवदारु का पेठ A Devadai tree (३) निम्ब का पेठ A Nim tree हे० १, २३२

फास पु० न० ( स्पर्श ) (१) रोग Disease (२) ग्रहण Holding (३) युद्ध, लड़ाई War, battle. (४) गुप्तचर, जासूस. detective (५) बलु, पवन An, wind (६) दान Donation (७) 'क' से लेकर 'म' तक के अक्षर A consonant of any of the five classes of letters, (from क to म ) (८) स्पर्श करने वाला Touching हे० २, ३२

फासकीव. पु० ( स्पर्शकलीव ) क्लीव का एक भेद A kind of an impotent person निशी० चू० ४

फासणया-फासणा स्त्री० ( स्पर्शना ) (१) स्पर्श-क्रिया Touching म० ६, स० १२६, जीवस० १८१, (२) प्राप्ति Acquisition, obtaining राज०



स्थान, कठिन स्थान Seat of th- - iced  
books, a difficult position सर०

१६, २४७

फल्गु त्रि० ( फल्गु ) असार, निरर्थक, तुच्छ,

Useless, vain सर० ८, ३, नमोघ०

१६, गा० ३६६ अ०

फल्गुगुण पु० ( फाल्गुन ) अर्जुन, मध्यम पाण्डु

पुत्र० Arjuna, the third Pandava

वजा० १३०

फल्गुरक्षित पु० ( फल्गुरक्षित ) एक जैन

मुनि, A Jain saint श्राव० १

फल्गुसिरि स्त्री० ( फल्गुश्री ) इस अवसर्पिणी

काल के पंचम आरे में होने वाली अन्तिम जैन

साध्वी Name of the last female

saint present at the end of the

fifth era of Avasarpini विचार०

२३४

फडाल त्रि० ( फटावत् ) फन वाला Hav-

ing a hood हे० २, १२६, चड०

फडिअ त्रि० ( स्फटित ) खोटा हुआ Dug

'फडिया रुडति', सुपा० ६१३

फडिइ पु० ( परिघ ) (१) अर्गला, आगल,

A wooden bolt से० १३, ३८, (२)

कुठार Axe, hatchet से० ५, २४

फणि पु० ( फणिन् ) (१) दो कला या एक

गुरु अक्षर की सज्ञा A sign of a word

of two syllables पिंग०, (२) प्राकृत

पिंगल का कर्ता, पिंगलाचार्य Pingalach-

arya, author of Prakrit prosody

पिंग०

फणिंद्र पु० ( फणीन्द्र ) पिङ्गलकार The

author of Pingala पिंग०

फणिपहु पु० ( फणिप्रभु ) (१) नागकुमार

देवों का एक स्वामी, धरणेन्द्र Dharan-

endra, lord of Nagakumar

gods. ती० ३, (२) शेष नाग An

epithet of the serpent demon  
Sesha धर्मवि० २७

फणिराय पु० ( फणिराज ) (१) शेष नाग

King of serpents, a ruling

dynasty was also known by

this name in ancient India

कुप्र० २७२ (२) पिंगल-कर्ता. The author

of Pingala पिंग०

फणिलता स्त्री० ( फणिलता ) नाग-लता

वह्नी विशेष An insect कप्पू०

फणिवद्र पु० ( फणिवद्रि ) (१) इन्द्र विशेष,

धरणेन्द्र. Dharanendra सुपा० ३१,

(२) नाग राज The serpent-king

सोह० २६, (३) पिङ्गलकार The author

of Pingala पिंग०

फणिसेहर पु० ( फणिसेखर ) प्राकृत पिङ्गल

का कर्ता. The author of Prakrit

posody पिंग०

फद्ध पु० ( स्पर्ध ) स्पर्धा, हिस. Emulation,

rivalry कुमा०

फद्धा स्त्री० ( स्पर्धा ) स्पर्धा, हिस. Rivalry,

competition दे० ८, १३, कुमा० ३

१८

फद्धि त्रि० ( स्पर्धिन् ) स्पर्धा करने वाला.

Rivalling, emulating प्राकृ० २३,

फरअ पु० न० ( स्फरक ) अस्त्र-विशेष A

kind of missile 'फरएहिं छाइरुण्य'

धर्मवि० ८०

फरिसिय, त्रि० ( स्पृष्ट ) छुआ हुआ Touch-

ed कुप्र० १६, ४२

फल पु० न० ( फल ) (१) उद्देश्य Inten-

tion (२) प्रयोजन Aim, purpose. (३)

त्रिफला A particular medicine

(४) जायफल Nutmeg (५) बाण का

अग्रभाग The point or head of

an arrow (६) फल Ploughshare,

crop, produce (७) दान Gift, alms (८) मुष्क, अण्डकोप Testicles (९) ढाल, Shield (१०) ककौल, गन्ध द्रव्य-विशेष A fragrant substance हे० १, २३

फलण न० (फलन) फलना Fructifying सुपा० ६

फलहिआ-फलही स्त्री० ( फलहिका-फलही ) काठ आदि का तटता A board, plank ती० ११, सुर० १, १११

फलावह. त्रि० ( फलावह ) फलमद, फल को धारण करने वाला. Bearing fruits पदम० १४, १४.

फलित्र त्रि० ( फलित ) विकसित Blown, blossomed 'फुडिय फलित्र' पात्र०

फलिणी स्त्री० ( फलिनी ) प्रियगु वृक्ष A clooper दे० १, ३२, ६, ४६, पात्र० कुमा० गा० ६६३,

फलिह पु० ( परिव ) (१) अन्न विशेष, लोहे का सुगद्द्र आदि अन्न An non club (२) गृह, घर House (३) काच-घट A glass pitcher. (४) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक योग An astiological conjunction हे० १, २३२, प्रा०

फलिह पु० ( स्फटिक ) एक विमानावास, देव विमान विशेष A celestial aeroplane देवेन्द्र० १३२, इक०, (२) कुण्डल पर्वत का एक कूट A summit of the mount Kundala (३) रुचक पर्वत का एक शिखर A summit of the mount Ruchaka राज०,—गिरि पु० ( गिरि ) कैलाश पर्वत Name of a mountain पात्र०

फलिहंस. पु० ( फलिहंसक ) वृक्ष विशेष A kind of a tree दे० ४, १२

फली स्त्री० ( फली ) काठ आदि की छोटी तख्ती A small wooden stab सुपा० ३८५

फलज. त्रि० ( फलय ) सूत का वस्त्र, सूती कपडा A cotton garment वृह० १.

फाय त्रि० ( स्फीत ) (१) वृद्ध Old, aged (२) विस्तीर्ण. Expanded (३) श्यात. Famous, renowned विशेष० २५०७

फार त्रि० ( स्फार ) (१) प्रचुर, बहुत Numerous, copious धर्मवि० ५५, ( २ ) विशाल, विपुल. Vast, (३) विस्तृत, फैला हुआ Spread सुर० २, २३६, काप्र० १७०, सुपा० १६४, कुम० ५१

फारक त्रि० ( स्फारक ) स्फारकाक्ष को धारण करने वाला One who undertakes travells. 'फारका नमुद्वययायो' धर्मवि० ८०.

फाला स्त्री० ( फाला ) फलाङ्ग, लाफ. Leap, jump कुम० २७८, कुलक० ३२,

फालिहह पु० ( पारिमह ) (१) फरहट का पेड A particular tree, (२) देवदारु का पेड A Devadai tree (३) निम्ब का पेड A Nim tree हे० १, २३२

फास पु० न० ( स्पर्श ) (१) रोग Disease (२) ग्रहण Holding (३) युद्ध, लडाई. War, battle. (४) गुप्तचर, जासूस detective (५) वायु, पवन An, wind (६) दान Donation (७) 'क' से लेकर 'म' तक के अक्षर A consonant of any of the five classes of letters, (from क to म ) (८) स्पर्श करने वाला Touching हे० २, ६२

फासकीच. पु० ( स्पर्शकलीब ) क्लीब का एक भेद A kind of an impotent person निशी० चू० ४

फासणया-फासणा स्त्री० ( स्पर्शना ) (१) स्पर्श-क्रिया Touching डा० ६, स० १५६, जीवस० १८१, (२) प्राप्ति Acquisition, obtaining राज०

फासिअ त्रि० ( स्पर्शिक ) स्पर्श करने वाला,  
 One who touches विशेष० १००१  
 फासिअ त्रि० ( स्पृष्ट ) प्राप्त Obtained,  
 acquired 'फासिय तय', प्रव० ४  
 फासिअ त्रि० ( स्पर्शित ) (१) स्पर्श-युक्त,  
 स्पृष्ट Touched (२) प्राप्त Obtained,  
 acquired प्रव० ४  
 फिट्ट. त्रि० ( भ्रष्ट ) विनष्ट Destroyed,  
 perished, 'न फिट्टा' गा० ६३, भवि०  
 फिरिय त्रि० ( गत ) गया हुआ Gone  
 'अगग्रो फिरिया' धर्मवि० १३६  
 फुकार पु० ( फुकार ) फुफकार, कुपित सर्प  
 आदि की आवाज Hissing of an  
 angry serpent सुर० २, २३७  
 फुकार पु० ( फूकार ) फुफकार फू फू की  
 आवाज Hissing कुप्र० २८, सण०  
 फुक्किय त्रि० ( फूकृत ) फुफकारा हुआ,  
 Hissed. श्राव० ४  
 फुट्टय न० ( स्फुटन ) (१) फूटना, टूटना  
 Breaking, busting कुप्र० ४१७  
 (२) फूटने वाला, विदीर्ण होने वाला. Rend-  
 ing, tearing हे० ४, ४२२  
 फुड्डिअ त्रि० ( स्फुटित ) विदारित Burst,  
 broken open 'फुड्डिअमोहो' कुमा० ७,  
 ६४  
 फुट्टिर त्रि० ( स्फुटित् ) फूटने वाला Break-  
 ing open, busting forth सण०  
 फुड्डिअ त्रि० ( स्फुटित ) विकसित, खिला हुआ  
 Budded, blown पाअ० गा० ३६०  
 फुड्डिअ स्त्री० ( स्फोटिका ) छोटा फोडा, फुनसी.  
 A small tumor सुपा० १३८  
 फुरण. न० ( स्फुरण ) स्फूर्ति, Throbing,  
 trembling सुपा० ६, वजा० ३४, सम्म-  
 त्त० १६१  
 फुरिअ त्रि० ( स्फुरित ) (१) कम्पित, हिला  
 हुआ, फरका हुआ, चलित Trembled,

shaken दे० ६, ८४, सुर० १, २२६, गा०  
 १३७, (२) दीप्त Glittering, shining.  
 दे० ६, ८४.

फुल्ल न० ( फुल ) (१) फूल, पुष्प. Flow-  
 er कुमा० धर्मवि० २०, सम्मत्त० १४३,  
 दसनि० १, —मालिया स्त्री० ( मालिका )  
 फूल बेचने वाली, मालाकार की स्त्री A  
 flower-girl सुर० ३, ७४.

फुल्लधय पु० ( फुल्लधय-पुष्पधय ) अमर,  
 अमरा Wasp उप० ६८६ टी

फुल्लण न० ( फुल्लन ) विकास Blowing,  
 expanding वजा० १२२

फुल्लविय-फुल्लाविय त्रि० ( फुल्लित ) फुलाया  
 हुआ Blown, expanded सम्मत्त०  
 १४०, विक्र २३

फुल्लिअ त्रि० ( फुल्लित ) पुष्पित, विकसित  
 Blown, Blossomed स० ३०३,  
 सम्मत्त० १४०, २२७.

फुल्लिम पु० स्त्री० ( फुल्लता ) विकास, फूलन  
 Blowing, expanding 'फुल्लिमसमप  
 विकासिमा', सुर० ३, ४४

फुल्लिर त्रि० ( फुल्लित् ) फूलने वाला, प्रफुल्ल  
 Blowing, expanding, blossom-  
 ing सम्मत्त० २१४

फुसिअ त्रि० ( मृष्ट ) पोंछा हुआ Cleansed,  
 purified उप० पृ० ३४२, सुपा० २३१,  
 कुप्र० २३१

फुसिय त्रि० ( अमित ) घुमाया हुआ. Moved  
 round कुमा० ७, ४

फूमिय त्रि० ( फूकृत ) फूका हुआ Blown  
 उप० पृ० १४१

फेकार पु० ( फेकार ) (१) शृगाल की आवाज  
 A howl सुर० ६, २०४, (२) आवाज,  
 चिल्लाहट A shriek कप्पु०

फेकारिय न० ( फेकारित ) देखो 'फेकार'  
 शब्द Vide फेकार स० ३७०.

फोडण न० ( स्फोटन ) (१) विनाश, Destruction (२) उपनयन Carrying, Taking away प्रच० १३२

फोडणया स्त्री० ( स्फोटना ) देखो 'फोडण' शब्द Vide फोडण, पिंड० ३८७

फोडिअ त्रि० ( स्फोटित ) (१) त्याजित Abandoned सिरि० ६२५, (२) उद्घाटित Opened स० ७८

फोड पुं० ( स्फोट ) (१) वर्ण विशेष, शब्द भेद A particular consonant राज०, (२) भक्षक Eater, one who eats or devours 'बहुफोडो' श्लोका० १६१

फोडविय त्रि० ( स्फोटित ) (१) तोडवाया हुआ Caused to break or split (२) खुलवाया हुआ Caused to open 'फोडविया सपुडा' स० ४६०

फोडिअ त्रि० ( स्फोटित ) फोडा हुआ, विदारित Broken, splitted स० ४७२ (२) राई आदि से चढारा हुआ Seasoned by mustard etc वच० १

फोडिअय त्रि० ( स्फोटित ) राई से चढारा हुआ, शाकादि Seasoned by mustard दे० ६, ८८

फोडिया. स्त्री० ( स्फोटिका ) छोटा फोडा A small tumor उप० ७६८ टी

फोरण न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवर्तन Constant quieting उपर० ७४

फोरविअ त्रि० ( स्फोरित ) निरन्तर प्रवृत्त किया हुआ, Perpetually engaged in, 'नियनियसत्ती फोरविया' सम्मत० २२७, हम्मिर० १४

फोसणा स्त्री० ( स्पर्शना ) स्पर्श क्रिया Act of touching जीवस० १६६

### घ

घ. पु ( व ) ओष्ठ स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष A particular palatal consonant प्राप०

वग पु ( वङ्ग ) (१) भगवान् आदिनाथ के एक पुत्र का नाम, Name of a son of Lord Adinath ती० १४, (२) देश विशेष, बंगाल देश Bengal उप० ७१६, ती० १४, (३) वग देश का राजा A king of Bengal पिं०

वगाल पु० ( बङ्गाल ) बङ्गाल देश Bengal, 'वगालदेसवहयो' सुभा० ३७७

वदि-वदिण पु० ( वन्दिन् ) स्तुति-पाठक, भगाल पाठक, मागध A bard or panegyrist पाश्० उप० ७२८ टी, धमवि० ३०, स० २७६

वंदी. स्त्री० ( वन्दी ) (१) हठ हत स्त्री, बँदी A maid servant. दे० २, ८४, गड० १०६,

८४३, (२) पुं० कैद किया हुआ मनुष्य Prisoner, captive गड० ४२६, गा० ११८

वदीकय त्रि० ( वन्दीकृत ) कैद किया हुआ बाँध कर आनीत Jailed, imprisoned. गड०

वदुरा स्त्री० ( वन्दुरा ) अश्व-शाला, Stable. 'निस्वेहि बहुरायो', स० ७२५

वध पु० ( वन्ध ) छन्द-विशेष A kind of a metrie पिं०

वधई स्त्री० ( वन्धकी ) पुश्चली, असती स्त्री An unchaste woman नाट-मालती० १०६

वंधरी स्त्री० ( वन्धनी ) विद्या-विशेष A kind of magical skill. पटम० ७, १४१

वघु पुं० ( वन्धु ) (१) माता Mother (२) पिता Father, (३) मित्र, दोस्त, Friend (४) स्वजन, नातीदार Relations, kins-

man कुमा० महा० प्रासू० १०८, सुपा० १६८, २४१, (५) छन्द विशेष A kind of a metrie पिंग०  
 वधुदत्त पु० (वन्धुदत्त) (१) एक श्रेष्ठी का नाम Name of a wealthy man महा० (२) एक जैन मुनी का नाम Name of a Jaina saint राज०  
 वधुर त्रि० (वन्धुर) नम्र, अचनत Bent, inclined, bowed गडड० २०५.  
 वधुरिय त्रि० (वन्धुरित) (१) पिंडीकृत. Made into a lump or ball गडड० ३८३, (२) नम्रीभूत, नम्रा हुआ Bent, inclined, bowed गडड० ५५६, (३) मुकुटित, मुकुट-युक्त Crowned (४) विभूषित Adorned, ornamented गडड० ५३३  
 वधुल पु० (वन्धुल) चेरया पुत्र, असती पुत्र Bastard मृच्छ० २००  
 वधुय. पु० (वन्धूक) वृक्ष-विशेष, दुपहरिया का पेड Name of a tree स० ३१२  
 वम पु० (ब्रह्मन्) (१) भगवान् शान्तिनाथ का शासनाधिष्ठायक देव A presiding god of teaching of Lord Shanti Nath. सति० ७, (२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक योग An astiological conjunction पत्रम० १७, १०७, (३) ब्राह्मण, विप्र Brahmana. कुवक० ३१, (४) छन्द विशेष A kind of a metrie पिंग० (५) योगशास्त्र प्रसिद्ध दशम द्वार Well known tenth door, or house कुमा०, —चरण न० (चरण) ब्रह्मचर्य Chastity, continence. कुम० ४६१  
 —सुत्त न० (सूत्र) उपवीत, यज्ञोपवित The sacred thread मोह० ३०, सुख० २, १३, —हिआ पु० (हित) एक विमाना-वाल, देव विमान विशेष A celestial aerial car. देवेन्द्र० १३४

वमशिआ स्त्री० (ब्राह्मणिका) पञ्चेन्द्रिय जन्तु-विशेष A worm having five senses पुष्फ० २६७.  
 वभरण-वभरणाय न० (ब्रह्मण्यक)(१) ब्राह्मण-समूह. A group of Brahmanas (२) ब्राह्मण-धर्म Brahmanic religion or Dharama 'वभरणकजेसु सज्जा' सम्मत० १४०, कप्प०  
 वभभू. पु० (ब्रह्मभूति) एक राजा, द्वितीय वासुदेव का पिता Name of a king, father of second Vasudeo पत्रम० २०, १८२  
 वभरुह पु० (ब्रह्मरुचि) स्वनाम ख्यात एक ब्राह्मण, नारद का पिता, Name of a Brahmana, father of Narada पत्रम० ११, ५२,  
 वमलिज्ज न० (ब्रह्मलीय) एक जैन मुनि कुल A group of Jaina saints कप्प०  
 वभी स्त्री (ब्राह्मी) (१) कल्प-विशेष A serious thought सुपा० ३२४, (२) सरस्वती देवी Sarasvati, the goddess of learning सिरि० ७६४  
 वहि. पु० (बहिन्) मयूर, मोर Peacock उत्तर० २६  
 वकर न० (वर्कर) परिहास Joking, jesting दे० ६, ८६, कुम० १६७, कप्प०  
 वगदादि पु० (वगदादि) देश-विशेष, वगदाद-देश Name of a country. हम्मिर० ३४  
 वठर पु० (वठर) मूर्ख छात्र A foolish pupil. कुम० १६  
 वप्पहट्टि पु० (वप्पभट्टि) एक सुविख्यात जैन आचार्य Name of a well-known Jaina preceptor विचार० ५३३, ती० ७  
 वप्फ न० (वाप्प) नेत्र-जल, अश्रु Tears 'वप्फ वाहो' पात्र० स० ५६१, स्वम० ८५

बबूल. पु० (बबूल) वृक्ष विशेष, बबूल का पेड़  
 The Babul tree उप० ८३३ टी, महा०  
 वन्दनात्म द्वि० (बहल्लारम) बहु श्रुत, शास्त्रों  
 का अच्चा जानकार Well-versed in  
 scriptures कस०  
 बन्धिश्रायण न० (बन्धिश्रायण) गोत्र-विशेष  
 A particular lineage इक०  
 बभ्रुतरु पु० (बभ्रुतरु) पलाश का पेड़ The  
 Palasa tree कुमा०  
 बय पु० (बक) (१) पक्षि-विशेष, बगुला  
 An Indian crane. (२) कुबेर An  
 epithet of Kubera (३) महादेव An  
 epithet of Mahadeva. (४) पूष्य-वृक्ष  
 विशेष, मल्लिका का गाड़ A kind of  
 tree आ० २३, (५) राक्षस विशेष Name  
 of a giant आ० २३, (६) असुर विशेष,  
 बकामुर. Name of a demon killed  
 by Bhima वेणी० १७७  
 बरह न० (बर्ह) (१) मयूरपिच्छ Peacock's  
 tail स० १००, (२) पत्र Leaf, feather  
 (३) परिवार Train, retinue प्राक० २८  
 बल पु० (बल) (१) बलदेव, हलधर, वासुदेव का  
 बडा भाई Baladeo पउम० २०, ८४, पात्र०  
 (२) छन्द-विशेष A kind of a metrie  
 विंग०, (३) न० खाद्य विशेष. A kind of  
 eatable (४) अष्टम तप, लगातार तीन  
 दिनों का उपवास Three fasts at a  
 time सवोध० १८, —चिह्न द्वि० (चिह्न)  
 (१) बल का नाशक Harmful to  
 physical strength (२) जहर, विष  
 Poison से० २, ११, —महयोगी स्त्री  
 (मयनी) विद्या विशेष A particular  
 magical skill, पउम० ७, १४२  
 बलकार-बलकार पु० (बलात्कार) जबरदस्ती  
 Using violence, employing force  
 पउम० ४६, २६, दे० ६, ४६, अभि० २१७,

स्वम० ७६.  
 बलभद्र पु० (बलभद्र) (१) राजा भरत का  
 प्रपौत्र A grandson of Bharata  
 पउम० ५, ३, (२) देव-विमान विशेष A  
 celestial aerial car टेवेन्ड० १३३  
 बलभाणु पु० (बलभानु) राजा बलमित्र का  
 भागिनिय A sister's son of king  
 Balamitra, काल०  
 बला स्त्री० (बला) (१) दृष्टि विशेष, योग की  
 एक दृष्टि A seasoned eye, or a  
 considerate observation (२)  
 भगवान कुन्धुनाथ की शासन देवी, अच्युता  
 A governing goddess of Lord  
 Kunthuratha राज०  
 बलामोडि स्त्री० (बलामोडि) बलात्कार.  
 Using violence, employing  
 force दे० ६, ६२  
 बलामोडिअ अ० (बलामोडिअ) बलात्कार  
 से, जबरदस्ती से Forcibly, violently  
 'बलामोडिअ तेण' काय० १६७, उत्तर० १०३,  
 पि० २३८  
 बलि पु० (बलि) (१) स्वनाम-प्रसिद्ध एक  
 राजा Name of a king, गा० ४०६, (२)  
 एक दानव, दैत्यविशेष Name of a demon.  
 कुमा०, (३) पूजा, अर्चा, सपर्या Worship,  
 adoration (४) राज प्राह-भाग Tax,  
 tribute (५) चेंबर का दण्ड The  
 handle of a whisk (६) उपज्व.  
 Calamity, distress हे० १, ३६ (७)  
 छन्द विशेष A kind of a metrie विंग०  
 —उट्ट पु० (पुट्ट) काक, कौआ Crow,  
 पात्र०, —मुह पु० (मुह) बन्दर, कपि  
 Monkey पात्र०  
 बलि द्वि० (बलिव) (१) बलवान्, बलिय  
 Strong, powerful, Mighty, सुपा०  
 ४२१, कुम० २७७, (२) पु० रामचन्द्र का

एक सुभट, A warrior of Rama-  
chandia पउम० ५६, ३८  
वलित्र त्रि० ( वलित ) (१) जिसको बल  
उपन्न हुआ हो, सबल Strong, mighty  
कुम० २७७, (२) पु० छन्द-विशेष A kind  
of metric पिंग०  
वलित्रक पु० ( वलिताक ) छन्द-विशेष A  
particular metric पिंग०  
वलिष्ट, त्रि० ( वलिष्ट ) बलवान, सबल  
Powerful, strong प्रासू० १२४  
वलिस न० ( वडिश ) मछली पकड़ने का काटा  
Fish-snaio हे० १, २०२  
वलीत्र त्रि० ( वलीयस् ) अधिक बल वाला  
बलिष्ट Strongest, most powerful  
अभि० १०१.  
वल्ग न० ( वाल्य ) बालत्व, बालकपन, शिशुता  
Boyhood, childhood कुमा० ३, ३५  
वहड, त्रि० ( बृहत् ) बड़ा, महान् Large,  
great, —आइच्च, न० ( आदित्य ) नगर  
विशेष Name of a city ती० ३५  
वहल त्रि० ( वहल ) पुष्कल, अत्यन्त Copi-  
ous, abundant, Plentiful कप्प०  
वहलिम पु० स्त्री० ( वहलता ) (१) स्थूलता,  
मोटाई Thickness (२) सातत्य, निरत-  
रता Continuity, Permanence  
वजा० ५२, गा० ७५५  
वहस्सइ, पु० ( बृहस्पति ) (१) राजनीति प्रणेता  
एक ऋषि A sage, author of poli-  
tics (२) नास्तिक मत प्रवर्तक एक विद्वान्  
A learned man, propounder of  
Atheism हे० २, १३७  
बहिणिआ-बहिणी स्त्री० ( भगिनी ) (१) बहिन  
Sister अभि० १३७, कप्प०, पात्र० पउम०  
६, ६, हे० २, १२६, कुमा०, (२) सखी,  
चयस्या Female friend सद्दि० ४७,  
—तणअ पु० ( तनय ) भगिनी पुत्र

Sisters' son दे०  
बहिर, त्रि० ( बाह्य ) बहिर्भूत, बाहर का  
Outward, external प्राक० ३८  
बहिरिय त्रि० ( बधिरित ) बधिर किया हुआ  
Made deaf सुर० २, ७५  
बहुचूड पु० ( बहुचूड ) विद्याधर वंश का एक  
राजा A king of Vidyadhar line-  
age पउम० ५, ४६  
बहुणाय न० ( बहुनाद ) नगर-विशेष Name  
of a city पउम० ५५, ५३  
बहुला स्त्री० ( बहुला ) गौ, गैया Cow पाय०;  
—घण न० ( वन ) मथुरा नगरीका एक प्राचीन  
वन An ancient forest of Muttra  
ती० ७  
बहुलि पु० ( बहुलित् ) स्वनाम-ख्यात एक-  
राज पुत्र Name of a prince उप०  
६३७  
बहुअ त्रि० ( प्रभूत ) बहुत, प्रचुर Much,  
abundant, copious गड०  
बाण पु० ( बाण ) पाच की सख्या Number  
of five सुर० १६, २४६, —वत्त न०  
( पात्र ) तूणीर, शरधि Uiver से० १, १८  
बाधा स्त्री० ( बाधा ) विरोध Objection.  
धर्मस० ११७  
बाधिय, त्रि० ( बाधित ) विरोध वाला, प्रमाण  
विरुद्ध ( In logic ) contradicted,  
contradictory धर्मस० १२६  
वाय न० ( वाक ) बक-समूह A multitude  
of cranes आ० २३  
बारवई, स्त्री० ( द्वारवती ) भगवान् नेमिनाथ  
की दीक्षा-शिबिका A palanquin of  
Lord Neminatha at the time  
of initiation, विचार० १२६.  
वाल पु० ( बाल ) (१) बाल, केश Hair.  
उप० ८३४, (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर  
राजा Name of a Vidyadhar king-

पउम० १० २१, —कइ पु० (कवि) तरुण कवि, नया कवि A young poet कप्प० —क पु० (अर्क) उदित होता सूर्य The newly risen sun कुमा०  
 वाला स्त्री० (वाला) छन्द-विशेष A particular metre पिंग०  
 वालि त्रि० ( बालिन् ) बाल-प्रधान, सुन्दर केश वाला Having beautiful hair वृह० १.  
 वाह पु० ( वाध ) विरोध Objection, contradiction भास० ३४  
 वाहग त्रि० ( वाधक ) विरोधी Contradicted 'अभुवगयवाहगा नियमा' श्रावक० १६२  
 वाहल. पु० ( बाहल ) देश-विशेष. Name of a country श्रावम०  
 वाहा स्त्री० ( वाधा ) ( १ ) हरकत, हरज Objection ( २ ) विरोध Contradiction, refutation सुपा० १२६  
 वाहा स्त्री० ( बाहु ) हाथ, मुजा. Arm हे० १, ३६, कुमा० महा०  
 वाहुल त्रि० ( वापवत् ) अभु वाला Having tears, shedding tears कुमा० सुपा० ४६०  
 वाञ्छि न० ( द्विक ) दो का समुदाय, युग्म, युगल Couple, pair क० ग० १, ३३, प्रासू० १६  
 विङ्ग त्रि० ( द्वितीय ) ( १ ) दूसरा Second हे० १, २४८, प्रासू० २६, ( २ ) सहार-सदद करने वाला Companion, partner पाञ्च० सुर० ३, १४, ७, १४२  
 विडण त्रि० ( द्विगुण ) दुगना Two, two fold, double हे० १, ६४, २, ७६, गा० २८६  
 विदावण न० ( वृन्दावन ) मथुरा के पास का एक वैष्णव तीर्थ Name a holy place

near Muttia. प्राहू० १७  
 विंदु पु० न० ( विन्दु ) ( १ ) विन्दी, अनुस्वार A zero or cypher ( २ ) दोनों भ्रूका मध्य भाग Gentle of the two eyebrows ( ३ ) रेखागणित का एक चिन्ह A special feature of the science of palmistry हे० १, ३४; कप्प० उप० १०२२, स्वप्न० ३६, कस० कुमा०, —कला. स्त्री० ( कला ) अनुस्वार, विन्दी Dot, point. सिरि० १६६  
 विंदुइअ. त्रि० ( विन्दुकित ) विन्दु-युक्त, विन्दु-विलिप्त Having a dot or point पाञ्च० गडड०  
 विंदुइज्जत. त्रि० ( विन्द्यमान ) विन्दुओं से न्याप्त Abundant in dots से० ११. १२५  
 विव न० ( विम्ब ) ( १ ) छन्द-विशेष A particular metre पिंग०. ( २ ) सूर्य तथा चंद्र का मण्डल The disc of the sun or moon गडड० कप्प०  
 विवि स्त्री० ( विम्बी ) लता विशेष, कुन्दरुन का गाड़ Creeper. कुमा०, —फल न० ( फल ) कुन्दरुन का फल Fruit सुपा० २६३  
 विहिअ त्रि० ( वृ हित ) पुष्ट, उपचित. Grown, increased हे० १, १२८.  
 विज्जउर न० ( चीजपूर ) फल विशेष, एक तरह का नीबू A species of citron सुपा० ६३०  
 विडाल पु० ( विडाल ) मार्जार, नर बिल्ली Cat पि० २४१  
 विडालिआ-विडाली स्त्री० ( विडालिका ) बिल्ली, मार्जारी Cat. सम्मत्त० १२२, पि० २४१  
 विदल न० ( द्विदल ) चना आदि वह धान्य जिसके दो टुकड़े बराबर के होते हैं Gram,



or the grain that can be divided into two pieces equally  
 चिन्वोत्र न० ( चिन्वोक ) उपवान, ओसीसा  
 Pillow, cushion. गच्छ० ३, ८  
 विराड पु० ( विडाल ) (१) पिंगल प्रसिद्ध  
 मध्य लघुक पाँच मात्रा वाला अक्षर समूह.  
 A word with five signs or  
 syllables (२) छन्द-विशेष. A parti-  
 cular metre पिंग०  
 विरुद् न० (विरुद्) इल्काव, पदवी Title  
 सम्मत्त० १४१  
 विस न० ( विस ) कमल आदि के नाल का  
 तन्तु, मृणाल. The fibrous stalk of  
 a lotus कुमा० पात्र०, —कटी स्त्री०  
 ( कण्ठी ) बलाका, बक पक्षी की एक जाति  
 Crane दे० ६, ६३  
 विसि स्त्री० ( वृषि) ऋषि का आसन. The  
 seat of an ascetic or holy per-  
 son ने० १, ८३, पि० २०६  
 विसिणी स्त्री० ( विसिनी ) कमलिनी, कमलका  
 गाड़ The lotus plant पि० २०६  
 विद्. त्रि० ( वृहत् ) बडा, महान् Large,  
 great —एणार. पु० ( नल ) छन्द-विशेष.  
 A particular metre पिंग०  
 वीअऊरय न० ( बीजपूरक ) फल-विशेष, एक  
 तरह का नीबू A species of citron  
 मा० ३६  
 वीअा स्त्री० ( द्वितीया ) (१) तिथि विशेष,  
 दूज The second day of a lunar  
 fortnight. सम० २६, आ० २६, रयण०  
 २, नाया० १, १०, सुपा० १७१, (२) द्वितीया  
 विभक्ति ( In gram ) The accus-  
 ative case चेइय० ५०६  
 वीडग न० ( बीटक ) बीडा, पान का बीडा A  
 roll of betel-leaf सुपा० ३३६  
 वीडि-बीडी स्त्री० ( बीटि टी ) देखो 'बीडग'

शब्द Vide 'बीडग' धर्मवि० १४०  
 वीभच्छु-वीमत्थ पु० ( वीमत्स ) रावण का  
 एक सुभट A warrior of Ravana.  
 पउम० ५६, २  
 वीहविय त्रि० ( भीपित ) डराया हुआ  
 Frightened, terrified सम्मत्त० ११८.  
 वीहिअ त्रि० ( भीत ) (१) डरा हुआ  
 Frightened, terrified. हे० ४,  
 ५३, (२) न० भय, डरना Fear आ० १४.  
 वीहिर त्रि० ( भेतु) डरने वाला Fearing.  
 कुमा० ६, ३५  
 बुध न० ( बुध्न ) (१) वृक्ष का मूल The  
 foot of a tree. (२) कोई भी मूल,  
 मूलमात्र The lowest part हे० १,  
 २६, पद०  
 बुका स्त्री० ( गर्जना ) गर्जन, गर्जारव. Roar.  
 पउम० ६, १०८, गउड०  
 बुकार. पु० ( बुङ्कार ) गर्जन, गर्जना Roar.  
 पउम० ७, १०५, गउड०  
 बुक्किअ त्रि० ( गर्जित ) जिसने गर्जना की हो  
 Thundered, roared 'अह बुक्कियातुह'  
 कुमा०  
 बुज्झविय-अ त्रि० ( बोधित ) (१) जिसको  
 ज्ञान कराया गया हो Advised, instruc-  
 ted (२) जगाया हुआ Awakened  
 कुप्र० ६४, सुपा० ४२५, प्राकृ० ६८  
 बुज्झअ त्रि० ( बुद्ध ) ज्ञात, विदित Known,  
 understood, perceived पात्र०  
 बुज्झर त्रि० ( बोद्ध ) (१) जानने वाला.  
 Knowing, Perceiving (२) जागने  
 वाला Awaken प्राकृ० ६८  
 बुडुण न० ( बुडन ) डूबना Drowning,  
 sinking सवे० २, कप्प०  
 बुडुड त्रि० ( वृद्ध ) बूढा Old, aged पिंग०  
 बुद्ध त्रि० ( बोद्ध ) (१) बुद्ध-भक्त A  
 devotee to Buddha (२) बुद्ध-सम्बन्धी.

Relating to Buddha ती० ७,  
सम्पत्त० ११६

बुद्धि ( बुद्धि ) (१) देव प्रतिमा विशेष  
Inteligent नाया० १, १, टी, (२)  
छन्द-विशेष A particular metre  
पिंग०, (३) तीर्थकरी A female Tuth-  
ankara (४) साध्वी A female saint  
राज०, (५) पु० इस नाम का एक मन्त्री  
Name of a minister उप० ८४४

बोहिय, त्रि० ( बोधित ) (१) तीर्थकरी-स्त्री-तीर्थ-  
कर-से प्रतिबोधित Instructed by the  
Tuthankara (२) सामान्य साध्वी से  
बोधित Advised by Tuthankra  
'राज०, —सिद्ध पु० (सिद्ध) बुद्धि में सिद्ध-  
हस्त, सपर्युष बुद्धि वाला Perfect, well-  
versed, learned आवम०, —सुदरी  
स्त्री० (सुन्दरी) एक मन्त्रि-कन्या, Daughter  
of a minister. उप० ७२८ टी

बुद्धिल पु० (बुद्धिल) एक स्वनाम ख्यात श्रेष्ठी  
'Name of a wealthy man महा०  
बुभुक्षणा स्त्री० (बुभुक्षा) भूख, खाने की इच्छा  
Desire to eat, hunger. अभि० २०७  
बुसिआ, स्त्री० (बुसिका) यव आदि का कडगर,  
भूला Chaff of barley etc. दे० २,  
१०३.

बुहुषिखत्र, त्रि० (बुभुक्षित) भूखा Hungry,  
starving, pinched with hunger  
कुमा०

वेमासियं त्रि० (द्वैमासिक) दो मास का, दो

महीने का सम्बन्ध रखने वाला Connected  
only for 110 months पउम० २२, २८.  
वोक्कस पु० (वोक्कस) अनार्य देश विशेष A  
non-aryan country प्रव० २७४.  
वोक्किय न० (वूक्कृत) गर्जन, गर्जना Roar.  
पउम० २६, २४.

वोद्ध त्रि० (वौद्ध) बुद्ध-भक्त A devotee to  
Budha. सबोध० ३४  
बोधित्र त्रि० ( बोधित ) ज्ञापित, श्रवणमित.  
Made known, informed धर्मस०  
५०६.

बोधिसत्त पु० ( बोधिसत्त ) सम्यग् दर्शन का  
प्राप्त प्राणी, अर्हत् देव का भक्त जीव, A soul  
having right belief मोह० ३

बोलित्र त्रि० ( बोद्धित ) डुवाया हुआ Im-  
mersed, drowned. वजा० ६८.

बोल्लणत्र त्रि० (कथयितृ) बोलने के स्वभाव  
वाला Talkative हे० ४, ४४३

बोल्ला, स्त्री० ( कथा ) वार्ता, बात Tale,  
story. उप० १०१५

बोद्लिअ त्रि० ( कथित ) (१) उक्त Said,  
told. (२) न० उक्ति Speech. भवि० हे०  
४, ३८३.

बोधिअ पु० ( बोधिक ) चुराने वाला, चोर.  
Thief निसी चू० १, चेइय० ४४६

बोद्लिअ. पु० (कथन) बोल, कथन. Word  
गा० ६०३

बोल्लाविय त्रि० (कथित) बुलवाया हुआ  
Called. स० ४६१, ६६६.

म ]

म. पु० (मं) (१) ओष्ठ स्थानीय व्यञ्जन वर्ण  
विशेष A particular palatal con-  
sonant प्राप० प्रामा०, (२) पिंगल-प्रसिद्ध  
आदि गुरु और दो हस्य अक्षरों की सज्ञा, भगण्य.  
Mentioned in Pingala's treatise

on poetry. पिंग० ( ३ ) न० नक्षत्र A  
constellation सुर० १६, ४३. —आर.  
पु० (कार) (१) 'म' अक्षर The word  
'म' (२) भगण्य A particular metre  
having long and short, short

syllabess, पिंग० —गण पु० ( गण )  
भगण पिंग०

भइख त्रि० ( भैरव ) ( १ ) भयकर, भीषण Ter-  
rible, frightful पात्र० सुपा० १८२, ( २ )  
पु० नाट्यादि प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस,  
The sentiment of terror ( ३ )  
महादेव, शिव Mahadeo, Shiva ( ४ )  
राग विशेष, भैरव राग Name of a  
Ragini in the Hindu musical  
system ( ५ ) नदी-विशेष Name of a  
river हे० १, १२१, प्राप्र०

भइरवी स्त्री० ( भैरवी ) शिव-पत्नी, पार्वती  
Parvati गवड०

भइरहि पु० ( भगीरथि ) सगर चक्रवर्ती का एक  
पुत्र, भगीरथ Bhagiratha, son of  
Sagara Chakravarti पठम० ५, १७५.

भकार पु० ( भङ्कार ) भनकार, अन्वक्त आवाज़  
विशेष An indistinct sound उप०  
पृ० ८६

भकारि त्रि० ( भङ्कारिन् ) भनकार करने वाला  
Destroyer सण०

भग. पु० ( भङ्ग ) ( १ ) रचना, A kind of  
arrangement कम्प०, ( २ ) पराजय  
Defeat ( ३ ) पलायन Running,  
flight पिंग०, —रय न० ( रत ) मैथुन  
विशेष A special method of u-  
lation वजा० १०८

भगरय पु० ( भृङ्गरज-भृङ्गारक ) ( १ ) पौधा  
विशेष, भृङ्गराज, भँगरा A kind of  
creeper ( २ ) न० भँगरा का फूल. A  
particular flower वजा० १०८, सुपा०  
३२४

भगा. स्त्री० ( भङ्गा ) वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument विक्र० ८८

भगि स्त्री० ( भङ्गि ) ( १ ) प्रकार, भेद Kind,  
sort हे० ४, ३३६, ४११ ( २ ) व्याज, बल,

बहाना Pretence. गा० ११३, ( ३ )  
विच्छिन्न, विच्छेद Dividing, separa-  
tion राज०, ( ४ ) पु० स्त्री० देश विशेष, A  
particular country प्रव० २७५,  
विचार० ४६

भगिअ न० ( भाङ्गिक ) शास्त्र-विशेष, The  
sacred books 'भगिअ सुत्ते किरिया'  
चेइय० २४५

भगिल्ल त्रि० ( भगवत् ) प्रकार वाला, भेद  
पतित Having varieties. 'परम-  
भगिल्ला' सबोध० ३२

भगुर. त्रि० ( भङ्गुर ) कुटिल, वक्र Crooked,  
bent 'कुटिल वक्र भगुर', पात्र०

भगुरावत्त पु० न० ( भङ्गुरावर्त ) पलायन  
Running, flight भवि०.

भजअ-ग. त्रि० ( भङ्गक ) भागने वाला, भङ्ग  
करने वाला Divider गा० ५२२

भजाविअ-भजिअ. त्रि० ( भङ्गित ) ( १ )  
भगाया हुआ, तुडवाया हुआ Caused to  
break स० ५४०, ( २ ) भगाया हुआ  
Caused to run पिंग० ( ३ ) आक्रान्त.  
Surpassed तदु० ३८

भड पु० ( भरड ) विट, भडुआ Pimp,  
procurer प्रव० ३८, ( २ ) भाड, बहुरूपिया,  
मुख आदि के विकार से हसाने का काम करने  
वाला Jester आव० ६

भंडिअ पु० ( भाण्डिक ) भंडारी, भंडार का  
अध्यक्ष. Treasurer सुख० २, ४५

भत त्रि० ( भजत् ) सेवा करता हुआ Serving  
विशे० ३४४६

भत. त्रि० ( भात-भ्राजत् ) चमकता हुआ,  
प्रकाशता हुआ. Bright, Glittering  
विशे० ३४४७

भंत त्रि० ( भवान्त ) भव का-ससार का अन्त  
करनेवाला, मुक्ति का कारण Overcoming  
worldly existence विशे० ४३४६

भंत. त्रि० ( भ्रान्त ) (१) घूमा हुआ. Wandered, roamed about. 'भतो जतो' पत्रम० ३०, ६८, (२) भ्रम जनक, भ्रान्ति युक्त. Perplexed, confused (३) अशुभ, अनवस्थित Unsteady, unsettled. विशे० ३४४८, (४) पु० प्रथम नरक का तीसरा नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष The third abode of the first hell देवेन्द्र० ३

भंत. त्रि० ( भयान्त ) भय-नाशक That which removes fear विशे० ३४४६

भति स्त्री० ( भ्रान्ति ) भ्रम, मिथ्याज्ञान, Delusion, Wrong notion धर्मस० ७२१, ७२३, सुपा० ३१२, सवि०

भस्त. पु० ( भ्रश ) (१) खलना Falling off, slipping (२) विनाश Destruction, ruin सुपा० ११३, सुर० ४, २३०, 'सपाड्ड सपयानस' कुप्र० ४१

भंसग त्रि० ( भ्रशक ) विनाशक Destructive. वव० १.

भक्षलग त्रि० ( भक्षक ) भक्षण करने वाला One who eats कुप्र० २६

भक्षर पु० ( भक्षर ) (१) अग्नि, वह्नि Fire. (२) अर्क-वृक्ष A particular tree चड०

भक्षलावण न० ( भक्षण ) खिलाना Feeding उप० १२० टी

भग पु० न० ( भग ) (१) ऐश्वर्य Affluence (२) रूप Beauty (३) श्री Wealth, riches (४) यश, कीर्ति Fame, glory (५) धर्म Religion (६) प्रयत्न Effort, exertion विशे० १०४४, वैश्व० २८८. (७) सूर्य, रवि Sun. (८) माहात्म्य Dignity. (९) वैराग्य, Absence of desire, indifference to worldly objects (१०)

मुक्ति, मोक्ष Eternal bliss (११) वीर्य. Semen virile (१२) इच्छा. Desire, wish कल्प०टी. (१३) ज्ञान Knowledge प्राभा०.

भगदत्त पु० ( भगदत्त ) नृप-विशेष. Name of a king हे० ४, २६६.

भगिरहि-भगीरहि पु० ( भगीरथि ) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र A son of Sagara Chakravarti. पत्रम० १, १७६, २१२

भग त्रि० ( भग्न ) (१) पराजित Routed, Defeated (२) पलायित, भागा हुआ Run away हे० ४, ३७६, ३२४, महा० वव० २.

भग न० ( भाग्य ) नसीब, दैव Fortune, luck सुर० १३, १०२

भगव पु० ( भागव ) (१) ग्रह विशेष, शुक्र-ग्रह The planet venus पत्रम० १७, १०८ (२) ऋषि-विशेष The preceptor of asuras, सप्त० १८१

भङ्गिञ्ज त्रि० ( भङ्गित ) तिरस्कृत Censured, abused. दे० १, ८०, कुमा० ३, ८६.

भङ्गिजर त्रि० ( भङ्गु ) भागने वाला. One who breaks धर्मवि० २२, सण०

भट्ट पु० ( भट्ट ) (१) मनुष्य-जाति विशेष, स्तुति पाठक को एक जाति, साठ. A particular race of human-beings, bard, panegyrist. त्रि० १२२, सुपा० २७१, उप०पु० १२०, (२) वेदाभिज्ञ, पण्डित, ब्राह्मण, विद्वान् Learned man, versed in Vedas उप० १०३ १टी, (३) स्वामित्व, मालिकी Mastership, ownership प्रति००

भट्टारज-य पु० ( भट्टारक ) (१) पूज्य, पूजनीय Venerable, revered आब० ३, महा०, (२) नाटक की भाषा में राजा, A sut-name for a king in a drama or theatre प्राक० १२

मट्टिणी स्त्री० ( भर्त्री ) स्वामिनी, मालिकिन  
Mastress, a wife of an owner  
स० १३४

भड पु० ( नट ) (१) म्लेच्छों की एक जाति।  
A barbarian race (२) वर्णसंकर जाति  
विशेष A tribe of mixed castes  
(३) राक्षस. Demon हे० १, १६१.

भडित्त न० ( भटित्त ) शूल-पक मासादि,  
कबाब Roasted meat etc स० २६२,  
कुप्र० ४३२

भषाण न० ( भषण ) कथन, उक्ति Speak-  
ing, speech उप० २१३; सुपा० २८३,  
सवोध० ३

भषाविश्र. त्रि० ( भाषित ) कहलाया हुआ  
Sent a message. सुपा० ३१८

भषिह् स्त्री० ( भषिति ) उक्ति, वचन Speech  
सुर० ६, १४१, सुपा० २१४, धर्मसि० १८.

भक्त पु० न० ( भक्त ) (१) श्रोदन, भात  
Rice प्रामा० (२) लगातार सात दिन का  
उपवास Seven fasts at a time  
सवोध० ५८ (३) भक्ति युक्त, भक्तिमान्,  
Devoted उप० पृ० ६६, महा०

भक्त त्रि० ( भूत ) उत्पन्न, सजात. Produced  
हे० ४, ६०

भक्ति स्त्री० ( भक्ति ) (१) एकाग्र वृत्ति विशेष.  
A kind of meditation. श्राव० २.  
(२) कल्पना, उपचार Thought. धर्मसि०  
७४२, (३) अनुराग Affection धर्म० १,  
(४) अवयव, Lamb (५) श्रद्धा. Faith-  
fulness' हे० १५६.

भक्त्या स्त्री० ( भक्त्वा ) चमड़े की चौकनी  
Bellows उप० ३२०, टी, धर्मसि० १३०

भक्त्या स्त्री० ( भक्ती ) भाषी, चमड़े की चौकनी.  
Bellows कुप्र० २६६

भद्र न० ( भद्र ) (१) सुवर्ण, सोना Gold  
(२) मुस्तक, मोथा, नागरमोथा Grass

हे० २, ८०, (३) दो उपवास, Two fasts  
at a time. सवोध० १८, (४) छन्द, विशेष  
A particular metre पिंग०

भद्रगुप्त, पु० ( भद्रगुप्त ) स्वनाम-प्रसिद्ध एक  
जैन आचार्य Name of a Jaina Acha-  
rya सार्ध० २३, — गुप्तिय, न० ( भद्र-  
गुप्तिक ) एक जैन मुनि कुल A group of  
Jaina saints कप्प०

भद्रदारु न० ( भद्रदारु ) देवदारु, देवदार की  
लकड़ी Pinewood उत्तनि० ३

भद्रा स्त्री० ( भद्रा ) (१) रावण की एक पत्नी.  
A queen of Ravana. पउम० ७४, ६,  
(२) छन्द विशेष A particular metre  
पिंग०

भद्रास न० ( भद्रास्य ) नगर विशेष. Name  
of a city इक०

भद्रिजिजया स्त्री० ( भद्रिया-भद्रियिका ) एक  
जैन मुनि-शाखा A group of Jaina  
saints कप्प०

भ्रम पु० ( भ्रम ) भ्रान्ति, मोह, मिथ्या-ज्ञान  
Misapprehension, delusion से०  
३, ४८, कुमा०

भ्रमग न० ( भ्रमक ) लगातार एकतीस दिनों का  
उपवास Thirty-one fasts at a time.  
सवोध० १८.

भ्रमडिञ्ज त्रि० ( भ्रान्त ) (१) घूमा हुआ, फिरा  
हुआ Wandered, roamed about  
स० ४७३, (२) भ्रान्ति युक्त, Erring,  
being under a delusion. कुमा०

भ्रमया. स्त्री० ( भ्रू ) भौं, नेत्र के ऊपर की केश-  
पक्ति Brow, eyebrow, हे० २, १६७,  
कुमा०

भ्रमर पु० ( भ्रमर ) (१) छन्द-विशेष. A spe-  
cial metre. (२) विट, रडीबाज Libe-  
rtine कप्प०

भ्रमरावलि. स्त्री० ( भ्रमरावलि ) (१) छन्द विशेष.

|                                                 |                                    |                                            |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Name of a metre                                 | पिंग० (२) भ्रमर-                   | task                                       | विशे० १६६ टी, चा० ४, ४ टी (२)           |
| पक्ति                                           | Row of bees                        | पूर्णता, सम्पूर्णता                        | Completeness, Per-                      |
| भमरिया. स्त्री० (भ्रमरिका)                      | जन्तु-विशेष, वर्                   | fectness                                   | कुम० ६, (३) मध्य भाग                    |
| A kind of insect.                               | जी० १८                             | Middle portion                             | (४) जमावट. Ar-                          |
| भ्रमाइत्र (भ्रमित) घुमाया हुआ, फिराया हुआ       | Revolved, moved round or in a      | circle                                     | सं० ५३०                                 |
| से० ३, ६१                                       |                                    | भरड पु० (भरट) व्रती-विशेष, एक प्रकार का    | साधु Monk. सम्मत्त० १४५                 |
| भ्रमाड पु० (भ्रम) भ्रमण, घूमना, चक्कर           | Moving or roaming about, 10-       | भरण न० (स्मरण) स्मृति Remem-               | brance, recollection गा० २०, ३७७        |
| विविंग ओष० भा० २६ टी, ८३ टी                     |                                    | भरण न० (भरण) (१) पोषण Nourish-             | ment गा० ५२७, (२) गिल्प-विशेष,          |
| भ्रताडण न० (भ्रमण) घुमाना. Revolution,          | to take a round उप० पृ० २७८        | वस्त्र में बेल बूटा आदि आकार की रचना. A    | kind of art, working flowers on         |
| भ्रमाडिअ त्रि० (भ्रमित) घुमाया हुआ, फिराया हुआ  | Revolved, moved in a circle        | भरण' गच्छ० ३, ७                            |                                         |
| पडम० १६, २५                                     |                                    | भरह पु० (भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोटा   | भाई Name of a Rama's brother.           |
| भ्रमि स्त्री० (भ्रमि) चित्त भ्रम करने की शक्ति, | Revolution, an uneasy mind         | पडम० २५, १४, (२) नाट्य-शास्त्र का कर्ता एक | मुनि Name of an ancient sage            |
| विर्ग० १६, ५३, (२) रोग विशेष, चक्कर             | Giddiness, a kind of a disease,    | who is supposed to have been               | the founder of the science of           |
| Giddiness, a kind of a disease,                 | whirling of the head हम्मीर० २८    | music and dramaturgy. सिरि० ५६,            | (३) शवर A mountain dweller (४)          |
| भयण न० (भजन) (१) सेवा Service,                  | adoration, worship राज०, (२)       | तन्तुवाय Weaver (५) नृप विशेष, राजा        | दुष्यन्त का पुत्र Name of the son of    |
| विभाग Division, share सम्म० ११३.                |                                    | Dushyanta (६) भरत के वंशज राजा             | A king of Bharata family हे०            |
| भयजणायी स्त्री० (भयजननी) (१) ब्रास              | उत्पन्न करने वाली A terrible woman | १, २१४, पद्०, (७) देव-विशेष A special      | deity or god —सत्य न० (शास्त्र)         |
| बूह० १, (२) विद्या विशेष Science of             | magic पडम० ७, १४१                  | भरत मुनि-भणित नाट्य शास्त्र Drama-         | turgy founded by Bharata                |
| भयवाह पु० (भयवाह) राक्षस वंश का एक              | राजा, एक लका-पति A king of         | Muni सिरि० ५६                              |                                         |
| demon-family पडम० ५, २६३                        |                                    | भरहेसर पु० (भरतेश्वर) (१) संपूर्ण भारत     | वर्ष का राजा, चक्रवर्ती Chakravarti (२) |
| भयाणय. त्रि० (भयानक) भयकर, भय-जनक.              | Horrible, terrible सं० १२१         | चक्रवर्ती भरत Bharata Chakravarti.         | कुमा० २, १७, पडि०                       |
| भयालु. त्रि० (भीरु) भीरु, डरपीक Timid,          | cowardly, timorous दे० ६, १०७,     |                                            |                                         |
| नाट०                                            |                                    |                                            |                                         |
| भर. पु० (भर) (१) गुरुतर काव्यं Hard             |                                    |                                            |                                         |

भरिञ्च. त्रि० ( स्मृत ) याद किया हुआ.  
 Remembered, recollected 'भरिञ्च  
 लुदिञ्च' पाञ्च० कुमा० भवि०  
 भरिउल्लङ्घ त्रि० ( भृगुल्लुठित ) भर कर  
 खाली किया हुआ Emptied दे० ७, ८१,  
 पाञ्च०  
 भरिल्ली. स्त्री० ( भरिल्ली ) जन्तु विशेष An  
 insect having four senses राज०  
 भरुञ्चच्छ पु० ( भृगुञ्चच्छ ) गुजरात का एक  
 प्रसिद्ध शहर A well-known city  
 of Gujarat. काल० पडि०  
 भलाविञ्च. त्रि० ( भालित ) सौंपा हुआ, सहाजने  
 के लिये दिया हुआ Entrusted आ० १६  
 भल्ल-भदल्लय त्रि० ( भद्र ) भला, उत्तम, श्रेष्ठ  
 Excellent कुमा० हे० ४, ३२१, भवि०,  
 —त्तय-पयण न० ( त्व ) भलमनसी, भलाई  
 Goodness कुमा०  
 भल्लिम पु० स्त्री० ( भद्रत्व ) भलाई, भद्रता  
 Kindness, gentleness सुपा० १२३,  
 कुम० १०८  
 भल्ली. स्त्री० ( भल्ली ) भाला, बर्छी, अस्त्र-  
 विशेष, A kind of spear, dagger.  
 सुर० २, २८, कुम० २७४, सुपा० २३०  
 भव पु० ( भव ) ससार का कारण Cause  
 birth सम्म० १, (२) महादेव, शिव An  
 epithet of Shiva पाञ्च०, (३) उत्पन्न  
 Produced सुपा० २८४, (४) न० देव-  
 विमान विशेष A kind of celestial  
 aerial car or ship —अभिण (न)  
 दि त्रि० ( अभिनन्दिन् ) ससार को पसद  
 करने वाला, ससार को अच्छा मानने वाला  
 Worldly man राज० सवोध ८, २३,  
 —ओषग्गाहि न० ( ओषगाहिन् ) कर्म-  
 विशेष A particular action. धर्मस०  
 १२६१, —जिण त्रि० ( जिन ) रागादि को  
 जीतने वाला A master of tunes or

sounds 'सासण जिणाण भवजिणाण'  
 सम्म० १, —त्यकेवलि त्रि० (स्यकेवलिन)  
 जीवन्मुक्त. Liberated from life.  
 सम्म० ८६

भवण न० ( भवन ) (१) उत्पत्ति, जन्म.  
 Production, birth. धर्मस० १७२,  
 (२) सत्ता Power. विशे० ६६

भवभूद् पु० ( भवभूति ) सस्कृत का एक प्रसिद्ध  
 कवि Name of a celebrated poet  
 गडड०

भवाणी स्त्री० ( भवानी ) शिव-पत्नी, पार्वती.  
 Name of Parvati, wife of Shiva  
 पाञ्च० समु० १२७, —कत पु० ( कान्त )

महादेव An epithet of Shiva. पिंग०  
 भवारिस त्रि० ( भवाद्या ) तुम्हारे जैसा, आपके  
 तुल्य Like you, like your honour  
 हे० १, १४२, चड० सुपा० २७६

भवि पु० ( भविन् ) भव्य जीव, मुक्ति-गामी-  
 प्राणी A soul fit to be liberated.  
 भवि०

भविञ्च त्रि० ( भव्य ) (१) सुन्दर Beautiful,  
 handsome कुमा०, (२) श्रेष्ठ, उत्तम.  
 Best, excellent सवोध० १

भविच्ची स्त्री० ( भवित्री ) होने वाली About  
 to occur, future पिंग०

भसग पु० ( भसक ) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण  
 के बड़े भाई जरत्कुमार का एक पौत्र.  
 A prince, grandson of Jarat-  
 kumar, elder brother of Shri  
 Krishna उव०

भसण. न० ( भपण ) (१) कुत्ते का शब्द Dog's  
 barking आ० २७, (२) पु० खान, कुत्ता.  
 Dog पाञ्च० सिरि० ६२२

भसम पु० ( भसम् ) (१) ग्रह-विशेष A  
 particular planet सट्टि० ४२ टी (०)  
 राख, भसूत Ashes महा० सम्मत्त० ७६.

भस्स पु० ( भस्मन् ) (१) ग्रह विशेष A particular planet (२) राख Ashes हे० २, ५१

भस्सिञ्च त्रि० ( भस्मित ) जलाकर राख किया हुआ, भस्म किया हुआ. Bunt to ashes कुमा०

भा. स्त्री० ( भा ) दीप्ति, प्रभा, कान्ति, तेज Splendor, lustre. कुमा०

भाञ्च पु० ( भाग ) (१) योग्य-स्थान A suitable place से० १३, ६, (२) भाग्य, नसीब Fortune. सार्ध० ८०, — धेञ्च-हेञ्च पु० न० ( धेय ) (१) भाग्य, नसीब Destiny, luck से० ११, ८६, स्वप्न० ५१, हस्मीर० १४, अभि० १६७, ( २ ) कर, राजदेय. Tax, tribute. (३) दायद, भागीदार Partner प्राकृ० ८८, नाट-चेत० ६०

भाइञ्च त्रि० ( भाजित ) (१) विभक्त किया हुआ, बाटा हुआ Divided, Shared. पिंड० २०८, (२) खण्डित. Broken पच० २, १०.

भाइञ्च त्रि० ( भीत ) (१) डरा हुआ Feared, frightened (२) न० डर, भय. Fear, terror हे० ४, २३.

भाइर त्रि० ( भीरु ) डरपोक Timid, coward दे० ६, १०४

भाइहड न० ( भ्रातृभाण्ड ) भाई, बहिन आदि स्वजन A blood relation e g. a brother, sister etc कुम० १२६

भाईरही स्त्री० ( भागीरथी ) गंगा नदी. The Ganges गडड० हे० ४, ३४७, नाट-विक्र० २८

भाउरायण पु० ( भागुरायण ) व्यक्ति वाचक नाम A proper noun. मुद्रा० १२३

भाग पु० ( भाग ) (१) अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, माहात्म्य Dignity. 'भागो चिंता स्ती स महाभागो' विशेष० १०५८, (२) भाग्य, नसीब.

Fortune, fate सिरि० ८२३, (३) प्रकार, भङ्गी A kind, a sort. राज०

भागवय त्रि० ( भागवत ) (१) भगवान् से सवन्ध रखने वाला. Meditator (२) भगवान् का भक्त Devotee to God. धर्मस० ३१२.

भागि. त्रि० ( भागिन् ) ( १ ) भजने वाला, सेवन करने वाला. Worshipper, meditator उव० सुपा० ५४७, ( २ ) भागीदार, अश-ग्राही Partner. प्रामा० भाडिय. त्रि० ( भाडकित ) भाडे पर लिया हुआ. Hired. 'भाडिय वियड' सुर० १३, ३१

भाण्डिञ्च त्रि० ( भाण्डित ) (१) पढाया हुआ, पाठित The taught 'नाणासस्थाईं भाण्डिञ्चा' रयण० ६८, (२) कहलाया हुआ. Sent a message, Intimated. 'भजाष्टभाण्डिञ्चो मती' सुपा० ५८७

भाणु पु० ( भानु ) ( १ ) सूर्य, रवि Sun पडम० ४६, ३६, पुष्प० १६४, सिरि० ३२, (२) किरण A ray of light (३) प्रामा० एक इन्द्रायी, शक्र की अग्रमहिषी A wife of King India पडम० १०२, १५६

भाणुकरण पु० ( भानुकरण ) रावण का एक अनुज A youngster of King Ravana पडम० ७, ६७

भाणुमई स्त्री० ( भानुमती ) रावणकी एक पत्नी A queen of Ravana पडम० ७४, १०.

भाणुमालिणी स्त्री० ( भानुमालिनी ) विद्या-विशेष Magical science पडम० ७, १३६.

भाणुवेग पु० ( भानुवेग ) एक विद्याधर का नाम Name of a Vidyadhar. महा० सण०

भाणुसिरि स्त्री० ( भानुश्री ) राजा बलमित्र की बहिन A sister of Balamitra काल०

भामण न० ( भमण ) घुमाना, फिराना. Turning round सम्मत्त० १७४



मामर न० (भामर) (१) मधु विशेष, भ्रमरी का बनाया हुआ मधु Honey made by bees प्रब० ४, (२) पु० दोधक छन्द का एक भेद A principle of Dodhaka metie पिंग०

मामरी. स्त्री० ( भामरी ) प्रदक्षिणा Circumambulation from left to right कल्प० भवि०

मामिणी स्त्री० ( भागिनी ) भाग्यवाली. A fortunate woman हे० १, १६०, कुमा०

मामिणी स्त्री० ( भागिनी ) (१) कोप-शीला स्त्री० A passionate or excited woman (२) स्त्री, महिला Woman, lady आ० १२, सुर० १, ७६, सुपा० ४७४, सम्मच, १६३.

मायण पु० न० ( भाजन ) ( १ ) आधार. Vessel, pot ( २ ) योग्य, Fit or deserving person. हे० १, ३३, २६७, सुपा० २६७, कुमा०

मायणाग पु० ( भाजनाङ्ग ) कल्प वृक्ष की एक जाति, पात्र देने वाला कल्प वृक्ष King of trees पउम० १०२, १२०

भार पु० ( भार ) ( १ ) भार वाली वस्तु, बोझ वाली चीज A heavy thing, a load आ० ४०, ( २ ) काम संपादन करने का अधिकार Authority to work 'भारकक्षमेवि पुत्ति' प्रासू० २७, ( ३ ) परिमाण-विशेष A Special measure 'नासइ भार गुहस्त' प्रासू० १२१

भारई. स्त्री० ( भारती ) भाषा, वाणी, वाक्य, वचन Sayings, speech पाञ्च०

भारही स्त्री० ( भारती ) सरस्वती देवी The goddess of Learning Sarasvati पि० २०७

भारिञ्च त्रि० ( भारित ) भार वाला, भारी Heavy 'व्य० पृ० १३४, (२) जिस पर

भार लादा गया हो वह, भार युक्त किया गया. Loaded सुख० २, १२

भारिल्ल त्रि० ( भारवत् ) भारी, बोझ वाला. Heavy घर्मवि० १३७.

भाव पु० ( भाव ) महान् वादी, समर्थ विद्वान्. A learned or venerable man. दस० १, १ टी.

भाव पु० ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति Birth. 'पिंडो कज्ज पइसमयभापाव' विशेष० ७१, (२) परामर्थ, वास्तविक सत्य. Reality विशेष० ४६. (३) भवन, सत्ता Being, existing. विशेष० ६०, गउड० ६७८, (४) ज्ञान, उपयोग Knowledge. आया० चू० १, विशेष० १०. —आसव पु० ( आभव ) वह आत्म परिणाम जिससे कर्म का आगमन हो That which results in the change of a man's actions द्रव्य० २६ —सजय पु० ( सयत् ) सच्चा साधु A real saint उप० ७३२, भावञ्च त्रि० ( भावक ) होने वाला To be future प्राकृ० ७०

भावग. त्रि० ( भावक ) वासक पदार्थ, गुणा-धायक वस्तु Fumigating, perfuming. आया० चू० ३.

भावड पु० ( भावड ) स्वनाम ख्यात एक वणिक Name of a Bania पउम० ५, ८२.

भाविञ्च. त्रि० ( भावित ) शुद्ध, निर्दोष Pure, innocent बृह० १

भाविर्ल्ल त्रि० ( भाववत् ) भाव-युक्त Sentimental भावसाइ भविर्ल्लो' सवोध० २०.

भासण न० ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन. Speaking, oration महा०

भासय त्रि० ( भासक ) प्रकाशक Enlightening, illuminating विशेष० ११०४.

भासा स्त्री० ( भास् ) प्रकाश, आलोक, दीप्ति. Light, lustre पाञ्च०

भासिञ्च. त्रि० ( भासित ) प्रकाश वाला, प्रकाश

युक्त Shining किसी० वृ० १३  
 भासिर त्रि० ( भाषित् ) वक्ता Speaker  
 सुपा० २३८, सख०  
 भासिर त्रि० ( भास्वर ) दीप्त, वेदीप्यमान  
 Shining, radiant, brilliant कुमा०  
 मासीकय, त्रि० ( भस्मीकृत ) जला कर राख  
 किया हुआ Bunt to ashes उप०  
 १८६ टी  
 भासुर, त्रि० ( भासुर ) घोर, भीषण, भयकर  
 Terrible पात्र० ( २ ) पुं० छन्द विशेष  
 A particular metre अजि० ३०.  
 भासुरिश्च त्रि० ( भासुरित ) देदीप्यमान किया  
 हुआ Brightened अजि० २३.  
 भित पुं० ( श्रु ) ( १ ) स्वनाम ख्यात ऋषि  
 विशेष Sage ( २ ) पर्वत-स्तानु Summit  
 of a mountain ( ३ ) शुक-ग्रह  
 An epithet of Sukra ( ४ ) महादेव,  
 शिव Mahadeo, one of the gods  
 of the Hindus ( ५ ) जमदग्नि Name  
 of the sage Jamadagni. ( ६ ) ऊचा  
 प्रदेश A chuff, a precipice ( ७ ) श्रुगु  
 का वंशज A descendant of Bhrigu.  
 ( ८ ) रेखा, राजि, Line हे० १,  
 १२८, पद०  
 भितकच्छ न० ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष,  
 ब्रौच Broach, a city राज०  
 भिग पु० ( श्रु ) ( १ ) छन्द विशेष A  
 particular metre पिंग० ( २ ) जार,  
 उपपति Paramour. ( ३ ) भागरे का  
 पेड A kind of tree ( ४ ) पात्र-विशेष,  
 भारी A golden vasa or jar. हे० १,  
 १२८  
 भिद्ग न० ( भेदन ) खण्डन, विच्छेद  
 Breaking, rending सुर० १६, १६.  
 भिद्गुया. स्त्री० ( भेदना ) खण्डन, विच्छेद  
 Breaking, to split. सुर० १, ७२

भिमी स्त्री० ( भिम्भी ) वाद्य विशेष, टकर, A  
 kind of musical instrument.  
 ठा० ६ टी  
 भिक्ष न० ( भैक्ष ) ( १ ) भिक्षा, भीख Beg-  
 ging, asking for, mendicancy.  
 ( २ ) विद्या समूह Any thing got by  
 begging. श्लो० भा० २१६, २१७  
 —जीविश्च त्रि० ( जीविक ) भीख से निर्वाह  
 करनेवाला, भिक्षुमत्ता Living on alms  
 प्राकृ० ६, पि० ८४  
 भिक्षुत्वा. न० ( भिक्षुत्वा ) भीख मागना, याचना.  
 Begging, mendicancy धर्मस०  
 १०००  
 भिच्चभाव पुं० ( भृत्यभाव ) नौकरी Ser-  
 vice, सुर० ४, १२६  
 भिज्जता. स्त्री० ( अभिज्या ) गृद्धि, लोभ  
 Greed. कस०  
 भित्तु त्रि० ( भेत् ) भेदन करने वाला One  
 who breaks or rends प्रव० २,  
 भिन्न त्रि० ( भिन्न ) ( १ ) परित्यक्त, उन्मिक्त.  
 Abandoned. 'जीवजड भावयो भिन्न'  
 बृह० १, आष० ४, —कहा स्त्री० ( कया )  
 मैथुन-संबन्धी बात, रहस्यालाप Talking  
 relating to coition श्लो० ६६,  
 —मास पु० ( मास ) पच्चीस दिन का महीना.  
 A month of twenty-five days  
 जीत०  
 भिष्प पु० ( भीष्म ) ( १ ) स्वनाम ख्यात एक  
 कुरुवंशीय क्षत्रिय, गानेय, भीष्म पितामह  
 Name of shantanu's son  
 through Ganga ( २ ) साहित्य-प्रसिद्ध  
 रस विशेष, भयानक रस The sentiment  
 of terror ( in rhetoric ) ( ३ ) त्रि०  
 भयजनक, Terrible, frightful.  
 हे० २, १४, प्राकृ० ६२ कुमा०.  
 भिन्मल त्रि० ( विह्वल ) Pertur-

bed, uncomfortable हे० २, २८,  
१०, प्राकृ २४, कुमा० वजा० १२६  
भिल्लमाल. पु० ( भिल्लमाल ) स्वनाम ख्यात  
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश. A well known  
Kshatriya lineage, dynasty  
दिवे० ११४  
भिल्लायई स्त्री० ( भल्लातकी ) भिल्लावों का  
पेढ A kind of tree उप० १०३१ टी  
भिल्लिञ्च त्रि० ( भिल्लित ) खण्डित, तोडा हुआ  
Broken, shattered 'पायारो भील्लिञ्चो  
जेण' उप०  
भिस. न० ( भृश ) अत्यन्त, अतिशय Much,  
excess पिंड० १८३, उप० ३२० टी, सत्त०  
६१, भवि०  
भिसत्र पु० ( भिषग ) (१) वैद्य, चिकित्सक  
Physician, doctor हे० १, १८, कुमा०  
(२) भगवान् महिनाथ का प्रथम गणधर  
The first Ganadhara of Lord  
Mallinatha प्रव० ८  
भिसिणी स्त्री० ( भिसिनी ) कमलिनी, पद्मिनी  
The lotus plant हे० १, २३८, कुमा०  
गा० ३०८, काप्र० ३१, महा० पाय०  
भीइ स्त्री० ( भीति ) डर, भय Fear, dread  
सुर० २, २३७, सिरि० ८३६, प्रासू० २४  
भीइञ्च. त्रि० ( भीत ) डरा हुआ Frighten-  
ed, alarmed. उप० १४०  
भीइर त्रि० ( भेतृ ) डरने वाला. Coward  
बसु०  
भीम पु० ( भीम ) (१) एक पाण्डव, भीमसेन  
Name of the second Pandava  
prince गा० ४४३, (२) राक्षस वंश का  
एक राजा, एक लका पति. A king of  
the demons family पडम० १, २६३,  
(३) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र A son  
of Sagar Chakravarti पडम० १,  
१७५, (४) दमयंती का पिता Father

of Damayanti कुम० ४८ (२) गुजरात  
का चालुक्य वंशीय एक राजा भीमदेव  
Bhimadeo, a Chalukya King of  
Gujarata. कुम० ४  
भीमकुमार पु० ( भीमकुमार ) एक राजकुमार.  
Prince धम्म०  
भीमप्यम पु० ( भीमप्रभ ) राक्षस वंश का एक  
राजा, एक लकापति A king of Cey-  
lon पडम० १, २५१  
भीमावलि पु० ( भीमावलि ) अगविद्या का  
जानकार पहला रुद्र पुरुष The first  
Rudra, knowing the science of  
foretelling good or evil by the  
movements of limbs विचार० ४७३.  
भुञ्जइद पु० ( भुजगेन्द्र ) श्रेष्ठ सर्प The  
best snake गड०, (२) शेष नाग, वासुकि  
The lord of snakes. अच्यु० २७  
भुञ्जंग पु० ( भुजग ) (१) विट, रवीवाज,  
वेश्या-गामी Gallants कुमा० वजा०  
११६, (२) जार, उपपति Palamour.  
(३) घूतकार, जुआरी. कपू० Gambler  
उप० घृ० २५२, (४) चोर, तस्कर Thief  
स० ४३०, (५) बदमाश, ठग Rogue स०  
५२४, —कित्ति २४०, ( कीर्ति ) कसुक  
A bodice, a jacket गा० ६४०.  
—पञ्चाय न० ( प्रयात ) (१) सर्प की गति  
Creeping of a snake (२) छन्द  
विशेष A particular metrie. भवि०  
—राज्ञ. पुं० ( राज ) शेषनाग. The lord  
of snakes The name of a ruling  
dynasty in ancient India त्रि० ८२.  
भुञ्जगम पु० ( भुजगम ) (१) सर्प, साप A  
snake गड० १७८, पिंग० (२) स्वनाम  
ख्यात एक चोर A renowned thief.  
महा०  
भुञ्जगिणी-भुञ्जगी स्त्री० ( भुजगी ) (१) विद्या

विरप Magical science पउम० ७,  
१४०, (२) नागिन A female serpent  
सुपा० १८१, भक्त० ११७

भुञ्जग पु० ( भुज्जग ) ( १ ) रडीबाज,  
दुराचारी. A debauch कुप्र० ३०६, (२)  
भोगी, विलासी Amorous, passionate  
नाया० १, १, टी, —परिरिगञ्ज. न०  
(परिरिङ्गित) छन्द विशेष A particular  
metre अजि० १६

भुञ्जग त्रि० ( भोजक ) पूजक, सेवा कारक  
Attendant at meals भोजन के समय  
पर सेवा कारक नाया० १, १ टी

भुञ्जगवर पु० ( भुज्जगवर ) द्वीप विशेष An  
island राज०

भुञ्जाल त्रि० ( भुजवत् ) बलवान् हाथ वाला  
Strong armed सिरि० ७६६

भुङ्ग स्त्री० ( भृति ) ( १ ) भरण, पोषण,  
Nourishment, maintenance (२)  
वेतन Wages, pay (३) मूल्य Price,  
worth, cost हे० १, १३१, पङ्०

भुञ्जग त्रि० ( भोजक ) भोजन करने वाला  
One who eats पिंड० १२३

भु जावय त्रि० ( भोजक ) भोजन कराने वाला  
One who feeds. स० २५१

भु जावित्र त्रि० ( भोजित ) जिसको भोजन  
कराया गया हो One who has fed  
धर्मवि० ३८, कुप्र० १६८

भुक्कित्र न० ( बुक्ति ) श्वान का शब्द,  
Barking, पाश्च० पि० २०६

भुक्किर त्रि० ( बुक्ति ) भँकने वाला One  
who barks, barking कुमा०

भुग्ग त्रि० ( भुग्ग ) दग्ध, जला हुआ Bunt  
वप० ७६८ टी, (२) भूना हुआ Roasted  
कुप्र० ४३२

भुज्ज पु० ( भूज्ज ) ( १ ) वृक्ष-विशेष भोजपत्र  
The buch-tree (२) न० वृक्ष-विशेष

की छाल The bark of that tree.  
कपू० उप० पृ० १२७, सुपा० २७०

भुज्ज त्रि० ( भूयस् ) प्रभूत, अनल्प More  
important, urgent पि० ४१४,

भुरण पु० ( भ्रूण ) ( १ ) स्त्री का गर्भ An  
embryo, a foetus (२) बालक, शिशु  
Child, boy सकि० १७

भुत्तवत् त्रि० ( भुत्तवत् ) जिसने भोजन किया  
हो One who has eaten पि० ३६७

भुत्ति स्त्री० ( भुक्ति ) ( १ ) भोजन Food  
अच्छु० १७, अज्ज० ८७, ( २ ) भोग  
Enjoyment सुपा० १०८, ( ३ ) आजी-  
विका के लिये दिया गया गाव, क्षेत्र आदि  
गिरास ( In law ) Possession,  
fruition उप० २११ टी, कुप्र० १६६,  
—वाल पु० ( पाल ) गिरासदार A land-  
holder धर्मवि० १५४.

भुत्तु त्रि० ( भोक्तृ ) भोगने वाला One who  
enjoys आ० ६, सवोध० ३५

भुल्लवित्र त्रि० ( भ्रगित ) भ्रष्ट किया हुआ.  
Polluted कुमा०

भुल्लिर त्रि० ( अशिन ) भूलने वाला  
Forgetful सुपा० १२३

भुवण न० ( भुवन ) ( १ ) जीव, प्राणी Soul,  
creature कुमा० ( २ ) आकाश  
Sky प्रासू० १००, —ब्रह्मोद्दयी स्त्री०  
( सौमनी ) विद्या-विशेष Magical  
science सुपा० १७४, —बधु पु०  
( बन्धु ) ( १ ) जगत् का बन्धु Comade  
( २ ) जिनदेव An evil spirit उप०  
२११ टी

भुवणस्तोह पु० ( भुवनशोभ ) सातवें बलदेव  
के दीक्षक एक जैन मुनि A Jaina saint  
initiated by seventh Baladeo  
पउम० २०, २०५

भुवणालकार पु० ( भुवणालकार ) रावण का

एक पट्ट-हस्ती A crowned elephant of Ravana पठम० ८२, १११

भुवणा स्त्री० ( भुवना ) विद्या-विशेष.

Magical science पठम० ७, १४०

भू स्त्री० ( भू ) मीं, आल के ऊपर की रोम-राजि Eyebrow. सुपा० २७६, आ० १४, सुपा० २२६, कुमा०

भूअ. त्रि० ( भूत ) (१) वास्तविक, यथार्थ, सत्य Real, true 'भूअत्येहिं चित्र' गडड० सम्मत्त० १३६, (२) उपमा Comparison or a similly. (३) तादर्थ्य, तादर्थ-भाव, श्रावक० १२४, —वडिंसा स्त्री० (अवतसा) (१) एक इन्द्राणी Wife of Indra जीव० ३ (२) एक राजधानी Capital दीव०

भूअदिन्न पु० ( भूतदिन्न ) (१) एक जैन आचार्य A Jain Acharya एक चाण्डाल नायक A leader of the outcasts. महा०

भूअर पु० ( भूदार ) शकर, सूअर. Hog किरात० ६

भूइद पु० ( भूतेन्द्र ) भूतों का इन्द्र The lord of ghosts पि० १६०

भूइट्टा. स्त्री० ( भूतेष्टा ) चतुर्दशी तिथि The fourteenth day of a lunar fortnight शरू०

भूओ अ० ( भूयस् ) फिर से, पुन Again पठम० ६८, २८, पच० २, १८; (२) बारबार, फिर फिर Repeatedly उप ६५१

—गार पु० ( कार ) कर्म बंध का एक प्रकार, थोड़ी कर्म-भङ्गति के बन्ध के बाद होने वाला अधिक प्रकृति बन्ध Bond of action पच० ५, १२

भूच्छुत्त पु० न० ( भूच्छुत्र ) वनस्पति-विशेष. A kind of a vegetable दे० १, ६४

भूतणय पु० न० ( भूतणक ) वनस्पति-विशेष.

A kind of a vegetable राज०

भूमि स्त्री० ( भूमि ) माल, मजिल, तला A story, the floor of a house 'सत्-भूमिय पासायमवण' महा०, —गोयरिय त्रि० (गोचरिक) स्थल चर मनुष्य आदि Land-trotter पठम० २६, २२.

भूमिच्छुत्त. न० ( भूमिच्छुत्र ) वनस्पति विशेष. A species of vegetable दे०

भूमिफोड पु० ( भूमिफोट ) वनस्पति-विशेष.

A species of vegetable जी० ६

भूमिफोडी स्त्री० ( भूमिफोटी ) एक जाति का जहरीला जन्तु A poisonous insect 'गुज्जम्मि भूमिफोडिद्' सुपा० ६२०

भूमिसुअ पु० ( भूमिसुत मंगल ग्रह The planet mars मृच्छ० १४६

भूमिआ स्त्री० ( भूमिका ) नाटक में पात्र का वेशान्तर प्रहण Theatrical dress, an actor's costume कण्ठ०

भूमिद पु० ( भूमिन्द्र ) राजा, नरपति King, sovereign सम्मत्त० २१७

भूमीतुडयकूड. न० ( भूमीतुडयकूट ) एक विद्याधरनगर A Vidyadhar city इक०

भूमीस पु० ( भूमीश ) राजा Ruler, sovereign आ० १२

भूरि त्रि० ( भूरि ) (१) अचर, अत्यन्त, प्रभूत Abundant, numerous, copious गडड० कुमा० सुर० १, २४८, २, ११४, (२) स्वयं, सोना Gold (३) धन, दौलत Wealth, riches सार्ध० ८४

भूरिस्सव पु० ( भूरिश्रवस् ) एक चन्द्रवशीय राजा A king of the lunar race. नाट-वेणी० ३७

भेइल्ल त्रि० ( भेदवत् ) भेद वाला Having divisions सवोष० २२, पच० ४, १

भेग पु० ( भेक ) मेंढक Frog दे० ४, ६ धर्मस ७६५०.

भेरड पु० (भेरड) देश विशेष. Country राज०

भेरवाण्ड पु० ( भैरवानन्द ) एक योगी का नाम An ascetic's name कप्प०

भेरुड पु० ( भेरुण्ड ) भारुड पत्नी, दो मुह और एक शरीर वाला पक्षि विशेष A species of the birds having two heads on a single body दे० ६, २०

भेलविय. त्रि० ( भेलित ) मिश्रित, युक्त. Mixed वसु०

भेसावित्र-भेसिय. त्रि० (भीषित) डराया हुआ Frightened, terrified पत्रम० ४६, २३, से० ७, ४२, सुर० २, ११०, श्रावक० ६३ टी

भोज पु० ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक प्रसिद्ध राजा A famous king of Ujjain (Malwa) रभा०

भोज्र. त्रि० ( भौत ) भस्म से उपलित Smeared the body with ashes धर्मस० ४१

भोज्या न० ( भोजन ) लगातार सत्रह दिनों का उपवास Seventeen fasts at a stretch सवोध० १८, —रुक्ख पु० (वृक्ष) भोजन देने वाली एक कल्पवृक्ष-जाति A species of the cosmic trees पत्रम० १०२, ११६

भोज्य त्रि० ( भोजित ) जिसको भोजन कराया गया हो One who has been fed सुर० १, २१४.

भोज्या-भोजी स्त्री० ( भोग्या ) (१) स्त्री, भार्या, पत्नी, स्त्री Wife. वृह० १, पिंड० ३६८.

(२) वेश्या Harlot, courtesan वव० ७  
भोग पु० ( भोग ) (१) भोजन, आहार Food पत्रा० २, ४, उप० २०७, (२) सर्प की फणा The (expanded) hood of a snake सुपा० (३) सर्प का शरीर Body of a serpent दे० ६, ८६.

भोगपुर न० ( भोगपुर ) नगर विशेष, City श्रावम०

भोगा स्त्री० ( भोगा ) देवी-विशेष Goddess. इक०

भोगि पु० ( भोगिन् ) सर्प, साँप Serpent सुपा० ३६६, कुम० २६८

भोट्ट. पु० ( भोटान्त ) (१) देश विशेष, नैपाल के समीप का एक भारतीय देश Country (२) भू त्रि० भोटान का रहने वाला An inhabitant of that country पिंग०

भौम पु० ( भौम ) मंगल-ग्रह The planet of mars पाश्र०

भौलग पु० ( भौलक ) यक्ष-विशेष. A demi-god 'भौलग नामा जकलो' धर्मसं० १४१

### म

म पु० ( म ) श्रोत्र स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष A particular palatal consonant. प्राप्र०

म श्र० ( मा ) मत, नहीं. An article of prohibition. हे० ४, ४१८, कुमा० पि० ६४, ११४, भवि०

महदं पु० ( महेन्द्र ) राम का एक सैनिक, वानर विशेष. Name of a warrior of Rama. से० ४, ७, १३, ८३

महत्तो श्र० ( मत्त ) मुझ से To me प्राप्र०  
महमोहणी स्त्री० ( मत्तिमोहनी ) सुरा, मदिरा, दारू Liquor, wine दे० ६, ११३, पद्म०  
महरेय. न० ( महेरेय ) सुरा, मदिरा Liquor, wine पाश्र०

महलण न० ( मलिनन ) मलिन करना De-file, गडबड०

महलया. स्त्री० ( मलिनता ) मलिनता, मालिन्य. Dirtiness सुर० ६, १२०, स० ६४

एक पट्ट-हस्ती. A crowned elephant of Ravana पत्रम० ८२, १११  
 भुवणा स्त्री० ( भुवना ) विद्या-विशेष. Magical science पत्रम० ७, १४०.  
 भू स्त्री०(भू) भौं, आल के ऊपर की रोम-राजि Eyebrow. सुपा० २७६, आ० १४, सुपा० २२६, कुमा०  
 भूअ, त्रि० (भूत) (१) वास्तविक, यथार्थ, सत्य Real, true 'भूअर्थेहिं चिअ' गडड० सम्मत्त० १३६, (२) उपमा Comparison or a simily. (३) तादर्थ, तादर्थ भाव, आवक० १२४, —वडिसा स्त्री० (अवतसा) (१) एक इन्द्राणी Wife of Indra जीव० ३ (२) एक राजधानी Capital दीव०  
 भूअदिज्ञ पु० (भूतदिज्ञ) (१) एक जैन आचार्य A Jain Acharya एक चाण्डाल नायक A leader of the outcasts. महा०  
 भूअर पु० (भूदार) शूकर, सूअर Hog किरात० ६  
 भूइ पुं० (भूतेन्द्र) भूतों का इन्द्र The lord of ghosts पि० १६०  
 भूइष्टा. स्त्री०(भूतेष्टा) चतुर्दशी तिथि The fourteenth day of a lunar fortnight मारू०  
 भूओ अ० (भूयस्) फिर से, पुन Again पत्रम० ६८, २८, पच० २, १८; (२) बारबार, फिर फिर Repeatedly उप ६२१ —गार पु० (कार) कर्म बध का एक प्रकार, थोड़ी कर्म-प्रकृति के बन्ध के बाद होने वाला अधिक प्रकृति बन्ध Bond of action पच० २, १२  
 भूच्छत्त पुं० न० (भूच्छत्र) वनस्पति-विशेष A kind of a vegetable दे० १, ६४.  
 भूतण्य पु० न० (भूतणक) वनस्पति-विशेष.

A kind of a vegetable राज०  
 भूमि स्त्री० ( भूमि ) माल, मजिल, तला A story, the floor of a house 'सत्त-भूमिय पासायभवय' महा०, —गोयरिय त्रि० (गोचरिक) स्थल चर मनुष्य आदि Land-trotter पत्रम० २६, २२.  
 भूमिच्छत्त. न० ( भूमिच्छत्र ) वनस्पति विशेष. A species of vegetable दे०  
 भूमिफोड पुं० ( भूमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष. A species of vegetable जी० ६  
 भूमिफोडी स्त्री० ( भूमिस्फोटी ) एक जाति का जहरीला जन्तु A poisonous insect 'गुज्जम्मि भूमिफोडि' सुपा० ६२०  
 भूमिसुअ पु० (भूमिसुत मंगल ग्रह The planet mars मृच्छ० १४६  
 भूमिआ स्त्री० ( भूमिका ) नाटक में पात्र का वेशान्तर ग्रहण Theatrical dress, an actor's costume कल्प०  
 भूमिद पु० ( भूमिन्द्र ) राजा, नरपति King, sovereign सम्मत्त० २१७  
 भूमीतुडयकूड न० ( भूमीतुडयकूट ) एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city इक०  
 भूमील पु० ( भूमीश ) राजा Ruler, sovereign आ० १२  
 भूरि त्रि० ( भूरि ) (१) प्रचुर, अत्यन्त, प्रभूत Abundant, numerous, copious गडड० कुमा० सुर० १, २४८, २, ११४, (२) स्वर्ण, सोना Gold (३) धन, दौलत Wealth, riches सार्ध० ८४  
 भूरिस्त्व पु० ( भूरिश्रवस् ) एक चन्द्रवंशीय राजा A king of the lunar race नाट-वेणी० ३७  
 भेइल्ल त्रि० ( भेदवत् ) भेद वाला Having divisions सवोध० २२, पच० ४, १  
 भेग पुं० ( भेक ) मेंढक Frog दे० ४, ६ धर्मम ०२४०.

भेरुड पु० (भेरुड) देश विशेष, Country राज०  
 भेरुवाखुद पु० ( भैरवानन्द ) एक योगी का नाम An ascetic's name कप्०  
 भेरुड पु० (भेरुड) भाखंड पक्षी, दो मुह और एक शरीर वाला पक्षि विशेष A species of the birds having two heads on a single body दे० ६, ५०  
 भेलुधिय, त्रि० ( भेलित ) मिश्रित, युक्त. Mixed बहु०  
 भेलाविद्य-भेलिय त्रि० (भीषित) डराया हुआ Frightened, terrified पञ्ज० ४६, २३, से० ७, ४५, सुर० २, ११०, ०६३ टी  
 भोद्य पु० ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक प्रसिद्ध राजा A famous king of Ujjain (Malwa) रजा०  
 भोद्य, त्रि० ( भौत ) भस्म से उपलिप्त Smear'd the body with ashes धर्मस० ४१  
 भोज्या, न० ( भोजन ) लगातार सत्रह दिनों का उपवास Seventeen fasts at a stretch सबोध० १८, —रुक्मल पु० (बुद्ध) भोजन देने वाली एक कल्पवृक्ष-जाति A species of the cosmic trees. पञ्ज० १०२, ११६

भोद्यत्र, त्रि० (भोजित) जिसको भोजन कराया गया हो One who has been fed सुर० १, २१४.  
 भोद्या-भोई स्त्री० ( भोग्या ) (१) स्त्री, भार्या, पत्नी, स्त्री Wife बृह० १, पिंड० ३६८.  
 (२) वेश्या Harlot, courtesan चव००  
 भोग पु० ( भोग ) (१) भोजन, आहार Food. पञ्च० ५, ४, उप० २०७, (२) सर्प की फूला The (expanded) hood of a snake सुपा० (३) सर्प का शरीर Body of a serpent दे० ६, ८६.  
 भोगपुर न० ( भोगपुर ) नगर विशेष, City श्रावम०  
 भोगा स्त्री० (भोगा) देवी-विशेष Goddess. इक०  
 भोगि पु० (भोगिन्) सर्प, साँप Serpent सुपा० ३६६, कुप० २६८  
 भोद्वत्, पु० (भोद्वत्) (१) देश विशेष, नैपाल के समीप का एक भारतीय देश Country (२) भू त्रि० भोद्वान का रहने वाला An inhabitant of that country पिं०  
 भोम पु० (भोम) मंगल-ग्रह The planet of mars पाञ्च०  
 भोलग पु० (भोलक) यक्ष-विशेष, A demi-god 'भोलग नामा जख्लो' धर्मस० १४१

## म

म पु० (म) श्लेष स्थानीय न्यञ्जन वर्ण विशेष A particular palatal consonant. प्रा०  
 म श्र० ( मा ) मत, नहीं An article of prohibition. हे० ४, ४१८, कुमा० पि० ६४, ११४, भवि०  
 मद्द पु० (मैन्द) राम का एक लैजिक, वानर विशेष. Name of a warrior of Rama से० ४, ७, १३, ८३

मदत्तो श्र० (मत्त) मुझ से To me प्रा०  
 मद्मोहणी स्त्री० (मत्तिमोहनी) सुरा, मदिरा, वारू Liquor, wine दे० ६, ११३, पद्०  
 मद्देय, न० (मैदेय) सुरा, मदिरा Liquor, wine पाञ्च०  
 महलण न० ( मलिनत ) मलिन करना De-file. गवड०  
 महलया, स्त्री० (मलिनता) मलिनता, मात्तित्य, Dirtiness सुर० ६, १२०, से० ६४



मई स्त्री० ( मृगी ) हरिणी, स्त्री हरिण 'A female-deer. गा० २८७, से० ६, ८०, दे० ३, ४६, कुमा० १०

मईअ त्रि० ( मदीय ) मेरा, अपना Mine पद० कुमा० स० ४७७, महा०

मउइअ त्रि० ( मृदुकिंत ) जो कोमल बना हो Delicate गउड०

मउर पु० न० ( मुकुर ) (१) बाल-पुष्प, फूल की कली Bud कुमा०, (२) दर्पण, आईना, Mirror, looking-glass (३) कुलाल-व्यड The handle of a potter's wheel (४) बकुल का पेड A kind of tree (५) मल्लिका-वृक्ष A tree called Mallika (६) कोल-वृक्ष The Koli tree (७) अस्थि पर्याय वृक्ष, चोरक A tree named Choriaka हे० १, १०७, प्राक० ७

मउल. पु० न० ( मुकुल ) (१) देह, शरीर Body (२) आत्मा Soul हे० १, १०७, प्रा०

मउलण, न० ( मुकुलन ) सकोच Contraction 'मउलण लोअणण' हे० २, १८४, विशेष० ११०६, गउड०

मउलाइय त्रि० ( मुकुलित ) सकुचाया हुआ, सकोचित Contracted वजा० १२६

मउलि पु० स्त्री० ( मौलि ) (१) मस्तक, सिर Head कुम० ३८६, कुमा० अजि० २२, अकु० ३४, (२) चूडा, चोटी Tuft or lock of hair (३) सयतकेश Braided hair (४) पु० अशोक वृक्ष A particular tree called Asoka (५) स्त्री० भूमि, पृथिवी Earth हे० १, १६२, प्राक० १०

मउलिअ त्रि० ( मुकुलित ) (१) सकुचित Contracted, abridged सुर० ३, ४२, गा० ३०३, से० १, ६२, (२) एकत्र स्थित Gathered कुमा०

मऊरमाल न० ( मयूरमाल ) एक नगर. Name of a city पउम० २७, ६

मऊरा स्त्री० ( मयूरा ) एक रानी, महा पद्मचक्रवर्ती की माता Queen, mother of Mahapadma Chakravarti पउम० २०, १४३

मऊह पु ( मयूख ) (१) कान्ति, तेज Lustre, brightness (२) शिखा Flame (३) शोभा. Beauty. हे० १, १७१, प्रा०, (४) राक्षस वंश के एक राजा का नाम, एक लका-पति Name of a king of Demon family पउम० २, २६२

मय,जारिस त्रि० ( माटय ) मेरे जैसा, मेरे तुल्य. Resembling ones own self 'मय-जारिसाण पुरिसाहमाण' स० ३३

मकिअ न० ( मङ्कित ) कूद कर जाना Jump up, leap up दे० ८, १२

मखण न० ( मखण ) (१) मखन Butter. वप० ६४८ टी, (२) अम्यग, मालिश. Masage, smearing सुर० १२, ८

मग पु० ( मङ्ग ) रङ्जन द्रव्य विशेष, रंगने के काम में आनेवाला एक द्रव्य A substance used in colouring सिरि० १०८७

मगल पु० ( मङ्गल ) (१) अह विशेष, अगारक अह Mars इक०, (२) इष्टार्थ सिद्धि, वाञ्छित प्राप्ति Accomplishment of desired object कप०, (३) तप विशेष, आयविल. A kind of religious austerity सवोध० २८, (४) लगातार आठ दिनों का उपवास Eight fasts at a time, सवोध० २८ — उभय पु० ( ध्वज ) मांगलिक ध्वज An auspicious flag — तूर न० ( दूर्य ) मंगल-वाद्य A musical instrument, such as a trumpet, drum etc played on festive or auspicious occasions महा०

—पादय पु० (पाठक) मागध, चारण Min-  
strel, bard पात्र०, —पादिया. स्त्री०  
(पाठिका) वीणा विशेष, देवता के आगे सुवह  
और सन्ध्या में बजाई जाने वाली वीणा A  
flute played before the gods in  
the morning and evening राज०  
मंगलालया स्त्री० (मङ्गलालया) एक नगरी का  
नाम Name of a city आया० चू० १  
मगलित्र-मगलीत्र त्रि० (मागलिक) मगल-  
जनक Auspicious उत्तर० ६०, अशु०  
३६, सुपा० ७८

मगु पु० (मगु) एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य,  
आर्यमगु A celebrated Jaina Ach-  
arya ती० ७, आत्म० २३

मची स्त्री० (मन्चा) खटिया, खाट A bed-  
stead, sofa-set 'ता आरह मचीए' सुर.  
१०, १६८, १६६

मजर पु० (माजार्) मजार, नर बिल्ली, बिलाव  
Cat हे० २, १३२, कुमा०

मजरित्र त्रि० ( मञ्जरित ) मञ्जरी-युक्त  
Furnished with or possessing  
clusters of blossoms 'मजरिओ चूय-  
निकरो' स० ७१६

मजरीगुडी स्त्री० (मञ्जरीगुडी) वल्ली-विशेष  
A kind of creeper 'तोमरिगुडी य  
मजरीगुडी' पाय०

मजिट्ट त्रि० (माजिष्ट) मजीठ रंग वाला Red  
कपू०

मंजीर न० (मञ्जीर) ( १ ) नूपुर Anklet,  
an ornament for the foot 'हस्य-  
नेउर च मजीर' पात्र० स० ७०४, सुपा० ६१,  
( २ ) छन्द विशेष A particular metrie  
पिंग०

मडग त्रि० (मण्डक) विभूषक, शोभा बढ़ाने  
वाला Adorning, decorating कपू०

मंडल न० (मण्डल) ( १ ) समूह, यूथ Col-

lection, multitude कुमा० गडड०  
सम्मत्त० १६०, ( २ ) एक प्रकार का कुष्ठ रोग.  
Leprosy with round spots ( ३ )  
एक प्रकार की वृत्ताकार दाद Ring-worm.  
पिंड० ६००

मडल पु० न० (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय  
का एक आसन A particular posture  
of the warrior in fighting वच० १.

( २ ) पु० नरकावास विशेष A particular  
hell देवेन्द्र० २६ —अहिव. पु० (अधिप)  
मण्डलाधीश The ruler or governor  
of a district or province भवि०

मडलि पु० ( मण्डलिन ) मण्डलाकार चलने  
वाली वायु Whirl-wind जी० ७

मडलित्र त्रि० ( मण्डलित ) मण्डलाकार बना  
हुया Circumscribed सुपा० ४, वजा०  
६२, गडड०

मडली स्त्री० ( मण्डली ) पक्ति, श्रेणी, समूह  
Line, circle, group से० ५, ७६,  
गच्छ० २, ५६, ( २ ) अश्व की एक प्रकार की  
गति A particular pace of a horse  
से० १३, ६६, महा०

मडलीपुरी. स्त्री० (मण्डलिपुरी) नगर विशेष  
गुजरात का एक नगर, जो आज कल भी माडल  
नाम से प्रसिद्ध है A city of Gujrat  
called Mandal सुपा० ६५६

मंडव पु० (मण्डप) स्नानादि करने का गृह.  
Bathroom कपू०

मडवित्रा स्त्री० ( मण्डपिका ) छोटा मण्डप.  
Small tent. कुमा०

मडुक्किया स्त्री० ( मण्डुक्किका ) स्त्री-मंडक, भेकी,  
दादुरी Frog. उ० १४७ टी, १३७ टी

मडूग-मडूअ-मडूक-मडूर पु० ( मण्डुक )  
( १ ) वृक्ष-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा A  
kind of tree ( २ ) बन्ध विशेष A  
special knot सत्ति० १७, 'मडूरो प्राप्र०

(३) छन्द-विशेष. A kind of metre पिंग०, —पुत्र न० (प्लुत) (१) भेक की चाल The leap of a frog (२) ज्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गति की तरह होने वाला योग A particular constellation of stars in astrology

मंडोवर न० (मयडोवर) एक नगर Name of a city. ती० १५

मतजभग पु० (मन्त्रजृम्भक) एक देव जाति A god's family भग० १४, ८ टी

मतण न० (मन्त्रण) (१) गुप्त आलोचना, गुप्त मसलहत Private consultations, पठम० २, ६६, ८२, ४६, (२) परामर्श, सलाह Deliberation कुप्र० ११६, (३) जाप. Muttering prayers चेह्य० ७६३

मतन्नु, त्रि० (मन्त्रज्ञ) मन्त्र का जानकार Magician. सुपा० ६०३

मतिअ त्रि० (मन्त्रित) गुप्त रीतिसे आलोचित Privately consulted महा०

मतिअ त्रि० (मान्त्रिक) मन्त्र का ज्ञाता One who is conversant with charms or spells 'मतेण मतियस्स' धर्मेवि० ६ मन० ११

मतु त्रि० (मन्तु) (१) ज्ञाता, जानकार Knower (२) जीव, प्राणी A living being, creature विशे० ३५२५

मतु पु० न० (मन्तु) अपराध Fault, offence, sin. 'मतु विलिय' पाअ०

मथण न० (मन्थन) (१) विलोडन, विलोने की क्रिया. Churning गा० ११७, (२) घर्षण Rubbing सबोध० १, (३) पु० न० मथनी, दही आदि मथने की लकड़ी A churning-stick प्राकृ० १४

मथयिआ. स्त्री० (मन्थनिका) (१) मथनी, महानी, दही मथने की छोटी लकड़ी A

churning-stick. राज०, (२) मथानी, दधि-कलशी, दही मथने की हँडिया A churning vessel दे० २, ३५

मथयी स्त्री० (मन्थनी) देखो 'मथयिआ' शब्द. Vide 'मथयिआ'. दे० २, ५५

मथर पु० (मन्थर) मन्थन-दण्ड A churning-stick 'वीसाममथरायमाणसे-लवोच्छिप्यादुरवडणाओ' गउड०

मथरिय त्रि० (मन्थरित) मन्थर किया हुआ. Slow down गउड०

मंथिअ त्रि० (मन्थित) विलोडित Churned. दे० २, ८८, पाअ०

मद् पु० (मन्द) (१) ग्रह-विशेष, शनिश्चर The planet saturn सुर० १०, २२४; (२) नीच, खल Wicked 'तह य मदस्स' प्रासू० १६, —भगग त्रि० (मान्य) बदनसीव Unfortunate सुपा० ३७६, महा० —भाइ त्रि० (भागिन्) बदनसीव Ill-fated स० ७२६, सुपा० २२६

मद् न० (मान्य) (१) बीमारी, रोग. Sickness, indisposition 'नय मदेणं मरहं' सुपा० २२६

मदकल न० (मन्दाक) लज्जा, शरम Sense of shame, bashfulness राज०

मंदर पु० (मन्दर) (१) वानर द्वीप का एक राजा, मरुयकुमार का पुत्र A king of monkey island पत्त० ६, ६७ (२) छन्द का एक भेद A kind of metre पिंग०, (३) मन्दर पर्वत का अधिष्ठात्यक देव A presiding god of the mount Mandar.

मदरपुर न० (मन्दरपुर) नगर विशेष. Name of a city इक०

मदा स्त्री० (मन्दा) मन्द-स्त्री An inactive woman बजा० १०६

मदाइया. स्त्री० (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी, भागीरथी The river Ganges पठम०

१०, १०, पाञ्च०, (२) रामचन्द्र के पुत्र लव की स्त्री का नाम Name of a wife of Lava, son of Rama Chandia.

पउम० १०६, १२

मदुरा स्त्री० (मन्दुरा) अश्व-शाला Stable. सुपा० ६७

मदोदरी-मदोयरी स्त्री० (मन्दोदरी) रावण की पत्नी Name of a wife of Ravana से० १३, ६७, (२) एक वणिक-पत्नी Name of a Banian's wife उप० ११७ टी०

मंधाउ पु० (मान्धाउ) हरिवंश का एक राजा Name of a king of the Hallivansa पउम० २२ ६७

मसइत्त त्रि० (मालघट) माल-लोलुप Greedy of flesh सुख० १, ११

मसुल्ल त्रि० (मालवद्) माम वाला Fleshy हे० २, ११६.

मकड्डेअ पु० (मार्कण्डेय) ऋषि-विशेष Name of an ancient sage अभि० २४३

मकड्ड पु० (मकंट) छन्द का एक भेद A kind of metre पिंग०

मकडी. स्त्री० (मकंटी) बानरी A female monkey कुम० ३०३

मकखण न० (अन्नण) (१) मकखन, नवनीत Butter. स० २१८, पभा० २२ (२) मालिश अभ्यग. Smearing निती० चू० ३

मकखर पु० (मस्कर) (१) गति Going, motion (२) ज्ञान Knowledge. (३)

वण, बाम. Bamboo (४) छिद्र वाला बाल Hollow bamboo. सच्चि० ११, पि० ३०६

मक्खिअ न० (माक्खि) मक्खिका-सचित मधु Honey राज०

मक्खिअ स्त्री० (मक्खिका) मक्खी Bee दे० ६, १२३

मगण पु० (मगण) छन्द-शास्त्र प्रसिद्ध तीन गुरु अक्षरों की सज्ञा (In prosody) A

sign of three long words पिंग० मगहवरच्छु न० (मगहदरात्) आभरण विशेष A kind of ornament ओव० पु० ४८ टी०

मगटापुर न० (मगधापुर) नगर-विशेष Name of a city महा०

मगग पु० (मार्ग) अन्वेषण, खोज Search, inquiry, investigation विशे० १३८१

मगगअ त्रि० (मार्गक) मागने वाला Beggar. पउम० १६, ७३

मगगण पु० (मार्गण) (१) याचक Beggar. सुपा० २४, (२) बाण, शर Allow पाञ्च० मग्गिअ त्रि० (मार्गिन) मागा हुआ, याचित Begged महा०

मघवा स्त्री० (मघवा) छठवीं नरक-भूमि The sixth-hell. जीवस० १२

मच्चिर त्रि० (मदिन्) गर्व करने वाला Arrogant, proud कुम०

मच्चु पु० (मृत्यु) (१) यम, यमराज Yama, the god of death पङ्०, (२) रावण का एक सैनिक A warrior of Ravana. पउम० १६, ३१

मच्छु पु० (मत्स्य) (१) देश-विशेष Name of a country इक० मवि०, (२) छन्द का एक भेद A kind of metre पिंग०

मच्छुर पु० (मत्सर) (१) क्रोध Anger, wiath (२) त्रि० ईर्ष्यालु, द्वेषी Jealous, envious (३) क्रोधी

Wiathful. (४) कृपण Greedy, Covetous हे० २, २१

मज्जइत्त त्रि० (मघवत्) मदिरा लोलुप Greedy of liquor. सुख० १, ११

मज्जण. न० (मार्जन) (१) साफ करना, शुद्धि Cleansing कप्य०, (२) त्रि० मार्जन करने

वाला One who cleanses कुमा०

मज्जव त्रि० (मघव) मघपान करने वाला,

Dunkard पात्र०

मज्जविञ्ज (मज्जित) (१) स्नपित. Caused to bathe (२) स्नात. Bathed वजा० ६०  
मज्जा. स्त्री० (मज्जा) धातु विशेष, चर्बी, हड्डी के भीतर का गूदा The marrow of the bones, fat सख०

मज्जाइत्तल. त्रि० (मर्जादित्) मर्जादा वाला Old, ancient, traditional निष्ठी० चू० ४.

मज्जाविञ्ज. त्रि० (मज्जित) स्नपित Caused to bathe महा०

मज्जिञ्ज त्रि० (मार्जित) साफ किया हुआ Cleansed पत्रम० २०, १२७

मज्जिञ्जा स्त्री० (मार्जित)रसाला, भक्ष्य-विशेष, दही, शकर आदि का बना हुआ और सुगन्ध से वासित एक प्रकार का खाद्य Curds with sugar and spices पात्र० दे० ७, २, प्रव० २५६.

मज्जक न० (मध्य) सख्या-विशेष, अन्त्य और परार्ध के बीच की सख्या Ten thousand billions A particular number दे० २, ६०, प्राप्र०

मज्जकदिण न० (मध्यन्दिन) मध्याह्न Midday, noon दे० ६, १२४

मज्जकट्टिञ्ज त्रि० (मध्यस्थित) तटस्थ, मध्यस्थ Impartial, neutral सख० ४८

मज्जकरह न० (मध्याह्न) तप विशेष, पूर्वाध-तप A kind of religious austerity, a midday rites or observance, संबोध० १८

मज्जकरिहय. त्रि० (माध्याह्निक) मध्याह्न सबन्धी Belonging to noon धर्मवि० १०५.

मज्जकत्थ. न० (माध्यस्थ) तटस्थता, मध्यस्थता. Impartiality, indifference उप० ३१५, संबोध० ४५.

मज्जिमा स्त्री० (मध्यमा) एक जैन मुनिशाखा

A branch of Jaina saints कल्प०

मट्ट त्रि० (मृष्ट) (१) मसृण, विकना

Greasy, oily. दे० ८, ७, (२) न० मिर्च, मरिच. Chillies हे० १, १२८

मडभ त्रि० (मडभ) कुब्ज, वामन Pigmy, dwarf, राज०

मडभडाइञ्ज त्रि० (मडभडायित) इस तरह मारा हुआ कि जिससे मडभ की आवाज हो To beat in a manner as to create a sound of "Madh" "Madh" while beating उत्तर० १०३

मडासय पु० (मृताश्रय) शमशान Cemetery निष्ठी० चू० ३.

मड्डिञ्ज त्रि० (मर्दित) जिमका मर्दन किया गया हो वह Rubbed, shampooed हे० ३, ३६, पड० पि० २६१.

मढी स्त्री० (मठिका) छोटा मठ A small monastery. सुपा० ११३.

मणालि त्रि० (मनस्विन्) प्रशस्त मन वाला Intelligent, high-sould, high minded. हे० १, २६

मणग पु० (मनक) एक जैन मुनि. A Jaina saint कल्प० धर्मवि० ३८.

मणयभणी. स्त्री० (मनोस्तम्भनी) विद्या-विशेष, मनको स्तब्ध करनेवाली दिव्य शक्ति A particular magical skill पत्रम० ७, १३७

मणय पु० (मनक) द्वितीय नरक-भूमि का तीसरा नरकावास-विशेष The third abode of the second hell देवेन्द्र० ६

मणवज्ज न० (मनोवज्ज) एक विद्याधर नगर A Vidyadhari city इक०

मणहंस पु० (मनोहस) छन्द-विशेष A particular metre पिंग०

मणिञ्ज न० (मणित) सभोग के समय का

स्त्री का अव्यक्त शब्द An inarticulate murmuring sound uttered at cohabitation गा० ३६२, रमा०  
 मणिश्चार पु० ( मणिकार ) जौहरी, रत्नों का व्यापारी Jeweller, lapidary दे० ७, ७७, सुद्रा० ७६  
 मणिचूड पु० ( मणिचूड ) एक विद्याधर नृप A Vidyadhar king महा०  
 मणिच्छिञ्च त्रि० ( मनईप्सित ) मनोऽभीष्ट. Favourite सुपा० ३८४  
 मणिष्ट्र त्रि० ( मनइष्ट ) मनको प्रिय Desired object भवि०  
 मणिवध पु० ( मणिवन्ध ) हाथ और प्रकोष्ठ के बीच का अचयव Wrist सण०  
 मणिरह पु० ( मणिरथ ) एक राजा का नाम Name of a king महा०  
 मणिव पु० ( मणिप ) (१) यक्ष A demigod (२) समुद्र-नाग Sea-snake से० २, २३, (३) समुद्र Sea से० ६, १०  
 मणिवालय पु० ( मणिपालक ) समुद्र Sea से० २, २३  
 मणिसलागा स्त्री० ( मणिशलाका ) मद्य-विशेष A kind of liquor राज०  
 मणिद्वियय पुं० ( मणिहृदय ) देव-विशेष A particular god दीव०  
 मणीसा स्त्री० ( मनीषा ) बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा Intelligence पाञ्च०  
 मणीसि. त्रि० ( मनीषिन् ) बुद्धिमान, पण्डित Wise learned, intelligent कप्प०  
 मणीसित त्रि० ( मनीषित ) वाञ्छित Wished for, desired नाट-मृच्छ० १७  
 मणुञ्ज. पु० ( मनुज ) भगवान् श्रेयासनाथ का शासन-यत्न A governing demigod of Lord Shreyansanatha सति० ७  
 मणुपसर पु० ( मनुजेश्वर ) राजा, नरपति King, ruler सुपा० २०४.

मणुस्त्र त्रि० ( मानुष्य ) मनुष्य-सम्बन्धी. Relating to man 'दिव्य व मणुस्सं वा' अ.प० २१  
 मण्णे अ० ( मन्ने ) विमर्श-सूचक अव्यय A word signifying thoughtfulness हे० २, २०७, पद्, प्राकृ० २६, गा० १११, कुमा०  
 मणोभव. पु० ( मनोभव ) कामदेव, कन्दर्प. Cupid, god of love सुपा० ६८, पिग०  
 मणोभू पु० ( मनोभू ) कामदेव कन्दर्प Cupid, god of love. कप्प०  
 मणोरम पु० ( मनोरम ) (१) मेरु पर्वत. The mount Meru. (२) राक्षस वंश का एक राजा, एक लका-पति A king of a demon family पठम० १, २६१, (३) उपवन विशेष A particular garden उप० ६८६ टी  
 मणोरमा स्त्री० ( मनोरमा ) चतुर्थ वासुदेव की पटरानी का नाम Name of a queen of fourth Vasudeo पठम० २०, १८६, (२) शक्र की अञ्जुका नामक इन्द्राणी की एक राजधानी A capital of Anjuka wife of India इक०  
 मणोहस पु० ( मनोहस ) छन्द-विशेष A particular metre पिग०  
 मनोहर पुं० ( मनोहर ) छन्द-विशेष A kind of metre पिग०  
 मणण्ण न० ( मानन ) मानना, आदर Honouring, respecting उप० ११४  
 मत्त न० ( मत्त ) मद, नशा Intoxication. प्रव० १७१  
 मत्तड पु० ( मार्लेण्ड ) सूर्य, रवि, Sun. सम्मत्त० १४१, सिरि० १००८  
 मत्तवारण पु० न० ( मत्तवारण ) वरडा, बरामदा, दालान Veerandha दे० ६, १२३, सुर० ३, १००, भवि०  
 मत्ता स्त्री० ( मात्रा ) (१) अंश, भाग, हिस्सा.

Part, portion. स० ४८३, ( २ ) समय का सूक्ष्म नाप Moment (३) अल्प, लेश, लव A particle, an atom पाञ० मत्थयमणि पु० (मस्तकमणि) शिरोमणि, प्रधान, मुख्य Minister उप० ६४८ टी० महलित्र त्रि० (मार्दलिक) मृदग बजाने वाला One who beats the drum सुपा० २६४, २६३

महो स्त्री० (माद्री) ( १ ) राजा शिशुपाल की मा का नाम Name of the mother of king Sishupala सूय० १, ३, १, १ टी, (२) राजा पाण्डु की एक स्त्री का नाम. Name of the second wife of Pandu वेपी० १७१

मन्नायि त्रि० (मानित)मनाया हुआ Conciliated, induced, सुपा० १२६

मन्त्रु पु० (मन्यु) (१) क्रोध, गुस्सा Angel, wrath सुपा० ६०४, (२) दैन्य, दीनता Poverty, pitiable condition सुर० ११, १४४, (३) अहकार Pride, arrogance. (४) शोक, अफसोस Grief, sorrow (५) यज्ञ, क्रतु Sacrifice हे० २, २५, ४४

मन्त्रुद्वय. त्रि० ( मन्त्रुवत् ) मन्त्रु युक्त, कुपित. Wrathful, indignant. सुख० ४, १ ममच्चय. त्रि० (मदीय) मेरा Mine सुख० २, १५.

ममाय त्रि० (ममक) ममत्व करने वाला, One having the sense of ownership निसी० चू० १३.

मम्मर. पु० ( मर्मर ) शुष्क पत्तों की आवाज. Rustle गा० ३६५.

मय. पु० (मृग) (१) पशु, जानवर, Animal. ( २ ) हाथी की एक जाति. A kind of an elephant. (३) नक्षत्र विशेष, A particular constellation ( ४ )

कस्तूरी, Musk ( ५ ) मकर राशि, The sign of capricorn ( ६ ) अन्वेषण. Investigations ( ७ ) याचन, माग. Begging ( ८ ) यज्ञ विशेष. A kind of sacrifice. हे० १, १२६, —शाहि. पु० स्त्री० ( नाभि० ) कस्तूरी, Musk पाञ० सुपा० २००, गडड०—तण्डा. स्त्री० (तृष्णा) धूप में जल-आम्लि. Mixture दे० से० ६, ३३,—लङ्गण. पु० ( लाङ्गन ) चन्द्रमा. Moon पाञ० कुमा० सुर० १३, ५३,—लोभ्रणा. स्त्री० (रोचना) गोरोचना, गोरोचना, पीत वर्ण द्रव्य-विशेष A kind of substance. अभि० १२७.

मय. न० (मत) Knowledge अभिप्राय, आशय Opinion श्लो० नि० १६०, सूयनि० १२०,—ज्ञु. त्रि० (ज्ञ) दार्शनिक. One familiar with the systems of philosophy सुपा० ५८२

मय. पु० ( मय ) (१) उष्ट्र, ऊट. Camel सुख० ६, १, (२) अश्वतर, खबर. Mule 'मयमहिससरहकेसरि' पउम० ६, ५६, (३) एक विद्याधर नरेश. A Vidyadhar king पउम० ८, १,—हर. पु० (धर) ऊट वाला Owner of a camel सुख० ६, १

मय पु० न० ( मय ) (१) हाथी के गण्ड स्थल से बहने वाला पदार्थ The juice that flows from an elephant's temples when in rut, spirituous liquor (२) आनन्द, हर्ष. Rapture, excessive delight ( ३ ) कस्तूरी. Musk ( ४ ) मत्तता, नशा Intoxication (५) नद, बड़ी नदी. A great river (६) वीर्य, शुक्र. Semen virile प्रा०—करि पु० ( करिन् ) मय वाला हाथी. An elephant in rut महा०—गल, त्रि० ( कल ) मय से उत्कट, नशे में

चूर, Mad with passions, or dead drunk पिंग०, (२) पु० हाथी, An elephant in rut सुपा० ६०, हे० १, १८२, पात्र० ६, १२५, (३) छन्द-विशेष. A particular metre पिंग०

मयंग, पु० (मृदंग) वाद्य-विशेष Musical instrument प्राकृ० ८,

मयगाय, पु० (मतङ्गज) हाथी, हस्ती. Elephant पत्र० ८०, ६६, उप० पु० २६०.

मयघ त्रि० (मदान्ध) मदमें अन्धा बना हुआ, मदीन्मत्त. Intoxicated सुर० २, ६६.

मयण, पु० (मदन) (१) लक्ष्मण का एक पुत्र. A son of Lakshmana पत्र० ६१, २०, (२) एक वणिक् पुत्र Bania's son सुपा० ६१७, (३) छन्द का एक भेद. A kind of metre पिंग०, —घरिणी.

स्त्री० (गृहिणी) काम प्रिया, रति. The goddess of love, the wife of cupid. कुप्र० १०६, —तालक. पु०

(तालक) छन्द विशेष. A kind of metre पिंग०—तेरसी. स्त्री० (त्रयोदशी)

चैत्र मास की शुक्ला त्रयोदशी तिथि The thirteenth day in the bright half of the month of Chaitra कुप्र० ३७८, —द्रुम. पु० (द्रुम) वृक्ष-विशेष

A particular tree से० ७, ६६, —फल. न० (फल) फल-विशेष, मैनफल.

Fruit 'मयणफलेषु भाविय' सुख० २, १७, —हारा स्त्री० (गृह) छन्द-विशेष. A kind of metre पिंग०

मयणकुल, पु० (मदनाङ्कुल) श्री रामचन्द्र का एक पुत्र, कुल. Son of Ramchandra पत्र० ६७, ६,

मयणरेहा. स्त्री० (मदनरेखा) एक युवराज की पत्नी. Wife of an heir apparent prince महा०

मयणवेय, पु० (मदनवेग) पुरप-विशेष का नाम Name of a person भवि०

मयणसुंदरी. स्त्री० (मदनसुन्दरी) राजा श्रीपाल की एक पत्नी. Queen of king Shreepala. सिरि० ५३.

मयणाय, पु० (मैनाक) द्वीप-विशेष An island (२) पर्वत-विशेष. Mountain भवि०

मयणासरी, स्त्री० (मदनाशनी) विद्या-विशेष, Magical skill पत्र० ७, १४०.

मयधम्म, पु० (मदधर्म) विद्याधर वंश के एक राजा का नाम. Name of a king of Vidyadhar family पत्र० १, ४३.

मयधुत्त, पु० (मृगधुत्त) शृगाल, शिब्यार, Jaahal दे० ६, १२५.

मयमजरी, स्त्री० (मदमजरी) एक स्त्री का नाम. Name of a woman महा०

मयर, पु० (मकर) (१) राशि-विशेष, मकर राशि The sign of capro-corn सुर० १३, ४६, विचार० १०६, (२) रावण का एक सुभट. A warrior of Ravana पत्र० ५६, २६, (३) छन्द-विशेष. A particular metre पिंग०,—केटु, पु० (केतु) कामदेव,

कदर्प. Cupid, the god of love कल्प०—द्वय, पु० (द्वज) कामदेव, कन्दर्प. Cupid पात्र० कुमा० रभा

मयल्लिगा स्त्री० (मतल्लिका) प्रधान, श्रेष्ठ A word used at the end of nouns to denote excellence or anything best of its kind रभा० १७.

मयहापुर, न० (मगधपुर) 'राजगृह-नगर, Rajagraha city वसु०

मयार, पु० (मकार) (१) 'म' अक्षर. The letter 'm' (२) मकारादि अरलील-अवाच्य शब्द This word used in rustic language 'जत्थ जयारमयार



समशी' गच्छ० ३, ४

मयारिदमण पु० (मृगारिदमन) राजस वश का एक राजा, एक लका पति. A king of the demon family पत्र० २, २६२  
मरहट्ट पु० (महाराष्ट्र) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०

मरहट्टी स्त्री० (महाराष्ट्री) (१) महाराष्ट्र की रहने वाली स्त्री० A Maharashtra woman. (२) प्राकृत भाषा का एक भेद Name of the principal Prakrita dialect, Maharashtra पि० ४२४

मराल पु० (मराल) (१) हंस पक्षी Swan flamingo पात्र०, (२) छन्द-विशेष A kind of metre पिंग०

मरिञ्च. त्रि० (मृत) मरा हुआ Dead सम्पत्त० १३६

मरिस्तावणा स्त्री० (मर्पणा) क्षमा Forbearance, endurance स० ६७१

मरीइ पु० (मरीचि) भगवान् ऋषभदेव का एक पौत्र और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान् महावीर का जीव था A grandson of Lord Rishabhadeo, a son of Bharata Chakravarti पत्र० ११, ६४

मरीइया स्त्री० (मरीचिका) मृग-तृष्णा, किरण में जल-आन्ति Mirage राज०

मरु पु० (मरुत्) (१) पवन, वायु. Wind (२) देव, देवता God. (३) सुगन्ध वृक्ष-विशेष, मरुआ, मरुवा A kind of fragrant plant (४) हनुमान का पिता पद्० The father of Hanumat पत्र० २३, ७६, —कान्तार न० (कान्तार) निर्जल-जगल A forest with scanty water अष्टु० ८२

मरु मरुञ्च पु० (मरुक) (१) पर्वत, ऊँचा पहाड़ A lofty mountain निसी०

चू० ११, (२) एक नृप वंश A particular royal race (३) मरु वंशीय राजा. A king of Maru lineage विचार० ४६३

मरुञ्जकुमार पु० (मरुकुमार) वानर द्वीप के एक राजा का नाम Name of a king of Vanara Dvīpa पत्र० ६, ६७

मलय पु० (मलय) (१) छन्द विशेष A kind of metre. पिंग०, (२) देवविमान-विशेष. A particular celestial aerial car देवेन्द्र० १४३

मलयकेतु पु० (मलयकेतु) एक राजा का नाम. King सुपा० ६०७

मलयचन्द्र पु० (मलयचन्द्र) एक जैन उपासक का नाम Name of a Jaina Upasaka सुपा० ६४२

मलयदि. पु० (मलयाद्रि) पर्वत विशेष A mountain सुपा० ४७७

मलयमई. स्त्री० (मलयमती) राजा मलयकेतु की स्त्री A queen of king Malaya Ketu सुपा० ६०७

मलि त्रि० (मलिन्) मल वाला, मल युक्त-Dirty मवि०

मलिञ्च त्रि० (मलित) मल-युक्त, मलिन. Dirty, impure सुपा० १६६, गउड०

मलिणिय त्रि० (मलिनित) मलिन किया हुआ. To defile उच०

मलीमस त्रि० (मलीमस) मलिन, मैला. Dirty filthy. पात्र०

मल्ल पु० (मल्ल) पात्र Vessel कुप्र० १३१-

मल्लवाइ पु० (मल्लवादिन्) एक सुविख्यात प्राचीन जैन आचार्य और ग्रन्थकार An ancient celebrated Jaina Acharya and author. सम्पत्त० १२०.

मल्लि स्त्री० (मल्लि) (१) वृक्ष विशेष, मोतिया का पेड़. A species of jasmine. दे०

२, १८, (२) पुष्प-विशेष Flower. भग०  
६, ३३, टी  
मल्लिञ्जलजुग पु० (मल्लिकार्जुन) एक राजा का  
नाम Name of a king कुमा०  
मल्लिञ्जा स्त्री० (मल्लिका) (१) पुष्प विशेष.  
A species of Jasmine कुमा०, (२)  
छन्द विशेष. A kind of metre विंग०  
मल्लिहाय न० (मात्स्याधान) (१) पुष्प बन्धन-  
स्थान The flower knots on which  
the flowers are supported on  
the branches of the trees (२)  
केश-कलाप A mass or quantity of  
hair. भग० ६, ३३ टी  
मसकसार न० (मसकसार) इन्द्रों का एक  
स्वय आभाष्य विमान, An anoplane of  
India. देवेन्द्र० २६३  
मसण त्रि० (मसुण) (१) स्निग्ध, चिकना  
Unctuous, oily (२) सुकुमार, कोमल  
Delicate, tender (३) मन्द, धीमा  
Slow. हे० १, १३०, कुमा०  
मसिण्णिञ्ज त्रि० (मसुणित) (१) शुद्ध किया  
हुआ, मार्जित Cleansed 'रोसिण्णिञ्ज  
मसिण्णिञ्ज' पात्र० (२) स्निग्ध किया हुआ  
Made unctuous से० ६, ६, (३) विलु-  
लित, विमर्दित, मर्दन किया हुआ Rubbed,  
besmeared से० १, ५५  
मह त्रि० (महत्) उत्तम, श्रेष्ठ Best, ex-  
cellent हे० १, ५, —कमलग न०  
(कमलाग; सख्या-विशेष, ८४ लाख कमल की  
सख्या A particular number जो० २  
—कटव न० (काव्य) सर्ग बद्ध उत्तम काव्य-  
ग्रन्थ A sacret book भवि०—ग्रथिञ्ज.  
त्रि० (अर्चित) (१) महगा, दुर्लभ Rare  
से० १४, ३७, (२) विभूषित Decorated  
सुपा० १, ६०, (३) सम्मानित Honoured,  
respected उव०—तुडियंग न० (तुडि-

ताग) ८४ लाख त्रुडित की सख्या A par-  
ticular number जो० २, —त्य न०  
(अस्त्र) अस्त्र विशेष, बड़ा हथियार A king  
of missile पडम० ७१, ६७, —द्वि त्रि०  
(ऋद्धि) बड़ी ऋद्धि वाला Wealthy  
कुमा०, —पाण न० (प्राण) ध्यान विशेष  
Meditation सिरि० १३३०, —सलागा  
स्त्री० (शलाका) पत्न्य-विशेष, एक प्रकार का  
नाप A measure. जीवस० १३६.

महकतजस पु० (महाकान्तिशस्त्र) राक्षस  
वंश का एक लका का राजा A king of  
the demon family पडम० प० २६५  
महगइ पु० (महगति) राक्षस वंश का एक राजा,  
एक लकेश A king of the demon  
race पडम० ५, ५६५.

महजक्यल पु० (महायज्ञ) भगवान् अजितनाथ  
का शासनाधिष्ठात्यक देव A governing  
god of lord Ajitnatha प्रव० २६,  
सति० ७

महजाला स्त्री० (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष  
A particular magical skill  
सति० ६

महण न० (मथन) (१) बिलोडन Churn-  
ing से० १, ४६, वजा० ८, (२) घर्षण  
Rubbing कुप्र० १४८.

महण पु० (महन) राक्षस वंश का एक राजा,  
एक लकापति A king of the demon  
family. पडम० ५, २६२

महरव पु० (महारव) राक्षस वंश का एक राजा,  
एक लकापति A king of the demon  
family पडम० ५, २६६.

महा त्रि० (महत्) बड़ा, विस्तीर्ण Vast,  
great—अडड न० (अट्ट) सख्या विशेष,  
८४ लाख महाअट्टाग की सख्या A parti-  
cular number जो० २, —ग न०  
(अट्टाग) सख्या विशेष, ८४ लाख अट्ट. A

particular number जो० २—ऊ५, न० (ऊह) सख्या विशेष, ८४ लाख महाऊहाग की सख्या, A particular number जो० २,—कमल. न० (कमल) सख्या विशेष, ८४ लाख महाकमलाग की सख्या, A particular number जो० २, —कुमुदग, न० (कुमुदाग) सख्या विशेष, कुमुद को ८४ लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह A particular number जो० २,—कुम्भ. पु० (कूर्म) कूर्मावतार, The Kurma incarnation of Vishnu गडड०,—गह. पु० (ग्रह) सूर्य आदि ज्योतिष्क, A planet e g the sun etc सार्ध० ८७.

महाजाण. न० (महायान) बड़ा यान वहन A great carriage. (२) चारित्र, सयम, Conduct (३) एक विद्याधर नगर का नाम. Name of a Vidyadhar city इक० (४) मोक्ष, मुक्ति. Salvation महानिहा. स्त्री० (महानिद्रा) मृत्यु, मरण, Death पत्रम० ६, १६८.

महापद्म. पु० (महापद्म) सख्या विशेष, महापद्माग को ८४ लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो. A particular number जो० २.

महापद्मा. स्त्री० (महाप्रभा) एकरानी. Name of a queen उप० १०३१ टी.

महापशु. पु० (महापशु) मनुष्य. Man गडड०

महि. स्त्री० (महि) पृथ्वी. Earth कुमा०—अल. न० (तल) भू पीठ, भूमि पृष्ठ.

Ground कुमा० गडड० प्रासू० ४५, —गोयर. पु० (गोचर) मनुष्य. Man भवि०

सण०,—मडल. न० (मण्डल) भू-मण्डल. Terrestrial globe, earth भवि० हे० ४, ३७२, —रमण. पु० (रमण) राजा.

King प्रा० २७, —उल्लह पु० (वल्लभ) राजा Ruler. गु० १०.

महिष्म, त्रि० (महीयस्) बड़ा, गुरु, Great, huge, senior, 'महिष्मो को खाम' मुद्रा० १८७.

महिंद्र. पु० (महेन्द्र) बड़ा इन्द्र, देवाधीश. A great Indra. कण० नया० १, १ टी, (२) एक राजा Name of a king पत्रम० ५०, २३, (३) ऐश्वर्य का भावी १५ वीं तीर्थकर. Fifteenth future 'Tinthankai of Airavata Kshetra प्रव० ७.

महिंद्रकेउ पु० (महेन्द्रकेउ) हनुमान के मातामह का नाम. Name of a grandmother of Hanumat पत्रम० ५०, १६.

महिंद्रविक्रम पु० (महेन्द्र विक्रम) इक्ष्वाकु वंश का एक राजा, Name of a king of Ikshvaku family पत्रम. ५, ६.

महिंद्रसीह. पु० (महेन्द्रसिंह) (१) कुरु देश का एक राजा A king of Kuru country उप० ७२८, टी, (२) सनरुमार चक्रवर्ती का एक मित्र. A friend of Sanat Kumai Chakarvarti महा० महिसासुर. पु० (महिपासुर) एक दानव. The demon Mahisa स० ४३७.

मही स्त्री० (मही) छद्म-विशेष A kind of metre पिंग०

मकु. पु० (मधु) (२) एक दैत्य Name of a demon से० १, १, अचु० ४०, (२) वसन्त ऋ० The spring 'सुरही महु वसतो' पाञ्च० कुमा० (३) चैत्र मास. The month of chaitra सुर० ३, ४०, १६, १०७, पिंग० (४) पाचवा प्रति-वासुदेव राजा.

Fifth Prativasudeo. पत्रम० ५, १५६;

(१) मथुरा का एक राजकुमार A prince of Muttra पत्रम० १२, ०, (६) अशोक

महापीठ पु० (महापीठ) एक जैन महर्षि A Jain saint. संहि० ८१ टी

महाफलित न० (महाफलिक) शिखरी पर्वत का एक उत्तर दिशा स्थित कूट. The northern corner of a peaked mountain. राज०

महाभीमसेण पु० (महाभीमसेन) एक कुलकर पुरुष का नाम The name of a noble man. सम० १५०

महामुञ्च पु० (महामुञ्ज) देव विशेष The name of a god दीव०

महामुञ्जंग पु० (महामुञ्जङ्ग) शेषनाग. A kind of snake ले० ७, ५६

महाभोग्या स्त्री० (महाभोगा) एक महानदी A large river डा० ५, २ पत्र० ३५१

महामस न० (महामास) मनुष्य का मांस Human flesh कप्प०

महामन्त्र पु० (महामात्य) प्रधान मन्त्री A Prime minister कुमा०

महामन्त पु० (महामात्र) हस्तिपक, हाथी का महावत An elephant driver रूप० ३६४

महामहत्त त्रि० (महामहत) अतिबड़ा Greater. सुपा० ५६४, स० ६६३

महामेह. त्रि० (महामेघ) बुद्धिमान् Wise उप० १४२ टी.

महामोक्ष त्रि० (महामूर्ख) बड़ा बेवकूफ. A great fool उप० १०३१ टी.

महायण पु० (महाजन) श्रेष्ठलोक Good world सुपा० २६१

महारत्नस पु० (महारात्स) लकानगरी का एक राजा जो धनवाहन का पुत्र था. A king of Ceylon, son of Dhannvahan उपम० ५, १३६

महारिड्ड पु० (महारिष्ट) बलि नामक इन्द्र का एक सेनापति A commander of Indra named Bali. इक०

महारिसि पु० (महर्षि) बड़ा मुनि, श्रेष्ठ साधु. A great ascetic, A noble saint उव०

महारोरु पु० (महारोरु) अप्रतिष्ठान नरकेन्द्र की उत्तर दिशा में स्थिति एक नरकावास. The abode of a man in the northern direction of an unfamed place देवेन्द्र० २४

महारोहिणी स्त्री० (महारोहिणी) एक महाविद्या. A great knowledge राज०

महालंजर पु० (महालन्जर) बड़ा जल कुम्भ. A big water-pitcher डा० ४, २ पत्र २२६.

महालच्छी स्त्री० (महालक्ष्मी) (१) एक श्रेष्ठि भार्या A good wife उप० ७२८ टी, (२) छन्द-विशेष A kind of poem पिंग० (३) श्रेष्ठलक्ष्मी. The name of a noble goddess नाट०

महालयग न० (महालताङ्ग) सख्या विशेष, लतानामक सख्या को चौरासीलाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह A number. जो० २.

महावक्क न० (महावाक्य) परस्पर सम्बद्ध अर्थवाले वाक्यों का समुदाय A group of words having similar meanings. उप० ८५६

महावण न० (महावन) मथुरा के निकट का एक वन Name of a forest near Muttra. ती० ७

महावण पु० न० (महापण) बड़ी दुकान A big shop भवि०

महावराह पु० (महावराह) (१) विष्णु का एक अवतार An incarnation of Vishnu,

गडड० (२) बडा सुअर A big boar  
सूय० १,७,२५

महावाड पु० (महावायु) ईशानेन्द्र के अश्व सेना  
का अधिपति A Commander of Ishanendra's cavalry ठा० ५,१ पत्र० ३०३, इक०

महावाड पु० (महावाट) बडा बाडा, महान्  
गोष्ठ 'निम्बाणमहावाड' A large enclosure  
उवा०

महाविल न० (महाविल) कन्दरा आदि का  
बडा विवर. A spacious exit of any  
cave कुमा०

महावीरिञ्च. पु० (महावीर्य) इक्ष्वाकु वंश के  
एक राजा का नाम The name of a Raja  
of Ikshwaku family पउम० ५,५

महावेजयन्ती स्त्री० (महावैजयन्ती) बड़ी पताका,  
विजय पताका A big flag, A flag of  
victory. कप्प०

महासई स्त्री० (महासती) उत्तम पतिव्रता स्त्री  
A pious woman उप० ७२८ टी, पडि०

महासामाण न० (महासामान) एक <sup>पेड-</sup>  
विमान A celestial aerial <sup>1011 100</sup>  
उमा०

महासाल. पु० (महाशाल) एक  
An hen apparent, A prince पडि०

महासीह पु० (महासिंह) एक राजा, पठ बल-  
देव और वासुदेव का पिता A Raja, the  
father of 6th Baldev & Basdev  
ठा० ६, पत्र ४४७

महासुर पु० (महासुर) (१) बडा दानव (२)  
दानवों का राजा हिरण्यकशिपु. A great  
giant Heranyakashyap the king  
of grants. से० १,२, गडड०

\*महासूला स्त्री० (महाशूला) फासी Gallows  
आ० २७

वृक्ष An Ashoka tree चड० ( ७ )  
 जल, पानी Water ग्राम० हे० ३,  
 २२, (न) छन्द-विशेष A particular  
 metre पिंग०, —अरविचि स्त्री०  
 (करवृत्ति) माधुकरि, मित्रा-वृत्ति, Begging  
 सुपा० ८३, —अरीगीय न० ( करीगीत )  
 नाट्यविधि-विशेष A kind of gesticu-  
 lation महा०, —पडल न० ( पडल )  
 मधुबुवा, Bee-hive. दे० ३, १२, —  
 मक्खिअ-मक्खिअ स्त्री० ( मक्खिका ) गहद  
 की मक्खी Bee, धर्मवि० १२४, गा० ६३४,  
 —मह. पु० (मह) वसन्त का उत्सव The  
 spring or vernal festival से० १,  
 १७, —मास पु० ( मास ) चैत्र मास  
 Month of Chaitra मवि०, —मिस्त  
 पु० न० ( मित्र ) कामदेव Cupid, the  
 god of love सुपा० २२६, —लट्टि स्त्री०  
 ( यष्टि ) (१) औषधि-विशेष, यष्टिप्रच A  
 kind of medicine (२) इड, ईल Sug-  
 arcane हे० १, २४७, —वक्क पु० ( पक )  
 (१) दधि-युक्त मधु, दही और गहद A  
 mixture of curd and honey. (२)  
 षोडशोपचार पूजा ना छठवाँ उपचार The  
 sixth of sixteen ways of worship  
 —वार. पु० ( वार ) मद्य, दारु Wine,  
 Liquor उत्तर० १०३, पात्र०  
 महुअ पु० ( मयूक ) (१) वृक्ष-विशेष, महुआ  
 का गाछ Name of a tree गा० १०३,  
 (२) न० महुआ का फल A fruit of  
 that tree ग्राम० हे० १, २२२  
 महुअपल न० (महोत्पल) कमल, पद्म Lotus  
 'महुअपल पकथ नल्लिया' पात्र०  
 महुआर पु० ( मधुआर ) छन्द-विशेष A  
 particular metre पिंग०  
 महुमह पु० ( मधुमय ) (१) विष्णु, वासुदेव,  
 वषेन्द Vishnu पात्र० से० १, १७, (२)

अमर, Bee से० १, १७  
 महुमहण पु० ( मधुमथन ) (१) विष्णु God  
 Vishnu से० १, १, वजा० २४, गा०  
 ११७, हे० ४, ३८४, पि० १४३, पिंग०  
 (२) समुद्र, सागर Sea (३) सेतु, पुल.  
 Bridge. से० १, १.  
 महुरिम पुं० स्त्री० ( मधुरिमम् ) मधुरता,  
 माधुर्य Sweetness. सुपा० २३४, कुमा०  
 २०  
 महुरेस पु० ( मधुरेश ) मधुरा का राजा A  
 king of Muttra कुमा०  
 महुसितय न० ( मधुसिक्थ ) कला-विशेष  
 A kind of art स० ६०२  
 महुसूयण पु० ( मधुसूदन ) विष्णु God  
 Vishnu गहड० सुपा० ७  
 महेशम पुं० ( महेश्म ) बडा सेठ A great  
 sowcaai आ० १६  
 महेश पु० ( महेश ) बडा हाथी A great  
 elephant कुमा०  
 महेशा स्त्री० ( महेशा ) स्त्री, नारी Woman,  
 lady हे० १, १४६, कुमा०  
 महेश्वर पु० ( महेश्वर ) (१) महादेव, शिव  
 An epithet of God Shiva पत्रम०  
 ३२, ६४, धर्मवि० १२८, (२) जिनदेव, जहाँन  
 An epithet of Jinadeo पत्रम० १०६,  
 १२, (३) श्रीमन्त, आढ्य Wealthy  
 man सिरि० ४२  
 महोअर पु० ( महोदर ) (१) रावण का एक  
 भाई A brother of Ravana से०  
 १२, २४, (२) बहू-भक्षी Gluttonous,  
 voracious निती० चू० १  
 महोअदि पु० ( महोदधि ) महासागर. Ocean.  
 से० १, २, महा० —रव पु० ( रव ) वावर  
 वर का एक राजा. A king of Vanai  
 family पत्रम० ६, ६२  
 मा स्त्री० ( मा ) (१) लक्ष्मी, दौलत Wealth,

the goddess of wealth से० ३, १५, सुर० १६, ५२, (२) शोभा Lustre, brilliance से० ३, १५  
 माअडि पु० ( मातलि ) इन्द्र का सारथि  
 Name of a charioteer of Indra.  
 से० १५, ५१  
 माअही स्त्री० ( मागधी ) काव्य की एक रीति  
 A mode of poetry कप्पू०  
 माअरा-माइ स्त्री० ( मातृ ) (१) देवता, देवी  
 A goddess, or deity हे० १, १३५, ३, ४६, सुख० ३, ६, (२) स्त्री, नारी A woman, a lady (३) माया Wealth, mnage पचा० १७, ४८, (४) भूमि Earth (५) विभूति Magnificence, splendour (६) लक्ष्मी, Lakshmi, the goddess of wealth (७) रेवती, Name of a woman ( ८ ) आखु-कर्णी A herb, a medicine (९) जटामासी A herb, a kind of medicine (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण A herb, a kind of medicine used on the wounds or abscess पद्० हे० १, १३५, ३, ४६, —घर न० (गृह) देवी-मन्दिर A temple of a goddess सुख० ३, ६,—प्रेह पु० (मेघ) यज्ञ-विशेष, जिसमें माता का वध किया जाय A sacrifice offered to the divine mother पउम० ११, ४२  
 माइ अ० (मा) मत, नहीं No प्राकृ० ७८  
 माइअ त्रि० (मात) समाया हुआ Con-  
 tained सुख० ६, १  
 माइद् पु० ( मृगेन्द्र ) सिंह, केसरी Lion  
 वजा० ४२.  
 माइदजाल-माइंदयाल न० ( मायेन्द्रजाल )  
 माया कर्म, धनावदीप्रपच Deceitfulness,  
 employment of tricks or fraud

सुर० २, २२६, स० ६६०  
 माइएिहआ स्त्री० (मृगतृष्णिका) धूप में जल की  
 आन्ति. Mnage उप० २२० टी, मोह० २३  
 माउ-माउअ त्रि० ( मातृ-क ) (१) प्रमाता,  
 प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञान वाला Regarded  
 as authority (२) परिमाण-कर्ता, नापने  
 वाला Measuring (३) पु० जीव Soul,  
 creature, (४) आकाश Sky पद्० हे०  
 १, १३१, प्राप्र० प्राकृ० ८  
 माउअ स्त्री० (मातृका) दुर्गा, पार्वती, उमा  
 An epithet of Parvati दे० ६, १४७.  
 माउक, न० (मृदुत्व) कोमलता Softness,  
 tenderness हे० १, १२७, २, २, कुमा०  
 मागसीसी स्त्री० ( मार्गशीर्षी ) (१) अग्रहन  
 मास की पूर्णिमा और अमावस्या The  
 full or new moon day of the  
 month Maigashirsha इक०  
 मागहिआ स्त्री० ( मागधिका ) छन्द-विशेष  
 A particular metre सुख० २, ४५,  
 अवि० ४  
 मादिअ त्रि० ( मादित ) सज्जाह-युक्त, वर्मित  
 Mailed, furnished with armour.  
 कुमा०  
 माणइत-माणइत-ल त्रि० ( मानवत् ) मान  
 वाला Proud, arrogant पद्० हे० २,  
 १५६, हेका० ७३, पि० ५६५.  
 माणण न० ( मानन ) (१) मानना  
 Honouring, respecting रयण०  
 ८४, (२) अनुभव Experience (३)  
 सुख का अनुभव Enjoyment of  
 happiness अजि० ३१  
 माणणा, स्त्री० (मानना) देखो 'माणण' ग० ४.  
 Vide 'माणण' रयण० ८४.  
 माणतुग पु० ( मानतुग ) एक प्राचीन जैन  
 कवि. An ancient Jaina poet.  
 नमि० २१

माणवर्द्ध स्त्री० ( मानवती ) मान वाली स्त्री।  
 A haughty or high spirited woman से० १०, ६६, (२) रावण की एक पत्नी A wife of Ravana पत्रम० ७४, ११  
 माणवी स्त्री० (मानवी) एक विद्या-देवी The goddess of learning सति० ६  
 माणस पु० ( मानस ) भूतानन्द के गन्धर्व-सैन्य का नायक A general of Bhutanand's army of celestial songsters इक०  
 माणसध न० (मानसद्ध) एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city इक०  
 माणसिआ, स्त्री० (मानसिका) एक विद्या देवी। The goddess of learning सति० ६  
 माणि पु० ( मनिन् ) रावण का एक सुभट A warrior of Ravana पत्रम० २६, २  
 माणुसी स्त्री० (मानुपी) (१) स्त्री-मनुष्य, मानवी Woman पत्र० २४१, कुप्र० १६०, (२) मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली Human कुप्र० ६७  
 माणेश्वर, पु० ( माणेश्वर ) माणिसभ्र यज्ञ A demi-god called Manibhadra भवि०  
 मामाय, त्रि० (मामाक) 'मा' 'मा' बोलने वाला, निवारक Speaking 'no' 'no'. श्लो० ४३२  
 मामास पु० (मामास) (१) अनार्य देश-विशेष Name of a non-Aryan country (२) अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य जाति A human race living in a Non-Aryan country इक०  
 माय, त्रि० ( मायावत् ) कपट-वाला Deceitful, fraudulent पडि०  
 मायंग पु० (मातङ्ग) (१) हस्ती, हाथी An elephant पात्र० सुर० १, ११, (२) चाण्डाल, डोम, A man of the lowest cast,

a Chandala. पात्र०  
 मायगी स्त्री० (मातङ्गी) (१) चाण्डालिन A female Chandala निसी० चू० १, (२) विद्या-विशेष A kind of magical skill आयाचू० १  
 मायदी स्त्री० (माकन्दी) नगरी-विशेष Name of a city से० ६, कुप्र० १०६  
 मायसिहया, स्त्री० ( मृगतृष्णिका ) किरण में जल-भ्रान्ति, मरु-मरीचिका Mirage 'सुद-मश्रो मायसिहयाण' सुपा० २००  
 माया, स्त्री० ( माया ) (१) इन्द्रजाल Juggle, witchcraft दे० ३, २३, उप० ८२३, (२) मन्त्राक्षर विशेष, 'हीं' अक्षर The word of a Mantia, consonant सिरि० १६७, (३) छन्द विशेष A particular metre पिंग०—णर पु० (नर) पुरुष-वेष धारी स्त्री आदि, A female in the guise of a man धर्मस० १२७८, —वीय न० (बीज) 'हीं' अक्षर सिरि० ४०१  
 मारि त्रि० ( मारिन् ) मारने वाला, Killer महा०  
 मारिज्ज पु० ( मारीच ) रावण का एक सुभट, A warrior of Ravana पत्रम० २६, ७  
 मारिय त्रि० ( मारित ) मारा हुआ Killed महा०  
 मारिस त्रि० (मादश) मेरे जैसा Like myself, resembling one's self कुमा०  
 मारीअ पु० (मारीच) ऋषि-विशेष Name of a sage अभि० २४६,  
 मारीह-मारीजि पु० ( मारीचि ) (१) एक विद्याधर सामन्त राजा Name of a Vidyadhar-tributary king पत्रम० ८, १३२, (२) रावण का एक सुभट Name of a warrior of Ravana. पत्रम० २६, २७



the goddess of wealth से० ३, १५, सुर० १६, ५२, (२) शोभा Lustre, brilliance से० ३, १५  
 माअडि पुं० (मातलि) इन्द्र का सारथि Name of a charioteer of India. से० १५, ५१  
 माअही स्त्री० (मागधी) काव्य की एक रीति A mode of poetry कप्प०  
 माअरा-माइ स्त्री० (मातृ) (१) देवता, देवी A goddess, or deity हे० १, १३५, ३, ४६, सुख० ३, ६, (२) स्त्री, नारी A woman, a lady (३) माया Wealth, mirage पचा० १७, ४८, (४) भूमि Earth (५) विभूति Magnificence, splendour (६) लक्ष्मी. Lakshmi, the goddess of wealth (७) रेवती, Name of a woman (८) आखु-कर्णी A herb, a medicine (९) जटामासी A herb, a kind of medicine (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण A herb, a kind of medicine used on the wounds or abscess पद्० हे० १, १३५, ३, ४६, —घर न० (गृह) देवी-मन्दिर A temple of a goddess सुख० ३, ६,—मेह पु० (मेघ) यज्ञ-विशेष, जिसमें माता का वध किया जाय A sacrifice offered to the divine mother पत्र० ११, ४२  
 माइ अ० (मा) मत, नहीं No प्राक० ७८  
 माइअ त्रि० (मात) समया हुआ Contained सुख० ६, १  
 माइद पु० (सुगेन्द्र) सिंह, केमरी Lion वजा० ४२  
 माइदजाल-माइदयाल न० (मायेन्द्रजाल) माया कर्म, बनावटीप्रपच Deceitfulness, employment of tricks or fraud

सुर० २, २२६; स० ६६०  
 माइगिहत्त्रा. स्त्री० (सृगतृष्णिका) धूप में जल की आन्ति. Mirage उप० २२० टी, मोह० २३  
 माउ-माउअ त्रि० (मातृ-क) (१) प्रमाता, प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञान वाला Regarded as authority (२) परिमाण-कर्ता, नापने वाला Measuring (३) पु०-जीव Soul, creature. (४) आकाश Sky पद्० हे० १, १३१, प्राप्० प्राक० ८,  
 माउअ स्त्री० (मातृका) दुर्गा, पार्वती, उमा An epithet of Parvati दे० ६, १४७  
 माउक, न० (सृदुत्व) कोमलता Softness, tenderness हे० १, १२७, २, २, कुमा०  
 मागसीसी स्त्री० (मार्गशीर्षी) (१) अग्रहन मास की पूर्णिमा और अमावस्या The full or new moon day of the month Margashirsha इक०  
 मागहिद्वा स्त्री० (मागधिका) छन्द-विशेष A particular metre सुख० २, ४५, अवि० ४  
 माडिअ त्रि० (माडित) सज्जाह-युक्त, वर्मित Mailed, furnished with armour. कुमा०  
 माणइत-माणइत्त-ल्ल त्रि० (मानवत्) मान वाला Proud, arrogant पद्० हे० २, १५६, हेका० ७३, पि० ५६५.  
 माणण न० (मानन) (१) मानना Honouring, respecting रयण० ८४, (२) अनुभव Experience (३) सुख का अनुभव Enjoyment of happiness अजि० ३१  
 माणणा. स्त्री० (मानना) देवो 'माणण' गन्त्र. Vide 'माणण' रयण० ८४  
 माणतुग पु० (मानतुद्र) एक प्राचीन जैन कवि. An ancient Jaina poet. नमि० २१

माण्वर्चई स्त्री० ( मानवती ) मान वाली स्त्री।  
 A haughty or high spirited woman से० १०, ६६, (२) रावण की एक पत्नी। A wife of Ravana पद्म० ७४, ११  
 माण्वी स्त्री० (मानवी) एक विद्या-देवी The goddess of learning सति० ६  
 माणस पुं० ( मानस ) भूतानन्द के गन्धर्व-सैन्य का नायक A general of Bhutanand's army of celestial songsters इक०  
 माणसध न० (मानसध) एक विद्याधर नगर A Vidyadhari city इक०  
 माणसिआ स्त्री० (मानसिका) एक विद्या देवी। The goddess of learning सति० ६  
 माणि पुं० ( मनिन् ) रावण का एक सुभट A warrior of Ravana पद्म० २६, २  
 माणुसी स्त्री० (मानुषी) (१) स्त्री-मनुष्य, मानवी Woman पद्म० २४१, कुम० १६०, (२) मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली Human कुम० ६७  
 माणेश्वर. पु० (माणेश्वर) माणिभद्र यक्ष A demi-god called Manibhadra भवि०  
 मामाय. त्रि० (मामाक) 'मा' 'मा' बोलने वाला, निवारक Speaking 'no' 'no'. ओघ० ४३२  
 मामास पु० (मामास) (१) अनार्य देश-विशेष Name of a non-Aryan country (२) अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य जाति A human race living in a Non-Aryan country इक०  
 माय. त्रि० (मायावत्) कपट-वाला Deceitful, fraudulent पढि०  
 मायंग पु० (मातङ्ग) (१) हस्ती, हाथी An elephant पाञ्च०सुर० १, ११, (२) चारुडाल, डेम. A man of the lowest cast,

a Chandala. पाञ्च०  
 मायगी स्त्री० (मातङ्गी) (१) चारुडालिन A female Chandala निसी० चू० १, (२) विद्या-विशेष. A kind of magical skill आयाचू० १  
 मायदी स्त्री० (माकन्दी) नगरी-विशेष Name of a city से० ६, कुम० १०६  
 मायगिहया. स्त्री० (मृगतृणिका) किरण में जल-श्रान्ति, मरु-मरीचिका Minge 'सुद-मश्रो मायगिहयाए' सुपा० २००  
 माया. स्त्री० (माया) (१) इन्द्रजाल Jugglery, witchcraft दे० ३, २३, उप० २२३, (२) मन्त्राक्षर विशेष, 'ही' अक्षर The word of a Mantra, consonant सिरि० १६७, (३) छन्द विशेष A particular metre पिंग०—शूर पु० (नर) पुरुष-वेष धारी स्त्री आदि. A female in the guise of a man धर्मस० १२७८, —वीय न० (वीज) 'ही' अक्षर सिरि० ४०१  
 मारि त्रि० (मारिन्) मारने वाला. Killer महा०  
 मारिज पु० (मारीच) रावण का एक सुभट. A warrior of Ravana पद्म० २६, ७.  
 मारिय त्रि० (मारित) मारा हुआ Killed महा०  
 मारिस त्रि० (मादश) मेरे जैसा Like myself, resembling one's self कुमा०  
 मारीच पु० (मारीच) ऋषि-विशेष Name of a sage अभि० २४६.  
 मारीच-मारीजि पु० (मारीचि) (१) एक विद्याधर सामन्त राजा Name of a Vidyadhari-tributary king पद्म० ८, १३२, (२) रावण का एक सुभट Name of a warrior of Ravana. पद्म० २६, २७

मारुत्र पु० (मारुत) हनुमान का पिता. The father of Hanumat से० २, ४४, -तण्य पु० (तनय) हनुमान An epithet of Hanumat से० २, ४४, हे० ३, ८७.  
 मारुत्र. त्रि० (मारुक्) मरु देश का, मरु-सम्बन्धी Relating to Marwar 'शो अमय-वह्नी मारुयस्मि' उप० ६८६ टी  
 मारुत्रतथ न० (मारुतात्र) अरु-विशेष, वातात्र A kind of missible पउम० २६, ६१.  
 मारुह पु० (मारुति) हनुमान An epithet of Hanumat से० १, ३७  
 माल पु० (माल) (१) देश-विशेष. Name of a country. पउम० ६८, ६९, (२) वनस्पति-विशेष A kind of vegetable  
 मालई स्त्री० (मालती) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०  
 मालविषी स्त्री० (मालविनी) लिपि-विशेष A kind of alphabets, विशेष० ४६४ टी  
 माला स्त्री० (माला) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०  
 मालादल्ल त्रि० (मालावत्) माला वाला Garland seller प्रा०  
 मालि. पु० (मालिन्) (१) पाताल लका का एक राजा A king of Lanka पउम० ६, २२०, (२) देश विशेष Name of a country इक०, (३) माली, पुष्प-व्यवसायी. A garland-maker, gardener कुमा० (४) त्रि० शोभने वाला Beautiful, splendid कुमा०  
 मालिअ. पु० (मालिक) देखो 'मालि' शब्द Vide 'मालि' दे० २, ८, सुपा० २७३, उप० पृ० १२७  
 मालिअ त्रि० (मालित) शोभित, विभूषित, Adorned, decorated सा० २३, पा० ३ उप० २६४, टी  
 मालिज. न० (मालीय) एक जैन मुनि-कुल. A

group of Jaina saints कप्य०  
 मालिणी स्त्री० (मालिनी) (१) माली की स्त्री. A female-florist, the wife of a garland-maker कुमा०, (२) शोभने वाली A beautiful woman (३) छन्द विशेष Name of a metre पिंग० (४) माला वाली A female having a garland गउड०  
 मालिण्य-न्न न० (मालिन्य) मलिनता, Dirtiness, foulness उप० पृ० २२, सुपा० ३२२, २८६.  
 मालुग-य पु० (मालुक) (१) त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष A kind of insects having three senses सुख० ३६, १३८  
 मालुहाणी. स्त्री० (मालुधानी) लता-विशेष. A kind of creeper गउड०  
 मालूर पु० (मालूर) (१) बिल्व वृक्ष, बेल का गाछ The Bilva tree दे० ३, १६, गा० २७६, गउड० कुमा०, (२) न० बेल का फल. A fruit of the Bilva tree पा० गउड०  
 माविअ त्रि० (मापित) मापा हुआ Measured से० ६, ६०, दे० ८, ४८  
 मासगुरु न० (मासगुरु) तप-विशेष, एकाग्रतप. A kind of religious austerity. सवोध० २७  
 मासपुरी स्त्री० (मासपुरी) नगरी-विशेष, भृगी देश की राजधानी Name of a city इक०  
 मासपूरिया. स्त्री० (मासपूरिका) एक जैन मुनि शाखा A branch of Jaina saints कप्य०  
 मासलहु न० (मासलघु) तप-विशेष, 'पुरिमद्द' तप A kind of religious austerity. सवोध० २७  
 मासलिय त्रि० (मासलित) घुट किया हुआ. Made branny, गउड० सुपा० ४३४

मासाहस पु० ( मासाहस ) पक्षि-विशेषः A kind of bird सवे० ६, उव०डर० ३, ३  
 मासिञ्जा स्त्री० ( मातृत्वसू ) मा की बहिन Aunt, or mother's sister धर्मवि० २२.  
 माह. पु० ( माघ ) (१) सस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि Name of a celebrated poet  
 (२) एक सस्कृत काव्य-ग्रन्थ, गिशुपाल-वध काव्य A sanskrit volume called Sisupalavadha or Magha kavya हे० १, १८७.  
 माहव पु० ( माधव ) (१) श्रीकृष्ण, नारायण Lord Krishna, Narayana गा० ४४३, वजा० १३०, ( २ ) वसन्त ऋतु Spring (३) वैशाख मास The month Vaishakha गा० ७७७, रुक्मि० ५३, —पराङ्गी स्त्री० ( प्रयायिनी ) लक्ष्मी Lakshami स० ५२३  
 माहविञ्जा स्त्री० ( माधविका ) देखो 'माहवी' शब्द. Vide 'माहवी' पात्र०  
 माहवी स्त्री० ( माधवी ) (१) लता-विशेष A kind of creeper गा० ३२२, अमि० १६६, स्वप्न० ३६, (२) एक राजपत्नी. Name of a queen पदम० ६, १२६, २०, १८४  
 माहिंद पु० ( माहेन्द्र ) ज्वर-विशेष A kind of fever 'माहिंदजरो जात्रो' सुपा० ६०६  
 माहिंदफल न० ( माहेन्द्रफल ) इन्द्रयव A kind of medicinal seeds उच्चनि०३  
 माहुत्रिञ्ज. न० ( माधुर्यं ) सधुरता Sweetness प्राकृ० १६  
 माहुलिंग पु० ( माहुलिङ्ग ) (१) बीजपूर वृक्ष बीजौरा नीवू का पेड A kind of citron tree हे० १, २४४, चड०, (२) बीजौरे का फल Fruits of citron पद० कुमा०

माहेश्वर त्रि० ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. A devotee to Maheshwar स्त्रि० ४८, (२) न० नगर-विशेष Name of a city पदम० १०, ३४  
 माहेश्वरी स्त्री० ( माहेश्वरी ) नगरी-विशेष Name of a city राज०  
 मिञ्ज त्रि० ( मित ) थोडा, अल्प A little, scanty. 'मिञ्जतुच्छ' पात्र०  
 मिञ्जञ्जा स्त्री० ( मृगया ) शिकार Hunting, chase नाट-शकु० २७  
 मिञ्जकमणि. पु० ( मृगाङ्गमणि ) चन्द्रकान्त मणि Moon-stone, moon-like, lubby कपू०  
 मिञ्जग पु० ( मृगाङ्ग ) इक्ष्वाकु वंश का एक राजा. A king of Ikshvaku race पदम० ५, ७  
 मिञ्ज स्त्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण Measurement (२) हद, अवधि Limit धर्मवि० १४३  
 मिङ्गगंध पु० ( मृगगन्ध ) युगलिक मनुष्य की एक जाति A kind of Jugalia people इक०  
 मिङ्गया स्त्री० ( मृगया ) शिकार Hunting, chase सुपा० २१४, कृम० २३, मोह० ६२  
 मिङ्गीपद न० ( मृगीपद ) स्त्री का गुह्य स्थान, योनि The female organ, vulve राज०  
 मिञ्जक त्रि० ( मेध्य ) शुचि, पवित्र Pure, sacred, holy उप० ७२८, टी  
 मिट्ट त्रि० ( मिष्ट ) मीठा, मधुर Sweet 'मुहमिष्टा मण्डुष्टा' धर्मवि० ६५, कपू० सुर० १२, १७, हे० १, १२८, रमा०  
 मिश्राण न० ( मान ) मान, माप, परिमाण Measure उप० घृ० ६७.  
 मित्तदेवा स्त्री० ( मित्रदेवा ) अनुराधा नक्षत्र. Name of a constellation राज०

मारुत्र. पु० (मारुत) हनुमान का पिता. The father of Hanumat. से० २, ४४, -तण्य पु० (तनय) हनुमान An epithet of Hanumat से० २, ४४, हे० ३, ८७.  
 मारुत्र. त्रि० (मारुत) मरु देशका, मरु-सम्बन्धी. Relating to Marwa 'शो अमय-वहारी मारुयन्मि' उप० ६८६ टी  
 मारुत्रस्थ न० (मारुताद्य) अन्न-विशेष, वाताद्य A kind of missible पत्र० १६, ६१.  
 मारुद्. पु० (मारुति) हनुमान An epithet of Hanumat से० १, ३७  
 माल पु० (माल) (१) देश-विशेष Name of a country. पत्र० ६८, ६१, (२) वनस्पति-विशेष A kind of vegetable  
 मालई. स्त्री० (मालती) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०  
 मालविद्या. स्त्री० (मालविनी) लिपि-विशेष A kind of alphabets, विशे० ४६४ टी  
 माला स्त्री० (माला) छन्द विशेष A kind of metre पिंग०  
 मालादल्ल त्रि० (मालावत्) माला वाला Garlands seller प्राप्र०  
 मालि. पु० (मालिन्) (१) पाताल लका का एक राजा A king of Lanka पत्र० ६, २२०, (२) देश विशेष Name of a country इक०, (३) माली, पुष्प-व्यवसायी. A garland-maker, gardener कुमा० (४) त्रि० शोभने वाला Beautiful, splendid कुमा०  
 मालिन्ध. पु० (मालिक) देखो 'मालि' शब्द Vide 'मालि' दे० २, ८, सुपा० २७३, उप० पृ० १५७  
 मालिन्ध त्रि० (मालित) शोभित, विभूषित. Adorned, decorated सा० २३, पात्र० उप० २६४, टी  
 मालिज्ज. न० (मालीय) एक जैन मुनि-कुल. A

group of Jaina saints कप्प०  
 मालिगी स्त्री० (मालिनी) (१) माली की स्त्री. A female-florist, the wife of a garland-maker कुमा०, (२) शोभने वाली A beautiful woman (३) छन्द विशेष Name of a metre पिंग० (४) माला वाली A female having a garland गउड०  
 मालिरण्य-न्न न० (मालिन्य) मलिनता, Dirtiness, foulness उप० पृ० २२, सुपा० ३१२, १८६.  
 मालुग-य पु० (मालुक) (१) त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष A kind of insects having three senses सुख० ३६, १३८  
 मालुहायी स्त्री० (मालुधानी) लता-विशेष. A kind of creeper गउड०  
 मालूर पु० (मालूर) (१) बिल्व वृक्ष, बेल का गड्ढ The Bilva tree दे० ३, १६, गा० २७३, गउड० कुमा०, (२) न० बेल का फल. A fruit of the Bilva tree पात्र० गउड०  
 मावित्र त्रि० (मापित) मापा हुआ Measured से० ६, ६०, दे० ८, ४८  
 मासगुरु न० (मासगुरु) तप-विशेष, एकाशन तप. A kind of religious austerity. सबोध० १७  
 मासपुरी स्त्री० (मासपुरी) नगरी-विशेष, भृगी देश की राजधानी Name of a city इक०  
 मासपूरिया, स्त्री० (मासपूरिका) एक जैन मुनि-शाखा A branch of Jaina saints कप्प०  
 मासलहु न० (मासलद्यु) तप-विशेष, 'पुरिमद्द' तप A kind of religious austerity. सबोध० १७  
 मासलिय त्रि० (मासलित) पुष्ट किया हुआ. Made blawny, गउड० सुपा० ४७४

मासाहस पुं० ( मासाहस ) पक्षि-विशेष. A kind of bird सवे० ६, उव० उर० ३, ३.  
 मासिआ स्त्री० ( मातृत्वसृ ) मा की बहिन Aunt, or mother's sister धर्मवि० २२  
 माह. पुं० ( माघ ) (१) सस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि Name of a celebrated poet (२) एक सस्कृत कान्य-ग्रन्थ, शिशुपाल-यघ कान्य A sanskrit volume called Sisupalavadha or Magha kavya हे० १, १८७.  
 माहव पु० ( माघव ) (१) श्रीकृष्ण, नारायण. Lord Krishna, Narayana गा० ४४३, वजा० १३०, (२) वसन्त ऋतु. Spring (३) वैशाख मास The month Vaishakha गा० ७७७, रुक्मि० ५३, —पशुपती स्त्री० ( प्रणयिनी ) लक्ष्मी Lakshmi स० ५२३  
 माहविआ स्त्री० ( माघविका ) देवी 'माहवी' शब्द. Vide 'माहवी' पात्र०  
 माहवी. स्त्री० ( माघवी ) (१) लता-विशेष A kind of creeper गा० ३२२, अग्नि० ११६, स्वप्न० ३६, (२) एक राजपत्नी. Name of a queen पडम० ६, १२६, २०, १८४  
 माहिद पुं० ( माहेन्द्र ) ज्वर-विशेष A kind of fever 'माहिदजरो जाओ' सुपा० ६०६  
 माहिदफल न० ( माहेन्द्रफल ) इन्द्रधव A kind of medicinal seeds उक्तनि० ३  
 माहुरिअ. न० ( माधुर्य ) मधुरता Sweetness प्राकृ० १६  
 माहुर्लिंग पु० ( माहुर्लिङ्ग ) (१) वीजपूर वृक्ष, वीजौरा नीवू का पेड A kind of citron tree हे० १, २४४, चड०, (२) वीजौरे का फल Fruits of citron पद्० कुमा०

माहेसर त्रि० ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. A devotee to Maheshwari स्तिरि० ४८, (२) न० नगर-विशेष Name of a city पडम० १०, ३४  
 माहेसरी स्त्री० ( माहेश्वरी ) नगरी-विशेष Name of a city राज०  
 मिअ त्रि० ( मित ) थोडा, अल्प. A little, scanty. 'मिअतुच्छ' पात्र०  
 मिअआ स्त्री० ( मृगया ) शिकार Hunting, chase नाट-शकु० २७  
 मिअकमणि. पुं० ( मृगाङ्गमणि ) चन्द्रकान्त मणि Moon-stone, moon-like, rubby कपू०  
 मिअग पु० ( मृगाङ्ग ) इक्ष्वाकु वंश का एक राजा. A king of Ikshvaku race पडम० ५, ७  
 मिइ स्त्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण Measurement (२) हद, अवधि Limit धर्मवि० १४३  
 मिगगध पु० ( मृगगन्ध ) युगलिक मनुष्य की एक जाति A kind of Jugaha people इक०  
 मिगया स्त्री० ( मृगया ) शिकार Hunting, chase सुपा० २१४, कुप्र० २३, मोह० ६२  
 मिगीपद् न० ( मृगीपद् ) स्त्री का गुह्य स्थान, योनि The female organ, vulve राज०  
 मिज्ज त्रि० ( मेध्व ) शुचि, पवित्र Pure, sacred, holy उप० ७२८, टी  
 मिट्ट त्रि० ( मिष्ट ) मीठा, मधुर Sweet 'मुहमिष्टा मण्डुष्टा' धर्मवि० ६५, कपू० सुर० १२, १७, हे० १, १२८, रभा०  
 मिणण न० ( मान ) मान, माप, परिमाण Measure उप० पृ० ६७.  
 मित्रदेवा स्त्री० ( मित्रदेवा ) अत्रुराधा नक्षत्र. Name of a constellation राज०

मिच्छेय. पु० ( मित्रसेन ) एक पुरोहित पुत्र  
Name of a son of a priest. सुपा०  
५०७

मिच्छि स्त्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण  
Measure (२) सापेक्षता Consider-  
ation. अजम्क० ३७.

मिच्छिआ. स्त्री० ( मृत्तिका ) मिट्टी, मट्टी  
Clay, earth अग्नि० २४३.

मिच्छिआवर्द्ध. स्त्री० ( मृत्तिकावती ) दशार्ण  
देश की प्राचीन राजधानी An ancient  
capital of Dashaana country.  
विचार० ४८

मिलायि. स्त्री० ( ग्लानि ) विच्छायाता  
Fading, withering, decay उप०  
१४२ टी०

मिलिट्ट त्रि० ( मिलट ) (१) अस्पष्ट वाक्य वाला  
Spoken indistinctly. (२) ग्लान  
Faded, withered (३) न० अस्पष्ट  
वाक्य An indistinct or barbarous  
speech प्राहु० २७

मिल्लावित्र त्रि० ( मोचित ) छुड़ाया हुआ  
Cause to release सुपा० ३८८, हस्मीर०  
१८, कुम० ४०१

मिल्लिर त्रि० ( मोक्त ) छोड़ने वाला Releas-  
ing, setting free कुमा०

मिल्लिय त्रि० ( मुक्त ) छोड़ा हुआ Released  
आ० २७

मिस न० ( मिय ) बहाना, छल, ब्याज Pre-  
text, deceit, trick चेइय० ८३१,  
सिक्ला० २६, रभा० कुमा०

मिदिआ स्त्री० ( मेघिका ) अल्प मेघ Show-  
ers. से० ४, १७

मिहिर पु० ( मिहिर ) सूर्य, रवि Sun उप०  
पृ० ३५०, सुपा० ४१६, धर्म० ५.

मुद्रिण न० ( मिथुन ) ज्योतिष प्रसिद्ध एक राशि.  
The third sign of the zodiac

विचार० १०६

मीण पु० ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि.  
The twelfth sign of the zodiac  
( Pisces ) सुर० ३, ५३, विचार० १०६,  
सवोध० ५४

मीमसा स्त्री० ( मीमासा ) जैमिनीय दर्शन,  
Name of a system of Indian  
philosophy founded by Jaimini.  
सुपा० ३, १, धर्मवि० ३८.

मीमसिय. त्रि० ( मिमासित ) विचारित.  
Thought उप० ६८६ टी.

मीलच्छीकार. पु० ( मीलच्छीकार ) (१) यवन-  
देश-विशेष Name of a Non-Aryan  
country. 'मीलच्छीकार देशोचरि' हस्मीर०  
३५, (२) एक यवन राजा Name of a  
Non-Aryan prince, हस्मीर० ३५

मीलण न० ( मीलन ) संकोच Closing of  
the eyes or a flower, hesitation,  
reluctance कुमा०

मीस. न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिनों का  
उपवास Three fasts at a time.  
सवोध० ५८

मीसालिअ त्रि० ( मिश्र ) सयुक्त, मिला हुआ.  
Mixed, mingled, combined हे०  
२, १७०, कुमा०

मुआ स्त्री० ( मृत् ) मिट्टी Earth, clay.  
सच्चि० ४,—स्त्री० ( मुद् ) हर्ष, खुशी, आनन्द.  
Delight, pleasure रभा०

मुआविअ त्रि० ( मोचित ) छुड़ाया हुआ.  
Caused to release स० ४४६

मुद्र त्रि० ( मोचिन् ) छोड़ने वाला One who  
releases विशेष० ३४०२

मुद्रअ पु० ( मुद्रित ) रावण का एक सुभट A  
warrior of Ravana पद्म० ५६, ३२.

मुद्रिगि त्रि० ( मुद्रिन् ) मृदग बजाने वाला.  
A drummer. कुमा०

मुद्गर त्रि० (मोक्ष) छोड़ने वाला One who releases सण०  
 मुलउद पु० (मुकुन्द) (१) नृप-विशेष Name of a king अच्यु० ६६, (२) पुष्पवृक्ष-विशेष. Name of a tree कम्पू०  
 मुउद पु० (मुकुन्द) विष्णु, नारायण Name of Vishnu नाट-चैत० १२६.  
 मुंगायण न० (मुद्गायण) गोत्र-विशेष, विशाला गोत्र-विशेष Name of a family इक०  
 मुंजायण पु० (मौञ्जायन) ऋषि-विशेष Name of a sage हे० १, १६०, प्राप्र०  
 मुजि पु० (मौजिन) ऋषि-विशेष. Name of a sage प्राह० १०  
 मुड पु० न० (मुण्ड) मस्तक, सिर Head हे० ४, ४४६, पिंग०  
 मुंड-मुदाण पु० (मूर्धन) मूर्धा, मस्तक, सिर Head हे० १, २६, २, ४१, पद्  
 मुकुर. पु० (मुकुर) दर्पण Mirror. looking-glass हे० १, १४  
 मुक त्रि० (मूक) वाक शक्ति से रहित Dumb, speechless हे० २, ३६, सुपा० ५१२, पद्०  
 मुक्क त्रि० (मुक्क) लगातार पांच दिन का उपवास Five fasts at a time सबोध० २८  
 मुक्कल त्रि० (मूकल) अज्ञानी, बेवकूफ Ignorant, foolish, dull-headed. हे० २, ११२, कुमा० गा० ८२, सुपा० २३१.  
 मुक्कल त्रि० (मुख्य) प्रधान, नायक Leader, guide हास्य० १२५  
 मुक्कल पु० न० (मुक्क) (१) अण्डकोप Testicle (२) वृक्ष-विशेष Name of a tree (३) चोर, तस्कर Thief (४) त्रि० मासल, पुष्ट Lusty, Brawny प्राप्र०  
 मुक्कली. स्त्री० (मोहली) स्तम्भन से छुटकारा करने वाली विद्या-विशेष Name of a

magical skill धर्मवि० १२४  
 मुख पु० (मुख) एक श्लेच्छ जाति A non-aryan tribe. मृच्छ० १२२.  
 मुग्ग पु० (मुद्ग) (१) रोग विशेष A kind of disease ति० १३, (२) पत्ति-विशेष, जल-काक, A kind of sea-bird प्राप्र०  
 मुग्गसेल पु० (मुद्गसैल) पर्वत-विशेष, कभी नहीं मिंगने वाला एक पर्वत । A particular mountain उप० ७२८, टी.  
 मुच्छावित्र त्रि० (मूर्च्छित) मूर्च्छा-युक्त किया हुआ Fainted से० १२, ३८  
 मुच्छिन्न पु० (मूर्च्छित) नरकावास-विशेष Name of an abode of the hell. देवेन्द्र० २७  
 मुच्छिजत. त्रि० (मूर्च्छायमान) मूर्च्छा को पास होता हुआ Fainting से० १३, ४३  
 मुच्छिम पु० (मूर्च्छिम) मत्स्य-विशेष A kind of fish 'मुच्छिममच्छो डयाहरण' मन० ३  
 मुच्छिर त्रि० (मूर्च्छित) (१) बढ़ने वाला Increasing (२) बेहोशी वाला Fainted, swooning कुमा०  
 मुड्ड. त्रि० (मुग्ध मूढ) मूर्ख, बेवकूफ Foolish, silly, stupid हम्मीर० ५१  
 मुग्धा न० (ज्ञान-मुग्धान) ज्ञान, जानकारी Knowledge कुप्र० १८४, सबोध० २६, धर्मवि० १२५, सण०  
 मुग्धालि पु० (मृथालिन) (१) पत्र समूह A collection of lotuses (२) पत्र-युक्त प्रवेश, कमल वाला स्थान A place of lotuses 'मुग्धालि चाग्धालि' सुपा० ४१३  
 मुग्धि पु० (मुनि) (१) अगस्त्य ऋषि Name of the sage Agastya 'जलहिजल व मुग्धिणा' सुपा० ४८३, (२) सात की संख्या The number 'seven' (३) छन्द-विशेष A kind of metre पिंग०



मुणिर त्रि० ( ज्ञातृ-मुणितृ ) जानने वाला  
Knowing. सण०

मुत्त. त्रि० ( मूर्त ) (१) कठिन Hard. (२)

मूढ Foolish, stupid (३) मूर्छा-युक्त  
Fainted, Insensible. हे० २, ३०,

(४) पु० एक दिन का उपवास Fast  
सवोध० २८, (५) एक प्राण का नाम  
Name of the senses of physical

mechanism of human beings

मुत्तावली स्त्री० ( मुक्तावली ) (१) तप-विशेष

Name of a religious austerity

(२) द्वीप-विशेष A particular island

(३) समुद्र-विशेष Name of a sea राज०

मुत्ति स्त्री० ( मूर्ति ) कठिन्य, कठिनत्व

Solidity, hardness. हे० २, ३०, प्राप्०

मुत्थ. त्रि० ( मुत्त ) मोथा, नागरमोथा A

kind of grass गडड०

मुद्धा. स्त्री० ( मुग्धा ) मुग्ध स्त्री, नायिका का

एक भेद A young girl attractive

by her youthful simplicity, A

pretty young maiden (regarded

as a variety of Nayika in poetic

compositions) कुमा०

मुमुक्खु त्रि० ( मुमुड ) मुक्त होने की इच्छा

वाला Wishing to be free from

worldly existence, striving

after final emancipation सम्रक्त०

मुर पु० ( मुर ) दैत्य विशेष Name of a

demon —रिउ पु० ( रिपु ) श्रीकृष्ण

An epithet of Krishna ती० ३,

—वैरिय. पु० ( वैरिन् ) श्रीकृष्ण An

epithet of Krishna कुमा०

मुरल पु० ब० ( मुरल ) एक भारतीय दक्षिण

देश, केरल देश. Name of an Indian

Southern District 'दिअर यदित्त

मुष्ट मुरला' गा० ८७६.

मुरिय. त्रि० ( स्फुरित ) खीला हुआ  
Blossomed, Budded, expanded.

कुमा०

मुसण न० ( मोपण ) चोरी Theft. सार्ध०

६०, धर्मवि० २६

मुसलि पु० ( मुसलिन् ) बलदेव An

epithet of Baladeo दे० १, ११८,

सण०

मुसाविअ त्रि० ( मोपित ) चुराया हुआ, चोरी

करवाया हुआ Caused to steal शोध०

२६०, टी.

मुसिय त्रि० ( मुपित ) चुराया हुआ Stolen.

सुपा० २२०

मुह न० ( मुख ) (१) द्वार, दरवाजा Door,

passage (२) आरम्भ Beginning,

commencement. (३) नाटक आदि का

सन्धि-विशेष The original cause or

source of the action in a drama-

(४) आर्य, प्रथम First (५) मुख्य,

प्रधान, Chief, Principal. (६) शब्द,

आवाज Word, utterance (७) नाटक

Drama (८) वेद-शास्त्र. The Vedas,

प्राप्० हे० १, १८७, (९) प्रवेश Estab-

lishment निस्त्री० चू० ११, (१०) पु०

वृक्ष-विशेष, बड़हल का गाछ A kind of

tree

मुहल पु० ( मुखर ) (१) कारक, कौआ Crow-

(२) शक Conch-shell हे० १, २२४,

प्राप्०, —रव. पु० ( रव ) तुमुल, कोलाहल.

Bustle पाञ्च०

मूहल्लअ त्रि० ( मृत ) मरा हुआ Dead 'तइआ

मूहल्लओ' गा० ६१६ अ०

मूहनइय न० ( मूहनयिक ) श्रुत विशेष, शास्त्र

विशेष Name of a scripture आवम०

मूढविस्मय्या स्त्री० ( मूढविसूचिका ) रोग-विशेष.

Name of a disease सुपा० १३

मूलदेवी स्त्री० ( मूलदेवी ) लिपि-विशेष A particular alphabets विशेष० ४६४टी  
 मूलिका स्त्री० ( मूलिका ) औषधि-विशेष A kind of medicine उप० १०३  
 मूलिल्ल त्रि० (मौलिक) प्रधान, मुख्य Chief, principal. 'मूलिल्ल वाहये, सिपि० ४२३.  
 मूलिल्ल त्रि० ( मूलवत् ) मूलधन वाला, पुजी वाला Capitalist 'गाढाशुरत्तो मूलिल्लो' महा०  
 मूली स्त्री० ( मूली ) औषधि विशेष A kind of medicine महा०  
 मेअ पुं० स्त्री० ( मेद ) चाण्डाल Chandala, or Sudra. लम्भत्त० १७२  
 मेअय, त्रि० ( मेचक ) काला, कृष्ण वर्ण Black, dark गड० ३३६.  
 मेअल पु० ( मेकल ) पर्वत-विशेष Name of a mountain — कन्ना स्त्री० ( कन्या ) नर्मदा नदी A river named Narmada पाद्य०  
 मेअवाडय, पु० न० ( मेदपाटक ) एक भारतीय देश, मेवाड Mewar, an Indian province. 'सअलपि मेअवाडय' हम्मीर० २७  
 मेइणी स्त्री० ( मेदिनी ) चाण्डालिनी A Chandala woman सुपा० १६, त० १७२  
 मेइणीसर पु० ( मेदिनीसर ) राजा King ruler उप० ७२८टी  
 मेघवाहण पु० ( मेघवाहन ) एक विद्याधर राजकुमार Name of a Vidyadhar prince पडम० ५, ६५  
 मेणआ-मेणका स्त्री० ( मेनका ) (१) हिमालय की एक पत्नी Name of the wife of Himalaya (२) स्वर्ग की एक वेश्या Name of an Apsaras अमि० ४२, नाट-विक्र० ४७, पिंग०  
 मेत्त न० ( मात्र ) (१) साकल्य. Perfect-

ness (२) अवधारण Determination. हे० १, ८१  
 मेरु पुं० ( मेरु ) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०  
 मेल पु० ( मेल ) मेल, मिलाप, सगम, सयोग, मिलन Meeting, union सूयनि० १५, दे० ६, ५२, सार्ध० १०६, कुप० २१०  
 मेलय पु० ( मेलक ) (१) सम्बन्ध, सयोग. Meeting, union कुमा० (२) मेला, जन-समूह का एकत्रित होना Fair दे० ७, ८६, त्रि० ८६  
 मेलाय पु० न० ( मेल ) मिलाप, सगम, मिलन Meeting सुपा० ४६६, सट्टि० १४३  
 मेलविअ त्रि० ( मेलित ) मिलाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ Gathered से० १०, २८  
 मेल्लण न० ( मोचन ) छोड़ना, परित्याग Releasing, liberating प्रासू० १०२  
 मेल्लायिय त्रि० ( मोचित ) छोड़वाया हुआ Caused to liberate सुर० ८, ६८, महा०  
 मेस पु० ( मेघ ) राशि-विशेष The sign Aries of the Zodiac विचार० १०६, सुर० ३, ५३  
 मेह पु० ( मेह ) रोग-विशेष, प्रमेह A urinary disease आ० २०, सुख० १, १५  
 मेह पु० ( मेघ ) (१) कालागुरु, सुगंधी धूप-द्रव्य विशेष A fragrant grass से० ६, ४६, (२) एक देव विमान A particular celestial aereal car देवेन्द्र० १३२, (३) छन्द विशेष Name of a metre. पिंग०, (४) एक जैन मुनि Name of a Jaina saint कल्प०, (५) देव विशेष A particular god राज०, (६) मुस्तक, औषधि-विशेष, मोथा A kind of medicine (७) एक राक्षस Name of a giant. (८) राग विशेष A musical tune प्रा० हे० १, १८७, (९) एक विद्याधर

नगर Name of a city इक०  
 मेहज्भाण. पु० (मेघध्यान) राक्षस वश का एक  
 राजा, एक लंका पति A king of the  
 demon-family पडम० ५, २६६  
 मेहण. न० (मेहन) पुरुष लिंग Penis राज०  
 मेहणाञ्च पु० ( मेघनाद ) रावण का पुत्र  
 Name of a Ravan's son से० १३, ६८.  
 मेहपुर न० (मेघपुर) वैताल्य पर्वत के दक्षिण  
 श्रेणी का एक नगर A city on the  
 south of the mount Vaitadhya  
 पडम० ६, २  
 मेहलय पु० व० ( मेखलक ) देश-विशेष  
 Name of a country पडम० ६८, ६६  
 मेहलिज्जिया स्त्री० (मेखलिया) एक जैन मुनि  
 शाखा A branch of Jaina saints  
 कप्प०  
 मेहवाहण पु० (मेघवाहन) (१) राक्षस वश  
 का आदि पुरुष, जो लंका का राजा था The  
 first or primeval being of the  
 demon family पडम० ५, २२१, (२)  
 रावण का एक पुत्र Name of a son of  
 Ravana. पडम० ८, ६४  
 मेहसीह पु० ( मेघसिंह ) विद्याधर वश का  
 एक राजा A king of a Vidyadhar  
 lineage पडम० ५, ४३  
 मेहाञ्चर त्रि० (मेघाकर) (१) बुद्धि वर्धक  
 Increasing intellects (२) पु०  
 छन्द विशेष Name of a metre पिं०  
 मेहावण न० (मेघवर्ण) एक विद्याधर नगर  
 Name of a Vidyadhar city इक०  
 मेहिय न० (मेधिक) एक जैन मुनि कुल. A  
 group of Jaina saints कप्प०  
 मोञ्च पु० ( मोद ) हर्ष, सुखी Delight,  
 pleasure रयण० १५, महा० भवि०  
 मोञ्चा स्त्री० ( मोचा ) कदली-वृक्ष, केला का  
 गन्ध. A plantain tree राज०

मोञ्चावण न० ( मोचन ) छुटकारा करना  
 Causing to release सिरि० ६१८,  
 स० ४७.  
 मोञ्चाविञ्च-मोदञ्च त्रि० (मोचित) छुटवाया  
 हुआ. Caused to emancipate पि०  
 ५५२, नाट० मृच्छ० ८६, सुर० १०, ६,  
 सुपा० ४७७, महा० सुर० २, ३६, ६, ७८,  
 सुपा० २३२, सवि०  
 मोक्खण. न० ( मोक्षण ) मुक्ति, छुटकारा.  
 Final emancipation स० ४१८,  
 सुर० २, १७  
 मोट्टाञ्च. न० (मोट्टायित) चेष्टा विशेष प्रिय  
 कथा आदि में भावना से उत्पन्न चेष्टा. To be  
 deeply engrossed in feelings of  
 love, or expressions of feelings  
 of affections to a woman on  
 behalf of her absent lover, at a  
 time when he is talked of by  
 others कुमा०  
 मोडण न० ( मोटन ) मोहन, मोहना  
 Bending वजा० ३८  
 मोड पु० (मोड) एक वणिक पुत्र Name  
 of a Bania's son कुम० २०  
 मोढेरय न० (मोढेरक) नगर-विशेष Name  
 of a city दे० ६, १०२, ती० ७  
 मोणि त्रि० ( मौनिन् ) मौन वाला Obser-  
 ving a vow of silence, silent  
 उव० सुपा० १४, सवोध० २१  
 मोर पु० (मोर) छन्द-विशेष Name of a  
 metre —वध पु० ( बन्ध ) एक प्रकार  
 का बन्धन A kind of bondage.  
 सुपा० ३४५, —सिद्धा स्त्री० ( शिखा )  
 एक महौषधि A particular medicine  
 ती० ५  
 मोस. पु० ( मोप ) (१) चोरी Theft (२)  
 चोरी का माल Spoils. सुपा० २२१, महा०

मोसण. त्रि० ( मोपण ) चोरी करने वाला  
Robbing, plundering, stealing  
कुम्भ० ४७  
मोह पु० ( मोह ) (१) विपरीत ज्ञान False  
knowledge कुमा० २, २३, (२) चित्त  
की व्याकुलता Peiplexity, delusion  
कुमा० २, २, (३) काम क्रीडा Amorous  
sport, copulation प्रासू० २८, (४)  
छन्द-विशेष Name of metrie. पिंग०  
मोहण न० ( मोहन ) (१) मन्त्र आदि से वश  
करना. A magical charm employed  
to bewilder an enemy, fascinat-  
ing सुपा० २६६, (२) मूर्च्छा, बेहोशी

Fainting, swooning निसी० ६, (३)  
काम का एक बाण An arrow of cupid.  
(४) प्रेम, अनुराग. Love, affection.  
कम्पू०, (२) मैथुन, रति-क्रिया Sexual in-  
tercourse स० ७६०, जीव० ३  
मोहणी स्त्री० ( मोहनी ) एक महौषधि A  
particular medicine. ती० २.  
मोहि त्रि० ( मोहिन ) मुग्ध करने वाला.  
Fascinating भवि०  
मोहिणी स्त्री० ( मोहिनी ) छन्द-विशेष Name  
of a metrie पिंग०  
मोहस्तिय त्रि० ( मोहस्तिक ) ज्योतिष-शास्त्र का  
जानकार Astiologer कुम्भ० २.

य

य पु० ( य ) तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष,  
अन्तस्थ यकार. A particular palatal  
consonant. प्राप्० प्राप्ता०

यदाचि अ० ( यदाचि ) अभ्युपगम-सूचक अन्वय,  
स्वीकार द्योतक निपात Though, al-  
though पचा० १४, ३६

र

र पु० ( र ) मूर्ध-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष  
A particular consonant सिरि०  
१६६, पिंग०—गण्य पु० ( गण्य ) छन्द शास्त्र  
प्रसिद्ध मध्य लघु अक्षर वाले तीन स्वरोँ का  
समुदाय A collection of the word  
of three syllables पिंग०  
रइ पु० ( रति ) सूर्य, सूरज Sun. गा० ३४,  
से० १, १४-३२, कम्पू०  
रइ स्त्री० ( रति ) (१) कामदेव की स्त्री God-  
dess of love कुमा० (२) कर्म-विशेष A  
particular Karma क० ग० २, १०,  
(३) पु० भूतानन्द नामक इन्द्र का एक सेना-  
पति. A general of king India  
named Bhutananda इक०,—कीलां  
स्त्री० ( क्रीडा ) काम-क्रीडा Sexual inter-  
course महा०,—घर न० ( गृह ) सुरत-

मन्दिर, विलास गृह A pleasure house  
पि० ३६६, ए०,—रमण पु० ( रमण ) काम-  
देव. The god of love, cupid. सुपा०  
४, २८६, कम्पू०,—लभ. पु० ( लभ ) (१)  
सुरत की प्राप्ति Acquisition of copu-  
lation (२) कामदेव Cupid, the god  
of love कुमा० सुपा० २६२  
रइलक्ष न० ( रतिलक्ष ) रति-सयोग, मैथुन  
Copulation, sexual intercourse.  
दे० ७, १३  
रइल्लिय त्रि० ( रजस्वल ) रज से युक्त, रजवाला.  
Dusty, covered with dust पि०  
२६२  
रइविद्धि स्त्री० ( रतिवृद्धि ) विद्या विशेष  
Magical skill पचम० ७, १४४.  
रइसुदरी स्त्री० ( रतिसुदरी ) एक राज कन्या

Name of a princess उप०७२८, टी  
रईसर पु० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दर्प.

Cupid, the god of love कुमा०

उडरव त्रि० ( रौरव ) भयकर, घोर, Dread-  
ful, terrible —काल पु० ( काल ) माता  
के उडर में पसार किया जाता समय-विशेष  
Period of pregnancy, or the  
time which the child spends in  
the womb of the mother भवि०

रक त्रि० ( रक्क ) गरीब, दीन Poor,  
wretched पिंग०

रग, त्रि० ( राङ्ग ) रगा हुआ, रग कर बनाया  
हुआ Coloured दसनि० २, १७.

रंग पु० ( रङ्ग ) (१) राग, प्रेम Love,  
affection सिरि० २१२, (२) युद्ध-मण्डप,  
जय-भूमि, Battle-field धर्मस० ७८३,  
(३) सम्राट, लड़ाई Battle, war पिंग०  
(४) रक्त वर्ण, लाली The red colour  
से० २, २६, (५) रग, वर्ण Colour भवि०  
(६) रँगना, रग चढ़ाना Colouring  
गउढ०

रगअ त्रि० ( रङ्गद ) कुतूहलजनक Surpris-  
ing से० ६, ४२

रगिर त्रि० ( रङ्गितृ ) चलने वाला One that  
walks सुपा० ३.

रगिल्ल त्रि० ( रङ्गवत् ) रग वाला Colour-  
ed उर० ६, २

रजग त्रि० ( रज्जक ) रञ्जन करने वाला.  
Pleasing, delighting रभा०

रजग. न० ( रज्जन ) (१) रँगना Colouring  
विशे० २६६१, (२) खुश करना Pleasing  
उप० ६८६ टी, सवे० ५, (३) पु० छन्द विशेष  
Name of a metre पिंग० ४ खुश करने  
वाला, राग-जनक. Pleasing, delight-  
ing कुमा०

रडा. स्त्री० ( रयडा. ) राड, विधवा Widow.

उप० पृ० ३१३, वज्जा० ४४, कप्पु० पिंग०

रध. न० ( रन्ध्र ) छिद्र, विवर Hole गा०  
६२२, रमा० भवि०

रपण न० ( तत्तण ) तनु-करण, तेज करना  
Sharpen कुमा०

रभा स्त्री० ( रम्भा ) (१) कदली, केले का पेड़  
The plantain tree सुपा० २२४,

६०२, कुप० ११७, पाअ०, (२) देवागना विगोप,  
एक अप्सरा Name of an Apsara.

सुपा० २२४, रयण० ५, (३) रावण की पत्नी  
A wife of Ravana पवम० ७४, ८

रक्ख पु० ( रक्ख ) एक जैन मुनि Name of  
a Jaina saint कप्प०

रक्खसउरी. स्त्री० ( राक्षसपुरी ) लंका-नगरी  
Lanka city से० १२, ८४

रक्खसत्थ न० ( राक्षसास्त्र ) अस्त्र-विशेष A  
kind of missile पडम० ७१, ६३

रक्खसदीव पु० ( राक्षसद्वीप ) सिंहल द्वीप  
Ceylon पडम० ५, १२६

रक्खसी स्त्री० ( राक्षसी ) लिपि-विशेष A  
particular alphabets. विशेष० ४६४ टी

रक्खी स्त्री० ( रक्खी ) भगवान् अरनाथ की मुख्य  
साध्वी A chief female saint of  
Lord Ananath प्रव० ८

रघुस पु० ( रघुप ) हरिवंश का एक राजा A  
king of Hari lineage पडम० २२, ६६

रच्छा. स्त्री० ( रच्छ्या ) मोहल्ला Street, lane  
गा० ११६, कस०

रच्छामय पु० ( रच्छ्यामय ) श्वान, कुत्ता Dog  
दे० ७, ४

रजक-ग पु० स्त्री० ( रजक ) धोबी, कपड़ा धोने  
का धधा करने वाला Washerman आ०

१२, दे० ५, ३२

रज्जपालिया स्त्री० ( राज्यपालिका ) एक जैन  
मुनि-शाखा A branch of Jaina  
saints कप्प०

रद्विअ त्रि० (राष्ट्रीय) (१) देश सम्बन्धी Relating to the country, national  
(२) पुं० नाटक की भाषा में राजा का साखा  
The brother-in-law of a king  
अभि० ११४.  
रद्वरद्विय न० (रद्वरद्वित) शब्द-विशेष, वाद्य  
विशेष का आवाज A particular  
sound सुपा० २०  
रद्वुा स्त्री० (रद्वुा) छन्द-विशेष A kind of  
metre. पिंग०  
रद्य० पु० (रद्य) शब्द, आवाज Sound,  
noise. पाद्य०  
रद्यकार पु० (रद्यकार) शब्द-विशेष A  
kind of sound, a rattling or  
jungling sound गडड०  
रद्यखभंडर न० (रद्यखस्तम्भपुर) अजमेर के  
समीप का एक प्राचीन नगर. An ancient  
city near Ajmer मुशि० १०३०१.  
रद्यभण्डित. त्रि० (रद्यभण्डित) रत्न मन्त्र  
आवाज करने वाला Tinkling, rattling  
सुपा० ६४१, धर्मादि० ८८  
रद्यारण-रद्यारण्य पु० (रद्यारण्य) (१)  
निश्वास, नीसास Sigh वजा० ७८, (२)  
उद्वेग, पीड़ा Affliction सुर० ४, २३०,  
पाद्य०, (३) हल्कपटा, धौलसुषय Anxiety,  
uneasiness दे० १, १३६, गडड० ककिम०  
४८  
रद्यिअ न० (रद्यित) शब्द, आवाज Sound  
सुर० १, २४८  
रद्यिर त्रि० (रद्यितृ) आवाज करने वाला  
Sounding सुपा० ३२७, गडड०  
रद्व पु० (रद्व) (१) वृक्ष विशेष हिमाल का  
पेड़ A species of trees हे० २, १०,  
(२) न० कुकुम. A kind of red  
powder (३) ताम्र, ताया Copper  
(४) सिद्ध Red lead (५) हिमाल Ver-

milion. (६) खून, रुधिर. Blood प्राय०  
रसंदण न० (रसचन्दन) लाल चन्दन.  
Red-sandal. सुपा० १८१  
रसकूड. न० (रसकूट) शिखर-विशेष Name  
of a summit राज०  
रसद्व पुं० (रसार्थ) विद्याधर वंश का एक  
राजा A king of the Vidyadhar  
family पउम० २, ४४  
रसधाउ पु० (रसधातु) कुण्डल पर्वत का  
एक शिखर. The summit of the  
mount Kundala. दीव०  
रसद्वपह. पु० (रसप्रभ) कुण्डल पर्वत का  
एक शिखर. The summit of the  
Kundala mountain दीव०  
रसदिअह न० (रसदिअह) रात-दिन,  
अहर्निश, निरन्तर Constantly, always,  
ceaselessly अक्षु० ७८  
रसदिअ-च न० (रसदिअ-च) रात-दिन,  
अहर्निश, निरन्तर By night and day,  
constantly पउम० ८, १६४, ७५, ८५  
रसदिअ त्रि० (रसदिअ) जो रात में न देख  
सकता हो वह Night-blind. प्रासु० १७५.  
रसोअ स्त्री० (रसोअ) एक नदी Name  
of a river इक०  
रमय न० (रमय) (१) सुरत, सभोग, रति-  
क्रीडा Sexual intercourse, copu-  
lation प्रब० ३८, कुमा० उप० पृ० १८७,  
(२) स्मर-कृपिका, योनि. A female  
organ कुमा०, (३) पु० जघन, नितम्ब.  
The hip and the loins पाद्य०, (४)  
छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०  
रमशिञ्ज पु० (रमशीय) नन्दीश्वर द्वीप के  
मध्य में उत्तर दिशा की ओर स्थित एक  
अजन गिरि Anjanagiri situated  
on the north of Nandishvara  
Dvipa प्रब० २६३, टी

रमणी स्त्री० ( रमणी ) एक पुष्करिणी A large well इक०  
 रमा स्त्री० (रमा) लक्ष्मी, श्री Name of Lakshmi कुमा० ३  
 रमिञ्च त्रि० (रमित) रमाया हुआ Absorbed कुमा० ३, ८६  
 रमिर त्रि० (रन्तु) रमण 'करने वाला Meriy-maker कुमा०  
 रम्प पु० (रम्य) चम्पक का पेड़ The tree called Chamaka से० ६, ४७  
 रय पु० न० (रजस्) (१) पराग, पुष्प राज The dust or pollen of flowers. से० ३, ४८, (२) साख्य दर्शन में उक्त प्रकृति का एक गुण The second of the three Gunas or constituent qualities of all material substances कुम० २१, —स्सला स्त्री० (स्वला) ऋतुमती स्त्री A woman during the menses. दे० १, १२५, —हर पु० न० (हर) जैन मुनि का एक उपकरण A whisk of a Jaina saint सबोध० १५  
 रय त्रि० (रत) (१) स्थित Situated से० ६, ४२, (२) न० रति-कर्म, मैथुन Sexual union, coition वर० गा० १५५, स० १८०, वज्रा० १००, सुपा० ४०३  
 रय पु० (रय) वेग Speed, velocity कुमा० से० २, ७, सण०  
 रयण. त्रि० (रचन) करने वाला, निर्माता Creator, former सण०  
 रयण पु० न० (रत्न) (१) श्रेष्ठ, स्वजाति में उत्तम Anything best or excellent of its kind कुमा० ३, ४७, (२) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०, (३) पु० रत्न द्वीप का निवासी An inhabitant of Ratna Dvīpa पत्रम० ५५, १७  
 रयणुडर न० (रत्नपुर) नगर-विशेष Name

of a city सण०

रयणचित्त पु० (रत्नचित्र) विद्याधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar race पत्रम० ५, १५

रयणप्पभिय त्रि० (रत्नप्रभिक) रत्नप्रभा सम्बन्धी Relating to Ratnaprabha. पत्र० २, ६६

रयणमाला. स्त्री० (रत्नमाला) छन्द विशेष. Name of a metre अजि० २४

रयणमालि. पु० (रत्नमालिन्) विद्याधर वंश में उत्पन्न नमि राज का एक पुत्र Name of a son of Namiraja, born in the Vidyadhar lineage पत्रम० ५, १४

रयणरह पु० (रत्नरथ) विद्याधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar race. पत्रम० ५, १४

रयणवइ पु० (रत्नपति) रत्नों का मालिक, धनी, श्रीमत् An owner of jewels, A wealthy man सुपा० २६६

रयणवई स्त्री० (रत्नवती) एक रानी Name of a queen सयण० ३

रयणवज्ज पु० (रत्नवज्र) विद्याधर वंशीय एक राजा A king of the Vidyadhar race. पत्रम० ५, १४

रयणसमया स्त्री० (रत्नसमया) मंगलावती नामक विजय की एक राजधानी A capital of Mangalavati region. इक०

रयणसार पु० (रत्नसार) (१) एक राजा. Name of a king राज०, (२) एक सेठ का नाम Name of a wealthy man. उप० ७२८ टी

रयणसिंह पु० (रत्नसिंह) एक जैन आचार्य. Name of a Jaina Acharya सवे० १२

रयणसिंह पु० (रत्नशिख) एक राजा. Name of a king वप० १०३१ टी

रथगायत्रसुत्र पु० ( रत्नाकरसुत ) ( १ )  
 चन्द्रमा Moon. ( २ ) एक वणिक् पुत्र  
 Name of a Banua's son आ० १६.  
 रथगावलि-ली स्त्री० ( रत्नावलि-ली ) एक  
 विद्याधर राज-कन्या Name of a prin-  
 cess of the Vidyadhar king  
 पठम० ६, १२  
 रथगावह. न० ( रत्नावह ) नगर-विशेष  
 Name of a city महा०  
 रथगासव पु० ( रत्नाश्रव ) रावण का पिता  
 Name of the father of Ravana  
 पठम० ७, १६-७१, —सुत्र पु० ( सुत )  
 रावण An epithet of Ravana  
 पठम० ८, २२१  
 रथशिद. पु० ( रत्नीन्द्र ) चन्द्रमा Moon  
 सण०  
 रथशी स्त्री० ( रत्नी ) ( १ ) औषधि विशेष A  
 kind of medicine. ( २ ) हरिद्रा, हल्दी  
 Turmeric उत्तनि० ३  
 रथशीसार न० ( रत्नीसार ) सुरत, मैथुन  
 Sexual-intercourse, copulation,  
 से० ३, ४८  
 रथत-य न० ( रत्त ) ( १ ) एक देव विमान  
 A particular celestial/aerial car  
 देवेन्द्र० १३१, ( २ ) हाथी का दात Ivory  
 ( ३ ) हार, माला A garland, A pearl  
 ornament or necklace ( ४ ) सुवर्ण,  
 सोना Gold. ( ५ ) रुधिर, खून Blood  
 ( ६ ) शैल, पर्वत Mountain ( ७ ) धवल  
 वर्ण White colour ( ८ ) शिखर विशेष  
 Name of a summit ( ९ ) सफेद वर्ण  
 वाला, श्वेत Whitish प्राक्० १२, प्राप्र०  
 हे० १, १७७-१८०-२०६  
 रथय पु० ( रत्क ) घोषी Washerman.  
 स० २८६, प्राप्र०  
 रथाविय त्रि० ( रचित ) हुआ

Caused to make स० ४३५  
 रवण न० ( रवण ) आवाज़ करना Sound-  
 ing 'रवणसीला जाली' महा०  
 रवि त्रि० ( रविद् ) आवाज़ करने वाला.  
 Thunderer, crier से० २, २६१  
 रवि पु० ( रवि ) ( १ ) राक्षस वंश का एक राजा  
 Name of a king of the demon  
 family पठम० ५, २६२, ( २ ) अर्क वृक्ष,  
 आक का पेड़, Name of a shrub. हे०  
 १, १७२, —वार पु० ( वार ) दिन विशेष,  
 रविवार Sunday कुम० ४११, —हास.  
 पु० ( हास ) सूर्यहास खड्ग A particular  
 weapon पठम० १३, २७  
 रविनेत्र पु० ( रवितेजस् ) ( १ ) इक्ष्वाकु वंश  
 का एक राजा Name of a king of the  
 Ikshvaku family पठम० ५, ४, ( २ )  
 राक्षस वंश का एक राजा, एक लक्षेश Name  
 of a king of the demon lineage.  
 पठम० ५, २६५  
 रवितेया स्त्री० ( रवितेजा ) एक विद्या. A par-  
 ticular magical-skill पठम० ७, १४१  
 रविन्दरा पु० ( रविन्दन ) शनि-ग्रह  
 The planet saturn आ० १२  
 रविष्पम पु० ( रविष्म ) वानर द्वीप का एक  
 राजा Name of a king of Vanara  
 Dvīpa पठम० ६, ६८  
 रविमत्ता स्त्री० ( रविमत्ता ) एक महौषधि  
 A particular medicine ती० ५  
 रविभास पु० ( रविभास ) खड्ग-विशेष,  
 सूर्यहास खड्ग A kind of sword  
 पठम० १५, २६  
 रविसुत्र पु० ( रविसुत ) ( १ ) शनिश्चर ग्रह  
 The planet saturn से० ८, २८, सुपा०  
 ३६, ( २ ) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुग्रीव.  
 Sugriva, a general of Rama  
 Chandra से० १५, २६



रस पु० न० (रस) निव्यन्त, निचोड, सार  
Essence दसनि० ३, १६.  
रस पु० न० (रस) (१) स्वभाव, प्रकृति.  
Nature से० ४, ३२, (२) साहित्य शास्त्र  
प्रसिद्ध शब्दार्थ आदि नव रस (In poetic  
compositions ) A sentiment  
धर्मवि० १३, सिरि० ३६, (३) जल, पानी  
Water. से० २, २७, धर्मवि० १३, (४)  
आसक्ति, दिलचस्पी Attachment  
सत्त० २३, गडड०, (५) अनुराग, प्रेम  
Affection, love पाञ्च०, (६) पारद,  
पारा Mercury. निसी० चू० १३, (७)  
छन्द शास्त्र प्रसिद्ध प्रस्तर विशेष A  
poetical Shastria पिंग०  
रसगाणी स्त्री० (रसना) मेखला, काची Belt,  
girdle, waist-band पाञ्च० गडड० से०  
१, १८  
रसा. स्त्री० (रसा) पृथिवी, धरती Earth  
हे० १, १७७, १८०, कुमा०  
रसाल पु० (रसाल) आम्र वृक्ष, आम का  
पेड Mango tree सम्मत्त० १७३  
रसिआ स्त्री० (रसिका) छन्द-विशेष Name  
of a metre पिंग०  
रसिंद पु० (रसेन्द्र) पारद, पारा Mercury  
जो० ३, श्रु० १५८  
रसिर त्रि० (रसितृ) आवाज़ करने वाला  
Sounding सण०  
रसिस. पु० स्त्री० (रसिम) रस्ती, रज्जु  
String, cord, rope प्रासू० ११७  
रह पु० (रथ) एक जैन महर्षि Name of  
Jaina saint कल्प०  
रहइ अ० (रमसा) वेग से Speedily स०  
७६२  
रहगा पु० स्त्री० (रथाङ्ग) (१) चक्रवाक पक्षी  
The ruddy goose पाञ्च० सुर० ३,  
२४७, कुमा०, (२) न० चक्र, पहिया

Wheel पाञ्च०

रह्या न० (रहन) (१) त्याग Renuncia-  
tion (२) विरति, विराम Pause, stop  
'वसरह्या' पिंग०

रहवीरउर न० (रथवीरपुर) एक नगर,  
Name of a city राज० विशे० २५५०.

रहस. पु० (रमस) (१) औत्सुक्य, उत्कण्ठा  
Eagerness, zeal (२) वेग Speed-  
कुमा०, (३) हर्ष Delight (४) पूर्वापर का  
अविचार To precipitate, haste सचि०  
७, गडड०

रहस्स न० (रहस्य) (१) तत्व, तात्पर्य,  
भावार्थ Purport, meaning ओष०  
७६०, रमा० १६, (२) अपवाद-स्थान.  
Exception बृह० ६

रहु पु० (रघु) (१) सूर्य वंश का एक स्वनाम  
ख्यात राजा. Name of a celebrated  
king of the solar race उत्तर० ५०;  
(२) श्रीरामचन्द्र Shree Rama Chan-  
dia पत्रम० ११३, २१, (३) कालिदास  
प्रणीत एक संस्कृत काव्य ग्रन्थ A sanskrit  
volume made by Kalidas गडड०

राइ त्रि० (रागिन्) राग युक्त, राग-वाला.  
Full of love, passionately fond  
of दसा० ६

राइ त्रि० (राजिन्) शोभने वाला Shin-  
ing, beautiful वच० १

राइअ. त्रि० (राजित) शोभित Beautiful,  
lovely से० १, ५६, कुमा० ६, ६३

राइआ स्त्री० (राजिका) (१) राई का पेड  
The mustard plant गा० १७१ अ०,  
(२) राई Mustard कुमा० ४५

राइद पु० (राजेन्द्र) बड़ा राजा Supreme  
king, paramountsovereign कुमा०

राइक त्रि० (राजकीय) राज-सम्बन्धी Poli-  
tical, regal हे० २, १४८, कुमा०

- राइल त्रि० ( रागिन् ) राग-युक्त Full of tune देवेन्द्र० २७८
- राईमई स्त्री० ( राजीमती ) राजा उग्रसेन की पुत्री और भगवान् नेमिनाथ की पत्नी Name of the daughter of king Ugrasena or the wife of Lord Neminath पढि०
- राईव न० ( राजीव ) कमल, पद्म. A blue lotus पात्र० हे० १, १८०
- राउत्त पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, क्षत्रिय Kshatriya प्राक० ३०
- राउल्लिय त्रि० ( राजकुलिक ) राजकुल सबन्धी Relating to the royal family सुप० २, ३१
- राएसि पु० ( राजर्षि ) (१) श्रेष्ठ राजा The excellent king (२) ऋषि तुल्य राजा, सयतास्मा भूपति A saint-like king अभि० ३६, विक्र० ६८, मोह० ३
- राजस्त त्रि० ( राजस ) रजोगुण प्रधान Endowed with the kingly attributes कुप्र० ४२८
- राडि स्त्री० ( राटि ) चिह्नाहट Cly, noise. सुख० २, १५
- राढा, स्त्री० ( राढा ) (१) विभूषा Lustre, light धर्मस० १०१८, कप्पू०, (२) भव्यता Excellence बजा० १८, (३) बगाल का एक प्रान्त Name of a district in Bengal (४) बगाल देश की एक नगरी Name of a city in Bengal कप्पू०, —इत्त त्रि० ( वत् ) भव्य आत्मा A pious soul बजा० १८
- राण पु० ( राजन् ) राणा, राजा King, ruler चड० सिरि० ११४
- राण्य पु० ( राजक ) (१) राणा, राजा Sovereign नी० १५, सिरि० १२३, १२५, (२) छोटा राजा Petty king,
- petty-prince. सिरि० ६८६, १०४०
- राण्यआ-राणी स्त्री० ( राजिका-राज्ञी ) रानी, राज-पत्नी Queen कुम्मा० ३, श्रावक० ६३ टी, सिरि० १२५, २६७
- राम पु० ( राम ) (१) श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का बड़ा पुत्र Shree Rama Chandra गा० ३५, उप० पृ० ३७५, कुमा०, (२) त्रि० रमने वाला Playfull, Merry-maker उप० पृ० ३७५
- रामकरह. पु० ( रामकृष्ण ) राजा श्रेणिक का एक पुत्र Name of a son of king Shrenika राज०
- रामगिरि पु० ( रामगिरि ) पर्वत-विशेष Name of a mountain पडम० ४०, १६
- रामपुरी स्त्री० ( रामपुरी ) अयोध्या नगरी Ayodhya city. ती० ११
- रामशिजात्र. न० ( रामशीयक ) रमशीयता, सौन्दर्य, Elegance, Beauty विक्र० २८
- रामा स्त्री० ( रामा ) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०
- रामिअ त्रि० ( रमित ) रमण कराया हुआ Caused to play or amuse oneself with गा० ५६, पडम० ८०, १६
- रामेसर पु० ( रामेश्वर ) दक्षिण भारत का हिन्दु-तीर्थ A holy place of Hindus in southern India सम्मत्त० ८४
- राय पु० ( राग ) (१) मत्सर, द्वेष Envy देवेन्द्र० २७८, (२) रगना, रजन Colouring, (३) वर्णन Description, (४) अनुराग Affection, love (५) चन्द्र, चाद Moon, (६) लाल वर्ण Red colour (७) लाल रग वाली वस्तु, Red thing (८) वसन्त आदि स्वर A musical tune हे० १, ६८
- राय पु० ( राजन् ) (१) चन्द्र, चन्द्रमा

Moon आ० २७, हम्मीर० ३, धर्मवि० ३,  
 (२) एक महाग्रह. Name of a great  
 planet (३) इन्द्र India (४) क्षत्रिय  
 Kshatriya. (५) यक्ष Demi-god  
 (६) शुचि, पवित्र Purity (७) श्रेष्ठ,  
 उत्तम. The best or most excellent  
 हे० ३, ४६, ५०, ( ८ ) इच्छा, अभिलाष  
 Desire, wish से० १, ६, (९) छन्द-  
 विशेष Name of a metre. पिंग०  
 —चाडियावाडी. स्त्री० ( पाटिका-पाटी )  
 चतुरग सैन्य-श्रम-करण, राजा की सवारी  
 A procession of a king accom-  
 panied by a huge retinue of  
 elephants, chariots, cavalry and  
 infantry कुमा० कुप्र० ११६-१२०, सुपा०  
 २२२, —सिट्टि पु० ( श्रेष्ठिन् ) नगर सेठ  
 The leading person in a town  
 भवि०, —सेण पु० ( सेना ) छन्द-विशेष  
 Name of a metre पिंग०  
 रायईत्र त्रि० ( राजकीय ) राज-सम्बन्धी  
 Political, regal प्राक० ३५  
 रायउत्त पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, राज-कुमार  
 Prince, Kshatriya सुर० ३, १६५,  
 रायकेर-रायक त्रि० ( राजकीय ) राज-सम्बन्धी,  
 Political, regal. हे० २, १४८, कुमा०  
 पद०  
 रायचपय पु० ( राजचम्पक ) वृक्ष विशेष,  
 उत्तम चम्पक वृक्ष The best Cham-  
 paka tree आ० १२  
 रायणी स्त्री० ( राजधानी ) खिली, खिरनी का  
 पेड़ A kind of tree पडम० ५३, ७६  
 रायधाणी स्त्री० ( राजधानी ) राजनगर, राजा  
 का मुख्य नगर Capital नाट-सैत० १३२.  
 रायसेहर पु० ( राजशेखर ) (१) महादेव, शिव  
 Mahadeo, Shiva (२) एक राजा  
 Name of a king. सुपा० ५२६, (३)

एक कवि Name of a poet कल्प०  
 राव पु० ( राव ) ( १ ) रौला, कलकल.  
 Scream, shriek पाञ्च०, ( २ ) पुकार,  
 आवाज़ Sound, cry सुपा० ३४८, कुमा०  
 रावित्र त्रि० ( रञ्जित ) रगा हुआ Colour-  
 ed हे० ७, ५  
 रासह पु० स्त्री० ( रासम) गर्दभ, गदहा Ass,  
 donkey पाञ्च० प्राप्र० २भा०  
 रासाणदित्रय, न० ( रासानन्दितक ) छन्द-  
 विशेष Name of a metre अजि० १२  
 रासालुब्धय पु० ( रासालुब्धक ) छन्द-विशेष.  
 A particular metre अजि० १०  
 राह पु० ( राध ) (१) वैशाख मास Month  
 called Vaishakha (२) वसन्त ऋतु.  
 Spring season से० १, १३, (३) एक  
 जैन आचार्य Name of a Jaina  
 Acharya उप० २८५, सुख० २, १५  
 राहुत्र-व पु० ( राघव ) ( १ ) रघु वंश में  
 जन्म One who is born in the  
 Raghu lineage उत्तर० २०, (२) श्री  
 रामचन्द्र An epithet of Shree  
 Rama Chandra से० १२, २२, १,  
 १३-४७  
 राहा स्त्री० ( राधा ) (१) वृन्दावन की एक  
 प्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी Name of  
 a celebrated Gopi, or cowherd's  
 madam loved by Krishna वजा०  
 १२२, पिंग०, (२) राधावेध में रक्ती जाने वाली  
 पुतली A idol or doll which is  
 used in place of a target in arrow  
 shooting उप० ५०, १३०, (३) शक्ति-विशेष.  
 A kind of strength (४) कर्ण का  
 पालन करने वाली माता. Name of the  
 foster-mother of Karna प्राक० ४२,  
 — मंडव. पु० ( मंडप ) जहा पर राधावेध  
 किया जाय A place where from

the pupil of an eye of an image is aimed at सुपा० २६६.

रहिआ-राही स्त्री० ( राधिका ) देखो 'राहा' शब्द, Vide 'गहा' गा० ८६, हे० ४, ४४२, प्रा० ४२

राहेत्र पु० ( राधेय ) राधा-पुत्र, कर्ण An epithet of Karna गड०

रिअ ( रे ) समापण सूचक अव्यय A vocative participle तदु० ५०-५२ टी

रिड त्रि० ( ऋजु ) ( १ ) सरल, सीधा Straight सुपा० ३४६, ( २ ) न० विशेष पदार्थ, सामान्य भिन्न वस्तु ( In logic ) Individuality (opp. सामान्य) प्रब० २७०, —सुत्त पु० ( सूत्र ) नय विशेष Name of a Naya Sutra विशेष २२३१, २६०८

रिडमहण पु० ( रिपुमथन ) राक्षस वश का एक राजा Name of a king of the demon family पडम० २, २६३

रिखण न० ( रिहण ) सर्पण, गति, चाल Crawling, creeping पडम० २२, १२

रिखि त्रि० ( रिह्निन् ) चलने वाला Crawling, creeping पिंड० ४७१

रिगण न० ( रिहण ) चलना, सर्पण Crawling, creeping प्रब० २

रिगिअ न० ( रिहित ) ( १ ) रींगना, कच्छप की तरह हाथ के बल चलना Creeping like a tortoise on hands ( २ ) गुरु वन्दन का एक दोष A fault in bowing to the preceptor गुभा० २४०

रिखण पु० ( ऋज ) भालु, श्वापद-प्राणिविशेष Bear हे० २, १६

रिखराज पु० ( ऋचराज ) वानर वश का एक राजा Name of a king of the Vnara race पडम० ८, २३४

रिट्ट, पु० ( अरिष्ट ) ( १ ) अरिष्ट, इरित Sin

पड० पि० १४२, ( २ ) दैत्य-विशेष Name of a demon. पड० से० १, ३

रिट्टमणि पु० ( रिष्टमणि ) श्याम रत्न-विशेष. A particular black jewel सिरि० ११६०

रिट्टा स्त्री० ( रिष्टा ) मदिरा, दारु Liquor, wine राज०

रिट्टि स्त्री० ( रिष्टि ) ( १ ) खड्ग, तलवार. Sword दे० ७, ६, ( २ ) अशुभ Inauspicious ( ३ ) पु० रन्ध्र, विवर Hole. सचि० ३

रिथ. न० ( ऋथा ) ( १ ) जल, पानी Water. ( २ ) दुर्ग, किला Fort. ( ३ ) दुर्गभूमि. Strong hold ( ४ ) आवश्यक कार्य, फर्ज An important deed, duty. ( ५ ) कर्म Deed. हे० १, १४१, प्रा०

रिथिअ त्रि० ( ऋथित ) कर्जदार, अधमर्था. Debtor. कुप्र० ४३६

रिथ न० ( रिथ ) धन, द्रव्य. Wealth, riches उप० ५२०, पात्र० स० ६०, सुख० ४, ६, महा०

रिद्धि स्त्री० ( ऋद्धि ) ( १ ) वृद्धि Increase, growth ( २ ) देव विशेष Name of a god ( ३ ) औषधि-विशेष A kind of medicine हे० १, १२८, २, ४१, पचा० ८, ( ४ ) छन्द-विशेष. Name of a metre. पिग०

रिद्धिसुदरी स्त्री० ( ऋद्धिसुन्दरी ) एक वशिष् कन्या Name of a Bania's daughter उप० ७२८, टी

रिरंसा स्त्री० ( रिरसा ) रमण की चाह, मैथुनेच्छा Thuring Lux for a sexual intercourse अज्ज० ७६

रीह स्त्री० ( रीति ) प्रकार, ढंग, पद्धति Method, manner 'निच नवनवरीहई' धर्मवि० ३२, कप्प०

रीडण. न० (मयहन) अलकरण Decorating, ornamenting कुमा०  
 रीण त्रि० (रीण) (१) क्षित, स्तुत. Oozed, 'dripped (२) पीडित Afflicted. भत्त० २  
 रीरिभ्र त्रि० (राजित) शोभित. Beautiful कुमा०  
 रीरी स्त्री० (रीरी) धातु विशेष, पीतल Brass कुप० ११, सुपा १४२  
 रुअती स्त्री० (रुदती) वल्ली-विशेष A kind of creeper. सबोध० ४७  
 रुअगुत्तम न० (रुचकोत्तम) कूट-विशेष Name of a summit. इक०  
 रुअण न० (रोदन) रुदन, रोना Weeping सबोध० ४  
 रुआ स्त्री० (रुज्) रोग, बीमारी. Disease उव० धर्मस० १६८.  
 रुआविभ्र त्रि० (रोदित) रुलाया हुआ Caused to weep गा० ३८६  
 रुइ स्त्री० (रुचि) कान्ति, प्रभा, तेज Lustie, brilliance सुर० ७, ४, कुमा०, (२) आसक्ति Close application to any object प्रालू० १६६, (३) शोभा Beauty, elegance (४) बुभुक्षा, खाने की इच्छा Desire of eating, hunger. (५) गोरोचना A bright yellow pigment prepared from the urine or bile of a cow पद०  
 रुइअ त्रि० (रुचित) (१) असीष्ट, पसद Agreeable सुर० ७, २४३, महा०, (२) पु० न० विमान विशेष, एक देव विमान A particular celestial aerial car देवेन्द्र० १३२  
 रुइर. त्रि० (रुचिर) (१) दीप्त, कान्ति-युक्त Bright, shining, brilliant. तद्० २०, (२) पु० न० एक विमानेन्द्रक, देवविमान विशेष Name of a celestial aerial

car. देवेन्द्र० १३१.

रुचण न० (रुञ्ज) रुई से कपास को अलग करने की क्रिया Act of separating cotton-seeds from cotton पिंड० १८८.

रुजिय. न० (रवण) शब्द, आवाज़, गर्जना Sound, cry स० ४२०

रुटिभ्र न० (रुत्त) गुंजारव, आवाज Sound, humming of bees 'रुटिभ्र अलिविभ्र' पाद्य० कुमा०

रुडः पु० न० (रुड) विना सिर का धड़, कन्ध Headless-body, trunk. 'पडिया य मुडरुडा' कुप० १३१, गडड० भवि० सण०

रुधिभ्र. त्रि० (रुद्ध) रोका हुआ Stopped, prevented कुमा०

रुभय त्रि० (रोधक) रोकने वाला Stopper, checker स० ३८१

रुभाविभ्र त्रि० (रोधित) रुकवाया हुआ, बंद किया हुआ Stopped, prevented आ० २७

रुभिभ्र त्रि० (रुद्ध) रोका हुआ Stopped हेका० ६६, सुपा० १२७

रुक्खसत्थ. न० (वृक्षशास्त्र) वनस्पति शास्त्र Vanaspati Shastra pertaining to the agricultural science स० ३११

रुक्खिम. पु० स्त्री० (वृक्षत्व) वृक्षपन Grassy, green पद०

रुग त्रि० (रुण) भंगन, तोड़ा हुआ Broken, shattered पाद्य० गडड० १६१

रुज्ज न० (रोदन) रुदन, रोना Weeping गा० ८४३

रुज्जिभ्र त्रि० (रुद्ध) रोका हुआ. Stopped, prevented कुमा०

रुद्र. पु० (रुद्र) नरकावास-विशेष A particular hell देवेन्द्र० २८

रुद्र. पु० (रुद्र) (१) जिन देव, जिन भगवान् Jindeo पदम० १०६, १२, (२) अगविद्या का जानकार पुरुष. A man knowing the science of foretelling good or evil by the movement of limbs विचार० ४८४

रुद्रवृक्ष पु० (रुद्राक्ष) वृक्ष-विशेष. A kind of tree पदम० १२, ७६

रुद्राणी स्त्री० (रुद्राणी) शिव-पत्नी, दुर्गा The wife of Rudra, name of parvati ससु० १२४

रूप न० (रुक्म) (१) कान्चन, सोना Gold (२) लोहा, Iron (३) धतूरा A kind of tree (४) नागकेसर Name of a tree of fragrant flowers प्रा०

रुप्पियी स्त्री० (रुक्मिणी) (१) द्वितीय वासुदेव की एक पटरानी The crowned queen of second Vasudeo पदम० २०, १८६, (२) एक श्रेष्ठि-पत्नी Name of a wife of a wealthy man. सुपा० ३३४

रुचण न० (रोदन) रोना Weeping रूप० ३३५

रुचणा स्त्री० (रोचना) आरोपणा, प्रायश्चित्त का एक भेद A kind of expiation वच० १

रुसा स्त्री० (रोष) रोष, गुस्सा Wrath, rage हुमा०

रुहण न० (रोधन) निवारण Checking, confining वच० १

रुद्र पु० (रूप) (१) आकृति, आकार Form, figure गा० १३२, (२) त्रि० सद्य, तुल्य Like, similar दे० ६, ४६ रुद्राग-य. पु० न० (रूपक) रूपया A

particular coin, rupee. हे० ४, ४२२.

रुद्रामाला स्त्री० (रूपमाला) रुद्र-विशेष Name of a metre पिंग०

रुद्र त्रि० (रुद्र) प्रगुण, तदुरुस्त Healthy पात्र०

रुद्रि स्त्री० (रुद्रि) परम्परा से आने वाली प्रसिद्धि Tradition, custom, usage सुपा० ६१६, कव्यू०

रूप पु० (रूप) पशु, जानवर Animal, मृच्छ० २००

रूपि पु० (रूपिन्) शोनिक, कसाई Butcher मृच्छ० २००

रूप पु० न० (रूप) (१) शब्द, नाम, Sound, word (२) श्लोक, Hymn or verse (३) नाटक आदि दृश्य कान्य Drama, play हे० १, १४२

रुख. पु० न० (रूप) Vide एक, एक की संख्या The number one, an arithmetical unit. क० ग० ४, ७७-७८-७९-८०-८१

रुचग पु० न० (रूपक) साहित्य प्रसिद्ध एक अलंकार (In Rhet) A figurative speech corresponding to the English metaphor, in which the Upmeya is represented as being identical with the Upamena सुर० १, २६, विशेष० ६६६ टी

रुसण न० (रोषण) (१) रोष, गुस्सा Wrath, anger गा० ६७५, हे० ४, ४१८, (२) त्रि० गुस्साखोर, रोष करने वाला Wrathful, angry. सुख० १, १४, संबोध० ४८

रुसिञ्ज त्रि० (रुद्र) रोष-युक्त Angry, wrathful सुख० १, १३-१६

रे अ० (रिं) (१) परिहास Joking, jesting (२) अपिचेप Insulting सच्चि०

४७, (३) सभाषय. Conversation हे०  
२, २०१, कुमा०, (४) आक्षेप Blame,  
abuse सच्चि० ३८, (५) तिरस्कार  
Censure, contempt प्रव० ३८,  
रेञ्ज पु० ( रेतस् ) वीर्य, शुक्र Semen  
virile. राज०  
रेञ्जविञ्ज त्रि० ( मुक्त ) छोड़ा हुआ, त्यक्त  
Abandoned, gave up कुमा० दे०  
७, ११  
रेञ्जा, स्त्री० ( रै ) ( १ ) धन Wealth,  
riches (२) सुवर्ण, सोना Gold पङ्०  
रेञ्जित त्रि० ( रञ्जित ) रिक्त किया हुआ  
Emptied, cleared से० ७, ३१  
रेभ पु० ( रेफ ) ( १ ) 'र' अक्षर, रकार The  
letter 'r' कुमा०, (२) दुष्ट Vicious,  
wicked (३) अधम, नीच Vilest,  
meanest (४) क्रूर, निर्दयी Cruel  
(५) कृपण Poor, indigent. हे० १,  
२३६, पङ्०  
रेवइय न० ( रेवतिक ) एक उद्यान का नाम.  
Name of a garden कप्प०  
रेवत पु० ( रेवन्त ) सूर्य का एक पुत्र, देव-  
विशेष Name of the sun's son.  
'रेवततणुभवा इव' धर्मवि० १४२, सुपा० ५६.  
रेवा स्त्री० ( रेवा ) नदी-विशेष, नर्मदा Name  
of the river Narmada गा० ५७८,  
पाञ्च० कुमा० प्रासू० ६७  
रेहा. स्त्री० ( रेखा ) छन्द-विशेष Name of a  
metre पिंग०  
रेहा. स्त्री० ( राजना ) शोभा, दीप्ति Brill-  
iance, elegance कप्प०  
रेहिञ्ज त्रि० ( राजित ) शोभित Adorned,  
decorated सुर० १०, १८६  
रेहिर-रेहिल्ल त्रि० ( राजितृ ) शोभने वाला.  
Beautiful सुर० १, ५०, सुपा० ५६,  
'नयरे नयरेहिल्ले' उप० ७२८, टी

रेहिर त्रि० ( रेखावत् ) रेखा वाला Having  
lines हे० २, १५६  
रेञ्ज पु० ( रोच ) रुचि Taste, liking.  
चेइय० २६०  
रोञ्जण न० ( रोदन ) रोना, रुदन, Weeping-  
दे० ५, १०, कुप्र० २३५, २८६  
रोञ्जण पुं० ( रोचन ) ( १ ) एक दिग्-हस्ति  
कूट Name of a summit इक०, (२)  
न० गोरोचन A bright yellow pig-  
ment prepared from the urine  
or bile of a cow गडड०  
रोञ्जणा स्त्री० ( रोचना ) गोरोचन A bright  
yellow pigment prepared from  
the urine or bile of a cow से०  
११, ४५, गडड०  
रोञ्जाविञ्ज त्रि० ( रोदित ) रुलाया हुआ Cau-  
sed to weep गा० ३५७, सुपा० ३१७.  
रोइर त्रि० ( रोदितृ ) रोने वाला Weep-  
ing गा० ३८६, पङ्०  
रोमिञ्ज त्रि० ( रोगिक ) बीमार Sick, ill.  
सुपा० ५७६  
रोमचइञ्ज-रोमचिञ्ज त्रि० ( रोमान्चित )  
पुलकित, जिसके रोम खड़े हुए हों With  
the hair erect or thrilled with  
joy or fear पडम० ३, १०४, १०२, २०३,  
पाञ्च० भवि०  
रोमथ. पु० ( रोमन्थ ) पगुराना, चवी हुई  
वस्तु का पुन चबाना Ruminating,  
chewing the cud से० ६, ८७, पाञ्च०  
सण०  
रोमय पु० ( रोमज ) पक्षि-विशेष, रोम की पक्ष  
वाला पक्षी A kind of bird जी० ३२.  
रोमस. त्रि० ( रोमश ) रोम-युक्त, रोम वाला-  
Having hairs हे० ३, ११, पाञ्च०  
रोलव पु० ( रोलन्व ) अमर, मधुकर Bee  
दे० ७, २, कुप्र० ५८

रोला. स्त्री० ( रोला ) छन्द-विशेष A kind of metre पिंग०  
 रोवण न० ( रोदन ) रोना. Weeping. सुर० २, ७६.  
 रोवण न० (रोपण) वपन, बोना Planting, sowing वव० १  
 रोविर त्रि० (रोपयित्) बोनेवाला. Planter हे० २, १४५.  
 रोसविभ्र त्रि० (रोपित) कोपित, कुपित किया हुआ. Annoyed पदम० ११०, १३  
 रोह पु० ( रोध ) (१) रुकावट, अटकाव. Stopage, Hindrance कुम० १, द्रव्य० ४६, (२) कैद, Arresting पुष्क० १८६  
 रोह पु० ( रोधस् ) तट, किनारा Bank, shore पात्र०  
 रोह पु० ( रोह ) मरोह, व्रण आदि का सूख जाना To be healed or cured ( of a wound ) दे० ६, ६५  
 रोहग पु० ( रोहक ) एक नट कुमार Name of a son of a dancer उप० पृ० २१५.

रोहगुप्त पु० ( रोहगुप्त ) (१) एक जैन मुनि. Name of a Jaina saint कम्प०, (२) त्रैशिक मत का एक आचार्य Name of an Acharya विशे० २४५२  
 रोहण न० ( रोधन ) (१) अटकाव Obstacle, hinderance आरा० ७२, (२) त्रि० रोकने वाला One who prevents or stops द्रव्य० ३४  
 रोहण न० ( रोहण ) (१) चढना, आरोहण Ascending सुपा० ४३८, कुम० ३६६, (२) उत्पत्ति Production विशे० १७५३, (३) पु० पर्वत-विशेष Name of a mountain सुपा० ३२, कुम० ६, (४) एक दिग्दृष्टि Name of a summit. इक०  
 रोहित्र त्रि० ( रोधित ) घेरा हुआ Encompassed, Surrounded 'रोहियपाडलिपुर तेण' धर्मवि० ४२, कुम० ३६३, स० ६३५  
 रोहिणी स्त्री० ( रोहिणी ) (१) तप-विशेष A particular religious austerity पात्र०, (२) गौ, गैया. Cow पात्र०

## ल

ल पु० ( ल ) मूर्ध स्थानीय अन्तस्थ व्यञ्जन वर्ण-विशेष, A particular consonant प्राप्र०  
 लका स्त्री० ( लङ्का ) नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी Name of the capital and residence of Ravana से० ३, ६२, पदम० ४६, १६, कम्प०, —लय त्रि० (लय) लका निवासी An inhabitant of Lanka वज्रा० १३०  
 लकासुद्री स्त्री० ( लङ्कासुन्दरी ) हनुमान की एक पत्नी A wife of Hanuman पदम० ५२, २१.  
 लकासोग पु० ( लङ्कासोक ) राक्षस वश का एक राजा A king of the Demon-

family पदम० ५, २६५.

लगल न० ( लाङ्गल ) हल Plough 'लगलाण सया' धर्मवि० २४, हे० १, २५६, पद्म० ८०  
 लगलि पु० ( लाङ्गलिन् ) बलभद्र, बलदेव Baladeo कुमा०  
 लगली स्त्री० ( लाङ्गली ) बल्ली-विशेष, शारदी-लता A kind of creeper कुमा०  
 लगूलि त्रि० ( लाङ्गूलिन् ) पुच्छ वाला पशु. Animal कुमा०  
 लधि. त्रि० ( लङ्घिन् ) लघन करने वाला One who observes fasts कम्प०  
 लच्छिल त्रि० ( लच्छिक ) घूसखोर, रिश्वत लेकर काम करने वाला That receives-bribes वव० १



लछ्छना स्त्री० (लान्छना) चिह्न करना Sign-  
ing उप० १२२.

लड्डुअ त्रि० (लडिडत) उत्क्षिप्त Thrown  
'चदप्पवादलडुओ विअवरडो' चारु० ३

लपड त्रि० (लम्पट) (१) लोलुप, लालची,  
लुब्ध Greedy, covetous पाञ्च० सुपा०  
१०७, १६६, सुर० ३, १०

लपाग पु० (लम्पाक) देश विशेष Name  
of a country पउम० ६८, १६

लवअ न० (लम्बक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त  
लटकती हुई माला आदि A long neck-  
lace स्वप्न ६३

लवणा स्त्री० (लम्बना) रज्जु, रस्सी Rope  
स० १०१

लवि त्रि० (लम्बिन्) लटकता हुआ Hang-  
ing down गउड०

लविर त्रि० (लम्बितृ) लटकने वाला Hang-  
ing कुमा० गउड०

लवुअ त्रि० (लम्बुक) (१) लम्बी लकड़ी के  
अन्त भाग में बधा हुआ मिट्टी का डेला A  
muddy ball tied to the other end  
of a long stick (२) भीत में लगा हुआ  
ईंटों का समूह. A block of bricks set  
in a wall मृच्छ० ६

लमिअ त्रि० (लब्ध) प्राप्त Obtained,  
acquired नाट चैत० १२१

लक्खग त्रि० (लक्क) पहिचानने वाला  
Recogniser, knower पउम० ८२,  
८४, कुप्र० ३००

लक्खण पु० न० (लक्खण) (१) व्याकरण  
शास्त्र Grammar सुपा० १४१, ६२७,  
(२) व्याकरण आदि का सूत्र An aphor-  
ism of Grammar etc (३) प्रति-  
पाद्य, विषय Subject हे० २, ३, (४)  
पु० सारस पक्षी Crane 'लक्खणो' प्राक्क०  
२२, (५) कारण, हेतु Cause, reason

दसनि० ४, १४.

लक्खणा स्त्री० (लक्खणा) (१) शब्द वृत्ति  
विशेष, शब्द की एक शक्ति जिससे मुख्य अर्थ  
के बाध होने पर भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति  
होती है An indirect application of  
a word, one of the qualities of  
a word which expresses its zeal  
through its different meanings  
दे० १, ३, (२) एक महौषधि A kind of  
medicine ती० ४

लक्खणा स्त्री० (लक्खणा) एक यमात्य की  
स्त्री Wife of a minister उप० ७२८,  
टी

लक्खणिय त्रि० (लक्खणिक) (१) लक्खणों का  
जानकार One who is acquainted  
with mark or signs (२) लक्खण युक्त-  
Characteristic सुपा० १३६

लक्खिअ त्रि० (लक्खित) जाना हुआ.  
Known (२) पहिचाना हुआ Charac-  
terized, marked (३) देखा हुआ.  
Observed, beheld गउड० नाट-रत्ना०  
१४

लग्ग पु० (लग्ग) स्तुति-पाठक Bard,  
minstrel हे० २, ६८

लग्गाण न० (लग्गण) लग, सम्बन्ध Rela-  
tion 'बडपायसाहालमाण्ये' सुर० ११, १४,  
उप० १३४, १३८

लग्गाण्य पु० (लग्गण) प्रतिभू, जामिन  
Surety, bail पाञ्च०

लघिम पु० स्त्री० (लघिमन्) (१) लघुता,  
लाघव Littleness, lightness (२)  
योग की एक सिद्धि The supernatural  
power of assuming excessive  
lightness at will, one of the  
eight Siddhis 'लघिम लघिमगुणयो'  
कुप्र० २७७, (३) विद्या-विशेष A kind

of magical skill पत्रम० ७, १३६  
 लच्छी स्त्री० (लक्ष्मी) (१) कान्ति Beauty, Lustie. (२) औषधि विशेष. A kind of medicine (३) फलिनी वृक्ष A kind of tree. (४) हरिद्रा Name of turmeric (५) मुक्ता, मोती, Pearl (६) रावण की एक पत्नी A wife of Ravana पत्रम० ७४, १०, (७) छन्द-विशेष A kind of metrie पिंग०, (८) एक बणिक पत्नी A Banja's wife उप० ०२८ टी  
 लच्छीनिलय पु० ( लक्ष्मीनिलय ) वासुदेव Vasudeo पत्रम० ३७, ३७  
 लच्छीमन्दिर न० ( लक्ष्मीमन्दिर ) नगर-विशेष. Name of a city सुपा० ६३२  
 लच्छीवह पु० ( लक्ष्मीपति ) लक्ष्मी का स्वामी, श्री कृष्ण. An epithet of Vishnu प्राक० ३०  
 लच्छीहर. पु० ( लक्ष्मीहर ) (१) वासुदेव Vasudeo पत्रम० ३८, ३४, (२) छन्द-विशेष Name of a metrie. पिंग०, (३) न० नगर-विशेष Name of a city इक०  
 लज्जण-लज्जाण्य न० ( लज्जन ) (१) शरम, लाज Shame सा० ८, राज०, (२) त्रि० लज्जा-कारक Causing shame, shameful. सुपा० २१५, भवि०  
 लज्जा. स्त्री० ( लज्जा, छन्द विशेष Name of a metrie. पिंग०  
 लज्जालु-लज्जालुआ लज्जालुइणी स्त्री० ( लज्जालु ) (१) लता विशेष A kind of creeper (२) लज्जा वाली स्त्री. A modest or bashful woman पद० हे० २, १५६, १७४, सुर० २, १५६, गा० १२७, प्राक० ३५  
 लज्जालुहर-लज्जालुर त्रि० ( लज्जालु ) लज्जा-शील, शरमिदा. Modest, bashful गा०

४८२, ६१२ अ०  
 लज्जर त्रि० ( लज्जितृ ) लज्जा-शील Modest, bashful हे० २, १४५, गा० १५०, कुमा० वज्जा० ८, भवि०  
 लट्टा स्त्री० ( लट्टा ) (१) वृक्ष-विशेष A kind of tree कुमा०, (२) कुसुम्भ Saflower वृह० १, (३) गौरैया, पक्षि विशेष Sparrow (४) भ्रमर, भौरा Wasp (५) वाद्य विशेष A kind of musical instrument दे० २, ५५  
 लड्डुअ-लड्डुअ पु० ( लड्डुक ) लड्डु, मोदक. A kind of sweet-meat गा० ६४१. प्रयौ० ८३, कुप्र० २०६, भवि० पत्रम० ८४, ४, पिड० ३७७  
 लड्डुआर त्रि० ( लड्डुककार ) लड्डू बनाने वाला, हलवाई One who makes sweetballs कुप्र० २०६  
 लदिअ त्रि० ( स्मृत ) याद किया हुआ Remembered, recollected पात्र०  
 लरह त्रि० ( श्लक्ष्ण ) (१) अल्प, थोडा A little (२) न० लोहा, धातु-विशेष Iron हे० २, ७७, प्राक० १८  
 लत्त त्रि० ( लत्त ) वक्त, कथित Said सुपा० २३४  
 लद्धि स्त्री० ( लद्धि ) योग्यता Fitness —पुलाअ पु० ( पुलाक ) लद्धि-विशेष-सपन्न मुनि A particular class of saint संबोध० ३८  
 लद्धिय त्रि० ( लद्धि ) प्राप्त Obtained, acquired वै० ६६  
 लद्धिज्ञ त्रि० ( लद्धिमत् ) लद्धि-युक्त Strength. पच० १, ७  
 लय पु० ( लय ) (१) स्लेप An embrace (२) मन की साम्यावस्था Mental inactivity कुमा०, (३) लीनता, तल्लीनता Sticking, adherence. (४) तिरोभाव.

Disappearance, dissolution विशेषे  
२६६६

लयग न० ( लताङ्ग ) संख्या-विशेष, चौरासी  
लाख पूर्व A particular number.  
जो० २

लया स्त्री० ( लता ) (१) प्रकार, भेद Kind  
बृह० १, (२) तप-विशेष. Kind of reli-  
gious austerity. प्रव० २७१, (३) सख्या  
विशेष, चौरासी लाख लताग परिमित सख्या  
A particular number जो० २

ललाम न० ( ललामन् ) प्रधान, नायक  
President, chief अग्नि० ६२

ललिअग पु० ( ललितङ्ग ) एक राज-कुमार  
Name of a prince उप० ६८६ टी

ललिअय न० ( ललितक ) छन्द-विशेष.  
Name of a metre अग्नि० १८

ललिअया स्त्री० ( ललिता ) एक पुरोहित की स्त्री  
Name of a priest's wife उप०  
७२८ टी.

ललङ्क पु० ( ललङ्क ) छठवीं नरक-पृथिवी का  
एक नरक स्थान An abode of the  
sixth hell देवेन्द्र० १३.

लव पु० ( लव ) लेश, अल्प, थोडा, A bit,  
a little पाश्च० प्रासू० ६६, ११८, सण०

लवण पु० ( लवण ) (१) रस विशेष, चार रस  
A kind of salt (२) सीता का एक पुत्र,  
लव. Name of a Sita's son, पठम०  
६७, १६, (२) मधुराज का एक पुत्र A son  
of Madhuraजा पठम० २७, २७.

लवणिम पु० स्त्री० ( लवणिमन् ) लावण्य.  
Beauty, grace कुमा०

लवल न० ( लवल ) पुष्प-विशेष A kind of  
flower. कुमा०

लवली स्त्री० ( लवली ) लता-विशेष. A kind  
of creeper सुपा० ३८१; कुम० २४६.

लवित्त. न० ( लवित्त ) दात्र, घास काटने का

एक औजार, An instrument for  
mowing, sickle दे० १, ८२

लविर त्रि० ( लपित् ) बोलने वाला.  
Speaker. सण०

लसिर त्रि० ( लसितृ ) (१) श्लिष्ट होने वाला.  
One who embraces (२) चमकने  
वाला, दीप्त Glittering, shining.  
से० ८, ४४

लसुण न० ( लशुन ) लहसुन, कन्द-विशेष.  
Garlic आ० २०

लहण न० ( लभन ) (१) लाभ, प्राप्ति.  
Obtaining, acquisition (२) ग्रहण,  
स्वीकार Acceptance आ० १४

लहर पु० ( लहर ) एक बणिक पुत्र Name  
of a Bania's son सुपा० ६१७

लहाविय त्रि० ( लम्भित ) प्राप्त, प्राप्त कराय  
हुआ, Caused to obtain कुम० २३२.

लहु-लहुअ त्रि० ( लहु ) तुच्छ, नि सार.  
Small, tiny (१) श्लाघनीय, प्रशसनीय.  
Praiseworthy से० १२, २३, (२) मनो-  
हर, सुन्दर. Lovely, handsome,  
beautiful हे० २, १२२, (३) न० कृष्णा-  
गुरु, सुगन्धि-धूप-द्रव्य विशेष A kind of  
Sandal-wood (४) वीरय-मूल A  
kind of fragrant root हे० २, १२२,  
(५) स्पर्श विशेष A kind of touch-  
अणुजो०, (६) पु० एक मात्रा वाला अक्षर A  
word with a sigle sign. हे० ३, १३४.

लाइअ त्रि० ( लागित ) लगाया हुआ Affixed-  
से० २, २६, वजा० २०.

लाड पु० ( लाट ) देश-विशेष. Name of a  
country सुपा० ६२८ कुम० २४४, भक्त०  
६७ टी, भवि० सण० इक०

लाथ न० ( लान ) ग्रहण, आदान. Taking,  
accepting से० ७, ६०

. पु० ( लाभ ) सूट, प्याज Interest

on money lent उप० १६७  
 लामिय-लामिह त्रि० ( लामिक ) लाम-युक्त,  
 लाम वाला Profitable कर्म० १७  
 लाय त्रि० ( लात ) (१) न्यस्त, स्थापित,  
 Established (२) न० लग्न का एक दोष  
 A defect of wedding rituals  
 सुपा० १०८  
 लाय पु० ( लाज ) (१) आर्द्र तण्डुल Wet  
 or damp rice (२) व० भुजा हुआ  
 नाल, खोई Patched or fried grain  
 कम्पू०  
 लायण न० ( लागन ) लगवाना Causing  
 to affix गा० २५८  
 लायण न० ( लावण्य ) लवणत्व, चारस  
 Salty, sou हे० १, १७७, १८०  
 लाण्य न० ( लाजन ) स्नेह-पूर्वक पालन  
 Fondling, patting पउम० २६, ८८  
 लालय न० ( लालक ) लाला, लार Saliva.  
 दे० ५, १३  
 लालिह त्रि० ( लालावत् ) लारवाला Hav-  
 ing saliva सुपा० २३१  
 लाचिर त्रि० ( लाचिर् ) काटने वाला Cutter  
 गा० ३५२  
 लास न० ( लास्य ) (१) नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध  
 नैयपद आदि A part of the Nataka-  
 shastria of Bharata, कुमा०, (२) नृत्य,  
 नाच Dance पाञ्च०, (३) स्त्री का नाच  
 Dance of a woman (४) वाद्य, नृत्य  
 और गीत का समुदाय A dance accom-  
 panied with singing and instru-  
 mental music हे० २, ३२  
 लिह त्रि० ( लिह ) (१) लीपा हुआ Anoin-  
 ted, besmeared गा० २२८, (२) न० लेप  
 Anointing, besmeared प्राक्-७७,  
 लिहार पु० ( लुकार ) 'लु' वर्ण Alphabet.  
 लु प्राक्० ६

लिगिय त्रि० ( लैहिक ) किसी धर्म के वेप को  
 धारण करने वाला साधु, मन्थामी A monk  
 wearing the dress of a particu-  
 lar religion or creed मोह० १०१.  
 लिपाविय त्रि० ( लेपित ) लेप कराया हुआ.  
 Caused to smear, कुम० १४०  
 लिपिय त्रि० ( लिप्त ) लीपा हुआ Smeared.  
 कुमा०  
 लिव पु० ( निम्न ) वृक्ष-विशेष, नीम का पेड़.  
 Nim tree हे० १, २३०, कुमा० स० ३६.  
 लिक्त्त न० ( लेख्य ) लंघा, हिमाच Er-  
 ample (In Anth) or illustration.  
 'लिक्त्त गणिकण चित्त' सिरि० ४१८, सुपा०  
 ४२२  
 लिहण न० ( लेपन ) (१) लिपना, लेख,  
 Writing कुम० ३६८, (२) रेखा-करण.  
 Scratching तदु० ५०, (३) लिखवाना.  
 Causing to write. सनोध० ३६  
 लिहावण न० ( लेखन ) लिपवाना Causing  
 to write उप० ७२४  
 लिहाविय त्रि० ( लेखित ) लिखाया हुआ.  
 Caused to write स० ६०  
 लीढ त्रि० ( लीढ ) (१) चाटा हुआ, Licked,  
 lipped सुपा० ६५१, (२) स्पृष्ट Touched  
 कुम० ५, (३) युक्त Joined, united.  
 प्रव० १२५  
 लीला स्त्री० ( लीला ) छन्द विशेष Name  
 of a metrie पिंग०  
 लीलाइह न० ( लीलायित ) (१) क्रीडा, खेलि.  
 Sport, amusement, pleasure.  
 कम्पू०, (२) प्रभाव Dignity, majesty.  
 'धम्मस्स लीलाइय' उप० १०३१ टी  
 लीलावई स्त्री० ( लीलावती ) (१) विलासवती  
 स्त्री An amorous or wanton wo-  
 man प्रासु० ६१, (२) छन्द-विशेष Name  
 of a metre पिंग०

- Disappearance, dissolution विशे०  
२६६६
- लयग न० ( लताङ्ग ) सख्या-विशेष, चौरासी  
लाख पूर्व A particular number.  
जो० २
- लया स्त्री० ( लता ) (१) प्रकार, भेद Kind  
बृह० १, (२) तप-विशेष Kind of reli-  
gious austerity. प्रव० २७१, (३) सख्या  
विशेष, चौरासी लाख लताग परिमित सख्या  
A particular number जो० २
- ललाम न० ( ललामन् ) प्रधान, नायक  
President, chief अभि० ६५
- ललित्रग पु० ( ललितङ्ग ) एक राज कुमार  
Name of a prince उप० ६८६ टी
- ललित्रय न० ( ललितक ) छन्द-विशेष.  
Name of a metre अजि० १८
- ललित्रा स्त्री० ( ललिता ) एक पुरोहितकी स्त्री  
Name of a priest's wife उप०  
७२८ टी.
- लल्लक पु० ( लल्लक ) छठवीं नरक-पृथिवी का  
एक नरक स्थान An abode of the  
sixth hell देवेन्द्र० १३.
- लव पु० ( लव ) लेश, अल्प, थोडा. A bit,  
a little पात्र० प्रास० ६६, ११८, सण०
- लवण पु० ( लवण ) (१) रस विशेष, चार रस.  
A kind of salt (२) सीता का एक पुत्र,  
लव Name of a Sita's son. पदम०  
६७, १६, (२) मधुराज का एक पुत्र A son  
of Madhuraja पदम० ५७, २७.
- लवणिम पु० स्त्री० ( लवणिमन् ) लावण्य  
Beauty, grace कुमा०
- लवल न० ( लवल ) पुष्प-विशेष A kind of  
flower. कुमा०
- लवली स्त्री० ( लवली ) लता-विशेष A kind  
of creeper सुपा० ३८१, कुम० २४६
- लवित्त न० ( लवित्त ) दात्र, घास काटने का  
एक औजार. An instrument for  
mowing, sickle दे० १, ८२
- लविर त्रि० ( लपित् ) बोलने वाला.  
Speaker. सण०
- लसिर त्रि० ( लसित् ) (१) श्लिष्ट होने वाला.  
One who embraces (२) चमकने  
वाला, दीप्त Glittering, shining.  
से० ८, ४४
- लसुण न० ( लसुण ) लहसुन, कन्द-विशेष.  
Garlic आ० २०
- लहण न० ( लभन ) (१) लाभ, प्राप्ति  
Obtaining, acquisition (२) ग्रहण,  
स्वीकार Acceptance आ० १४
- लहर पुं० ( लहर ) एक बणिक पुत्र Name  
of a Bania's son सुपा० ६१७
- लहाविय त्रि० ( लभित् ) प्राप्त, प्राप्त कराया  
हुआ. Caused to obtain कुम० २३२.
- लहु-लहुअ त्रि० ( लहु ) तुच्छ, नि सार.  
Small, tiny (१) श्लाघनीय, प्रशसनीय.  
Praiseworthy से० १२, २३, (२) मनो-  
हर, सुन्दर. Lovely, handsome,  
beautiful हे० २, १२२, (३) न० कृष्णा-  
गुरु, सुगन्धि-घूप-द्रव्य विशेष A kind of  
Sandal-wood (४) वीरण-मूल A  
kind of fragrant root हे० २, १२२,  
(५) स्पर्श विशेष A kind of touch-  
अणुजो०, (६) पु० एक मात्रा वाला अक्षर A  
word with a sigle sign. हे० ३, १३४.
- लाइअ त्रि० ( लागित् ) लगाया हुआ Affixed-  
से० २, २६, वजा० ५०.
- लाड पु० ( लाट ) देश-विशेष. Name of a  
country सुपा० ६५८, कुम० २५४; भक्त०  
६७ टी, भवि० सण० इक०
- लाण न० ( लान ) ग्रहण, आदान Taking,  
accepting. से० ७, ६०.
- लाभ पु० ( लाभ ) सूट, प्याज. Interest

on money lent उप० ६५७

लामिय-लामिज्ञ त्रि० ( लामिक ) लाम-युक्त,  
लाम वाला Profitable कर्म० १७

लाय त्रि० ( लात ) (१) न्यस्त, स्थापित.  
Established (२) न० लग्न का एक दोष  
A defect of wedding rituals  
सुपा० १०८

लाय पु० ( लाज ) (१) आर्द्रं तण्डुल Wet  
or damp rice (२) व० भुजा हुआ  
नाज, खोई Patched or fixed grain  
कम्पू०

लायण न० ( लागन ) लगवाना Causing  
to affix गा० ४५८

लायण न० ( लायण ) लवण्यत्न, चारण  
Saltish, sou हे० १, १७७, १८०

लालण. न० ( लालन ) स्नेह-पूर्वक पालन  
Fondling, patting पत्रम० २६, ८८

लालय न० ( लालक ) लाला, लार Saliva.  
दे० ५, १६

लालिज्ञ त्रि० ( लालावत् ) लारवाला Hav-  
ing saliva सुपा० ५३१

लाविर त्रि० ( लवितु ) काटने वाला Cutter  
गा० ३५५

लास न० ( लास्य ) (१) नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध  
गेयपद आदि A part of the Nataka-  
shastria of Bharata. कुमा०, (२) नृत्य,  
नाच Dance पात्र०, (३) स्त्री का नाच  
Dance of a woman (४) वाद्य, नृत्य  
और गीत का समुदाय A dance accom-  
panied with singing and instru-  
mental music हे० २, ६२

लिञ्ज त्रि० ( लिप्त ) (१) लीपा हुआ Anoin-  
ted, besmeared गा० ५२८, (२) न० लेप  
Anointing, besmearing प्राक्-७७.

लिञ्जार पु० ( लृकार ) 'लृ' वर्ण Alphabet.  
लृ प्राक्० ६

लिगिय. त्रि० ( लेदिक ) किमी धर्म के देप को  
धारण करने वाला साधु, सन्यासी A monk  
wearing the dress of a particu-  
lar religion or creed मोह० १०१.  
लिपाविय त्रि० ( लेपित ) लेप कराया हुआ.  
Caused to smear. कुम० १४०

लिपिय त्रि० ( लिप्त ) लीपा हुआ Smearod.  
कुमा०

लिय पु० ( निम्न ) वृद्ध-विशेष, नीम का पेट.  
Nim tree हे० १, २३०, कुमा० स० ३५.

लिम्प न० ( लेख्य ) लम्बा, हिमाव Ex-  
ample (In Art) or illustration.  
'लिक्ल गणिकण चितण' सिरि० ४१८, सुपा०  
४२५

लिहण न० ( लेखन ) (१) लिखना, लेख,  
Writing कुम० ३६८, (२) रेखा-करण.  
Scratching तद्० ५०, (३) लिखवाना.  
Causing to write. सवोध० ३६

लिहायण न० ( लेखन ) लिखवाना Causing  
to write उप० ७२४

लिहाविय त्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ  
Caused to write स० ६०

लीढ त्रि० ( लीढ ) (१) चाटा हुआ. Lickod,  
lipped सुपा० ६५१, (२) स्पृष्ट Touched  
कुम० ५, (३) युक्त Joined, united.  
प्रव० १२५.

लीला स्त्री० ( लीला ) छन्द विशेष Name  
of a metrie पिंग०

लीलाइत्र न० ( लीलायित ) (१) क्रीडा, केलि.  
Sport, amusement, pleasure.  
कम्पू०, (२) प्रभाव Dignity, majesty.  
'धम्मस्स लीलाइय' उप० १०३१ टी

लीलाचई स्त्री० ( लीलावती ) (१) विलासवती  
स्त्री An amorous or wanton wo-  
man प्रासु० ६१, (२) छन्द-विशेष Name  
of a metrie पिंग०

लुञ्ज, त्रि० (लून) काटा हुआ, छिन्न. Cut हे०  
४, २५८, गा० ८, से० ३, ४२, दे० ७, २३,  
सुर० १३, १७५, सुपा० ५२४

लुञ्ज त्रि० ( लुप्त ) (१) जिसका लोप किया  
गया हो Disappeared (२) न० लोप  
Disappearance प्राक्० ७७

लुञ्जत त्रि० ( लूनवत् ) जिसने छेदन किया  
हो One who has cut धात्वा० १५१

लुटण न० ( लुपटन ) लूट Plundering  
सुर० २, ४६, कुमा०

लुटाक त्रि० ( लुपटाक ) लूटने वाला, लुटेरा  
Robber, plunderer धर्मवि० १२३

लुटण त्रि० ( लुपटक ) खल, दुर्जन Wicked  
'बवहसिज्जमाणा लु टणालोपण' सुख० २, ६

लुठिञ्ज त्रि० ( लुपिञ्ज ) बलावगृहीत,  
जवरदस्ती से लिया हुआ Plundered,  
looted पिंग०

लुक्क, त्रि० ( निलीन ) लुका हुआ, छिपा हुआ.  
Hidden, concealed गा० ४६, ५५८,  
पिंग०

लुक्क त्रि० ( रुण ) (१) भग्न. Broken,  
shattered कुमा०, (२) बीमार, रोगी  
Diseased, sick हे० २, २

लुक्किञ्ज त्रि० ( तुडित ) टूटा हुआ, खण्डित  
Broken, shattered कुमा०

लुक्किञ्ज त्रि० ( निलीन ) लुका हुआ, छिपा  
हुआ. Hidden, concealed पिंग०

लुट्ट त्रि० ( लुपिटत ) लूटा हुआ Plundered  
धर्मवि० ७

लुट्ट पु० ( लोष्ट ) रोड़ा, ईंट आदि का टुकड़ा  
Clod, a piece of brick दे० ७, २६

लुडिञ्ज त्रि० ( लुडित ) लेटा हुआ Slept  
सुपा० ५०३, स० ३६६

लुण्णिञ्ज त्रि० ( लून ) काटा हुआ Cut off,  
severed धर्मवि० १२६; सिरि० ४०४

लुत्त. त्रि० ( लोप् ) चोरी का माल Stolen

property, booty, spoils श्रावक०  
६३ टी

लुलिञ्ज त्रि० ( लुडित ) लेटा हुआ Laying  
down सुर० ४, ६८

लुहण न० ( मार्जन ) शुद्धि Cleansing,  
purifying कुमा०

लूड त्रि० ( लुपट ) लूटने वाला, Plunderer,  
robber हेका० २१०, काप्र० ६१७

लूडण. न० ( लुपटन ) लूट, चोरी Theft  
स० ४४१

लूडिञ्ज त्रि० ( लुपिटत ) लूटा हुआ Robbed,  
plundered स० ५३६, पवम०  
३०, ६२, सुपा० ३०७

लूण न० ( लवण ) लून, नमक Salt.  
जी० ४

लूण. न० ( लवण ) लावण्य, शरीर-कान्ति  
Beauty, loveliness सुपा० २६३

लूरिञ्ज त्रि० ( छिन्न ) काटा हुआ Cut,  
lopped off कुमा० ६, ८३

लूसिञ्ज त्रि० ( लूपित ) (१) लुपिटत, लूटा  
गया Plundered, looted श्रा० १२.  
(२) उपहत, पीडित Hunt, injured  
सम्मत्त० १७५. (३) हिंसित Killed

लूह न० ( रुच ) तप-विशेष, निर्विकृतिक तप  
A kind of religious austerity.  
सवोध० ५८

लूक्ख न० ( लेख्य ) (१) व्यवहार, व्यापार.  
Business सुपा० ४०४, (२) लेखा, हिमाय.  
Account ( In aith ) कुप्र० २३८.

लूडु-लूडुञ्ज पु० न० ( लूडु ) रोड़ा, ईंट पथर  
आदि का टुकड़ा, Brick पाथ० ३०, ७, २४

लूवाड त्रि० ( लेपकनृ ) लेपकारक Plaster-  
maker. वव० १

लेसिय त्रि० ( जलेपित ) जलेप-युक्त Having  
contact स० ७६७

लेह पु० ( लेह ) श्वाल्लेह, भोजन, चपना,

चाटना Food, licking, to taste  
पउम० २, २८

लेह. पु० ( लेख ) (१) देव, देवता Gods  
(२) लिपि. Script letters. (३)  
त्रि० लेख्य, जो लिखा जाय. To be  
written हे० २, १८६, (४) लेखक,  
लिखने वाला Writer वजा० १००,  
—वाह त्रि० (वाह) चिट्ठी लेजाने वाला, पत्र  
वाहक Messenger, letter-bearer  
postman पउम० ३१, १, सुपा० ५१६,  
—साला, स्त्री० ( शाला ) पाठशाला.  
School उप० ७२८ टी

लेहण न०(लेहन) चाटना, आस्वादन. Lam-  
bative, Licker पउम० ३, १०७.

लेहणी. स्त्री० (लेखनी) कलम, लेखनी Pen.  
पउम० १६, ५, गा० २४४

लेहिय त्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ  
Caused to write ती० ७.

लोअ पु० (लोक) आलोक, प्रकाश Light.  
वजा० १०६

लोअ पु० (लोप) अदर्शन, विध्वंस Disap-  
pearance, Destruction चेइय० ६६१

लोअशिल्ल त्रि० (लोचनवत्) आँख वाला.  
Having eyes सुपा० २००

लोअप्रवाय पु० (लोकप्रवाद) जनश्रुति,  
कहावत General rumour, proverb  
सुर० २, ४७

लोअहाणय न० (लोकभाण्यक) कहावत,  
लोकोक्ति Proverb, saying भवि०

लोइअ त्रि० ( लोकित ) निरीक्षित, दृष्ट  
Observed, looked at, inspected  
गा० २७१, स० ७१३.

लोगवीर पु० ( लोकवीर ) भगवान् महावीर.  
Lord Mahavira उव०

लोट्ट पु० (लोष्ट) रोडा, डेला Clod, lump  
of earth दे० ७, २४

लोडाचित्र त्रि० ( लोटित ) घुमाया हुआ.  
Moved round गा० ७६६.

लोडिअ पि० ( लोटित ) लिटाया हुआ, मुलाया  
हुआ Caused to sleep पउम० ६१, ६७

लोण पु० ( लवण ) वृक्ष-विशेष A kind  
of tree पउम० ४२, ७, आ० २०, प्रव० ४  
लोणिय त्रि० (लावणिक) लवण-युक्त, लवण-  
सम्बन्धी Saltish, pertaining to  
salt. श्रोघ० ७७६.

लोण न०(लावण्य) शरीर-कान्ति Beauty,  
charm शकृ० ५.

लौत्त. न० ( लोभ्य ) चोरी का माल, Stolen  
property, booty स० १७३

लोमस. त्रि० (लोमश) लोम-युक्त Hairy,  
woollen, shaggy गउउ०

लोमहरिस पु०(लोमहर्ष) नरकावास विशेष.  
A particular hell देवेन्द्र० २७

लोमजम्ह पु० (लोमजम्ह) नरकावास-विशेष.  
Name of a hell. डा० ६ टी

लोमपच्छ पु०(लोमपाच्छ) नरक स्थान विशेष  
A particular hell देवेन्द्र० ३०

लोमसिद्ध पु० (लोमशिष्ट) नरकावास-विशेष.  
A particular hell डा० ६ टी

लोलावत्त पु० (लोलावर्त) नरकावास-विशेष  
Name of a hell डा० ६ टी, देवेन्द्र० ७.

लोलिम पु० स्त्री०( लोलित्व ) लम्पटता, लोलु-  
पता Drunkenness, debauchery.  
कुमा०

लोह त्रि० ( लौह ) लोहे का, लोह निर्मित  
Made of iron से० १४, २०

लोहगिणी स्त्री० ( लोहाङ्गिनी ) छन्द-विशेष  
A kind of metre. पिपा०

लोहकार पु० ( लोहकार ) लुहार Black-  
smith कुम० १८८

लोहजघ पु० ( लोहजङ्घ ) राजा चयद्वयचौत  
का एक दूत A messenger of the



king Chand Pradyota महा०  
लोहजघवण न० ( लोहजघवन ) मथुरा के  
समीप का एक वन A forest near  
Muttra ती० ७  
लोहल. पु० ( लोहल ) शब्द-विशेष, अन्यक्त-  
शब्द An indistinct word पङ्०  
लोहिआमुह पु० ( लोहितामुख ) रत्नप्रभा का  
एक नरकावास A hell of Ratna-  
prabha सं० ८८  
लहसण न० ( लसन ) खिसकना, पतन

Slipping सुपा० २२  
लहसावित्र त्रि० ( लसित ) खिसकाया हुआ.  
Caused to slip कुमा०  
लहसित्र त्रि० ( लस्त ) खिसक कर गिरा  
हुआ Dropped down, slipped off.  
कुम० १८७, वजा० ८४  
लहादि. स्त्री० ( ह्लादि ) आह्लाद, प्रमोद, खुशी.  
Delight, joy. राज०  
लहाय. पु० ( ह्लाट ) आह्लाद, प्रमोद, खुशी.  
Delight वर्मस० २१६

## व

व पु० ( व ) ( १ ) अन्तस्थ व्यञ्जन वर्ण विशेष,  
जिसका उच्चारण स्थान दन्त और श्रोत्र है A  
Particular consonant प्राप० प्रामा०,  
( २ ) पु० न० वरुण Name of Varuna  
सं० १, १, २, ११.

वह् अ० ( वै ) ( १ ) अवधारण, निश्चय A  
particle of affirmation or cer-  
tainty विश० १८००, ( २ ) अनुनय  
Entreaty or persuasion ( ३ ) संबो-  
धन A vocative particle ( ४ ) पाद-  
पूर्ति Generally used as expletive  
चड०

वह्त्रि त्रि० ( व्ययित ) जिनका व्यय किया  
गया हो Expended, spent 'किमिह  
दन्त्रेण वह्त्रेण बहुत्रेण' सुपा० ०६८, ७३, ४१०.

वह्त्रिणम् पु० ( वैदर्भ ) ( १ ) विदर्भ देश का  
राजा A king of Vidarbha ( २ ) त्रि०  
विदर्भ देश में उत्पन्न Born in Vidarbha  
पङ्०

वह्त्रिण पु० ( व्यतिकर ) प्रसङ्ग, प्रस्ताव In-  
cident, occurrence सुर० ४, १३६, महा०

वह्त्रिणालि त्रि० ( वेतालिक ) मंगल स्तुति  
आदि से राजा को जगाने वाला मागध आदि.  
Bard, minstrel हे० १, १५२.

वह्त्रिणालि त्रि० ( वेतालीय ) छन्द विशेष.  
Name of a metre हे० १, १५१  
वह्त्रिण त्रि० ( वैदेग ) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी.  
Belonging to another country,  
foreign, exotic पठम० ३३, २४, हे०  
१, १५१, प्राकृ० ६.

वह्त्रिण पु० ( वैदेह ) ( १ ) वणिक, वेण्य  
Bania ( २ ) शूद्र पुरुष और वेण्य स्त्री से  
उत्पन्न जातिविशेष The son of a Sudra  
by a Bania woman ( ३ ) राजा जनक  
The king Janaka ( ४ ) त्रि० देह रहित  
से सम्बन्ध रखने वाला One who in-  
dulges in the breaking of the  
bonds of a bodily life ( ५ ) मिथिला  
देश का Relating to Mithila हे०  
१, १५१, प्राकृ० ६,

वह्त्रिण त्रि० ( वैमल्य ) निक्लतता Agita-  
tion, flurry, excitement पाथ०

वह्त्रिण पु० ( वैकुण्ठ ) ( १ ) उपेन्द्र, विष्णु  
An epithet of Vishnu पाथ० ( २ )  
लोक विशेष, विष्णु का धाम The heaven  
of Vishnu टप० १०३१ टी

वह्त्रिणिय पु० ( वैकरणिक ) राज कर्मचारी-  
नियोग Name of an officer सुपा० ४८८.

चङ्गुण न० (वैगुण्य) (१) वैकल्य, अपरि-  
पूर्णता, असंपन्नता Deficiency, imper-  
fection. धर्मस० ८८४, (२) विपरीतपन,  
विपर्यय Diversity, contrary राज०  
चङ्गुण त्रि० (वैजवन) गोत्र-विशेष में उत्पन्न  
Born in a particular family  
हे० १, १५१  
चङ्गुणिय त्रि० (वैतुलिक) तुल्यता रहित  
Devoid of similarity निसी० चू० ११  
चङ्गुणिय पु० (वैदिश) (१) अग्रन्ती देश,  
मालव देश Malwa अ० २०२, (२) त्रि०  
विदिशा सम्बन्धी Relating to inter-  
mediate point of the compass  
वृह० ६.  
चङ्गुणिय त्रि० (वैदेशिक) विदेशी, परदेशी  
Foreign, exotic सच्चि० २, कुम० ३८०,  
सिरि० ३३३, पि० ६१  
चङ्गुणिय स्त्री० (वैदेही) (१) राजा जनक की स्त्री,  
सीता की माता The mother of Sita  
पदम० २६, ७५, (२) जनकात्मजा, सीता  
Name of Sita (३) हरिद्रा, हल्दी.  
Turmeric (४) पिप्पली, पीपल The  
Pipal tree (५) वसिष्ठा-स्त्री Banu's  
woman. सच्चि० ५.  
चङ्गुणिय न० (वाङ्मय) निरर्थक वचन Meie  
words धर्मस० २८४, २८५, ८४४  
चङ्गुणिय पु० न० (वज्र) (१) विद्युत्, विजली  
Lightening. कुमा०, (२) पु० कोकिलाच  
वृक्ष Name of a tree (३) श्वेत कुशा  
A kind of Kusa grass (४) श्री  
कृष्ण का एक प्रपौत्र A grandson of  
Shree Krishna (५) न० बालक, शिशु  
Child, baby (६) धात्री Nurse,  
foster-mother (७) काली Sour  
gruel (८) वज्र पुष्प The blossom  
of Sesamum (९) एक प्रकार का लोहा

A kind of iron (१०) अन्न-विशेष.  
A kind of tale (११) ज्योतिष-प्रसिद्ध  
एक योग A particular of con-  
sultation (In astio) हे० २, १०५.  
चङ्गुणिय न० (वज्रकाण्ड) रत्नप्रभा पृथिवी का  
एक वज्ररत्न-मय काण्ड. A particular  
region of the bell Ratanprabha.  
राज०

चङ्गुणिय पु० (वज्रजङ्घ) पुष्कलावती विजय के  
लोहागल नगर का एक राजा. A king of  
the city Lohagala of Pushka-  
lavati region थाव०

चङ्गुणिय पु० (वज्रसिंह) एक राजा Name  
of a king काल० पि० ४००.

चङ्गुणिय स्त्री० (वज्रसेना) एक दिक्कमारी देवी.  
A Dikkumari goddess इक०

चङ्गुणिय पु० (वज्रधर) इन्द्र An epithet  
of Indra पद०

चङ्गुणिय स्त्री० (वज्रा) एक जैन मुनि शाखा.  
A branch of Jaina saints. कप्प०

चङ्गुणिय न० (वैराग्य) विरक्ति, उदासीनता  
Absence of worldly desires or  
passions पदम० २६, २०

चङ्गुणिय त्रि० (वैरिन्) दुश्मन, रिपु  
An enemy सुर० १, ७, काल० प्रासू० १७४

चङ्गुणिय स्त्री० (वज्रा) एक जैन मुनि शाखा.  
A Branch of Jaina saints. कप्प०

चङ्गुणिय स्त्री० (वैरोक्ष्या) एक विद्या देवी A  
goddess of learning सच्चि० ६.

चङ्गुणिय पु० (व्यतिपात) ज्योतिष प्रसिद्ध एक  
योग A particular constellation  
(In astio) राज०

चङ्गुणिय त्रि० (वैपयिक) विषय से उत्पन्न,  
विषय-सम्बन्धी. Relating to object  
of sense, sexual, carnal सच्चि० ५.

चङ्गुणिय पु० (वैशम्पायन) एक ऋषि जो

king Chand Pradyota महा०  
लोहजघवण न० ( लोहजघवन ) मथुरा के  
समीप का एक वन A forest near  
Muttra ती० ७  
लोहल. पु० ( लोहल ) शब्द-विशेष, अन्वय-  
शब्द An indistinct word पङ्०  
लोहिआमुह पु० ( लोहिआमुह ) रत्नप्रभा का  
एक नरकावास A hell of Ratna-  
prabha स० ८८  
लहसण न० ( लसन ) खिसकना, पतन

Slipping सुपा० १२.  
लहसावित्र त्रि० ( लसित ) खिसकाया हुआ.  
Caused to slip कुमा०  
लहसित्र त्रि० ( लस्त ) खिसक कर गिरा  
हुआ Dropped down, slipped off.  
कुप्र० १८७, वजा० ८४  
लहादि. स्त्री० ( लहादि ) आह्लाद, प्रमोद, खुशी.  
Delight, joy. राज०  
लहाय, पु० ( लहा ) आह्लाद, प्रमोद, खुशी.  
Delight धर्मस० २१६.

## व

व पु० ( व ) ( १ ) अन्तस्थ व्यञ्जन वर्ण विशेष,  
जिसका उच्चारण स्थान दन्त और ओष्ठ है A  
Particular consonant प्रा०प्रा०,  
( २ ) पु० न० वरुण Name of Varuna  
से० १, १, २, ११.

वइ अ० ( वै ) ( १ ) अवधारण, निश्चय A  
particle of affirmation or cer-  
tainty विशेष० १८००, ( २ ) अनुनय  
Entreaty or persuasion ( ३ ) संबो-  
धन A vocative particle ( ४ ) पाद-  
पूर्ति Generally used as expletive  
चङ्०

वइअ त्रि० ( व्ययित ) जिसका व्यय किया  
गया हो Expended, spent 'किमिह  
दब्धेण वइएण वइएण' सुपा० ५७८, ७३, ७१०.

वइअम्भ पु० ( वैदर्भ ) ( १ ) विदर्भ देश का  
राजा A king of Vidarbha ( २ ) त्रि०  
विदर्भ देश में उत्पन्न Born in Vidarbha  
पङ्०

वइअर पु० ( व्यतिकर ) प्रसङ्ग, प्रस्ताव In-  
cident, occurrence सुर० ४, १३६, महा०

वइआलिअ त्रि० ( वैतालिक ) मगल स्तुति  
आदि से राजा को जगाने वाला मागध आदि.  
Bard, minstrel हे० १, १२२

वइआलीअ. पु० न० ( वैतालीय ) छन्द विशेष.  
Name of a metre हे० १, १२१  
वइएस त्रि० ( वैदेश ) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी.  
Belonging to another country,  
foreign, exotic पठम० ३३, २४, हे०  
१, १२१, प्राङ्० ६.

वइएह पु० ( वैदेह ) ( १ ) यणिक, वैश्य  
Bania ( २ ) शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से  
उत्पन्न जातिविशेष The son of a Sudra  
by a Bania woman ( ३ ) राजा जनक  
The king Janaka ( ४ ) त्रि० देह रहित  
से सम्बन्ध रखने वाला One who in-  
dulges in the breaking the  
bonds of a bodily life ( ५ ) मिथिला  
देश का Relating to Mithila हे०  
१, १२१, प्राङ्० ६.

वइकलिअ. न० ( वैक्ल्य ) विकलता Agita-  
tion, flurry, excitement पाञ्च०

वइकुठ पु० ( वैकुण्ठ ) ( १ ) उपेन्द्र, विष्णु.  
An epithet of Vishnu पाञ्च० ( २ )  
लोक विशेष, विष्णु का धाम The heaven  
of Vishnu उप० १०३१ टी

वइगरणिय पु० ( वैकरणिक ) राज कर्मचारी-  
विशेष Name of an officer सुपा० ७४८.

चङ्गुरण न० (वैगुण्य) (१) वैकल्य, अपरि-  
पूर्णता, असंपन्नता Deficiency, imper-  
fection. धर्मसं० ८८४, (२) विपरीतपन,  
विपर्यय Diversity, contrary राज०  
चङ्गुजघण त्रि० (वैजवन) गोत्र-विशेष में उत्पन्न  
Born in a particular family  
हे० १, १५१.  
चङ्गुलिय त्रि० (वैतुलिक) तुल्यता रहित  
Devoid of similarity निसी०चू० ११  
चङ्गुदिस पु० (वैदिश) (१) श्वन्ती देश,  
मालव देश Malwa उप० २०२, (२) त्रि०  
विदिशा सम्बन्धी Relating to inter-  
mediate point of the compass  
बृह० ६.  
चङ्गुदेसिअ. त्रि० (वैदेशिक) विदेशी, परदेशी  
Foreign, exotic सच्चि०५, कुम० ३८०,  
सिरि० ३३३, पि० ६१  
चङ्गुदेही स्त्री० (वैदेही) (१) राजा जनक की स्त्री,  
सीता की माता The mother of Sita  
पठम० २६, ७५, (२) जनकारामजा, सीता  
Name of Sita (३) हरिद्रा, हल्दी.  
Turmeric. (४) पिप्पली, पीपल The  
Pipal tree (५) बणिक-स्त्री Bania's  
woman. सच्चि० ५.  
चङ्गुमेत्त न० (वाङ्मात्र) निरर्थक वचन Mere  
words धर्मसं० २८४, २८५, ८४४  
चङ्गु पु० न० (वज्र) (१) विद्युत्, विजली  
Lightning. कुमा०, (२) पु० कोकिलाक्ष  
वृक्ष Name of a tree (३) श्वेत कुशा  
A kind of Kusa grass (४) श्री  
कृष्ण का एक प्रपौत्र A grandson of  
Shree Krishna (५) न० बालक, शिशु  
Child, baby (६) भ्रात्री Nurse,  
foster-mother (७) काजी Sour  
gruel (८) वज्र पुष्प. The blossom  
of Sesamum (९) एक प्रकार का लोहा

A kind of iron (१०) अश्र-विशेष  
A kind of tale (११) ज्योतिष-प्रसिद्ध  
एक योग A particular of con-  
sultation (In astio ) हे००, १०५.  
चङ्गुक्कड न० (वज्रकाण्ड) रत्नप्रभा पृथिवी का  
एक वज्ररत्न-मय काण्ड, A particular  
region of the hell Ratanpriabha.  
राज०  
चङ्गुजघ पु० (वज्रजघ) पुष्कलावती विजय के  
लोहागल नगर का एक राजा. A king of  
the city Lobhagala of Pushka-  
lavati region आद्य०  
चङ्गुसिंह पु० (वज्रसिंह) एक राजा Name  
of a king काल० पि० ४००.  
चङ्गुसेणा स्त्री० (वज्रसेना) एक दिक्कुमारी देवी.  
A Dikkumari goddess इक०  
चङ्गुहर. पु० (वज्रहर) इन्द्र An epithet  
of Indra पद्०  
चङ्गु स्त्री० (वज्रा) एक जैन मुनि शाखा.  
A branch of Jaina saints. कप्प०  
चङ्गुराग न० (वैराग्य) विरक्ति, उदासीनता.  
Absence of worldly desires or  
passions पठम० २६, २०  
चङ्गुरि-चङ्गुरिअ त्रि० (वैरिन्) दुश्मन, रिपु.  
An enemy सुर० १, ७, काल० प्राक्० १७४  
चङ्गुरी स्त्री० (वज्रा) एक जैन मुनि शाखा. A  
Branch of Jaina saints. कप्प०  
चङ्गुरुद्धा स्त्री० (वैरोद्ध्या) एक विद्या देवी A  
goddess of learning सनि० ६.  
चङ्गुवाय पु० (ज्योतिषात्) ज्योतिष प्रसिद्ध एक  
योग A particular constellation  
(In astio ) राज०  
चङ्गुसङ्गु त्रि० (वैषयिक) विषय से उत्पन्न,  
विषय-सम्बन्धी. Relating to object  
of sense, sexual, carnal सच्चि० ५.  
चङ्गुसंपाद्यण पु० (वैशम्पायन) एक ऋषि जो

व्यास का शिष्य था Name of a sage  
pupil of Viyasa हे० १, १२१, प्रा०  
वइसम्म पु० न० ( वैषम्य ) विपमता Un-  
evenness 'वइसम्मो' सत्ति० २, पि० ६१  
वइसवण पु० ( वैश्रवण ) कुबेर Name of  
Kubera, the god of wealth हे०  
१, १२२, भवि०  
वइसस न० ( वैशम्य ) रो री पाप-कृत्य  
Slaughter, butchery उप० २७२  
वइसाल त्रि० ( वैशाल ) विशाला में उत्पन्न.  
Born in Vishala हे० १, १२१  
वइसाह पु० ( वैशाख ) (१) मन्थन दण्ड A  
churning stick (२) पु० न० योद्धा का  
स्थान विशेष A particular position  
in shooting हे० १, १२१, प्रा०  
वइसिअ त्रि० ( वैशिक ) वेप से जीविका उपा-  
र्जन करने वाला One that earns by  
dress हे० १, १२२, प्रा०  
वइसिट्ट न० ( वैशिष्ट्य ) विशिष्टता, भेद. Dis-  
tinction, peculiarity धर्मस० ६६  
वइस्साणर पु० ( वैशानर ) (१) वह्नि, अग्नि  
An epithet of fire (२) चित्रक वृक्ष  
A kind of tree (३) सामवेद का अच-  
यव विशेष A particular part of  
Samveda हे० १, १२१  
वईअ त्रि० ( व्यतीत ) अतीत, गुज़रा हुआ.  
Passed, elapsed पउम० २०, २०  
वउ न० ( वपुष् ) शरीर, देह Body राज०  
वंकचूल पु० ( वङ्कचूल ) एक प्रसिद्ध राजकुमार  
Name of celebrated prince धर्म-  
वि० ५२, पडि०  
वकचूलि पु० ( वङ्कचूलि ) एक प्रसिद्ध राज  
कुमार Name of a well-known  
prince. 'तथो गया वकचूलियो गेहे' धर्म  
वि० ५३-५६-६०  
वंकिअ त्रि० ( वक्रित ) बाका किया हुआ

Bent, crooked से० ६, २६  
वकिम, पु० स्त्री० ( वक्रिमन् ) वक्रता, कुटिलता  
Crookedness, obstinacy पि० ७४,  
हे० ४, ३४४-४०१  
वगण न० ( व्यङ्गन ) छत Wound,  
scratch राज०  
वगिय, त्रि० ( व्यङ्गित ) विकृत शरीर वाला.  
Having deformed body राज०  
वच त्रि० ( वच्च ) ठगने वाला, धूर्त Fraudu-  
lent, deceitful वजा० ११६, हे० ४, २१२.  
वचअ-ग त्रि० ( वच्चक ) ठगने वाला, धूर्त  
Fraudulent, deceitful नाट-मालवि०,  
आ० २८  
वचण त्रि० ( वच्चन ) ठगने वाला Fraudu-  
lent, crafty सबोध० ४१ — चण त्रि०  
( चण ) ठगने में चतुर. Clever in cheat-  
ing. सम्मत्त० २१७  
वचणा स्त्री० ( वच्चना ) प्रतारणा. Cheating.  
उव० कपू०  
वचिअ त्रि० ( वच्चित ) रहित, वञ्चित De-  
prived of गउड०  
वंजण न० ( व्यञ्जन ) शब्द, पद. Consonant  
word सम्म० ३०, सूयनि० ६, पडि० विशेष०  
१७०, (२) कचा आदि का बाल Hair of  
the waist etc राज०, (३) प्रकाशन,  
व्यक्तिकरण Making clear, indicat-  
ing विशेष० ४६१.  
वजय, त्रि० ( व्यञ्जक ) व्यक्त करने वाला.  
Manifesting, making clear भास०  
२६  
वजर, पु० ( मारजर ) विलाव Cat हे० २,  
१३२, कुमा०  
वजुलि त्रि० ( वञ्जुलिन् ) वेतर वृक्ष वाला  
Having the 'Vaitru' tree गउड०  
वटग पु० ( वटक ) वाट, विभाग. Part,  
portion निसी० चू० १६.

वठ त्रि० (वण्ड) खर्व, वामन D.w.m.f. हे०  
४, ४४७.  
वत त्रि० (वान्त) पतित, गिरा हुआ Fallen,  
dropped दस० ३, १ टी.  
वतरिणी स्त्री० (व्यन्तरी) व्यन्तर जातीया देवी  
A particular goddess रुप० ६१३.  
वदन्न-ग. त्रि० ( वन्दक ) वन्दन करने वाला  
One that salutes परम० ६, १८, १०१,  
७३, महा० सुख० १, ३  
वदारय पु० ( वन्दारक ) (१) देव, देवता  
God पाश्र० कुमा०, (२) त्रि० मनोहर.  
Beautiful, attractive कुमा०, (३)  
मुख्य, प्रधान Eminent, excellent  
हे० १, १३२  
वदार त्रि० ( वन्दार ) वन्दन करने वाला  
One who salutes, praising च्छेद्य०  
६२१, लङ्गु० ४  
वद(वण्ण) न० ( वन्दन ) वन्दन, प्रणाम  
Salutation, obeisance श्रावक० ३७४  
वफि त्रि० ( वलिन् ) (१) लौटने वाला One  
who wallows (२) नीचे गिरने वाला,  
Fallen कुमा०  
वफिअ त्रि० (काङ्क्षित) अभिलषित Desir-  
ed, wished कुमा०  
वस पु० (वश) (१) पृष्ठावयव, पीठ का भाग  
Back (२) वर्ग Class. (३) इक्षु, जल  
Sugar cane हे० १, २६०, —इरि पु०  
(गिरि)पर्वत-विशेष Name of a moun-  
tain पउम० ३६, ४. —रोन्नया स्त्री०  
(रोचना) वशलोचन. Bamboo-manna.  
कप्प०  
वसिअ त्रि० (वाशिक) वश वाद्य बजाने वाला  
Flute player, pipe हे० १, ७०, कुमा०  
वसिअ त्रि० (व्यसित) छलित, प्रतारित  
Cheated, deceived राज०  
वसी. स्त्री० (वाशी) सुरा विशेष A kind of

liquor बृह० ०  
वसी स्त्री० (वगी) वाद्य विगेप, सुरली Flute,  
pipe बृह० २  
वसी स्त्री० (वश) वास Bamboo —मूल.  
न० ( मूल ) वाम की जड़ Root of a  
bamboo कस०  
वङ्ग न० ( वल्क ) टपचा, छाल The bark  
of a tree. उप० ८३६  
वङ्ग न० ( वक्त्र ) मुख, मुह Mouth पउम०  
१११, १७, गा० १६४  
वङ्गत पु० न० (श्रवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि  
का दशवा नरकेन्द्रक-नरकावास The tenth  
abode of the first hell. देवेन्द्र० २  
वङ्गलचीरि. पु० (वङ्गलचीरिन्) एक महर्षि,  
जो राजा प्रसन्नचन्द्र के छोटे भाई थे Name  
of a sage, brother of the royal  
sage called Prasanchandra कुप०  
२८६  
वङ्गखण्डि त्रि० ( व्याख्यानिन् ) व्याख्यान  
कर्ता Lecturer धर्मस० १२६१  
वङ्गखण्डिय त्रि० ( व्याख्यानित ) व्याख्यात.  
Delivered a lecture, विशे० १०८७  
वङ्गखाय. त्रि० ( व्याख्यात ) विवृत, वर्णित.  
Described स० १३२, च्छेद्य० ७७१  
वङ्गखेव पु० (व्याखेप)(१) व्यग्रता, व्याकुलता  
Confusion उप० १३६ टी, १४०, (२)  
कार्य-बाहुल्य Excessive work सुख०  
३, १.  
वङ्गख न० ( वङ्गन ) वक्त्रवाद. Prattle,  
chatter. रभा०  
वङ्गा स्त्री० (वङ्गा) लगाम Bridle. उप०  
७६८ टी  
वगि त्रि० ( वागिन् ) (१) प्रशस्त वाक्य  
बोलने वाला. Eloquent, oratorical  
(२) पु० बृहस्पति Name of Brihas-  
pati प्राप्र० पि० २७७

चंगिय न० ( वलित ) (१) बहु भाषण, चक्रवाद Piattling, chatter सम्मत्त० २२७, (२) वडाई की आवाज़ Swaggeeing, boasting मोह० ८७, (३) गति, चाल Motion सण०

चंगिर त्रि० ( वलितृ ) (१) खूँवार आवाज़ करने वाला. One who creates a gungling sound (२) गति-विशेष वाला Having particular motion. सुर० ११, १७१

चंगु त्रि०(वल्यु) कल, मधुर Sweet पात्र०

चंगुरिय पु० ( वागुरिक ) नर्तक विशेष A kind of dancer राज०

चंगोलिर त्रि० ( रोमन्धयितृ ) पगुराने वाला Ruminator कुमा०

चग्घ पु० ( ब्याघ्र ) (१) रक्त ऐरण्ड का पेड़. The red variety of the castor-oil plant (२) करज वृक्ष A kind of tree, हे० २, ६०

चचा स्त्री०(वचा)(१) पृथ्वी, धरती Earth से० २, ११, (२) औषधि विशेष, वच A kind of aromatic root मृच्छ० १७०.

चच्च पु० ( चर्चस् ) चौथे नरक का चौथा नरकेन्द्रक The fourth abode of the fourth-hell देवेन्द्र० १०

चच्चासिञ्च त्रि०(न्यस्यासित)उलटा किया हुआ Reversed, inverted विशे० ८२३

चच्छ पु० ( वत्स ) (१) वत्सर, वर्ष Year (२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक चक्र A yearly chart or table of astrological calculation. गण० १६, (३) न० गोत्र विशेष Name of a family

चच्छतर, पु० स्त्री० ( वत्सर ) (१) जुद्ध वत्स Young ox (२) दमनीय बछड़ा आदि Weaned calf प्राक्० २३

चच्छराय, पु० ( वत्सराज ) एक राजा Name

of a king ती० १०

चच्छवाल पु० स्त्री० ( वत्सपाल ) गोप, ग्वाला. Keeper of calves पात्र०

चच्छसुत्त. न० ( वच सूत्र ) आभूषण विशेष, वच स्थल में पहनने की सकली A kind of ornament भग० ६, ३३ टी

चच्छा स्त्री० ( वत्सा ) (१) एक नगरी Name of a city, इक० (२) लडकी Daughter. कपू०

चच्छाण पु० ( उच्चन् ) बैल, बलीवर्द Ox. 'वत्सा वसहा य वच्छाणा' पात्र०

चच्छिम. पु० स्त्री० ( वृत्तत्व ) वृत्तपन. Glassy पङ्क०

चच्छोम न० ( वचोम ) एक नगर, कुन्तल देश की प्राचीन राजधानी. Name of a city. कपू०

चज्ज पु० ( वज्र ) (१) विद्याधर वंश का एक राजा Name a Vidyadhar king. पठम० ५, १६-१७, ८, १३३

चज्ज न० ( वज्ज ) (१) छोड़कर, बिना, सिवाय. Excluding, except आ० ६, दे० १७, क० ग० ४, ३४-४३

चज्जक पु० ( वज्राङ्क ) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhar family पठम० ५, १६

चज्जकुसी स्त्री० ( वज्राङ्कुशी ) एक विद्या देवी. Name of a goddess of learning. सति० ५

चज्जधर, पु० ( वज्रधर ) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhar family पठम० ५, १६

चज्जकठ पु० ( वज्रकण्ठ ) वानर द्वीप का एक राजा Name of a king of Vanara Dvipa. पठम० ६, ६०

चज्जकथ पु० ( वज्राच ) एक विद्याधर वंशीय राजा Name of a king of the Vidy-

adhai family पदम० ८, १३२

वज्रचूड पु० (वज्रचूड) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of Vidyadhar lineage पदम० ५, ४६

वज्रजघ पु० (वज्रजघ) विद्याधर वंशीय एक नरेश Name of a king of the Vidyadhar race पदम० ५, १५

वज्रदत्त पु० (वज्रदत्त) (१) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhar family पदम० ५, १५ (२) एक जैन मुनि. Name of a Jaina saint पदम० २०, १८

वज्रधय. पु० (वज्रध्वज) एक विद्याधर वंशीय राजा Name of a king of the Vidyadhar family पदम० ५, १५

वज्रनागरी स्त्री० (वज्रनागरी) एक जैन मुनि-शाखा A branch of Jaina saints-कल्प०

वज्रनाभ पु० (वज्रनाभ) एक जैन मुनि Name of a Jaina saint पदम० २०, १६

वज्रबाहु पु० (वज्रबाहु) एक विद्याधर वंशीय राजा Name of a king of the Vidyadhar family पदम० ५, १६

वज्रमज्झ पु० (वज्रमध्य) (१) राक्षस वंश का एक राजा, एक लक्षण Name of a king of the demon race पदम० ५, २६३ (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, A tributary prince of Ravana पदम० ८, १३२

वज्रर पु० (वज्रर) (१) देश-विशेष Name of a country (२) त्रि० देश विशेष में उत्पन्न Born in that country स० १३

वज्ररथा न० (कथन) उक्ति, वचन Speech हे० ४, २

वज्ररिभ्र. त्रि० (कथिन) कहा हुआ, उक्त Said, told हे० ४, २, मुर० १, ३२, भवि० वज्रवेग. पु० (वज्रवेग) एक विद्याधर का नाम.

Name of a Vidyadhar महा० वज्रसिखला स्त्री० (वज्रशृङ्खला) एक विद्या-देवी A goddess of learning मति० ५. वज्रसुंदर पु० (वज्रसुन्दर) विद्याधर वंश में उत्पन्न एक राजा Name of a king born in the Vidyadhar family. पदम० ५, १७

वज्रसुन्दर पु० (वज्रसुन्दर) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhar race पदम० ५, १७. वज्रसेण पु० (वज्रसेन) एक जैन मुनि, जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे Name of a Jaina saint who was a spiritual preceptor of Lord Rishabhadeo of the former birth पदम० २०, १७

वज्रहर पु० (वज्रधर) (१) इन्द्र An epithet of Indra से० १५, ४८, उव०, (२) त्रि० वज्र का धारण करने वाला Thunderbolt bearer सुपा० ३३४.

वज्राउह. पु० (वज्रायुध) (१) इन्द्र An epithet of Indra पदम० ३, १३७, ५१, १८, (२) विद्याधर वंश का एक राजा. Name of a king of the Vidyadhar family पदम० ५, १६

वज्राभ पु० (वज्राभ) एक विद्याधर वंशीय राजा A king of the Vidyadhar race पदम० ५, १६

वज्राविय. त्रि० (वादित) बजाया हुआ. Sounded भवि०

वज्जास पु० (वज्जास) एक विद्याधर राजा. Name of a king of the Vidyadhar family पदम० ५, १७.



चज्जिअ. त्रि० ( वादित ) बजाया हुआ  
Played, sounded सिरि० ५२५

चज्जिर. त्रि० (वदितृ) बजने वाला Sound-  
ing सुर० ११, १७२, सुपा० ४५, ८७,  
सिरि० १५५, सण०

चज्जोयरी स्त्री० (वज्रोदरी) विद्या-विशेष A  
particular magical skill पउम० ७,  
१३८

चज्जु त्रि० ( वाह्य ) (१) सहन करने योग्य  
Worthy to be borne प्राप्र० उप०  
१५० टी, (२) न० अश्व आदि यान Diving  
a horse स० ६०३, —खेडु न०  
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी का  
इल्म Art of diving as a horse  
स० ६०३

चट्ट त्रि० ( वृत्त ) (१) अतीत, गुजरा हुआ  
Passed, gone ( २ ) मृत. Dead,  
deceased. ( ३ ) सजात, उत्पन्न. Born,  
produced. ( ४ ) अधीन Dependent  
( ५ ) दृढ Firm, fixed ( ६ ) पु० कूर्म,  
कछुआ Tortoise हे० २, २६

चट्ट पु० ( वर्त ) देश-विशेष Name of a  
country सत्त० ६७ टी

चट्टा. स्त्री० ( वार्ता ) बात, कथा Story,  
tale कुमा०

चट्टाचण न० (वर्तन) बरताना, कार्य में लगाना  
To engage उच०

चट्टावय त्रि० (वर्तक) बरताने वाला, प्रवर्तक  
Distributor उच०

चट्टावय त्रि० (वर्तक) प्रतिजागरक, शुभ्रपा-  
कर्ता Servei वच० १

चट्टि स्त्री० ( वर्ति ) ( १ ) सलाई, आख में  
सुरमा लगाने की सली A small thin  
stick (२) शरीर पर किया जाने वाला एक  
तरह का लेप Unguent, ointment  
(३) लेख, लिखना. Writing (४) कलम,

पीछी Pen हे० २, ३०

चट्टिअ त्रि० ( वर्ति ) ( १ ) परिवर्तित  
Changed दे० ५, २७ ( २ ) प्रवर्तित  
Commenced, stimulated भवि०

चट्टुल त्रि० (वर्तुल) गोल, वृत्ताकार. Circu-  
lar, gobular पाअ०, ( २ ) पलाण्डु के  
समान एक तरह का कन्द-मूल A kind of  
bulbons root. हे० २, ३०, प्रा०

चट्ट न० ( वट ) वस्त्र विशेष A kind of  
garment नाया० १, १ टी

चट्टनयर न० (वटनगर) नगर-विशेष Name  
of a city पउम० १०५, ८८

चट्टवग्नि पु० ( चट्टवाग्नि ) चट्टवानल, समुद्र  
के भीतर की आग The submarine  
fire गा० ४०३

चट्टचट्ट न० ( चटपट्ट ) (१) गुजरात का एक  
नगर, जो आजकल बडौदा नाम से प्रसिद्ध है.  
Name of a city which is called  
Baroda now-a-days उप० ५१६,  
(२) एक गोकुल A particular herd  
of kine उप० ५१७ टी

चट्टचारुल पु० (चट्टगानल) समुद्र के भीतर  
की आग, चट्टवाग्नि Submarine fire  
पि० २४०, आ० १६

चट्टसावित्री स्त्री० ( चट्टसावित्री ) एक देवी  
A particular goddess. कप्प०

चडिअ त्रि० ( गृहीत ) ग्रहण किया हुआ  
Taken, accepted सुर० ७, १६१

चडिस पु० (वतस) ( १ ) मेरु पर्वत The  
mount meru सू० प० टी, ( २ ) एक  
दिग्दृष्टि कूट A particular summit.  
इक०, (३) प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य. Excellent,  
prominent कप्प० महा०

चडिया स्त्री० ( वृत्तिता ) वर्तन Mode or  
manner of living 'भयवतदसणव-  
डियाए' स० ६८३

वडिवस्त्र त्रि० ( वरिवस्यक ) पूजक, पूजा करने वाला Worshipper चार० १.  
 वडैस पु० ( वतस) शंखर, मुकुट Crown, *Crest* नाया० १, १ टी  
 वड्डवत्र त्रि० ( वर्धक ) (१) बढ़ाने वाला P. clonger (२) वधाई देने वाला One who brings good news प्राक० ११  
 वड्डवण न० ( वर्धापन ) वधाई, अभ्युदय-निवेदन. Good news दे० ७, ८७  
 वड्डवित्र त्रि० ( वर्धित-वर्धापित ) जिसको वधाई दी गई हो One who is congratulated दे० ६, ७४  
 वड्डि त्रि० ( वर्धित ) बढ़ने वाला Increasing. से० १, १  
 वड्डिम पु० स्त्री० ( वृद्धिमत् ) बढ़ाव Increase, growth 'पत्ता दिया वड्डिम' प्राक० ३३, कम्पू०  
 वड्डित्य त्रि० ( वर्धित ) खरिडत किया हुआ, काटा हुआ Cut से० १, १.  
 वडर-वडल पु० ( वडर ) ( १ ) मूर्ख छात्र. Foolish pupil (२) ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न सत्तान, अश्वत्थ The son of a Brahmana by a Vaishya woman ( ३ ) शर, धूर्त Wicked, vile ( ४ ) मन्द, अलस Dull, stupid हे० १, २२४, षट्०  
 वण न० ( वन ) (१) पानी, जल Water पात्र० वज्जा० ८८, (२) निवास Dwelling (३) आलय House हे० ३, ८८, प्राप्र०, (४) उद्यान, बगीचा Garden उप० १८६ टी,  
 —गय पु० ( गज ) जगली हाथी Wild elephant. से० ३, ६३, —ग्नि पु० ( अग्नि ) दावानल Forest conflagration पात्र०,  
 —ड्डि त्रि० ( ड्डि ) जगल काटने वाला Cutter of a forest कृम० १०४.  
 वणण न० ( व्यान ) बुनना. Weaving

—साला स्त्री० (शाला) बुनने का कारखाना. A workshop of weaving दम० १, १ टी०  
 वणत्थली स्त्री० ( वनस्थली ) श्रयय भूमि Wood, forest-ground से० ३, ६३.  
 वणमाला स्त्री० ( वनमाला ) एक राज पत्नी Name of a queen पदम० ११, १४, ( २ ) रावण की एक पत्नी A wife of Ravana पदम० ३६ ३०  
 वणय, त्रि० ( वनज ) वन में उत्पन्न, जगली Wild वज्जा० १२८  
 वणय पु० ( वनक ) दूसरी नरक पृथ्वी का एक नरक स्थान A particular abode of the second hell देवेन्द्र० ६.  
 वणराय पु० ( वनराज ) (१) विक्रम की आठवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा A celebrated king मोह० १०८, (२) सिंह, केसरी Lion चड०  
 वणवासी स्त्री० ( वनवासी ) नगरी विशेष, Name of a city राज०  
 वणालि स्त्री० ( वनलि ) वन पक्ति Line of forests गा० २७६, हे० २, १७७  
 वणित्त त्रि० ( व्रणित ) व्रण-युक्त, घाव-वाला Wounded गा० ४२८, ६४६, पदम० ७२, १३  
 वणित्त पु० ( वनीपक ) भिचुक, भिखारी Beggar, mendicant पि० ४४३  
 वणी स्त्री० ( वनी ) फली-विशेष, जिससे कपास निकलता है Cotton pod राज०  
 वणण पु० ( वर्ण ) ( १ ) प्रशंसा, श्लाघा Praise उप० १०७, (२) ब्राह्मण, वैश्य आदि जाति Class of men ( ३ ) गुण Quality ( ४ ) अगाराग Scented cosmetic, fragrant unguent ( ५ ) सुवर्ण, सोना. Gold ( ६ ) व्रत-विशेष. Religious observance ( ७ ) गीत का

क्रम The order of arrangement of a subject in a song. ( ८ ) चित्र Picture हे० १, १७७, प्राप्०, ( ९ ) सयम Restraint ( १० ) मोक्ष, मुक्ति Salvation ( ११ ) न० कुंकुम A kind of red powder. हे० १, १४२, ( १२ ) पचम आदि स्वर. A note of the Indian gamut —सम, न० (सम) गेयकान्ध का एक भेद A kind of songs दसनि० २, २३.

वर्णनाय न० ( वर्णन ) ( १ ) श्लाघा, प्रशंसा Praise, commendation क०पू०, ( २ ) विवेचन, विवरण, निरूपण Description, delineation रयण० ४

वर्णनाय स्त्री० ( वर्णना ) देखो 'वर्णना' शब्द Vide वर्णना दे० १, २१, सार्ध० ४५

वरिह पु० ( वरिह ) ( १ ) अग्नि Fire पाञ्च० महा०, ( २ ) चित्रक वृक्ष A kind of tree ( ३ ) भिलावा का पेड़ Name of a tree ( ४ ) नीबू का पेड़. The lemon plant हे० २, ७५

वक्त न० ( वक्त्र ) मुख, मुह Mouth हे० १, १८, भवि०

वक्तत्र पु० ( व्यत्यय ) ( १ ) विपर्यय, विपर्यास Contraryness, inversion. ( २ ) व्यतिक्रम, उल्लङ्घन, Transgressing, violation प्राकृ० २१

वक्तण न० ( वर्तन ) ( १ ) जीविका, निर्वाह Livelihood, maintenance कु० २८, ( २ ) स्थिति Staying, abiding ( ३ ) स्थापन Establishing ( ४ ) वर्तन, होना Living, being ( ५ ) त्रि० वृत्ति वाला Stationary ( ६ ) रहने वाला Abiding, living. सचि० १०

वक्तमाण पु० ( वर्तमान ) ( १ ) काल विशेष

चलता काल The present tense प्राप्० सचि० १०, ( २ ) वर्तमान कालीन, विद्यमान Being, existing ( ३ ) विद्यमानता. Existence धर्मस० २७३

वत्ता स्त्री० ( वार्ता ) ( १ ) वृत्ति Staying, abiding, ( २ ) दुर्गा Durga ( ३ ) कृषि-कर्म, खेती Agriculture ( ४ ) जनश्रुति, किंवदन्ती Rumour ( ५ ) गन्ध का अनुभव Sense of smelling —लाप, पुं० ( लाप ) बातचीत Conversation सिरि० २८२

वत्तिणी स्त्री० ( वत्तिनी ) मार्ग, रास्ता Road, way. पाञ्च० स० ४, सुर० १२, १३६

वत्तुकाम त्रि० ( वत्तुकाम ) बोलने की चाह वाला Desirous of speaking स० ३१८, अभि० ४४, स्वप्न० १०, नाट विक्र० ४०

वत्थ त्रि० ( व्यस्त ) पृथग्, भिन्न, जुदा. Separated, divided सुर० १६, २५.

वत्थग पु० ( वत्थाङ्ग ) कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वस्त्र देने का काम करती है A kind of wish-yielding tree पञ्चम० १०२, १२१

वत्थखेडु न० ( वत्थ खेल ) कला विशेष A particular art ज० २ टी.

वत्थपूस पुं० ( वत्थपुष्य ) एक जैन मुनि. Name of a Jaina saint. कुलक० २२.

वत्थपूसमित्त. पु० ( वत्थपुष्यमित्त ) एक जैन मुनि Name of a Jaina saint. ती० ७.

वत्थलिज्ज न० ( वत्थलिह ) दो जैन मुनि-कुलों के नाम Name of two groups of Jaina saints क०प०

वत्थविज्जा स्त्री० ( वत्थविद्या ) विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वस्त्र-स्पर्श कराने में ही बीमार श्रच्छा हो जाय. A kind of magical skill. वव० ५

वद्धणिआ-वद्धणी स्त्री० ( वर्धनिका-नी )  
समार्जनी, झाडू Broom दे० ८, १४, ७,  
४१ टी  
वद्धमाण पु० ( वर्धमान ) (१) एक शाश्वत  
जिन-देव Name of an eternal  
Jindeo ( २ ) एक शाश्वती जिन-मतिमा  
A perpetual idol of Jina प्र० १६.  
(३) राजा रामचन्द्र का एक प्रेक्ष-गृह—नाट्य-  
शाला A particular theatre of  
Ram Chandia. पठम० ८०, ६.  
वद्धमाण-गय पु० ( वर्धमानक ) (१) एक  
देव-विमान A particular celestial  
aerial car देवेन्द्र० १४०, ( २ ) प्रासाद-  
विशेष, एक तरह का महल A kind of  
palace नाया० १, १ टी, ( ३ ) एक गाव  
का नाम, अस्थिक ग्राम Name of a city  
'पहम वद्धमाणय चि नाम होत्या' श्रवम०  
( ४ ) त्रि० कृतभिमान, अभिमानी, गर्वित  
Proud, arrogant.  
वद्धारिय त्रि० ( वर्धित ) बढ़ाया हुआ In-  
creased भवि०  
वद्धावण. न० ( वर्धन-वर्धापन ) बधाई, अभ्युदय-  
निवेदन Good-news भवि० सुर० ३,  
२४, महा० सुपा० २२२, १३४.  
वद्धावणिया स्त्री० ( वर्धनिका-वर्धापनिका )  
- देशो 'वद्धावण' शब्द Vide वद्धावण  
तिरि० १३१६  
वद्धावण त्रि० ( वर्धापक ) बधाई देने वाला  
One who brings some good news  
सुर० १६, ७६, स० ५८०, सुपा० ३६१  
'वद्धिआ स्त्री० ( वर्धिका ) बानसी, नमूना  
A sample, a specimen 'सगस्स  
वद्धिया मिव' धर्मदि० ६४.  
वद्ध पु० ( वध ) तट, किनारा. Bank,  
shore पाञ्च०  
वद्ध पु० ( वध ) पशु-विशेष A kind of

animal. स० ४३७  
वभिचरिअ. त्रि० ( व्यभिचरित ) व्यभिचार  
दोष से दूषित A loose characterized  
man आ० १४  
वभिचारि त्रि० ( व्यभिचारिन् ) (१) न्याय-  
शास्त्रीक दोष-विशेष से दूषित, एकात्मिक  
Faulty in philosophical se-  
quence धर्मस० १२२७, पचा० २, ३७,  
(२) पु० परस्त्री-लम्पट Unchaste, adul-  
terous वव० ६, ७  
वमग त्रि० ( वामक ) डल्टी करने वाला.  
Vomiting चेड्य० १०३  
वमाल पु० ( पुञ्ज ) राशि, ढेर. A heap  
सण०  
वमालण न० ( पुञ्जन ) (१) इकट्ठा करना  
Collecting (२) विस्तार. Extension  
(३) त्रि० इकट्ठा करने वाला Heaping  
(४) विस्तारने वाला Extending कुमा०  
वममथ-इ पु० ( मन्मथ ) कामदेव, कर्पूर  
Cupid, god of love चड० प्राप्र० हे०  
१, २४२, २, ६१, पाञ्च०  
वममीइ पु० ( वारमीकि ) एक प्रसिद्ध ऋषि,  
रामायण-कर्ता मुनि, Name of a cele-  
brated sage, and author of the  
Ramayana. उत्तर० १०३  
वमइ पु० ( ब्रह्मन् ) वृक्ष-विशेष, पलाश का  
पेड़ Name of a tree पठम० ५३, ७६  
वय पु० ( वृक ) पशु-विशेष, भेडिया A wolf.  
पठम० ११८, ७  
वय पु० ( वज ) (१) देश-विशेष. Name of  
a country. ( २ ) मार्ग, रास्ता Way,  
road (३) सत्कार-करण Cultivating,  
educating (४) गमन, गति Going,  
motion आ० २३, ( ५ ) समूह, यूथ.  
Collection, multitude आ० २३,  
स० २६७, सुपा० २८८, टी० ३

वय. पु० ( व्यय ) (१) खर्च Expenditure, expense सं० १०३, (२) हानि, नुकसान Loss उव० प्रासू० १८१

वय पु० ( वद ) कथन, उक्ति Speech, श्रा० २३०

वय पु० ( वयस ) पक्षी Bird, गडड० उव० पृ० १८,

वयतरिश्त्र त्रि० ( वृत्यन्तरित ) बाड़ से तितरोहित Covered by a hedge. दे० २, ६३

वयसी स्त्री० ( वयस्या ) सखी, सहेली Female companion or friend. कप्पू०

वयश पु० न० ( वचन ) एकत्व आदि संख्या का बोधकें व्याकरण शास्त्रोक्त प्रत्यय Number In Sanskrit Gram there are three numbers, singular, dual and plural पशह० २, २ टी

वयशिज्ज. त्रि० ( वचनीय ) उलहना देने योग्य, उपालम्भनीय Censurable, blameable कुप्र० ३, (२) वचन, शब्द Word ८६६, सम्म १३, काम० (३) लोकापवाद, निन्दा Blame, censure सं० १३२

वयस्थ त्रि० ( वयस्थ ) तरुण, युवा Young, youthful सुख० १, १६

वया स्त्री० ( वपा ) (१) विवर, छिद्र Hole (२) मेदा, चरबी Fat, marrow श्रा० २३

वया स्त्री० ( वचा ) (१) औषध-विशेष A particular medicine (२) मैना, सारिका. A kind of bird श्रा० २३.

वर पु० ( वर ) (१) वरदान, देव आदि का प्रसाद Boon, blessing कुमा० श्रा० १२, २७, कुप्र० ८०, भवि०, (२) अभीष्ट Wished, desire श्रा० १२, कुप्र० ८०,

—वरिया स्त्री० ( वरिका ) अभीष्ट वस्तु मागने के लिए की जाने वाली घोषणा, ईप्सित वस्तु के दान देने की घोषणा Proclamation for giving the desired object आवम० सं० ४०१, सुर० १६, १८, सुपा० ७२

वरड पु० ( वरयड ) (१) दीर्घ काष्ठ, लम्बी लकड़ी Long stick. (२) भित्ति, भीत Wall मृच्छ० ६

वरदस्र. न० ( वरास्य ) गन्ध-द्रव्य-विशेष, सिस्सहक A fragrant substance से० ६, ४४

वरदस्र पु० ( वरास्र ) (१) योगी Ascetic. (२) यक्ष Demi-god (३) त्रि० श्रेष्ठ इन्द्रिय वाला Having excellent senses से० ६, ४४.

वरदखा स्त्री० ( वराख्या ) त्रिफला The three myrobalans taken collectively. से० ६, ४२.

वरण न० ( वरण ) (१) तट, किनारा Bank, shore. गडड०, (२) भ्राकार, किला Fort. गा० २४५, (३) स्वीकार, ग्रहण. Acceptance राज०

वरणाय. न० ( वरणक ) तृण-विशेष A kind of grass गडड०

वरणा स्त्री० ( वरणा ) (१) काशी की एक नदी. Name of a river near Benares. राज०, (२) अछड़ देश की प्राचीन राजधानी An ancient capital of the Achha country सूयनि० ६६ टी

वरधरु पु० ( वरधनुष ) एक मन्त्रि कुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का बाल-मित्र Name of a minister's son महा०

वरमाल पु० ( वरमाल ) एक देव विमान A particular celestial aerial car. देवेन्द्र० १३३

वरमाला स्त्री० ( वरमाला ) वर को पहनाई जाने वाली माला, वरत्व सूचक माला Bridegroom's garland कुप्र० ४०७

वरय पु० ( वरक ) सगाई करने वाला, पिताह का प्रार्थी पुरुष Bridegroom सुर० ६, ११२

वररुइ पु० ( वररुचि ) राजा नन्द के समय का एक विद्वान् ब्राह्मण Name of a learned Brahmana in time of king Nanda कुप्र० ४४७.

वरला स्त्री० ( वरला ) हसी, हंस पत्नी की मादा Goose, पात्र०

वरहाडिअ त्रि० ( नि सूत ) बाहर निकला हुआ, निर्गत Come out, कुमा०

वरय त्रि० ( वराक ) दीन, गरीब, रक. Pool pitiable, miserable पाय० सुर० २, १३, ६, १६४, सुपा० ६३, गा० ५३३

वराड पु० ( वराट ) दक्षिण का एक देश, जो आज कल भी वरार नाम से प्रसिद्ध है A city in the Deccan कुप्र० २२४, सुख० १८, ३४, राज०

वराडिया स्त्री० ( वराटिका ) कपर्दिका, कौडी Cowrie, shell सुपा० २०३

वरावड. पु० न० ( वरावट ) देश-विशेष Name of a country पडम० १८, ६४.

वरि. अ० ( वरम् ) अच्छा, ठीक. Rather or better than 'वरि मरण मा विरहो' सुर० ४, १८२, भवि०

वरिअ त्रि० ( वृत्त ) (१) स्वीकृत. Accepted से० १२, ८८, (२) सेवित Served भवि०

वरिस पु० न० ( वर्ष ) (१) वृष्टि, वर्षा Rain कुमा० कप्पू० भवि०, (२) जंबूद्वीप Jambudvīpa (३) जंबूद्वीप का अंश-विशेष, भारत आदि क्षेत्र A part of Jambudvīpa (४) मेघ Cloud. हे० २, १०५, —अ० त्रि० ( ज ) वर्षा में उत्पन्न Produced in the rainy-season पड०

वरिसचिअ त्रि० ( वर्षित ) बरसाया हुआ Caused to rain सुपा० २२३

वरिसि त्रि० ( वर्षिन् ) बरसने वाला Rainy वेणी० १११

वरिसिणी स्त्री० ( वरिणी ) विद्या-विशेष. A kind of Magical skill पडम० ७, १४२.

वरुट पु० ( वरुण्ट ) एक शिल्पि-जाति A kind of artist राज०

वरुड. पु० ( वरुड ) एक अनन्यज जाति Name of a class of untouchables or a depressed class दे० २, ६४

वरुण पु० ( वरुण ) (१) एक विद्याधर नरपति. Name of a Vidyadhar king

पडम० ६, ४४, १६, १२, (२) एक श्रेष्ठ पुत्र Name of a son of a noble family.

(३) छन्द-विशेष, Name of a metric पिग० (४) पु० न० एक आर्य देश Name

of an Aryan-county प्रव० २७५.

वरुणा, स्त्री० ( वरुणा ) अचछ देश की प्राचीन राजधानी An ancient capital of the Achachha county प्रव० २७५,

(२) एक राज पत्नी Name of a queen पडम ७, ४४

वरुणी स्त्री० ( वरुणी ) विद्या-विशेष. Name of a magical skill पडम० ७, १४०.

वरुल पु० न० ( वरुल ) देश विशेष Name of a country पडम० १८, ६४

वरुहिणी स्त्री० ( वरुहिनी ) सेना, सैन्य Army पात्र०

वलइय त्रि० ( वलथित ) (१) वलय की तरह गोलाकार किया हुआ, वलय की तरह मुड़ा हुआ Formed into a bracelet पडम० २८, १२४, कप्पू०, (२) वेष्टित Surrounded, encircled कप्पू०

वलवख त्रि० ( वलख ) श्वेत, सफेद White पात्र०

वलवग त्रि० ( वारुड ) जिसने आरोहण किया हो, चढ़ा हुआ Mounted, ascended. पात्र०

वलण. न० ( वलन ) मोडना, वक्र करना.

Bending दे० १, ४२, (२) प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना Returing से० ८, ६, गडड०, (३) वाक, वक्रता Crookedness हे० ४, ४३२ वलयाइअ नि० ( वलयायित ) जो वलय की तरह गोल हुआ हो Formed into a bracelet कुमा०

वलहि-ही स्त्री० ( वलभि-भी ) गृह-चूडा, छज्जा, वरामदा Verandah (२) महल का अग्रस्थ भाग The top-most part of a palace प्रा०, (३) काठियावाड का एक प्राचीन नगर, जिसको आज कल वला कहते हैं An ancient city of Kathiawar ती० १५, सम्मत० ११८

वलिर त्रि० ( वलितृ ) लौटने वाला, Returning. सुपा० ५६

वले अ० सम्बोधक सूचक अन्वय Vocative particle प्रा० ८०

वल्लई. स्त्री० ( वल्लवी ) गोपी Woman of a class of cow-herds दे० ७, ३६ टी वल्लरी स्त्री० ( वल्लरी ) वल्लो, लता Creeper पा० गडड० सुपा० ५२६

वल्लव पु० स्त्री० ( वल्लवी ) गोप, अहीर, वाला Cowherd पा०

वल्लहराय पु० ( वल्लभराज ) ( १ ) गुजरात का एक चौलुक्य वंशीय राजा A king of Gujaraata of the Chalukya family कुम० ४, (२) दक्षिण के कुन्तल देश का राजा A king of the Kuntala country in the Deccan क० ५०

वल्लहा स्त्री० ( वल्लभा ) दयिता, पत्नी Wife. गा० ७२.

वल्लिर त्रि० ( वल्लितृ ) हिलने वाला, Movable कुम० ८४

वल्लिअ पु० ( वाह्नीक ) ( १ ) देश-विशेष Name of a country स० १३, नाट०, (२) त्रि० वाह्नीक देश में उत्पन्न, वाह्नीक देश

का Born in Wabhika country. स० १३

ववपस पु० ( व्यपदेश ) व्यवहार Business. से० ३, २६, (२) कपट, बहाना, छल Fraud, craft महा०

ववगम पु० ( व्यपगम ) नाश Disappearance, destruction. आवम०

ववगय त्रि० ( व्यपगत ) नाश प्राप्त, नष्ट. Destroyed, ruined नमि० ११, क० ५०

ववट्टम पु० ( व्यवट्टम ) अवलम्बन, सहाय. Help, support से० ४, ४६.

ववट्टिअ त्रि० ( व्यवस्थित ) व्यवस्था प्राप्त. Arranged, placed in order. से० १२, ५२

ववण न० ( वपन ) बोना. Sowing, planting वव० १, श्रु० ६.

ववस्था स्त्री० ( व्यवस्था ) ( १ ) मर्यादा, स्थिति. Limit. स० १३, कुम० ११४, (२) प्रक्रिया, रीति A settled rule, statute (३)

इन्तजाम Arrangement, settlement. सुपा० ४१, ( ४ ) निर्णय Decision, determination स० १३, —पत्तय न०

( पत्रक ) दस्तावेज Document स० ४१०.

ववस्थावण. न० ( व्यवस्थापन ) व्यवस्था करना. Arrangement, settlement. धर्मस०

५२०

ववस्थावणा स्त्री० ( व्यवस्थापना ) व्यवस्था करना Arranging धर्मस० ५२०.

ववस्थिअ त्रि० ( व्यवस्थित ) व्यवस्था युक्त Placed in order, arranged स०

४६, ७२७, सुर० ७, २०५, सय०

ववस्थिअ त्रि० ( व्यवस्थित ) जिसने व्यवस्था की हो One who has managed. दसनि० ४, ३५.

ववदेसि त्रि० ( व्यपदेशिन ) व्यपदेश करने वाला. Transacting business. शकु० ६६.

वचधाण न० (व्यवधान) अन्तर, दो पदार्थों के बीच का अन्तर Distance अभि० २२२

वचसिय-वचस्सिय. त्रि० न० (व्यवसित) (१) चेष्टित Moved, stirred स० ७२६, (२) इद्यम, प्रयत्न Endeavour, attempt से० ३, २२

वचहरग त्रि० (व्यवहारक) व्यापार करने वाला, व्यापारी Trader कुप्र० २२४

वचहार पु० (व्यवहार) (१) विवाद, मामला, मुकदमा. Legal dispute, complaint पदम० १०५, १००, स० ४६०, चेह्य० २६०, वप० ५६७ टी, (२) विवाद-निर्णय, फैसला Decision, adjustment वप० पृ० २८३, ( ३ ) जीवराशि विशेष. Wordly people. सिक्खा० ६

वचहार पु० (व्यवहार) (१) पूर्वग्रन्थ The Purvas (२) जीतकल्प सूत्र The Jitakalpa scripture. (३) कल्पसूत्र The Kalpa Sutra (४) मार्ग, रास्ता Road, way (५) ईप्सितम्य. Worthy to be desired वव० १ —रासिय त्रि० (राशिक) जीवराशि-विशेष में स्थित Those living amongst the worldly people सिक्खा० ६

वचहारि पु० (व्यवहारिन्) (१) ऐरवतक्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव Name of a Jina-deo born in Airvata kshetra (२) बणिक, व्यापारी Trader, Bania मोह० ६४, आ० १४, सुपा० ३३४

वचहिअ त्रि० (व्यवहित) व्यवधान-युक्त Separated by any thing intervening आनम०

वचिअ त्रि० (उप्त) बोया हुआ Sowed उप० ७२८ टी, प्रासू० ६

वचेक्खा की० (व्यपेक्षा) विशेष अपेक्षा, परवाह Inter-dependence धर्मस० ११६७

वच्चर त्रि० (वचर) (१) पामर Wretched, Miserable (२) मूर्ख Foolish कुमा० वस. पु० न० (वश) (१) प्रभुत्व, स्वामित्व Authority, mastership. (२) आज्ञा Command, order कुमा०, (३) अधीनता, परतन्त्रता Dependence, subservience क० ग० १, ४४ —आद्यत्त त्रि० (आयत्त) अधीन, परतत्र Dependent धर्मवि० ३१ —वत्ति त्रि० (वर्तिन्) वशीभूत, परतत्र. Dependent वप० १३३ टी, सुपा० २३८.

वस पु० (वृष) (१) धर्म Religion चेह्य० ५४१, (२) बैल, वृषभ Ox स० ६२४, क० ग० १, ४३.

वसअ-ग त्रि० (वशग) वशीभूत, पराधीन Dependent पदम० ३०, २०, अक्षु० ६१, सुर० २, २३१, कुमा० सुपा० २५७

वसइ की० (वसति) (१) स्थान, आश्रय Place, dwelling कुमा०, (२) रात्रि, रात Night दे० ७, ४१, (३) गृह, घर. House. गा० १६६, (४) वास, निवास. Residence हे० १, २१४

वसतउर. न० (वसन्तपुर) नगर-विशेष Name of a city महा०

वसततिलअ पु० (वसन्ततिलक) (१) हरिवंश में उत्पन्न एक राजा Name of a king born in Harivansa family पदम० २२, ६८, (२) न० एक उद्यान, जहा भगवान् ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी. Name of a garden where Lord Rishabha-deo was initiated पदम० ३, १३४

वसततिलअ की० (वसन्ततिलका) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

वसवय त्रि० (वशवद) निज को अधीन कहने वाला Obedient to the will of, submissive धर्मवि० ६



वसण न० (वसन) निवास, रहना. Dwelling, residing कुप्र० ४८  
 वसणि, त्रि० (व्यसनिन्) खोटी आदत वाला  
 Addicted to any vice, vicious  
 सुपा० ४८८  
 वसभ पुं० (वृषभ) (१) ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-  
 विशेष, वृष-राशि, The sign Taurus  
 of the zodiac पदम० १७, १०८, (२)  
 भगवान् ऋषभदेव Lord Rishabha-  
 deo चेद्वय० २४१, (३) एक जैन मुनि जो  
 चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे Name  
 of a Jain saint who was spiri-  
 tual teacher of the fourth Bala-  
 deo in the former birth पदम० २०,  
 १६२ — वखेत्त न० ( क्षेत्र ) स्थान-विशेष,  
 जहा पर वर्षा काल में आचार्य आदि रहते  
 हैं A particular place where  
 acharyas etc live during the  
 monsoon वव० १०, निती० चू० १७  
 वसभगाम पु० ( वृषभग्राम ) ग्राम-विशेष,  
 कुत्सित देश में नगर तुल्य गाव Name of  
 a city वव० १०.  
 वसह पु० ( वृषभ ) (१) वैयावृत्य करने वाला  
 मुनि A serving saint ओघ० १४०,  
 (२) लक्ष्मण का एक पुत्र Name of  
 Lakshman's son पदम० ६१, २०,  
 (३) कान का छिद्र Orifice or hollow  
 of the ear (४) औषध विशेष A kind  
 of medicine ग्राम०—इध. पु० (चिह्न)  
 शकर, महादेव An epithet of Siva  
 गडड०—वाहण पु० ( वाहन ) महादेव  
 Shankar, Mahadeo वजा० ६०  
 वसहकेड. पु० ( वृषभकेतु ) इक्ष्वाकु वंश का  
 एक राजा Name of a king of the  
 Ikshvaku family पदम० २, ७  
 वसिस्त. न० ( वसिस्त ) योग की एक सिद्धि,

योग-जन्य एक ऐश्वर्य. A particular  
 superhuman power or faculty  
 'साहस्रवसिस्तगुणोर्ण पसम' कुप्र० २७७  
 वसिर, त्रि० ( वसितृ ) वास करने वाला, रहने  
 वाला. Dweller, resident. सुपा०  
 ६४७, सम्मत० २१७  
 वसीयरणी स्त्री० ( वशीकरणी ) वशीकरण  
 विद्या. Fascination, enchantment.  
 सुर० १३, ८१  
 वसीहृत्र त्रि० ( वशीभूत ) जो अधीन हुआ हो.  
 One who is dependant उप० ६८६  
 टी.  
 वसु न० ( वसु ) (१) पु० जिनदेव Jina-  
 deo (२) वीतराग, राग-रहित One who  
 has subdued his passions ( ३ )  
 आठ की संख्या The number eight.  
 विवे० १४४, पिग०, (४) एक छन्द का नाम  
 Name of a metre पिग०, (५) न०  
 लोकान्तिक देवों का एक पिमान A celest-  
 tial aelial cal of Lokantika  
 gods इक०  
 वसुआश्र त्रि० ( उद्वात ) शुष्क Dry पाय०  
 से० १, २०, गडड० प्राकृ० ७७  
 वसुआइश्र त्रि० ( उद्वापित ) शुष्क किया  
 हुआ, सुखाया हुआ. Dried से० ६, २६.  
 वसुंधर पु ( वसुंधर ) एक जैन-मुनि Name  
 of a Jaina saint पदम० २०, १२१  
 वसुंधरा स्त्री० ( वसुंधरा ) (१) रावण की  
 एक पत्नी. Name of a Ravan's wife  
 पदम० ७४, १०, ( २ ) एक श्रेष्ठ पत्नी.  
 Name of a wife of a noble man.  
 उप० ७२८ टी  
 वसुनदय. पु० ( वसुनन्दक ) एक तरह की उत्तम  
 तलवार A kind of the excellent  
 sword. सुर० २, २२, भवि०  
 वसुवल पु० ( वसुवल ) इक्ष्वाकु वंश में दसव

एक राजा Name of a king born in the Ikshvaku family प० ५, ४.  
 वसुभाग पु० ( वसुभाग ) एक व्यक्ति वाचक नाम Name of a person महा०  
 वसुभागा स्त्री० ( वसुभागा ) ईशानेन्द्र की एक पटरानी A crowned queen of Ishanendra, इ०  
 वसुभूद् पु० ( वसुभूति ) एक जैन मुनि का नाम Name of a Jain saint प० २०, १७६, श्रावम०  
 वसुसद् पु० ( वसुशब्द ) छन्द विशेष Name of a metre वि०  
 वसुहारा स्त्री० ( वसुधारा ) एक श्रेष्ठिनी Name of a sowca's wife. उ० ७२८ टी.  
 वह पु० ( वह ) परीवाह, पानी का प्रवाह Flow of water, streamlet दे० १, २५  
 वहकारी स्त्री० ( वधकारी ) विद्या विशेष. A particular magical skill प० ७, १३७  
 वहशयु पु० ( वधशय ) एक नरक-स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २८  
 वहावित्र त्रि० ( वधित ) मरवाया हुआ Caused to kill रवा० २४  
 वहित्र त्रि० ( ऊढ ) वहन किया हुआ Carried, conveyed. धा० १५२  
 वहिचार पु० ( व्यभिचार ) (१) पर-स्त्री या पर पुरुष से सम्भोग Unchastity स० ७११, (२) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध पुरु हेतु दोष A logical fallacy, the presence of Hetu without any sadhya धर्मसं० ६३  
 वा. अ० ( वा ) (१) अपि, भी Also कुमा० कथ० सुख० १, २२, (२) सादर्य, समानता

Similarity विशेष० १८६४  
 वाद् त्रि० ( वाचिन् ) वाचक, अभिप्रायक, कहने वाला Speaker, declaimant विशेष० ८७४  
 वाद्भ्र त्रि० ( वातिक ) उत्कर्ष वाला Prosperous. उ० धर्मवि० ७६, नपु सक का एक भेद A kind of impotent person पुष्प० १२७, धर्म० ३  
 वाद्भ्र त्रि० ( वात ) बहा हुआ, चला हुआ. Flown सुर० २, ७६  
 वाउकुमार पु० ( वायुकुमार ) हनुमान का पिता. Hanumanta's father प० १६, २.  
 वाउरा स्त्री० ( वागुरा ) मृग-बन्धन, पशु फसाने का जाल, फन्दा Trap, snare. प० ३३, ६७, हंका० ३१; गा० ६५७  
 वाउल त्रि० ( वातूल ) (१) वात-रोगी, उन्मत्त Affected by gouty (२) पु० वात-समूह Whirl-wind हे० १, १२१, प्राकृ० ३०  
 वाउलण न० ( व्यापरण ) व्यापृत-क्रिया, व्यापार Business व० १  
 वाउलण स्त्री० ( व्याकुलना ) व्याकुल करना Confounding, distracting व० ४  
 वाउलित्र त्रि० ( व्याकुलित ) (१) व्याकुल बना हुआ Confused, confounded सण०  
 वाऊलित्र त्रि० ( वातूलित ) (१) वातूल बना हुआ. Crazy (२) नास्तिक, Atheist दसि० १, ६६  
 वापरित्र त्रि० ( वातेरित ) पवन-प्रेरित. Stimulated by the wind गा० १७६  
 वापसरी स्त्री० ( वासीधरी ) सरस्वती देवी. Goddess Saraswati 'वापसरी पुत्र्ययव-गहत्या' पदि० सम्मत्त० २१५  
 वागड पु० ( वागड ) गुजरात का एक वागड नाम का प्रान्त A district called Vagada in Gujarata कु० ६.

वागडिय त्रि० ( व्याकृत ) प्रकट किया हुआ  
Published. वच० १

वागरथि त्रि० ( व्याकरथिन् ) प्रतिपादन  
करने वाला. Demonstrator, com-  
mentator सम्म० २.

वागिल्ल त्रि० ( वागिन् ) बहुभाषी, वाचाल  
Talkative, Loquacious वच० ७

वागुर. पु० ( वागुरा ) मृग-बन्धन, फन्दा  
Snare 'रे रे रएह वागुरे' मोह० ७६

वाधारिय त्रि० ( विस्तारित ) प्रलम्ब, लम्बा  
Long पचा० १८, १८, प्रव० ६७.

वाडव पु० ( वाडव ) बडवानल, समुद्र-स्थित  
अग्नि Submarine fire सण०

वाडहाखण पु० न० ( वाडधानक ) (१) एक  
छोटा गाव Name of a small village

(२) त्रि० उस गाव का निवासी Inhabit-  
tant of that village 'ताहे तेण वाड-  
हाखण हगिइसा' सुख० ६, १, महा०

वाडिआ. स्त्री० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान.  
Garden. 'सणवाडिआ' गा० ६, चारु०  
२६, दे० ७, ३२, रमा०

वाडी. स्त्री० ( वाटी ) बगीचा, उद्यान Garden,  
park धर्मस० ४१

वाणर पु० न० ( वानर ) (१) विद्याधर मनुष्यों  
का एक वंश A lineage of Vidya-  
dharas (२) वानर वंश में उत्पन्न मनुष्य  
Man born in the Vanar family.  
पठम० ६, १

वाणरउरी पु० ( वानरपुरी ) किष्किन्धा नामक  
एक भारतीय प्राचीन नगरी An ancient  
city of India called Kiskindha  
से० १४, २०.

वाणरकेड पु० ( वानरकेतु ) वानर वंश का  
कोई भी राजा. A king of the Vanara  
family. पठम० ८, ०३२

वाणरदीव पु० ( वानरद्वीप ) द्वीप-विशेष A

particular island पठम० ६, ३४

वाणरद्वय पु० ( वानरध्वज ) हनुमान An  
epithet of Hanumata पठम० २३,  
४३.

वाणरवह. पु० ( वानरपति ) सुग्रीव, रामचन्द्र  
का एक सेनापति Sugriva, a general  
of Rama Chandra से० २, ४१; ३, २२.

वाणरिंद पु० ( वानरेन्द्र ) वानर वंशीय पुरुषों  
का राजा, वाली Vali, king of Vanara  
family पठम० ६, ४०

वाणवासिआ स्त्री० ( वानवासिका ) छन्द विशेष  
Name of a metre अजि० ३३

वाणिज्ज न० ( वाणिज्य ) एक जैन मुनि कुल का  
नाम. Name of a group of Jaina  
saints कण०

वाणिजिय. त्रि० ( वाणिजिक ) वाणिज्य कर्ता,  
न्यापारी Trader भवि०

वाणी. स्त्री० ( वाणी ) (१) वाग्देवता, सरस्वती  
देवी Goddess Saraswati कुमा०सति०  
४, (२) छन्द विशेष Name of a metre.  
पिंग०

वाणीर पु ( वानीर ) वेतसू-वृक्ष A sort of  
cane or ratan पात्र० गा० २६६

वाम त्रि० ( वाम ) (१) सुन्दर, मनोहर Beau-  
tiful, charming, वामलोभ्यया पात्र०,  
(२) न० सव्य पक्ष. The left side वामत्यो  
पठम० २२, ३१, (३) बाँया शरीर Left  
wing गा० ३०३ - लोभ्यया स्त्री० ( लोभ्यया )  
सुन्दर नेत्र वाली स्त्री, रमणी A woman  
with lovely eyes पात्र० — वट्ट त्रि०  
( वट्ट ) प्रतिकूल आचरण करने वाला Of  
a perverse or crooked nature  
वृह० १

वामण पु० ( वामन ) (१) श्रीकृष्ण का एक अर-  
तार Name of a Vishnu in his  
fifth incarnation से० २, ६, (०) न०

कर्मविशेष, जिसके उदय से वामन शरीर की प्राप्ति हो. A particular Karma. क० ग० १, ४०

वामणथली स्त्री० (वामनस्थली) देश विशेष. Name of a country ती० १२.

वामलूर पु० ( वामलूर ) वहमीक. An ant-hill, a mote-hill पात्र० गडढ०

वामीस त्रि० (व्यामिश्र) मिश्रित, युक्त, सहित Mixed पडम० ७२, ४, तदु० ४४.

वामीसिय. त्रि० (व्यामिश्रित) मिश्रित, युक्त, सहित Mixed भवि०

वामोह पु० ( व्यामोह ) मूढ़ता, भ्रान्ति. Infatuation वप० वृ० ३३६, सुपा० ६२, भवि०

वामोहण त्रि० (व्यामोहन) भ्रान्ति-जनक Infatuating भवि०

वाय. त्रि० (वान) शुष्क, सूखा, म्लान. Dry. गडढ० से० १, १७, पात्र० प्राप्र० कुमा०

वाय पु० (वात) समूह, सघ. Collection, multitude आ० २३, भवि०

वाय त्रि० (व्यावृ) सवरण करने वाला Hiding, Concealing. आ० २३

वाय त्रि० (व्यागस्) प्रकृत अपराधी, Great guilty. आ० २३

वाय पु० (वातृ) कपडा बुनने वाला, जुलाहा. Weaver आ० २३

वाय त्रि० (व्याव) प्रकृत, विस्तार वाला Broad, expanded आ० २३

वाय. पु० (वाक) ऋग्वेद आदि वाक्य. A sentence of Rigveda etc आ० २३

वाय पु० (व्याय) (१) गति, चाल. Going, motion (२) पक्षीका आगमन Coming of a bird (३) विशिष्ट लाभ Good profit. आ० २३

वाय पु० (व्याच) वचन, डगाई. Cheating, deceitfulness. आ० २३.

वाय. पु० (वाज) (१) पक्ष, पक्ष Wing (२) मुनि, ऋषि Saint or sage (३) शब्द, आवाज़ Sound (४) वेग Speed, velocity (५) न० घृत, घी Ghee. (६) पानी, जल. Water (७) यज्ञ का धान्य Sacrificial corn आ० २३.

वाय न० (वाच) शुक-समूह Multitude of parrots. आ० २३.

वाय. त्रि० (वाज्) (१) फेंकने वाला Throwing (२) नाशक Destroying. आ० २३.

वाय पु० (व्याज) (१) कपट, माया, झल Deceit, trick. (२) विशिष्ट गति. Excellent motion आ० २३.

वाय पु० (वाय) विवाह, शादी Marriage आ० २३

वाय पु० (वाप) (१) वपन, बोना To sow, to plant (२) क्षेत्र, जेत Field. आ० २३.

वाय. पु० (वाय्) (१) गमन, गति Going, motion (२) सूघना To smell (३) जानना, ज्ञान. To know (४) इच्छा Wish, desire (५) खाना, भक्षण To eat (६) परिणयन, विवाह Marriage आ० २३.

वाय त्रि० (व्याद) विशेष ग्रहण करने वाला One who takes much आ० २३

वाय. त्रि० (वाच्) वक्ता, बोलने वाला Speaker. आ० २३

वाय. पु० (वात्) उत्कर्ष [Prosperity, eminence उव० १२ टी

वाय पु० (वाद) (१) उक्ति, वचन Word. (२) नाम, आख्या Name 'बह्वहवाण्य अर्जुन मम' गा० १२३, (३) बजाना Playing, sounding सिरि० ११७, (४) स्थैर्य, स्थिरता. Firmness, stability. आ० २३.

वागडिय त्रि० ( व्याख्यान ) प्रकट किया हुआ  
Published वच० १  
वागडिय त्रि० ( व्याकरण ) प्रतिपादन  
करने वाला. Demonstrator, com-  
mentator मरम० २.  
वागिल्ल. त्रि० ( वाग्मिन् ) घटुभाषी, वाचाल  
Talkative, Loquacious वच० ७.  
वागुर. पु० ( वागुर ) मृग-बन्धन, फन्दा.  
Snare. 'रे रे रणह वागुरे' मोह० ७६  
वाघारिय. त्रि० ( विस्तारित ) प्रताप, लम्बा  
Long पचा० १८, १८, प्रव० ६७.  
वाडय पु० ( वाटा ) घटमानल, समुद्र-स्थित  
अग्नि Submarino fire. सण०  
वाडहाणग पु० न० ( वाटधानक ) (१) एक  
छोटा गांव Name of a small village  
(२) त्रि० इम गांव का निवासी. Inhabi-  
tant of that village 'ताहे तेण वाड-  
हाणगा हणिया' सुर० ६, १, महा०  
वाडिआ. त्नी० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान.  
Garden. 'सखवाडिगा' गा० ६, चार०  
२६, दे० ७, ३२, रभा०  
वाडी, स्त्री० (वाटी) बगीचा, उद्यान Garden,  
park. धर्मस० ४१  
वाणर पु० न० (वानर) (१) विद्याधर मनुष्यों  
का एक वंश A lineage of Vidya-  
dharas (२) वानर वंश में उत्पन्न मनुष्य  
Man born in the Vanar family.  
पडम० ६, १  
वाणरउरी पु० (वानरपुरी) किष्किन्धा नामक  
एक भारतीय प्राचीन नगरी An ancient  
city of India called Kiskindha  
से० १४, २०.  
वाणरकेड पु० (वानरकेतु) वानर वंश का  
कोई भी राजा A king of the Vanara  
family. पडम० ८, २३५  
वाणरदीव पु० (वानरद्वीप) द्वीप-विशेष A

particular island. पडम० ६, ३४.  
वाणरउडय. पु० (वानरपुत्र) हनुमान An  
epithet of Hanumata पडम० १३,  
४३.  
वाणरवद. पु० (वानरपति) सुग्रीव, रामचन्द्र  
का एक सेनापति Sugriva, a general  
of Rama Chandra से० २, ४१; ३, १०.  
वाणरिंद. पु० (वानरेंद्र) वानर वंशीय पुरुषों  
का राजा, वाली Vali, king of Vanara  
family पडम० ६, ४०  
वाणवासिआ ची० (वानवासिका) छन्द विशेष  
Name of a metre अजि० ३३  
वाणिज्ज न० (वाणिज्य) एक जैन मुनि कुल का  
नाम. Name of a group of Jaina  
saints कप्प०  
वाणिज्जिय त्रि० (वाणिजिक) वाणिज्य कर्ता,  
व्यापारी Trader भवि०  
वाणी. स्त्री० (वाणी) (१) वाग्देवता, सरस्वती  
देवी Goddess Saraswati कुमा० सति०  
४, (२) छन्द विशेष Name of a metre-  
पिंग०  
वाणीर पु (वानीर) वेतस् वृक्ष A sort of  
cane or lattan. पाण० गा० २६६  
वाम. त्रि० (वाम) (१) सुन्दर, मनोहर Beau-  
tiful, charming. वामलोअणा पाण०,  
(२) न० सव्य पक्ष The left side वामत्यो  
पडम० २६, ३१, (३) बाँया शरीर Left  
wing गा० ३०३ - लोअणा स्त्री० (लोचना)  
सुन्दर नेत्र वाली स्त्री, रमणी A woman  
with lovely eyes पाण० — वट्ट त्रि०  
(वर्त) प्रतिकूल आचरण करने वाला Of  
a perverse or crooked nature  
वृह० १  
वामण पु० (वामन) (१) श्रीकृष्ण का एक अव-  
तार Name of a Vishnu in his  
fifth incarnation से० २, ६, (२) न०

कर्मविशेष, जिसके उदय से वामन शरीर की प्राप्ति हो. A particular Karma. क० ग० १, ४०

वामराथली स्त्री० (वामनस्थली) देश विशेष. Name of a country ती० १२.

वामलूर पुं० ( वामलूर ) वहमीक. An ant-hill, a mole-hill पाश्च० गडड० चामीस नि० (व्यामिश्र) मिश्रित, युक्त, सहित Mixed पञ्चम० ७२, ४, तदु० ४४.

चामीस्त्रिय. त्रि० (व्यामिश्रित) मिश्रित, युक्त, सहित Mixed. भवि०

चामोह पु० (व्यामोह) मूढता, भ्रान्ति. Infatuation व्य० पृ० ३३६, सुपा० ६५, भवि०

चामोहण त्रि० (व्यामोहन) भ्रान्ति-जनक. Infatuating भवि०

चाय. त्रि० (वान) शुष्क, सूखा, स्नान. Dry. गडड० से० २, २७, पाश्च० प्राय० कुमा०

चाय पु० (जायल) समूह, सघ. Collection, multitude आ० २३, भवि०

चाय त्रि० (व्यावृ) सवरण करने वाला Hiding, Concealing. आ० २३

चाय त्रि० (व्यागस्) प्रकृत अपराधी. Great guilty. आ० २३

चाय पुं० (वातृ) कपडा बुनने वाला, जुलाहा. Weaver आ० २३

चाय त्रि० (व्याप) प्रकृत, विस्तार वाला. Broad, expanded आ० २३

चाय. पु० (वाक) ऋग्वेद आदि वाक्य. A sentence of Rigveda etc आ० २३

चाय. पु० (व्याय) (१) गति, चाल Going, motion (२) पक्षीका आगमन Coming of a bird (३) भिषिष्ट लाभ Good profit. आ० २३

चाय पुं० (व्याच) वचन, ठगार्ह. Cheating, deceitfulness. आ० २३

चाय. पुं० (वाज) (१) पक्ष, पख Wing. (२) मुनि, ऋषि Saint or sage (३) शब्द, आवाज़. Sound (४) वेग. Speed, velocity (५) न० घृत, घी Ghee. (६) पानी, जल Water (७) यज्ञ का धान्य. Sacrificial corn आ० २३.

चाय न० (वाच) शुक-समूह. Multitude of parrots. आ० २३.

चाय. त्रि० (वाज्) (१) फेंकने वाला. Throwing (२) नाशक Destroying. आ० २३.

चाय पु० (व्याज) (१) कपट, माया, झूठ Deceit, trick. (२) विशिष्ट गति. Excellent motion. आ० २३.

चाय. पुं० (जाय) विवाह, शादी Marriage आ० २३

चाय पुं० (वाप) (१) बपन, बोना To sow, to plant (२) क्षेत्र, खेत. Field. आ० २३.

चाय. पु० (वाय) (१) गमन, गति Going, motion (२) सूंघना To smell (३) जानना, ज्ञान. To know (४) इच्छा Wish, desire (५) खाना, भक्षण To eat (६) परिखयन, विवाह Marriage आ० २३.

चाय नि० (व्याद) विशेष ग्रहण करने वाला One who takes much आ० २३

चाय. त्रि० (वाच्) वक्ता, धोतने वाला Speaker. आ० २३.

चाय. पुं० (वात) उत्कर्ष [Prosperity, eminence उव० ५५ टी

चाय. पुं० (वाद) (१) उक्ति, वचन Word. (२) नाम, आख्या. Name 'बल्लहवापण अलं मम' गा० १२३, (३) बजाना Playing, sounding सिरि० १२७, (४) स्थैर्य, स्थिरता. Firmness, stability. आ० २३.

चाय. त्रि० ( पातृ ) रक्षा करने वाला  
Guard (२) पीने वाला One that  
drinks. (३) सूयने वाला Dying  
श्रा० २३

चायतिय त्रि० ( वागन्तिक ) वचन मात्र में  
नियमित A man of word. राज०

चायकम्प न० ( वातकम्प ) अपान वायु का  
सरना, पर्जन Breaking wind. श्रौच०  
६२२ टी

चायग. पुं० ( गाथक ) (१) अभिधायक, अभिधा-  
वृत्ति में अर्थ का प्रकाशक शब्द E\press-  
ing, denoting सम्मत्त० १४३, (२) एक  
प्राचीन जैन महर्षि और ग्रन्थकार, तथार्थसूत्र  
का कर्ता श्री उमास्यातिजी Name of an  
ancient Jaina saint and author.  
पचा० ६, २५, (३) त्रि० कथक, कहने वाला  
Speaker, declaimer (४) पढ़ाने  
वाला Teacher गण० ५

चायग. त्रि० ( वादक ) बजाने वाला Musi-  
cian कुम० ६, महा०

चायग पु० ( वायक ) तन्तुवाय, जुलाहा  
Weaver दे० ६, २६

चायड. त्रि० ( व्याकृत ) स्पष्ट, प्रकट अर्थ वाला  
Distinct, clear. दसनि० ७

चायण न० ( वादन ) (१) बजाना Playing,  
sounding सुपा० १६, २६३, कुम० ४१,  
महा० कप्प०, (२) त्रि० बजाने वाला. Musi-  
cian दे० ७, ६१ टी

चायशिश्त्र त्रि० ( वाचनिक ) वचन सबन्धी  
Relating to the speech. नाट-विक्र०  
३५.

चायस्थ पु० ( वादार्थ ) तल चर्चा, Discus-  
sion, debate 'तेपि सम कुलइ वायस्थ'  
पउम० ४१, ५७

चायत्थि. त्रि० ( वादार्थिन् ) शास्त्रार्थ की चाह  
वाला Desirous of debate पउम०

१०५, २६

चायद्य पु० ( वायव्य ) (१) वायु देवता  
सम्बन्धी Pertaining to the wind,  
aerial (२) सुर० ८, ४५; महा०, (२) न०  
गों के गुर से उड़ी हुई रज Dust raised  
up by the treading of cows कुमा०  
चायस पु० ( वायस ) कायोत्सर्ग में कौट की  
तरह दृष्टि को इधर उधर घुमाना Moving  
of the pupil of the eyes like a  
crow to the right and left while  
in meditation प्रव० ५

चाया स्त्री० ( वाच् ) (१) वाणी की अधिष्ठात्री-  
देवी, सरस्वती Name of Sarasvati,  
the goddess of learning. श्रा० २३;  
(२) व्याकरण-शास्त्र Grammar गडड०  
८०२

चायाड. त्रि० ( वाचाट ) वाचाल, बकवादी  
Talkative, garrulous सुपा० ३६०,  
वेड्य० ११७, सचि० २

चायायण पु० न० ( वातायन ) (१) गवाच  
Window पउम० ३६, ६१, स० २४१,  
पाश्र० महा०, (२) पु० राम का एक सैनिक.  
A warrior of Ram Chandia.  
पउम० ६७, १०

चायाल त्रि० ( वाचाल ) मुखर, बकवादी.  
Talkative, garrulous. श्रा० १२,  
पाश्र० सुपा० ११३

चायाविश्त्र त्रि० ( वादित ) बजवाया हुआ.  
Caused to play or sound स०  
५२७, कुम० १३६

चार. पु० ( चार ) (१) समूह, यूथ Collec-  
tion, multitude सुपा० २१४, सुर०  
१४, २४, सार्थ० ४६, कुमा० सम्मत्त० १७५;  
(२) सूर्य आदि ग्रह से अधिकृत दिन, जैसे  
रविवार सोमवार आदि A day of the  
week (३) वारी, परिपाटी Time, turn.

गा० २६१, उप० ६४८ टी — जुवद्. स्त्री०  
( युवति ) वारागना, वेश्या Prostitute,  
harlot. कुमा० — जोववणी स्त्री० ( यौवना )  
वारागना Courtesan, prostitute  
प्राक्० १४ — तरुणी स्त्री० ( तरुणी ) वारागना  
Public woman, harlot. सख०  
— चहू स्त्री० ( वधू ) वेश्या Prostitute.  
कुप्र० ४४३, — विलासिणी स्त्री० ( विला-  
सिनी ) वारागना Courtesan कुमा०  
सुपा० २००

वार न० ( द्वार ) दरवाजा Door प्राक्०  
२६, कुमा० गा० ८८०, — चाल पु० ( पाल )  
दरवान, प्रतीहार Door-keeper कुमा०  
वारवार न० ( वारवार ) फिर फिर Often  
times and again से० ६, ३२, गा०  
२६४,

वारग पु० ( वारक ) वारी, क्रम Turn,  
time उप० ६४८ टी

वारण न० ( वारण ) ( १ ) छत्र, छाता  
Umbrella सिरि० १०२३ ( २ ) पु०  
छन्द का एक भेद A kind of metre  
पिग०

वारणा. स्त्री० ( वारण ) निवारण, रूकावट  
Warding off, restraining, दूह० १  
वारत्त. पु० ( वारत्त ) ( १ ) एक श्रन्तकृद्  
मुनि Saint ( २ ) एक ऋषि Name of  
a sage उप०, ( ३ ) एक अमात्य Name  
of a minister ( ४ ) न० एक नगर  
Name of a city धम्म० ६ टी

वारवाण पु० ( वारवाण ) कन्चुक, चोली.  
Bodice, jacket पात्र०

वारवई स्त्री० ( द्वारवती ) द्वारका नगरी  
Dwarka City कुप्र० ६३

वारा स्त्री० ( वारा ) ( १ ) देरी, विलम्ब, Delay,  
procrastination 'ज लग्गा एत्तिया वारा'  
सुपा० ४६६, ( २ ) वेला, दफा Time निष्क-

यद् वाराओ दुन्नि तिन्नि' सट्टि० ६ टी  
वाराचिय. त्रि० ( वारित ) जिसका निवारण  
कराया गया हो Warded off, pre-  
vented कुप्र० १४०

वाराही स्त्री० ( वाराही ) ( १ ) विद्या-विशेष,  
Particular magical skill पद्म० ७,  
१४१, ( २ ) वराहमिहिर का बनाया हुआ एक  
ज्योतिष ग्रन्थ, वराहसंहिता Astiological  
volume composed by Varaha  
Mihira सम्मत० १२१.

वारि स्त्री० ( वारि ) हाथी को फसाने का स्थान  
Place for entrapping an ele-  
phant पात्र० स० २७७, ६७८

वारिमद्ग पु० ( वारिमद्ग ) भिचुक की एक  
जाति, शैवलाशी भिचुक A class of beg-  
gars सुयनि० ६०.

वारिमय. त्रि० ( वारिमय ) पानी का बना हुआ  
Made of water हे० १, ४, पि० ७०

वारिसुअ पु० ( वारिसुच् ) मेघ, जलधर.  
Cloud, पद्म०

वारिआ. स्त्री० ( द्वारिका ) छोटा दरवाजा, वारी  
Small window ती० २, धर्मवि० १४६

वारिसिय त्रि० ( वारिपिक ) ( १ ) वर्ष-सम्बन्धी.  
Annually, yearly वाज०, ( २ ) वर्षों  
सम्बन्धी Belonging to the rains  
'चउरो मासा वारिसिया' पद्म० ८२, ६४

वारी स्त्री० ( द्वारिका ) वारी, छोटा दरवाजा  
Window. ती० २

वारी स्त्री० ( वारी ) हाथी को फसाने का  
स्थान Place for entrapping an ele-  
phant 'बद्धो वारीबधे फासेण' सुर० ८,  
१३६, श्रोच० ४४६ टी

वारुण न० ( वारुण ) जल, पानी Water  
सिरि० ३६१, — त्य न० ( अस्त्र ) वरुणाधिपति  
अस्त्र A missile presided over by  
Vishuna. महा०



वारुणपुर. न० ( वारुणपुर ) नगर-विशेष  
Name of a city. एक०  
वारुणी स्त्री० ( वारुणी ) (१) लता-विशेष,  
इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन. A particular  
creeper कुमा०, (२) कायोत्सर्ग का एक दोष  
A defect of a special mode of  
sitting in meditation प्रच० ५  
वालगा न० (पालन) नाटना Causing to  
return सुर० १, २४६  
वाल्य पु० (वालक) गन्ध-द्रव्य-विशेष A  
particular fragrant substance  
पाद्य०  
वालहिल्ल पु० (वालसिल्य) ऋतु से उत्पन्न  
सुलस्य कन्या के साथ हजार पुत्र, जो अगुष्ट  
पर्व के देह-मान वाले थे A class of di-  
vine poisonages of the size of a  
thumb and produced from the  
Kratu's body गडढ०  
वाला पु० स्त्री० (वाला) कणू, अन्न-विशेष A  
species of grain 'सपण्य वालावस्तरश्च'  
गा० ८१२  
वालि. पु० (वालि) एक विद्याधर-राजा, कपि-  
राज. Name of a Vidyadhar king  
पद्य० ६, ६, से० १, १३, —तण्डु पु०  
(तनय) राजा वालि का पुत्र, अंगद Anga-  
da, son of Vali से० १३, ८३.  
वालि त्रि० (वालिन) वक्र, टेढ़ा Crooked,  
bent से० १, १३  
वालिञ्च त्रि० (वालित) मोढ़ा हुआ Bent  
पाद्य० स० ३३७  
वालिन्द पु० (वालीन्द्र) विद्याधर वंश का एक  
राजा Name of a king of Vidya-  
dhar family पद्य० ५, ४५  
वालिखिल्ल पु० (वालिखिल्य) एक राजर्षि.  
Name of a royal sage पद्य० ३४,  
१८.

वाच अ० (वाच) अथवा, या Or, and  
विशे० २०२०  
वाच पु० (वाच) १पन, बोना Sowing,  
planting दे० ६, १२६  
वाचफिर त्रि० (करिण्यु) धर्म करने वाला  
Labourer कुमा०  
वाचड त्रि० (व्यावृत्त) लाटाया हुआ, वापिस  
किया हुआ Returned. उप० १३४.  
वाचण न० (व्यापन) व्याप्त करना Per-  
vading, spreading throughout  
विशे० ८६.  
वाचति स्त्री० (व्यापति) विनाश, मरण  
Death, destruction उप० १०६,  
स० ३६५, ४३२, धर्मस० ६३४, ६७६.  
वाचति स्त्री० (व्यावृत्ति) व्यापार Busi-  
ness, profession उप० १०६  
वाचरण न० (व्यापरण) कार्य में लगाना  
Employing in, engaging in भवि०  
वाचायग त्रि० (व्यापादक) हिंसक, विनाश-  
कर्ता Destructive, ruinous, mur-  
derous, savage स० २६७.  
वाचायण न० (व्यापादन) हिंसा, मार डालना,  
विनाश Killing, slaying स० ३३,  
१०२, १०३, ६७५, सुर० १२, २१६.  
वाचारण न० (व्यापारण) कार्य में लगाना.  
Engaging or employing in.  
विशे० ३०७१, उप० प्र० ७१  
वाचारि त्रि० (व्यापारिन्) व्यापार वाला  
Dealer, trader से० १४, ६६, हम्मीर०  
१३  
वाचि अ० (वाचि) अथवा, या Or, and  
प्रच० ६७  
वाचिञ्च त्रि० (वाचित) प्राप्त, प्राप्त करवाया  
हुआ Caused to procure से० ६, ६२.  
वाचिञ्च त्रि० (व्याप्त) भरा हुआ. Full  
of, filled with कुमा० ६, ६५

वाचित्त त्रि० ( व्यावृत्त ) व्यावृत्ति वाला,  
निवृत्त Turned away from, with-  
drawn from, ceased from धर्मस०  
३२१

वाचित्ति स्त्री० ( व्यावृत्ति ) व्यावर्तन, निवृत्ति  
Desisting, ceasing from, धर्मस०  
१०५

वास पु० ( व्यास ) (१) ऋषि-विशेष, पुराण-  
कर्ता एक मुनि, Name of a celebrated  
sage हे० १, ५, कप्प०, (२) विस्तार  
Width, breadth, भग० २, ८ टी

वासग पु० ( व्यासङ्ग ) आसक्ति, तत्परता  
Close adherence, intent attach-  
ment 'मोक्षूण विलयवासग' उप० १३१  
टी, कुप्र० ११८, उप प्र० १२७

वासत पु० ( वर्षान्त ) वर्षा काल का अन्त  
भाग The end of rainy season  
उप० ४८८

वासतिअ त्रि० ( वासतिक ) वसन्त-सम्बन्धी  
Vernal, relating to the spring  
मै० ३

वासन त्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला,  
Dweller, resident उप० ७६८ टी,  
(२) वासनाकर्ता, संस्काराधायक Scent-  
ing, fumigating धर्मस० ३२६.

वासण न० ( वासन ) वासित करना  
Perfuming, fumigating दसनि०  
३, ३

वासर पु० न० ( वासर ) दिवस, दिन Day  
पात्र० गडड० महा०

वासव. पु० ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति  
Name of Indra पात्र० सुपा० ३०४,  
वेद्य० ५८०, — वसु पु० न० ( धनुष् )  
इन्द्र-धनुष, Rain bow कुप्र० ४५६,  
— सुअ. पु० ( सुत ) इन्द्र का पुत्र, जयन्त.  
The son of Indra called Jay-

anta, पात्र०

वासवकेउ पु० ( वासवकेतु ) हरिवंश का एक  
राजा, राजा जनक का पिता A king of  
Harivansa, father of king Jan-  
aka पत्रम० २१, ३२.

वासवदत्ता स्त्री० ( वासवदत्ता ) (१) राजा  
चन्द्रप्रद्योत की पुत्री और उदयन की परनी  
Name of the daughter of Ch-  
andradadyota and queen of king  
Udayana उत्तनि० ३, (२) एक आख्या-  
यिका. Name of a work or a spe-  
cies of prose composition राज०

वासवनयर न० ( वासवनगर ) अमरावती,  
इन्द्र-नगरी Heaven सुपा० ६०६.

वासवपुरी स्त्री० ( वासवपुरी ) अमरावती,  
इन्द्र-नगरी The city of Indra उप०  
पृ० १७६

वालि त्रि० ( वासिन् ) वासना-कारक, सस्कार-  
स्थापक Scenting, perfuming  
विशे० १६७७

वालि. स्त्री० ( वासि ) वसूला, बढई का एक  
अल्य Adze, small hatchet 'नहि  
वासिवढढईण इह' धर्मस० ४८६.

वासिद्विया स्त्री० ( वाशिष्ठिका ) एक जैन मुनि  
शाखा Name of a branch of Jaina  
Saints कप्प०

वासुइ-वासुगि पु० ( वासुकि ) एक महानाग,  
सर्पराज Name of a celebrated  
serpent, King of snakes से० २, १३,  
गा० ६०, गडड० ती० ७, कुमा० सम्मत० ७६.

वाह पु० ( वाह ) जहाज, नौका Ship, boat  
विशे० १०२७, — वाहिया स्त्री० ( वाहिका )  
ढसवारी. Hoise riding धर्मवि० ४

वाहण. पु० न० ( वाहन ) (१) जहाज, नौका  
Ship, boat उवा० सिरि० ४२३, कुमा०  
१६, (२) चत्ताना Dive, कुप्र० १४७.

चारुणपुर न० ( चारुणपुर ) नगर-विशेष.  
Name of a city एक०

चारुणी री० ( चारुणी ) (१) लता-विशेष,  
इन्द्रचारुणी, इन्द्रायन A particular  
creeper कुमा०, (२) कायोत्सर्ग का एक दोष  
A defect of a special mode of  
sitting in meditation प्रव० २

वालन न० ( वालन ) लाटना Causing to  
return सुर० १, २४६

वालक पु० ( वालक ) गन्ध-द्रव्य-विशेष A  
particular fragrant substance  
पात्र०

वालदित्त पु० ( वालदित्त ) क्रतु से उत्पन्न  
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जो अगुष्ट  
पर्व के देह-मान वाले थे A class of di-  
vine poisonages of the size of a  
thumb and produced from the  
Kratu's body गडड०

वाला पु० स्त्री० ( वाला ) कणू, अन्न-विशेष. A  
species of grain 'सपण्य वालावत्तरअ'  
गा० ८१२

वालि, पु० ( वालि ) एक विद्याधर-राजा, कपि-  
राज. Name of a Vidyadhari king  
पत्रम० ६, ६, से० १, १३, —तयाश्र पु०  
(तनय) राजा वालि का पुत्र, अगद Anga-  
da, son of Vali से० १३, ८३.

वालि त्रि० ( वालिन् ) वक्र, टेढ़ा Crooked,  
bent से० १, १३

वालिञ्च त्रि० ( वालिञ्च ) मोड़ा हुआ Bent  
पात्र० स० ३३७

वालिन्द पु० ( वालिन्द्र ) विद्याधर वंश का एक  
राजा Name of a king of Vidyad-  
dhar family पत्रम० २, ४२

वालिखिल्ल पु० ( वालिखिल्य ) एक राजर्षि  
Name of a royal sage पत्रम० ३४,  
१८.

वात्र अ० ( वात्र ) अथवा, या O1, and  
त्रि० २०२०

वात्र पु० ( वात्र ) उपन, बोना Sowing,  
planting दे० ६, १०६

वाचकिर ति० ( करिण्यु ) श्रम करने वाला  
Labourer कुमा०

वाचड त्रि० ( गानृत्त ) लौटाया हुआ, वापिस  
किया हुआ Returned उप० २३४.

वाचण न० ( व्यापन ) व्याप्त करना Per-  
vading, spreading throughout  
वि० ८६.

वाचस्ति स्त्री० ( व्यापत्ति ) विनाश, मरण  
Death, destruction. उप० २०६,  
स० ३६२, ४३०, धर्मस० ६३४, ६७६

वाचस्ति स्त्री० ( व्यापृत्ति ) व्यापार Busi-  
ness, profession उप० २०६

वाचरण न० ( व्यापरण ) कार्य में लगाना.  
Employing in, engaging in भवि०

वाचायग त्रि० ( व्यापादक ) हिंसक, विनाश-  
कर्ता Destructive, ruinous, mur-  
derous, savage स० २६७.

वाचायश न० ( व्यापादन ) हिंसा, मार डालना,  
विनाश Killing, slaying स० ३३,  
१०२, १०३, ६७२, सुर० १२, २१६.

वाचारण न० ( व्यापारण ) कार्य में लगाना.  
Engaging or employing in  
विशे० ३०७१, उप० प्र० ७१

वाचारि त्रि० ( व्यापारिन् ) व्यापार वाला.  
Dealer, trader से० १४, ६६, हम्मीर०  
१३

वावि अ० ( वापि ) अथवा, या O1, and.  
प्रव० ६७

वाविञ्च त्रि० ( वापिञ्च ) प्राप्त, प्राप्त करवाया  
हुआ Caused to procure से० ६, ६२.

वाविञ्च त्रि० ( व्याप्त ) भरा हुआ. Full  
of, filled with कुमा० ६, ६२

वाचित् त्रि० ( व्यावृत्त ) व्यावृत्ति वाला,  
निवृत्त Turned away from, with-  
drawn from, ceased from. धर्मस०  
३२१  
वाचित् स्त्री० ( व्यावृत्ति ) व्यावर्तन, निवृत्ति  
Desisting, ceasing from. धर्मस०  
१०६  
वास पुं० ( व्यास ) (१) ऋषि-विशेष, पुराण-  
कर्ता एक मुनि, Name of a celebrated  
sage हे० १, २, कल्प०, ( २ ) विस्तार  
Width, breadth. भग० २, ८ टी.  
वासग पु० ( व्यासङ्ग ) आसक्ति, तत्परता  
Close adherence, intent attach-  
ment 'मोक्षाय विजयवाग्भग' उप० १३१  
टी, कुम० ११८, उप० १२७  
वासन्त पु० ( वर्षान्त ) वर्षा काल का अन्त  
भाग The end of rainy season  
उप० ४८८  
वासतिश्च त्रि० ( वासन्तिक ) वसन्त-सम्बन्धी  
Vernal, relating to the spring  
सै० ३  
वासग त्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला  
Dweller, resident उप० ७६८ टी,  
(२) वासनाकर्ता, सस्काराधायक Scent-  
ing, fumigating धर्मस० ३२६,  
वासण न० ( वासन ) वासित करना  
Perfuming, fumigating दसनि०  
३, ३  
वासर पु० न० ( वासर ) दिवस, दिन Day  
पात्र० गवड० महा०  
वासव. पुं० ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति  
Name of Indra पात्र० सुपा० ३०४,  
वेद्य० १८०, —घण्टु पु० न० ( घण्टु )  
इन्द्र-घण्टु. Rain bow कुम० ४२६,  
—सुअ. पुं० ( सुअ ) इन्द्र का पुत्र, जयन्त  
The son of Indra called Jay-

anta. पात्र०  
वासवकेतु पु० ( वासवकेतु ) हरिवग का एक  
राजा, राजा जनक का पिता A king of  
Harivansa, father of king Jan-  
aka पत्रम० २१, ३२  
वासवदत्ता स्त्री० ( वासवदत्ता ) (१) राजा  
चडपद्योत की पुत्री और उदयन की पत्नी,  
Name of the daughter of Ch-  
andpadyota and queen of king  
Udayana उक्तनि० ३, (२) एक आख्या-  
यिका Name of a work or a spe-  
cies of prose composition राज०  
वासवनगर न० ( वासवनगर ) अमरावती,  
इन्द्र-नगरी Heaven सुपा० ६०६  
वासवपुरी स्त्री० ( वासवपुरी ) अमरावती,  
इन्द्र-नगरी The city of Indra उप०  
पृ० १७६  
वासि त्रि० ( वासिन् ) वासना कारक, सस्कार-  
स्थापक Scenting, perfuming  
विशे० १६७७  
वासि. स्त्री० ( वासि ) वस्त्र, बटई का एक  
अक्ष Adze, small hatchet 'नहि  
वासिवडडईण इह' धर्मस० ४८६,  
वासिद्विया स्त्री० ( वाशिष्ठिका ) एक जैन मुनि  
शाखा Name of a branch of Jaina  
Saints कल्प०  
वासुइ-वासुगि पु० ( वासुकि ) एक महानाग,  
सर्पराज Name of a celebrated  
serpent, King of snakes से० २, १३,  
गा० ६०, गउड० ती० ७, कुम० समत० ७६,  
वाह पु० ( वाह ) जहाज, नौका Ship, boat  
विशे० १०२७, —वाहिया स्त्री० ( वाहिका )  
ढसवारी, Hoise riding. धर्मवि० ४  
वाहण. पुं० न० ( वाहन ) (१) जहाज, नौका  
Ship, boat उवा० सिरि० ४२३, कुममा०  
१६, (२) चलाना Drive. कुम० १४७.

चाहणा. स्त्री० ( वाहना ) वहन कराना, बोझ आदि दुआना Causing to bear or carry श्रावक० २२८ टी.

चाहणिय त्रि० ( वाहनिक ) वाहन सम्बन्धी Relating to a vehicle उप०७२८टी.

चाहणिया स्त्री० ( वाहनिका ) वहन कराना, चलाना. Causing to carry or bear स० ३००

चाह्य त्रि० ( व्याहत ) व्याघात-प्राप्त Obstructed, impaded. मोह० १०७ उप०

चाहराविय त्रि० ( व्याहारित ) बुलवाया हुआ Called. कुप्र० १२, महा०

वाहाविय त्रि० ( वाहित ) चलाया हुआ Driven महा०

वाहि. त्रि० ( वाहिन् ) वहन करने वाला, होने वाला Carrying, conveying 'जहा खरो चरणभारवाही' उच०

वाहित्र त्रि० ( वाहित ) चलाया हुआ Driven 'वाहिय तरिम' सुपा० २२७.

वाहिणी स्त्री० ( वाहिनी ) (१) नदी. River धर्मवि० ३, (२) सेना, लश्कर Army 'सेना वरुहिणी वाहिणी' पात्र०, (३) सेना-विशेष, जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े और ४०२ प्यादे हैं. A division of an army consisting of 81 elephants, as many chariots, 243 horses and 405 foot-soldiers पउम० २६, ६

वाहित्ति. स्त्री० ( व्याहृति ) (१) उक्ति, वचन Utterance, speech ( ) आह्वान Calling अरुचु० २

वि अ० ( वि ) (१) विरोध, प्रतिपक्षता Opposition, contrariety, 'विगहा विग्रो' गच्छ० १, ११, (२) विविधता Multiplicity. 'विदस्सग' श्लो० भा० १८८, भग० १, १ टी, (३) दुस्ता, खराबी Abuse,

reproach 'विरुव' ( ४ ) अभाव. उप० ७२८ टी Negation, privation.

'विद्वह' से० २, १०, ( २ ) महत्व. Distinction, greatness. 'विपुत्र' गरड०,

( ६ ) भिन्नता Separation, disjunction 'विपुस' महा०, ( ७ ) ऊचाई, ऊर्ध्वता

Height ( ८ ) पाठपूर्ति 'विक्रवेव' श्लो० भा० १६३ Filling out the line, an expletive पउम० १७, १७

वि पु० ( वि ) (१) पक्षी Bird (२) त्रि० उद्दीपक, उत्तेजक Instigating, stimulating (३) श्रवबोधक, ज्ञापक Indicating, showing विवे० १४३

वि त्रि० ( विद् ) जानकार, विज्ञ Know- ing, conversant with विशेष० २००,

—उच्छ्वा स्त्री० ( शुगुप्सा ) विद्वान् की निन्दा, साधु की निन्दा, To censure the learned श्रा० ६ टी

वित्र. न० ( वियत् ) आकाश, गगन The sky से० ६, ४८, —चचर त्रि० ( चचर ) आकाश विहारी Moving in the sky इक०

वित्र. त्रि० ( विद् ) विज्ञान, जानकारी. Know- ledge, understanding राज०

वित्र पु० ( वृक ) श्रापद जन्तु-विशेष, भेडिया. Wolf नाट-उत्तर० ७१.

वित्रद. त्रि० ( विजयिन् ) जिसकी जीत हुई हो Conqueror, victor भा० २२

वित्रद्वल्ल पु० ( निचकिल ) (१) पुष्प-वृक्ष विशेष A kind of Jasmine (२) न० पुष्प विशेष A particular flower हे० १,

१६६, कम्पू० वा० २३, कुमा०, (३) त्रि० विकसित Blown, fully expanded. सख०

वित्रभ. त्रि० ( विदग्भ ) निष्कपट, सत्य True. 'अथायाय वियभसुहस्स' स० ६६०

विभ्रमण न० (विभ्रमण) (१) जभाई, जम्हाई.  
Gaping, yawning स० ३३६, सुपा०  
१४६, (२) विकास, Blossoming, bud-  
ding (३) उत्पत्ति, Production भवि०  
माल० ८४

विभ्रमण त्रि० ( विवसन ) वस्त्र रहित, नान,  
Naked, unclothed प्राक० ३२

विभ्रमण त्रि० ( वितर्कित ) विमर्शित, विचा-  
रित Thought, guessed सण०

विभ्रमण त्रि० ( व्यग्र ) व्याकुल Bewil-  
dered, distracted प्राक० ३१

विभ्रमणपुर न० ( वियन्धरपुर ) एक विद्याधर  
नगर A Vidyadhar city, इक०

विभ्रमण पु० ( विवर्त ) प्रपञ्च An appaerent  
or illusory form स० १७८

विभ्रमण-विभ्रमण त्रि० ( विसबादित ) असबा-  
दित, अग्रमाणित Differing, disagree-  
ing पाश्च० कुमा० ६, ८८

विभ्रमण त्रि० ( विकृष्ट ) ( १ ) दूर-स्थित  
Being at a distance, remote (२)  
क्रिवि० दूर At a distance, far  
away नाया० १, १ टी

विभ्रमण त्रि० ( विकट ) (१) सुन्दर, मनोहर,  
Beautiful, handsome, गड०, (२)  
पु० एक विद्याधर राजा Name of a  
Vidyadhar king पडम० १०, २०

विभ्रमण स्त्री० ( वितर्क ) वेदिका, हवन स्थान,  
चबूतरा A sacrificial altar or  
ground, a raised seat of a quad-  
angular shape in a courtyard  
हे० २, ३६, कुमा० प्रा०

विभ्रमण स्त्री० ( विदग्धा ) नायिका का एक भेद  
A kind of heroine of a poetic  
composition कुमा०

विभ्रमण पु० स्त्री० ( विदग्धता ) (१) निपुणता,  
Cleverness, dexterity, sharpness

(२) पाण्डित्य, Profound learning,  
erudition कुम० ४०५, वजा० १३४.

विभ्रमण त्रि० ( विजन ) निर्जन, जन-रहित,  
Lonely, solitary भवि०

विभ्रमण स्त्री० ( वेदना ) (१) ज्ञान Know-  
ledge, perception (२) सुख-दुख आदि  
का अनुभव Feeling, sensation (३)  
विवाह, Marriage प्रा० हे० १, १४६,  
(४) पीडा, दुःख, सताप, Pain, agony,  
anguish पाश्च० गड० कुमा०

विभ्रमण त्रि० ( वितनित-वितत ) विस्तीर्ण  
Spread out, extended भवि०

विभ्रमण त्रि० ( विगणित ) अनादृत, तिरस्कृत  
Disregarded, despised भवि०

विभ्रमण त्रि० ( विपन्न ) मृत Dead गा०  
२४६

विभ्रमण त्रि० ( वितृष्ण ) तृष्णा रहित Free  
from desire, content गा० ६३

विभ्रमण त्रि० ( विदत्त ) विशेष रूप से दिया  
दुआ Given ठा० ४, १ टी

विभ्रमण पु० ( विवर्त ) एक ज्योतिष्क महाग्रह  
Name of a great planet ठा० २,  
३ टी, सू० प० १६ टी

विभ्रमण पु० ( विकल्प ) (१) विविध तरह  
की कल्पना, Varied imagination,  
गड०, (२) वितर्क, विचार Thought,  
guess महा०, (३) भेद, प्रकार Sort,  
variety सम्म० ३.

विभ्रमण न० ( विकल्पन ) देखो 'विभ्रमण'  
शब्द Vide 'विभ्रमण' सम्म० १६, स० ६८४.

विभ्रमण स्त्री० ( विकल्पना ) देखो 'विभ्रमण'  
शब्द Vide 'विभ्रमण' धर्मस० २१०

विभ्रमण न० ( विचरण ) विहार, चलना-फिरना,  
Roaming or walking अजि० १६

विभ्रमण त्रि० ( विकल ) (१) रहित, वर्जित,  
बन्धव Deprived of, defective,

वाहणा. स्त्री० ( वाहना ) वहन कराना, बोझ आदि ढुआना Causing to bear or carry श्रावक० २५८ टी

वाहणिय त्रि० ( वाहनिक ) वाहन सम्बन्धी Relating to a vehicle उप०७२८टी.

वाहणिया स्त्री० ( वाहनिका ) वहन कराना, चलायाना Causing to carry or bear स० ३००

वाहय त्रि० ( व्याहत ) व्याघात-प्राप्त Obstructed, impaded मोह० १०७ उप०

वाहराविय त्रि० ( व्याहारित ) बुलवाया ढुआ Called. कुप्र० १२, महा०

वाहराविय त्रि० ( वाहित ) चलाया ढुआ Driven महा०

वाहि. त्रि० ( वाहिन् ) वहन करने वाला, ढोने वाला Carrying, conveying 'जहा खरो चदणभारवाही' उव०

वाहित्र त्रि० ( वाहित ) चलाया ढुआ Driven 'वाहिय तगिम' सुपा० २२७.

वाहिणी स्त्री० ( वाहिनी ) (१) नदी, River धर्मवि० ३, (२) सेना, लरकर Army 'सेना वरुहिणी वाहिणी' पात्र०, (३) सेना-विशेष, जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े और ४०२ प्यादे हों. A division of an army consisting of 81 elephants, as many chariots, 243 horses and 405 foot-soldiers पत्र० २६, ६

वाहित्ति. स्त्री० ( व्याहति ) (१) उक्ति, वचन Utterance, speech२ ( ) आह्वान Calling अर्चु० २

वि अ० ( वि ) (१) विरोध, प्रतिपक्षता Opposition, contrariety. 'विगहा वित्रो' गच्छ० १, ११, (२) विविधता Multiplicity. 'विउस्सग' श्रोध० भा० १८८, भग० १, १ टी, (३) दुस्सा, सरावी Abuse,

reproach 'विरुव' ( ४ ) अभाव, उप० ७२८ टी Negation, privation. 'विहृग्ह' से० २, १०, ( ५ ) महत्त्व, Distinction, greatness. 'विपुत्र' गजड०, ( ६ ) भिन्नता Separation, disjunction 'विपुस' महा०, ( ७ ) ऊचाई, ऊर्ध्वता Height ( ८ ) पादपूति 'विक्खेव' श्रोध० भा० १६३ Filling out the line, an expletive पत्र० १७, १७

वि पु० ( वि ) (१) पक्षी Bird (२) त्रि० उद्दीपक, उत्तेजक Instigating, stimulating (३) श्रवबोधक, ज्ञापक Indicating, showing विवे० १४३

वि त्रि० ( विद् ) जानकार, विज्ञ. Knowing, conversant with विणे० ५००, —उच्छा स्त्री० ( उगुप्सा ) विद्वान् की निन्दा, साधु की निन्दा To censure the learned आ० ६ टी

वित्र. न० ( वियत् ) आकाश, गगन The sky से० ६, ४८, —उत्तर त्रि० ( उत्तर ) आकाश विहारी Moving in the sky इक०

वित्र. त्रि० ( विद् ) विज्ञान, जानकारी Knowledge, understanding राज०

वित्र पु० ( वृक ) श्रापट जन्तु-विशेष, भेडिया. Wolf नाट-उत्तर० ७१.

वित्रइ. त्रि० ( विजयिन् ) जिसकी जीत हुई हो Conqueror, victor मा० २०

वित्रइल्ल पु० ( विचकिल ) (१) पुष्प-वृक्ष विशेष A kind of Jasmine (२) न० पुष्प विशेष A particular flower हे० १, १६६, कप्पु० वा० २३, कुमा०, (३) त्रि० विकच, विकसित Blown, fully expanded. सण०

वित्रभ. त्रि० ( विद्रम्भ ) निष्कपट, सत्य. True. 'शयाणय वियमसुहस्म' स० ६६०.

विभ्रमण न० (विजृम्भण)(१) जभाई, जम्हाई  
Gaping, yawning स० ३३६, सुपा०  
१४६, (२) विकाश, Blossoming, bud-  
ding (३) उत्पत्ति Production भवि०  
माल० ८४

विभ्रंसण त्रि० ( विवसन ) वस्त्र रहित, नग्न  
Naked, unclothed प्राक० ३२

विभ्रंक्षिय त्रि० ( वितर्कित ) विमर्शित, विचा-  
रित Thought, guessed सण०

विभ्रंग त्रि० ( व्यग्र ) व्याकुल Bewil-  
dered, distracted प्राक० ३१

विभ्रञ्चरपुर न० ( वियञ्चरपुर ) एक विद्याधर  
नगर A Vidyadhar city. इक०

विभ्रंष्ट पु० ( विवर्त ) प्रपञ्च An apparant  
or illusory form स० १०८

विभ्रंष्ट-विभ्रंष्टिअ त्रि० ( विसवादित ) असवा-  
दित, अग्रमाणित Differing, disagree-  
ing पाअ० कुमा० ६, ८८

विभ्रंष्ट त्रि० ( विकृष्ट ) ( १ ) दूर-स्थित  
Being at a distance, remote (२)  
क्रिवि० दूर At a distance, far  
away नापा० १, १ टी

विभ्रंड त्रि० ( विकट ) (१) सुन्दर, मनोहर.  
Beautiful, handsome. गड०, (२)  
पु० एक विद्याधर राजा Name of a  
Vidyadhar king पडम० १०, २०

विभ्रंष्टि स्त्री० ( वितर्दि ) वेदिका, हवन स्थान,  
चबूतरा A sacrificial altar or  
ground, a raised seat of a quad-  
rangular shape in a courtyard  
हे० २, ३६, कुमा० प्राप्र०

विभ्रंष्टि स्त्री० (विदग्धा) नायिका का एक भेद  
A kind of heroine of a poetic  
composition कुमा०

वियड्डिम. पु० स्त्री० (विदग्धता)(१) निपुणता.  
Cleverness, dexterity, sharpness

(२) पाठिस्य, Profound learning,  
erudition. कुप्र० ४०२, वजा० १३४.

विभ्रण त्रि० ( विजन ) निर्जन, जन-रहित.  
Lonely, solitary भवि०

विभ्रणा स्त्री० ( वेदना ) (१) ज्ञान Know-  
ledge, perception (२) सुख-दुःख आदि  
का अनुभव Feeling, sensation (३)  
विवाह. Marriage प्राप्र० हे० १, १४६,  
(४) पीडा, दुःख, सताप. Pain, agony,  
anguish पाअ० गड० कुमा०

विभ्रणिय त्रि० ( वितनित-वितत ) विस्तीर्ण  
Spread out, extended भवि०

विभ्रणिय त्रि० ( विगणित ) अनादृत, तिरस्कृत  
Disregarded, despised भवि०

विभ्रणय त्रि० ( विपन्न ) मृत Dead. गा०  
२४६.

विभ्रणह त्रि० ( वितृष्ण ) तृष्णा रहित Free  
from desire, content गा० ६३

विभ्रस त्रि० ( विदत्त ) विशेष रूप से दिया  
हुआ Given डा० ४, १ टी

विभ्रस पु० ( विवर्त ) एक ज्योतिष्क महाप्रह  
Name of a great planet डा० २,  
३ टी, सू० प० १६ टी

विभ्रप्प पु० ( विकल्प ) (१) विविध तरह  
की कल्पना. Varied imagination.  
गड०, (२) वितर्क, विचार Thought,  
guess महा०, (३) भेद, प्रकार Sort,  
variety सम्म० ३.

विभ्रप्पण न० ( विकल्पन ) देखो 'विभ्रप्प'  
शब्द Vide 'विभ्रप्प' सम्म० १६, स० ६८४.

विभ्रप्पणा स्त्री० ( विकल्पना ) देखो 'विभ्रप्प'  
शब्द Vide 'विभ्रप्प' धर्मस० २१०

विभ्ररण न० ( विचरण ) विहार, चलना-फिरना.  
Roaming or walking अजि० १६

विभ्रल त्रि० ( विकल ) (१) रहित, चर्जित,  
वन्ध्य Deprived of, defective,



- desitute of. सा० २, (२) विह्वल, व्याकुल Frightened, alarmed गा० २८२
- विभ्रल्लिख त्रि० (विगलित) (१) नाश-प्राप्त, नष्ट Destroyed, ruined से० २, ४२, सण०, (२) पतित, टपक कर गिरा हुआ Trickled, oozed पाद्य०
- विभ्रस्रावय त्रि० (विकासन) विकसित करने वाला Blowing, expanding गडड०
- विभ्रस्राविभ्र त्रि० (विकासित) विकसित किया हुआ Blown, fully opened or expanded सुपा० २२२
- विभ्राउभ्रा स्त्री० (विपाठिका) रोग-विशेष, पामर A kind of disease, a sore or tumour on the foot दे० ८, ७१
- विभ्राण न० (विज्ञान) जानकारी, ज्ञान Knowledge, intelligence. सष्टि० १६
- विभ्राण न० (वितान) (१) वृत्ति विशेष A special mode of living (२) अवसर. Opportunity (३) यज्ञ Sacrifice, oblation हे० १, १७७, प्राप्र० (४) पु० न० चन्द्रातप, चदोद्या, आच्छादन विशेष. Canopy, awning. गडड० २००, ११८०, हे० १, १७७, प्राप्र०
- विभ्राणिभ्र त्रि० (विज्ञात) जाना हुआ, विदित Known, perceived स० २६७, सुपा० ३६१, महा० सुर० ४, २१४, १२, ७१, पिग०
- विभ्रार पु० (विचार) मत, अभिप्राय Opinion, view. भवि०
- विभ्रारण न० (विचारण) (१) विचार करना Discussion सुपा० ४६४, सार्ध० ६०, (२) विचार करने वाला. Investigator सुपा० ५२, (३) त्रि० विचरण करने वाला Roamer, wanderer अजि० २६
- विभ्रारण त्रि० (विदारण) विदारण सन्ध्याधी, विदारण से डहन होने वाला Relating to
- tearing or breaking जव० १६.
- विभ्रारणा स्त्री० (विचारणा) विचार, विमर्श Thought, deliberation उप० ७२८ टी, स० २४७, पचा० ११, ३४.
- विभ्रारणा स्त्री० (दितारणा) विप्रतारणा, ठगई Deception, trickery, roguery उप० ६१६
- विभ्रारधवल पु० (विचारधवल) एक राजा का नाम Name of a king उप० ७२८ टी, महा०
- विभ्रारय त्रि० (विचारक) विचार करने वाला Investigator पठम० ८, २
- विभ्रारिभ्र त्रि० (विचारित) जिसका विचार किया गया हो Discussed, inquired into दे० १, १६८
- विभ्रारिभ्र त्रि० (विदारित) (१) खोला हुआ, फाटा हुआ. Opened, expanded नमि० १२, (२) विदीर्ण किया हुआ, चीरा हुआ Torn, rent asunder भवि०
- विभ्रारिभ्र त्रि० (वितारित) (१) प्रपित, दिया गया Given. स० ३३७, (२) ठगा हुआ, विप्रनारित Cheated, deceived. सुपा० ३२४
- विभ्रारिभ्र-विभ्रारुह त्रि० (विकारवत्) विकार वाला, विकार-युक्त Deviated from the natural course प्राप्र० ६०२, १२६
- विभ्रावाय पु० (व्यापात) भ्रश, नाश Ruin, destruction आया० १, ६, २, ६ टी
- विभ्रास पु० (विकाश) अवकाश Occasion, opportunity गडड० ००१
- विभ्रास. पु० (विकाम) प्रफुल्लता Blowing, expanding. पि० १०२, भवि०
- विभ्रासग त्रि० (विकासक) विकसित करने वाला. Blowing, expanding. सुपा० ६४८

विश्रासर त्रि० ( विकस्वर ) विकसने वाला, प्रकुल. Opening, expanding पद०  
 विश्राह पु० ( विवाह ) (१) विविध प्रवाह Various current (२) विशिष्ट प्रवाह Distinguished flow. (३) त्रि० विशिष्ट सतान वाला A man with good children भग० १, १ टी  
 विश्राह त्रि० ( विवाध ) बाध रहित Without objection. भग० १, १ टी  
 विद्भिन्न त्रि० ( विविक्त ) विनाशित Destroyed स० १३२  
 विद्भिद् त्रि० ( व्यतिकृष्ट ) दूर-स्थित, विमकृष्ट. Remote, distant. वृह० १  
 विद्भिद् त्रि० ( विकीर्य ) (१) बिखरा हुआ Scattered, dispersed (२) विसित, फेंका हुआ Thrown से० १०, ३  
 विद्भिद् त्रि० ( विवृण ) तृण्य-रहित, नि स्पृह. Free from desire, content से० २, १०, प्राप्र० गा० ६३, १७६  
 विडम्ब त्रि० ( विद्युत ) विद्युक्त, रहित Flea from, deprived of सम्म० १२.  
 विडम्ब त्रि० ( विवृत ) (१) विस्तृत Expanded, spread out (२) व्याख्यान Expounded, explained हे० १, १३१  
 विडम्बेय पु० ( व्यवच्छेद ) विनाश Destruction, ruin पचा० १७, १८  
 विडम्बेय न० ( विवर्तन ) निवृत्ति Abstaining from work, inactivity श्रौच० ७६१  
 विडम्बेय न० ( विकृष्टन ) (१) विच्छेद Cutting asunder, breaking ( २ ) आलोचना, अतिचार-विच्छेद Removal of the defects श्रौच० ७६१, (३) त्रि० विच्छेद-कर्ता One who cuts or breaks धर्मस० ६६६,  
 विडम्बेय न० ( विनाशन ) (१) विनाश

Destinction, annihilation स० २७, ६६१, ( २ ) त्रि० विनाश कर्ता Destroyer स० ३७, २८२.  
 विडम्बेय त्रि० ( विनाशित ) नष्ट किया गया Destroyed, ruined पात्र० कुमा० ७५० ७२८ टी  
 विडम्बेय त्रि० ( विगुण ) गुण-रहित, गुण-हीन. Destitute of qualities, workless हे० ६, ७८  
 विडम्बेय त्रि० ( विबुद्ध ) ( १ ) जागृत Aroused, awakened सुपा० १४०, (२) विकसित Expanded, blossomed स० ७६८  
 विडम्बेय त्रि० ( व्युत्प्रकट ) अतिशय प्रकट, व्यक्त. Manifested, displayed भग० ७, १० टी  
 विडम्बेय पु० ( विपुलयशस् ) एक जिनदेव का नाम Name of a Jinadeo उप० ६८६ टी  
 विडम्बेय त्री० ( विपुलाकरी ) विद्या-विशेष A kind of magical skill पदम० ७, १३८  
 विडम्बेय त्रि० ( विकृत-विकुर्वित ) ( १ ) निर्मित, बनाया हुआ, Made महा० सुपा० ८८, (२) शकृत, विभूषित Decorated, ornamented वृह० १  
 विडम्बेय त्रि० ( विबुध ) (१) परिबत, विद्वान् Learned (२) पु० देव, सुर Deity. हे० १, १७७  
 विडम्बेय पु० ( व्यूह ) रचना विशेष A particular structure or formation पचा० ८, ३०.  
 विडम्बेय त्रि० ( वितेजस् ) महान् प्रकाश Excessive lustre or brilliance. गडड०  
 विडम्बेय पु० ( विदेश ) ( १ ) कुत्सित-ग्राम,

खराब गाम A bad village (२) बन्धन-  
स्थान गा० ७६  
विश्वोद्भ्र त्रि० (वियोजित) अलग किया हुआ.  
Separated. से० ६, ७१, गा० १३२, स०  
६८, सुर० १५, २१७  
विश्वोगिय, त्रि० (वियोगित) वियोग प्राप्त  
Separated धर्मवि० १३१  
विश्वोजय त्रि० (वियोजक) वियोग-कारक  
Separating स० ७५०  
विश्वोदर पु० (वृकोदर) भीमसेन एक पाण्डव  
An epithet of Bhima. नाट-वेद्यो०  
३६  
विश्वोयण न० (वियोजन) वियोग, विच्छेद.  
Separation, disunion सुर० ११, ३२.  
विश्वोरमण न० (न्युपरमण) विराघना,  
विनाश. Destruction ओषभा० १६०,  
ओष० ३२६  
विश्वोह पु० (विश्वोघ) जागरण, जागृति  
Awakening, being awake भवि०  
विन्दुश्च पु० (वृश्चिक) जन्तु विशेष, विच्छू  
Scorpion हे० १, १२८, २, १६, ८६  
विभ्र पु० (विन्ध्य) (१) व्याघ्र, बहेलिया  
Hunter हे० १, २५, २, २६, प्राप्०,  
(२) एक जैन मुनि Name of a Jaina  
saint विशेष० २५१२, (३) एक श्रेष्ठ पुत्र  
Name of son of a noble man  
मुपा० ५७८  
वितर पु० (व्यन्तर) (१) विच्छू आदि दुष्ट  
जन्तु Scorpion 'वीहह वितरमपाण'  
उप० ५६४, वजा० १२, (२) एक देव जाति  
A kind of god 'वितर अवि किंकरा'  
आ० १०, दे० २.  
वितागी. स्त्री० (वृताकी) बंगन का पेड़.  
The plant that produces brin-

एक वन Name of a forest of  
Muttra ती० ७  
विध्रण न० (व्यधन) छेदन, वेधना Pier-  
cing, perforating धर्मवि० ५२  
विध्रिश्च त्रि० (विद्ध) जो वेधा गया हो,  
छिन्न Pierced सम्मत्त० १५८  
विभिश्च त्रि० (विस्मित) आश्चर्य-चकित  
Astonished, surprised वजा० ६६,  
भवि०  
विकप त्रि० (विकम्प) कम्प, हिलन Shak-  
ing, Tremor. पचा० १८, १५  
विकच त्रि० (विकच) विकसित, प्रफुल्ल  
Blown, expanded दे० ७, ८६  
विकत्थण न० (विकत्थन) (१) प्रशंसा,  
श्लाघा Praise (२) त्रि० प्रशंसा-कर्ता  
Praising पुष्प० ३३०, धर्मवि० ३६,  
विकारिण त्रि० (विकारिन्) विकार-युक्त  
Deviated from the natural state.  
प३म० २६, ६०  
विक्रिट्ट त्रि० (विकृष्ट) (१) उत्कृष्ट Ex-  
cellent, eminent (२) न० लगातार  
चार दिनों का उपवास Four fasts at a  
time सयोध० ५८  
विक्रिण न० (विक्रयण) विक्रय, वेचना  
Selling कुमा०  
विक्रिया. स्त्री० (विक्रिया) (१) विविध  
क्रिया. A variety of action (२)  
विशिष्ट क्रिया A special action राज०  
विकुच्छिश्च त्रि० (विकुस्मित) सरग्न, दुष्ट  
Bad, wicked भवि०  
विकोश्च पु० (विकोच) विम्बार, फैलाप  
Amplification, breadth धर्मत० ३६५,  
भाग० ५, ७ टी  
विकोविय त्रि० (विकोविद्) कुशल, निपुण  
Clever, skilfull, shrewd पिट०

विकोसित्र त्रि० ( विकोशित ) विकसित  
Blown, expanded. कुमा०  
विक्रइ त्रि० ( विक्रयिन् ) बेचने वाला.  
Dealer, vendor दे० २, ६८  
विक्रत पु० ( विक्रान्त ) पहली नरक-भूमि का  
वारहवा नरकेन्द्रक The twelfth abode  
of the first hell देवेन्द्र० १  
विक्रण न० ( विक्रयण ) विक्रय, बेचना  
Selling सुपा० ६०६, सट्टि० १ टी  
विक्रम पु० ( विक्रम ) ( १ ) एक राजा का  
नाम Name of a king सुपा० १६६,  
( २ ) राजा विक्रमादित्य Name of a ce-  
lebrated king of Ujjayini रमा०७  
विक्रमजस. पु० ( विक्रमयशस् ) एक राजा.  
Name of a king महा०  
विक्रमपुर. न० ( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम  
Name of a city ती० २१  
विक्रमसेण पु ( विक्रमसेन ) एक राजकुमार.  
Name of a prince सुपा० १६२  
विक्रमाइच्च-त्त पु० ( विक्रमादित्य ) एक  
सुप्रसिद्ध राजा Name of a celebrated  
king गा० ४६४, अ०सम्मत्० १४६, सुपा०  
१६२, गा० ४६४  
विक्रमि. त्रि० ( विक्रमिन् ) पराक्रमी, शूर  
Chivalrous, heroic कुमा०  
विक्रव त्रि० ( विक्रव ) व्याकुल, बेचैन.  
Confused, bewildered मव० १६६,  
प्राय० सवोध० २१  
विक्रिण्ण-विक्रिय त्रि० ( विक्रीत ) बेचा  
हुआ Sold सुपा० ६४२, भवि०  
विक्रिया स्त्री० ( विक्रिया ) विकृति, विकार  
Change of form or nature  
सुपा० ११४  
विक्रोण पु० ( विक्रोण ) विकृणन, घृणा से  
मुह सिकुडना A her, an oblique or  
arch-look दे० ३, २८

विक्रम पु० ( विक्रम ) ( १ ) प्रतिबन्ध,  
निरोध, Obstacle, hindrance सम्पू०  
स्वो०, ( २ ) नाटक का एक अंग ( In dra-  
mas ) An interlude between the  
acts of a drama and performed  
by one or more characters-  
midding or inferior, who connect  
the story of the drama and  
the Subdivisions of the plot by  
briefly explaining to the  
audience what has occurred in  
the intervals of the acts or what  
is likely to happen later on कप्पू०  
विक्रमिन् त्रि० ( विक्रमिन् ) निरुद्ध, रोका  
हुआ Hindered, obstructed सम-  
यक्वो० ८  
विक्रवण न० ( विक्रवण ) ( १ ) विनाश.  
Destruction, ruin ( २ ) विनाशक.  
Destroyer सुपा० ४७.  
विक्रवाइ स्त्री० ( विक्रवाति ) प्रसिद्धि Cele-  
brity, reputation भवि०  
विक्रित. त्रि० ( विक्रित ) भ्रान्त, पागल,  
Mad 'पसुत्तविक्रित्तणो परियणो' उप०  
७२८ टी, दे० १, ११३, महा०  
विक्रिवण न० ( विक्रिवण ) ( १ ) दूरीकरण.  
Removing ( २ ) प्रेरणा Instigation,  
inciting मव० ६४  
विक्रवेव पु० ( विक्रवेव ) ( १ ) क्षोभ Dis-  
traction, confusion 'छोहो विक्रवेवो'  
पाश०, ( २ ) ग्लानि, खेद Exhaustion,  
languor से० १, ३, ( ३ ) चित्त-भ्रम A-  
berration, disturbance of mind  
स० २८२, ( ४ ) विलव, देरी Delay स० ७३१,  
( ५ ) सैन्य, लश्कर Army स० २४, १७३  
विक्रवेविया स्त्री० ( विक्रवेविका ) व्याचेप, विचेप.  
Distraction, confusion. वव० ६

खराग गाम A bad village. (२) बन्धन-  
स्थान गा० ७६  
विश्वोद्भ्र त्रि० (वियोजित) अलग किया हुआ,  
Separated. से० ६, ७१, गा० १३२, स०  
६८, सुर० १५, २१७  
विश्वोदिय त्रि० (वियोगित) वियोग प्राप्त  
Separated धर्मवि० १३१  
विश्वोदय त्रि० (वियोजक) वियोग-कारक  
Separating स० ७५०  
विश्वोदर पु० (वृकोदर) भीमसेन एक पाण्डव  
An epithet of Bhima. नाट-वेणी०  
३६  
विश्वोदय न० (वियोजन) वियोग, विच्छेद.  
Separation, disunion सुर० ११, ३२.  
विश्वोरमण न० (व्युपरमण) विराधना,  
विनाश, Destruction ओघभा० १६०,  
ओघ० ३२६  
विश्वोह पु० (विबोध) जागरण, जागृति  
Awakening, being awake भवि०  
विचुश्च पु० (वृश्चिक) जन्तु विशेष, विच्छ  
Scorpion हे० १, १२८, २, १६, ८६  
विभ्र पु० (विन्ध्य) (१) व्याध, बहेलिया  
Hunter हे० १, २५, २, २६, प्रा०,  
(२) एक जैन मुनि Name of a Jain  
saint विश्व० २५१२, (३) एक श्रेष्ठ पुत्र  
Name of son of a noble man  
सुपा० ५७८  
वितर पु० (व्यन्तर) (१) विच्छ आदि दुष्ट  
जन्तु Scorpion 'वीहद् वितरसम्पाय'  
उप० ५६४, वजा० १२, (२) एक देव जाति  
A kind of god 'वितरा अवि किंकरा'  
आ० १२, दे० २  
वितागी. स्त्री० (वृन्ताकी) बेंगन का पेड़  
The plant that produces brin-  
jals सण०  
विदावण पु० न० (वृन्दावन) मथुरा का

एक वन Name of a forest of  
Muttia ती० ७  
विद्यय न० (व्यधन) छेदन, वेधना Pier-  
cing, perforating धर्मवि० ५२  
विद्यिश्च त्रि० (विद्) जो वेधा गया हो,  
छिन्न Pierced सम्मत्त० १५८  
विभिश्च त्रि० (विस्मित) आश्चर्य-चकित  
Astonished, surprised वजा० ६६,  
भवि०  
विकप त्रि० (विकम्प) कम्प, हिलान Shak-  
ing, Tremor. पचा० १८, १५  
विकच त्रि० (विकच) विकसित, प्रफुल्ल  
Blown, expanded दे० ७, ८६  
विकत्यण न० (विकत्यन) (१) प्रशंसा,  
श्लाघा Praise (२) त्रि० प्रशंसा-कर्ता  
Praising पुष्प० ३३०, धर्मवि० ३६,  
विकारिण त्रि० (विकारिन्) विकार-युक्त  
Deviated from the natural state-  
पत्र० २६, ६०  
विक्रिष्ट त्रि० (विक्रष्ट) (१) उत्कृष्ट Ex-  
cellent, eminent (२) न० लगातार  
चार दिनों का उपवास Four fasts at a  
time सबोध० ५८  
विक्रिणय न० (विक्रयण) विक्रय, बेचना  
Selling कुमा०  
विक्रिया. स्त्री० (विक्रिया) (१) विविध  
क्रिया, A variety of action (२)  
विशिष्ट क्रिया A special action राज०  
विकुच्छिश्च त्रि० (विकुचित) सराब, दुष्ट.  
Bad, wicked भवि०  
विकोश्च पु० (विकोच) विस्तार, फैलाव.  
Amplification, breadth धर्मस० ३६५,  
भग० ५, ७ टी  
विकोचिय त्रि० (विकोचिद्) कुशल, निपुण.  
Clever, skilfull, shrewd पिड०  
४३१.

विकोसिञ्च त्रि० ( विकोशित ) विकसित  
Blown, expanded कुमा०  
विक्रइ त्रि० ( विक्रयिन् ) बेचने वाला  
Dealer, vendor दे० २, ६८  
विक्रत पु० ( विक्रान्त ) पहली नरक-भूमि का  
वारहवा नरकेन्द्रक The twelfth abode  
of the first hell देवेन्द्र० २  
विक्रयाण न० ( विक्रयण ) विक्रय, बेचना  
Selling सुपा० ६०६, सट्टि० ६ टी  
विक्रम पु० ( विक्रम ) ( १ ) एक राजा का  
नाम Name of a king सुपा० २६६,  
( २ ) राजा विक्रमादित्य Name of a ce-  
lebrated king of Ujjayini रमा०७  
विक्रमजस पु० ( विक्रमयजस् ) एक राजा,  
Name of a king महा०  
विक्रमपुर. न० ( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम  
Name of a city ती० २१  
विक्रमसेण पु ( विक्रमसेन ) एक राजकुमार.  
Name of a prince सुपा० २६२.  
विक्रमाइच्छ-त्त पु० ( विक्रमादित्य ) एक  
सुप्रसिद्ध राजा Name of a celebrated  
king गा० ४६४, अ०सम्मत्०१४६, सुपा०  
२६२, गा० ४६४  
विक्रमि. त्रि० ( विक्रमिन् ) पराक्रमी, शूर  
Chivalrous, heroic कुमा०  
विक्रम त्रि० ( विक्रमव ) व्याकुल, बेचैन,  
Confused, bewildered प्रव० १६६,  
प्रा० सवोध० २१  
विक्रिण्ण-विक्रिय त्रि० ( विक्रीत ) बेचा  
हुया Sold सुपा० ६४२, भवि०  
विक्रिया श्री० ( विक्रिया ) विकृति, विकार  
Change of form or nature  
सुपा० २१४  
विक्रोण. पु० ( विक्रोण ) विक्रयान, घृणा से  
मुह सिकुडना A hel, an oblique or  
arch-look दे० ३, २८

विक्रम पु० ( विक्रम ) ( १ ) प्रतिबन्ध,  
निरोध Obstacle, hindrance सम्पक्  
चो०८, ( २ ) नाटक का एक अंग. ( In dia-  
mas) An interlude between the  
acts of a drama and performed  
by one or more characters-  
maddling or inferior, who conn-  
ect the story of the drama and  
the Subdivisions of the plot by  
briefly explaining to the  
audience what has occurred in  
the intervals of the acts or what  
is likely to happen later on कप्प०  
विक्रमिञ्च त्रि० ( विक्रमिञ्च ) निरुद्ध, रोका  
हुया Hindered, obstructed सम-  
यक्वो० ८  
विक्रमण न० ( विक्रमण ) ( १ ) विनाश  
Destruction, ruin ( २ ) विनाशक.  
Destroyer सुपा० ४७.  
विक्रमाइ श्री० ( विक्रमाति ) प्रसिद्धि Cele-  
brity, reputation भवि०  
विक्रिञ्च. त्रि० ( विक्रिञ्च ) भ्रान्त, पागल,  
Mad 'पसुत्तविक्रिञ्चतजण्यो परियण्यो' उप०  
७२८ टी, दे० १, ११३, महा०  
विक्रिञ्चण न० ( विक्रिञ्चण ) ( १ ) दूरीकरण.  
Removing ( २ ) प्रेरणा Instigation,  
inciting प्रव० ६४  
विक्रवेव पु० ( विक्रवेव ) ( १ ) चोम Dis-  
traction, confusion 'छोहो विक्रवेवो'  
पात्र०, ( २ ) ग्लानि, खेद Exhaustion,  
languor से० २, ३, ( ३ ) चित्त-भ्रम A-  
beiration, disturbance of mind  
स०२८२, ( ४ ) विलंब, देरी Delay स०७३२,  
( ५ ) सैन्य, लश्कर Army स०२४, २७३  
विक्रवेविया श्री० ( विक्रवेविका ) व्याघ्रेष, विक्षेप.  
Distraction, confusion. वच० ६

विखड्डिय त्रि० ( विखड्डित ) खड्डित किया हुआ Broken up, divided पउम० २२, ६२,  
 विगइ स्त्री० ( विगति ) विनाश Destruction, ruin विशे० २१४६  
 विगइगाल त्रि० ( विगताहार ) राग रहित Free from passions श्रौघ० २७६  
 विगइच्छु त्रि० ( विगतेच्छु ) इच्छा-रहित, निस्पृह Free from desires उप० १३० टी, ६१३,  
 विगतत्ता स्त्री० ( विकर्तना ) छेदन Piercing उव०  
 विगतथय त्रि० ( विकत्यक ) प्रशंसा करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला Praising, boasting, Swagging, bragging भवि०  
 विगम पु० ( विगम ) विनाश. Destruction, ruin सुर० ७, २२६, १२, १६  
 विगय पु० ( विगत ) एक नरक-स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २६  
 विगयधूम. त्रि० ( विगतधूम ) द्वेष रहित Free from passions श्रौघ० २७६  
 विगरण न० ( विकरण ) परिछापन, परित्याग Quitting, abandonment कस०  
 विगाढ त्रि० ( विगाढ ) ( १ ) विशेष-गाढ, अतिशय निबिड Closely pressed together, vehement, excessive intense उक्त० १०, ४ टी, ( २ ) चारों ओर से व्याप्त Pervaded on all sides राज०  
 विगाण न० ( विगान ) ( १ ) वचनीय, लोकापवाद Censure, reproach, defamation दे० ३, ३, ( २ ) विप्रतिपत्ति, विरोध A contradictory statement, contradiction धर्मस० २६६, चेइय०

७२६  
 विगालिय त्रि० ( विगालित ) विलम्बित, प्रतीक्षित Waited for 'सुर० ६, २३  
 विगिचरणा-विगिचरणा-विगिचरिआ स्त्री० ( विवेचना ) परित्याग Abandonment, desertion श्रौघ० भा० २०६, स० ११, श्रौघ० ६०६, ८७,  
 विगिच्छुा. स्त्री० ( विचिकित्सा ) सदेह, सशय, वहम Doubt, uncertainty आ० ३, पडि०  
 विगुण त्रि० ( विगुण ) अननुगुण, प्रतिकूल. Unfavourable पचा० ६, ३२  
 विगुत्त त्रि० ( विगुप्त ) ( १ ) तिरस्कृत, अवधीरित Despised, disregarded आ० १२, ( २ ) जिसकी पोख खुल गई हो One whose secrets might have been disclosed 'सदुक्त्य विगुत्तो' आ० १४, धर्मवि० ७७  
 विगोइय. त्रि० ( विगोपित ) जिसका दोष प्रकट किया गया हो. One whose fault may have been disclosed सण०  
 विगोवण. न० ( विकोपन ) विकास Blowing, expanding आवक० २२८  
 विगोवणया स्त्री० ( विगोपना ) ( १ ) तिरस्कार. Censure, contempt, disdain ( २ ) फजीहत उव०  
 विग्घर त्रि० ( विगृह ) गृह-रहित Destitute of a home नाया० १, १० टी.  
 विग्घिय त्रि० ( विघ्नित ) विघ्न-युक्त Impeded, hindered. हम्मोर० १४  
 विघट्टण न० ( विघट्टन ) विनाश Destruction, ruin नाट०  
 विघटथ. त्रि० ( विघस्त-विघस्त ) ( १ ) विरोध रूप से भक्षित Eaten ( २ ) व्याप्त. Pervaded 'वाहिविघटथस्स मत्तस्स' महा० ग्राम०

विधायग त्रि० ( विघातक ) विनाश कर्ता  
 Destroyer धर्मसं० १२६  
 विचक्रु त्रि० ( विचक्रु ) चक्रु रहित, अन्धा  
 Blind, lightless उप० ७२८ टी  
 विचच्छिया स्त्री० ( विचर्चिका ) रोग विशेष  
 पामा Itching, a kind of disease  
 राज०  
 विचलिर त्रि० ( विचलित् ) चलायमान होने  
 वाला Moving about, shaking  
 सय०  
 विचल्लिय त्रि० ( विचलित ) चलल वना हुआ  
 Moved, shaken भवि०  
 विचारग त्रि० ( विचारक ) विचार-कर्ता  
 Investigator रभा०  
 विचाल न० ( विचाल ) अन्तराल Inter-  
 mediate space or region or time,  
 interval दे० ७ ८८  
 विचित्र त्रि० ( विचित ) चुना हुआ. Chosen  
 दे० ७, ६१  
 विचिंतय न० ( विचिन्तन ) विचार, विमर्श  
 Thought, deliberation. श्रु० ६  
 विचिन्तित त्रि० ( विचिन्तित ) विचारित  
 Thought, reflected, discussed  
 सुर० ८, ३  
 विचिन्तितर त्रि० ( विचिन्तयित् ) विचार-कर्ता  
 Investigator श्रा० १२, सय०  
 विचिगिच्छा स्त्री० ( विचिक्लिस्ता ) सशय, धर्म  
 कार्य के फल की तरफ सदेह Doubt  
 सम्मत्त० ६५  
 विचिष्टि त्रि० ( विचेष्टित ) (१) जिसकी  
 कोशिश की गई हो Striven, tried  
 सुपा० ४७०, (२) न० चेष्टा, प्रयत्न Effort,  
 exertion उप० ३२० टी  
 वचिस्ता स्त्री० ( विचित्रा ) अधोलोक में  
 रहने वाली एक दिक्कमारी देवी. A Dik-  
 lumari goddess living in the

other world or lower regions  
 राज०

विचित्रिय त्रि० ( विचित्रित ) विचित्रता से  
 युक्त Diversified, variegated  
 wonderful, surprising, strange  
 सय०

विचुन्नय न० ( विचूर्णन ) चूरचूर करना, टुकड़ा  
 टुकड़ा करना. Crushing, pounding.  
 प्र० ३०

विचेयण त्रि० ( विचेतन ) चैतन्य-रहित, निर्जाव.  
 Lifeless senseless, inanimate उप०  
 प्र० ४६

विच्छयण न० ( विच्यवन ) अश, विनाश.  
 Destruction, ruin विशे० २६१

विच्चाभेलिय त्रि० ( व्यत्याग्रेडित ) (१) मिला  
 मिला अशों से मिश्रित. Mixture (२)  
 तोड़कर साधा हुआ Joined after hav-  
 ing been broken विशे० ८५५

विच्चाय पु० ( विद्याग ) परित्याग. Aban-  
 doning, giving up सयोध० ८

विच्चि स्त्री० ( वीचि ) तरंग, कल्लोल Wave.  
 पउम० १०६, ४१

विच्चुइ स्त्री० ( विच्युति ) अश, विनाश Des-  
 truction, ruin विशे० १८०

विच्छद्भिः पु० ( विच्छद ) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति.  
 Grandeur, magnificence, splen-  
 dour पाथ० दे० ७, ३२ टी, हे० २, ३६, पद्०

विच्छद्भिः स्त्री० ( विच्छदि ) (१) विशेष वमन.  
 Vomiting, ejecting (२) परित्याग

Quitting, abandoning, प्राप्त्, (३)  
 विस्तार Expanse, vastness, mag-  
 nitude सिरि १०६१

विच्छद्भिः त्रि० ( विच्छदित ) (१) पुंजीकृत,  
 इकट्ठा किया हुआ Collected से० १०,  
 ४६, (२) विच्छादित, आच्छादित. Cover-  
 ed हम्मीर० १७



विच्छ्वि पु० ( विच्छ्वि ) एक नरक-स्थान

An abode of the hell देवेन्द्र० २८  
विच्छ्वाइय त्रि० ( विच्छ्वायित ) निस्तेज किया  
हुआ Having lost his personality  
in influence सुपा० १६६

विच्छ्वाय त्रि० ( विच्छ्वाय ) निस्तेज, कान्ति-  
रहित, फीका Pale सुर० ४, १०६, कप्पू०  
प्रासू० १३७, महा० गडड०

विच्छ्विति स्त्री० ( विच्छ्विति ) ( १ ) विन्यास,  
रचना Arrangement गडड० पात्र०  
स० ६१५, सुपा० २४, ८३, २६०, ( २ )  
प्रान्त भाग० The front part सुर० ३,  
७०, ( ३ ) अग्रगाम Scented cosmic,  
fragrant unguent गा० ७८०.

विच्छ्विञ्च त्रि० ( विच्छ्वित ) ( १ ) विच्छुड़ा  
हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित Sepa-  
rated, वजा० १५६, ( २ ) मुक्त. Released  
राज०

विच्छ्वरिञ्च त्रि० ( विच्छ्वरित ) ( १ ) खचित,  
जडा हुआ Inlaid पात्र०, ( २ ) सबद्ध, जोडा  
हुआ United. से० १४, ७४, ( ३ ) व्यास  
Peirvaded पडम० २, १०१, सुपा० ६,  
२१२, सुर० २, २२१

विच्छ्वेत्त पु० ( विच्छ्वेत्त ) ( १ ) विभाग, पृथक्करण  
Division विशेष० १००६, ( २ ) वियोग  
Separation, disunion गा० ६१३,  
( ३ ) अनुबन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध Break  
or interruption of a flow कप्पू०  
विच्छ्वेत्तय न० ( विच्छ्वेत्तय ) देवो 'विच्छ्वेत्त'  
शब्द Vide 'विच्छ्वेत्त' राज०

विच्छ्वेत्तय त्रि० ( विच्छ्वेत्तय ) विच्छ्वेद कर्ता  
Divider, separator भवि०

विच्छ्वेत्त त्रि० ( विच्छ्वेत्तय ) विच्छ्वेद-कर्ता  
Divider इप० २२

विच्छ्वेत्तय त्रि० ( विच्छ्वेत्तय ) विच्छ्वेत्त किया  
हुआ Torn asunder, cut off नाट०

विक्र० ८२

विच्छ्वोलिञ्च त्रि० ( कम्पित ) कँपाया हुआ.  
Trembled, कुमा० गडड०

विच्छ्वोलिञ्च त्रि० ( विच्छ्वोलित ) धौत, धोया  
हुआ Washed 'धोऊ विच्छ्वोलिञ्च' पात्र०

विच्छ्वोह पु० ( विच्छ्वोह ) ( १ ) विक्षेप Agri-  
tation, Distraction गा० २१०,  
सम्मत्त० १६१, ( २ ) चञ्चलता Activity,  
shaking, movement उप०पू० १५८

विजइ त्रि० ( विजयिन् ) विजेता, जीतने वाला  
Conqueror, victor कप्पू० नाट-  
विक्र० ५

विजय पु० ( विजय ) ( १ ) पराभव करके  
ग्रहण करना. To take possession

after a defeat कुमा०, ( २ ) अशुभ्यय.  
Prosperity ( ३ ) समृद्धि Grandeur,

राज०, ( ४ ) धातकी खण्ड का पूर्व द्वार. The  
east in door of the Dhataki

continent इक०, ( ५ ) छन्द-विशेष.  
Name of a metre पिंग०, ( ६ )

त्रि० जीतने वाला Conqueror, victor  
सम्मत्त० २१६, —जत्ता स्त्री० ( यात्रा )

विजय के लिए किया जाने वाला प्रयाण A  
march of victory धर्मवि० ५६,

—ढक्का. स्त्री० ( ढक्का ) विजय-सूचक भेरी A  
large military drum सुपा० २६८

विजयती. स्त्री ( वैजयन्ती ) एक रानी का नाम.  
Name of a queen उप० ७२८ टी

विजयचरपुर न० ( विजयचरपुर ) एक विद्याधर  
नगर A Vidyadhar city इक०

विजयघत. त्रि० ( विजयघत ) विजयी, विजेता.  
Conqueror, victor. ति० १४.

विजयसायर पु० ( विजयसागर ) एक सूर्यवशी  
राजा. A king of the solar race.  
पडम० ५, ६२

विजयसिंह पु० ( विजयसिंह ) ( १ ) एक सुप्रसिद्ध

प्राचीन जैनाचार्य Name of an ancient celebrated Jaina Acharya सुपा० ६२८, ( २ ) एक विद्याधर राजकुमार A Vidyadhar prince पद्य० ६, १२७  
 विजयसूरि पु० (विजयसूरि) चन्द्रगुप्त के समय का एक जैन आचार्य Name of a Jaina Acharya at the time of Chandragupta धर्मवि० ४४  
 विजयसेण पु० (विलयसेन) एक प्रसिद्ध जैन आचार्य Name of a celebrated Jaina Acharya प्रव० २७६  
 विजया स्त्री० (विजया) (१) विद्या विशेष A kind of magical skill पद्य० ७, १४१, (२) एक पुष्करिणी A large well इक०  
 विजल त्रि० (विजल) (१) जल-रहित Waterless गडब०  
 विजाईय, त्रि० ( विजातीय ) भिन्न जाति का, दूसरी तरह का Of a different kind or caste उप० १२८ दी  
 विजाणग-य त्रि० ( विज्ञायक ) जानने वाला, विज्ञ Learned, knowing, सूयनि० १४२  
 विजाणुअ त्रि० (विज्ञ विज्ञायक) जानने वाला, विज्ञ Knowing, learned प्राक० १८  
 विजेष्ट त्रि० ( विज्येष्ठ ) मध्यम Middle 'जेष्ट विजेष्टा कश्चिद्वा य' वेद्वय० १२३  
 विजो जय न० ( वियोजन ) वियोग, विरह Separation मोह० ६८  
 विजो जिअ त्रि० ( वियोजित ) छुदा किया हुआ Separated, divided कुप्र० २८८,  
 विजोहा स्त्री० (विजोहा) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०  
 विज्जय न० ( वैद्यक ) चिकित्सा Medical treatment, healing उर० ८, १०, भवि०  
 विज्जल पु० ( विज्जल ) नरकावास-विशेष, एक नरक स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २८,

विज्जलिया स्त्री० (विद्युत्) बिजली Lighting. कुप्र० २८२  
 विज्जामत त्रि० ( विद्यावत् ) विद्या-संपन्न. Learned उप० ४२२  
 विज्जालिय पु० न० ( विद्यालय ) पाठशाला. School. प्रासा०  
 विज्जासिद्ध त्रि० (विद्यासिद्ध) (१) सर्व विद्याओं का अधिपति Specialisation in a particular science (२) जिसको कम से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो A specialist in a particular branch of Knowledge धावम०  
 विज्जाहरी स्त्री० ( विद्याहरी ) एक जैन मुनि शाखा. A branch of a Jaina saints. कथ्य०  
 विज्जु पु० ( विद्युत् ) (१) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhar family पद्य० २, १८, (२) एक नरक स्थान An abode of the hell देवेन्द्र० २६, ( ३ ) स्त्री० सन्ध्या. Evening हे० १, ३३  
 विज्जुतेअ पु० ( विद्युत्तेजस् ) विद्याधर वंश का एक राजा. Name of a king of the Vidyadhar race पद्य० २, १८  
 विज्जुदत्त पु० ( विद्युद्दत्त ) विद्याधर वंश का एक राजा. A king of the Vidyadhar lineage. पद्य० २, १८,  
 विज्जुदाह पु० ( विद्युद्दह ) विद्याधर वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम Name of a king of the Vidyadhar family. पद्य० २, १८  
 विज्जुप्पह न० (विद्युत्पह) एक विद्याधर नगर. Name of a Vidyadhar city इक० ३२६.  
 विज्जुमाला. स्त्री० (विद्युन्माला) छन्द-विशेष. Name of a metre. पिंग०

विज्जुमालि पु० (विद्युन्मालिन्) (१) पचशैल द्वीप का अधिपति एक यक्ष. A presiding god of the Pancha Shaila island. महा०, (२) रावणका एक सुभट A warrior of Ravana से० १३, ८४, (३) ब्रह्मदेव लोक का इन्द्र India of Brahma's heaven राज०

विज्जुमुह पु० (विद्युन्मुख) विद्याधर वंश का एक राजा Name of a king of the Vidyadhari family पत्र० ५, १८

विज्जुल्लया स्त्री० (विद्युल्लता) विद्युत्, बिजली Lightning नाट-वेणी० ६६, काल०

विज्जुविलसिञ्च न० (विद्युद्विलसित) (१) छन्द-विशेष. Name of a metre अजि० २१, (२) बिजली का विलास से० ४, ४०

विज्जुसिहा स्त्री० (विद्युशिखा) एक रानी का नाम. Name of a queen. महा०

विज्जोञ्च पु० (विद्योत्) उद्योत, प्रकाश Light, lustre हित० ६

विज्जोइय-विज्जोविय त्रि० (विद्योत्तित) प्रकाशित, चमका हुआ Illuminated, radiating उप० पृ० ३३, स० ५७६

विज्जु त्रि० (विद्ध) विंधा हुआ Pierced through 'वाण्येण विज्जसे जेणह विज्जा' गा० ४४१

विज्जुवण स्त्री० न० (विध्यापन) बुझाना, उप-शान्ति Extinguish स० ४८६, सम्मत्त० १६२, कृप० २७०,

विज्जुविञ्च त्रि० (विध्यापित) बुझाया हुआ, गुल किया हुआ Extinguished. से० ८, १६, १२, ७७, गा० ३३३, पत्र० २०, ६२

विट्ट त्रि० (वृष्ट) बरसा हुआ Rained. हे० १, १३७, पट०

विट्टञ्च न० (विट्टप) भुवन, जगत् World मूच्छ० १०६

विट्टर पु० न० (विट्टर) आसन Posture

'विट्टरो' प्राप्र० पत्र० ८०, ७, पाञ्च० सुपा० ६०, विट्टि स्त्री० (वृष्टि) वर्षा, बारिस Rain हे० १, १३७, प्राकृ० ८, सत्ति० ५, पत्र० २०, ८७, कुमा० रमा०

विट्टि स्त्री० (विष्टि) (१) कर्म, काज, काम Action, occupation दे० २, ४३ (२) भद्रा नक्षत्र The Bhadra constellation, सुर० १६ ६०, (३) वेगार, कौर मजदूरी के काम कराना. Unpaid labour उर० ६, ११

विट्टिय न० (विस्थित) विशिष्ट स्थिति, A special position भग० ६, ३२ टी

विडग पु० न० (विडङ्ग) (१) औषध-विशेष A kind of medicine (२) त्रि० अमिच्छ, विदग्ध. Knowing, aware of, learned वजा० १०४

विडव पु० न० (विडम्ब) (१) तिरस्कार, अपमान Censure, Contempt भवि०, (२) माया-जाल, प्रपञ्च Disguise, Imposture शु० ६, कप्प०

विडवग त्रि० (विडम्बक) विडम्बना जनक. Ridiculing सबोध० १४, उप०

विडवण न० (विडम्बन) (१) तिरस्कार, अपमान. Censure, insult (२) दुःख, कष्ट Pain, distress (३) अनुकरण, नकल Imitation (४) उपहास Ridicule, mockery भवि०, (५) कपट-वेष Disguise, Imposture

विडवणा स्त्री० (विडम्बना) (१) अनुकरण, नकल Imitation (२) उपहास Ridicule, mockery. (३) कपट-वेष Disguise, imposture कप्प०

विडव पु० (विटप) (१) पल्लव A new offshoot or sprout सुर० ३, ४५, (२) शाखा Branch, bough भवि० ११०.

विडवि पु० (विटपिन्) वृक्ष, पेड़, Tree

पाश्र० सुपा० ८८, गडड० सण०  
 विडिअ त्रि० (वीडित) लज्जित Ashamed,  
 abashed से० ११, २०, पि० ८१  
 विडूर पु० (विदूर) (१) पर्वत-विशेष Name  
 of a mountain (२) देश-विशेष, जहा  
 वैदूर्य रत्न पैदा होता है A country  
 where diamonds are found कप्पु०  
 विडुडुरिअ त्रि० (वैदूर्यवत्) वैदूर्य रत्न वाला।  
 A precious stone सुपा० २६  
 विडत्त. त्रि० ( अर्जित ) उपार्जित, पैदा किया  
 हुआ Procured, secured, earned  
 हे० ४, २२८, गडड० आ० १०, प्रासू० ७४, भवि०  
 विदत्ति. स्त्री० ( अर्जिति ) अर्जन, उपार्जन  
 Getting, acquisition आ० १२  
 विदवण न० ( अर्जन ) उपार्जन Getting,  
 acquisition सुर० १, २२१  
 विदविअ त्रि० ( अर्जित ) पैदा किया हुआ  
 Procured कुमा० सुपा० २८०, महा०  
 विडिअ त्रि० ( वेष्टित ) लपेटा हुआ Wra-  
 pped up, enveloped सुपा० ३८८  
 विणइत्त त्रि० ( विनयवत् ) विनय वाला, विनय  
 को ही सर्व-प्रधान मानने वाला Modest  
 सूपनि० ११८  
 विणइय त्रि० ( विनयित ) शिक्षित किया हुआ,  
 सिखाया हुआ Educated, instructed  
 राज०  
 विणण न० ( धान ) बुनना Weaving  
 वृह० १  
 विणमिअ त्रि० ( विनमित ) नमया हुआ  
 Bent गडड०  
 विणय पु० ( विनय ) (१) नरकावास विशेष,  
 एक नरक स्थान Hell देवेन्द्र० २६, ( २ )  
 अपनयन, दूरीकरण. To remove to a  
 distance (३) शिक्षा, सीख Instruction,  
 guidance (४) विनय-युक्त, विनीत  
 Modest (५) निभूत, शान्त Quiet (६)

चित्त, फेंका हुआ. Thrown, cast ( ७ )  
 जितेन्द्रिय, सयमी One who has con-  
 quered his passions or subdued  
 his senses हे० १, २४२, ( ८ ) पु० शास्त्रा-  
 नुसार प्रजा का पालन. To look after  
 the public needs according to  
 the tenets of the Shastras गडड०  
 ६७

विणयधर पु० ( विनयधर ) एक सेठ का नाम।  
 Name of a wealthy man उप०  
 ७२८ टी

विणयण न० ( विनयन ) विनय-शिक्षा, शिक्षण।  
 Education, training विरो० ३२००.  
 विणयमत. त्रि० ( विनयवत् ) विनय युक्त।  
 Modest. उप० पू० १६६

विणया स्त्री ( विनता ) गरुड की माता का नाम।  
 Name of the mother of Garuda.  
 गडड०, - तण्य पु० ( तनय ) गरुड पत्नी।  
 An epithet of Garuda से० १४,  
 ६१, सुपा० ३२४.

विणसिर त्रि० ( विनश्वर ) विनाश-शील, नश्वर।  
 Perishable, transient. दे० १, ६०

विणायग पु० ( विनायक ) यक्ष, एक देव-जाति।  
 Demi-god पडम० ३२, २२, ( २ ) गणपति,  
 गणेश Name of Ganesha. सट्टि० ७८  
 टी, ( ३ ) गरुड Name of Garuda.  
 पडम० ७१, ६७, - तय न० ( अस्त्र ) अस्त्र।  
 विशेष गरुडास्त्र. A particular missile.  
 पडम० ७१, ६७

विणायग त्रि० ( विनायक ) विनाश कर्ता।  
 Destroyer द्र० १७

विणिअंसण न० ( विनिदर्शन ) खास उदाहरण,  
 विशेष दृष्टान्त An instance or exam-  
 ple से १२, ६६.

विणिअंसण त्रि० ( विनिवसन ) धर-रहित, नंगा  
 Naked गा० १२५.

विश्विज्ञान पु० ( विनियोग ) उपयोग, ज्ञान  
 Knowledge विशेष० २४३७  
 विश्विकुट्टिय त्रि० ( विनिकुट्टित ) कूट कर बैठाया  
 हुआ Set after threshing सुपा० १८८.  
 विश्विक्रमन्त त्रि० ( विनिक्रमन्त ) ( १ ) बाहर निकला  
 हुआ Come out. ( २ ) जिसने गृह त्याग  
 किया हो, सन्यस्त, Renounced, relin-  
 quished उप० १४७ टी, कुम० ३६, महा०  
 विश्विक्रमण न० ( विनिक्रमण ) ( १ ) बाहर  
 निकलना Going out ( २ ) सन्यास लेना  
 To be initiated into asceticism  
 to become an ascetic पचा० १८, २१  
 विश्विगम पु० ( विनिर्गम ) नि सरण, बाहर  
 निकलना Going out गउड०  
 विश्विज्जतण त्रि० ( विनियन्त्रण ) ( १ ) नियन्त्रण  
 रहित, Destitute of restraint ( २ )  
 प्रकटित, खुला हुआ Manifested, plain  
 ( ३ ) निर्भयाज, कपट-रहित Candid,  
 upright से० ११, २१  
 विश्विज्जरण न० ( विनिर्जरण ) निर्जरा, विनाश  
 Destruction, ruin विशेष० ३०७६,  
 संबोध० ५१  
 विश्विज्जरा. स्त्री० ( विनिर्जरा ) निर्जरा, विनाश  
 Destruction, ruin संबोध० ४६  
 विश्विज्जिअ त्रि० ( विनिर्जित ) पराभूत, जिसका  
 पराभव किया गया हो, Defeated, van-  
 quished महा० रभा० नाट-विक्र० ६०.  
 विश्विद् त्रि० ( विनिद्र ) खिला हुआ, विकसित  
 Full-blown, expanded पात्र०  
 विश्विद्वलिय त्रि० ( विनिर्द्वलित ) विदारित,  
 तोबा हुआ Broken, cut asunder सण०  
 विश्विपन्न त्रि० ( विनिपन्न ) ससिद्ध, सपन्न  
 Fully accomplished, perfected  
 उप० ३६६.  
 विश्विपिडिअ त्रि० ( विनिस्फुटित ) विनिर्गत,  
 बाहर निकला हुआ Projected out

पत्र० १०५, २३  
 विश्विन्मिन्न. त्रि० ( विनिर्भिन्न ) विदारित.  
 Rent or cut asunder शमि० १६,  
 विश्विमीलित. त्रि० ( विनिमीलित ) मीचा  
 हुआ, मूँदा हुआ Shut up, closed.  
 गा० २०  
 विश्विममविअ त्रि० ( विनिर्मित ) विरचित,  
 बनाया हुआ, कृत Made उप० ७२८ टी  
 विश्विममाण न० ( विनिर्माण ) रचना, कृति.  
 Composition, work विशेष० ३३१२  
 विश्वियद्. त्रि० ( विनिवृत्त ) ( १ ) पीछे हटा  
 हुआ Receded, retreated ( २ )  
 प्रनष्ट Destroyed, ruined. ' विश्वियद्  
 ति पण्यद् ' चेद्दय० ३४६,  
 विश्वियत्त स्त्री० ( विनिवृत्ति ) निवृत्ति, उपरम  
 Ceasing, stopping कुम० १८२, गउड०  
 विश्विरोह पु० ( विनिरोध ) प्रतिबन्ध, रुकावट.  
 Obstruction, impediment, obsta-  
 cle भवि०  
 विश्विवडिअ त्रि० ( विनिपतित ) नीचे गिरा  
 हुआ Fallen, dropped दे० १, १५७.  
 विश्विवाइ त्रि० ( विनिपातिन् ) मार गिराने वाला.  
 Falling down, knocking down.  
 गा० ६३०  
 विश्विवाइय न० ( विनिपातिक ) एक तरह का  
 नाटक A dramatic composition  
 राज०  
 विश्विवाइय त्रि० ( विनिपातित ) मार गिराया  
 हुआ, व्यापादित. Knocked down,  
 thrown down उप० ६४८ टी, महा०  
 स० ५६, सिक्खा० ८२.  
 विश्विवायण न० ( विनिपातन ) मार गिराना.  
 Throwing down, knocking down.  
 पत्र० ४, ४८  
 विश्विवारण न० ( विनिवारण ) ( १ ) श्रावण,  
 प्रतिबन्ध Prohibition, impediment

(२) त्रि० निवारण करने वाला Preventing, keeping off पचा० ७, ३२  
 विशिष्टाचारि त्रि० ( विनिवारिन् ) निवारण-  
 कर्ता Preventing, warding off.  
 पचा० ७, ३२  
 विशिष्टाचारिय. त्रि० ( विनिवारित ) प्रतपिद्ध,  
 निवारित. Prohibited, impeded महा०  
 विशिष्टवृद्ध त्रि० ( विनिमग्न ) निमग्न, बूझा  
 हुआ, तराबोर Plunged, submerged  
 गडढ० ४६०  
 विशिष्टवेद्य. त्रि० ( विनिवेदित ) जनाया हुआ,  
 ज्ञापित. Made known, announced  
 से० १४, ४०.  
 विशिष्टवेस पु० ( विनिवेश ) ( १ ) स्थिति,  
 उपवेशन Sitting ( २ ) विन्यास, रचना  
 Arrangement गडढ०  
 विशिष्टवेसिञ्च त्रि० ( विनिवेशित ) स्थापित,  
 रखा हुआ Placed, fixed गा० ६७४,  
 सुर० ३, ६५.  
 विशिष्टववण न० ( विनिर्वपन ) शान्ति, दाहो-  
 पशम Putting out, extinguishing  
 गडढ०  
 विशिष्टसरिय त्रि० ( विनि सृत ) बाहर निकला  
 हुआ Projected forth सण०  
 विशिष्टसह. ( विनिस्सह ) श्रान्त, थका हुआ  
 Weaned, fatigued सुपा०  
 विशिष्टिञ्च त्रि० ( विनिहित ) स्थापित  
 Placed, fixed गा० ३६१, सुपा० ६२  
 विशिष्टिञ्च त्रि० ( विनीत ) शिक्षित Educated,  
 well-trained 'भद्रे विशिष्टिञ्चविणञ्चो'  
 उप० ६  
 विशिष्टील त्रि० ( विनील ) विशेष हरे रंग का.  
 Dark green गडढ०  
 विशिष्टोद्भूत त्रि० ( विनोदित ) विनोदित किया  
 हुआ Pleased. सु० ११, २३८, सण०  
 विशिष्टोयक-ग त्रि० ( विनोदक ) कुतूहल-जनक

Wonderful रभा०  
 विशिष्टोयय न० ( विनोदन ) कुतूहल, कौतुक  
 Wonder गा० ४८७.  
 विशिष्टाणि त्रि० ( विज्ञानिन् ) निपुण, विचक्षण.  
 Skillful, proficient, shrewd कुमा०  
 विशिष्टासणा. स्त्री० ( विन्यासना ) स्थापना  
 Placing, establishing उप० ३२४  
 विशिष्ट पु० ( विष्णु ) ( १ ) एक श्रेष्ठी Name  
 of a wealthy man उप० १०१४, ( २ )  
 वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण. Vasudeo,  
 Narayana. ( ३ ) व्यापक Pervading,  
 comprehensive ( ४ ) वह्नि, अग्नि  
 Fire. ( ५ ) शुद्ध Pure ( ६ ) एक स्मृति-  
 कर्ता मुनि Name of a law-giver,  
 author of a Smriti हे० २, ७५  
 विशिष्टकुमार पु० ( विष्णुकुमार ) एक विख्यात  
 जैन मुनि Name of a celebrated  
 Jaina saint राज०  
 विशिष्टसिरि स्त्री० ( विष्णुश्री ) एक सार्धवाह-  
 पत्नी Wife of a merchant महा०  
 वितल त्रि० ( वितल ) श्वल, चितकबरा  
 Spotted, variegated राज०  
 वित्त त्रि० ( वृत्त ) ( १ ) उत्पन्न, सजात  
 Produced. स० ७३७, महा०, ( २ ) श्रुत, त,  
 गुजरा हुआ Passed महा०, ( ३ ) दृढ,  
 मजबूत. Firm ( ४ ) वर्तुल, गोल Round  
 ( ५ ) अधीत, पठित Studied, ( ६ ) मृत.  
 Dead हे० १, १२८, ( ७ ) ससिद्ध, पूर्ण.  
 Completed, finished सुर० ४, ३६,  
 महा०, —प्राय त्रि० ( प्राय ) पूर्ण-प्राय.  
 Almost-complete सुर० ७, ८४.  
 वित्त पु० ( वृत्तान्त ) समाचार, खबर News,  
 tidings, intelligence पठम० २३,  
 १८, सुपा० २०४, भवि०  
 वित्तम. त्रि० ( वित्तवत् ) धनी Wealthy  
 द्वा० ५

वित्तास पु० ( वित्रास ) भय, त्रास, डर  
Fear, alarm, terror सुपा० ४४१.  
वित्तासण न० ( वित्रासन ) भय-प्रदर्शन  
Terrifying, alarming आव०  
वित्तासिञ्च त्रि० ( वित्रासित ) डरा कर भगाया  
हुआ Frightened, alarmed सुपा०  
६२२  
चित्ति. स्त्री० ( वृत्ति ) अन्त करण आदि का  
एक तरह का परिणाम Inner feelings  
हे० १, १२८  
वित्ति पु० ( वेत्तिन् ) दरवान, प्रतीहारी  
Door-keeper, warder क० ग० १, ६.  
वित्तिञ्च त्रि० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन  
वाला, वैभवशाली Wealthy. नाया० १,  
१ टी  
वित्तेस पु० ( वितेश ) धनी, श्रीमत्.  
Wealthy man उप० ७२८ टी.  
वित्थ पु० न० ( विस्त ) सोने का एक तोल  
A measure to weigh precious  
metals & jewels etc से० १, १  
वित्थर पु० न० ( विस्तर ) शब्द-समूह A  
collection of words गवड० ८६.  
वित्थरण त्रि० ( विस्तरण ) (१) फैलाने वाला  
Spreading (२) वृद्धि-जनक Increas-  
ing कुमा०  
वित्थारण त्रि० ( विस्तरण ) फैलाने वाला  
Spreading रभा०  
वित्थारण न० ( विस्तरण ) फैलाव Exten-  
sion, expansion सम्म० १२२, सिरि०  
१२०७  
वित्थारिय त्रि० ( विस्तरित ) फैलाया हुआ  
Spread out, extended सण० दे०  
वित्थक त्रि० ( विधित ) जो विरोध में खड़ा  
हुआ हो, विरोधी बना हुआ Opponent  
स० ४६७, ६३४.  
विथा अ० ( वृथा ) मुधा, निरर्थक, व्यर्थ In

vain, uselessly धर्मस० ४११  
विद्दुद्-विद्दुद् त्रि० ( विद्गुध ) (१) पण्डित,  
विचक्षण Learned सच्चि० ८, (२) विशेष  
दग्ध Burnt up, consumed by fire  
प्रव० १२२, (३) अजीर्ण का एक भेद A  
kind of indigestion राज०  
विद्दुद्म पु० (विद्भे) (१) देश-विशेष Name  
of a country 'विद्दुद्भेसमडण' कुप्र०  
४८, गा० ८६, (२) विद्भे देश की प्राचीन  
राजधानी An ancient capital of  
that country कुप्र० ७०  
विदल न० ( विदल ) चरा, बाल Bamboo.  
सुख० १०, १  
विदल. न० ( द्विदल ) (१) चना आदि वह शुष्क  
घान्य जिसके दो टुकड़े समान होते हैं Grain  
of gram सबोव० ४४, (२) त्रि० जिसके  
दो टुकड़े किए गए हों Divided into  
two peices सूयनि० ७१  
विदुर त्रि० ( विदुर ) (१) विचक्षण, विज्ञ  
Wire, intelligent कुमा०, (२) धीर  
Courageous, hold (३) नागर, नाग-  
रिक्त Citizen हे० १, १७७  
विदुलतग न० ( विद्युलताङ्ग ) एक सख्या,  
हाहाङ्गू को चौरासी लाख से गुनने पर  
जो सख्या लब्ध हो A particular  
number इक०  
विदुलता. स्त्री० ( विद्युलता ) सख्या-विशेष,  
विद्युलताग को चौरासी लाख से गुनने पर  
जो सख्या लब्ध हो A particular  
number इक०  
विदुसग-य पु० ( विदूपक ) ममपरा, राजा के  
साथ रहने वाला मुसाहब Gester, buf-  
foon, a humorous companion  
of a king सार्ध० ६२, सम्मत्त० ३०  
विदेशि त्रि० ( विदेशिन् ) परदेर्गा. For-  
eign, exotic सुपा० ७२

विदेसिञ्ज त्रि० (वैदेशिक) परदेशी Foreign,  
exotic. सिरि० ३३४

विदेहजम्बू स्त्री० ( विदेहजम्बू ) एक जम्बू वृक्ष,  
जिसके नाम से यह जम्बू द्वीप कहलाता है  
Name of a Jambu tree इक०

विदेहदिन्न पु० (वैदेहदत्त) (१) भगवान् महावीर  
Lord Mahavira कप्प० ११० टी.

विदेहा. स्त्री० (विदेहा) भगवान् महावीर की माता,  
त्रिशला The mother of Lord  
Mahavira कप्प० ११ टी, (२) जानकी,  
सीता Sita पउम० ४६, १०

विदेही स्त्री० ( विदेही ) राजा जनक की पत्नी,  
सीता की माता Sita's mother पउम०  
२६, २

विहङ्ग पु० (विदग्ध) एक नरक स्थान. A  
particular abode of the hell  
देवेन्द्र० २७

विह्वलित त्रि० ( विह्वलित ) (१) विप्लवित  
Confounded, disturbed से०४, ६०,  
(२) दूर किया हुआ, हटाया हुआ Removed  
गा० ८८, (३) विनाशित, Ruined,  
destroyed भवि० सण०

विहाय त्रि० (विद्राघ) (१) म्लान, निस्तेज,  
फीका. Pale. सुर० ६, १२४, यति०  
४३, कुप० १३१, (२) शोकातुर, दिलगीर  
Sorry, agonized by grief, स०४७३,  
उप० ६०४, उप० ३२० टी

विहाय त्रि० (विह्वत) (१) विनष्ट. Ruined,  
destroyed कुमा०, (२) पलायित Run  
away. (३) द्रव युक्त, द्रव प्राप्त Melted  
हे० १, १०७, पद०

विह्वम पु० ( विह्वम ) उत्तम वृक्ष The  
coral tree से० २, २६

विह्वमाभ. पु० (विह्वमाभ) नववें बलदेव का  
पूर्व-जन्म का गुरु Name of the spiri-  
tual teacher of the ninth Bal-

deo of the previous life पउम०  
२०, १६३

विदेसण न० (विद्वेषण) एक प्रकार का अभि-  
चार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है.  
A variety of Karma स० ६७८

विदेसि त्रि० ( विद्वेषिन् ) द्वेष-कर्ता Hat-  
ing, inimical कुप० ३६७.

विदेसिञ्ज. त्रि० ( विद्वेषित ) द्वेष युक्त Hat-  
ing, inimical. भवि०

विद्धसित. त्रि० ( विध्वसित ) विनाशित.  
Destroyed चड० ३, १

विद्धि. स्त्री० ( वृद्धि ) (१) अधिकता More,  
excess. (२) व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार  
Grammatical changes of vowels  
or consonents विशेष० ३४८२, (३)  
औषधि-विशेष A kind of medicine.  
राज०

विधम्भिय त्रि० ( विधर्मित ) तिरस्कृत  
Censured, condemned विशेष०  
२३४६

विधुर त्रि० (विधुर) (१) व्याकुल, विह्वल,  
Confused, perturbed कुप० १४,  
(२) विपय, असमान Adverse धर्मस०  
१२२३, १२२४

विनडय. न० ( विनटन ) (१) व्याकुल करना  
Confusing (२) विडम्बना Ridicul-  
ousness, mockery सुपा० २०८

विनडिञ्ज त्रि० (विनटित) (१) व्याकुल बना  
हुआ Confused (२) विडम्बित Ridi-  
culed. सम्मत्त० ११६, सुपा० २६०

विनिमि. पु० (विनिमि) भगवान् ऋषभदेव का  
एक पौत्र Name of a grandson of  
Lord Rishabhadeo घण० १४

विनिबद्ध त्रि० ( विनिबद्ध ) सबद्ध, बँधा हुआ  
Bound, fastened महा०

विनिमय. पु० ( विनिमय ) व्यत्यय, परस्पर



बदलना Exchange, barter. कुमा०  
 विनिरय त्रि० ( विनिरत ) लीन, आसक्त.  
 Absorbed in कुमा० २६  
 विन्नचण न० ( विज्ञापन ) निवेदन, विज्ञापन  
 Request सुपा० २६७  
 विन्नविय त्रि० ( विज्ञापित ) निवेदित Res-  
 pectfully told or informed महा०  
 विन्नाण न० ( विज्ञान ) ( १ ) कला, शिल्प  
 Art, skill कुमा० प्रासू० ४३, ११२, (२)  
 मेधा, मति, बुद्धि Wisdom, intelli-  
 gence पात्र०  
 विन्नास. पु० ( विन्यास ) रचना, विच्छिन्ति  
 Arrangement, adjustment. पात्र०  
 स० ३०१, सुपा० १७, २६६, महा०  
 विन्नासण न० ( विन्यासन ) सस्थापन Plac-  
 ing, establishng स० ३१८.  
 विन्नासिञ्च त्रि० ( विन्यासित ) सस्थापित  
 Placed, established. स० २६०  
 विन्हु पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि Name  
 of a Jaina saint कप्प०  
 विन्हुपत्र न० ( विष्णुपद ) आकाश Sky,  
 atmosphere समु० १२०  
 विन्हुपदी स्त्री० ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी  
 The Ganges समु० १२०  
 विपक्क त्रि० ( विपक्क ) पका हुआ Fully  
 ripened or matured उप० पृ० २११.  
 विपक्खिय त्रि० ( विपक्किक ) विरोधी, दुश्मन.  
 Enemy सवोध० २६  
 विपच्चमाण त्रि० ( विपच्यमाण ) (१) जो पकाया  
 जाता हो That which is cooked  
 आ० २०, स० ८६, सवोध० ४४, (२) दग्ध  
 होता हुआ, जलता हुआ Burning  
 रयण० ४१  
 विपराहुत्त त्रि० ( विपराद्धमुख ) विशेष  
 पराद्धमुख, अतिशय उठासीन Having the  
 face turned away or averted.

पउम० ११२, २२.  
 विपरिकु चि त्रि० ( विपरिकुञ्चिन् ) विपरि-  
 कुचित-नामक बन्दन दोष वाला One who  
 is faulty in salutations बृह० ३  
 विप्प पु० ( विप्प ) (१) मूत्र और विष्टा के  
 बिन्दु A drop of urine and ordure.  
 (२) विष्टा और मूत्र Feces and urine.  
 विशे० ७८१, श्रौव० महा०  
 विप्पञ्चोअ-विप्पञ्चोग पु० ( विप्रयोग )  
 अलहदगी, डुदाई, विरह, वियोग Separ-  
 ation उत्तर० १२, स० २८१, चड० पउम०  
 ४२, ४६, जी० ४३, महा०  
 विप्पगरिस पु० ( विप्रकर्ष ) दूरी, आसन्नता  
 का अभाव Distance, remoteness.  
 धर्मस० १२१७  
 विप्पगालिञ्च त्रि० ( विप्रगालित ) नाशित.  
 Destroyed, ruined कुमा०  
 विप्पगिट्ट त्रि० ( विप्रकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर  
 स्थित. Distant, remote स० ३२६  
 विप्पजहिय त्रि० ( विप्रहीण ) परित्यक्त  
 Abandoned पि० २६२.  
 विप्पडिपह पु० ( विप्रतिपथ ) विपरीत मार्ग  
 Wrong road or path उप० १०३१ टी  
 विप्पडिच्चि स्त्री० ( विप्रतिपत्ति ) (१) विरोध.  
 Opposition विरो० २४८०, (२) प्रतिज्ञा-  
 भंग Falling short of one's deter-  
 minations or promises उप० २१६.  
 विप्पडिसिद्ध त्रि० ( विप्रतिपिद्ध ) आपस में  
 असमत. To disagree उत्तर० ३  
 विप्पडीव त्रि० ( विप्रतीव ) प्रतिकूल Un-  
 favourable माल० १७७  
 विप्पयास पु० ( विप्रयास ) विनाश Des-  
 truction, ruin धर्मवि० २७  
 विष्णुपारख्या स्त्री० ( विप्रतारख्या ) बचना,  
 ठगई Deceit, cheating कुम० ४४;  
 मोह० ६४.

विष्णुयारिञ्च त्रि० ( विप्रतारित ) वञ्चित, ठगा हुआ. Deceived, cheated. मोह० १०१  
 विष्णुरियासणा. स्त्री० ( विपर्यासना ) व्यत्यय करना To change निसी० चू० ११  
 विष्णुरुद्ध. त्रि० ( विपरुद्ध ) तिरस्कृत Censured, disdained पडम० ८, ८२.  
 विष्णुलभ पु० ( विप्रलम्भ ) ( १ ) वञ्चना ठगाई. Deceiving, deceit उप० २४,  
 ( २ ) शृंगार की एक अवस्था The feeling or sentiment of love in separation. सुपा० १६४, ( ३ ) विपर्यास, व्यत्यय Change, contrariety, reverse धर्मस० ३०४, ( ४ ) विरह, वियोग Separation, disunion कल्प०  
 विष्णुलभञ्च. त्रि० ( विप्रलम्भक ) प्रतारक, ठगाने वाला. Cheater, impostor मूच्छ० ४७  
 विष्णुलभिञ्च. त्रि० ( विप्रलम्भित ) ( १ ) प्रतारित Deceived, defrauded ( २ ) विरहित Separated, disunited सुपा० २१६  
 विष्णुलद्ध त्रि० ( विप्रलब्ध ) वञ्चित, प्रतारित Deceived चारु० ४२, स० ४१८, ६८०.  
 विष्णुलोहण त्रि० ( विप्रलोभन ) लुभाने वाला Attracting, alluring, tempting स० ७६३  
 विष्णुव पु० ( विष्णुव ) ( १ ) देश का उपद्रव, क्रान्ति. Revolution ( २ ) दूसरे राजा के राज्य आदि से भय Danger from an enemy हे० २, १०६, ( ३ ) शरीर की विसंस्थलता, अस्वस्थता Confusion, perplexity कुमा०  
 विष्णुवास पु० ( विप्रवास ) प्रवास, देशान्तर-गमन Staying abroad, dwelling in a foreign country प्रति० १००  
 विष्णुहय त्रि० ( विप्रहत ) आहत, जखमी.

Wounded सुर० ६, २२१  
 विष्णुञ्च पु० न० ( विप्रिय ) अपराध, गुनाह. Offence पाञ्च० —आरय त्रि० ( कारक ) ( १ ) अप्रिय कारक. Disagreeable, unfriendly ( २ ) अपराध कर्ता, Offender, guilty हे० ४, ३४३  
 विष्णुञ्च त्रि० ( विष्णुत ) उपद्रुत, उपद्रव युक्त Confounded, disturbed दे० ६, ७६  
 विष्णुदिञ्च त्रि० ( विस्पन्दित ) इधर उधर भटका हुआ, परिभ्रान्त Wandered hither and thither पडम० १६, १२.  
 विष्णुस्पर्श पु० ( विस्पर्श ) विरुद्ध स्पर्श Unfavourable touch प्राप्र०  
 विष्णुस्फुरिञ्च त्रि० ( विस्फुरित ) ( १ ) विस्तारित. Spread, extended उप० पृ० १२२; ( २ ) विकसित Expanded, opened. सुपा० ८३  
 विष्णुस्फुट त्रि० ( विस्फुट ) स्पष्ट, व्यक्त Clear, manifest, plain रभा०  
 विष्णुस्फुरण न० ( विस्फुरण ) ( १ ) विजृम्भस, विकास Expansion आवक० २४२; सुर० २, २३७, ( २ ) स्पन्दन, हिलन Trembling गडड०  
 विष्णुस्त त्रि० ( विष्णुस्त ) विकसित, प्रफुल्ल. Blown, expanded वज्जा० ४४  
 विष्णुस्तञ्च पु० ( विस्फोटक ) फोडा Boid, tumour नाट-शकु० २७, पि० ३११, प्राप०  
 विष्णुधग त्रि० ( विबन्धक ) विशेष रूप से बाधने वाला One who binds, binds पञ्च० २, १  
 विष्णुवाहग त्रि० ( विबाधक ) विरोधी, बाधक. Contradictory, opposing. धर्मस० ४६६  
 विष्णुद्ध. त्रि० ( विबुद्ध ) जागृत Awakened, awakened सिरि० ६१२

वदलना Exchange, barter. कुमा०  
 विनिरय. त्रि० ( विनिरत ) लीन, आसक्त.  
 Absorbed in कुमा० ६६  
 विन्नवण न० ( विज्ञापन ) निवेदन, विज्ञापन  
 Request सुपा० २६७  
 विन्नविय त्रि० ( विज्ञापित ) निवेदित Res-  
 pectfully told or informed महा०  
 विन्नाण न० ( विज्ञान ) ( १ ) कला, शिल्प  
 Art, skill कुमा० प्रासू० ४३, ११२, ( २ )  
 मेधा, मति, बुद्धि Wisdom, intelli-  
 gence पात्र०  
 विन्नास. पु० ( विन्यास ) रचना, विच्छिन्ति  
 Arrangement, adjustment. पात्र०  
 स० ३०१, सुपा० १७, २६६, महा०  
 विन्नासण न० ( विन्यासन ) संस्थापन Plac-  
 ing, establishing स० ३१८.  
 विन्नासिअ त्रि० ( विन्यासित ) संस्थापित  
 Placed, established स० २६०  
 विन्हु पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि Name  
 of a Jaina saint कप्प०  
 विन्हुपअ न० ( विष्णुपद ) आकाश Sky,  
 atmosphere समु० १२०  
 विन्हुपदी स्त्री० ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी  
 The Ganges समु० १२०  
 विपक्क त्रि० ( विपक्क ) पका हुआ Fully  
 ripened or matured उप० पृ० २११  
 विपक्खिय त्रि० ( विपक्किक ) विरोधी, दुश्मन.  
 Enemy. संबोध० २६  
 विपच्चमाण त्रि० ( विपच्यमान ) ( १ ) जो पकाया  
 जाता हो That which is cooked  
 आ० २०, स० ८६, संबोध० ४४, ( २ ) दग्ध  
 होता हुआ, जलता हुआ Burning  
 रयण० ४१  
 विपराहुत्त त्रि० ( विपराह्मुख ) विशेष  
 पराह्मुख, अतिशय उदासीन Having the  
 face turned away or averted

पउम० ११२, २२  
 विपरिकु चि त्रि० ( विपरिकुञ्चिन् ) विपरि-  
 कुचित-नामक वन्दन दोष वाला One who  
 is faulty in salutations बृह० ३  
 विप्प पु० ( विप्पु ) ( १ ) मूत्र और विष्टा के  
 विन्दु A drop of urine and ordure.  
 ( २ ) विष्टा और मूत्र Faeces and urine  
 विशेष० ७८१, श्रव० महा०  
 विप्पओअ-विप्पओग पु० ( विप्रयोग )  
 अलहदगी, दुदाई, विरह, वियोग Separ-  
 ation उत्तर० १२, स० २८१, चड० पठम०  
 ४२, ४६, जी० ४३, महा०  
 विप्पगरिस पु० ( विप्रकर्ष ) दूरी, आसन्नता  
 का अभाव Distance, remoteness.  
 धर्मस० १२१७  
 विप्पगालिअ त्रि० ( विप्रगालित ) नाशित  
 Destroyed, ruined कुमा०  
 विप्पगिट्ट त्रि० ( विप्रकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर  
 स्थित. Distant, remote स० ३२६  
 विप्पजहिय त्रि० ( विप्रहीय ) परित्यक्त  
 Abandoned पि० २६२  
 विप्पडिपह पु० ( विप्रतिपथ ) विपरीत मार्ग  
 Wrong road or path उप० १०३१ टी  
 विप्पडिवत्ति स्त्री० ( विप्रतिपत्ति ) ( १ ) विरोध  
 Opposition विरो० २४८०, ( २ ) प्रतिज्ञा-  
 भंग Falling short of one's deter-  
 minations or promises उप० २१६  
 विप्पडिसिद्ध त्रि० ( विप्रतिषिद्ध ) आपस में  
 असमत. To disagree उत्तर० ३  
 विप्पडीव त्रि० ( विप्रतीव ) प्रतिकूल Un-  
 favourable माल० १७७.  
 विप्पयास पु० ( विप्रयास ) विनाश Des-  
 truction, ruin धर्मवि० २७  
 विप्पयारणा स्त्री० ( विप्रतारणा ) वचना,  
 उगई Deceit, cheating कुमा० ४४,  
 मोह० ६४.

विष्पयारिञ्ज त्रि० ( विप्रतारित ) वञ्चित, ङ्गा  
 हुआ. Deceived, cheated. मोह० १०१.  
 विष्परियासया. स्त्री० ( विपर्यासना ) व्यत्यय  
 करना To change निसी० चू० ११  
 विष्परुद्ध. त्रि० ( विपरुद्ध ) तिरस्कृत Cen-  
 sured, disdained पउम० ८, ८२  
 विष्पलम पु० ( विप्रलम्भ ) ( १ ) वञ्चना,  
 ङ्गाई. Deceiving, deceit उप० २४,  
 ( २ ) शृंगार की एक अवस्था The feeling  
 of sentiment of love in separa-  
 tion सुपा० १६४, ( ३ ) विपर्यास, व्यत्यय.  
 Change, contrariety, reverse  
 धर्मसं ३०४, ( ४ ) विरह, वियोग Sepa-  
 ration, disunion कण्ठ०  
 विष्पलमञ्ज. त्रि० ( विप्रलम्भक ) प्रतारक,  
 ङ्गने वाला. Cheater, impostor  
 मृच्छ० ४७  
 विष्पलभिञ्ज. त्रि० ( विप्रलम्भित ) ( १ )  
 प्रतारित Deceived, defrauded ( २ )  
 विरहित Separated, disunited  
 सुपा० २१६  
 विष्पलद्ध त्रि० ( विप्रलब्ध ) वञ्चित, प्रतारित  
 Deceived चारु० ४२, स० ४१८, ६८०.  
 विष्पलोद्घण त्रि० ( विप्रलोभन ) लुभाने वाला  
 Attracting, alluring, tempting  
 स० ७६३  
 विष्पव पु० ( विष्पव ) ( १ ) देश का उपद्रव,  
 क्रान्ति. Revolution ( २ ) दूसरे राजा के  
 राज्य आदि से भय Danger from an  
 enemy हे० २, १०६, ( ३ ) शरीर की  
 विसंस्थलता, अस्वस्थता Confusion,  
 perplexity कुमा०  
 विष्पवास पु० ( विप्रवास ) प्रवास, देशान्तर-  
 गमन Staying abroad, dwelling  
 in a foreign country प्रति० १००  
 विष्पहय त्रि० ( विप्रहत ) आहत, जखमी.

Wounded सुर० ६, २२१  
 विष्पिञ्ज पु० न० ( विप्रिय ) अपराध, गुनाह.  
 Offence पाथ० —आरय त्रि० ( कारक )  
 ( १ ) अप्रिय कारक. Disagreeable,  
 unfriendly ( २ ) अपराध कर्ता, Of-  
 fender, guilty. हे० ४, ३४३.  
 विष्पुञ्ज. त्रि० ( विष्पुत ) उपद्रुत, उपद्रव  
 युक्त Confounded, disturbed. दे० ६,  
 ७६  
 विष्पदिञ्ज त्रि० ( विस्पन्दित ) इधर उधर  
 भटका हुआ, परिभ्रान्त. Wandered  
 hither and thither. पउम० ६२, २२.  
 विष्पारस पु० ( विस्पर्श ) विरुद्ध स्पर्श.  
 Unfavourable touch प्राप्र०  
 विष्पारिय त्रि० ( विस्फारित ) ( १ ) विस्तारित.  
 Spread, extended उप० पृ० १२२;  
 ( २ ) विकसित Expanded, opened.  
 सुपा० ८३  
 विष्फुड. त्रि० ( विस्फुट ) स्पष्ट, व्यक्त Clear,  
 manifest, plain रंभा०  
 विष्फुरण न० ( विस्फुरण ) ( १ ) विजृम्भस,  
 विकास Expansion श्रावक० २४२,  
 सुर० २, २३७, ( २ ) स्पन्दन, हिलन  
 Trembling गउड०  
 विष्फुल्ल त्रि० ( विफुल्ल ) विकसित, प्रफुल्ल.  
 Blown, expanded वज्जा० ४४  
 विष्फोडञ्ज. पु० ( विस्फोटक ) फोडा Bold,  
 tumour नाट-शकु० २७, पि० ३११; प्राप०  
 विवधग त्रि० ( विवन्धक ) विशेष  
 बाधने वाला One who  
 binder पच० २, १  
 विवाहग त्रि० ( विवाधक ) विरोधी,  
 Contradictory, opposing  
 ४६६.  
 विबुद्ध. त्रि० ( विबुद्ध ) जागृत Ar-  
 awakened सिरि० ६१२

बदलना Exchange, barter. कुमा०  
 विनिरय त्रि० ( विनिरत ) लीन, आसक्त  
 Absorbed in कुम० ६६  
 विन्नवण न० ( विज्ञपन ) निवेदन, विज्ञापन.  
 Request सुपा० २६७  
 विन्नविय त्रि० ( विज्ञापित ) निवेदित Res-  
 pectfully told or informed महा०  
 विन्नाय न० ( विज्ञान ) ( १ ) कला, शिल्प  
 Art, skill कुमा० प्राप्त० ४३, ११२, ( २ )  
 मेधा, मति, बुद्धि Wisdom, intelli-  
 gence पाश्च०  
 विन्नास. पु० ( विन्यास ) रचना, विच्छिन्ति  
 Arrangement, adjustment, पाश्च०  
 स० ३०१, सुपा० १७, २६६, महा०  
 विन्नासण न० ( विन्यासन ) सस्थापन Plac-  
 ing, establishing स० ३१८.  
 विन्नासिअ त्रि० ( विन्यासित ) सस्थापित  
 Placed, established स० २६०  
 विन्हु पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि Name  
 of a Jaina saint कप्प०  
 विन्हुपअ न० ( विष्णुपद ) आकाश Sky,  
 atmosphere समु० १२०  
 विन्हुपदी स्त्री० ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी  
 The Ganges समु० १२०  
 विपक्क त्रि० ( विपक्क ) पका हुआ Fully  
 ripened or matured उप० पृ० २११  
 विपक्खय त्रि० ( विपक्किक ) विरोधी, दुश्मन.  
 Enemy. सबोध० २६  
 विपच्चमाण त्रि० ( विपच्यमान ) ( १ ) जो पकाया  
 जाता हो That which is cooked  
 आ० २०, स० ८६, सबोध० ४४, ( २ ) दग्ध  
 होता हुआ, जलता हुआ Burning  
 रयण० ४१  
 विपराहुत्त त्रि० ( विपराद्धुख ) विशेष  
 पराद्धुख, अतिशय उदासीन. Having the  
 face turned away or averted

पउम० ११२, २२  
 विपरिकु चि त्रि० ( विपरिकुञ्चिन् ) विपरि-  
 कुचित-नामक वन्दन दोष वाला One who  
 is faulty in salutations बृह० ३  
 विष्प पु० ( विष्पु ) ( १ ) मूत्र और विष्टा के  
 विन्दु A drop of urine and ordure.  
 ( २ ) विष्टा और मूत्र Feces and urine.  
 विशेष० ७८१, श्रव० महा०  
 विष्पओअ-विष्पओग पु० ( विष्पयोग )  
 अलहदगी, जुदाई, विरह, विषोग Separ-  
 tion वत्तर० १२, स० २८१, चड० पउम०  
 ४२, ४६, जी० ४३, महा०  
 विष्पगरिस पु० ( विष्पकर्ष ) दूरी, आसन्नता  
 का अभाव Distance, remoteness.  
 धर्मस० १२१७  
 विष्पगालिअ त्रि० ( विष्पगलित ) नाशित.  
 Destroyed, ruined कुमा०  
 विष्पगिट्ट त्रि० ( विष्पकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर  
 स्थित. Distant, remote स० ३२६  
 विष्पजहिय त्रि० ( विष्पहीण ) परित्यक्त  
 Abandoned पि० २६२  
 विष्पडिपह पु० ( विष्पतिपथ ) विपरीत मार्ग.  
 Wrong road or path उप० १०३१ टी.  
 विष्पडिवत्ति स्त्री० ( विष्पतिपत्ति ) ( १ ) विरोध.  
 Opposition विरो० २४८०, ( २ ) प्रतिज्ञा-  
 भंग Falling short of one's deter-  
 minations or promises वप० २१६  
 विष्पडिसिद्ध त्रि० ( विष्पतिपिद्ध ) आपस में  
 असमत. To disagree उवर० ३  
 विष्पडीव त्रि० ( विष्पतीव ) प्रतिकूल Un-  
 favourable माल० १७७.  
 विष्पयास पु० ( विष्पयास ) विनाश Des-  
 truction, ruin धर्मवि० २७  
 विष्पयारणा स्त्री० ( विष्पतारणा ) वचना,  
 ठगई. Deceit, cheating कुम० ४४,  
 मोह० ६४.

विष्णुयारिञ्च त्रि० ( विप्रतारित ) वञ्चित, ठगा  
हुआ Deceived, cheated मोह० १०१  
विष्णुरियासणा स्त्री० ( विपर्यासना ) व्यत्यय  
करना To change निसी० चू० ११.  
विष्णुरुद्ध. त्रि० ( विप्ररुद्ध ) तिरस्कृत Cen-  
sured, disdained पञ्च० ८, ८५.  
विष्णुलंभ पु० ( विप्रलम्भ ) ( १ ) वञ्चना,  
ठगई. Deceiving, deceit उप० २४,  
( २ ) शृंगार की एक अवस्था The feeling  
or sentiment of love in separa-  
tion सुपा० १६४, ( ३ ) विपर्यास, व्यत्यय  
Change, contrariety, reverse  
धर्मस० ३०४, ( ४ ) विरह, वियोग Sepa-  
ration, disunion कम्प०  
विष्णुलभञ्च. त्रि० ( विप्रलभञ्च ) प्रतारक,  
ठगने वाला. Cheater, impostor  
मृच्छ० ४७  
विष्णुलभिञ्च. त्रि० ( विप्रलभिञ्च ) ( १ )  
प्रतारित Deceived, defrauded ( २ )  
विरहित Separated, disunited  
सुपा० २१६  
विष्णुलद्ध त्रि० ( विप्रलद्ध ) वञ्चित, प्रतारित  
Deceived चारु० ४५, स० ४१८, ६८०.  
विष्णुलोहण त्रि० ( विप्रलोभन ) लुभाने वाला  
Attracting, alluring, tempting  
स० ७६३  
विष्णुव पु० ( विष्णुव ) ( १ ) देश का उपद्रव,  
क्रान्ति, Revolution ( २ ) दूसरे राजा के  
राज्य आदि से भय Danger from an  
enemy हे० २, १०६, ( ३ ) शरीर की  
विसंस्थूलता, अस्वस्थता Confusion,  
perplexity कुमा०  
विष्णुवास पु० ( विप्रवास ) प्रवास, देशान्तर-  
गमन Staying abroad, dwelling  
in a foreign country प्रति० १००  
विष्णुहय त्रि० ( विप्रहत ) आहत, जखमी.

Wounded सुर० ६, २२१.  
विष्णुत्र पु० न० ( विष्णुत्र ) अपराध, गुनाह.  
Offence पाञ्च० — आरय त्रि० ( कारक )  
( १ ) अप्रिय कारक. Disagreeable,  
unfriendly ( २ ) अपराध कर्ता, Of-  
fender, guilty. हे० ४, ३४३.  
विष्णुत्र त्रि० ( विष्णुत्र ) उपद्रुत, उपद्रव  
युक्त. Confounded, disturbed दे० ६,  
७६  
विष्णुदिञ्च त्रि० ( विष्णुदिञ्च ) इधर उधर  
भटका हुआ, परिभ्रान्त Wandered  
hither and thither पञ्च० ६५, ५२.  
विष्णुकारस पु० ( विष्णुकारस ) विरुद्ध स्पर्श  
Unfavourable touch प्राप्०  
विष्णुकारिय त्रि० ( विष्णुकारिय ) ( १ ) विस्तारित.  
Spread, extended उप० पु० १५२;  
( २ ) विकसित Expanded, opened.  
सुपा० ८३  
विष्णुड त्रि० ( विष्णुड ) स्पष्ट, व्यक्त Clear,  
manifest, plain रभा०  
विष्णुरण न० ( विष्णुरण ) ( १ ) विजृम्भस,  
विकास Expansion श्रावक० २४५,  
सुर० २, २३७, ( २ ) स्पन्दन, हिलन.  
Trembling गडड०  
विष्णुल्ल त्रि० ( विष्णुल्ल ) विकसित, प्रफुल्ल.  
Blown, expanded वज्जा० ४४  
विष्णुडञ्च. पु० ( विष्णुडञ्च ) फोडा Boil,  
tumour नाट-शकु० २७, पि० ३११, प्राप्०  
विष्णुधन त्रि० ( विष्णुधन ) विशेष रूप से  
बाधने वाला One who binds,  
binds पञ्च० २, १  
विष्णुवाह त्रि० ( विष्णुवाह ) विरोधी, बाधक.  
Contradictory, opposing धर्मस०  
४६६  
विष्णुद्ध. त्रि० ( विष्णुद्ध ) जागृत Aroused,  
awakened सिरि० ६१५

विबुहचद पु० (विबुधचन्द्र) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य. Name of a celebrated Jaina Acharya सुपा० ६५८

विबुहपह्नु पु० (विबुधभु) इन्द्र An epithet of Indra. सुर० १, १७२

विबुहपुर. न० (विबुधपुर) स्वर्ग Heaven सम्मत० १७५

विबुहेश्वर पु० (विबुधेश्वर) इन्द्र An epithet of Indra श्रावक० ५६

विबोहय त्रि० (विबोधक) (१) विकासक. Expanding कल्प० ३८ टि०, (२) ज्ञानजनक. Instructing, teaching विशे० १७४

विबोह्य पु० (विबोह्य) विलास, लीला Playful or amorous gestures पाञ्च०

विबुमंत पु० (विब्रान्त) प्रथम मरक-भूमि का सातवांनरकेन्द्रक-स्थान-विशेष The seventh abode of the first hell. देवेन्द्र० ४

विबुमंस पु० (विब्रंश) अतिपात, हिंसा, प्राण वियोजन Killing राज०

विबुमट्ट त्रि० (विब्रष्ट) विशेष अष्ट Fallen off or away प्रति० ४०

विबुभम पु० (विब्रम) (१) स्त्री की शृंगार के अं भूत चेष्टा विशेष. Any amorous or sportive action of the woman गडड० गा० ५, (२) सदेह Doubt, apprehension (३) आश्चर्य Wonder. (४) शोभा Beauty, grace गडड०, (५) रावण का एक सुमट्ट A warrior of Ravana पडम० ५६, २३

विबुभल त्रि० (विब्रल) (१) व्यासक्त, तल्लीन Attached to, intent on (२) पु० विष्णु, नारायण Vishnu पड्० ४०, हे० २, ५८

विबुभलित्र त्रि० (विब्रलित) व्याकुल किया हुआ. Confused, perturbed कुमा०

विभगुर त्रि० (विभङ्गुर) विनश्वर Perishable, transient सुपा० ६०५, प्रासू० ६६, पुष्कर० २०

विभग्न. त्रि० (विभग्न) भागा हुआ, खरिडित Broken. पडम० ११३, २६

विभयणा स्त्री. (विभजना) विभाग Division सम्म० १०१.

विभवन न० (विभवन) विरूप-करण, खराब करना. Disfiguring राज०

विभाय न० (विभात) प्रकाश, कान्ति, तेज. Lustre, brilliancy, सण०

विभाय. पु० (विभाव) परिचय Acquaintance, familiarity स० १५८

विभावसु पु० (विभावसु) (१) सूर्य, रवि Sun (२) रविवार Sunday पडम० १७, १७७.

विभाविय त्रि० (विभावित) विचारित Thought over, conceived सण०

विभासण न० (विभाषण) व्याख्या, व्याख्यान. Explanation, exposition. विशे० १४२८.

विभासा स्त्री (विभाषा) (१) विज्ञापन, निवेदन Statement उप० ६८०, (२) विविध भाषण Varied talks पिड० ४३८, (३) विशेषीक्ति A lengthy description देवेन्द्र० ३६७, (४) परिभाषा, संकेत Terminology, technical phraseology क० ग० १, २८-२९

विभासिय. त्रि० (विभासित) प्रकाशित, उद्घोषित. Made clear or manifest, displayed सम्मत० ६२

विभीसण पु० (विभीषण) (१) रावण का एक छोटा भाई The younger brother of Ravana पडम० ८, ६२, (२) विदेह-वर्य का एक वासुदेव Vasudeo of Videha राज०

विभीसावण त्रि० (विभीषण) भय-जनक, भयकर Frightening, terrifying भवि०

विभीषिया. स्त्री० ( विभीषिका ) भय-प्रदर्शन  
'Teror' उप०  
विभु पुं० ( विभु ) ( १ ) प्रभु, परमेश्वर God  
पदम० ५, ११२, ( २ ) नाथ, स्वामी, मालिक  
Master पदम० ७०, १२, ( ३ ) इक्ष्वाकु वंश  
के एक राजा का नाम Name of a king  
of Ikshvaku lineage पदम० ५, ७  
विभूद्, स्त्री० ( विभूति ) श्रेष्ठता, धूमधाम Dignity,  
splendour सुर० ३, ६२, महा०  
विभेद-य पु० ( विभेद ) ( १ ) भेदन, विदारण.  
Separation धमस० ८२६, गडड० उप०  
७२८टी, ( २ ) भेद, प्रकार Division.  
चेह्य० ६६४  
विभेद्यग त्रि० ( विभेदक ) भेदन-कर्ता To  
separate धर्मवि० ७६  
विमद् स्त्री० ( विमति ) छन्द-विशेष Name  
of a metrie pig०  
विमद्भ्र त्रि० ( विभ्रतित ) भरिषत्, तिरस्कृत  
Censured, reproached दे० ७, ७१  
विमतिय त्रि० ( विमन्त्रित ) जिसके बारे में  
मसलहत की गई हो Consulted, coun-  
selled. सुर० १२, ६७  
विमसिञ्ज त्रि० ( विमर्शित ) विचारित, पर्या-  
लोचित Thought सिरि० १०४५.  
विमग्गिञ्ज त्रि० ( विमार्गित ) ( १ ) याचित,  
मागा हुआ Begged सिरि० १२७, सुर० ४,  
१०७, ( २ ) अन्वेषित, गवेषित. Searched,  
inquied पाञ्च०  
विमद्. पु० ( विमर्द ) ( १ ) विनाश Destruction,  
devastation सुपा० ३८, गडड०,  
( २ ) सघर्ष Friction स० ७२२, कुप० ४६.  
विमद्दण. पु० ( विमर्दन ) देखो 'विमद्' शब्द  
Vide 'विमद्' भवि०  
विमल पुं० ( विमल ) ( १ ) लगातार छह दिनों  
का उपवास Six fasts at a time. ( २ )  
लगातार सात दिनों का उपवास Seven

fasts at a time. संबोध० ५८  
विमलचद् पुं ( विमलचन्द्र ) एक जैन आचार्य.  
Name of a Jaina Acharya महा०  
विमलण न० ( विमर्दन ) मणि आदि को शाण  
पर घिसना, घर्षण. Rubbing of a jewel  
with a touch-stone. दे० १, १४८.  
वमलपहा स्त्री० ( विमलप्रभा ) भगवान्  
शीतलनाथजी की दीक्षा-शिविका A palan-  
quin of Lord Shitalnatha at  
the time of initiation विचार०  
१२६  
विमलसामि पु० ( विमलसामिन् ) सिद्ध-  
चक्रजी का अधिष्ठात्यक देव The presid-  
ing god of Siddha Chakraji सिरि०  
२०४  
विमलसुदरी ( विमलसुन्दरी ) पृष्ठ वासुदेव की  
पटरानी A crowned queen of the  
sixth Vasudev पदम० २०, १८६  
विमलिञ्ज ( विमर्दित ) जिसका मर्दन किया गया  
हो, घुट Crushed, rubbed से० ६, ७  
विमलेसर पुं० ( विमलेश्वर ) सिद्धचक्रजी का  
अधिष्ठात्यक देव The presiding god  
of Siddh Chakraji सिरि० ७७३  
विमाड स्त्री० ( विमातृ ) सौतेली मा. Step-  
mother सत्त० ३५, १७१  
विमाण पु० ( विमान ) ( १ ) अपमान, तिरस्कार  
Insult, Censure, disrespect ( २ )  
त्रि० मान-रहित, प्रमाण-शून्य Destitute  
of authority से० ६, ७२  
विमाणणा. स्त्री० ( विमानना ) अवगणना, तिर-  
स्कार Disrespect, Dishonour चेह्य०  
१३२.  
विमिस्स स्त्री० ( विमृश्य ) विचार करके.  
Pondered over — गारि त्रि० ( कारिन् )  
विचार पूर्वक करने वाला Considerate  
स० १८४, ३२४.



विमिस्सय.न० (विमिश्रण) मिश्रण, मिलावट  
Mixture सम्मत० १७१  
विमीसिय त्रि० (विमिश्रित) मिश्रित, विमिश्र  
Mixed भव०  
विमुक्त त्रि० ( विमुक्त ) परित्यक्त Aban-  
doned 'विमुक्तीवाण' महा० ७७,  
विमुच्छिञ्च त्रि० ( विमुच्छिञ्चित ) मूच्छां-प्राप्त  
Fainted से० ११, २६.  
विमुयण न० (विमोचन) परित्याग Aban-  
donment, Quitting सबोध० १०  
विमुह त्रि० (विमुख) (१) पराङ्मुख, उदासीन  
Indifferent, unconcerned गडड०  
सुपा० २८, भवि०, (२) पु० एक नरक-स्थान.  
Name of an abode of the hell  
देवेन्द्र० २८  
विमुहिञ्च त्रि० ( विमुग्ध ) धवराया हुआ,  
Confused, bewildered. से० ४, ४४,  
गा० ७६२  
विमूढ त्रि० ( विमूढ ) ( १ ) धवराया हुआ,  
Confounded, bewildered ( २ )  
अस्पष्ट, अस्पष्ट Indistinct, not clear  
गडड०  
विमूरण त्रि० (विभङ्गक) तोडने वाला, खण्डन  
कर्ता Breaker मगल १०  
विमोडण न० (विमोटन) मोडना Bending  
दे०  
विमोहिञ्च त्रि० (विमोहित) मोह-प्राप्त Fas-  
cinated महा० २३, २२  
विम्ह न० (वेरमन्) गृह, घर House राज०  
विम्हइञ्च त्रि० ( विस्मित ) आश्चर्य-चकित,  
चमत्कृत Astonished, amazed सुर०  
१, १६०  
विम्हरावण त्रि० (विस्मरण) विस्मरण कराने  
वाला, याद दिलाने वाला Reminder  
कुमा०  
विम्हरिञ्च त्रि० (विस्मृत) भूला हुआ, याद न

किया हुआ Forgotten कुमा० पाञ्च०  
विम्हारिञ्च त्रि० (विस्मारित) भुलाया हुआ  
Caused to forget कुमा० श्रा० २८.  
विम्हाचणा स्त्री० (विस्मापना) आश्चर्य उपजाना,  
विस्मय-करण Wonderful निसी० चू० ११  
विम्हाचथ त्रि० ( विस्मापक ) विस्मयजनक  
Astonishing सम्मत० १७४  
विम्हाविञ्च त्रि० ( विस्मापित ) आश्चर्यान्वित  
किया हुआ Caused to astonish  
धर्मवि० १४७.  
विम्हिर त्रि० ( विस्मेर ) विस्मय पाने वाला,  
चमत्कृत होने वाला Surprising श्रा०  
१२, २७  
विरइ स्त्री० (विरति) छन्द शास्त्र प्रसिद्ध विश्राम  
स्थान, यति ( In prosody ) caesura  
चेहय० २०७  
विरचि पु० (विरञ्चि) ब्रह्मा, विधाता. The  
creator, name of Brahma कुम०  
४०३, त्रि० ८७, सम्मत० १६२  
विरत्ति स्त्री० ( विरक्ति ) वैराग्य, उदासीनता.  
Indifference, freedom from  
passion or worldly attachment.  
उप० पृ० ३२  
विरम पु० ( विरम ) विराम, निवृत्ति Cess-  
ation, stop गडड० गा० ४२६, ६०६,  
सुर० ७, १६३  
विरमालिञ्च त्रि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी प्रतीक्षा  
की गई हो Waited for, Expected  
पाञ्च०  
विरय न० (विरत) (१) विरति, विराम Ces-  
sation, stop (२) सयम, त्याग Indif-  
ference to worldly attachments.  
द० ४६, क० ग० २, २  
विरय.पु० (विरजस्) एक देव विमान Name  
of a celestial aerial car देवेन्द्र० १४१  
विरया स्त्री० (विरजा) (१) गो-श्लोक में स्थित

राधा की एक सखी. A female friend of Radha ( २ ) उसके शप से बनी हुई एक नदी A river which burst forth owing to the wiathful prayers. अच्यु० ८६

विरल त्रि० ( विरल ) ( १ ) अनिविड. Not thick or compact. ( २ ) विच्छिन्न Broken, severed गडड० उव०

विरलिञ्च त्रि० ( विरलित ) विरल बना हुआ, विरल किया हुआ Rare, scarcely found गडड०

विरल्लग्य न० ( तनन ) विस्तार, फैलाव Spreading, Extention 'अहमयविरल्लये सया रमइ' उव०

विरस पु० ( विरस ) ( १ ) राम-आता भरत के साथ जैन दीक्षा लेने वाला एक राजा A king initiated with Bharata, brother of Rama पउम० ८२, ३, ( २ ) न० तप-विशेष, निर्विकृतिक तप A kind of religious austerity सबोध० १८,

विरसिय त्रि० ( विरसित ) रस-हीन, रस-विरहित Tasteless, insipid हम्मिर ११

विरह. पु० ( विरह ) ( १ ) अन्तर, व्यवधान, Intervention, separation ( २ ) पु० वृक्ष विशेष A kind of tree. सबोध० ४७, आ० ३१, ( ३ ) अभाव Absence ( ४ ) विनाश Destruction. राज०, ( ५ ) हरि-वश में उत्पन्न एक राजा A king born in Havivansa पउम० २२, ६८

विरह त्रि० ( विरथ ) रथ रहित Without a chariot पउम० १०, ६३

विरहि त्रि० ( विरहिन ) वियोगी, बिछुडा हुआ Separated कुमा०

विराइ त्रि० ( विरागिन् ) विराग वाला, विरक्त, बदासीन Indifferent, free from worldly attachment नाट०

विराइ त्रि० ( विराजिन् ) शोभने वाला, चमकने वाला Irradiating, illuminating. से० २, २६

विराइ त्रि० ( विराविन् ) शब्द-युक्त, आवाज़ वाला Crying, Shouting से० २, २६.

विराम पु० ( विराम ) इपरम, निवृत्ति, श्रवसान. Cessation, discontinuance गडड०

विराय त्रि० ( विलीन ) ( १ ) विशीर्ण विगलित, नष्ट Perished से० ७, ६४, गडड० कुमा० ६, ३८, ( २ ) पिघला हुआ Melted, Dissolved, Liquefied पाञ्च०

विराव पु० ( विराव ) शब्द, आवाज़ Clamour, noise, sound गडड०

विरावि त्रि० ( विराविन् ) आवाज़ करने वाला. Crying गडड०

विराहिञ्च पु० ( विराधित ) एक विद्याधर नरेश Name of a Vidyadhai king पउम० ७६, ७

विरिञ्च. त्रि० ( भग्न ) भागा हुआ, तोडा हुआ. Broken कुमा०

विरिंच. पु० ( विरिंच् ) ब्रह्मा, विधाता. The creator, Brahma, पाञ्च०

विरिंचि पु० ( विरिंचि ) ब्रह्मा, विधाता The Creator, Brahma सुर० १२, ७८

विरिक्क खी० ( विरिक्क ) जो खाली हुआ हो. Emptied, evacuated पउम० ४१, ३२, सुपा० ४२२

विरित्त त्रि० ( विमक्त ) ( १ ) बाटा हुआ Divided, partitioned महा०, ( २ ) जिसने भाग बाट लिया हो, अपना हिस्सा लेकर जो अलग हुआ हो An ex-partner or one who might have separated from the other after taking his share ओच० ४६४ टी

विरुञ्च न० ( विरुत् ) ध्वनि, पक्षी की आवाज़, शब्द Cry, sound of a bird गा० ६४,

से० १, २३

विरुत्र त्रि० ( विरूप ) (१) खराब, कुडौल, दुष्ट रूप वाला, कुत्सित Awkward दे० ७, ६३, भवि०, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल Adverse, unfavourable. पढ०

विरुट्ट पु० ( विरुष्ट ) नरक स्थान विशेष A particular abode of the hell. देवेन्द्र० २८

विरुत्र-त्र त्रि० ( विरूप ) (१) कुप, मौंढा, कुडौल, खराब, कुत्सित Deformed, ugly गा० २६३, भवि० स्वप्न० ४४, सुर० १, २६, ४०० ७२८ टी, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल, बलदा. Unfavourable, unpropitious सुर० ११, ८०

विरुद्ध पु० न० ( विरुद्ध ) अकुरित, द्विदल-धान्य Grown, germinated प्रब० ४

विरुत्राण त्रि० ( विरेचन ) भेदक, विनाशक Destroyer स० २७८, ६६३.

विरोलित्र त्रि० ( मथित ) विलोहित Churned पाश्च० कुमा० भवि०

विरोहय त्रि० ( विरोधक ) विरोध-कर्ता Resisting, opposing भवि०

विरोहि० त्रि० ( विरोधिन् ) दुश्मन, प्रतिपन्थी Enemy पि० ३०५, नाट० शकु० १६

विरोहिय त्रि० ( विरोधिन् ) विरोध-प्राप्त Opposed, contradicted. वज्जा० ७०.

विलघण न० ( विलङ्घन ) उल्लघन, अतिक्रमण Transgressing, overstepping वप० २६७ टी

विलय पु० ( विलम्ब ) तप-विशेष, पूर्वार्ध तप A religious austerity सबोध० १८.

विलवि न० ( विलम्बिन् ) (१) सूर्य ने भोग कर छोड़ा हुआ नक्षत्र An asterism through which the planet Sun might have passed on (२) सूर्य जिस पर हो उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र A last as-

terism, third from the first in which the sun may be present. वव० १

विलंबित्र त्रि० ( विलम्बित ) (१) विलम्ब युक्त Delayed. कप्प०, (२) नक्षत्र विशेष. Name of a constellation वव० १

विलम्बित्र त्रि० ( विलम्ब ) (१) लज्जित, शर्मिन्दा Ashamed, abashed, disconcerted से० १०, ७०, सुर० १२, ६६, सुपा० १६८, ३२८, महा० भवि०, (२) प्रतिभा-शून्य, मूढ Foolish, having no characteristics से० १०, ७०

विलम्ब न० ( विलम्ब ) विलम्बिता लज्जा, शर्म, Shame सुर० ३, १७६

विलम्ब त्रि० ( विलम्ब ) (१) लगा हुआ, चिपटा हुआ, संलग्न Clinging, sticking सबोध० १३, से० ४, २, ३, १४२, गा० १८८; ३२६, महा०, (२) अवलम्बित Resting on सुर० १०, ११४, (३) आरूढ Mounded सुख १, ३

विलब्ध त्रि० ( विलम्ब ) अच्छी तरह प्राप्त, सुलब्ध Procured, obtained पिंग०

विलम्ब पु० ( विलम्बन् ) एक नरक-स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २६

विलय पु० ( विलय ) (१) विनाश Destruction कुप० २१, सुपा० १६७, ती० ३, (२) तल्लीनता Absorption in ती० ३; (३) पु० एक नरक-स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २६

विलचिर त्रि० ( विलपितु ) विलाप करनेवाला. Lamenting, wailing कुमा० मय०

विलसय न० ( विलसन ) (१) विलास, मौज Sporting वप० पु० १८१, (२) मौज करने वाला That experiences pleasures, voluptuous सुर० १, २२१ टि.

विलसिय न० ( विलसित ) दीप्ति, चमक.

Glitter, gleam महा०

विलासिञ्च त्रि० ( विलासित ) विलास-युक्त

Wailing, lamenting वै० ८६, भवि०

विलास पु० ( विलास ) दीप्ति, चमक Flash, gleam कुमा० गड० — वई, स्त्री० ( वती )

स्त्री, नारी, महिजा A wanton or amorous woman से० १०, ७१, गड०

विलासपुर न० ( विलासपुर ) नगर विशेष.

Name of a city सुपा० ६२२

विलासि त्रि० ( विलासिन् ) ( १ ) मौजी,

शौकीन Sportive, playful हास्य०

१३८, गड०, ( २ ) चमकने वाला Shining, glittering

विलासिणी स्त्री० ( विलासिनी ) ( १ ) नारी,

स्त्री Woman ( २ ) वेश्या Wanton,

harlot गा० २६३, ८०३, अ० गड०

नाट-रत्ना० ६, पि० ३४६, ३८७

विलिञ्च. न० ( अंगलीक ) ( १ ) कदर्प-सवन्धी

अपराध, गुनाह Fault, offence कुमा०

गा० १३, ( २ ) अकार्य Any improper

act गा० १३, ( ३ ) अमिय, विमिय Any-

thing disagreeable or displeasing

गा० १३, पाञ्च०, ( ४ ) अनुत्त, असत्य False-

hood ( ५ ) प्रतारणा, ठगई Deception

( ६ ) गति-विपर्यय, Inversion ( ७ ) अपराधी

Guilty ( ८ ) अकार्य-कर्ता Evil-doer

( ९ ) विमिय कर्ता A doer of disagree-

able act ( १० ) झूठ बोलने वाला Lier

है० १, ४६-१०१

विलिञ्च त्रि० ( वीक्षित ) लज्जित, शरमिन्दा

Ashamed, abashed पाञ्च० पड०

विलिहिञ्च त्रि० ( विलिखित ) चित्रित.

Pictured, painted सुर० १२, २०

विलीङ्घ त्रि० ( विलेन् ) द्रव्य शील, पिघलने

वाला. Melting, dissolving कुमा०

विलीय त्रि० ( विलीन ) विनष्ट Perished.

धया० २६, पाञ्च० महा० भवि०

विलुपिञ्च. त्रि० ( काङ्क्षित ) अभिलषित.

Desired, wished कुमा० ७, ३८, दे०

७, ६६

विलुङ्घ. त्रि० ( विलुञ्चित ) विमुञ्चित,

सर्वथा केश-रहित किया हुआ. Clean-

shaved पिंड० २१७

विलुप्त त्रि० ( विलुप्त ) ( १ ) लुपित, लुटा

हुआ Robbed, plundered सुर० ११,

४८, ( २ ) विनष्ट Perished कप्प०

विलुण त्रि० ( विलून ) काटा हुआ, झिल.

Cut or lopped off सुपा० ६

विलेचिञ्च त्रि० ( विलेपित ) विलेपन-युक्त,

Smear'd सण्य०

विलेचिञ्चा स्त्री० ( विलेपिका ) पान विशेष.

Rice, gruel राज०

विलोद्विञ्च त्रि० ( विलेखित ) चित्रित किया हुआ.

Painted, pictured सुर० १२, ११६.

विलोञ्च पु० ( विलोक ) आलोक, प्रकाश.

Light, lustre उप० पू० ३६८

विलोञ्चण पु० न० ( विलोचन ) आस, नेत्र.

Eye काम० १६१, गा० ६७०, सुपा० १२३

विलोञ्चण न० ( विलोकन ) ( १ ) देखना,

निरिच्छण To looking at, to observe

( २ ) त्रि० देखने वाला. An observer.

सुर० ४, ८६

विलोद्वि-विलोद्विञ्च. त्रि० ( विसवदित ) ( १ )

जो झूठा साबित हुआ हो One who is

proved false or a liar कुमा० ६,

८८, ( २ ) जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-

च्युत Traitor, cheat, one who falls

from his promises or words. उप०

१६७ टी. ( ३ ) विरुद्ध बना हुआ Contrary.

सुपा० ४६२.

से० १, २३  
 विश्वत्र त्रि० ( विरूप ) (१) खराब, कुडील, दुष्ट रूप वाला, कुलित Awkward. दे० ७, ६३, भवि०, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल Adverse, unfavourable. पङ्०  
 विश्वट्ट पुं० ( विरुष्ट ) नरक स्थान विशेष A particular abode of the hell देवेन्द्र० २८  
 विश्वत्र-य त्रि० ( विरूप ) (१) कुप, भौंडा, कुडील, खराब, कुलित Deformed, ugly. गा० २६३, भवि० स्वप्न० ४४, सुर० १, २६, वप० ७२८ टी, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा. Unfavourable, unpropitious सुर० ११, ८०  
 विरुद्ध पु० न० ( विरुद्ध ) अकुरित, द्विदल-धान्य Grown, germinated प्रव० ४  
 विरेत्रण त्रि० ( विरेचन ) भेदक, विनाशक Destroyer स० २७८, ६६३.  
 विरोलित्र त्रि० ( मथित ) विलोडित Churned पात्र० कुमा० भवि०  
 विरोहय त्रि० ( विरोधक ) विरोध-कर्ता Resisting, opposing भवि०  
 विरोहि त्रि० ( विरोधिन् ) दुश्मन, प्रतिपन्थी Enemy पि० ४०२, नाट० शकु० १६  
 विरोहिय त्रि० ( विरोधिन् ) विरोध-प्राप्त Opposed, contradicted. वज्रा० ७०.  
 विलघण न० ( विलङ्घन ) उल्लघन, अतिक्रमण Transgressing, overstepping वप० २६७ टी  
 विलव पु० ( विलम्ब ) तप-विशेष, पूर्वार्ध तप A religious austerity सबोध० २८.  
 विलवि न० ( विलम्बिन् ) (१) सूर्य ने भोग कर छोटा हुआ नक्षत्र An asterism through which the planet Sun might have passed on (२) सूर्य जिल पर हो उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र A last as-

terism, third from the first in which the sun may be present. वष० १  
 विल्विश्व त्रि० ( विलम्बित ) (१) विलम्ब युक्त Delayed. कप्प०, (२) नक्षत्र विशेष, Name of a constellation वव० १  
 विलक्ख त्रि० ( विलक्ख ) (१) लज्जित, शर्मिन्दा Ashamed, abashed, disconcerted से० १०, ७०, सुर० १२, ६६, सुपा० १६८, ३२८, महा० भवि०, (२) प्रतिभा-शून्य, मूढ Foolish, having no characteristics से० १०, ७०  
 विलक्ख न० ( वैलक्ख ) विलक्खता लज्जा, शर्म. Shame सुर० ३, १७६  
 विलग्ग त्रि० ( विलग्न ) (१) लगा हुआ, चिपटा हुआ, संलग्न Clinging, sticking सबोध० १३, से० ४, २, ३, १४२, गा० १८८, ३१६, महा०, (२) अवलम्बित Resting on सुर० १०, ११४, (३) आरूढ Mounted सुख १, ३  
 विलब्ध त्रि० ( विलब्ध ) अन्धी तरह प्राप्त, सुलब्ध Procured, obtained विंग०  
 विलप्प पु० ( विलापन् ) एक नरक-स्थान. A particular abode of the hell देवेन्द्र० २६  
 विलय पु० ( विलय ) (१) विनाश Destruction कुप० २१, सुपा० १६७, ती० ३, (२) तल्लीनता Absorption in ती० ३, (३) पुं० एक नरक-स्थान A particular abode of the hell देवेन्द्र० २६  
 विलविर त्रि० ( विलपितृ ) विलाप करनेवाला. Lamenting, wailing कुमा० सप्य०  
 विलसण न० ( विलसन ) (१) विलास, मौज Sporting वप० पृ० १८१, (२) मौज करने वाला That experiences pleasures, voluptuous सुर० १, २२१ टि.

विलसिय न० ( विलसित ) दीप्ति, चमक.  
 Gitter, gleam महा०  
 विलाविअ त्रि० ( विलापित ) विलाप-युक्त  
 Wailing, lamenting वै० ८६, भवि०  
 विलास पु० ( विलास ) दीप्ति, चमक Flash,  
 gleam कुमा० गडड० — वर्ड० स्त्री० ( वती )  
 स्त्री, नारी, महिला A wanton or  
 amorous woman से० १०, ७१,  
 गडड०  
 विलासपुर न० ( विलासपुर ) नगर विशेष.  
 Name of a city सुपा० ६२२  
 विलासि त्रि० ( विलासिन् ) ( १ ) मौजी,  
 शैलीन Sportive, playful हास्य०  
 १३८, गडड०, ( २ ) चमकने वाला Shin-  
 ing, ghttering  
 विलासिणी स्त्री० ( विलासिनी ) ( १ ) नारी,  
 स्त्री Woman ( २ ) बेस्या Wanton,  
 harlot गा० २६३, ८०३, अ० गडड०  
 नाट-रत्ना० ६, पि० ३४६, ३८७  
 विलिअ. न० ( विलीक ) ( १ ) कदर्य-सवन्धी  
 अपराध, गुनाह Fault, offence कुमा०  
 गा० १३, ( २ ) अकार्य Any improper  
 act गा० १३, ( ३ ) अप्रिय, विप्रिय Any-  
 thing disagreeable or displeasing  
 गा० १३, पात्र०, ( ४ ) अनृत, असत्य False-  
 hood ( ५ ) पतारणा, झाड़ Deception  
 ( ६ ) गति-विपर्यय, Inversion ( ७ ) अपराधी  
 Guilty ( ८ ) अकार्य-कर्ता Evil-doer  
 ( ९ ) विप्रिय-कर्ता A doer of disagree-  
 able act ( १० ) झूठ बोलने वाला Liar  
 रे० १, ४६-१०१  
 विलिअ त्रि० ( विलिअ ) लज्जित, शरमिन्दा  
 Ashamed, abashed पात्र० पड०  
 विलिहिअ त्रि० ( विलिखित ) चित्रित,  
 Pictured, painted सुर० १२, २०  
 विलीइर त्रि० ( विलेनु ) द्रवण शील, पिघलने

वाला. Melting, dissolving कुमा०  
 विलीण त्रि० ( विलीन ) विनष्ट Perished.  
 अथ० २१, पात्र० महा० भवि०  
 विलुपिअ. त्रि० ( काङ्क्षित ) अभिलषित.  
 Desired, wished कुमा० ७, ३८, दे०  
 ७, ६६  
 विलक. त्रि० ( विलुञ्चित ) विमुश्चित,  
 सर्वथा केश-रहित किया हुआ. Clean-  
 shaved पिंड० २१७  
 विलुत्त त्रि० ( विलुत्त ) ( १ ) लुण्ठित, लुटा  
 हुआ Robbed, plundered सुर० ११,  
 ४८, ( २ ) विनष्ट Perished कप्प०  
 विलुण त्रि० ( विलून ) काटा हुआ, छिन्न  
 Cut or lopped off सुपा० ६  
 विलेविअ त्रि० ( विलेपित ) विलेपन-युक्त,  
 Smeared सण०  
 विलेविअ स्त्री० ( विलेपिका ) पान विशेष  
 Rice, gruel राज०  
 विलोहिअ त्रि० ( विलोखित ) चित्रित किया हुआ.  
 Painted, pictured सुर० १२, ११२.  
 विलोअ पु० ( विलोक ) आलोक, प्रकाश  
 Light, lustre उप० पू० ३१८  
 विलोअण पु० न० ( विलोचन ) आँख, नेत्र.  
 Eye काप्र० १६१, गा० ६७०, सुपा० २२६  
 विलोअण न० ( विलोकन ) ( १ ) देखना,  
 निरीक्षण To looking at, to observe.  
 ( २ ) त्रि० देखने वाला, An observer.  
 सुर० ४, ८६  
 विलोड-विलोडिअ. त्रि० ( विसवदित ) ( १ )  
 जो झूठ साबित हुआ हो One who is  
 proved false or a liar कुमा० ६,  
 ८८, ( २ ) जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-  
 च्युत Traitor, cheat, one who falls  
 from his promises or words. उप०  
 २६७ टी, ( ३ ) विरुद्ध बना हुआ Contrary.  
 सुपा० ४२२.

विलोडिय त्रि० ( विलोडित ) मथित. Churned कुप० ७८.  
 विलोल त्रि० ( विलोल ) चञ्चल, अस्थिर  
 Unstable, unsteady. से० २, १६, गडढ० कल्प०  
 विलोच पु० ( विलोप ) लूट, डकैती Plunder 'सत्यविलोवे जाए' सुर० १५, १८  
 विलोचण न० ( विलोपन ) लूट, डकैती. Plunder, robbing \*डव०  
 विलोहण. त्रि० ( विलोभन ) ( १ ) आश्चर्य कारक. Surprising ( २ ) लुभाने वाला Enticing, alluring श्रावक० १३२  
 विवह स्त्री० ( विपद् ) विपत्ति, कष्ट, दुःख. Calamity, Mishap उप० ७७१, हे० ४, ४००, —गर त्रि० ( कर ) दुःख जनक Painful, troublesome कुमा०  
 विवह. स्त्री० ( विवृत्ति ) व्याख्या, विवरण, टीका Manifestation, exposition, comment कुप० १६  
 विवहण. त्रि० ( विप्रकीर्ण ) बिखरा हुआ Spread about, scattered पउम० ७८, २६, से० ५, ५२, १३, ८६.  
 विवक त्रि० ( विवक्र ) विशेष बाका Bent स० २५१.  
 विवचिञ्जा स्त्री० ( विपञ्चिका ) बाण-विशेष, चीणा A kind of musical instrument पाञ्च०  
 विवक्ष्य पु० ( विपक्ष ) ( १ ) विपरीत धर्म A bad form of religion ( २ ) वैधर्म्य, विसदृशता Dissimilarity डा० १ टी.  
 विवच्छा स्त्री० ( विवत्सा ) बत्स रहित स्त्री Childless woman राज०  
 विवज्जयाया-विवज्जया स्त्री० ( विवर्जना ) परित्याग, परिहार, बर्जन Relinquishment abandonment दसचू० २, ५.  
 विवडि स्त्री० ( विवृद्धि ) बढ़ाव, वृद्धि.

Growth, increase, development पचा० १८, १३  
 विवयीय. त्रि० ( व्यपनीत ) दूर किया हुआ, हटाया हुआ Removed कल्प०  
 विवयण त्रि० ( विवर्ण ) निस्तेज, फीका, म्लीन. Pale, wan, pallid से० ८, ८७  
 विवयण त्रि० ( द्विपर्ण ) ( १ ) दो पत्र वाला. Having two leaves ( २ ) पुं० वृक्ष, पेड़ Tree राज०  
 विवत्ति स्त्री० ( विपत्ति ) ( १ ) कार्य की असिद्धि. Failure सुपा० २३५, डव० वृह० १, ( २ ) मरण, मौत Death, destruction. सुर० २, ५१, स० ११६  
 विवत्तिञ्ज त्रि० ( विवर्तित ) फिराया हुआ घुमाया हुआ Turned round, revolved से० ६, ८०  
 विवदि स्त्री० ( विवृत्ति ) ( १ ) विवरण, टीका Exposition, comment ( २ ) विस्तार. Expansion सच्चि० ६  
 विवद्धया स्त्री० ( विवर्धना ) वृद्धि, बढ़ाव Increase, growth, augmentation. उप ६७५  
 विवया स्त्री० ( विपद् ) कष्ट, दुःख Calamity, mishap उप. ७२८ टी  
 विवरमुह त्रि० ( विपारङ्मुख ) विमुख, पारङ्मुख Turned face पउम ७३, ३०, से ६, ४२  
 विवरिञ्ज. त्रि० ( विवृत ) व्याख्यात. Expounded, explained विशेष० १३६६ स० ७१७  
 विवरुक्ख-विवरोक्ख. त्रि० ( विपरोक्ष ) ( १ ) परोक्ष, अप्रत्यक्ष Out of, or beyond the range of sight, invisible पउम० ६, ११, ( २ ) न० अभाव Absence गडढ० ७६, ( ३ ) परोक्षता, अप्रत्यक्षपन Invisibility. गडढ० १२०४.  
 विचलाञ्ज त्रि० ( विपलायित ) मागा हुआ

Fled, retreated, run away. से० १, २, १४, ३०

विचलित्र त्रि० (विचलित) मोबा हुआ. परा-  
बलित Bent, curved. गा० ६८०, गउड०  
४२४, काम० १३२.

विचलहत्य त्रि० (विपर्यस्त) विपरीत, उलटा.  
Contrary, opposite से० ६, ८

विचस त्रि० (विवश) बाध्य, लाचार Depen-  
dent, helpless कुप्र० १३२

विवाडग त्रि० (विवादक) विवाद कर्ता Dis-  
pute, contention स० ४२६

विवागि त्रि० (विपाकिन्) विपाक वाला  
Ripened, matured अरु० ११३

विवायण त्रि० (विवादन) विवाद करना Dis-  
puting, contending धर्मवि० २०

विवाहगणय पु० (विवाहगणक) ज्योतिषी,  
जोशी Astronomer or astrolo-  
ger दे० ६, १११

विवाहजज्ञ पु० (विवाहजज्ञ) विवाह-उत्सव.  
The marriage festival मोह० ४४

विवाहाचिय. त्रि० (विवाहित) जिस की शादी  
कराई गई हो Married महा०

विविइसा स्त्री० (विविदिषा) ज्ञानने की इच्छा,  
जिज्ञासा Desire of knowing, curio-  
sity अरु० ६६

विविण न० (विपिन) वन, जंगल Forest  
गउड० नाट-वैत० ७२

विचित्त न० (विविक) (१) एकान्त, विजन  
A lonely or solitary place, lone-  
liness. स० ७४३, (२) विवेक-युक्त Dis-  
criminating (३) सविन, भव-भीरु  
Renunciation of the world.  
वद० ४

विद्युत्र त्रि० (विद्युत्) (१) विस्तृत Expan-  
ded, spread out (२)  
Expounded, explained सवि० ४

विवेत्र पु० (विपेप) विशेष कंप. Tremour,  
trembling सुपा० १४.

विवेइ त्रि० (विवेकिन्) विवेक वाला Dis-  
criminating सुपा० १४८, कुमा सय  
विस न० (विप) पानी, जल Water से०  
८, ६३. —हारिणी स्त्री० (हारिणी) पानी  
भरने वाली स्त्री. A woman water-  
career. हे० ४, ४३६

विस.पु० (वृष) (१) बैल, साढ़, वृषभ Bull  
सु० १, २४८, सुपा० ३६३, २६७, सुख० ८, १३,

(२) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि The sign  
Taurus of the zodiac सुपा० १०८,  
विचार० १०७, (३) मूषक, चूहा Rat दे०

७, ६१, पढ्०, (४) धर्म Religion (५)  
बल-युक्त. Strong or athletic man

(६) ऋषभ नामक औषध A kind of  
medicine or drug (७) पुरुष विशेष.

Name of a particular man  
सुपा० ३६३, (८) काम, कन्दर्प The god  
of love, cupid (९) शुक-युक्त, वीर्ययुक्त

Lacking in the only power (१०)  
शृंग वाला कोई भी जानवर Any animal  
having horns सुपा० २६७

विसइ त्रि० (विपयिन्) विषय वाला, विषय-  
युक्त Sensual, carnal विशेष० २७६

विसक त्रि० (विशङ्क) शङ्का-रहित, नि शक.  
Doubtless उप० १३६ टी

विसखल त्रि० (विशूद्धखल) स्वच्छन्द, स्वैरी,  
निरकुश, उद्धत Unchecked, unres-  
trained पात्र० स० १८०, से० ५, ६८

विसघट्टिय त्रि० (विसघट्टित) वियुक्त, विघटित.  
Separated कुप्र० ६

विसजुत्त. त्रि० (विसयुक्त) वियुक्त, जो अलग  
हुआ हो Separated सम्म० २२, सूयनि०

१२१ टी

वि . पु० (द्विपन्तप) शत्रु को तपाने वाला,



दुश्मन को हैरान करने वाला. One who harasses an enemy हे० १, १७७  
 विसंथुलिय त्रि० ( विसंथुलित ) व्याकुल बना  
 हुआ Agitated, confounded सण०  
 विसन्धि त्रि० ( विसन्धि ) बन्धन-रहित Des-  
 titute of any bondage. राज०  
 विसवइअ त्रि० ( विसवदित ) ( १ ) सबूत  
 रहित अप्रमाणित Not authorized  
 पाअ० स० २७६, ( २ ) विघटित, वियुक्त  
 Separated से० ११, ३६  
 विसवयण न० ( विसवदत ) विसवाद, सबूत का  
 अभाव Absence of authority उप०  
 पु० २६८  
 विसवाइ त्रि० ( विसवादिन् ) ( १ ) विघटित  
 होने वाला, विच्छिन्न होने वाला Separat-  
 ing कुमा० ६, ८३, ( २ ) अप्रमाणित  
 होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला,  
 असत्य ठहरने वाला Something that  
 can be illustrated or proved with  
 cogent reasons कुम० २६४, सम्मत्त०  
 १२३  
 विसवाइअ त्रि० ( विसवादित ) विसवाद युक्त  
 Inconsistent दे० १, ११४, से० ३, ३०  
 विसवाय पु० ( विसवाद ) ( १ ) सबूत का  
 अभाव, विरुद्ध सबूत, विपरीत प्रमाण  
 Absence of authority सनोध० १७,  
 सुपा० ६०८, ( २ ) न्यावात Blow, stroke  
 गा० ६१६, ( ३ ) विचलता Movement  
 से० ३, ३०.  
 विसवायग त्रि० ( विसवादक ) ( १ ) सबूत-  
 रहित, प्रमाण रहित Devoid of autho-  
 rity ( २ ) ठगने वाला, चक्क. Cheater  
 सुपा० ६०८  
 विससरिय त्रि० ( विसंसृत ) उड़ गया हुआ.  
 Flown स० २३७  
 विसकल त्रि० ( विशकल ) टुकड़ा = किया

हुआ, खण्डित Broken into pieces.  
 राज०  
 विसकलिय त्रि० ( विशकलित ) टुकड़ा २  
 किया हुआ, खण्डित. Broken into  
 pieces आवाम०  
 विसग्ग पु० ( विसर्ग ) अक्षर विशेष विसर्जनीय  
 वर्ण A symbol in writing repre-  
 senting a distinct hard aspiration  
 and marked by two perpendi-  
 cular dots पिंग०  
 विसज्जाणा स्त्री० ( विसर्जना ) विदाई De-  
 parture वव० ४  
 विसड त्रि० ( विशड ) ( १ ) असत्य दमो,  
 अतिशय मायावी. Hypocritical पउम०  
 १०२, १२, ( २ ) एक श्रेष्ठि-पुत्र Name of  
 a son of a noble man सुपा० २६०  
 विसण न० ( वेशन ) प्रवेश Entrance  
 राज०  
 विसण त्रि० ( विसज् ) सज्ञा-रहित, चैतन्य-  
 वर्जित Destitute of consciousness  
 से० ६, ६८  
 विसइ पु० ( विशब्द ) ( १ ) विशिष्ट शब्द.  
 A distinguished word ( २ ) त्रि०  
 विशिष्ट शब्द वाला A special phraseo-  
 logy गउड०  
 विसन्ना स्त्री० ( विसज्ञा ) विद्या-विशेष  
 Magical skill पउम० ७, १३६  
 विसप्प पु० ( विसर्प ) एक नरक-स्थान An  
 abode of a hell. देवेन्द्र० २७  
 विसप्पि. त्रि० ( विसर्पिन् ) फैलने वाला.  
 Spreadable सुपा० ४४७  
 विसप्पिर त्रि० ( विसर्पितृ ) फैलने वाला  
 Spreadable सण०  
 विसम त्रि० ( विषम ) सकड़ा, कम चौड़ा.  
 Narrow हे० १, २४१, पद्०  
 विसमक्खर, त्रि० ( विषमाक्षर ) अपसिद्धान्त,

वाला, असत्य निर्णय वाला. False confidence, or a man with faulty determinations से० ४, २४  
 विसमलोअण पु० ( विपमलोचन ) महादेव, शिव. An epithet of Siva वेणी० ११७.  
 विसमबाण पु० ( विपमबाण ) कामदेव An epithet of cupid सण०  
 विसमसर पु० ( विपमशर ) कामदेव, An epithet of god of love स० १, सुपा० १६३, सण०  
 विसमिअ त्रि० ( विपमित ) (१) चीच नीच में विच्छेदित Made ough से० ६, ८७, (२) विपम बना हुआ Made difficult or in accessible गड०  
 विसमिअ त्रि० ( विस्मृत ) भूला हुआ अस्मृत Forgotten से० ६, ८७.  
 विसमिअ त्रि० ( विश्रमित ) विश्रान्त किया हुआ, विश्राम-प्रापित Rested, reposed से० ६ ८७  
 विसमिर त्रि० ( विश्रमितु ) विश्राम करने वाला, One who takes rest गा० १२, प्राक० ३०  
 विसर पु० ( विसर ) समूह, यूथ, सघात Collection, multitude सुपा० ३, सुर० १, १८५, १०, १४  
 विसरण न० ( विधरण ) विनाश Destruction, ruin. राज०  
 विसरिअ त्रि० ( विस्मृत ) याद नहीं आया हुआ Forgotten पि० ३१३  
 विसलेस पु० ( विरलेप ) शुद्ध, वियोग, पृथग्भाव. Separation चड०  
 विसल त्रि० ( विश्रान्त ) शक्य रहित Free from trouble or anxiety पत्र० ६३, ११, वेइय० ३८७  
 विसल्ला की० ( विश्रान्त्या ) (१) एक महौषधि A kind of medicine. ती० ५, (२)

लक्ष्मण की एक स्त्री Name of a wife of Lakshmana पत्र० ६३, २६  
 विससिय त्रि० ( विश्रान्त ) बध किया हुआ, जो मार डाला गया हो Slaughtered beheaded गड० स० ४७५, सम्मत्त० १४०  
 विसह त्रि० ( विपह ) सहन करने वाला, सहिष्णु Able to bear or endure कप्प०  
 विसहण न० ( विपहण ) (१) सहनकरना Enduring, bearing धर्मस० ८६७, (२) त्रि० सहिष्णु Able to endure प्रव० ७३ टी  
 विराहिअ त्रि० ( विपोड ) सहन किया हुआ Endured से० ६, ३३  
 विसाइ त्रि० ( विपादिन् ) विश्राद-युक्त, शोक-ग्रस्त, Afflicted by grief सर्वोष० ३६  
 विसाण न० ( विपाय ) (१) सूअर का दात. A horn of a boar उवा० (२) पु० च० देश-विशेष Name of a country पत्र० ६८, ६९  
 विसाय त्रि० ( विस्वाद ) स्वाद-रहित. Tasteless 'आमयकारि विसाय' विवे० १३६.  
 विसार त्रि० ( विसार ) सार-रहित, निस्सार Insignificant गड०  
 विसारणिय त्रि० ( विस्मारणिक ) स्मारणा-रहित जिसको याद न दिलाया गया हो One who is not intimated or reminded of काल०  
 विसारि त्रि० ( विसारिन् ) फैलनेवाला, व्यापक Spreading, diffusing गड०  
 विसाल न० ( विशाल ) एक विद्याधर नगर Name of a Vidyadhar city इक०  
 विसाला की०, विशाला (१) जंबू वृक्ष विशेष, जिससे यह जंबूद्वीप कहलाता है A Jambu tree (२) राजधानी विशेष Name of a particular capital इक०  
 विसासण त्रि० ( विश्रान्त ) विघातक, विनाशक.

Destroyer 'कुलमय विशालिपि' सम्म० १  
विशालिपि त्रि० ( विशालित ) (१) मारित,  
हिंसित, जिसका वध किया गया हो. Killed  
(२) विशेष रूप से धरित Specially rub-  
bed (३) विच्छेदित, वियुक्त किया हुआ  
Separated (४) मार भगाया हुआ  
Vanquished से० ८, ६३

विशाह पु० ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय  
Name of Kartikeya पात्र०

विशाहा स्त्री० ( विशाखा ) (१) व्यक्ति वाचक  
नाम, एक स्त्री का नाम Name of a wo-  
man वजा० १२२, (२) एक विद्याधर कन्या  
Name of a Vidyadhari gul महा०

विशाहिलिपि त्रि० ( विशाहित ) (१) सिद्ध किया  
गया Accomplished (२) न० ससिद्धि  
Completion, perfect accomplish-  
ment हे० ४, ३८६, ४११.

विसिद्धि न० ( विशिष्ट ) लगातार छ दिनों का  
उपवास Six fasts at a time सबोध०  
५८

विसिद्धि स्त्री० ( विसृष्टि ) विपरीत क्रम  
Reverse order सिरि० ८७८.

विसिद्ध त्रि० ( विशिख ) शिखा-रहित Crest-  
less गडड० ५३६

विशी. स्त्री० ( विशति ) बीस, बीस का समूह  
Twenty, score हास्य० १३६

विसीदय त्रि० ( विशीर्य ) (१) जीर्ण, नुदित  
Shattered (२) न० टूटना, जर्जरित होना  
Shattering सुर० १०, १६६

विमुक्त त्रि० ( विच्छोतस् ) (१) प्रतिकूल  
Unfavourable (२) खराब, दुष्ट  
Wicked. भवि०

विमुमरिपि त्रि० ( विसृंत ) जिसका विस्मरण  
हुआ हो Forgotten, स० २६२, सुख० ०,  
२६, सर० १४, १७

विसराविय त्रि० ( खेदित ) खिन किया हुआ

Afflicted, pained गडड० १११  
विमुच न० ( विपुवत् ) रात और दिन की समा-  
नता वाला काल The time of the  
equinox दे० ७, २०

विस्तरणा स्त्री० ( खंदना ) खेद, अफसोस, दुःख  
Sorrow, grief से० १, ३

विस्तरिपि त्रि० ( खिन्न ) खेद-युक्त, दिलगीर  
Sorrowful, grieved, distressed-  
से० १०, ७६

विसेस. पु० न० ( विशेष ) (१) पर्याय, धर्म,  
गुण A peculiar attribute, the  
eternal distinguishing nature  
of the Diagas ( in logic ) विशेष०  
२६७, (२) तिलक, A mark on the  
forehead (३) साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध अल-  
कार विशेष ( In Rhet ) A figure of  
speech हे० १, २६०

विसेस पु० ( विश्लेष ) पृथक्करण Analysis  
वव० १

विसेसत्रो स्त्री० ( विशेषतस् ) खास करके.  
Especially, particularly महा०  
विसेसण न० ( विशेषण ) दूसरे से भिन्नता  
बताने वाला गुण आदि A distinguish-  
ing feature or mark उप० ४४४;  
भास० ८६, पच० १, १२, विशेष० ११२.

विसेसय पु० न० ( विशेषक ) तिलक, चन्दन  
आदि का मस्तक स्थित चिह्न A mark on  
the forehead with sandal, saf-  
fron etc पात्र० से० १०, ७४, वेणी०  
४६, गा० ६३८, कुप्र० २२२

विसोह त्रि० ( विगोम ) शोभा-रहित Ugly.  
दे० १, १०

विस्त अ० ( वियव ) (१) सर्व, सकल, मन All,  
whole विशेष० १६०३, सुर० १२, २६,  
(२) पु० न० जगत्, दुनिया Universe,  
World. सुपा० १३६, मम्मत्, १६०, रमा०

विस्सइ पु० (विश्वजित्) यज्ञ विशंप. Name of a particular sacrifice प्रा० ६६  
 विस्समण न० (विश्रमण) विश्वास. Trust, confidence माल० १६६  
 विस्समर. पु० ( विश्रमर ) (१) इन्द्र An epithet of India (२) विष्णु, नारायण. An epithet of Vishnu नाट-चैत० ३८  
 विस्समरा स्त्री० ( विश्रमरा ) पृथिवी, धरती Earth कुप्र० २१३  
 विस्सकम्म ( विश्रकर्मन् ) शिल्पी-विशेष देव-वर्षक Name of an architect of gods स० ६००, कुप्र० ६  
 विस्सगधि त्रि० ( विश्रगन्धिन् ) आमगधि, अपक मास के समान गंध वाला Having smell like that of raw meat अभि० १८४  
 विस्सपुर न० ( विश्रपुर ) नगर-विशेष Name of a city सुपा० ६३५  
 विस्सम पु० ( विश्रम ) विश्राम, विश्रान्ति Rest, repose स्वप्न० १०६  
 विस्सरण न० ( विश्ररण ) विस्मृति, याद न आना Forgetfulness, oblivion पभा० २४, कुल० १४  
 विस्सरिय त्रि० ( विश्रित ) भुलाया हुआ Forgotten उप० ४० ११३  
 विस्ससिअ त्रि० ( विश्रस्त ) विश्रवास-युक्त, भरोसा पात्र, Trusted, relied on आ० १४, सुपा० १८३  
 विस्साणिय त्रि० ( विश्राणित ) दिया हुआ, अर्पित Given away, bestowed उप० १३८ टी  
 विस्सामणा स्त्री० ( विश्रामणा ) चप्पी, अग-मर्दन आदि भक्ति, पैयावृत्य Shampooing, kneading नी० ८  
 विस्सारण न० ( विसारण ) विस्तारण, फैलाना Spreading प्रव० ३८

विस्सावसु पु० ( विश्रवावसु ) एक गन्धर्व, देव-विशेष Name of a Gandharva. पदम० ७२, २६.  
 विस्साहल पु० ( विश्रवाहल ) अग-विद्या का जानकार चतुर्थ रुद्र पुरुष The fourth Rudra knowing the Science of foretelling good or evil by the movements of limbs विचार० ४७३  
 विस्सेसर पु० ( विश्रेश्वर ) काशी में स्थित महादेव की एक मूर्ति An epithet of Siva. न्यम्त० ७५  
 विह पु० स्त्री० ( विघ ) भेद, प्रकार Kind, variety कप्प०  
 विहजिअ त्रि० ( विभक्त ) बाटा हुआ Divided, separated भवि०  
 विहडण न० ( विश्रएडन ) ( १ ) विच्छेद, विनाश Destruction, ruin सम्मत्त० ३०, ( २ ) त्रि० विच्छेद कर्ता, विनाशक Destroyer सण०  
 विहडण त्रि० ( विश्रएडन ) भाडने वाला, गालि-सूचक One who uses abusive language गा० ११२  
 विहटिअ त्रि० ( विश्रण्डित ) विनाशित Destroyed पिग० सण०  
 विहट्टिअ त्रि० ( विश्रट्टित ) खण्डित, द्विधाभूत. Broken से० २, ३२  
 विहडण न० ( विघटन ) ( १ ) अलग होना, वियोग Separation सुपा० ११६, २४३, ( २ ) अलग करना To separate ( ३ ) खोलना Opening वज्जा० ८८  
 विहडणा स्त्री० ( विघटना ) वियोजन, अलग करना To separate धर्मवि० ४२  
 विहडा स्त्री० ( विघटा ) विभेद, अनैक्य, फाटफूट. General disunion, anarchy सुपा० ४२१  
 विहडावण न० ( विघटन ) वियोजन To

Destroyer 'कुसमय विशासण' सम्म० १.  
 विशासिञ्च. त्रि० ( विशासित ) (१) मारित,  
 हिंसित, जिसका उध किया गया हो. Killed  
 (२) विशेष रूप से घर्षित Specially rub-  
 bed (३) विश्लेषित, वियुक्त किया हुआ  
 Separated (४) मार भगाया हुआ  
 Vanquished से० ८, ६३  
 विशाह पु० ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय.  
 Name of Kartikeya पाञ्च०  
 विशाहा स्त्री० ( विशाखा ) (१) व्यक्ति वाचक  
 नाम, एक स्त्री का नाम Name of a wo-  
 man वजा० १२२, (२) एक विद्याधर कन्या  
 Name of a Vidyadhari girl महा०  
 विशाहिञ्च त्रि० (विनाशित) (१) सिद्ध किया  
 गया Accomplished (२) न० ससिद्धि  
 Completion, perfect accomplish-  
 ment हे० ४, ३८६, ४११.  
 विशिट्ट न० (विशिष्ट) लगातार छु दिनों का  
 उपवास Six fasts at a time सबोध०  
 २८  
 विशिट्टि स्त्री० ( विसृष्टि ) विपरीत क्रम  
 Reverse order सिरि० ८७८  
 विशिह त्रि० ( विशिख ) शिखा-रहित Crest-  
 less गउड० २३६  
 विशी. स्त्री० ( विशति ) बीस, बीस का समूह  
 Twenty, score हास्य० १२३  
 विशीइय त्रि० ( विशीर्ण ) (१) जीर्ण, त्रुटित  
 Shattered (२) न० टूटना, जर्जरित होना  
 Shattering सुर० १२, १६६  
 विशुत्त त्रि० ( विलोतत् ) (१) प्रतिकूल  
 Unfavourable (२) खराब, दुष्ट  
 Wicked भवि०  
 विशुमरिञ्च त्रि० (विस्मृत) जिसका विस्मरण  
 हुआ हो Forgotten. स० २६२, सुख० २,  
 २६, सर० १४, १७  
 विशरावि त्रि० (खेदित) खिन्न किया हुआ

Afflicted, pained गउड० १११  
 विशुच न० (विपुवत्) रात और दिन की समा-  
 नता वाला काल The time of the  
 equinox दे० ७, २०  
 विसूरया स्त्री० (खेदना) खेद, अफसोस, दुःख  
 Sorrow, grief से० २, ३  
 विसूरिञ्च. त्रि० ( खिन्न ) खेद-युक्त, दिवलीर  
 Sorrowful, grieved, distressed.  
 से० १०, ७६.  
 विसेस. पु० न० (विशेष) (१) पर्याय, धर्म,  
 गुण A peculiar attribute, the  
 eternal distinguishing nature  
 of the Diagas ( in logic ) विशे०  
 २६७, (२) तिलक, A mark on the  
 forehead (३) साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध अल-  
 कार विशेष ( In Rhet ) A figure of  
 speech हे० १, २६०  
 विसेस पु० ( विरलेष ) पृथक्करण Analysis  
 वव० १  
 विसेसञ्चो स्त्री० ( विशेषतस् ) खास करके.  
 Especially, particularly महा०  
 विसेसण न० ( विशेषण ) दूसरे से भिन्नता  
 बताने वाला गुण आदि A distinguish-  
 ing feature or mark उप० ४४४;  
 भास० ८६, पच० १, १२, विशे० ११२.  
 विसेसय पु० न० ( विशेषक ) तिलक, चन्दन  
 आदि का मस्तक स्थित चिह्न A mark on  
 the forehead with sandal, saf-  
 fion etc पाञ्च० से० १०, ७४, वेपी०  
 ४६, गा० ६३८, कुप्र० २२२  
 विसोह त्रि० ( विशोभ ) शोभा-रहित Ugly  
 दे० १, १०  
 विस्स. अ० ( विरव ) (१) सर्व, सकल, सब All,  
 whole विशे० १६०३, सुर० १२, २६,  
 (२) पु० न० जगत्, दुनिया Universe,  
 World. सुपा० १३६, सम्मच, १६०, रभा०

विस्सइ पु० (विश्वजित्) यज्ञ विशेष. Name of a particular sacrifice प्राकृ० ६५  
 विस्सभण न० (विश्वभण) विश्वास. Trust, confidence माल० १६६  
 विस्सभर. पु० ( विश्वभर ) (१) इन्द्र An epithet of India (२) विष्णु, नारायण. An epithet of Vishnu नाट-चैत० ३८  
 विस्समरा स्त्री० (विश्वमरा) पृथिवी, धरती Earth कुप्र० २१३  
 विस्सकम्म (विश्वकर्मन्) शिल्पी-विशेष देव-वर्षिक Name of an architect of gods स० ६००, कुप्र० ६  
 विस्सगधि त्रि० (विश्वगन्धिन्) आमगधि, अण्ड माल के समान गंध वाला Having smell like that of raw meat अभि० १८४  
 विस्सपुर न० ( विश्वपुर ) नगर-विशेष Name of a city सुपा० ६३५  
 विस्सम. पु० ( विश्वम ) विश्राम, विश्रान्ति Rest, repose स्वप्न० १०६  
 विस्सरण न० (विस्मरण) विस्मृति, याद न भ्राना Forgetfulness, oblivion पभा० २४, कुल० १४  
 विस्सरिय त्रि० (विस्मृत) भुलाया हुआ Forgotten उप० पृ० ११३  
 विस्ससिअ त्रि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, भरोसा मात्र. Trusted, relied on आ० १४, सुपा० १८३  
 विस्साणिय त्रि० ( विश्राणित ) दिया हुआ, अर्पित Given away, bestowed उप० १३८ टी  
 विस्सामणा स्त्री० (विश्रामणा) चप्पी, अण्ड-मर्दन आदि भक्ति, धैयावृत्य Shampooing, kneading नी० ८  
 विस्सारण न० (विस्मरण) विस्तरण, फैलाना Spreading प्रब० ३८

विस्सावसु पु० ( विश्वावसु ) एक गन्धर्व, देव-विशेष Name of a Gandharva. पउम० ७२, २६.  
 विस्साहल पु० ( विश्वाहल ) अण्ड-विद्या का जानकार चतुर्थ रुद्र पुरुष The fourth Rudra knowing the Science of foretelling good or evil by the movements of limbs विचार० ४७३  
 विस्सेसर पु० ( विश्वेश्वर ) काशी में स्थित महादेव की एक मूर्ति An epithet of Siva. नम्मत्त० ७५  
 विह पु० स्त्री० (विध) भेद, प्रकार Kind, variety कप्प०  
 विहजिअ त्रि० ( विभक्त ) बाटा हुआ Divided, separated भवि०  
 विहडण न० ( विखण्डन ) ( १ ) विच्छेद, विनाश Destruction, ruin सगमत्त० ३०, ( २ ) त्रि० विच्छेद कर्ता, विनाशक Destroyer सण०  
 विहडण त्रि० ( विभण्डन ) भाडने वाला, गालि-सूचक One who uses abusive language गा० ११२  
 विहटिअ त्रि० (विखण्डित) विनाशित Destroyed पिंग० सण०  
 विहट्टिअ त्रि० (विघट्टित) खण्डित, द्विधाभूत. Broken से० २, ३२  
 विहडण न० ( विघटन ) (१) अलग होना, वियोग Separation सुपा० ११६, २४३, (२) अलग करना To separate ( ३ ) खोलना Opening वज्जा० ८८  
 विहडणा स्त्री० ( विघटना ) वियोजन, अलग करना To separate धर्मवि० ४२  
 विहडा स्त्री० (विघटा) विभेद, अनैक्य, फाटफूट. General disunion, anarchy सुपा० ४२१  
 विहडावण न० ( विघटन ) वियोजन To

separate भवि०  
 विहडाविय त्रि० (विघटित) वियोजित Separated सार्ध० ७१  
 विहडिय त्रि० (विघटित) खुला हुआ. Opened महा० ३०, ३०  
 विहदथ त्रि० (विहस्त) (१) व्याकुल, व्यग्र Confused, bewildered से० १२, ४६, कुप्र० ४०६, सिरि० ३८६, ८३६, सम्मत्त० १६१, (२) कुशल, दक्ष Competent, expert skilful कुप्र० १०३, २०६, (३) विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ Free from certain impurities सिरि० ६६१, (४) क्लीब Impotent. सम्मत्त० १०६१  
 विहम्म न० (वैधर्म्य) (१) विधर्मता, विरुद्ध-धर्मता Difference in characteristic (२) तर्कशास्त्र पसिद्ध उदाहरण-भेद, वैधर्म्य दृष्टान्त (In logic) A variety of illustration. सम्म० १५३  
 विहल त्रि० (विह्वल) व्याकुल, व्यग्र Confused, perturbed हे० २, ५८, प्राकृ० २४, पउम० ८, २००, से० ५, ५८, गा० २८५, प्रासू० ५, हास्य० १४०, वज्रा० २४, षड्० गउड०  
 विहल त्रि० (विफल) असत्य, झूठ, Untrue, wrong पाञ्च०  
 विहलखल-विहलघल. त्रि० (विह्वलाङ्ग) व्याकुल शरीर वाला Having a weak constitution. काप्र० १६६, स० २५५, सुख० १८, ३५, सुर० ६, १७३, सुपा० ४४७, सुर० १५, २०४  
 विहलित्र त्रि० (विह्वलित) व्याकुल किया हुआ Confounded, distracted कुमा० ३, ४३, प्राप० महा०  
 विहवण न० (विधवन) विनाश. Destruction, ruin राज०

विहवि त्रि० (विमविन्) सपत्ति-शाली, धनाढ्य. Wealthy, rich कुमा० सुपा० ४२२, गउड०  
 विहसावित्र. त्रि० (विहासित) (१) हसाया हुआ Caused to laugh (२) विकसित किया हुआ Expanded. प्राकृ० ६१  
 विहसिर. त्रि० (विहसितृ) खिलने वाला, विकसित होने वाला Blowing, expanding कुमा०  
 विहाइ त्रि० (विधायिन्) कर्ता, करने वाला Makei चेइय० ४०३, उप० ७६८ टी, धर्मवि० १३६  
 विहाउ त्रि० (विधातृ) कर्ता, निर्माता Makei, creator विशे० १५६७, पचा० ६, ३६  
 विहाड. त्रि० (विघाट) विकट Frightful, horrible. राज०  
 विहाड (विहाट) प्रकाश कर्ता. Disclosing, betraying सम्म० २  
 विहाडिअ त्रि० (विघटित) (१) वियोजित, अलग किया हुआ Separated धर्मस० ७४२, (२) विनाशित. Destroyed उप० ५६७ टी  
 विहाडिर त्रि० (विघटयितृ) अलग करने वाला, वियोजक Separater सण०  
 विहाण न० (विधान) (१) शास्त्रोक्त रीति. Sacred rule or precept उप० ७६८, प्रव० ३५, (२) विशेष Special भग० १, १ टी, (३) रीति Mode, manner महा० (४) क्रम, परिपाटी Order बृह० १  
 विहाण. न० (विहान) परित्याग Abandonment, leaving राज०  
 विहाय पु० (विघात) विरोधी, दुस्मन, परिपन्थी Enemy. से० ८, ५४, स० ४१२.  
 विहाय त्रि० (विभात) (१) प्रकाशित. Illuminated, enlightened कुप्र० २६८,

(२) न० प्रभात, प्रात काल Day-break, dawn से० १२, १६

विहावण. न० (विधापन) निर्माणन, करवाना

To get something do चेइय० ६६

विहावरी स्त्री० ( विभावरी ) रात्रि, निशा.

Night. पात्र० उप०७६८ टी, सुपा० ३६३.

विहावसु पु० ( विभावसु ) अग्नि, आग  
Fire पात्र०

विहावित्र त्रि० ( विभावित ) दृष्ट, निरीक्षित  
Observed, seen 'दिष्टं विहावित्र', पात्र०  
गा० २०७

विहावित्र त्रि० (विभावित) उल्लसित, प्रस्फुरित  
Happy, delighted स० ६७

विहास पु० (विहास) हसी, उपहास Ridi-  
cule, derision भवि०

विधि पु० (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता The  
creator, Brahma पात्र० अचु० ३७,  
धर्मस० ६२६, कुमा०, (२) नियोग, आदेश,  
आज्ञा Order, command (३) आज्ञा-  
सूचक वाक्य A sacred precept or  
rule (४) व्याकरण का सूत्र-विशेष A  
rule of grammer (५) कर्म Karma  
destiny, fate (६) हाथीके खाने का अन्न  
The food of elephant (७) नीति,  
न्याय Policy हे० १, ३५, (८) कृति, करण  
Doing, Performance. पचा० ११,  
—वयण न० (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद  
Sayings about the rites or cere-  
monies चेइय० ७४४

विहिरण-त्र त्रि० (विभिन्न) (१) जुदा, अलग  
Separate से० ७, ५३, १३, ८६, भवि०  
(२) खण्डित, भाग करके टुकड़ा २ बना हुआ  
Broken-assunder से० ३, ६०

विहीण त्रि० (विहीन) त्यक्त Abandoned,  
quitted कुमा०

विहीर. त्रि० ( प्रतीच ) प्रतीक्षा करने वाला

Waiting कुमा० ७, ३८

विहीरिअ त्रि० (प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा की  
गई हो Waited for, expected, पात्र०

विहु पु० ( विधु ) (१) चन्द्र, चाद. Moon

पात्र०, (२) विष्णु, श्रीकृष्ण Name of

Vishnu (३) ब्रह्मा The creator,

Brahma. (४) शकर, महादेव Name

of Mahadeo (५) वायु, पवन. Wind.

(६) कपूर Camphor हे० ३, १६.

विहुअ. त्रि० ( विधुत ) कम्पित Shaken  
गा० ६६०, गडड०

विहुण्ण न० ( विधूनन ) ( १ ) दूरीकरण  
To remove पडम० १०१, १६, ( २ )  
व्यजन, पखा Fan राज०

विहुर त्रि० ( विधुर ) ( १ ) विकल, व्याकुल,  
विह्वल Confused, bewildered  
स्वप्न० ६३, महा० कुमा० दे० १, १५, गडड०  
सुपा० ६२, ( २ ) क्षीण Diminished,  
emaciated गडड० १०३६, ( ३ ) विलक्षण,  
विलक्षण, विषम Having no charac-  
teristic marks ओच० ५१, ( ४ )  
विरिलष्ट, वियुक्त Separated गडड०  
८३६, ( ५ ) न० व्याकुल भाव, विह्वलता  
Anxiety स० ७१६, ३२, ६४, पासू०  
५८, भवि० सण०

विहुराइअ त्रि० ( विधुरायित ) व्याकुल बना  
हुआ Confused, confounded गडड०  
१११ टी

विहुरिज्जमाण त्रि० ( विधुरायमाण ) व्याकुल  
बनता हुआ Perplexing, confusing.  
सुपा० ४१६

विहुरिय त्रि० ( विधुरित ) व्याकुल बना हुआ  
Perplexed, confused सुर० २, २१६,  
६, ११५, महा०

विहुरीकय त्रि० ( विधुरीकृत ) व्याकुल किया  
हुआ Confused कुमा०



विह्वल त्रि० ( विफुल ) ( १ ) खिला हुआ  
Blown, expanded ( २ ) उत्साही.  
Zealous, energetic भवि०  
विह्वल त्रि० ( विपूत ) ( १ ) कम्पित Shaken  
माल० १७८, ( २ ) वर्जित, रहित Destitute  
of, free from पत्र० २५, ४  
विह्वसा. स्त्री० ( विभूषा ) ( १ ) शोभा Beauty,  
splendour सुपा० ६२१, दे० ६, ८३,  
( २ ) अलंकार आदि से शरीर की सजावट  
Ornamenting पचा० १०, २१  
विह्वसिञ्च त्रि० ( विभूषित ) विभूषा युक्त,  
अलंकृत Adorned, decorated भवि०  
विह्वेदना स्त्री० ( विह्वेदना ) कदर्थना, पीड़ा  
Affliction उव०  
विह्वोडिञ्च त्रि० ( ताडित ) जिस का ताडन  
किया गया हो Beaten कुमा०  
वीञ्चाविय त्रि० ( वीजित ) जिसकी पखे से हवा  
कराई गई हो Fanned स० २४६  
वीङ्कत त्रि० ( व्यतिक्रान्त ) जिसने उल्लघन  
किया हो Transgressed, violated  
भग० १०, ३ टी  
वीडय पु० ( व्रीडक ) लज्जा, शरम Shame  
गउड० ७३१.  
वीमसय त्रि० ( विमर्शक ) विचार कर्ता Dis-  
cussing, thinker, उव०  
वीमसिय त्रि० ( विमर्शित ) विचारित, पर्या-  
लोचित Discussed, Deliberated  
सम्मत्त० २२  
वीर पु० ( वीर ) ( १ ) ब्रह्म-विशेष Name  
of a metre पिंग० ( २ ) वैताढ्य पर्वत की  
उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर A  
vidyadhar city situated in the  
north of the mount Vaitadhya  
इक०  
वीरगाय पु० ( वीरह्रद ) एक राजकुमार  
Name of a prince उप० १०३१ टी.

वीरमई स्त्री० ( वीरमती ) एक चोर-भगिनी A  
sister of a thief महा०  
वीरिञ्च पु० न० ( वीर्य ) ( १ ) एक देव विमान  
Name of a celestial aerial  
car देवेन्द्र० १३१, ( २ ) शरीर-स्थित एक  
धातु, शुक्र Semen, viule. ( ३ ) तेज,  
दीप्ति Splendour, lustre हे० २,  
१०७, प्राप्र०  
वीरुहा स्त्री० ( वीरुधा ) विस्तृत लता A  
spreading creeper कुप्र० ६५, १३६  
वीवाहण न० ( विवाहन ) विवाह-करण,  
विवाह-क्रिया The marriage cere-  
mony of the स्व० ६८६ टी, सि० १२१.  
वीवाहिय, त्रि० ( वैवाहिक ) विवाह-सम्बन्धी.  
Matrimonial, nuptial धर्मवि०  
१४७  
वीवाहिय त्रि० ( विवाहित ) जिस की शादी की  
गई हो One who is married महा०  
वीसउरी स्त्री० ( विश्वपुरी ) नगरी-विशेष  
Name of a city. उप० २६२  
वीसत त्रि० ( विश्रान्त ) विश्राम-प्राप्त, जिसने  
विश्रान्त ली हो. Rested, reposed  
कुप्र० ६२, पउम० ३३, १३, दे० ७, ८६;  
पाअ० सण० उप० ६४८ टी  
वीसदण न० ( विस्वन्दन ) दही की तर शेर  
आदे से बनने वाला एक प्रकार का खाद्य A  
kind of eatable प्रब० ४, पभा० ३३  
वीसद्ध त्रि० ( विश्रव्य ) विश्वास-युक्त Confid-  
ed in, entrusted, confidential  
गा० ३७६, अमि० ११६, भवि०  
वीसधिर त्रि० ( विश्रमित् ) विश्राम करने वाला,  
Resting, reposing सण०  
वीससञ्च त्रि० ( विश्वसृज् ) जगत्कर्ता The  
creator पङ्०  
वीससिय त्रि० ( वैससिक ) स्वाभाविक.  
Natural आबम०

वीसा स्त्री० (विश्वा) पृथिवी, धरती Earth  
नाद०

वीसाण पु० ( विष्वाण ) आहार, भोजन  
Food, eating हे० १, ४३

वीसाम पु० ( विश्राम ) (१) विराम, उपरम  
Rest (२) प्रवृत्त व्यापार का अवसान, चालू  
क्रिया का अन्त Cessation, stoppage  
हे० १, ४३, से० २, ३१, महा०

वीसारित्र. त्रि० (विस्मारित) भुलवाया हुआ  
Caused to forget. कुमा०

वीसालित्र. त्रि० ( मिश्रित ) मिलाया हुआ  
Mixed कुमा०

वीसिया. स्त्री० (विशिका) बीस सख्या वाला  
Twenty वव० १

वीसुमण न० (विश्रम्भण) विश्वास. Trust,  
confidence ठा० ५, २ टी

वुअ वुअ त्रि० (वृत्) (१) प्रार्थित Pra-  
yed (२) प्रार्थना यादि से नियुक्त Ap-  
pointed on a request (३) वेष्टित  
सन्धि० ४, Surrounded, encompass-  
sed सुपा० ६३

वुताकी. स्त्री० ( वृन्ताकी ) बैंगन का पेट  
The plant of brinjals दे० ७, ६३

वुकत त्रि० (व्युत्क्रान्त) व्यतीत, गुजरा हुआ  
Passed, elapsed पाअ० (२) निष्क्रान्त,  
बाहर निकला हुआ Gone out, come  
forth निसी० चू० १६

वुकृति स्त्री० (व्युत्क्रान्ति) उत्पात्ति Product  
राज०

वुग्गह पु० (व्युद्ग्रह) धाद, डाका A sud-  
den attack उप० पृ० २४५

वुच्छिन्न न० (व्युच्छिन्न व्यवच्छिन्न) लगातार  
चौदह दिनों का उपवास Fourteen  
fast at a time संबोध० ५८

वुज्झत त्रि० (वहमान) पानी के वेग से खींचा  
जाता हुआ, वह जाना Flowing in

water पत्रम० १०२, २४, वै० ८२

वुद्धिय त्रि० (व्युत्थित) जो उठ कर खडा हुआ  
हो Roused up भवि०

वुद्ध त्रि० (वृद्ध) (१) बडा महान् Great  
कुमा०, (२) अनुभवी, कुशल, निपुण Ex-  
pert, skilful (३) पंडित, जानकार.  
Wish, learned हे० १, १३१, २, ४०-६०

वुद्धत्त न० (वृद्धत्) बुढापा, जरावस्था Old  
age सुपा० ३६०, २४२

वुद्धवाइ पु० (वृद्धवादिन्) एक समर्थ जैना-  
चार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के  
गुरु थे Name of a powerful Jaina  
Acharya who was a spiritual  
teacher of the celebrated poet  
named Siddhasena Divakara  
सम्मत्त० १४०

वुद्धवाय पु० (वृद्धवाद) किवदन्ती, कहावत,  
जनश्रुति Proverb स० २०६

वुद्धि स्त्री० (वृद्धि) (१) समृद्धि, संपत्ति.  
Wealth, property (२) व्याकरण-प्रसिद्ध  
एकार आदि वर्णोंकी एक सज्ञा (In gram)  
The increase or lengthening of  
vowels सुपा० १०३, हे० १, १३१, (३)  
समूह Collection, multitude (४)  
कलान्तर, सूद Interest, (५) औषधि  
विशेष A kind of medicine. (६) पु०  
गन्ध द्रव्य विशेष A fragrant substan-  
ce हे० १, १३१ — धम्मय त्रि० (धर्मक)  
बढने वाला, वर्धनशील Increasing

वुद्धिम त्रि० (वृद्धिम्) वृद्धि वाला.  
Having growth or development.  
विधार० ४६७,

वुत्त त्रि० (उत्त) बोया हुआ Sown, plan-  
ted उव०

वुत्त न० (वृत्त) छन्द, कविता, पद्य Metre,  
poem पिंग०

वृत्त पु० (वृत्तान्त) खबर, समाचार, हकीकत  
News, tidings, intelligence  
स्वप्न० १२३, प्राप्न० हे० १, १३१, स० ३२  
वृत्थ त्रि० (उपित) वसा हुआ, रहा हुआ  
Lived, dwelt पात्र० उव० धय० ४३,  
उप० घृ० १२७, सुख० २, १७ से० ११, म०,  
कुप० १८७

वृदास. पु० (वृदास) निराश Exclusion  
विशे० ३४७२

वृपपत लि० (वृप्यमान) घोषा जाता So-  
wing आक० २२, पि० ३३७.

वृप्ति, त्रि० ( वृप्तिन् ) सविग्न, साधु, सयमी,  
मुनि. Saint "वृप्ति सविग्नो भण्डिन्",  
निसी० चू० १६

वृप्तिम. त्रि (वश्य) बश में आने वाला, अधीन  
होने वाला Capable of being sub-  
dued, controlable निसी० चू० १६

वृद्ध त्रि० ( वृद्ध ) (१) उपचित, पुष्ट Thriv-  
ing, Fat. से० ६, २०, (२) नि सृत,  
निकला हुआ Come out चेह्य० ४

वृत्र न० (वेध) कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का  
कारणभूत कर्म A particular Karma,  
causing happiness and unhapp-  
iness क० ग० १, ३

वृत्र पु० (वेग) (१) प्रवाह Flow, stream.  
(२) रेतस्, वीर्य Semen, virile (३) मूत्र  
आदि नि सारण यन्त्र Evacuation of  
the faces (४) सस्कार विशेष A parti-  
cular cultivation प्राकृ० ४१

वृत्रत पु० (वेदान्त) दर्शन-विशेष, उपनिषद् का  
विचार करने वाला दर्शन The principal  
Darshana or system of Hindu  
philosophy अन्वु० १

वृत्रडिअ त्रि० ( खचित ) जडा हुआ, जडाज  
Inlaid, Studded कुमा० पात्र० भवि०  
वृत्रडिअ. पु० ( वैकटिक ) मोती वेधने वाला

शिल्पी, जौहरी Jeweller कप्प०  
वेअड्ड न० (वैदध्य) विदधता, विचक्षणता  
Skill, Dexterity सुपा० ६२६

वेअण न० ( वेपन ) ( १ ) कम्प, कापना.  
Trembling, Tiemor चेह्य० ४३२,  
नाट-उत्तर० ६१, ( २ ) त्रि० कापने वाला  
One that trembles चेह्य० ४३२

वेअरणी स्त्री० ( वैतरणी ) विद्या विशेष A  
kind of magical skill आवम०

वेअल्ल न० ( वैकल्य ) विकलता, व्याकुलता  
Agitation, flurry गड०

वेअस पु० ( वेतस) वृक्ष विशेष, बेंत का पेड़  
A kind of tree, the ratan हे० १,  
२०७, पढ० गा० ६४२

वेआगरण त्रि० (वैआकरण) व्याकरण सम्बन्धी,  
सदेह-निराकरण से सबन्ध रखने वाला  
Grammatical पचभा०

वेआल पु० (वेताल) छन्द-विशेष Name  
of a metre पिग०

वेआलग त्रि० (विदारक) विदारण कर्ता  
Divider स्यनि० ३६

वेआलि पु० (वैतालिप्) बन्दी, स्तुति-पाठक  
Bard, minstrel उप० ७२८ टी

वेइ. स्त्री० (वेदि) परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा  
Altar. कुमा० महा०

वेइअ त्रि० (वैदिक) वेदों का जानकार Wall  
versed in the Vedas दसनि० ४, ३२.

वेइआ स्त्री० ( वेदिका ) अगुलि-मुद्रा, अगुठी  
Ring दे० ७, ७६ टी

वेउव्व त्रि० ( वैक्रिय ) विकृत, विकार-प्राप्त  
Changed विशेष० २२७६ टी —लद्धि

स्त्री० ( लद्धि ) शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर  
व्यक्त करने की सामर्थ्य A particular  
power पडम० ७०, २६

वैकड पु० ( वैकट ) दक्षिण देश में स्थित एक  
पर्वत Name of a mountain in the

deccan अचू० १, —गाह पु० (नाथ)  
विष्णु की वेङ्कटाद्रि पर स्थित मूर्ति An idol  
of Vishnu on the mountain  
अचू० १,

वेंड पु० (वेतण्ड) हाथी, हस्ती Elephant  
प्राकृ० ३०

वेकुठ पु० ( वैकुण्ठ ) (१) विष्णु, नारायण  
Vishnu, Narayana. (२) इन्द्र, देवाधीश  
An epithet of Indra (३) गरुडपक्षी.  
Name of Garuda (४) अर्जक वृक्ष,  
सफेद बर्बरी का पेठ A particular tree  
(५) लोक-विशेष, विष्णु का धाम. The  
heaven of Vishnu हे० १ १६६, (६)  
पु० न० मथुरा का एक वैष्णव तीर्थ A holy  
place of Vaishnavas in Mathura  
ती० ७.

वेगवई स्त्री० ( वेगवती ) एक नदी का नाम  
Name of a river ती० १५

वेजयती स्त्री० ( वैजयन्ती ) (१) एक विद्याधर  
नगरी A Vidyadhara city सुर० ५,  
२०४, ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा A  
particular Council of Rama-  
chandra. पत्रम० ८०, ३

वेज्ज त्रि० ( वेद्य ) भोगने योग्य, अनुभव करने  
योग्य To be experienced सबोध० ३३.

वेज्ज पु० ( वैद्य ) (१) वृक्ष-विशेष Name  
of a tree ( २ ) त्रि० पण्डित, विद्वान्  
Learned हे० १, १४८, २, २४

वेज्ज त्रि० ( वेद्य ) चींचने योग्य Worthy  
to be pierced नाट-साहित्य० १५८

वेट्टणगा. पु० ( वेट्टनक ) (१) सिर पर बाधी  
जाने वाली-एक तरह की पगडी A kind of  
turban (२) कान का एक आभूषण An  
ornament of ear राज०

वेड्डय पु० (वेट्टक) छन्द-विशेष Name of  
a metre अजि० ६

वेड्डण न० (वेट्टन) लपेटना Encircling,  
surrounding से० १, ६०, ६, ४३, १२,  
६५, गा० २६३, धमस० ४६७

वेण्डय न० (वैनयिक) मिथ्यात्व विशेष, सभी  
देवों और धर्मों को सत्य मानना A kind  
of wrong belief. सबोध० ५२

वेण्णि छ० (वेण्णि) (१) वाद्य विशेष A kind  
of musical instrument. सण०, (२)  
गंगा और यमुना का संगम-स्थान The  
confluence of the Ganges and  
the Yamuna राज०

वेण्णिवच्छुराय पु० (वेण्णिवत्सराज) एक राजा  
Name of a king कुप्र० ४४०

वेण्णा स्त्री० (वेन्ना) नदी-विशेष Name of  
a river —यड न० (तट) नगर-विशेष.  
Name of a city पत्रम० ४८, ६३, महा.

वेत्तव्व. त्रि० (वेत्तव्य) जाननेयोग्य Worthy  
to be known प्राप०

वेत्तिअ पु० (वैत्रिक) द्वारपाल, चपरासी A  
door-keeper सुपा० ७३.

वेव्वल. त्रि० (विह्वल) व्याकुल Confused,  
bewildered प्राप०

वेमइअ त्रि० (भग्न) भागा हुआ, (तोड़ा हुआ).  
Broken कुमा० ६, ६८

वेमणस्स न० ( वैमन्स्य ) मनसुटाव, भीतरी  
द्वेष Distraction of mind उव०

वेमाउअ-वेमाउग त्रि० ( वैमातृक ) विमाता  
की सतान, सौतेला A child of a step-  
mother सम्पत्त० १७१, मोह० ८८

वेमाण्णि पु० स्त्री० (विमानिन्) विमान वाली  
देवता, एक उत्तम देव जाति Gods resi-  
ding in celestial aerial cars द० २.

वेमाया स्त्री० ( विमाना ) अनियत-परिमाणा.  
Uncertain measure भग० १, १० टी.

वेयड पु० ( वेतण्ड ) हस्ती, हाथी Ele-  
phant. स० ६३०, ७३५

वेर. न० (द्वार) दरवाजा Door पङ्०  
 वेलविभ्र त्रि० (वञ्चित) (१) प्रतारित, ठगा  
 हुआ Cheated, deceived पाञ्च० वजा०  
 १५२, विवे० ७७, (२) पीडित, हैरान किया  
 हुआ Afflicted खा० ११  
 वेला स्त्री० (वेला) (१) समुद्र का किनारा  
 The sea-shore से० १, ६२, आवे०, (२)  
 वार, दफा Time. —वासि पु०  
 (वासिन्) समुद्र-तट के समीप रहने वाला  
 वानप्रस्थ A Vanaprastha living  
 near the sea-coast पचा० १२, २६  
 वेलिल्ल त्रि० (वेलावत्) वेला युक्त Sub-  
 siding tendency of the tide कुमा०  
 वेल्लाण. न० (वेल्लन) प्रेरणा Instiga-  
 tion गडड०  
 वेदिल्ल त्रि० (वेखिलत) (१) कपाया हुआ  
 Trembled से० ७, ५१, (२) प्रेरित In-  
 stigated, incited से० ६, ६५  
 वेदिल्लर त्रि० (वेखिलतु) कापनेवाला Tremb-  
 ling गडड०  
 वेवज्झ न० (वैवाह्य) विवाह, शादी  
 Marriage राज०  
 वेवण्ण न० (वैवर्य) फीकापन Change  
 of colour or complexion, pale-  
 ness कुमा०  
 वेवाहिअ त्रि० (वैवाहिक) 'सबन्धी, विवाह-  
 सम्बन्ध वाला A relative, matri-  
 monial, nuptial सुपा० ४६६, कुम०  
 १७७  
 वेविअ पु० (वेपित) एक नरक-स्थान A  
 particular abode of the hell  
 वेवेन्द्र० २७  
 वेस त्रि० (व्येप्य) विशेष रूप से वाञ्छनीय,  
 Desirable वव० ३  
 वेस पु० (वेध) (१) विरोध, वैर Enmity  
 (२) घृणा, अप्रीति Disgust, aversion.

गडड० भवि०  
 वेसइअ त्रि० (वैपयिक) विषय से सबन्ध  
 रखने वाला Relating to an object  
 पि० ६१  
 वेसम पु० (विश्रम्भ) विश्वास Trust,  
 confidence पडम० २८, ५३  
 वेसमण पु० (वैश्रमण) (१) एक विद्याधर  
 नरेश Name of a Vidyadhari king  
 पडम० ७, ६६, (२) एक सेठ का नाम  
 Name of a wealthy man सुपा०  
 १२८, ६२७, (३) एक देव विमान A  
 particular celestial aerial car  
 वेवेन्द्र० १४४  
 वेसम्म न० (वैपम्य) विषमता, असमानता  
 Inequality अज्झ० ५, प्रव० २१६ टी  
 वेसर पु० स्त्री० (वेसर) अश्वनर, खच्चर  
 Mule सुर० ८, १६  
 वेसवाडिय पु० (वेशवाटिक) एक जैन मुनि  
 गण. A group of Jaina saints कप०  
 वेसवार पु० (वेसवार) धनिया आदि मसाला  
 A particular condiment (consis-  
 ting of ground coriander, mus-  
 taid, pepper, ginger etc) कुम० ६८  
 वेसि त्रि० (द्वेषिन्) द्वेष करने वाला Jea-  
 lous पडम० ८, १८७, सुर० ६, ११५.  
 वेसि स्त्री० (वैश्या) वैश्य जाति की स्त्री A  
 Bania woman सुख० ३, ४  
 वेसुम पु० (वेशमन्) गृह, घर House  
 प्राक० २८  
 वेह पु० (वेधस्) विधि, विधाता Crea-  
 tor सुर० ११, ५  
 वेहव न० (वैभव) विभूति, ऐश्वर्य. Magni-  
 ficence, grandeur भवि०  
 वेहविअ त्रि० (वञ्चित) प्रतारित Deceiv-  
 ed दे० ७, ६६ टी  
 वेहायस त्रि० (वैहायस) (१) आकाश-सम्बन्धी,

आकाश में होने वाला Aerial. ( २ ) न०  
मरण-विशेष, फाली लगा कर मरना, A  
kind of death. प्र० १२७, ( ३ ) पु०  
राजा श्रेणिक का एक पुत्र Name of a  
son of Shrenika अयुक्त०

वेहारिय त्रि० ( वैहारिक ) विहार सम्बन्धी,  
विहार प्रवण Relating to roaming  
सुख० २, ४५.

वोद्ध्य त्रि० ( व्यपेत ) वजित, रहित Desti-  
tute of, free from भवि०

वोक्त त्रि० ( व्युत्क्रान्त ) ( १ ) विपरीत क्रम से  
स्थित Established on the reverse  
हे० १, ११६, ( २ ) अतिक्रान्त, Trans-  
gressed सम्म० ८

वोक्ता स्त्री० ( व्याहति ) पुकार Utterance  
उप० ७६८ टी

वोषस्त्रय. पु० ( अश्वस्कन्द ) आक्रमण.  
Attack, assault महा०

वोगड त्रि० ( व्याकृत ) परिस्फुट Plain,  
manifest आयानि० २३२

वोच्छेद्य-द. पु० ( व्यवच्छेद ) ( १ ) अभाव,  
न्यावृत्ति Absence क० ग० ६, २३, ( २ )  
प्रतिबन्ध, रक्तावट, निरोध Prohibition  
पचा० १, १०, ( ३ ) विभाग Division  
गड० ७४०

वोच्छेयण. न० ( व्युच्छेदन ) ( १ ) विनाश  
Destruction, ruin चैद्व्य० २२४,  
पिंड० ६६६, ( २ ) परित्याग Abandan-  
ment ठा० ६ टी

वोज्जिर त्रि० ( असितु ) डरने वाला Timid,  
fearful. कुमा०

वोढ त्रि० ( ऊढ ) वहन किया हुआ Borne,  
carried धात्वा० १२४

वोद्दु. त्रि० ( वोद्दुट ) वहन कर्ता Bearing,  
carrying. महा०

वोद्दुण अ० ( उद्दवा ) वहन कर Having  
been called पि० १८६.

वोत्तुआण अ० ( उक्त्वा ) कह कर Having  
told पड०

वोमविदु पु० ( व्योमविन्दु ) एक राजा का नाम.  
Name of a king पडम० ७, १३

वोमिल पु० ( द्योमिल ) एक जैन मुनि.  
Name of a Jain saint कप्प०

वोमिला स्त्री० ( व्योमिला ) एक जैन मुनि-शाखा  
A branch of Jaina saints कप्प०

वोय पु० ( वोक ) एक देश का नाम Name  
of a county. पडम० ६८, ६४

वोरविअ त्रि० ( व्यपरोपित ) जो मार डाला  
गया हो Killed. 'दिघ विहण्ण वोरविओ'  
वव० १

वोलाविअ त्रि० ( गमित ) अतिक्रामित.  
Transgressed वजा० १४, सुपा० ३४३,  
गा० २१.

वोलाह पु० ( वोलाह ) देश विशेष Name  
of a county स० ८१.

वोद्लाह. त्रि० ( वौलाह ) देश विशेष में उत्पन्न  
Born in a particular county  
स० ८१

वोसग्ग. पु० ( व्युत्सर्ग ) परित्याग Aban-  
doning, Quitting विशेष० २६०२

वोसट्ट त्रि० ( विकसित ) विकास प्राप्त Ex-  
panded, Blown हे० ४, २५८, प्राक० ७७

वोसट्टिअ त्रि० ( विकसित ) विकास प्राप्त  
Blown, Expanded कुमा०

वोसमिअ त्रि० ( व्यवशमित, उपशमित, शान्त  
किया हुआ Calmed, Quieted ठा० ६ टी

वोसिर त्रि० ( व्युत्सृष्ट ) छोड़ने वाला  
Leaving, quitting उप० पू० २६८.

वोहित्त. न० ( वहित्त ) प्रवहण, जहाज, नौका.  
Ship गा० ७४५

## स

स पु० (स) व्यञ्जन वर्ण-विशेष A particular consonent प्राप्० —गण पु० ( गण ) पिंगल प्रसिद्ध एक गण ( In prosody ) A particular foot पिंग० —गार पु० (कार) 'स' अक्षर The word 'स' दसनि० १०, २

स पु० (श्वन्) श्वान, कुत्ता dog हे० १, १२, ३, १६, पङ्० —पाग पु० (पाक) चाण्डाल A man of the lowest cast, Chandala उव० —मुहि पु० खी० (मुखि) कुत्ते की तरह आचरण Doggish behaviour or character. —वच पु० ( पच ) चाण्डाल Out-cast Chandala दे० १, ६४

स थ० (स्वर्) सुरालय, स्वर्ग Heaven विशेष० १८८३

स त्रि० (सत्) श्रेष्ठ, उत्तम Excellent, best उव० कुमा० कुप्र० १४१, —उरिस पु० (पुरुष) श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन A good or virtuous man गउड० —स्थाम न० (स्थामन्) प्रशस्त चल Praise-worthy strength गउड० —धम्मिअ त्रि० (धार्मिक) श्रेष्ठ धार्मिक Venerable, righteous आ० १२ —ज्ञाण न० (ज्ञान) उत्तम ज्ञान, Excellent, knowledge आ० २७, —उभाव पु० (भाव) समव, उत्पत्ति Production उप० ७२६, —उभावदायणा खी० (भावदर्शन) आलोचना, प्रायश्चित के लिए निज दोष का गुनादि के समक्ष प्रकटीकरण, Confessing of faults before the spiritual preceptor for expiation ओष० ७६१, —उभविअ त्रि० (भावित) सद्भाव-युक्त Good-natured or disposed स० २२१, ६६८,

—प्रायात् पु० (आचार) प्रशस्त आचरण Virtuous or moral conduct रयण० १५

स. पु० (स्व) (१) आत्मा, खुद Soul कुमा० सुर० २, २०६, (२) ज्ञाति Relative, kinsman हे० २, ११४, पङ्०

—जण पु० (जन) (१) ज्ञाति, सगा Kinsman, relative (२) आत्मीय लोक, One's own people or kindred स्वप्न० ६७, पङ्० —तत न० (तन्त्र) स्वकीय, सिद्धन्त One's own dogma or settled doctrine निसी० चू० ११, —पाप न० (पात्र) निज का नाम, खुद की सज्ञा, One's own name राज०

सअ न० (सदस्) सभा, Assembly, council पङ्०

सअट्ट पु० (शकट) दैत्य-विशेष Name of a demon प्राप्त० सचि० ७, हे० १, १६६, —अरि पु० (अरि) नरसिंह, श्रीकृष्ण Name of Shree Krishna कुमा०

सअएह त्रि० (सतृष्ण) उत्कण्ठित, उत्सुक Eager, anxiously desirous से० १२, ६८, गा० ३४८, गउड० सुपा० ३८४

सअा. खी० (सज्) माला Garland, wreaths पङ्०

सइय त्रि० (शयित) सुप्त, सोया हुआ Slept दे० ७, २८, गा० २१४, पउम० १०१, ६०

सइरण न० (सैन्य) सेना, लश्कर Army पङ्०

सइर त्रि० (स्वैर) (१) मन्द, अलस Dull, lazy, idle पाअ०, (२) स्वैरी, स्वच्छन्दी Self-willed, wanton पाअ० प्राप्त० सइरिणी खी० (स्वैरिणी) व्यभिचारिणी स्त्री, कुलटा. A loose charactered or unchaste woman, a wanton

woman. पदम० ५, १०५

सह्य पु० ( सचिव ) (१) प्रधान, मन्त्री, अमात्य Minister, councillor पाश्र्व० (२) सहाय, मदद-कर्ता Helper, friend (३) काला धवूरा A kind of tree प्राक० ११

सहस्र पु० (शचीश) इन्द्र Indra. कुमा० सउत पु० (शकुन्त) पक्षि-विशेष, भास-पक्षी A kind of bird, the blue jay स० ४३६

सउतला स्त्री० (शकुन्तला) विश्वामित्र ऋषि की पुत्री और राजा दुष्यन्त की गन्धर्व विवाहिता पत्नी Name of the daughter of Visvamitra and the wife of king Dushyanta, according to the Gandharva form of marriage हे० ४, २६०.

सउत्ती स्त्री० (सपत्नी) एक पति की दूसरी स्त्री, सौत, सौतिन. A fellow or co-wife सुपा० ६८

सउम. पु (समन) (१) गृह, घर House, dwelling (२) जल, पानी Water प्राक० २८

सउमार त्रि० (सुकुमार) कोमल Delicate, tender से० १०, ३४, षड्०

सउर पु० (सौर) (१) गृह-विशेष, शनैश्वर The planet Saturn (२) यम, जमराज Yama, the god of death (३) बृह-विशेष, उदम्बर का पेड़. A plant called Tumburu. (४) त्रि० सूर्य का उपासक A devotee to the sun (५) सूर्य-सम्बन्धी Relating to the sun, solar. चड० हे० १, १६२

सउरि पु० (शौरि) विष्णु, श्रीकृष्ण. Name of Vishnu, Shree Krishna पाय०

सउल पु० (शकुल) मत्स्य, मछली fish.

‘सउला सहरा मीणा’ पाश्र्व०

सउह पु० (सौध) (१) राज-महल, राज-प्रासाद Palace कुमा० (२) न० रूपा, चादी Silver, (३) पु० पापाण-विशेष. A kind of stone, (४) सुधा सबधी, अमृत का. Relating to or having nectar चड० हे० १, १६२

स० अ० (शम्) सुख Happiness स० ६११, सुर० १६, ४२, सुपा० ४१६.

स अ० (सम्) (१) प्रकर्ष, अतिशय Very much, greatly धर्मस ०८६७, (२) सगति Together with, with (३) सुन्दरता, शोभनता. Beauty, (४) समुच्चय Collection, (५) योग्यता, व्याजवीपन Propriety, fitness पड्०

सकत त्रि० (सक्रान्त) (१) प्रतिबिम्बित. Reflected, imagined गा० १, से० १, ५७, (२) प्राप्त Obtained (३) सक्रान्ति युक्त Passed through or into, entered into. (४) सक्रमण कर्ता. One who passes from one point to another (५) पिता आदिसे दाय रूप से प्राप्त स्त्री का धन Dowry, a nuptial present given to the bride प्राप्त० सकति स्त्री० (सक्रान्ति) सूर्य आदि का एक राशि से दूसरी राशि में जाना. The passage of the sun or any planetary body from one zodiacal sign into another धर्मवि० ६६

सकदण. पु० (सक्रन्दन) इन्द्र, देवाधीश Name of India इप० ३३० टी, उपप० १.

सकट्ट त्रि० (सकष्ट) व्याप्त Pervaded, spread राज०

सकडिय त्रि० (सकटित) सकीर्ण किया हुआ Contracted, narrowed कुम० ३६०.



सकमय त्रि० (सक्रामक) सक्रमण-कर्ता One who goes from one point to another. धर्मस० १३३०

सकर. पु० (शङ्कर) (१) शिव, महादेव Name of Shiva or Mahadev पञ्चम० ५, १२२, कुमा० सम्मत्त० ७६, (२) त्रि० सुख करने वाला Conferring happiness or prosperity पञ्चम० ५, १२२, दे० १, १७७

संकर पु० (सङ्कर) न्याय शास्त्र-प्रसिद्ध एक दोष (In Nyaya) A fault of a definition उवर० १७६

सकरण न० (सङ्करण) अच्छी कृति, A good work or composition सबोध० ६,

सकरी स्त्री० (शङ्करी) (१) विद्या-विशेष. A particular magical skill पञ्चम० ७, ४४२, महा० (२) देवी-विशेष Name of goddess Parvati (३) सुख करने वाली A female conferring happiness गडड०

सकल पु० २ न० (शृङ्खल) साकली, आभूषण विशेष Chain, a kind of ornament सिरि० ८११

सकलित्रा. स्त्री० (सङ्कलिका) सूत्रकृतांग सूत्र का पन्द्रहवाँ अध्यायन. The fifteenth Chapter in Sutrakritanga scripture राज०

सकामय. न० (सक्रमण) (१) प्रवेश करना Causing to enter कुप० १४०, (२) एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना Conveying from one place to another पञ्चम० ७, २०.

सकालुत्र त्रि० (शङ्कावत्) शका वाला, शका युक्त Doubted, suspected, doubting, suspecting, गडड०

सकास पु० (सङ्काश) एक श्रावक का नाम. Name of a Shravaka. उप० ४०३  
सकासिया स्त्री० (सकाशिका) एक जैन मुनि शाखा Name of a branch of Jaina saints. कल्प०

सकित्तण न० (सकीर्तन) उच्चारण Pronunciation, utterance स्वप्न २७  
सकिर त्रि० (शङ्किर) शङ्का करने की श्रावक वाला, शका शील. Doubting, suspecting गा० २०६, ३३३, ५८२, सुर० १२, १२५, सुपा० ४६८

सकीलित्र त्रि० (सकीलित) कील लगा कर जोड़ा हुआ. Nailed, fixed by a nail से १४, २८

सकुक पु० (शङ्कुक) वेताड्य पर्वत की उत्तर श्रेणी का एक विद्याधर निकाय A group of Vidyadhars on the north of the mount Vaitadhya, राज०

सकुकरण न० (शङ्कुकर्य) एक विद्याधर नगर Name of a Vidyadhar city इक०

सकुका स्त्री० (शङ्कुका) विद्या-विशेष A kind of magical skill, राज०

संकुद्ध त्रि० (सङ्कुद्ध) क्रोध-युक्त Angry, wrathful वजा० १०

सकेप्र त्रि० (सकेत) (१) चिह्न युक्त Having a sign (२) न० प्रत्याख्यान-विशेष A particular vow श्राव०

सकेइश्र त्रि० (सकेतित) सकेत युक्त Having a gesture or hint श्रा० १४, धर्मवि० १३४, सम्मत्त० २१८

सकोइय. त्रि० (सकोचित) संकुचित किया हुआ, सकेला हुआ Contracted, abridged. वप० ७२८ टी

सकोडणा स्त्री० (सकोटना) सकोइन, सकोच Contraction, abridgement राज०  
सख पु० (शङ्ख) (१) नववें यलदेव का

पूर्वजन्मीय नाम. Name of the ninth  
Baladeo in the previous birth.  
पडम० २०, १६१, (२) एक राजपुत्र Name  
of a prince सुपा० २६६, (३) रावण का  
एक सुभट A warrior of Ravana.  
पडम० २६, ३४, (४) छन्द-विशेष Name  
of a metie पिंग० (५) इस नाम का एक  
द्वीप और समुद्र Name of an island  
and a sea, (६) शखवर द्वीप का एक अधि-  
ष्टायक देव Name of a presiding  
god of Shankhavana island दीव०  
(७) नली नाम का एक गन्ध द्रव्य A kind  
of perfume, (८) कान के समीप की एक  
हड्डी A bone near the ears, (९)  
एक नग-जाति A kind of snake, (१०)  
हाथी के दात का मध्य भाग The part  
between the tusks of an elephant,  
(११) सख्या-विशेष, दश निखर्व की सरया A  
hundred billions हे० १, ३०  
सखडम त्रि० (सरयेय) जिसकी सख्या होसके  
Which can be numbered चिरो०  
६७०, अणुजो० ६१ टी  
सरागारी स्त्री० (शङ्कनारी) छन्द-विशेष  
Name of a metie पिंग०  
सखधमग पु० (शङ्कध्यायक) वानप्रस्थ की  
एक जाति A kind of Vanaprastha  
(the third stage of life) राज०  
सखधर पु० (शङ्कधर) श्रीकृष्ण. An  
epithet of Shree Krishna कुमा०  
संखपुर न० (शङ्कपुर) (१) एक विद्याधर नगर  
Name of a Vidyadhar city इक०  
(२) नगर-विशेष जो आजकल गुजरात में सखे-  
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है Name of a  
city called Shankheshvara in  
Gujrat. राज०  
संखपुरी स्त्री० (शङ्कपुरी) कुरु जागल देश की

प्राचीन राजधानी An ancient Capital  
of the Kurujangal country.  
सिरि० ७८  
संखम त्रि० (सचम) समर्थ Able, pow-  
erful. वप० ६८६ टी  
संखय पु० (सचय) क्षय, विनाश Destruction,  
ruin से० ६, ४२  
सखपर पु० (शङ्कपर) (१) एक द्वीप Name  
of an island (२) एक समुद्र Name  
of a sea दीव० इक०  
सखवरोभास पु० (शङ्कवरावभास) एक द्वीप.  
Name of a island दीव०  
सखाचित्र त्रि० (सचपित) विनाशित Des-  
troyed, ruined अचु० ८  
सखाय त्रि० (सरयान) (१) सान्द्र, निबिड  
Close, compact कुमा० ६, ११, (२)  
ध्रावाङ्ग करने वाला Sounding, (३)  
सहत् करने वाला Collecting into a  
mass, (४) न०स्नेह Affection, love  
(५) निविडपन Thickness, grossness,  
(६) सहति, सघात Union, combina-  
tion (७) आलस्य Sloth, idleness  
(८) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि Echo हे० १,  
७४, ४, १५  
संखावई स्त्री० (शङ्कावती) नगरी-विशेष  
Name of a city ती० ५  
संखाविय त्रि० (सख्यापित) जिसकी गिनती  
कराई गई हो What is numbered.  
सुपा० ३६२, स० ४१६  
सखुडुण न० (रमण) क्रीडा, सुरत-क्रीडा.  
Sexual intercourse, coition कुमा०  
सखुभिन्न-सखुहिन्न. त्रि० (सत्तुमित) चोभ-  
प्राप्त Agitated, disturbed प्रव०  
२७२, पडम० ३३, १०६, पि० ३१६  
सखेव पु० (सचेव) (१) पिंड, सघात, सहति,  
Collection, multitude, ओषभा० ३,

(२) स्थान Place क० ग० ६, ३५, (३) सामायिक, समभाव से अवस्थान Right Conduct विशेष० २०६६.

सखेवण. न० ( सघेपण ) अल्प करना, न्यून करना Abridgement abbreviation नव० २८

सखोहिअ त्रि० (सखोभित) लुब्ध किया हुआ, चोभ-युक्त किया हुआ Agitated, disturbed से० १, ४६, अभि० ६०

सग न० ( शृङ्ग ) (१) उत्कर्ष Eminence, prosperity कुमा० (२) पर्वत के ऊपर का भाग, शिखर Peak, summit, (३) प्रधानता, मुख्यता. Supremacy, (४) वाद्य-विशेष. A kind of musical instrument, horn, ( - ) काम का उद्रेक Excess of love, using of desire हे० १, १३०

सग पु० न० (सङ्ग) आसक्ति, विषयादि राग Attachment, fondness गवड० उव०

सगइ स्त्री० (सगति) औचित्य, उचितता Aptness, propriety, fitness सुपा० ११०.

सगच्छण न० (सगमन) स्वीकार, अग्रिकार Acceptance उव० ६३०

सगम पु० (सगम) (१) स्त्री पुरुष का सभोग Sexual union or intercourse हे० १, १७७, (२) एक जैन मुनि का नाम Name of a Jaina saint उव०

संगमय पु० (सगमक) भगवान् महावीर को उपसर्ग पर उपसर्ग करने वाला एक देव Name of a god who tormented upon Lord Mahavira चेह्य० २.

सगमी स्त्री० (सगमी) एक दूती का नाम. Name of a female-go-between महा०

सगय पुं० (सगत) एक जैन मुनि का नाम.

Name of a Jaina saint पुष्प० १८२.

सगयय. न० (सगतक) छन्द-विशेष Name of a metrie अभि० ७

सगर. न० (सङ्गर) युद्ध, रण, लड़ाई War, battle पाञ्च० काम० १६३, कुप० ७३, धर्मवि० ६३, हे० ४, ३४५

सगहण न० (सग्रहण) संग्रह Storing, gathering, collecting, विशेष० २२०३, सर्वोध० ३७, महा०

सगहिअ त्रि० (सग्रहिक) संग्रह नय को मानने वाला Believing in Sangrahanaya विशेष० २८५२

सगहिअ त्रि० (सगृहीत) (१) स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ Accepted सण० (२) पकड़ा हुआ Seized, grasped कुप० ८१

सगामसूर पुं० (संग्रामशूर) एक राजा का नाम. Name of a king. शु० २८

संगामुडामरी स्त्री० (संग्रामोडामरी) विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई में आसानी से विजय मिलती है A kind of magical skill सुपा० १४४

सगाहि त्रि० (संग्रहिन्) संग्रह-कर्ता. One who compiles or collects विशेष० १५३०

सगि त्रि० (सङ्गिन्) सग युक्त United with, attached to सर्वोध ७, कपू०

सगिल्ल त्रि० (सङ्गवत्) बद्ध, सग-युक्त Attached to, united with पाञ्च०

सगीअ न० (सगीत) (१) गाना, गान तान Song कुमा० (२) जिसका गान किया गया हो Sung in chorus सुपा० २०

सगुण. त्रि० (सगुण) गुणित, जिसका गुणा-कार किया गया हो Multiplied सू० प० १०, ६ टी

सगुत्त त्रि० (सगुप्त) (१) छिपाया हुआ, प्रच्छन्न रखा हुआ Hidden, concealed.

उप० ३३६ टी, (२) गुप्ति युक्त, अकुशल प्रवृत्ति से रहित Having the control of mind, speech and body प्रव० १२३

संगोविभ्र त्रि० ( रूगोपित ) सरक्षित Protected. महा०

सघ पु० ( सङ्घ ) (१) समूह, समुदाय Collection, multitude सुपा० १८०, ( ) प्राण्य-सङ्घ A flock or multitude of animals हे० १, १८७

सघश्च त्रि० ( सहत ) निविड, सान्द्र Close, compact से० १०, २६

सघट्ट पु० ( सघट्ट ) दूसरी नरक का छठवा नरकेन्द्रक The sixth abode of the second hell देवेन्द्र० ६

सघट्ट त्रि० ( सघट्टित ) सलग्न Joined, united भवि०

सघट्टणा स्त्री० ( सघट्टना ) सचलन, सचार. Movement पिंड० १८६

सघट्टणा स्त्री० ( सघट्टना ) रचना, निर्माण. Formation. समु० १५८

सघट्टित्र त्रि० ( सघट्टित ) (१) सङ्घ, युक्त Joined together, combined से० ४, २४, (२) गठित, जटित Tightly conjoined प्रासू० २.

सघदास पु० ( सङ्घदास ) एक जैन मुनि और ग्रन्थ-कर्ता Name of a Jaina saint and author. ती० ३, राज०

सघयण्य न० ( सहनन ) कर्म विशेष, अस्थि रचना का कारणभूत कर्म. A particular kind of Karma क० ग० १, २४

सघाहश्च त्रि० ( सघाहित ) (१) सघात रूप से निष्पन्न Produced in combination with से० १३, ६१, (२) इकट्ठा किया हुआ. Collected पडि०

संघाडणा स्त्री० ( सघटना ) (१) संबन्ध

Relation. (२) रचना Formation सूयनि० २०.

सघाय. पु० ( सघात ) (१) समूह, जत्था. Collection, multitude पाश्च० गण्ड० महा० (२) सहनन विशेष, वज्रक्रपम नाराच नामक शरीर बन्ध A particular kind of physical makeup, Vajra Rishabha Naracha Sangbayana. 'सघायण्य सघायण्य'

सघायण्य न० ( सघातन ) विनाश, हिंसा Killing, destruction से० १७०

सघायणा स्त्री० (सघातना) सहति Union, combination — करण न० (करण) प्रदेशों का परम्पर सहत रूप से रखना A union of the different countries. विशेषे ३३०८

सघार पु० (सहार) (१) बहु-जतु-क्षय, प्रलय.

Universal destruction. तदु० ४५;

(२) नाश. Destruction, (३) सङ्घेप

Contraction, abridgment, (४)

विसर्जन Emitting, sending forth,

finish, (५) नरक-विशेष Name of a

hell, (६) भैरव-विशेष One of the

forms of Bhairva हे० १ २६४, पड्

सघारिय त्रि० (सहारित) मारित, व्यापादित.

Killed भवि०

सघिल्ल त्रि० ( सघवत् ) सघ युक्त, समुदित

Assembled, united राज०

सचइ-सचइग त्रि० ( सचयिन् ) सचय

वाला, सग्रही, सग्रह करने वाला Gather-

er, collector. दसनि० १०, १०, प्रव०

७३ टी

संचइय त्रि० ( सचयित ) संचय-युक्त Col-

lected, gathered राज०

सचत्त त्रि० (सत्यक्त) परित्यक्त Abandon-

ed अज्ज० १७८

- संचयमास पु० ( सचयमास ) प्रायश्चित्त सम्बन्धी मास विशेष A particular month of expiation राज०
- सचरण न० (सचरण) (१) चलना, गति To move (२) सम्यग्-गति Proper motion गउड० पि० १०२, कप्प०
- सचरित्र त्रि० (सचरित) चला हुआ, जिसने सचरण किया हो Walked, moved उप० पु० ३१८, रक्मि० १६, भवि०
- सचलण० न० ( सचलन ) रुचार, गति Motion गउड०
- सचलित्र त्रि० ( सचलित ) चला हुआ Walked, moved सुर० ३, १३०, महा०
- सचाइय नि० ( राशक्त ) जो समर्थ हुआ हो Able भग० ३, २ टी
- संचाय पु० ( सत्याग ) परित्याग Abandonment, quitting पचा० १३, ३४
- संचारि० त्रि० ( सचारिन् ) गति करने वाला Moved कप्प०
- संचिंतण न० ( सचिन्तन ) चिन्तन, विचार Consideration, reflection हि० २२
- सचिणिय त्रि० ( सचित ) सगृहीत Computed, collected स० ४७३
- सचिन्न त्रि० (सचीर्ण) आचरित Practised, observed सण०
- सचेयणा स्त्री० ( सचेतना ) अच्छी तरह सुध, भान Sense, consciousness सिरि० ६१७
- सचोइय त्रि० (सचोदित) प्रेरित Directed, prompted ठा० ४, ३ टी
- सछाइय त्रि० ( सछादित ) ढका हुआ Hidden, concealed सुपा० १६२,
- सछोभ पु० ( सछेप ) अच्छी तरह फेंकना, छेपण Throwing together पच० १, १२६, १८०
- सजइ० पु० (सयति) उत्तम साधु, मुनि. The best saint सवोध० ३६,
- सजम० पु० (सयम) शुभ अनुष्ठान A good execution or performance कुमा० ७, २२
- सजमिअ त्रि० ( सयत ) बाधा हुआ, बद्ध Bound, fettered गा० ६४६, सुर० ७, १, कुप० १८७
- सजयत० पु० ( सजयन्त ) एक जैन मुनि Name of a Jaina saint पउम० १, २१
- सजयतपुर न० ( सजयन्तपुर ) नगर विशेष Name of a city इक०
- सजयपता० स्त्री० ( सयतमान्ता ) साधु को उपद्रव करने वाली देवी आदि A deity troublesome to a saint शोध मा० ३७ टी
- राजयभदिगा स्त्री० ( सयतभद्रिका ) साधु के अनुकूल रहने वाली देवी आदि A favourable goddess etc to a saint, a lady living upto the teachings or principles of a saint शोधभा० १७ टी
- सजर पु० ( सज्वर ) ज्वर, बुखार Fever अच्यु० ६७
- सजलिअ पु० ( सज्वलित ) तीसरी नरक भूमि का एक नरक-स्थान An abode of the third hell देवेन्द्र० ६
- सजाणय त्रि० ( सज्ञायक ) विज्ञ, विद्वान्, जानकार Learned, knowing राज०
- सजीवणी स्त्री० ( सजीवनी ) मरते हुए को जीवित करने वाली औषधि. A kind of elixir (said to restore the dead to life) प्रास्० ८३
- सजीवि त्रि० ( सजीविन् ) जिलाने वाला, जीवित करने वाला Creative कप्प०
- सजुअ त्रि० (सयुन)सहित, सयुक्त Joined,

- connected द्र० २२, सिक्खा० ४८, सुर० ३, ११७, महा०
- संजुत्र न० (सयुग) (१) लडाई, युद्ध, सत्राम, War, battle, पात्र० (२) नगर-विशेष, Name of a city राज०
- संजुत. न० (सयुत) छन्द-विशेष. Name of a metre पिंग०
- संजुता स्त्री० (सयुता) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०
- सजोइय त्रि० (सदृष्ट) दृष्ट, निरीक्षित Observed, seen भवि०
- सम्बद्धेयावरण त्रि० (सन्ध्याच्छेदावरण) (१) सन्ध्या-विभाग का आवारक, Obstructions in the way of penance or meditations (२) चन्द्र, चाद Moon अशुजो० १२० टी
- सम्भा स्त्री० (सन्ध्या) (१) दिन और रात्रि का संधि काल Morning or evening twilight (२) नदी Name of a river. (३) ब्रह्मा की एक पत्नी. Name of a wife of Brahma हे० १, ३०, (४) मध्याह्न काल Noon महा०—गय न० (गन) (१) जिस नक्षत्र से सूर्य अनन्तर काल में रहने वाला हो A sign in which the Sun may stay for long (२) सूर्य जिसमें हो उससे चौदहवाँ या पन्द्रहवाँ नक्षत्र 14th or 15th sign from the Sun (३) वह नक्षत्र जिसके उदय होने पर सूर्य उदित हो A planet on whose asendence, the Sun becoming more effective (४) सूर्य के पीछे के या आगे के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र. Signs that follow, or go head of the Sun वच० ? —विगम पु० (विगम) रात्रि, रात Night निसी० चू० १६, —विराग, पु० (विराग) संध्या का समय
- The time of evening जीव० ३, ४
- सम्भावली स्त्री० (सन्ध्यावली) एक विद्याधर कन्या का नाम Name of a Vidyadhar daughter महा०
- सटक पु० (सटङ्क) अन्वय, सम्बन्ध Relation चेद्वय० ३६६
- सट त्रि० (शट) धूर्त, मायावी Rogue. कुमा० दे० ६, १११
- सटवित्र. त्रि० (सस्थापित) (१) आशवासित Encouraged, consoled (२) उद्वेग रहित किया हुआ Cheered महा०
- सटावण न० (सस्थापन) रखना Placing or keeping together प्रव० ३८
- सटावणा स्त्री० (सस्थापना) आशवासन, सान्त्वना Encouragement, consolation से० ११, १२१
- सड पु० (शयड-पण्ड) (१) वृष, बैल, साड Bull, ox आ० १२, सुर० १५, १४०, (२) नपुंसक An impotent man. हे० १, २६०
- सडेय पु० (पायडेय) षड, नपुंसक. An impotent man नाया० १, १ टी
- सढोइय त्रि० (सढोइकित) उपस्थापित. Presented, offered सुपा० ३२३
- सणज्ज न० (सानाज्य) मन्त्र आदि से सस्कारा हुआ ची इत्यादि. Any substance mixed with clarified butter and offered as an oblation to fire. प्राकृ० १६
- सणडिअ त्रि० (सनडित) व्याकुल किया हुआ, विडम्बित Agitated, disturbed वज्जा० ७०,
- सणा स्त्री० (सजा) (१) सूर्य की पत्नी The wife of the sun (२) गायत्री The Gayatri mantra हे० २ ४२, (३) विष्टा, पुरीष, दृष्टी Feces, ordure वप०

१४२ टी. —इअ त्रि० ( कृत ) टही फिरा हुआ, फरागत गया हुआ Discharged from the bowels दस० १, १टी,  
—भूमि स्त्री० (भूमि) पुरीपोस्वर्जन की जगह Latrine. उप० १४२ टी, दस० १, १ टी.  
सखामित्र. त्रि० (सनामित) अवनत किया हुआ Bent, bowed down पचा० १६, ३६  
सखाय त्रि० (सजात) (१) जाति का आदमी Community fellow पच० १०, ३६,  
(२) स्वजन, सगा Kinsman, relative उप० ६५३.  
सखास पु० ( सन्यास ) ससार त्याग, चतुर्थ आश्रम Complete renunciation of the world, the fourth and the last stage of one's life नाट-चैत० ६०  
सखासि त्रि० ( सन्यासिन् ) ससार त्यागी, यति One who completely renounces the world and its attachments नाट-चैत० ८८  
सखाह. पु० ( सनाह ) (१) युद्ध की तैयारी Aiming or preparation for battle, war like preparation से० ११, १३४, (२) कवच, बखतर Armour, mail नाट-वेष्ठी० ६२, —पट्ट पु० ( पट्ट ) शरीर पर बाँधने का बन्ध-विशेष A kind of cloth बृह० ३.  
सखिय त्रि० ( सखित ) जिसको इशारा किया गया हो. One who is pointed out, or signaled सुपा० ८८  
सखियास. पु० ( सखिकाश ) समान, सदृश. Likeness, resemblance पञ्च० २०, १८८  
सखिरोह पु० ( सनिरोध ) रुकावट Obstruction, hindrance. से० २, ६४  
सखिवाय. पु० (सनिपात) सबन्ध Union,

combination पचा० ७, १८  
सखिहाइ त्रि० ( सनिघायिन् ) समीप-स्थायी Nearness, neighbourhood मात० ५२  
सखिहिअ त्रि० (सनिहित) सहायता के लिए समीप-स्थित, निकट-वर्ती To approach for help महा०  
सत पु० ( शान्त ) रस विशेष Peace loving natal सिरि० ८८२  
सतट्ट त्रि० ( सत्रस्त ) डरा हुआ, भयभीत Alarmed, frightened सुर० ६, २०५  
सतत्त त्रि० (सतत) (१) विस्तीर्ण Spread out, expanded (२) निरन्तर, अविच्छिन्न Constant, eternal. सुर० १४, ४६  
सतपिअ त्रि० ( सतप्त ) ( १ ) सताप युक्त Distressed, tormented कुमा० ६, १३, (२) न० सताप Torture, agony, distress स० २०  
सतमस न० (सतमस) (१) अन्धकार, अंधेरा All-pervading or universal darkness पात्र० सुपा० २०५, (२) अन्ध कूप, अंधेरा कुआ A covered well, waterless well सुर० १०, १५८  
सतरण न० (सतरण) तैरना, तैर कर पार करना To swim across शोध० ३८, चैड्य० ७४३, कुप० २२०  
सताय पु० (सतान) अविच्छिन्न धारा, प्रवाह Constant or perpetual flow विशेष० २३६७, २३६८, गडद० सुपा० १६८  
सतार. त्रि० (सतार) ( १ ) तारने वाला, पार उतारने वाला Saviour, that causes to pass or to. पञ्च० ०२, ४३, (२) पु० सतरण, तैरना Swim पिंग०  
सतारित्र त्रि० (सतारित) पार उतारा हुआ Carried to a successful termination पिंग०

संताव पु० (सन्ताप) ताप, गरमी Heat, warmth महा०  
 सतावण न० (संतापन) सताप, सतप्त करना  
 To afflict, torment सुपा० २३२  
 सतावय त्रि० (सतापक) सताप जनक One who afflicts or torments भवि०  
 सतावि त्रि० (सतापिन्) सतप्त होने वाला, जलने वाला Burnable कम्प०  
 सताविय त्रि० (सतापित) सतप्त किया हुआ, Afflicted, tormented. काल०  
 सतास पु० (सत्रास) भय, डर Fear, Terror स० १४४  
 सतासि त्रि० (सत्रासिन्) त्रास जनक Frightening, alarming उप० ७६८ टी  
 सति स्त्री० (शान्ति) (१) विषयों से मन को रोकना Absence of passion, complete in difference to all worldly enjoyments (२) चैन, आराम Calmness, ease, rest (३) स्थिरता Cessation, stop उप० ७२८ टी, सति० १, (४) देवी-विशेष Name of a goddess पचा० १६, २४, —उदञ्च न० (उदक) शान्ति के लिए मस्तक पर ढाले जाने वाला मन्त्रित पानी Soothing or propitiatory water पि० १६२, —गिह न० (गृह) शान्ति कर्म करने का स्थान A room for rest or retirement कम्प०  
 संतिमई स्त्री० (शान्तिमती) एक श्राविका का नाम. Name of a Shrivika सुपा० ६२२  
 सतिसैणिय. पु० (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन जैन मुनि Name of an ancient Jaina saint कम्प०  
 सतुलया स्त्री० (सतुलना) तुलना, तुल्यता, समीपार्थ Similarity, likeness साध० २०

सतो अ० (सान्तर) मध्य, बीच Middle, between, among 'अतो सतो च मध्याथे' पाक० ७६  
 सतोसिन्न. त्रि० (सतोषित) सतुष्ट किया हुआ Satisfied, Contented महा० सण०  
 सथ त्रि० (सस्थ) सस्थित Stable, Abiding विशेष० ११०१  
 सथरण न० (सस्तरण) (१) निर्वाह Carrying on, performing बृह० १, (२) बिछौना करना To spread the bedding राज०  
 सथावण न० (सस्थापन) सान्त्वना, समाश्वासन Appeasing, pacification, consolation पत्रम० ११, २०, ४६, ८, ६६, ४७  
 सथावणा स्त्री० (सस्थापना) सस्थापन, रखना Placing or keeping together. सा० २४  
 सथुइ स्त्री० (सस्तुति) स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा. Eulogy, commendation, prayer. चैह्य० ४६६, सुपा० ६२०  
 सथुल त्रि० (सस्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्दर. Beautiful, charming चारु० १६  
 सद पु० (स्यन्द) (१) झरन, प्रलव Flowing, trickling. से० ७, १६, (२) रथ Chariot. धर्मवि० १४४  
 सद त्रि० (सान्द्र) घन, निविड Close, compact अच्यु० ३७, विक्र० २३.  
 सईस पु० (सन्दश) दक्षिण-हस्त Right hand कुम० २३२  
 सदसण. न० (सदर्शन) दर्शन, देखना, साक्षात्कार To see, to visualise. उप० ३६७ टी  
 सदड्ड त्रि० (सदग्ध) अति जला हुआ. Bunt सुर० ६, २०५, सुपा० १६६.  
 सदृश न० (स्यन्दन) जल, पानी Water. कम्प०



१४२ टी, —इत्रा त्रि० ( कृत ) टट्टी फिरा हुआ, फरागत गया हुआ Discharged from the bowels. दस० १, १टी,  
—भूमि ची० (भूमि) पुरीपोल्सर्जन की जगह Latin. उप० १४२ टी, दस० १, १ टी,  
सणामित्र. त्रि० (सनामित) अवनत क्रिया हुआ Bent, bowed down पचा० १६, ३६  
सणाय त्रि० (सजात) (१) जाति का आदमी Community fellow पच० १०, ३६,  
(२) स्वजन, सगा Kinsman, relative उप० ६२३.  
सणास पु० ( सन्यास ) ससार त्याग, चतुर्थ आश्रम Complete renunciation of the world, the fourth and the last stage of one's life नाट-चेत० ६०  
सणासि नि० ( सन्यासिन् ) ससार त्यागी, यति One who completely renounces the world and its attachments. नाट चेत० ८८  
सणाह पु० ( सनाह ) (१) युद्ध की तैयारी. Aiming or preparation for battle, was like preparation से० ११, १३४, (२) कवच, बखतर Armour, mail नाट-वेणी० ६२, —पट्ट पु० ( पट्ट ) शरीर पर बाँधने का वस्त्र विशेष A kind of cloth वृह० ३.  
सणिय त्रि० ( सञ्चित ) जिसको इशारा किया गया हो, One who is pointed out, or signaled सुपा० ८८  
सणियास. पु० ( सनिकाश ) समान, सदृश. Likeness, resemblance पञ्च० २०, १८८  
सणिरोह पु० ( सनिरोध ) रुकावट Ob-  
struction, hindrance. से० ५, ६४  
सणिवाय पु० ( सनिपात ) सबन्ध Union,

combination पचा० ७, १८  
सणिहाइ. त्रि० ( सनिघायिन् ) समीप-स्थायी Nearness, neighbourhood माल० ५२  
सणिहित त्रि० (सनिहित) सहायता के लिए समीप स्थित, निकट-वर्ती To approach for help महा०  
सत पु० ( शान्त ) रस विशेष Peace loving natal सिरि० ८८२  
सतट्ट त्रि० ( सत्रस्त ) डरा हुआ, भयभीत Alarmed, frightened सुर० ६, २०५  
सतत्त त्रि० (सतत) (१) विस्तीर्ण Spread out, expanded (२) निरन्तर, अविच्छिन्न Constant, eternal. सुर० १४, ४६  
सतपित्र त्रि० ( सतप्त ) ( १ ) सताप-युक्त Distressed, tormented कुमा० ६, १४; (२) न० सताप Torture, agony, distress स० २०  
सतमस न० (सतमस) (१) अन्धकार, अधेरा All-pervading or universal darkness पाञ्च० सुपा० २०५, (२) अन्ध कूप, अधेरा कुआँ A covered well, waterless well सुर० १०, १५८  
सतरण न० ( सतरण ) तैरना, तैर कर पार करना To swim across शोध० ३८, चेइय० ७४३, कुम० २२०  
सताण पु० (सतान) अविच्छिन्न धारा, प्रवाह Constant or perpetual flow विशेष० २३६७, २३६८, गडढ० सुपा० १६८  
सतार. त्रि० (सतार) ( १ ) तारने वाला, पार उतारने वाला Saviour, that causes to pass over पञ्च० ०२, ४४, (२) पु० सतरण, तैरना Swim पिंग०  
सतारित्र त्रि० ( सतारित ) पार बतारा हुआ Carried to a successful termination पिंग०

सताव पु० (सन्ताप) ताप, गरमी Heat, warmth महा०

सतावण न० (सतापन) सताप, सतप्त करना To afflict, torment. सुपा० २३२

सतावय त्रि० (सतापक) सताप जनक One who afflicts or torments भवि०

संतावि त्रि० (सतापिन्) सतप्त होने वाला, जलने वाला Burnable. कप्प०

सताविय त्रि० (सतापित) सतप्त किया हुआ, Afflicted, tormented. काल०

सतास पु० (सत्रास) भय, डर Fear, Terror स० २४४

सतासि त्रि० (सत्रासिन्) त्रास जनक. Frightening, alarming उप० ७६८ टी

सति स्त्री० (शान्ति) (१) विषयों से मन को रोकना Absence of passion, complete in difference to all worldly

enjoyments (२) चैन, आराम Calmness, ease, rest (३) स्थिरता Cessation, stop उप० ७२८ टी, सति०

१, (४) देवी-विशेष Name of a goddess पचा० १६, २४, —उदक न० (उदक)

शान्ति के लिए मस्तक पर डाले जाने वाला मन्त्रित पानी Soothing or propitiatory water पि० १६२, —गिह न०

(गृह) शान्ति कर्म करने का स्थान A room for rest or retirement कप्प०

सतिमई स्त्री० (शान्तिमती) एक श्राविका का नाम Name of a Shrivika सुपा० ६२२

सतिसेशिष्य पु० (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन जैन मुनि Name of an ancient Jaina saint. कप्प०

सतुलणा स्त्री० (सतुलना) तुलना, तुल्यता, समीपार्थ Similarity, likeness साध० २०

सतो अ० (सान्तर) मध्य, बीच Middle, between, among 'अतो सतो च मध्यार्थे' प्राक्० ७६

सतोसिअ. त्रि० (सतोपित) सतुष्ट किया हुआ. Satisfied, Contented महा० सण०

सथ त्रि० (सस्थ) सस्थित. Stable, Abiding विशेषे ११०१

संथरण न० (सस्तरण) (१) निर्वाह Carrying on, performing बृह० १, (२) बिछौना करना To spread the bedding राज०

सथावण. न० (सस्थापन) सान्त्वना, समाश्वासन Appeasing, pacification, consolation पत्रम० ११, २०, ४६, ८, ६२, ४७

सथावणा स्त्री० (सस्थापना) सस्थापन, रखना Placing or keeping together सा० २४

संथुइ स्त्री० (सस्तुति) स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा. Eulogy, commendation, prayer. चेइय० ४६६, सुपा० ६२०

संथुल त्रि० (सस्तुल) स्मथीय, रम्य, सुन्दर. Beautiful, charming चारु० १६

सद पु० (स्यन्द) (१) भरन, प्रसव Flowing, trickling से० ७, २६, (२) रथ Chariot. धर्मवि० १४४

संद त्रि० (सान्द्र) घन, निविड Close, compact अच्यु० ३७, विक्र० २३.

सदंस पु० (सन्दश) दक्षिण-हस्त Right hand कुप्र० २३२

सदंसण. न० (सददर्शन) दर्शन, देखना, साक्षात्कार To see, to visualise उप० ३२७ टी

सदड्ड त्रि० (सदध) अति जला हुआ. Bunt सुर० ६, २०२, सुपा० २६६.

सदग न० (स्यन्दन) जल, पानी Water. कप्प०

सद्वचन पु० (सद्वचन) रचना, ग्रन्थन String-  
ing together, arranging उचर०  
२०३, सख०

सदाखिअ त्रि० (सदानित) बद्ध नियन्त्रित  
Bound, tied, chained पाअ० से०  
१, ६०, १३, ७१, सुपा० ३

सदामिय त्रि० (सदामित) बद्ध, नियन्त्रित  
Fettered, chained स० ३१६, सम्म-  
त्त० १६०

सदिअ न० (सदत्त) उनत्तोस दिनों का  
लगातार उपवास Twenty-nine fasts  
at a time सवोध० ५८

सदिय त्रि० (स्यन्दित) चरित, टपका हुआ.  
Oozed, trickled सुर० २, ७६

सदिर त्रि० (स्यन्दित) झरने वाला Oozing,  
trickling सख०

सदिसण न० (सदेशन) उपदेश, कथन  
Summon, speech सवोध० १५

सदीवग त्रि० (सदीपक) उत्तेजक, उद्दीपक  
Excited, stimulated 'कामगिसदीवग'  
रमा०

सदीवण न० (सदीपन (१) उत्तेजन, उद्दीपन  
Excitement, stimulation सवोध०  
८८, (२) उत्तेजन का कारण, उद्दीपन करने  
वाला Cause of stimulation उत्तम०  
८८.

सदीविय त्रि० (सदीपित) उत्तेजित, उद्दीपित  
Excited, stimulated, भवि०

सदुट्ट त्रि० (सदुष्ट) अतिशय दुष्ट Wicked,  
depraved सवोध० ११

सदुमिअ त्रि० (प्रदीप्त) जला हुआ, सुलगा  
हुआ Bunt पाअ०

सधणरा खी० (सधना) साधना, जोडना  
Join, unit. वव० १

सधा. खी० (सधा) प्रतिज्ञा, नियम Von,  
promise आ० १२, वप० पृ० ३३३,

सम्मत० १७१

सधाण. न० (सधान) (१) सधि, सुलह  
Peace, treaty हम्मीर० १५, (२) मधु,  
सुरा Liquor, wine धर्मस० ५६, (३)  
अचार Pickle प्रव० ४

सधारण न० (सधारण) सान्त्वना, आशवासन  
Consolation, pacification स० ४१६

सधि पु० खी० (सन्धि) (१) मत, अभिप्राय.  
Opinion, view स० २६, (२) सम्यग्

ज्ञान की प्राप्ति Acquisition of the  
true knowledge (३) चरित्र मोहनीय

कर्म का चयोपशम Destruction of the  
action that proves as an obstacle

in the formation of a good  
character (४) अवसर, समय, प्रसंग

Opportunity (५) सुलह Peace,  
treaty कप्प० डुमा० ६, ४०, (६) ग्रन्थ का

प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद. Chapter भवि०

सधिधिग्गहिअ पु० (सान्धिधिग्रहिक) राजा  
का सधि और लडाई के कार्य में नियुक्त मंत्री.

A minister appointed for foreign  
affairs ( of negotiating places  
etc ) डुमा०

सधीरविय त्रि० (सधीरित) जिसको आशवा-  
सन दिया गया हो, आशवासित One who  
is conciliated सुर० ४, १११.

सधुक्कण. न० (सधुक्कण) (१) सुलगना,  
जलन Burning (२) प्रज्वलन, सुलगाना.

Kindling, Inflaming भवि० (३)  
सुलगाने वाला One who kindles.

स० २४१

सधुक्त्रिअ त्रि० (सधुक्त्रिअ) (१) जलाया हुआ,  
सुलगाया हुआ Kindled, inflamed.

सुपा० ५०१, (२) जला हुआ, सुलगा हुआ.  
Bunt, पाअ० महा० स० २७, (३) उत्तेजित.

Excited. स० २४१

सनय त्रि० (सनत) नमा हुआ, अवनत Bent down, stooping वज्रा० १२०  
 सनाण न० (सज्ञान) इशारा करना, सज्ञा करना Sign, to hint उप० २१०  
 सनाय त्रि० (सज्ञात) पहिचाना हुआ Recognized 'सनाया परियण्येण' महा०  
 सनिकिट्ट त्रि० (सनिकृष्ट) आसन्न, समीपस्थित Proximate, adjacent, near सुख० ४, ८  
 सनिगास पु० (सनिकाश) (१) अपवाद Exception पचू० (२) पु० न० समीप, पास Proximity, vicinity पञ्चम० ३६, २८  
 सनिनाय पु० (सनिनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द. Echo कप्प०  
 सनिमहिअ त्रि० (सनिमहित) व्याप्त, पूर्ण, भरा हुआ Filled, full (२) पूजित Worshipped नाया० १, १ टी  
 सनिवाइ त्रि० (सनिपातिन्) सयोगी, सम्बन्धी Connected with कप्प० सम्मत्त० १४४  
 सनिवेश. पु० (सन्निवेश) (१) ग्राम, गाव Village सिरि० ३८, (२) रचना Arrangement उप० पृ० १४२  
 सनिवेशिल्ल त्रि० (सनिवेशिन्) रचने वाला Creation उप० पृ० १४२  
 सनिहाण न० (सनधान) (१) ज्ञानावरणीय आदि कर्म Karma (२) सान्निध्य, निकटता Proximity, vicinity स० ७१८, ७६१  
 सनिहि पु० स्त्री० (सनिधि) समीपता, निकटता. Proximity, vicinity उप० पृ० १८६, स० ६८०, कुप्र० १३०  
 संपइ पु० (सप्रति) एक प्रसिद्ध जैन राजा, सम्राट् अशोक का पौत्र Name of a celebrated Jaina king, grandson of a paramount sovereign called Asoka कुप्र० २, धर्मवि० ३७, पुष्प० २६०

सपइकाल, पु० (सप्रतिकाल) वर्तमान काल Present tense सुपा० ४४६  
 सपइकालीण त्रि० (सप्रतिकालीन) वर्तमान-काल सम्बन्धी Relating to the present tense विशेष० २२२६  
 सपक्कि त्रि० (सपकिन्) सपर्क वाला, सम्बन्धी Connecting कप्पू० काप० १७  
 सपक्खालिय त्रि० (सप्रच्छालित) धोया हुआ. Washed धर्म० ३  
 सपज्जलिअ. पु० (सप्रज्वलित) तीसरी नरक का नववा नरकेन्द्र. The ninth abode of the third hell. देवेन्द्र० ६  
 सपयुण्ण त्रि० (सप्रयुञ्ज) प्रेरित, उत्तेजित Excited, stimulated उपप० ४२  
 सपत्त. पु० न० (सपात्र) सुन्दर पात्र, सुपात्र A fit or competent person सुपा० ४१६  
 सपद् अ० (साप्रतम्) (१) युक्त, उचित. Proper, fit माळ० १२, (२) अधुना, अब Now, at this time अभि० १६  
 सपदत्त त्रि० (सप्रदत्त) दिया हुआ, अर्पित. Given महा० प्राप०  
 सपदाय पु० (सम्प्रदाय) गुरु-परंपरागत उपदेश, आम्नाय Traditional handing down of instruction सबोध० १३; धर्म० स० १२३७  
 सपधारणा स्त्री० (सप्रधारणा) व्यवहार विशेष, धारणा-व्यवहार A special gathering or ceremonial वच० १०  
 संपधारिय. त्रि० (सप्रधारित) निश्चित, निर्णयित. Ascertained, determined सण०  
 संपयट्ट त्रि० (सप्रवृत्त) सम्यक् प्रवृत्त Properly proceeded with. सुर० ४, ७६.  
 संपया स्त्री० (सपद्) (१) प्राप्ति Obtainment, acquisition चेद्व्य० ६३१, प्रव० ६२, (२) एक वयिक् स्त्री का नाम.

- Name of a Veshya woman. उप० २६७ टी.
- सपरिक्रिन्ति पु० (सपरिक्रीति) राक्षस वश का एक राजा, एक लका-पति Name of a king of the demon family पउम० ५, २६०
- सपरिफुड. त्रि० (सपरिस्फुट) सुस्पष्ट अतिव्यक्त Quite distinct पउम० ७८, १६
- सपलित्र पु० (सपलित) एक जैन महर्षि Name of a Jaina Sage, कप्य०
- सपवेश पु० (सपवेश) प्रवेश, पैठ Entrance गउड०
- सपसार. पु० (सप्रसार) एकत्रित होना, समवाय Combination, Union राज०
- सपसिद्ध त्रि० (सप्रसिद्ध) अत्यन्त प्रसिद्ध Well-known धर्मस० ८६७.
- सपहार. पु० (सप्रहार) युद्ध, लड़ाई Battle, war से० ८, ४६.
- सपहारण न० (सप्रधारण) निश्चय Determination पउम० ४८, ६८
- सपाइय त्रि० (सपात्तित) (१) आगत, आया हुआ Come, arrived, (२) मिलित, मिला हुआ Combined, Encountered. भवि०
- सपाइय त्रि० (सपादित) साधित, सिद्ध किया हुआ Accomplished सख०
- सपाडग त्रि० (सपादक) कर्ता, निर्माता Author, maker उप० १४२ टी
- सपाडण न० (सपादन) (१) निष्पादन Producing, causing से० ७४८, (२) करण, निर्माण Formation, creation पचा० ६, ३८.
- सपाडिअ त्रि० (सपादित) (१) सिद्ध किया हुआ, निष्पादित Accomplished से० २१४, सुर० २, १७०, (२) प्राप्त किया हुआ
- Obtained, procured उप० पृ० १२४, (३) दत्त, अर्पित Given से० २३२
- सपाय पु० (सपात) आगमन Approach, arrival पचा० ७, ७२
- सपायग त्रि० (सपादक) सपादन-कर्ता Accomplishing उप० पृ० २६, महा० चेइय० ६०५
- सपायग त्रि० (सप्रापक) (१) प्राप्त करने वाला Obtaining चेइय० ६०५, (२) प्राप्त करने वाला Causing to acquire उप० पृ० २४
- सपायणा स्त्री० (सपादना) (१) निष्पादन Producing, (२) करण, निर्माण. Performing, accomplishing पचा० १३, १७
- सपाविअ त्रि० (सप्राप्त) प्राप्त, लब्ध Attained, acquired, obtained सुर० २, २२६, सुवा० १६५, पखा०
- सपाविअ त्रि० (सपापित) नीत, जो ले जाया गया हो Carried, led away राज०
- सपीड पु० (सपीड) सपीडन, दवाना. Squeezing together, pressing, compression गउड०
- सपीडिअ त्रि० (सपीडित) दवाया हुआ Squeezed, pressed गउड० १४२
- सपीखिअ त्रि० (सप्रीखित) खुश किया हुआ. Pleased, satisfied. सख०
- सपुज्ज त्रि० (सपूज्य) समाननीय, आदरणीय. Venerable, respectable. पउम० ३३, ४७
- सपुण्य न० (सपूर्य) दश दिनों का लगातार उपवास Ten fasts at a time सबोध० ५८
- सपूजिय त्रि० (सपूजित) अभ्यर्चित Worshipped महा०
- सपूरिय त्रि० (सपूरित) पूर्य किया हुआ

Completed महा० सख०  
 सपेक्ष पु० ( सपीड ) दबाव Squeezing,  
 compression पउम० ८, २७२  
 सफास पु० ( सस्पर्श ) स्पर्श Touch उप०  
 ६४८ टी, प्रब० २ टी, हे० १, ४३, पडि०  
 सफुल्ल त्रि० ( सफुल्ल ) विकसित Expanded,  
 bloomed प्राकृ० १४  
 सफुल्लिय त्रि० ( समृष्ट ) प्रमार्जित Well  
 swept, cleansed सुपा० २६३  
 सवल पु० न० ( शम्बल ) ( १ ) पाथेय, रास्ते  
 में खाने का भोजन Provisions for  
 a journey, viaticum सम्मत्त० १५७,  
 पाथ० सुर० १६, २०, दे० ६, १०८, महा०  
 भवि० ( २ ) एक नागकुमार देव A partic-  
 ular Nagkumar god आचम०  
 सवलि पु० स्त्री० ( शात्मलि ) वृक्ष-विशेष,  
 सेमल का पेड़ A kind of tree सुर०  
 २, २३४, ८, २७  
 सवाह पु० ( सवाध ) ( १ ) पीड़ा Pain,  
 affliction ( २ ) सकीर्ण, सकरा Narrow,  
 blocked with पाथ०  
 सवाहणी स्त्री० ( सबाधनी ) विद्या-विशेष,  
 A kind of magical skill पउम०  
 ७, १३७,  
 सवाहा स्त्री० ( सवाधा ) श्रग-मर्दन, चप्पी  
 Shampooing निसी० चू० ३  
 सवुक्क पु० ( शम्बूक ) ( १ ) रावण का एक  
 भागिनेय, खरदूषण का पुत्र Name of a  
 Ravana's sister's son पउम० ४३,  
 १८, ( २ ) एक गाव का नाम Name of  
 a village राज०  
 सवुद्धि स्त्री० ( सवुद्धि ) ज्ञान, बोध Know-  
 ledge, perception. अज्म० ३६  
 सवुञ्ज. पु० ( शम्बूक ) जल-शुक्ति, शुक्ति के  
 आकार का जल-जलु विशेष A bi-valve  
 shell दे० ८, १९, गउड०

सबोह पु० ( सबोध ) ज्ञान, बोध, समझ  
 Knowledge, perception आत्म० २०  
 सबोहिञ्च त्रि० ( सबोधित ) समझाया हुआ.  
 Explained यति० ४८.  
 सभत. पु० न० ( सभ्रान्त ) ( १ ) प्रथम नरक का  
 पाँचवा नरकेन्द्रक The fifth abode of  
 the first hell देवेन्द्र० ४, ( २ ) भय,  
 घबराहट Fear, alarm महा०  
 सभणिञ्च त्रि० ( सभणित ) कथित, उक्त  
 Told, said पिंग०  
 सभम पु० ( सभ्रम ) ( १ ) आदर Respect,  
 reverence पाथ० ( २ ) उत्सुकता  
 Anxious desire  
 सभरणा स्त्री० ( सस्मरणा ) स्मरण, याद  
 Remembrance, recollection उप०  
 २३० टी  
 सभराविञ्च त्रि० ( सस्मारित ) याद कराया  
 हुआ. Caused to remember दे० ८,  
 २५, कुप्र० ४२१  
 सभरिञ्च त्रि० ( सस्मृत ) याद किया हुआ  
 Remembered, recollected गउड०  
 काप्र० ८१२  
 सभव पु० ( सम्भव ) ( १ ) एक जैन मुनि, जो  
 दूसरे वासुदेव के पूर्व जन्म के गुरु थे Name  
 of a Jaina saint who was a  
 religious preceptor of the sec-  
 ond Vasudev in the previous  
 life पउम० २०, १७६, ( २ ) कला-विशेष  
 A particular art.  
 सभवि त्रि० ( सभविन् ) जो सभव हो  
 About to take place or happen,  
 likely to be पच० ५, २५, भास० ३५  
 सभाण्य. न० ( सभाण्यक ) गुजरात का एक  
 प्राचीन नगर. Name of an ancient  
 city of Gujarat राज०  
 सभारिञ्च. त्रि० ( सस्मृत ) याद किया हुआ.

- Remembered, recollected से०  
१४, ६२.
- सभाल. पु० ( सभाल ) खोज, ग्रन्थेषण In-  
vention, research उप० २२० टी
- सभालिय त्रि० ( सभालित ) सभाला हुआ,  
Preserved सख
- सभावया स्त्री० ( सभावना ) सम्भव Possi-  
bility से० ८, १६, गडड०
- सभावि त्रि० ( सभावित्र ) जो सम्भव हो  
Possible, likely to be था० १२
- सभावित्र त्रि० ( सभावित ) जिसकी सभापना  
की गई हो Possible नाट विक्र० ३४
- सभासि नि० ( सभाप ) सभापण Convel-  
sation, 'सभासिस्साणरिहो' काल०
- सभासिय त्रि० ( सभापित ) जिसके साथ  
सभापण—वार्तालाप किया गया हो Con-  
voised, discoursed महा०
- सभिडण्ण. न० ( सभेदन ) आघात Blow  
गडड०
- समु पु० ( शम्भु ) ( १ ) शिव, शकर, An  
epithot of Siva सुपा० २४०, सार्ध०  
१३२, समु० १५०, ( २ ) रावण का एक सुभट  
A warrior of Ravana पत्रम० १६,  
२, ( ३ ) छन्द-विशेष. Name of a metre  
पिग० —घरिणी स्त्री० ( गृहणी ) गौरी,  
पार्वती. An epithet of Parvati  
सुपा० ४४२
- संभुइ स्त्री० ( सभूति ) श्रेष्ठ-विभूति The  
best grandeur सार्ध० १३
- सभुजया स्त्री० ( सभोजना ) एकत्र भोजन-  
व्यवहार To dine together पचू०
- समजणी स्त्री० ( समार्जनी ) झाडू Broom  
दे० ६, ६७
- समड्ड पु० ( समर्द्ध ) ( १ ) युद्ध, लड़ाई War,  
battle हे० २, ३६, ( २ ) परस्पर सघर्ष  
Rubbing together, friction हे०
- २, ३६, कुमा०
- समद्विअ त्रि० ( समर्दित ) सघृष्ट Rubbed  
together हे० २, ३६
- समविय. नि० ( समापित ) नापा हुआ.  
Measured भवि०
- समाण पु० ( समान ) आदर, गौरव Res-  
pect, honour उव० हे० ४, ३१६
- समाणण न० ( समानन ) आदर, गौरव.  
Respect, honour सुपा० २०८
- समिलिअ त्रि० ( समिलित ) मिला हुआ.  
Met, encountered भवि०
- समिस्स त्रि० ( समिअ ) मिला हुआ, युक्त  
Mixed together, intermixed.  
महा०
- समीलिअ त्रि० ( समीलित ) सङ्कुचित  
Contracted से० १२ १
- समुच्छण स्त्री० न० ( समुच्छेन ) स्त्रीपुरुष के  
सयोग के बिना ही यूकादि की तरह होने वाली  
जीवों की उत्पत्ति Creation of धर्मस०  
१०१७.
- समुह त्रि० ( सन्मुख ) सामने आया हुआ.  
Facing, confronting हे० १, २६, ४,  
३६२, ४१४, महा०
- समूढ त्रि० ( समूढ ) जड, विमूढ Foolish.  
पाद्य० सुपा० २४०
- समेअ पु० ( समेय ) राम का एक सुभट  
Name of a warrior of Rama.  
पत्रम० १६, २७
- समोह पु० ( सम्मोह ) ( १ ) मूर्च्छा Swoon,  
Insensibility सिक्खा० ४२, ( २ ) दुःख  
कष्ट Pain से० ३ १३, ( ३ ) सनिपात रोग.  
Delirium, Name of a disease.  
उप० १६०
- समोहण न० ( समोहन ) ( १ ) मोहित करना.  
Fascinating ( २ ) मूर्च्छित करना Ca-  
using to faint. कुप० २२०

संमोहा स्त्री० (समोहा) द्वन्द्व-विशेष Name of a metre पिंग०  
 सरम पु० (सरम्म) (१) आटोप Pride, arrogance कुमा० १, २१, ६, ६२, (२) उद्यम Strenuous or assiduous effort, exertion कुमा० २, ७०, (३) क्रोध, गुस्सा Anger, rage, wiath पात्र०  
 संरोहणी स्त्री० (संरोहणी) घाव को भरने वाली औषधि-विशेष A kind of medicine for healing a wound सुपा० २१७  
 सलगा त्रि० (संलग्न) लगा हुआ, संयुक्त Closely attached, stuck together सुपा० २२६.  
 सलत्त त्रि० (सलपित) सभापित, उक्त, कथित Told, said सुर० ३, ६१, सुपा० ३२६, ३२८, महा०  
 सलव. पु० (सलाप) सभापण, वार्तालाप Conversation, discourse सूयनि० २८  
 संलावित्र त्रि० (सलापित) (१) उक्त, कथित Told, said (२) कहलवाया हुआ Sent a message of word. गा० १११  
 सलिद्ध त्रि० (सश्लिष्ट) संयुक्त Connected, united, joined सन्धो १६  
 सलीण. त्रि० (सलीन) जिसने इन्द्रिय तथा कपाय आदिको काबू में किया हो, सबृत One who has subdued his senses and passions. प्रव० ६  
 संलोक त्रि० (सलोक) (१) दृष्टिपात, दृष्टि-प्रचार Look, glance (२) जगत्, संपूर्ण लोक The whole world (३) प्रकाश Light, lustre राज०  
 सवइयर पु० (सव्यतिकर) न्यतिसम्बन्ध, विपरीत प्रसंग Unfavourable opportunity. उप०

सवग्ग पु० (सवर्ग) (१) गुणान, गुणाकार. Multiplication वव० १, जीवस० १२४; (२) त्रि० गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हो. Multiplied राज०  
 सवच्चरिय. पु० (सावत्सरिक) जोतिषी, ज्योतिष शास्त्र का विद्वान् Astrologer. स० ३४, कुप्र० ३२.  
 सवट्ट पु० (सवर्त) (१) पीडा Pain, agony उप० २६६, (२) अपवर्तन. Removal, transferring from one place to another. (३) घेरा Seige (४) जहा पर बहुत गावों के लोग एकत्रित हो कर रहें वह स्थान, दुर्ग आदि A place where people of various villages live राज०  
 सवट्टइअ. त्रि० (सवर्तकित) तूफान में फसा हुआ Entangled in the floods. उप० पृ० १४३  
 संवट्टिअ त्रि० (सवर्तित) (१) पिंडीभूत, एकत्रित Gathered, collected वव० १, (२) सदत्त-युक्त Ruined, destroyed. हे० २, ३०  
 सवड्ढिअ त्रि० (सवृद्ध) बढ़ा हुआ Full-grown, increased महा०  
 संवड्ढिअ त्रि० (सवर्धित) बढ़ाया हुआ Increased नाट-रत्ना० २२  
 सवत्त. पु० (सवर्त) (१) प्रलय काल. The time of universal destruction से० २, ७१, १०, २२, (२) वायु विशेष A wind of a particular class कुप्र० ६६, (३) मेघ Cloud (४) मेघ का अधिपति विशेष A presiding god of the cloud (५) वृक्ष विशेष A particular tree (६) एक स्मृतिकार मुनि Name of a sage author of Smriti सच्चि० १०



सवत्तय. त्रि० (सवर्तक) (१) अणवर्तन कर्ता  
Reducer. (२) पु० बलदेव Name of  
Baladev (३) बढवानल. Submarine  
fire हे० २, ३०, प्राप्र०  
सवत्तुवत्त. पु० (सवर्तोद्दत्त) उलट पुलट  
Reshuffle स० १७४, २५८  
सवद्धण न० (सवर्धन) (१) वृद्धि, वढाव.  
Progress (२) वृद्धि करने वाला  
Promoter भवि० स० ७२७  
सवय त्रि० (सवृत) आवृत, आवृद्धादित.  
Covered, concealed कुम० ३६  
सवर पु० (सवर) (१) एक जैन मुनि  
Name of a Jaina saint पद्म० २०,  
२०, (२) पशु विशेष A kind of deer  
कुम० १०४, (३) दैत्य विशेष. Name of  
a demon (४) मत्स्य की एक जाति A  
specie of fish हे० १, १७७  
सवरण न० (सवरण) (१) निरोध, अटकाव  
Obstacle पचा० १, ४, (२) गोपन  
Hiding, concealment गा० १६६,  
सुपा० ३०१, (३) सकोचन, समेटन. Con-  
tracting गा० २७०, (४) श्रावक के  
चारह व्रतों का अंगीकार करना Accepting  
twelve vows of Shravakas  
सम्मत० १५२, (५) अन्नगान, आहार परित्याग  
Fasting. वप०पृ० २७६, (६) विवाह, लग्न,  
शादी. Marriage पद्म० ४६, २३, (७)  
त्रि० रोकने वाला Preventer प्रव० १२३  
सवरित्र त्रि० (सवृत) (१) सकोचित  
Contracted, compressed दे० ८, १२,  
(२) आवृद्धादित Covered बृह० २.  
सवलण न० (सवलन) मिलन Meeting,  
assembling together गडड० नाट  
माहाती० ५७.  
सवलित्र त्रि० (सवलित) युक्त, मिलित,  
मिश्रित Mingled, mixed सुर० ३, ७८,

धर्मवि० १३६, वजा० १४  
सवद्विअ त्रि० (समूढ) जो सजित हुआ हो,  
तय्यार बना हुआ, Made or got ready,  
prepared सिरि० २६६, सम्मत्त० १५७  
सवाइ त्रि० (सवादिन्) प्रमाणित करने वाला.  
सवृत देने वाला Prover, establishing  
सुर० १२, १७६  
सवाइय त्रि० (सवादित) (१) खबर दिया  
हुआ, जनाया हुआ Informed स० २६६;  
(२) प्रमाणित Proved, established.  
स० ३१५  
सवाद-य पु० (सवाद) पूर्वज्ञान को सत्य  
साबित करने वाला ज्ञान, सवृत, प्रमाण.  
Proof धर्मस० १४८, स० ३२६, उप०  
७२८ टी  
सवाह पु० (सवाह) लग्न, विवाह.  
Marriage सुपा० २५५  
सवाहण न० (सवाहन) (१) सबाधन, विनाश.  
Destruction. गा० ४६४, (२) पु० एक  
राजा का नाम Name of a king  
सवाहणा. स्त्री० (सवाहना) देखो सवाहण'  
शब्द Vide सवाहण कप्प०  
सवाइय त्रि० (सवाहक) चर्पी करने वाला  
Shampooing चारु० ३६  
सवादिअ त्रि० (सवाहित) (१) जिसका अण  
मर्दन किया गया हो Shampooed. कप्प०  
सुर० ४, २४३, (२) वहन किया हुआ  
Carried भवि०  
सविदत्त त्रि० (समर्जित) पैदा किया हुआ,  
उपार्जित Produced स० ५  
सविणीय त्रि० (सविनीत) बिनय-युक्त.  
Modest, humble. शोध भा० १३४  
सवित्त त्रि० (सवृत्त) (१) सजात, बना  
हुआ Produced सुर० ६, ८६, (२)  
अच्छे आचरण वाला Of good conduct.  
(३) बिलकुल गोल Round सिरि० १०६३.

सविधा. स्त्री० (सविधा) सविधान, रचना, बनावट. Arrangement, disposition. चाद० १  
 सविभक्त. त्रि० (सविभक्त) बाँटा हुआ. Divided. कुप्र० १२३  
 सविभाग पु० (सविभाग) आदर, सत्कार Honour, Respect. स० ३३४  
 सविहाय न० (सविधान)(१) रचना, बनावट. Arrangement, disposition सुपा० १८६, धर्मवि० १२७, माल १२१, १६३, (२) भेद, प्रकार. Kind, variety वै० १०  
 संवीथ्र. त्रि० (सवीत) परिहित, पहना हुआ Clothed, dressed धर्मवि० ३  
 संबुड त्रि० (सवृत) (१) आवृत Covered (२) सगोपित Hidden, Concoaled हे० १, १७७.  
 सवूढ त्रि० (सव्यूढ) तय्यार बना हुआ, सज्जित Made ready, equipped. सुपा० १८२, सुर० ६, १८२  
 सवेथ्र. त्रि० (सवेध) अनुभव-योग्य Fit to be experienced विशेष० ३००७  
 सवेथ्र-ग पु० (सवेग) नय आदि के कारण से होने वाली श्वरा, शीघ्रता Impetuosity on account of fear गडड०  
 सवेथण. न० (सवेदन) ज्ञान Perception, knowledge धर्मस० ४४, कुप्र० १४६  
 संवेत्तिभ्र त्रि० (सवेत्तित) चलित Moved से० ७, २६  
 सवेत्तिभ्र त्रि० (सवेत्तित) लपेटा हुआ. Wrapped up गा० ६४६  
 सवेह पु० (सवेध) संयोग Conjunction, union महा० धर्मवि० ६२.  
 सस त्रि० (सास) अश-युक्त, सावयव Composed of parts धर्मस० ७०६  
 ससइय न० (साशयिक) मिथ्यात्व-विशेष A kind of false-belief पच० ४,२, आ०

६, सवोय० २२, क० ग०४, १२१  
 ससज्जिम त्रि० (ससक्तिमन्) बीच में गिरे हुए जीवों से युक्त Pure, a preparation free from all impurity पिढ० २३८.  
 ससण. न० (शसन) (१) कथन Telling. (२) प्रशंसा Praise. (३) आस्वादन. Tasting. उप० ६४८ टी, ववकु० १६  
 ससत्ति स्त्री० (ससक्ति) ससर्ग Contact, touch सम्मत्त० १२६.  
 ससरण न० (सस्मरण) स्मृति, याद. Remembrance, recollection. शु० ७.  
 संसवण. न० (सश्रवण) श्रवण, सुनना Heal. सुर० १, २४२, रभा०  
 ससा स्त्री० (शसा) प्रशंसा, श्लाघा Praise प्रव० ७३ टी  
 ससारि-ससारिण त्रि० (ससारिन्) नरक आदि योनि में परिभ्रमण करने वाला जीव A soul roaming in the hell etc जी० २, पञ्चम० १०२, १७४  
 ससाहण न० (सकथन) कथन Telling. सुपा० ४१२  
 ससाहिय. त्रि० (ससाधित) सिद्ध किया हुआ Accomplished, effected. सुपा० ३६७  
 संसि त्रि० (शसिन्) कहने वाला Teller, announcer गडड०  
 ससिभ्र. त्रि० (शसित) (१) श्लाघित Praised extolled सुर० १३ ६८, (२) कथित Told, said, spoken उप० पृ० १६१.  
 ससित. त्रि० (ससिक्त) सिंचा हुआ Sprinkled, watered सुर० ४, १४, महा० हे० ४, ३६२  
 ससिद्धिभ्र. त्रि० (सासिद्धिक) स्वभाव-सिद्ध Effected naturally, spontaneous. हे० १, ७०.

ससुद्ध न० (सशुद्ध) लगातार उन्नीस दिन का उपवास. *Nineteen fasts at a time* सवोध० १८.

ससूयग त्रि० (ससूचक) सूचना कर्ता. Indicator, messenger, informer रभा०

ससेविय. त्रि० (ससेवित) आसेवित Practised, performed सुपा० २२०

ससोहा. स्त्री० (सशोभा) शोभा, श्री Splendour, elegance, grace सुपा० ३७.

ससोहि त्रि० (सशोभिन्) शोभने वाला Shining, splendid. सुपा० ४८

सद्वर पुं० (सभार) समुदाय, सघात Multitude, collection पाश्र०

सहिच्च. अ० (सहस्य) साथ में मिलकर, एकत्रित होकर Being together नाया० १, ३ टी

सहिया स्त्री० (सहिता) (१) चिकित्सा आदि शास्त्र A compendium or compilation of laws, code, digest स० १७, (२) अस्वल्लित रूप से सूत्र का उच्चारण The continuous hymnical text of the Veda as formed out of the Padas षेड्य० २७२

सकन्न त्रि० (सकर्ण) विद्वान्, जानकार Learned सुर० ८, १४६, १२, १४

सकय अ० (सकृन्) एक बार Once सुर० १६, ४२

सकामण्डिजरा. स्त्री० (सकामनिर्जरा) कर्म-निर्जरा का एक भेद. A variety of destruction of Karma राज०

सकेय त्रि० (सकेत) (१) गृहस्थ Household. (२) प्रत्याख्यान-विशेष A kind of vow प्रव० ४

सक. न० (शक) बाल Bark, rind दे०

३, ३४

सक पु० (शक) (१) कोई भी इन्द्र, देव-पति. Indra. कुमा० (२) एक विद्याधर राजा. Name of a Vidyadhar king पञ्च० १२, ८२, (३) छन्द-विशेष Name of a metre षिंग०—गुरु. पु० (गुरु) बृहस्पति. Name of the preceptor of the gods. सिरि० ४४

सकदण. पु० (सक्रन्दन) इन्द्र Name of Indra. सुर० १, ६ टि, ४, १६०.

सकय स्त्री० न० (सकृत) संस्कृत भाषा. The Sanskrit language कुमा० दे० १, २८, २, ४

सकरा. स्त्री० (शकरा) रेतो Sand महा०

सकसार न० (शकसार) एक विद्याधर नगर Name of a Vidyadhar city. इक०

सकह त्रि० (सकथ) सत्यवक्ता Truth-speaker सं० ३२.

सकार. पु० (सकार) (१) गुणान्तर का आधान To infuse or impart good thoughts (२) स्मृति का कारण भूत एक गुण The faculty of recollection (३) वेग. Soon (४) शास्त्राभ्यास से उत्पन्न होने वाली व्युत्पत्ति Stability of knowledge acquired by the study of the Shastras (५) गुण विशेष, स्थिति स्थापन The self reproductive quality, one of the 24 qualities or gunas recognised by the Vaiseshikas (६) व्याकरण के अनुसार शब्द सिद्धि का प्रकार Refinement, grammatical purity (७) गर्भाधान आदि के समय की जाने वाली क्रिया. A purificatory rite, a sacred rite or ceremony performed after

menstruation to ensure or facilitate conception ( = ) पाक, पकना Cooking. हे० १, २८, २, ४, प्राक० २१

सकारि त्रि० (सत्कारिन्) सत्कार करने वाला. One who receives hospitably or treats with respect गवड०

सकारिय त्रि० (सस्कारित) सस्कार युक्त किया हुआ. Cultivated, refined धर्मस० ८६३

सक्तिश्च त्रि० ( शक्ति ) जो समर्थ हुआ हो Able, powerful. आ० २८, कुम० ३

सक्तिश्च त्रि० ( स्वकीय ) निज का, आत्मीय. One's own कुलक० ७, ६

सक्तिरिया स्त्री० (सस्क्रिया) सस्कार, सस्कृति. Purificatory rite प्राक० ३३.

सकल्वर त्रि० ( साक्षर ) विद्वान्, ज

Learned. वजा० १५८, सम्मत० १४३

सखिखज्ज न० ( साक्षि ) गवाही, साख. Evidence श्रावक० २६०

सग पु० ( शक ) एक सुप्रसिद्ध राजा, जिसका शक सवत् चलता है Name of a celebrated king विचार० ४६२, ४१३

सगडाल पु० ( शकटाल ) राजा नन्द का सुप्रसिद्ध मंत्री और महर्षि स्थूलभद्र का पिता. Name of a celebrated minister of the king Nanda and the father of Sthulabhadr. कुम० ४४३.

सगार त्रि० ( सागार ) गृहस्थ Householder श्रोवमा० २०.

सगुण त्रि० ( सगुण ) गुणवान्, गुणी Virtuous, meritorious त्व० सुपा० ३४२, सुर० ४, १६६

सगुत्त त्रि० (सगोत्र) समान गोत्र वाला, एक गोत्रीय Being of the same family

or kin, related. कल्प०

सग. त्रि० ( साग्र ) श्रेष्ठ, उत्तम, Good, excellent से० ६, ४७

सगगतक. पु० (स्वर्गतक) कल्प वृक्ष A tree supposed to grant all desires. से० ११, ११.

सामि. पु० (स्वामिन्) इन्द्र An epithet of Indra उप० २६४ टी — वहु स्त्री० ( वच् ) देवागना, स्त्री A celestial damsel, heavenly nymph. उप० ७२८ टी.

सगोकस पु० ( स्वर्गोकस् ) देवता, देव. God, deity धर्मा० ६.

सधिण त्रि० (सधृण) दयालु Kind, merciful. श्रुचु० २०

सन्ध न० ( सत्य ) ( १ ) शपथ, सौगन्ध Oath, promise ( २ ) सत्ययुग The golden age ( ३ ) पु० सिद्धान्त Doctrine ( ४ ) जैनागम, जैन सिद्धान्त Jainascripture ( ५ ) एक वशिष् पुत्र Name of a Bania's son उप० २१६.

सन्धइ. पु० ( सत्यकि ) ( १ ) विषय-लम्पट एक विद्याधर Name of a libidinous Vidyadhara उव० उर० ७, १ टो, ( २ ) श्रीकृष्ण का सम्बन्धी एक व्यक्ति Name of an individual, relative of Shree Krishna रुक्मि० ४६

सन्धइसुय. पु० (सत्यकिसुत) ग्यारह रुद्रों में अन्तिम रुद्र पुरुष Name of the last of the eleven Rudras. विचार० ४७३

सन्धउर न० (सत्यपुर) भारतका एक प्राचीन नगर Name of an ancient city of India ती० ७, सिग्ध० ७

सन्धकार त्रि० (सत्यकार) सत्य साक्षित करने वाला, जेन देन की सच्चाई के सिद्ध दिया गया

बहाना Something given in advance as an earnest money for the performance of a contract, Advance payment धर्मवि० १४, भाष० ६६, रचण० ३४

सच्चवण न० (दर्शन) श्रवणलोकन, निरीक्षण. Observance, inspection. कुमा० सुपा० २२६.

सच्चवण त्रि० (दर्शक) द्रष्टा. One who sees. सवोध० २४

सच्चवण त्रि० (सत्यसन्ध) सत्य प्रतिज्ञा वाला, प्रतिज्ञा निर्वाहक. True to one's promise. उप० पृ० ३३३, सुपा० २८३

सच्चवणिरि स्त्री० (सत्यश्री) पाचवें आरे की अन्तिम श्राविका 'The last Shrivika of the fifth Aia विचार० ५३४

सच्चवा स्त्री० (सत्या) श्रीकृष्ण की एक पत्नी, सत्यभामा Name of Satyabhama, wife of Krishna कुम० २५८

सच्चवाय त्रि० (सच्चवाय) (१) समान छाया वाला, तुल्य Like, similar गडड० कुम० २३, (२) अच्छी कान्ति वाला Beautiful, handsome कुमा० (३) सुन्दर छाया वाला Having handsome shadow हे० १, २४६

सच्चवाह त्रि० (सच्चवाय) (१) जिसकी छाया सुन्दर हो A tree with dense shadow (२) छाया वाला. Shadowy (३) समान छाया वाला, तुल्य, सदृश A tree with uniform shadow हे० १, २४६

सच्चवण पु० (शक्यम्मव) एक प्रसिद्ध जैन महर्षि Name of a celebrated Jaina sage. साध० १२

सच्चवण पु० (सच्चवण) भला आदमी, सत्पुरुष Good-man, noble man उव० हे० १, ११, प्रादु० ७

सज्जिञ्ज. त्रि० (सर्जित) बनाया हुआ Created, made. दे० १, १३८

सज्जक त्रि० (साध्य) (१) तर्कशास्त्र प्रसिद्ध अनुमेय पदार्थ The thing to be proved or established, the matter at issue (in logic) पचा० १४, ३२, (२) पुं० साध्यवाला, पत्र The predicate of a proposition, the major term in a syllogism विशेष० १०७७ (३) देवगण-विशेष. A particular class of celestial beings (४) योग विशेष A special skill (५) मन्त्र विशेष Name of a Mantra हे० २, २६

सज्जक पु० (सह्य) (१) पर्वत विशेष Name of a mountain स० ६७६, (२) सहने योग्य Bearable, endurable हे० २, २६, १२४

सज्जकतेवासि पु० (स्वाध्यायान्तेवासिन्) विद्या-शिष्य Pupil. सुख० २, १५

सज्जकमाणा त्रि० (साध्यमान) जिसकी साधना की जाती हो What is being accomplished रचण० ४०

सज्जकस न० (साधक) भय, डर Fear, alarm, fright हे० २, २६, कुमा०

सज्जकाइय न० (स्वाध्यायिक) स्वाध्याय, शास्त्र पठन आदि Study of the scriptures etc प्र० २६८, नदी० २०७ टी

सज्जकाराय त्रि० (साह्याराज) सहायक के राजा से सम्बन्ध रखने वाला, सहायि के राजा का Relating to the king of Sahyadri पठन० १२, १७

सट्टक-सट्टीय पु० न० (सट्टक) (१) एक तरह का नाटक A kind of minor drama कप्प० रभा० १०, (२) खाद्य-विशेष A kind of eatable रभा० ३३

सट्टिक-सट्टीय त्रि० (पटिक) साठ वर्ष की वय

- वाला. Sixty years old तदु० १७,  
राज०
- सङ्कल. पु० ( सार्धकाल ) तप-विशेष,  
पुरिमद्द तप A kind of religions  
austerity सवोध० १८.
- सङ्कल. की० ( श्रद्धा ) ( १ ) आदर, समान.  
Respect, honour ( २ ) शुद्धि Purity  
( ३ ) चित्त की प्रसन्नता Happiness of  
mind. हे० २, ४१, पद०
- सद. पु० ( शठ ) ( १ ) धत्तूरा The Dhat-  
tura plant ( २ ) मध्यस्थ पुरुष. Medi-  
ator, arbitrator. हे० १, १६६, सच्चि०  
८.
- सदा की० ( सदा ) ( १ ) सिंह आदि की केसरा  
A mane of a lion ( २ ) जटा Locks  
( ३ ) ब्रती का केश-समूह An ascetic's  
matted hair ( ४ ) शिखा Top हे०  
१, १६६.
- सदाल पु० ( सदाल ) सदा वाला सिंह Lion.  
कुमा०
- सदिल त्रि० ( शिथिल ) ढीला Loose,  
relaxed. हे० १, ८६, कुमा०
- सण्. पु० ( स्वन ) शब्द, आवाज़. Sound.  
स० ३७२
- सयाहि. पु० ( सनाभि ) ( १ ) स्वजन, ज्ञाति  
Kinsman पात्र० ( २ ) समान, सदृश  
Similarity रमा०
- सण्ण पु० ( शनि ) ( १ ) ग्रह-विशेष, शनिश्चर  
The planet Saturn पउम० १७,  
८१, ( २ ) शनिवार Saturday सुपा०  
१३२.
- सण्णद. पु० ( स्नेह ) ( १ ) प्रीति, Affection,  
love अभि० २७, कुमा० ( २ ) घृत, तैल  
आदि स्निग्ध रस. An unctuous  
substance ghee, oil etc ( ३ )  
चिकनाई, चिकनाहट Viscidity, lubri-
- city प्राप० हे० २, १०२.
- सरणुज्ज. न० ( सान्नाय्य ) मन्त्र आदि से  
पवित्र किया हुआ घृत आदि. Any substa-  
nce mixed with clarified butter  
and offered as an oblation to  
fire प्राङ्ग० १६
- सरह न० ( श्लष्य ) लोहा. Iron हे० २,  
७२, षड्
- सरह त्रि० ( सूक्ष्म ) ( १ ) छोटा, बारीक.  
Subtle, minute, atomic कुमा०  
( २ ) कैतव, कपट. Proud, cheating  
( ३ ) अध्यात्म The subtle all perva-  
ding spirit, the supreme soul.  
( ४ ) अलकार विशेष Name of a figure  
of speech. हे० २, ७२.
- सतक्रतु पु० ( शतक्रतु ) इन्द्र Name of  
Indra कप०.
- सतर. न० ( सतर ) बधि, दहि Cuid.  
शोध० ४७
- सत्त त्रि० ( शक्त ) समर्थ. Able हे० २, २,  
पद०
- सत्त. त्रि० ( शप्त ) शाप-ग्रस्त, जिस पर  
आक्रोश किया गया हो, Cursed. पउम०  
३२, ६०, प्रव० १०६ टी, प्रति० ८६
- सत्त. पु० न० ( सत्र ) ( १ ) सदाव्रत, जहा  
हमेशा अन्न आदि का दान दिया जाता हो वह  
स्थान A place where food is daily  
distributed to mendicants कुम०  
१७२, ( २ ) यज्ञ Sacrifice अजि० ८,
- सत्त न० ( सत्त्व ) ( १ ) विद्यमानता Exist-  
ence धर्मस० १०२, ( २ ) लगातार सात  
दिनों का उपवास. Seven fasts at a  
time सवोध० १८
- सत्तंग त्रि० ( सप्तग ) ( १ ) मन्त्री, मित्र, कोश,  
भट्टार, देवा, कित्ता, तथा सैन्य इन सात  
राज्याग वाला राजा Having the seven

constituent parts of a king, viz a kings, minister, friend, treasurer, county, fort and force कुमा०

सत्तएह त्रि० (सत्तृष्ण) तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित, उत्सुक Eager, anxiously desirous से० १, ४६

सत्तततु. पु० (सत्तन्तु) यज्ञ Sacrifice पात्र०

सत्तभूम त्रि० (सप्तभूम) सात तला वाला प्रासाद Seven stories high (as a palace) आ० १२.

सत्तम त्रि० (सत्तम) अतिशय साधु, सज्जनों में अति श्रेष्ठ The best among good men सुपा० ६२२, आ० १४, सार्ध०३

सत्तर त्रि० (सप्तदशन्) सत्रह १७ 17 seventeen क० ग० २, ३

सत्तर. त्रि० (सत्वर) (१) त्वरा-युक्त, वेग-वाला Speedy, expeditious. (२) न० शीघ्र, जल्दी Speed, haste सुपा० १२६

सत्तरिसि पु० (सप्तऋषि) सात नक्षत्रों का मङ्गल-विशेष A constellation of seven asterisms. सुपा० ३२४.

सत्तल न० (ससल) पुष्प-विशेष A kind of flower गडढ०

सत्तला-सत्तली स्त्री० (सप्तला) लता-विशेष नवमालिकाकी बेल A kind of creeper पात्र० गा० ६१६, पत्रम० २३, ७६

सत्ति स्त्री० (शक्ति) विद्या-विशेष, A kind of magical skill. पत्रम० ७, १४२

सत्ति. पु० (सत्ति) अरव, घोडा Horse. पात्र०

सत्तिञ्च त्रि० (सात्त्विक) सत्त्व-युक्त, सत्त्व-प्रधान Belonging to or derived from the sattva quality सूनि० ६२, हम्मिर० १६, स० ४.

सत्तुइ त्रि० (शत्रुजित्) (१) शत्रुको जीतनेवाला Conqueror of enemies (२) एक राजा का नाम Name of a king प्राक० ६२

सत्तुज न० (शत्रुज) (१) एक विद्याधर नगर Name of a Vidyadhar city इक० (२) पु० रामचन्द्र जी का एक छोटा भाई, शत्रुघ्न An epithet of a younger brother of Rama, (Shatru-ghana) पत्रम० ३२, ४७

सत्तुजय पु० (शत्रुजय) काठियावाड में पालीताना के पास एक सुप्रसिद्ध पर्वत Name of a celebrated mountain near Palitana in Kathiawar सुर० २, २०३, (२) एक राजा का नाम Name of a king राज०

सत्तुदम. पु० (शत्रुन्दम) एक राजा का नाम Name of a king पत्रम० ३८, ४२.

सत्तुघ त्रि० (शत्रुघ्न) (१) रिपु को मारने वाला Destroyer of enemies प्राक० ६२ (२) पु० रामचन्द्र का एक छोटा भाई An epithet of a younger brother of Rama पत्रम० २२, १४

सत्तुत्तरि स्त्री० (सप्तसप्तति) सत्तर ७७ Seventy seven 77 क० ग० ६, ४८

सत्य त्रि० (शस्त) प्रशस्त, श्लाघनीय Praised, extolled चेद्वय० २७२.

सत्य पु० (सार्ध) (१) प्राणि-समूह Herd, flock (of animals) कुमा० हे० १, ६७, (२) अन्वयं, यथार्थ नामा चेद्वय० २७२

सत्य त्रि० (स्वस्थ) (१) तद्दुरुस्त Healthy (२) सुख से अश्वस्थित Contented, happy पात्र० पत्रम० २६, ३१, स्वप्न० १०६, सुर० १०, १०४, सुपा० २७६, महा०

सत्यगार त्रि० (शास्त्रकार) शास्त्र प्रयोता. The author of Scriptures धर्मस० १००३, सिक्खा० ३१

सत्थरणु त्रि० (शास्त्रज्ञ) शास्त्र का जानकार  
Conversant with the Sastras  
उप० ६८६ टी, उप० पृ० ३२७

सत्थरथ पु० (शास्त्रार्थ) शास्त्र-रहस्य The  
mystery scriptures कुप्र० ६, २०६,  
भवि०

सत्थर-सत्थरय पु० न० (खस्तर) शय्या,  
बिछौना A couch or sofa (for  
rectining), bed. दे० ८, ४ टी, सुपा०  
२८३, पात्र० पद्म० हास्य० १३६, सुर० ४,  
२४४.

सत्थवि त्रि० (शास्त्रविद्) शास्त्र-ज्ञाता  
Conversant with the Sastras  
स० ३१२.

सत्थि अ० स्त्री० (स्वस्ति) (१) आशीर्वाद  
Blessing, benediction 'सत्थि करेइ  
कविलो' पठम० ३५, ६२, (२) छेम, कल्याण,  
मगल Farewell (३) पुण्य आदि का  
स्वीकार Acceptance of good deeds  
etc हे० २, ४५, सदि० २१

सत्थिअ त्रि० (सार्थिक) (१) सार्थ-सम्बन्धी  
मनुष्य आदि. Relating to a caravan  
(of traders) कुप्र० ६२, स० १२६, सुर०  
३, १६६, सुपा० ६२१, धर्मवि० १२४, (२)  
पु० सार्थ का मुखिया. A leader of a  
company of merchants वृह० १  
सत्थिअ न० (सक्थिक) उरु, जाघ Thigh  
स० २६२

सत्थिअ पु० (स्वस्तिक) (१) स्वस्तिक के  
आकार का यासन-बन्ध A posture of  
sitting in the form of Svastika  
(a particular symbol) वृह० ३, (२)  
एक देवविमान A particular celestial  
aerial car. देवेन्द्र० १००

सत्थिय्या स्त्री० (सत्थिका) दुरी Knife  
प्राप०

सत्थिप्रई स्त्री० (स्वस्तिमती) एक विप्र स्त्री,  
कीरकइम्बक उपाध्याय की स्त्री Name of a  
wife of a Brahmin पठम० ११, ६,  
(२) एक नगरी Name of a city उप०  
६०२, (३) सनिवेश-विशेष A particular  
situation स० १०३

सद् पु० न० (शब्द) (१) छन्द विशेष.  
Name of a metre पिंग० (२) नाम,  
आख्या Name महा० (३) प्रतिद्धि  
Fame, celebrity, renown नाया०  
१, १ टी

सद्दलिय त्रि० (शार्दूलित) हरा घास वाला  
(प्रदेश) Grassy गउड०

सद्दहाण न० (श्रद्धान) श्रद्धा, विश्वास.  
Trust, confidence आवक० ६२, प्रव०  
११६, हे० ४, २३८

सद्दाल त्रि० (शब्दवत्) शब्द वाला Wordy.  
हे० २, १५६, पठम० २०, १०, प्राप० सुर० ३,  
६६, पात्र०

सद्दिय त्रि० (शब्दित) (१) आहूत Called  
सुपा० ४१३, महा० (२) वार्तित, जिसको बात  
कही गई हो Addressee कुमा० ३, ३३

सद्दलविक्रीडित्य न० (शार्दूलविक्रीडित)  
उकीस अचरों के पाद वाला एक छन्द Name  
of a metre पिंग०

सद्दलसट्ट पु० न० (शार्दूलसाट्ट) छन्द विशेष.  
Name of a metre पिंग

सद्दपक्व पुं० (श्राद्धपक्ष) आश्विन मास का  
कृष्ण पक्ष The black half of the  
Ashwan month दे० ६, १२७

सद्दरा स्त्री० (रुधरा) इकीस अचरों के  
चरण वाला एक छन्द Name of a metre  
पिंग०

सद्दाल त्रि० (श्रद्धान्वत्) श्रद्धा वाला Be-  
lieving, full of faith चउ० आदक०  
१७५



सद्वालु. त्रि० ( श्रद्वालु ) श्रद्धा वाला Be-  
lieving, full of faith सवोध० ८  
सधमिणी स्त्री० ( सधमिणी ) पत्नी Wife  
दे० २, १०६, सख०  
सधवा स्त्री० ( सधवा ) सौभाग्यवती स्त्री,  
जिसका पति जीवित हो A married  
woman whose husband is alive  
सुपा० ३६२  
सनय त्रि० ( सनय ) न्याय-युक्त, ठीक ठीक  
Just, equitable, proper सुपा० ५०४  
सन्न त्रि० ( सन्न ) हान्त. Fatigued,  
exhausted, wearied पात्र०  
सन्नामित्र त्रि० ( आदत्त ) समानित Hono-  
ured, respected कुमा०.  
सन्नुमित्र त्रि० ( छादित ) ढका हुआ  
Covered, concealed कुमा०  
सपक्ष त्रि० ( सपक्ष ) ( १ ) पख वाला, पाखों  
से युक्त. Winged, having wings  
से० २, १४, ( २ ) सहायता करने वाला, सहा-  
यक, मित्र Helper, friend प्रव० २३६,  
स० ३६७  
सपक्षी स्त्री० ( सपक्षी ) एक महौषधि A  
particular medicine ती० ४  
सपक्षा स्त्री० ( सपर्या ) पूजा Worship  
श्रुत्त० ७०  
सपत्ति त्रि० ( सपत्ति ) बाण से श्रतिव्यथित  
Wounded in such a manner  
that the feathered part of the  
arrow enters the body दे० १, १३२.  
सप्प पु० ( सर्प ) एक नरक स्थान A par-  
ticular abode of the hell. देवेन्द्र०  
२७, ( २ ) झुन्द-विशेष Name of a  
metre पिंग०  
सप्पसिर पु० ( सर्पशिरस् ) हस्त-विशेष, वह  
हाथ जिसकी उगलिया और अगूदा मिला हुआ  
हो और तला नीचा हो A kind of hand

दे० ८, ७२  
सप्पि त्रि० ( सर्पिन् ) जाने वाला, गति करने  
वाला Moving, going कप्प०  
सप्पिवास त्रि० ( सप्पिवास ) व्याधुर, सतृष्ण  
Very thirsty हे० २, ६७  
सप्पिह त्रि० ( सस्पृह ) स्पृहा वाला Desir-  
ous. दे० ७, २६  
सप्प न० ( शप्प ) बाल तृण, नई घास  
Young grass हे० २, ५३, प्राप०  
सप्पद त्रि० ( सस्पन्द ) चलायमान Tremb-  
ling, moving दे० ८, ६  
सफलित्र त्रि० ( सफलित ) सफल किया  
हुआ. Accomplished, fulfilled,  
successful सुपा० ३२६, उव०  
सवरणिवसण, न० ( शबरनिवसन ) तमाल-  
पत्र A kind of tree उत्तनि० ३  
सवरी स्त्री० ( शवरी ) कायोत्सर्ग का एक  
दोष, हाथ से गुप्त प्रदेश को ढक कर कायोत्सर्ग  
करना A defect of Kayotsarga.  
( deep meditation ) चेद्व्य० ४८२.  
सवलिय त्रि० ( शवलित ) फर्दरित, चितकवरा.  
Spotted, variegated गउड०  
सवलीकरण न० ( शवलीकरण ) सदोष करना.  
चात्रि को दूषित बनाना To be corrup-  
ted श्रोच० ७८८  
सवल त्रि० ( सवल ) बलवान्, बलिष्ठ,  
Strong, mighty, powerful. पिंग०.  
सवभ त्रि० ( सभ्य ) ( १ ) सभासद, सदस्य  
Assessor पात्र० सम्मत्त० ११६, ( २ )  
शिष्ट Civilized, educated सुर० ६,  
२१५, स० ६५०  
सवभाविय त्रि० ( साद्भाविक ) पारमार्थिक,  
वास्तविक Natural, real, essential.  
दसनि० १, १३५  
सभर पु० स्त्री० ( शफर ) मत्स्य, मड़ली.  
Fish. कुमा०.

सभराइअ. न० (शफरायित) जिसने मरत्य की तरह आचरण किया हो वह One who has acted as a fish कृमा०  
 सभल त्रि० ( सफल ) सार्थक Fulfilled, successful हे० १, २३६, कुमा०  
 सभा. स्त्री० ( सभा ) गाड़ी के ऊपर की छत. A roof of a vehicle आ० १२  
 सभावज्ञ त्रि० ( स्वभावज्ञ ) स्पमाव का जानकार Knowing natural constitution पउम० ८६, २१.  
 सम पु० (शम) शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का निग्रह. Absence of restraint of passions, mental quietness कुमा०  
 सम त्रि० ( सम ) ( १ ) सर्व, सब All, every one श्रु० १२४, ( २ ) सामायिक Right conduct, abandoning all sinful acts सवोध० ४६, विशेष० १४२१  
 — धम्मिअ त्रि० ( धार्मिक ) समान धर्म वाला Possessed of the same qualities उप० १३० टी  
 समइअ त्रि० (समायत) सकेतित Agreed upon, fixed by convention धर्म० १०५  
 समइच्छिअ त्रि० (समतिक्रान्त) (१) गुजरा हुआ Passed, gone elapsed ( २ ) उल्लंघित Transgressed, violated उप० ७२२ टी, दे० ८, २०, स० ४५  
 समईअ त्रि० ( सनतीत ) (१) गुजरा हुआ Elapsed, passed पउम० १, १५२, (२) पु० भूत काल The past time जीवन० १२१  
 समजस त्रि० ( समजस ) उचित, योग्य Proper, reasonable, right गउड० भवि०  
 समकत त्रि० ( समाक्रान्त ) ( १ ) जिस पर

आक्रमण किया गया हो वह Overcome. से० १, १७, ( २ ) अवरुद्ध, रोका हुआ Prevented, obstructed से० ८, ३३  
 समदख न० (समद) नजर के सामने, प्रत्यक्ष Before, in the presence of, in the sight of गा० ३७०, सुपा० १५०, महा०  
 समगल. त्रि० ( समगल ) अत्यधिक Excessive, much सिरि० ८६७, सुपा० ३६७, ४२०  
 समग्घ त्रि० ( समर्घ ) सस्ता, अल्प मूल्य वाला Cheap सुपा० २४५, ४४७, सम्मत्त० १२१.  
 समच्चिअ त्रि० ( समचित ) पूजित. Worshipped पउम० ११६, ११.  
 समच्छ त्रि० ( समत्त ) प्रत्यक्ष का विषय Being before the eyes, visible सचि० १५  
 समच्छायग त्रि० (समाच्छादक) ढकने वाला Covering, concealing स० ६६  
 समजल न० ( अमजल ) पसीना Perspiration, sweat पाअ०  
 समण न० ( शमन ) उपशमन, दवाना, शान्त करना To appease, to calm down सुपा० ३६६, ( २ ) पयानुष्ठान Taking of wholesome diet उवर० १४०, (३) एक दिन का उपवास Single fast सवोध० १८, (४) त्रि० उपगमन करने वाला, टवाने वाला Subsister उप० ७८२, पचा० ४, २६, सुर० ४, २३१  
 समणसीह पु० ( अमणसिह ) ( १ ) एक जैन मुनि जो दूसरे बलदेव के पूर्वभवीय गुरु थे Name of a Jaina Saint who was preceptor of the second Baladeo in his previous life पउम० २०, १६२

समणुगय त्रि० (समनुगत) (१) अनुसृत  
Followed स० ७२०, (२) अनुविद्ध,  
जुडा हुआ Connected, joined  
पचा० ६, ४६

समणुजाय त्रि० (समनुजात) उत्पन्न, सजात  
Produced. पत्रम० १००, २४, सुपा०  
१७८

समणुनाय, त्रि० (समनुज्ञात) अनुमत, अनु  
मोदित Secended, approved, per-  
mitted. पत्रम० ८, ७

समणुपत्त त्रि० (समनुप्राप्त) सप्राप्त At-  
tained, procured सुर० ११८३, १०,  
१२०, तिरि० ४३०, महा०

समणुभूत्र त्रि० (समनुभूत) जिसका अच्छी  
तरह अनुभव किया गया हो, Well-exper-  
ienced वै० ६२

समणुवत्त त्रि० (समनुवृत्त) सवृत्त, सजात  
Produced. पत्रम० १०, १

समणुसिद्ध त्रि० (समनुशिष्ट) अच्छी तरह  
शिक्षित, Well educated वसु०

समणुहाहार पु० (समनुवाहार) समागमन  
Arrival, approach राज०

समत्त त्रि० (समस्त) (१) समास-युक्त  
Compounded (२) मिलित, मिला हुआ  
Mixed हे० २, ४२, पठ्०

समत्सिय त्रि० (समत्सिन्) प्रार्थी, चाहने वाला  
one who desires, one who  
wishes कुम० ३२१

समत्सियत्र त्रि० (समत्सित) पूर्ण, पूरा किया  
हुआ Completed, finished कुम० ११२,  
सुपा० २६६, (२) पुष्ट किया हुआ Suppor-  
ted सुर० १६, ६२, (३) प्रमाणित, साधित  
किया हुआ Proved अज्ञ० १२१

समद्वासिय त्रि० (समाध्यासित) अधिष्टित  
Presiding over स० ३२, ६७६.

समप्यण. न० (समर्पण) अर्पण, प्रदान

Giving, offering सुर० ७, २२, कुम०  
१३, वजा० ६६

समप्यणाय स्त्री० (समर्पण) देखो 'समप्यण'  
शब्द Vide समप्यण उप० १७६

समभ्रह्मिन्न त्रि० (समभ्यधिक) अत्यन्त अधिक  
Excessive से० १२, ८४

समभ्रास पु० (समभ्यास) निकट, पास  
Proximity, vicinity पत्रम० ३३, १७

समभिभूत्र त्रि० (समभिभूत) अत्यन्त पराभूत.  
Completely defeated धर्मवि० ३४

समय पु० (समय) (१) मत, दर्शन. A de-  
monstrated conclusion, doctrine,  
tenet. प्राप० (२) पदार्थ, चीज, वस्तु  
Thing, object सम्म० १ टी, (३) संकेत,  
इशारा Sign, hint, indication  
सूयनि० २६, पिंड० ६, प्राप० से० १, १६  
(४) समीचीन परिणति, सुन्दर परिणाम  
Good result or consequence (५)  
आचार, रिवाज Convention, Conven-  
tional usage (६) एकत्राक्यता  
Consistency in meaning, unan-  
imity सूय० नि० २६

समया अ० (समया) पास, नजदीक Near,  
in vicinity सुपा० १८८.

समर पु० न० (समर) छन्द-विशेष Name  
of a metre पिंग०

समर न० (समर) कामदेव सम्बन्धी, कामदेव  
का Relating to the god of love.  
उप० ४२४

समरण न० (स्मरण) स्मृति, याद Remem-  
brance, Recollection धर्मवि०  
२०, आप० ६८.

समराइच्च. पु० (समरादित्य) अवन्ती देश  
का एक राजा A king of Avanti स० २,  
समवदराण त्रि० (समवतीर्थ) अवतीर्थ,  
Descended, alighted सुपा० २२.

समवट्टाण न० (समवस्थान) सम्यग् अवस्थिति,  
 Good state or condition. अज्ज०  
 १४७  
 समवट्ठिइ खी० (समवस्थिति) देखो 'समवट्टाण'  
 शब्द Vide 'समवट्टाण' अन्त० १४७  
 समवसेअ. त्रि० (समवसेय) जानने योग्य,  
 ज्ञातव्य. To be known सा० ४  
 समवाय पु० (समवाय) सम्बन्ध-विशेष, गुण  
 गुणी आदि का सम्बन्ध ( In philo )  
 Intimate union, constant and  
 inseparable connection विशे०  
 २१०८, (२) सम्बन्ध, Connection,  
 union. पउम० ३६, २५, धर्मस० ४८१,  
 विवे० ११६ (३) एकत्र करना Collecting,  
 gathering 'काउ तो सघसमवाय' विशे०  
 २५४६  
 समस्सा खी० (समस्या) वाकी का भाग जोड़ने  
 के लिये दिया जाने वाला श्लोक-चरण या पद  
 आदि Proposing part of a stanza  
 to another to be completed, the  
 part of a stanza so given to be  
 completed सिरि० ८६८, कुग्र० २७,  
 सुपा० १५५  
 समस्सास पु० (समाश्वास) आश्वासन  
 Relief, encouragement, conso-  
 lation विक्र० ३५  
 समस्सासाण न० (समाश्वासन) आश्वासन  
 Reviving, comforting, मै० ७५  
 समस्सिअ त्रि० (समाश्रित) आश्रय में स्थित,  
 आश्रित Resorting to स० ६३५, उप०  
 पू० ४७, सुर० १३, २०४, महा०  
 समहियय. त्रि० (समधिगत) (१) प्राप्त,  
 मिला हुआ Acquired, obtained (२)  
 ज्ञात Learnt, known सण०  
 समहिडिडिअ त्रि० (समहदिक) महान् वैभव  
 वाला Having great grandeur or

magnificence प्राप्त० १०७  
 समहिणदिय त्रि० (समभिनन्दित) आनन्दित,  
 खुश किया हुआ Rejoiced, delighted  
 उप० ५३० टी०  
 समहिल त्रि० (समखिल) सकल, समस्त  
 All, whole, entire गउड०  
 समाइच्छिय त्रि० (समागत) आदत्त, सत्कृत  
 Honoured, respected स० ३७२  
 समाइड्ड त्रि० (समाविद्ध) वेध किया हुआ.  
 Pierced, boied से० ६, ३८  
 समाइणण-न्न. त्रि० (समाचीर्ण) अच्छी तरह  
 आचरित Well-practised, well-  
 behaved उप० ८१३, विचार० ८६५  
 समाउट्ट. त्रि० (समावृत्त) विनम्र, Hum-  
 ble, modest वव० १  
 समाउल त्रि० (समाकुल) (१) समिश्र,  
 मिश्रित Mixed (२) व्याप्त Permeated,  
 spread through सुपा० ३०५  
 समाउलिअ त्रि० (समाकलित) व्याकुल  
 बना हुआ Confused, bewildered  
 स० ६६  
 समाएस पु० (समादेश) आज्ञा, हुक्म.  
 Order, command उप० १०२१ ८.  
 समाएसण न० (समादेशन) आज्ञा, हुक्म  
 Order, command भवि०  
 समाओसिय त्रि० (समातोषित) सतुष्ट किया  
 हुआ. Satisfied, contented भवि०  
 समागमण न० (समागमन) समागम, मिलाप.  
 Meeting, intercourse महा०  
 समागूड त्रि० (समागूढ) समादिलट, आलिं-  
 गित Embraced. पउम० ३१, १२२  
 समाडत्त त्रि० (समारब्ध) (१) आरब्ध, जिस  
 का प्रारम्भ किया गया हो Began, com-  
 menced काल० पि० २२३, २८६, (२)  
 जिसने आरम्भ किया हो One who has  
 began. सुर० १, ६६.

समाण त्रि० ( समान ) मान-सहित, अहकारी  
Proud, self-conceited से० ३, ४६  
समाणअ त्रि० (समापक) समाप्त करने वाला  
Finishing, completing से० ३, ४६.  
समाणण न० ( भोजन ) भक्षण, खाना  
Food, dining स० ७२  
समाणत्त त्रि० ( समाज्ञप्त ) जिसको आज्ञा दी  
गई हो Ordered, commanded महा०  
समाणित्त त्रि० ( समानीत ) जो लाया गया  
हो Brought महा० सुपा० १०२.  
समाणित्त त्रि० ( समाप्त ) पूरा किया हुआ  
Completed, finished से० ६, ६२,  
स० ३७१, कुमा० ६, ६२  
समाणित्त त्रि० ( भुक्त ) भक्षित, खाया हुआ  
Eaten स० ३१२  
समाणित्त छी० ( समानिका ) छन्द-विशेष  
Name of a metre पिंग०  
समादिट्ट त्रि० ( समादिष्ट ) फरमाया हुआ  
Ordered, commanded मोह० ८३  
समापणा छी० ( समापना ) समाप्ति Con-  
clusion, completion. विशेष० ३२६२  
समाय पु० ( समाज ) हाथी Elephant.  
पड्०  
समायणण न० ( समाकर्णन ) श्रवण  
Hearing गडड०  
समायणण त्रि० ( समाकर्णित ) सुना हुआ  
Heard, listened. काल०  
समायणण त्रि० ( समाचरित ) आचरित.  
Practised, behaved गडड०  
समायण त्रि० ( समायात ) समागत Gone  
उप० ७२८ टी  
समार त्रि० ( समारचित ) बनाया हुआ  
Made सुर० २, ६६  
समारभ. पु० ( समारम्भ ) प्रारम्भ Begin-  
ning, commencement कप्पु०  
समारचण-समारण न० ( समारचन ) (१)

ठीक करना, दुरुस्त करना. To improve,  
to reform पडम० ११, ३, ( २ ) त्रि०  
विधायक, कर्ता Doing, executing  
कुमा०  
समारिय त्रि० ( समारचित ) दुरुस्त किया  
हुआ Improved, reformed कुम०  
३३४  
समारुहण न० ( समारोहण ) आरोहण,  
चढ़ना Ascending, mounting  
सुपा० २२३  
समालव पु० ( समालम्ब ) आलम्बन, सहाय  
Help, support सबोध० ४०  
समालभण न० ( समावम्भन ) अलकरण,  
विभूषा करना. To decorate, to orna-  
ment अभि० १२७  
समालत्त त्रि० ( समालपित ) उक्त, कथित  
Said, told पडम० १२, ८८  
समालभण न० ( समालनन ) विलेपन, अग-  
राग Scented cosmic, fragrant  
unquent. सुर० १६, १४.  
समालवणी छी० ( समालवनी ) वाद्य-विशेष.  
A kind of musical instrument  
सुपा० १०  
समालाव पु० ( समाजाप ) बातचीत, सभा-  
पण Discourse, conversation.  
पडम० ३०, ३  
समालिणिय. त्रि० ( समालिङ्गित ) आलिङ्गित,  
आल्लिष्ट Embraced भवि०  
समालीढ त्रि० ( समालिष्ट ) आलिङ्गित, आल्लिष्ट.  
Embraced भवि०  
समालोच पु० ( समालोच ) विचार, विमर्श  
Thought, deliberation उप० ३६६.  
समावज्जिय. त्रि० ( समावज्जित ) प्रसन्न किया  
हुआ Pleased, satisfied महा०  
समावडण न० ( समापतन ) पड़ना, गिरना.  
To fall गडड०

समावृत्ति स्त्री० (समावाप्ति) समाप्ति, पूर्णता  
Completion, end. 'ते य समावृत्तीए  
विहरता' सुख० २, ७

समाविश्रि त्रि० (समापित) पूर्ण किया हुआ  
Finished, completed गा० ६१, दे०  
७, ४५

समासग पु० (समासङ्ग) सयोग. Connec-  
tion, union गा० ६११.

समासगत त्रि० (समासगत) सगत, सबद्ध  
Joined or united with, associated  
with रभा०

समासत्थ त्रि० (समाश्वस्त) (२) आश्वस्त-  
प्राप्त Consolated, encouraged.  
पउम० १८, २८, से० १२, ३७, सुख० २,  
६, (२) स्वस्थ बना हुआ स० १२०, सुर०  
६, ६६

समासय पुं० (समाश्रय) आश्रय, स्थान A  
place of refuge, asylum पउम० ७,  
१६८, ४२, ३५

समासादिश्रि त्रि० (समासादित) प्राप्त  
Acquired, obtained. दल० १, १ टी  
समासासिय त्रि० (समाशवासित) जिसको  
आशवासन दिया गया हो वह Revived,  
comforted महा०

समासिय त्रि० (समाश्रित) आश्रय-प्राप्त  
Sought protection or shelter  
पउम० ८०, ६४

समासिय त्रि० (समासित) उपवेशित, वैठाना  
हुआ Caused to sit भवि०

समाहृद त्रि० (समाहृत) स्वीकृत Accepted,  
received राज०

समाहृविश्रि त्रि० (समाहृत) आहृत, बुलाया  
हुआ Called out धर्मवि० ६०

समाहाण न० (समाधान) समाधि Pro-  
found or abstract meditation  
उप० ३२० टी

समाहार पु० (समाहार) सङ्घ Collection,  
multitude श्रु० ११५, —दं पु०  
(द्वन्द्व) व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष A  
subdivision of Dvandva and  
Dvigu compounds चैड्य० १६०

समाहित त्रि० (समाहित) समापित, पूरा  
किया हुआ Completed, ended,  
finished विशे० ३५६३

समाहूत्र त्रि० (समाहृत) बुलाया हुआ,  
आकारित Called सार्थ० १०५

समि समिश्र त्रि० (शमिक) (१) शम  
युक्त Restraint, controlled (२)  
पु० साधु, मुनि Saint सुपा० ४३६, ६४२,  
उप० १४२ टी

समिइ स्त्री० (समिति) (१) सभा, परिषद्  
Assembly विवे० १३६ टी, तदु० २५  
टी, (२) युद्ध, लडाईं War, battle  
रयण० ४

समिइ. स्त्री० (स्मृति) (१) स्मरण Remem-  
brance, recollection (२) शास्त्र-  
विशेष, मनुस्मृति आदि A text of  
Smriti, canon, rule of law सिरि०  
५५

समिक्षि त्रि० (समीक्षित) आलोचित.  
Perceived, viewed धर्मस० ११११.

समिच्छुण न० (समीक्षण) समीक्षा Close  
or through inspection भवि०

समिद्धि त्रि० (समृद्धि) समृद्धि वाला  
Prosperous, flourishing सुर०  
१, ४६

समिर पु० (समिर) पवन, वायु The  
wind सम्मत्त० १५६.

समीचीण त्रि० (समीचीन) साधु, सुन्दर,  
शोभन Good, right नाट-चैत० ४७.

समीर पु० (समीर) पवन, वायु The  
wind. पात्र० गडड०

- समाख त्रि० ( समान ) मान-सहित, अहकारी  
Proud, self-conceited से० ३, ४६
- समाखञ्च त्रि० ( समापक ) समाप्त करने वाला  
Finishing, completing से० ३, ४६
- समाखण्ण न० ( भोजन ) भक्षण, खाना  
Food, dining स० ७२
- समाखत्त त्रि० ( समाज्ञप्त ) जिसको आज्ञा दी  
गई हो Ordered, commanded महा०
- समाखिञ्च त्रि० ( समानीत ) जो लाया गया  
हो Brought. महा० सुपा० १०५
- समाखिञ्च त्रि० ( समाप्त ) पूरा किया हुआ  
Completed, finished से० ६, ६२,  
स० ३७१, कुमा० ६, ६५
- समाखिञ्च त्रि० ( भुक्त ) भक्षित, खाया हुआ  
Eaten स० ३१५
- समाखिञ्चा स्त्री० ( समानिका ) छन्द-विशेष.  
Name of a metre पिंग०
- समाखिट्ट त्रि० ( समादिष्ट ) फरमाया हुआ.  
Ordered, commanded मोह० ८६
- समापणा स्त्री० ( समापना ) समाप्ति Con-  
clusion, completion. विशेष० ३५६५
- समाय पु० ( समाज ) हाथी Elephant.  
पङ्०
- समायरणण न० ( समाकर्णन ) श्रवण  
Hearing गडड०
- समायण्णिय त्रि० ( समाकर्णित ) सुना हुआ  
Heard, listened काल०
- समायरिय त्रि० ( समाचरित ) आचरित  
Practised, behaved गडड०
- समायाय त्रि० ( समायात ) समागत Gone  
उप० ७२८ टी
- समार त्रि० ( समारचित ) बनाया हुआ  
Made सुर० २, ६६
- समारभ पु० ( समारम्भ ) प्रारम्भ Begin-  
ning, commencement कप्प०
- समारचण-समारण न० ( समारचन ) (१) ठीक करना, दुरुस्त करना. To improve,  
to reform पडम० ११, ३, ( २ ) त्रि०  
विधायक, कर्ता Doing, executing  
कुमा०
- समारिय त्रि० ( समारचित ) दुरुस्त किया  
हुआ Improved, reformed कुम०  
३३४
- समारुहण न० ( समारोहण ) आरोहण,  
चढना Ascending, mounting  
सुपा० २५३
- समालय पु० ( समालम्ब ) आलम्बन, सहारा  
Help, support सर्वोच० ४०
- समालभण न० ( समालम्बन ) अलकरण,  
विभूषा करना. To decorate, to orna-  
ment अभि० १२०
- समालत्त त्रि० ( समालपित ) उक्त, कथित  
Said, told पडम० १५, ८८
- समालभण न० ( समालम्बन ) विलेपन, अग-  
राग Scented cosmetic, fragrant  
unquent सुर० १६, १४
- समालवणी स्त्री० ( समालयनी ) वाद्य-विशेष.  
A kind of musical instrument  
सुपा० ५०
- समालाव पु० ( समालाप ) बातचीत, सभा-  
पण. Discourse, conversation.  
पडम० ३०, ३
- समालिगिय त्रि० ( समालिङ्गित ) आलिङ्गित,  
आच्छिष्ट Embraced भवि०
- समालीढ त्रि० ( समालिष्ट ) आलिङ्गित, आच्छिष्ट.  
Embraced भवि०
- समालोच पु० ( समालोच ) विचार, विमर्श.  
Thought deliberation उप० ३६६.
- समावज्जिय त्रि० ( समावर्जित ) प्रमत्त किया  
हुआ Pleased, satisfied महा०
- समावडण न० ( समापतन ) पडना, गिरना.  
To fall गडड०

समावत्ति स्त्री० (समावत्ति) समाप्ति, पूर्णता  
Completion, end. 'ते य समावत्तीप  
विहरता' सुख० २, ७  
समाविञ्च त्रि० (समापित) पूर्ण किया हुआ  
Finished, completed गा० ६१, दे०  
७, ४२  
समासग पु० (समासङ्ग) सयोग, Connec-  
tion, union गा० ६६१.  
समासगत त्रि० (समासगत) सगत, सबद्ध  
Joined or united with, associated  
with रमा०  
समासत्थ त्रि० (समाश्वस्त) (२) आशवासन-  
प्राप्त Consolated, encouraged  
पउम० १८, २८, से० १२, ३७, सुख० २,  
१, (२) स्वस्थ बना हुआ स० १२०, सुर०  
६, ६६  
समासय पु० (समाश्रय) आश्रय, स्थान A  
place of refuge, asylum पउम० ७,  
१६८, ४२, ३२  
समासादिञ्च त्रि० (समासादित) प्राप्त  
Acquired, obtained. दल० १, १ टी  
समासासिय त्रि० (समाशवासित) जिसको  
आशवासन दिया गया हो वह Revived,  
comforted महा०  
समासिय त्रि० (समाश्रित) आश्रय-प्राप्त  
Sought protection or shelter  
पउम० ८०, ६४  
समासिय त्रि० (समासित) उपवेशित, वैठाय  
हुआ Caused to sit भवि०  
समाहृत् त्रि० (समाहृत) स्वीकृत Accepted,  
received राज०  
समाहृविञ्च त्रि० (समाहृत) आहृत, बुलाया  
हुआ Called out धर्मवि० ६०  
समाहाण न० (समाधान) समाधि Pio-  
found or abstract meditation  
उप० ३२० टी

समाहार पु० (समाहार) सङ्घ Collection,  
multitude श्रु० ११५, —दद् पु०  
(द्वन्द्व) व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष A  
subdivision of Dvandva and  
Dvigu compounds चेइय० १६०  
समाहिञ्च त्रि० (समाहित) समापित, पूरा  
किया हुआ Completed, ended,  
finished विशेष० ३२६३  
समाहूञ्च त्रि० (समाहृत) बुलाया हुआ,  
आकारित Called साथ० १०५  
समि समिञ्च त्रि० (शमिदक) (१) शम  
युक्त Restraind, controlled (२)  
पु० साधु, मुनि Saint सुपा० ४३६, ६४२,  
उप० १४२ टी  
समिइ स्त्री० (समिति) (१) सभा, परिषद्  
Assembly विवे० १३६ टी, तद् ० २५  
टी, (२) युद्ध, लड़ाई War, battle.  
रयण० ४  
समिइ स्त्री० (स्मृति) (१) स्मरण Remem-  
brance, recollection (२) शास्त्र-  
विशेष, मनुस्मृति आदि A text of  
Smriti, canon, rule of law सिरि०  
२५  
समिखञ्च त्रि० (समीक्षित) आलोचित  
Perceived, viewed धर्मस० ११११  
समिच्छृण न० (समीक्ष्य) समीक्षा Close  
or through inspection भवि०  
समिद्धिञ्च त्रि० (समृद्धि) समृद्धि वाला  
Prosperous, flourishing सुर०  
१, ४६  
समिर पु० (समिर) पवन, वायु The  
wind सम्मत्त० १२६.  
समीचीण त्रि० (समीचीन) साधु, सुन्दर,  
शोभन Good, light. नाट-चैत० ४७.  
समीर पु० (समीर) पवन, वायु The  
wind. पाञ्च० गउड०



समीरण पु० ( समीरण ) पवन, वायु All, wind. गडढ०  
 समीहा. स्त्री० (समीहा) इच्छा, वाञ्छा Longing, desire उप० १०३१ टी.  
 समुत्राचार पु० ( समुदाचार ) समीचीन आचरण Proper conduct or behaviour दे० २, ६४  
 समुद्भ्रंश त्रि० ( समुचित ) योग्य, उचित Proper, fit से० १३, ६८, महा०  
 समुद्भ्रंश त्रि० (समुदित) एकत्रित Assembled, collected विशेष० २६२४  
 समुद्भ्रंश त्रि० (समुदीर्ण) उदय-प्राप्त Risen सुपा० ६१०.  
 समुत्कृत्तिय त्रि० ( समुत्कर्तित ) काटा हुआ Cut सुर० १४, ४२  
 समुत्कृत्तिय त्रि० ( समुत्खात ) उखाड़ा हुआ Drawn out, uprooted गा० २७६  
 समुत्कृत्तिय न० ( समुत्खनन ) उ-मूलन, उत्पाटन Uprooting, drawing out कुप्र० १७४  
 समुत्कृत्तिय त्रि० ( समुत्क्षिप्त ) उठाकर फेंका हुआ Thrown upwards, tossed से० ११, ७२  
 समुत्कृत्तिय पु० (समुद्गम) समुद्भव Origin, production नाट रत्न० १३  
 समुत्कृत्तिय त्रि० (समुद्गीर्ण) उठाया हुआ, उचोखित, ऊपर उठाया हुआ, Raised, uplifted पत्रम० १२, ७४  
 समुत्कृत्तिय त्रि० ( समुद्घटित ) खुला हुआ Opened धर्मवि० १२  
 समुत्कृत्तिय त्रि० (समुद्घातित) विनाशित Destroyed, ruined प्रासू० १६२  
 समुत्कृत्तिय न० ( समुद्घातन ) विनाश Destruction, ruin विशेष० ३०२०  
 समुत्कृत्तिय त्रि० ( समुद्घोषित ) उद्घोषित Announced, proclaimed. सुर०

११, २६  
 समुच्चलित्त्रि० ( समुच्चलित ) चला हुआ. Moved उप० पृ० ४८, भवि०  
 समुच्चलित्त्रि० (समुच्चित) एक क्रिया आदि में अन्वित Common attributer विशेष० २७३  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समवच्छ्रादित ) सतत आच्छ्रादित Continually covered पत्रम० ६३, ७  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समुच्छ्रलित ) विस्तीर्ण, Vast, spacious, large गच्छ० १, ६, महा०  
 समुच्छ्रय न० ( समुत्सारण ) दूर करना. Removing अभि० ६०  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समुच्छ्रन्नित ) चोटी पर चढा हुआ Gone upto the peak हम्मीर० १८  
 समुच्छ्रय त्रि० (समुत्सुक) अति उत्कण्ठित. Very anxious or eager सुर० २, २१२, ४, १७७  
 समुच्छ्रय त्रि० (समुत्ज्वल) अत्यन्त उज्वल Excessively shining गडढ० भवि०  
 समुच्छ्रय पु० ( समुद्द्योत ) प्रकाश, दीप्ति Light, lustre. सुपा० ४०, महा०  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समुत्थित ) (१) उठा हुआ, जो खडा हुआ हो Raised सुर० १, ६६, (२) आश्रित Resorted to राज०  
 समुच्छ्रय त्रि० (समुद्भ्रंश) उड़ा हुआ Flown बजा० २२, मोह० ६३  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समुत्तारित ) (१) पार पहुँचाया हुआ Carried to a successful termination (२) कूप आदि से बाहर निकाला हुआ Brought out from a well स० १००  
 समुच्छ्रय त्रि० ( समुत्तुंग ) अति उँचा Very high or lofty. भवि०

समुत्थय. त्रि० ( समवस्तृत ) आच्छादित.  
Covered कुप्र० १६२.  
समुत्थयज्ञ त्रि० ( समुच्छ्रित ) उड़ला हुआ.  
Gone or moved upwards स० २७८  
समुत्थाय न० ( समुत्थान ) निमित्त कारण  
An efficient cause विशे० २८२८  
समुदाय न० ( समुदान ) (१) क्रिया विशेष,  
प्रयोग गृहीत कर्मों को प्रकृति स्थित्यादि रूप से  
व्यवस्थित करने वाली क्रिया. A kind of  
action. सूयनि० १६६, (२) समुदाय  
Heap collection आव० ४  
समुदायिणी स्त्री० (सामुदानिकी) क्रिया विशेष,  
समुदान क्रिया A kind of action  
सूयनि० १६८  
समुद्र पु० ( समुद्र ) (१) वेल्न्धर नगर का  
एक राजा A king of Valendbar  
city पडम० २४, ३६, (२) त्रि० मुद्रा  
सहित With a ring से० १, २१  
समुद्रदत्ता स्त्री० ( समुद्रदत्ता ) हरिपेण वासु-  
देव की एक पत्नी Name of a wife of  
Harisena Vasudeo महा० ४४  
समुद्रसुत्रा. ( समुद्रसुता ) लक्ष्मी The  
goddess of fortune समु० १२२  
समुद्राम. त्रि० (समुद्राम) अति उद्दाम, प्रखर  
Unrestrained, uncontrolled शुद्ध  
समुद्रामसद्वेष्य चैद्वय० ६२०  
समुद्रेश पु० (समुद्रेश) ग्रथका एक विभाग,  
-अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद Chapter  
पडम० २, १२०  
समुद्धरण न० ( समुद्धरण ) (१) उद्धार.  
Redemption, rescuing. (२) उद्धार  
करने वाला One who raises or lifts  
up सण०  
समुद्धरिञ्च त्रि० ( समुद्धृत ) उद्धार प्राप्त  
Redeemed, rescued गा० २६३, सण  
समुद्धादञ्च त्रि० ( समुद्धावित ) समुत्थित,

उठा हुआ Risen. स० २६१, २६७.  
समुद्धुर त्रि० ( समुद्धुर ) दृढ, मजबूत.  
Fixed, firm, strong उप० १४२टी  
समुद्धुसिञ्च त्रि० ( समुद्धुपित ) पुलकित,  
रोमाञ्चित Having the hairs of the  
body erect कुप्र० २१०, स० १८०,  
धर्मवि० ४८.  
समृन्न्दि. त्रि० (समृन्न्ति) अभ्युदय Rise,  
prosperity सार्ध० ८२.  
समृन्नद्ध त्रि० (समृन्नद्ध) सन्नद्ध, सज्ज  
Ready, prepared चैद्वय० ६१३.  
समृप्पाञ्च त्रि० (समृत्पादक) उत्पत्ति-कर्ता  
Productive गा० १८८  
समृष्फालय. त्रि० (समृत्पादक) उठाकर लाने  
वाला Bringing 'पहए जयसिरिसमृष्फा-  
लए मगलनूरे' स० २२.  
समृष्फालिय. त्रि० (समृष्फालित) आस्फा-  
लित Striken or pressed against.  
भवि०  
समृष्फोडण न० (समृष्फोटन) आस्फालन  
Striking or pressing against.  
पडम० ६, १८०.  
समृष्मड त्रि० (समृष्मट) प्रचंड Vehe-  
ment, impetuous प्रासू० १०२  
समृष्मिय. त्रि० (समृष्मित) ऊँचा किया हुआ.  
Raised, uplifted सुपा० ८८, भवि०  
समृष्णवण न० (समृष्णवण) कथन, उक्ति  
Narration, description से० १२,  
७४  
समृष्णविञ्च त्रि० (समृष्णपित) उक्त, कथित  
Said, told सुर० २, १२१, २, २३८,  
प्रासू० ७  
समृष्णसिय त्रि० (समृष्णसित) उल्लास प्राप्त.  
Delighted सण०  
समृष्णस पु० (समृष्णस) विकास  
Blowing, expanding. गरुड०

|                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समीरण पु० ( समीरण ) पवन, वायु Wind, गडद०                                                        | ११, २६                                                                                                                                                       |
| समीहा खी० (समीहा) उन्हा, वाछा Longing, desire उप० १०३१ टी.                                      | समुच्चलित्र. त्रि० ( समुच्चलित ) चला हुआ Moved उप० पृ० ४८, भवि०                                                                                              |
| समुआचार. पु० ( समुआचार ) समीचीन आचरण Proper conduct or behaviour दे० २, ६२                      | समुच्चिद्य त्रि० (समुच्चित) एक क्रिया आदि में अनित Common attributer विशेष० १०६                                                                              |
| समुश्च त्रि० ( समुचित ) योग्य, उचित Proper, fit से० १३, ६८, महा०                                | समुच्छद्ध्य. नि० ( समपच्छादित ) सतत आच्छादित Continually covered पउम० ६३, ७                                                                                  |
| समुदत्र त्रि० (समुद्रित) एकत्रित Asssembled, collected विशेष० २६२२                              | समुच्छ्रुति त्रि० ( समुच्छ्रुतित ) विस्तीर्ण, Vast, spacious, large गच्छ० १, ६, महा०                                                                         |
| समुद्वन नि० (समुदीर्ण) उदय-प्राप्त Given नृपा० ६१२.                                             | समुच्छारण न० ( समुत्सारण ) दूर करना. Removing अभि० ६०                                                                                                        |
| समुद्रुत्तिय त्रि० ( समुद्रुत्तित ) काटा हुआ Cut सुर० १४, ४२                                    | समुच्छुगिय नि० ( समुच्छुगित ) चोटी पर चढा हुआ Gone upto the peak हम्मीर० १८                                                                                  |
| समुद्वन त्रि० ( समुद्वानत ) उखाड़ा हुआ Drawn out, uprooted गा० २७६.                             | समुच्छुग त्रि० (समुच्छुग) अति उत्कण्ठित. Very anxious or eager सुर० २, २१२, ४, १७७                                                                           |
| समुद्वनगण न० ( समुद्वनग ) उ-मूलन, उखाटन Uprooting, drawing out कृप० १७४.                        | समुज्ज्वल त्रि० ( समुज्ज्वल ) अत्यन्त उज्ज्वल Excessively shining गउड० भवि०                                                                                  |
| समुद्रुत्त त्रि० ( समुद्रुत्त ) उठाकर फेंका हुआ Thrown upwards, tossed से० ११ ७२                | समुज्जोत्र पु० ( समुद्वयोत ) प्रकाश, वीहि Light, lustre. सुपा० ४०, महा०                                                                                      |
| समुद्रुगम. पु० (समुद्रुगम) समुद्रुभव Origin, production नाट रसन० १३                             | समुद्रुत्तिय त्रि० ( समुद्रुत्तित ) (१) उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो Raised सुर० १, ६६, (२) आश्रित Resorted to राज०                                               |
| समुद्रुगण त्रि० (समुद्रुगीर्ण) उठाया हुआ, उत्तोलित, ऊपर उठाया हुआ, Raised, uplifted पउम० १२, ७४ | समुद्रुहीण त्रि० (समुद्रुहीन) उडा हुआ Flown वजा० ६२, मोह० ६३                                                                                                 |
| समुद्रुघडि त्रि० ( समुद्रुघटित ) खुला हुआ Opened धर्मनि० १२                                     | समुद्रुचारविथ त्रि० ( समुद्रुचारित ) (१) पार पहुँचाया हुआ, Carried to a successful termination (२) कृप आदि से बाहर निकाला हुआ Brought out from a well स० १०२ |
| समुद्रुघाड्य त्रि० (समुद्रुघातित) विनाशित Destroyed, ruined प्रासू० १६२                         | समुद्रुग नि० (समुद्रुग) अति ऊचा Very high or lofty. भवि०                                                                                                     |
| समुद्रुघायण न० ( समुद्रुघातन ) विनाश Destruction, ruin विशेष० ३०२०                              |                                                                                                                                                              |
| समुद्रुघुट्ट त्रि० ( समुद्रुघोषित ) उद्घोषित Announced, proclaimed. सुर०                        |                                                                                                                                                              |

समुत्थय. त्रि० ( समवस्तृत ) आच्छादित  
Covered कुप्र० १६२.  
समुत्थयज्ञ त्रि० ( समुच्छलित ) उड़ला हुआ.  
Gone or moved upwards सं० ५७८  
समुत्थाण न० ( समुत्थान ) निमित्त कारण  
An efficient cause विशे० २८२८  
समुदाय न० ( समुदान ) ( १ ) क्रिया विशेष,  
प्रयोग गृहीत कर्मों को प्रकृति स्थित्यादि रूप से  
व्यवस्थित करने वाली क्रिया A kind of  
action. सूननि० १६६, ( २ ) समुदाय  
Heap collection आव० ४  
समुदायिण्या स्त्री० ( सामुदानिकी ) क्रिया विशेष,  
समुदान क्रिया A kind of action  
सूननि० १६८  
समुद् पु० ( समुद्र ) ( १ ) वेलन्धर नगर का  
एक राजा A king of Valendhar  
city पठम० ५४, ३६, ( २ ) त्रि० मुद्रा  
सहित With a ring से० १, २१  
समुद्दत्ता स्त्री० ( समुद्रदत्ता ) हरिषेण वासु-  
देव की एक पत्नी Name of a wife of  
Harisena Vasudeo महा० ४४  
समुद्सुत्रा ( समुद्रसुता ) लक्ष्मी The  
goddess of fortune समु० १५२  
समुद्दाम. त्रि० ( समुद्दाम ) अति उद्दाम, प्रखर  
Unrestrained, uncontrolled थुई  
समुद्दामसहेय चेइय० ६५०  
समुद्देश पु० ( समुद्देश ) ग्रथ का एक विभाग,  
अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद Chapter  
पठम० २, १२०  
समुद्धरण न० ( समुद्धरण ) ( १ ) उद्धार  
Redemption, rescuing. ( २ ) उद्धार  
करने वाला One who raises or lifts  
up सण०  
समुद्धरिञ्च त्रि० ( समुद्धृत ) उद्धार प्राप्त  
Redeemed, rescued गा० ५६३, सण  
समुद्धाञ्च त्रि० ( समुद्धावित ) समुत्थित,

उठा हुआ Risen सं० ५६६, ५६७.

समुद्धुर त्रि० ( समुद्धुर ) दृढ, मजबूत.  
Fixed, firm, strong उप० १०२२

समुद्धुसिञ्च त्रि० ( समुद्धुपित ) पुलकित,  
रोमाञ्चित. Having the hairs of the  
body erect कुप्र० २१०, त० १८०,  
धर्मवि० ४८

समुन्नइ त्रि० ( समुन्नति ) अभ्युदय Rise,  
prosperity सार्ध० ८२

समुन्नद्ध त्रि० ( समुन्नद्ध ) सनद्ध, सज्ज.  
Ready, prepared चेइय० ६१३.

समुत्पाञ्च त्रि० ( समुत्पादक ) उत्पत्ति-कर्ता  
Productive गा० १८८

समुत्पालय त्रि० ( समुत्पादक ) उठाकर लाने  
वाला Bringing 'पइए जयसिरिसमुत्पा-  
लए मगलनूरे' सं० २२.

समुत्पालिय. त्रि० ( समुत्पालित ) आस्फा-  
लित Striken or pressed against  
भवि०

समुत्फोडण न० ( समुत्फोटन ) आस्फालन  
Striking or pressing against  
पठम० ६, १८०.

समुत्प्रड त्रि० ( समुत्प्रड ) प्रचड. Vehe-  
ment, impetuous प्रासू० १०२

समुत्भिभय. त्रि० ( समुत्भिभवत ) ऊँचा किया हुआ,  
Raised, uplifted सुपा० ८८, भवि०

समुत्तवण न० ( समुत्तवण ) कथन, उक्ति  
Narration, description से० १२,  
७४

समुत्तविञ्च त्रि० ( समुत्तवित ) उक्त, कथित  
Said, told सुर० २, १५१, ५, २३८,  
प्रासू० ७

समुत्तसिय त्रि० ( समुत्तसित ) उल्लास प्राप्त  
Delighted सण०

समुत्तस पु० ( समुत्तस ) विकास  
Blowing, expanding गढ०

समुच्चदट्ट. नि० (समुपविष्ट) बैठा हुआ Sat  
उप० २८८

समुच्चउत्त त्रि० (समुपयुक्त) उपयोग युक्त,  
सावधान Attentive, careful, heed-  
ful जीनस० ३६३

समुच्चगय त्रि० (समुपगत) समीप आया  
हुआ Approached, come near  
उप० ४.

समुच्चविय त्रि० (समुपस्थित) हाजिर, उप-  
स्थित Present उप० ४३२

समुच्चसपन्न त्रि० (समुपसपन्न) समीप में  
समागत Approached धर्म० ३

समुच्चहसिञ्च त्रि० (समुपहसित) जिसका  
खून उपहास किया गया हो Ridiculed,  
derided सख०

समुच्चउत्त त्रि० (समुद्वृत्त) ऊँचा किया हुआ  
Uplifted, raised से० ११, २१

समुच्चव्यतिथि त्रि० (समुद्वर्तित) घुमाया हुआ  
फिराया हुआ Turned from side to  
side सुर० १३, ४३

समुच्चवदण न० (समुद्वहन) सम्यग वहन,  
दोना Carrying उव०

समुच्चिग्ग त्रि० (समुद्विग्न) अत्यन्त उद्वेग  
वाला Very grieved or sorrowful,  
गा० ४६२

समुच्चवृद्ध त्रि० (समुद्व्यूढ). (१) विवाहित  
Married उप० ४० १२०, (२) उन्नतित,  
ऊँचा किया हुआ Raised, uplifted  
से० ११, १०

समुच्चवेह त्रि० (समुद्वेष्टित) अत्यन्त कपाया  
हुआ, संचालित Shaken. पञ्च० १४, २२.

समुच्चस्सविय त्रि० (समुद्व्ययित) ऊँचा किया  
हुआ Raised, uplifted पञ्च० ४०, १

समुच्चहय त्रि० (समुद्वत्त) समुद्व्याप्त-आप्त  
Performed Samudghata (a for-  
cible and simultaneous emana-

tion of Karnic molecules from  
soul particles after their exhau-  
stion) थावक० १८.

समूसण. न० (समूपण) त्रिकटुक—सूट,  
पीपल तथा मिर्च A collection of  
zingiber, long and black pep-  
pers उत्तनि० ३

समूससिञ्च न० (समुच्च्वसित) निश्वास,  
Sighing deeply, a heavy or  
deep sigh से० ११, २६

समोत्त्र-समेत त्रि० (समेत) समागत, समा-  
यात Arrived, approached था० १६

समोच्चञ्चिञ्च त्रि० (समवच्छादित) आच्छादित.  
अतिशय ढका हुआ. Covered सुर० १०,  
१२७

समोत्तय त्रि० (समवन्त) अति नमा हुआ.  
Bent down, downcast गा० २८२.

समोत्तयञ्च त्रि० (समवस्थयित) आच्छादित  
Covered से० ६, ८४

समोत्तय त्रि० (समवस्तृत) आच्छादित.  
Covered उप० ७७३ डी.

समोत्तारया. स्त्री० (समवतारया) अन्तर्भाव  
The being included or compri-  
sed in, inclusion विशे० २७३

समोत्तारिय त्रि० (समवतारित) अन्तर्भावित,  
समावेशित Included, comprised  
in विशे० २२६

समोलुग्ग त्रि० (समवर्ण्य) रोगी, रोग  
ग्रस्त Diseased, sick से० ३, ४७.

समोत्तरयतथ पु० (समवसरणतपत्) तप-  
विशेष A kind of religious auste-  
rity प्रब० २७१.

समोत्तरिञ्च त्रि० (समवसृत) (१) पीछे हटा  
हुआ Receded, गा० ६२६, पञ्च० १२,  
६३, (२) पलायित Elopod, gone  
away से० १०, २

सम्म न० ( शर्मन् ) सुख Happiness  
हे० १, ३२, कुमा०  
सम्म त्रि० ( सम्पन्च् ) प्रशंसनीय, श्लावनीय  
Praiseworthy, worthy क० ग०  
४, १४, प्रव० ६  
सम्म-ज्ञान न० ( सम्पज्ञान ) सत्य ज्ञान,  
यथार्थ ज्ञान True knowledge सम्म०  
८७, वसु०  
सम्मूइ पु० ( सन्मति ) एक कुलकर पुरुष  
Name of a Kulakara पउम० ३, ६२  
सम्हरित्रि० त्रि० ( सस्मृत ) अच्छी तरह याद  
किया हुआ. Well remembered.  
अच्छु० ३२  
सय अ० ( सदा ) हमेशा, निरन्तर Always,  
forever उव० — काल न० ( काल )  
हमेशा, निरन्तर Always, forever.  
सुपा० ८५  
सयगाह पु० ( स्वयगाह ) ( १ ) जबरदस्ती  
ग्रहण करना Forcibly taken ( २ )  
विवाह विशेष A kind of marriage,  
choice-marrriage. से० १, ३४, ( ३ )  
त्रि० स्वय ग्रहण करने वाला Taking for  
one self (without leave) वव० १  
सयपम. पु० ( स्वयप्रभ ) ( १ ) एक जैन मुनि  
जो मगवान् समवनाथ के पूर्व जन्म में गुरु थे  
Name of a Jaina saint who  
was preceptor of Lord Sam-  
bhavnath in his previous life  
पउम० २०, १७, ( २ ) हार का नाम. Name  
of a necklace पउम० ३६, ४०,  
( ३ ) नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा  
स्थित एक अजन गिरि The mount  
Anjangeri situated in the west  
of the middle part of Nandi-  
shvara Dvipa प्रव० २६६ टी ( ४ )  
एक नगर का नाम Name of a city.

पउम० ७, १४६.

सयपभा स्त्री० ( स्वयप्रभा ) ( १ ) प्रथम वासुदेव  
की पटरानी Name of a crowned  
queen of first Vasudeo पउम० २०,  
१८६, ( २ ) एक रानी का नाम Name of  
a queen उप० १०३१ टी  
सयभरो स्त्री० ( शाकभरी ) देश-विशेष  
Name of a country सुषि० १०८७२.  
सयभुगेहिणी स्त्री० ( स्वयभूगेहिनी ) सरस्वती  
देवी An epithet of goddess Sara-  
svati. अच्छु० २  
सयभू पु० ( स्वयभू ) ( १ ) अनादि सिद्ध  
सर्वज्ञ An eternal omniscient स०  
६४७, उवर० १२२, ( २ ) रावण का एक योद्धा  
A warrior of Ravana पवम० ५६,  
२७, ( ३ ) भगवान् विमलनाथ का प्रथम श्रावक  
The first Shravaka of Lord  
Vimalnatha विचार० ३७८, ( ४ ) कुच,  
स्तन The female breast प्राकृ० ४०.  
सयवरी स्त्री० ( स्वयवरा ) अपनी इच्छानुसार  
वरण करने वाली स्त्री A maiden who  
chooses her own husband पउम०  
१०६, १७  
सयकत न० ( शतकान्त ) ( १ ) रत्न विशेष.  
A kind of jewel ( २ ) त्रि० शतकान्त  
रत्नों से बना हुआ Made of shatkanta  
jewels देवेन्द्र० २६८  
सयगधी स्त्री० ( शतघ्नी ) चक्की, जाना A  
grinding mill दे० ८, ५ टी  
सयज्जल. न० ( शतज्वल ) ( १ ) वरुण का  
बिमान A heavenly car of Varuna  
देवेन्द्र० २७०, ( २ ) रत्न की एक जाति A  
kind of jewel ( ३ ) त्रि० शतज्वल रत्नों  
का बना हुआ Made of satajwala  
jewels देवेन्द्र० २६६  
सयड. पु० न० ( शकट ) ( १ ) गाडी Cart,

vehicle पत्रम० २३, २१, 'सयदो गती'  
 पात्र० (२) न० नगर विशेष Name of a  
 city. पत्रम० ६, २७.  
 सयडामुह न० ( शकटामुह ) उद्यान विशेष,  
 जहा भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न  
 हुआ था. A garden where Lord  
 Rishabhadeo procured omnisci-  
 ence पत्रम० ४, १६  
 सयण न० ( सदन ) अग-म्लानि, शरीर पीडा  
 Corporal pain or trouble राज०  
 सयपर्ई स्त्री ( शतपर्दी ) छुद्र जन्तु की एक  
 जाति. A kind of insect आ० २३  
 सयपीर. न० ( शतपर्वन ) इधु, ऊल Sugar-  
 cane. प्र० १७४ टी  
 सयवाहु. पु० ( शतवाहु ) एक राजपि Name  
 of a royal sage. पत्रम० १०, ७४,  
 सयल न० ( शकल ) खट, टुकड़ा Piece,  
 fragment दे० १, २८  
 सयलभूषण पु० ( सकलभूषण ) एक केवल-  
 ज्ञानी मुनि. Name of an omniscient  
 saint पत्रम० १०२, ६७  
 सयलादेश. पु० ( सकलादेश ) सर्वापेक्षी वाक्य,  
 प्रमाण वाक्य. An authoritative  
 statement अज्क० ६२.  
 सयलि पु० ( शकलिन् ) मीन, मछली  
 Fish दे० ८, ११.  
 सयवत्त न० ( शतपत्र ) पक्षि-विशेष, जिसका  
 दक्षिण दिशा में बोलना अपशकुन माना जाता  
 है A kind of bird, the wood  
 pecker पत्रम० ७, १७.  
 सयसाहस्ति त्रि० ( शतसहस्त्रिन् ) लक्षपति,  
 लक्षाधीश A millionaire. उप० पृ०  
 ३१६.  
 सयहृथिय. त्रि० ( सौवहस्तिक ) (१) स्वहस्त से  
 उत्पन्न. Made by one's own hand  
 (२) शस्त्र-विशेष A kind of weapon.

सिरि० ४२१, ४२२  
 सयहा अ० ( शतधा ) सौ प्रकार से, In a  
 hundred ways. सुर० १४, २४२.  
 सयहुत्त. अ० ( शतहृत्वस् ) सौ बार A hun-  
 dred times हे० २, १६८, प्राप्र० पङ्०.  
 सयाउ. पु० ( शतायुप् ) मदिरा-विशेष A  
 kind of liquor कुप्र० १६०, राज०  
 सयाण. त्रि० ( सज्ञान ) सियाना,  
 Knower, wiseman सुपा० ३८२  
 सयालु त्रि० ( शयालु ) सोने की आदत वाला,  
 आलसी Sleepy, slothful कुमा०  
 सयोगि त्रि० ( सयोगिन् ) (१) न्यापार युक्त  
 योग वाला Engaged, (२) न० तेरहवाँ  
 गुण-स्थानक The thirteenth stage  
 out of fourteen ones of the soul.  
 क० ग० २, ३१  
 सर पु० न० ( शर ) (१) छन्द-विशेष Name  
 of a metre (२) पाच की संख्या. The  
 number 'five'. पिंग०  
 सर पु० ( स्मर ) कामदेव Cupid, God of  
 love कुमा० से० ६, ४३  
 सरक्ख पु० न० ( सद्वरजस् ) मरुम. Ashes.  
 पिंड० ३७, शोध० ३२६.  
 सरण न० ( सरण ) गमन. Going,  
 moving राज०  
 सरणि पु० स्त्री ( सरणि ) (१) मार्ग, रास्ता.  
 Road, way, path. पात्र० सुपा० २;  
 कुप्र० २२. (२) घासपास, ब्यारी. A basin  
 or trench for water ( round the  
 root of a tree ) गडड०  
 सरपणी. स्त्री ( शरपणी ) वृष-विशेष. मुञ्ज  
 की घास. A kind of grass. राज०  
 सरमय पु० व० ( शर्मक ) देश-विशेष Name  
 of a country. पत्रम० ३८, ६६  
 सरय पुं० न० ( सर ) मद्य-पान Drinking  
 of liquor वज्जा० ७४.

सरय. त्रि० (सरत)कामी. Lustful, libidinous. से० १, २७  
 सरलित्र त्रि० (सरलित) सीधा किया हुआ।  
 Made straight कुमा० गडड०.  
 सरसरय्य पु० (सरसारय्य) समुद्र, सागर.  
 Sea से० ६, ४३.  
 सरसिज. य० न० (सरसिज) कमल, पद्म  
 Lotus हम्मीर० ५१, रभा०.  
 सरसिरुह न० (सरसिरुह) कमल, पद्म.  
 Lotus उप० ७२दटी, सम्मत्त० ७६  
 सरसी स्त्री० (सरस) बड़ा तालाब, तडाग  
 Lake उप० पु० ३८, सुपा० ४८५, —रुह न०  
 (रुह) कमल Lotus सम्मत्त० १२०, १३६.  
 सरस्वती स्त्री० (सरस्वती) एक साध्वी जो  
 सुप्रसिद्ध ।चार्य की बहिन थी Name  
 of a female Jaina saint, sister  
 of celebrated Kalkacharya काल०  
 सरह. पु० (शरभ) हरिवंश का एक राजा,  
 Name of a King of Harivansa  
 पद्म० २२, ६८, (२) लक्ष्मण के एक पुत्र का  
 नाम Name of a son of Laksha-  
 mana पद्म० ६१, २०, (३) एक सामन्त  
 नरेश A feudatory or tributary  
 prince पद्म० ८, १३२, (४) एक वानर  
 Monkey से० ४, ६, (५) छन्द-विशेष  
 Name of a metre पिंग०  
 सरहस. त्रि० (सरभस) वेग-युक्त, उतावला  
 speedy, quick गा० ३५४, सुपा० ६३२,  
 कप्प०.  
 सरहा स्त्री० (सरधा) मधु-मक्षिका. Bee  
 दे० २, १००  
 सरहि पु० स्त्री० (शरधि) तूषीर, तीर रखने  
 की वस्तु Quiver. मे० ७०.  
 सराडि स्त्री० (शराडि-टि) पक्षी की एक जाति.  
 A kind of bird गडड०.  
 सरासरि. न० (शरासरि) बाण युद्ध Fight-

ing by allows. सिरि० १०३२.  
 सरि स्त्री० (सरिद्) नदी, River. से० २,  
 २६, सुपा० ३५४, कुप्र० ४३, भत्त० १२३;  
 महा०—नाद. पु० (नाथ) समुद्र Sea.  
 धर्मवि० १०१  
 सरित्र त्रि० (स्मृत) याद किया हुआ.  
 Remembered पद्म० ३०, ५४, सुपा०  
 २२१, ४६२.  
 सरित्र न० (सृतम्) थल, पर्याप्त, वस.  
 Enough sufficiency. रयण० ५०.  
 सरित्रा स्त्री० (सरिद्) नदी River.  
 कुमा० हे० १, १५, महा०—वइ पु० (पति)  
 समुद्र Sea से० ७, ४१, ६, २  
 सरुय-च न० (स्वरूप) स्वभाव Nature.  
 गडड० धर्मस० ६१३, कुमा० भवि० सुर० २,  
 १४२.  
 सरोत्र न० (सरोज) कमल, पद्म Lotus.  
 कुमा० अच्यु० ४२, सुपा० ५६, २११, कुप्र०  
 २६८  
 सरोरुह न० (सरोरुह) कमल, पद्म. Lotus.  
 प्राप्र० कुमा० कुप्र० ३०४  
 सरोवर न० (सरोवर) बड़ा तालाब Lake.  
 सुपा० २६०, महा  
 सलह पु० (शलभ) पतंग. Moth पात्र०  
 गडड० सुपा० १४२, (२) एक बणिक पुत्र.  
 Name of a Bania's son. सुपा०  
 ६१७  
 सलहण न० (श्लाघन) प्रशंसा, श्लाघा.  
 Praise गा० ११४, पि० १३२  
 सलहित्र. त्रि० (श्लाघित) श्लाघित, प्रशंसित.  
 Praised. कुमा०  
 सलागापुरिस पु० (शलाकापुरिष) २४ जिन-  
 देव, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव,  
 तथा ६ बलदेव ये ६३ महापुरुष Sixty-  
 three distinguished persons viz-  
 24 Jinadeos, 12 Chakravartis, 9



Vasudeos, 9 Prativasudcos, and  
9 Baladoos सयो० ११

सलाहण न० (शलाघन) शलाघा, प्रशमा  
Praise. गा० ११४, उप० पृ० १०६

सलाहा स्त्री० (शलाघा) प्रशमा Praise  
प्राप्त० हे० २, १०१, प३,

सलिलावत्त न० (सलिलानवतं) वैताड्य पर्वत  
पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याधर नगर  
A Vidyadhar city situated in  
the north on the mount Vaita-  
dhya इ००

सलिलुच्छ्रय त्रि० (सलिलोच्छ्रय) प्लावित,  
डुबोया हुआ, Moistened, wetted  
पात्र०

सल्लूण त्रि० (सल्लण्य) लावण्ययुक्त Love-  
ly, beautiful, charming सुपा० २६३

सल्लोग त्रि० (सल्लोक) समान, सदृश Like,  
resembling, similar. सट्टि० २१ टी

सल्लु. पु० (शल्य) भरत के साथ दीबा लेने  
वाला एक राजा Name of a king in-  
tiated with Bharata प३म० ८२, २,  
छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सल्लु स्त्री० (शल्या) एक महौषधि A  
particular medicine ती०५

सल्लिअ त्रि० (शल्यित) शल्य पीडित  
Afflicted by a thorn सुर० १२, १५२,  
सुपा० २२७, महा० भवि०

सल्लेहिय त्रि० (सलेहित) क्षीण Em-  
aciated, diminished, become lean.  
आरा० ३६

सव पु० (श्रवस्)(१)कान Ear (२) ख्याति,  
Reputation, celebrity. 1enown.  
'सवोमूत्रो' प्राप्त०

सव न० (शय) शय, सुर्दा, मृत शरीर,  
Corpse, dead body पात्र० स० ७६३,  
सण०

सवन्ती स्त्री० (सवन्ती) नदी, River  
उप० १०३० टी०

सवर्गीय त्रि० (स्वर्गीय) स्वर्ग सवन्धी.  
Heavenly, celestial divine हास्य  
१३०

सवण न० (शपन) आह्वान Challenge  
विशे० २२२७

सवण. न० (सवण) कर्मों में प्रेरणा.  
Impolling one to acts राज०

सवण त्रि० (सवर्ण) समान वर्ण वाला.  
Of the same colour प३म० २, ३१.

सवण न० (सावर्ण्य) समान वर्णता.  
Sameness of colour प्रयो० २०.

सवत्त त्रि० (सपल) (१) विरुद्ध Con-  
trary opposite औष० २७६, (२)

समान, तुल्य Same, like, similar  
कुम० २, ११६

सवह. पु० (शपथ) (१) अक्रोश बचन,  
गाली Abusive language देवेन्द्र० ३१,  
(२) दिव्य, दोषारोप की शुद्धि के लिए  
क्रिया जाने वाला अग्नि प्रवेश आदि An  
ordeal प३म० १०१, ७

सवास. त्रि० (सवास) एक देश का रहनेवाला  
An inhabitant of the same  
country पासू० ७६,

सविअ त्रि० (शप्त) शाप ग्रस्त, आक्रुष्ट  
Cursed दे० १, १३, पात्र०

सवितु पु० (सवितृ) (१) सूर्य, रवि The  
sun औष० ६६७, (२) हस्त नक्षत्र Name  
of the 13th lunar mansion con-  
sisting of five stars

सविन्ध त्रि० (सापेक्ष) अपेक्षा रखने वाला.  
Having regard to, dependent on,  
सम्मत० ७६

सविह न० (सविध) निकट Proximity,  
vicinity पात्र०

सन्ध त्रि० (सन्ध) वाम, बाया Left उप०  
पृ० १३०

सन्धश्रोमद् त्रि० ( सर्वतोभद्र ) सब प्रकार से  
सुखी Entirely happy (२) न० सब  
प्रकार से सुख Complete happiness.  
पच्० १, (३) चक्र विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान  
का साधक भूत एक चक्र A kind of  
verse artificially arranged ति० ६  
(४) पु० यज्ञ की एक जाति A class of  
semi-gods राज०

सन्धकल त्रि० (सर्वकथ) सर्वांतशायी, सर्व से  
विशिष्ट All powerful कप्पू० (२) न०  
पाप Sin श्राव०

सन्धकामा स्त्री० ( सर्वकामा ) विद्या-विशेष,  
जिसकी साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होता हैं  
A particular magical skill पदम०  
७, १०७

सन्धगुप्त पु० ( सर्वगुप्त ) एक जैन मुनि  
Name of a Jaina saint पदम०  
२०, १६

सन्धज्ञ त्रि० ( सर्वज्ञ ) ( १ ) सर्व पदार्थों  
का जानकार, Omniscient ( २ ) जिन  
भगवान् An epithet of Jinadeo  
(३) बुद्धदेव Budhadeo. (४) महादेव  
Mahadeo (५) परमेश्वर God हे० २,  
८३, पद्

सन्धसिद्धा स्त्री० ( सर्वार्थसिद्धा ) भगवान्  
धर्मनाथजी की दीक्षा-शिषिका A palan-  
quin of Lord Dharmnath at  
the time of his initiation, विचार०  
१२६

सन्धधत्ता स्त्री० ( सर्वधत्ता ) व्यापक, सर्व-  
ग्राहक. All pervading विशेष० ३४६१,  
सन्धया श्र० ( सर्वदा ) हमेशा, सदा Al-  
ways रभा०

सन्धरी स्त्री० ( शर्वरी ) रात्रि, रात Night

पाश्र्च गा० ६२३, सुपा० ४६१

सन्धवेकल त्रि० ( सन्धपेच ) दूसरे की परवा  
रखने वाला, सापेच Connected with,  
dependent on धर्मस० ११६७

सन्धस्स न० ( सर्वस्य ) सकल द्रव्य, सब धन.  
Every thing स० ४२६, अग्नि० ४०,  
कप्पू०

सन्धारुहा स्त्री० ( सर्वारुहा ) विद्या-विशेष.  
A particular magical skill पदम०  
७, १४४

सन्धासण. पु० ( सर्वाशन ) अग्नि, श्राव.  
Fine हे० ४, ३६५

सन्धिवर त्रि० (सन्धिवर) विवरण-युक्त, सविस्तार.  
Detailed. सुपा० ३६४

सन्धध पु० ( शशाचिह्न ) चन्द्रमा. The  
moon गउड०

सन्धक. पु० ( शशाह्न ) नृप-विशेष Name  
of a king पदम० ५, ४३, ८५, २

सन्धधम्म पु० ( शशाकधर्म ) विद्याधर वंश  
का एक राजा. A king of Vidyadhar  
lineage. पदम० ५, ४४.

सन्धवेयण. न० ( स्वसवेदन ) स्वप्रत्यक्ष ज्ञान  
Ocular evidence धर्मस० ४४

सन्ध पु० ( श्वसन ) ( १ ) वायु, पवन.  
Wind (२) न० निश्वास Sighing राज०

सन्धरकल पु० ( सरजलक-सरक ) बौद्ध मत का  
यादि A Bauddha saint. सुख० १८,  
३३, महा०.

सन्ध पु० ( शशिन ) एक विद्यार्थी का नाम.  
Name of a student पदम० ५, ६४;  
( २ ) चन्द्र नाडी, वाम नाडी The left  
vein सिरि० ३६१, (३) एक देव विमान.  
A particular celestial car देवेन्द्र०  
१४३ ( ४ ) छन्द-विशेष Name of a  
metre पिंग० ( ५ ) एक राजा का नाम.  
Name of a king उव०

ससिञ्ज. न० ( श्वसित ) श्वास, सास  
Breathing, respiration से० १२, ३२.  
ससिञ्जत पु० (शशिकान्त) चन्द्रकान्त मणि  
The moon-stone (supposed to  
ooze away under the influence  
of the moon). अ० १८  
ससित्थ न० (ससिक्थ) आटा आदि से लिप्त  
हाथ या वर्तन आदि का धोवन, Wash-  
water of the hand or a vessel  
smeared by flour etc पडि०  
ससिपम पु० (शशिप्रभ) (१) आठवें जिन  
देव, भगवान् चन्द्रमभ The eighth Jin-  
deo, Lord Chandraprabha (२)  
इक्ष्वाकु वंश का एक राजा Name of a  
king of Ikshvaka family प० २५  
ससिपहा स्त्री० (शशिप्रभा) एक रानी,  
कर्पूरमजरी की माता Name of a queen,  
mother of Karpurmanjari. क० ५०  
ससिमणि. पु० स्त्री० (शशिमणि) चन्द्रकान्त  
मणि The moon-stone से० ४, ६७.  
ससिवेग पु० (शशिवेग) एक राजकुमार  
Name of a prince उप० १०३१ टी०  
ससूग त्रि० (ससूक) दयालु Kind, merci-  
ful व०  
ससोग-ससोगिल्ल त्रि० (सशोक) दिख-  
गीर, शोक-युक्त. Sorry, grieved प० ५  
६३, ४, सुर० ६, १२४.  
सस्त. त्रि० (शस्य) प्रशसनीय, श्लाघ्य  
Praiseworthy सुपा० ३२  
सस्तवण त्रि० (सश्रवण) सकण, निपुण  
Clever, shrewd skilful सुपा० ६४५.  
सस्तिय पु० (शस्तिक) कृषक, किसान  
Ploughman, राज०  
सस्तू स्त्री० (श्वश्रू) सास, पति या पत्नी  
की माता Mother-in-law प्रा० ३६,  
शिरि० ३५५

सह पु० (सह) (१) युगलियोंकी एक जाति  
A tribe of Jugalia इ० राज० (२)  
युगपत्, एक साथ Simultaneously,  
all together राज०  
सहकार पु (सहकार) साथ मिल कर काम  
करना Co-operating (२) मदद, साहाय्य.  
Help, co-operation हे० १, १७७  
सहकारि त्रि० (सहकारिन्) कारण विशेष.  
(In Nyaya) A particular cause.  
विशे० ११६८, श्रावक० २०६  
सहचरण न० (सहचरण) सहचर, साथ  
रहना, मिलाप Accompanying, go-  
ing or living with श्रु० ८४  
सहडामुह न० (शकटामुह) वैताल्य की  
उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर  
A Vidyadhar city situated in  
the north of the mount Vait-  
adhya इ०  
सहदेव पु० (सहदेव) एक पाण्डव, माद्री-  
पुत्र Name of the youngest of  
the five Pandavas धर्मवि० ८१  
सहदेवा स्त्री० (सहदेवा) श्रौपथि विशेष.  
A kind of medicine धर्मवि० ८१  
सहदेवी त्रि० (सहदेवी) एक महौषधि A  
kind of medicine ती० ५  
सहधर्मआरिणी स्त्री० (सहधर्मचारिणी)  
पत्नी, भार्या Lawful wife, one  
legally married प्रति० २२  
सहयार. त्रि० (सहचर) (१) साहाय्य करने  
वाला Helper. (२) वयस्य, दोस्त  
Friend, companion (३) अनुचर-  
Servant पा० २, अ० ६०  
सहर पु० स्त्री० (शफर) मत्स्य, मछली.  
Fish पा० ग० उ०  
सहराग त्रि० (सहराग) राग सहित, Full  
of passion प० १४, ३४.

सहस्र. त्रि० ( सहस्र ) ( १ ) हजार की संख्या वाला Consisting of a thousand जी० २७, अ० ३, १ टी, प्रासू० ४, कुमा० ( २ ) प्रचुर, बहुत Much, excessive कल्प० श्रावण० हे० २, १६८ — किरण पु० ( किरण ) ( १ ) सूर्य, रवि The sun समस्त० ७६, सुपा० ३७, ( २ ) एक राजा Name of a king. पञ्च० १०, ३४ — ष्यय्य पु० ( नयन ) ( १ ) इन्द्र An epithet of Indra उव० हर्गोर० २०, महा० ( २ ) एक विद्याधर राजकुमार A Vidya-dhar prince पञ्च० २, ६७ — शिर त्रि० ( शिरस् ) ( १ ) बहुत मस्तक वाला Having many heads ( २ ) विष्णु An epithet of Vishnu हे० २, १६८ सहस्रकक्ष पु० ( सहस्राक्ष ) ( १ ) इन्द्र An epithet of Indra सुपा० १३०, ( २ ) रावण का एक योद्धा A warrior of Ravana पञ्च० २६, २६, ( ३ ) छन्द-विशेष Name of a metrie विंग० सहस्रसि अ० ( सहस्रेति ) अकस्मात्, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त Suddenly, all at once पाञ्च० प्राक्ठ० ८१ सहस्रसती अ० ( सहस्रशस् ) हजार हजार, अनेक हजार. By Thousands आ० १२ सहस्रसहा अ० ( सहस्रधा ) सहस्र प्रकार से In a thousand parts, a thousand-fold सुपा० २३ सहस्रसदृत्त अ० ( सहस्रकृत्यत् ) हजार बार Thousand times प्राप्त० हे० २, १२८ सहस्रा इ त्रि० ( साहाय्यिन् ) साहाय्य-कर्ता Helper. तिरि० १७, सुपा० २६३. सहायवाद पु० ( स्वभाववाद ) स्वभाव से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाला मत The doctrine that the universe was produced and is sustained

by the natural and necessary action of substances according to their inherent properties. उ० १०३

सहासय त्रि० ( सभासद ) सन्ध, सदस्य. Assessor पाञ्च० स० ३८२

सहिअ त्रि० ( सोढ ) सहन किया हुआ. Endured, suffered. से० २, २४, धात्वा० १२२

सहिअ न० ( स्वहित ) ( १ ) निज का मला, स्वीय भलाई One's own good or advantage, one's own well-fare ( २ ) निज का भला करने वाला स्व-हितकर Beneficial to oneself सुपा० ४१०

सहिअ पु० ( सभिक ) धूत-कारक, जुआ खेलने वाला. Gambler दे० ६, ४२, पाञ्च० सुपा० ४८८

सहिअ-सहिअय. त्रि० ( सहदय ) ( १ ) सुन्दर चित्त वाला Good-hearted, compassionate. ( २ ) परिपक्व बुद्धि वाला. Highly cultivated, very sharp or shrewd हे० १, २६३, दे० १, १, कण० २२१.

सहिपहु-सहिर त्रि० ( सहिष्णु ) सहन करने की श्रद्धा वाला. Able to bear or endure, capable of enduring राज० पि० २६६

सहेल त्रि० ( सहेल ) श्रान्तायस होने वाला, सरल Easy, comfortable प्रवि० १२

सहोअर त्रि० ( सहोअर ) तुल्य, सदृश. Similar, like से० ६, ४

सहोअरी की० ( सहोदरी ) सगी बहिन Sister राज०

सहोसिअ त्रि० ( सहोषित ) एक स्थान वाली. Residing in the same place दे० १, १४६

साञ्जडिदत्र. त्रि० ( कृष्ट ) सींचा हुआ.

Attracted, drawn कुमा० ७, ३१  
 साइ न० (साचि) (१) सेमल का पेड़, शाकम्-  
 ली वृक्ष The silk-cotton tree. (२)  
 सस्थान-विशेष Name of a colony or  
 settlement. जीव० १ टी०  
 साइ पु० (सादित्र) घुड़सवार Horseman.  
 उप० ७२८ टी  
 साइ पु० स्त्री० (साति) सातिशय द्रव्य,  
 अपेक्षा-कृत अच्छी चीज. A good thing  
 in comparison. राज० ११४  
 —जोग. पु० (योग) अच्छी चीज में हीन  
 चीज की मिलावट Mixture of a bad  
 thing with good one राय० ११४ टी०  
 साइज्जणया स्त्री० (स्वादान) उपभोग, सेवा  
 Tasting enjoying डा० ३, ३ टी  
 साइज्जिअ. त्रि० (स्वादित) उपभुक्त Tasted,  
 enjoyed कल्प०  
 साइसय. त्रि० (सात्तिशय) अतिशय वाला  
 Influential, a magnetic person-  
 ality महा० सुपा० ३६७  
 साडज्ज. न० (सायुज्य) सहयोग, साहाय्य  
 Help, support अच्यु० ६४  
 साडणिय त्रि० (शाकुनिक) शाकुन शास्त्र का  
 जानकार Knowing omens सुपा०  
 २६७, कुप० ५  
 साडल. त्रि० (सकुल) व्याप्त, भरपूर Thio-  
 nged with, crowded with, full  
 of सुर० १०, १८६  
 साडलय. त्रि० (साकुलक) आकुलता युक्त,  
 व्याकुल, व्यग्र. Bewildered, perplex-  
 ed पडम० १०२, १६७  
 सातवण न० (शान्तपन) द्रत विशेष A kind  
 of rigid penance प्रबो० ७३  
 साकेय. त्रि० (साकेत) (१) गृहस्थ सम्बन्धी.  
 Relating to a householder (२)  
 न० त्व-विशेष A particular

vow प्रब० ४.

साकेय त्रि० (साकेत) (१) सकेत का, सकेत  
 सम्बन्धी Symbolical, indicatory.  
 (२) न० प्रत्याख्यानका एक भेद A variety  
 of vow प्रब० ४  
 सागय न० (स्वागत) (१) प्रशस्त आगमन.  
 Happy arrival मग० (२) कुशल.  
 Welfare, happy condition कुमा०  
 सागर. पु० (सागर) (१) एक राजपुत्र.  
 Name of a prince उप० ६३७, (२)  
 एक व्यापारी. Trades, merchant उप०  
 ६४८ टी०  
 सागरचन्द पु० (सागरचन्द्र) (१) एक जैन  
 आचार्य Name of a Jaina Acharya.  
 काल० (२) एक व्यक्तिवाचक नाम Name  
 of an individual. उप० पडि० राज०  
 सागरदत्त पु० (सागरदत्त) हरिषेण चक्रवर्ती  
 का एक पुत्र A son of Harisena  
 Chakravarti महा० ४४  
 सागरद्वह पु० (सागरद्वह) सैन्य की रचना  
 विशेष A kind of arrangement of  
 an army महा०  
 साडण न० (शादन) (१) विधरण, विनाश.  
 Destruction विशेष० ३३१६, स०  
 ११६, (२) छेदन Cutting, tearing.  
 सूयनि ७२  
 साडिअ त्रि० (शादित) सडकर गिराया हुआ,  
 विनाशित Destroyed सुर० १५, ३, दे०  
 ७, ८  
 साण पु० (शबान) छन्द विशेष Name of  
 a metre पिंग०  
 साण त्रि० (शबान) निविड, घनीभूत.  
 Thick, dense. गा० ६८२  
 साण पु० (शाण-न) शस्त्र को घिस कर तीक्ष्ण  
 करनेका यन्त्र Whetstone गडड० रना०  
 साणु पु० न० (सानु) पर्वत का समान

भूमि वाला प्रदेश A level ground on the top of a mountain पात्र० सुर० ७, २१४, स० ३६२, मत पु० ( मत् ) पर्वत Mountain उप० १०३१ टी

साणुप्पग. न० ( साणुप्रग ) प्रात काल, प्रभात समय. The dawn, day-break. वृह० १

साणुलट्टिया स्त्री० ( साणुयष्टिका ) ग्राम-विशेष Name of a city राज०

साद पु० ( साद ) श्रवसाद, खेद Exhaustion, weariness. दे० १, १६८

सादिच्च. त्रि० ( सदैव ) देवता-प्रयुक्त, देवकृत Done by god प्रव० २६८

साम पु० न० ( सामन् ) (१) मियवाक्य Conciliatory or gentle words कुमा० महा० १४, (२) एक वेद शास्त्र The samaveda कप्प० (३) मैत्री, मित्रता Friendship विशेष० ३४८१, (४) शर्करा आदि मिष्ट वस्तु Sweet thing e. g. sugar etc आब० १. (५) सामायिक, रुयम-विशेष Samayaka, right conduct, abandoning all sinful acts सबोध० ४२, आब० १

सामइअ त्रि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी प्रतीक्षा की गई हो Waited for, expected कुमा०

सामइअ-ग. पु० ( सामयिक ) (१) एक गृहस्थ का नाम Name of a householder सूयनि० १२१, (२) बौद्ध विद्वान् A Buddhist learned man दसनि० ४, ३२

सामइगि. त्रि० ( सामायिकिन् ) सामायिक वाला One observing samayaka विशेष० २७१६

सामत पु० ( सामन्त ) (१) अधीन राजा A feudatory or tributary prince महा० काल० (२) अपने देश के अनन्तर देश

का राजा, समीप देश का राजा. A neighbouring king कप्प०.

सामगिअ. त्रि० ( श्लिष्ट ) आलिङ्गित. Embraced. कुमा०.

सामग्गी स्त्री० ( सामग्री ) (१) समस्तता Perfection, completeness, Fidelity (२) कारण-समूह Collection of elements सम्मत्त० २२४, महा० कप्प० रभा०

सामच्छ न० ( सामर्थ्य ) समर्थता, शक्ति. Power, ability, strength. हे० २, २२, कुमा०

सामज्ज. न० ( साम्राज्य ) सार्वभौमराज्य, बड़ा राज्य Universal sovereignty, empire उप० ३५७ टी०

सामण्य पु० ( सामान्य ) (१) वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ. ( In Vaishashika philo ) A general proposition धर्मस० २२६

सामल पु० ( श्यामल ) एक वणिग् Name of a bania सुपा० ५२५

सामलइअ त्रि० ( श्यामलित ) काला किया हुआ Darkened, blackened से० ८, ६६

सामलय त्रि० ( श्यामलक ) (१) काला Black, dark (२) काले पानी वाला Black watered. से० १, २६, (३) पु० वनस्पति विशेष A sacred fig-tree राज

सामला स्त्री० ( श्यामला ) (१) कृष्ण वर्ण वाली स्त्री Black woman (२) सोलह वर्ष की स्त्री, श्यामा. A kind of woman of sixteen years वज्जा० ११०, सामा. स्त्री० ( श्यामा ) (१) एक महौषधि A particular medicine ती० ५; (२) लता विशेष, सोम लता Name of a creeper (३) सोमलता The soma

oreepeer. से० १, २६, ( ४ ) सुन्दर  
 स्त्री, रमणी Beautiful woman से०  
 १, २६, गडड, ( ५ ) यमुना नदी. Name of  
 the Yamuna ( ६ ) नील का पेड़ The  
 indigo plant ( ७ ) गुग्गल का पेड़.  
 The fragrant gum tree ( ८ ) गुडूची,  
 गला A throat ( ९ ) अम्बिका An  
 epithet of Ambika ( १० ) कस्तूरी  
 Musk ( ११ ) वन्दा की लता A parti-  
 cular plant ( १२ ) पिप्पली का पेड़  
 The pippala tree. ( १३ ) हरिद्रा, हल्दी  
 Turmeric ( १४ ) तुलसी. The holy  
 basil ( १५ ) पद्म बीज, The seed of  
 the lotus ( १६ ) गौ, गैया A cow.  
 ( १७ ) छाया Shade, shadow ( १८ )  
 शिथिला, सीसम का पेड़ A particular  
 tree ( १९ ) पत्नी-विशेष The female  
 cuckoo. हे० १, २६०

सामादत्र त्रि० ( श्यामायित ) रात्रि सदृश  
 Night-like गा० २६०

सामाशिय. त्रि० (सामानिक) सनिहित, निकट-  
 वर्ती, नजदीक में स्थित Neighbouring,  
 lying close. Proximate विशेष० २६७६

सामायारि त्रि० ( सामाचारिन् ) आचरण  
 करने वाला Practising, observing  
 उव०

सामिञ्च त्रि० ( शमित ) शान्त किया हुआ  
 Appeased, soothed, calmed  
 सुपा० ३२

सामिद्धि स्त्री ( समृद्धि ) ( १ ) अति संपत्ति  
 Wealth, riches ( २ ) वृद्धि Great  
 growth, increase प्राप्० हे० १, ४४,  
 कुमा०

सामिपुर न० ( स्वामिपुर ) नगर-विशेष Name  
 of a city. उप० २६७ टी.

सामीर. त्रि० ( सामीर ) समीर—वायु-संबन्धी

Relating to the wind गडड०  
 सामुद्ध्य न० (सामुद्रक) छन्द-विशेष Name  
 of a metre स्यनि० १३६

सामुद्दित्र न० (सामुद्रिक) ( १ ) शास्त्र विशेष,  
 शरीरके चिन्हों का शुभाशुभ फल बतलाने वाला  
 शास्त्र Palmistry interpreting  
 the various marks on the body,  
 the science of palmistry प्रा० १२;  
 ( २ ) शरीर का रेखा आदि चिन्ह A sign  
 on a body सबोध० ४२, ( ३ ) त्रि०  
 सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता One who is  
 acquainted with palmistry.  
 कुम० ५

साय पु० (स्वाद) रस का अनुभव, Tasting.  
 विशेष० ७६६, पडम० ३३, १०, उप० ७६८ टी.

सायतण न० ( सायतन ) सन्ध्या समय का.  
 Belonging to the evening विक्र० १६.

सायकुम्भ न० (शातकुम्भ) ( १ ) सुवर्ण, सोना.  
 Gold ( २ ) सुवर्ण का बना हुआ Made  
 of gold, golden. सुपा० २०१

सायग पु० (सायक) बाण, तीर Arrow.  
 सुपा० ६२१

सायत्त त्रि० ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र.  
 Self-dependent, independent.  
 स० २७६

सायर, पु० (सागर) ( १ ) मृग-विशेष A kind  
 of deer ( २ ) सख्या-विशेष The num-  
 ber 'four' or 'seven' प्राप्० ( ३ ) एक  
 सेठ का नाम. Name of a wealthy-  
 man. सुपा० २८०

सायर त्रि० (सादर) आदर युक्त Honour-  
 able, respectable गडड० सुर० २४२.

सायरघोस पु० (सागरघोष) एक जैन मुनि  
 जो आठवें बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे.  
 Name of a Jaina saint, who was  
 a preceptor of the eighth Bal-

adeo in his previous life पउम०  
२०, १६३.

सायरभद्. पु० ( सागरभद्र ) इच्चाकुवश का  
एक राजा A king of Ikshvaku  
family. पउम० ५, ४.

सायवाहण पु० ( सातवाहन ) एक प्रसिद्ध  
राजा Name of a king. काल०

सार त्रि० ( शार ) (१) शबल, चितकवरा  
Variegated, specked पाञ्च० गउड०

३७८, ५३०, (२) पु० सार, पासा खेलने के  
लिये काठ आदि का चौपहलू रंग विरगा साचा

A piece used at chess सुपा० १५४

सार पु० न० ( सार ) (१) धन, दौलत  
Wealth, riches. पाञ्च० से० २, १, २६,

मुद्रा० २६७, (२) बल, पराक्रम Strength,  
vigour. पाञ्च० से० ३, २७, (३) परमार्थ,

Real truth, main point आयानि०  
२३६, (४) प्रकृति Excellence, eminence,

आयानि० २४, (५) फल Fruit आयानि०  
२४१, (६) परिणाम Result ठा० ४, ४टी,

( ७ ) एक देव विमान Celestial car  
देवेन्द्र० १४३ ( ८ ) स्थिर अश. Firmness

से० ३, २७, गउड० (६) छन्द-विशेष Name  
of a metre पिंग०

सारंग पु० (सारङ्ग) (१) सिंह, मृगेन्द्र Lion  
सुर० १, ११, सुपा० ३४८, (२) चातक पक्षी

Name of a bird which is sup-  
posed to live only on rain-drops

पाञ्च० से० ६, ८२, (३) हरिण, मृग Deer  
से० ६, ८२, कप्पू—(४) हाथी Elephant

(५) अमर Large black bee ( ६ )  
छत्र Parasol, umbrella ( ७ ) राजहल

Flamings ( ८ ) चित्र-मृग, चितकवरा  
हरिण The spotted deer, anti-  
lope ( ९ ) वाद्य विशेष A kind of  
musical instrument (१०) शंख. A

conch-shell (११) मयूर Peacock.

(१२) धनुष Bow (१३) केश Hair.

(१४) आभरण, अलंकार Ornament.

(१५) वस्त्र Garment. (१६) पद्म,

कमल Lotus (१७) चन्दन. Sandal,

(१८) कपूर. Camphor (१९) फूल.

Flower (२०) कौयल Cuckoo (२१)

मेघ Cloud. सुपा० ३४८.

सारंग, त्रि० (शाङ्ग) (१) सींग का बना हुआ.

Made of horn, horny (२) न०

धनुष Bow, (३) अदरक, आदा, green-

ginger हे० २, १००, प्राप्र०—(४) विष्णु

का धनुष The bow of Vishnu. हे०

२, १००, सुपा० ३४८, —पाणि पु० (पाणि)

विष्णु An epithet of Vishnu माह्ण०

२७

सारंगि पु० (शाङ्गिन्) विष्णु, श्रीकृष्ण. An

epithet of Vishnu कुमा०

सारंगिक-सारंगिका स्त्री० (सारङ्गिका) छन्द-

विशेष Name of a metre पिंग०

सारंगी स्त्री० ( सारङ्गी ) हरिणी Female

deer पाञ्च०

सारङ्गणया स्त्री० (सरङ्गण) सम्यग् रक्षण.

Protection. defence पि० ७६

सारङ्गि त्रि० ( सरङ्गिन् ) सरङ्गण-कर्ता.

Protecting, defending. पि० ७६

सारण पु० ( सारण ) (१) रावणाधीन एक

सामन्त राजा A tributary king to

Ravana पउम० ८, १३३, (२) रावण

का मन्त्री Name of a Ravan's

minister से० १२, ६४—(३) रावण

का एक सुभट A warrior of Ravana.

से० १४, १३, ( ४ ) न० ले जाना.

Conveying, Carrying श्रोत्र० ४४८.

सारणा स्त्री० ( स्मारणा ) याद दिलाया.

Reminding, causing to reme-



umber सुर० १५, २४८, विचार० २३८, काल०.

सारणि-णी. स्त्री० ( सारणि-णी ) (१) आल-वाल, न्यारी A water-course. धण० २६, कुप्र० ५८, (२) परंपरा An uninterrupted series, succession सम्मत्त० ७७

सारमेअ पु० ( सारमेय ) श्वान, कुत्ता Dog उप० ७६८ टी, कुप्र० ३६३, सम्मत्त १८६, प्राप्० १५८

सारमेई स्त्री० ( सारमेयी ) कुतिया, शुनी Bitch सुर० १४, १५५

सारय त्रि० ( सारक ) (१) श्रेष्ठ करने वाला Excelling से० ३, ४८, (२) साधक, सिद्ध करने वाला. Accomplishing कप्प० से० ६, ४०

सारय त्रि० ( सार ) सार देने वाला. Giving strength. से० ६, ४०

सारया. स्त्री० ( शारदा ) सरस्वती देवी An epithet of Sarasvati सम्मत्त १४०

सारवई. स्त्री० ( सारवती ) छन्द विशेष Name of a metre पिंग

सारस पु० ( सारस ) छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सारसी स्त्री० ( सारसी ) (१) मादा सारस-पक्षी The female crane (२) छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सारह न० ( सारध ) मधु, शहद Honey पात्र० दे० ८, २७

सारि स्त्री० ( शारि ) (१) पक्षी-विशेष, मैना A kind of bird गा० ५५२, (२) पास खेलने का रंग-विरंगा साचा A kind of die गा० १३८, (३) युद्ध के लिये गज-पर्याय An elephant's housings टे० ७, ६१, भवि०.

सारिअ त्रि० ( सारिक ) सार वाला Sub-

stantial, धा० १८.

सारिअ. त्रि० ( सारित ) चिपकाया हुआ, सील किया हुआ Sealed. सम्मत्त० २२६

सारिआ-सारिइआ. स्त्री० ( सारिका ) मैना, पक्षी-विशेष. A kind of bird गा० ५८६, पात्र० दे० ८, २४

सारिस-सारिस्स न० ( सादश्य ) समानता, सरोखाई. Likeness, resemblance, similarity राज० नाट—रत्ना० ७६.

सारोहि. त्रि० ( सरोहिन् ) सरोहण कर्ता. Life-restoring पि० ७६

साल पु० ( साल-शाल ) (१) एक राजा Name of a king पदि० (२) पक्षि-विशेष A kind of bird पयह० १, १ टी

साल न० ( शाला ) घर, गृह House सुपा० ३८४

सालकदलाण पु० ( शालकद्वया ) वृक्ष-विशेष. A kind of tree भग० ८, ३ टी०

सालवाहण. पु० ( सालवाहन ) एक सुप्रसिद्ध राजा Name of a celebrated king.

विचार० ५३१, हे० १, २११, प्राप० पि० २४४; पद्० कुमा०

साला स्त्री० ( शाला ) छन्द-विशेष Name of a metre. पिंग०

सालिआ स्त्री० ( शालिका ) घर का कमरा. A room of a house कप्प०

सालिणिआ-सालिणी स्त्री० ( शालिनिका-नी ) (१) शोभने वाली A shining female अत्रि० २६, (२) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

सालिभजिया स्त्री० ( शालिभजिका ) पुतली Doll, puppet पडम० १६, ३७.

सालिय त्रि० ( शालमलिक ) शात्मलिक वृक्ष का, सेमल पेड़ का Relating to the silk-cotton tree त्त्तनि० ३

सालिवाहण पु० ( शालिवाहन ) एक सुप्रसिद्ध

राज Name of a celebrated king सम्मत् १३७.  
 सालिसिन्धु पु० ( शालिसिन्धु ) मत्स्य-विशेष.  
 A kind of fish आरा० ६३.  
 साली स्त्री० ( श्याली ) साली, भार्या की बहिन.  
 Sister-in-law. दे० ६, १४८.  
 साव. पुं० ( शाव ) शपथ, सौमन्ध Oath, swearing प्राप्त० हे० १, २३१  
 साव पुं० ( शाव ) बालक, बच्चा Child, infant. समु० १२६, प्रा० ८५  
 सावक. न० ( सापत्न्य ) सपत्नीपन, सौत्तिनपन  
 The state or condition of a rival wife कुप्र० २२५  
 सावक त्रि० ( सापत्न ) सौतेली मा की सतान  
 Born from a rival mother ( step-mother ) धर्मवि० ४७  
 सावका स्त्री० ( सपत्नी ) सौतेली मा, विमाता  
 Step-mother धर्मवि० ४७  
 सावण न० ( श्रावण ) (१) सुनाना Causing to hear उप० ७२८ टी, सुपा० २८८, (२) श्रवणेंद्रिय सबन्धी, श्रावण प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय Relating to the ear धर्मसं० १२८१  
 सावणा स्त्री० ( श्रावणा ) सुनाना Causing to hear कुप्र० ६०  
 सावस्त्रिगा स्त्री० ( श्रावस्त्रिका ) एक जैन मुनि-शाखा A branch of Jaina saints कप्र०  
 सावय पु० ( शावक ) बालक, बच्चा, Child, infant नाट०  
 सावसेस त्रि० ( सावशेष ) अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ Having a remainder उव०  
 साविकल त्रि० ( सापेक्ष ) अपेक्षा-युक्त, अपेक्षा वाला Having regard to, dependent on आ० १, सबोध० ४१.

सावित्री स्त्री० ( सावित्री ) ब्रह्मा की पत्नी.  
 A wife of Brahma. उप० ५२७ टी;  
 कुप्र० ४०३.  
 साविह पु० ( श्वाविध् ) श्वापद पशु-विशेष,  
 साही A kind of animal दे० २, २०;  
 ८, १५.  
 सास पु० न० ( शस्य-सस्य ) (१) क्षेत्र-गत धान्य.  
 Coin, grain सं० १३१, (२) वृक्ष आदि का फल. A fruit of any plant or tree (३) त्रि० वध-योग्य To be killed or slain. हे० १, ४३  
 सासण न० ( शासन ) प्रतिपादन Ex-  
 plaining, expounding उप० पृ० ३७४;  
 (२) शिक्षा, सीख Advice, instruction.  
 (३) मास, निर्वाह-साधन A means of maintenance कुलक० २३.—देवी स्त्री०  
 ( देवी ) शासन की अधिष्ठात्री देवी A presiding deity of Jaina doctrine.  
 कुमा० —सुरा. स्त्री० ( सुरी ) देखो उपरोक्त  
 अर्थ Vide above पचा० ८, ३२.  
 सासणावण न० ( शासन ) आज्ञापन Com-  
 manding, ordering सं० ४६३  
 सासुर न० ( श्रासुर ) शसुर-गृह House  
 of a father-in-law सुर० ८, १२४  
 सासूय त्रि० ( सासूय ) असूया-युक्त, मत्सरी.  
 Envious, jealous, disdainful.  
 सुर० ३, १२७, उप० ७२८ टी,  
 साहय त्रि० ( शासक, कथक ) कहने वाला.  
 Teller, sayer सुर० १२, ३०, सं० ३६१.  
 साहट्टिअ त्रि० ( सवृत ) समेटा हुआ, सहत  
 किया हुआ, पिंडीकृत Collected, heap-  
 ed कुमा०  
 साहट्ट त्रि० ( सहट्ट ) पुलकित With the  
 hair erect, thrilled with joy राज०  
 साहण न० ( साधन ) लश्कर Army,  
 force कुमा० सुर० १०, १२१

- साहरिअ त्रि० ( सवृत ) सवरण-युक्त  
Contracted, compressed. कुमा०  
पात्र०
- साहव न० ( साधव ) साधुता, साधुपन  
Good conduct, saintness प३म०  
१, ६०
- साहव्य. न० ( स्वाभाव्य ) स्वभावता, स्वभाव-  
पन. Naturalty, naturalism  
धर्मस० ६६
- साहस पु० ( साहम ) एक विद्याधर नरेन्द्र  
A Vidyadhari king प३म० ४७, ४७
- साहसगइ पु० ( साहसगति ) एक विद्याधर  
नरेन्द्र Name of a Vidyadhari king  
प३म० ४७, ४६, महा
- साहसि त्रि० ( साहसिन् ) साहस-कर्म करने  
वाला, साहसिक Bold, daring, ad-  
venturous, enterprising उप० ७२८  
टी, किशन० १४
- साहस्स त्रि० ( साहस ) (१) जिसका मूल्य  
हजारमुद्रा (रुपया आदि) हो वह वस्तु Cost-  
ing a thousand rupees or coins  
दसनि० ३, १३, उव० महा० (२) हजार के  
परिमाणु वाला Consisting of a thou-  
sand जीवस० १८६, (३) न० हजार  
Thousand जीवस० १८६
- साहस्समल्ल पु० ( साहसमल्ल ) व्यक्ति  
वाचक नाम Name of an individual.  
उव०.
- साहस्सिसय पु० ( साहसिक ) हजार यादमी  
के साथ लड़ने वाला मल्ल A wrestler  
wrestling with a hundred men  
राज०
- साहा स्त्री० ( शाखा ) (१) याचार्य की सत्ति  
में उत्पन्न असुक मुनि की सन्तान-परम्परा,  
अवान्तर सत्ति Descendants of a  
single Rishies family, or of the
- same family कप्प० (२) वेद का एक  
देश, सुख० ४, ६.
- साहार-ल त्रि० ( शाखावत् ) शाखा वाला,  
शाखा-युक्त Having branches धम०  
१२ टी, सुपा० ४७४, (२) वृक्ष, पेड़ Tree-  
सुपा० ६३८
- साहार. पु० ( सहकार ) आम का पेड़ Man-  
go tree वज्जा० १३०, सुपा० ६३८.
- साहार पु० ( सदाधार सहकार ) अच्छा  
आधार, सहारा, अवलम्बन, सहायता, मदद,  
उपकार Help, support उप०  
पुष्प० २२६, योग० ६८३, स० ४२६, वज्जा०  
१३०, सख०
- साहार त्रि० ( साहकार ) आम के पेड़ से  
उत्पन्न, आम वृक्ष सवन्धी Relating to  
a mango tree कप्प०
- साहारण न० ( सहरण ) सकोचन, समेटन.  
Contracting विये० ३०६३.
- साहारिअ त्रि० ( सधारित ) ठीक तरह धारण  
किया हुआ Well held भवि०
- साहि. पु० ( शासिन् ) वृक्ष, पेड़ Tree  
पात्र० सख० उप० पु० १६३
- साहिअ त्रि० ( स्वाहित ) स्वहित से विरुद्ध,  
निज का अहित Not beneficial to  
oneself. सुपा० २७६
- साहित्त न० ( साहित्य ) अलंकार शास्त्र The  
science and art of rhetoric,  
poetics सुपा० १०३, ४६३
- साहिर त्रि० ( शासितृ कथयितृ ) शासन करने  
वाला Commanding, ordering.  
गउड०
- साहुई स्त्री० ( साध्वी ) (१) स्त्री-साधु, श्रमणी,  
यतिनी A female saint (२) सती-स्त्री  
A virtuous or chaste woman.  
(३) अच्छी A good female प्राकृ० २८  
साहुकम्म न० ( साधुकर्मन् ) तप-विशेष,

निर्विकृतिक तप A kind of religious  
austerity संबोध० १८

साहुकार. पु० (साधुकार) धन्यवाद, साधुवाद,  
प्रशंसा Praise, a city of apprecia-  
tion वेणी० ११४, टा० ४, ४ टी, पउम०  
२६, २३, से० १३, १६, महा० भवि० विक्र० १०६.

सिञ्ज. त्रि० (शित) तीक्ष्ण धार वाला.  
Sharpened, whetted सुपा० ४७५

सिञ्जवर पु० (श्वेताम्बर) जैनों का एक  
सम्प्रदाय, श्वेताम्बर जैन Name of an  
offshoot of Jains, Swetambar  
Jaina सुपा० ६२८

सिञ्जकिरण पु० (सितकिरण) चन्द्र, चाद  
Moon उप० १३३ टी

सिञ्जगिरि. पु० (सितगिरि) वैताल्य पर्वत  
की उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर  
A Vidyadhar city situated on  
the north of the mount Vaita-  
dhya इक०

सिञ्जज्ज्ञाण न० (सितध्यान) सर्व श्रेष्ठ ध्यान,  
शुक्ल ध्यान The best or excellent  
meditation सुपा० १

सिञ्जवड पु० (सितपट) पाल, जहाज का  
बादवान. A cloth curtain of a ship  
उप० ७२८ टी

सिञ्जवास. त्रि० (सितवासस्) श्वेताम्बर जैन  
Swetambar Jaina. ती० १५

सिञ्जा. अ० (स्यात्) (१) प्रशंसा, श्लाघा.  
Praise (२) अस्तित्व, सत्ता Exist-  
ence (३) सशय, सदेह. Doubt (४)  
प्रश्न. Question (५) अवधारण निश्चय  
Determination (६) विवाद Discus-  
sion (७) विचारण Consideration,  
thought हे० २, १०७

सिञ्जा स्त्री० (सिता) (१) लेख्या विशेष,  
-लेख्या White thought-tint

पव० १५२, (२) द्राक्षा आदि का समूह  
A collection of grapes etc राज०.  
सिञ्जाल पु० (शृगाल) (१) दैत्य-विशेष  
Name of a demon. (२) वासुदेव  
An epithet of Vasudeo (३) त्रि०  
निष्ठुर Hard-hearted (४) खल, दुर्जन  
Wicked. हे० १, १२८, प्राप्र०.

सिञ्जाली स्त्री० (शृगाली) गीदड़ी. Female  
jackal, fox नाट०

सिञ्जालीस स्त्री० न० (पट्चत्वारिंशत्)  
छयालीस, चालीस और छह Fourty-six  
विशे० ३४६ टी.

सिञ्जाचाइ. पु० (स्याद्वादिन्) जिन देव,  
अर्हन् देव Jinadeo कुमा०

सिञ्जाचाय. पु० (स्याद्वाद) अनेकान्त दर्शन,  
जैन दर्शन Jain-philosophy. हे० २,  
१०७, चड० पड्०

सिञ्जासिञ्ज पु० (सितासित) (१) बलभद्र,  
बलराम. An epithet of Balabhadra  
(२) श्वेत और कृष्ण. White and  
black प्राप्र०

सिइ पु० (शिति) (१) हरा वर्ण The  
black colour (२) त्रि० हरे वर्ण वाला.  
Black —पावरण पु० (प्रावरण) बलराम,  
बलभद्र. An epithet of Balarama  
कुमा०

सिपञ्जर त्रि० (सितेतर) कृष्ण, काला.  
Black पाश्च०

सिंग. न० (शुद्ध) लगगातर छन्वीस दिनों का  
उपवास Twenty-six fasts at a  
time संबोध० १८

सिंगायाइय न० (शुद्धनादित) प्रधान काज.  
The main work पचभा० ३,

सिंगार पु० (शुद्धार) (१) लवङ्ग, लोंग.  
Cloves (२) सिन्दूर Red-lead (३)  
चूर्ण, चून A fragrant powder.

(४) काला अग्रह. Agallochum (५) आर्द्रक, आदा Undried ginger  
 सिंगारि त्रि० ( शृङ्गारिन् ) शृंगार करने वाला, शोभा करने वाला, Amorous सिरि० ८४४.  
 सिंगारिअ. त्रि० ( शृङ्गारित ) सजाया हुआ Adorned, decorated सिरि० १२८  
 सिंगिया स्त्री० ( शृङ्गिका ) पानी छिड़कने का पात्र-विशेष, पिचकारी Syringe सुपा० ३२८.  
 सिंचाविअ त्रि० ( सेचित ) छिड़कवाया हुआ Sprinkled उप० १०३१ टी, स० २८०, २४६.  
 सिंचिअ. त्रि० ( सित्त ) सींचा हुआ, छिड़का हुआ Sprinkled कुमा०  
 सिजण् न० ( शिञ्जन ) (१) अस्पष्ट शब्द, भूषण की आवाज Tinkling or jungling sound especially of ornaments (२) अस्पष्ट आवाज करने वाला Tinkling, rattling सुपा० ४  
 सिजा. स्त्री० ( शिञ्जा ) भूषण का शब्द Jangling sound of ornaments कप्प० प्राप्०  
 सिजिणी. स्त्री० ( शिञ्जिनी ) धनुर्गुण्य, धनुष की डोरी A bow string गा० २४  
 सिजिय न० ( शिञ्जित ) अन्वक्त आवाज Tinkling, jungling, उप० १०३१ टी, कप्प०  
 सिजिर त्रि० ( शिञ्जितृ ) अस्फुट आवाज करने वाला Tinkling, jungling पाथ०  
 सिंदूर पु० ( सिन्दूर ) वृक्ष-विशेष A kind of tree हे० १, ८२, सजि० ३  
 सिंदूरिअ त्रि० ( सिन्दूरित ) सिन्दूर युक्त किया हुआ Marked with redlead. गा० ३००.  
 सिंधव पु० ( सैन्धव ) घोड़ा. Horse हे० १, १४६

सिंधविया स्त्री० ( सैन्धविका ) लिपि-विशेष. A particular alphabet विशेष० ४६४ टी  
 सिंधु स्त्री० ( सिन्धु ) (१) सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी Apresiding goddess of the Indus (२) पु० समुद्र, सागर. Sea पात्र० कुप्र० २२, सुपा० १, २६४.  
 (३) द्वीप विशेष A particular island.  
 (४) पद्म विशेष A kind of lotus  
 सिंधुगाद. न० ( सिन्धुनद ) नगर-विशेष Name of a city पठम० ८, १६८  
 सिंधुदेवीकूड पु० ( सिन्धुदेवीकूट ) बुद्र हिमवत पर्वत का एक शिखर. A summit of the mount Kshudra Himavanta  
 सिंधुर. पु० ( सिन्धुर ) हस्ती, हाथी. Elephant. सुपा० ८३, सम्मत्त० १८७, कुमा०  
 सिवल पु० ( शाहमल ) सेमल का गाछ The silk cotton tree रभा० २०  
 सिवा स्त्री० ( शिम्बा ) फली, छिमी Pod, legume पात्र०  
 सिमि त्रि० ( श्लेष्मिन् ) श्लेष्म-युक्त, श्लेष्म-रोगी Phlegmatic सुपा० २७६  
 सिंह पु० ( सिंह ) मृग-राज, केसरी Lion. प्रात्सू० १२४, १६६, (२) एक राजकुमार. Name of a prince उप० ६८६ टी.  
 (३) एक राजा Name of a king. रथ्य० २६ (४) भगवान महावीर का एक शिष्य, मुनि विशेष A pupil of Lord Mahavira राज० (५) व्रत विशेष, त्रिविधाहार की सल्लेखना-परित्याग A particular vow सर्वोच० २८  
 सिंहउर न० ( सिंहपुर ) पंजाब देश का एक प्राचीन नगर An ancient city of the Punjab. भदि०  
 सिंहकेसर. पु० ( सिंहकेसर ) एक प्रकार का

उत्तम लड्डू A kind of good sweet-  
balls उप० २११ टी

सिंहदत्त. पु० (सिंहदत्त) (१) व्यक्ति वाचक  
नाम. Name of an individual (२)  
त्रि० सिंह ने दिया हुआ Given by a  
lion हे० १, ६२

सिंहदुवार न० (सिंहद्वार) राज द्वार The  
main or principal gate मोह० १०३  
सिंहावलोक. पु० (सिंहावलोक) (१) सिंह की  
तरह पीछे देखना, A glance (back-  
ward) of a lion (२) छन्द-विशेष  
Name of a metre पिंग०

सिंहिणी स्त्री० (सिंहिनी) छन्द-विशेष. Name  
of a metre पिंग०

सिंहीभूय न० (सिंहीभूत) व्रते विशेष,  
चतुर्विध आहार की सल्लेखन परित्याग. A  
particular vow सबोध० १८

सिक्क. पु० (सूक्क) होठ का अन्त भाग  
Corner of the limb दे० १, २८

सिक्करा स्त्री (शर्करा) खट, टुकड़ा Piece,  
fragment. सं० ३६३

सिक्करिअ न० (सीकृत) अनुराग से उत्पन्न  
आवाज A sound made with affec-  
tion. गा० ३६२.

सिक्कार पु० (सीक्कार) (१) अनुराग की  
आवाज. A sound of affection गा०  
७२१, भवि० सय० (२) हाथी की चिन्ता-  
हट. The roaring of an elephant.  
यमि० १६

सिक्किआ. स्त्री० (सिक्क्या-सिक्किया) रस्सी की  
बनी हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में आती  
है A loop or string made of  
rope. सिरि ४२४

सिक्खण न० (सिक्खण) (१) अभ्यास, पाठ  
Learning (२) सीख. उपदेश कुम० २५०  
Instruction सर० ८, १५ (३) अध्या

पन, पाठन Teaching सिरि० ७८१  
सिक्खवअ त्रि० (सिक्ख) शिक्षा देने वाला.  
पढ़ाने वाला, शिक्षक Teacher प्राकृ०  
६१०

सिक्खा स्त्री० (सिक्खा) सजा, दण्ड Punish-  
ment, sentence कुम० ११०

सिक्खाण न० (सिक्खाण) आचार सम्बन्धी  
उपदेश देने वाला शास्त्र A scripture  
relating to conduct कप्प०

सिक्खावण न० (सिक्खाण) सिखाना, सीख,  
हितोपदेश Advice, instruction  
सुख० २, १६, प्राकृ० ६१, कप्पू०

सिक्खाणा स्त्री० (सिक्खाणा) देखो 'सिक्खावण'  
शब्द Vide 'सिक्खावण' सूयति० १२७,  
उप० १५० टो०

सिक्खर त्रि० (सिक्खितृ) सीखने की आदत  
वाला, अभ्यासी. Pupil, scholar गा०  
६६१

सिखा स्त्री० (सिखा) छन्द-विशेष Name  
of a metre पिंग०

सिग्गु पु० (सिग्गु) वृक्ष विशेष, सहिजना का  
पेड़ A kind of tree दे० ६, २०, पाय०

सिचय पु० (सिचय) वस्त्र, कपड़ा Gal-  
ment पाय० गा० २६१, कुम० ४३३

सिच्छा स्त्री० (स्वेच्छा) स्वच्छन्द. Self-will,  
own inclination सुपा० ३१६

सिज्जावाली स्त्री० (शय्यापाली) विछौना का  
काम करने वाली दासी A female bed-  
servant सुपा० ६४१

सिज्जिर त्रि० (स्पेतु) जिसको पसीना हुआ  
करता हो वह, पसीना वाला, Sweated.  
perspired. ४०७, ४०८, ७७४, कुमा०

सिज्जमणया-सिद्धमणया स्त्री० (सेधना) (१)  
सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण Final em-  
ancipation उप० १३१, ७६६, प्रव० ४,  
धर्मवि० १५१, विशे० ३०३७ (२) निष्पत्ति,

साधना Accomplishing. रयण० ४६.  
 सिद्ध. त्रि० ( श्रेष्ठ ) अति उत्तम. Most-  
 excellent, pre-eminent उप० ८७६.  
 सिद्ध. त्रि० ( सृष्ट ) (१) रचित, निर्मित  
 Created उप० ७२८ टी, रभा० (२) युक्त  
 Joined, united. (३) निश्चित De-  
 termined (४) भूषित Decorated  
 (५) बहुल, प्रचुर Much, Excessive  
 (६) त्यक्त Abandoned हे० १, १२८  
 सिद्धाचार पु० (शिष्टाचार) भलमनसी, सदा-  
 चार Good morals or conduct  
 धर्म० १  
 सिद्धि. स्त्री० ( सृष्टि ) (१) विश्व-निर्माण,  
 जगद्-रचना The creation of the  
 world सुपा० १११. महा० (२) निर्माण  
 रचना Creation. (३) स्वभाव Natu-  
 ra. (४) जिसका निर्माण होता हो. Any-  
 thing created हे० १, १२८ (५)  
 सीधा क्रम, अविपरीत क्रम Serial order  
 सिरि० ८७८  
 सिद्धिलाविभ्र. त्रि० ( शिथिलित ) शिथिल  
 कराया हुआ Relaxed, loosened.  
 प्राकृ० ६१.  
 सिंयाउ. पु० ( स्नायु ) नाडी विशेष, चायु  
 चहन करने वाली नाडी, Tendon, sinew  
 प्राकृ० २८  
 सिग्धि स्त्री० ( सृष्टि ) प्रकृश Look, good  
 सुपा० ४३७, सिरि० १०२८  
 सिग्धिद्ध. त्रि० ( स्नायु ) (१) प्रीति-युक्त  
 Loving Affectionate स्वप्न० २३,  
 प्रासू० ६२; (२) आर्द्र, रस-युक्त Green,  
 juicy (३) मत्स्य, कोमल. Delicate,  
 tender. कुमा० (४) भात का माद Boiled  
 water of rice. हे० २, १०६ प्राप०  
 सिग्धिदालु त्रि० ( स्नेहवत् ) स्नेह-वाला.  
 Affectionate, loving स० ७६३.

सिग्धि त्रि० (स्निग्ध) स्वेद-युक्त. Sweated,  
 perspired गा० २४४  
 सिग्धि. पु० न० ( शिभ्र ) पुश्चिद्ध, पुरुष-लिंग.  
 The penis, The male organ of  
 generation प्रास० दे० ४, २  
 सिग्धि-सिग्धि. न० ( सिग्धि ) (१) मोम.  
 Wax. दे० १, २२, पाश्र्व० उप० ७२८ टी०  
 (२) औषधि-विशेष, नीली, नील A kind  
 of medicine हे० २, ७७  
 सिद्ध. त्रि० (सिद्ध) (१) प्रतिष्ठित, जन्म-प्रतिष्ठ.  
 Installed, inaugurated चेद्दय० ६७६;  
 नम्म० १, (२) निश्चित, निर्णयित Determined.  
 सम्म० १, (३) विख्यात, प्रसिद्ध. Celebrated,  
 famous चेद्दय० ६८०,  
 (४) शब्द-विशेष, साध्य विलक्षण शब्द.  
 A particular word भास० ८६, (५)  
 सावित किया हुआ Proved, demons-  
 trated (६) प्रतीत, ज्ञान. Known (७)  
 लगातार पन्द्रह दिनों का उपवास Fifteen  
 fasts at a time सन्धे० २८ (८)  
 विद्या, मन्त्र, कर्म, शिल्प आदि में पुर्यात प्राप्त  
 की हो A semi-divine being  
 supported to be of great purity  
 and holiness and said to be  
 particularly characterized by  
 eight supernatural faculties.  
 विशे० ३०२८, (९) समय-परिमाण विशेष,  
 स्तोत्र विशेष A particular measure  
 of time. कप्प०  
 सिद्धचक्र पु० न० (सिद्धाक्षर) 'नमो अरि-  
 हताय' यह वाक्य. A sentence 'नमो  
 अरिहताय' भवि०  
 सिद्धचक्र न० ( सिद्धचक्र ) अर्हत् आदि नव  
 पद A collection of nine words.  
 सिरि० ३४.  
 सिद्धत्थ. त्रि० ( सिद्धार्थ ) कृतकृत्य. One

who has accomplished his desired object पडम० ७२, ११, (२) एक जैन मुनि जो नवमें बलदेव के गुरु थे. A Jaina saint, piceceptor of ninth Baladeo पडम० २०, २०६. (३) भगवान महावीर के कान से कील निकालने वाला एक वशिक् Name of a bania who drawn out a nail from the ear of Lord Mahavira चैद्वय० ३३, (४) अर्ध विशेष A demi-god आक० पाटलिसड नगर का एक राजा A king of Patalikhanda. विवा १, ७

सिद्धत्थपुर. न० ( सिद्धार्थपुर ) अग देश का एक प्राचीन नगर An ancient city of Angadesa सुर० २, ६८

सिद्धत्था, स्त्री० ( सिद्धार्था ) एक विद्या. A particular medical skill. पडम० ७, १४५

सिद्धपुत्त पुं० ( सिद्धपुत्र ) जैन साधु और अहस्थ के बीच की अवस्था वाला पुरुष Worldly man, a man leading a middle course of life as difren-tiated with one of a Jain sadhu & a worldly man सबोध० ३१, निसी० चू० १

सिद्धय पु० ( सिद्धक ) वृक्ष विशेष, सिद्धवार वृक्ष समहानु का गाड़ A kind of tree. (२) शाकवृक्ष A kind of tree. हे० १, १८७

सिद्धसेण. पु० ( सिद्धसेन ) एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन महाकवि और तार्किक आचार्य An an-cient celebrated Jain poet and philosopher सम्मत्त० १४१

सिद्धसेल पुं० ( सिद्धसैल ) शत्रुञ्जय पर्वत The mount Shatrunjaya सुख० १, ३.

सिद्धहेम. न० ( सिद्धहैम ) आचार्य हेमचन्द्र विरचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ The cele-brated grammar by Acharya Hemchandra मोह० २.

सिद्धि स्त्री० ( सिद्धि ) ( १ ) निष्पत्ति. Perfection, completion उव० (२) सबन्ध Relation दसनि० १, १२२ (३) छन्द-विशेष Name of a metre. पिंग०. सिद्धिपुर न० ( सिद्धिपुर ) नगर विशेष. Name of a city. कुप्र० २२.

सिप्पा स्त्री० ( सिप्पा ) नदी विशेष, जो उज्जैन के पास से गुजरती है A river near Ujjain स० २६३, उप० पृ० २१८; कुप्र० ५०

सिमा स्त्री० ( शिफा ) वृक्ष का जटाकार मूल. Fibrous root हे० १, २३६

सिम स० ( सिम ) सर्व, सब. All, whole. प्रामा०

सिर. न० ( शिरस् ) ( १ ) प्रधान, श्रेष्ठ. Chief, principal, head ( २ ) अग्र-भाग Front, foremost. हे० १, ३२.

सिरक. न० ( शिरस्क ) शिरस्त्राण, मस्तक का कवच Helment दे० ५, ३१, कुमा० कुप्र० २६२.

सिरहर न० ( शिरोगृह ) मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला A room on the top of a house हे० ३, ४६.

सिरा स्त्री० ( शिरा-सिरा ) धारा, प्रवाह. Flow, course, current कुमा० उप० पृ० ३६६.

सिरिञ्ज पुं० ( श्रीक-श्रीयक ) स्थूलभद्र का छोटा भाई और नन्द राजा का एक मन्त्री. Name of a younger brother of Sthulabhadrā and minister of king Nanda. पदि०.

सिरिञ्ज. न० ( स्वैर्य ) स्वच्छन्दता Wan-tonness मै० ७३.



- सिरिउर न० (श्रीपुर) नगर विशेष Name of a city उप० १२०
- सिरिकठ पु० (श्रीकठ) (१) शिव, महादेव Shiva, Mahadeo कुमा० (२) वानर द्वीप का एक राजा A king of Vanardvipa पउम० ६, ३.
- सिरिकांता स्त्री० (श्रीकान्ता) (१) एक राज-पत्नी Name of a queen पउम० ८, १८७, (२) एक राज कन्या Name of a princess महा०
- सिरिकरण्य न० (श्रीकरण) (१) न्यायालय, न्याय-मन्दिर Court of justice (२) फैसला Decision सुपा० ३६१.
- सिरिखड न० (श्रीखड) चन्दन, Sandal-wood सुर० २, ५६, कप्प०
- सिरिगीव पु० (श्रीगीव) राक्षस वंश का एक राजा, एक लकापति A king of the Demon family पउम० ५, २६१
- सिरिचंद्र पु० (श्रीचन्द्र) आठवें बलदेव का पूर्वभवीय नाम, Name of the previous life of the eighth Baladeo पउम० २०, १६१
- सिरिचंदा स्त्री० (श्रीचन्द्रा) एक राज-पत्नी. Name of a queen कप्प०
- सिरिण्यर न० (श्रीनगर) वैताड्य की दक्षिण श्रेणिका का एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city situated in the South of the Vaitadhya mountain इक०
- सिरिणिकेतण न० (श्रीनिकेतन) वैताड्य की उत्तर श्रेणिका में स्थित एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city situated in the North of the Vaitadhya mountain इक०
- सिरिणिलय न० (श्रीनिलय) वैताड्य पर्वत की दक्षिण में स्थित एक नगर A city situated in the South of the
- mount Vaitadhya. इक०
- सिरिणिहुवय पु० (श्रीकामक) विष्णु, श्रीकृष्ण An epithet of Vishnu. Shree Krishna. कुमा०
- सिरिताली स्त्री० (श्रीताली) वृक्ष विशेष A kind of tree कप्प०
- सिरिदाम. न० (श्रीदामन्) (१) शोभा वाली माला A beautiful garland (२) आभरण विशेष A particular ornament आचम०
- सिरिदेवी स्त्री० (श्रीदेवी) देवी विशेष A particular goddess राज० (२) लक्ष्मी An epithet of Lakshmi धर्मवि० १४७
- सिरिदेवीनदण पु० (श्रीदेवीनन्दन) कामदेव. Cupid, god of love धर्मवि० १४७
- सिरिनदण पु० (श्रीनन्दन) कामदेव Cupid, god of love (२) त्रि० श्री से समृद्ध Wealthy, 110h सुपा० २३४, धम्म० १३ टी०
- सिरिनिलय पु (श्रीनिलय) वासुदेव An epithet of Vasudeo, पउम० ३८, ३०
- सिरिपट्ट पु० (श्रीपट्ट) नगर शेरार्ई का सूचक एक राज-चिह्न A royal symbol indicating leading personage in a town सुपा० २८३
- सिरिपव्वय पु० (श्रीपर्वत) पर्वत विशेष Name of a mountain वजा० ६८.
- सिरिपह पु० (श्रीप्रभ) एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार A celebrated Jaina Acharya and author धर्मवि० १५२
- सिरिफल पु० (श्रीफल) विश्व वृक्ष A kind of tree कुमा०
- सिरिमई स्त्री० (श्रीमती) (१) इन्द्र नामक विद्याधर राज की एक पत्नी A wife of Vidyadhar-king named Indra. पउम० ६, ३, (२) एक राज पत्नी Name

of a queen महा० (३) एक सार्थवाह कन्या. A daughter of a trader महा०

सिरिमगल पु० (श्रीमङ्गल) दक्षिण भारत का एक देश A region in the Deccan of India उप० ७६८ टी

सिरियत त्रि० (श्रीमत्) (१) शोभा वाला, शोभायुक्त Beautiful कुमा० (२) पु० तिलक वृक्ष The Tilaka tree (३) अश्वत्थ वृक्ष The Asvattha tree

(४) विष्णु An epithet of Vishnu (५) शिव, महादेव. Shiva, Mahadeo (६) खान, कुत्ता. Dog. हे० २, १५६, षड्०

सिरिमलय न० (श्रीमलय) वैताड्य की दक्षिण श्रेणी में स्थित एक नगर A Vidyadhar city situated in the deccan of the mount Vaitadhyia इक०.

सिरिमाल पु० (श्रीमाल) एक प्रसिद्ध वंश A particular lineage कुम० १४३

सिरिमालपुर न० (श्रीमालपुर) एक नगर. Name of a city ती० १५

सिरिवइ पु० (श्रीपति) श्रीकृष्ण, वासुदेव An epithet of Shree Krishna. सम्मत्त० ७५.

सिरिवद्धण पु० (श्रीवर्धन) एक राजा Name of a king पवम० ५, २६

सिरिवय पु० (श्रीवद) पक्षि-विशेष Name of a bird दे० १, ६७, ८, ५२ टी

सिरिल पु० (श्रीरीप) (१) वृक्ष-विशेष, सिरसा का पेड़. Name of a tree सम० १५२, हे० १, १०१, (२) न० सिरसा का फूल Flower of the Snsa tree कुमा०

सिरिसिचय पु० (श्रीसिचय) ऐरवत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिनदेव Name of the second Jinadeo born in Airvata Kshetra प्रव० ७

सिरिलेण पु० (श्रीपेण) एक राजा. Name of a king उप० ६८६ टी.

सिरिलेण पु० (श्रीयौल) हनुमान An epithet of Hanuman. पवम० १७, १२०

सिरिहर पु० (श्रीधर) वासुदेव An epithet of Vasudeo पवम० ४७, ४६, पड्०.

सिरिहर त्रि० (श्रीहर) श्री को हरण करने वाला One who carries off Lakshami कुमा०

सिरिहल न० (श्रीफल) विल्व फल The Bilva fruit पाञ्च०

सिरि, ली० (श्री) (१) लक्ष्मी, कमला. Lakshmi, the goddess of wealth.

पाञ्च० कुमा० (२) देव-प्रतिमा-विशेष. A particular idol नाया० १, १ टी, (३) भगवान कुन्थुनाथ जी की माता का नाम.

Name of the mother of Lord Kunthunatha प्रव० ११, (४) एक श्रेष्ठ कन्या Name of a daughter of a noble man कुम० १५२, (५) एक श्रेष्ठ-पत्नी A noble wife कुम० २२१,

(६) देव गुरु आदि के नाम के पूर्व में लगाया जाता आदर सूचक शब्द The word श्री is often used as an honorific prefix to the names of deities and eminent persons. प्रव० ७, कुमा०

पि० ६८, (७) वाणी Speech (८) वेप रचना Decoration (९) धर्म आदि पुरुषार्थ The three objects of human existence taken collectively.

(१०) प्रकार, भेद Kind, variety. (११) बुद्धि, मति Intellect, (१२) अधिकार Understanding, right.

(१३) कीर्ति, यश. Fame, rener/n. (१४) सिद्धि Accomplishment (१५)

वृद्धि Increase (१६) विभूति Plenty, magnificence (१७) जवङ्ग, लोंग Cloves. (१८) सरल वृक्ष The Sarala tree. (१९) पिल्व-वृक्ष The Bilva tree (२०) औषधि विशेष A particular medicine (२१) कमल, पद्म Lotus हे० २, १०४.

सिरोमणि पु० ( शिरोमणि ) प्रधान, अग्रणी, मुख्य Leader chief 'अलससिरोमणि' गा० ६७०, सुपा० ३०१, प्रासू० २७.

सिलाइच्च. पु० ( शिलाटिल्य ) वल्लभीपुर का एक प्रसिद्ध राजा A celebrated king of Vallabhīpura ती० १२

सिलाजउ पु० न० ( शिलाजतु ) शिलाजित, पर्वतों से उरपन्न होने वाला द्रव्य-विशेष, जो दवा के काम में आता है, शिलारस Bitumen, a mineral pitch वप० ७२८ टी, धर्मवि० १४१

सिलाहा स्त्री० ( रलाधा ) प्रशंसा Praise. मै० ८८

सिलिंध पु० ( शिलीन्ध्र ) पर्वत-विशेष. Name of a mountain स० २२२, —निलय पु० (निलय) पर्वत-विशेष. Name of a mountain स० ४२४

सिलिट्ट. त्रि० ( शिलट्ट ) (१) सगत, सुयुक्त Appropriate, proper (२) आलिङ्गित Embraced (३) श्लेषालंकार युक्त Involving a pun, susceptible of a double interpretation हे० २, १०६, प्राप्०

सिलिम्ह पु० स्त्री० ( श्लेप्मन् ) श्लेप्मा, कफ Phlegm. हे० २, २६, १०६, पि० १३६

सिलिवइ त्रि० ( श्लीपदिन् ) श्लीपट नामक रोग वाला. Having a disease of elephantiasis वृह० १

सिलीमुह पु० ( शिलीमुख ) (१) बाण, तीर.

Arrow. पाश्र्व० सुर० ६. १४, (२) रावण का एक योद्धा A warrior of Ravana पउम० १६, ३६

सिलेच्छिय पु० ( शिलैच्छिक ) मत्स्य-विशेष A kind of fish. जीव० १ टी.

सिलेस पु० ( श्लेष ) (१) आलिङ्गन, भेट. Embrace सुर० १६, २४३ (२) ससर्ग. Contact (३) दाह Fire हे० २, १०६, पद्म० (४) एक शब्दालंकार Pun, palon-omasia, double entendre सुर० १, ३६, १६, २४३

सिलहग. न० ( सिल्हक ) गन्ध-द्रव्य विशेष. Benzoin, incense राज०

सिव. पु० ( शिव ) (१) जिनदेव, तीर्थंकर, अर्हन् Jinadeo, Tirthankara पउम० १०६, १२ (२) एक देव विमान. A celestial car. देवेन्द्र० १४३, (३) छन्द विशेष. Name of a metre पिंग०

सिवकर पु० ( शिवकर ) पाचवें केशव का पिता. The father of the fifth Keshav पउम० २०, १८२.

सिवक-य पु० ( शिवक ) (१) घड़ा तयार होने के पूर्व की एक अवस्था A state in the process of moulding the pitches विशेष० २३१६, (२) वेलन्धर नागराज का एक आवास पर्वत. A residing mount of Velandhara Nagaraja इक०

सिवकर न० ( शिवकर ) (१) शैलेशी अवस्था की प्राप्ति Acquisition of the state of shaaleshi (२) मुक्ति, मार्ग. The path of salvation सूर्यनि० ११८.

सिवतित्य न० ( शिवतीर्थ ) काशी, बनारस Kashi, Benaras हे० ४, ४४२

सिवरत्ति स्त्री० ( शिवरात्रि ) माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि. The fourteenth

day of the dark half of Magha  
सष्टि० ७८ टी०

सिवा. स्त्री० ( शिवा ) शृगाली, मादा-सियार  
Female jackal वज्जा० ११८.

सिविया स्त्री० ( शिविका ) सुखासन, पालकी,  
डोली Palanquin, litter कप्प० महा०

सिविर न० ( शिविर ) ( १ ) सैन्य-निवास-  
स्थान, छावनी. Camp कुमा० (२) सैन्य  
सेना, बलकर Army, force. सुपा० ६.

सिविविअ त्रि० (स्यूत) सिया हुआ. Sewn.  
प्रव० ६२

सिसिर. त्रि० ( शिशिर ) (१) ठंडा, शीतल  
Cold, frigid. पात्र० उप० ७६८ टी, (२)

हलका Light, not heavy उप० ७६८  
टी, (३) हिम Dew, hoar-frost उप०

६८६ टी, —किरण पु० (किरण) चन्द्रमा  
The moon धर्मवि० २, —महीहर पु०

( महीधर ) हिमालय पर्वत. The mount  
Himalayas उप० ६८६ टी

सिसु पु० न० ( शिशु ) बालक, बच्चा  
Infant, child सुपा० १८८, सम्मत०

१२२, कुम० १७३, —आल पु० ( काल )  
बाल्य, बाल-काल, Childhood नाट-चैत०

३७

सिहड पु० ( शिखरड ) शिखा, चोटी. Lock  
of hairs पात्र० अभि० १११

सिहडि. पु० ( शिखण्डिन् ) (१) मयूर-पक्षी,  
मोर Peacock पात्र० उप० ७२८ टी,

(२) विष्णु Name of Vishnu सुपा०  
१४२

सिहर. न० ( शिखर ) लगातार अठाईस दिनों  
के उपवास Twenty-eight fasts at  
a time सनोष० १८.

सिहाल त्रि० ( शिखावत् ) शिखा वाला,  
शिखा युक्त Crested गडड०

सिहि पु० ( शिखिन् ) (१) रावण का एक

सुभट A warrior of Ravana. पउम०  
१६, ३०, (२) पर्वत A mountain.

(३) ब्राह्मण Brahmana (४) मुर्गा.  
Cock (५) केतु ग्रह Name of Ketu,

a planet (६) वृक्ष Tree. (७) अश्व.  
Horse (८) चित्रक वृक्ष The chit-

raka tree (९) मयूरशिखा वृक्ष. The  
Mayushikha tree (१०) बकरे का

रोम Han of a goat

सिद्धिअ त्रि० ( स्पृहित ) अभिलषित Desi-  
red, wished

सिद्धिणी. स्त्री० ( शिखिनी ) छन्द-विशेष.  
Name of a metre पिंग०

सीअ पु० ( शीत ) (१) प्रथम नरक का एक  
नरक-स्थान. An abode of the first

hell. देवेन्द्र० ४, (२) न० तप-विशेष, आर्य-  
विलतप Religious austerity. सबोध०

१८.—आलोअअ पु० ( आलोकक ) (१)  
चन्द्रमा The moon. (२) शीतकाल,

हिम ऋतु Cold season, winter. से०  
३, ४७ —घर न० (गृह) चक्रवर्ती का वर्षिक

निर्मित वह घर, जहा सर्व ऋतु में स्पर्श की  
अनुकूलता होती है A kind of a house

made by a carpenter of chakra-  
varti which is favourable in all  
the seasons. वव० ३

सीअण न ( सदन ) हैरानी सम्मत० ११६

सीअर पु० ( शीकर ) वायु, पवन Wind,  
Air हे० १, १८४, प्राक० ८४

सीअरि त्रि० ( शीकरिन् ) शीकर-युक्त Ha-  
ving drops. गडड०

सीइय त्रि० ( सन्न ) खिन्न, परिश्रान्त  
Exhausted, fatigued स० ८२

सीमन्ना स्त्री० ( सीमा ) (१) मर्यादा  
Boundry, limit. (२) अवधि Peri-

od (३) स्थिति Statulity (४) क्षेत्र.

Field (५) वेला, समय Period of time (६) अण्डकोष, पोता Testicle. पङ्क

सीमंत पु० ( सीमन्त ) (१) बालों में बनाई हुई रेखा विशेष The parting line of the hair से० ६, २०, गडड०उप० ७२८ टी, (२) अण्डकाय Another, or different body गडड० ८२. (३) ग्राम से लगी हुई भूमि का अन्त, सीम, गावका पर्यन्त भाग Bolder or limit of a village गडड० २७३, २७७, उप० ७२८ टी (४) सीमा का अन्त, हद्द Boundry-line, land marks गडड०

सीमतगण्डम पु० ( सीमन्तकप्रभ ) सीमन्तक नरकावास की पूर्व तरफ स्थित नरकावास An abode of the hell on the East of Simantaka one देवेन्द्र० २०

सीमतगमज्जिम पु० ( सीमन्तकमध्यम ) सीमन्तक की उत्तर तरफ एक नरकावास An abode of the hell situated on the North of the Simantaka one देवेन्द्र० २०.

सीमतगावत्त पु० ( सीमतकावर्त ) सीमतक की पश्चिम तरफ का एक नरकावास An abode of the hell situated on the West of the Simantaka one देवेन्द्र० २१

सीमंतगावसिद्ध पु० ( सीमन्तकावशिष्ट ) सीमन्तक की दक्षिण दिशा में स्थित एक नरकावास An abode in the hell situated on the South of the Simantaka one देवेन्द्र० २१

सीमतिञ्ज त्रि० ( सीमन्तित ) खयिद्धत, छिन्न. Parted, shattered पाञ्च०

सीमतिणी स्त्री० ( सीमन्तिनी ) स्त्री, नारी, महिला. Woman. पाञ्च० उप० ७२८ टी, सम्पत्त० १३१, सुपा० ७

सीमधर पु० ( सीमन्धर ) (१) पूर्व विदेह में वर्तमान एक अर्हन् देव Name of an Arhana now in the East-Mahavideh काल०(२) एक जैन मुनि जो भगवान सुमतिनाथ के पूर्व जन्म में गुरु थे Name of a Jaina saint preceptor of Lord Sumatinatha in the previous life पञ्च० २७. १७ (३) भगवान शीतलनाथ जी का मुख्य श्रावक The leading Shrivaka of Lord Shtalanatha. विचार० ३७८

सीमाधर त्रि० ( सीमाधर ) मयादा-धारक. Boundry line पङ्क० हे० २, १३४

सीमाल त्रि० ( सीमाल ) सीमा के पास का, सीमा के निकटवर्ती Neighbouring. सुपा० २२२, ३२२, ४६३, धर्मवि० २६

सीर पु० न० ( सीर ) हल, जिससे खेत जोतते हैं Plough पञ्च० ११३, ३२, कुमा० पङ्क०—धारि पु०(धारिन्) बलदेव, बलभद्र An epithet of Balabhadra. पञ्च० २०, १३३,—पाणि पु० ( पाणि ) बलदेव, बलभद्र An epithet of Baladeo दे० २, २३, कुमा०—सीमत. पु० ( सीमन्त ) हल से काढ़ी हुई जमीन की रेखा A line on a field by a plough दे०

सीरि पु० ( सीरिन् ) बलभद्र, बलदेव An epithet of Baladeo पाञ्च०

सीवणा स्त्री० ( सीवना ) सोना, सिजाई. Sewing उप० पृ० २६८

सीवणी-त्री स्त्री० ( श्रीवणी ) वृक्ष विशेष A kind of tree शोध० ४४६ टी, उप० १०३१ टी

सीस पु० न० ( शीपं ) छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सीसञ्ज. न० ( शीरकं ) शिरकाय, Helmet. देणी० ११०.

सीसपूरग य पु० ( शीर्षपूरक ) मस्तक का आभरण An ornament for the head राज० तदु० ४१

सीह पु० ( सिंह ) (१) वृक्ष-विशेष, सहिजने का पेड़. A kind of tree. हे० १, १४४, प्राप्त० (२) राशि विशेष, मेष से पाचवीं राशि The sign leo of the zodiac विचार० १०६, (३) एक जैन मुनि जो आर्य धर्म के शिष्य थे A Jaina saint pupil of Aiyadhaima कल्प० (४) एक विद्याधर सामन्त राजा. A Vidyadhara tributary king. पत्रम० ६, १३२, (५) एक श्रेष्ठि-पुत्र A noble son सुपा० २०६, (६) छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सीहकडि. पु० ( सिंहकटि ) रावण का एक योद्धा A warrior of Ravana पत्रम० २६ २७

सीहचूड. पु० ( सिंहचूड ) विद्याधर वंश का एक राजा A king of Vidyadhar family पत्रम० २, ४६

सीदजस पु० ( सिंहयशस् ) भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र. A grandson of Bharat Chakravarti पत्रम० २, ३

सीहदुवार न० (सिंहद्वार) राजद्वार, राजप्रासाद का मुख्य दरवाजा The main or principal gate of a palace कुम० ११६

सीहद्वय पु० ( सिंहव्यज ) (१) विद्याधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar family पत्रम० २, ४३, (३) हरिषेण चक्रवर्ती के पिता का नाम Name of the father of Hansena Chakravarti पत्रम० ८, १४४.

सीहनिसाइ त्रि० ( सिंहनिपादिन् ) सिंह की तरह बैठने वाला Sitting like a lion सूप० १०, ८ टी०

सीहरह पु० ( सिंहरथ ) गन्धार देश के पुंड्रवर्धन नगर का एक राजा. A king of Pundravardhan city in Gandhar country महा०

सीहवाह पु० ( सिंहवाह ) विद्याधर वंश का एक राजा A king of the Vidyadhar lineage पत्रम० २, ४३

सीहवाहण पु० ( सिंहवाहन ) राक्षस वंश का एक राजा A king of the demon family पत्रम० २, २६३

सीहवाहणा स्त्री० ( सिंहवाहना ) अम्बिका देवी Goddess Ambika राज०

सीहसेण पु० ( सिंहसेन ) ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव Name of a Jina-deo born in Airvata Kshetra. राज०

सीहावलोकित न० (सिहावलोकित) सिंहावलोकन, सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ देखना The (backward) glance of a lion महा०

सीही स्त्री० ( सिही ) स्त्री-सिंह, शेरनी, सिंह की मादा Lioness नाट०

सुअ ( सु ) (१) प्रशंसा, श्लाघा. Praise विशेष० ३४४३, सूयनि० ६६, (२) अतिशय, अत्यन्तता Excess. (३) समीचीनता Excellence. सहि० १६, (४) अतिशय योग्यता Propriety पिंग० (५) पूजा Worship (६) कष्ट Difficulty (७) अनुमति Consent (८) समृद्धि Wealth पत्र० १२२, १२३, १३४,

सुअ पु० ( शुक्र ) (१) रावण का मंत्री A minister of Ravana से० १२, ६३, (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा. A tributary king to Ravana पत्रम० ८, १३३, (३) एक अनार्य देश Non-Aryan country. पत्रम० २७, ७.

सुअ न० ( श्रुत ) (१) शब्द, ध्वनि, आवाज  
Sound (२) क्षयोपशम, श्रुतज्ञानावरणीय,  
कर्म का नाश-विशेष Destruction of  
the action dependent upon the  
knowledge derived through  
senses of hearing. (३) आत्मा, जीव.  
Soul विशे० ६१, (४) अध्ययन, स्वाध्याय.  
Study. से० ४, २७

सुअकषत्र पु० ( श्रुतस्कन्ध ) बारहवा अंग-  
ग्रन्थ, दृष्टिवाद Distivad, the  
twelfth Anga volume राज०

सुअच्छ्रि त्रि० ( स्वच्छ ) निर्मल, विशुद्ध  
Pure, clean भवि०

सुअण पु० ( सुजन ) सज्जन, भला आदमी  
Good man गा० २२४, पाथ० प्रासू०  
८, ४०, सुर० २, ४६, गडड०

सुअणु स्त्री० ( सुतनु ) नारी, महिला Lady,  
woman गा० २६४, ३८४, ४६६,  
पि० ३४६

सुअम त्रि० ( सुगम ) सुगम Easily  
crossed. प्राक्० ११

सुअर त्रि० ( सुकर ) जो अनायास से हो  
सके, सरल Easy to be done, prac-  
ticable अमि० ६६

सुआउत्त त्रि० ( स्वायुक्त ) अच्छी तरह ब्याल  
रखने वाला Well-preserving उव०

सुइ त्रि० ( शुचि ) (१) श्वेत, सफेद White  
कुमा० (२) शक्र की एक अग्रमहिषी A  
crowned queen of Indra. इक०

सुइति स्त्री० ( सुइति ) (१) पुण्य Any  
good or virtuous act (२) मङ्गल,  
कल्याण Happiness, good (३) सत्कर्म  
Virtue, piety प्राप्० पि० २०४

सुई स्त्री० ( शुकी ) शुक पक्षी की मादा, तोती.  
Female parrot सुपा० ३६०.

सुउरिस. पु० ( सुपुरुष ) सज्जन, भला आदमी.

Good or virtuous man, gentle-  
man प्राप्० हे० १, ८, कुमा०

सुकविय त्रि० ( शुक्ति ) जिसकी चुगी दी  
गई हो Of which the duty is paid  
सुपा० ४४७

सुकार पु० ( सूकार ) अव्यक्त शब्द-विशेष  
An imitative sound ( smorting,  
snoring etc) सुर० २, ८, गडड०

सुकित्र त्रि० ( शौचिक ) शुक्त लेने वाला,  
चुगी पर नियुक्त पुरुष Superintendent  
of tolls, custom officer उप० पृ०  
१२०

सुठय पु० न० ( शुयठक ) भाजन-विशेष  
A kind of vessel मीरसु य सुठयसु'  
स्यनि० ७६

सुड. त्रि० ( शौयड ) (१) दारु पीने वाला  
Drunkard, Addicted to drink-  
ing हे० १, १६०, प्राक्० १०, सचि० ६,  
(२) दक्ष कुशल Skilled in. कुमा०

सुडिअ पु० ( शौयिडक ) कलवार, दारु  
वेचने वाला Distiller and seller of  
spirituous liquors, vintner प्राक्०  
१०, सचि० ६

सुडिकिणी स्त्री० ( शौयिडकी ) कलवार की  
स्त्री A wife of a vintner प्रयो० १०६.

सुद पु० ( सुन्द ) राजा रावण का एक भगिनेय,  
चरदूपण का पुत्र A nephew of Rav-  
ana and son of Khardasana.  
पउम० ४३, १८

सुन्दर पु० ( सुन्दर ) (१) एक शेट का नाम.  
Name of a wealthy man सुपा०  
६०३, (२) न०त्तप-विशेष, तेला, तीन दिनों का  
लगातार उपवास. Continuous three  
fasts सवोध० ८८.

सुदरी स्त्री० ( सुन्दरी ) (१) रावण की एक  
पत्नी A queen of Ravana. पउम०

७४, ६, (२) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

सुदेर-सुदेरिम. न० (सौन्दर्य) सुन्दरता, शरीर का मनोहरपन Beauty, elegance प्राप्र० हे० १, २७, कुमा० सुपा० ४, ६२२, धम्म० ११ टी.

सुम. पुं० (शुम्भ) दानव विशेष Name of a demon पि० ३६०, ३६७ प्

सुसुमार. पु० (शिशुमार) (१) पर्वत विशेष Name of a mountain (२) न० एक अरण्य Name of a forest स० ८६

सुकइ पुं० (सुकवि) अच्छा कवि Good poet गा० २००, ६००, महा०

सुकठ. त्रि० (सुकण्ठ) (१) सुन्दर कठ वाजा. Having a melodious voice (२) पु० एक वणिक् पुत्र. Name of a Bania आ० १६, (३) एक चोर सेनापति. A thief commander महा०

सुकण्ह पु० (सुकण्य) एक राज पुत्र Name of a prince पि० २२.

सुकर्माण. त्रि० (सुकर्मन्) अच्छा कर्म करने वाला. Virtuous, one whose deeds are righteous हे० ३, २६, पद्०

सुकयत्थ त्रि० (सुकुत्तार्थ) अत्यन्त कृत कृत्य. One who has exceedingly accomplished his object. प्रासू० १२२

सुकिट्ट. त्रि० (सुकुट्ट) अच्छी तरह जोता हुआ Well ploughed. पउम० ३, ४२.

सुकिति त्रि० (सुकुत्तिन्) (१) पुण्य शाली Fortunate, lucky (२) सत्कर्म-कारी One performing good turns रभा०

सुकुसुम. न० (सुकुसुम) (१) सुन्दर फूल Beautiful flower. (२) त्रि० सुन्दर फूल वाला Having a charming flower. हे० १, १७७, कुमा०

सुकुसुमिय त्रि० (सुकुसुमित) जिसको अच्छी

तरह फूल आया हो. Well blossomed. सुपा० २६८

सुकोसला स्त्री० (सुकोशला) एक राज कन्या.

Name of a princess उप० १०३१ टी  
सुक त्रि० (शुक्ल) जिसका ससार अर्ध पुद्-गल परावर्त काल से कम रह गया हो. Spermatic, a fragrant grass, whose life period is even less than that of 'Aidh-Pudgal Paravaat' पचा० १, २

सुकपवल पुं० (शुक्लपक्ष) (१) हंस पक्षी. Goose, duck (२) काक, कौआ. Crow (३) बगुला, बक पक्षी Indian crane हे० २, १०६

सुकाम न० (शुकाम) वैताड्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city situated in the deccan of the mount Vaitadhyia. इक०

सुक्खिय त्रि० (स्वाख्यात) अच्छी तरह कहा हुआ, प्रतिज्ञात. Well-said 'जते सुक्खियमासि बुद्धिलेण' महा०

सुगधा स्त्री० (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का एक विजय क्षेत्र A region in the west Videha इक०

सुगधिपुर न० (सुगन्धिपुर) वैताड्य की उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर A Vidyadhar city situated in the north of the mount Vaitadhyia, इक०

सुगण त्रि० (सुगण्) अच्छी तरह गिनने वाला Well-counting पद्०

सुगय त्रि० (सौगत) बुद्ध-भक्त, बौद्ध A Buddhist, a follower of Buddha. सम्मत्त० १२०

सुगरिट्ट त्रि० (सुगरिट) अति बड़ा Very



great भु० १६  
**सुगिज्म** त्रि० ( सुग्राह्य ) सुल से ग्रहण करने योग्य Easily available पत्रम० ३१, २४  
**सुगिरह** पु० ( सुग्रीम ) फाल्गुण का उत्सव A festival for the month of Falguna दे० न, ३६  
**सुगिर** त्रि० ( सुगिर ) अच्छी वाणी वाला Having a good speech पद्०  
**सुगिहिय-सुगिहीय** त्रि० ( सुगृहीत ) विख्यात, विश्रुत, Well-known, celebrated स० ६१, १३  
**सुगुप्त** पु० ( सुगुप्त ) एक मंत्री का नाम Name of a minister महा०  
**सुग्गीष** पु० ( सुग्गीष ) (१) राक्षस वंश का एक राजा, एक लकापति A king of the demon family. पत्रम० २, २६०, (२) राजा वालि का छोटा भाई, Name of a younger brother of Vali पत्रम० ४, ६, से० १, ४६, १४, ३६  
**सुघट्ट** त्रि० ( सुघृष्ट ) अच्छी तरह घिसा हुआ Well rubbed राय० न० टी  
**सुघरा** स्त्री० ( सुगृहा ) मादा-पक्षी की एक जाति जो अपना घोंसला खूब सुन्दर बनाती है A kind of female bird आयाज्० १  
**सुघोष** पु० ( सुघोष ) (१) एक पुरोहित का नाम Name of a family priest उप० ७२८ टी, (२) सुन्दर आवाज वाला Having a beautiful voice जीव० ३, १  
**सुन्ध** त्रि० ( शोच्य ) अफसोस करने योग्य Lamentable, deplorable धर्मवि० १७  
**सुजड** पु० ( सुजट ) एक विद्याधर नरेश Name of a Vidyadhar king पत्रम० १०, २०  
**सुजस** पु० ( सुजस ) एक जिनदेव का नाम Name of a Jinadeo उप० १०३१ टी,

( २ ) यशस्वी. Famous, renowned. भा० १६  
**सुजसा** स्त्री० ( सुजशा ) एक राजपत्नी Name of a queen उप० ६८६ टी  
**सुजाइ** त्रि० ( सुजाति ) पशुस्त जाति वाला, Of high birth महा०  
**सुजाण** त्रि० ( सुज्ञ ) सियाना, शब्दा जान कार A wise person, an expert सिरि० ७६१, प्रास० १३, सुपा० १८८  
**सुजाय** त्रि० ( सुजात ) (१) सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुलीन Of High birth उप० टी, (२) न० सुन्दर जन्म Noble birth. आव० (३) पु० न० एक देव विमान A particular celestial car देवेन्द्र० २७२  
**सुजिह्वा** स्त्री० ( सुज्येष्ठा ) एक महासती राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी A virtuous princess of king Chetaka पडि०  
**सुजुक्ति** स्त्री० ( सुयुक्ति ) सुन्दर युक्ति Good argument सुपा० १११  
**सुज** पु० ( सूर्य ) सूरज, रति The sun (२) आक का पेड़ The tree called Aika (३) दैत्य विरोध Name of a demon हे० २, ६४, प्रास०  
**सुजसिरि** स्त्री० ( सूर्यश्री ) एक ब्राह्मण कन्या A Brahman's daughter महानि० २.  
**सुजसिव** पु० ( सूर्यगिव ) एक ब्राह्मण का नाम Name of a Brahman महानि० २  
**सुजहास** पु० ( सूर्यहास ) तलवार की एक उत्तम जाति A good kind of sword पत्रम० ४३, १६  
**सुजाण** त्रि० ( सुज्ञान ) सुज्ञान, सियाना, सुज्ञ A wise person, a sensible man पद्० पिंग०

सुजाभ न० (सूर्याभ) वैताढ्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधर नगर. A vidyadhara city situated in the north of Vaidadhyia इक०  
 सुजम्भत त्रि० (दृश्यमान) सूक्तता, दीप्त पद्मता, माज्ज्म होता Seeming पद्म० १०३, २५  
 सुजम्भण्या की० (शोधना) शुद्धि. Purity, cleanliness उप० ८०४  
 सुजम्भचण न० (शोधन) शुद्धि, प्रचालन Purity, washing उप० ६८५  
 सुजम्भाइ त्रि० (सुध्यायिन्) शुभ ध्यान करने वाला Well meditating सवोध० ५२  
 सुदु सुदु अ० (सुदु) अतिशय, अत्यन्त. Very much, exceedingly सुर० ४, २४, प्रासू० १३७.  
 सुसाद पु० (सुनन्द) एक राजर्षि Name of a royal sage धम्म०  
 सुसाया न० (श्रवण) सुनना To hear. स० ५३.  
 सुसाय-ह० पु० (शुनक) छन्द-विशेष Name of a metrio पिंग०  
 सुसाहिलया की० (शुनकी) कुत्तो, मादा-कुत्तर. Bitch, female dog वज्जा० ८६  
 सुसावया न० (श्रावण) सुनाना Cause to hear विशे० २४८५  
 सुसाविय. त्रि० (श्रावित) सुनाया हुआ Caused to hear सुपा० ६०२  
 सुसासीर पु० (सुनासीर) इन्द्र, देवराज. Indra पाश्च० हम्मौर० १२  
 सुसािअ. त्रि० (श्रुत) सुना हुआ Heard. कुमा० रयण० ४४  
 सुसािअ. पु० (शौनिक) कसाई Butcher सिरि० १०७७.  
 सुसाण न० (शून्य) (१) निर्जन स्थान Solitude, lonely place गउड० ५२४;  
 (२) त्रि० निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोजन. Use-

loss, vain. गउड० ८४२, १७२, (३) तप विशेष, एकाशन. A kind of religious austerity. सवोध० ५७.

सुसाणइअ-सुसाणविअ. त्रि० (शून्यित) शून्य किया हुआ Emptied. से० ११, ४०, गउड० गा० २६, १६६, ६०६.

सुसाणार. पुं० (स्वर्णकार) सोनी. Goldsmith दे० ५, ३६.

सुसाहा की० (सासना) गौ का गल कम्पल A dowl-lap of an ox हे० १, ७५, कुमा०

सुसाहाल पु० (सासनाल) वृषभ, वैल Ox कुमा०—चिध. पु० (चिह्न) (१) भगवान् ऋषभदेव An epithet of Lord Rishabhdeo (२) महादेव. Mahadeo कुमा०

सुतवसिय न० (सुतपसित) सुन्दर तप, तपश्चर्या का सुन्दर अनुष्ठान. Good austerity राज०

सुतार. त्रि० (सुतार) (१) अत्यन्त निर्मल. Very clean (२) अतिशय ऊँचा. Lofty, very high (३) अच्छा तैरने वाला Good swimmer (४) अत्युच्च आवाज वाला. Having a loud voice. हे० १, १७७

सुतारया-सुतारा की० (सुतारा) (१) सुग्रीव की पत्नी Wife of Sugriva पउम० १०, ६, (२) आभूषण विशेष A kind of ornament कुमा०

सुत्त न० (सूत्र) नाटक का प्रस्ताव Commencement of a drama. मोह० ४८, सुपा० १

सुत्तआर पु० (सूत्रकार) ग्रन्थकार Author or composer of Sutras कप्पू०

सुत्तकठ पु० (सूत्रकण्ठ) ब्राह्मण, विप्र. Brahmana. पउम० ४, ६५.

great भू० १६.

सुगिञ्ज त्रि० ( सुग्राह्य ) सुलभे ग्रहण करने योग्य Easily available पत्रम० २१, २४  
सुगिम्ह पु० ( सुग्रीम ) फाल्गुण का उत्सव  
A festival for the month of  
Falguna दे० ८, ३६.

सुगिर. त्रि० ( सुगिर ) अच्छी वाणी वाला  
Having a good speech पद०

सुगिहिय-सुगिहीय त्रि० (सुगृहीत) विख्यात,  
विश्रुत, Well-known, celebrated  
स० ६१, १३

सुगुप्त पु० ( सुगुप्त ) एक मंत्री का नाम  
Name of a minister महा०

सुग्गोच पु० ( सुग्रीव ) (१) राक्षस वंश का  
एक राजा, एक लकापति A king of  
the demon family. पत्रम० ५, २६०,  
(२) राजा बालि का छोटा भाई, Name of  
a younger brother of Vali पत्रम०  
४, ६, से० १, ४६, १४, ३६

सुघट्ट. त्रि० (सुघृष्ट) अच्छी तरह घिसा हुआ  
Well rubbed राय० ८० टी

सुघरा स्त्री० (सुगृहा) मादा-पक्षी की एक  
जाति जो अपना घोंसला खूब सुन्दर बनाती है  
A kind of female bird आयाचू० १

सुघोस पु० ( सुघोष ) (१) एक पुरोहित का  
नाम Name of a family priest उप०  
७२८ टी, (२) सुन्दर आवाज वाला Hav-  
ing a beautiful voice जीव० ३, १

सुन्व त्रि० ( शोच्य ) अफसोस करने योग्य  
Lamentable, deplorable धर्मवि०  
१०

सुजड पु० ( सुजट ) एक विद्याधर नरेश  
Name of a Vidyadhai king  
पत्रम० १०, २०

सुजस पु० ( सुयशस् ) एक जिनदेव का नाम.  
Name of a Jinadeo उप० १०३१ टी,

( २ ) यशस्वी. Famous, renowned  
था० १६

सुजसा स्त्री० ( सुयशा ) एक राजपत्नी  
Name of a queen उप० ६८६ टी  
सुजाइ त्रि० ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाला,  
Of high birth महा०

सुजाण त्रि० ( सुज्ञ ) सियाना, अच्छा जान  
कार A wise person, an expert.  
सिरि० ७२१, प्रासू० १३, सुपा० १८८

सुजाय त्रि० ( सुजात ) (१) सुन्दरजाति मे  
उत्पन्न, कुलीन Of High birth उप०  
टी, (२) न० सुन्दर जन्म Noble birth.  
आव० (३) पु० न० एक देव विमान A  
particular celestial car. देवेन्द्र०  
२०२

सुजिद्धा स्त्री० ( सुज्येष्ठा ) एक महासती  
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी A  
virtuous princess of king Cheta-  
ka पदि०

सुजुक्ति स्त्री० ( सुयुक्ति ) सुन्दर युक्ति Good  
argument सुपा० १११

सुज्ज पु० ( सूर्य ) सूरज, रवि The sun.  
(२) आक का पेड़ The tree called  
Arka (३) दैत्य-विशेष Name of a  
demon हे० २, ६४, प्राप्र०

सुज्जसिरि स्त्री० ( सूर्यश्री ) एक ब्राह्मण कन्या  
A Brahman's daughter महानि० २.

सुज्जसिच पु० ( सूर्यशिव ) एक ब्राह्मण का  
नाम Name of a Brahman  
महानि० २

सुज्जहास पु० ( सूर्यहास ) तलवार की एक  
उत्तम जाति A good kind of sword  
पत्रम० ४३, १६.

त्रि० ( सुज्ञान ) सुजान, सियाना,  
सुज्ञ A wise person, a sensible  
man पद० पिंग०

सुजाभ न० (सूर्याभ) वैताल्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधर नगर. A vidyadhar city situated in the north of Vaitadhyā इक०  
 सुजम्भत त्रि० (इश्यमान) सूभता, दीख पडता, मालूम होता Seeming पउम० १०३, २५  
 सुजम्भण्या स्त्री० (शोधना) शुद्धि. Purity, cleanliness उप० ८०४  
 सुजम्भण न० (शोधन) शुद्धि, प्रक्षालन. Purity, washing उप० ६८५  
 सुजम्भाइ त्रि० (सुध्यायिन्) शुभ ध्यान करने वाला Well meditating सबोध० ५२  
 सुदु सुदु अ० (सुदु) अतिशय, अत्यन्त. Very much, exceedingly सुर० ४, २४, प्रासू० १३७.  
 सुगद पु० (सुनन्द) एक राजर्षि Name of a royal sage धम्म०  
 सुगण न० (श्रवण) सुनना To hear. स० ५३  
 सुगण्य-ह० पु० (शुनक) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०  
 सुगण्डिलया स्त्री० (शुनक्री) कुत्तो, मादा-कुत्तर Bitch, female dog वज्जा० ८६  
 सुगावण. न० (श्रावण) सुनाना Cause to hear विशेष० २४८५  
 सुगाविय त्रि० (श्रावित) सुनाया हुआ Caused to hear सुपा० ६०२  
 सुगासीर पु० (सुनासीर) इन्द्र, देवराज Indra पाञ्च० हम्मरी० १२  
 सुगिअ त्रि० (श्रुत) सुना हुआ Heard कुमा० रयण० ४४  
 सुगिअ. पु० (शौनिक) कसाई Butcher सिरि० १०७७  
 सुगण न० (शून्य) (१) निर्जन स्थान. Solitude, lonely place गउड० ५२४, (२) त्रि० निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोजन. Use-

less, vain. गउड० ८४२, १७२, (३) तप विशेष, एकाग्रता. A kind of religious austerity. सबोध० ५७

सुगण्डिअ-सुगणविअ त्रि० (शून्यित) शून्य किया हुआ Emptied. से० ११, ४०, गउड० गा० २६, १६६, ६०६.

सुगणार पु० (स्वर्णकार) सोनी Goldsmith दे० ५, ३६

सुगहा स्त्री० (सासना) गौ का गल कम्बल A dew-lap of an ox हे० १, ७५, कुमा०

सुगहाल पु० (सासनाल) वृषभ, बैल Ox कुमा०—चिंघ. पु० (चिह्न) (१) भगवान् ऋषभदेव An epithet of Lord Rishabhdeo (२) महादेव. Mahadeo. कुमा०

सुतवसिय न० (सुतपसित) सुन्दर तप, तपश्चर्या का सुन्दर अनुष्ठान. Good austerity राज०

सुतार त्रि० (सुतार) (१) अत्यन्त निर्मल. Very clean (२) अतिशय ऊँचा. Lofty, very high (३) अच्छा तैरने वाला Good swimmer (४) अत्युच्च आवाज वाला Having a loud voice. हे० १, १७७

सुतारया-सुतारा स्त्री० (सुतारा) (१) सुग्रीव की पत्नी Wife of Sugriva. पउम० १०, ६, (२) आभूषण विशेष A kind of ornament कुमा०

सुत्त न० (सूत्र) नाटक का प्रस्ताव Commencement of a drama. मोह० ४८, सुपा० १

सुत्तश्रार पु० (सूत्रकार) ग्रन्थकार Author or composer of Sutras कप्पू०

सुत्तकठ पु० (सूत्रकण्ठ) ब्राह्मण, विम. Brahmana. पउम० ४, ६५

सुनि स्त्री० ( शुक्ति ) सीप, घोघा Oyster-shell, pearl oyster हे० २, १३८, कुमा०  
 सुत्ति. स्त्री० ( सूक्ति ) सुन्दर वचन, सुभाषित  
 Good speech—वस्तिया स्त्री० (प्रत्यया)  
 एक जैन मुनि शाखा A branch of Jain  
 saints. कप्प० राज०  
 सुत्थ. नि० ( सुस्थ ) (१) स्वस्थ, तन्दुरुस्त  
 Healthy, falling well (२) सुखी  
 Happy सचि० १२, गा० २७८, महा०  
 चेद्वय० २६६, उप० १०३१ टी  
 सुत्थ न० (सौस्थ्य) (१) तन्दुरुस्ती, स्वस्थता  
 Healthiness (२) सुखीपन Happi-  
 ness सचि० १२, कुप्र० १७६, सुपा० १८,  
 १२८, स० १३२, उप० ६०२, धर्मवि० २२  
 सुत्थिर त्रि० ( सुस्थिर ) अतिशय स्थिर,  
 अति निश्चल Exceedingly firm प्राक्०  
 १६, सुपा० ३४८, कुमा०  
 सुयोव. त्रि० ( सुस्तोक ) अत्यल्प Too  
 little पउम० ८, १२२  
 सुदती स्त्री० ( सुदन्ती ) सुन्दर दात वाली  
 A female having beautiful  
 teeth उप० ७६८ टी  
 सुदसण पुं० ( सुदर्शन ) (१) विष्णु का चक्र  
 The discus of Vishnu सुपा० २१०  
 (२) पुं० एक देव विमान A particular  
 celestial car देवेन्द्र० १३६  
 सुदक्खिन्न ( सुदाक्षिय ) दाक्षिय्य वाला,  
 Very sincere or upright धम्म०  
 १२ स० ३१  
 सुदुच्छ. त्रि० ( सुदुच ) अति चतुर Very  
 skilful सुपा० २१७  
 सुदारु न० ( सुदारु ) सुन्दर काष्ठ Beau-  
 tiful wood गउठ०  
 सुदुकर त्रि० ( सुदुकर ) जो अत्यन्त दुःख  
 से किया जासके, अति मुश्किल Very dif-  
 ficult उप० पु० १६०

सुदुष्पन्न. त्रि० ( सुदुपार्त ) अति दुःख से  
 पीडित Afflicted, pained सुर० ७, ११-  
 सुदुष्खिन्न त्रि० ( सुदु खित ) अत्यन्त दुःखित  
 Afflicted, distressed सुपा० ३०४  
 सुदुग्ग त्रि० ( सुदुर्ग ) जहा दुःख से गमन  
 किया जासके Difficult to approach,  
 impervious. पउम० ३०, ४६.  
 सुदुच्चय त्रि० ( सुदुस्तयज ) मुश्किल से  
 जिसका त्याग हो सके Difficult to  
 abandon भा० १२  
 सुदुद्धर त्रि० ( सुदुर्धर ) अति दुःख से जो  
 धारण किया जा सके Very difficult to  
 be held भा० ४६, प्रात्० ४८  
 सुदुन्निवार त्रि० ( सुदुर्निवार ) अति कठिनाई  
 से जिसका निवारण किया जा सके. Very  
 difficult to be checked or wai-  
 ded off सुपा० ३४  
 सुदुर्पिच्छ त्रि० ( सुदुर्दर्श ) अतिशय मुश्किल  
 से देखने योग्य Very difficult to be  
 seen सुर० १२, १६६  
 सुदुग्भेश त्रि० ( सुदुर्भेद ) अति दुःख से  
 जिसका भेदन हो सके Very difficult  
 to be broken उप० २२३ टी  
 सुदुसह त्रि० ( सुदु सह ) अत्यन्त दुःख से  
 सहन करने योग्य Very unbearable.  
 सुर० ६, १२८,  
 सुदेव पु० ( सुदेव ) उत्तम देव Noble  
 god सुपा० २२६  
 सुहय. पु० ( सुद्रक ) एक राजा का नाम.  
 Name of a king मोह० १०२, १०९-  
 सुद्ध. ( शुद्ध ) (१) सिंघा-न्न Rock salt  
 (२) मिर्च Black pepper हे० १, २६०  
 (३) लगातार १८ दिनों के उपवास Con-  
 tinuous eighteen fasts सर्वोप०  
 २८. (४) छन्द-विशेष Name of a  
 metre. पिंग०

सुद्धत पु० ( शुद्धान्त ) अन्त पुर King's female apartments, haarem उप० ७६८ टी कुम० २४, कुम्भा० २६, कस० सुद्धोअण पु० (शुद्धोदन) बुद्धदेवके पिताका नाम Name of the father of the celebrated Buddha —तणाय पु० (तणाय) बुद्धदेव Lord Buddha. सम्म० १४२ सुद्धोअणिय पु० (शुद्धोदनि) बुद्धदेव Name of Buddha पाश्च० सुधम्म पु० ( सुधर्मन् ) (१) भगवान् महावीर का पट्टधर शिष्य Name of a leading disciple of Lord Mahavira कुमा० (२) तीसरे बलदेव के गुरु Name of a preceptor of third Baladeo पउम० २०, २०२, (३) एक जैन मुनि जो सातवें बलदेव के पूर्व जन्म के गुरु थे Name of a Jaina Saint who was preceptor of the seventh Baldeo in the previous life पउम० २०, १२१, (४) एक जैनाचार्य Name of a Jaina Acharya सार्ध० २२ सुनच्चिरी स्त्री० ( सुनतिनी ) अच्छी तरह नृत्य करने वाली स्त्री A nice female dancer सुपा० २८६. सुनयण पु० ( सुनयन ) राजा रावण के अधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त राजा, A tributary king to Ravana पउम० ८, १३३, (२) त्रि० सुन्दर लोचन वाला Having beautiful eyes आधम० सुनिष्पकप त्रि० ( सुनिष्पकम्प ) अत्यन्त निश्वास Very fixed or immovable सुपा० ६२३ सुनिम्मल त्रि० ( सुनिर्मल ) अतिशय निर्मल Very clear or pure पउम० २६, ६२ सुनिरुविय त्रि० ( सुनिरूपित ) अच्छी तरह तलासा हुआ, Well seen or discover-

ed सुपा० २२३

सुनिविन्न. त्रि० ( सुनिर्विण्ण ) अतिशय खिन्न Exceedingly distressed. सुर० १४, २८, उव० सुनिसाय त्रि० ( सुनिशात ) अत्यन्त तीक्ष्ण. Very sharp सुपा० २७०. सुनिस्तक त्रि० ( सुनि शङ्क ) बिबकूल शङ्का रहित Quite undoubted सुपा० १८८. सुनीविञ्जा स्त्री० ( सुनीविका ) सुन्दर नीवी-वस्त्रमन्थि वाली स्त्री A woman having a beautiful knot of the wearing garment कुमा० सुनेत्ता स्त्री० ( सुनेत्रा ) पाचवें वासुदेव की पटरानी The crowned queen of the fifth Vasudeo पउम० २०, १८६. सुन्नपत्तिया. स्त्री० ( शून्यपत्रिका ) एक जैन मुनि-शाखा A branch of Jaina Saints कम्प० सुपइट्ट त्रि० ( सुप्रतिष्ठ ) (१) न्याय मार्ग में स्थित (२) प्रतिज्ञा-शूर. कुमा० १, २८, (३) अगविद्या का जानकार पाचवाँ रुद्र पुरुष Name of the fifth Rudra, knowing the science of foretelling good or evil by moments of limbs विचार० ४७३ (४) भगवान् सुपारश्वनाथ के पिता का नाम. Name of the father of Lord Suparshvath. सुपा० ३६ सुपडाय त्रि० ( सुपताक ) सुन्दर ध्वजा वाला Having a beautiful flag कुमा० सुपडिवत्त त्रि० ( सुपदिवृत्त ) जो अच्छी तरह हुआ हो Well done पउम० ६४, ६२. सुपरण-न्न पु० ( सुवर्ण ) गरुडपत्नी Name of the king of birds नाट० कुम० ६३ सुपरिष्कुड. त्रि० ( सुपरिस्फुट ) सुस्पष्ट. Very clear or manifest, पउम० ४२, २६

सुपरिसत. त्रि० ( सुपरिश्रान्त ) अतिशय थका हुआ Exceedingly fatigued or exhausted पत्रम० १०२ ४२  
 सुपविस्त्रिय त्रि० ( सुपविस्त्रित ) अत्यंत पवित्र किया हुआ, Excessively cleansed or purified सुपा० ३  
 सुपव्य पु० ( सुपर्वन् ) (१) देव God, deity, (२) सुन्दर पर्व A rejoicing festival कुमा० ४२  
 सुपसादय त्रि० ( सुपसादित ) अच्छी तरह प्रसन्न किया हुआ Well appeased or propitiated रमा०  
 सुपसिद्ध त्रि० ( सुप्रसिद्ध ) अति विख्यात Very celebrated, Renowned पिंग०  
 सुपथ पु० ( सुपथ ) शुभ मार्ग True path उव० सुपा० ३७७  
 सुपहाय न० ( सुप्रभात ) माङ्गलिक प्रातः काल An auspicious dawn of day break हे० २, २०४  
 सुपुरिस. पु० ( सुपुरुष ) सज्जन, सुपुरुष Good or virtuous man हे० २, १८४, गउड० प्रासू० ३  
 सुपदश्याद्या स्त्री० ( सुप्रतिज्ञा ) दक्षिण रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी A Dikkumari goddess dwelling on the Southern Ruohak mountain राज० इक०  
 सुपदंजल त्रि० ( सुप्रान्जल ) अत्यन्त ऋजु, सीधा Very straight कम्प०  
 सुपदिलग्न. त्रि० ( सुप्रतिलग्न ) अच्छी तरह लगा हुआ, अवलम्बित Well held, dependant. सुपा० ५११  
 सुपदाहाही स्त्री० ( सुपनखा ) रावण की बहिन का नाम Name of Ravan's sister माहू० ४२०.

सुपवुद्ध पु० न० ( सुप्रवुद्ध ) एक ग्रैव्यक विमान A Gravyak-celestial car देवेन्द्र० १३६  
 सुपुम्भ पु० न० ( सुप्रभ ) एक देव विमान, A particular celestial car देवेन्द्र० १४१  
 सुपुम्भा स्त्री० ( सुप्रभा ) धनवाहन नामक विद्याधर नरेश की पत्नी A queen of a Vidyadhar king named Dhana-vahan पत्रम० ५, १३८  
 सुपुम्भूय. त्रि० ( सुप्रभूत ) अति प्रचुर Excessive, very much पत्रम० ५६, ३६  
 सुपुसस्थ त्रि० ( सुप्रसन्न ) अत्यन्त प्रसाद-युक्त Very much pleased नाट-मालती० १६१, भवि०  
 सुपुपनार त्रि० ( सुप्रसार ) सुख से पसरने योग्य Easily spreading. सुख० २, २६  
 सुयल. पु० ( सुवल ) सोम वंश का एक राजा Name of a king of the Soma family पत्रम० ५, ११  
 सुयलिट्ट त्रि० ( सुयलिष्ठ ) अतिशय बलवान् Very strong श्रु० १६  
 सुयहल. त्रि० ( सुवल ) अति प्रभूत Excessive, Very much कम्प०  
 सुयुद्धि स्त्री० ( सुबुद्धि ) सुन्दर प्रज्ञा. Graceful intelligence ब्रा० १४, (२) पु० राम आता भरत के साथ वीचा लेने वाला एक राजा Name of a king who was initiated with Bharat ( brother of Rama ) पत्रम० ०५, ३.  
 सुयम्भ न० ( शौभ्य ) सफेदी, श्वेतता Whiteness सवीध० ५२  
 सुभिन्जल न० ( सुभिच ) सुकाल. Abundance of food, plenty of corn सुपा० ३५०

सुभ्रु स्त्री० ( सुभ्रु ) नारी, महिला Lady,  
woman रभा०

सुभ्रु पु० ( शुभ्रु ) एक मुहूर्त A particu-  
lar Muhurta (a period of time)  
पत्रम० १७, ८२

सुभ्रुकर न० ( शुभ्रुकर ) वरुण नामक  
लोकान्तिक देवों का विमान A celestial  
car of Lokantika gods called  
Valuna राज०

सुभ्रुगा, त्रि० ( सुभाग्य ) जिसका भाग्य अच्छा  
हो Very fortunate, prosperous  
उप० १०३१ टी

सुभ्रुणिय त्रि० ( सुभ्रुणित ) वचन कुशल  
Speaking well, eloquent उच०

सुभ्रुद पु० ( सुभ्रुद ) इक्ष्वाकु वंश का एक  
राजा Name of a king of the  
Ikshwaku family पत्रम० २६, १३६,  
(२) नगर विशेष Name of a city  
उप० १०३१ टी

सुभ्रुदा स्त्री० ( सुभ्रुदा ) (१) राम के भाई  
भरत की पत्नी Wife of Bharat  
(brother of Rama) पत्रम० २८, १३६,  
(२) जम्बूवृक्ष विशेष, जिससे यह द्वीप जांबूद्वीप  
कहलाता है The Jambu tree इक०

सुभ्रुरिय त्रि० ( सुभ्रुत ) अच्छी तरह भरा  
हुआ, भरपूर, परिपूर्ण Quite full उच०

सुभा स्त्री० ( शुभा ) रावण की एक पत्नी  
Name of a Ravana's Queen  
पत्रम० ७४, ११

सुभासुधम्म पु० ( शुभासुधर्मन् ) राक्षस  
वंश का एक राजा Name of a king of  
the demon family पत्रम० ५, २६२

सुभासिर त्रि० ( सुभासितृ ) सु-दर बोलने  
वाला Speaking well, Eloquent  
सुपा० ५६८

सुभिच पु० ( सुभृत्य ) अच्छा नौकर Obedient

servant सुपा० ४६२, हे० ४, ३३४

सुभीम त्रि० ( सुभीम ) अति भयकर Very  
dreadful or formidable सुर०  
७, २३३

सुभीसण पु० ( सुभीषण ) रावण का एक सुभट  
A warrior of Ravana पत्रम० १६,  
३१

सुभूम पु० ( सुभूम ) भगवान् अरुनाथ का  
प्रथम अवक The first Shravaka of  
Lord Anatha विचार० ३७८

सुभूसण पु० ( सुभूपण ) विभीषण का एक  
पुत्र Vibhishan's son पत्रम० ६७, १६

सुभोयण न० ( सुभोजन ) द्रत-विशेष एका-  
शन तप A particular religious  
austerity तबोध० १८

सुभ न० ( सुभ ) पुष्प, फूल Flower.  
सम्मत्त० १६१,—सर पु० ( शर ) कामदेव.  
Cupid, god of love. रभा०

सुभइ पु० ( सुमति ) (१) एक जैन उपासक,  
Name of a Jaina Upasaka महा-  
नि० ४, (२) एक नैमित्तिक विद्वान Name  
of an astrologer सुर० ११, १३२

सुभगला स्त्री० ( सुभङ्गला ) सूर्यवंशीय राजा  
विजयसागर की पत्नी Name of the  
queen of king Vijayasagar of  
the solar family पत्रम ५, ६२

सुभग्ग पु० ( सुभार्ग ) अच्छा रास्ता,  
Good path सुपा० ३३०

सुभणा स्त्री० ( सुभनत ) एक जम्बू वृक्ष का नाम.  
Name of the Jambu tree इक०  
(२) मालती का फूल Flower of Jas-  
mine स्वप्न० ६१

सुभणोहर, त्रि० ( सुभनोहर ) अत्यन्त मनोहर,  
Very beautiful उप० पृ० १८

सुमर पु० ( स्मर ) कामदेव Cupid, God  
of love नाट-चैत० ८१



सुमरण. ( स्मरण ) याद. स्मृति. Remembrance, recollection. कुमा० हे० ४, ४२६, वसु० प्राप० सुपा० ७१, १२६, ३६७, स० ३३४

सुमराधिय त्रि० ( स्मारित ) याद कराया हुआ Reminded, caused to remember सुर० १४, ४८, २४३

सुमरिञ्च त्रि० ( स्मृत ) याद किया हुआ Remembered, recollected पाञ्च० सुमाणस त्रि० ( सुमानस ) प्रशस्त मन वाला, सज्जन Good-minded, of a good disposition पञ्चम० १०२, २७

सुमाणस पु० ( सुमानुष ) सज्जन, उत्तम मनुष्य Good or virtuous man, gentleman सुपा० २२६

सुमालि पु० ( सुमालिन् ) एक राज कुमार Name of a prince. पञ्चम ६ २२०

सुमित्त. पु० ( सुमित्र ) (१) चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म का नाम Name of the previous birth of the fourth Baladeo पञ्चम० २०, १६०, (२) षष्ठे बलदेव के धर्मगुरु A religious preceptor of the sixth Baladeo पञ्चम० २०, २०५, (३) अच्छा मित्र Good friend सुपा० २३४

सुमित्ता स्त्री० ( सुमित्रा ) लक्ष्मण की माता और राजा दशरथ की एक पत्नी Name of the mother of Laksmana and wife of Dasaratha पञ्चम० २५, ४ —तणय पु० ( तनय ) लक्ष्मण An epithet of Laksmana से० ४, १२, १४, ३२

सुमित्ति पु० ( सौमित्रि ) सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण. An epithet of Lakshmana पञ्चम० ४२, ३६

सुमुद्दय त्रि० ( सुमुदित ) अति हर्षित Very

much delighted श्रोव०

सुमुण्डिश्च त्रि० ( सुज्ञात ) अच्छी तरह जाना हुआ Well known सुपा० २८२

सुमुद्द पु० ( सुमुख ) राक्षस वंश का एक राजा, एक लंका पति Name of a king of the demon family. पञ्चम० ५, २६१, (२) छन्द-विशेष Name of a metre अजि० २०

सुमुद्दी स्त्री० ( सुमुदी ) छन्द विशेष Name of a metre पिंग०

सुमेरु पु० ( सुमेरु ) मेरु पर्वत The mount Meru पाञ्च० पञ्चम० ७२, ३८

सुम्ह पु० व० ( सुह्य ) देश-विशेष Name of a country हे० २, ७४

सुर पु० ( सुर ) एक राजा का नाम Name of a king उप० ७६२

सुरश्रण न० ( सुरवन ) नन्दनवन The Nandan forest से० ६, ७६

सुरश्ररु पु० ( सुरतरु ) कल्प वृक्ष A particular tree supposed to grant all desires, a wish-yielding tree नाट०

सुरगणा स्त्री० ( सुराङ्गना ) देव-वधु Celestial woman or damsel सुपा० २४६

सुरगा स्त्री० ( सुरङ्गा ) सुरग, जमीन के भीतर का मार्ग A subterranean passage उप० पु० २६, महा० सुपा० ४२४

सुरकरडि पु० ( सुरकरिन् ) देरावण हाथी. Name of the elephant of Indra सुपा० १७६

सुरकरि. पु० ( सुरकरिन् ) देरावण हाथी Name of the elephant of Indra सुपा० २६१

सुरकुम्भि पु० ( सुरकुम्भिन् ) देरावण हाथी Name of the elephant of Indra सुपा० २०१

सुरकुसुम. न० ( सुरकुसुम ) लवंग, लोंग.  
Cloves पि० १४  
सुरगय पु० ( सुरगज ) इन्द्रहस्ती, ऐरावण.  
Name of the elephant of Indra  
पात्र० से० २, २२.  
सुरगिरि. पु० ( सुरगिरि ) मेरु पर्वत. The  
mount Meru. सुपा० २, ३१, ३२४, सण०  
सुरगुरु पु० ( सुरगुरु ) (१) बृहस्पति An  
epithet of Brihaspati. पात्र० सुपा०  
१७६, (२) वास्तविक मन का प्रवर्तक एक  
शाचार्य. Name of an Acharya who  
propounded the grossest form  
of atheism or materialism.  
मोह० १०१.  
सुरघर न० ( सुरगृह ) (१) देव मन्दिर.  
Temple कुम० ४, (२) देव विमान  
celestial car सण०  
सुरचाव. पु० ( सुरचाप ) इन्द्र धनुष Rain-  
bow गा० ६८६, ८०८, सुपा० १२४  
सुरजाल न० ( सरजाल ) इन्द्रजाल Con-  
juring, Juggleiy राज०  
सुरगई स्त्री० ( सुरनदी ) गंगा नदी The  
Ganges पात्र०  
सुरताण. पु० ( सुरत्राण ) यवन नृप, सुलतान.  
Sulatana, an Anaryan king  
ती० १६.  
सुरदार. न० ( सुरदारु ) देवदार की लकड़ी  
A species of pine स० ६३३.  
सुरधंसी स्त्री० ( सुरधंसिनी ) विद्या-विशेष  
A kind of magical skill पत्रम०  
७, १३७  
सुरपुर. न० ( सुरपुर ) अमरावती, स्वर्ग  
Heaven पत्रम० ६०, १, सण०  
सुरवदी स्त्री० ( सुरवन्दी ) देवी, देव-स्त्री  
Goddess, celestial woman.  
से० ६, ६०

सुरभि. पु० स्त्री० ( सुरभि ) (१) वसन्त  
ऋतु Spring season (२) गौ, गैया.  
Cow कुम्भा० १४, (३) पु० न० एक देव  
विमान A particular celestial car  
देवेन्द्र० १४०.  
सुरभिपुर न० ( सुरभिपुर ) नगर विशेष  
Name of a city राज०  
सुरमति पु० ( सुरमन्त्रिन् ) बृहस्पति An  
epithet of Brihaspati सुपा० ३२६.  
सुरमणीय त्रि० ( सुरमणीय ) श्रयन्त मनो-  
हर Very beautiful or charming.  
सुर० ३, ११२  
सुरमुणि पु० ( सुरमुनि ) नारद मुनि An  
epithet of Narada, a divine sage  
पत्रम० ६०, ८  
सुरयण न० ( सुररत्न ) सुन्दर रत्न Beauti-  
ful jewel. सुपा० ३२७  
सुरयणा स्त्री० ( सुरचना ) सुन्दर रचना  
Beautiful arrangement सुपा० ३२  
सुरवची स्त्री० ( सुरपर्णी ) पुनाग वृक्ष A  
kind of tree पात्र०  
सुरस न० ( सुरस ) वृष-विशेष A kind  
of grass दे० १, ६४, —लया. स्त्री० (लता)  
तुलसी-लता The Tulsi creeper  
दे० ६, १४  
सुरसगीय. न० ( सुरसगीत ) नगर विशेष  
Name of a city पत्रम० ८, १८  
सुरसमण न० ( सुरसमण ) रावण का एक  
बगीचा A garden of Ravana  
पत्रम० ४६, ३७  
सुरसुदर पु० ( सुरसुन्दर ) रथचक्रवाज  
नगर का एक विद्याधर नरेश A Vidya-  
dhar king of Rathchakrawala  
city पत्रम० ८, ४१  
सुरसुदरी स्त्री० ( सुरसुन्दरी ) देव-बधू, देवाङ्गना  
Goddess सुर० ११, ११६, सुपा० २००;

- (०) एक राज पुत्री Name of a princess सुर ११, १४३
- सुरसुरभि स्त्री० ( सुरसुरभि ) कामधेनु  
A cow of plenty, a heavenly  
cow yielding all desires रयण० १३
- सुरह पु० न० ( सौरभ ) सुन्दर गन्ध, सुशब्द  
Fragrance भक्त० १२१.
- सुरह पु० ( सुरथ ) साकेतपुर का एक राजा  
Name of a king of Saketpura  
महा०
- सुरहि पु० ( सुरभि ) (१) वसन्त ऋतु. The  
season of spring रमा० पात्र० कल्प०  
(२) चैत्रमास The month Chaitra  
गा० १०००, (३) न० नामकर्म का एक भेद  
जिसके उदय से प्राणी के शरीर में सुगन्ध  
उत्पन्न होता है A variety of Nama  
Karma क० ग० १, ४१
- सुरारस पु० ( सुरारस ) समुद्र विशेष Name  
of a sea. दीव०
- सुरारि. पु० ( सुरारि ) राक्षसवंश का एक राजा,  
एक लकापति Name of a king of the  
demon family पउम० ५, २६२
- सुरिंद पु० ( सुरेन्द्र ) एक विद्याधर नरेश  
Name of a Vidyadhar king  
पउम० ७, २६
- सुरिंदय पु० ( सुरेन्द्रक ) देवविमान विशेष  
A particular celestial car देवेन्द्र०  
१३७
- सुरुग्ध पु० ( सुग्ध ) देश-विशेष Name of  
a particular country हे०२, ११३,  
पढ्.—ज त्रि० ( ज ) देश-विशेष में उत्पन्न  
Born in a country कुमा०
- सुरेस पु० ( सुरेश ) ( १ ) देव-पति, इन्द्र  
Name of Indra ( २ ) उत्तम-देव  
Noble god सुपा० ६१४
- सुरेसर पु० ( सुरेश्वर ) इन्द्र, देव-राज

- Name of India सुपा० २७, कृप० ४
- सुलभपत्नि त्रि० ( सुलक्षिण ) उत्तम लक्ष्य  
वाला Having auspicious or  
beautiful marks धर्मवि० १२२
- सुलग्ग. त्रि० ( सुलग्न ) अच्छी तरह लगा हुआ.  
Well adhered or clung to महा०
- सलस. पु० ( सुलस ) पर्वत विशेष Name  
of a mountain इक०
- सुलसा स्त्री० ( सुलसा ) (१) शक्र की एक  
अग्रमहिषी, एक इन्द्राणी A crowned-  
queen of Shakra पउम० १०२, १५६,  
(२) शखपुर के राजा सुन्दर की पत्नी.  
A queen of king Sundara of  
Shankapura महा०
- सुलाह पु० ( सुलाभ ) अच्छा नफा Good  
profit सुपा० ४४६
- सुलोयण पु० ( सुलोचन ) एक विद्याधर नरेश.  
A Vidyadhar king पउम० ५, ६६
- सुलोल त्रि० ( सुलोल ) अति चपल Very  
fickle or unsteady कल्प०
- सुल्ल न० ( शूल्य ) शूला प्रोत मांस Meat  
pierced by an iron spit दे० ८, ३६,  
पात्र०
- सुवज्ज पु० ( सुवज्र ) एक विद्याधर वंशीय  
राजा Name of a Vidyadhar king.  
पउम० ५, १६
- सुचट्टिय. त्रि० ( सुवर्तित ) अतिशय गोल  
किया हुआ Well-rounded, beauti-  
fully globular or round राज०
- सुवण न० ( स्वप्न ) शयन Sleeping,  
dream श्लो० ८७, पचा० १, ४५, उप० ७६२
- सुवर्ण पु० ( सुवर्ण ) आदित्य, सूर्य, The  
sun गडड०
- सुवर्णकुम्भ पु० ( सुवर्णकुम्भ ) प्रथम बलदेव  
के धर्म गुरु एक जैन मुनि Name of a  
Jaina saint, who

ceptor of the first Baladeo पउम०  
२०, २०५  
सुवराणसिला स्त्री० ( सुवराणसिला ) एक  
महौषधि A particular medicine  
ती० ५, राज०  
सुवराणअ त्रि० ( सौवराणिक ) सुवराण-मय,  
सोने क बना हुआ Golden, made of  
gold हे० १, १६०, पङ्० प्राक्० ३६  
सुवन्न त्रि० ( सुवराण ) सुन्दर अक्षर वाला  
Of good or beautiful letters.  
कुप्र० १  
सुवन्न त्रि० ( सौवराण ) सोने का बना हुआ,  
Golden, made of gold कुप्र० ४  
सुवास. पु० ( सुवराण ) ( १ ) सुन्दर वृष्टि  
Beautiful rain उप० ८४६, (२) छन्द-  
विशेष Name of a metre पिंग०  
सुवाहा अ० ( स्वाहा ) देवता को हविष आदि  
अर्पण सूचक अव्यय An exclamation  
used in offering oblations to  
the gods सिरि० १६७  
सुविअद्ध त्रि० ( सुविदग्ध ) अत्यन्त चतुर  
Very much skilful नाट० रत्ना० ६.  
सुविद्वय त्रि० ( सुविदित ) अच्छी तरह ज्ञात  
Well understood or learnt. उव०  
सुपा० ४०४  
सुविउ त्रि० ( सुविद् ) अच्छा जानकार  
Learned man, shiewd person  
आ० २८  
सुविउल त्रि० ( सुविपुल ) अति विशाल  
Very large or extensive उव०  
सुविष्वाय त्रि० ( सुविष्व्यात ) सुप्रसिद्ध  
Celebrated renowned सुर० ६४६  
सुविगा स्त्री० 'शुक्रिका-शुकी' मैना. Female  
parrot उप० ६७३, ६७५  
सुविज्ञा स्त्री० ( सुविद्या ) उत्तम विद्या. The  
excellent skill, good knowledge

प्रासू० ५३  
सुविण्ट त्रि० ( सुविनष्ट ) विस्कुल नष्ट  
Entirely destroyed गा० ७४०.  
सुविणिच्छ्रिय त्रि० ( सुविनिश्चित ) अच्छी  
तरह निर्णयित Well-determined उव०  
सुवित्त न० ( सुवृत्त ) (१) अत्यन्त गोलाकार  
Completely round (२) सदाचार,  
अच्छा आचरण Good manners,  
virtuous or moral conduct सुर०  
१, २१  
सुवित्थड त्रि० ( सुविस्तृत ) अति विस्तार युक्त  
Very much broad or extended  
अणि० ४०, प्रासू० १२८, द्र० ६८.  
सुवित्थन्न त्रि० ( सुविस्तीर्ण ) अति विस्तार  
युक्त Very much extensive or  
large सुर० १, ४५, १२, १  
सुविष्वल्लण त्रि० ( सुविचक्षण ) अति चतुर,  
Expert or very skilful सुपा० १५०  
सुवियाण न० ( सुविज्ञान ) अच्छा ज्ञान,  
सुन्दर जानकारी Good knowledge  
सहि० १६  
सुविराइय. त्रि० ( सुविराजित ) सुशोभित  
Beautiful, lovely सपा० ३१०  
सुविराहिय त्रि० ( सविराधित ) अतिशय  
विराधित Excessively offended उप०  
सुविलास त्रि० ( सुविलास ) सुन्दर विलास  
वाला Beautifully dallying or  
amorous सुर० ३, ११४  
सुविवेइय त्रि० ( सुविवेचित ) सम्यग् विवेचित  
Well discriminated उप०  
सुविसट्ट त्रि० ( सुविकसित ) अच्छी तरह  
विकसित Well blown, fully ex-  
panded सुर० ३, १११  
सुविहाणा स्त्री० ( सुविधाना ) विद्या-विशेष.  
A kind of magical skill. पउम०  
७, १३७

- सुविहि न० (सुविधि) रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक यान A vehicle of Rama-Chandria and Laksmana पत्रम० ८०, ४
- सुवीर्य त्रि० (सुवीर्य) अच्युती तरह विश्वास-प्राप्त Trust worthy, fully reliable सुर० ६, १२६, सुपा० २११
- सुवे अ० (श्वस्) आगामी काल Tomorrow हे० २, ११४, चड० कुमा०
- सुवेल पु० (सुवेल) (१) पर्वत विशेष Name of a mountain से० ८, ८०, (२) न० नगर विशेष Name of a city पत्रम० ८४, ४३
- सुव्व० न० (शुव्व) (१) तावा, ताम्र, Copper ती० २, (२) रज्जु, रस्सी Rope, string (३) जल-समीप The proximity of water (४) आचार Rule, law (५) यज्ञ का कार्य A sacrificial rite or act हे० २, ७६.
- सुव्वप पु० (सुव्वत) (१) एक जैन मुनि जो तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. Name of a Jaina saint who was a preceptor of the third Baladeo in the previous birth पत्रम० २०, १६२, (२) आठवें बलदेव के धर्मगुरु Name of the religious preceptor of the eighth Baladeo पत्रम० २०, २०६, (३) एक गोत्र Name of a family or lineage कप्प०
- सुव्वयगि पु० (सुव्वतागि) एक दिवस का नाम. Name of a day कप्प०
- सुसगत त्रि० (सुसगत) अति सम्बन्ध Joined or closely united with प्राक् १२
- सुसतय त्रि० (सुसत्क) अति सुन्दर Very beautiful पत्रम० ७८, २६
- सुसनिविट्ट त्रि० (सुसनिविष्ट) अच्युती तरह स्थित Well established सुपा० १३३.
- सुसभिः त्रि० (सुसभृत) अच्युती तरह सस्कृत. Well cultured स० १८६, ४०६४८ टी०
- सुसमय त्रि० (सुसमत) अच्युती तरह सम्मति युक्त Well agreed or consented to सुर० १०, ८२
- सुसद् पु० (सुशब्द) (१) सुन्दर आवाज वाला Of sweet voice (२) प्रसिद्ध विख्यात Celebrated, renowned सपा० २६६
- सुसमत्थ त्रि० (सुसमर्थ) सशक्त, अतिशय सामर्थ्य वाला Very strong or powerful सुर० १, २३२
- सुसमा. स्त्री० (सुयमा) छन्द-विशेष, Name of a metre. पिंग०
- सुसमिद्ध त्रि० (सुसमृद्ध) अत्यन्त समृद्ध Very prosperous नाट०-मृच्छ० १२६.
- सुसा स्त्री० (स्वसु) बहिन, भगिनी Sister सूप० १, ३, १, १ टी.
- सुसाय. त्रि० (सुस्वाद) स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद वाला Having a sweet taste, sweet-flavoured पत्रम० ८२, ६६, १०२ १२२.
- सुसावग-य पु० (सुशावक) अच्युता शावक, जैन गृहस्थ A good Shiyavaka कुमा० पटि० ८२
- सुसिः त्रि० (शुष्क) सुखा हुआ Dry. सपा० २०४, कुट्ट० १३
- सुसिः त्रि० (शोषित) सुखाया हुआ. Dried up महा० वज्जा० १२०, कुम० १३.
- सुसिक्खिः त्रि० (सुसिक्खित) अच्युती तरह शिक्षा को प्राप्त Well trained, well-disciplined मा० २०.
- सुसिग्धि त्रि० (सुस्निग्ध) अत्यन्त स्नेह युक्त Very affectionate or loving. सुर० ४, १६६

सुसिन्न. त्रि० ( सुशीर्ष ) अति सड़ा हुआ.  
Absolutely withered or decayed.

सुपा० ४१६

सुसिस्स. पु० (सुशिन्व) उत्तम चेला Noble  
pupil. उप० पृ० ४०१

सुसीत्र त्रि० ( सुशीत ) अति शीतल Vely  
cold. कुमा०

सुसीम. न० ( सुसीम ) नगर विशेष Name  
of a city उप० ७२८ टी०

सुसुर्यध त्रि० ( सुसुगन्ध ) अत्यन्त सुगन्ध.  
Fragrant. पउम० ६, ४१, गउड० (२)  
पु० अत्यन्त खुशबू Fragrance गउड०

सुसुहंकर पु० ( सुशुभङ्कर ) वृन्द का एक भेद  
A variety of a metle पिंग०

सुसेष पु० ( सुपेण ) सुग्रीव का असुर Name  
of a father-in-law of Sugriva से०  
४, ११; १३, ८४

सुसोह त्रि० ( सुशोभ ) अच्छी शोभा वाला  
Very-beautiful सुपा० २७५

सुसोहिय त्रि० ( सुशोभित ) शोभा-सपन्न,  
समलङ्कृत Decorated, ornamented  
उप० ७२८ टी

सुस्समण पु० ( सुश्रमण ) उत्तम साधु A  
virtuous saint उप०

सुस्सार. त्रि० ( सुसार ) सार-युक्त Having  
good sap or essence भवि०

सुस्सू. त्रि० ( शश्रू ) सासू Mother-in-law  
वृह० २

सुस्सूसाण न० ( शुश्रूषण ) सेवा, शुश्रूषा  
Service कुम० २४७, रत्न० २१

सुहकर त्रि० ( सुखकर ) सुख-कारक Giving  
pleasure, pleasant सिरि० ३६, कुमा०

सुहकर त्रि० ( शुभकर ) शुभ-कारक Auspi-  
cious, propitious कुमा० (२) पु० एक  
वणिक का नाम. Name of a Bania.  
उप० ५०७ टी.

सुहृत्थ त्रि० ( सुहस्त ) अच्छे हाथ वाला.  
Having beautiful hands. से० १२,  
५५, ( २ ) दाता, दान शील. Donor,  
giver. भवि०

सुहृद् न० ( सौहार्द ) स्नेह Affection,  
love (२) मित्रता Friendship भवि०

सुहृम न० ( सूचम ) फूल, पुष्प Flower  
दसनि० १, ३६

सुहृम्ममाण. त्रि० ( सुहृन्मान ) जो अच्छी  
तरह मारा जाता हो One easily to be  
killed or slain पि० ५४०

सुहृय त्रि० ( सुहृत ) अच्छी तरह जो मारा गया  
हो Excessively beaten कुम० २२६

सुहाहार पु० ( सुधाहार ) देव, देवता God,  
deity से० ७५५.

सुहावण त्रि० ( सुखायन ) सुख-जनक Giving  
pleasure सण० भवि०

सुहावय त्रि० ( सुखायक ) सुख-जनक. Giv-  
ing pleasure ब्रज्जा० १६४, भवि०

सुहृय त्रि० ( सुहित ) वृत्त. Satisfied से०  
२, ८, (२) सुन्दर हित वाला Beneficial,  
salutary धर्म० २

सुहित त्रि० ( सुहृष्ट ) अति हर्षित Exces-  
sively delighted उप० ७२८ टी

सुही त्रि० ( सुधी ) पढित, विद्वान् Learned.  
सिरि० ४०.

सुहोस. त्रि० ( सुखैपिन ) सुखाभिलाषी Desir-  
ing happiness. सुपा० २२७.

सू अ० निन्दासूचक अन्यय A particle  
expressing censure or contempt  
नाट०

सूअ. पु० ( सूत ) सारथि, रथ हाकने वाला.  
Charioteer पात्र०

सूअ पु० ( शूक ) धान्य आदि का अन्न भाग  
The awn of corn etc. गउड० गा०  
५१८.

सूत्रक-ग न० ( सूत्रक ) सूत्रक, जनन और मरण की अशुद्धि Impurity caused by child-birth or death in a family पंचा० १३, ३८, वव० १

सूत्रक-ग त्रि० ( सूचक ) (१) सूचना करने वाला Betraying, informing. वेणो० ४६, श्रा० ११, सुर० २, २२६, (२) गुप्त दूत, जासूस Messenger, traducer spy प्राप०

सूत्रखदल पु० ( सूत्रखदल ) अन्नन्तकाय वनस्पति विशेष A kind of vegetable प्रव० ४, श्रा० २०.

सूत्रगार पु० ( सूत्रकार ) रसोया Cook स० १७, कुप्र० ६६, ३७, श्रावक० ६३ टी.

सूत्राण न० ( सूचन ) सूचना Information, hint उव० सुर० २, २३३

सूत्रा-सूद् बी० ( सूति ) प्रसव, प्रसूति, जन्म Birth पदम० २६, ८६, १, ६१, सुपा० २३. —कर्म न० ( कर्मन् ) प्रसव क्रिया Delivery of a child. सुर० १०, १, सुपा० ४०, —हृद न० ( गृह ) प्रसूति-गृह Maternity-chamber पदम० २६, ८६

सूत्राकर. त्रि० ( सूत्राकर ) सूचक Betraying, informing उप० ७६८ टी०

सूत्रारिणी बी० ( सूत्रारिणी ) रसोई बनाने वाली बी० Female cook पदम० ७७, १०३.

सूत्र पु० ( सूचिक ) दर्जी. Tailor कुप्र० ४०१

सूद्र्य न० ( सुद्र ) निद्रा Sleep महा०  
सूडण न० ( सूदन ) (१) भक्षण, विनाश Destruction, ruin गडड० (२) त्रि० विनाशक Destructive, ruinous. प्रव० २७१

सूया. त्रि० ( सूय ) सूजा हुआ, सूजन से फुला

हुआ Swollen पदम० १०३, १४८, गा० ६३६, स० ३७१, ४८०

सूय्य पु० ( सूयु ) पुत्र, लडका Son. कुप्र० ३१३

सूर पु० ( शूर ) (१) एक राजा Name of a king सुपा० ६२२, (२) पु० न० एक देव विमान A particular celestial car देवेन्द्र० १४३

सूर पु० ( सूर-सूर्य ) (१) इक्ष्वाकु वंश का एक राजा Name of a king of the Ikshvaku family पदम० ५, ६, (२) एक लका पति Name of a lord of Lanka पदम० ५, २६३, (३) छन्द का एक भेद A variety of metre पिंग०

सूरगय. पु० ( सूरगज ) एक राजा Name of a king उप० १०३१ टी

सूरवेग पु० ( सूरवेग ) एक राज-कुमार Name of a prince उप० १०३१ टी.

सूरसुत्र पु० ( सूरसुत ) शनैश्चर ग्रह. An epithet of Saturn नाट-मुच्छ० १६२

सूरि पु० ( सूरि ) आचार्य Acharya, priest जी० १, सख०

सूरित्रि त्रि० ( भग्न ) भागा हुआ Broken कुमा०

सूरोदय न० ( सूरोदय ) नगर विशेष Name of a city पदम० ८, १८६.

सूल पुं० न० ( शूल ) देश-विशेष Name of a country पदम० ६८, ६९.

सूलधर पु० ( शूलधर ) शिव, महादेव. Shiva, Mahadeo पिंग०

सूलि त्रि० ( शूलिन् ) (१) शूल रोग वाला. Suffering from colic वि० ३, (२)

पु० शिव, महादेव An epithet of Shiva पाश्र्व०

सूसास त्रि० ( सोच्छ्वास ) उर्ध्व रवास वाला. Breathing हे० १, १५७, कुमा०

सूत्रिय त्रि० ( शोषित ) सुखाया हुआ।  
 Dried up सुर० १५, २४८  
 सुसुत्र त्रि० ( सुश्रुत ) (१) अच्छी तरह सुना  
 हुआ. Well-heard (२) अच्छी तरह ज्ञात  
 Well-understood. वज्जा० १०६, (३)  
 पु० वैद्यक ग्रन्थ-विशेष. Name of a vol-  
 ume of medicine वज्जा० १०६  
 सेत्र पु० ( श्वेत ) शक्र की नट-सेना का अधि-  
 पति. A general of an army of  
 dancers of Shakra इक०  
 सेत्रावर पु० ( श्वेताम्बर ) (१) एक जैन संप्रदाय  
 A particular Jain sect स० २,  
 सम्मत्त० १२३, सुपा० २६६, (२) न० सफेद  
 वस्त्र A white garment पडम० ६६, ३०  
 सेत्रस पु० ( श्रेयास ) (१) एक राजकुमार  
 Name of a prince धण० १५, (२)  
 चतुर्थ वासुदेव तथा बलदेव के पूर्व जन्म के  
 धर्म गुरु Name of a religious  
 preceptor of the fourth Vasudeo  
 and Baladeo in the previous  
 birth पडम० २०, १७६,  
 सेत्रपड. पु० ( श्वेतपट ) श्वेताम्बर जैन, जैन  
 का एक सम्प्रदाय Shwetamber Jain  
 सु० ६४१, विश० २५८, धर्मस० ११०६  
 सेइत्र न० ( श्वेदित ) पसीना Sweet,  
 perspiration भवि०  
 सेड पु० न० ( सेडु ) (१) आलवाज, क्यारी,  
 थावला. A basin or trench for  
 water (round the root of a tree)  
 (२) क्यारी के पानी से सींचने योग्य खेत  
 Irrigable field नाया० १, १ टी  
 सेचण्य न० ( सेचनक ) सिंचन, छिटकाव  
 Sprinkling, watering मोह० २७  
 सेच्च न० ( शैत्य ) शीतपन, उदापन Cold-  
 ness, Frigidity प्राप्०  
 सेण पु० ( श्येन ) विद्याधर वश का एक राजा.

Name of a king of the Vidya-  
 dhar family पडम० २, १५.  
 सेणाणिय-सेणाणी पु० ( सेनानी ) सेनापति.  
 लश्कर का मुखिया. General, comma-  
 nder पडम० ३, ७७, सुपा० १००, धर्मवि०  
 ८४, पडम० ६४, २०  
 सेणामुह न० ( सेनामुख ) वह सेना, जिसमें  
 ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४५ प्यादे हों.  
 A division of an army consisting  
 of nine elephants as many cha-  
 11ots, 27 horses and 45 foot  
 पडम० ६६, ५.  
 सेणिया खी० ( श्रेणिका ) एक जैन मुनि-शाखा  
 A branch of Jain saints कप्प०  
 सेणिया-का खी० ( सैनिका ) छन्द का एक  
 भेद A variety of metre पिंग०  
 सेणिया, पु० ( सैनिक ) लश्करी सिपाही  
 Soldier स० ३८१  
 सेभालिया खी० ( शोफालिका ) जता-विशेष,  
 Name of a creeper हे० १, २३६,  
 प्राक्० १४  
 सेमुसी-ही खी० ( शोमुपी ) मेधा, बुद्धि  
 Intellect, understanding राज०  
 उप० पु० ३३३, हम्मिर० १४, २२  
 सेम्ह पु०-खी० ( श्लेष्मन् ) कफ Phlegm,  
 प्राक्० २२, पि० २६७.  
 सेर त्रि० ( सर ) स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र  
 Wanton, unrestrained, self-  
 willed. स्वम० ७७, विक्र० ३७  
 सेर त्रि० ( स्मेर ) विकस्वर Opening.  
 expanding हे० २, ७८, कुमा०  
 सेरधी. खी० ( सैरन्धी ) स्त्री-विशेष, ग्रन्थ के  
 घर में रह कर शिक्षण कार्य करने वाली स्वतन्त्र  
 स्त्री An independant female  
 artisan working in another per-  
 son's house कप्प०



सेरिह. पु० ( सैरिम ) भैंसा, महिप.  
 Buffalo गा० १७२, ७४२, नाट-मृच्छ०  
 १३५.  
 सेरीस पु० न० ( सेरीश ) एक गाव का नाम  
 Name of a village ती० ११  
 सेलजाया स्त्री० ( शैलजाया ) पार्वती. An  
 epithet of Parvati. रभा०  
 सेलस. न० ( शेलस ) वज्र Thunder-  
 bolt से० ३, २७  
 सेलसुत्रा स्त्री० ( शैलसुता ) पार्वती. An  
 epithet of Parvati. पाञ्च०  
 सेलाइच्च पु० ( शैलादित्य ) वल्लभीपुर का एक  
 प्रसिद्ध राजा Name of a celebrated  
 king of Vallabhipura. ती० १५  
 सेलेय त्रि० ( शैलेय ) पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय  
 Mountainous, produced from  
 rocks धर्मवि० १४०  
 सेवण न० ( सेवन ) सीना, सिलाई करना.  
 Sewing, stitching उप० पृ० १२२.  
 सेवल न० ( शैवल ) सेवार, सेवाल A  
 kind of aquatic plant, moss पाञ्च०  
 सेवा स्त्री० ( सेवा ) (१) उपभोग Use,  
 practice (२) आश्रय Resorting to.  
 (३) धाराधन Worshipping, serv-  
 ing हे० २, ६६, कुमा०  
 सेवाल पु० ( शैवाल ) एक तापस जिसको  
 गौतम स्वामी ने प्रतिबोध किया था Name  
 of an ascetic who was instruct-  
 ed by Gautam Swami कुप्र० २६३  
 सेवाल्लि पु० ( शैवाल्लिन् ) देखो "सेवाल"  
 शब्द Vide 'सेवाल'. उप० १४२ टी०  
 सेवाल्लिय त्रि० ( शैवाल्लिक ) सेवाल वाला,  
 शैवाल युक्त Mossy. 'सेवाल्लियभूमितले'  
 सुर० २, १०५.  
 सेस. पु० ( शेप ) (१) शेपनाग, सर्प-राज  
 Name of a celebrated serpent

से० २, २८, (२) छन्द का एक भेद. A  
 variety of metre. पिंग०  
 सेसराञ्च पु० ( शेपराज ) छन्द विशेष.  
 Name of a metre. पिंग०  
 सेसव. न० ( शैशव ) बाल्यावस्था Child-  
 hood, infancy दे० ७, ७६.  
 सेसा स्त्री० ( शेपा ) निर्माल्य. The re-  
 mains of flowers or other offer-  
 ings made to an idol and dis-  
 tributed among the worshippers  
 as a holy relique उप० ७२८ टी,  
 सिरि० ५५५.  
 सेसिञ्च त्रि० ( शेपित ) (१) बाकी बचाया  
 हुआ Remained गा० ६६१, (२) खतम  
 किया हुआ Completed, finished.  
 विशे० ३०२६.  
 सेसिञ्च त्रि० ( श्लेषित ) सवद्ध किया हुआ,  
 Joined, united. विशे० ३०३६.  
 सेहया स्त्री० ( शिचया ) शिचा, सजा, कद-  
 थना Punishment उव०  
 सेहर. पु० ( शेस्तर ) (१) छन्द-विशेष Name  
 of a metre. पिंग० (२) मस्तक-स्थित  
 माला A garland worn on the  
 head कुना०  
 सेहाली स्त्री० ( शेफाली ) लता-विशेष. A  
 kind of creeper दे० ५, ४  
 सोञ्च न० ( शौच ) चोरी का अभाव, पर-द्रव्य का  
 अहरण. Absence of stealing. नव०  
 २३, आ० ३१.  
 सोञ्चण न० ( स्वप्न ) शयन Sleeping उव०  
 सोञ्चण न० ( शेचन ) शुद्धि, प्रचालन.  
 Purity, washing स० ३४८  
 सोउ त्रि० ( श्रोतृ ) सुनने वाला Hearer.  
 स० ३, मासु० २  
 सोडिञ्च पु० ( शौडिचक ) दारू बेचने वाला,  
 कलवार Vintner अभि० १८८.

सौंडीर त्रि० ( शौण्डीर ) गर्व-युक्त, गर्वित  
Proud, haughty महा०

सौंडीर न० ( शौण्डीर्य ) (१) पराक्रम, शूरता.  
Heroism, valour (२) गर्व. Pride  
हे० २, ६३, पङ्०

सौंडीरिम् पु० स्त्री० ( शौण्डीरिमन् ) देखो  
'सौंडीर' शब्द. Vide 'सौंडीर' हे० २, ६३, पङ्०  
सोगध, सोगधिञ्च न० ( सौगन्ध्य ) लगातार  
चौबीस दिनों के उपवास Continued  
twenty-four fasts सबोध० १८, (२)  
सुगन्धिपन, सुगन्ध Fragrance सम्मत्त०  
२२०.

सोगधिञ्च. पु० न० ( सौगन्धिक ) (१) एक  
देव विमान देवेन्द्र० १४२ A particular  
celestial car (२) सुगन्ध वाला, सुगन्धी  
Fragrance. उवा० सम्मत्त० २२०

सोचिय त्रि० ( शोचित ) शुद्ध किया हुआ,  
प्रक्षालित. Purified स० ३४८.

सोजराण-ञ्च. न० (सौजन्य) सुजनता, सञ्जनता  
मलमनसी Goodness, gentility  
वप० ७२८ टी०, सुर० २, ६१

सोऽम्न त्रि० ( शोद्ध ) शोधनीय, शुद्धि-योग्य,  
शोधनीय To be purified or refin-  
ed. सू० प० १०, ६ टी

सोढ. त्रि० ( सोढ ) सहन किया हुआ Suffer-  
ed, endured उप० २६४ टी, धात्वा०  
१५७

सोण त्रि० ( शोण ) लाल, रक्त वर्ण वाला  
Red पाथ०

सोणहिञ्च त्रि० ( शौनकिक ) (१) रक्षान  
पालक A keeper of dogs (२) कुत्तों  
से शिकार करने वाला. Hunting by  
dogs स० २२३

सोणिञ्च पु० ( शौनिक ) कसाई Butcher  
दे० ६, ६१

सोणिम. पु० स्त्री० ( शौणिमन् ) रक्तता, लाठी

Redness विक्र० २८.

सोणय न० ( स्वर्ण ) सोना, सुवर्ण Gold.  
पाङ्क० ३०, सच्चि० २१

सोस्थि पु० न० ( स्वस्ति ) एक देव विमान.  
A particular celestial car.  
देवेन्द्र० १३३

सोदास पु० ( सौदास ) एक राजा Name  
of a king. पञ्चम० २२, ८१

सोपार, सोपारय पु० न० ( सोपार-क )  
(१) देश-विशेष Name of a country.  
पञ्चम० ६८, ६४, सुपा० २७५, (२) न० नगर  
विशेष Name of a city सार्ध० ३६,  
नी० ११

सोवधच त्रि० (सौबन्धव) सुबन्ध नामक कवि  
का बनाया हुआ ग्रन्थ A volume by  
the poet named Subandhu गवड०

सोभग. त्रि० (शोभक) (१) शोभनेवाला Shin-  
ing (२) शोभानेवाला Decorator कल्प०

सोम पु० (सोम) (१) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश.  
Name of a celebrated Kshatriya  
lineage पञ्चम० ५, २, (२) एक विद्याधर

नरपति Name of a Vidyadhar  
king पञ्चम० ७, ४३, (३) एक सेठ का

नाम Name of a wealthy man  
सुपा० ५६७, (४) लता विशेष, सोमलता

Name of a plant (५) उसका रस  
The juice of this plant (६)

अमृत Nectar पङ्० (७) पु० न० देव  
विमान विशेष A particular celestial

car देवेन्द्र० १३३, १४३, १४५, (८)  
यशस्वी, कीर्तिमान् Celebrated, re-

nowned कल्प०

सोमजस पु० ( सोमयशस् ) एक राजा  
Name of a king सुर० २, १३४.

सोमणस. न० ( सौमनस्य ) सुन्दर मन, सतुष्ट  
मन Satisfied of mind. कल्प०

सोमनाह पु० ( सोमनाथ ) सौराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव मूर्ति A celebrated idol of Mahadeo in Saurashtra ती० १५, सम्मत्त० ७५

सोमपुत्र-ह पु० ( सोमप्रभ ) (१) क्षत्रियों के सोमवश का आदि पुरुष, बाहुबलि का एक पुत्र The first man of Soma family of Kshatri race or a son of Bahubali पउम० ५, १०, कुप्र० २१२, (२) तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य और ग्रन्थकार Name of a Jain Acharya and author in the thirteenth century कुप्र० २१२

सोमभूइय न० ( सोमभूतिक ) एक कुल का नाम Name of a lineage कप्य०

सोमव-वा. त्रि० ( सोमप-पा ) सोमरस पीने वाला Drinker of Soma-juice प०

सोमसुन्दर पु० ( सोमसुन्दर ) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार. Name of a celebrated Jain Acharya and author सति० १४, कुलक० ४४

सोमाण न० ( श्मशान ) मसान, मरघट Cemetery, burning place दे० न, ४५

सोमाणस. पु० ( सौमानस ) सातवां अश्विन विमान The seventh Graiveyaka celestial car प्रव० १६४

सोमिन्दि. पु० ( सौमित्रि ) राम-भ्राता लक्ष्मण Lakshamana, brother of Rama गा० ३५

सोमिन्दि. स्त्री० ( सुमित्रा ) लक्ष्मण की माता Name of the mother of Lakshmana — पुत्र पु० ( पुत्र ) लक्ष्मण An epithet of Lakshmana 'रामसोमिन्दि-पुत्रा' पउम० ३८, ५०

सोमेसर पु० ( सोमेस्वर ) सौराष्ट्र का सोम-

नाथ महादेव Somanatha Mahadeo of Saurashtra सम्मत्त० ७५

सोमम त्रि० ( सौम्य ) (१) रमणीय, सुन्दर. Beautiful, charming से० १, २७, (२) ठंडा, शीतल Cold से० ४, ८, (३) शीतल प्रकृति वाला, शान्त स्वभाव वाला Gentle, mild से० ५, १६, विशेष० १७३१, (४) प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय लगे Of pleasing appearance, good-looking (५) जिसका अधिष्ठाता सोम देवता हो One whose presiding god is Soma (६) भास्वर, कान्ति वाला Shining, brilliant (७) पु० बुध ग्रह. The planet Mercury (८) शुभ ग्रह An auspicious planet (९) द्वृप आदि सम राशि Even Rashi ( a sign of the zodiac ) (१०) उदुम्बर वृक्ष The Udumbara tree (११) दीप विशेष Name of an island (१२) सोमरस पीने वाला ब्राह्मण A Brahamana drinking Soma juice प्राप्र० ८,

सोरट्ट पु० ( सौराष्ट्र ) (१) एक भारतीय देश, सोरठ, काठियावाड Soratha, a region in India इक० ती० १५, (२) सोरठ देश का निवासी An inhabitant of Soratha श्रावक० ६३, (३) न० छन्द विशेष, Name of a metre पिंग०

सोरट्टिया स्त्री० ( सौराष्ट्रिका ) एक जैनमुनिशाखा A branch of a Jain Saint कप्य० सोरठ्म सोरभ न० ( सौरभ ) सुगन्ध, खुशबू Fragrance विक्र० ११३, कुप्र० २२३, भवि० उप० ६८६टी०

सोरसेणी स्त्री० ( शौरसेनी ) शूरसेन देश की प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद The ancient language of Shursena country विक्र० ६७

सोरिअ न० (शौर्य) शूरता, पराक्रम.  
 Heroism, valour प्राप्० प्राक्० १६.  
 सोवकम-सोवकम त्रि० (सोपक्रम) निमित्त  
 कारण से जो नष्ट या कम हो सके वह कर्म,  
 आयु, आपदा आदि. A kind of Karma  
 which can be destroyed or  
 lessened by a cause सुपा० ४२२,  
 ४२६  
 सोवचिय त्रि० (सोपचित) उपचययुक्त, स्फीत,  
 पुष्ट Nourished, fat, bulky कप०  
 सोवण न० (स्वप्न) शयन, सोना Sleep-  
 ing. उप० पृ० २३७  
 सोवण त्रि० (सौवर्ण) स्वर्ण-निर्मित, सोने  
 का Golden, made of gold महा०  
 सम्मत्त० १७३  
 सोवणोअ पु० स्त्री० (सौपर्ण्य) गरुड पक्षी  
 Name of Garuda, a king of  
 birds. पद्०  
 सोववत्तिअ त्रि० (सोपपत्तिक) सथुक्तिक,  
 युक्ति-युक्त Argumentative उप०  
 ७२८ टी  
 सोविअ त्रि० (स्वोपित) सुलाया हुआ,  
 शायित Caused to sleep सुर० ४२४४,  
 उप० १०३१ टी  
 सोवियदल पु० स्त्री० (सौविदल) अन्त पुर  
 का रक्षक An attendant on the  
 women's apartments सुपा० ७  
 सोवीर पु० न० (सौवीर) अञ्जन-विशेष,  
 सौवीर देश में होनेवाला सुरमा A kind of  
 antimony or collyrium जी० ४.  
 सोसविअ त्रि० (शोषित) सुखाया हुआ  
 Dried up हे० ३, १२०, उव०  
 सोसास त्रि० (सोच्छ्वास) ऊर्ध्व श्वास युक्त,  
 Breathing पद्०  
 सोसिअ त्रि० (सोषिअत) ऊचा किया हुआ.  
 Lifted up, raised कप०

सोहग. पु० (शोधक) धोबी, रजक  
 Washerman. उप० पृ० २४१  
 सोहगग न० (सौभाग्य) पति प्रियता Love  
 of husband सुर० ३, १८१, प्रासू० ८५  
 —कापरुषख पु० (करुषवृक्ष) तप-विशेष, A  
 kind of religious austerity प्रव०  
 —गुलिया स्त्री० (गुटिका) सौभाग्य-जनक  
 मन्त्र-विशेष से सस्कृत गोली. A pill con-  
 secrated by Mantras producing  
 good fortune सुपा० २६७.  
 सोहगंगण न० (सौभाग्याञ्जन) सौभाग्य  
 जनक अञ्जन Collyrium producing  
 good luck सुपा० २६७  
 सोहगिअ त्रि० (सौभागित) भाग्यशाली,  
 सुन्दर भाग्य वाला Fortunate उप० पृ०  
 ४७, १०८  
 सोहण पु० (शोभन) एक प्रसिद्ध जैन मुनि  
 Name of a celebrated Jaina  
 saint सम्मत्त० ७२.  
 सोहणवर न० (शौभनवर) वैताढ्य की  
 उत्तर श्रेणी का एक विद्याधर नगर Name of  
 a Vidyadhar city in the north  
 of the mount Vairadhyia इक०  
 सोहद न० (सौहद) (१) मित्रता Friend-  
 ship, friendliness (२) बन्धुता,  
 Brotherhood अभि० २१८, अञ्जु० २०  
 सोहर्मिद पु० (सौधर्मिन्द्र) शक्र, प्रथम  
 देवलोक का स्वामी Shakra, lord of the  
 first heaven महा०  
 सोहम्मिय त्रि० (सौधर्मिक) सौधर्म देवलोक  
 का Relating to the Saudharma  
 heaven सण०  
 सोह्य त्रि० (शोधक) शुद्धि-कर्ता, सफाई  
 करने वाला Purifying विशे० ११६६.  
 सोहल त्रि० (शोभावत्) शोभा-युक्त.  
 Beautiful, lovely सण० सवि०

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| सोदा खी० ( शोभा ) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०               | one's Guru requital शोध० ७३१, ७३७.                             |
| सोदात्रिय त्रि० (शोधित) साफ कराया हुआ। Purified, cleansed स० ६२. | सोहि त्रि० ( शोभिन् ) शोभने वाला Shining सवोध० ४८, कप्पू० भवि० |
| सोहि खी० ( शोधि ) आलोचना, प्रायश्चित Expression of faults before | सोहिर. त्रि० ( शोभिन्तु ) शोभने वाला, Shining गा० १११.         |

## ह

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह पु० ( ह ) (१) कठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष A particular consonant. प्राप०प्रामा०(२)ग्र०सवोधन Addressing पि०२७२, (३) नियोग, निश्चयपन Certainty (४) निंदा Censure (५) निग्रह Restraint (६) प्रसिद्धि Fame, celebrity (७) पादपुति Filling out line हे० २, २१७ | विष्णु Vishnu (५) परमेश्वर, परमात्मा. God. (६) मत्सर Pride (७) मन्त्र-विशेष A kind of Mantra (८) शरीर स्थित वायु की चेष्टा विशेष A kind of movement of vital airs (९) मेरु पर्वत The mount Meru (१०) शिव महादेव Siva (११) अश्व की एक जाति. A kind of horse. (१२) श्रेष्ठ Anything best or excellent of its kind (१३) अगुया Leader (१४) विशुद्ध Pure. हे० २, १८२ |
| हह खी० ( हृति ) हनन, वध, मारण. Killing, destruction. आ० २७.                                                                                                                                                                                                   | हस्ततूली खी० ( हस्ततूली ) विछौने की गद्दी Bed-cushion सुर० ३, १८८, ६, १२८.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हता अ० ( हन्त ) (१) वाक्य का आरम्भ Beginning of a sentence (२) प्रत्यवधारण, Determining (३) संप्रेषण Sending (४) निर्देश Indicating. राज० (५) हर्ष Delight, joy (६) अनुकम्पा Compassion, pity. (७) सत्य. Truth                                                | हसद्वीप पु० (हसद्वीप) द्वीप-विशेष Name of an island पउम० १४, ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| हृदि. अ० ( हृदि ) (१) विषाद, खेद Grief, sorrow. (२) विकल्प. Doubt (३) पश्चान्ताप Repentance, Contition (४) निश्चय Determination (५) सत्य. Truth (६) उपदर्शन Sight पात्र० हे० २, १८०, षड्० कुपा० पचा० ३, १२, दसनि० ३, ३७                                       | हसय पु० न० ( हंसक ) नूपुर. An ornament for the anklets पात्र० सुपा० ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हस्त. पु० ( हस ) सूर्य, रवि The sun सिरि० १४७, (२) छन्द का एक भेद A variety of metre पिंग० (३) निकोमी राजा An unavaricious king. (४)                                                                                                                          | हस्ती खी०(हसी)हस पचीकी मादा Female goose पाथ० (२) छन्द का एक भेद A variety of metre पिंग०                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | हसुल्य पु० (हस) अश्व की उत्तम जाति A kind of noble horses सम्मत्त० २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | हहो अ०(हहो) (१) सम्बोधन, आमन्त्रण A vocative particle सुख० २३, १, धर्मवि० १५, उप० १३७ टी, (२) तिरस्कार Contempt धम्म० ११ टी०, (३) धर्म, गर्व. Pride (४) दम, कपट. Deceit. (५)                                                                                                                                                                                    |

परन Interrogation हे० २, २१७  
हकारण न० (आकारण) आह्वान Calling,  
inviting स० ३६४, कुम० २१६  
हकारिअ त्रि० (आकारित) आहूत Called,  
invited सुपा० २६६, ओष० ६२२ टी०, महा०  
हकिअ त्रि० ( निषिद्ध ) निवारित Pre-  
vented, warded off कुमा०  
हक्खुविअ त्रि० ( उन्निष ) उत्पादित Up-  
rooted, eradicated. कुमा०  
हच्चा स्त्री० ( हत्या ) वध, घात Killing,  
murder कुम० १२७, धर्मवि० १७  
हट्ट. पु० ( हट्ट ) (१) आणख, बाजार. Market,  
fall. गा० ७६४, भवि० (२) दुकान Shop  
सुपा० ११, १८६, गाई-वां स्त्री० ( गवी )  
व्यभिचारिणी स्त्री, कुञ्जटा Wanton wo-  
man, prostitute सुपा० ३०१, ३०२  
हट्टिगा हट्टी स्त्री० ( हट्टिका ) छोटी दुकान  
Small shop मोह० ६२, सुपा० १८६  
हट्ट त्रि० (हट्ट) (१) नीरोग, रोग रहित Free  
from disease, healthy, sound  
प्रब० ४, (२) शक्तिशाली जवान, समर्थ तरुण  
Strong and youngman कप० (३) हट्ट,  
मजबूत Firm, unswerving. ओष० ०२  
हडहड पु० ( हडहड ) हड हड आवाज The  
sound had had खिरि० ७७६  
हणण. न० ( हनन ) (१) मारण, वध Kill-  
ing, slaying (२) वध कर्ता Slayer.  
कुप० २२  
हणिअ त्रि० ( हत ) जिसका वध किया गया हो  
Killed, slain आ० २७, कुमा० प्रासू०  
१६, पिंग०  
हणिअ त्रि० ( श्रुत ) सुना हुआ Heard  
कुमा०  
हणिर. त्रि० ( हन्त ) वध करने वाला Killer  
सुपा० ६०७  
हणु-हणुमत-हणुवत पु० ( हनुमत ) हनुमान

रामचन्द्र जी का एक प्रख्यात अनुचर Name  
of a powerful monkey-chief.  
पउम० १, २६, १७, १२१, ४७, २६, हे० २,  
१४६, कुमा० प्रास० पउम० १६, १५, २६, २१.  
हणुरुह-हणुरुह न० ( हणुरुह ) नगर विशेष  
Name of a city पउम० १, ६१, १७,  
११८  
हत्तु त्रि० ( हत्तु ) हरण कर्ता One who  
takes away प्राक० २०  
हत्थ पु० ( हस्त ) (१) चौबीस अंगुल का  
एक परिमाण A measure of length  
equal to 24 angulas or about 18  
inches (२) हाथीकी सूड The trunk  
of an elephant हे० २, ४५, प्रास० (३)  
एक जैन मुनि Name of a Jaina  
Saint. कप०  
हत्याहत्थि स्त्री० ( हस्ताहस्तिका ) हाथोंहाथ,  
एक हाथ से दूसरे हाथ Hand to hand  
गा० १७६  
हत्थि पु० ( हस्तिन् ) नृप विशेष Name  
of a king ती० १४  
हत्थिपाल पु० ( हस्तिपाल ) भगवान महावीर  
के समय का पावापुरी का एक राजा Name  
of a king of Pavapuri at the  
time of Lord Mahavira कप०  
हत्थिलिज्ज न० ( हस्तिनीय ) एक जैन-मुनि-  
कुल A class of Jaina saints. कप०  
हत्थिविजय न० ( हस्तिविजय ) वैताल्य की  
उत्तर श्रेणि का एक विद्याधर नगर Name  
of a Vidyadhari city situated in  
the north of the mount Vaita-  
dhya इक०  
हत्थिसौडिगा स्त्री० ( हस्तिशुण्डिका ) आसन  
विशेष A kind of seat ग० २, १, टी०  
हम्म. न० ( हम्म ) क्रीडागृह A pleasure-  
house. से० ६, ४३.

हस्मिन्त्र त्रि० (इति) गत गया हुआ Gone, passed सं० ७४३

हम्मीर. पु० ( हम्मीर ) विक्रम की तेरहवीं सदी का एक मुसलमान राजा A Mahomedan king of the thirteenth century of Vikrama ती०२, हम्मीर० २७, पिंग०

हयमाकोड पु० ( हतमकोट ) एक विद्याधर नरेश Name of a Vidyadhar king पउम० १०, २०

हयाल त्रि० ( हताय ) निराश Hopeless, desponding पउम० ६१, ७४, गा० २६१. हे० १, २०६, २, १६२, उव०

हर पु० ( हर ) (१) महादेव, शंकर Siva सुपा० ३६३, कुमा० पद० हे० १२१, गा० ६८७, ७६४, (२) छन्द विशेष Name of a metre पिंग० —मेहल न० (मेहल) कला विशेष A kind of art. सिरि०२१, —वज्रहा स्त्री० ( वज्रहा ) गौरी, पार्वती An epithet of Parvati सुपा० २६७

हरअई-हरअई स्त्री० ( हरीतकी ) (१) हरे का पेड़ The tree of Turmeric (२) फल विशेष, हरे Turmeric पद० हे० १, ६६, कुमा०

हरण न० ( ग्रहण ) स्वीकार Acceptance कुमा०

हरण न० ( स्मरण ) स्मृति, याद Remembering, recollecting गा० ६४१

हरावित्र. त्रि० ( हारित ) हराया हुआ, जिस का पराभव किया गया हो Defeated हे० ४, ४०६

हरि पु० ( हरि ) (१) इन्द्र, देवराज Indra, Lord of gods कुमा० कुप्र० २३, सम्मत्त० २२१; ध्रु० ८१, (२) विष्णु, श्रीकृष्ण Vishnu, Shree Krishna. गा० ४०६, ४११, सुपा० १४३, (३) रामचन्द्र. Rama

chandra से० ३, ३१ (४) चानर बन्दर Monkey से० ४, २२, ६, २२, धर्मवि० २१, सम्मत्त० २२२, (५) अश्व, घोड़ा Horse. कुप्र० २३, सुख० ४, ६, उप० १०३१ टी, ती० ८, (६) भरत के साथ जैन दीक्षा लेने वाला एक राजा Name of a king initiated 1th Bharat पउम० ८२, ४, (७)

ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक योग. (In astrology A particular conjunction सवोध० २४, (८) छन्द का एक भेद A variety of metre. पिंग० (६) सर्प, साप Serpent (१०) भेंक, मयजूक Frog (११) चन्द्र The moon (१२) सूर्य The sun (१३) वायु, पवन Wind (१४) यम, यमराज Yama, god of death (१५) हर, महादेव Siva (१६) ब्रह्मा Brahma (१७) किरण. Ray (१८) वर्ष विशेष, A particular year (१९) मयूर, मोर Pea-cock (२०) कौकिल, कौयल Cuckoo (२१) भवृंहरी नामक एक विद्वान् A learned man named Bhartuhari (२२) पीला रंग Yellow colour (२३) पिंगल वर्ण Reddish-brown colour (२४) हरा रंग Green colour. हे० ३, ३८, (२५) हरिवर्ष चैत्र का मनुष्य विशेष. A kind of man of Harivarsha कल्प०

हरिश्चन्द्र पु० ( हरिश्चन्द्र ) स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा Name of a celebrated king हे० २, ८७, पद० गउड० कुमा०

हरिश्चन्द्रण न० ( हरिश्चन्द्र ) (१) चन्दन की एक जाति A kind of sandal wood से० ७, ३७, गउड० सुर० १६, १४, (२) पु० एक तरह का कवच वृक्ष A kind of the wish-yielding tree सुपा० ८७, गउड०

हरिआ स्त्री० (हरिता दूर्वा दूब, तृण-विशेष

A kind of grass से० ७, २६, ६, ३१

हारआल पु० (हरिताल) पक्षि-विशेष A

kind of bird हे० २, १२१

हरिकलि न० (हरिकाङ्कित्) नगर विशेष

Name of a city ती० २७.

हरिकेलि पु० (हरिकेलि) भारतीय देश विशेष

A region in India कप्प०

हरिकेलि पुं (हरिकेशिन्) एक जैन मुनि

Name of a Jain saint शु० १४०

हरिगोत्र. न० (हरिगीत) छन्द का एक भेद

A variety of metre. पिंग०

हरिगीव पु० (हरिगीव) राक्षस, वश का

एक राजा A king of the demon family पउम० ५, २६

हरिचन्द्र पु० (हरिचन्द्र) विद्याधर वश का

एक राजा Name of a king of the

Vidyadhar lineage पउम० ५, ४४,

(२) एक विद्याधर कुमार A Vidyadhar

prince महा०

हरिया पु० (हरिय) छन्द का एक भेद A

variety of metre पिंग०

हरियाक. पु० (हरियाङ्क) चन्द्र, चाद The

moon हे० ३, १८०

हरियाङ्कुस पु० (हरियाङ्कुश) चौथे बलदेव

के गुरु, एक जैन मुनि A Jain saint,

preceptor of the fourth Baladeo

पउम० २०, २०५

हरियायर न० (हरिनगर) वैताढ्य की दक्षिण

श्रेणि में स्थित एक विद्याधर नगर. Name of

a Vidyadhar city situated in

the South of the mount Vaita-

dhya इक०

हरियाच्छी. स्त्री० (हरियाची) सुन्दर नेत्र

वाली. A female having beautiful

eyes कप्प०

हरिणारि पु० (हरिणारि) सिंह Lion.

उप० पृ० २६

हरिणी स्त्री० (हरिणी) मादा हिरन, हिरनी.

Female deer पात्र० (२) छन्द-विशेष.

Name of a metre पिंग०

हरिताल पु० (हरिताल) द्वीप-विशेष Name

of an island इक०

हरिदास पु० (हरिदान) एक वणिक का नाम.

Name of a Bania पउम० ५, ८३

हरिधनु न० (हरिधनुप्) इन्द्र धनुष The

rain-bow उप० ५६७ टी०

हरिभद्र पु० (हरिभद्र) एक सुविख्यात जैन

शाचार्य तथा ग्रन्थकार. Name of a cele-

brated Jain Acharya and author

चेइय ३४, उप० १०३६, सुपा० १.

हरिवाहण पु० (हरिवाहन) मथुरा का एक

राजा Name of a king of Mathura

पउम० १२, २.

हरिसउर पु० (हर्षपुर) एक जैन गच्छ. A

particular Jain group सुपा० ६५८

हरिसण पु० (हर्षण) ज्योतिष प्रसिद्ध एक

योग (In astio) A particular co-

njunction सुपा० १०८

हरिसाइय त्रि० (हर्षित) हर्ष-प्राप्त Delight-

ed पउम० ६१, ७२

हरिसाल त्रि० (हर्षवत्) हर्ष युक्त Delight-

ed पाक० ३५

हरिसेण पु० (हरिसेण) भगवान् नमिनाथ जी

का प्रथम श्रावक The first Shrivaka

of Lord Naminatha विचार० ३७८.

हरे अ० (अरे) (१) चोप, निन्दा Censure

(२) सभाषण Conversation (३) रति-

कलह Sexual quarrel ई० २. २०२;

कुमा० स० ४३०, पि० ३३८

हरेणुया. स्त्री० (हरेणुका) म्रियगु, माखकगमी,

A kind of vegable उच्चि० ३.



हल न० ( हल ) हल, जिससे खेत जोतते हैं  
 Plough उवा० श्रोत्र०—उत्तय. पु० न०  
 (युक्तक) हल जोतना Ploughing सुपा०  
 २३७, २३६, सुर० २, ७७, —कुट्टाल-कुट्टाल पु०  
 (कुट्टाल) हलके ऊपर का भाग. The upper  
 part of a plough—धारण पु०  
 (धारण) बलभद्र, राम An epithet of  
 Bahama पउम० ११७, ६, —वाहग. त्रि०  
 (वाहक) हालिक, हल जोतनेवाला Plough-  
 man श्रा० २३

हला. स्त्री०(हला) सखी का आमन्त्रण, हे सखि  
 A vocative particle used in add-  
 ressing a female friend हे० २,  
 १६२, स्वम० ४०, अमि० २६, कुमा० गा०  
 ४३०, सुपा० ३४६.

हलाउह. पु० (हलायुध) बलभद्र. An epi-  
 thet of Balabhadra पउम० ३८, २३,  
 ७६, २६.

हलाहल न० (हलाहल) एक जात का उग्र  
 जहर, विष-विशेष A sort of deadly  
 poison प्रास० ३८

हलि पु० (हलिन) बलभद्र, बलराम An  
 epithet of Balarama पउम० ७०,  
 ३२, कुम० १०१.

हलिअ त्रि० (हालिक)हल जोतने वाला, कृपक  
 Ploughman हे० १, ६७, पाश्र० प्राप्र०  
 गा० १०७, ३१७, ३६०.

हलिआ स्त्री० (हलिका) बाह्यनी, जन्तु-विशेष  
 A kind of insect. कप०

हलिद्र पु० (हरिद्र) वृक्ष विशेष. A kind  
 of tree हे० १ २२४, गा० ८६३

हलुअ त्रि० (लघुक) हलका. Light, not  
 heavy हे० २, १२२, स० ७४२

हले अ०(हले) हे सखि, सखी का संबोधन A  
 vocative particle used in add-  
 ressing a female friend हे० २, १६२,

कुमा०  
 हलुअ न० (हलुक) पद्म-विशेष, रक्त कल्लार  
 The red lotus विक्र० २३

हवि पु० न० (हविस्) (१) घृत, घी  
 Ghee (२) हवनीय वस्तु Oblation  
 स० ६, ७१४, दसनि० १, १०४

हस पु० (हास) हास्य Laughter उप०  
 १०३१ टी०

हसिअ त्रि० (हसित) हास प्राप्त, हीन  
 Degraded, lacking. पच० २, २३

हसिर त्रि० (हसितृ) हास्य कर्ता, हसने की  
 आदत वाला Jolly. प्राप्र० गा० १७४,  
 उप० ७२८ टी, सुर० २, ७८, कुमा०

हस्स त्रि० (हस्व) (१) वामन, खर्व Dwarf-  
 fish, pigmy पाश्र० (२) पु० एक मात्र  
 वाला स्वर A short vowel पञ्च० ३६,  
 विशेष० २०६८

हस्सगय न० (हास्यगत) कला-विशेष A  
 kind of art स० ६०३

हस्सण त्रि० (हर्षण) हर्ष कारक Causing  
 delight, delightful विक्र० ८७.

हहह हहहहा. अ० (हहह-हा) (१) आश्चर्य  
 Surprise प्रयौ० ७४, (२) खेद, विपाद  
 Grief, sorrow सिरि० ६१२.

हहा. पु०(हहा)(१) गन्धर्व देवों की एक जाति.  
 A kind of Gandharva हे० ३, १२६,  
 (२) अ० खेद-सूचक अवयव A particle  
 expressing grief सिरि० २६८, ७६७.

हा अ० (हा) (१) विपाद, खेद Grief  
 सुर० १, ६६, स्वम० २७, गा० २१८, ७२२,  
 ३६०, प्रासू० २०, (२) शोक, दिलगीरी.  
 Sorrow (३) पीड़ा Pain (४) कुस्ता,  
 निन्दा Contempt हे० १, ६७, २, २१७-

हा कद पु० (हाकन्द) हाहाकार Bereave-  
 ment पिग० —रव पु०(रव) हाहाकार.  
 Bewailing सुर० २, १११.

हाकलि. स्त्री० ( हाकलि ) छन्द का एक भेद  
A variety of metre पिंग०  
हारत्र त्रि० ( हारक ) नाश-कर्ता Des-  
troyer अमि० १११.  
हारण त्रि० ( हारण ) नाश-कर्ता Destroyer.  
'हारण कारण दुहसयाण' पुष्प० २६२, धम्म०  
१० टी.  
हारवित्र त्रि० ( हारित ) नाशित Destroy-  
ed कुमा० सुपा० ५१२.  
हारि. स्त्री० ( हारि ) (१) हार, परजय  
Defeat. उप० पृ० ५२, (२) पक्ति, श्रेणि  
(Line, row कुम० ३४४ (३) छन्द-विशेष  
'Name of a metre पिंग०  
हारि त्रि० ( हारिन् ) मनोहार, चित्ताकर्षक  
Charming, attractive गडड०  
हारित्र त्रि० ( हारित ) (१) हारा हुआ, घूत  
आदि में पराजित Defeated. सुपा० ३६६,  
महा० भवि० (२) खोया हुआ, गुमाया हुआ.  
Lost बब० १, सुपा० १६६  
हारित्रमालागारी स्त्री० ( हारितमालागारी )  
एक जैन मुनि शाखा A branch of Jain  
saints कम्प०  
हारियद् त्रि० ( हारिचन्द्र ) हरिचन्द्र का,  
हरिचन्द्र कवि का बनाया हुआ, Relating  
to Harichandria, made by Harichandria गडड०  
हारिया स्त्री० ( हारीता ) एक जैन मुनि शाखा  
A branch of Jain saints राज०  
हारियायण न० ( हारितायन ) एक गोत्र  
Name of a family कम्प०  
हारीय. पु० ( हारीत ) मुनि विशेष Name  
of a saint (२) गोत्र-विशेष Name of  
a lineage राज०  
हारीयवध पु० ( हारीतवध ) छन्द-विशेष  
Name of a metre पिंग०  
हाल पु० ( हाल ) राजा सातवाहन, गाथा

सस्यती का कर्ता Name of king  
Satvahan दे० न, ६६, २, ३६, गा० ३;  
वजा० ६४  
हाला स्त्री० ( हाला ) मदिरा, दारू Liquor,  
wine पाञ्च० कुम० ४०७, रमा०  
हालाहल पु० ( हालाहल ) रावण का एक  
सुभट Name of a warrior of  
Ravana पडम० ५६, ३३  
हालिज्ज न० ( हालीय ) एक जैन मुनि-कुल.  
A particular group of Jain  
saints कम्प०  
हालिद् पु० न० ( हारिद् ) एक देव विमान.  
A particular celestial car  
देवेन्द्र० १३२.  
हावण त्रि० ( हापन ) हानि करने वाला.  
Injurious, hurtful हे० २, १७८  
हासण त्रि० ( हासन ) (१) हास्य कराने  
वाला Causing to laughter प्रव०  
७३ टी  
हासावित्र-हासित्र त्रि० ( हासित ) हसाया  
हुआ Caused to laugh. गा० १२३,  
पड० कुमा० हे० ३, १५६  
हासित्र. त्रि० ( हास्य ) हमने योग्य. To be  
laughed गा० ६०५, हे० ३, १०५  
हाहा पु० ( हाहा ) गन्धर्व देवों की एक जाति  
A kind of Ghandharvas सुपा० ५६,  
कुमा० धर्मवि० ४८  
हाहाकार पु० ( हाहाकार ) हाहाकार, शोक  
शब्द. An atmosphere of terror  
or bereavement महा० भवि० वेशी०  
१३६  
हाहारव पु० ( हाहारव ) हाहाकार GJoans,  
an atmosphere of terror or ber-  
eavement महा० सुपा० १३६, भवि०  
हाहाहूहू. स्त्री० ( हाहाहूहू ) सख्या विशेष. A  
particular number इक०

हल न० ( हल ) हल, जिससे खेत जोतते हैं  
 Plough उवा० ओव० —उत्तय, पु० न०  
 (युक्तक) हल जोतना Ploughing सुपा०  
 २३७, २३६, सुर० २, ७७, —कुहाल कुहाल पु०  
 (कुहाल) हलके ऊपर का भाग, The upper  
 part of a plough—धारण पु०  
 (धारण) बलभद्र, राम An epithet of  
 Bahama पउम० ११७, ६, —वाहग, त्रि०  
 (वाहक) हालिक, हल जोतनेवाला Plough-  
 man शि० २३  
 हला. स्त्री०(हला) सखी का आमन्त्रण, हे सखि  
 A vocative particle used in add-  
 ressing a female friend हे० २,  
 १६६, स्वम० ४०, अमि० २६, कुमा० गा०  
 ४३०, सुपा० ३२६  
 हलाउह. पु० (हलायुध) बलभद्र. An epi-  
 thet of Balabhadra पउम० ३८, २३,  
 ७६, २६.  
 हलाहल न० (हलाहल) एक जात का उग्र  
 जहर, विष विशेष A sort of deadly  
 poison प्रासू० ३८  
 हलि पु० (हलिन) बलभद्र, बलराम An  
 epithet of Balarama पउम० ७०,  
 ३६, कुम० १०१.  
 हलिअ त्रि० (हालिक)हल जोतने वाला, कृपक  
 Ploughman हे० १, ६७, पाथ० प्राप्र०  
 गा० १०७, ३१७, ३६०.  
 हलिआ स्त्री० (हलिका) वाहनी, जन्तु-विशेष  
 A kind of insect कल्प०  
 हलिद्ध पु० (हरिद्ध) वृक्ष विशेष A kind  
 of tree हे० १ २६४, गा० ८६३  
 हलुअ त्रि० (लघुक) हलका. Light, not  
 heavy हे० २, १२२, स० ७४४  
 हले अ०, हले) हे सखि, सखी का संबोधन A  
 vocative particle used in add-  
 ressing a female friend हे० २, १६६,

कुमा०

हल्लअ न० (हल्लक) पद्म-विशेष, रक्त कद्दार  
 The red lotus विक्र० २३

हवि पु० न० (हविस्) (१) घृत, घी  
 Ghee (२) हवनीय वस्तु Oblation  
 स० ६, ७१४, दसनि० १, १०४

हस पु० (हास) हास्य Laughter उप०  
 १०३१ टी०

हसिअ त्रि० (हसित) हास प्राप्त, हीन  
 Degraded, lacking पच० ६, ४३

हसिर त्रि० (हसितृ) हास्य कर्ता, हसने की  
 श्रावत वाला Jolly प्राप्र० गा० १७४,  
 उप० ७२८ टी, सुर० २, ७८, कुमा०

हस्स त्रि० (हस्व) (१) वामन, खर्व Dwar-  
 fish, pigmy पाय० (२) पु० एक मात्र  
 वाला स्वर A short vowel पत्र० ३६,  
 विशेष० ३०६८

हस्सगय न० (हास्यगत) कला-विशेष A  
 kind of art स० ६०३

हस्सण त्रि० (हर्षण) हर्ष कारक Caus-  
 ing delight, delightful विक्र० ८७

हहह दहहहा. अ० (हहह-हा) (१) आश्चर्य  
 Surprise प्रयौ० ७२, (२) खेद, विपाद  
 Grief, sorrow सिरि० ६१२

हहा. पु० (हहा) (१) गन्धर्व देवों की एक जाति  
 A kind of Gandharva हे० ३, १२६,  
 (२) अ० खेद सूचक अण्वय A particle  
 expressing grief सिरि० २६८, ७६७.

हा अ० (हा) (१) विपाद, खेद Grief.  
 सुर० १, ६६, स्वप्न० २७, गा० २१८, ७६२,  
 ६६०, प्रासू० २०, (२) शोक, दिलगिरी.  
 Sorrow (३) पीड़ा Pain (४) कुसा,  
 निन्दा Contempt हे० १, ६७, २, २१७-

हा-कद पु० (हाकन्द) हाहाकार Bearer-  
 ment पिंग० —रव पु० (रव) हाहाकार.  
 Bewailings सुर० २, १११.

हाकलि. स्त्री० ( हाकलि ) छन्द का एक भेद

A variety of metre पिंग०

हारत्र त्रि० ( हारक ) नाश-कर्ता Destroyer अमि० १११.

हारण त्रि० ( हारण ) नाश कर्ता Destroyer. 'हारण कारण दुहसयाण' पुष्प० २६२, यम्म० १० टी.

हारवित्र त्रि० ( हारित ) नाशित Destroyed कुमा० सुपा० २१२.

हारि. स्त्री० ( हारि ) (१) हार, पराजय Defeat. उप० पृ० ५२, (२) पक्ति, श्रेणि Line, low कुम० ३४४ (३) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

हारि त्रि० ( हारिन् ) मनोहर, चित्ताकर्षक Charming, attractive गडड०

हारिश्च त्रि० ( हारित ) (१) हारा हुआ, चूत आदि में पराजित Defeated सुपा० ३६२, महा० भवि० (२) खोया हुआ, गुमाया हुआ. Lost वव० १, सुपा० १६६

हारिश्चमालागारी स्त्री० ( हारितमालागारी ) एक जैन मुनि शाखा. A branch of Jain saints कम्प०

हारियंद त्रि० ( हारिचन्द्र ) हरिचन्द्र का, हरिचन्द्र कवि का बनाया हुआ, Relating to Harichandra, made by Harichandra गडड०

हारिया स्त्री० ( हारीता ) एक जैन मुनि शाखा A branch of Jaina saints राज०

हारियायण न० ( हारितायन ) एक गोत्र Name of a family कम्प०

हारीय पु० ( हारीत ) मुनि विशेष Name of a saint (२) गोत्र-विशेष Name of a lineage राज०

हारीयबंध पु० ( हारीतबन्ध ) छन्द-विशेष Name of a metre पिंग०

हाल पु० ( हाल ) राजा सातवाहन, गाथा

सप्तशती का कर्ता. Name of king Satvahan वे० म, ६६, २, ३६, गा० ३; वजा० ६४

हाला स्त्री० ( हाला ) मदिरा, दारू Liquor, wine पात्र० कुम० ४०७, रभा०

हालाहल पुं० ( हालाहल ) रावण का एक सुभट Name of a warrior of Ravana पउम० ५६, ३३

हालिज्ज न० ( हालीय ) एक जैन मुनि-कुल. A particular group of Jaina saints कम्प०

हालिद्द पुं० न० ( हारिद्र ) एक देव विमान. A particular celestial car देवेन्द्र० १३२

हावण त्रि० ( हापन ) हानि करने वाला. Injurious, hurtful हे० २, १७म

हासण त्रि० ( हासन ) (१) हास्य कराने वाला Causing to laughter प्रव० ७३ टी

हासावित्र-हासिश्च त्रि० ( हासित ) हमाया हुआ Caused to laugh गा० १२३, पड० कुमा० हे० ३, १२६

हासिश्च त्रि० ( हास्य ) हसने योग्य. To be laughed गा० ६०५, हे० ३, १०५

हाहा पु० ( हाहा ) गन्धर्व देवों की एक जाति A kind of Ghandharvas सुपा० ५६, कुमा० धर्मवि० ४म

हाहाकार पु० ( हाहाकार ) हाहाकार, शोक शब्द. An atmosphere of terror or bereavement महा० भवि० वेणी० १३६

हाहारव पु० ( हाहारव ) हाहाकार Groans, an atmosphere of terror or bereavement महा० सुपा० १३६, भवि०

हाहाहह. स्त्री० ( हाहाहह ) सख्या विशेष A particular number इक०

हाहाहृअग. न० (हाहाहृअग) सय्या विशेष

A particular number इक०

हि-भ० ( हि ) (१) अवधारण, निश्चय Decided sure स्वप्न० १०, (२) हेतु, कारण For, because (expressing a strict or logical reason) कुमा० ८, १७, कप्प० (३) एवम्, इसी तरह For instance गउड० ३२४, सय्या० (४) विशेष Only, alone (to emphasize an idea) (५) प्रश्न Interrogation (६) सन्नम Confusion. (७) शोक Grief. (८) असूया Envy, jealousy (९) पाद-पूरण Sometimes it is used merely as an expletive कुमा० गउड० गा० २४२, २६५, ६०२, ६४८, पिग० दे० २, २१७.

हिअ त्रि० हुत ) (१) विनष्ट, स्फोटित Ruined, destroyed पिंढ० ४१५, (२) आकृष्ट, खींचा हुआ Attracted

हिअ. त्रि० (हित) स्थापित, निहित Established भत्त० ७८

हिअकर पु० (हितकर) राम-पुत्र कुश के पूर्वजन्म का नाम. Name of a previous birth of Rama's son named Kusha पउम० १०४, २६,

हिअकर पु० (हितकर) (१) दो उपवास. Two fasts at a time. सवोध० ५८, (२) एक वसिष्ठ का नाम Name of a Bania पउम० ५, २८.

हिअय. न० (हृदय) (१) वचस्, छाती Bosom, chest or breast से० ४, २१, (२) परब्रह्म The supreme spirit प्राप्र०

हिआली स्त्री० (हृदयाली) काव्य-समस्या विशेष, गूढार्थक काव्य विशेष A particular Samasya (proposing part

of a stanza to another to be completed), वज्जा० १२४.

हिइ स्त्री० (हति) (१) अपहरण Seizure (२) न० स्थानान्तर में ले जाना Taking or carrying away, removing-सदि० ५

हिओ-अ० (ह्यस्) गत काल Yesterday. अभि० ५६, प्राप० पि० १३४

हिगुसिद्य पु० (हिगुशिव) व्यन्तर देव-विशेष A particular Vyantar god वसनि० १, ६९.

हिंजीर न० (हिंजीर) शृखलक, सिकरी, साकल. Chain, fetter दे० १, ११९, गउड०

हिंडण न० (हियडन) (१) परिभ्रमण, पर्यटन Wandering or roaming about. पउम० ३७, १८, स० ४६, (२) गमन, गति. Motion, movement उप० १०१७, (३) भ्रमण शील Moving, going दे० २, १०६.

हिंडि स्त्री० (हिण्डि) परिभ्रमण, पर्यटन, Wandering or roaming about कर्म० १६,

हिडि पु० (हिण्डिन्) रावण का एक सुभट Name of a warrior of Ravana पउम० ५६, ३३

हिंताल पु० (हिन्ताल) वृक्ष-विशेष A kind of tree उप० १०३१ टी, कुमा०

हिंदोल पु० (हिन्दोल) हिंदोला, झूलना, डोला Swing कप्प०

हिंदोलाण. न० (हिन्दोलन) झूलना, दोलन Swing कप्प०

हिंसण. न० (हिसन) हिंसा Killing सत्त० ४२.

हिंसा स्त्री० (हिंसा) श्रय का शब्द Neighbour 'गयगति ह्यहिंस च' सुपा० १२४.

हिंसिय त्रि० ( हिंसित ) हिंसा प्राप्त Killed  
राज०

हिंसिय न० ( हेपित ) अश्व-शब्द Neigh-  
ing, पउम० ६, १८०, दस० ३, १ टी  
हिंसी स्त्री० ( हिंसी ) लता-विशेष A kind  
of creeper गउड०

हिक्का स्त्री० ( हिक्का ) रोग विशेष, हिचकी  
Hicough सुपा० ४८६

हिज्रो अ० ( ह्यस् ) गत काल Yesterday  
पड्० दे० ८, ६७, पाअ० प्रयौ० १३, पि०  
१३४

हिडिंब पुं० ( हिडिम्ब ) एक विद्याधर राजा  
Name of a Vidhyadhar king  
पउम० १०, २०, (२) एक राक्षस Name  
of a demon वेणी० १७७, (३) देश-  
विशेष Name of a country. पउम०  
६८, ६९.

हिडिंबा, स्त्री० ( हिडिम्बा ) एक राक्षसी  
हिडिम्ब राक्षस की बहिन Name of a  
female demon, sister of Hidimba  
हे० ४, २६६

हिणित. त्रि० ( भणित ) उक्त कथित Said,  
told गा० ६६३

हिदि अ० ( हृदि ) हृदय में. In the  
heart विशेष० २२०

हिम न० ( हिम ) (१) चन्दन, श्रीखण्ड  
Sandal से० २, ११, (२) शीत, ठडक,  
जाबा Coldness, chillness बृह० १, (३)  
पु० छठवीं नरक पृथ्वी का पहला नरकेन्द्रक  
Name of an abode of the sixth  
hell देवेन्द्र० १२ (४) ऋतु विशेष, मार्गशीर्ष  
तथा पौष का महीना The cold season,  
the winter उप० ७२८ टी,—कर. पु०  
( कर ) चन्द्रमा, चाद The moon  
सुपा० ५१—गिरि. पु० ( गिरि ) हिमाचल  
पर्वत. The mount Himalayas

कुमा० भवि० सया०—वाम, पु० ( धामन् )  
देखो उपरोक्त अर्थ The Himalayas.  
धम० ६ टी

हिमसेल पु० ( हिमशैल ) हिमालय पर्वत  
The Himalaya mountain उप०  
२११ टी.

हिमागम. पु० ( हिमागम ) ऋतु विशेष, हेमन्त  
ऋतु The winter season गा० ३३०  
हिययहारि त्रि० ( हृदयहारिन् ) चित्ताकर्षक  
Fascinating, attractive. उप०  
७२८ टी०

हिरण्यकल पु० ( हिरण्याक्ष ) एक दैत्य  
Name a demon से० ४, २२

हिरण्यगर्भ पु० ( हिरण्यगर्भ ) (१) ब्रह्मा An  
epithet of Brahma (२) जित भग-  
वान् Jinadeo 'तेषु हिरण्यगर्भो' पउम०  
३, ६८, १०६, १२

हिरि पु० ( हिरि ) भालू का शब्द Sound  
of a bear पउम० ६४, ४२.

हिरिअ त्रि० ( हीत ) लजित Ashamed  
हे० २, १०४

हिरिआ स्त्री० ( हीका ) लजा, शरम, Shame  
उप० ७०६, कुमा०

हिरिवेर पु० ( हीवेर ) तृणविशेष, सुगन्धवान्ना.  
A kind of grass पाअ० उचनि० ३

हिरी स्त्री० ( ही ) महाहिमवान् पर्वत का एक  
कूट A summit of the mount  
Mahahimavana. हि० (२) देव-प्रतिमा-  
विशेष. A particular idol of a god.  
नाया० १, १ टी०

ही-अ०. ( ही ) (१) विस्मय, आश्चर्य Sur-  
prise सिरि० ४७३, (२) दुःख Pain  
उप० २६७ टी, (३) विपाद, खेद Grief.  
(४) शोक, दिलगीरी Sorrow कुमा० रमा०  
आ० १६, कुम० ४३६, (५) चिन्तक  
Thought सिरि० २६८

- हो-अ० ( हौं ) मन्त्राचर-विशेष, मायावीज  
A particular Mantra सिरि०  
१२१०.
- हीण त्रि० ( हीन ) (१) निन्द्य, निन्दनीय  
Censurable, reprehensible मासू०  
१२५, उप० ७२८ टी (२) पु० प्रतिवादि  
विशेष. A kind of defendant or  
respondent हे० १, १०३ —जाइल  
त्रि०(जातिरु) अधमजाति का, नीच जाति का  
Of low family, उप० ७२८ टी, —वाइ  
पु० (वादिन्) वादि विशेष Opening of a  
statement सुप० २८२
- हीण त्रि० ( हीय ) भीत Frightened,  
alarmed विवा० १, २ टी
- हीर पु०(हीर) (१) छन्द विशेष Name of  
a metre विग० (२) दाढा का अग्रभाग  
से० ४, १४
- हीलय न० ( हेलन ) (१) अवज्ञा, तिरस्कार  
Disregard, insult. (२) निन्दा. Con-  
tempt. सुपा० १०४
- हु-अ० ( खलु ) (१) ऊह, वितर्क Guess,  
conjecture हे० २, १६८, कुमा० प्राक०  
७८, (२) संशय, संदेह Doubt हे० २,  
१६८, कुमा० (३) संभावना Possibility  
हे० २, १६८, कुमा० प्राक० ७८, (४) विस्मय,  
आश्चर्य Surprise हे० २, १६८, कुमा०  
(५) किन्तु परन्तु But मासू० १०१, (६)  
अपि, भी Also. धर्मसं० १४० टी, (७)  
वाक्य की शोभा Sometimes only to  
add grace to the sentence पचा०  
७, ३२, (६) पादपूर्ति, पाद-पूरण Some-  
times it is used as an expletive  
पत्रम० ८, १४६, कुमा०
- हुँ-अ० ( हुँ ) (१) दान Donation (२)  
पृच्छा प्रश्न. Interrogation हे० २,  
१६७, मासू० कुमा० (३) निवारण Pre-
- venting, warding off हे० २, १६७,  
कुमा०(४) निर्धारण Certainty, ascer-  
tainment प्रा० रभा० (५) स्वीकार  
Accepting आ० १२, कुम० ३४५, (६)  
हुंकार, 'हुँ' शब्द Uttering of 'Hun'  
सुपा० २६२, (७) अनादर Disrespect,  
disdain सिरि० १२३
- हुकार पु० ( हुकार ) (१) अनुमति प्रकाशक  
शब्द, हा A sound expressing con-  
sent विशेष २६२, से० १०, २४, गा०  
३२६, (२) 'हु' आवाज, 'हु' ऐसा शब्द 'The  
word 'Hun' हे० ४, ४२२, कल्प० सुर०  
१, २४६
- हुँकारिय. न० ( हुँकारित ) 'हुँ' ऐसी की हुई  
आवाज Uttered the word 'Hun'  
सं० ३७७
- हुँडवसपिण्णी स्त्री० ( हुँडवसपिण्णी ) वर्त-  
मान हीन सभ्य Shortcomings of  
the present times. विचार० २०३.
- हुलण त्रि० ( मार्जन ) सफा करने वाला  
Cleaner, washer कुमा० ६, ६८
- हुलण न० ( छेपण ) फेंकना Throwing  
कुमा०
- हुलुरु अ० ( हुलुरु ) अनुकरण शब्द विशेष,  
हुलुरु ऐसा शब्द An imitating word  
हे० ४, ४२३, कुमा०
- हुअ त्रि० ( हुत ) आहूत, आकारित Call-  
ed, invited हे० २, ६६
- हुह पु० ( हुह ) गन्धर्व देवों की एक जाति  
A kind of Gandharvas धर्मवि० ६८,  
सुपा० २६
- हे-अ० ( हे ) (१) संबोधन Calling, in-  
viting. A vocative particle (२)  
असूवा, ईर्ष्या An interjection ex-  
pressing envy हे० २, २१७ टी, वि०  
७१, ४०३; नवि०

हेअंगवीण. न० ( हैयङ्गवीन ) नवनीत, मक्खन  
Butter. (२) ताजा घी Fish ghee  
नाट-साहित्य० २३६.

हेउ. पु० न० (१) अनुमान का एक अंग  
The reason for an inference  
(forming the second member of  
the five-membered syllogism)  
धर्म० ७७, डा० ४, ४ टो. (२) प्रमाण A  
mode of proof.

हेउअ त्रि० ( हैतुक ) हेतुवाद को मानने वाला,  
Argumentative, rationalistic  
सम्म० १४२, उवर० १२१

हेम न० ( हेम ) (१) धतूरा, The thorn-  
apple (२) मासे का परिमाण A parti-  
cular weight of gold (३) त्रि०  
पंडित. Learned (४) पु० काला घोड़ा,  
Dark or brown-coloured horse  
सच्चि० ७, (५) एक विद्याधर राजा Name of  
a Vidyadhar king पउम० १०, २१

हेमपुर न० ( हेमपुर ) एक विद्याधर नगर  
Name of a Vidyadhar city. इक०

हेममय त्रि० ( हेममय ) सोने का बना हुआ.

Made of gold, golden सुपा० ८८

हेममहिहर पु० ( हेममहिधर ) मेरु पर्वत  
The mount Meru गउड०

हेममालिणी स्त्री० ( हेममालिनी ) एक  
विक्रुमारी देवी Name of a Dikku-  
maii goddess इक०

हेमविमल पु० ( हेमविमल ) एक जैन आचार्य.  
Name of a Jain Acharya कुम्भा०  
३१.

हेरियण्य. पु० ( हेरियिक ) सुवर्णकार  
Goldsmith उप० पु० २१०.

हेरिअ पु० ( हेरिक ) गुप्तचर. जासूस. Spy,  
emissary. सुपा० ४६४, १८६.

हेला स्त्री० ( हेला ) स्त्री की शृंगार रस सन्धवी  
चेष्टा-विशेष Amorous sport or dal-  
liance of a woman. पाअ० (२) अना-  
दर. Disrespect, insult. पाअ० से० १,  
२५, (३) अनायास, अल्प प्रयास, सरलता.  
Ease, facility. से० १, २५, कप्पू०  
प्रवि० ११, पि० ३७५

हेलिय. पु० ( हैलिक ) एक तरह की मछली.  
A kind of fish. जीव० १ टो०

हेवाग. पु० ( हेवाक ) स्वभाव, आदत.  
Nature, habit राज०

हेसा स्त्री० ( हेपा ) अश्व शब्द. Neighing.  
सुपा० २८८, आ० २७

हेहय पु० ( हैहय ) एक राजा Name of a  
king राज०

हेहयडिंव. पु० ( हैहयडिंभ्व ) एक विद्याधर  
राजा Name of a Vidyadhar king  
पउम० १०, २०

होलिआ स्त्री० ( होलिका ) होली फागुन मास  
का पर्व विशेष The Hol festival  
सडि० ७८ टी.

इति श्री लिम्बडी संप्रदाय तिलकायमान पूज्यपाद श्री १००८  
श्री गुलाबचन्द्रजित्स्वामि शिष्य श्री जिनशासन रुधाकर  
शतावधानि-परिडित प्रवरमुनिराजश्री १००८ श्रीरत्नचन्द्र  
जित्स्वामि विरचिते बृहत्कोषे पञ्चमभागे सप्रमाणं  
महाराष्ट्रीय प्राकृत विभागः समाप्तः ।  
\* ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः \*



॥ श्री : ॥

—: नमोऽस्तु पार्श्वनाथाय :—

## देशी-प्राकृ कोष

अअख त्रि० स्नेह रहित, सूखा Devoid of love or affection दे० १, १३  
अङ्गय त्रि० (१) आया हुआ Received, arrived (२) जिसने प्रवेश किया हो वह One who enters, entered दे० १, २७ (३) मार्ग का पीछला भाग The back part of the road दे० १, २७  
अङ्गु न० गिरि तट, तराई, पहाड़ का निम्न भाग The foot of the mountain दे० १, १०  
अङ्गिणी-णी-य त्रि० आनीत, लाया हुआ Brought, conveyed दे० १, २४, महा०  
अङ्गु पु० आयुक्त, गाव का राज नियुक्त मुखिया Chiet of a village, chieftain दे० १, १६  
अङ्गणी स्त्री० (१) इन्द्राणी The wife of India (२) सौभाग्य के लिए इन्द्राणी-व्रत करने वाली स्त्री A woman who observes certain vows (as those observed by goddess Indian) for the welfare and longevity of her husband दे० १, २८  
अङ्गिणी पु० बातचीत, कहानी Talk, tale दे० १, २६  
अङ्गारा स्त्री० विजली, चपला Lightening दे० १, ३४  
अउस पु० उपासक, पुजारी Worshipper प्रथम० ८२

अ अ० स्मरण द्योतक अन्वय A particular expression of remembrance 'अ दृष्ट्वा' प्राकृ० ८०  
अकार पु० सहायता, मदद Help, aid, support दे० १, ६  
अकिञ्च न० आलिंगन Embrace दे० १, ११.  
अकिञ्चल पु० नट, नर्तक, नचवैया Dancer नाया० १, १  
अङ्गुसङ्घ न० अक्षु के आकार वाली चीज A thing having the form of a hook or goad दे० १, ३८, से० ६, ६३  
अकेरिल पु० अशोक वृक्ष Name of a particular tree दे० १, ७  
अगवङ्गुण न० रोग, बीमारी A disease दे० १, ४७  
अगवलिज्ज न० शरीर को मोड़ना Bending of the body दे० १, ४२  
अगालिय न० ईखका टुकड़ा A fragment of sugar-cane दे० १, २८  
अगुट्टी स्त्री० शिरका अवगुण्डन, घूघट A veil दे० १, ६, से० २८४  
अगुत्थल न० अगुठी, अगुलीय A ring दे० १, ३१  
अगुलिणी स्त्री० प्रियगु, वृक्ष विशेष A kind of tree दे० १, ३२  
अगोहली स्त्री० शिरको छोड़कर बाकी शरीर का स्नान Washing the whole body except the head उप० पु० २३

- अक्षिय त्रि० ग्राह्य, खीचा हुआ Attia-  
cted, drawn towards दे० १, १४
- अजण्डसिद्धा स्त्री० वृक्ष विशेष, श्याम तमाल  
का पेड़ A kind of tree दे० १, ३७
- अजण्डसिद्ध न० देखो ऊपरका शब्द Vide  
'अजण्डसिद्धा' दे० २, ३७
- अजण्डसिद्धा स्त्री० देखो ऊपरका शब्द Vide  
'अजण्डसिद्धा' दे० १, ३७
- अजस त्रि० ऋजु, सरल Upright, hon-  
est दे० १, १४
- अतरिञ्ज न० करघनी, कडीसूत्र A wa-  
ist band दे० १, ३५
- अतरिया स्त्री० समाप्ति, अंत Completion,  
end ज० २
- अतीहरी स्त्री० दूती A female mess-  
enger दे० १, ३५
- अतेल्ली स्त्री० (१) मध्य, बीच Middle,  
centre (२) उदर, पेट Stomach (३)  
तरंग, कलझोज Large wave, billow  
दे० १, ५५
- अतोदुत्त त्रि० अधोमुख, आँधे मुह वाला  
Having the face down-wards  
दे० १, २१
- अधधु पु० कुएँ, कुँआ A well दे० १, १८
- अधद त्रि० कठिन Hard, harsh  
दे० १, १६
- अधमसी स्त्री० कठिन और वाली कनिक Ha-  
rd and stale dough for mak-  
ing bread दे० १, ३७
- अधाडिय त्रि० (१) तिरस्कृत Contem-  
pted, disdain महा० (२) उपालब्ध  
Abused, censured स० ५१२
- अधिर न० आमका फल Mango दे० १, १५
- अधुपिसाअ पु० राहु Dragon's head,  
on the planet "Rahu" गा० ८०४
- अधुसु पु० श्वापद जन्तु विशेष, हिंसक पशु  
विशेष, शरभ A Kind of savage  
animal, a beast दे० १, ११
- अधुट्टिआ-अधुट्टी स्त्री० एक प्रकार का जुआ,  
मुष्टि-धूत A Kind of gambling  
दे० १, ७
- अधुसि पु० द्वार-फलह, दरवाजे का एक  
अंश A part of a door दे० १, ८
- अधुषी स्त्री० फूलों को बिनने वाली स्त्री A  
woman who gathers flowers  
दे० १, ६, ना०
- अधु पु० पत्थर, पाषाण Stone पङ्०
- अधुतलिम त्रि० (१) रनेह रहित Devoid  
of love (२) जिसने शादी न की हो वह  
A bachelor दे० १, ६०
- अधुसि अ० निषेध सूचक अन्यत्र, अलम्  
Enough of, no need of, no use  
of (having a prohibition for co)  
'अधुसि लजाण' दे० १, ८
- अधुष्य पु० अपराध, गुनाह A fault  
an offence पङ्०
- अधु पु० दूत, सदेशहारक A messen-  
ger, a courier दे० १, ६
- अधु त त्रि० प्रवृद्ध, बढ़ा हुआ Increased,  
augmented दे० १, ६
- अधु त त्रि० ब्राण करने वाला, रक्षक Gua-  
rd, protector दे० १, १५
- अधुसाला स्त्री० (१) बलात्कार, जबरदस्ती  
Using violence, employing  
force, rape (२) उन्मत्त सी स्त्री A  
mad woman दे० १, ५८
- अधु स्त्री० बहिन Sister दे० १, ६
- अधु कुट्ट त्रि० अध्यासित, अधिष्ठित Occu-  
pied, presided over दे० १, ११
- अधुड पु० छाग, बकरा Goat दे० १, १०
- अधुखण्डवेल न० (१) मैथुन, सभोग Cop-  
ulation, sexual union, sexual

intercourse (२) शाम, सध्याकाल  
Evening दे० १, २६

अन्वखण्डिया स्त्री० विपरीत मैथुन Reversed  
copulation, unnatural inter-  
course पात्र०

अन्वखल पु० (१) अखरोट वृक्ष A kind  
of tree (२) न० अखरोट वृक्षका  
फल A kind of fruit पत्र० १६

अन्वखलिय त्रि० (१) जिसका प्रतिशब्द हुआ हो  
वह, प्रतिध्वनित An echo, reverber-  
ation दे० १, २७ (२) आकुल व्याकुल  
Bewildered, perplexed सुर०  
४, ८८

अन्वखवाया स्त्री० दिशा Direction दे०  
१, ३२

अन्वखरय पु० भृत्य विशेष, एक प्रकार का दास  
A kind of servant पत्र० ३६७

अन्वखुट्ट त्रि० अखट्ट Inexhaustable भवि०  
अग्निद्विगेह त्रि० यौवनोन्मत्त, जवानी से उन्मत्त  
बना हुआ Maddened by youth  
दे० १, ४०

अन्वय पु० दैत्य, दानव A demon दे०  
१, ६

अन्वहण पु० कापालिक, एक ऐसे संप्रदाय  
के लोग, जो माथेकी खोपड़ीमें ही खाने  
पीने का काम करते हैं The followers  
of a certain Saiva sect char-  
acterized by carrying skulls of  
men in the form of garlands  
and eating and drinking from  
them दे० १, ३१

अन्विला स्त्री० अवज्ञा, तिरस्कार Contempt,  
disregard दे० १, १७

अन्वुम्हहर त्रि० गुप्त बात को प्रकाशित करने  
वाला An exposé of secrets  
दे० १, २३

अग्ग पु० न० (१) परीहास, क्रीड़ा Ple-  
asure, merriment (२) वर्णन  
Description, सक्ति ४७

अग्गखलव पु० स्थभूमि का अग्रभाग  
The front of a battle field  
दे० १, २७

अग्गल त्रि० अधिक Excessive वीसा  
पृक्कगला" पिंग०

अग्गवेत्त पु० नदी का पूर The flood  
swelling of a river दे० १, २६

अग्गहण न० अनादर, अवज्ञा Contempt  
disregard दे० १ १७, से० ११, ६८

अग्गहणिया स्त्री० सीमतोत्रयन गर्भाधान  
के बाद किया जाता एक मन्त्र और उसके  
उपलक्ष्य से मनाया जाना उत्पन्न, त्रिंको  
गुजराती भाषा में अग्गयणी कहते हैं 'Part  
ing of the hairs' one of the  
twelve Sanskaras or purifi-  
catory rites observed by women  
in the fourth, sixth or eighth  
month of their pregnancy  
सुपा० २३

अग्गहिअ, त्रि० (१) निमित्त, विरचित  
Made, formed (२) स्वीकृत, कबूल  
किया हुआ Accepted पत्र०

अग्गाहार पु० उच्च जीविका High stan-  
dard of livelihood सुस० २,  
१३

अग्गिअ पु० (१) इन्द्रगोप, एक जात काष्ठ  
कीट A kind of insect दे० १, ६३  
(२) त्रि० मद् Dull, inactive,  
lazy दे० १, ६३

अग्गिआय पु० देखो 'अग्गिअ (१)' शब्द  
Vide 'अग्गिअ (1)' पत्र०

अग्गीवय न० घर का एक भाग A part  
of a house पत्र० १६, ६४

- अगमुच्छ त्रि० निश्चित, प्रमित Ascertain-  
ed, determined पङ्०
- अ० वविय त्रि० (१) भरा हुआ, सपूर्ण  
Full of, filled (२) पूरा किया गया  
Completed, finished सुपा० १, ६,  
कुमा०
- अगघाड-डगा पु० वृक्ष विशेष, अपामार्ग,  
चिचडा, लटजीरा A kind of tree  
दे० १, ८, पन्न० १
- अगघाण त्रि० तृप्त, सतुष्ट Satiated,  
Satisfied दे० १, १८
- अग्घिय त्रि० विराजित, शोभित Irradia-  
ted, illuminated कुमा०
- अचल न० (१) घर House, dwell-  
ing (२) घर का पिछला भाग The  
back portion of a house (३)  
त्रि० कहा हुआ Said, told, mentio-  
ned (४) निष्ठुर, निर्दय Haish,  
cruel, merciless (५) नीरस, सूखा  
Tasteless, insipid दे० १, ५३
- अच्छ न० (१) अत्यन्त, विशेष Excess,  
(२) शीघ्र, जल्दी Speed, haste  
दे० १, ४६
- अच्छरण न० (१) सेवा, शुभ्रूपा Service  
वृह ३, (२) देखना अवलोकन Looking,  
seeing, observation वव० १
- अच्छभल पु० यक्ष, व्यन्तर जाति के देव  
Demi-god दे० १, ३७
- अच्छल न० निर्दोषता, अनपराध Innocence,  
guiltlessness दे० १, २०
- अच्छिक्क त्रि० नहीं छुआ हुआ untouched  
वव० १
- अच्छिघरुल त्रि० (१) अप्रीतिकर Disag-  
reeable (२) वैप, पोषाक A dress  
-दे० १, ४१
- अच्छिवडण न० आँख का मूदना Shutt-  
ing the eyes दे० १, ३६
- अच्छिविअच्छि स्त्री० परस्पर-आकर्षण,  
आपसकी खींचतान Attraction of  
each other दे० १, ४१
- अच्छिहरि रु, लल त्रि० देखो 'अच्छिघरुल'  
शब्द Vide 'अच्छिघरुल' दे० १, ४१
- अच्छुक्क न० अचि-कूपतुला, आँख का कोटर  
The hollow part of eyes,  
सुपा० २०
- अच्छुद्धिसिरी स्त्री० इच्छा से अधिक फल की  
प्राप्ति, असमावित लाभ Unexpected  
gain, gain over & above expe-  
ctation पङ्०
- अच्छुल्लुड त्रि० निष्कासित, बहार निकाला  
हुआ, स्थान अष्ट किया हुआ Removed  
वृह० १
- अच्छोडाविय त्रि० बन्धित, बधायी हुआ Bo-  
und, fastened स० ५२५, ५२६
- अच्छोडिअ त्रि० आकृष्ट, खींचा हुआ At-  
tracted; drawn towards गा०  
१६०
- अजड, पु०जार, उपपति Paramou पङ्०
- अजम त्रि० सरल, ऋजु Upright, can-  
did पङ्०
- अजराडर त्रि० उष्ण, गरम Hot, warm  
दे० १, ४५
- अजुअ पु० वृक्ष विशेष, सप्तच्छद, सतीना A  
kind of tree दे० १, १७
- अजुअलवण्णा स्त्री० इमली का पेड़ A ta-  
maim tree दे० १, ४८
- अज पु० (१) जिनेन्द्र देव God J nen-  
dia (२) बुद्ध देव Lord Buddha  
दे० १, ५,
- अजय पु० (१) सुरस नामक वृक्ष A

kind of grass (२) गुरेटक नामक तृण  
 A kind of grass दे० १, २४  
 अजिड्रीय त्रि० दत्त, दिया हुआ Given  
 bestowed वव० १ टी  
 अज्जोहह न० वनस्पति विशेष A kind of  
 vegetable पत्र० १  
 अन्ध पु० यह (पुरुष, मनुष्य) This (man)  
 he दे० १, २०  
 अन्धत्य त्रि० आगत आया हुआ Rec-  
 eived, arrived at दे० १, २०  
 अन्धय त्रि० प्रातिवेशिक पड़ोसी Neigh-  
 bour दे० १, १७  
 अन्धवसिय न० मुडा हुआ मुह Tuned  
 face दे० १, ४०  
 अन्धसिय त्रि० देखा हुआ, हट्ट Seemed,  
 glanced दे० १, ३०  
 अन्धस्स-अन्धस्सिय त्रि० जिस पर आक्रोश  
 किया गया हो वह Threatened rebuk-  
 ed दे० १, १३  
 अन्धस्त्री (१) असती, कुलटा An un-  
 chaste woman (२) प्रशस्त स्त्री A  
 praiseworthy lady, (३) नवोदा,  
 दुबहिन A newly married wom-  
 an, a bride (४) युवती स्त्री A you-  
 ung woman (५) यह (स्त्री) This  
 (woman) she दे० १, २०, गा० ८३८,  
 ८२८, वजा० ६४  
 अन्धस्त्री स्त्री० दोहने पर भी जिसका दोहन  
 हो सके ऐसी गैया A kind of cow  
 milking again दे० १, ७  
 अन्धस्त्री स्त्री० चक्षु स्थल के आभू-  
 पण में की जाती मोतियों की रचना  
 Arrangement of pearls in the  
 ornaments of the breast दे०  
 १, ३३  
 अर्द्ध त्रि० (१) कृश, दुर्बल Weak,

feeble (२) बडा, महान् Great, ab-  
 le (३) निर्लज्ज बेशरम Shameless  
 (४) आलसु, सुस्त Idle, lazy  
 (५) शुक, तोता Parrot (६) शब्द,  
 आवाज Sound (७) न० सुख Happ-  
 iness (८) कूठ, असत्य Lie, false-  
 hood, untruth दे० १, २०  
 अर्द्ध त्रि० गत, गया हुआ Gone, depa-  
 rted दे० १, १०  
 अर्द्ध पु० (१) आल वाल कियारी The  
 basin or trench for water round  
 the root of a tree दे० २, १६४  
 (२) अशुभ सकल्प विरुद्ध Inauspicio-  
 us thought उव० (३) त्रि० निरर्थक  
 व्यर्थ, निकम्मा Worthless, useless  
 वान सुप० २, ८  
 अर्द्धकली स्त्री० कमर पर, हाथ कर खडा  
 रहना To stand resting hands  
 on the waist पात्र०  
 अर्द्धतन्मित्र त्रि० सभाला हुआ, रक्षित  
 Preserved, protected दे० १, ४१  
 अर्द्धतन्मित्र न० विपरीत मैथुन Wrong  
 copulation, unnatural inter-  
 course दे० १, ४२  
 अर्द्धतन्मित्र स्त्री० मार्ग, रास्ता Way, path  
 दे० १, १६  
 अर्द्धतन्मित्र-अर्द्धतन्मित्र स्त्री० व्यभिचारिणी स्त्री  
 An unchaste woman, an ad-  
 ulteress दे० १, १८, पात्र० गा० २७४,  
 ६६२, वजा ८६  
 अर्द्धतन्मित्र न० सखलना, रुक रुक चलना  
 Stumbling सुपा० ६४२  
 अर्द्धतन्मित्र पु० यत्नाकार, जबरदस्ती Force,  
 violence, rape दे० १, १६  
 अर्द्ध त्रि० जी आडे आता हो, बीच में बाधक

- होता हो वह Hindering interfering उप० १४६ टी
- अडुक्खिय त्रि० फेंका हुआ Thrown कुमा०
- अडुक्खिय त्रि० आरोपित To attribute one's quality to the other वव० १ टी
- अडुक्खिली स्त्री० देखो 'अट्टयक्खली' शब्द Vide दे० १, ४४
- अणक पु० (१) एक भ्लेच्छ देश Name of a non-Aryan country (२) एक भ्लेच्छ जाति An Non-aryan tribe पयह० १, १
- अणक्ख पु० शरम, लज्जा Shame Bashfulness स० ३७६
- अणक्खिय त्रि० अच्छिन्न, नहीं छेदा हुआ Uncut, unpierced दे० १, ४४
- अण्ड पु० जार, उपपत्ति Paramou, lover दे० १, १८, पङ्०
- अणत्त न० निर्मात्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य The remains of an offering to a deity दे० १, १०
- अणप्प पु० खड्ग, तलवार Sword दे० १, १२
- अणरू स्त्री० नवोढा, दुलहिन A newly married woman, bride पङ्०
- अणरामय पु० अरति, वैचैनी Uneasiness, absence of pleasure or amusement दे० १, ४४ भंवि०
- अणराह पु० सिर में पहनी जाती रंग-बेरगी पट्टी Muffler, a turban of various colours दे० १, २४
- अणरिक्क त्रि० (१) अवकाश रहित, फुरसत वजित Absence of leisure दे० १, २०, (२) दधि, चीर आदि गोस्त भोज्य Cow milk, curd etc किसी०चू० १६
- अणवदग्ग त्रि० अविनाशी Immortal, imperishable सूय० २, ४
- अणहणाय त्रि० अनष्ट, विद्यमान Everlasting not perishable दे० १, ४८
- अणहणाय त्रि० तिरस्कृत, भस्मित Insulted, disdained पङ्०
- अणहारय पु० श्वल्ल, खला, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह जमीन A threshing floor दे० १, ३८
- अणहुल्लिय त्रि० जिसका फल प्राप्त न हुआ हो Unfruitful, fruitless सम्मत० १४३
- अण्ड पु० जार, उपपत्ति Paramou, lover दे० १, १८
- अणिय, न० धार, अग्रभाग Sharp edge, pointed nook पयह० २, २
- अणिया स्त्री० धार, अग्रभाग Edge (as of a sword.) the sharp point (of a weapon) धर्मवि १७
- अणिरिक्क त्रि० परतन्त्र, पराधीन Dependant काम० २४, गा० ६६१
- अणिल्ल न० प्रभात, सवेरा Morning, dawn दे० १, १६
- अणिल्ल त्रि० (१) सदृश, तुल्य Similar, like (२) न० मुख, मुँह Mouth, face दे० १, ४१
- अणु पु० धान विशेष, चावल की एक जाति A kind of rice दे० १, ४२
- अणुअ पु० (१) आकृति, आकार Form, shape (२) पु० स्त्री० धान्य विशेष A kind of corn दे० १, ५२, ध्रा० १८
- अणुअल्ल न० प्रभात, सुबह Morning, dawn दे० १, १६
- अणुआ स्त्री० लाठी Stick, staff दे० १, ४२

अणुद्वय पु० धान्य विशेष, चना Gram,  
a kind of grain दे० १, २१

अणुभिन्नत्रय त्रि० (१) प्रयत्न, प्रयत्नशील  
Zealous, intent, fervent (२)  
जागता, सावधान Watchful, vig-  
ilant, careful पङ्०

अणुदिवि न० प्रभात, सुबह Morning  
dawn दे० १, १६

अणुदिव न० प्रभात, प्रातःकाल Morn-  
ing, day-break पङ्०

अणुवधिअ न० हिक्का रोग, हिचकी Hic-  
cough दे० १, ४४

अणुरंगा स्त्री० गाढी Cart बृह० १  
अणुव पु० बलाकार, जबरदस्ती Force,  
rape दे० १, १६

अणुवज्जण न० सेवा, शुश्रूषा Service  
दे० १, ४१

अणुवज्जिअ त्रि० जिनकी सेवा शुश्रूषा की  
गई हो Served, attended दे० १, ४१

अणुवज्जिअ त्रि० गत, गया हुआ Gone,  
passed, departed दे० १, ४१

अणुवहुआ स्त्री० नवोदा स्त्री, दुलहिन A  
newly married woman, bride  
दे० १, ४८

अणुसधिअ न० अविच्छिन्न हिक्का, निरन्तर  
हिचकी Continual hiccough  
दे० १, २६

अणुसुप्ति त्रि० अनुकूल, Favourable  
दे० १, २६

अणुसूत्रा स्त्री० शीघ्र ही प्रसव करने  
वाली स्त्री A lady who gives birth  
to children earlier, a lady  
of early and easy delivery  
दे० १, २३

अणुकम्ब त्रि० चञ्चल, चपल Activ-  
e, unsteady दे० १, ३०

अणोरपार त्रि० (१) प्रचुर, प्रभूत Exces-  
sive, abundant आवम० (२)  
श्रनादि अनन्त Without any begin-  
ning and end, eternal पचा०  
१२, जी० २४

अणोलय न० प्रभात, प्रातःकाल Morning,  
dawn दे० १, १६

अणु त्रि० (१) आरोपित Attributed  
(the nature of one thing to  
another) (२) खरिडित Broken  
पङ्०

अणुयत्र पु० (१) जवान, तरुण Young  
man, a youth (२) धूर्त, दम A  
logue (३) देवर Husband's  
younger brother दे० १, २२

अणुयत्र त्रि० (१) तृप्त Content-  
ed, Satiated दे० १, १६ (२) सब  
विषयो मे तृप्त, सर्वार्थ तृप्त Satis-  
fied in all the objects पङ्०

अणुयति स्त्री० अपमान, निरादर Insult,  
dishonour दे० १, १७

अणुयमय त्रि० पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ  
Repeated, retold दे० १, २८

अणुयण न० दाय, विवाह काल मे वधू को  
अथवा वर को दान दिया जाता है वह  
Dowry, a nuptial present  
( given to the bride or the  
bridegroom ) दे० १, ७

अणुयय त्रि० आर्द्र, गीला Wet, moist  
से० ४, ६

अणुयसय त्रि० आस्त, बिछाया हुआ  
Spread, carpeted पङ्०

अणुणी स्त्री० (१) देवर की स्त्री Wife  
of husband's younger brother,  
(२) पति की बहिन, ननद Husband's

- होता हो वह Hundeing interleng  
 ug उप० १४६ टी
- अङ्गुलिकय त्रि० फेंका हुआ Thrown  
 कुमा०
- अङ्गुलिकय त्रि० आरोपित To attribute  
 one's quality to the other  
 वव० १ टी
- अङ्गुलिकली स्त्री० देखो 'अट्टयक्ली' शब्द  
 Vide दे० १, २५
- अणुक पु० (१) एक म्लेच्छ देश Name  
 of a non-Aryan country (२)  
 एक म्लेच्छ जाति An Non-aryan  
 tribe पृथ० १, १
- अणुन्ध पु० शर्म, लजा Shame,  
 Bashfulness स० ३७६
- अणुच्छिद्यार त्रि० अच्छिद्य, नहीं छेदा हुआ  
 Uncut unpierced दे० १, ४४
- अण्ड पु० जार, उपपति Paramour,  
 lover दे० १, १८, पङ्०
- अणुत्त न० निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य The  
 remains of an offering to a  
 deity दे० १, १०
- अणुप पु० खड्ग, तलवार Sword  
 दे० १, १२
- अणुदू स्त्री० नवोदा, दुलहिन A newly  
 married woman, bride पङ्०
- अणुरामय पु० अरति, बेचैनी Uneasiness,  
 absence of pleasure  
 or amusement दे० १, २५ भवि०
- अणुराह पु० सिर में पहनी जाती रंग-नेरगी  
 पट्टी Muffler, a turban of various  
 colours दे० १, २४
- अणुरिक्त त्रि० (१) अवकाश रहित, फुरत  
 वरित Absence of leisure दे० १,  
 २०, (२) दधि, चीर आदि गोरस भोज्य  
 Curd milk, curd etc निसी०चू० १६
- अणुवदग्ग त्रि० अविनाशी Immortal,  
 imperishable सूय० २, ५
- अणुहापणय त्रि० अनष्ट, विद्यमान Ever-  
 lasting, not perishable दे० १, ४८
- अणुहवणय त्रि० तिरस्कृत, भर्खित  
 Insulted, disdained पङ्०
- अणुहारय पु० शवल, खला, जिसका मध्य  
 भाग नीचा हो वह जमीन A threshing  
 floor दे० १, ३८
- अणुहुलिय त्रि० जिसका फल प्राप्त न हुआ  
 हो Unfruitful, fruitless सम्मत्त०  
 १४३
- अण्ड पु० जार, उपपति Paramour,  
 lover दे० १, १८
- अणिय न० धार, अग्रभाग Sharp edge,  
 pointed nook पृथ० २, २
- अणिया स्त्री० धार, अग्रभाग Edge (as  
 of a sword.) the sharp point (of  
 a weapon.) धर्मवि १०
- अणिरिक्त त्रि० परतन्त्र, पराधीन Dep-  
 endant ज्ञान० ५४, गा० ६६१
- अणिल न० प्रभात, सवेरा Morning,  
 dawn दे० १, १६
- अणिल त्रि० (१) सद्य, तुल्य Similar,  
 like (२) न० मुख, मुँह Mouth,  
 face दे० १, ५१
- अणु पु० धान विशेष, चावल की एक जाति  
 A kind of rice दे० १, ५२
- अणुत्र पु० (१) आकृति, आकार Form,  
 shape (२) पु० स्त्री० धान्य विशेष  
 A kind of corn दे० १, ५२, धा० १८
- अणुचल न० प्रभात, सुबह Morning,  
 dawn दे० १, १६
- अणुचा स्त्री० लाठी Stick, staff  
 दे० १, ५२



अणुद्वय पुं० धान्य विशेष, चना Gram,  
a kind of gram दे० १, २१

अणुभिन्नत्रिंशत् त्रि० (१) प्रयत्न, प्रयत्नशील  
Zealous, intent, fervent (२)  
जागता, सावधान Watchful, vig-  
ilant, careful पङ्०

अणुदिवि न० प्रभात, सुबह Morning,  
dawn दे० १, १६

अणुदिवि न० प्रभात, प्रातःकाल Morning,  
day-break पङ्०

अणुबंधिअ न० हिक्का रोग, हिचकी Hic-  
cough दे० १, ४४

अणुरगा स्त्री० गाडी Cart दृह० १

अणुव पुं० बलाकार, जबरदस्ती Force,  
rape दे० १, १६

अणुवज्जण न० सेवा, शुश्रूषा Service  
दे० १, ४१

अणुवज्जिअ त्रि० जिसकी सेवा शुश्रूषा की  
गई हो Served, attended दे० १, ४१

अणुवज्जिअ त्रि० गत, गया हुआ Gone,  
passed, departed दे० १, ४१

अणुवहुआ स्त्री० नवोद्गा स्त्री, दुल्हन A  
newly married woman, bride  
दे० १, ४८

अणुसधिअ न० अविच्छिन्न हिक्का, निरंतर  
हिचकी Continual hiccough  
दे० १, ४६

अणुसुत्ति त्रि० अनुकूल, Favourable  
दे० १, २२

अणुसूआ स्त्री० शीघ्र ही प्रसव करने  
वाली स्त्री A lady who gives birth  
to children earlier, a lady  
of early and easy delivery  
दे० १, २३

अणुकवक त्रि० चंचल, चपल Activa-  
e, unsteady दे० १, ३०

अणोरपार त्रि० (१) प्रचुर, प्रभूत Exces-  
sive, abundant आवम० (२)  
अनादि अनन्त Without any begin-  
ning and end, eternal पचा०  
१२, जी० ४४

अणोलय न० प्रभात, प्रातःकाल Morning,  
dawn दे० १, १६

अणु त्रि० (१) आरोंपित Attributed  
the nature of one thing to  
another (२) टखिड़त Broken  
पङ्०

अणुअ पुं० (१) जवान, तरुण Young  
man, a youth (२) धूर्त, डाग A  
rogue (३) देवर Husband's  
younger brother दे० १, २४

अणुद्वय त्रि० (१) तृप्त Content-  
ed, Satiated दे० १, १६ (२) सब  
विषयों में तृप्त, सर्वार्थ तृप्त Satis-  
fied in all the objects पङ्०

अणुति स्त्री० अपमान, निरादर Insult,  
dishonour दे० १, १०

अणुमय त्रि० पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ  
Repeated, retold दे० १, २८

अणुण न० दाय, विवाह काल में वधू को  
यथवा वर को दान दिया जाता है वह  
Dowry, a nuptial present  
( given to the bride or the  
bridegroom ) दे० १, ७

अणुण त्रि० आर्द्र, गीला Wet, moist  
से० ४, ६

अणुण त्रि० आसूत, बिछाया हुआ  
Spiced, carpeted पङ्०

अणुणी स्त्री० (१) देवर की स्त्री Wife  
of husband's younger brother,  
(२) पति की बहिन, ननद Husband's

sister (३) कूफी, पिता की वहिन  
 Father's sister, aunt दे० १, २१  
 अणोसरिअ त्रि० यतिक्रान्त, उल्लङ्घित  
 Transgressed, violated दे०  
 १, ३६  
 अण्देअत्रि त्रि० भ्रान्त, भ्रूला हुआ Mistake-  
 n, misled दे० १, २१  
 अना स्त्री० (१) माता, मा Mother दे०  
 १, २१, चारु० ७०, (२) सासू Mother-  
 in-law दे० १, २१, गा० ६६७,  
 हेका० ३०, (३) कूफी Father's sister  
 (४) सखी Female companion  
 दे० १, २१  
 अत्तिहरी स्त्री० दूती, समाचार पहुचाने वाली  
 स्त्री A female messenger पद्०  
 अत्थक्क त्रि० (१) अक्लिष्ट Unexhausted  
 वजा० ६, (२) क्रि० वि० अनवरत,  
 हमेशा Incessantly, continu-  
 ously गउड०  
 अत्थग्घ त्रि० (१) मध्यवर्ती, बीच का Middle  
 course शोध० ३४, (२) अगाध,  
 गभीर Very deep, unfathom-  
 able (३) न० लम्बाई, आयाम Length  
 (४) स्थान, जगह Place दे० १, २४  
 अन्थयारिअ स्त्री० सखी, वयभ्या A female  
 companion दे० १, १६  
 अत्थार पु० सहायता, साहाय्य Help,  
 assistance दे० १, ६०, पाथ०  
 अत्थारिय पु० नौकर, कर्मचारी Ser-  
 vant clerk वद० ६  
 अत्थुड त्रि० लघु, छोटा Small, little  
 दे० १, ६  
 अत्थुवड न० भस्त्रातक, भिलावों वृक्ष का फल  
 A fruit of a particular tree  
 दे० १, २३

अथेक त्रि० याकामक, अचिन्तित Acc-  
 idental, unexpected से० १२, ४७  
 अत्थोडिय त्रि० याकृष्ट, सींचा हुआ Attri-  
 acted, drawn towards महा०  
 अथक्क न० (१) वेमोका, विन अय-  
 सुर Untimely, inopportune पद्०  
 (२) पसरने वाला Diffusing, sprea-  
 ding कुमा०  
 अदसण पु० चोर, डाकू A thief, a lo-  
 bber, one that takes away pi-  
 operty of another unlawfully  
 दे० १, २६  
 अद्दण-ण त्रि० आकूल, व्याकूल Upset,  
 disturbed दे० १, १२, निचू० १०  
 अद्दात्र पु० दर्पण, सीसा A looking gl-  
 ass, a mirror दे० १, १२  
 अदाइअ त्रि० आदर्श, पवित्र आचरण  
 वाला Well characterized वृह० १  
 अदि पु० न० गाडी का चोकरूटा Structure  
 or framework of a cart  
 निसे २७०० 'सगडहिसडिया शोमहा दिसाओ  
 हवति चत्तारि' पद्०  
 अद्दुमात्र त्रि० पूर्ण, भर हुआ Quite,  
 full upto the brim दे० १, १८  
 अद्दत पु० (१) पर्यन्त, अन्त भाग End,  
 extreme point से० ६ ३२  
 'भारिज्जत सिद्ध पहदु तो' पाय० (२) पु०  
 य० कतिपय, कई एक, निक० १०१ Several  
 से० १३, ३२  
 अद्दकसण न० (१) प्रतीक्षा करना राह  
 देखना To wait (२) परीक्षा करना  
 To examine, to test दे० १, ३३  
 अद्दक्खिअ न० मजा करना, इयादा करना,  
 मकेत करना To point, to indicate  
 दे० १, ३४  
 अद्दजघा-अद्दजघी स्त्री० एक प्रकार का  
 जूत, मोचक नाम का जूत, A kind of

shoes called Mochaka दे०  
१, ३३, २, ५, १३६  
अद्दहा स्त्री० दिन अथवा रात्रि का एक  
भाग Part of a day or night सत्त  
६, टी  
अद्दविआर, न० (१) मण्डल, भूषा Dec-  
oriated, ornamented, 'माकूण  
अद्दविगोर" (२) छोटा मण्डल A small  
hall दे० १, ४३  
अद्दहा स्त्री० (१) काल, समय, वरत Time  
(२) लब्धि, शक्ति विशेष Labdhi, a  
kind of supernatural power  
विले० (३) तत्त्वत, वस्तुत In fact as  
a matter of fact, in truth  
(४) साक्षात् प्रत्यक्ष Face to face  
(५) दिवस A day पिंग० ६) रात्रि  
Night सत्त० ६ टी  
अपडिच्छिद्धर, त्रि० जडबुद्धि, मूर्ख Ignora-  
nt, wanting in knowledge, a  
fool दे० १, ४३  
अपारमग पु० विश्राम, विश्रान्ति Rest  
दे० १, ४३  
अपिह त्रि० पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ  
Repeated पद्०  
अपुण्य त्रि० आक्रान्त Seized, over-  
powered, vanquished पद्०  
अप्य पु० पिता, बाप Father, a male  
parent दे० १, ६  
अप्यगुना स्त्री० रुपिकच्छु, कौंचवृक्ष  
Name of a plant दे० १, १६  
अपडम्भ त्रि० आत्मवरा, स्वाधीन Indep-  
endent, not relying on others,  
free from other's control दे०  
१, १४  
आपाअपि स्त्री० उत्कण्ठ, आँसुक्य Anx-  
ety, solicitude पिंग०

आपुण्य त्रि० पूर्ण Perfect, comple-  
te, finished पद्०  
आतीया स्त्री० वनपत्ति विशेष A kind  
of plant पण्य० १  
आपुण्य-आफुत्र त्रि० पूर्ण, भरा हुआ  
Complete, full दे० १, २०, मुग्० १०  
१७०, पा० अ० "महया पुत्र सोराण अपुत्रा  
ममार्णा" निग्० १, १  
अपाय पु० भूमिस्फोट, वनस्पति विशेष A  
particular vegetation or plant  
found in many season with a  
white crown over its head  
पण्य० १  
अभमन्सण न० अकीर्ति, अपयस Infamy,  
disrepute दे० १, ३१  
अभमड अ० पीछे जाकर Having gone  
behind हे० ४, ३६५  
अभमपिसात्र पु० राहु (1) One of the  
nine planets दे० १, ४२ Causing  
eclipse to the moon  
अभमाच -अभायत्य त्रि० प्रत्यागत, वापिस  
आया हुआ Returned, come back  
दे० १, ३१  
अभिभट्ट त्रि० सगत, सामने आकर भिडाहुआ  
Having come in contact पडम  
६, १२२ 'हर्था हर्थाणम अभिभट्टो' १८,  
२७  
अभिभडिय त्रि० सार, मजबूत (1) Strong  
(2) Essential दे० १, ७८  
अमय पु० चन्द्रमा Moon दे० १, १५  
अमयसिगमम पु० चन्द्रमा Moon दे०  
१, १५  
अमिल न० (१) ऊनका वरत A cloth  
made of wool आ० १८, (२) पु०  
मेघ, भेड A sheep ओव० ३६८

अमोसलि न० पडिलेहणका एक प्रकार A  
kind of inspection ओष० २५  
अम्मन्द्ध त्रि० असबद्ध Irrelevant,  
that does not apply पद्०  
अम्मणुअचिय न० अनुसरण To copy,  
to immitate दे० १, ४६  
अम्मा स्त्री० माता, माँ Mother, a  
female parent दे० १, ५  
अम्माइआ स्त्री० अनुसरण करने वाली स्त्री  
A submissive woman दे० १, ०२  
अम्हत्त त्रि० प्रसाजित Wiped off,  
cleared off, rubbed off, poli-  
shed, bright, clear पद्०  
अयक-अयग पु० असुर दानव A devil  
दे० १, ६  
अयड पु० कूप, कुआ A well, a pit  
of water दे० १, १८  
अयतचिय त्रि० पुष्ट Stout, robust,  
healthy दे० १, ४७  
अयालि पु० दुर्दिन, मेघावच्छन्न दिवस A  
cloudy day दे० १, १३  
अयुज वद् स्त्री० नवोढा स्त्री, दुलहिन A  
bride, a newly married girl  
पद्०  
अरणि पु० स्त्री० (१) रास्ता मार्ग A  
path, a road, (२) पक्ति, कतार A  
line, a row पद्०  
अरण्येय पु० ककरसे मिली हुई सफेद मिट्टी  
White earth mixed with par-  
ticles of stony matter जी० ३  
अरल न० (१) चींटी An ant (२)  
मच्छर A mosquito दे० १, ५३  
अरलाया स्त्री० चींटी An ant दे० १,  
२६  
अरविंदर त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे०  
१, ४५

अरुग न० ब्रण, घाव A cut, a wound  
a bruise 'अरुग इहरा कुसुइ' वृह० ३  
अरुण न० कमल A lotus दे० १, ८  
अलग पु० कुर्कट, मुर्गा A cock दे०  
१, १३  
अलट्टपल्लट्ट न० पार्श्व का परिवर्तन (1)  
Turning round from one  
side to another in a bed (1)  
Name of a festival on the  
eleventh day of the first half  
of Bhadrapada, (when Vis-  
hnu is supposed to turn  
upon the other side in his  
sleep) दे० १, ४८  
अलमजुल त्रि० आलसी, सुस्त Sluggish,  
lazy, slothful दे० १ ४६  
अलमल पु० दुर्दान्त बैल A bull hard  
to be tamed or subdued, an  
untamable bull दे० १, २५  
अलय न० विद्रुम, चप्रवा Coral, a  
hard substance of various  
colours growing on the bot-  
tom of the sea, composed of  
the skeletons of zoophytes  
दे० १, १६  
अलवल त्रि० धूर्त A knave, a rog-  
ue, a dishonest person पद्०  
अलस त्रि० (१) मधुर आवाज वाला One  
having melodious tune, sweet  
voiced पाश्च० (०) कुसुम रंग  
मे रंग हुआ Coloured in red (३)  
न० मोम Wax दे० १, ५०  
अलिअन्ली स्त्री० (१) कस्तूरी Musk  
(२) व्याघ्र, शेर A tiger a beast  
of prey दे० १, ५६

अलिआ स्त्री० सखी A female playmate, an associate दे० १, १६

अलिआर न० दूध Milk दे० १, २३

अलिण पुं० वृश्चिक, विच्छू A scorpion दे० १, ११

अलिस्तह न० (१) छन्द विशेष A kind of metre (२) अप्रयोजक, नियम-रहित Having no principle पिंग,

अलीसअ पु० शाग का पेड़ A kind of tree used for timber दे० १, २७

अल्ल न० दिन, दिवस A day, the time from sunrise to sunset दे० १, ५

अल्लतथ न० (१) गिला पखा A wet fan (२) केयूर, भूषण विशेष An amulet, an ornament for the arm दे० १, ५४

अलय त्रि० परिचित, ज्ञात Acquainted, already known दे० १, १२

अललल पु० मयूर, मोर Peacock दे० १, १३

अल्ला स्त्री० माता मा Mother, a female parent दे० १, ५

अल्लिल पु० भवरा A large black bee पद०

अवअखिलअ-अवअच्छिअ न० मुडया हुआ मुह Shaved, shaved face, दे० १, ४०

अवअच्छ न० कटा-वस्त्र A cloth to cover the arm-pit दे० १, २६

अवअणिअ त्रि० असघटित, असयुक्त Separated, scattered, unconnected दे० १, ४३

अवअण पु० ऊखल A mortar, vessel for pounding substances with a pestle दे० १, २६

अवग पुं० कटाच Side-look, flirtation, coquetry दे० १, १८

अवकीरिअ त्रि० विरहित, वियुक्त Separated, deserted, forlorn दे० १, ३८

अवकरस पु० मद्य, शराब Wine दे० १, ४६

अवगद त्रि० विस्तीर्ण, विशाल Vast, immense दे० १, ३०

अवगल त्रि० आक्रान्त Surrounded, surrendered पद०

अवगिंचण न० पृथक्करण Separating, dividing disuniting उप० पु० ६६

अवगूट न० अपराध Fault wrong action दे० १, २०

अवन्नुण न० क्रोध से कहा जाने वाला मार्मिक-मर्मभेदी वचन words full of anger, cutting remarks दे० १, ३५

अवज्जस न० (१) कटी, कमर Waist, the lower part of the body below the ribs (२) त्रि० कठिन Hard, difficult दे० १, ५६

अवठम पु० ताम्बूल, पान A betel दे० १, ३६

अवड-अवडअ पु० (१) कूप, कुँआ A well (२) आराम, बगीचा A park, a pleasure garden दे० १, ३५

अवडअ पु० चबूटा, नृण-पुरुष A straw-man, an idol of a man made of straw erected in a field to fear the animals, lugbeer दे० १, २०

अवडकिअ त्रि० कूप आदि में गिर कर मरा हुआ जिसने आत्महत्या की हो वह One,

अमोसलि न० पडिलेदणका एक प्रकार A  
 kind of inspection शोध० २२  
 अममन्त्र त्रि० अममद् Inelevant,  
 that does not apply पद०  
 अममगुअचिय न० अनुसरण To copy,  
 to immitate दे० १, ४६  
 अम्मा स्त्री० माता, माँ Mother, a  
 female parent दे० १, ५  
 अम्माडआ स्त्री० अनुसरण करने वाली स्त्री  
 A submissive woman दे० १ २२  
 अम्हत्त त्रि० प्रमाजित Wiped off,  
 cleared off, rubbed off, poli-  
 shed, bright, clear पद०  
 अयक-अयग पु० असुर दानव A devil  
 दे० १, ६  
 अयड पु० दूध, कुआ A well, a pit  
 of water दे० १, १८  
 अयतचिय त्रि० पुष्ट Stout, robust,  
 healthy दे० १, ४०  
 अयालि पु० दुर्दिन, मेघावच्छन्न दिवस A  
 cloudy day दे० १, १३  
 अयुज वड स्त्री० नवोडा स्त्री, दुलहिन A  
 bride, a newly married gul  
 पद०  
 अरणि पु० स्त्री० (१) रास्ता, मार्ग A  
 path, a road, (२) पक्ति, कतार A  
 line, a row पद०  
 अरणोष्टय पु० ककरसे मिली हुई सफेद मिट्टी  
 White earth mixed with par-  
 ticles of stony matter जी० ३  
 अरल न० (१) चींटी An ant (२)  
 मच्छर A mosquito दे० १, २३  
 अरलाया स्त्री० चींटी An ant दे० १,  
 २६  
 अरविडर त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे०  
 १, ४५

अरुग न० व्रण, घाव A cut, a wound  
 a bruise 'अरुग डहरा कुरयद्' वृह० ३  
 अरुण न० कमल A lotus दे० १, ८  
 अलय पु० कुर्कुट, मुर्गा A cock दे०  
 १, १३  
 अलट्टपल्लट्ट न० पार्वं का परिवर्तन (1)  
 Turning round from one  
 side to another in a bed (1)  
 Name of a festival on the  
 eleventh day of the first half  
 of Bhadrpada, (when Vis-  
 hnu is supposed to turn  
 upon the other side in his  
 sleep) दे० १, ४८  
 अलमजुल त्रि० आलसी, सुस्त Sluggish,  
 lazy, slothful दे० १ ४६  
 अलमल पु० दुर्दान्त बैल A bull hard  
 to be tamed or subdued, an  
 untamable bull दे० १, २२  
 अलय न० विद्रुम, वपवा Coral, a  
 hard substance of various  
 colours growing on the bot-  
 tom of the sea, composed of  
 the skeletons of zoophytes  
 दे० १, १६  
 अलवल त्रि० धूर्त A knave, a log-  
 ue, a dishonest person पद०  
 अलस त्रि० (१) मधुर आवाज वाला One  
 having melodious tune, sweet  
 voiced पाञ्च० (२) कुसुम रग  
 से रंग हुआ Coloured in red (३)  
 न० मोम Wax दे० १, ४२  
 अलिअन्ली स्त्री० (१) कस्तूरी Musk  
 (२) ब्याघ्र, शेर A tiger, a beast  
 of prey दे० १, २६

अलिआ स्त्री० सखी A female playmate, an associate दे० १, १६

अलिआर न० दूध Milk दे० १, २३

अलिण पु० वृश्चिक, बिच्छू A scorpion दे० १, ११

अलिल्लह न० (१) छन्द विशेष A kind of metre (२) अग्रयोजक, नियम-रहित Having no principle पिंग,

अलीसअ पु० शाग का पेड A kind of tree used for timber दे० १, २७

अल्ल न० दिन, दिवस A day, the time from sunrise to sunset दे० १, ५

अल्लत्थ न० (१) गिला पत्ता A wet fan (२) केयूर, भूषण विशेष An amulet, an ornament for the arm दे० १, ५४

अल्य त्रि० परिचित, ज्ञात Acquainted already known दे० १, १२

अल्लल पु० मयूर, मोर Peacock दे० १, १३

अल्ला स्त्री० माता मा Mother, a female parent दे० १, ५

अल्लिल्ल पु० भवरा A large black bee पद्०

अवअक्खिअ-अवअन्धिअ न० मुंडाया हुआ मुह Shaved, shaved face, दे० १, ४०

अवअळ्ळ न० कच्चा वस्त्र A cloth to cover the arm-pit दे० १, २६

अवअण्णिअ त्रि० असघटित, असयुक्त Separated scattered, unconnected दे० १, ४३

अवअरण्ण पु० ऊखल A mortar, vessel for pounding substances with a pestle दे० १, २६

अवग पु० क्याच Side-look, flirtation, coquetry दे० १, १८

अवकीरिअ त्रि० विरहित, वियुक्त Separated, deserted, forlorn दे० १, ३०

अवकरम पु० मद्य, शराब Wine दे० १, ४६

अवगढ त्रि० विस्तीर्ण, विशाल Vast, immense दे० १, ३०

अवगल त्रि० आक्रान्त Surrounded, surrendered पद्०

अवगिंचण न० पृथक्करण Separating, dividing dismantling उप० पृ० १६

अवगूट न० अपराध Fault wrong action दे० १, २०

अवच्छुंण न० मोघ से कहा जाने वाला मार्मिक-मर्मभेदी वचन words full of anger, cutting remarks दे० १, ३५

अवअंस न० (१) कटी, कमर Waist, the lower part of the body below the ribs (२) त्रि० कठिन Hard, difficult दे० १, ५६

अवठम पु० ताम्बूल, पान A betel दे० १, ३६

अवड-अवडअ पु० (१) कूप, कुँआ A well (२) आराम, बगीचा A park, a pleasure garden दे० १, ३५

अवडअ पु० चञ्जा, वृष-पुरुष A straw-man, an idol of a man made of straw erected in a field to fear the animals, lugbeer दे० १, २०

अवडकिअ त्रि० कूप आदि में गिर कर मरा हुआ जिसने आत्महत्या की हो वह One,

committed suicide by having fallen into a well दे० १, ४०

अवडाहिअ न० (१) ऊचे स्तर से रुदन करना To wail, wailing दे० १, ७ (२) त्रि० उल्लूख time proper पङ्०

अवडिअ त्रि० खिन्न, परिश्रान्त-यकाहुआ Grieved, fatigued, tired दे० १, २१

अवडुअ पु० उलूखल, ऊखल A mortar दे० १, २६

अवडुलिअ त्रि० कृप आदिमें गिरा हुआ One fallen into a well पङ्०

अवण न० (१) पानी का प्रवाह Flow of water, a current of water (२) घर का फलहक A plank or board of a house दे० १, २५

अवण न० अवज्ञा, निरादर Insult disrespect दे० १, १७

अवण त्रि० अव्यवस्थित Unprincipled दे० १, ३४

अवथरा स्त्री० पाद-प्रहार, ज्ञात मारना A kick, a blow with the foot दे० १, २२

अवहुस न० ऊखल-मूसल आदि घरका सामान्य, उपकरण Ordinary implement or material of household affairs e g mortar, pestle etc etc दे० १, ३०

अवधिका स्त्री० उपदेहिका, दीमक A kind of ant पङ्० १, १

अवयच्छिय त्रि० प्रसारित, फैलाया हुआ Expanded, extended स० ११३

अवयुसिय ति० सचटित, सयुक्त United दे० १, ३६

अवमिय त्रि० जिसको धाव होगया हो वह,

जखमी Wounded one injured by a stab गृह० ३

अवयग न० अन्त, अवसान destination, end extreme point भग० १, १

अवयडुिअ त्रि० युद्ध में पकडा हुआ A captive one taken in war दे० १, ४६

अवयरेय पु० वियोग विरह Separation, disunion disjunction दे० १, ३६

अवयाण न० लगाम A bridle, दे० १, २४

अवयार पु० माघ पूर्णिमा का एक उत्सव, जिसमें ईख से दंतवन आदि किया जाता है A festival held on the day of full moon in the month of Magh when people rub their teeth with sugar-cane दे० १, ३२

अवयामिणी स्त्री० नासारज्जु, नाक में डाली जग्गी दोर A nose-cord, the reed of a draught-ox (passed through the septum of the nostrils) दे० १, ४६

अवरज्ज पु० (१) गन दिन Yesterday (२) आगामी दिन Tomorrow (३) प्रभात, सुबह Morning दे० १, २६

अवरत्तअ-अवरत्तोय पु० परचाताप Penitence, repentance दे० १, ४५

अवराह पु० कटी, कमर waist, the part of the body below the ribs, दे० १, २८,

अवरिक त्रि० अवसर रहित, बिना अवसर With out any opportunity,



- mopportune having no chance, untimely दे० १, २०
- अवलिङ्ग त्रि० अद्वितीय, असाधारण Unique single in kind or excellence दे० १, ३६
- अवरिहडूपुसण न० (१) अपकीर्ति Disrepute, infamy (२) असत्य कूट Untruth falsehood दे० १, ६०
- अवरुदण-अवरुदिय न० आलिगन Embiace clasp with the arms दे० १, ११
- अवरोह पु० कटी कमर Waist the part of the body below the ribs दे० १, २८
- अवलय न० घर, मकान Abode, house, dwelling दे० १, २३
- अवलिअ न० असत्य, कूट False untrue दे० १ २२
- अवलिच्छत्र त्रि० अप्राप्त unobtained not procured unavailable से० १ ७८
- अवलुआ स्त्री० क्रोध, गुस्सा Angel, provocation दे० १, ३६
- अवल्लय न० नौका खेवने का उपकरण विशेष An oar an instrument to row a boat आया० २, ३, १
- अवल्लावय पु० असत्यकथन, अपलाप False statement दे० १ ३८
- अवसण त्रि० मराहुआ टपकाहुआ Dipped, fallen in drops पङ्०
- अत्रसमिआ स्त्री० देखो 'अत्रसमी' शब्द Vide 'Ambasami' दे० १, ३७
- अवसह न० (१) उत्सव A festival (२) निबन्ध Principle. दे० १, ५८
- अवहट्ट त्रि० अभिमानी Arrogant, proud, ostentatious दे० १ २३
- अवहड न० मूसल A pestle, an instrument for pounding things in a mortar दे० १, ३२
- अवहण पु० ऊखल A mortar, a vessel for pounding substances with a pestle दे० १, २६
- अवहत्थरा स्त्री० लात मारना To kick to strike with the foot दे० १ २२
- अवहाय पु० विरह, वियोग Separation, disunion दे० १, ३६
- अवहिट्ट त्रि० अभिमानी Arrogant proud पङ्०
- अवहेअ त्रि० दयायोग्य कृपापात्र, Pitiable, deserving pity दे० १, २०
- अवहोअ पु० वियोग Separation disunion पङ्०
- अवाडिअ त्रि० वञ्चित, ठगा हुआ Deprived of, cheated पङ्०
- अवार पु० दुकान, हाट A shop दे० १ १२
- अवारी स्त्री० ऊपर देखो दे० १, १२
- अवालुआ स्त्री० होठका प्रान्त भाग Corner of a lip, extreme end of a lip दे० १, २८.
- अविअ त्रि० कथित कहा हुआ Said दे० १, १०
- अविण्यवड-अविण्यवर पु० उपपत्ति, जार Paramour दे० १ १८
- अविल पु० (१) पशु Animal (२) त्रि० कठिन Difficult, hard to be done दे० १, ५२
- अविहड पु० बालक बच्चा. A boy, & child वृह० १.

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| अविहाविभ्र त्रि० (१) वीन. गरीव Poon                                                    | passion excited by injury दे०                                                      |
| (२) न० मौन Silence quiet दे० १, २६                                                     | १, ३६                                                                              |
| अविहित्य त्रि० उन्मत्त Mad insane पद०                                                  | अहिआर पु० जीवन निर्वाह Livelihood, living means of subsistence दे० १, २६           |
| अम्बा स्त्री० माता माँ Mother a female parent दे० १, २                                 | अहिउत्त त्रि० प्याप्त, खचित Inland, Studded गउड०                                   |
| असखड न० कलह Quarrel निचू० १                                                            | अहिकखण न० उपालभ, उलहना Rebuke a reproach दे० १ ३५                                  |
| असखडिय त्रि० कलह करने वाला Quarrelsome पद० १                                           | अहिगर पु० अजगर A huge serpent (boa constrictor) जीव० १                             |
| असगय न० वस्त्र (Garment, clothing) दे० १, ३५                                           | अहिगरी स्त्री० अजगरिन, स्त्रीअजगर A female huge serpent जीव० २                     |
| असगिय पु० (१) अश्व, घोड़ा A horse (२) त्रि० अश्वस्थित, चञ्चल Unsteady moving दे० १, ३५ | अहिद्वय त्रि० पीडित Afflicted, distressed पात्र०                                   |
| असथरण न० निर्वाहका अभाव Devoid of means for subsistence वृह० १                         | अहिपञ्चुडअ न० अनुगमन, अनुसरण Following दे० १, १५६                                  |
| अवसरासय त्रि० निर्दय Cruel void of pity, inhuman दे० १ ४०                              | अहिरीअ त्रि० निस्तेज, पीका Pale palhd दे० १, २०                                    |
| असारा स्त्री० कदलीवृक्ष A plantain tree, a banana, दे० १, १२                           | अहिरोडअ त्रि० पूर्ण Filled, full of पद०                                            |
| असिय न० दात्र, दाँती A sickle, an implement for cutting grass, etc दे० १, १४           | अहिलिअ न० (१) पराभव Defeat (२) क्रोध, गुस्सा Anger, wrath दे० १, ५०                |
| अम्सगिअ त्रि० आसक्त Indulged, devoted, strongly attached to, addicted to पद०           | अहिल्ल त्रि० धनवान्, धनी Wealthy, rich दे० १, १०                                   |
| अह न० दुःख Adversity दे० १ ३                                                           | अहिवण्य त्रि० पीला और लाल रंग वाला Yellow and red coloured दे० १, ३३               |
| अहर् त्रि० असमर्थ Incompetent दे० १, १०                                                | अहिविण्णा स्त्री० कुतम्बापत्न्या स्त्री, उपपत्नी A co-wife, a rival wife दे० १, २५ |
| अहव्या स्त्री० कुलटा स्त्री An unchaste woman दे० १, १८                                | अहिमधि पु० बारंबार Again and again, often frequently दे० १, ३०                     |
| अहासखड त्रि० निश्चल Immovable निचू० २                                                  | अहिसाय त्रि० पूर्ण, पूरा Full complete दे० १, २०                                   |
| अहिअल न० क्रोध, गुस्सा Anger,                                                          |                                                                                    |

अहिसिञ्ज न० (१) अनिष्टग्रह की आशंका से खेद करना—रोना Weeping on the doubt of mauspicious planet, to feel sorry for fear of would be effect of an mauspicious planet दे० १, ३० (२) त्रि० अनिष्ट ग्रह से भयभीत Alarmed by unfavourable planet. पङ्०

अहिहर न० (१) देवकुल, पुराना देव-मन्दिर, Old temple (२) बलमोक Ant hill  
अहिहाण न० वर्णन प्रशंसा Praise दे० १, २१  
अदुल्लण त्रि० अनाशक Non-destroyer कुमा०  
अहोरण न० उत्तरीय वस्त्र, चदर An upper garment दे० १, २५. गा० ७७१

आ

आ अ० (१) स्मरण, याद Remembrance पङ्० (२) समन्तात् चारोंओर On all the sides गउड० विशेष० ८७५  
आञ्ज त्रि० (१) अत्यन्त, बहुत Much excessive (२) दीर्घ, लम्बा Long (३) विषम कठिन Difficult, hard (४) न० लोह, लोहा Iron (५) मुसल, मूपल Pestle दे० १, ७३  
आञ्जिञ्ज त्रि० परवशचलित, दूसरे की प्रेरणा से चला हुआ Moved by another's instigation दे० १, ६८  
आञ्जर न० उदूखल, ऊखल A mortar दे० १, ७४  
आञ्जल पु० (१) रोग, बिमारी A disease दे० १, ७५, पाञ्ज० (२) त्रि० चञ्चल, चपल Unsteady, tickle दे० १, ७५  
आञ्जलि-ह्री स्त्री० झाडी, लताओं से निबिड प्रदेश A dense forest, grove दे० १, ६१  
आञ्जलिया-आञ्जलिया-आञ्जलिया स्त्री० देवता विशेष, कर्ण पिशाचिका देवी Name of a goddess प्रब० २, ७३ टी-पत्र० १८२; बृह० १, (२) डोम्बी, चाडाली A female chandala a woman of a very low caste बृह० १  
आङ्ग, न० नाद्यविशेष, A kind of

musical instrument पउम० ३ ८७ १६, ६  
आङ्गण न० (१) आटा Flour गा० १६६ दे० १ ७८, (२) घर को शोभाके लिये जो चूना आदि की मफेटी दी जाती है Chalk, lime etc used for white washing (३) चावलके आटा का दूध Milk of rice-flour (४) घर का मण्डन-भूषण Decoration of a house दे० १, ७८  
आङ्गण त्रि० उज्झित, परित्यक्त Abandoned Quitted दे० १, ७१  
आञ्जलिया त्रि० आण्डावित, डुबोयाहुया, पानी आदि द्रव पदार्थ से व्याप्त Moistened wetted dipped into water पाञ्ज०  
आञ्ज न० (१) लडाई, युद्ध War, battle (२) त्रि० बहुत Much, excessive (३) गरम Warm hot दे० १, ६५-७६  
आञ्जल्य न० जहाज चलाने का काण्डमय उपकरण An oar सिदि० ४२४.  
आञ्ज न० कूर्च The upper part of the nose दे० १, ६५  
आञ्जल्य न० द्यूतपण, जुए में कीजाती प्रतिज्ञा Promising in gambling दे० १, ६८  
आञ्ज, अ० अथवा, या, Or, and स० ५२५,

आओडिअ. त्रि० ताडित, माराहुआ  
Beaten struck से० २, ६  
आकड्डिय त्रि० बाहर निकाला हुआ Drawn  
out धर्मवि० १३३  
आकासिय त्रि० पर्याप्त, काफी. Enough  
sufficient पङ्०  
आघयण न० वधस्थान Place of  
execution, slaughter house  
नाया० १, ६-पत्र० १६७  
आडविय. त्रि० चूर्णित, चूर २ किया हुआ  
Pounded, pulverized पङ्०  
आडाडा स्त्री० बलात्कार, जबरदस्ती Force,  
violence, rape दे० १, ६४  
आडियन्तिय पु० शिविकावाहक पुरप A  
bearer of a palanquin न० २३७,  
२४१  
आडुआलि पु० मिश्रता, मिलावट Mix-  
ture दे० १, ६६  
आडोलिय त्रि० रुद्ध, रोका हुआ Obstru-  
cted, impeded नाया० १, १८  
आडोविअ. त्रि० आरोपित, गुस्से किया हुआ  
Caused to be angry, excited,  
provoked दे० १. ७०  
आडत्त त्रि० आक्रान्त Overcome. स०  
१४०  
आडिय. त्रि० (१) इष्ट, अभीष्ट Wished,  
Desired (२) गणनीय, माननीय Re-  
spectable, honourable (३) अम-  
लत, उद्युक्त Diligent, perseve-  
ring (४) गाढ, निविड Dense दे०  
१, ७४  
आण्ड पु० शकुनि, पक्षी A bird दे०  
१, ६२  
आण्णिय त्रि० देखो 'आडिअ' शब्द Vide  
'आडिअ, दे० १ ७४.

आण्णिक न० तिर्थक-मैथुन A variety  
of sexual union दे० १, ६१.  
आण्णिक त्रि० टेढ़ा चक्र crooked, ou-  
ved से० ६, ८६  
आण्णुअ न० (१) मुख, मुह Face,  
mouth दे० १, ६२ पङ्० (२) आकार,  
आकृति Form, figure दे० १, ६२  
आण्णुव पु० रमच, डोम Chandala,  
a man of very low caste दे०  
१, ६४  
आदरण-न्न त्रि० आकुल, व्याकुल, चक्काया  
हुआ perplexed, confused उप०  
पृ० २२१ हे० ४ ४२२  
आदरण न० पिष्ट, आटा Flour, pow-  
der पङ्०  
आदर पु० धूत, जुआ Gambling  
दे० १, ६३  
आदुण त्रि० आक्रान्त Overcome  
अणुजो० १६२  
आभिदृ-आभिडिय त्रि० प्रवृत्त Engaged  
in occupied with पत्र० ४, ४२,  
६ १६२, वजा० ४२  
आभेडिय त्रि० देखो आभिदृ शब्द Vide  
'आभिदृ' उप० पृ० ४२  
आमडण न० भाण्ड, पात्र A vessel  
दे० १, ६८  
आमलय न० नूपुर-गृह, नूपुर रखने का  
स्थान A place for anklets. दे०  
१, ६७  
आमेल पु० लट, जटा Matted or clo-  
tted hair दे० १ ६२  
आमोअ पु० हर्ष, खुशी Delight, joy  
दे० १, ६४  
आमोड पु० जूट लट, समूह Multitu-  
de or collection दे० १, ६२

आमोरत्र त्रि० विशेषज्ञ अच्छा जानकार  
Specialist or expert (in a particular kind of knowledge) दे० १, ६६

आयद्धि पु० विस्तार Extension, expansion दे० १, ६४

आयन्त्या स्त्री० बेचैनी Uneasiness absence of amusement पउम० ८, १८६, सुर० १६, ११० रूपू०

आयल्लिय त्रि० आक्रान्त, व्याप्त Pevalded, occupied, overcome उप० १०३१ टी, भवि०

आयाम पु० बल, जोर Strength valou दे० १, ६५

आयावल्-आयावलय पु० सवेरे का तडका, आलातप The morning sun-shine दे० १, ७० पाय०

आयासतल न० प्रासाद का पृष्ठ भाग The back part of a palace दे० १, ७२

आयासलय न० पक्षि गृह, नीड Bird-nest, a nest दे० १ ७२

आरदर त्रि० (१) अनेकान्त Uncertain variable (२) मकड़, व्याप्त Full of crowded with दे० १, ७८

आरभिअ पु० मालाकार, माली (farland maker, gardener) दे० १ ७१

आरडिअ न० (१) विलाप, क्रन्दन Wailing, lamentation (२) त्रि० चित्रयुक्त Pictured figured दे० १ ७५

आरण न० (१) अधर, होठ Lip (२) फलक Plank or board दे० १, ७६

आरणाल न० कमल, पद्म Lotus दे० १, ६७

आरद त्रि० (१) बढ़ा हुआ Increased

(२) सतृप्य, उन्मुक्त Anxious denous, striving for (३) घर में आया हुआ Received at the house दे० १, ७५

आरनाल न० कमल, पद्म Lotus पड्०

आराइय त्रि० (१) गृहीत, स्वीकृत Accepted, taken (२) प्राप्त Acquired attained दे० १, ७०

आराडी स्त्री० देयो 'आरडिअ' शब्द Vide 'आरडिअ'

आरिट्ट त्रि० यात गत, गुजराहुआ Gone passed पड्०

आरिल्ल त्रि० अर्धान् उत्पन्न, पहले जा उत्पन्न हुआ हो Pie born दे० १, ६३

आरेडअ त्रि० (१) मुकुलित, सकुचिन, Closed, shut (२) भ्रत Pepleved, confused (३) मुक्त Set free liberated, freed दे० १, ७७ (४) रोमाञ्चित पुलकित With the hair erect दे० १, ७७ पाय०

आरोइय त्रि० दस्त्रो 'आरेडअ' शब्द Vide 'आरेडअ' पड्०

आरोगरिअ त्रि० रक्त, रंग हुआ Coloured, dyed पड्०

आरोगि प्र त्रि० भुक्त, खाया हुआ Eaten दे० १, ६६

आरोह त्रि० (१) प्रवृद्ध, बढ़ा हुआ Incleased (२) गृहागत, घर में आया हुआ Received at the home पड्०

आल न० अर्थक, सुधा In vain, to no purpose useless सिरि० ८३४,

आल न० (१) छोटाप्रवाह A small stream (२) त्रि० कोमल, मृदु Delicate, tender दे० १, ७३ (३) आगत Approached, arrived, हुआ

- आसंज्ञ न० भूमि-क्षत्र, वनस्पतिविशेष जो  
उपां मे होती है A kind of vegetable  
दे० १, ६४.
- आसंज्ञ पु० मयूर, मोर Peacock दे०  
१, ६५
- आसंज्ञ न० आसगृह, शय्यागृह Bed-room  
दे० १, ६६, ८, २८
- आसंज्ञ पु० वृश्चिक, विच्छू Scorpion  
दे० १, ६१.
- आसंज्ञ न० ममीप का भय, पास का डर  
Neighbouring fear दे० १, ६२
- आसंज्ञ स्त्री० घटी, छोटा बड़ा Small  
pot, jug उ० ६६०
- आसंज्ञा त्रि० निरर्थक, व्यर्थ Vain  
purposeless सुपा० ३४३
- आसंज्ञ पु० अपामार्ग, वृक्षविशेष, लटजीरा A  
kind of tree दे० १, ६२
- आसंज्ञा स्त्री० (१) नवोदा, दुलहिन Newly  
married woman, bride  
(२) परतन्त्र स्त्री Dependant woman  
दे० १, ७७
- आसंज्ञा त्रि० (१) सगत, सबद्ध Joined  
or united with दे० १, ७८, पात्र०  
(२) मजबूत, सार Strong दे० १, ७८
- आसंज्ञा स्त्री० करिका, मद्य परोमने का पात्र  
विशेष A kind of wine-vessel  
दे० १, ७९
- आसंज्ञा न० जल के निकट का, प्रदेश A  
region near water दे० २, ७०
- आसंज्ञा न० (१) प्रभव, पीडा Pangs of  
child-birth, throes, labour  
pains (२) त्रि० नित्य, शाश्वत Eternal,  
perpetual (३) दृष्ट, देखा हुआ Per-  
ceived, beheld दे० १, ७३
- आसंज्ञा पु० (१) इन्द्रगोप, उदकीदविशेष  
A kind of insect (२) त्रि० मथित,  
आलौकित Churned दे० १, ७६
- आसंज्ञा स्त्री० (१) नवोदा, दुलहिन  
Newly married woman bride  
(२) स्त्री० परतन्त्रा, परार्थीन स्त्री Depen-  
dant woman दे० १, ७७
- आसंज्ञा त्रि० क्षिप्त, प्रेरित Thrown,  
goaded दे० १, ६३
- आसंज्ञा त्रि० कुपित, क्रुद्ध Wrath-  
ful, angry प०
- आसंज्ञा पु० भगिनी-पति Sister's husb-  
and अभि० १८३
- आसंज्ञा त्रि० (१) विशेष आसक्त Exces-  
sively addicted to (२) प्रवृद्ध, बढ़ा  
हुआ Increased प०
- आसंज्ञा पु० आस गृह, शय्या गृह Bed-  
room दे० १, ६६
- आसंज्ञा पु० (१) श्रद्धा, विश्वास Trust,  
belief सुपा० २२६, प० (२) अभ्यव-  
साय, परिणाम disposition, sentim-  
ent से० १, १५ (३) आशा, इच्छा,  
चाह Desire, wish गउ०
- आसंज्ञा स्त्री० (१) इच्छा, वाञ्छा Desire,  
wish दे० १, ६३ (२) आसक्ति Add-  
iction, attachment मै० २
- आसंज्ञा त्रि० (१) अभ्यवसित Meant  
aimed, intended (२) श्रवधारित से०  
१०, ६६ Determined ascertained  
(३) मभावित Supposed, imagi-  
ned कुमा० स० १३७
- आसंज्ञा पु० प्रशस्त पक्षि विशेष, श्रीवद्.  
Name of a praise worthy bird  
दे० १, ६७
- आसंज्ञा त्रि० प्राप्त Acquired,  
obtained स० ६७६.

आसयः न० निकट, समीप Vicinity Proximity दे० १, ६५  
 आसरिअ त्रि० समुख-आगत सामने आया हुआ Approached in front दे० १, ६६  
 आसवण न० वासगृह, शय्या-घर Bedroom दे० १, ६६  
 आग्निअ त्रि० लोहेका, लोह निर्मित Made of iron दे० १, ६७  
 आसीवअ पु० दर्जी, कपडा सीने वाला Tailor दे० १, ६६  
 आहृष न० (१) अत्यर्थ, बहुत, अतिशय Much, excessive दे० १, ६२ (२) शीघ्र जल्दी Speedily, Quickly आया० (३) उपस्थित होकर Having attended आया० (४) व्यवस्थाकर Having managed सू० २, १ (५) विभक्त कर Having separated आया० (६) डीनकर Having deprived of, having snatched दना०  
 आहृषु स्त्री० प्रहेलिका, पहेलियाँ Riddle an enigma प्र० ७३  
 आहृड न० सीन्कार, सुरत शब्द A sound made by drawing in of the breath while engaged in some work and tired पद्०  
 आहरणा स्त्री० खर्राट, नाकका खरखर शब्द The sound of the nose while sleeping श्लो० २  
 आहृत्थ त्रि० (१) चलित, गत Gone, moved, departed (२) क्रुपित, क्रुद्ध Angry wrathful दे० १, ७६, जीव० ३ टी (३) आकुल, धक्काया हुआ Perplexed, confused दे० १, ७६, से० १३, २३, पा० जीव० ३ टी

आहृद्ध त्रि० (१) रुद्ध, रकाहुआ Obstructed, impeded (२) गलित, गला हुआ, Melted पद्०  
 आहृ पु० बूक, उल्लू Owl दे० १, ६१  
 आहृदुर-आहृदुरु पु० बालक, बच्चा Child, infant दे० १, ६६  
 आहृड न० (१) सीन्कार सुरत-ममयका शब्द A sound made by drawing in of the breath while busy in some work (२) पणित, विक्रय बेचना Sale, selling दे० १, ७४  
 आहृडिअ त्रि० निपतित, गिरा हुआ Fallen दे० १, ६६  
 आहृत्त न० सम्मुख, सामने Facing, front महा० भवि०  
 आहृरण पु० हस्तिपक, हाथी का महावत Elephant driver पा० स० ३६६  
 इगाली स्त्री० इँखका टुकडा, गडरी A fragment of sugar-cane दे० १, ७६  
 इगुअ न० (इगुड) इगुदीवृक्षकाफल Fruit of particular tree कुमा० पउम० ४१, ६  
 इदगाइ पु० साधमे सलग्न रहनेवाले कीट विशेष A kind of insect दे० १, ८१  
 इदगि पु० बर्फ, हिम Ice snow दे० १, ८०  
 इदगिधूम न० बर्फ, हिम Ice, snow दे० १, ८०  
 इदहुलअ पु० इन्द्रका उत्थापन Raising of Indra दे० १, ८०  
 इदमह त्रि० (१) कुमारी से उत्पन्न Born of a minor or unmarried girl born of a virgin (२) कुमारता,

- यावन Juvenile youth-full दे०  
१, २१
- इदमहकामुक पु० कुत्ता, खान Dog  
दे० १, २२ पात्र०
- इंदोवत पु० इन्द्रगोप कीट-विशेष A  
kind of insect दे० १, २१
- इंधिअ त्रि० घ्रात, म्वाहुथा Smelt  
दे० १, २०
- इक न० प्रवेश, पैठ Entrance, gate  
विगे० ३४२३
- इकण त्रि० चोर चुगने वाला One who  
steals, a thief दे० १, २० स० ७६
- इककुम न० नीलोत्पल, कमल Lotus दे०  
१ ७३
- इकखुचोयग न० ईर का कुच्चा Retuse  
of sugai-cane आया०
- इकखुडालग न० ईख की शाखा का एकभाग  
A part of a branch of sugai-  
cane आया०
- इकखुभित्ति खी० ईख का टुकड़ा A frag-  
ment of sugai-cane निर्मा० चू०  
१६
- इकखुसालग न० (१) ईख की लम्बीशाखा  
A long branch of sugai-cane  
आया० (२) ईख की बाहर की छाल Out-  
ward bark of sugai-cane  
निर्मा० चू० १६
- इग त्रि० भीत, डराहुआ Alarmed  
frightened दे० १, ७३
- इगिय त्रि० भर्त्सिन, निरसृत Censur-  
ed, abused, insulted दे० १ २०
- इजा खी० माता जननी Mother अणुजो०
- इट्टगा खी० खाद्य विशेष, मेव Thread-  
like eatable made of flou  
विद० ४६१, ४६६ ४७२
- इवुरग-य न० रमोई ढकने का बड़ा पात्र  
A large vessel for covering  
food रात्र० १४०
- इडुरिया स्त्री० मिप्यान-विशेष, एक प्रकार की  
मिठाई A kind of sweet-meat  
सुपा० ४२५
- इडिसिय त्रि० याचक विशेष, माँगने वालों की  
एक जाति A kind of mendi-  
cant भग० ६, ३३ टी०
- इत्तोप्य अ० यहाँ से लेकर, इत प्रभृति Hen  
ce from here पात्र०
- इदुर न० (१) गाड़ी के ऊपर लगाने का आच्छा  
दन विशेष A kind of covering  
over a cart, अणुजो० (२) ढकने का  
पात्र विशेष A kind of vessel  
for covering रात्र०
- इड्ड पु० भमरा, मजुकर A large black  
bee wasp दे० १, ७६
- इडुगिधूम न० तुहिन, हिम Dew or  
frost पडू०
- इम पु० बणिक, व्यापारी Bania mer-  
chant दे० १, ७६
- इय न० प्रवेश, पैठ Entrance, gate  
आचम०
- इरमदिर पु० करभ, ऊट Camel दे०  
१, २१
- इराव पु० हाथी Elephant दे० १, २०
- इरिया खी० कुटी, कुटिया Hut or cot  
दे० १, २०
- इरिण न० कनक, सुवर्ण Gold दे० १,  
७६ गउद०
- इरल पु० (१) प्रतीहार, चपरानी Gate  
keeper, peon (२) लखिर, दाँती An  
instrument for mowing, sic-  
kle (३) त्रि० इरिण गरीब Pool,  
indigent.



(४) कोमल, मृदु Delicate, tender. (५) काला, कृष्णवर्णवाला Black दे० १, ८२

इल्लपुलिद पु० व्याघ्र, शेर Tiger चड०  
इल्लि पु० (१) शार्दूल, व्याघ्र Tiger (२)  
सिंह Lion (३) छाता Umbrella  
दे० १, ८३

इल्लिय त्रि० आसिक्त. Watered, spinkled विक० २३.

इल्लीर न० (१) आसन-विशेष A kind of seat (२) छाता Umbrella (३)  
- दरवाजा, गृहद्वार Door दे० १, ८३  
इसअ त्रि० विस्तीर्ण Extended, spread पङ्०

इ

ईस न० खूंट, खीला, कीलक Peg, nail दे० १, ८४

ईसअ पु० रोफ हरिण की एक जाति White footed antelope A kind of deer दे० १, ८४

ईसर पु० मन्मथ, कामदेव Cupid, god of love दे० १, ८४

ईसिअ न० (१) भील के सिर पर का पत्र पुट, भीलों की एक तरह की पगडी A kind of turban of bhills (२) त्रि० वर्शकृत वश किया हुआ Subject to, influenced by, controlled दे० १, ८४.

उ

उअ अ० (१) विलोकन करो, देखो See, observe, behold दे० १, ८६ टी,  
२११ हे० २, (२) त्रि० ऋजु, सरल Upright, candid पङ्०

उअअ त्रि० ऋजु, सरल, सीधा Upright candid दे० १, ८८

उअकिअ त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ Placed in front दे० १, १०७

उअचिअ त्रि० अपगत, निवृत्त Having finished, stopped दे० १, १०८

उअट्टी स्त्री० नीची, स्त्री के कटि वस्त्र का नाला A cloth worn round a woman's waist पात्र०

उअरी स्त्री० शाकिनी, देवी-विशेष A kind of goddess दे० १, ९८

उअविअ त्रि० उच्छिष्ट Left as a remainder, wasted meal वृह० १

उअह अ० देखो, देखिए See, observe दे० १, ९८, प्राप्र०

उअहारी स्त्री० दुहने वाली स्त्री Milkmaid, a maid for milking दे० १, १०८

उअलि स्त्री० अवतल, शिरोभूषण An ornament worn on the head दे० १, ९०

उइतण न० उत्तरीयवस्त्र, चादर An upper garment दे० १, १०३, कुमा०  
उण्ट पु० शिल्प-विशेष A kind of artistan अष्टजो० ३४६

उओगिअ त्रि० सयुक्त Joined or united with पङ्०

उअ (१) निंदा, चेप Contempt, censure (२) विस्मय Wonder, surprise (३) खेद Sorrow (४) विर्लक Thought, notion (५) सूचन Information प्राकृ० ७६

उचहिया स्त्री० चक्र-धारा The periphery of a wheel दे० १, १०६

उच्छ्रय पु० वस्त्र छापने का काम करने वाला शिल्पी, छीपी, जो कपड़ा छापता है, छीट बनाता है Cloth printer दे० १, ६८, पात्र०

उड-उडगा-उडय त्रि० (१) गभीर, गहरा Deep, sober दे० १ ८२ सुपा० १५, उप० १४७ टी, डा० १० श्रा० १६ २ चलते समय पाव में पिण्ड रूप से लगजाय उतनी गहरी कीच, ऊर्म Excessive mud श्रा० ३३ भा० (३) शरीर का एक भाग, मांस पिण्ड A part of the body विवा० १, ५

उडल न० (१) मच, मचान, उच्चासन Bedstead, sofa (२) निकर, समूह A collection or multitude दे० १, १२६

उडिया स्त्री० मुद्रा-विशेष A kind of coin राज०

उदुरअ पु० लम्बा दिवस Long day दे० २, १०५

उवर त्रि० बहुत, प्रचुर Much, excessive दे० १, ६०

उवरउपफ न० नवीन अभ्युदय, अपूर्व उन्नति Unexpected progress, prosperity दे० १ ११६

उवरय पु० कुण्डरोग का एकभेद A variety of leprosy सिदि० ११४

उवा स्त्री० बन्धन Bond on tie दे० १, ८६

उवी स्त्री० पका हुआ गेहूँ Ripened wheat दे० १, ८६, सुपा० ४०३

उवभरिया स्त्री० वृक्ष विशेष A kind of tree पत्र० १

उक न० पाद पतन, पाव पर गिर कर नमस्कार करना To lay prostrate, to make a low obeisance दे० १, ८५

उकअ त्रि० प्रस्त, फैला हुआ Spread, extended पद्०

उकअण न० काठ पर काठ के हाते से घर की छत बंधना, घर का संस्कार विशेष A kind of roof of a house राज०

उकडा स्त्री० धूस, रियावत Biberly दे० १ ६२

उकडिअ त्रि० (१) आरोपित Attributed the qualities of one thing to another (२) खण्डित Broken, cut पद्०

उकद त्रि० विप्रलब्ध ठगा हुआ चञ्चित Deceived, cheated पद्०

क पिय त्रि० धवलिता सफेद किया हुआ White washed कप०

उकवण त्रि० देखो 'उकवण' शब्द Vide वृद्० १

उकविय त्रि० काठ से बाधा हुआ Tied with wood राज०

उकज त्रि० अनवस्थित, चञ्चल Unsteady, fickle पद्०

उकडिय त्रि० तोडा हुआ, छिन्न Broken, cut पात्र०

उकनाह पु० उत्तम अश्व की एक जाति A kind of noble horse सम्मत्त० २१६

उकरड पु० अशुचि राशि, जहा मैला इकट्ठा किया जाता है A dung hill, a heap of rubbish श्रा० २० सुपा० ३५२

उकरिअ त्रि० (१) विस्तीर्ण आयत Spread extended (२) आरोपित Attributed The qualities of

one thing to another (३)  
 खण्डित Broken, cut पङ्०  
 उकलिय त्रि० उबला हुआ Boiled  
 विचार० २२७  
 उक्कास त्रि० उक्कष्ट ज्यादा से ज्यादा Mar-  
 imum पङ्०  
 उक्कासिञ्च त्रि० उलथित उठा हुआ Raised,  
 gone up दे० १ ११४  
 उक्कण्ड त्रि० मत्त उन्मत्त Mad दे० १  
 ११ ११  
 उक्केर पु० उपहार, भेंट Present, re-  
 ward दे० १, १६  
 उक्केल्लविय त्रि० उकेलाया हुआ, खुलवाया  
 हुआ Caused to disentangle  
 महा०  
 उक्कोट्टिय त्रि० अवरोध रहित किया घेरा  
 ऊठया हुआ Dislaid, unsieged न०  
 ६३६  
 उक्कोड न० राजकुल में दातव्य द्रव्य राजा  
 आदि को दिया जाने वाला उपहार Things  
 to be presented to a king  
 वव० १ १  
 उक्कोडी स्त्री० प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि Echo  
 reverberation दे० १, १४  
 उक्कोल पु० घाम, धूप, गरमी Heat  
 दे० १ ८७  
 उक्कोसिञ्च त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
 Placed in front पङ्०  
 उक्खड पु० (१) सघात, समूह A colle-  
 ction multitude (२) विषमोन्नत  
 प्रदेश Elevated and depressed  
 region दे० १, १२६  
 उक्खडिञ्च त्रि० अक्रान्त, दबाया हुआ  
 Overcome दे० १ ११२  
 उक्खडमडु अ० पुन पुन, बारबार Freq-

uently, again and again वव०  
 २, १  
 उक्खण त्रि० अक्कीर्ण, चूर्णित Pounded,  
 pulverized पङ्०  
 उक्खणण न० खाडना, निस्तुपीकरण  
 Pounding दे० १, ११२ टी०  
 उक्खणिञ्च न० खण्डित, निस्तुपीकृत, Pou-  
 nded दे० १, ११२  
 उक्खलिया-उक्खली स्त्री० थाली, पात्र-विशेष  
 A large dish दे० १, ८८, निमी० चू० १  
 उक्खिवरण त्रि० (१) अक्कीर्ण ध्वस्त, चूर्णित  
 Pounded (२) गुप्त, छन्न Conce-  
 aled (३) पार्श्व में सिधिल, एक तरफ से  
 ढीला Loose in one side दे०  
 १, १२०  
 उक्खण्ड पु० (१) उत्सुक, अलान, मसाल  
 Torch, link (२) समूह A colle-  
 ction of multitude (३) वस्त्र का  
 एक अन्त, अन्तल The border or end  
 of a garment दे० १, १२४  
 उक्खन्त त्रि० काटा हुआ Cut, गा०  
 ७६६  
 उक्खरुहुञ्चिञ्च त्रि० उत्क्षिप्त, फेंका हुआ  
 Thrown दे० १, ४  
 उगाहिञ्च त्रि० उत्क्षिप्त, फेंका हुआ Thi-  
 own पङ्०  
 उगाहिञ्च त्रि० निपुण-गृहीत, अच्छी तरह  
 लिया हुआ Well accepted दे०  
 १, १०४  
 उग्गुल्लिया स्त्री० हृदय-रस का उज्ज्वलना,  
 भावोद्देक Excess of sentiment  
 दे० १, ११८  
 उगट्टि-ट्टी स्त्री० अन्तस, शिरोभूषण An  
 ornament worn on the head  
 दे० १, ६०

उग्यात्र पुं० (१) समूह, सघात A collection, multitude दे० १, १२६  
स० ७७, ४३६, गउड० से० ५, ३४ (२)  
(२) स्थणुड, विषमोन्नत प्रदेश Uneven  
region दे० १, १२६  
उग्युट्ट त्रि० उल्लोन्वित, लुप्त, दूरीकृत, विना-  
शित Destroyed, removed दे०  
१, ६६, से० ११, १०२  
उग्युण त्रि० पूर्ण, भरपूर Abundant,  
full पङ्०  
उच्च न० नाभितल Surface of the  
navel दे० १, ८६  
उच्चडिय त्रि० ऊचा चढाया हुआ Made  
to climb हम्मीर० २८  
उच्चपिय त्रि० दीर्घ, लम्बा, आयत Long  
दे० १, ११६  
उच्चडिअ त्रि० उरिचिप्त, ऊचा फेंका हुआ  
Thrown up दे० १, १०६  
उच्चनवरत्त न० (१) दोनों तरफ का स्थूलभाग  
Bulky part of both the sides  
(२) अनियमित भ्रमण, अन्वयस्थित विवर्तन  
Walking irregularly दे० १,  
१३६ (३) दोनों तरफ से ऊचा नीचा करना  
Making up and down in both  
the sides पात्र०  
उच्चत्य त्रि० दृढ, मजबूत Strong, Fir-  
m दे० १, ६७  
उच्चदिअ त्रि० मुपित, चुराया हुआ Stolen पङ्०  
उच्चप त्रि० आरूढ, ऊपर बैठा हुआ Moun-  
ted, Ascended दे० १, १००  
उच्चल त्रि० (१) अध्यासित, आरूढ Moun-  
ted, elevated (२) विदारित, छिन्न  
Cut, rent पङ्०  
उच्चाय पु० आलिगन, परिरम्भ Embrace  
सुपा० ३३२

उच्चाइय त्रि० उत्थापित, उठाया हुआ Lift-  
ed up स० २०६.  
उच्चाड त्रि० विपुल, विशाल Vast, Exp-  
ansive दे० १, ६७  
उच्चाडिर त्रि० (१) रोकने वाला, निवारण  
करने वाला One who Prevents  
obstacles (२) अफसोस करने  
वाला, दिलगीर Solly दे० २ १६३  
उच्चार त्रि० विमल, स्वच्छ Pure, clean  
दे० १, ६७  
उच्चारिअ त्रि० गृहीत, उपात्त Accepted,  
taken दे० १, ११४  
उच्चिडिम त्रि० मर्यादा रहित, निर्लज्ज Shame-  
less पात्र०  
उच्चिवलय न० कलुषित जल, मैला पानी  
Dirty water पात्र०  
उच्चुच त्रि० गर्विष्ठ, अभिमानी Aug-  
ment, proud दे० १, ६६  
उच्चुग त्रि० अनस्थित Unsteady,  
unsettled पङ्०  
उच्चुपिअ त्रि० आरूढ, ऊपर चढा हुआ  
Mounted, ascended दे० १, १००  
उच्चुरण त्रि० उच्चिष्टि, जूटा Wasted  
meal पङ्०  
उच्चूलउलिअ न० कुतूहल से शीघ्र २ जाना  
Going hastily with wonder  
दे० १, १२१  
उच्चूल त्रि० (१) उद्विग्न, दिन्न Solly  
(२) अधिरूढ, आरूढ Mounted ३)  
भीत, डरा हुआ Frightened दे०  
१, १२७  
उच्चूर त्रि० नानाविध, बहुविध Of many  
kinds, diverse, manifold गज०  
उच्चेल्लर न० (१) ऊपर भूमि A barren  
spot with saline soil (२)

जघन-स्थानीयकेश Hair of the buttocks दे० १, १३६  
 उच्छेव त्रि० प्रकट, व्यक्त Open, public दे० १, ६७  
 उच्चोड पु० शोषण Drying up, desiccation कप्प० प्राप०  
 उच्चोल पु० (१) खेद उद्वेग Sorrow, grief (२) नीची, खीं के रुटि वल्ल का नासा Sting, tape or band for a woman's petticoat or a similar garment दे० १, १३१  
 उच्छ पु० (१) आत का आवरण Covering of intestines दे० १, ८५ (२) त्रि० न्यून, हीन Deficient, wanting पण्ह० २, १  
 उच्छुगिअ त्रि० आगे किया हुआ, आगे रखा हुआ Placed in front दे० १, १०७  
 उच्छट पु० ऋडप से की हुई चोरी A speedy theft दे० १, १०१, पाअ०  
 उच्छट्ट पु० चोर, डाकू Thief दे० १, १०१  
 उच्छडिअ त्रि० चुराई हुई चीज, चोरी का माल Stolen things दे० १, ११२  
 उच्छल्लिअ त्रि० जिसकी छाल काटी गई हो One whose bark is cut दे० १, १११  
 उच्छविअ न० शय्या, बिछौना A Bed दे० १, १०३  
 उच्छायण त्रि० (अवच्छादन) आच्छादक, ढकने वाला Covering स० ३२३  
 उच्छाह पु० सूत का डोरा Cotton-thread दे० १, ६२  
 उच्छित्त त्रि० (१) उत्क्षिप्त, फेंका हुआ Thrown (२) विक्षिप्त, पागल Mad distracted दे० १, १२४

उच्छिरण त्रि० उच्छिष्ट, जूठा Wasted meal, Leavings of food पड्०  
 उच्छिल्ल न० छिद्र विवर Hole दे० १, ६५  
 उच्छु पु० पवन वायु Wind, air दे० १, ८५  
 उच्छुअ न० डरते २ की हुई चोरी Feculent theft दे० १, ६५  
 उच्छुअरण न० ईख का खेत A field of sugar cane दे० १, ११७  
 उच्छुअर त्रि० सज्ज ढका हुआ Covered, concealed दे० १, ११५  
 उच्छुडिअ त्रि० (१) वायु वगैरा से आहत Wounded by an arrow (२) अपहृत छीना हुआ Snatched away, deprived of दे० १, १३५  
 उच्छुच्छु त्रि० इप्त, अभिमानी Arrogant, proud दे० १, ६६  
 उच्छुर त्रि० अविनश्वर, स्थायी Eternal, perpetual दे० १, ६०  
 उच्छुरण न० (१) ईख का खेत A field of sugar-cane दे० १, ११७  
 उच्छूढ त्रि० आरूढ, ऊपर बैठा हुआ Mounted ascended पड्०  
 उच्छेवण न० घृत, घी Ghee दे० १, ११६  
 उच्छोला स्त्री० प्रभूत जल Much water उव०  
 उज्जगल न० (१) बलात्कार, जबरदस्ती Force (२) त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे० १, १३५  
 उज्जगिर न० जागरण, निद्रा का अभाव Wakefulness, keeping awake दे० १, ११७, वज्जा० ७४.  
 उज्जगुज्ज त्रि० स्वच्छ, निर्मल Clean, clear दे० १, ११३

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उज्जड त्रि० उजाड, वसति रहित Barren, uninhabited दे० १, १६६, गडड०                                                                                                                     | उज्ज्वल त्रि० प्रबल, बलिष्ठ Strong valorious पङ्०                                                                                 |
| उज्जण्डिअ त्रि० चक्र टेढ़ा (hooked, bent) दे० १, १११                                                                                                                                 | उज्ज्वलिअ त्रि० (१) प्रचिप्त फेंका हुआ Thrown up (२) विचित्र Scattered पङ्०                                                       |
| उज्जर त्रि० (१) मध्य गल, भीतर का Being in the middle central (२) निर्मरणा, क्षय Destruction तद्गु० ४१                                                                                | उज्ज्वल्य पु० उद्योग, प्रयत्न Excitation, industry दे० १, १२२                                                                     |
| उज्ज्वला स्त्री० बलात्कार, जबरदस्ती Force दे० १, १७०                                                                                                                                 | उज्ज्वलिअ त्रि० उत्कृष्ट, उत्तम Excellent, pre-eminent पङ्०                                                                       |
| उज्जाडिअ त्रि० उजाड किया हुआ Ruined भवि०                                                                                                                                             | उज्ज्वलिअ न० (१) वचनीय, लोकापवाद Censure (२) त्रि० निन्दनीय Censurable ३) कथनीय To be said दे० २, २२२                             |
| उज्जाण्डिअ त्रि० निम्नीकृत, नीचा किया हुआ Bent, lowered दे० १, ११३                                                                                                                   | उज्ज्वल्य त्रि० (१) शुष्क, सूखा हुआ Dry, २ निम्नीकृत, नीचा किया हुआ Bent पङ्०                                                     |
| उज्जाविय त्रि० विकसित Expanded, opened सण्०                                                                                                                                          | उज्ज्व त्रि० लिप्त, लिया हुआ Smeared पङ्०                                                                                         |
| उज्जीरिअ त्रि० निर्मलित, अपमानित, तिच्छृत Insulted, dishonoured दे० १, ११२                                                                                                           | उज्जाहिअ त्रि० उत्क्षिप्त फेंका हुआ Thrown up पङ्०                                                                                |
| उज्जुरिअ त्रि० (१) क्षीण, नष्ट Destroyed, ruined (२) शुष्क सूखा Dry दे० १ ११२                                                                                                        | उज्जिअ त्रि० अग्निष्ट, खोजा हुआ Searched, inquired पङ्०                                                                           |
| उज्जोमिअ स्त्री० रश्मि, किरण Ray, beam of light दे० १, ११२                                                                                                                           | उज्जिद पु० उदर, माय, धान्य विशेष A kind of pulse दे० १, १२०                                                                       |
| उज्ज्वलिअ त्रि० (१) विक्रीत बेचा हुआ Sold (२) निम्नीकृत, नीचा किया हुआ Bent पङ्०                                                                                                     | उज्जुहिअ न० (१) विवाहित स्त्रीका काप Wiath of a married woman (२) त्रि० उत्क्षिष्ट, जूटा Wasted meal, leavings of food दे० १, १३० |
| उज्ज्वमण न० पलायन, भागना Running away Elopement दे० १, १०३                                                                                                                           | उज्जु त्रि० कुँआ आदिको खोदने वाला, खनक One who digs wells, etc दे० १, १२२                                                         |
| उज्ज्वमाण त्रि० पलायित, भागा हुआ Run away पङ्०                                                                                                                                       | उज्जु पु० (१) वैल, याद Or (२) लम्बा Long. दे० १, १२३                                                                              |
| उज्ज्वरिअ त्रि० (१) टेढी नजर से देखा हुआ Glanced with a side look (२) विचित्र Distracted, bewildered (३) चिप्त, फेंका हुआ Thrown (४) परित्यक्त, उज्जित Abandoned, omitted दे० १, १३३ | उज्जु पु० सटमल, चटकीरा, उज्जित A bug दे० १ १६६                                                                                    |

उड्डहण पु० चोर, डाकू Thief दे० १, ६१  
उड्डाअ पु० उद्गम, उदय, उद्भव Production दे० १ ६१

उड्डाण पु० (१) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि Echo  
(२) बुरर, पक्षि विशेष A kind of  
bird (३) विष्टा, पुरीष Faeces (४)  
मनोरथ, अभिलाष Ambition, desire  
(५) गर्वित, अभिमानी Arrogant,  
proud दे० १ १०८

उड्डास पु० सताप परिताप Agony  
anguish दे० १, ६६

उड्डिअ त्रि० उड्डिस फेंका हुआ Thrown  
up पद०

उड्डिआहरण न० छुरी पर रक्त्वे हृद् फूल को  
पाव की दो उगलियों से लेते हुए चले जाना  
Taking a flower kept on a  
knife by two fingers of a foot  
दे० १, १२१

उड्डिअ त्रि० ऊपर फेंका हुआ Thrown  
or tossed up पाअ०

उड्डक न० मार्ग का उन्नत भू-भाग An  
elevated part of the way सूय०  
१, २

उड्डल-ल्ल पु० उल्लास Delight, joy दे०  
१, ६१

उड्डिय स्त्री० (१) पात्र विशेष A kind  
of vessel स० १७३, (२) कम्बल वगैर  
आढने का वस्त्र Blanket स० २८६

उड्डाह पु० प्रिय पति, नायक Husband  
मन्त्रि० ४७

उड्डणम त्रि० मसुन्नत, ऊचा Elevated,  
high दे० १, ८८

उड्डणालिय त्रि० (१) कृश, दुर्बल Thin  
, weak (२) उन्नमित, ऊचा किया हुआ  
Lifted up दे० १ १३६

उड्डणुअ पु० (१) हुंकार Egotism, sense  
of self (२) आकाश की तरफ मु हकिया  
हुए कुत्ते की आवाज A sound made  
by a dog with the mouth up-  
wards दे० १, १३२, (३) त्रि० गर्वित  
Arrogant, proud वच० २, १०

उड्डिआ. स्त्री० कूसरा खीचडी A mix-  
ture of pulse and rice दे० १, ८८  
उड्डोडयभड पु० अमर, भमरा Wasp,  
a large black bee दे० १, १२०

उड्डोला स्त्री० कीट विशेष A kind of  
insect आवम०

उत्त पु० वनस्पति-विशेष A kind of  
vegetable राज०

उत्तड्य त्रि० उत्तेजित अधिक दीपित Illu-  
minated वसनि० ३ ३२

उत्तपिअ त्रि० खिन्न, उद्विग्न Sorrow  
grieved दे० १, १०२

उत्तण त्रि० गर्वित Arrogant proud  
सद्वि० २६ टी

उत्तात त्रि० अध्यामित आरुढ Mounted,  
ascended पद०

उत्तप त्रि० (१) गर्वित अभिमानी Ar-  
rogant proud दे० १, १३१, पाअ०  
(२) अधिक गुण वाला Mentionous  
दे० १, १३१

उत्तरणवरडिया स्त्री० उड्डुप, जहाज, डोंगी  
Ship दे० १, १२२

उत्तलहअ पु० विष्टप, अङ्कुर Sprout  
दे० १, ११६

उत्ताणपत्तय त्रि० पुरण्ड-मबन्धी Relating  
to the castor oil plant दे० १, १२०

उत्तार पु० आवास-स्थान Lodging  
सिरि० ७००

उत्ताल न० लगातार रुदन, अन्तर रहित

- उज्जड त्रि० उजाड़, वसति रहित Barron, uninhabited दे० १, ६६, गडड०
- उज्जण्डिअ त्रि० बक, टेढा Crooked, bent दे० १, १११
- उज्जर त्रि० (१) मध्य गत, भीतर का Being in the middle central (२) निर्जरण, चय Destruction तद्गु० ४१
- उज्जल्ला स्त्री० बलात्कार, जबरदस्ती Force दे० १, ६७
- उज्जाडिअ त्रि० उजाड किया हुआ Ruined भवि०
- उज्जाण्डिअ त्रि० निम्नीकृत, नीचा किया हुआ Bent, lowered दे० १, ११३
- उज्जाविय त्रि० विकसित Expanded, opened सण०
- उज्जीरिअ त्रि० निर्भस्मित, अपमानित, तिस्कृत Insulted, dishonoured दे० १, ११२
- उज्जुरिअ त्रि० (१) चीया, नष्ट Destroyed, ruined (२) शुष्क सूखा Dry दे० १ ११२
- उज्जोमिअ स्त्री० रश्मि, किरण Ray, beam of light दे० १, ११५
- उज्जण्डिअ त्रि० (१) विक्रीत बेचा हुआ Sold (२) निम्नीकृत, नीचा किया हुआ Bent पड्०
- उज्जमण न० पलायन, भागना Running away Elopement दे० १, १०३
- उज्जमाण त्रि० पलायित, भागा हुआ Run away पड्०
- उज्जरिअ त्रि० (१) टेढी नजर से देखा हुआ Glanced with a side look (२) विचित्र Distracted, bewildered (३) चिस, फेंका हुआ Thrown (४) परित्यक्त, उज्झित Abandoned, quitted दे० १, १३३
- उज्जल त्रि० प्रबल, बलिष्ठ Strong valorious पड्०
- उज्जलिअ त्रि० (१) प्रचिस फेंका हुआ Thrown up (२) विचिस Scattered पड्०
- उज्जम पु० उद्योग, प्रयत्न Exertion, industry दे० १, ६५
- उज्जसिअ त्रि० उत्कृष्ट, उत्तम Excellent pre-eminent पड्०
- उज्जिखिअ न० (१) वचनीय लोकापवाद Censure (२) त्रि० निन्दनीय Censurable ३) कथनीय To be said दे० ३, ५५
- उज्जिय त्रि० (१) शुष्क, सूखा हुआ Dry, २ निर्भीकृत, नीचा किया हुआ Bent पड्०
- उज्जय त्रि० लिप्त, लिपा हुआ Smeared पड्०
- उडाहिअ त्रि० उत्क्षिप्त, फेंका हुआ Thrown up पड्०
- उडिअ त्रि० अन्विष्ट, खोजा हुआ Searched, inquired पड्०
- उडिद पु० उडद, माप, धान्य विशेष A kind of pulse दे० १, ६८
- उडुहिअ न० (१) विवाहित स्त्रीका काप Wiath of a married woman (२) त्रि० उत्क्षिष्ट, जूड़ा Wasted meal, leavings of food दे० १ १३७
- उडु त्रि० कुँधा आदिको खोदने वाला, खनक One who digs wells, etc दे० १, ८५
- उडुण पु० (१) बैल, माड़ Ox (२) दीर्घ लम्बा Long दे० १, १२३
- उडुस पु० खटमल, खटकीरा, उडिय A bug दे० १ ६६



उड्डहण पु० चोर, डाक Thief दे० १, ६१  
 उड्डाञ्ज पु० उद्गम, उदय, उद्भव Production दे० १, ६१  
 उड्डाण पु० (१) प्रतिगन्ध, प्रतिग्वनि Echo (२) कुरर, पक्षि विरोध A kind of bird (३) विष्टा, पुनीष Pines (४) मनोरथ, अभिलाष Ambition, desire (५) गर्वित, अभिमानी Arrogant, proud दे० १, १२८  
 उड्डास पु० मत्तप परितप Agony anguish दे० १, ६६  
 उड्डिञ्ज त्रि० उड्डिञ्ज फेंका हुआ Thrown up पद०  
 उड्डिआहरण न० डुरी पर रक्ते हुए फूल को पाव की दो उगलियों से लेते हुए चले जाना Taking a flower kept on a knite by two fingers of a foot दे० १, १२१  
 उड्डिहिञ्ज त्रि० ऊपर फेंका हुआ Thrown or tossed up पाञ्च०  
 उड्डक न० सार्गे का उन्नत भू-भाग An elevated part of the way सूच० १, २  
 उड्डल-लल पु० उल्लास Delight, joy दे० १, ६१  
 उड्डिय स्त्री० (१) पात्र विशेष A kind of vessel स० १७३, (२) कम्बल जगैर ओढ़ने का चक्ष Blanket स० १८६  
 उणाद् पु० मित्र पति, नायक Husband सच्चि० ४०  
 उरणम त्रि० नमुन्नत, ऊचा Elevated, high दे० १, ८८  
 उणालिय त्रि० (१) कृष, दुर्बल Thin, weak (२) उन्नमित, ऊचा किया हुआ Lifted up दे० १, १३६

उणुड्ड पु० (१) हुंकार Egotism, sense of self (२) आकाश की तरफ मुड़किया हुआ कुत्ते की आवाज A sound made by a dog with the mouth upwards दे० १, १३२, (३) त्रि० गर्वित Arrogant, proud वच० २, १०  
 उण्डिआ स्त्री० कूसरा खीचड़ी A mixture of pulse and rice दे० १, ८८  
 उण्डोदयमड पु० अमर, भमरा Wasp, a large black bee दे० १, १००  
 उण्डोला स्त्री० कीट विशेष A kind of insect आवम०  
 उण्ट पु० वनस्पति-विशेष A kind of vegetable राज०  
 उण्टिञ्ज त्रि० उजेजित अधिक दीपित Illuminated तलनि० ३, ३२  
 उण्टपिञ्ज त्रि० खिन्न, उड्डिग्न Sorrow grieved दे० १, १०२  
 उण्टण त्रि० गर्वित Arrogant proud सच्चि० १६ टी  
 उणत्त त्रि० अध्यामित आरोड Mounted, ascended पद०  
 उणत्तप त्रि० (१) गर्वित अभिमानी Arrogant, proud दे० १, १३१, पाञ्च० (२) अधिक गुण वाला Mentorious दे० १, १३१  
 उण्णवरडिया स्त्री० उड्डुप, जहाज, डोंगी Ship दे० १, १२२  
 उण्णद्व पु० विटप, अङ्कुर Sprout दे० १, ११६  
 उण्णपत्तय त्रि० पुरण्ड-सवन्धी Relating to the castor oil plant दे० १, १२०  
 उण्णर पु० आवास-स्थान Lodging स्थि० ७००  
 उण्णल न० लगातार रुदन, अन्तर रहित

क्रन्दन की आवाज Constant weeping दे० १, १०१  
 उतावल न० (१) उतावल, शीघ्रता Speed, haste (२) त्रि० शीघ्रकारी आकुल One who makes haste सुर० १० १  
 उताहिय त्रि० उत्क्षिप्त, फेंका हुआ The own or tossed up दे० १, १०६  
 उतिरिबिडि-उतिवडा स्त्री० भाजन वगैर का ऊचा ढेर, भाजनों की थप्पी A heap of vessels दे० १, १२२  
 उतुण त्रि० गर्व-युत, अभिमानी Arrogant, proud दे० १ ६६, गउड०  
 उतुपिय त्रि० स्निग्ध, चिकना Oily sticky विवा० १, २  
 उत्तारेद्धि स्त्री० (१) गर्व अभिमान All egance, pride (२) त्रि० गवित, अभिमानी Proud दे० १, ६६  
 उतुहिअ त्रि० क्षिन्न, नष्ट उस्खोदित Destroyed, ruined दे० १, १०७ १११  
 उत्तूह पु० किनारा रहित इनारा तट शून्य रूप A bankless well दे० १, ६४  
 उत्थगत्र पु० समर्प, उपमर्द Friction rubbing  
 उत्थरिय त्रि० (१) नि सृत, निर्गत Come out सं० ४७३, सुपा० २० (२) उत्थित, उठा हुआ Litted up दे० ७, ६०  
 उत्थलिअ न० (१) घर, गृह House, a dwelling (२) उन्मुक्त-गत, ऊचा गया हुआ Gone up दे० १, १०७, सं० १८०  
 उत्थल्लपथल्ला स्त्री० दोनों पार्श्वों से परिवर्तन, उथल पुथल Great change दे० १, १२२  
 उताहिय त्रि० उत्क्षिप्त फेंका गया Thrown or tossed up पद०

उदूग पु० न० पृथ्वी शिला A large stone पचा० ८ १० टी  
 उउलिय त्रि० अवनत, नीचा नमा हुआ Bent down, downcast पद०  
 उउ न० (१) जल मानुष A man living in water (२) ककुद, बैल के कंधे का कुम्बड़ Hump of a bull दे० १ १०३  
 उद्धर न० सुभिच, सुझल Plenty of coin वृह० १  
 उद्धरेअ त्रि० (१) उल्कात उलाढा हुआ Uprooted दे० १, १०० (२) खुदित विकसित, Blown, fully opened पाश्च० (३) युद्ध से पलायित, रण हुन Run away from the battle field पद०  
 उद्दाण स्त्री० चूल्हा, चुल्हो, जिम पर रसोई पकाईजाती है Hearth, a large stove दे० १ ८७  
 उद्दाम पु० (१) सघान, समूह Collection or multitude (२) स्यपुट, निपसोन्नत प्रदेश An elevated and depressed region दे० १ १२६  
 उद्दिसिअ त्रि० उद्योक्षित, वितर्कित Thought, considered दे० १, १०६  
 उद्धअ त्रि० शान्त, ठंडा Cold पद०  
 उद्धचत्रुवि त्रि० विपवादित, अप्रमाणित Unauthorised contradictory दे० १, ११४  
 उद्धच्छविअ त्रि० मन्जित, नय्यार Ready, prepared दे० १, ११६  
 उद्धन्धिअ त्रि० निषिद्ध, प्रतिषिद्ध Prohibited दे० १, १११.  
 उद्धण त्रि० उद्धत, अविनीत Insolent, rude पद०  
 उद्धत्थ त्रि० विप्रलब्ध, वञ्चित Deceived, cheated दे० १, ६६

उद्धरण त्रि० उच्छिष्ट, जूटा Wasted meal, leavings of food दे० १, १०६

उद्धरिअ त्रि० अर्दित, विनाशित Destroyed, ruined पद०

उद्धल पु० दोनों तरफ की अपवृत्ति Not engaging in both the sides पद०

उद्धवअ त्रि० उल्लिप्त फेंका हुआ thrown or tossed up दे० १, १०६

उद्धविअ त्रि० अर्चित, पूजित Worshiped, adored दे० १ १०७

उद्धाअ पु० (१) विपमोन्नत प्रदेश Elevated and depressed region (२) समूह Collection of multitude (३) त्रि० थका हुआ, श्रान्त Fatigued, exhausted दे० १, १२४

उद्धु धलिय त्रि० धुधलाया हुआ Smoky सम०

उद्धुमाय त्रि० उन्मत्त Mad से० ६, ११

उष्पक त्रि० (१) बहु अत्यन्त Much, Excessive (२) पु० पक, कीचड कादा Mud, mme (३) उन्नति Prosperity दे० १, १३० (४) समूह, राशि Collection, multitude दे० १, १३०, पात्र० गडड० सं० ४३७

उष्पग पु० समूह, राशि A collection, multitude गा० ५८२

उष्पत्त त्रि० (१) गलित Melted (२) विरक्त Free from passion or worldly attachment पद०

उष्पत्तल त्रि० अर्ध्यासित, आरूढ़ Mounted, ascended पद०

उष्पाहल न० उत्कण्ठ, उत्सुकता Anxious, desire, eagerness पात्र०

उष्पुगलिआ स्त्री० हाथ का मध्य भाग,

करोस्तग Palm of the hand दे० १, ११८

उष्पिजल न० (१) सुरत, सम्भोग Sexual intercourse, (२) रज, धूली (३) अपकीर्ति, अपयश Dust, disgrace, infamy दे० १, १३५

उष्पित्थ त्रि० (१) त्रस्त, भीत Frightened, alarmed दे० १, १२६, से० १०, ६१, सं० ५७४, पुष्प० ४४३, गडड० सुर० १२, १६० (२) कुपित, क्रुद्ध Wrathful, angry (३) विधुर, आकुल Bewildered, confused दे० १, १२६, पात्र० (४) श्वासयुक्त Breathing, respung राय० ७७ टी

उष्पीड पु० समूह, राशि Heap से० ४, ३७, न, ३

उष्पील पु० (१) सघात, समूह A collection, multitude दे० १, १२६, सुपा० ६१, सुर० ३, ११६, वज्जान० ६०, पुष्प० ७३, धम्म० १२ टी, महा० (२) स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश An elevated and depressed region दे० १, १२६

उष्पेय न० अभ्यग, तैलादिकी मालिस Smearing the body with unctuous or oily substance वव० १, ६

उष्पेहड त्रि० उन्नत, भव्य Exalted, magnanimous दे० १, ११६, पात्र० सं० ४४६

उष्पदोल त्रि० चल, अस्थिर Fickle, unsteady दे० १, १०२

उष्फाल पु० खल, दुर्जन A wicked man दे० १, ६०, पात्र०

उष्फुकिआ स्त्री० धोबिन, कपडा धोने वाली Washer-woman दे० १, ११४

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उत्पत्तिलेख का अर्थ (Constant weep-<br>ing) ३० १, १०१                                                         | उद्गुग पु० न० शृंगी शिला A large<br>stone पचा० २ १० १                                                                                                                         |
| उत्पत्तिलेख न० (१) उन्माद, शीघ्रता Sp<br>eed haste (२) शि० शीघ्रता हास्त<br>one who makes haste मुर०<br>१० १  | उद्गुलिय त्रि० अवनन, नीचा नमा हुआ<br>Bent down downcast पद्०                                                                                                                  |
| उत्पत्तिलेख त्रि० उन्मत्त, फटा हुआ Plu<br>mbed on tossed up ३० १, १०६                                         | उद्गु न० (१) जल मानुष A man living<br>in water (२) ऊट्ट, बैल के ऊपे का<br>कुम्भट Hump of a bull ३० १ १०३                                                                      |
| उत्पत्तिलेख उ० उन्मत्तग्रा म्थी० नाचत गौर का<br>कागड, भागा का गंधी A heap of<br>sticks ३० १, १२१              | उद्गु न० सुनिच, नुहाल Plenty of<br>corn गृह० १                                                                                                                                |
| उत्पत्तिलेख त्रि० गर्व-युक्त अभिमानि<br>nt, proud ३० १ ६१ गउउ०                                                | उद्गु त्रि० (१) उन्मात उन्माद हुआ<br>I pouted ३० १, १०० (२) स्फुटित<br>विकसित, Blown, fully opened<br>पाथ० (३) युद्ध से पलायित, रण भुन Run<br>away from the battle-field पद्० |
| उत्पत्तिलेख त्रि० स्निग्ध, चिकना Oily<br>sticks विवा० १, ०                                                    | उद्गु त्रि० चक्का चुल्हा, जिम पर रसोड<br>पकाई जाती है Hearth, a large<br>stove ३० १ २०                                                                                        |
| उत्पत्तिलेख त्रि० (१) गर्व अभिमान<br>organce pride (२) शि० गवित,<br>अभिमानि Proud ३० १, ६६                    | उद्गु पु० (१) सचान, समूह Collection<br>of multitude (२) स्थण्ड, निपमोक्ष<br>प्रदेश An elevated and depre-<br>ssed region ३० १ १२६                                             |
| उत्पत्तिलेख त्रि० छिन्न, नष्ट उन्मोहित De-<br>troved ruined ३० १, १०२ १११                                     | उद्गु पु० किनारा रहित इनारा नद शुन्य<br>एष. A bankless well ३० १, ६४                                                                                                          |
| उत्पत्तिलेख पु० किनारा रहित इनारा नद शुन्य<br>एष. A bankless well ३० १, ६४                                    | उद्गु पु० ममर्द, उपमर्द Friction<br>rubbing                                                                                                                                   |
| उत्पत्तिलेख त्रि० (१) निमृत्, निर्गत Come<br>out म० ४७३, सुपा० ०० (२) उत्थित,<br>उन्नत हुआ Lifted up ३० ७, ६२ | उद्गु त्रि० उन्मत्त, ठंडा Cold पद्०                                                                                                                                           |
| उत्पत्तिलेख न० (१) घर, गृह House, a<br>dwelling (२) उन्मुक्त गत, उन्मा गया<br>हुआ Gone up ३० १, १०७, स० १२०   | उद्गु त्रि० विरुद्ध, अग्रमाणित<br>Unauthorised contradictory<br>३० १, ११४                                                                                                     |
| उत्पत्तिलेख स्त्री० दोनों पाश्वों से परिव-<br>र्तन उथल पुथल Great change ३०<br>१, १२२                         | उद्गु त्रि० सज्जित, तय्यार Ready,<br>prepared ३० १, ११६                                                                                                                       |
| उत्पत्तिलेख त्रि० उत्थित, फेंका गया Thrown<br>or tossed up पद्०                                               | उद्गु त्रि० निषिद्ध, प्रतिषिद्ध Prohi-<br>bited ३० १, १११                                                                                                                     |
|                                                                                                               | उद्गु त्रि० उद्धत, अविनीत Insolent,<br>rude पद्०                                                                                                                              |
|                                                                                                               | उद्गु त्रि० विप्रलब्ध, वञ्चित Deceived,<br>cheated ३० १, ६६                                                                                                                   |

उद्धरण त्रि० उच्छिष्ट, जूझ Wasted meal, leavings of food दे० १, १०६

उद्धरिञ्च त्रि० अर्दित, विनाशित Destroyed, ruined षड्०

उद्धल पु० दोनों तरफ की अप्रवृत्ति Not engaging in both the sides षड्०

उद्धवञ्च त्रि० उत्थिप्त फेंका हुआ thrown or tossed up दे० १, १०६

उद्धविञ्च त्रि० अर्चित, पूजित Worshiped, adored दे० १ १०७

उद्धञ्च पु० (१) विपमोन्नत प्रदेश Elevated and depressed region (२) समूह Collection of multitude (३) त्रि० थका हुआ, आन्त Fatigued, exhausted दे० १, १२४

उद्धु धलिय त्रि० धुधलाया हुआ Smoky सख०

उद्धुमाय त्रि० उन्मत्त Mad से० ६, ११

उपक त्रि० (१) बहु अत्यन्त Much, Excessive (२) पु० पक, कीचड़ कादा Mud, mure (३) उन्नति Prosperity दे० १, १३० (४) समूह, राशि Collection, multitude दे० १, १३०, पाञ्च० गउड० स० ४३७

उपग पु० समूह, राशि A collection, multitude गा० १२५

उपत्त त्रि० (१) गलित Melted (२) विरक्त Free from passion of worldly attachment षड्०

उप्ल्ल त्रि० अभ्यासित, आरूढ Mounted, ascended षड्०

उप्पाहल न० उत्कण्ठा, उत्सुकता Anxious, desue, eagerness पाञ्च०

उष्णिगलिञ्चा स्त्री० हाथ का मध्य भाग,

करोत्संग Palm of the hand दे० १, ११८

उष्णिजल न० (१) सुरत, सम्भोग Sexual intercourse. (२) रज, धूली (३) अपकीर्ति, अपयश Dust, disgrace, infamy दे० १, १३५

उष्णित्य त्रि० (१) त्रस्त, भीत Frightened, alarmed दे० १, १२६, से० १०, ६१, स० २७४, पुष्फ० ४४३, गउड० सुर० १२, १६० (२) कुपित, क्रुद्ध Wrathful, angry (३) विधुर, आकुल Bewildered, confused दे० १, १२६, पाञ्च० (४) श्वासयुक्त Breathing, respiring राय० ७७ टी

उष्पीड पु० समूह, राशि Heap से० ४, ३७, ८, ३

उष्पील पु० (१) सघात, समूह A collection, multitude दे० १, १२६, सुपा० ६१, सुर० ३, ११६, बज्जा० ६०, पुष्फ० ७३, धम्म० १२ टी, महा० (२) स्थण्डिल, विपमोन्नत प्रदेश An elevated and depressed region दे० १, १२६

उष्पेय न० अभ्यग, तैलादिकी मालिस. Smearing the body with unctuous or oily substance वव० १, ६

उष्पेहड त्रि० उन्नत, भव्य Exalted, magnanimous दे० १, ११६, पाञ्च० स० ४४६

उष्पदोल त्रि० चल, अस्थिर Fickle, unsteady दे० १, १०२

उष्फाल पु० खल, दुर्जन A wicked man दे० १, ६०, पाञ्च०

उष्फुकिञ्चा स्त्री धोविन, कपड़ा धोने वाली Washer-woman दे० १, ११४

उत्कृष्टिभ्र त्रि० थाम्न, पिप्राया हुआ Sp-  
read दे० १, ११३  
उत्कृष्टण त्रि० आभूषण, भरा हुआ, न्यास  
Filled, full of दे० १, ६२, सुर० १,  
२३३ ३, २१८  
उत्कृष्ट. त्रि० स्पृष्ट, हुआ हुआ Touched  
प्र० १८८ टी  
उत्फेस पु० भय प्राय Fear, alarm  
दे० १, ६४  
उत्फेसण न० उराना भयोत्पादन Terr-  
fying सुग० ३, १  
उत्फोस पु० उदगम, उदय Rise, go-  
ing up दे० १, ६१  
उत्थिव. त्रि० (१) खिन्न, उद्विग्न Sorry,  
grieved (२) शून्य Empty (३)  
क्रान्त Overcome (४) प्रकट वेप वाला  
Manifestly dressed (५) भीत,  
उरा हुआ Frightened (६) उद्भट  
Exalted, magnanimous दे० १,  
१२७, वज्जा० ६२  
उत्थिवल न० मैला पानी Dirty water  
दे० १, १११  
उत्थिविर त्रि० खिन्न, उद्विग्न Sorry,  
grieved कर्पू०  
उत्थुक्क न० (१) प्रलपित, प्रलाप Talk  
discourse (२) संकट A difficu-  
lty, danger (३) बलात्कार Force  
दे० १, १२८  
उत्थूर त्रि० (१) अधिक, ज्यादा Much,  
excessive (२) पुं० सघात, समूह Col-  
lection, multitude (३) स्थण्ड,  
विपमोन्नत-प्रदेश An elevated and  
depressed region दे० १, १२६  
उत्थुत त्रि० रूखान, बीमार. Diseased,  
sick दे० १, ६६, महा०

उत्थुत त्रि० गुरिहत, न्यास Surround  
ed, covered दे० १, ६६, नाट०  
उत्थुजि छी० कोटव-समूह A collect-  
ion of species of grain राज०  
उत्थुश्र त्रि० शान्त, ठंडा, Cold दे० १, ६६  
उत्थुभालण न० (१) सूर्य आदि से साफ सुधरा  
करना, उत्पन्न Cleansing by a  
winnowing fan (२) त्रि० अर्पण,  
अद्वितीय Extraordinary, unexa-  
mpled दे० १, १०३  
उत्थुभालिभ्र त्रि० सूर्य आदि से साफ किया  
हुआ, उत्पन्न Cleansed by a win-  
nowing fan पाथ०  
उत्थुभाविभ्र न० सुरत, क्रीडा, सभोग Sex-  
ual intercourse, copulation दे०  
१, ११७  
उत्थुभासुभ्र त्रि० शोभाहीन Devoid of  
elegance दे०, ११०  
उत्थुभ्राण त्रि० १) उचलता हुआ, अग्नि  
से तप्त जो दूध वगैरे उबलता है Boiling  
दे० १, १०६, ७, ८१  
उत्थुभुग त्रि० चल, अस्थिर Fickle,  
unsteady दे० १०२  
उत्थुभुत्तिभ्र त्रि० उर्दीपित, प्रदीपित Illum-  
inated पाथ०  
उत्थुमाण न० प्रवेश Entrance आया०  
२, १, १, ६  
उत्थुमह्य त्रि० (१) मूढ, मूर्ख Foolish  
दे० १, १०२, (२) पागल, उन्मत्त Mad  
गा० ४६८, वज्जा० ४२  
उत्थुमड पु० (१) हठ Obstinacy (२)  
त्रि० उद्बृत्त Flowing out, over-  
flowing दे० १, १२४  
उत्थुमथिय त्रि० दग्ध, जला हुआ Bunt  
वज्जा० ६२

उम्मच्छ न० (१) क्रोध, गुस्सा Wrath, anger दे० १, १२५, से० ११, १६, २०  
 (२) त्रि० असंबद्ध Unconnected  
 (३) प्रकारान्तर से कथित Said differently दे० १, १२५

उम्मच्छविअ त्रि० उद्भट Exalted, magnanimous दे० १, ११६,  
 उम्मच्छिअ त्रि० (१) रुषित, रुष्टं Wrathful, angry (२) आकुल, व्याकुल Confused, bewildered दे० १, १३७

उम्मडा स्त्री० (१) बलात्कार, जबरदस्ती Force दे० १, ६७ (२) निषेध, अस्वीकार Prohibition उप० ७२८ टी

उम्मत्त पु० (१) धतूरा, वृक्ष विशेष The white thorn-apple tree (२) पररुद्ध, वृक्षविशेष The castor-oil plant दे० १, ८६

उम्मत्तय न० धतूरे का फल The white thorn-apple मोह० २२

उम्मत्थ त्रि० अधोमुख, विपरीत Having the face down-wards दे० १, ६३

उम्मर पु० देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी The threshold of a door दे० १, ६५

उम्मरिअ त्रि० उरलात, उन्मूलित uprooted दे० १, १००, पङ्०

उम्मज्ज त्रि० स्थान, कठिन, घट्ट Thick, bulky, gross दे० १, ६१

उम्मल्ल पु० (१) राजा, नृप King, ruler (२) मेघ, बारिस Rains (३) बलात्कार Force (४) त्रि० पीवर, पुष्ट Stout, fleshy, corpulent दे० १, १३१

उम्मल्ला स्त्री० नृप्या Strong desne avidity दे० १, ६४

उम्माडिय न० उरमुक, जलता हुआ काष्ठ Fine-brand, torch सिरि० ६८०

उम्मिठ त्रि० हस्तिपक-रहित, महावतरहित, निरकुश Devoid of an elephant-divei, unchecked, uncontrolled सुपा० ३४८, २०३

उम्महु त्रि० हप्त, अभिमाना Arrogant, proud दे० १, ६६, पङ्०

उम्मेठ त्रि० देखो उम्मिठ शब्द Vide 'उम्मिठ' पदम० ७१, २६, स० ३३२

उग्हाविअ न० सुरत सभोग Sexual intercourse, coition दे० १, ११७

उग्यकिअ त्रि० इकट्ठा किया हुआ Collected, gathered पङ्०

उग्यल त्रि० अध्यासित, आरूढ Mounted, ascended पङ्०

उर न० आरम्भ, प्रारम्भ Commencement, beginning दे० १, ८६

उरत्त त्रि० खण्डित, विदारित Broken, cut दे० १, ६०

उरत्थय न० वर्म, बक्तर Aimou पाद्य०

उररि पु० बकरा Goat, an animal दे० १, ८८

उरविय त्रि० (१) आरोपित Attributed the nature of one thing to another (२) खण्डित, छिन्न Broken, cut पङ्०

उराल त्रि० भयकर, भीष्म Fearful dreadful सुज्ज० १

उरितिय न० तीनलरवाला हार A necklace of three threads ओव०

उरुपुल्ल पु० (१) अपूप, प्या A small round cake of flour, meal etc thicker than ordinary cakes and mixed with suga

and spous २ मिचडी Mixture  
of rice and pulse दे० १, १३४

उरुमल्ल-उरुमिल्ल-उरुमोल्ल त्रि० प्रेरित  
Impelled, urged पङ्० दे० १, १०८

उरुमिल्य त्रि० अमकुचित नरजाला, स्फार इष्टि  
Fai sighted दे० १ ८८

उरुलित न० ऊचा कुँआ Lotty well  
२० १, ८६

उरुलुडिअ त्रि० प्रलुडित, रिरेचित Purged  
evacuated दे० १, ११६

उरुलुओसिअ त्रि० रोमाञ्जित, पुलकित With  
the hair erect पङ्०

उरुलुमिअ त्रि० देखो ऊनुओसिअ, शब्द  
Vid उरुलुओसिअ दे० १, ११५

उरुलुड पु० उरुमुक, अनात, लूका A  
the brand, half burnt wood  
दे० १, १००

उरुनु पु० १, उरुलू, पेचक Owl (२)  
देश विशेष Name of a country  
पउम० ६८, ६६

उरुनुकु टिअ त्रि० (१) विनिपातित, विनाशित  
Destroyed, ruined (२) प्रशांत  
Calm, quiet दे० १, १३८

उरुनुहत पु० काक, कौआ Crow दे० १, १०६

उरुनुहलिअ त्रि० अतृप्त, तृप्तिरहित Not  
satisfied or contented पङ्०

उरुनुहुलअ त्रि० अवितृप्त, तृप्ति रहित Not  
satiated पङ्०

उरुल्ल न० ऋण, कर्जा Debt सुपा० ४८६

उरुल्लडिअ त्रि० बहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ  
Placed out side of, excluded  
from पात्र०

उरुल्लक त्रि० (१) भग्न, टूटा हुआ Broken  
(२) स्तब्ध Paralysed, stu-  
petied स० २६४

उरुल्लू त्रि० उरुलुडित, खाली किया हुआ  
Emptied दे० ७, ८१

उरुल्लदिय त्रि० भाराकान्त, जिमपर बोझ  
लादा गया हो Loaded सुर० २, २

उरुल्लरय न० कौडीयो का आभूषण An  
ornament made of cowries  
दे० १ ११०

उरुल्ललिय त्रि० शिथिल, ढीला Loose,  
relaxed दे० १, १०४

उरुल्लिअ त्रि० (१) चीराहुआ, फाड़ा हुआ To-  
in, rent, cut उक्त० १६, ६४ (२) उपाल-  
ब्ध उलहना दिया हुआ Rebuked re-  
proached सम्मत्त० ५२ (३) उपसर्पित,  
उपगत Approached, arrived पङ्०

उरुल्लिचिय त्रि० उद्विक्त, खाली किया हुआ  
Emptied सुपा० ३३

उरुल्लिक न० दुस्चेष्टित, खराब चेष्टा Bad  
gesture or motion पङ्०

उरुल्लिया स्त्री० राधावेध का निशाना A  
sign of radhaverthe स० १६२

उरुल्लिर त्रि० गीला Wet, moist बज्जा०  
११२

उरुल्ली स्त्री० (१) चूल्हा दे० १, ८७ Large  
stove २ दाँत का मैल Dirt of  
teeth महा०

उरुल्लुअ त्रि० १ पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
Placed before (२) रक्त, रंगा हुआ  
Coloured पङ्० (३) उदय प्राप्त  
Risen प्राकृ० ७७

उरुल्लुटिअ त्रि० सचूर्णित, टुकड़ा टुकड़ा किया  
हुआ Cut into pieces दे० १, १०६

उरुल्लुक त्रि० तुटित, टूटा हुआ Broken,  
Rent दे० १, ६२

उरुल्लुकिअ त्रि० ओदित, तोडा हुआ Broken  
on कुमा०



उल्लुब्धाण न० पुनरुत्थान, कटे हुए हाथ पाँव  
की फिरसे उत्पत्ति Re creation, re-  
production उप० ३८१

उल्लुब्ध त्रि० मिथ्या, असत्य, झूठा Wrong,  
False दे० १, ८६

उल्लुब्ध पु० छोटा शंख A small  
conch shell दे० १, १०६

उल्लुब्ध त्रि० उन्नत, उच्चिष्ठ High,  
lofty, exalted पद०

उल्लुब्ध त्रि० (१) आरूढ Mounted,  
ascended दे० १, १००, पद० (२)  
अकुरित Having sprouts दे० १,  
१००, पात्र०

उल्लुब्ध न० छेदन, खण्डन Breaking,  
cutting गा० १६६

उल्लुब्ध त्रि० विनाशित Destroyed,  
ruined शशि० १०, पात्र०

उल्लुब्ध त्रि० शुष्क, सूखा Dry, dried  
up श्रव० ४४६ टी

उल्लुब्ध पु० हास्य, हसी Laughter  
दे० १, १०२

उल्लुब्ध त्रि० लम्पट, लुब्ध Lustful,  
dissolute दे० १, १०४, पात्र०

उल्लुब्ध त्रि० त्रुटित, छिन्न Broken,  
cut पद०

उल्लुब्ध पु० (१) शत्रु, दुश्मन Enemy  
दे० १, ६६, (२) कोलाहल Uproar,  
hostile पत्रम० १६, ३६

उल्लुब्ध त्रि० बुझाया हुआ, शान्त किया  
हुआ Extinguished, blown out  
पत्रम० २, ६६

उल्लुब्ध त्रि० उद्धमट, उद्धत Insolent,  
Impudent दे० १, ११६

उल्लुब्ध पु० (१) उपकार Obligation,  
kindness, दे० १, १०८, (२) उपकारक

One who obliges or benefits पद०  
उल्लुब्ध स्त्री० शराव परोसने का पात्र A  
vessel for serving wine दे०  
१, ११८

उल्लुब्ध त्रि० (१) सनिहित Close,  
approximate (२) परिसेवित Ser-  
ved (३) सजित, उत्पादित Created,  
produced दे० १, १२८

उल्लुब्ध त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे०  
१, ११६

उल्लुब्ध त्रि० आकारित, बुलाया हुआ  
Invited, called राज०

उल्लुब्ध त्रि० अवनत, नमा हुआ Bent  
down, down-cast पद०

उल्लुब्ध न० द्वीपान्तर, अन्यद्वीप. Another  
island दे० १, १०६

उल्लुब्ध पु० हाथी को पकड़ने का खड्डा A  
ditch for seizing elephants पात्र०

उल्लुब्ध स्त्री० बलय, कर्णन Brace-  
let दे० १, १२०

उल्लुब्ध न० सुरत, मैथुन Coition,  
sexual intercourse दे० १, ११७

उल्लुब्ध त्रि० सलज्ज, लज्जा युक्त Sham-  
eful, abashed दे० १, १०७

उल्लुब्ध त्रि० मन्द, आलसी Idle, lazy,  
dull दे० १, ११३

उल्लुब्ध त्रि० रति-योग्य Worthy for  
sexual, pleasure दे० १, १०४

उल्लुब्ध अ० देखो See, look पद०

उल्लुब्ध त्रि० (१) बनाया हुआ Made,  
formed (२) उत्तेजित Encoura-  
ged कुमा०

उल्लुब्ध स्त्री० दुहने वाली स्त्री  
Milkmaid गा० ७३१, दे० १, १०८

उवासय पु० जैन मुनिओं का निवास

and spices २ मिचडी Mixture of rice and pulse दे० १, १३४  
 उरुम्मल्ल-उरुमिल्ल-उरुसोल्ल त्रि० प्रेरित Impelled, urged पङ्० दे० १, १०८  
 उलिअ त्रि० अस्कुचित नजरवाला, स्फार दृष्टि Far sighted दे० १, ८८  
 उलित न० ऊचा कुँआ Lotty well दे० १, ८६  
 उलुउडिअ त्रि० प्रलुडित, विरेचित Punged, evacuated दे० १, ११६  
 उलुओसिअ त्रि० रोमाञ्चित, पुलकित With the hair erect पङ्०  
 उलुफसिअ त्रि० देखो ऊलुओसिअ, शब्द Vide उलुओसिअ' दे० १, ११५  
 उतुखड पु० उरुमुक, अलात, लूका A fine brand, half burnt wood दे० १, १००  
 उतुग पु० १, उरुलू, पेचक Owl (२) देश विशेष Name of a country पउम० ६८, ६६  
 उतुफुटिअ त्रि० (१) विनिपातित, विनाशित Destroyed, ruined (२) प्रशांत Calm, quiet दे० १, १३८  
 उतुहत पु० काक, कोआ Crow दे० १, १०६  
 उतुहलिअ त्रि० अतृप्त, तृप्तिरहित Not satisfied or contented पङ्०  
 उतुहुलअ त्रि० अविनृप्त, तृप्ति रहित Not satiated पङ्०  
 उल्ल न० ऋण, कर्जा Debt सुपा० ४८६  
 उल्लडिअ त्रि० बहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ Placed out side of, excluded from पाञ्च०  
 उल्लक त्रि० (१) भग्न, टूटा हुआ Broken (२) स्तब्ध Paralysed, stupetied सं० २६४

उल्लट्ट त्रि० उरुलुडित, खाली किया हुआ Emptied दे० ७, ८१  
 उल्लदिय त्रि० भाराक्रान्त, जिसपर बोझ लादा गया हो Loaded सुर० २, २  
 उल्लरय न० कौडीयों का आभूषण An ornament made of cowries दे० १ ११०  
 उल्लसिअ त्रि० शिथिल, ढीला Loose, relaxed दे० १, १०४  
 उल्लिअ त्रि० (१) चीराहुआ, फाड़ाहुआ Torn, rent, cut उत० १६, ६४ (२) उपालब्ध उलहना दियाहुआ Rebuked reproached सम्मत्त० ५२ (३) उपसर्पित, उपागत Approached, arrived पङ्०  
 उल्लिचिय त्रि० उद्विक्त, खाली किया हुआ Emptied सुपा० ३३  
 उल्लिक्क न० दुश्चेष्टित, खराब चेष्टा Bad gesture or motion पङ्०  
 उल्लिया स्त्री० राधावेध का निशाना A sign of radhavedhe सं० १६२  
 उल्लिर त्रि० गीला Wet, moist वज्ज० ११२  
 उरुली स्त्री० (१) चूल्हा दे० १, ८७ Large stove २ दाँत का मैल Dirt of teeth महा०  
 उरुनुअ त्रि० १ पुरस्कृत, आगे किया हुआ Placed before (२) रक्त, रंगा हुआ Coloured पङ्० (३) उदय प्राप्त Risen प्राक्० ७७  
 उरुनुटिअ त्रि० सचूर्णित, टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ Cut into pieces दे० १, १०६  
 उरुनुक्क त्रि० श्रुटित, टूटा हुआ Broken, Rent दे० १, ६२  
 उरुनुक्तिअ त्रि० श्रुटित, तोडा हुआ Broken कुमा०

उल्लुञ्जण न० पुनरुत्थान, कटे हुए हाथ पाँव  
की फिरसे उत्पत्ति Re creation, repi-  
oduction उप० ३८२  
उल्लुट्ट त्रि० मिथ्या, असत्य, झूठ Wrong,  
False दे० १, ८६  
उल्लुरुह पु० छोटा शंख A small  
conch shell दे० १, १०५  
उल्लुङ्गादेय त्रि० उन्नत, उच्चिष्ठ High,  
lofty, exalted पद०  
उल्लूढ त्रि० (१) आरोह Mounted,  
ascended दे० १, १००, पद० (२)  
अकुरित Having sprouts दे० १,  
१००, पात्र०  
उल्लूरण न० छेदन, खण्डन Breaking,  
cutting गा० १६६  
उल्लूरिअ त्रि० विनाशित Destroyed,  
ruined ऋषि० १०, पात्र०  
उल्लूह त्रि० शुष्क, सूखा Dry, dried  
up श्रौ० ४४६ टी  
उल्लोव पु० हास्य, हसी Laughter  
दे० १, १०२  
उल्लेह त्रि० लम्पट, लुब्ध Lustful,  
dissolute दे० १, १०४, पात्र०  
उल्लोक त्रि० नुदित, छिन्न Broken,  
cut पद०  
उल्लोल पु० (१) शत्रु, दुश्मन Enemy  
दे० १, ६६, (२) कोलाहल Uproar,  
bustle पत्र० १६, ३६  
उल्लविय त्रि० बुझाया हुआ, शान्त किया  
हुआ Extinguished, blown out  
पत्र० २, ६६  
उल्लसिअ त्रि० उद्मट, उद्धत Insolent,  
Impudent दे० १, ११६  
उल्लज पु० (१) उपकार Obhgation,  
kindness, दे० १, १०८, (२) उपकारक

One who obliges or benefits पद०  
उवपइअ स्त्री० शराव परोसने का पात्र A  
vessel for serving wine दे०  
१, ११८  
उवकसिअ त्रि० (१) सनिहित Close,  
approximate (२) परिसेवित Ser-  
ved (३) सजित, उत्पादित Created,  
produced दे० १, १३८  
उवजगल त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे०  
१, ११६  
उवडिमय त्रि० आकारित, बुलाया हुआ  
Invited, called राज०  
उवडिअ त्रि० अवनत, नसा हुआ Bent  
down, down-cast पद०  
उवदीव न० द्वीपान्तर, अन्यद्वीप. Another  
island दे० १, १०६  
उवय पु० हाथी को पकड़ने का खड्डा A  
ditch for seizing elephants पात्र०  
उवलभन्ता-गा स्त्री० बलय, कङ्कन Brace-  
let दे० १, १२०  
उवललय न० सुरत, मैथुन Cortion,  
sexual intercourse दे० १, ११७  
उवलुअ त्रि० सलज्ज, लज्जा युक्त Sham-  
eful, abashed दे० १, १०७  
उवसग त्रि० मन्द, आलसी Idle, lazy,  
dull दे० १, ११३  
उवसेर त्रि० रति-योग्य Worthy for  
sexual, pleasure दे० १, १०४  
उवइ अ० देखो See, look पद०  
उवहथिय त्रि० (१) बनाया हुआ Made,  
formed (२) उत्तेजित Encoura-  
ged कुमा०  
उवहारिया-उवहारी स्त्री० दुहने वाली स्त्री  
Milkmaid गा० ७३१, दे० १, १०८  
उवाचय पु० जैन मुनिओं का निवास

स्थान An abode of jain saints  
 उप० १४२ टी  
 उवासिय त्रि० सेवित Seived, atten-  
 ded पउम० ६८, ४२  
 उविअ न० (१) शीघ्र, जल्दी Speed,  
 haste दे० १, ८६, (२) त्रि० सस्कारित  
 Seasoned नाया० १, १  
 उव्वट्ट त्रि० (१) निराग, राग रहित Dev-  
 oid of love or affection (२)  
 गलित Melted दे० १, १२६  
 उव्वर पु० घर्म, ताप Heat. दे० १, ८७  
 उव्वरिअ त्रि० (१) अधिकवचा हुआ  
 अवशिष्ट Remained much दे० १  
 १३२, पिंग० गा० ४७४, सुपा० ११, ५३२,  
 ओघ० १६८ आ (२) अनीप्सित, अनभीष्ट  
 Not desired or wished (३)  
 निश्चित Determined, resolved  
 (४) अगणित Numberless (५) न०  
 ताप, गरमी Heat दे० १, १३२, (६)  
 त्रि० अतिक्रान्त, उल्लघित, Transgress  
 ed सुपा० ३६८  
 उव्वहण न० महान् आवेश Excessive  
 flurry or agitation दे० १, ११०  
 उव्वा खी० घर्म ताप Heat दे० १, ८७  
 उव्वाअ-उव्वाइअ त्रि० खिन्न, परिश्रान्त  
 Fatigued, tired दे० १, १०२, वृह०  
 १, वव० ४, पाअ० गा० ७५८, सुपा० ४३६  
 उव्वाउल न० (१) गीत Song (२)  
 उपवन, बगीचा Garden दे० १, १३४  
 उव्वाडुल न० (१) विपरीत सुरत Wrong  
 cotion (२) मर्यादा रहित मैथुन Lim-  
 itless copulation दे० १, १३३  
 उव्वाढ. त्रि० (१) विस्तीर्ण, विशाल Vast,  
 extensive (२) दुःख रहित Devoid  
 of unhappiness दे० १, १२६

उव्वाह पु० घर्म, ताप Heat दे० १, ८७  
 उव्वाहिअ त्रि० उत्तिस, फेंका हुआ Thi-  
 own up दे० १, १०६  
 उव्वाहुल न० (१) उत्सुकता, उकण्डा  
 Anxious desire, eagerness  
 भवि० दे० १, १३६, (२) त्रि० द्वेष्य,  
 अप्रीतिकर Odious, disagreeable  
 दे० १, १३६  
 उव्वाहुलिय त्रि० उत्सुक, उत्कण्ठित  
 Eager, anxiously desired भवि०  
 उव्विअ न० प्रलपित, प्रलाप Talk, disc-  
 course पङ्०  
 उव्विअ त्रि० १) चकित, भीत Surpr-  
 ized, amazed २) क्लान्त, क्लेश युक्त  
 Fatigued, tired out पङ्०  
 उव्विडिम त्रि० (१) अधिक प्रमाण वाला  
 Much, excessive (२) मर्यादा रहित,  
 निर्लज्ज Limitless, shameless दे०  
 १, १३४  
 उव्वि व त्रि० (१) क्रोध-युक्त Wrath-  
 ful, angry पङ्० (२) उद्भट वेप वाला  
 Excellently dressed पाअ०  
 उव्वीढ त्रि० उत्खात, खोदा हुआ Dug  
 दे० १, १००  
 उव्वुएण-न्न त्रि० (१) उद्विग्न Grieved,  
 distressed (२) शून्य Empty,  
 void दे० १, १२३, (३) उद्भट, उत्खण  
 Strong, powerful, दे० १, १२३,  
 सुद० ३, २०५  
 उव्वेत्ताल न० अविच्छिन्न चिह्नाना, निरन्तर  
 रोदन Constant weeping दे० १,  
 १०१  
 उसडु त्रि० ऊचा High, lofty राय०  
 उसणसेण पु० बलभद्र An epithet  
 of balabhadra दे० १, ११८

उसलिञ्च त्रि० रोमाञ्चित, पुलकित Having the hairs of the body erect पङ्०

उसीर न० कमल-दण्ड, बिस The fibrous stalk of a lotus दे० १, ६४

उमुञ्च पु० दोष, दूषण Fault, defect दे० १, ८६

उसूलग पु० परिखा, शत्रु-सैन्य का नाश करने के लिए ऊपर से आच्छादित गर्त विशेष A ditch or trench round a fort or town उक्त० ६

उस्सिघिय त्रि० आघ्रात, सूँघा हुआ Smelt स० २६०.

उस्सिक्किञ्च त्रि० मुक्त, परित्यक्त released, set free. कुमा०

उर्हिञ्जल पु० चतुरिन्द्रियजन्तुविशेष A kind of insect having four senses सुख० ३६, १४६

उर्हिञ्जलिञ्चा स्त्री० देखो 'उर्हिञ्जल' शब्द Vide 'उर्हिञ्जल' उक्त० ३६, १४६

उहुर त्रि० अवाङ्मुख, अधोमुख Having the face down-wards गण्ड०

ऊ

ऊ अ० (१) निंदा, गद्दा Censure (२) आक्षेप, प्रस्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ की आशका से उसे उलटना (३) विस्मय Wonder, surprise (४) सूचना Information हे० २, १६६, पङ्०

ऊआ स्त्री० थूका, जू Bug दे० १, १३६

ऊगिय त्रि० अलंकृत Adorned, ornamented पङ्०

ऊडिञ्चय. त्रि० (१) प्रावृत, आच्छादित Covered (२, आच्छादन, प्रावरण cover, lid पाञ्च०

ऊण्णदिञ्च त्रि० आनन्दिन, हर्षित Delighted दे० १, १४१, पङ्०

ऊमिण्णण न० प्रोक्षणक, चुमना Receiving a bride or bridegroom or both with an auspicious ceremony धर्म० २

ऊमिण्णिय त्रि० प्रोङ्कृत, जिसने स्नान के बाद शरीर पोंछा हो Rubbed the body after bathing स० ७५

ऊमित्तिञ्च न० दोनों पार्श्वों में आघात करना Beating in both the sides दे० १, १४२

ऊर पुं० (१) ग्राम, गाव Village (२) संघ, समूह Collection, multitude दे० १, १४३

ऊरणी स्त्री० भेड़, भेड Sheep दे० १, १४०

ऊरिसकिञ्च त्रि० रुद्ध, रोका हुआ Prevented, impeded पङ्०

ऊल पु० गति-भंग Break in motion दे० १, १३६

ऊसञ्च न० उपधान, तकिया Pillow दे० १, १४०, पङ्०

ऊसण न० गति भंग Break in motion दे० १, १३६

ऊसत्थ पु० (१) जम्माई Gape, yawn (२) त्रि० आकुल Confused, Bewildered दे० १, १४३

ऊसल त्रि० पीन, पुष्ट Stout, fat, fleshy दे० १, १४०

ऊसलिञ्च त्रि० रोमाञ्चित, पुलकित With the hair of the body erect दे० १, १४१, पाञ्च०

ऊसाञ्चत. त्रि० खेद होने पर शिथिल Idle by sorrow or grief दे० १, १०१

ऊसाइअ त्रि० (१) विचित्र Confused  
(२) उल्टिस Thrown up दे० १, १४१  
ऊसार पु० गर्त-विशेष A kind of  
ditch दे० १, १४०  
ऊसिकिअ त्रि० प्रदीप्त, शोभायमान Beau-  
tiful, handsome पात्र०  
ऊसुभिअ न० रोदन-विशेष, गला बैठ जाय  
ऐसा कदन A kind of lamentat-  
ion दे० १, १४२, पङ्०

ऊसुकिअ त्रि० विमुक्त, परित्यक्त Aban-  
doned, quitted दे० १, १४२  
ऊसुग न० मध्यभाग Middle part  
आया० २, १, ८, ६  
ऊसुम्निअ त्रि० तकिया किया हुआ Made  
a pillow पङ्०  
ऊसुर न० ताम्बूल, पान Betel leaf दे०  
२, १७४  
ऊहट्ट त्रि० उपहसित Reduced, de-  
ided दे० १, १४०


ए

एक त्रि० स्नेह-पर, प्रेम-त्पर Ready to  
love दे० १, १४४  
एककग न० चन्दन, सुगंधि काष्ठ विगेप  
Sandalwood दे० १, १४४  
एकक्रम परस्पर, अन्योन्य Mutual, re-  
cipocal' से० ५, ५६  
एकधरिअ पु० देवर, पति का छोटा भाई  
Husband's younger brother दे०  
१, १४६  
एकण्ड पु० कथक, कथा कहने वाला  
to-  
v-teller दे० १, १४५  
एकगृ त्रि० (१) धर्म रहित, विधर्मी Dev-  
oid of religion (२) दरिद्र निर्धन  
Poor, indigent (३) प्रिय, इष्ट  
Loved, affectionate दे० १, १४८  
एकन्ल त्रि० प्रबल, बलवान् Strong,  
valorous पङ्०  
एक [ ]डिंग न० विरल-विंदु वृष्टि, अल्प-विन्दु  
वाली बारिस Slight raining, driz-  
zling दे० १, १४७  
एकसरिअ अ० (१) शीघ्र, तुरन्त Speed-  
ily, (२) सप्रति, आजकल Now-a-days  
हे० २, २१३, पङ्०

एकसाहिअ त्रि० एक स्थान में रहने वाला  
Living in the same place  
दे० १, १४६  
एकसिबली स्त्री० शास्मली पुष्पों से नूतन  
फल वाली A silk cotton tree ne-  
wly flowered दे० १, १४६  
एकनिरिअ अ० शीघ्र, जल्दी Speedily,  
rapidly, quickly प्राक० ८१  
एककम त्रि० परस्पर, अन्योन्य Mutual,  
reciprocal दे० १, १४५, पउम० ६८, १५  
एकगालिअ पु० भेक, मेढक He-goat  
दे० १, १४७  
एकण अ० यद्युना, इस समय At this  
time, now प्राक० ८०  
एकतोअ अ० यहा से लेकर From here  
दे० १ १४४  
एकगण त्रि० प्रवेश करता हुआ Entering  
दे० १, १४४  
एमिणिया स्त्री० वह स्त्री, जिसके शरीर को  
किसी देश के रिवाज के अनुसार, सूत के धागे  
से नाप कर उस धागे को फेंक दिया जाता है  
A kind of woman measured  
by a thread दे० १, १४५

एरडइय-एरडइय पु० पागल कुत्ता Mad dog  
वृह० १  
एराणी स्त्री० (१) इन्द्रायी A wife of  
Indra (२) इन्द्रायी फल का सेवन करने  
वाली स्त्री. A woman who observes  
Indrani viata दे० १, १४७

एल. त्रि० कुशल, निपुण. Skilful, Pro-  
ficient दे० १, १४४  
एनविल त्रि० (१) धनाढ्य, धनी Wealthy,  
Rich. (२) पु० वृष, बैल Ox  
दे० १, १४८, पड०  
एल्ल त्रि० दरिद्र, निर्धन Poor, Indi-  
gent दे० १, १७४



ओ

ओअ न० वार्ता, कथा, कहानी Tale,  
Story दे० १, १४६  
ओअक पु० गर्जित, गर्जना Roar  
दे० १, १४४  
ओअदशा स्त्री० (१) नाश Destruction,  
Ruin (२) जबरदस्ती से ड़ीनना Snatch-  
ing away by force कुमा०  
ओअगिअ त्रि० (१) विस्तृत, फैला हुआ  
Spread कुमा० (२) अभिभूत, परिभूत  
Defeated (३) केश वगैर को एकत्रित  
करना Gathering hair etc  
दे० १, १७२  
ओअग्धिअ-ओअधिअ त्रि० घात, सू घा  
हुआ Smelt दे० १, १६२, पड०  
ओअम्मअ त्रि० अभिभूत, पराभूत  
Defeated पड०  
ओअरल्ल पु० (१) अन्चार, खराब आचरण,  
अहित आचरण Improper conduct  
पड० स० २२१, (२) कम्प, कोपना  
Tremor, Shaking पड० दे० १, १६२,  
(३) गौओं को बाड़ा Cow-pen, Cow-  
house (४) त्रि० पर्यस्त, प्रक्षिप्त Thrown  
round, Scattered over or about  
(५) लम्बमान, लटकता हुआ Hanging  
दे० १, १६२, (६) जिसकी आँखें निर्मीलित होती  
हैं One whose eyes are shutting  
स० १३, ४३

ओअल्लअ त्रि० विप्रलब्ध, प्रतारित Cheat-  
ed, Deceived पड०  
ओआअ पु० (१) ग्रामाधीश, गाँव का स्वामी,  
Chief of a village (२) आज्ञा, आदेश  
Command, Order (३) इस्ती वगैर को  
पकडने का गर्त A ditch to seize  
elephants (४) त्रि० अपहृत, ड़ीना  
हुआ Snatched away दे० १, १६६  
ओआअव पु० अस्त-समय. Setting  
time दे० १, १६२  
ओआल पु० छोटा प्रवाह Small current,  
Stream दे० १, १२१  
ओआली स्त्री० (१) खड्ग का दोष Defect  
of a sword (२) पक्ति, श्रेणी Line,  
Row. दे० १, १६४  
ओआवल पु० बालातप, सुबह का सूर्य ताप  
Heat of the morning sun  
दे० १, १६१  
ओइत्त-ओइत्तण न० परिधान, वस्त्र Gar-  
ment, Cloths दे० १, १२२  
ओइल्ल त्रि० आरोढ Mounted,  
Ascended. दे० १, १२८  
ओउल्लिय त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
Placed before पड०  
ओडल न० केश गुम्फ, केश रचना, धम्मिद्ध.  
The braided and ornamented

hair of women tied over the head दे० १,१२०

ओक्कणी स्त्री० युका, जू Bug दे० १,१२६

ओक्किअ ' (१) न० वास, वसन, अवस्थान Dwelling, Abode (२) वमन, उल्टी Ejecting, Vomiting दे० १,१२१

ओक्खडिअ त्रि० आक्रान्त Overcome दे० १,११२

ओक्खिएण त्रि० (१) प्रवर्णीय Scattered (२) खण्डित, चूणित Pounded कस० दे० १,१३०, (३) छन्न, ढका हुआ Covered (४) पार्श्व में शिथिल Loose in the sides दे० १,१३०

ओग्गाल पु० छोटा प्रवाह Small flow दे० १,१२१

ओग्गालिर. त्रि० पगुराने वाला, चबाई हुई वस्तु को पुन चबाने वाला Chewing the cud, Ruminating कुमा०

ओग्गिअ त्रि० अभिभूत, पराभूत De-feated दे० १,१२८

ओग्गीअ पु० हिम, बर्फ Snow, Ice. दे० १,१४६

ओघसर पु० (१) घर का जल प्रवाह Water-flow of the house (२) खराबी, नुकसान Injury, Harm दे० १,१७०, सुर० २,२६

ओचुल्ल न० चुल्हा का एक भाग A part of a stove दे० १,१२३

ओक्केल्लर न० (१) ऊपर भूमि A barren spot with saline soil (२) जघन के रोम Hair of the thigh दे० १,१३६

ओक्कडिअ त्रि० (१) अग्रहृत Carried away (२) व्यथित, पीडित Afflicted पङ्०

ओक्कल्ल. न० दत्त-धावन, दत्तवन Clean-

ing teeth and washing the face दे० १,१२२

ओक्किअ न० केश-विवरण Spreading hair दे० १,१२०

ओक्क्योअअ न० घर की छत के प्रान्त भाग से गिरता पानी Water dripping from a tile गा० ६२१

ओक्कर त्रि० भीरु, डरपोक Timid, Cowardly पङ्०

ओक्कल्ल त्रि० बलवान्, प्रबल Strong, Powerful दे० १,१२४

ओक्काअ पु० गजित, गजारिव A goat दे० १,१२४

ओक्क त्रि० मैला, अस्वच्छ, चाखा नहीं वह Duty, Unclean दे० १,१४८

ओक्कमण न० पलायन, भाग जाना Running away दे० १,१०३

ओक्कभरी स्त्री० ओस, आत का आवरण Cover of entails दे० १, १२७

ओक्कभाय त्रि० दूसरे को प्रेरणा कर हाथसे लिया हुआ Held by hands by the help of others दे० १,१२६

ओक्कड्ड त्रि० अनुरक्त, रागी Attached or addicted to दे० १,१२६

ओक्कड्डण न० ओदन, उत्तरीय, चादर An upper garment दे० १,१२५.

ओक्कड्डगा स्त्री० ओदनी An upper garment worn by girls स० २११

ओक्कण न० अवगुण्डन A veil (for the face) प्राक० ३८

ओक्कण्डव पु० चरमीक, चीटीयों का खुदा हुआ मिट्टे का ढेर An ant hill दे० १,१२१

ओक्कीवी स्त्री० नीवी, कटी सूत्र. A cloth worn by women on waist दे०

१,१२०



श्रीगुणत्र त्रि० अभिभूत, पराभूत  
 Defeated दे० १, १२८  
 श्रोत्थत्र त्रि० अवसन्न, लिन्न Sunk  
 down, Grieved दे० १, १२१  
 श्रोत्थर पु० उत्साह Aidou, Alacitry  
 दे० १, १२०  
 श्रोत्थरित्र त्रि० (१) आक्रान्त Over-  
 come (२) जो आक्रमण करता हो वह  
 One who attacks दे० १, १६६  
 श्रोहपित्र त्रि० (१) आक्रान्त Overcome  
 (२) नष्ट Ruined, Destroyed  
 दे० १, १७१.  
 श्रोपल्ल त्रि० अपदीर्ण, कुण्ठित Blunt,  
 Dull नाया० १, १४  
 श्रोप्प त्रि० शृष्ट, श्रोप दिया हुआ Clean-  
 sed, Purified पङ्०  
 श्रोप्पा स्त्री० शाय आदि पर मणि वगैर का घर्षण  
 करना Rubbing of a precious stone  
 on the touch stone दे० १, १४८  
 श्रोप्पित्र त्रि० शाय पर घिसा हुआ  
 Rubbed on the touch-stone  
 दे० १, १४८  
 श्रोप्पील पु० समूह, जथा A collec-  
 tion, A multitude पात्र०  
 श्रोमथ त्रि० नत, अधोमुख Bent,  
 Inclined पात्र०  
 श्रोमस त्रि० अपसृत, अपगत. Gone,  
 Passed away पङ्०  
 श्रोमथ. त्रि० नत, अधोमुख Bent  
 down पात्र०  
 श्रोमस्थिय त्रि० अधोमुख किया हुआ, नमाया  
 हुआ Bent down, Inclined श्रोघ०  
 ३८६  
 श्रोमल्ल. त्रि० घनीभूत, कठिन, जमा हुआ  
 Congealed पङ्०  
 श्रोयद्धिया-श्रोयद्धी स्त्री० शोदनी, शोदने

का वस्त्र, चादर, दुपट्टा An upper gal-  
 ment worn by girls सुख० २, ३०  
 श्रोयविय त्रि० परिकर्मित Caused to  
 decorate or grace पङ्० १, ४, श्रोव०  
 श्रोय त्रि० चार, सुन्दर Beautiful,  
 Charming, दे० १, १४६  
 श्रोयपित्र त्रि० (१) आक्रान्त Overcome  
 (२) नष्ट Destroyed, Ruined दे०  
 १, १७१, (३) पतला किया हुआ, छिला  
 हुआ Scraped, Peeled पात्र०  
 श्रोयस्त. त्रि० (१) गविष्ठ, अभिमानो Aho-  
 gant, Proud (२) कुसुम्भ से रक्त Red  
 (३) विदारित, काटा हुआ Cut, Rent  
 दे० १, १६२, पात्र०  
 श्रोयल्ली स्त्री० लम्बी श्रोयमधुर यावाज Long  
 and sweet voice दे० १, १२४, पात्र०  
 श्रोयलिय त्रि० पौछा हुआ भवि० Rubbed  
 (२) फैलाया हुआ, प्रसारित Spread  
 श्रोयिल्ल पु० लम्बा काल दीर्घकाल A long  
 time दे० १, १२२  
 श्रोयुंज न० क्रीडा विशेष A kind of plea-  
 sure दे० १, १२६  
 श्रोयत्र पु० (१) श्येन पक्षी वाज पक्षी A  
 hawk, A falcon (२) अपलाप, निह्व  
 Detraction, Concealment of truth,  
 thoughts, feelings etc दे० १, १६०  
 श्रोयत्रयी स्त्री० नवोदा, दुल्लहिन A newly-  
 married woman दे० १, १६०  
 श्रोयइत्र त्रि० (१) शरीर में सदा हुआ,  
 परिहित Adhered to the body दे० १,  
 १६२, पात्र० (२) लगा हुआ Clung,  
 Stuck दे० १, १६२  
 श्रोयइयी स्त्री० प्रिया, स्त्री A beloved,  
 A wife दे० १, १६०  
 श्रोयलग्ग त्रि० (१) सेवक, नौकर A  
 servant (२) निस्तेज, निर्बल, वलहीन.

Weak, Feeble, दे० १, १६४  
 ओलगा. स्त्री० सेवा, भक्ति, चाकरी  
 Worship, Adoration स० ६२६,  
 धम्म० ८ टी  
 ओलावअ पु० रयेन, बाजपत्ती A  
 hawk दे० १, १६०, स० २१३  
 ओलिभा स्त्री० उपदेहिका, दोमक A  
 white ant, A moth दे० १२३, गडड०  
 ओलिती स्त्री० खड्ग आदि का एक दोष  
 A defect in a sword etc दे० १, १२६  
 ओलिप न० हास, हँसी A joke,  
 A fun दे० १, १२३  
 ओलिपती स्त्री० खड्ग आदि का एक  
 दोष A defect in a sword etc दे०  
 १, १२६  
 ओली स्त्री० कुल परिपाटी, कुलाचार A  
 duty or custom peculiar to a  
 family दे० १, १४८  
 ओलु की. स्त्री० बालकों की एक प्रकार की  
 क्रोडा A kind of sport of child-  
 ren दे० १, १२३  
 ओलु पअ पु० तापिका हस्त, तवा का हाथा  
 A handle of a giddle दे० १, १६३  
 ओलुग. त्रि० (१) सेवक, नौकर A  
 servant दे० १, १६४, (२) निस्तेज,  
 निर्बल, बलहीन Powerless, Weak,  
 Feeble सुर० २, १०२, दे० १, १६४, स०  
 ४६६, ५०४.  
 ओलुगाप्रिय त्रि० (१) बीमार Diseased,  
 Sick (२) विरह-पीडित Suffering  
 from separation वजा ० ८६  
 ओलुट्रि त्रि० (१) असघट-मान Inconsis-  
 tent (२) मिथ्या, असत्य False, Deceit-  
 ful, Wrong दे० १, १६४.  
 ओलेहड त्रि० (१) अत्यासक्त. Strongly  
 attached or devoted to others

(२) तृष्णा पर Vely thirsty (३)  
 प्रवृद्ध Increased, Full-grown दे०  
 १, १७२  
 ओल्ल पु० (१) पति, स्वामी A husband  
 (२) दयद प्रतिनिधि पुरुष, राजपुरुष विशेष  
 A kind of minister पिंग०  
 अल्लणी स्त्री० माजिता, इलायची, दालचोनी  
 आदि मसाला से ससृजत दधि Carda-  
 moms दे० १, १५४  
 ओल्लण न० स्वाप, सोना Sleeping  
 दे० १, १६३  
 ओल्लिरिअ त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept  
 दे० १, १६३, सुगा० ३१२  
 ओल्ली स्त्री० पनरु, काई Dirt on the  
 tongue चेड्य० ३७३  
 ओय न० हाथी वगैर को बाधने के लिए किया  
 हुआ गर्त A ditch to captivate ele-  
 phants etc दे० १, १४६  
 ओवगिअ त्रि० (१) यन्मिभूत Defeated  
 आक्रान्त Overcome से० ६, २०, पाअ०  
 सुर० १३, ४२  
 ओवट्टिअ न० चाटुता, खुशामद Flattery,  
 Fawning दे० १, १६२  
 ओवड्डी स्त्री० ओढनी का एक भाग A part  
 of an upper garment of guls दे०  
 १, १२१  
 ओवर पु० निकर, समूह A collection,  
 A multitude दे० १, १२०  
 ओवसेर न० (१) चन्दन, सुगन्धि काष्ठ विशेष  
 Sandalwood (२) त्रि० रति-योग्य Fit  
 for pleasure दे० १, १७३  
 ओवाअअ पु० आपातप, जल समूह की गरमी  
 Warmth of water पद०  
 ओवारि न० धान भरने का एक जात का जम्बा  
 कोश, गोदाम A grainary राज०  
 ओवारिअ. त्रि० ढेर किया हुआ, राशीकृत  
 Heaped स० ४८७, ४८८.

ओविभ्र त्रि० (१) आरोपित, अभ्यासित  
 Attributed natures of one thing  
 to another (२) मुक्त, परित्यक्त Aban-  
 doned, Given up (३) हत, छीना हुआ  
 Snatched away, Deprived of  
 (४) खुशामद Flattery (५)  
 रुदित, रोदन. Weeping, Lamentation  
 Wailing दे० १,१६७ (६) विभूषित,  
 श्रु गारित. Decorated, Adorned प्राप्०  
 ओमट्ट त्रि० विकसित, प्रकुल्ल Blown,  
 Fully opened or expanded पद्०  
 ओसडिभ्र वि० आकीर्ण, व्याप्त Crowded,  
 Full of, Abounding in पद्०  
 ओसण न० उद्देग, खेद Regret,  
 Sorrow. दे० १,१५५  
 ओसण त्रि० नुदित, खण्डित Broken,  
 Cut दे० १,१५६ पद्०  
 ओसद्ध त्रि० पातित, गिराया हुआ Cast  
 down, Thrown or felled down  
 पात्र०  
 ओसरिभ्र त्रि० (१) आकीर्ण, व्याप्त  
 Filled, Overspread with (२) आँख  
 के इशारे से सञ्चित Marked by signs  
 made by eyes पद्० (३) अवनत,  
 अधोमुख Bent down (४) न० आँख  
 का इशारा A sign made by eyes  
 दे० १,१७१  
 ओसरिभ्रा स्त्री० अलिन्दक, बाहर के दरवाजे  
 का प्रकोष्ठ A terrace before a house-  
 door दे० १,१६१  
 ओसन्विभ्र त्रि० (१) शोभा-रहित De-  
 void of beauty (२) न० अक्साद,  
 खेद Exhaustion, Fatigue दे०  
 १,१६८  
 ओसाभ्र पु० प्रहार की पीडा Pangs of  
 a hurt दे० १,१५२

ओसाभ्र त्रि० (१) जभाई खाता हुआ,  
 आलसी Idle (२) बैठना Sitting (३)  
 वेदना युक्त, Pained, Distressed दे०  
 १,१७०  
 ओसाभ्रण त्रि० (१) महोशान, जमीन का  
 मालिक A landlord पद्०  
 ओसाणिहाण त्रि० विधि पूर्वक अनुष्ठित,  
 Practised religious rites accord-  
 ing to rule दे० १,१६३  
 ओसार पु० गो-वाट, गो-वाडा A cow-  
 pen, A cattle-shed दे० १,१४६  
 ओसिभ्र त्रि० (१) अचल, बल रहित Weak,  
 Feeble दे० १,१५०, (२) अप्रव, असाधारण  
 Extraordinary, Wonderful पद्०  
 ओसिंविभ्र त्रि० घात, सूँघा हुआ Smelt  
 दे० १,१६२, पात्र०  
 ओसिंखिभ्र न० (१) गति-व्याघात  
 Stoppage (२) अरति निहित Immersed  
 in anxiety दे० १,१७३  
 ओसित्त. त्रि० उपलिप्त Smeared दे०  
 १,१५८  
 ओसिरण न० व्युत्सर्जन, परित्याग Aban-  
 donment, Quitting. पद्०  
 ओसीभ्र त्रि० अधोमुख, अवनत Bent  
 down दे० १,१५८  
 ओसीस. त्रि० अपवृत्त Opened, Un-  
 covered दे० १,१५२  
 ओसुखिभ्र त्रि० उच्छेचित, कल्पित Fashion-  
 ed, Formed दे० १,१६१  
 ओसुद्ध त्रि० (१) विनिपतित Fallen  
 दे० १,१५७, (२) विनाशित Destroyed,  
 Ruined से० १३,२२  
 आहक पु० हास, हाँसी A joke, A fun  
 दे० १,१५३.  
 ओहस पु० (१) चन्दन Sandalwood  
 (२) जिस पर चन्दन घिसा जाता है वह शिला,

- Weak, Feeble. दे० १, १६४
- आलगा. यी० भग, भक्ति, चाररी  
Worship, Adoration सं० १३६,  
धम्म० = टी.
- ओनावअ पुं० रयेन, बाजपची A  
hawk. दे० १, १२१, म० २१३
- ओनिभा यी० उपदेशिका, दासक A  
white int, A moth दे० १-३, गउउ०
- आनिची. यी० गउग आदि का एक दोष  
A defect in a sword etc. दे० १, १२६
- आनिप न० हास्य, हांसी A joke,  
A fun. दे० १, १२३
- आलिपनी यी० गउग आदि का एक  
दोष A defect in a sword etc दे०  
१, १२६
- ओली यी० कुल परिगटी, कुलाचार A  
duty or custom peculiar to a  
family दे० १, १४८
- आलु की. यी० बालका की एक प्रकार की  
क्रीडा A kind of sport of child-  
ren. दे० १, १२३
- ओलु पय पु० तापिका हस्त, तग का हाथा  
A handle of a giddle दे० १, १६३
- आलुग त्रि० (१) सेवक, नोकर A  
servant दे० १, १६४, (२) निस्तेज,  
निर्मल, बलहीन Powerless, Weak,  
Feeble सुर० २, १०२, दे० १, १६४, सं०  
४६६, ५०४.
- ओलुगायि त्रि० (१) बीमार Diseased,  
Sick (२) विरह-पीडित Suffering  
from separation वजा ० = ६
- ओलुट्ट त्रि० (१) असघट-मान Inconsis-  
tent (२) मिथ्या, असत्य False, Deceit-  
ful, Wrong दे० १, १६४
- ओलेहड त्रि० (१) अत्यासक्त. Strongly  
attached or devoted to others
- (२) तृष्णापर Very thirsty (३)  
प्रवृद्ध Increased, full-grown दे०  
१, १७०
- ओल्ल पु० (१) पति, स्वामी. A husband  
(२) दण्ड प्रतिनिधि पुरुष, राजपुरुष विशेष  
A kind of minister विंग०
- अल्लणी यी० मानिता, इलायची, दालचीनी  
आदि मसाला में मरुत दधि Carda-  
moms दे० १, १५४
- ओल्लगा न० स्वाप, सोना Sleeping  
दे० १ १६३
- ओल्लिरिअ त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept  
दे० १, १६३, सुगा० ३१२
- ओल्ली यी० पतक, काई Dirt on the  
tongue चेइय० ३७३
- ओव न० हाथी वगैर को बाधने के लिए किया  
हुआ गतं A ditch to captivate ele-  
phants etc दे० १, १४६
- ओवगिअ त्रि० (१) अभिभूत Defeated  
आक्रान्त Overcome सं० ६, ३०, पात्र०  
सुर० १३, ४२
- ओवट्टिअ न० चाटुता, खुशामद Flattery,  
Fawning दे० १, १६२
- ओवड्डी यी० ओढनी का एक भाग A part  
of an upper garment of girls दे०  
१, १५१
- ओवर पु० निकर, समूह A collection,  
A multitude दे० १, १५०
- ओवसेर न० (१) चन्दन, सुगन्धि काष्ठ विशेष  
Sandalwood (२) त्रि० रति-योग्य Fit  
for pleasure दे० १, १७३
- ओवाअअ पु० आपातप, जल समूह की गरमी  
Warmth of water पड्०
- ओवारि न० धान भरने का एक जात का लम्बा  
कोठ, गोदाम A grainary राज०
- ओवारिअ त्रि० ढेर किया हुआ, राशीकृत  
Heaped सं० ४८०, ४८८.

ओवित्र त्रि० (१) आरोपित, अभ्यासित  
 Attributed natures of one thing  
 to another (२) मुक्त, परित्यक्त Aban-  
 doned . Given up (३) हत, छीना हुआ  
 Snatched away, Deprived of  
 (४) खुशामद Flattery (५)  
 रुदित, रोदन, Weeping, Lamentation  
 Wailing दे० १,१६० (६) विभूषित,  
 श्रृंगारित Decorated, Adorned प्राप्०  
 ओमृत् त्रि० विकसित, प्रफुल्ल Blown,  
 Fully opened or expanded पङ्०  
 ओसङ्घिअ. वि० आकीर्ण, व्याप्त Crowded,  
 Full of, Abounding in पङ्०  
 ओसण न० उद्देग, खेद Regret,  
 Sorrow दे० १,१२४  
 ओसण त्रि० टुटित, खण्डित Broken,  
 Cut दे० १,१२६. पङ्०  
 ओसद्ध त्रि० पातित, गिराया हुआ Cast  
 down, Thrown or felled down  
 पात्र०  
 ओसरिअ त्रि० (१) आकीर्ण, व्याप्त  
 Filled, Overspread with (२) आँख  
 के इशारे से सञ्चित Marked by signs  
 made by eyes पङ्० (३) अवनत,  
 अधोमुख Bent down (४) न० आँख  
 का इशारा A sign made by eyes  
 दे० १,१०१  
 ओसरिआ स्त्री० अलिन्दक, बाहर के दरवाजे  
 का प्रकोष्ठ A terrace before a house-  
 dool दे० १,१६१  
 ओसन्विअ त्रि० (१) शोभा-रहित De-  
 void of beauty (२) न० अवसाद,  
 खेद Exhaustion, Fatigue दे०  
 १,१६८  
 ओसाअ पु० प्रहार की पीडा Pangs of  
 a hurt दे० १,१२२.

ओसाअत त्रि० (१) जभाई खाता हुआ,  
 आलसी Idle (२) बैठना Sitting (३)  
 वेदना युक्त, Pained, Distressed दे०  
 १,१७०  
 ओसाअण त्रि० (१) महीशान, जमीन का  
 मालिक A landlord पङ्०  
 ओसाणिहाण त्रि० विधि पूर्वक अनुष्ठित  
 Practised religious rites accord-  
 ing to rule दे० १,१६३  
 ओसार पु० गो-वाट, गो-वाडा A cow-  
 pen, A cattle-shed दे० १,१४६  
 ओसिअ त्रि० (१) अवल, बल रहित Weak,  
 Feeble दे० १,१२०, (२) अपूर्व, असाधारण  
 Extraordinary, Wonderful पङ्०  
 ओसिधिअ त्रि० घात, सूघा हुआ Smelt  
 दे० १,१६२, पात्र०  
 ओसिन्निअ न० (१) गति-व्याघात,  
 Stoppage (२) गरति निहित Immersed  
 in anxiety दे० १,१०३  
 ओसित्त त्रि० उपलिप्त Smeared दे०  
 १,१२८  
 ओसिरण न० व्युत्सर्जन, परित्याग Aban-  
 donment, Quitting. पङ्०  
 ओसीअ त्रि० अधोमुख, अवनत Bent  
 down दे० १,१२८  
 ओसीस त्रि० अपवृत्त Opened, Un-  
 covered दे० १,१२२  
 ओसुखिअ त्रि० उत्प्रेक्षित, कल्पित Fashion-  
 ed, Formed दे० १,१६१  
 ओसुद्ध त्रि० (१) विनिपतित Fallen  
 दे० १,१२७, (२) विनाशित Destroyed,  
 Ruined से० १३,२२  
 ओहक पु० हास, हँसी A joke, A fun  
 दे० १,१२३  
 ओहस पु० (१) चन्दन Sandalwood  
 (२) जिस पर चन्दन घिसा जाता है वह शिला,

- चन्द्रीटा A stone on which sandal-wood is being rubbed दे० १, १६६
- श्रीदृष्ट पु० अवनत A veil (for the face) (२) जोड़ी, कढ़ी बग A cloth worn round a woman's waist (३) अगस्त, पीढ़ हटा हुआ Receded, Fell back दे० १, १६६, भवि०
- श्रीदृष्टिअ त्रि० हमरे की दस कर हाथ में गुंथत, Punctured by force दे० १, १६६
- श्रीदृष्ट पु० हास, होसी A joke, A fun दे० १, १७३
- श्रीदृष्टणी गी० अगला A wooden bolt, A latch दे० १, १६०.
- श्रीदृष्ट त्रि० अवनत Bent down, Degenerated, Inclined दे० १, १६६
- श्रीदृष्टण न० (१) विनाशन, हिसा killing (२) असभव अर्थ की सम्भावना Probability of impossible objects दे० १, १७४ (३) अण, हथियार A missile, A weapon सं० ४३१, ६३७, (४) त्रि० आघात Smelt, पड़०
- श्रीदृष्टि त्रि० (१) आघात, सूँघा हुआ Smelt (२) चन्दन घिसने की शिला, चन्द्रीटा A stone for rubbing of sandal-wood दे० १, १६६
- श्रीदृष्टी स्त्री० शोध, समूह A heap, A multitudo सुपा० ३६४
- श्रीदृष्टिअ न० (१) वस्त्र, कपडा A garment, An article of dress (२) त्रि० धूल, कणित Trembled, Shaken दे० १, १७३
- श्रीदृष्टिअ त्रि० अघोसुल Having the face downwards दे० १, १६८
- श्रीदृष्टिअ त्रि० (१) तौला हुआ Weighed, पात्र० मुगा० २६६, (२) बंद किया हुआ, स्वगित Shut पत्र० २६, ६
- श्रीदृष्टिअ पु० (१) दीप An island (२) अण, विभाग A part, A portion, दे० १, १७०
- श्रीदृष्टिअ त्रि० हमरे पर मिथ्याभियोग लगाने वाला One who imputes राज०
- श्रीदृष्टिअ न० (१) विपाद, खेद Sorrow, Grief (२) रमस, वेग Speed, Velocity (३) विचारित Thought दे० १, १६८
- श्रीदृष्टिअ त्रि० (१) उद्गीत Sung (२) अवसन्न, निरा Depressed, Distressed दे० १, १६३
- श्रीदृष्टिअ त्रि० अभिभूत, पराभूत Defeated, Absorbed in दे० १, १६८
- श्रीदृष्टिअ त्रि० विफल, निष्फल Fruitless, Vain, Useless दे० १, १६७
- श्रीदृष्टिअ त्रि० जिस पर आक्रमण किया जाता हो वह One who is being attacked सं० ३, १८
- श्रीदृष्टिअ त्रि० (१) अवनत, अवाङ्मुख Bent down गडब० (२) निरा, खेद-प्राप्त Depressed, Afflicted (३) नष्ट, ध्वस्त Destroyed, Ruined दे० १, १६७
- श्रीदृष्टिअ त्रि० (१) निरा Depressed, Afflicted. (२) अवनत, नीचे झुका हुआ Bent down भवि०

## क

कइअक-कइअकसइ पु० निकर, समूह.

A collection, A multitude दे० २, १३

कइउल्ल त्रि० थोडा, यल्प Little, Scanty दे० १, २१

कइल्लवइल्ल पु० स्वच्छन्दचारी बैल An uncontrolled ox दे० २, २४

कउअ. त्रि० (१) प्रधान, मुख्य Chief, Leading, Prominent (२) चिन्ह, निशान A sign, A mark दे० २, २६

कउल्ल न० करीप, गोइठा का चूर्ण Dry cow-dung, दे० २, ७

कउह न० नित्य, सदा, हमेशा Daily, Always दे० २, ५

कओहुत्त क्रि० वि० किस तरफ ? Where महा०

कइ अ० किससे By whom विक० १०२

ककण पु० चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष A kind of living-being having four senses उत्त० ३६, १४७

ककसी स्त्री० कधी, केश सँवारने का उपकरण A comb ही० १५

ककणी स्त्री० बहली-विशेष काँगनी A kind of creeper पञ्च० १

ककीरय न० पुष्प विशेष A kind of flower वजा० १०८

ककुल्ली स्त्री० हार, कण्ठाभरण A necklace भवि०

कटउच्चि त्रि० कण्टक-भ्रोत Pierced by thorns, Full of thorns दे० २ १७

कटाली स्त्री० बनस्पति विशेष, कण्टकारिका, भटकटैया The Mexican Poppy, A kind of vegetable दे० २, ४.

कटी स्त्री० उपकण्ठ, कण्ठिका, पर्वत के नजदीक की भूमि A ground in the

vicinity of a mountain गउड०

कठ पु० सूकर, सूअर A boar, A hog (२) मर्यादा, सीमा Limit, Boundary दे० २, ५१

कठकुची स्त्री० (१) वस्त्र बगैरे के अन्तल में बंधा हुई गाठ A knot in the end of a garment (२) गले में लटकाई हुई लम्बी नाडि, अन्धि दे० २, १८.

कठदीणार पु० छिद्र, विवर A hole, A cleft दे० १, २४

कठमल्ल न० (१) ठठरी, मृत शिविका A bier (२) यान-पात्र, वाहन A vehicle, Conveyance of any kind दे० २, २०.

कठिअ पु० चपरासी, प्रतीहार A peon, A patwala दे० २, १५

कड पु० (१) फेन, कीन Foam, Froth (२) त्रि० दुर्बल Weak, Feeble (३) विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त Afflicted, Distressed दे० २, ५१

कडपडवा स्त्री० यवनिका, परदा A curtain दे० २, २५

कडूर पु० बक, बगुला A crane दे० २, ६

कतु पु० काम, कामदेव Cupid, God of love दे० २, १

कद त्रि० (१) दृढ, मजबूत Fixed, Firm, Strong (२) मत्त, उन्मत्त Mad (३) न० आस्तरण, आच्छादन A cover, A lid दे० २, ५१

कदल न० कपाल Forehead दे० २, ४

कदी स्त्री० सूला, कन्द-विशेष Radish, A kind of bulbous root दे० २, १

कदोह न० नील कमल The blue lotus दे० २, ६, प्राप्र० पड् गा० ६२२, उत्तर० ११७, कण्ठ० भवि०

चन्द्रोटा A stone on which sandal-wood is being rubbed दे० १, १६८.  
 श्रीहृद् पु० यवगुग्गुल A veil (for the face) (२) नीवी, कटी-वस्त्र A cloth worn around a woman's waist (३) अपस्त, पीछे हटा हुआ Receded, Fell back दे० १, १६६, भवि०  
 श्रीहृद्विद्य त्रि० दूसरे को दबा कर हाथ से गृहीत Procured by force दे० १, १५६  
 श्रीहृद् पु० हास, हँसी A joke, A fun दे० १, १५३  
 श्रीहृद्वणी स्त्री० अंगला A wooden bolt, A latch दे० १, १६०.  
 श्रीहृत् त्रि० अवनत Bent down, Degenerated, Inclined दे० १, १५६  
 श्रीहृरय न० (१) विनाशन, हिसा Killing (२) असंभव अर्थ की संभावना Probability of impossible objects दे० १, १७४  
 (३) अस्त्र, हथियार A missile, A weapon सं० २३१, ६३७, (४) त्रि० आघात Smelt, पड़०  
 श्रीहृरिस त्रि० (१) आघात, सूँघा हुआ Smelt (२) चन्दन बिसने की शिला, चन्द्रोटा A stone for rubbing of sandal-wood दे० १, १६६  
 श्रीहृली स्त्री० शोध, समूह A heap, A multitude सुपा० ३६४  
 श्रीहृसिञ्ज न० (१) वस्त्र, कपडा A garment, An article of dress (२) त्रि० धूत, कम्पित Trembled, Shaken दे० १, १७३  
 श्रीहृइञ्ज त्रि० अधोमुख Having the

face downwards दे० १, १५८  
 श्रीहृमिय त्रि० (१) तौलाहुया Weighed, पात्र० सुपा० २६६, (२) बंद किया हुआ, स्थगित Shut पत्र० ४६, ६  
 श्रीहार पु० (१) द्वीप An island (२) अंश, विभाग A part, A portion. दे० १, १६७  
 श्रीहारइत्तु त्रि० दूसरे पर मिथ्यानिर्योग लगाने वाला One who imputes राज०  
 श्रीहृस्थ न० (१) विपाद, खेद Sorrow, Grief (२) रमस, वेग Speed, Velocity (३) विचारित Thought दे० १, १६८  
 श्रीहीरिञ्ज त्रि० (१) उद्गीत Sung (२) अवनत, सिञ्ज Depressed, Distressed दे० १, १६३  
 श्रीहुञ्ज त्रि० अभिभूत, पराभूत Defeated, Absorbed in दे० १, १५८  
 श्रीहुड त्रि० विफल, निष्फल Fruitless, Vain, Useless दे० १, १५७  
 श्रीहुप्पत त्रि० जिस पर आक्रमण किया जाता हो वह One who is being attacked से० ३, १८  
 श्रीहृर त्रि० (१) अवनत, अधोमुख Bent down गडड० (२) सिञ्ज, खेद-ग्रस्त Depressed, Afflicted (३) बस्त, बस्त Destroyed, Ruined. दे० १, १५७  
 श्रीहृल्ल त्रि० (१) सिञ्ज Depressed, Afflicted. (२) अवनत, नीचे झुका हुआ Bent down भवि०



## क

कइअक-कइअकसइ पु० निकर, समूह.

A collection, A multitude दे०

२, १३

कइउल्ल त्रि० थोडा, अल्प Little,

Scanty दे० १, २१

कइल्लवइल्ल पु० स्वच्छन्दचारी बैल An

uncontrolled ox दे० २, २५

कउअ त्रि० (१) प्रधान, मुख्य Chief,

Leading, Prominent (२) चिन्ह,

निशान A sign, A mark दे० २, ५६

कउल्ल न० करीष, गोइठा का चूर्ण Dry

cow-dung, दे० २, ७.

कउह न० नित्य, सदा, हमेशा Daily,

Always दे० २, ५

कओहुत्त क्रि० वि० किस तरफ ?

Where कहा०

कइ अ० किससे By whom विक० १०२.

ककण पु० चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष

A kind of living-being having

four senses उक्त० ३६, १४७

ककसी स्त्री० कवी, केश सँवारने का उप-

करण A comb ती० १५

ककणी स्त्री० बल्ली-विशेष काँगी A

kind of creeper पत्र० १

ककीरय न० पुष्प विशेष A kind of

flower वजा० १०८

ककुल्लती स्त्री० हार, कण्ठाभरण A neck-

lace भवि०

कटउच्चि त्रि० कण्टक-प्रोत Pierced by

thorns, Full of thorns दे० २, १७

कटाली स्त्री० बनस्पति विशेष, कण्टकारिका,

भट्कटैया The Mexican Poppy, A kind

of vegetable दे० २, ५.

कटी स्त्री० उपकण्ठ, कण्ठिका, पर्वत के

नजदीक की भूमि A ground in the

vicinity of a mountain गउह०

कंठ पु० सूकर, सूअर A boar, A hog

(२) मर्यादा, सीमा Limit, Boundary

दे० २, ५१

कंठकुची स्त्री० (१) वस्त्र वगैरे के अञ्चल मे

बधो हुई गाठ A knot in the end of

a garment (२) गले मे लटकाई हुई

लम्बी नाडि, ग्रन्थि दे० २, १८.

कठदीणार पु० छिद्र, विवर A hole, A

cleft दे० १, २४

कठमरल न० (१) ठडरी, मृत शिविका A

biel (२) यान-पान्न, वाहन A vehicle,

Conveyance of any kind दे० २, २०

कठिअ पु० चपरासी, प्रतीहार A peon,

A patwala दे० २, १५

कड पु० (१) फेन, कौन Foam, Froth

(२) त्रि० दुर्बल Weak, Feeble (३)

विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त Afflicted, Dis-

tressed दे० २, ५१

कडपडवा स्त्री० यवनिका, परदा A

curtain दे० २, २५

कडूर पु० बक, बगुला A crane दे०

२, ६

कतु पु० काम, कामदेव Cupid, God

of love दे० २, १

कद त्रि० (१) दृढ, मजबूत Fixed,

Firm, Strong (२) मत्त, उन्मत्त Mad

(३) न० आस्तरण, आच्छादन A cover,

A lid दे० २, ५१

कदल न० कपाल Forehead दे० २, ४

कदी स्त्री० मूला, कन्द-विशेष. Radish,

A kind of bulbous root दे० २, १

कदोह न० नील कमल The blue

lotus दे० २, ६, प्राय० पङ्० गा० ६२२,

उत्तर० ११७, कण्ठ० भवि०

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कंधार पु० स्कन्ध, श्रोत्रा का पीछला भाग<br>A shoulder उप० पृ० ८६                                                                                                               | कच्छर पु० पक्क, कीच, कदम Mud,<br>Mire दे० २, २                                                           |
| कपड पु० पथिक, मुसाफिर A travel-<br>ler दे० २, ७                                                                                                                                | कच्छादरुभ पु० रोग विशेष A kind<br>of disease सिरि० ११७                                                   |
| कवर पु० विज्ञान Science दे० २, १३                                                                                                                                              | कच्छुट्टिया स्त्री० कछौटी, लंगोटी The<br>tuck of a dhotai रभा०                                           |
| कसार पु० कसार, एक प्रकार की मिठाई<br>A kind of sweet meat स० १८०                                                                                                               | कच्छुरिअ त्रि० (१) ईर्षित, जिसकी ईर्ष्या<br>की जाय वह Envid (२) न० ईर्ष्या,<br>Jealousy, Envy दे० २, १६  |
| कसारी स्त्री० त्रीन्द्रिय बुद्ध जन्तु की एक<br>जाति A cricket, A moth जी० १८                                                                                                   | कच्छोटी स्त्री० कछौटी, लंगोटी The<br>tuck of a dhotai रभा० टि०                                           |
| ककस-ककसार पु० दध्योदन, करम्ब<br>Boiled rice mixed with curd<br>दे० २, १४                                                                                                       | कजउड पु० अनर्था A calamity,<br>A misfortune दे० २, १७                                                    |
| ककखड त्रि० पीन, पुष्ट Stout Fat,<br>Nourished दे० २, ११, कप० आया० भवि०                                                                                                         | कजव-कजवय पु० (१) मैला, विष्ट<br>Fæces, Ordure, Excrement (२)                                             |
| ककखडगी स्त्री० सखी, सहेली A<br>female friend दे० २, १६                                                                                                                         | कृण वगैर का समूह, कूड़ा, कतवार<br>Dust, Refuse दे० २, ११, उप० १७६,<br>२६३, स० २६४, दे० ६, २६, अखुत्रो०   |
| ककखल पु० देवी 'ककस' शब्द Vide<br>'ककस' पड्०                                                                                                                                    | कज्जालि न० सेवाल, एक प्रकार की घास<br>जो जलाशयों में लगती है Moss, Weeds<br>growing under water दे० २, ८ |
| ककघड पु० (१) अणामार्ग, चिरचिरा,<br>लटनीरा A kind of vegetable (२)<br>किलाद, दूध की मलाई Cream of milk<br>दे० २, १४                                                             | कट्टर न० खण्ड, अश, टुकड़ा A frag-<br>ment, A piece अखुत्त०                                               |
| ककघायल पु० किलाद, दूध का विकार,<br>दूध की मलाई Cream of milk दे०<br>२, २२                                                                                                      | कट्टारय न० तुरिका, छुरी A knife<br>दे० २, ४                                                              |
| ककचरा स्त्री० (१) कचरा, कच्चा सरबूजा<br>An unripe water-melon (२) कचरे<br>को सुखाकर, तलकर और मसाला डाल कर<br>बनाया हुआ खाद्य विशेष, एक प्रकार का<br>आचार A kind of pickle भवि० | कट्टारी स्त्री० तुरिका, छुरी A knife<br>दे० २, ४                                                         |
| ककचवार पु० कतवार, कूड़ा Dirt,<br>Refuse सूक्त० ४४                                                                                                                              | कट्टीरग पु० कटोरा, प्याला, पात्र विशेष<br>A cup निसी चू० १                                               |
| ककच्छटी स्त्री० कछौटी, लंगोटी, कड़नी<br>The tuck of a dhotai, A special<br>kind of cloth worn round loins<br>रभा० टी                                                           | कट्टिअ पु० चपरासी, प्रतीहार A peon<br>दे० २, १५                                                          |
|                                                                                                                                                                                | कड, त्रि० (१) क्षीण, दुर्बल Weak,<br>Feeble (२) मृत, विनष्ट Dead,<br>Deceased दे० २, ११                  |
|                                                                                                                                                                                | कडथल्ल पु० दौवारिक, प्रतीहार A door-<br>keeper दे० २, १८                                                 |

कडअल्लो स्त्री० कण्ठ, गला The throat दे० २, १५  
 कडइअ पुं० स्थपति, बढई A carpenter दे० २, २२  
 कडइल्ल पुं० दौवारिक, प्रतीहार A door-keeper दे० २, १५  
 कडत. न० (१) मूली, कन्द विशेष A kind of bulbous root (२) मुसल A pestle दे० २, २६  
 कडंतर. न० पुराना सूर्प आदि उपकरण. Household furniture दे० २, १६.  
 कडतरिअ त्रि० दारित, बिदारित, विनाशित Destroyed, Ruined दे० २, २०  
 कडभुअ न० (१) कुम्भप्रोव नामक पात्र विशेष. A kind of vessel (२) घडे का कण्ठ भाग The upper part of a pot दे० २, २०.  
 कडच्छु स्त्री० कर्झी, चमची, डोई A small spoon, A ladle दे० २, ७  
 कडतला स्त्री० लोहे का एक प्रकार का हथियार A kind of steel weapon दे० २, १६  
 कडत्तरिअ त्रि० देखो 'कडतरिअ' शब्द Vide 'कडतरिअ' भवि०  
 कडहरिअ त्रि० (१) छिन्न, काटा हुआ Cut, Rent (२) न० छिद्रता Vices षड्०  
 कडप पुं० वस्त्र का एक भाग A portion of a garment दे० २, १३  
 कडमड पुं० न० उद्वेग Sorrow, Regret सवि० ४७  
 कडसी स्त्री० श्मशान, मसाण, A burning place, A cemetery दे० २, ६  
 कडा स्त्री० कडी, सिकली, जनीर की लडी A chain सुपा० ४१४  
 कडार न० नालिकेर, नरियर A coconut दे० २, १०

कडिअ त्रि० मीशित, खुशी किया हुआ Pleas-  
 ed, Satisfied षड्०  
 कडिखभ पु० (१) कमर पर रखा हुआ हाथ A hand kept on waist पाअ० दे० २, १७, (२) कमर में किया हुआ आघात A blow on the waist दे० २, १७  
 कडिभिल्ल न० शरीर के एक भाग में होने वाला कुष्ठ विशेष Leprosy on a part of a body वृह० ३  
 कडिल्ल त्रि० (१) छिद्र रहित, निच्छिद्र. Pious, Innocent, Without holes or pores दे० २, ५२, षड्० (२) न० कटी वस्त्र, कमर में पहनने का वस्त्र, घोती वगैरह A lower garment. A Dhoti etc दे० २, ५२, पाअ० षड्० सुपा० १५२, कप्पू० भवि० विशेष० २६००, (३) घन, जगल, अटवी A forest, A wood. पउम० २, ४५, बव० २, दे० २, ५२, (४) गहन, निविड, सान्द्र. Dense, Thick उप० १०३१ टी दे० २, ५२, षड्० (५) आशीर्वाद, आसीस A blessing, A benediction (६) पुं० दौवारिक, प्रतीहार A door-keeper (७) विपक्ष, शत्रु, दुश्मन An enemy दे० २, ५२, षड्० (८) उपकरणविशेष A kind of implement दस० ६  
 कडुआल पु० (१) घण्टा, घण्ट A large bell दे० २, ५७, (२) छोटी मछली A small fish दे० २, ५७, पाअ०  
 कडुयाविय त्रि० (१) प्रहत, जिस पर प्रहार किया गया हो वह One who is blown उप० घृ० ६५, (२) व्यथित, पीडित Afflicted, Pained महा० (३) हराया हुआ, पराभूत Defeated (४) विपद् में फँसा हुआ Entangled in a calamity भवि०

कडिद्वय त्रि० बाहर निकाला हुआ Exclud-  
ed from, Driven out of सिरि०  
६८३

कडिअ न० कडी Cully, An Indian  
soup पिंड० ६२४

कडिआ. स्त्री० कडी, भोजन विशेष Cully,  
An Indian soup. दे० २,६७

कणइल्ल पु० शुक, तोता A parrot  
दे० २,२१, पङ्० पात्र०

कणई स्त्री० लता, वल्ली A creeper  
दे० २,२५, पङ्० स० ४१६, पात्र०

कणखल न० उद्यान विशेष The name of  
a garden सट्टि० ६ टी०

कणय पु० (१) फूलों को इकट्ठा करना,  
अवचय Gathering of flowers  
(२) बाण, शर An arrow पदम० ८८८,  
पङ्० १,१, दे० २,५६, पात्र०

कणयंदी स्त्री० वृक्ष विशेष, पाउरी, पादल  
A kind of tree दे० २, ५८

कणवी स्त्री० कन्या A girl वजा० १०८

कणि पु० स्त्री० स्फुरण, स्फूर्ति Throb-  
bing, Shaking पात्र०

कणिआरिअ त्रि० (१) कानी अँगल से जो  
देखा गया हो वह Seen by a side-glance  
(२) न० कानी नजर से देखना Looking  
by a side-glance दे० २,२४

कणोड्दिआ. स्त्री० गुआ, घुङ्गी A kind  
of tree दे० २,२१

कणोवअ न० गरम किया हुआ जल, तेल  
वगैर Warm water, oil etc दे०  
२,१६

कणोवाल न० कान का आभूषण, कुण्डल  
वगैर An ear-thing दे० २,२३

कणोचुहुरी स्त्री० गृह-गोषा, छिपकली A  
lizard दे० २,१६

कणोस्सरिय त्रि० (१) कानी नजर से देखा

हुआ Looked with half-shut eyes.  
(२) न० कानी नजर से देखना Seeing by  
half shut eyes दे० २,२४

कणोआस न० कान का आभूषण, कुण्डल  
वगैर An ear-thing दे० २,२३.

कणोइधण न० कान का आभूषण An  
ear-thing दे० २,२३

कणोस पु० पर्यस्त, अन्त भाग Skut,  
Edge, Border दे० २,१४

कणोच्छुडिआ स्त्री० दूसरे की बात गुप्त  
सुनने वाली स्त्री A woman hearing  
another's secrets दे० २,२२

कणोल्ली स्त्री० (१) चन्डु, चोंच, पत्नी का  
दोंठ A beak, A bill (२) अवतल,  
शेखर, भूषण विशेष A kind of orna-  
ment worn on the head दे० २,५७

कतवार पु० कतवार, कूडा Dnt, Refuse  
दे० २,११

कत न० स्त्री A wife पङ्०

कतर पु० कतवार, कूडा Dnt,  
Refuse सुपा० २३७

कत्ता स्त्री० अन्धिका घृत की कपर्दिका कौडी  
A small shell or cowrie दे० २, १

कत्तविय त्रि० कृत्रिम, दिखाऊ Unnat-  
ural, Artificial, Froctitious.  
सूय० १, ४

कथ त्रि० (१) मृत Dead, Deceased.  
(२) चीण, दुर्बल Weak, Feeble  
पङ्०

कटुइया स्त्री० वल्ली-विशेष, कददु, लौकी  
A kind of creeper पङ्० १

कटुमिअ पु० महिय, बैसा A buffalo  
दे० २, १५

कन्नारिय त्रि० विभूषित, अलंकृत Deco-  
rated, Ornamented सवि०

कन्नोली स्त्री० 'कणोली' देवी 'कणोली'

शब्द Vide 'कणयोल्ली' पात्र०  
कप्परिञ्च त्रि० दारित, चीरा हुआ To in,  
Split, Rent दे० २, २०, वजा० ३४,  
भवि०

कप्फाड पु० गुफा, गुहा A cave, A  
cavern पात्र०

कन्वाडभयय पु० डेके पर जमीन खोदने  
का काम करने वाला मजदूर A labourer  
who digs ground by contract,  
ग० ४, १

कमढ पु० (१) दही की कलशी A jar of  
curds (२) पिठर, स्थाली An earthen  
pot or pan (३) बलदेव Baladeo  
(४) मुख, मुँह The mouth दे०  
२, २६

कमणी स्त्री० नि श्रेणी, सीढ़ी A stall-  
case, A ladder दे० २, ८

कमल पु० (१) पिठर, स्थाली An  
earthen pot or pan (२) पटह, ढोल  
A drum, A tabol दे० २, २४, (३)  
मुख, मुँह The mouth दे० २, २४,  
पड्० (४) कलह, झगडा A quarrel, A  
strife षड्०

कमला स्त्री० हरिणी, मृगी A female  
deer, A doe पात्र०

कमिञ्च त्रि० उपसर्पित, पास आया हुआ  
Approached, Came near दे० २, ३

कम्मत्त पु० (१) कर्म-बन्धन का कारण  
A cause of Karmaic bondage  
आया० सूय० २, २, (२) कर्म स्थान, कार-  
खाना A manufactory, A work-  
shop दे० २, २२

कम्मवण न० उपभोग, काम में लाना  
Enjoyment, Use, Application कुमा०

कन्हिञ्च पु० माली, मालाकार

A gardenier दे० २, ८

कयल न० अलिखर, पानी भरने का बडा  
गगरा A water jar दे० २, ४

कयवर पु० विद्युत Foeces, Oidure  
आव० १

कयसेहर पु० कुकडा, मुर्गा. A cock  
वजा० ७२

करअडी-री स्त्री० स्थूल वस्त्र, मोटा कपडा  
A coarse cloth. दे० २, १६

करइल्ली स्त्री० शुष्क वृक्ष, सूखा पेड A  
dry tree दे० २, १७

करक पु० (१) भिक्षा-पात्र A begging  
bowl. दे० २, २६, गडड०

(२) अशोक वृक्ष Name of a tree  
having red flowers दे० २, २६

करज पु० शुष्क त्वक्, सूखी त्वचा  
Dry skin दे० २, ८

करकड त्रि० कठिन, परुष Hard,  
Rough, Stiff उवा०

करकडी स्त्री० चिथडा, निन्दनीय वस्त्र  
विशेष, जो प्राचीन काल में वध्य पुरुष को  
पहननाया जाता था A kind of garment  
विवा० १, २

करघायल पु० किलाट, दूध की मलाई  
Cream of milk दे० २, २२

करच्छोडिया. स्त्री० ताली, ताल Clap-  
ping of hands सुख० २, १५

करट्ट पु० अपवित्र अन्न को खाने वाला  
ब्राह्मण A Brahman eating unholy  
corns मृच्छ० २०७

करड पु० (१) व्याघ्र, शेर A tiger  
(२) त्रि० कवरा, चितकवरा Variegated,  
Spotted दे० २, २६

करडा स्त्री० (१) एक प्रकार का करज वृक्ष  
A kind of tree (२) पक्षि-विशेष. A  
kind of bird (३) अमर, भमरा

A wasp, A black bee (४) वाच-  
विशेष A kind of musical instru-  
ment दे० २, ५५

करणि स्त्री० (१) रूप, आकार A form,  
A shape दे० २, ७, सुपा० १०५, ४७५,  
पात्र० (२) सादृश्य, समानता Simila-  
rity, Likeness अणुजो० (३) अनु-  
करण, नकल Imitation (४)  
स्वीकार, अंगीकार Acceptance उप० पु०  
३८५, (५) क्रिया, कर्म Work, Action.  
अणुजो० १३७

करणिल्ल त्रि० समान, सदृश Similar,  
Like स० ३१२

करम त्रि० क्षीण, दुर्बल Weak, Feeble  
दे० २, ६, पद०

करमरी स्त्री० हठ-हठ स्त्री, बाँदी A  
woman carried by force दे० २,  
१५, पद० गा० ५१७, पात्र०

करयंदी स्त्री० मल्लिका, बेला का गात्र A  
kind of jasmine दे० २, १८

करविया स्त्री० पान-पात्र विशेष A betel  
leaf box सुपा० ४८८

करसी स्त्री० देखो 'कहसी' शब्द Vide  
'कहसी' हे० २, १७४

कराइणी स्त्री० शालमली वृक्ष, सेमल का पेड़  
The silk cotton tree दे० २, १८

कराली स्त्री० दंतवन, दाँत शुद्ध करने का काष्ठ  
A tooth-brush दे० २, १२

करिआ स्त्री० मदिरापरोतने का पात्र A  
vessel for serving liquor दे०  
२, १४

करिमरी स्त्री० देखो 'करमरी' शब्द Vide  
'करमरी' गा० ५४, ५५

करिल्ल न० (१) करंला, तरकारी विशेष A  
kind of vegetable of a bitter  
taste विशेष० २६३, (२) पु० करीर वृक्ष,

करील Name of a tree

करेडु पु० गिरगिट, सरट A lizard  
दे० २, ५

करोड पु० (१) नालिकेर, नलिपर A  
coconut tree (२) काक, कौआ A  
crow (३) बृषभ, बैल A bull दे०  
२, ५४

करोडी स्त्री० (१) एक प्रकार की चींटी,  
छद्म-जन्तु-विशेष A kind of ant दे०  
२, ३ (२) श्रुद्धा, शव. A dead  
body, A corpse कुप्र० १०२

कलक पु० (१) बाँस, बश A bamboo  
दे० २, ८, (२) बाँस की बनाई हुई बाड़ A  
hedge made of bamboos  
नाया० १, १८

कलकवई स्त्री० वृत्ति, बाड़, काँटे आदि से  
परिच्छिन्नस्थान-परिधि A fence of  
thorns दे० २, २४

कलतु स्त्री० वल्ली-विशेष, नालिका A kind  
of creeper. दे० २, ३

कलम पु० चोर, तस्कर A thief दे० २,  
१०, पात्र० आया०

कलमल पु० न० (१) मदन-वेदन Pangs  
or torments of love सचि० ४७,  
(२) कँपन, अथराहट. Trembling  
मन० ३३

कलय पु० (१) अजुन वृक्ष Name of a  
tree (२) सोनार, सुवर्णकार A gold-  
smith दे० २, ५४

कलयदि त्रि० (१) प्रसिद्ध, विख्यात  
Renowned, Celebrated, Famous  
(२) स्त्री० वृक्ष विशेष, पादल A kind of  
tree दे० २, ८८

कलयजल न० ओष्ठ-लेप, डोढ़ पर लगाया  
जाता लेप-विशेष A kind of lip paint  
भवि०

कलबू खी० तुम्बी-पात्र, A gourd vessel  
दे० २, २, ४६

कलह न० तलवार की ग्यान A scab-  
bard, A sheath दे० २, ५, पाञ्च

कलि पु० शत्रु, दुश्मन An enemy,  
A foe दे० २, २

कलिञ्च पु० (१) नकुल, न्यौला, नेवला  
A weasel, A mongoose  
(२) गर्वित, गर्व-युक्त Alligant,  
Proud दे० २, ५६

कलिञ्चा खी० सखी, सहेली A female  
friend दे० २, ५६

कलिञ्ज न० छोटी लकड़ी A small  
stick दे० २, ११

कलिम न० कमल, पद्म A lotus  
दे० २, ६

कलेर पु० (१) ककाल, अस्थि-पक्षर A  
skeleton (२) त्रि०, भयानक  
Frightful, Terrible दे० २, ५३

कल्लविञ्च त्रि० (१) तीमित, आद्रित Water-  
ed, Wetted (२) विस्तारित, फैलाया हुआ  
Spread out, Expanded दे० २, १८

कल्ला खी० मद्य, दारू Liquor, Wine.  
दे० २, २

कल्लेडय पु० न० कलेवा, प्रातराश A  
breakfast ओघ० ४१४ टी

कल्लोडय पु० दमनीय बैल, साद, A  
bull आया० २, ४, २.

कल्लोडिञ्चा स्त्री० वत्सतरी, बड़िया A  
heifer नाट०

कल्लोल त्रि० शत्रु, दुश्मन An enemy,  
A foe दे० २, २

कल्लोड पु० वत्सतर, बड़वा A weaned  
calf, A slui दे० २, ६

कल्लोडी खी० वत्सतरी, बड़िया A heifer  
दे० २, ६

कवय न० वनस्पति विशेष, भूमिच्छत्र A  
kind of vegetable दे० २, ३

कवलिञ्चा खी० ज्ञान का एक उपकरण A  
means for knowledge आप० ८.

कवास, पु० एक प्रकार का जूता, अर्ध जघा A  
kind of shoe दे० २, ५

कविड न० घर का पीछला आगन The  
back court of a house दे० २, ६

कविल पु० श्वान, कुत्ता A dog दे०  
२, ६, पाञ्च०

कविलडोला खी० जुद्ध जन्तु विशेष A  
kind of living being जी० १८.

कविल्लुय न० पात्र विशेष, कड़ाही A  
large pan वृह० ५

कविस न० दारू, मद्य, मदिरा Liquor  
दे० २, २

कविसा खी० अर्धजघा, एक प्रकार का जूता  
A kind of shoe दे० २, ५

कव्य न० कव्य, मांस, Meat, Flesh  
सुर० ३, ५३

कव्वट्ट पु०, बच्चा A baby,  
A child गच्छ० ३, १६

कव्वाड पु० दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ  
The right hand दे० २, १०

कव्वाडिञ्च त्रि० कावर उठाने वाला, बहगी से  
माल ढोने वाला A bearer of Kavad  
कुप्र० १२१

कव्वाल न० (१) कर्म-स्थान, कार्यालय  
A place of business, An office  
(२) गृह, घर A house, A dwelling.  
दे० २, ५२

कसई खी० फल विशेष, अरण्यचारी वनस्पति  
का फल A kind of fruit दे० २, ६

कसणसिञ्च पु० बलभद्र, वासुदेव का बवा  
भाई Balabhadri, elder brother of  
Vasudeo. दे० २, २३.

- कसर पु० अधम बैल A vile ox दे० २, ४, गा० ७६५, पु०फ० ६३
- कसरक. पु० न० चर्वण-शब्द, खाते समय जो शब्द होता है वह The sound of chewing (२) ऊद्मल An opening bud वजा० ४६
- कसन्व न० (१) वाष्प, भाफ Vapour, Steam (२) त्रि० अल्प, स्तोक Little (३) प्रभुर, व्यास Filled with, Full of दे० २, ५३, (४) आद्र, गीला Wet स० ४३७, दे० २, ५३, (५) कर्कश, परुष Haish, Severe गउड०
- कसिआ. स्त्री० फल विशेष, अरण्यचारी नामक वनस्पति का फल A kind of fruit दे० २, ६
- कसोति स्त्री० लाय-विशेष A kind of catable सू० प० १०, १७
- कस्स पु० पक, कर्दम, कादा Mud, Mne दे० २, २.
- कस्सय न० प्राभृत, उपहार, भेंट A present, A reward दे० २, १२
- कहल्ल पु० न० कर्पर, खप्पर The skull अल० १२
- कहेड त्रि० तरुण, जुवान Young, Juvenile दे० २, १३
- काइया स्त्री० गुञ्जा, लाल, रत्ती A belly of a small shrub It is used as a weight दे० २, २१
- कावल्ल पु० बक, बगुला An Indian crane दे० २, ६
- कागणि स्त्री० मास का छोटा टुकड़ा A small fragment of flesh श्रौव०
- काण त्रि० (१) सच्छिद्र, काना Having holes आया० २, १, ८, (२) चुराया हुआ Stolen.
- कय पु० क्रय चुराई हुई चीज को खरी-
- दना Buying stolen objects सुगा० ३४३, ३४४
- काणच्छि-काणच्छिया स्त्री० टेढ़ी नजर से देखना, कटाक्ष. A side long-glance A leer दे० २, २४, भवि० आवम०
- काण्थेव पु० विरल जल वृष्टि, बुन्द बुन्द बरसना Slight raining Drizzling दे० २, २६
- काण्डी स्त्री० परिहास Joking, Jesting दे० २, २८
- काणिका स्त्री० बड़ी हूँट A large tooth वृह० ३
- कामकिसोर पु० गर्दभ, गधा A donkey, An ass दे० २, ३०
- कामिजुल पु० पक्षि विशेष A kind of bird दे० २, २६
- काय पु० (१) लक्ष्य, वेध, निशाना Point to be aimed at, Aim (२) उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी जाय वह (In Nyaya) Analogy, Recognition of likeness दे० २, ३६
- कायचुल पु० कामिञ्जुल, जल पक्षी विशेष A kind of wading bird. दे० २, २६
- कायदी स्त्री० परिहास, उपहास Radicule ; Demision दे० २, २८
- कायधुञ्ज पु० कामिञ्जुल, जल-पक्षी विशेष A kind of bird living in water दे० २, २६
- कायपिउच्छा-कायपिउला स्त्री० कोकिला, कोयल, पिकी A cuckoo दे० २, ३०, पद०
- कायर त्रि० प्रिय, स्नेह-पात्र Dear, Beloved दे० २, ५८
- कायल पु० (१) काक, कौया A crow. दे० २, ५८, पात्र० (२) त्रि० प्रिय, स्नेह-पात्र Beloved, Dear दे० २, ५८



कार त्रि० कटु, कडवा, तीता Pungent,  
Acid दे० २,२६

कारकड त्रि० परुष, कठिन. Harsh,  
Severe दे० २,३०

कारा स्त्री० लेखा, रेखा A line, A  
streak दे० २,३६

कारायणी स्त्री० शास्मली का वृक्ष, सेमल का  
पेड The silk-cotton tree दे० २,१८

कारिम त्रि० कृत्रिम, बनावटी, नकली  
Artificial, Fabricated दे० २,२७,  
गा० ४५७, षड्० उप० ७२८ टी, स० ११६,  
प्रासू० २०

कारिल्ली स्त्री० चल्ली विशेष, करैला का गाछ A  
kind of creeper सूक्त० ६१

कारु पु० कारु, कारीगर, शिल्पी An  
artisan, A mechanic पात्र०  
प्रासू० ८०

काल न० तमिस्र, अन्धकार Darkness  
दे० २,२६, षड्०

कालक्खरिअ त्रि० (१) उपालब्ध, निर्भक्षित  
Rebuked, Reproached (२) निर्वा-  
सित Banished, Exiled सुपा०  
३८८, ४८८

कालय त्रि० धूर्त, ठग A rogue, A  
cheat दे० २,२८.

कालवट्ट न० धनुष A bow दे० २,२८

कालिआ स्त्री० (१) शरीर, देह A body  
(२) कालान्तर A period of time  
(३) मेघ, बारिस Raining दे० २,५८,  
(४) मेघ-समूह, बादल A cloud पात्र०

कालिजण न० तापिच्छ, श्याम तमाल का  
पेड A kind of tree दे० २,२६

कालिजणी स्त्री० देको 'कालिजण' शब्द  
Vide 'कालिजण' दे० २,२६

कालिअ पु० (१) शरीर, देह A body  
(२) मेघ, बारिस Raining दे० २,५६

कालुय पु० अश्व की एक उत्तम जाति A  
noble species of a horse सम्मत्त०  
२१६

कालेज न० तापिच्छ, श्याम तमाल का पेड  
A kind of tree दे० २,२६.

काव-कावड पु० कावर, बहङ्गी, बोझ देने  
के लिए तराजू नुमाँ एक वस्तु A Kavad  
जीव० ३, पउम० ७५, ५२

कावडि-कावोडि स्त्री० कावर A Kavad  
कुम० १२१, २४४, दस० ४, १ टी

कावडिअ पु० कावर से भार देने वाला  
A bearer of the Kavad A  
bearer of loads on a pole  
पउम० ७५, ५२

कावलिअ त्रि० असहन, असहिष्णु  
Unable to bear or endure  
दे० २,२८

कावी स्त्री० नीलवर्ण वाली, हरे रंग की चीज.  
A green coloured thing दे० २,२६.

कासार न० धातु विशेष, सीसपत्रक A  
kind of metal दे० २,२७

कासिअ न० (१) सूक्ष्म वस्त्र, बारीक कपडा  
Fine garment (२) सफेद वस्त्र  
White cloth दे० २,५६

कासिज्ज न० काक्स्थल नामक देश A country  
called Kakasthala दे० २,२७

काहिल त्रि० (१) सुदु, कोमल Delicate,  
Tender (२) ठग, धूर्त A cheat,  
A rogue दे० २,५८

काहली स्त्री० तरुणी, युवति A young  
or youthful woman दे० २,२६

काहल्ली स्त्री० (१) खर्च करने का धान्यादि  
Coin etc to be used (२) तवा,  
जिस पर पूरी बगैर पकाया जाता है A pan  
to make cakes on दे० २,५६

काहिल पु० गोपाल, ग्वाला. A cowherd

दे० २, २८

काङ्क्षिञ्चा स्त्री० तवा, जिस पर पूरी आदि पकाया जाता है A pan to make cakes on पात्र०

काहेणु स्त्री० गुला, लाल, रत्ती Small black and red or white berry weighing 2½ grains दे० २, २१

किकिञ्च त्रि० सफेद, श्वेत White दे० २, ३१

किजकस पु० शिरीष वृक्ष, सिरस का पेड़ A kind of tree दे० २, ३१

किधर पु० छोटी मछली A small fish दे० २, ३२

किपय त्रि० कृपण, कजूस Miserly, Stungy दे० २, ३१

किवोड त्रि० स्वलित, गिरा हुआ, भूला हुआ Slipped, Fallen दे० २, ३१

किक्किडि पुं० सर्प, साँप. A serpent, A snake दे० २, ३२

किडिया स्त्री० खिडकी, छोटा द्वार A small door सं० १८३

किडि त्रि० सभोग के लिए जिस को एकान्त स्थान में लाया जाय वह A person brought to a solitary place for sexual intercourse वव० ३, ( २ ) स्थविर, वृद्ध. Old, Aged वृह० १

किण्डय त्रि० शोभित, विभूषित Adorned, Decorated पउम० ६२, ६

किएण त्रि० शोभमान, राजमान Beautiful, Elegant दे० २, ३०

किएह न० ( १ ) बारीक कपड़ा Fine cloth ( २ ) सफेद कपड़ा White cloth दे० २, २६

किएहग पु० वर्षाकाल में घटा आदि में होते एक तरह की काई. Moss growing in

a pot during the rainy season, जीवस० ३६

किपाड त्रि० स्वलित, गिरा हुआ Slipped, Fallen पङ्०

किमिधरवसण न० कौशेय वस्त्र A kind of cloth पङ्०

किमिहरवसण न० कौशेय वस्त्र A kind of cloth दे० २, ३३

किम्मिय न० जडता, जाडय Dullness of intellect, Folly, Stupidity राज०

कियाडिया स्त्री० कानबुट्टी, कान का उपरि भाग The upper part of the ear वव० १

किर पु० सूकर, सूअर A boar, A hog. दे० २, ३०, पङ्०

किरिड्रिञ्चा-किरिकिरिञ्चा स्त्री० ( १ ) कर्णोपकणिका, एक कान से दूसरे कान गई हुई बात, गप Rumour ( lit from ear to ear ) whisper

( २ ) कुतूहल, कौतुक What excites curiosity, दे० २, ६१

किलणी स्त्री० रथ्या, गली A street, A lane दे० २, ३१

किलिञ्चिञ्च न० छोटी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा A small stick गा० न०

किलिकिञ्चिञ्च न० रमण, क्रीडा, सभोग Coition, Sexual inter-course कुमा०

किलिन्मिञ्च त्रि० कथित, उक्त Said, Told दे० २, ३२

किविड न० खलिदान, अन्न साफ करने का स्थान A barn-yard, A thrashing floor ( २ ) त्रि० खलिदान में जो हुआ हो वह What done in the thrashing floor दे० २, ६०

किविडी. स्त्री० ( १ ) किवार, पारचंदार A

door ( २ ) घर का पिछला आगन  
The back court of a house  
दे० २, ६०

कीर पुं० शुक, तोता A parrot दे० २,  
२१, उर० १, १४

कील त्रि० स्तोक, अल्प, थोडा A little,  
Not much दे० २, २१

कीलणिआ-कीलणी स्त्री० रथ्या, गली A  
street, A lane दे० २, ३१

कीला स्त्री० नव-वधू, दुलहिन A bride,  
A newly married woman, A  
young woman दे० २, २३

कुइमाण त्रि० म्लान, शुष्क Faded,  
Withered दे० २, ४०

कुडआ स्त्री० तुम्बी-पात्र, तुम्बा A small  
toomba, A hollowed gourd दे०  
२, १२

कुऊल न० (१) नीवी, नारा, इजारबन्द A  
cotton cord to tie the lower gar-  
ment of woman, (२) पहने हुए कपडे  
का प्रात भाग, अञ्जल A border of end  
of a hood दे० २, ३८

कुंकण न० कोकनद, रक्त कमल A red  
lotus पत्र० १

कुचल. न० मुकुल, कलि, बौर A bud  
दे० २, ३६, पात्र०

कुटलविटल न० (१) मन्त्र-तन्त्रादि का  
प्रयोग, पाखण्डविशेष Application of  
magic, Magical rites आवम०  
(२) मन्त्र-तन्त्रादि से आजीविका चलाने वाला  
One who lives on mantras or  
magic आक०

कुंठार त्रि० म्लान, सूखा, मलिन Faded,  
Withered दे० २, ४०

कुटि स्त्री० (१) गठरी, गाठ A bundle  
दे० २, ३४, (२) शस्त्र विशेष, एक प्रकार का

औजार A kind of tool सुपा० १२६.

कुठी स्त्री० सॉइसी, चीमटा A kind of  
pincers or tongs वजा० ११४

कुडभी स्त्री० छोटी पताका A small  
flag आवम०

कुडिअ पुं० ग्राम का अधिपति, गाव का  
मुखिया The leading man of a village  
दे० २, ३७.

कुडीअपेसरा न० ब्राह्मण-विधि, ब्राह्मण  
की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा Service of  
a Brahman दे० २, ४३

कुंढय न० (१) चुह्नी, चुह्हा A stove  
(२) छोटा बरतन A small vessel. दे०  
२, ६३

कुंत पुं० शुक, तोता A parrot. दे०  
२, २१

कुंतल पुं० सातवाहन, नृप-विशेष. Name  
of a king दे० २, ३६.

कुंतली स्त्री० करोटिका, परोसने का एक  
उपकरण A vessel for serving meals  
दे० २, ३८

कुंती स्त्री० मञ्जरी, बौर A bud. दे०  
२, ३४

कुतीपोट्टलय त्रि० चतुष्कोण, चार कोण  
वाला Square, Quadrangular  
दे० २, ४३

कुदय त्रि० कमरा, दुर्बल Weak, Feeble  
दे० २, ३७

कुदीर न० विम्बीफल, कुन्दरन का फल  
A fruit of a particular tree  
दे० २, ३६

कुटुल्लुअ. पुं० उल्लुक, [उल्लू. An owl  
पात्र०

कुंधर पुं० छोटी मछली A small fish  
दे० २, ३२

कुवर पुं० छोटी मछली A small fish  
पात्र०

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुंभिणी स्त्री० जल का गर्त A pit of water दे० २, ३८                                                                                          | कुट्टाय पु० चर्मकार, मोची, A shoe-maker दे० २, ३७                                                                                       |
| कुंभिल्ल पुं० (१) चोर, स्तेन A thief दे० २, ६२, विक० १६, (२) पिशुन, दुर्जन A wicked man दे० २, ६२, (३) त्रि० खोदने योग्य To be dug दे० २, ३६ | कुडय न० लतागृह, लता से आच्छादित घर, कुटीर A bower surrounded with creepers, An arbour दे० २, ३७                                         |
| कुंभी स्त्री० केश-रचना, केश-सयम Dressing or arranging the hair दे० २, ३४                                                                     | कुडिअ त्रि० कुञ्ज, वामन Dwarf fish, Hump-backed पाश्र्व०                                                                                |
| कुंकुला स्त्री० नवोदा, दुलहिन A newly-married woman, A bride दे० २, ३३                                                                       | कुडिआ स्त्री० वाड का विवर An opening of a hedge दे० २, २४                                                                               |
| कुक्क पुं० कुक्का, कुक्कुर A dog मृच्छ० ३६                                                                                                   | कुडिच्छ न० (१) वाड का छिद्र An opening of a hedge (२) कुटी, झोंपड़ा A cottage, A hut (३) त्रि० नुटित, छिन्न Cut, Broken, Rent दे० २, ६४ |
| कुक्कयय न० आभरण विशेष A kind of ornament सूय० १, ४, २, ७                                                                                     | कुडिल्ल न० (१) छिद्र, विवर A hole. पाश्र्व० (२) त्रि० कुञ्ज, कूबड़ा Dwarf fish, Hump-backed पाश्र्व०                                    |
| कुकी स्त्री० कुत्ती, कुम्हुरी A bitch. मृच्छ० ३६                                                                                             | कुडीर न० वाड का छिद्र. An opening of a hedge दे० २, २४                                                                                  |
| कुक्कुड त्रि० मत्त, उन्मत्त Mad दे० २, ३७                                                                                                    | कुडुग पु० लतागृह, लताओं से ढका हुआ घर. A bower surrounded with creepers, An arbour पद्० गा० १७६, २३२                                    |
| कुक्कुरड पुं० निकर, समूह A collection, A multitude दे० २, १३                                                                                 | कुडुवीअ न० सुरत, समोग, मैथुन Sexual inter-course, Coition पद्०                                                                          |
| कुक्कुहाइअ न० चलते समय का श्रवण का शब्द विशेष A kind of sound produced by the body of a horse while going or running तदु० ५३                 | कुडुभग पु० जल-मयदूक, पानी का मेंढक A frog निसी० चू० १                                                                                   |
| कुच्छिल्ल न० (१) वाड का छिद्र An opening in a hedge दे० २, २४, (२) छिद्र, विवर A hole पाश्र्व०                                               | कुडुक पु० लतागृह An arbour पद्०                                                                                                         |
| कुट्ट पुं० न० (१) कोट, किला A fort, A castle सुपा० १०३, (२) नगर, शहर A city सुर० १२, ८१                                                      | कुडुधिय न० सुरत, समोग, मैथुन Sexual inter-course, Copulation दे० २, ४१                                                                  |
| कुट्टयरी स्त्री० चढी, पार्वती Parvati, Goddess Durga दे० २, ३७                                                                               | कुडु न० आश्चर्य, कौतुक, कुतूहल. What excites curiosity दे० २, ३३, पाश्र्व० पद्० डे० २, १७७.                                             |
| कुट्टवाल पु० कोतवाल, नगररक्षक A police-magistrate सुर० १२, ८१                                                                                | कुडुगिलोई स्त्री० गृह-गोधा, द्विपकवी A                                                                                                  |
| कुट्टा. स्त्री० गौरी, पार्वती Gauri, Parvati दे० २, ३२                                                                                       |                                                                                                                                         |

kind of animal दे० २, १३  
 कुड्डाल न हलका ऊपला विस्तृत अण A  
 particular part of a plough उवा०  
 कुट्ट पु० न० (१) चुरायी हुई वस्तु को खोज  
 में जाना Searching for stolen  
 things दे० २, ६२, सुपा० १०३ (२)  
 कौनी हुई चीज को लुटाने वाला, वापिस  
 लेने वाला One who brings back  
 the stolen things दे० २, ६२  
 कुदावय न० अनुगमन, पीछे जाना, Follow-  
 ing विशेष० १४३६ टी  
 कुट्टिय त्रि० जिसके माल की चोरी हो गई  
 हो वह One whose property is  
 stolen सुख० २, २१, (२) कूट, मूर्ख,  
 बेसमझ Foolish, Stupid सुर० ३, १४२  
 कुण्डिआ स्त्री० वृत्ति-विबर, बाड का छिद्र  
 An opening of a hedge दे० २, २४  
 कुतती स्त्री० मनोरथ, वाञ्छा A wish,  
 A desire दे० २, ३६  
 कुत्त पु० (१) कुत्ता, कुत्तर A dog रभा०  
 (२) न० ठेका, इजारा A contract,  
 Monopoly विवा० १, १  
 कुत्तिय पु० स्त्री० एक जात का कौडा, चतुरिन्द्रिय  
 जन्तु विशेष A living being having  
 four senses आप० १७, पभा० ४१  
 कुत्ती स्त्री० कुत्ती, कुत्तरी A bitch रभा०  
 कुत्थर न० (१) विज्ञान Science,  
 Knowledge दे० २, १३, (२) कोटर, वृक्ष  
 की फोह The hollow of a tree सुपा०  
 २४६, (३) सर्प वगैर का बिल The hole  
 of a serpent etc उप० ३२७ टी  
 कुत्तुहवत्थ न० नीवी, नारा, इजारबन्द A  
 cotton cord tied to a woman's  
 lower garment दे० २, ३३  
 कुह त्रि० प्रभूत, प्रचुर Much, Abundant  
 दे० २, ३४

कुहण पु० रासक, रासा A rope दे० २, ३८  
 कुप्पट पु० (१) गृहाचार, घर का रिवाज  
 Household custom or usage (२)  
 समुदाचार, सदाचार Proper practice or  
 usage दे० २, ३६  
 कुप्पर न० (१) सदाचार Good morals  
 or conduct (२) नर्त, हासी, उट्टा A  
 joke, Jesting दे० २, ६४  
 कुब्जड त्रि० कूबड, कुब्ज, वामन Dwarfish,  
 Hump-backed धा० २७  
 कुमार पु० कुँआर का महीना, आश्विन मास  
 The month Asvina ग० २, १.  
 कुमारी स्त्री० गौरी, पार्वती Gauri,  
 Parvati दे० २, ३५  
 कुमुली स्त्री० चुल्ली, चुल्हा A stove,  
 A hearth दे० २, ३६  
 कुम्भण त्रि० म्लान, शुष्क Faded,  
 Withered दे० २, ४०  
 कुरुकुरिअ न० रणरणक, औत्सुक्य Ardent  
 desire, Eagerness दे० २, ४२  
 कुरुचिल्ल पु० (१) जल-जन्तु विशेष, कुलीर  
 Living beings of water (२)  
 न० ग्रहण, उपादान Taking, Accepting  
 दे० २, ४१  
 कुरुक्ष त्रि० अनिष्ट, अशुभ Unfavourable,  
 Disagreeable दे० २, ३६  
 कुरुड त्रि० (१) निर्दय, निष्ठुर Cruel,  
 Merciless दे० २, ६३, भवि० (२) निपुण,  
 चतुर Clever, Skilful दे० २, ६३, भवि०  
 कुरुण न० राजा का या दूसरे का धन Wealth  
 of a king or another राज०  
 कुरुल पु० (१) कुटिल केश, बक वाला Crook-  
 ed hair दे० २, ६३, भवि० (२) त्रि०  
 निर्दय Cruel, Merciless (३) चतुर,  
 निपुण Skilful, Dexterous दे० २, ६३  
 कुरुलिङ्ग न० वापस का शब्द, कौप की आवाज,  
 Cawing भवि०

कुंभिणी स्त्री० जल का गर्त A pit of water दे० २,३८

कुभिल्ल पुं० (१) चोर, स्तेन A thief दे० २,६२, विक्र० १६, (२) पिशुन, दुर्जन. A wicked man दे० २,६२, (३)

त्रि० सोदने योग्य To be dug दे० २,३६

कुभी स्त्री० केश-रचना, केश-सयम Dressing of arranging the hair दे० २,३४

कुकुला स्त्री० नवोद्गा, दुलहिन A newly-married woman, A bride दे० २,३३

कुक्क पुं० कुक्ता, कुक्कुर A dog मृच्छ० ३६

कुक्कयय न० आभरण विशेष A kind of ornament सू० १,४,२,७

कुक्की स्त्री० कुक्ती, कुक्कुरी A bitch. मृच्छ० ३६

कुक्कुड त्रि० मत्त, उन्मत्त Mad दे० २, ३७

कुक्कुरड पुं० निकर, समूह A collection, A multitude दे० २,१३

कुक्कुहाइय न० चलते समय का श्रवण का शब्द विशेष A kind of sound produced by the body of a horse while going or running तदु० १३

कुच्छिल्ल न० (१) बाड का छिद्र An opening in a hedge दे० २,२४, (२) छिद्र, विवर A hole पात्र०

कुट्ट पुं० न० (१) कोट, किला A fort, A castle सुपा० १०३, (२) नगर, शहर A city सुर० १५,८१

कुट्टयरी स्त्री० चण्डी, पार्वती Parvati, Goddess Durga. दे० २,३७

कुट्टवाल पुं० कोतवाल, नगररक्षक A police-magistrate सुर० १५,८१

कुट्टा स्त्री० गौरी, पार्वती Gau11, Parvati दे० २,३५

कुट्टाय पुं० चर्मकार, मोची A shoemaker दे० २,३७

कुडय न० लतागृह, लता से आच्छादित घर, कुटीर A bowel surrounded with creepers, An arbour दे० २,३७

कुडिअ त्रि० कुब्ज, वामन Dwarfish, Hump-backed पात्र०

कुडिआ स्त्री० बाड का विवर An opening of a hedge दे० २,२४

कुडिच्छ न० (१) बाड का छिद्र An opening of a hedge (२) कुटी, झोंपडा A cottage, A hut (३) त्रि० नुदित, छिन्न Cut, Broken, Rent दे० २,६४

कुडिल्ल न० (१) छिद्र, विवर A hole पात्र० (२) त्रि० कुब्ज, कूबडा Dwarfish, Hump-backed पात्र०

कुडीर न० बाड का छिद्र An opening of a hedge दे० २,२४

कुडुग पुं० लतागृह, लताओं से ढका हुआ घर A bowel surrounded with creepers, An arbour पद्० गा० १७५,२३२

कुडुवीअ न० सुरत, सभोग, मैथुन Sexual inter-course, Coition पद्०

कुडुभग पुं० जल-मण्डूक, पानी का मेंढक A frog तिसी० चू० १

कुडुक्क पुं० लतागृह An arbour पद्०

कुडुच्चिय न० सुरत, सभोग, मैथुन Sexual inter-course, Copulation दे० २,४१

कुडु न० आश्चर्य, कौतुक, कुतूहल What excites curiosity दे० २, ३३, पात्र० पद्० हे० २, १७४

कुडुगिलोई स्त्री० गृह-गोधा, छिपकली A

kind of animal दे० २, १६  
 कुहाल न हलका उपला विस्तृत अश A  
 particular part of a plough उवा०  
 कुड पु० न० (१) चुरायी हुई वस्तु की खोज  
 में जाना Searching for stolen  
 things दे० २, ६२, सुपा० ५०३ (२)  
 छीनी हुई चीज को छुड़ाने वाला, वापिस  
 लेने वाला One who brings back  
 the stolen things दे० २, ६२  
 कुदावय न० अनुगमन, पीछे जाना Follow-  
 ing विशेष० १४३६ टी  
 कुदिय त्रि० जिसके माल की चोरी हो गई  
 हो वह One whose property is  
 stolen सुख० २, २१, (२) कूढ, मूर्ख,  
 बेसमझ Foolish, Stupid सुर० ३, १४२  
 कुणियात्री स्त्री० वृत्ति-विवर, बाढ़ का छिद्र  
 An opening of a hedge दे० २, २४  
 कुतत्ती स्त्री० मनोरथ, वाञ्छा A wish,  
 A desire दे० २, ३६  
 कुत्त पु० (१) कुत्ता, कुर्कर A dog रभा०  
 (२) न० ठेका, इजारा A contract,  
 Monopoly विवा० १, १  
 कुत्तिय पु० स्त्री० एक जात का कौडा, चतुरिन्द्रिय  
 जन्तु विशेष A living being having  
 four senses आप० १७, पभा० ४१  
 कुत्ती स्त्री० कुत्ती, कुकुरी A bitch रभा०  
 कुत्थर न० (१) विज्ञान Science,  
 Knowledge दे० २, १३, (२) कोटर, वृक्ष  
 की पोल The hollow of a tree सुपा०  
 २४६, (३) सर्प वगैर का बिल The hole  
 of a serpent etc उप० ३२७ टी  
 कुत्थुहवत्थ न० नीवी, नारा, इजारबन्द A  
 cotton cord tied to a woman's  
 lower garment दे० २, ३८  
 कुद् त्रि० प्रभूत, प्रचुर Much, Abundant  
 दे० २, ३४

कुदण पु० रासक, रासा A rope दे० २, ३८,  
 कुप्पट पु० (१) गृहाचार, घर का रिवाज.  
 Household custom or usage. (२)  
 समुदाचार, सदाचार Proper practice or  
 usage दे० २, ३६  
 कुप्पर न० (१) सदाचार Good morals  
 or conduct (२) नर्म, हासी, दहा A  
 joke, Jestung दे० २, ६४  
 कुब्बड त्रि० कूबड, कुब्ज, वामन Dwarfish,  
 Hump-backed आ० २७  
 कुमार पु० कुँआर का महीना, आश्विन मास  
 The month Asvina ग० २, १  
 कुमारी स्त्री० गौरी, पार्वती Gauri,  
 Parvati दे० २, ३१  
 कुमुली स्त्री० चुल्ही, चुल्हा A stove,  
 A hearth दे० २, ३६  
 कुम्भण त्रि० म्लान, शुष्क. Faded,  
 Withered दे० २, ४०  
 कुरुकुलित्र न० रथरथक, औत्सुक्य Ardent  
 desire, Eagerness. दे० २, ४२  
 कुरुचिल्ल पु० (१) जल-जन्तु विशेष, कुलीर  
 Living beings of water. (२)  
 न० ग्रहण, उपादान Taking, Accepting  
 दे० २, ४१  
 कुरुच त्रि० अनिष्ट, अप्रिय Unfavourable,  
 Disagreeable दे० २, ३६  
 कुरुड त्रि० (१) निर्दय, निष्ठुर Cruel,  
 Merciless दे० २, ६३, भवि० (२) निपुण,  
 चतुर Clever, Skilful दे० २, ६३, भवि०  
 कुरुण न० राजा का या दूसरे का धन Wealth  
 of a king or another राज०  
 कुरुल पु० (१) कुटिल केश, बक्र बाल Crook-  
 ed hair दे० २, ६३, भवि० (२) त्रि०  
 निर्दय Cruel, Merciless (३) चतुर,  
 निपुण Skilful, Dexterous दे० २, ६३  
 कुरुलित्र न० वायस का शब्द, कौष्ट की आवाज.  
 Cawing भवि०

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुरुविल्ल पुं० देखो 'कुरुचिल्ल' शब्द Vide 'कुरुचिल्ल' पाश्र्व०                                                                                                                     | कुहयी स्त्री० कूर्पर, हाथ का मध्य-भाग The elbow सुपा० ४१२                                                                                      |
| कुलफसरा पुं० कुल-फलक, कुलका दाग, कुल को अपकीर्ति Disgrace of a family दे० २, ४२, भवि०                                                                                              | कुहिआ त्रि० लिप्त, पोता हुआ Smeared दे० २, ३५                                                                                                  |
| कुलसतद् स्त्री० चुल्ही, चूल्हा A stove, A hearth दे० २, ६६                                                                                                                         | कुहिणी स्त्री० (१) कूर्पर, हाथ का मध्य भाग The elbow (२) रूपा, मोहल्ला A street, A lane दे० २, ६२                                              |
| कुलुक्किय त्रि० जला हुआ Bunt भवि०                                                                                                                                                  | कूयिआ त्रि० ईपद विकसित, थोडा खिला हुआ Partly blossomed दे० २, ४४                                                                               |
| कुल्ल पुं० (१) ग्रीवा, कंठ The neck (२) असमर्थ, यथाक Unable, Weak (३) झिल्ल-पुच्छ, जिसका पूँज कट गया हो वह Tailless, Having no tail दे० २, ६१ (४) पु० न० चूतड A buttock सुख० ८, १३ | कूरपिउड न० भोजन विशेष, खाद्य विशेष A kind of eatable आवम०                                                                                      |
| कुल्लड न० (१) चुल्ही, चूल्हा A stove, A hearth दे० २, ६३, (२) छोटा पात्र, पुडवा A small vessel दे० २, ६३, पाश्र्व०                                                                 | कूल न० सैन्य का पिछला भाग The rear of an army दे० २, ४३, से० १२, ६२                                                                            |
| कुल्लरिआ पुं० कान्दचिक, हलवाई, मिठाई बनाने वाला A confectioner, A sweetmeat-maker दे० २, ४१                                                                                        | कूल न० जवन वस्त्र A kind of garment दे० २, ४३                                                                                                  |
| कुल्लरिया स्त्री० हलवाई की दुकान The shop of a confectioner आवम०                                                                                                                   | कूसार पुं० गत्ताकार, खड्डा A ditch, A pit दे० २, ४४, पाश्र्व०                                                                                  |
| कुल्लुरी त्रि० खाद्य-विशेष A kind of eatable भव० ४.                                                                                                                                | केआ स्त्री० रज्जु, रस्सी A string दे० २, ४४                                                                                                    |
| कुल्ह पुं० श्यामल, सियार A jackal दे० २, ३४                                                                                                                                        | केआरवाण पु० वृक्ष-विशेष, पलाश का पेड़ The Palasa tree दे० २, ४५                                                                                |
| कुवणय न० लकड़, यष्टि, लकड़ी A stick राज०                                                                                                                                           | केड पु० कन्द, कादा A bulbous root दे० २, ४४                                                                                                    |
| कुवली स्त्री० वृक्ष-विशेष A kind of tree कुप्र० २, ४६                                                                                                                              | केऊरपुत्त पु० गौ तथा बैस का बच्चा A calf or a he-buffalo सचि० ४७                                                                               |
| कुसुमित पु० पिथुल, दुर्जन, चुगलीखोर A wicked man, A slanderer दे० २, ४०                                                                                                            | केलाइय त्रि० साफसुफ किया हुआ Cleansed कुमा०                                                                                                    |
| कुसुमाल पु० चोर, स्तेन A thief दे० २, १०                                                                                                                                           | केली (१) स्त्री० असती, कुलदा, व्यभिचारिणी स्त्री An unchaste woman, An adulteress दे० २, ४४ (२) कन्द-विशेष Name of a bulbous root उक्त० ३६, ६८ |
| कुसुमालिआ त्रि० शून्य-मनस्क, आन्त-चित्त Having perplexed mind दे० २, ४२                                                                                                            | कोइला स्त्री० कोयला, काष्ठ के अगार Coal दे० २, ४८                                                                                              |
| कुहड त्रि० कुब्ज, कूबडा Hump-backed दे० २, ३६                                                                                                                                      | कोउआ स्त्री० गोइडा का अग्नि, करीपाणि Fine of dry cow-dung दे० २, ४८, पाश्र्व०                                                                  |



कोडलिआ स्त्री० (१) श्वापद, जन्तु विशेष  
A kind of animal (२) कोडा, कीट  
A worm, An insect दे० २, ५०  
कोडिअ पु० ग्राम-निवासी लोगों में फूट  
करा कर छल से गाँव का मालिक बन बैठने  
वाला One who makes himself a  
chief of a village; deceitfully दे०  
२, ४८  
कोडुल्लु प० उलूक, उल्लू An owl  
दे० २, ४६  
कोक्किय त्रि० आहूत, बुलाया हुआ  
Called, Invited भविः  
कोच्चप्प न० अलीक-हित, झूठी भलाई,  
दीखावटीहित External sympathy  
दे० २, ४६  
कोच्चिय पु० स्त्री० शैचक, नया शिष्य A  
new pupil व० ६  
कोज्जप्प न० स्त्री रहस्य Secrets of a  
wife दे० २, ४६  
कोज्जरिअ त्रि० आपूरित, पूर्ण किया हुआ, भरा  
हुआ Filled, Made full व०  
कोज्ज्जरिअ त्रि० 'कोज्जरिअ' देखो 'कोज्जरिअ'  
शब्द Vide 'कोज्जरिअ' दे० २, ५०  
कोटु म पु० न० हाथ से आहत जल Water  
beaten by a hand पात्र०  
कोट्ट न० नगर, शहर A city दे० २, ४५  
कोट्टम न० हरे फलों को सुखाने का स्थान-  
विशेष A place for drying fresh  
fruits वृह० १  
कोट्टा स्त्री० (१) गौरी, पार्वती Gauṛī,  
Pārvatī दे० २, ३५, (२) गला, गर्दन The  
neck उप० ३३१  
कोट्टिव पु० द्रोणी, नौका, जहाज A ship,  
A boat दे० २, ४७  
कोट्टी स्त्री० (१) दोह, दोहन Milking  
(२) विषम स्वक्षणा Painful stumbling

दे० २, ६४  
कोट्टुंभ पु० न० हाथ से आहत जल  
Water thrown by hand दे० २, ४७  
कोडव न० कार्य, काम, काज A deed, An  
action दे० २, २  
कोडर न० कोटर, गह्वर, वृक्ष का पोला भाग,  
चिवर The hollow of a tree गा० १६२  
कोडल पु० पक्षि-विशेष Name of a  
bird राज०  
कोडिअ न० (१) छोटा मिट्टि का पात्र, लघु शराब  
A small earthen vessel दे० २, ४७, (२)  
पु० पिशुन, दुर्जन, जुगलीखोर A wicked  
man पद०  
कोडिल्ल पु० पिशुन, दुर्जन, जुगलीखोर A  
wicked man, A slanderer दे० २, ४०,  
४६  
कोडुंब न० कार्य, काज A work, An  
action दे० २, २  
कोडुमिअ न० रति-क्रीडा-विशेष A kind  
of sport or merriment कुमा०  
कोडुय त्रि० कुतुहली, कुतुकी, उत्कण्ठित  
One who excites curiosity  
उप० ७६८ टी  
कोण त्रि० (१) काला, श्याम वर्ण वाला  
Black, Dark दे० २, ४५, (२) पु० लकड़,  
लकड़ी, यष्टि A stick दे० २, ४५,  
निसी० चू० १, पात्र०  
कोणाली स्त्री० गोष्ठी, गोठ Conversation,  
Discourse वृह० १  
कोणु स्त्री० लेला, रेखा A line, A streak  
दे० २, २६  
कोण्य पु० गृह-कोण, घर का एक भाग  
A corner of a house दे० २, ४५  
कोत्तलका स्त्री० दारू परोसने का भाण्ड, पात्र-  
विशेष A vessel for serving liquor.  
दे० २, १४

कोत्थर न० विज्ञान Science, Knowledge  
दे० २,१३.

कोहविद्या स्त्री० मातृवाहा, सुद्र कीट-विशेष A  
kind of insect or worm सुख० १८, ३५

कोप्प पु० अपराध, गुनाह An offence,  
A fault दे० २,४५

कोल. पु० ग्रीवा, नोक, गला The neck,  
Larynx दे० २,४५

कोलज्जा स्त्री० धान्य रखने का एक प्रकार का  
गर्त A ditch for keeping coins  
ग्राया० २,१,७

कोलित्र पु० (१) कोली, तन्तुवाय, कपडा  
बुनने वाला A weaver उप० पृ० २१०,  
दे० २,६५, नदी० प्रव० २, (२) जाल का कीड़ा,  
मकड़ा A spider, A cob-web  
दे० २,२५, पात्र० श्रा० २०, आव० ४,  
बृह० १ (३) पु० एक अधम मनुष्य जाति  
A particular low caste of men  
सुख० २,१५

कोलित्र न० उल्मुक, लुका A fire brand,  
A torch दे० २,४६

कोलीर न० लाल रंग का एक पदार्थ, कुसुविन्द  
An object of red colour दे० २,४६

कोल्ल पु० न० कोयला, जली हुई लकड़ी का  
टुकड़ा Coal निसी० चू० १

कोल्लर पु० पिठर, स्थाली A pot, A  
pan दे० २,४७

कोल्लुग पु० 'कोल्हुअ' देखो 'कोल्हुअ' शब्द

Vide 'कोल्हुअ' वच० १, बृह० १

कोल्हाहल न० फल विशेष, बिम्बी-फल A  
kind of fruit दे० २,२६

कोल्हुअ पु० (१) शृगाल, सियार A jackal  
दे० २६५, पात्र० पठम० ७,१७, १०५, ४२,

(२) कोल्हु, चरखी A machine for  
squeezing sugar canes दे० २६५, महा०

कोवित्रा. स्त्री० शृगाली, स्त्री-सियार A female  
jackal दे० २,४६

कोस पु० (१) कुसुम्भ रंग से रक्त वस्त्र A red  
garment (२) समुद्र, जलधि A sea

दे० २,६५

कोसट्टइरिआ स्त्री० चर्डी, पार्वती, गौरी  
Parvati, Goddess Durga दे० २,३५

कोसल न० नीवी, नारा, इजारबन्द, A cotton  
cord for tying a woman's lower  
garment दे० २,३८

कोसलिअ न० प्राभृत, भेंट, उपहार A  
present, A reward दे० २,१२, सण०

कोसलिआ स्त्री० 'कोसलिअ' देखो 'कोसलिअ'  
शब्द Vide 'कोसलिअ' दे० २,१२

कोसल न० प्राभृत, भेंट, उपहार A reward  
महा०

कोसलिअ न० भेंट, उपहार A gift, A  
present दे० २,१२, महा० सुपा० ४१३,  
५२७, सण०

कोहल्ली स्त्री० तापिका, तवा A pan दे०  
२,४६

## ख

खड्ग पु० हेवाक, स्वभाव Nature, Disposition वा० ४, ४

खडर त्रि० कलुषित Dirty, Muddy से० १, ४७, स० १७८

खडर पु० पलाश वृक्ष The palas tree ती० १३

खचिय त्रि० (१) खींचा हुआ. Pulled स० १७४, (२) वश में किया हुआ Subjected, Subdued सवि०

खजर पु० सूखा हुआ पेड़. A dry tree दे० २, ६८

खड न० (१) मुख, शिर, मस्तक The head (२) दारू का बरतन, मद्य-पात्र A wine-vessel दे० २६८

खडई स्त्री० असती, कुलटा An unchaste woman, An adulteress दे० २, ६७

खडिअ पु० (१) मागध, विरुद पाठक A bard or panegyrist (२) त्रि० अनिवार, निवारण करने को अशक्य Prevented Incapable of being दे० २, ७८

खडिआ स्त्री० नाप विशेष, बीस मन का नाप A weight of twenty maunds स० २४

खडुअ न० बाहु-वलय, हाथ का आभूषण विशेष An ornament for hand मृच्छ० १८१

खधमस पु० हाथ, भुजा, बाहु The arm दे० २, ७१

खधमसी स्त्री० स्कन्ध-यष्टि, हाथ The arm षड्०

खधलट्टि स्त्री० स्कन्धयष्टि, हाथ, भुजा The arm or hand षड्०

खधीधार पु० बहुत गरम पानी की धारा A stream of very warm water दे० २, ७२

खकरग. पु० न० सूखी हुई रोटी A dry cake

धर्म० २

खगिअ पु० ग्रामेश, गाँव का मुखिया The chief of a village दे० २, ६६

खग्गूड त्रि० (१) निद्रालु Sleepy, Drowsy (२) रस-लम्पट Addicted to tastes बृह० १

खञ्जल पु० ऋक्ष, भल्लूक, मालू A bear दे० २, ६६

खञ्जोल पु० व्याघ्र, शेर A tiger दे० २, ६६

खञ्जिअ त्रि० (१) जीर्ण, सड़ा हुआ Worn out, Decayed (२) उपालब्ध, जिसको उलहना दिया गया हो वह Abused, Taunted दे० २, ७८

खञ्जोअ पु० नक्षत्र. A constellation. दे० २, ६६

खट्ट न० तीमन, कढ़ी An Indian soup, Curry दे० २, ६७

खट्टिअ-खट्टिक खटीक, शौनिक, कसाई A butcher, A slaughterer गा० ६८२, सूय० २, २, दे० २, ७०

खड पु० (१) एक म्लेच्छ जाति A non-Aryan tribe मृच्छ० ११२, (२) न० नृण, घास Grass दे० २, ६७, कुमा०

खडइअ त्रि० सङ्कचित, सकोच-प्राप्त Contracted, Abridged दे० २, ७२

खडकिआ-खडक्की स्त्री० खिडकी, छोटा द्वार A small door कल्प० महा० दे० २, ७१.

खडखडग त्रि० छोटा और लम्बा Small and long राज०

खडट्टोबिल पु० एक म्लेच्छ जाति A non-Aryan tribe मृच्छ० ११२

खडणा स्त्री० गैया, गौ A cow गा० ६३६

खडहडी स्त्री० जन्तु-विशेष, गिलहरी, गिल्ली Squirrel, A kind of insect, दे० २, ७२.

खडिअ पु० द्वात, स्याही का पात्र An inkstand धर्मवि० १७  
 खडुआ स्त्री० मोक्षिक, मोती A pearl दे० २, ६८  
 खडुक्-खडुग पु० स्त्री० मुँड सिर पर उँगली का आघात Stroking a clean-shaved head by fingers वच० १  
 खडु-खडुग न० (१) रमशु, दाढ़ी-मूँछ The beard दे० २, ६६, पात्र० (२) त्रि० बडा, महान् Great विशेष० २५७६ टो०  
 खड्डा स्त्री० (१) खनि, आकर A mine दे० २, ६६, (२) पर्वत का खात, पर्वत का गर्त A valley, A precipice दे० २, ६६  
 खड्डिअ त्रि० जिसका मर्दन किया गया हो वह Smeared कुमा०  
 खड्डोलय पु० खड्डा, गर्त, गढा A ditch, A pit सं० ३६३  
 खण्णुसा स्त्री० मन का दुःख, मानसिक पीडा Mental pain दे० २, ६८  
 खण्ण न० खात, खोदा हुआ Dug दे० २, ६६, वृह० ३, वच० १  
 खण्णुअ पु० कीलक, खोंटी A peg दे० २, ६८, गा० ६४, ४२२  
 खत्तय पु० (१) खेत खोदने वाला A digger of a field (२) सैध लगा कर चोरी करने वाला One that breaks into a house and steals by night भग० १२, ६  
 खत्ति पु० एक ग्लेच्छ जाति An Anarya tribe, A non-Aryan tribe गृच्छ० १२२  
 खट्ट त्रि० (१) भुक्त, भक्षित Eaten दे० २, ६७, सुगा० ६१०, उप० पृ० २५२, सण० भवि० (२) विशाल, बडा Vast, Great Spacious शोध० ३०७, श० ३, ४  
 खन्न न० खात, खोदा हुआ Dug up, Excavated - पात्र०

खन्नुअ पु० कीलक, खोंटी A wedge or pin पात्र०  
 खणुसा स्त्री० एक प्रकार का जूता A kind of shoe वृह० ३  
 खप्पर-खप्पुर त्रि० रूत, रूखा, निष्ठुर Cruel, Unkind दे० २, ६६, पात्र०  
 खन्मक्खम पु० (१) सग्राम, लड़ाई A war, A battle (२) मन का दुःख Mental pain (३) परश्चात्ताप का नीसास A sigh of repentance दे० २, ७६  
 खयाल पु० न० बस-जात, बास का वन A forest of bamboos भवि०  
 खरसूया स्त्री० वनस्पति विशेष A kind of vegetable सवोध० ४४  
 खरड पु० हाथी की पीठ पर बिछाया जाता आस्तरण An elephant's housings, painted cloth (thrown on his back) भव० ८४  
 खरडिअ त्रि० (१) रूत, रुखा Rough, Not smooth or soft (२) भग्न, नष्ट Broken, Shattered. दे० २, ७६  
 खरण न० बबूल वगैर की कण्टक मय डाली The thorny branch of the Babul tree श० ४, ३  
 खरहिअ पु० पौत्र, पोता, पुत्र का पुत्र A grandson दे० २, ७२  
 खरिअ त्रि० भुक्त, भक्षित Eaten दे० २, ६७, भवि०  
 खरिआ स्त्री० नौकरानी, दासी A maid-servant शोध० ४३८  
 खरुल्ल त्रि० (१) कठिन, कडोर Hard, Harsh (२) स्थण्ड, विषम और ऊँचा Elevated and depressed, Unevenly raised दे० २, ७८  
 खल अ० पादपूर्ति में प्रयुक्त होता अव्यय An expletive particle प्राक्० ८१  
 खलइअ त्रि० रिक्त, खाली Empty दे० २, ७१


खलगडिअ त्रि० मत्त, उन्मत्त Mad दे० २, ६७  
 खलभलिय त्रि० कुब्ध, ह्योभ-भ्रात Agitated,  
 Disturbed भवि०  
 खली. स्त्री० तिल-पिण्डिका, तिल वगैर का  
 स्नेह-रहित चूर्ण The caky sediment of  
 sesamum after the oil is extracted.  
 दे० २, ६६, सुपा० ४१५, ४१६  
 खलुकिज्ज त्रि० (१) गलीबैल सम्बन्धी.  
 Relating to a strong but lazy bull  
 (२) उत्तराध्ययन सूत्र का इस नाम का एक  
 अध्यायन The twenty-seventh chapter  
 in the Utradhayayana Sutra  
 उत्त० २७  
 खल्ल न० (१) बाढ़ का छिद्र An opening  
 of a hedge (२) विलास Amorous  
 pastime, Diversion दे० २, ७७, (३)  
 खाली, रिक्त, An empty space, Vacuum.  
 उप० ७२८ टी, दे० १, ३८ (४) त्रि० निम्न-  
 मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह One  
 whose middle part is depressed  
 or low दे० १, ३८  
 खल्लइअ त्रि० (१) सकुचित, सकोच-युक्त  
 Contracted, Abridged (२) प्रहृष्ट, हर्ष-  
 युक्त Delighted दे० २, ७६, गडह०  
 खल्लग—य न० बैला A bag उप० १०३१ टी  
 खल्ला स्त्री० चर्म, चमड़ा Hide, Leather  
 दे० २, ६६; पाअ०  
 खल्लिरी स्त्री० सकेत A sign, A gesture  
 दे० २, ७०  
 खल्ली स्त्री० सिर का वह चमड़ा जिसमें केश  
 पैदा न होता हो Baldness on the head  
 आवन०  
 खल पुं० (१) वाम हस्त, बाया हाथ The  
 left hand (२) गदैन, रासभ A donkey,  
 An ass दे० २, ७७  
 खलडिअ त्रि० स्वक्षित, स्वक्षनाप्राप्त

Stumbled, Slipped दे० २, ७१  
 खवय पु० स्कन्ध, कंधा The shoulder  
 दे० २, ६७  
 खवलिअ त्रि० कुपित, क्रुद्ध Angry,  
 Wrathful दे० २, ७२  
 खव्व पुं० (१) वाम कर, बाँया हाथ The  
 left hand (२) रासभ, गधा. A donkey,  
 An ass. दे० २, ७७  
 खव्वुल. न० मुख, मुँह. The mouth.  
 दे० २, ६८  
 खसफसि त्रि० व्याकुल, अधीर Confused,  
 Excited—हूअ. त्रि० व्याकुल बना हुआ.  
 Confounded, Distracted हे० ४, ४२२.  
 खसिअ त्रि० खिसका हुआ Moved. सुपा०  
 २८१  
 खसु पुं० रोग-विशेष Itch, A kind of  
 disease सण०  
 खाइ अ० वाक्य की शोभा और पुनः अर्थ का  
 सूचक अव्यय A participle used for beau-  
 tifying a sentence and expressing  
 the meaning 'again' भग० ५, ४  
 खाडइअ त्रि० प्रतिफलित, प्रतिबिंबित Re-  
 flected, Mirrored दे० २, ७३  
 खाण पुं० एक म्लेच्छ-जाति. A non-Aryan  
 tribe मूच्छ० १५२  
 खारफिडी स्त्री० गोधा, गोह, जन्तु विशेष. A  
 kind of insect दे० २, ७३  
 खारव न० मुकुल, कली The bud  
 दे० २, ७३  
 खारिक न० फल-विशेष, झोंकारा A dry  
 date सिरि० ११६६  
 खाल स्त्री० न० नाला, मोरो, अशुचि निकलने  
 का मार्ग A channel to carry off  
 water, A gutter अ० २, ३  
 खिखिया स्त्री० श्यामली, स्त्री-सियार A  
 female jackal दे० २, ७४.

- खिखिखड पु० कृकलास, गिरगिट, मरट A lizard, A chameleon दे० २, ७४
- खिखिखरी स्त्री० डोम वगैरह की स्पर्श रोकने की लकड़ी A kind of stick दे० २, ७३
- खिख पु० न० खीचड़ी, कूसरा A mixture of pulse and rice दे० १, १३४
- खिखिअ न० उपाखम्भ, उलहना, A reproach, A rebuke दे० २, ७४
- खित्तय न० (१) अनर्थ, तुकसान An injury, A loss (२) त्रि० दीप्त, प्रज्वलित Glowing, Flashing, Radiant दे० २, ७६
- खिल्ल पु० फोडा, फुन्सी A tumour तदु० ३८
- खुइय. त्रि० (१) विच्छिन्न Broken, Severed (२) विध्यात, शांत Calm, Quiet कुप्र० १४०
- खुखुण्य. पु० नाक का छिद्र A hole of the nose, A nostril, दे० २, ७६, पात्र०
- खुंखुणी स्त्री० रथ्या, मुहल्ला A street, A lane दे० २, ७६
- खुगाह पु० अश्व की एक उत्तम जाति A kind of noble horse सम्मत्त० २१६
- खुट पु० खूट, खूटी A peg, A nail -मोडय त्रि० (१) खूटे को मोडने वाला, उससे छूट कर भाग जाने वाला One that breaks away a nail (२) पु० इस नाम का एक हाथी Name of an elephant नाट-सूत्र० ८४
- खुंडय त्रि० रललित, रललता प्राप्त Stumbled, Slipped दे० २, ७१
- खुंपा. स्त्री० वृष्टि को रोकने के लिए बनाया जाता एक वृषणमय उपकरण A covering made of grass for sheltering from rain दे० २, ७२
- खुट्ट त्रि० तुटित, खरिदत, छिन्न. Broken,
- Cut दे० २, ७४, भवि०
- खुडुकिअ त्रि० (१) शल्य की तरह खुसा हुआ, पटका हुआ Pierced like a thorn उप० ३१५, (२) रोप मूक, गुस्सा में मौन धारण करने वाला Observer of a vow of silence wrathfully, Keeping silence while in an angry mood गा० २२६
- खुडुमड्डा अ० (१) बहु, अत्यन्त Much, Excessive (२) फिर फिर Again and again निसी० चू० २०
- खुडिअ न० सुरत, मैथुन, समोग Coition, Sexual union दे० २, ७५
- खुगुक्खुडिआ स्त्री० घ्राण, नाक, नासिका The nose दे० २, ७६
- खुण्ण त्रि० परिवेष्टित Surrounded, Encircled दे० २, ७२
- खुरहखुडी स्त्री० प्रणय, कोप Feigned anger of a mistress towards her lover, Coquettish anger पद०
- खुरडुक्खुडी स्त्री० प्रणय-कोप Coquettish anger दे० २, ७६
- खुल न० वह गाँव जहाँ साधुओं को भिचा कम मिलती हो या भिचा में घृत आदि न मिलता हो A village where saints get little begging चव० १
- खुलुह पु० गुल्फ, पैर की गॉठ, फीली The ankle दे० २, ७२, पात्र०
- खुल्ल न० कुटी, कुटीर A cottage, A hut दे० २, ७४
- खुल्लासय पु० खलासी, जहाज का कर्मचारी विशेष A sailor, A sea-man सिरि० ३८५
- खुल्लिरी स्त्री० स्केत A sign, A gesture दे० २, ७०
- खुवय पु० वृष-विशेष, कण्टकित-वृष A kind of grass दे० २, ७५

खुन्वय पु० पत्ते का पुडवा A leaf-cup  
नव० २  
खेत्रालु त्रि० (१) नि सह, मन्द, आलसी  
Idle, Lazy, Dull (२) असहिष्णु,  
ईर्षालु Envious, Impatient दे० २, ७७  
खेडिअ त्रि० हल से विदारित Cultivated  
with a plough दे० १, १३६  
खेडिया स्त्री० वारी, दफा A turn स० ४८१  
खेर. पु० एक ग्लेच्छ जाति A particular  
anarya (non-Aryan) tribe मृच्छ०  
१५२  
खेरि स्त्री० (१) परिशादन, नाश Destru-  
ction, Ruin बृह० २, (२) खेद, उद्वेग  
Sorrow, Grief (३) उत्कठा, उत्सुकता  
Ardent desire, Eagerness मवि०  
खेल पु० जहाज का कर्मचारी विशेष, कप्तान  
A sailor, A sea-man सिरि० ३८५  
खेल्लिअ न० हसित, हासी, ठहा A joke,  
A jesting दे० २, ७६  
खेह पु० न० धूली, रज Dust सुर०  
११, १७१  
खौडग—य पु० खंटी, खूटा A nail, A  
peg उप० २७८, स० २६३  
खौज्ज पु० न० मार्ग-चिह्न. A sign for the  
way सचि० ४७  
खोटी स्त्री० दासी, चाकरानी A maid-

servant दे० २, ७७  
खोड त्रि० (१) धार्मिक, धर्मिष्ठ, Righteous,  
Virtuous दे० २, ८०, (२) खज, लगडा  
Crippled, Lame दे० २, ८०, पिग०  
(३) पु० शृंगाल, सियार A jackal मृच्छ०  
१८३, (४) प्रमाज्जन, प्रस्फोटन Wiping off,  
Rubbing or washing off औघ० २६५,  
(५) न० राजकुल में देने योग्य सुवर्ण वगैर. द्रव्य  
Gold etc proper to be given to a  
royal family वव० १  
खोडपज्जालि पु० स्थूल काष्ठ की अग्नि,  
Fire of big wood दे० २, ७०  
खोडय त्रि० विच्छेदित Out asunder,  
Broken सुख० २, १५  
खोडी स्त्री० काष्ठ की एक प्रकार की पेटी A  
kind of wooden box महा०  
खोल पु० (१) छोटा गधा A small  
donkey दे० २, ८०, (२) वस्त्र का एक देश  
A particular part of a garment  
दे० २, ८०, ५, ३० बृह० १  
खोल्ल न० कोटर, गह्वर The hollow of  
a tree निसी० चू० १५  
खोसल्लय त्रि० वन्तुर, लम्बे और बाहर निकले  
हुए दाँत वाला. Having long or project-  
ing teeth दे० २, ७७



ग

गगली स्त्री० मौन, चुप्पी Silence,  
Taciturnity सुपा० २७८, ४८७  
गङ्ग-गङ्गय पु० बरुड, इस नाम की एक ग्लेच्छ  
जाति Name of a non-Aryan tribe  
दे० २, ८४  
गज पु० गाल A cheek दे० २, ८१

गजिल्ल त्रि० (१) वियोग प्राप्त, वियुक्त  
Separated (२) भ्रान्त चित्त, पागल Mad  
दे० २, ८३  
गजुल्लिय त्रि० रोमाञ्चित, पुलकित Having  
the hairs of the body erect, Thrill-  
ed with joy जय० १२

गजोल त्रि० समाकुल, व्याकुल Confound-  
ed, Perplexed पद०

गजोल्लिञ्च त्रि० (१) रोमाञ्चित, जिसके रोम  
खड़े हुए हों वह Having the hairs of  
the body erect दे० २, १००, भवि०  
(२) न० हँसाने के लिए किया जाता अग-स्पर्श,  
गुद-गुदी Tickling. दे० २, १००

गड पु० (१) वन, जगल A forest of  
jungle (२) दायदपाशिक, कोटवाल A  
police magistrate (३) छोटा मृग A  
small deer दे० २, १११, (४) नापित, नाई  
A barber दे० २, १११, आया० (५) न०  
गुच्छ-समूह A bunch महा०

गडली स्त्री० गढेरी, ऊल का टुकड़ा A piece  
of peeled sugarcane उप० पृ० १०६.

गढीरी स्त्री० गयढेरी, ऊल का टुकड़ा  
A piece of peeled sugarcane दे० २, ८२

गदीणी स्त्री० क्रीडा-विशेष A kind of  
sport or pleasure दे० २, ८३

गधपिसाय पु० गन्धिक, पसारी A grocer  
दे० २, ८७

गधलया, स्त्री० नासिका, घ्राण The nose  
दे० २, ८५

गधिञ्च त्रि० दुर्गन्ध, खराब गन्ध वाला  
Bad-smelling दे० २, ८३

गधिल्ली स्त्री० छाया, छाहीं Shade,  
Shadow उप० १०३१ थी

गधेल्ली स्त्री० छाया, छाहीं Shade,  
Shadow (२) मधु-मच्छिका The honey-  
fly, A bee दे० २, १००

गधोल्ली स्त्री० इच्छा, अभिलाषा A desire,  
A wish. (२) रजनी, रात A night  
दे० २, ११६

गज्ज. पु० जव, यव, अन्न-विशेष Bailey दे०  
२, ८१, पात्र०

जल्लिञ्च न० (१) गुदगुदी, गुदगुदाहट

Tickling (२) अग स्पर्श से होने वाला रोमाच,  
पुलक Erection of bustling of the  
hairs of the body पद०

गट्टिया स्त्री० गटिया, गुटली A fruit-  
stone निसी० चू० १५

गडयड पु० न० गर्जन, भयानक ध्वनि, हाथी वगैर  
की आवाज Roaring सुपा० २८१, ५४२

गडयडी स्त्री० मेघ-ध्वनि, वज्र निर्घोष, गडगड़  
आवाज, मेघ-ध्वनि Thunder दे० २, ८५,  
सण०

गडवड. न० गडवड़, गो Noise, An  
uproar सुपा० ५४१

गडुल न० चावल वगैर का धोवन जब  
Water obtained by rinsing rice  
धर्म० २

गडु न० शकट, गाडी A cart ती० १५

गडुरिगा-गडुरिया स्त्री० भेडी, मेघी, ऊर्णाथु  
A ewe धम्म० सूय० १, ३, ४.

गडुरी स्त्री० (१) छागी, अजा, बकरी A she-  
goat दे० २, ८४ (२) भेडी, मेघी A ewe  
सहि० ३८

गडु न० शय्या, विछौना A bed दे० २, ८१

गणसम त्रि० गोष्ठी-रत्न, गोठ में लीन En-  
gaged in discourse. दे० २, ८६

गणायमह पु० विवाह-गणक An astro-  
loger of marriage दे० २, ८६

गत्त न० (१) ईया, चौपाई की लकड़ी विशेष  
The pole of a bedstead (२) पक, कर्दम  
Mud, Mire दे० २, ११६, (३) त्रि० गत्त, गया  
हुआ Gone पद०

गत्ताडी स्त्री० (१) गवादनी, वनस्पति विशेष,  
A kind of vegetable दे० २, ८२,  
(२) गायिका, गाने वाली स्त्री A female  
singer पद० दे० २, ८२

गह्वम् पु० कटु-ध्वनि, कर्ण-कटु आवाज A  
word unpleasant to the ear दे०  
२, ८२, पात्र० स० १११, २००



गह्व न० कुमुद, चन्द्र-विकासी-कमल The white water-lily said to open at moon-rise दे० २,८५

गहिअ त्रि० गर्वित, गर्व-युक्त Alligant, Proud दे० २,८३

गभिज्ज पुं० जहाज का निम्न-श्रेणिस्य नौकर An ordinary ship-servant नाया० १,८.

गमार त्रि० अविदग्ध, मूर्ख Foolish, Rude संचि० ४७.

गमिद् त्रि० (१) अपूर्ण Incomplete, Imperfect (२) गूढ़ Hidden, Concealed. (३) स्तलित Stumbled, Shipped षट्०

गय त्रि० घूर्णित, अमित, घुमाया गया Moved to and fro, Turned round दे० २,६६, षट्० (२) मृत, मरा हुआ, निर्जीव Dead, Lifeless दे० २,६६

गयगार्द् पुं० मेघ, मेह, बादल A cloud दे० २,८८

गयसाडल-गयसाडल्ल त्रि० विरक्त, वैरागी. Free from passion or worldly attachment, Indifferent दे० २,८७, षट्०

गलत्थण न० (१) छेपण, फेंकना Throwing (२) प्रेरण, Urging on, Impelling. से० ५,५३ सुपा० २८.

गलत्थलिअ त्रि० (१) चिस, फेंका हुआ. Thrown (२) प्रेरित Instigated, Impelled दे० २,८७

गलत्थल्ल पु० गलहस्त, हाथ से गला पकड़ना Seizing by the throat, Throttling, Collaring. नाया० १,६, पयह० १,३

गलत्थलिअ त्रि० देखो 'गलत्थलिअ' शब्द Vide 'गलत्थलिअ' से० ५,५३, ८,६१

गलत्था स्त्री० प्रेरण Instigation, Impelling उप० ७२८ टी

गलत्थिअ त्रि० (१) प्रेरित Instigated, Impelled. सुपा० ६३५, (२) फेंका हुआ. Tossed from the palm into the mouth दे० २,८७, कुमा० (३) बाहर निकाला हुआ Excluded from, Driven out of पाञ्च०

गलद्वअ पुं० प्रेरित, चिस Thrown, Cast षट्०

गलिअ त्रि० स्मृत, याद किया हुआ. Remembered दे० २,८१

गल्लक पुं० न० स्फटिक मणि A crystal stone प्राप० पि० २,६६

गल्लप्फोड पुं० डमरुक, वाघ-विशेष A sort of small drum, shaped like an hour-glass दे० २,८६

गल्लुरण न० मास खाते हुए कुपित शेर की गर्जना Roaring of a wrathful lion while eating meat माल० ६०

गल्लोल्ल न० गडुक, पात्र-विशेष A kind of vessel A golden vase निसी० चू० १

गवच्छ पुं० आच्छादन, A cover, A lid राय०

गवच्छिय त्रि० आच्छादित, ढका हुआ Covered, Concealed राय० जीव० ३

गवर पु० वनस्पति-विशेष A kind of vegetable पञ्च० १

गवार त्रि० गवार, छोटे गाँव का निवासी Unmannerly, Rude वजा० ४.

गविअ त्रि० अवश्यत, निश्चित Determined, Ascertained षट्०

गविल न० जात्य-चोनी, शुद्ध मिश्री. Pure sugar उर० ५,६

गह्वण न० (१) निर्जल स्थान, जल रहित प्रदेश. A waterless region दे० २,८२, आया० २,३,३, (२) बन्धक, धरोहर, गिराँ A pledge or deposit सुपा० ५४८

गहणी स्त्री० जबरदस्ती हरण की हुई स्त्री, बादी  
A woman, forcibly brought दे०  
२, ८४, से० ६, ४७,

गहवइ पु० (१) ग्रामीण, गाव का रहने वाला  
A villager दे० २, १००, (२) चन्द्रमा, चाँद  
The moon दे० २, १०० पात्र०

गहिअ त्रि० वक्रित, मोड़ा हुआ, टेढ़ा किया  
हुआ. Bent, Crooked दे० २, ८५

गहिआ स्त्री० काम-भोग के लिए जिसकी प्रार्थना  
की जाती हो वह स्त्री A woman asked  
for coition दे० १, ८५, (२) ग्रहण करने  
योग्य स्त्री A woman worth accepting  
पद०

गहीरिम. पु० स्त्री० गहराई, गभीरता  
Deepness, Depth हे० ४, ४१६

गागेज्ज त्रि० मथित, आलोकित Churned  
दे० २, ८८

गागेज्जा स्त्री० नवोदा, दुलहिन A bride,  
A youthful woman दे० २, ८८

गाडिअ त्रि० विधुर, वियुक्त Separated  
from दे० २, ८३

गाणी स्त्री० गवाहनी, वनस्पति-विशेष, इन्द्र-  
वारुणी A kind of vegetable दे० २, ८२

गामउड-गामऊड पु० गाँव का मुखिया The  
chief of a village दे० २, ८६, वृह० ३.

गामगोह पु० गाँव का मुखी The chief  
of a village दे० २, ८६

गामणह न० ग्राम-स्थान, ग्राम-प्रदेश A  
region of villagers, Village area  
पद०

गामणिसुअ पु० गाँव का मुखिया The  
chief of a village दे० २, ८६

गामणी पु० गाँव का मुखिया The head  
of a village दे० २, ८६, ग्रामा०

गामपिडोलग. पु० भीख से पेट भरने के लिए

गाँव का आश्रय लेने वाला भिखारी A beggar  
living in a village for begging  
आया०

गामरोड पु० झल से गाँव का मुखिया बन  
बैठने वाला, गाँव के लोगों में फूट उत्पन्न कर  
गाँव का मालिक होने वाला One who  
makes himself the chief of a village  
decentfully दे० २, ६०

गामहण न० (१) ग्राम-स्थान, गाव का प्रदेश  
The region of villagers Village  
area दे० २, ६० (२) छोटा गाव A small  
village, A hamlet पात्र

गामार त्रि० ग्रामीण, छोटे गाव का रहने वाला  
A villager of a hamlet वज्जा० ४

गामेइया स्त्री० गाव की रहनेवाली स्त्री, गवार स्त्री  
A female villager गउड०

गामेणी स्त्री० झगी, अजा, बकरी A she-  
goat दे० २, ८४

गामेरेड पु० देखो 'गामरोड' शब्द Vide  
'गामरोड' पद०

गामेस पु० ग्रामेश गाव का अधिपति A  
superintendent of a village दे० २,  
३७

गायरी स्त्री० गगरी, कलशी, छोटा घड़ा A  
small pot. दे० २, ८६

गालवाहिया स्त्री० छोटी नौका, डोंगी A small  
boat स० ३२१

गाहुलि. पु० स्त्री० ग्राह, नक्र A croco-  
dile, An alligator दे० २, ८६

गिडिया स्त्री० गेदी, गेंद खेलने की लकड़ी  
A play-stuck, A hockey-stuck प्रव० ३८

गिरि पु० बीज-कोश The seed vessel.  
दे० ६, १४८

गिरिडी स्त्री० पशुओं के दात को बाधने का  
उपकरण विशेष A particular means  
used to tie the teeth of animals  
सुपा० २३७

गिलोइया-गिलोइ स्त्री० गुह-गोपा, छिपकली  
 A lizard सुपा० ६२०, पुष्प० २५७  
 गुह्या स्त्री० (१) बिन्दु A dot. २, दादी-मूछ  
 Beard, Mustaches (३) अधम, नीच,  
 Vile, Mean, Wicked दे० २, १०१  
 गुजाविय त्रि० हसाया हुआ Caused to  
 laugh कुमा० ७, ४१  
 गुजेल्लिअ त्रि० पियडीकृत, इकट्ठा किया हुआ  
 Gathered, Collected दे० २, ६२  
 गुजोल्लिअ त्रि० उल्लसित, विकसित De-  
 lighted कुमा०  
 गुठ पु० अधम अरव, दुष्ट घोडा A vile  
 horse दे० २, ६१, स० ४५४, (२) त्रि०  
 मायावी कपटी Deceitful, Malicious  
 वच० ३.  
 गुठा स्त्री० माया, कपट, दम्भ, छल Deceit,  
 Fraud. वच ३.  
 गुठी स्त्री० नीरंगी, स्त्री का वस्त्र-विशेष A  
 particular [garment of a woman  
 दे० २, ६०  
 गुड न० मुस्ता से उत्पन्न होने वाला तृण विशेष  
 A kind of grass दे० २, ६१  
 गुद्वडय. न० एक जात की मीठाई A kind of  
 sweet meat सुपा० ४८५  
 गुदा-गुपा स्त्री० (१) बिन्दु A drop (२)  
 अधम, नीच Vile, Mean, दे० २, १०१  
 गुफ पु० गुफि, कारागार, जेल A jail, A  
 prison दे० २, ६०  
 गुफण न० गोफन, पत्थर फेंकने का अस्त्र-विशेष  
 A sling सुर० २, ८  
 गुफ्नी स्त्री० शतपदी, चुद्र-कीट-विशेष, गोजर,  
 कनखजूरा A centipede, An earwig  
 दे० २, ६१  
 गुज्जलिअ त्रि० सघटित Joined together,  
 United पङ्०  
 गुट्ट न० स्तम्भ, तृण-काण्ड A kind of

glass उवा०  
 गुडदालिअ पियडीकृत, इकट्ठा किया हुआ  
 Gathered, Collected दे० २, ६२  
 गुडोल्लिअ स्त्री० चुम्बन A kiss दे०  
 २, ६१.  
 गुडुर पु० न० खीमा, डेरा, वस्त्र-गृह. A tent,  
 A pavilion. सिरि० ४०२, ६४४  
 गुणा स्त्री० मिष्ठान-विशेष A kind of  
 sweet-meat भवि०  
 गुत्तएहाण न० पितृ-तर्पण An oblation  
 to the Manes दे, २, ६३.  
 गुत्ति. स्त्री० (१) बन्धन. A bond, A tie  
 दे० २, १०१, भवि० (२) इच्छा, अभिलाषा  
 A wish, A desire. (३) वचन, आवाज  
 A word, voice (४) लता, वस्ती A  
 creeper. (५) सिर पर पहनी जाती फूल  
 की माला A garland of flowers  
 for the head दे० २, १०१  
 गुत्थड पु० मास पक्षी, पक्षि विशेष Name  
 of a bird दे० २, ६२  
 गुप्पत न० (१) शयनीय, शय्या A bed  
 (२) त्रि० गोपित, रक्षित Protected दे० २,  
 १०२, (३) संमूढ, सुग्ध, घबडाया हुआ, व्याकुल  
 Bewildered, Confounded दे० २,  
 १०२, से० १, २, २, ४.  
 गुफगुमिअ त्रि० सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त  
 Fragrance, Perfumery दे० २, ६३  
 गुमिअ त्रि० (१) मूढ, सुग्ध Stupefied,  
 Infatuated (२) गहन, गहरा. Deep  
 (३) प्रसलित Stumbled, Slipped  
 (४) आपूर्ण, भरपूर Filled, Full of  
 दे० २, १०२  
 गुम्भइअ. त्रि० (१) अपूरित, पूर्ण नहीं किया  
 हुआ पङ्० Incomplete (२) पूरित, पूर्ण  
 किया हुआ Completed, Finished  
 दे० २, १०३, (३) स्तलित Stumbled,  
 Slipped

- (४) सचलित, मूल से उच्चलित Shaken by the root (५) विघरित, वियुक्त Separated, दे० २, १०३, पद०
- गुम्भडिअ त्रि० मोह-युक्त, मुग्ध किया हुआ Stupefied, Infatuated कुमा० ७, ४७
- गुम्भिअ त्रि० मूल से उखाड़ा हुआ, उन्मूलित Uprooted, Eradicated दे० २, ६२
- गुम्मी स्त्री० इच्छा, अभिलाषा A wish, A desire दे० २, ६०
- गुल न० चुम्बन A kiss दे० २, ६१
- गुलिअ त्रि० (१) मथित, विलोडित Churned दे० २, १०३, पद० (२) पुं० गेंद, कन्दुक, A ball. पात्र०
- गुलिआ स्त्री० (१) गेंद, कन्दुक A ball (२) स्तवक, गुच्छा A bunch, A cluster दे० २, १०३
- गुलुइय त्रि० गुल्मित, गुल्म वाला, लता समूह वाला Having a clump of trees or creepers श्रव० भग०
- गुलुगुलिअ त्रि० ऊचा किया हुआ, उन्नामित Raised, Uplifted, दे० २, ६३, कुमा० (२) बाड़ से अन्तरित, Surrounded by a hedge दे० २, ६३
- गुलुच्छ त्रि० अमित, घुमाया हुआ, फिराया हुआ Turned round दे० २, ६२
- गेंठुअ न० स्तनों के ऊपर की वस्त्र ग्रन्थि The knot of a cloth on mammary glands दे० २, ६३
- गेंठुल्ल न० कन्दुक, चोली A bodice, A jacket दे० २, ६४
- गेंठुई स्त्री० क्रीडा, खेल, गम्मत A play, A sport दे० २, ६४
- गेवज त्रि० मथित, विलोडित Churned दे० २, ६८
- गेवजल न० ग्रीवा का आभरण An ornament of the neck दे० २, ६४
- गेडण न० (१) फेंकना, चेषण Throwing (२) दे देना Giving उप० १४८ टी
- गेडू न० (१) पक, कीच, कादा Mud, Mire (२) यव, अन्न विशेष Bailey दे० २, १०४
- गेड्डी स्त्री० गेडी, गेंद खेलने की लकड़ी Play-stick, A hockey-stick कुमा०
- गेरिहअ न० उर-सूत्र, स्तनाच्छादक वस्त्र A garment for covering breast दे० २, ६४
- गोअट पु० गौ का चरण The leg of a cow दे० २, ६८
- गोअरगा स्त्री० रफ्या, गली A street, A lane दे० २, ६६
- गोअरला स्त्री० दूध बेचने वाली A milk-maid दे० २, ६८
- गोआ स्त्री० गगरी, कलशी, छोटा घड़ा A vessel for holding water दे० २, ८६
- गोआलिआ स्त्री० वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला कीट विशेष An insect living in rainy season दे० २, ६८
- गोंजी-गोंठी स्त्री० मञ्जरी, बौर A cluster of blossoms दे० २, ६४
- गोंड न० कानन, वन A forest, A jungle दे० २, ६४
- गोंडी स्त्री० मञ्जरी, बौर A cluster of blossoms दे० २, ६४
- गोंदीण न० मयूर-पित्त, मोर का पित्त Bile of a peacock दे० २, ६०
- गोच्चय पु० प्राजन-दण्ड, कोड़ा A whip, A goad दे० २, ६७
- गोच्छड न० गोमय, गो-विष्टा Cowdung. मृच्छ० ३४
- गोच्छा स्त्री० मञ्जरी, बौर A cluster of blossoms दे० २, ६४


गोब्ज पु० (१) शारीरिक दोष वाला बैल  
An ox having bodily defects  
सुपा० २८१, (२) गाने वाला, गवैया, गायक  
A songster, A singer पउम० ८५,  
१६  
गोड. पु० गोड, पाद, पैर A leg. नाट०  
मृच्छ० १२८  
गोण पु० साक्षी A witness दे०  
२, १०४  
गोणत्त-गोणत्तय. पु० न० वैद्य का औजार रखने  
का बैल. A bag for keeping medical  
instruments उप० ३१७, स० ४८४  
गोणा. स्त्री० गैया, गौ A cow षड्०  
गोणिक पु० गो-समूह, गौओं का समूह  
A herd of cows दे० २, १७, पात्र०  
गोणिय. त्रि० गौओं का व्यापारी A mer-  
chant of cows वव० १  
गोतिहायी स्त्री० गो-वत्सा, गौकी बछड़ी.  
A heifer तदु० ३२.  
गोफणा. स्त्री० गोफन, पत्थर फेंकने का अस्त्र विशेष  
A sling राज०  
गोमहा स्त्री० रथ्या, गली A street,  
A lane दे० २, १६  
गोमी स्त्री० कनखजुरा, श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष  
A centipede, An ear-wig. जी० १६  
गोय न० उदुम्बर वगैर का फल The fruit  
of the Udumber tree आव० ६  
गोरंफिडी स्त्री० गोघा, गोह, जन्तु विशेष  
A lizard दे० २, १८  
गोरदित त्रि० लस्त, ध्वस्त Slipped षड्०  
गोरा स्त्री० (१) लाङ्गल-पद्धति, हल-रेखा  
A furrow, A wrinkle (२) चञ्चु  
An eye (३) ग्रीवा, डोक The neck.  
दे० २, १०४  
गोल पु० (१) साक्षी A witness दे० २,  
१५, (२) निष्ठुरता, कठोरता. Cruelty,

दस० ७

गोला स्त्री० (१) गौ, गैया A cow  
दे० २, १०४, पात्र० (२) नदी A river  
(३) सखी, सहेली, संगिनी A female  
friend. दे० २, १०४, (४) गोदावरी नदी.  
The river Godavari. दे० २, १०४;  
गा० ५८; १७५, हेका० २६७, पि० ८५,  
१६४  
गोलिया स्त्री० (१) गोली, गुटिका A pill.  
राय० अणुजो० (२) गेंद. A ball. दस  
नि० २, (३) बड़ा कुड़ा, बड़ी थाली. A big  
platter. ठा० = -लिङ्ग. न० (१) चुल्हा, चुल्हा.  
A stove. (२) अग्नि विशेष A kind of  
fire ठा० ८  
गोली. स्त्री० मथनी, मथनिया, दही मथने की  
लकड़ी A churning pot दे० २, १५.  
गोल्ल न० बिम्बी फल, कुन्दरुन का फल.  
The Bimba fruit नाया० १, ८, कुमा०  
गोल्ला स्त्री० बिम्बी, घल्ली विशेष, कुन्दरुन का  
पेड़. A kind of creeper दे० २, १५,  
० पात्र०  
गोवर पु० न० गोबर, गोमय, गो-विद्या.  
Cow-dung दे० २, १६, उप० ५१७ टी  
गोवित्र त्रि० अजल्पाक, नहीं बोलने वाला  
Not-speaking दे० २, १७  
गोविल्ल न० कञ्चुक, चोली A dress  
fitting close to the upper part of  
the body A bodice दे० २, १४  
गोवी स्त्री० बाला, कन्या, कुमारी, लडकी  
A girl, A virgin दे० २, १६.  
गोसण्य पु० मूर्ख, बेवकूफ A fool,  
A block-head दे० २, १७, षड्०  
गोसावित्रा स्त्री० (१) वेरया, वाराङ्गना  
A harlot, A courtesan मृच्छ० ५५,  
(२) मूर्ख-जननी A foolish mother  
नाट० मृच्छ० ४०.

गोसिय त्रि० प्राभातिक, प्रातःकाल सम्बन्धी,  
Relating to morning सख०  
गोह पु० (१) गाँव का मुखिया The chief  
of a village दे० २,८६, (२) भट, सुभट,  
योद्धा A warrior दे० २,८६, महा० (३)  
जार, उपपति A palamou उप० पृ०  
२१२, (४) सिपाही, पुलिस A sepoy, A

policeman उप० पृ० ३३२, (२) पुरुष,  
आदमी, मनुष्य A man, A person  
सूक्ष्म० २७, (६) कौटवाल आदि क्रूर मनुष्य A  
cruel man सुख० ३,६, (७) त्रि० ग्रामीण,  
ग्राम्य A villager, Rural सुख० २,१३  
गोहुर न० गोमय, गो-विष्ट Cow-dung-  
दे० २,६६



घ

घञ्जअद् न० दर्पण, सुकुर A mirror,  
A looking glass पद्०  
घघ पु० गृह, मकान, घर A house, A  
mansion दे० २,१०२.  
घघलिअत्र. त्रि० घबड़ाया हुआ Confounded,  
Perplexed, Confused, सवे० ६, धर्मवि०  
१३४  
घंघोर त्रि० भ्रमण शील, भटकने वाला  
Wandering, Roaming दे० २,१०६  
घचिय पु० तेली, तेल निकालने वाला An  
oil-man सुर० १६, १६०  
घघर न० घघरा, स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र  
A petticoat, A gown worn by a  
woman दे० २,१०७  
घट्ट पु० (१) कुसुम्भ रंग से रंगा हुआ वस्त्र  
A red garment (२) नदी का घाट The  
bank of a river (३) वेष्ट, वस A  
bamboo दे० २,१११  
घट्टयाग पु० पात्र वगैर को चिकना करने के  
लिए उस पर घिसा जाता एक प्रकार का पत्थर  
A kind of stone used to polish  
vessels वृह० ३.  
घड त्रि० सृष्टिकृत, बनाया हुआ Made,  
Created पद्०  
घडइअ त्रि० सङ्कुचित Contracted,  
Abridged पद्०


घडाघडी स्त्री० गोष्ठी, सभा, मडली An  
assembly, A meeting पद्०  
घडिअघडा स्त्री० गोष्ठी, मडली An  
assembly, A meeting दे० २,१०२  
घडिआ-घडी स्त्री० गोष्ठी, मण्डली A  
society, An association पद्० दे०  
२,१०२  
घड न० गूहा, टीला, स्तूप A heap, A  
pile, पाश०  
घणवाहि पु० इन्द्र, स्वर्ग-पति India, The  
lord of gods दे० २,१०७  
घयण पु० (१) उर, वक्षस्, छाती Breast,  
Chest (२) त्रि० रक्त, रंगा हुआ Coloured  
दे० २,१०२  
घत्तण न० फेंकना Throwing कुमा०  
घत्ति अ० शीघ्र, जल्दी Speedily, Quickly  
ग्राह० ८१  
घत्तिय त्रि० प्रेरित Impelled, Insti-  
gated स० २०७  
घम्मोई स्त्री० नृण-विशेष A kind of  
grass दे० २,१०२.  
घम्मोडी स्त्री० (१) मध्याह्न काल The  
mid-day, The noon (२) मशक,  
मच्छर A mosquito, A gnat (३)  
ग्रामणी-नामक नृण A kind of grass  
called gramin दे० २,११२

घयण पु० भायड, भडवा A mocker ,  
A jester उप० पृ० २०४, २०२, पचव० ४  
घरघट पु० चटक, गौरैया पक्षी A kind of  
bird , Sparrow दे० २,१०७, पात्र०  
घरघरग पु० ग्रीवा का आभूषण विशेष A  
kind of ornament worn round the  
neck ज० १  
घरट्ट. पु० अरघट, अरहट, पानी का चरवा  
A water-wheel , A wheel or  
machine for raising water from  
a well निसी० चू० १  
घरयद पु० आदर्श, दर्पण, शीशा. A mir-  
ror , A looking-glass दे० २,१०७  
घरस पु० गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम The life  
of a householder बृह० ३  
घरिल्ली स्त्री० गृहिणी, पत्नी The mistress  
of a house , A wife दे० २,१०६  
घरोल न० गृह-भोजन विशेष. A kind of  
food दे० २,१०६  
घरोलिया-घरोली. स्त्री० गृहगोधिका, छिपकली.  
A lizard पण्ड० १,१, दे० २,१०२.  
घल्ल त्रि० अनुरक्त, प्रेमी Loving , Affec-  
tionate दे० २,१०२  
घल्लय-घल्लोय पु० द्विन्द्रिय जीव की एक  
जाति A kind of insect having two  
senses. उच० ३६,१३०  
घल्लिअ त्रि० फेंका हुआ, डाला हुआ  
Thrown भवि०  
घसणिअ त्रि० अन्विष्ट, गवेपित Searched  
after , Inquired पद्०  
घसा स्त्री० (१) पोखी जमीन A hollow  
soil (२) भूमि-रेखा, लकीर A line राज०  
घाडेक्य पु० खरगोश की एक जाति A species  
of hare उप० ७२८ टी  
घायण पु० गायक, गवैया A songster ,  
A singer दे० २,१०८, हे० २,१०४, पद्०

घार पु० प्राकार, किला, दुर्ग A fort दे०  
२,१०८  
घारत पु० घृतपूर, घेवर, एक जाति की मिठाई  
A kind of sweetmeat दे० २,१०८.  
घारिया स्त्री० मिष्टान्न-विशेष A kind of  
sweet-meat भवि०  
घारी स्त्री० (१) पक्षी-विशेष, शकुनिका A  
kind of bird दे० २,१०७, पात्र० (२) छंद  
विशेष A kind of metre पिंग०  
घिअ त्रि० भस्मित, तिरस्कृत, अवधीरित  
Disregarded , Disrespected , Des-  
pised दे० २,१०८.  
घिड्ड त्रि० कुञ्ज, कूबडा A Dwarf fish ,  
A hump-backed दे० २,१०८.  
घिसरा. स्त्री० मछली पकडने का जाल-विशेष  
A fishing-net विवा० १,८  
घिसिअ त्रि० कवलित, निगला हुआ, भक्षित.  
Eaten , Swallowed up कुमा० ७,४६.  
घुघुड पु० उत्कर, समूह A heap , A  
pile , A multitude दे० २,१०६.  
घुट पु० घूट, एक बार में पीने योग्य पानी  
आदि A gulp , A draught of a  
liquid दे० ४,४२३  
घुघुछण न० खेद, तकलीफ, परिश्रम  
Fatigue , Exhaustion दे० २,११०  
घुघुरि पु० मण्डक, भेक, मेड़क A frog  
दे० २,१०६  
घुघुस्तुअ त्रि० निशक होकर गया हुआ  
Gone after having been satisfied  
पद्०  
घुघुस्तुसय न० आशक वचन, आशका युक्त  
वाणी A doubtful speech दे० २,१०६  
घुडुणिअ न० पहाड़ की बड़ी शिला A  
large stone of a mountain दे० २,११०  
घुणहुणिया-घुणहुणी स्त्री० कर्णोपकरणिका,  
कानाकानी Eat to eat , A rumour ,  
A whisper दे० २,११०, महा०

घुषिणञ्च त्रि० घुमा हुआ, भ्रान्त, भटका हुआ  
Wandered, Roamed दे० ८, ४६  
घुत्तिञ्च त्रि० गवेपित, अन्वेपित Searched,  
Inquired. दे० २, १०३  
घुथग पुं० एक तरह का पत्थर जो पात्र नगैर.  
को चिकना करने के लिए उस पर घिसा जाता है  
A kind of stone used for polishing  
vessels पिंड०  
घुरुघुरि. पुं० मयबूक, मेढक, भेक. A frog  
दे० २, १०६.  
घुलकि स्त्री० हाथी की आवाज, करि शब्द  
Roaring of an elephant पिग०  
घुसलिञ्च त्रि० मथित, विलोडित Churned  
कुमा०  
घुसिणिञ्च त्रि० अन्विष्ट, गवेपित Sear-  
ched, Inquired दे० २, १०३  
घुसिरसार. न० अवनसान, विवाह के अवसर में

स्नान के पहले लगाया जाता मसूरादि का पिसान  
A yellow fragrant powder applied  
to the bodies of a bride and bride-  
groom on marriage occasions दे०  
२, ११०  
घेउर. पुं० न० घेवर, घृतपूर, मिष्ठान-विशेष.  
A kind of sweetmeat. सुपा० १३  
घेतुमण त्रि० ग्रहण करने की इच्छा वाला, Desi-  
rous of taking पउम० १११, १६.  
घेवर. पुं० न० घेवर, घृतपूर A kind of  
sweetmeat दे० २, १०८  
घोडिय पु० मित्र, वयस्य A friend.  
बृह० ५  
घोरि पु० शलभ पशु की एक जाति. A kind  
of animal दे० २, १११  
घोलिञ्च न० (१) शिलातल The bottom  
of a stone (२) हठ-हठ, बलाकार. Force.  
दे० २, ११२



## च

चइय. त्रि० समर्थ, शक्ति Able, Powerful  
से० ६, ५१  
चउकर पुं० कार्तिकेय, शिव का एक पुत्र.  
Kartikeya, son of Siva. दे० ३, ६  
चउकम्भाइया स्त्री० नाप-विशेष. A kind of  
measure भग० ७, ८  
चउरय. पुं० चौरा, चवूतरा, गाव का सभा-स्थान  
A meeting place of a village सम०  
१३८ टी.  
चउरचिध. पु० सातवाहन, राजा शालिवाहन  
A king named Shalivahan दे० ३, ७  
चउरिया-चउरी स्त्री० लज्ज मंडप, विवाह मण्डप  
A temporary hall erected on  
ceremonial occasions, An open  
hall रभा० सुपा० २२२

चउसर त्रि० चौसर, चारसरा बाला. (A  
necklace etc.) Having four strings  
सुपा० ५१०, ५११  
चउथोर पु० न० पात्र विशेष. A kind of  
vessel सम० २२२  
चग किवि० अच्छा, ठीक Well, जय० २२.  
चचप्पर न० , झूठ, अनृत A lie.  
दे० ३, ४.  
चचपुड पु० आघात, अनिघात A blow.  
ज० ३  
चडार पु० न० भण्डार, गार A  
treasure, A store-house कुमा०  
चडिञ्च त्रि० कूत, द्विध, काटा हुआ Cut,  
Rent दे० ३, ३  
चडिञ्च पुं० (१) कोप, क्रोध, गुस्सा Wrath,



Anger (२) त्रि० पिष्टुन, खल, दुर्जन, Wicked, Vile, Contemptible. दे० ३,२०  
 चंडिल त्रि० पीन, पुष्ट Fat, Fleshy. दे० ३,३  
 चदइल्ल. पुं० मयूर, मोर. A pea-cock दे० ३,५.  
 चदट्टिआ स्त्री० (१) झुल, कन्धा The arm (२) गुच्छा, A bunch, A cluster दे० ३,६  
 चदणी स्त्री० चन्द्र की पत्नी, रोहिणी. The name of a wife of the moon महा०  
 चदवडाया स्त्री० जिसका आधा शरीर ढका और आधा नगा हो ऐसी स्त्री A half naked woman दे० ३, ७  
 चदालग. न० तात्र का भाजन-विशेष A special kind of copper vessel. सू० १,४,२.  
 चंद्रिण न० चन्द्रिका, चन्द्रप्रभा. The moon-light श्रा० १०  
 चदेरी. स्त्री० नगरी-विशेष Name of a city ती० ४५  
 चंदोज्ज-चंदोज्जय. न० कुसुद, चन्द्र विकासी The white water hly said to open at moonrise दे० ३,४.  
 चपडण न० प्रहार, आघात A blow विक्र० ८४  
 चपण न० चापना, दवाना Squeezing, Pressing उप० १३७ टी  
 चपिअ त्रि० चोंपा हुआ, दबाया हुआ, मर्दित Shampooed, Rubbed सुपा० १३७, १३८  
 चपिअ न० आक्रमण, दबाव Attacking. तदु० ४४  
 चभ पु० हल से विदारित भूमि-रेखा A furrow दे० ३,१

चकपा स्त्री० त्वक्, त्वचा, चमड़ी Skin. दे० ३,३  
 चकणभय न० नारंगी का फल An orange. दे० ३,७  
 चकणाह्य न० ऊर्मि, तरङ्ग, कल्लोल A large wave, A billow. दे० ३,६  
 चकम्मविअ त्रि० घुमाया हुआ, फिराया हुआ Turned round, Whirled कुमा०  
 चकल न० (१) कुण्डल, कर्ण का आभूषण An ear-ring दे० ३,२०, (२) त्रि० वर्तुल, गोलाकार पदार्थ Round, Globular वजा० ६४, आवम० दे० ३,३०, भवि० (३) विशाल, विस्तीर्ण Extensive, Spacious, Large. दे० ३,२०, भवि०  
 चकलिअ त्रि० चक्राकार किया हुआ Made Spherical. से० ११,६८, स० ३८४, गडड०  
 चक्कुलडा स्त्री० सर्प की एक जाति A kind of serpent दे० ३,५  
 च स्त्री० अग्निमेद, अग्नि-विशेष A kind of fire दे० ३,२  
 चक्खडिअ न० जीवितव्य, जीवन Life, Existence दे० ३,६  
 चक्खुडुण न० प्रेक्षणक, तमाशा A show, A play टे० २,४  
 चक्खुरक्खणी स्त्री० लज्जा, शरम Shame, Bashfulness दे० ३,७  
 चच्च पु० समात्मभन, चन्दन वगैर का शरीर में उपलेप Smearing the body with unguents or coloured cosmetics दे० ६,७६  
 चच्चसा स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument. राय०  
 चच्चा स्त्री० तल-प्रहार, हाथ की ताजी A slap with hands दे० ३,१६, षट्०  
 चक्षिक त्रि० (१) मण्डित, विभूषित Decorated, Adorned दे० ३,४, धम्म ६

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दो चड० ३६, (२) पु० न० विलेपन, चन्दनादि सुगंधि वस्तु का शरीर पर मसलना Smearing the body with unguents                                                         | खटकता हुआ रत्न निर्मित तिलक A jewel-slice hanging in the golden waist-band दे० ३, ८                                                                                 |
| हे० २, ७४, पङ्० पठम० २८, २८                                                                                                                                  | चड्डुलातिलक न० देखो 'चड्डुला' शब्द Vide, 'चड्डुला' दे० ३, ८                                                                                                         |
| चच्छिन्न त्रि० छिन्ना हुआ Peeled, Skinned कुमा०                                                                                                              | चड्डु न० तैल पात्र, जिसमें दीपक किया जाता है A lamp-stand सुपा० ६३८, बृह० १                                                                                         |
| चज्जिय त्रि० अवलोकित, देखा हुआ Seen, Observed, महा०                                                                                                          | चड्डुण न० भोजन, खाना, खाने की वस्तु Food, An eatable कुमा०                                                                                                          |
| चट्ट. पु० न० (१) भूख, बुभुक्षा Hungry सूक्त० ७०, (२) पु० चट्टा, विद्यार्थी A student-साला छाी० चट्टाशाला, छोटे बालकों की पाठशाला A school of children बृह० १ | चड्डिअ त्रि० (१) मसला हुआ, जिसका मर्दन किया गया हो वह Smeared कुमा० (२) पीसा हुआ Levigated कुमा०                                                                    |
| चट्टट्टु-चट्टट्टुअ-ल पु० दारु-हस्त, काठ की कलछी, परोसने का पात्र विशेष A wooden spoon दे० ३, १, गा० १६२                                                      | चत्थरि पु० छाी० हास, हास्य To laugh दे० ३, २                                                                                                                        |
| चड. पु० शिखा, चौटी A lock of hair on the crown of the head दे० ३, १                                                                                          | चप्पडग न० काष्ठ-यन्त्र विशेष A kind of wooden machine पण्ड० १, ३                                                                                                    |
| चडक पु० न० (१) चटकार, चटका A particular sound made by fingers हे० ४, ४०६, भवि० (२) शस्त्र विशेष A kind of weapon पठम० ७, २६                                  | चप्परण न० तिरस्कार, निरादर Refutation, Contradiction सु० ६                                                                                                          |
| चडगर पु० आडम्बर, आटोप Pride, Self-conceit, Arrogance दस० ३                                                                                                   | चप्पलअ त्रि० (१) असत्य, झूठ False, Untruth कुमा० ८, ७६, (२) बहुमिथ्यावादी, बहुत झूठ बोलने वाला A great liar पद्०                                                    |
| चडावण न० चढाना, Causing to ascend उप० १५२                                                                                                                    | चप्पिय त्रि० आक्रान्त, दवाया हुआ Overcome भवि०                                                                                                                      |
| चडाविय त्रि० (१) चढाया हुआ, ऊपर स्थापित Caused to climb सुयि० १०, ६०१, सुर० १३, ३६, महा० (२) प्रेषित, भेजा हुआ Sent, Directed. सुपा० ३६२                     | चप्पल-चप्पलय न० (१) शिखर-विशेष, एक तरह का शिरोभूषण A kind of ornament for the head (२) त्रि० असत्य, झूठ, मिथ्याभाषी False, Untrue दे० ३, २०, हे० ३, ३८, कुमा० ८, २५ |
| चडिअर पु० आटोप, आडम्बर Self-conceit, Arrogance दे० ३, ५                                                                                                      | चमडण न० भोजन, खाना A dinner कुमा०                                                                                                                                   |
| चडुत्तरिया छाी० उतरचढ Ascending and descending (२) वाद-विवाद Debate, Discussion मोह० ७                                                                       | चसदिअ त्रि० मर्दित, विनाशित Destroyed, Crushed वव० २                                                                                                                |
| चडुला स्त्री० रत्न-तिलक, सोने की मंखला में                                                                                                                   | चरचरा छाी० चरचर आवाज The sound like Chur-Chur स० २५०.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | चरड पु० लुटेरों की एक जाति A class of plunderers जम्म० १० टी, सुपा० २३२, २३३                                                                                        |

चरण न० (१) चरना, पशुओं का चरनादि  
 भक्षण Grazing (२) पद्य का चौथा हिस्सा  
 The fourth part of a verse पिंग०  
 चरित न० (१) चरित, आचरण  
 Conduct, Behaviour. (२) व्यवहार  
 Affair, Business भवि० प्राप्त० ४०,  
 (३) स्वभाव, प्रकृति Disposition,  
 Nature कुमा०  
 चरिय पु० चर-पुरुष, जासूस, दूत A  
 messenger, A spy सुपा० १२८  
 चरिया स्त्री० (१) परित्राजिका, सन्यासिनी.  
 A female ascetic ओष० १६८, (२) किला  
 और नगर के बीच का मार्ग A road  
 between the fort and a city, सम०  
 १३७, पञ्च० १, १  
 चरुल्लोव न० नाम, आख्या A name,  
 दे० ३, ६  
 चल पु० रावण का एक सुभट Name  
 of a warrior of Ravana पडम०  
 २६, ३६  
 चलचल. त्रि० चचल, अस्थिर Fickle,  
 Unsteady वजा० ६०  
 चलणाउह ' पु० कुंकुट, मुर्गा A cock  
 दे० ३, ७  
 चलवलण न० चटपटाई, चचलता Activity,  
 Sharpness पडम० १०२, ६  
 चरुलण न० जघनाष्टक, कटी-चरु A cloth  
 girt round the loins पङ्०  
 चरित स्त्री० (१) नाचते समय की एक प्रकार की  
 गति A kind of motion at the time  
 of dancing कण्ठ० (२) सदन-वेदना Pangs  
 of torments of love सच्चि० ४७  
 चवल पु० चावल, तण्डुल Rice. आ० १८  
 चवल्य पु० धान्य-विशेष A kind of  
 pulse प्रब० १५४

चवित्र त्रि० उक्त, कहा हुआ Said, Told  
 भवि०  
 चवेडी स्त्री० (१) श्लिष्ट कर सपुट The  
 cavity formed by putting the  
 hands side by side (२) सपुट, ससुदग,  
 डिब्बा A covered box or casket  
 दे० ३, ३  
 चवेण न० वचनीय, लोकापवाद - Public  
 scandal, Popular censure दे० ३, ३  
 चव्वक्कित्र त्रि० धवलित्र, चूने से पोता हुआ  
 White-washed सुपा० ४५५  
 चहुतिया स्त्री० चुटकी, चुटकीभर Grasp  
 or grips of the hands काल  
 चहुट्ट त्रि० निमग्न, लीन Clung or adhered  
 to, stuck to दे० ३, २, वजा० ३८, उप०  
 ७२८ टी  
 चहुट्ट-चहुट्टिय त्रि० चिपका हुआ, लगा हुआ  
 Adhered or clung to. धर्मवि० १४१,  
 उप० ७२८ टी, कुप्र० २७.  
 चहोड पु० एक मनुष्य जाति A particular  
 human tribe भवि०  
 चाउल्लग न० पुरुष का पुतला, कृत्रिम पुरुष  
 An artificial man, An idol of man  
 निसी० चू० १  
 चाड त्रि० मायावी, कपटी Deceitful,  
 Fraudulent दे० ३, ८  
 चार पु० (१) वृक्ष विशेष, पियाल वृक्ष,  
 चिरींजीका पेड A kind of tree दे० ३, २१,  
 अणुजो० पञ्च० १६, (२) बन्धन-स्थान A place  
 of binding or tying दे० ३, २१  
 (३) इच्छा, अभिलाष A wish, A  
 desire दे० ३२१, भवि० सुपा० ५११, (४)  
 फल विशेष, मेवा विशेष A kind of fruit  
 पञ्च० १६  
 चारण पु० ग्रन्थि-च्छेदक, पाकटमार, चोर  
 विशेष A thief, A cut-purse, A

pickpocket दे० ३,६  
 चारवाय पु० ग्रीष्म ऋतु का पवन The  
 wind of the summer दे० ३,६  
 चालकस पु० सिर का भूषण विशेष A kind  
 of ornament for the head दे० ३,८  
 चास पु० चास, हल विदारित भूमि-रेखा, खेती,  
 The furrowed land. दे० ३,१  
 चिंचइअ त्रि० चलित, चला हुआ Walked,  
 Moved दे० ३,१३  
 चिचणिया—गा. स्त्री० घरट्टिका, अन्न पीसने  
 की चक्की A grinding mill दे० ३,१०.  
 चिचणी स्त्री० घरट्टिका, अन्न पीसने की चक्की  
 A grinding stone or hand mill  
 दे० ३,१०  
 चिधाल. त्रि० (१) सुन्दर, मनोहर Beautiful,  
 Handsome (२) मुख्य, प्रधान. Pro-  
 minent, Chief, Principal दे० ३,२२  
 चिफुल्लणी स्त्री० स्त्री का पहनने का वस्त्र-  
 विशेष, लहंगा A kind of lower gar-  
 ment for a woman. दे० ३,१३  
 चिक त्रि० (१) थोड़ा, अल्प A little  
 (२) झूंक न० Sneezing, A sneeze पद०  
 (३) स्त्री० थोड़ी चीज A little thing  
 (४) हलकी मेघ-वृष्टि, सूक्ष्म-झँटा Drizz-  
 ling, Slightly raining दे० ३,२१  
 चिकखअण त्रि० सहिष्णु, सहन करने वाला  
 Able to bear or endure पद०  
 चिच्च त्रि० (१) चिपिट नासिका चाला, बेंटी  
 हुई नाक वाला Flat-nosed दे० ३,६  
 (२) न० रमण, सभोग, रति Copulation,  
 Sexual inter-course, दे० ३,१०  
 चिच्चर त्रि० चिपिट नासिका वाला Flat-  
 nosed दे० ३,६  
 चिच्चि पु० हुताशन, अग्नि Fine दे० ३,१०  
 चिणोट्टी स्त्री० गुंजा, घुगची, लाल रत्ती A  
 berry used as a weight of  $2\frac{1}{2}$  grains  
 दे० ३,१२

चित्तद्विअ त्रि० परितोषित, खुश किया हुआ  
 Satisfied, Gratiified दे० ३,१२  
 चित्तदाउ पु० मधु-पटल, मधुपुढा A honey  
 comb, A bee-hive दे० ३,१२  
 चित्तपरिच्छेय त्रि० लघु, छोटा Small,  
 Little भग० ७,६  
 चित्तल त्रि० (१) मण्डित, विभूषित Deco-  
 rated, Ornamented (२) रमणीय,  
 सुन्दर Beautiful, Charming दे० ३,४  
 चित्तविअत्र त्रि० परितोषित Satisfied,  
 Gratiified. पद०  
 चित्ताचिल्लडय-चित्ताचेल्लरय पु० जगती पशु  
 विशेष Name of a wild animal आया०  
 २,१,६,३-४  
 चिद्विअ-चिदाविअ त्रि० निर्वाशित, विनाशित  
 Destroyed, Ruined दे० ३,१३, पाअ०  
 भवि०  
 चिपग पु० न० कुटी हुई छाल. Pounded  
 bark कस० २,३० टि०  
 चिपिअ पु० नपु सक-विशेष A kind of  
 impotent person प्रव० १०६ टी.  
 चिपिडय पु० अन्न विशेष A kind of  
 corn दसा० ६  
 चिपिण पु० (१) केदार क्यारी A basin  
 for water round the root of a tree  
 (२) क्यारी वाला प्रदेश A region of such  
 basins (३) किनारे का प्रदेश, तट-प्रदेश The  
 region of shores or banks भग० ६,७  
 चिमिण त्रि० रोमश, रोमाञ्चित, पुलकित  
 Having the hairs of the body erect,  
 दे० ३,११ पद०  
 चियत्त त्रि० (१) अभिमत, सन्मत Agreed  
 or consented to, Approved of अ०  
 ३,३, प्रीतिकर, रागजनक Producing love.  
 ओव० (३) प्रीति रुचि, Liking or fond-  
 १ for (४) शीघ्रति का अभाव, Absence of

dislike ग० ३,३  
 चेरडी स्त्री० वर्णमाला, अक्षरावली The  
 alphabet दे० १,६१  
 चेरडिहिल्ल न० दधि, दही Curd पात्र०  
 चिरया स्त्री० कुटी, झोंपडी A cottage,  
 A hut दे० ३,११  
 चिरिंचिरा स्त्री० जलधारा, वृष्टि Raining,  
 दे० ३,१३  
 चेरिक स्त्री० (१) चर्म-भाजन, मशक A  
 leather water bag (२) अल्प-वृष्टि Dizz-  
 ling, Slight raining (३) प्रातः काल,  
 सुबह. The morning दे० ३,२१  
 चिरिचिरा स्त्री० जलधारा, वृष्टि Raining  
 दे० ३,१३  
 चिरिडी स्त्री० वर्णमाला, अक्षरावली The  
 alphabet ग० १६१, अ०  
 चिरिडिहिल्ल न० दधि, दही Curdled milk  
 दे० ३,१४  
 चिरिहिट्टी स्त्री० गुक्षा, घु घची, लाल-रत्ती A  
 kind of berry used as a weight of  
 2½ grains दे० ३,१२  
 चिलिचिलिआ स्त्री० धारा, वृष्टि Raining  
 पद०  
 चिलिचिलिय. त्रि० भीजा हुआ, आद्रित.  
 Wetted, Moistened तदु० ३८  
 चिलिचिल्ल-चिलिचिल्ल-चिलिचिल्ल त्रि०  
 आद्र, गोला Wet, Moist पद० १, ३  
 दे० ३, १२  
 चिल्ल न० (१) सूर्य, सूप, झाज A winnow-  
 ing fan प्रा० २८ (२) पु० बाल, बच्चा,  
 लडका A child, An infant दे० ३, १०  
 (३) चेला, शिष्य A pupil आवम०  
 चिल्लय न० अपचक्षु, खराब आँसू A bad  
 eye पद० १, १ टी  
 चिल्ला स्त्री० चील, पत्ति-विशेष, शकुनिका

A kind of bird. दे० ३, ६, ८, ८, पात्र०  
 चिल्लिरि पु० मशक, मच्छर A mosquito.  
 दे० ३, ११  
 चिल्लूर न० मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी  
 जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं. A pestle  
 (used for cleaning rice) दे० ३, ११  
 चिलहय पु० चक्रमार्ग, पहिये की लकीर  
 A wheel-route सुपा० २८०  
 चीड त्रि० काले काच की मणि वाला  
 Studded with black precious stones  
 सिरि० ६८०  
 चीवट्टी स्त्री० भलजी, भाला, शस्त्र विशेष.  
 A spear, A lance. दे० ३, १४  
 चीहाडी स्त्री० चीत्कार, चिल्लाहट, पुकार, हाथी  
 की गर्जना. Roaring of an elephant  
 सुर० १०, १८२  
 चीटो. स्त्री० मुस्ता का दूध-विशेष A kind  
 of grass दे० ३, १४, ६२.  
 चुचुअ पु० शेर, अवतस, मस्तक का भूषण  
 An ornament worn on the head  
 दे० ३, १६  
 चुंचुणिअ त्रि० (१) चलित, गत Gone,  
 Moved. (२) च्युत, नष्ट Destroyed,  
 Ruined दे० ३, २३  
 चुंचुणिआ स्त्री० (१) गोष्ठी की प्रतिध्वनि An  
 echo of discourse (२) रमण, रति,  
 सभोग Sexual inter-course, (३) इम्ली  
 का पेड़ A tamarind tree (४) धूत-  
 विशेष, मुष्टि-धूत A kind of gambling  
 (५) थूका, छद्म कीट-विशेष A louse दे०  
 ३, २३  
 चुंचुमालि त्रि० अलस, आलसी, दीर्घसूत्री  
 Idle, Lazy दे० ३, १८  
 चुचुलि पु० (१) चञ्चु, चोंच A bill, A  
 beak (२) खुलुक, पसर, एक हाथ का सपुटा  
 का The hollow of the hand

चुंचुलित्र त्रि० (१) अवधारित, निश्चित Determined, Ascertained (२) न० चृष्णा, सस्यइता Strong desire, Avidity दे० ३,२३

चुंचुलिपूर पु० चुलक, चुल्लू, पसर The hollow of the hand दे० ३,१८

चुंछ. त्रि० परिशोपित, सुखाया हुआ. Died up दे० ३,१५

चुंछिअ. त्रि० सुखा हुआ, परिशोपित Died up सुपा० ३४६

चुंतिर त्रि० चुनने वाला One that elects दे० ६,११६ टी

चुभल पुं० शेर, अवतंस, शिरो-भूषण An ornament worn on the head दे० ३,१६

चुक्क पु० मुट्टि, मुठी The clenched hand दे० ३,१४

चुक्कार पु० आवाज, शब्द Sound, word से० १३,२५

चुकुड पु० जग, बकरा, अज A goat दे० ३,१६

चुज्ज न० आश्चर्य Wonder, Surprise दे० ३,१४, सङ्घि० ८३

चुडुपप न० (१) खाल उतारना Peeling, Skinning दे० ३,३, (२) घाव, चत A wound गडड० (३) चमडी, त्वचा Skin पात्र०

चुडुप्पा स्त्री० त्वचा, चमडी, खाल Skin दे० ३,३

चुण्णअ. पु० (१) चाण्डाल A Chandala (२) बाल, बच्चा An infant, A child (३) इच्छा, इन्द A desire, A wish (४) अरुचि, भोजन की अभीष्टि Want of appetite (५) व्यतिकर, सम्बन्ध Mutual relation, Reciprocity (६) त्रि० अल्प, थोडा Little, Not much (७) मुक्त,

त्यक्त Abandoned, (८) आघात, सूँघा हुआ Smelt दे० ३,२२

चुण्णिअ त्रि० विचारित, धारण किया हुआ Held, Supported दे० ३,१५

चुण्णइय त्रि० चूर्णाहित, चूरन से आहत, जिस पर चूर्ण फेंका गया हो वह One on whom powder is thrown दे० ३,१७, पात्र

चुण्णाआ स्त्री० कला, विज्ञान An art दे० ३,१६

चुण्णासी स्त्री० दासी, नौकरानी A maid-servant दे० ३,१६

चुप्प त्रि० स-स्नेह, स्निग्ध Loving, Affectionate दे० ३,१५

चुप्पल पु० शेर, अवतंस An ornament worn on the head दे० ३,१६

चुप्पलिअ न० रंग हुआ कपडा A newly coloured cloth दे० ३,१७

चुप्पालय पु० गवाच, वातायन A window दे० ३,१७

चुरिम न० खाद्य विशेष A kind of eatable प्रव० ४

चुलुप्प पुं० जग, अज, बकरा A goat दे० ३,१६

चुल्ल पु० (१) शिशु, बालक A child, An infant (२) दास, नौकर A servant दे० ३,२२.

चुल्लग न० सन्दूक A box कुम० २२७, २२८

चुल्ली स्त्री० शिला, पाषाण खण्ड A stone दे० ३,१५


चुल्लोडय पु० बडा भाई An elder brother दे० ३,१७

चूअ पु० स्तन शिला, थन का अग्र भाग A nipple दे० ३,१८

चूड पु० चूडा, बाहु-भूषण, बलयावली Bangles, An ornament on the

aim, An aimlet दे० ३,१८, ७,२२,  
२६, पात्र  
चूरिम पुं० न० मिठाई विशेष, चूमकि लड्डू  
kind of sweet-meat प्र० ४ टी  
चेडी स्त्री० कुमारी, बाला, लडकी A girl  
पात्र०  
चेलय न० तुला-पात्र A balance, वज्रा०  
२६  
चेलु प न० मुशल, मूषल. A pestle  
दे० ३,११  
चेल्ल-चेल्लअ पु० देखो 'चिल्ल' शब्द Vide  
'चिल्ल' पत्र० ६७, १३, १६, स० ४६६,  
दसनि० १, उप० २६८  
चोटी स्त्री० चोटी, शिखा A lock of hair  
on the crown of the head दे० ३,१  
चोडु न० वृन्त, फलश्रौर पत्ती का बन्धन The  
foot-stalk of a leaf or fruit विक्र० २८  
चोड पु० विल्व, वृक्ष-विशेष A kind of  
tree दे० ३,१६  
चोरण न० (१) कलह, झगडा A quarrel,  
A strife. निसी० चू० २०, (२) काष्ठानयन  
आदि जघन्य कर्म A low action सू० २,२

चात्त-चोत्तअ. पु० न० प्रतोद, प्राजन-दण्ड  
A long whip, a long staff दे० ३,१६,  
पात्र०  
चोप्पडिय त्रि० चुपडा हुआ Besmeared,  
Applied प्र० ४.  
चोप्फुच्च त्रि० (१) स्निग्ध Only, Unc-  
tuous. (२) स्नेह वाला, प्रेम युक्त Loving,  
Affectionate दे० ३,१२  
चोरली स्त्री० श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी  
The fourteenth day of the half of  
the Shravin month दे० ३,१६  
चोल त्रि० (१) वामन, कुब्ज Dwarfish,  
Hunch दे० ३,१८, (२) पु० पुरुष चिह्न, लिङ्ग  
A male organ of generation प्र०  
६१, (३) न० गन्ध द्रव्य विशेष, मस्जिदा A  
kind of fragrant substance उर० ६,४  
चोलअ न० कवच, बर्म An armour, A  
coat of mail नाट०  
चौल्लग त्रि० छद्रक, छोटा, लघु Small.  
उप० पृ० ३१  
चौल्लय पु० न० थैला, बोरा, गोन A large  
bag महा०



## छ

छइल-छइल्ल न० चिदग्ध, चतुर, हुशियार.  
Clever, Quick-witted, Skilful पिंग०  
दे० ३,२४, गा० ७२०, वज्रा० ४, पात्र० कुमा०  
छउअ त्रि० तलु, छग, पतला Thin, Lean,  
Slender. दे० ३, २५  
छकुई स्त्री० कपिकच्छु, वृक्ष विशेष, केवाच A  
kind of tree दे० ३,२४  
छुछुई स्त्री० कपिकच्छु, कवाच का पेड A  
kind of tree दे० ३,२४

छट पु० (१) जल का छींटा, जल-च्छटा  
Drops of water (२) शीघ्र, जल्दी करने  
वाला Soon, Quickly, Rapidly  
दे० ३,३३  
छटा स्त्री० देखो 'छट' शब्द Vide 'छट'  
पात्र०  
छडिअ त्रि० छन्न, गुप्त Hidden, Con-  
cealed पड०  
छच्छु दर पु० न० छलुन्दर, मूले की एक जाति





कीडा A particular kind of ment-  
ment दे० ३,३०  
छिद्यय पु० (१) देह, शरीर Body (२)  
जार, उपपति A lewd man, A Para-  
mou (३) न० फल विशेष, शलाटु-फल A  
kind of fruit दे० ३,३६  
छिद्योली स्त्री० झोटा जल प्रवाह A stream-  
let दे० ३,२७, पात्र०  
छिड न० (१) चूडा, चोटी Braid of hair  
दे० ३,३५, पात्र० (२) छत्र, झता An  
umbrella (३) धूप-यन्त्र A censer, A  
vessel for burning incense दे० ३,३५  
छिडिआ स्त्री० (१) बाढ का छिद्र An open-  
ing in a hedge (२) अपवाद Censure  
प्रव० १४८, आ० ६  
छिक न० छत, झँक Sneezing दे० ३,३६,  
कुमा०  
छिका स्त्री० छिका, झँक Sneezing स०  
३२२  
छिक्रिय न० झीकना, झँक करना To  
sneeze. स० ३२४  
छिकोअण त्रि० असहन, असहिष्णु Intoler-  
able, Unable to bear दे० ३,२६  
छिकोटली स्त्री० (१) पैर की आवाज Sound  
of a foot. (२) पाँव से धान्य का मलना To  
crush grain by feet (३) गोइडा का  
डुकड़ा, गोबर-खण्ड A piece of a dung-  
cake दे० ३,३७  
छिकोलिआ त्रि० तनु, पतला, हृष्य Thin,  
Lean, Slender दे० ३,२५  
छिकोवण त्रि० असहन, असहिष्णु Intoler-  
able, Unable to bear, आ० ६  
छिएण पु० जार, उपपति A paramou  
दे० ३,२७, पद्०  
छिएणच्छोडण न० शीघ्र, तुरन्त, जल्दी

Rapidity, Swiftness, Haste दे०  
३,२६  
छिएणयड त्रि० टक से छिन्न Cut by a  
chisel पात्र०  
छिएणा स्त्री० असती, कुलटा An unchaste  
woman दे० ३,२७  
छिएणाल पु० जार, उपपति A paramou  
दे० ३,२७, पद्०  
छिएणालिआ-छिएणाली स्त्री० असती, कुलटा,  
पुडिली An unchaste woman मृच्छ०  
५५, दे० ३,२७  
छिएणान्भवा स्त्री० दूर्वा, दाम Grass दे०  
३,२६  
छिइ पु० छोटी मछली A small fish  
दे० ३,२६  
छिप्प न० (१) भिक्षा, भीख Begging,  
alms दे० ३,३६, सुपा० ११५, (२) पुच्छ,  
लाडरूल A tail दे० ३,३६, पात्र०  
छिपती स्त्री० (१) व्रत-विशेष A kind of  
vow (२) उत्सव विशेष A kind of festi-  
val दे० ३,३७  
छिपदूर न० (१) गोमय-खण्ड, गोबर-खण्ड  
A dung-cake (२) त्रि० विषम, कठिन  
Difficult, Hard दे० ३,३८  
छिप्पाल पु० सस्यासक्त बैल, खाने में लगा  
हुआ बैल A grazing ox दे० ३,२८  
छिप्पालुअ न० पूँछ, लागूल A tail दे०  
३,२६  
छिप्पिअ त्रि० भरित, ऋरा हुआ, टपका हुआ  
Dropped, Oozed पात्र०  
छिपिंडी स्त्री० (१) व्रत-विशेष A kind of  
vow (२) उत्सव-विशेष A kind of  
festival (३) पिष्ट, पिसान Reduced to  
dust, Powdered दे० ३,३७  
छिप्पीर न० पलाल, नृष्य Glass दे० ३,२८  
छिप्पोली स्त्री० अजादि की विष्ट A small

globule of dung of a goat etc. निसी०  
चू० १

छिल्ला न० (१) छिद्र, विवर A hole, A  
hole, A fissure दे० ३, ३५, पद० (२)  
कुटी, कुटिया, छोटा घर A small house, A  
hut (३) बाढ़ का छिद्र An opening in  
a hedge दे० ३, ३५, (४) पलाश का पेड़  
A kind of wild tree ती० ६

छिल्लर न० छोटा तबान, पल्लव A small  
pond, A puddle. दे० ३, २८, सुर० ४, २२६

छिल्ली स्त्री० शिखा, चोटी Braid of hair  
दे० ३, २७

छिविन्न न० इंस का टुकड़ा A piece of  
sugar-cane दे० ३, २७.

छिव. त्रि० कृत्रिम, बनावटी Artificial,  
Unnatural दे० ३, २७

छिवोल्ल न० (१) निन्दार्थक मुख विव्ययन,  
अन्वि प्रकाशक मुख-विकार विशेष A look  
expressive of contempt (२) विव्ययित  
मुख A face that signifies one's  
emotions दे० ३, २८

छिहडअ पु० दही का बना हुआ मिष्ठान,  
दधिसर A particular dish made with  
sugar and spices mixed with curds  
दे० ३, २६

छिहली स्त्री० शिखा, चोटी Braid of hair  
दृ० ४

छिहिडिभिल्ल न० दधि, दही, Curd दे०  
३, ३०

छुई स्त्री० बलाका, बक पक्ति A low  
of manes दे० ३, ३०

छुंछुसय न० रणारणक, उच्चुक्ता, उल्कटा  
Eagerness, Anxious desire दे० ३, ३१

छुद. त्रि० बहुत, प्रभूत Much, Great in  
quantity. दे० ३, ३०

छुट त्रि० छोटा, लघु Small, Diminu-

tive पात्र०

छुट त्रि० (१) चिस Anointed, Bes-  
meared (२) चिस, फेंका हुआ Thrown.  
भवि०

छुड अ० (१) यदि, जो If हे० ४, ३८५,  
४२२, (२) शीघ्र, तुरन्त Swiftly, Soon  
हे० ४, ४०१

छुत्ति स्त्री० छूत, अशौच Defilement,  
Pollution सुक्त० ८६

छुदहीर. पु० (१) शिशु, बच्चा, बालक  
A baby, An infant (२) शशी, चन्द्रमा  
The moon दे० ३, ३८

छुद त्रि० चिस, प्रेरित Thrown सण०

छुरमडि पु० नापित, हनाम A Barber  
दे० ३, ३१

छुरिंधा. स्त्री० मृत्तिका, मिट्टी Earth, Clay.  
दे० ३, ३१

छुरिहअ त्रि० चिस, पोता हुआ Anointed,  
Besmeared दे० ३, ३०

छुदिअ न० पार्श्व का परिवर्तन To change  
the side of a body पद०

छेअ पु० (१) अन्त, प्रान्त, पर्यन्त End,  
The extreme position दे० ३, ३८,  
पात्र० ले० ७, ४८, (२) देवर, पतिका छोटा  
भाई. Husband's younger brother  
दे० ३, ३८, (३) एक देय, एक भाग  
A part, A portion (४) निर्विभाग  
अण Undivided portion क० ग०  
४, ८२

छेडा स्त्री० (१) शिखा, चोटी A braid  
of hair (२) नवमालिका, जता विशेष  
A kind of creeper A kind of  
jasmine दे० ३, ३६

छेदी स्त्री० छोटी गली, छोटा रास्ता A  
narrow lane दे० ३, ३१

छेय पु० स्तेन, चोर A thief पद०

छेत्र न० शूर्प वगैर. पुराना गृहोपकरण  
Household furniture. i.e., a win-  
nowing fan etc दे० ३, ३२

छेतसोवण्य. न० खेत में जागना To watch  
in the field. दे० ३, ३२

छेध पु० (१) स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु  
का विलेपन An ointment of odorous  
substances as sandal-wood etc.  
(२) चोर, चोरी करने वाला A thief  
दे० ३, ३६

छेभय पु० चन्दन आदि का विलेपन, स्थासक  
An unguent of sandal wood etc  
दे० ३, ३२

छेल-छेलय-ग पु० स्त्री० अज, जग, बकरा  
A goat दे० ३, ३२, स० १५०

छेलावण न० (१) उत्कृष्ट हर्ष-ध्वनि Loud  
laughter (२) बाल-क्रीडन Play of a  
child (३) चीस्कार, ध्वनि-विशेष A kind  
of sound आवम०

छेली स्त्री० थोड़े फूल वाली माला A  
garland of a few flowers दे० ३,  
३१

छेवग न० मारी वगैर फैली हुई बيمारी  
An epidemic, Plague etc. वष० ५,  
निसी० चू० १

छोइअ पु० दास, नौकर A servant  
दे० ३, ३३

छोइआ स्त्री० झिलका, ईल आदि की झाल  
Kind of sugarcane etc उप०  
७६८ टी, महा०

छोफरी. स्त्री० लडकी A girl कुप्र० ३५३.

छोट्टि स्त्री० उच्छिष्टता, कूड़ाई Refuse of  
food पिंड० १८०

छोडय. त्रि० छोटा, लघु Small, Dimi-  
nutive वज्रा० १६४

छोडि स्त्री० छोटी, लघु, चुद्र Small,  
Diminutive पिग०

छोडूण त्रि० छोडकर Having left  
कुप्र० ३१

छोवभ. पु० पिशुन, खल, दुर्जन A  
wicked man दे० ३, ३३

छोवभत्थ त्रि० अप्रिय, अनिष्ट Unpalatable,  
Not amiable दे० ३, ३३

छोवभइत्ती. स्त्री० (१) अस्पृश्या, छूने को अयोग्या  
A woman, unfit to be touched  
(२) द्वेष्या, अप्रीतिकर स्त्री० An envious  
woman दे० ३, ३६

छाभ पु० (१) पिशुन, खल, दुर्जन A  
wicked man दे०, ३३२ टी, (२) निस्सहाय,  
दीन Helpless, poor पण्य० १, ३,  
(३) न० वन्दन विशेष A kind of bowing  
गुभा० १, (४) आघात A blow महा०

छोयर पु० छोरा, लडका, छोकरा A boy,  
A lad उप० पृ० २१५

छोह पु० (१) समूह, यूथ, जत्था. A collec-  
tion, A multitude (२) विघोष Distur-  
bance दे० ३, ३६, (३) आघात. Blow.  
महा०

## ज

जञ्जल त्रि० ङञ्ज, आच्छादित Covered ,  
Concealed पङ्०

जकयसुकय त्रि० अल्प सुकृत मे ग्राह्य, थोड़े  
उपकार से थधीन होने वाला One who  
yields by a little obligation  
दे० ३, ४२

जगा स्त्री० गोचर भूमि, पशुओं की चरने की  
जगह Pasture दे० ३, ४०

जंघाच्छेत्र पु० चत्वर, चौक A court-  
yard , A square दे० ३, ४३

जघामय-जघालुञ्ज त्रि० जघाल, द्रुत-गामी,  
वेग से जाने वाला One who walks fast  
दे० ३, ४२

जपण न० (२) अकीर्ति, अपयश Infamy ,  
Disgrace (२) मुख, मुह A face , A  
countenance दे० ३, ४१, भवि०

जपिच्छय त्रि० जिसको देखे उसी को चाहने वाला  
One who loves whatever he sees  
दे० ३, ४४, पाञ्च

जपेक्खिरमगिर-जपेच्छिरमगिर त्रि० जिसको  
देखे उसी की याचना करने वाला One who  
begs for whatever he sees पङ्० दे०  
३, ४४

जवाल न० जवाल, सैवाल, जलमल Moss  
दे० ३, ४२, पाञ्च

जवुञ्ज पु० (१) जेतस वृक्ष A kind of  
tree (२) पश्चिम दिक्पाल A protecting  
diety of the western direction  
दे० ३, ४२

जबुल पु० (१) बानीर वृक्ष A kind of  
tree, A sort of Ratan (२) न० मद्य-  
भालन, सुरा-पात्र A wine-pot दे० ३, ४१

जबुल्ल त्रि० जल्पाक, बाचाट, बकवादी  
Talkative , Loquacious पाञ्च०

जंभ पु० तुप, धान्य बगैरह का झिलका Husk  
of a coin etc दे० ३, ४०

जभणभण जभणभण जभणाय त्रि० स्वच्छन्द  
भाषी, जो मरजी में आदे वह बोलने वाला One  
with an unrestrained tongue. पङ्०  
दे० ३, ४४

जभल पुं० जड, सुस्त, मन्द An idle man,  
A sluggard , A dullard दे० ३, ४१

जक्खरत्ति स्त्री० दीपालिका, दीवाली, कार्तिक  
वदी अमावस का पर्व Dipavali , The  
Dvali festival दे० ३, ४३

जगडण न० (१) झगडा, कलह Strife ,  
Quarrel (२) कदर्थन, पीडन Agony ,  
Anguish. उच० (३) त्रि० झगडा कराने वाला  
One who instigates others to  
quarrel (४) कदर्थना करने वाला One who  
afflicts धर्मवि० ८६, कुप्र० ४२६

जगडण स्त्री० देखो 'जगडण' शब्द Vide  
'जगडण' उप० ५३० टी

जगडिञ्ज त्रि० (१) लडाया हुआ Caused to  
fight धर्मवि० ३१, (२) विद्रावित,  
कदर्थित Afflicted दे० ३, ४४, सार्ध० ६७, उच०

जगत न० (१) पङ्कवाली मदिरा, मदिरा का  
नीचला भाग Muddy wine दे० ३, ४१, पाञ्च  
(२) ईस की मदिरा का नीचला भाग Muddy  
wine of sugar-canes दे० ३, ४१, पाञ्च०

जगार पु० राव, यवागृ, Gruel , Water  
boiled with sugar and flour प्रब० ४

जच्च पु० पुरुष, मर्द, आदमी A man ,  
A human being दे० ३, ४०

जच्चदण न० (१) अगर, सुगन्धि द्रव्य विरोप  
जो धूप के काम में आता है A fragrant  
substance which is used for

- frankincense (२) कुंकुम, केसर. Red powder दे० ३,५२
- जच्छद त्रि० स्वच्छन्द, स्वैर Wilful, Obstinate, Stubboin, Wanton, Unestrained दे० ४,४३, पङ्०
- जहू त्रि० अशक्त, असमर्थ Unable, Incapable, Weak प्रब० १०७
- जगदत्त (१) पुं० ग्राम का प्रधान पुरुष, गाव का मुखिया The leader of a village, A chief दे० ३,५२, षड्० (२) विद, भाड A class of jesters दे० ३,५२.
- जगणहर पुं० नर राक्षस, दुष्ट मनुष्य A grant, A wicked man षड्०
- जगणोहर. पुं० राक्षस, पिशाच A demon, An evil spirit, A grant दे० ३,४३
- जगह न० (१) छोटी थाली A small dish (२) त्रि० कृष्ण, काले रंग का. Black, Dark दे० ३,५१
- जगहली स्त्री० नीवी, नारा, इजारबन्द A string, A tape, A fillet A band for trousers or petticoats दे० ३,४०
- जगहुत्रा स्त्री० जाडु, घुटना A knee पाञ्च०
- जक्ति स्त्री० (१) चिन्ता Anxiety, Solitude (२) सेवा, सुश्रूषा Service श्वा० २८.
- जहर पु० न० वस्त्र विशेष A kind of garment सम्मत्त० २१८, २१९
- जन्नता-जन्ना स्त्री० बरात Bride-groom's party सुपा० ३६६ उप० ७६८ टी०
- जयण न० घोडे का बस्तर An armour of a horse दे० ३,४०
- जरड त्रि० बृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ३,४०.
- जरड त्रि० बृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ३,४०
- जरलद्विञ्च-जरलविञ्च त्रि० ग्रामीण, ग्राम्य. Pertaining to a village, Rustic, Relating to a village. दे० ३,४४
- जलुसग पुं० रोग विशेष A kind of disease उप० पृ० ३३२
- जवण न० हल की शिखा, हल की छोटी The top of a plough. दे० ३,४१.
- जवपचमाण पुं० जात्य अश्व का वायु-विशेष, प्राण वायु. A kind of gas of a noble horse, Oxygen गडड०
- जवय-जवरय पुं० यवका अक्षर A shoot of barley दे० ३,४२
- जवली स्त्री० जव, वेग. Speed, Haste सुपा० २७६
- जववारय पु० देखो 'जवरय' शब्द. Vide the word 'जवरय' पचा० ८.
- जहणरोह पु० जघा, जाँघ. Thigh. दे० ३,४४
- जहणूसव-जहपूसञ्च न० अधोस्त्र, जघनाद्युक्त, स्त्री के पहनने का वस्त्र विशेष. A kind of garment for a woman; A short petta-coat दे० ३,४५, पङ्०
- जहाजाय त्रि० जड़, मूर्ख, बेवकूफ Foolish, Silly; Indiscreet. दे० ३,४१, पणह० १,३
- जाई स्त्री० (१) मदिरा, सुरा, कारु Wine; Liquor दे० ३,४५
- जाउर पुं० कपिल्य-वृक्ष A kind of tree, The word-apple tree दे० ३,४५.
- जाडी स्त्री० गुल्म, जता-प्रतान A cluster of trees, A thicket दे० ३,४५
- जाणण न० बरात Bride-groom's party उप० ५६७ टी०
- जालघडिञ्चा स्त्री० चन्द्रशाला, अट्टालिका. A room on the top (of a house etc) Balcony दे० ३,४६
- जालघण्टी स्त्री० सन्हाल, खबर Care सिरि० ३८५
- जिडुह पु० कन्दुक, गेंद. A ball. प्रब० ३८
- जिग्घञ्च त्रि० प्रात, सूवा हुआ Smelt. दे० ३,४६.

## ज

- जञ्जल त्रि० छद्म, आच्छादित Covered,  
Concealed पद०
- जकयसुकय त्रि० अल्प सुहृत् ये ब्राह्म, थोडे  
उपकार से अधीन होने वाला One who  
yields by a little obligation  
दे० ३, ४२
- जगा स्त्री० गोचर भूमि, पशुओं की चरने की  
जगह Pasture दे० ३, ४०
- जघाच्छेत्र पु० चक्कर, चौक A court-  
yard, A square दे० ३, ४३
- जघामय-जघालुञ्ज त्रि० जघाल, हुत-गामी,  
वेग से जाने वाला One who walks fast  
दे० ३, ४२
- जघण न० (२) अकीर्ति, अपयश Infamy,  
Disgrace (२) मुख, मुंह A face, A  
countenance दे० ३, ४१, भवि०
- जपिच्छय त्रि० जिसको देखे उसी को चाहने वाला  
One who loves whatever he sees  
दे० ३, ४४, पाञ्च
- जपेक्खिरमगिर-जपेच्छिरमगिर त्रि० जिसको  
देखे उसी की याचना करने वाला One who  
begs for whatever he sees पद० दे०  
३, ४४
- जवाल न० जवाल, सैवाल, जलमल Moss  
दे० ३, ४२, पाञ्च
- जवुञ्ज पु० (१) वेतल वृक्ष A kind of  
tree (२) पश्चिम दिक्पाल A protecting  
diety of the western direction  
दे० ३, ४२
- जवुल पु० (१) बानीर वृक्ष A kind of  
tree, A sort of Ratan (२) न० मद्य-  
भाजन, सुरा-पात्र A wine-pot दे० ३, ४१
- जवुल त्रि० जल्पाक, बाचाट, बकवादी  
Talkative, Loquacious पाञ्च०
- जंभ पु० तुप, धान्य वगैरह का छिलका Husk  
of a coin etc दे० ३, ४०
- जमणमण जमणमण जमणय त्रि० स्वच्छन्द  
भाषी, जो मरजी में आवे वह बोलने वाला One  
with an unrestrained tongue पद०  
दे० ३, ४४
- जमल पु० जड, सुस्त, मन्द An idle man,  
A sluggard, A dullard दे० ३, ४१.
- जक्खरत्ति स्त्री० दीपालिका, दीवाली, कार्तिक  
वदी अमावस का पर्व Dipavali, The  
Dvali festival दे० ३, ४३
- जगडण न० (१) झगडा, कलह Skife,  
Quarrel (२) कदर्यन्त, पीडन Agony,  
Anguish. उव० (३) त्रि० झगडा कराने वाला  
One who instigates others to  
quarrel (४) कदर्यन्त करने वाला One who  
afflicts धर्मवि० ८६, कुम० ४२६
- जगडणा स्त्री० देखो 'जगडण' शब्द Vide  
'जगडण' उप० ५३० टी.
- जगडिञ्ज त्रि० (१) लड़ाया हुआ Caused to  
fight धर्मवि० ३१, (२) विद्रावित,  
कदर्यन्त Afflicted दे० ३, ४४, सार्ध० ६७, उव०
- जगल न० (१) पड़वाली मदिरा, मदिरा का  
नीचला भाग Muddy wine दे० ३, ४१, ५  
(२) ईल की मदिरा का नीचला भाग Muddy  
wine of sugar-canes दे० ३, ४१, पाञ्च०
- जगार पु० राव, बवाग, Gruel, Water  
boiled with sugar and flour प्रथ० ४
- जञ्ज पु० पुत्र, मर्द, आदमी A man,  
A human being दे० ३, ४०
- जञ्जदण न० (१) अगार, सुगन्धि द्रव्य विशेष  
जो धूप के काम में आता है A fragrant  
substance which is used for

- frankincense (२) कुंकुम, केसर. Red powder दे० ३,५२
- जच्छब्द त्रि० स्वच्छन्द, स्वेर Wilful, Obstinate, Stubborn, Wanton, Unrestrained दे० २,४२, पङ्०
- जडू त्रि० अशक्त, असमर्थ Unable, Incapable, Weak प्रब० १०७
- जणउत्त (१) पुं० ग्राम का प्रधान पुरुष, गाव का मुखिया The leader of a village, A chief दे० ३,५२, पङ्० (२) विट, भाड A class of jesters दे० ३,५२.
- जणएहर. पुं० नर राक्षस, दुष्ट मनुष्य. A giant, A wicked man पङ्०
- जणयोहण. पु० राक्षस, पिशाच A demon, An evil spirit, A giant दे० ३,४३
- जणह न० (१) छोटी थाली A small dish (२) त्रि० कृष्ण, काले रंग का. Black, Dark दे० ३,५१
- जणहली स्त्री० नीवी, नारा, ह्जारबन्द. A string, A tape, A fillet A band for trousers or petticoats दे० ३,४०.
- जणहुआ स्त्री० जातु, घुटना A knee पात्र० जन्ति. स्त्री० (१) चिन्ता Anxiety, Solitude (२) सेवा, सुश्रूषा Service श्रा० २८.
- जणह पुं० न० वस्त्र विशेष A kind of garment सम्मत्त० २१८, २१९
- जन्नात-जन्ना स्त्री० बरात. Bride-groom's party सुपा० ३६६ उप० ७६८ टी०
- जणय. न० घोड़े का यस्त्र An armour of a horse दे० ३,४०
- जरड त्रि० वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ३,४०
- जरड त्रि० वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ३,४०
- जरलद्विअ-जरलविअ त्रि० ग्रामीण, ग्राम्य. Pertaining to a village, Rustic, Relating to a village दे० ३,४४
- जलुसग पु० रोग विशेष A kind of disease उप० पृ० ३३२
- जवण. न० हल की शिखा, हल की घोटी The top of a plough. दे० ३,४१.
- जवपचमाण. पुं० जात्य अश्व का वायु-विशेष, प्राय वायु. A kind of gas of a noble horse; Oxygen गडउ०
- जवय-जवरय पुं० यवका अक्षुर A shoot of barley दे० ३,४२
- जवली स्त्री० जव, वेग. Speed, Haste सुपा० २७६
- जववारय. पुं० देखो 'जवरय' शब्द. Vide the word 'जवरय'. पचा० ८.
- जहणरोह पु० जघा, जँघ. Thigh. दे० ३,४४
- जहणूसव-जहणूसअ न० अर्धोत्क, जघनाशुक्र, स्त्री के पहनने का वस्त्र विशेष. A kind of garment for a woman; A short petta coat दे० ३,४५, पङ्०
- जहाजाय त्रि० जड़, मूर्ख, बेवकूफ. Foolish; Silly, Indiscreet दे० ३,४१, पणह० १,३.
- जाइ. स्त्री० (१) मदिरा, सुरा, वारु Wine, Liquor दे० ३,४५
- जाउर पुं० कपित्थ-वृक्ष A kind of tree, The word-apple tree. दे० ३,४५.
- जाडी स्त्री० गुल्म, लता-प्रतान A cluster of trees, A thicket दे० ३,४५
- जाणण न० बरात Bride-groom's party. उप० २६७ टी०
- जालघडिआ स्त्री० चन्द्रशाला, अटालिका. A room on the top (of a house etc) Balcony दे० ३,४६
- जालवणी स्त्री० संहाल, खपर Care सिरि० ३८५.
- जिडुह पुं० कन्दुक, गेंद. A ball. प्रब० ३८
- जिग्घत्त्र त्रि० प्रात, सूषा हुआ Smelt. दे० ३,४६

जिहणोदभवा स्त्री० दूवाँ, दूय. Grass दे० ३, ४६

जीण न० जीन, अश्व की पीठ पर बिछाया जाता चर्ममय आसन Saddle प्रच० ८४

जीवयमई स्त्री० सृगों के आकर्षण के साधन मूत व्याध—सृगी A means to attract deer दे० ३, ४६

जु अ० निश्चय सूचक अव्यय An adverb showing determination स० ४

जुअत्र पु० चातक पक्षी The name of a bird which is supposed to live only on rain-drops दे० ३, ४७

जुअल पु० युवा, तरुण, जवान A young man, A youth दे० ३, ४७

जुअलिअ त्रि० द्विगुणित Doubled दे० ३, ४७

जुआरि स्त्री० जुआरि A gambler सुपा० १४६, सुर० १, ७१

जुजिअ त्रि० बुभुक्षित, भूखा, Hungry, Famished. नापा० १, १

जुजुमय न० हरा तृण विशेष, एक प्रकार का हरा घास A kind of green grass स० ४८७

जुजुरुड त्रि० परिग्रह-रहित Devoid of possession दे० ३, ४७

जुड न० झूठ, असत्य, Lie, False-hood धर्मवि० १३३

जुडिअ त्रि० आपस में लुटा हुआ, लड़नेके लिए एक दूसरे से भिड़ा हुआ Prepared to wrestle उप० ७२८ टी

जुएण त्रि० विदग्ध, निपुण, दक्ष Diligent, Clever, Skilful दे० ३, ४७

जुरुमिल्ल त्रि० गहन, निविड, सान्द्र Dense, Thick. दे० ३, ४७

जुरुम्मिल्लय त्रि० गहन, निविड, सान्द्र Dense, Thick दे० ३, ४७.

जूसअ त्रि० उत्तिस, फेंका हुआ Thrown पद०

जेमणय न० दक्षिण अंग The right portion दे० ३, ४८

जोअड पु० खद्योत, कीट विशेष A kind of insect, A butterfly, A glow-worm पद०

जोअण न० लोचन, नेत्र, चक्षु. An eye दे० ३, ५०

जोइअ पु० कीट विशेष, खद्योत, A kind of insect, A butterfly, A glow-worm दे० ३, ५०

जोइंगण पु० कीट विशेष, इन्द्र-गोप A kind of insect दे० ३, ५०

जोइर त्रि० स्खलित Fallen, Declined दे० ३, ४६

जोइस न० नक्षत्र A constellation दे० ३, ४६

जोई स्त्री० विद्युत्, बिजली Lightning दे० ३, ४६, पद०

जोक्स त्रि० मलिन, अपवित्र Dirty, Unholy, Impious दे० ३, ४८

जोगा स्त्री० चातु, सुगामद Flattery, False praise दे० ३, ४८

जोड पु० न० (१) नक्षत्र A constellation दे० ३, ४६, पि० ६, (२) रोग विशेष A kind of disease सण०

जोडिअ पु० व्याध, वहेकिया A hunter दे० ३, ४६

जोएणलिअ स्त्री० अन्न विशेष, जुआर, A Juwaree, A kind of grain दे० ३, ५०


जोव पु० (१) बिन्दु A drop (२) त्रि० स्तोक, थोड़ा A little, Some दे० ३, ५२

जोवण न० (१) यन्त्र-रुका A machine शोध० ६०, मा० (२) धान्य का मर्दन, अन्न-मलन Rubbing to corns शोध० ६० मा०



जोवारि स्त्री० अन्न-विशेष, जुवारि Juwalee,  
A kind of grain दे० ३,५०  
जोत्रणीवय न० वृद्धाप, वृद्धत्व, जरा. Old-

ness दे० ३,५१  
जम्हुरावित्र्य त्रि० निवासित, निवास प्राप्त  
Dwelt, Inhabited पद०



## भ्र

भ्रकारित्र्य न० श्रवचयन, फूल वगैर का यादान  
To pluck flowers etc दे० ३,५६  
भ्रख त्रि० तुष्ट, सतुष्ट, खुश Contented,  
Satisfied, Pleased दे० ३,५३  
भ्रखर पुं० शुष्क तरु, सूया पेड़ A dry  
tree दे० ३,५४  
भ्रखरित्र्य न० देखो 'भ्रकारित्र्य' गन्द Vide  
'भ्रकारित्र्य' दे० ३,५६  
भ्रटलित्र्या स्त्री० चक्रमण, कुटिल गमन Going  
crookedly, Going tortuously दे०  
३,५५  
भ्रट्टित्र्य त्रि० जिस पर प्रहार किया गया  
हो वह, प्रहृत One who is beaten  
दे० ३,५५  
भ्रटी स्त्री० छोटा-किन्तु ऊँचा केश कलाप A  
little but tall braid of hair दे०  
३,५३  
भ्रडली स्त्री० असती, कुलटा An unchaste  
woman, A lewd woman दे० ३,५४  
भ्रडुत्र्य पुं० वृक्ष विशेष, पीलु का पेड़ A  
kind of tree दे० ३,५३  
भ्रडुली स्त्री० (१) असती, कुलटा An  
unchaste woman, A lustful woman  
(२) क्रीडा, खेल A play, A game, A  
sport दे० ३,६१  
भ्रदिय त्रि० प्रहृत, पलायित Run away,  
Escaped पद०  
भ्रपणी स्त्री० पचम, आँल के बाल The eye-  
lash दे० ३,५४, पाञ्च०

भ्रपित्र्य त्रि० (१) गूदित, टूटा हुआ Broken,  
(२) घट्टित, आहत Stricken, Beaten  
दे० ३,६१  
भ्रफित्र्य न० वचनीय, लोक-निन्दा Censure,  
Blame दे० ३,५, भवि०  
भ्रगड, पु० भ्रगडा, कलह A quarrel सुपा०  
५४६, ५४७  
भ्रगुली स्त्री० अभिसारिका a damsel  
that goes to meet her lover at an  
appointed place विक० १०१  
भ्रजभरी स्त्री० दूसरे के स्पर्श को रोकने के लिए  
चाढाल लोग जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह  
A stick kept by a butcher to prevent  
others touch दे० ३,५४  
भ्रडप्प अ० शीघ्रता, जल्दी. Speed, Haste  
उप० पृ० ११०, रभा०  
भ्रडप्पड न० भ्रडपट, भ्रटिति Haste. हे०  
४,३८८  
भ्रडित्र्य त्रि० (१) शिथिल, ढीला, सुस्त. Idle,  
Lazy, Dull गा० २३०, (२) थान्त, खिन्न,  
Weaned, Tired पद० (३) झड़ा हुआ,  
गिरा हुआ Fallen. पउम० ६६, १५  
भ्रडी स्त्री० निरन्तर वृष्टि Continued  
showers of rain. दे० ३,५३  
भ्रत्थ त्रि० (१) गत, गया हुआ Gone. (२)  
नष्ट Ruined, Destroyed दे० ३,६१  
भ्रपित्र्य त्रि० पर्यस्त, उत्थित Thrown  
पद०  
भ्रमाल न० इन्द्र-जाल, माया-जाल Jugglery,

Legerdemain. दे० ३,५३  
 भारक-भारत पुं० तृण वा बनाया हुआ पुरुष,  
 चन्दा, An image of a person made of  
 grass, A scare-crow placed in a  
 field to frighten away birds, beasts  
 etc. दे० ३,५५.  
 भारय. पुं० सुवर्णकार. A goldsmith दे०  
 ३,५४  
 भारुअ. पुं० मशक, मच्छक A mosquito.  
 दे० ३,५४  
 भालभलिआ स्त्री० भोली, कोथला, थैली A  
 bag, A purse दे० ३,५६  
 भालहलिय त्रि० झुंघ, विचलित Agitated,  
 Disturbed कुलक० ३३  
 भाला स्त्री० सुगन्ध्या, धूप में जलझान, ज्यथै  
 तृण्या Mirage, An optical illusion,  
 Presenting an image of water in  
 sandy deserts दे० ३,५३, पात्र०  
 भालुंकिअ-भालुसिअ. त्रि० दग्ध, जला हुआ  
 Burnt, Consumed by fire दे० ३,५६  
 भाल्तारी स्त्री० अजा, बकरी A goat चढ०  
 भाल्लोचभल्लिअ त्रि० सपूर्ण, परिपूर्ण, भरपूर  
 Full, Complete भवि०  
 भस पु० (१) अयश, अपकीर्ति Infamy,  
 Disgrace (२) तट, किनारा A bank, A  
 shore (३) त्रि० तटस्थ, मध्यस्थ Neutral,  
 Indifferent. (४) दीर्घ और गभीर, लम्बा  
 और गभीर Long and deep दे० ३,६०,  
 (५) टक से छिन्न Cut by a chisel दे०  
 ३,६०, पात्र०  
 भसर पु० न० शस्त्र-विशेष, आयुध-विशेष A  
 kind of weapon पठम० ८,६२  
 भसिअ त्रि० (१) पर्यन्त, उत्थित Thrown  
 (२) याकुष्ठ, जिस पर आक्रोश किया गया हो वह  
 One who is scolded दे० ३,६२  
 भाडल न० कर्पाल-फल, कर्पाल, रुई Raw-

cotton दे० ३,५७  
 भाभण न० जलाना, आग लगाना To set  
 on fire, चव० २  
 भाभर त्रि० वृद्ध, बूढ़ Old, Aged दे०  
 ३,५७  
 भाभल न० (१) शूल का एक प्रकार का रोग  
 A disease of the eye. (२) त्रि० भाभर  
 रोग वाला. An eye diseased उप० ०६८टी,  
 श्रा० १२  
 भाभिअ त्रि० दग्ध, प्रज्वलित Bunt दे०  
 ३,५६, चव० ७, (२) खामलित, काला किया  
 हुआ Made black (३) कलकित Stain-  
 ed, Disgraced सार्थ० १६  
 भाभुआ स्त्री० चीरी, सुद्वन्द्व विशेष A kind  
 of insect दे० ३,५७  
 भाभलण न० गुस्सा करना To be angry  
 उप० १४३टी  
 भाभिअ न० वचनीय, लोकापवाद, लोक निन्दा  
 Censure, Blame. दे० ३,५६  
 भाभिरड न० जीर्ण कूप, पुराना इनारा An  
 ancient well दे० ३,५७  
 भाभिअ. त्रि० भोला हुआ, पकड़ी हुई वह वस्तु  
 जो ऊपर से गिरती हो Caught सुपा० १७८,  
 भाभिल्लरिआ स्त्री० (१) चीट्टी नामक तृण A  
 kind of grass (२) मशक, मच्छक A  
 mosquito दे० ३,६२  
 भाभिल्लारी स्त्री० मच्छकी पकवने का एक तरह  
 का जाल An iron-cord to catch fishes.  
 विवा० १,८  
 भाभिल्ली स्त्री० लहरी, तरंग. A breeze, A  
 wave गठ०  
 भाभण न० (१) आग, शरीर A body (२)  
 कीट, कीटा i worm. दे० ३,६२.  
 भाभारा स्त्री० लज्जा, शरम Shame, Bashful-  
 ness दे० ३,६३  
 भाभर पु० तुण्य नामक वाद्य

musical instrument दे० ३,५८  
 कुं कुं मुसय न० मन का दुख Mental  
 pain दे० ३,५८  
 कुं टण न० (१) प्रवाह A current दे०  
 ३,५८, (२) पशु-विशेष A kind of beast  
 उप० ५५१  
 कुं पडा स्त्री० झोंपडा, नृण कुटिर A hut,  
 A cottage हे० ४,४१६, ४१८  
 कुं वणग न० प्रालम्ब A kind of pearl  
 ornament नाया० १,१  
 कुं ट्ट त्रि० झूठ, अलीक, असत्य Wrong,  
 False दे० ३,५८  
 कुं ती स्त्री० छेद, विच्छेद Ruin, Destru-  
 ction दे० ३,५८  
 कुं मु कुं मुसय न० मन का दुख Mental  
 agony दे० ३,५८  
 कुं लुक पुं० अकस्मात्-प्रकाश Accidental  
 light आस्मानु० ६  
 कुं लया स्त्री० कन्द विशेष A poem  
 पिंग०  
 कुं लुरी स्त्री० गुल्म, लता, गाड़ A creeper  
 दे० ६,५८  
 कुं सुर न० (१) ताम्बूल, पान A betel-leaf  
 दे० ३,६१, गडड० (२) अर्थ Meaning दे०  
 ३,६१

भूर त्रि० कुटिल, वक्र, टेढ़ा Crooked,  
 Oblique दे० ३,५६  
 भूसरित्र त्रि० (१) अत्यर्थ, अत्यन्त Much,  
 Great in quantity (२) स्वच्छ, निर्मल  
 Pure, Clean, Neat दे० ३,६२  
 भेडुअ. पु० कन्दुक, गेंद A ball. दे० ३,५६  
 भेर पुं० पुराना घंटा An ancient bell  
 दे० ३,५६  
 भोडलिआ स्त्री० रासक के समान एक  
 प्रकार की क्रीडा A kind of sport as a  
 circular dance दे० ३,६०  
 भोटिग पु० देव-विशेष A kind of god  
 कुप्र० ४७२  
 भोट्टी स्त्री० भैंस की एक जाति A kind of  
 buffalo दे० ३,५६  
 भोडप्प. पु० (१) चना, अन्न-विशेष Gram  
 (२) सूखे चने का शाक Vegetable of dry  
 gram दे० ३,५६  
 भोडिअ पु० व्याध, चहेलिया A hunter.  
 दे० ३,६०  
 भोस पुं० भाड़ना, दूर करना To remove,  
 To dismiss दा० ५,२  
 भोसण न० गवेषण, मार्गण Research,  
 Inquiry वव० २



ट

टउया स्त्री० आह्वान शब्द, पुकारने की आवाज  
 A sound of calling कुप्र० ३०६  
 टकवथुल पु० कन्द विशेष, एक जाति की  
 तरकारी A kind of vegetable, A kind  
 of tuberous root आ० २०  
 टका स्त्री० (१) जघा, जाँघ A thigh पात्र०  
 (२) स्वनाम ख्यात एक तीर्थ A famous

holy place ती० ४३  
 टकार पु० ओजस, तेज Lustre, Bright-  
 ness गडड०  
 टकिअ त्रि० प्रसृत, फैला हुआ Spread,  
 Expanded दे० ४,१  
 टवरय त्रि० भारवाला, गुरु, भारी Heavy,  
 Weighty दे० ४,२  
 टफर पु० टोकर, अग से अग का आघात.

Legerdemain दे० ३,२२  
 भारक-भरत पु० वृष का बनाया हुआ पुरुष,  
 चन्ना, An image of a person made of  
 grass, a scare-crow placed in a  
 field to frighten away birds, beasts  
 etc दे० ३,२४.  
 भरय. पु० सुवर्णकार. A goldsmith दे०  
 ३,२४  
 भरुअ. पु० मशक, मच्छड़ A mosquito.  
 दे० ३,२४  
 भलभलिया रंगी० भोली, कोयला, येजि A  
 bag, a purse दे० ३,२६  
 भलहलिय त्रि० दुग्ध, विचलित Agitated,  
 Disturbed कुलक० ३३  
 भला खी० मृगवृष्णा, धूप में जलज्ञान, व्यर्थ  
 वृष्णा Mirage, An optical illusion,  
 Presenting an image of water in  
 sandy deserts दे० ३,२३, पा०  
 भलुंकिअ-भलुंसिअ त्रि० दग्ध, जला हुआ  
 Burnt, Consumed by fire दे० ३,२६  
 भल्लरी खी० अजा, बकरी A goat चढ०  
 भल्लोउभल्लिअ त्रि० सपूर्ण, परिपूर्ण, भरपूर  
 Full, Complete भवि०  
 भस पु० (१) अयस, अपकीर्ति Infamy,  
 Disgrace (२) तट, किनारा A bank, A  
 shore (३) त्रि० तटस्थ, मध्यस्थ Neutral,  
 Indifferent. (४) दीर्घ और गभीर, लम्बा  
 और गभीर Long and deep. दे० ३,६०,  
 (५) टक से चिह्न Cut by a chisel दे०  
 ३,६०, पा०  
 भसर पु० न० शस्त्र-विशेष, आयुध-विशेष A  
 kind of weapon पउम० ५,६२  
 भसिअ त्रि० (१) पर्यस्त, उल्टिस Thrown  
 (२) आक्रुष्ट, जिस पर आक्रोश किया गया हो वह  
 One who is scolded दे० ३,६२  
 भाडल न० कर्पास-फल, कर्पास, रुई Raw-

cotton. दे० ३,२७  
 भाभरण न० जलाना, आग लगाना To set  
 on fire, वव० २  
 भाभर. त्रि० वृद्ध, बूढ़ Old, Aged दे०  
 ३,२७  
 भाभल न० (१) आँसू का एक प्रकार का रोग  
 A disease of the eye. (२) त्रि० कामर  
 रोग वाला. An eye diseased. उप० ०३६८वीं,  
 श्रा० १२  
 भाभिअ त्रि० दग्ध, प्रज्वलित Burnt. दे०  
 ३,२६, वव० ७, (२) रयामलित, काला किया  
 हुआ. Made black (३) कलकित Stain-  
 ed, Disgraced सार्ध० १६  
 भाभुआ खी० चीरी छुद्रन्तु विशेष A kind  
 of insect दे० ३,२७  
 भिजण न० गुस्ता करना To be angry  
 उप० १४३ टी  
 भिखिअ न० वचनीय, लोकापवाद, लोक निदा  
 Censure, Blame दे० ३,२६  
 भिरिड. न० जीर्ण कूप, पुराना इनारा An  
 ancient well दे० ३,२७  
 भिलिअ. त्रि० झोला हुआ, पकडी हुई वह वस्तु  
 जो ऊपर से गिती हो Caught सुपा० १७८,  
 भिल्लिरिआ खी० (१) चौट्टी नामक वृष A  
 kind of grass (२) मशक, मच्छड़ A  
 mosquito दे० ३,६२  
 भिल्लिरी खी० मछली पकड़ने का एक तरह  
 का जाल An iron-cord to catch fishes.  
 चिवा० १,८  
 भिल्ली खी० लहरी, तरंग A breeze, A  
 wave गडड०  
 भीण न० (१) अंग, शरीर A body (२)  
 कीट, कीड़ा A worm दे० ३,६२  
 भीरा खी० लज्जा, शरम Shame, Bashful-  
 ness दे० ३,२७  
 भुंख पु० तुष्य नामक वार्य A kind of

musical instrument दे० ३,५८  
 कुं कुं मुसय न० मन का दुःख Mental  
 pain दे० ३,५८  
 कुं टण न० (१) प्रवाह A current उ०  
 ३,५८, (२) पशु-विशेष. A kind of beast  
 उ० ५५१  
 कुं पडा स्त्री० झोंपडा, तृण कुटीर A hut,  
 A cottage हे० ४,४१६, ४१८  
 कुं वराग न० प्रालम्ब A kind of pearl  
 ornament नाया० १,१  
 कुं वृत्र त्रि० झूठ, अलीक, असत्य Wrong,  
 False दे० ३,५८  
 कुंती स्त्री० छेद, विच्छेद Rum, Destru-  
 ction दे० ३,५८  
 कुमुकुमुसय न० मन का दुःख Mental  
 agony दे० ३,५८  
 कुल्लुक पु० अकस्मात्-प्रकाश Accidental  
 light आत्मानु० ६  
 कुल्लया स्त्री० छन्द विशेष A poem  
 पिंग०  
 कुल्लुरी स्त्री० गुल्म, लता, गाड़ A creeper  
 दे० ६,५८  
 कुसुर न० (१) ताम्बूल, पान A betel-leaf  
 दे० ३,६१, गडड० (२) अर्थ Meaning दे०  
 ३,६१

भूर त्रि० कुटिल, वक्र, टेढ़ा Crooked,  
 Oblique दे० ३,५६  
 भूसरिअ त्रि० (१) अत्यर्थ, अत्यन्त Much,  
 Great in quantity (२) स्वच्छ, निर्मल.  
 Pure, Clean, Neat दे० ३,६२.  
 भेडुअ पु० कन्दुक, गेंद A ball. दे० ३,५६.  
 भेर पु० पुराना घण्टा An ancient bell.  
 दे० ३,५६  
 भोंडलिआ स्त्री० रासक के समान एक  
 प्रकार की क्रीडा A kind of sport as a  
 circular dance दे० ३,६०  
 भोटिंग. पु० देव-विशेष A kind of god  
 कुप्र० ४७२  
 भोट्टी स्त्री० भैंस की एक जाति A kind of  
 buffalo दे० ३,५८  
 भोडप्प. पु० (१) चना, अन्न-विशेष Gram  
 (२) सूखे चने का शाक Vegetable of dry  
 gram दे० ३,५६  
 भोडिअ पु० व्याध, बहेलिया A hunter.  
 दे० ३,६०  
 भोस पु० भाडना, दूर करना To remove,  
 To dismiss उ० ५,२  
 भोसण न० गवेषण, मार्गण Research,  
 Inquiry व० २



ट

टडया स्त्री० आह्वान शब्द, पुकारने की आवाज  
 A sound of calling कुप्र० ३०६  
 टकवत्थुल पु० कन्द विशेष, एक जाति की  
 तरकारी A kind of vegetable, A kind  
 of tuberous root आ० २०  
 टका स्त्री० (१) जघा, जाँघ A thigh पाश्च०  
 (२) स्वनाम ख्यात एक तीर्थ A famous

holy place स्त्री० ४३  
 टकार पु० भोजन, तेज, Lustre, Bright-  
 ness गडड०  
 टकिअ त्रि० प्रसृत, फैला हुआ Spread,  
 Expanded दे० ४,१  
 टवरय त्रि० भारवाला, गुरु, भारी Heavy,  
 Weighty दे० ४,२  
 टकर पु० ठोकर, अग से अग का आघात.

Kick, patting सुर० १२, ६७, वव० १  
 टकरा स्त्री० टकोर, सुट सिर में उँगली का  
 आघात A stroke, A pat on the  
 head with a finger वव० १ टी  
 टकारी स्त्री० अरणि वृक्ष का फूल A flower  
 of a particular tree दे० ४, २  
 टक्क पु० लकड़ी आदि के आघात की आवाज  
 A sound of the hit of a stick etc  
 कुप्र० ३०६  
 टट्टइआ स्त्री० जवनिका, पर्दा A veil, A  
 curtain दे० ४, १  
 टप्पर त्रि० विकराल कर्ण वाला, भयकर कान  
 वाला One having fearful ears दे० ४, २,  
 सुपा० १२०, कप्पू०  
 टमर पु० केश चय, बाल समूह. A tuft  
 of hair दे० ४, १  
 टलिआ त्रि० टला हुआ, हटा हुआ Moved  
 सिरि० ६२३  
 टसर न० विमोदन, मोडना To bend  
 दे० ४, १  
 टसरोट्ट न० शोषर, अवतस An ornament  
 worn on the head, Crest दे० ४, १  
 टहरिय त्रि० ऊँचा किया हुआ Raised,  
 Uplifted धर्मवि० १४७, सम्मत्त० १२८  
 टार पु० (१) अधम अरव, हठी घोड़ा An  
 obstinate horse दे० ४, २, आ० २७, (२)  
 टट्ट, छोटा घोड़ा A pony, A small horse  
 उप० १२५  
 टिट-टिटा स्त्री० जूआखाना A place for  
 gambling भवि०-साला स्त्री० जूआखाना  
 खेलने का मड़डा A place for gambling  
 सुपा० ४३५  
 टिबरू-टिबरू पु० न० वृक्ष विशेष, तँदू का  
 पेड़ A kind of tree दे० ४, ३, उप० १-  
 ११ टी० पात्र०  
 टिबरुणी स्त्री० देवो 'टिबरू' शब्द Vide  
 'टिबरू' पि० २१८

टिक न० (१) टीका, तिलक. A mark on  
 the forehead (२) सिर का स्तबक, मस्तक  
 पर रक्पा जाता गुच्छा A bunch kept on  
 a head दे० ४, ३  
 टिग्घर. त्रि० बूढ़, बूढ़ा Old, Aged  
 दे० ४, ३  
 टिप्पी स्त्री० तिलक, टीका A mark on  
 the forehead. दे० ४, ३  
 टिह्लिकिय त्रि० विभूषित, अलंकृत Decorat-  
 ed, Adorned धर्मवि० ११  
 टुट त्रि० छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कटा हुआ  
 हो वह One whose hands are cut  
 off दे० ४, ३, प्रासू० १४२, १४३  
 टुवय पु० आघात विशेष A kind of  
 stroke सुर० १२, ६७  
 टुप्परग न० जैन साधु का एक छोटा पात्र A  
 small vessel of a Jain monk  
 कुलक० ११  
 टेंट पु० (१) मध्य-स्थित मणि-विशेष A gem  
 set in the middle (२) त्रि० भीषण  
 Terrible कप्पू०  
 टेंटा स्त्री० (१) अक्षि गोलक The eyeball  
 (२) छाती का शुष्क ब्रण A dry wound  
 of the chest कप्पू०  
 (३) स्त्री० जूआखाना, जूआ खेलने का अड्डा A  
 place for gambling दे० ४, ३  
 टेंवरुय न० फल-विशेष A kind of  
 fruit आया० २, १, ८, ६  
 टेकर न० स्थल, प्रदेश A district,  
 Region, County दे० ४, ३  
 टोक्कण-टोक्कणखड न० दारु नापने का बरतन  
 A measure vessel of wine दे० ४, ४  
 टोप पु० श्रेष्ठ विशेष The name of a  
 master ल० ४५१  
 टोपपर पु० न० शिरस्त्राण-विशेष, टोपा A  
 cap, A hat पिग०  
 टोलव पु० मधुक, वृक्ष-विशेष A kind of  
 tree, The Asoka tree दे० ४, ४

## ठ

ठइअ त्रि० (१) उत्थित, ऊपर फेंका हुआ  
Raised, Uplifted (२) पु० अवकाश  
Leisure, दे० ४,५

ठडार पु० ताम्र, पित्तल आदि धातु के वर्तन  
बनाकर जीविका चलाने वाला A copper-  
smith. धर्म० ०

ठरिअ - त्रि० (१) गौरवित Dignified,  
Exalted (२) ऊर्ध्व-स्थित Stayed  
above. दे० ४,६

ठलिय त्रि० खाली, शून्य, रिक्त किया गया Em-  
pty, Exhausted सुपा० २३०

ठरल त्रि० निर्धन, धन-रहित Pool,  
Penniless दे० ४,५

ठविआ स्त्री० प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति An  
image, An idol दे० ४,५

ठाण पु० मान, गर्व, अभिमान Pride,  
Dignity दे० ४,५

ठाणिअ त्रि० (१) गौरवित, सम्मानित

Honoured, Respected दे० ४,५, (२)  
न० गौरव Honour, Reputation पद०

ठिअ न० ऊर्ध्व, ऊँचा Height, Lofti-  
ness दे० ४,६.

ठिक न० पुरुष-चिह्न The generating  
organ of a man दे० ४,५

ठिकरिआ स्त्री० ठिकरी, घडे का टुकड़ा The  
chip of an earthen pot आ० १४

ठिविअ न० (१) ऊर्ध्व, ऊँचा Height,  
Loftiness (२) निकट, समीप Nearness,  
Closeness, Intimacy (३) हिक्का, हिचकी  
Hiccough दे० ४,६

ठुठ पु० न० टुठा, स्थाणु The trunk of  
a tree ज० १

ठोड पु० (१) जोतिषी, दैवज्ञ An astrolo-  
ger, A fore-teller (२) पुरोहित A  
family priest. सुपा० ५५२.



## ड

डक पु० (१) डक, वृश्चिक आदि का काटा  
The sting of a scorpion पयह० १,१,  
(२) दंड स्थान, जहाँ पर वृश्चिक आदि डसा हो  
वह The place stung by a scorpion  
सुपा० ६०६

डगा स्त्री० डोंग, लाठी, यष्टि A stick सुपा०  
२३८, ३८८, ५४६

डड न० वस्त्र के सीप हुए टकड़े Sewn  
pieces of cloth दे० ४,७

डडय पु० रथ्या, गली A street, A  
lane दे० ४,८

डबर. पु० धर्म, गरमी, प्रस्वेद Perspira-

tion, Sweat दे० ४,८

डभिअ पु० जुआरी A gambler दे० ४,८

डक त्रि० दन्त-गृहीत, दाँत से उपात्त Seized  
by teeth दे० ४,६

डगण न० जहाज विशेष A kind of ship  
राज०

डगल न० (१) फल का टुकड़ा A slice of a  
fruit निसी० चू० १५, (२) ईंट, पाषाण बगैरे  
का टुकड़ा A brick, The fragment of  
a stone ओच० ३५६, ७८ भा०

डगल पु० घर के ऊपर का भूमि-तल The  
ceiling of a house दे० ४,८.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ढड्ढाली स्त्री० न्व-मार्ग, आग का रास्ता A way for fire दे० ४, ८                                                                | डाहर पु० देश-विशेष The name of a country पिन०                                                                                        |
| डफ न० सेल, कुन्त, आयुष विशेष A spear, a lance दे० ४, ७                                                                         | डाहाल पु० देश विशेष The name of a country सुपा० २६३                                                                                  |
| डल पु० लोप्ट, ढेला A clod, A turf दे० ४, ७                                                                                     | डिअली स्त्री० खड़ी A peg दे० ४, ६                                                                                                    |
| डल-डललग न० पिटिका, डाला, डाली, बॉस का बना हुआ फल-फूल रपने का पात्र A small bowl or pimple दे० ४, ७, आवम०                       | डिडिल्लिअ न० (१) खलि खचित वस्त्र, तेल-किट से व्याप्त कपडा A garment spoiled by the oil-dirt (२) स्खलित हस्त A spoiled hand दे० ४, १० |
| डल्ला स्त्री० डाला, डाली The branch of a tree कुम० २०६                                                                         | डिडी स्त्री० सीप हुए वस्त्र-खण्ड, Sewn pieces of cloth दे० ४, ७                                                                      |
| डल्लार त्रि० पीने वाला A drunkard कुमा०                                                                                        | डिफिअ त्रि० जल पतित, पानी में गिरा हुआ Fallen in water दे० ४, ६                                                                      |
| डवडव अ० ऊँचा मुह रव कर वेग से इधर उधर गमन Walking about quickly and clumsily with one's face turned upwards चढ०                | डिडुर पु० भेक, मयहूक, मेंढक A frog दे० ४, ६                                                                                          |
| डव्व पु० वाम हस्त, बाँया हाथ The left hand दे० ४, ६                                                                            | डिमिल न० वाद्य-विशेष, A kind of musical instrument विक्र० ८७.                                                                        |
| डहरक पु० (१) वृक्ष विशेष A kind of tree. (२) पुष्प विशेष A kind of flower धर्मवि० ६७                                           | डिल्ली स्त्री० जल-जंतु विशेष An aquatic insect जीव० १                                                                                |
| डहरिया स्त्री० जन्म से अठारह वष तक की लवकी A girl eighteen years old धव० ४                                                     | डीण त्रि० अक्षतोर्यं Come down दे० ४, १०                                                                                             |
| डहरी स्त्री० अलिङ्गर, मिट्टी का घडा An earthen pot दे० ४, ७                                                                    | डीणोवय न० उपरि, ऊपर Up, On, Above दे० ४, १०                                                                                          |
| डाअल न० लोचन, आँख, नेत्र An eye दे० ४, ६                                                                                       | डीर न० कन्दल, नवीन अक्षुर A fresh shoot दे० ४, १०                                                                                    |
| डाड पु० (१) फलिहसक वृक्ष, एक जाति का पेड़ A kind of tree (२) गणपति की एक तरह की प्रतिमा An image of the god Ganapati दे० ४, १२ | डुघ पु० नारियर का बना हुआ पात्र-विशेष A vessel made of cocoanut दे० ४, ११                                                            |
| डायाल न० हर्म्य-तल, मासाद भूमि The foot of a palace आया० २, २, १                                                               | डुडुअ पु० (१) पुराना घण्टा An ancient bell दे० ४, ११, (२) बडा घण्टा A big bell गा० १७२                                               |
| डाव पु० वाम हस्त, बाँया हाथ The left hand दे० ४, ६.                                                                            | डुडुआ स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument विक्र० ८७                                                                     |
|                                                                                                                                | डुजय न० वस्तु-खण्ड Pieces of cloth सुपा० ३६६                                                                                         |
|                                                                                                                                | डुलि पु० कच्छप, कडुआ A tortoise उप० पु० १३६                                                                                          |



डेकुण. पु० मत्कुण, मटमल A bug पङ्०  
डेङ्कुर पु० ददुर, भेक, मण्डुक A frog  
पङ्०

डेर त्रि० केरुटाच, नीची ऊँची आँव वाला  
An uneven-eyed man पिग०

डोआण न० लोचन, खॉय An eye दे० ४,६

डोंगिली स्त्री० (१) ताम्बूल रखने का भाजन-  
विशेष A betel-leaf box. (२) ताम्बूलिनी,  
पान बेचने वाले की स्त्री The wife of a  
betel-dealer दे० ४,१२.

डोंगी स्त्री० (१) हस्त-विम्ब, स्थासक. A  
bubble (of water or any fluid)  
(२) पान रखने का भाजन विशेष. A casket  
to hold betel leaves, alocanut etc  
दे० ४,१३

डोंविलय पु० डोम, चाण्डाल, A butcher  
स० २८६

डोङ्करी. स्त्री० बूढ़ी स्त्री० An old woman,  
कुप्र० ३५३

डोड. पु० ब्राह्मण, विम A Brahmun  
सुप० ३,१.

डोङ्ग पु० एक जवन्य मनुष्य जाति A lower  
class of men उप० १३६ टी

डोर पु० डोर, गुण्य, रस्सी. A rope, A  
string गा० २११, बज्जा० ६६


डोल. पु० (१) लोचन, शॉय, नयन. An eye-  
ball. दे० ४,६, (२) तन्तु विशेष A kind of  
insect बृह० १, (३) पु० चतुरिन्द्रिय जीव की  
एक जाति. A kind of living being  
having four senses सुप० ३६,१४८

डोला बोली, शिविका, पालकी A palan-  
quin, A litter दे० ४,११

डोलिअ पु० कृष्णसार, काला हिरन. A spotted  
antelope दे० ४,१२

डोल्लण्ण. पु० पानी में होने वाला जन्तु-विशेष.  
An aquatic insect सूप० २,३

डोसिणी स्त्री० ज्योत्स्ना, चन्द्र प्रकाश Moon-  
light पङ्०



## द

दङ्गण न० ढकना, पिधान A cover, A lid  
प्रासू० १० अशुलो०

दङ्गणी स्त्री० ढकनी, पिधानिका A cover,  
A lid दे० ४,१४

दंवर पु० न० फल-पत्र से रहित डाल A  
branch having no fruits and  
leaves गा० ७५६, बज्जा० ५२

दखरी स्त्री० एक प्रकार की वीणा A kind  
of musical instrument दे० ४,१४

दढ पु० (१) पक, कीच, कर्दम Mud, Mne,  
Dut दे० ४,१६, (२) त्रि० निरर्थक, निकम्मा  
Useless, Worthless दे० ४,१६, भवि०  
(३) दारिभक, कपटी Hypocritical,

Decetful, Malicious सम्मत्त० ३१.

दढणी स्त्री० कपिकच्छु, वृच विशेष A kind  
of tree दे० ४,१३

दढर पु० (१) पिशाच. A ghost, A  
spirit, A devil (२) ईर्ष्या. Envy,  
Jealousy दे० ४,१६.

दढरिअ पु० कर्दम, पक, कादा Mud,  
Slime दे० ४,१६

दढलिअ त्रि० भ्रान्त, घूमा हुआ Wandered,  
Rambled कुमा०

दढसिअ. पु० (१) ग्राम का यक्ष A village  
demigod (२) गाँव का वृक्ष A village  
tree दे० ४,१६

दंसय न० अयश, अपकीर्ति Disgrace, Infamy दे० ४, १४.

दकय. न० तिलक A mark on the forehead दे० ४, १४

दकरि त्रि० अद्भुत, आश्चर्य-जनक Wonderful; Surprising हे० ४, ४२२

दकित्र न० (१) बेल की गर्जना The bellowing of an ox अशुजो० २१२, सुख० ६, १, (२) त्रि० बन्द किया हुआ, आच्छादित Shut, Covered. स० ४६६, कुमा०

दगदगगा स्त्री० 'दग दग' आवाज, पानी पीने की आवाज A sound of 'Dhug Dhug' made in drinking water स० २२७

दड्ड पु० भैरी, वाद्य-विशेष A kind of kettle drum दे० ४, १३.

दड्डर न० गुरु वन्दन का एक दोष, बड़े स्वर से प्रणाम करना A fault in offering salutation (salutation offered in a loud tone is considered a fault) गुमा० २५, (२) त्रि० वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged. सार्ध० ३८

दमर न० (१) पिठर, स्थाली A dish दे० ४, १७, पात्र० (२) गरम पानी, उष्ण जल Warm water दे० ४, १७

दथर पु० (१) पिशाच A ghost, A spirit, A demon दे० ४, १६, पात्र० (२) ईर्ष्या, द्वेष Envy, Jealousy दे० ४, १६

दसहलय त्रि० सूदु, कोमल Tender, Delicate वज्जा० ११४

दलिय त्रि० झुका हुआ Bowed, Bent उप० घृ० ११८

दालिअ त्रि० नीचे गिराया हुआ Pulled down सुर० ३, २२८

दाव पु० आम्रह, निबन्ध Obsnacy कुमा०

दिकलीआ स्त्री० पात्र विशेष A kind of vessel सिरि० ४२६

दिंदय त्रि० जल में पतित Dropped in water दे० ४, १५

दिक्रय न० नित्य, हमेशा, सदा Always, Daily, Perpetually दे० ४, १५

दिक्रिय न० सॉडकी गर्जना The bellowing of a bull महा०

दिल्ल त्रि० ढीला, शिथिल Loose, Slack, Relaxed पि० १५०

दुक त्रि० (१) उपस्थित Present, Ready at hand. (२) स० ०५१, मिलित, पिया० Obtained (३) प्रवृत्त Engaged in, Embarked upon आ० २७, सख० भवि०

दुकलुक न० चमड़े से मढा हुआ वाद्य विशेष A musical instrument overlaid with leather सिरि० ४२६

देंका स्त्री० हर्ष, खुशी Delight, Joy, Pleasure दे० ४, १७

देंकी स्त्री० बलाका, वक्र-पक्ति A row of cranes दे० ४, १५

देंकुया पु० खटमल A bug दे० ४, १४

देंदिअ त्रि० घूपित, घूप दिया हुआ Bunt incense दे० ४, १६

दोंघर. त्रि० अमण-शील, घूमने वाला A wanderer, A rover, A Rambler दे० ४, १५

दोल्ल पु० (१) दोल, पटह A drum

(२) देश विशेष The name of a country

पिंग० (३) प्रिय, पति A lover, A husband सचि० ४७, हे० ४, ३३०

## ग

ग-स यह इस This हे० ३,७७, उप०  
६६०, गा० १३१, १६६.

गइमासय. न० पानी में होने वाला फल विशेष  
A kind of fruit growing in water  
दे० ४,२३

ग अ० (१) प्रश्न An adverb showing  
question. (२) उपमा An adverb  
showing simile प्राक० ७६

गागत्र. त्रि० रुद्ध, रोका हुआ Detained,  
Stopped पङ्०

गागल. पु० न० चञ्चु, चाँद \ beak, A bill,  
पउम० ४४,४०

गांतग न० वस्त्र, कपडा A garment कस०  
आव० ५

गाद न० (१) उख पीलने का कापड A machine  
to squeeze the sugar-cane (२)  
कुण्डा, पात्र विशेष A kind of vessel  
दे० ४, ४५

गादण. पु० भृत्य, नौकर, दास A servant  
दे० ४, १६

गादा स्त्री० गौ, गैया A cow दे० ४, १८

गादित्र न० सिंह की चिल्लाहट The roar of  
a lion दे० ४, १६

गादिक्ल पु० सिंह, मृगेन्द्र A lion दे०  
४, १६

गादिगी स्त्री० गौ, गैया A cow दे० ४, १८,  
पात्र०

गांदी स्त्री० गौ, गैया A cow दे० ४, १८, पात्र०

गाक पु० रावण का एक स्वनाम-ख्यात सुभट  
A warrior of king Ravana पउम०  
५६, २८

गाक त्रि० मूक, वाचा-शक्ति से रहित Dumb  
दे० ४, ४६

गाकपत्रण न० नय शोर कण्टक निकालने का  
गछ-विशेष A nail parel वृह० १

गागठ त्रि० बाहर निकला हुआ Projected.  
पङ्०

गाच्चिर. त्रि० रमण-शील Sportive, Playful.  
दे० ४, १८.

गाच्चर त्रि० मलिन, मला Dirty, Filthy  
दे० ४, १६

गाच्चर त्रि० विमल, निर्मल Pure, Clean  
दे० ४, १६

गाच्चिञ्च त्रि० वञ्चित, विप्रतारित Deceived,  
Cheated. दे० ४, १६

गाच्चुली स्त्री० कच्छुप, कच्छुग्रा A tortoise, A  
turtile दे० ४, २०.

गाच्चुरी स्त्री० भेक, मेंढक. A frog. दे० ४, २०

गाच्चुल न० (१) रत, मेथुन Copulation,  
Coition, Sexual intercourse (२)  
दुर्दिन, मेघाच्छन्न दिवस A cloudy day  
दे० ४, ४७

गाच्चण पु० (१) फूप, कुआँ A well (२)  
दुर्जन, खल A wicked (३) बडा भाई. An  
elder brother दे० ४, ४६

गाच्चण न० नाक में छिद्र करना To make a  
hole in a bullock's nostrils सुर०  
१४, ४१

गाच्चिञ्च त्रि० दुःखित Distressed, Miser-  
able दे० ४, २०.

गाच्च त्रि० आरोह Mounted, Ascended  
दे० ४, १८

गाच्चवय न० (१) अघृणा, घृणा का अभाव  
Absence of censure (२) निन्दा  
Censure दे० ४, ४७

गामसिञ्च न० उपयाचितक, मनौती A vow  
दे० ४, २२

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>शायय पु० ऊन का बना हुआ यास्तरण विशेष<br/>A kind of woollen bed नाया० १,१</p> <p>शालय न० उशीर, उस का दूष A fragrant<br/>grass usually used for making<br/>screens which give coolness and frag-<br/>rance in the summer season against<br/>the hot winds. दे० ४,१६, पात्र०</p> <p>शालिञ्च. न० गृह, घर, मकान A house<br/>दे० ४,२०, पद्०</p> <p>शाल्लय न० (१) बाड का छिद्र An opening<br/>in a hedge (२) प्रयोजन Object,<br/>Reason, Aim, (३) निमित्त, कारण<br/>Object, Cause, (४) त्रि० कर्दमित, कीच<br/>वाला Muddy, Dirty, Marshy दे०<br/>४,४६</p> <p>शारि. अ० शीघ्र, जल्दी Quickly, Rapid-<br/>ly; Hastily प्राक्० ८१</p> <p>शारिञ्च न० सहसा, जल्दी, तुरन्त Haste,<br/>Hurry दे० ४,२२, पात्र०</p> <p>शाल्लया स्त्री० वह व्रत जिस में पति का नाम<br/>पूछने पर उसे नहीं बताने वाली स्त्री पलाश की<br/>व्रत से ताडित की जाती है A kind of vow<br/>by the observance of which a<br/>woman does not tell her lover's<br/>name in spite of her being asked and<br/>beaten with a creeper of the wild<br/>tree called Palash दे० ४, २१</p> <p>शाल्लिञ्च. न० उपवाचितक, मनौती A vow<br/>or promise made to a deity. दे० ४,<br/>२२, पात्र० वजा० ८६</p> <p>शाल्लिञ्च. न० उच्छिष्ट, जड़ा Offal,<br/>Refuse, Waste meal दे० ४, २३</p> <p>शाल्लि पु० ग्राम्य, गाँव का मुखिया A chief,<br/>The leader of a village दे० ४, १०</p> <p>शाल्लि पु (१) ईश्वर, धनाइय, भोगी A<br/>rich man (२) नियोगी का पुत्र, सूबा का</p> | <p>लडका The son of a Governor or a<br/>Viceroy दे० ४, २२</p> <p>शास्त्री न० नस, नाडी A vein, A sinew.<br/>सुपा० ३५५</p> <p>शाहमुह पु० बूक, उल्लू An owl दे०<br/>४, २०</p> <p>शाहरण पु० नल वाला जन्तु, श्वापद A<br/>creature having claws वजा० १२</p> <p>शाहरणी स्त्री० नहरनी, नल उतारने का शस्त्र<br/>A nail parer, A nail-paring instru-<br/>ment पचव० ३</p> <p>शाहरी स्त्री० छुरिझ, छुरी A knife<br/>दे० ४, २०</p> <p>शाहूत शाहूतग पु० जहाज द्वारा व्यापार करने<br/>वाला सौदागर A ship merchant उप०<br/>पृ० १०१, उप० २६२</p> <p>शाहूत पु० (१) सद्भाव, सन्निधि A vir-<br/>tuous motive (२) अभिप्राय An<br/>opinion, A view (३) मनोरथ, वाञ्छा<br/>A wish, A desire दे० ४, ४०.</p> <p>शाहूत त्रि० गोमाव, जिसके पास अनेक गैया<br/>हों A cowherd, One who possesses<br/>many cows. दे० ४, २३</p> <p>शाहूत-शाहूतग. न० मुद्रा A coin मुञ्ज०<br/>१७, राज०</p> <p>शामसतकस पु० अपराध, गुनाह A crime,<br/>An offence गडड०</p> <p>शामसिञ्च-शामोक्षसिय न० कार्य, काम, का<br/>Work, Action. हे० २, १७४, दे० ४, २५</p> <p>शाह त्रि० गर्विष्ठ, अभिमानी Proud,<br/>Allogant. दे० ४, २३.</p> <p>शाह पु० समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला<br/>व्यक्ति A merchant trading by sea-<br/>route उप० २६७ टी</p> <p>शाह पु० कूलार, गतीकार स्थान A place<br/>having the form of a pit पात्र०</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

एारोट्ट पु० (१) विह, साँप आदि का रहने का स्थान, विवर A hole. (२) कूसार, गतांकार स्थान A place having the form of a pit दे० ४,२३

एालापिच्य न० आक्रन्दित, आक्रन्द-ध्वनि Lamenting sound दे० ४, २४

एालावि पु० कुन्तल, केश कलाप A lock of hair दे० ४,२४

एालि त्रि० झस्त, गिरा हुआ Dropped, Slipped पड०

एालिच्य त्रि० मूढ, मूर्ख, अज्ञान Foolish, Ignorant हे० ४, ४२२

एावण न० दान, वितरण Alms, Donation पणह० १,३

एावा स्त्री० प्रसृति, अजली, परिमाण विशेष A handful प्रव० १०६ टी

एावापूरय. पु० खुलुक, खुलू The palm of the hand contracted so as to hold water, The water so held दृह० १

एाहियाम न० वितान के बीच की रस्सी The string of the middle of a screen दे० २, २४

एाहिविच्छेअ-एाहीपविच्छेअ पु० जघन, कटी के नीचे का भाग The thigh, the lower part from the loins दे० ४,२४

एिअधण न० वस्त्र, कपडा A garment दे० ४,२८

एिअकल त्रि० वतुंल, गोलाकार पदार्थ Circular, Round, A globular article दे० ४, ३६, पाअ०

एिअद्धण न० परिधान, पहनने का वस्त्र A cloth, A garment पड०

एिअय न० (१) रत, मैथुन Coition, Copulation (२) शयनीय, शय्या A Bed, (३) घट, घडा A pot. दे० ४,४८

एिअरण न० दण्ड, शिचा Punishment स० ४२६

एिअरिच्य त्रि० राति रूप से स्थित Existed in collection दे० ४,३८

एिअल न० नूपुर, स्त्री का पादाभरण विशेष An anklet, An ornament for the feet दे० ४,२८

एिआशिआ स्त्री० पत्रात्र नृणा का उन्मूलन. Removal of weeds दे० ४,३२

एिआरिच्य त्रि० (१) कानी नजर से देखा हुआ Seen through a side long glance (२) न० आधी नजर से निरीक्षण Seen with a half glance कुमा०

एिउक त्रि० तूष्णीक, मोन रहने वाला One who keeps silence, दे० ४,२०, पाय०

एिउकण पु० (१) वायल, काक A crow. (२) त्रि० मूक, वाक्-शक्ति स हीन Dumb दे० ४,२१

एिउर त्रि० (१) छिन, काटा हुआ Cut. (२) जीर्ण, पुराना Old, Ancient पड०

एिउल पु० गॉट, गठरी A package, A bundle महा०

एिदिशी स्त्री० कुत्सित तृषां का उन्मूलन Removal of weeds दे० ४,३२

एिफज त्रि० अनावस्थित, चंचल Active, Bisk, Flisky दे० ४,३३, पाअ०

एिफड त्रि० (१) कठिन Hard, Difficult दे० ४,२६, (२) पु० निश्चय, निर्णय Resolution, Determination पड०

एिफल त्रि० पोलापन से रहित Devoid of hollowness, Solid सुपा० १, भग० १२.

एिक्कुइल स्त्री० जीता हुआ विनिजित Joined, Connected दे० १,४

एिक्ख पु० (१) चोर A thief (२) सुवर्ण, काल्चन Gold दे० २,४७

एिक्खसरिच्य त्रि० सुषित, जो लूट लिया गया

शयय पु० ऊन का बना हुआ यास्तरण वियोप

A kind of woollen bed नाया० १,१

शयय न० उशीर, रस का वृष A fragrant grass usually used for making screens which give coolness and fragrance in the summer season against the hot winds. दे० ४,१६, पाश्र०

शययित्री. न० गृह, घर, मकान A house. दे० ४,२०, पद०

शययल्य न० (१) गड का छिद्र An opening in a hedge (२) प्रयोजन, Object, Reason, Aim, (३) निमित्त, कारण Object, Cause, (४) त्रि० कर्दमित, कीच वाला Muddy, Dirty, Marshy दे० ४,४३

शययि. अ० शीघ्र, जल्दी Quickly, Rapidly, Hastily प्राक्० ८१

शययित्री. न० सहसा, जल्दी, तुरन्त Haste, Hurry दे० ४,२२, पाश्र०

शययलया स्त्री० वह व्रत जिस में पति का नाम पूछने पर उसे नहीं बताने वाली स्त्री पत्न्या की कता से तादित को जाती है A kind of vow by the observance of which a woman does not tell her lover's name in spite of her being asked and beaten with a creeper of the wild tree called Palash दे० ४, २१

शययसित्री न० उपयाचितक, मनोती A vow or promise made to a deity दे० ४, २२, पाश्र० वजा० ८६

शययद्वरण न० उच्छिष्ट, जूड़ा Offal, Refuse, Waste meal दे० ४, २३

शयय पु० शायक, गाँव का मुखिया A chief, The leader of a village दे० ४, १७

शययवत्त पु (१) ईश्वर, धनाढ्य, भोगी A rich man (२) नियोगी का पुत्र, सुबा का

लडका The son of a Governor or a Viceroy दे० ४,२२

शयसा स्त्री० नस, नाडी A vein, A sinew. सुपा० ३५५

शयसुह पु० घृक, उल्लू An owl दे० ४,२०.

शयहरण पु० नल वाला जन्तु, श्वापद A creature having claws वजा० १२

शयहरणी स्त्री० नहरनी, नल उतारने का शस्त्र A nail parel, A nail-paring instrument पचव० ३

शयहरी. स्त्री० छुरिका, छुरी A knife दे० ४,२०

शयइत्त-शयइत्तग पु० जहाज द्वारा व्यापार करने वाला सोदागर A ship merchant उप० पृ० १०८, उप० १६२

शयउडु पु० (१) सद्भाव, सखिष्ठा A virtuous motive (२) अभिप्राय An opinion, A view (३) मनोरथ, वाञ्छा A wish, A desire दे० ४,४७.

शयउल्ल त्रि० गोमान, जिसके पास अनेक गैया हो A cowherd, One who possesses many cows दे० ४,२३

शययक-शययग न० मुद्रा A coin मृच्छ० १७, राज०

शययमतक्ख पु० अपराध, गुनाह A crime, An offence गडड०

शययकसिअ-शययकोसिअ न० कार्य, काम, कान Work, Action हे० २,१७४, दे० ४,२४.

शयय त्रि० गर्विष्ठ, अभिमानी Proud, Arrogant. दे० ४,२३

शययत्त पु० समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला वयिक् A merchant trading by sea route उप० ११७ टी

शययट्ट पु० कुत्तर, गतीकार स्थान A place having the form of a pit पाश्र०

पारोह पुं० (१) बिल, सॉप आदि का रहने का स्थान, विवर A hole. (२) कूसार, गतांकार स्थान A place having the form of a pit दे० ४,२२

पालपिअ न० आकन्दित, आकन्द-ध्वनि Lamenting sound दे० ४, २२

पालत्रि पुं० कुन्तल, केश क्लाप A lock of hair दे० ४,२४

पालि त्रि० सस्त, गिरा हुआ Dropped, Slipped पङ्०

पालिअ त्रि० मूढ, मूर्ख, अज्ञान Foolish, Ignorant हे० ४, २२२

पालण न० दान, वितरण Alms, Donation पङ्० १,२.

पाला स्त्री० प्रसृति, अजली, परिमाण-विशेष A handful प्र० १०६ टी

पालापूरय. पु० जुलुक, चुल्लू The palm of the hand contracted so as to hold water, The water so held वृह० १

पालिणाम न० वितान के बीच की रस्सी The string of the middle of a screen दे० २, २४

पालिचिच्छेअ-पालिचिच्छेअ पु० जघन, कटी के नीचे का भाग The thigh, the lower part from the loins दे० ४,२४

पालिअण न० वस्त्र, कपडा A garment दे० ४,२८

पालिकल त्रि० चतुर्ल, गोलाकार पदार्थ Circular, Round, A globular article दे० ४, ३६, पात्र०

पालिअण न० परिधान, पहनने का वस्त्र A cloth, A garment पङ्०

पालिअय न० (१) रत, मैथुन Coition, Copulation (२) शयनीय, शय्या A Bed, (३) घट, घडा A pot दे० ४,४८

पालिअण न० दण्ड, शिक्षा Punishment स० २५६

पालिअण त्रि० राशि रूप में स्थित Existed in collection दे० ४,३८

पालिअण न० नूपुर, सी का पादाभरण विशेष An anklet, An ornament for the feet दे० ४,२८

पालिअणिअ स्त्री० पराज नृया का उन्मूलन Removal of weeds. दे० ४,३५

पालिअरिअ त्रि० (१) कानी नजर से देखा हुआ Seen through a side long glance (२) न० आधी नजर से निरीक्षण Seen with a half glance कुमा०

पालिअक त्रि० तृष्णीक, मौन रहने वाला One who keeps silence, दे० ४,२७, पात्र०

पालिअकण पु० (१) वायस, काक A crow (२) त्रि० मूक, वाक्-शक्ति में हीन Dumb दे० ४,५१

पालिअर त्रि० (१) छिन्न, काटा हुआ Cut (२) जीर्ण, पुराना Old, Ancient पङ्०

पालिअल पु० गोंड, गडरी A package, A bundle महा०

पालिअली स्त्री० कुत्सित नृया का उन्मूलन Removal of weeds दे० ४,३५

पालिअल त्रि० अनावस्थित, चंचल Active, Bisk, Flisky दे० ४,३३, पात्र०

पालिअल त्रि० (१) कठिन Hard, Difficult. दे० ४,२६, (२) पुं० निश्चय, निर्णय Resolution, Determination पङ्०

पालिअल त्रि० पोलापन से रहित Devoid of hollowness, Solid सुपा० १, भग० १६.

पालिअल स्त्री० जीता हुआ विनिजित Joined, Connected दे० १,४

पालिअल पु० (१) चोर A thief (२) सुवर्ण, काल्चन Gold दे० २,४७

पालिअलसरिअ त्रि० सुषित, जो लूट लिया गया

हो, अपहृत-सार Stolen, Looted दे० ४, ४१  
 शिवस्वामिन् त्रि० शान्त, उपशम-प्राप्त Calm, Serene पङ्०  
 शिवस्युक्त न० निश्चित, नक्का, चोकस Certain, Sure पठम० १३, १३८  
 शिवस्युक्ति त्रि० अस्थिर, अस्थिर Unsteady, Unsettled दे० ४, ४०  
 शिवगृह पु० धर्म, वाम, गरमी Heat, Warmth. दे० ४, २०  
 शिवगमिन् त्रि० निवासित. Dwelt, Resided. पङ्०  
 शिवगमा स्त्री० हरिद्रा, हलदी Turmeric दे० ४, २२  
 शिवगिरिणि त्रि० (१) निर्गत बाहर निकला हुआ Come out, Issued दे० ४, ३६, पाश० (२) वान्त, वमन किया हुआ Vomited से० ५, २६  
 शिवगद्वि त्रि० कुशल, निपुण, चतुर Skilful, Dexterous दे० ४, ३४  
 शिवगच्छिन् त्रि० चिम, फेंका हुआ Thrown, Discharged पाश०  
 शिवघोर. त्रि० निर्दय, दया दौन Wicked, Cruel, Merciless दे० ४, ३०  
 शिवचुहु त्रि० (१) उद्गत, बाहर निकला हुआ Come out, Issued पङ्० (२) निर्दय, दया रहित Cruel, Merciless पाश०  
 शिवच्छन्नक त्रि० निर्लज्ज, बेशरम, घट Shameless, Impudent बृह० १, वव० ५  
 शिवच्छुड त्रि० निर्दय, कलहा-रहित. Cruel, Pitiless दे० ४, ३२  
 शिवच्छुट् त्रि० निसुक्त, छूटा हुआ Released, Liberated सुर ६, ७२  
 शिवज त्रि० सुप्त, सोया हुआ Sleeping दे० ४, २५, पङ्०  
 शिवजाय पु० उपकन Obligation दे० ४, ३४

शिवजोष्य पु० (१) प्रकर, राशि A pile (२) पुष्पों का ढगकर A heap of flowers दे० ४, ३३  
 शिवजोमि पु० रस्ती रज्जू A string दे० ४, ३१  
 शिवजूर त्रि० जीर्ण, पुराना Old, Ancient दे० ४, २६  
 शिवज्जाय त्रि० निर्दय, दया-रहित Cruel, Pitiless दे० ४, ३०  
 शिवजूर त्रि० जीर्ण, पुराना Old, Ancient दे० ४, २६  
 शिवट्टक त्रि० विषम, असमान Unequal दे० ४, २०  
 शिवट्टुह त्रि० स्तब्ध, निश्चेष्ट Insensible, Steady. दे० ४, ३३  
 शिवट्टुहृण न० थूक, मुंह का पानी Spittle, Saliva महा०  
 शिवट्टुहिन् न० थूक, खलार Sahva, Spittle दे० ४, ४१  
 शिव पु० पिशाच, राक्षस A demon, An evil-spirit दे० ४, २५  
 शिवषाला स्त्री० चन्तु, चोंच A bill, A beak दे० ४, ३६  
 शिवत्तिरदि त्रि० निरंतर, अव्यवहित Continual, Uninterrupted, Constant दे० ४, ४०  
 शिवत्तिरदि त्रि० नुद्धि, टूटा हुआ Broken दे० ४, ४१  
 शिवतुष त्रि० स्नेह-रहित, घृत आदि से वञ्चित Unsympathetic, Devoid of Ghee etc बृह० १  
 शिवदोष न० (१) भयका ग्रमान Absence of danger (२) स्वास्थ्य, तंदुरस्ती Health प्रथ० २६८  
 शिवद्वेष त्रि० निर्दय, निपुण Cruel, Merciless दे० ४, ३०, शीघ्र० ४२५, पाश०



पुष्प० ४५४, सद्धि० २६, सुपा० २४५, श्रा० ३६,  
 (२) निर्लज्ज, वेशरम Shameless, Impu-  
 dent विवे० १२८  
 शिद्धम. त्रि० अविभिन्न-गृह, एक ही घर में रहने  
 वाला One who resides in one and  
 the same house, A house-fellow  
 दे० ४,३८  
 शिद्धमाय त्रि० अविभिन्न-गृह, एक ही घर में  
 रहने वाला One living in the same  
 house, A house-fellow दे० ४,३८  
 शिद्धम्म त्रि० एकमुख-यायी, एक तरफ जाने वाला  
 One going in the same direction  
 दे० ४,३५  
 शिपट्ट न० गाढ Thick, Dense प्राक० ३८  
 शिप्पट्ट त्रि० अधिक. More दे० ४,२१  
 शिप्पशिञ्ज. त्रि० जज्ञ-धौत, पानी से धोया  
 हुआ Washed by water, Water-  
 washed पङ्०  
 शिपिचञ्च त्रि० (१) ऋजु, सरल Easy,  
 Not difficult (२) दृढ़ मजबूत Strong,  
 Firm, Steady दे० ४,४६  
 शिप्फस त्रि० निर्दय, निस्त्रिण Cruel,  
 Merciless पङ्०  
 शिप्फरिस त्रि० निर्दय, दया-हीन Cruel,  
 Merciless दे० ४ १०  
 शिप्फेस पु० शब्द-निर्गम, आवाज निकालना  
 Emission of a sound दे० ४,२६  
 शिव्युक त्रि० (१) निर्मूल, मूल-रहित  
 Rootless (२) कि० वि० मूल से Origin-  
 ally. पङ्० १,३  
 शिष्मिष्ट त्रि० आक्रान्त Surrounded,  
 Encompassed भवि०  
 शिष्मुग त्रि० भग्न, लथिडत Broken  
 दे० ४,३२  
 शिभेलया न० गृह, घर, स्थान A house,  
 A place कर्म०


शिमिञ्ज त्रि० आघ्रात, सूना हुआ Sinell  
 पङ्०  
 शिमेण न० स्थान, जगह A place. दे० ४,३७.  
 शिमेले. स्त्री० न० दन्त-मास Gums  
 दे० ४,३०  
 शिम्मसा स्त्री० देवी विशेष, चामुण्डा The  
 name of a goddess दे० ४,३५  
 शिम्मय त्रि० गत, गया हुआ (gone,  
 Past दे० ४,३४  
 शिम्मीसुत्र त्रि० रमश्रु-रहित, दाढ़ी मूँछ  
 रहित Without mustache, beard  
 पङ्०  
 शिरंगी स्त्री० सिर का आवगुण्डन, घूँघट A  
 veil, A garment worn over the  
 face and head by a woman दे०  
 ४,३१, २,२०  
 शिरक्क पु० (१) चोर, स्तेन A thief  
 (२) पृष्ठ, पीठ The back (३) स्थित,  
 Stayed दे० ४,४६  
 शिरप्प पु० (१) पृष्ठ, पीठ The back  
 (२) त्रि० उद्वेष्टित Surrounded, En-  
 compassed दे० ४,४६  
 शिराद त्रि० नष्ट, विनाश-प्राप्त Ruined,  
 Destroyed दे० ४,३०  
 शिराय त्रि० (१) ऋजु सरल Easy, Not  
 difficult दे० ४,५०, पात्र० (२) प्रकट,  
 खुला Opened, Clear (३) पु० रिपु,  
 शत्रु An enemy, A foe दे० ४,५०,  
 (४) लम्बा किया हुआ Lengthened,  
 Extended. से० २,४०, (५) अत्यन्त, प्रचुर  
 Very much, In a great degree  
 सुल० २,७.  
 शिरास त्रि० नृशस, क्रूर Cruel, Wicked  
 पङ्०  
 शिराह त्रि० निर्दय, निष्करुण Pitiless,  
 Cruel दे० ४,३७

- शिरिञ्च त्रि० अवशेषित, बाकी रमा हुआ । शिशुद्र त्रि० नग्न, नगा Naked, Nude. दे० ४,२८
- शिरिक त्रि० नत, नमा हुआ Bont, Bowed दे० ४,३०
- शिरुक्त कि० वि० (१) चौकस, निश्चय Surely, Certainly दे० ४,३०, पडम० ३५,३२, कुमा० सण० (२) त्रि० निश्चिन्त, चिन्ता रहित Careless कुमा०
- शिरुलि पु० छी० कुम्भीर की आकृति वाला जन्तु. An insect having the form of a shalk दे० ४,२७
- शिरुवक्कय त्रि० अकृत, नहीं किया हुआ Not done दे० ४,४१
- शिलक पु० पतद्रव्य, पिकदान, छीवनपात्र A spittoon दे० ४,३१
- शिल्लंक पु० देखो 'शिलक' शब्द Vide 'शिलक' दे० ४,३१
- शिल्लसिञ्च त्रि० निर्गत, निसृत Come out दे० ४,३६
- शिवच्छरण न० अवतारण, उतारना To bring down, To unload दे० ४,४०
- शिवह पु० समृद्धि, वैभव Grandeur, Magnificence दे० ४,२६
- शिवाय पु० स्वेद, पसीना Sweat, Perspiration दे० ४,३४, सुर० १२,८
- शिविद्धं त्रि० (१) सोकर उठा हुआ Roused, Awakened (२) निराश, हताश Despairing, Despondent, Hopeless (३) उद्भट Obstinate, Stubborn, (४) नृशस, निर्दय Cruel, Wicked दे० ४,४८
- शिव्व न० (१) कज्जद, चिन्ह A sign, A symbol (२) ब्याज, बहाना An excuse दे० ४,४८
- शिव्वक्कर त्रि० परिहास रहित, सत्य Truth, Veracity कुप्र० १६०
- शिव्वमिञ्च त्रि० परिभुक्त Enjoyed दे० ४,३६
- शिव्वलिञ्च त्रि० (१) जल-धौत, पानी से धोया हुआ Washed by water (२) प्रविगणित Counted (३) वियुक्त, विघटित Separated, Disunited दे० ४,४१
- शिव्वहण न० विवाह, सादी Marriage दे० ४,३६
- शिव्ववाण न० दुःख-कथन Tales of sorrow दे० ४,३३.
- शिव्विद्ध त्रि० उचित, योग्य Proper, Worthy दे० ४,३४
- शिव्वित्त त्रि० सोकर उठा हुआ Awakened, Roused from sleep दे० ४,३२
- शिव्विवर त्रि० चपटा, दबा हुआ Dumpy, Piesed. गा० ७२८ टि०
- शिव्व्यूह त्रि० (१) स्तब्ध Insensible, Steady. दे० ४,३३. (२) न० घर का पश्चिम आगन The western court of the house दे० ४,२६
- शिव्वेह त्रि० नग्न, नगा Naked, Nude दे० ४,२८
- शिव्वेरिस त्रि० (१) निर्दय, निष्करुण Cruel, Merciless (२) अत्यन्त, अधिक Excessive, Too much दे० ३,३७
- शिव्वोल्लण न० क्रोध से होठ को मलिन करना To defile the lips with anger कुमा०
- शिसत्त त्रि० मनुष्ट, सतोप युक्त Contented, Satisfied दे० ८,३०
- शिसाय त्रि० प्रसुप्त Slept दे० ४,३५
- शिसुञ्च त्रि० श्रुत, आकण्ठित Heard, Listened दे० ८,२७, सुर० १,१६६,२,२२६, महा० पाय०
- शिसुद्र त्रि० पातित, गिराया हुआ Caused to fall, Knocked down दे० ८,३६, पाय० से० ४,६८

- शिरसक. पु० निर्भर Plenty, दे० ४,३२ । शीश्वारण न० बलि घटी, बली रग्ने का छोटा कलश A small pot of oblation दे० ४,४३
- शिरसरिअ त्रि० छस्त, त्विसका हुआ Slipped Slided दे० ४,४०
- शिरसाण. पु० न० वाद्य-विशेष, निशान A kind of musical instrument धर्मवि० २६
- शिहण. न० कूल, तीर, किनारा A bank A shore दे० ४,२७
- शिहव त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept पद०
- शिहस पु० बल्मीक, सर्प आदि का बिल A hole दे० ४,२५
- शिहाय पु० (१) स्वेद, पसीना Sweat, Perspiration दे० ४,४८, (२) समूह, जथा. A mass, A collection दे० ४,४६, से० ४३८, स० ४४६, भवि० पाय० गउड० सुर० ३,२३१
- शिहुअ. त्रि० (१) तृण्यीक, मौन Silent, Quiet दे० ४,६०, सुर० ११,८६, (२) सुरत, मैथुन Copulation, Coition दे० ४,५०, पड०
- शिहुआ. स्त्री० कामिता, सभोग के लिए प्रार्थित स्त्री A woman requested for sexual intercourse. दे० ४,२६
- शिहुत्त त्रि० निमग्न, डूबा हुआ Absorbed in, Immersed, Drowned पउम० १०२,१६७
- शिहुअ न० सुरत, मैथुन Coition, Sexual intercourse दे० ४,२६
- शिहेलण न० (१) गृह, घर, मकान A house दे० ४,६१, हे० २,१७४, कुमा० उप० ७०८ टी, स० १८०, (२) जघन, स्त्री के कमर के नीचे का भाग The thighs, The lower part of a woman's body from the loins downwards दे० ४,४१.
- शीअअ त्रि० समीचीन, सुन्दर Beautiful, Handsome पिंग०
- शीरगी स्त्री० फिर का शत्रुघटन, शिरोवस्त्र, घुघट A veil, A garment worn over the face and head by a woman, A hood दे० ४,३१, पाय०
- शीरण न० घास, चारा Grass, Provender सुपा० १०१
- शीलकठी स्त्री० वृक्ष-विशेष, बाण वृक्ष A kind of tree दे० ४,४२.
- शीलुय. पु० शश्व की एक उत्तम जाति. A horse of a noble kind सम्मत्त० २१६
- शीसक पु० बृष, बेल An ox A bullock पद०
- शीसपाय त्रि० जहा जनपद परिध्रान्त हुआ हो वह Terminus of a country. दे० ४,४२
- शीसणिआ-शीसणी स्त्री० निश्रेणि, सीढी A ladder, A stair-case दे० ४,४३
- शीसार पु० मण्डप A bowel, An about. दे० ४,४१
- शीसीमिअ त्रि० निर्वासित, देश-बाहर किया हुआ Exiled, Banished दे० ४,५०
- शीहरिअ न० शब्द, आवाज, ध्वनि A sound दे० ४,४२
- शीहय त्रि० अकिञ्चिद्वर, कुछ भी नहीं कर सकने वाला One unable to do anything आवनि० ७८०
- शुजिय त्रि० बन्द किया हुआ, सुन्नित. Shut, Closed स० १८६
- शुवण त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept दे० ४,२६
- शूमिअ त्रि० पोला किया हुआ Hollowed उप० पृ० ३६३

रूला स्त्री० शाखा, डाल A branch, A bough दे० ४, ४३  
 शेउडू पु० सद्भाव, शिष्टता Modesty, A virtuous motive दे० ४, ४४  
 शेडाली स्त्री० सिर का भूषण विशेष An ornament of the head दे० ४, ४३  
 शेडुरिआ स्त्री० भाद्रपद मास की शुक्ल-दशमी का एक उत्सव A festival of the tenth day of the bright lunar half of Bhadrupada दे० ४, ४२  
 शेम्भ त्रि० तुल्य, सदृश, समान Similar, Resembling परह० २, ४  
 शेल्छ पु० (१) नपुंसक, परह An impotent person दे० ४, ४४, पात्र० हे० २ १७४, (२) वृषभ, बैल An ox A bullock दे० ४, ४४  
 शेलय. पु० रूपया A rupee प्रव० १११  
 शेवच्छण न० अघतारण, नीचे उतारना To bring down, To unload दे० ४, ४०  
 शेवत्थण न० निरुद्धन, उत्तरीय वस्त्र का अन्त The end of an upper garment कुमा०  
 शेसथि पु० वणिग्-मन्त्री, वणिक् प्रधान A Bania minister दे० ४, ४४

शेसर पु० रवि, सूर्य The sun दे० ४, ४४  
 शेसु पु० न० (१) ओल, होठ A lip (२) पाँव A leg उप० ३२० टी०  
 शे अ० (१) खेद An adverb denoting sorrow (२) आमन्त्रण An adverb indicating invitation (३) विचित्रता An adverb showing wonder or surprise (४) वितर्क An adverb signifying fancy (५) प्रकोप An adverb showing anger प्राक्० ८०  
 शेक्ख त्रि० अनोखा, अपूर्व Extraordinary, Remarkable पिंग०  
 शेमि पु० रस्ती, रज्जु A rope दे० ४, ३१.  
 शेल्डआ शेल्छा स्त्री० चञ्चु, चाँच A bill, A beak दे० ४, ३६  
 शेन्व पु० आयुक्त, सूबा, राज-प्रतिनिधि A Governor, A Viceroy दे० ४, १७  
 रह अ० वाक्यालकार और पादपूर्ति में प्रयुक्त क्रिया जाता अव्यय An adverb used as a figure of speech in a sentence and in filling the gap of a line of a stanza रूप० कस०  
 रह अ० निश्चय सूचक अव्यय. An adverb denoting determination जीवस० १८०



त

तट न० पृष्ठ, पीठ The back दे० २, १  
 तड न० (१) लगाम में लगी हुई डार Saliva stuck in a rein (२) त्रि० मस्तक रहित Headless (३) स्वर से अधिक Having louder voice दे० २, १६  
 ततुक्खोडी स्त्री० तन्तुवाय का एक उपकरण A weaving implement दे० २, ०

तवकिमि पु० कीट-विशेष, इन्द्र गोप A kind of insect दे० २, ६, पद्०  
 तवकुसुम पु० न० कुसुम, कटपरीया A kind of tree. दे० २, ६, पद्०  
 तवक्क न० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument 'अथाहयतयक्केमु' बन्ध तेसु' ती० १६

तवटकारी स्त्री० शेफालिका, पुष्प प्रधान लता-  
विशेष A kind of creeper दे० २, ८  
तवरत्ती स्त्री० तावे का सा रंग Copper-  
colour दे० २, ५  
तवा. स्त्री० गौ, घेसु, गैया, A cow दे० २, १,  
गा० ४६०, पाश्र्व० वज्रा० ३४  
तविर त्रि० ताम्र वर्ण वाला Reddish  
हे० २, २६, गडड० भवि०  
तंविरा स्त्री० देखो 'तवरत्ती' शब्द Vide  
'तवरत्ती' दे० २, ५  
तंबुकक न० वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument सुपा० २०  
तवेही स्त्री० पुष्प प्रधान वृक्ष-विशेष, शेफालिका  
A kind of tree दे० २, ४  
तक्कणा स्त्री० इच्छा, अभिलाष Desire,  
Aspiration दे० २, ४  
तक्कुय पु० स्वजन-वर्ग A class of rela-  
tives. स० २२०  
तग्ग न० सूत्र-ककण, धागे का ककण A  
string bracelet दे० २, १ गडड  
तच्छिड त्रि० कराल, भयकर Horrible,  
Terrible, Dreadful दे० २, ३  
तच्छिल त्रि० तत्पर Ready, Prepared  
पङ्०  
तट्टवट्ट न० आभरण, आभूषण An orna-  
ment सुपा० ३६६  
तट्टिगा स्त्री० दिगंबर जैन साधुओं का एक उप-  
करण An implement of a vessel  
which a Digambar Jain saint  
keeps for his personal use धर्मस०  
१०४६, १०४८  
तडउडा स्त्री० वृक्ष-विशेष, आउली का पेड़ A  
kind of tree जीव० ३, ज० १  
तडकडिअ त्रि० अनवस्थित Unsteady,  
Unsettled पङ्०

तडकडिअ त्रि० सम तरफ से चलित, तडकडिया  
हुआ, व्याकुल Confused, Bewildered  
दे० २, ८, म० २८६  
तडमड त्रि० क्षुब्ध, चोभ-प्राप्त Agitated,  
Disturbed दे० २, ७  
तडयड त्रि० क्रिया-शील, मदाचार युक्त  
Having good conduct सट्टि० १०७  
तडवडा स्त्री० वृक्ष-विशेष, आउली का पेड़,  
A kind of tree दे० २, ८  
तडिण त्रि० विरल, अत्यल्प Rare, Few  
से० १३, ८०  
तण न० उत्पल, कमल A lotus, A lily  
दे० २, १  
तणय त्रि० सम्बन्धी Relating to,  
Pertaining to 'मह तणय' सुग० ३, ८७,  
हे० ४, ३६१  
तणयमुद्धिया स्त्री० अगुलीयक, अगुठी A  
ring दे० २, २  
तणरासि-तणरासिअ त्रि० प्रसारित, फैलाया  
हुआ Spread, Diffused दे० २, ६  
तणवरडी स्त्री० उडुप, डोंगी, छोटी नौका A  
boat दे० २, ७  
तणोसि पु० वृष-राशि A pile of grass  
दे० २, ३, पङ्०  
तणाय त्रि० याद, गीला Green, Wet  
दे० २, २, पाश्र्व० गडड० से० १, ३१, ११, १०६  
तत्ति स्त्री० (१) आदेश, हुक्म A command,  
An order दे० २, २०, सण० (२) तत्परता  
Readiness दे० २, २०, (३) चिन्ता, विचार  
Anxiety गा० २, २१, २७३, अ० सुपा० २३७,  
२८०, (४) वार्ता, बात A story, A tale  
गा० २, वज्रा० २, (५) कार्य, प्रयोजन A  
purpose An object पण्ड० १, २, वव० १  
तत्तिल-तत्तिल त्रि० तत्पर, Ready,  
Prepared पङ्० दे० २, ३, गा० २२७, प्रासू०  
२६

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>शुद्धा स्त्री० शाखा, डाल A branch, A bough दे० ४,४३</p> <p>शेउड्ड पु० सद्भाव, शिष्टता Modesty, A virtuous motive दे० ४,४४</p> <p>शेडाली स्त्री० सिर का भूषण विशेष An ornament of the head दे० ४,४३</p> <p>शेड्डिरिआ स्त्री० भाद्रपद मास की शुक्ल-दशमी का एक उत्सव A festival of the tenth day of the bright lunar half of Bhadrupada दे० ४,४६</p> <p>शेम्स त्रि० तुल्य, सदृश, समान Similar, Resembling पर० २,४</p> <p>शेल्छ पु० (१) नपुंसक, पर० An impotent person दे० ४,४४, पा० २ १०४, (२) वृषभ, बैल An ox, A bullock. दे० ४,४४</p> <p>शेल्थ पु० रूपया A rupee प्र० १११</p> <p>शेवच्छण न० अवतारण, नीचे उतारना To bring down, To unload दे० ४,४०</p> <p>शेवथण न० निरुद्धन, उत्तरीय वस्त्र का अन्त The end of an upper garment कुमा०</p> <p>शेसथि पु० वणिग्-मन्त्री, वणिक प्रधान Bania minister दे० ४,४४</p> | <p>शेसर पु० रवि, सूर्य The sun दे० ४,४४</p> <p>शेसु पु० न० (१) ओष्ठ, होठ A lip (२) पाँव A leg उप० ३२० टी०</p> <p>शे अ० (१) खेद An adverb denoting sorrow (२) आमन्त्रण An adverb indicating invitation (३) विचित्रता An adverb showing wonder or surprise (४) विलक An adverb signifying fancy (५) प्रकोप An adverb showing anger प्रा० ८०.</p> <p>शेक्स त्रि० अनोखा, अपूर्व Extraordinary, Remarkable वि०</p> <p>शेल्मि पु० रस्मी, रज्जु A rope दे० ४,३१.</p> <p>शेल्इआ शेल्छा स्त्री० चञ्चु, चाँच A bill, A beak दे० ४,३६.</p> <p>शेल्व पु० आयुक्त, सूबा, राज-प्रतिनिधि. A Governor, A Viceroy दे० ४,१०</p> <p>शे अ० वाक्यालंकार और पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय An adverb used as a figure of speech in a sentence and in filling the gap of a line of a stanza कप० कस०</p> <p>शे अ० निश्चय सूचक अव्यय. An adverb denoting determination जीवस० १८०</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



त

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>तट न० शृङ्ख, पीठ The back दे० ५,१</p> <p>तड न० (१) लगाम में लगी हुई डार Saliva stuck in a rein (२) त्रि० नस्तक रहित Headless (३) स्वर से अधिक Having louder voice दे० ५,१६</p> <p>ततुकलोडी स्त्री० तन्तुबाण का एक उपकरण A weaving implement दे० ५,०</p> | <p>तत्रकिमि पु० कीट-विशेष, इन्द्र गोप A kind of insect दे० ५,६, पद०</p> <p>तत्रकुसुम पु० न० कुसुमक, कटसरैया A kind of tree. दे० ५,६, पद०</p> <p>तत्रकक न० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument 'अथाहयतत्रककु' बज तेमु' ती० ३८</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| तल्लोविल्लि                                                                                                                                                                                                          | छी० तडफडाना, तडरुना,<br>न्याकुल होना To toss about in torture      | दे० २,२१, (३) पानो का आयर्न A<br>whirlpool दे० ५,२१, गा० ३५, पाग्र०                 |
| कुप्र० ८२                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (४) पु० पुप का मव The essence<br>of flowers वि० २०                                  |
| तवणी                                                                                                                                                                                                                 | छी० (१) भक्षण-योग्य कण ग्रादि<br>Eatable, Food दे० २,१, सुपा० २६८, | तिउड पु० कलाप, मोर पिच्छ The quill<br>of a peacock पाग्र०                           |
| वजा० ६२, (२) धान्य को क्षेत्र में काट कर<br>भक्षण योग्य बनाने की क्रिया A process of<br>making corn worth eating after its<br>being reaped सुपा० २६६, (३) तग, पूषा<br>ग्रादि पकाने का पात्र A frying pan दे०<br>२,२६ |                                                                    | तिगिआ छी० कमल-रज Dust of a<br>lily दे० २,१२                                         |
| तवय त्रि० व्यापृत, किसी काम में लगा हुआ<br>Engaged, Employed, Busy दे० ५,२                                                                                                                                           |                                                                    | तितियाँ स्त्री० उड़वदाना To prattle,<br>to mutter वच० ३                             |
| तव्वन्निग. त्रि० तृतीय आश्रम में स्थित. One<br>who lives the third stage of life<br>उप० पु० २६८                                                                                                                      |                                                                    | तिन्खालिय त्रि० तीक्ष्ण क्रिया हुआ Sharpen-<br>ed दे० २,१३, पाग्र०                  |
| तसिअ त्रि० शुष्क, सूखा Dry दे० २,२                                                                                                                                                                                   |                                                                    | तिणिस न० मधु गाल, मधुपुड़ा A honey-<br>comb दे० २,११,३,१२                           |
| तहरी छी० पक्क वाली सुरा Muddy liquor<br>दे० २,२                                                                                                                                                                      |                                                                    | तित्ति स्त्री० तात्पर्य, सार Moral Subs-<br>tance दे० २,११, पद०                     |
| तहल्लिआ छी० गो-वाट, गोश्रां का बाड़ा<br>A cow-enclosure दे० २,८                                                                                                                                                      |                                                                    | तित्तिरिअ त्रि० स्नान से आर्द्र Wet by<br>bath दे० २,१२                             |
| ताडिअय न० रोदन, रोना Weeping,<br>Lamenting दे० २,१०                                                                                                                                                                  |                                                                    | तित्तिल्ल पु० द्वारपाल, प्रतीहार A door-<br>keeper गा० २२६.                         |
| तामर त्रि० रम्य, सुन्दर Beautiful,<br>Handsome, Delightful दे० २,१०,<br>पाग्र०                                                                                                                                       |                                                                    | तित्तुअ त्रि० गुरु, भारी Heavy, Bulky<br>दे० २,१२                                   |
| तारत्तर. पु० सुहृत् An auspicious<br>moment दे० २,१०                                                                                                                                                                 |                                                                    | तिमिच्छय-तिमिच्छाह पु० पथिक, मुसाफिर<br>A traveller दे० २,१२                        |
| तालफली छी० दासी, नौकरानी A maid-<br>servant दे० २,१                                                                                                                                                                  |                                                                    | तिमिण न० गीला काष्ठ Green wood<br>दे० २,११                                          |
| तालहल्ल पु० शालि, ब्रीहि Paddy दे०<br>२,७                                                                                                                                                                            |                                                                    | तिमिरिच्छ पु० वृक्ष विशेष, करज का पेड़ A<br>kind of tree दे० २,१३                   |
| ताला छी० लाजा, खोई, धान का लावा<br>Parched grain of jawabee दे० २,१०                                                                                                                                                 |                                                                    | तिमिरिस पु० वृक्ष-विशेष A kind of tree<br>पन्न० १                                   |
| तालुर पु० (१) फेन, फीष Foam (२)<br>कपिस्थ वृक्ष The wood apple tree                                                                                                                                                  |                                                                    | तिमिल छी० वाद्य-विशेष A kind of musical<br>instrument पडम० २७,२२                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | तिरिड पु० एक जाति का पेड़, तिमिर वृक्ष<br>A kind of tree दे० २,११                   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | तिरिडिअ त्रि० (१) तिमिर-युक्त Darkened<br>(२) विहित Collected, Gathered<br>दे० ५,११ |

तत्तुडिल्ल न० सुरत, सभोग Sexual intel  
course, Coition दे० २, ६

तत्तुरिअ त्रि० रञ्जित Pleased, Delighted  
पड०

तत्तोडुत्त न० तदभिमुख, उसके सामने Opposite  
to it गडड०

तद्दिअचय न० नृत्य, नाच A dance दे० २, ८

तद्दिअस-तद्दिअसिअ-तद्दिअह न० प्रतिदिन,  
अनुदिन, हारोज Daily Always दे० २, ८,  
गडड० पाअ०

तप्पणग न० जैन साधु का पात्र विशेष,  
तरपणी The vessel of a Jain saint  
कुलक० १०

तभत्ति अ० शीघ्र, जल्दी Rapidly, Speedily  
प्राक० ८१

तम पु० शोक, अफसोस Sorrow, Grief  
दे० २, १

तमण० न० चुल्हा A fire-place दे० २, २

तमणि पु० स्त्री० (१) भुज, हाथ An arm  
(२) भूर्ज, वृक्ष-विशेष की छाल The bark of a  
particular tree दे० २, २०

तम्मि न० वस्त्र, कपडा A garment गडड०

तरट्ट त्रि० प्रगल्भ Awe-inspiring 'तरट्टा'  
प्राक० ३८

तरट्टा तरट्टी स्त्री० प्रगल्भ स्त्री An elderly  
woman तरणी तरटी कप्पु० काम० २६६,  
'तरणतरट्टाश' सुपा० ४२

तरवट्ट पु० वृक्ष-विशेष, चकण्ड, पमाड, पवार  
A kind of tree दे० २, २, पाअ०

तरस न० मांस Flesh, Meat दे० २, २

तरिअव्व न० उडुप, एक तरह की छोटी नौका  
A kind of small boat दे० २, ७

तरिया स्त्री० दूध आदि का सात, मलाई Cream  
of milk प्रभा०

तरुणरहस पु० न० रोग, बيمारी A disease  
शोध० १३६

तल न० (१) शय्या, बिछौना A bed दे०  
२, १६, पड० (२) पु० ग्रामेश, गाव का मुखिया  
The leader of a village, A chief  
दे० २, १६

तलआगत्ति स्त्री० कूप, इनारा A well,  
दे० २, ८

तलपफल पु० शालि, ज्रीहि Paddy  
दे० २, ७

तलवत्त पु० (१) कान का आभूषण-विशेष  
An ornament of the ear दे० २, २१,  
पाअ० (२) वराग, उत्तमग The head  
दे० २, २१

तलसारिअ त्रि० (१) गालित Reduced  
(२) मूख, मूर्ख Foolish दे० २, ६

तलहट्टिया स्त्री० पर्वत का मूल, पहाड़ के नीचे  
की भूमि The foot of a mount. सम्भत्त०  
१३०

तलारक्ख पु० नगर-रक्षक, कोदवाल A  
police magistrate आ० १२

तलिम पु० न० (१) कुट्टिम, फरस वन्द जमीन  
A paved ground दे० २, २०, पाअ० (२)

घर के ऊपर की भूमि. The roof of a  
house (२) वास भवन, शय्या-गृह A bed-

room (४) आट्ट, भुजने का भाजन A  
frying pan दे० २, २०.

तलेर पु० नगर रक्षक, कोदवाल A police  
magistrate भवि०

तल्ल न० (१) पत्तल, छोटा तालाब A  
pond दे० २, १६, (२) वृष-विशेष, बरु A

kind of grass दे० २, १६, पण्ड० २, ३,  
(३) शय्या, बिछौना A bed, A bedding

दे० २, १६, पड०

तल्लड न० शय्या, बिछौना A bed  
दे० २, ७

तल्लिच्छ त्रि० तत्पर, तत्कीन Ready,  
Prepared दे० २, ३, मुर० १, १३, पाअ०



तल्लोविल्लि स्त्री० तडफडाना, तडफना,  
व्याकुल होना To toss about in torture  
कुप्र० ८८

तवणी स्त्री० (१) भक्षण-योग्य वण आदि  
Eatable, Food दे० ५,१, सुपा० ५४८,  
वजा० ६२, (२) धान्य को क्षेत्र में काट कर  
भक्षण योग्य बनाने की क्रिया A process of  
making corn worth eating after its  
being reaped सुपा० ५४६, (३) तमा, पूआ  
आदि पकाने का पात्र A flying pan दे०  
२,५६

तवय त्रि० व्यापृत, किसी काम में लगा हुआ  
Engaged, Employed, Busy दे० ५,२

तव्वन्निग त्रि० तृतीय आश्रम में स्थित, One  
who lives the third stage of life  
उप० पु० २६८

तसिअ त्रि० शुष्क, सूखा Dry दे० ५,२

तहरी स्त्री० पक्क वाली सुरा Muddy liquor  
दे० ५,२

तहल्लिअ स्त्री० गो-वाट, गोशों का बाड़ा  
A cow-enclosure दे० ५,८

ताडिअय न० रोदन, रोना Weeping,  
Lamenting दे० ५,१०

तामर त्रि० रम्य, सुन्दर Beautiful,  
Handsome, Delightful दे० ५,१०,  
पाप्र०

तारत्तर पु० सुहूर्त An auspicious  
moment दे० ५,१०

तालप्फली स्त्री० दासी, नौकरानी A maid-  
servant दे० ५,१

तालहल पु० शालि, ब्रीहि Paddy दे०  
५,७

ताला स्त्री० लाजा, खोई, धान का लावा  
Parched gram of jawabee दे० ५,१०

तालुर. पु० (१) फेन, फीण Foam (२)  
कपिथ वृक्ष The wood apple tree

दे० ५,११, (३) पानी का आवर्तन A  
whirlpool दे० ५,२१, गा० ३५, पाप्र०  
(४) पु० पुष्प का सव The essence  
of flowers विक्र० १७.

तिउड पु० बलाप, मोर पिच्छ The quill  
of a peacock पाप्र०

तिगिअ स्त्री० कमल-रज Dust of a  
lily दे० ५,१२.

तित्तिणी स्त्री० बड़बड़ाना To prattle,  
to mutter वच० ३

तिक्पालिअ त्रि० तीक्ष्ण क्रिया हुआ Sharp-  
ened दे० ५,१३, पाप्र०

तिणिस न० मधु शाल, मधुपुडा A honey-  
comb दे० ५,११,३,१२

तिति स्त्री० तात्पर्य, सार Moral Subs-  
tance. दे० ५,११, पड्०

तित्तिरिअ त्रि० स्नान से आर्द्र Wet by  
bath दे० ५,१२

तित्तिल्ल पु० द्वारपाल, प्रतीहार A door-  
keeper गा० ५२६

तिनुअ त्रि० गुरु, भारी Heavy, Bulky  
दे० ५,१२

तिमिच्छय-तिमिच्छाह पु० पथिक, मुसाफिर  
A traveller दे० ५,१२

तिमिण न० गीला काष्ठ Green wood  
दे० ५,११

तिमिरिच्छ पु० वृक्ष विशेष, करज का पेड़ A  
kind of tree दे० ५,१३

तिमिरिस पु० वृक्ष-विशेष A kind of tree  
पत्र० १

तिमित स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of musical  
instrument पत्र० ५७,२२

तिरिड पु० एक जाति का पेड़, तिमिर वृक्ष  
A kind of tree दे० ५,११

तिरिडिअ त्रि० (१) तिमिर-युक्त Darkened  
(२) विहित Collected, Gathered  
दे० ५,११

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिरिङ्गि पु० उष्ण वात, गरम पवन The hot wind दे० ५, १२                                                                                           | A large leather bottle दे० ५, २३,<br>(२) त्रि० वेष्टित Covered अण्डजो० २६                                                      |
| तिरोवइ त्रि० वृत्ति से अन्तर्हित, वाडसे व्यवहित Covered with a hedge दे० ५, १३                                                                  | तुपइअत्र-तुपलिअत्र-तुपपविअ त्रि० घों से लिप्त Besmeared with Ghee गा० ५२० य०                                                   |
| तिलितिलिय पु० जल-जन्तु विशेष An aquatic insect, कम्प०                                                                                           | तुमतुम पु० क्रोध कृत मनो विकार विशेष, Transformation of the mind due to anger ग्र० =                                           |
| तिविडा स्त्री० सूची, सूई A needle दे० ५, १२                                                                                                     | तुरक पु० (१) देश-विशेष, तुर्किस्तान Turk-istan, The name of a country (२) अनार्य जाति-विशेष, तुर्क A Turk, A non-Aryan. ती० १४ |
| तिविडी स्त्री० पुटिका, छोटा पुडवा A small package दे० ५, १२                                                                                     | तुरी स्त्री० (१) पीन, पुष्ट Fat, Fleeshy, Robust (२) शय्या का उपकरण Materials of the bed दे० ५, २२                             |
| तीरिया स्त्री० शर रखने का थैला, बाणधि An arrow-case, A sheath, A quiver स० २६७.                                                                 | तुरु न० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument विक० ८७.                                                                      |
| तुगी स्त्री० (१) रात्री, रात Night दे० ५, १४ (२) आयुध-विशेष A kind of weapon 'असिपरसुकुततुगीसघट्ट' काल०                                         | तुलगा न० काकतालीय न्याय A non-essential दे० ५, १५, से० ४, २७                                                                   |
| तुडीर न० मधुर विन्धो फल A kind of sweet fruit दे० ५, १४                                                                                         | तुलगा स्त्री० यदृच्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा Wilfulness विक० ३५.                                                                  |
| तुड्डअ पु० जीर्ण घट, पुराना घडा An old pot दे० ५, १५                                                                                            | तुसली स्त्री० धन्य-विशेष A kind of corn 'तो तुसलि वावइ' सुपा० ५४५                                                              |
| तुतुकखुडिअ त्रि० स्वरा-युक्त Swift, Speedy, Rapid दे० ५, १६                                                                                     | तुसेअजभ न० दारु, लकड़ी, काष्ठ Wood, Fuel दे० ५, १६                                                                             |
| तुबिल्ली स्त्री० (१) मधु-पटल, मधुपुडा A honey-comb, A bee-hive (२) उदूखल, जखल, A large wooden or stone pestle दे० ५, २३                         | तूअ पु० ईख का काम करने वाला A worker in sugar-cane farm दे० ५, १६                                                              |
| तुक्खार पु० एक जाति का अश्व A kind of noble horse सुर० ११, ४३, भवि०                                                                             | तूरी स्त्री० एक प्रकार की मिट्टी A kind of earth जी० ८                                                                         |
| तुच्छइअ-तुन्दय त्रि० रजित, अनुराग प्राप्त Pleased, Delighted दे० ५, १५                                                                          | तूसिणी स्त्री० वृक्ष विशेष, शालमली का पेड A kind of tree The silk-cotton tree दे० ५, १७                                        |
| तुण्य पु० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument दे० ५, १६                                                                                    | तूहण पु० पुरुष, आदमी A man, A male दे० ८, १७                                                                                   |
| तुप पु० (१) कौतुक A wonder (२) विवाह, शादी Marriage (-) सपंय, सरसो धान्य विशेष, The castor and mustard seed, (४) कुतुप, वी आदि भरने का चम-पात्र | तेडुअ न० वृक्ष-विशेष, टीवरू का पद A kind of tree दे० ८, १७                                                                     |
|                                                                                                                                                 | तेडू पु० (१) ग्रस-नागक कीट, टिड्डा, locust, A grass-hopper (२) राजम                                                            |

A demon , An evil spirit दे० ५,२३  
तोअय पु० चातक पक्षी A kind of  
bird which is supposed to live only  
on rain drops दे० ५,१८.

तोतडि स्त्री० करम्ब, दही-भात की बनी हुई एक  
खाद्य वस्तु An eatable thing made of  
rice and curd दे० ५,४

तोक्कय त्रि० बिना ही कारण तत्पर होने वाला  
One who becomes ready without  
any cause दे० ६,१८

तोडण त्रि० असहन, असहिष्णु Intoler-  
able , Unbearable दे० ५,१८

तोडर न० डोडर, माल्य विशेष A kind of  
gairland सिरि० १०२३

तोडहिआ स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument आया० २,११

तोमर पु० न० मधपुड़ा, मधुमक्खी का घर  
A honey-comb , A bee hive धर्मवि०  
१२४

तोमरिअ पु० (१) शस्त्र का प्रमाजन करभे  
वाला A weapon-cleaner दे० ५,१८,  
(२) शस्त्र-प्रमाजन The cleaning of  
weapons पद्०

तोमरिगुडी स्त्री० वल्ली विशेष A kind of  
creeper पाश०

तोमरी स्त्री० वल्ली, लता, A creeper  
दे० ५,१७


तोमरिअ त्रि० उत्तेजित Encouraged  
पाश० कुप्र० १६२

तोमरदा स्त्री० नेत्र का रोग-विशेष An eye-  
disease महानि० ३

तोमण पु० पुरुष, आदमी A man , A  
person दे० ५,१७

तोमट्ट पु० (१) कान का गभ्रुपण विशेष, An  
ornament of the ear (२) कमल की  
कणिका The pericarp of a lotus  
दे० ५,२३

तोस न० धन, दौलत Wealth Riches  
दे० ५,१७



थ

थइआ स्त्री० थेली, कोथली A small bag , A  
purse, कुप्र० १२,८०

थउड्डु न० मत्स्यतक, वृक्ष विशेष, मिलावा,  
A kind of tree , The marking-nut  
plant दे० ५,२६

थडिल्ल न० मण्डल, वृत्त-प्रदेश A round  
region दे० ५,२५

थव त्रि० विषम, असम Uneven Un-  
equal दे० ५,२४

थक्क पु० थका हुआ, श्रान्त Fati-  
gued , Tired 'थक्क सब्बसरीर' सुर०  
७,१८५, ४,१६५

थगया स्त्री० चबु, चोंच A bill , A beak.  
दे० ५,२६.

थग्घ पु० थाह, तला, पानी, के नीचे की भूमि,  
गहराई का अन्त A bottom दे० ५,२४

थग्घा स्त्री० देखो 'थग्घ' शब्द Vide 'थग्घ'  
पाश०

थट्ट पु० न० (१) ठड, समूह, यूथ, जस्था  
A crowd , A multitude , A throng  
सुपा २८८, लहुअ० ४, (२) ठड, सजधज,  
आडम्बर Pomp भवि०

थट्टि स्त्री० पशु, जानवर A beast , A brute  
दे० ५,२४

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिरिचि. पु० उष्ण घात, गरम पवन The hot wind दे० ५,१२                                                                                                 | A large leather bottle दे० ५,२०,<br>(५) त्रि० षष्ठित Covered अणुजो० २६                                                         |
| तिरोवड त्रि० वृत्ति मे अन्तहित, वादसे व्यवहित Covered with a hedge दे० ५,१२                                                                         | तुराडअ-तुरालिअ-तुप्पविअ त्रि० घी से लिह Besmeared with Ghee. गा० ५२० अ०                                                        |
| तिलितिलय पु० जल-जन्तु विशेष An aquatic insect कण०                                                                                                   | तुमतुम पु० क्रोध कृत मनो विकार विशेष Transformation of the mind due to anger उ० =                                              |
| तिचिडा. स्त्री० सूची, सूई A needle दे० ५,१२.                                                                                                        | तुरक पु० (१) देश-विशेष, तुकिस्तान Turk-istan, The name of a country<br>(२) अनार्य जाति-विशेष, तुर्क A Turk, A non-Aryan ती० १४ |
| तिचिडी. ची० पुटिका, छोटा पुदवा A small package दे० ५,१२                                                                                             | तुरी स्त्री० (१) पीन, पुष्ट Fat, Fleahy, Robust (२) शय्या का उपकरण Materials of the bed दे० ५,२२                               |
| तीरिया स्त्री० शर रखने का थला, चाणधि An arrow-case, A sheath, A quiver स० २६०.                                                                      | तुरन न० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument विक० ८०                                                                       |
| तुगी स्त्री० (१) रात्री, रात. Night दे० ५,१४<br>(२) आयुध विशेष. A kind of weapon 'असिपरसुकुततुगीसंध' काल०                                           | तुलगा न० काफतालीय न्याय A non-essential दे० ५,१५, से० ४,२७                                                                     |
| तुडीर न० मधुर विचो फल A kind of sweet fruit दे० ५,१४                                                                                                | तुलगा. स्त्री० यदच्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा Wilfulness विक० ३५                                                                   |
| तुड्डअ पु० जीर्ण घट, पुराना घड़ा An old pot दे० ५,१५                                                                                                | तुसली स्त्री० धन्य-विशेष A kind of corn 'तो तुसलि वावड' सुपा० ५४५                                                              |
| तुतुखुडिअ. त्रि० स्वरा-युक्त Swift, Speedy, Rapid दे० ५,१६                                                                                          | तुसेअजभ न० दारु, लकड़ी, काष्ठ Wood, Fuel दे० ५,१६                                                                              |
| तुंविल्ली स्त्री० (१) मधु-पटल, मधुपुडा A honey-comb, A bee-live (२) उदूखल, जखल, A large wooden or stone pestle दे० ५,२३                             | तूअ पु० ईख का काम करने वाला A worker in sugar-cane farm दे० ५,१६                                                               |
| तुक्खार पु० एक जाति का अरव. A kind of noble horse सुर० ११,४६, भवि०                                                                                  | तूरी स्त्री० एक प्रकार की मिट्टी A kind of earth जी० ४                                                                         |
| तुच्छइअ-तुच्छय त्रि० रक्षित, अनुराग प्राप्त Pleas'd, Delighted दे० ५,१५                                                                             | तूलिणी स्त्री० वृक्ष-विशेष, शास्मली का पेड A kind of tree, The silk-cotton tree दे० ५,१७                                       |
| तुणय पु० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument दे० ५,१६                                                                                          | तूहण पु० पुरुष, आदमी A man, A male दे० ५, १७                                                                                   |
| तुप्प पु० (१) कौतुक A wonder (२) विवाह, शादी Marriage (३) सर्पप, सरसो धान्य-विशेष The castor and mustard seed, (४) कुतुप, घी आदि भरने का चर्म-पात्र | तेंडुअ न० वृक्ष-विशेष, टीबरू का पेड A kind of tree दे० ५,१७                                                                    |
|                                                                                                                                                     | तेडु पु० (१) अन्न-नाशक कीट, टिड्डा. A locust, A grass-hopper (२) राख                                                           |

A demon , An evil spirit दे० ५,२३  
तोअय पु० चातक पक्षी A kind of  
bird which is supposed to live only  
on rain drops दे० ५,१८  
तोतडि स्त्री० कसम्प, दही-भात की बनी हुई एक  
खाद्य वस्तु An eatable thing made of  
rice and curd दे० ५,४  
तोअय त्रि० बिना ही कारण तत्पर होने वाला  
One who becomes ready without  
any cause दे० ६,१८  
तोडण त्रि० असहन, असहिष्णु Intoler-  
able , Unbearable दे० ५,१८  
तोडर न० टोडर, माल्य विशेष A kind of  
garland सिरि० १०२३  
तोडहिआ स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument आया० २,११  
तोमर पु० न० मधपुडा, मधुमक्खी का घर  
A honey-comb , A bee hive. धर्मवि०  
१२४

तोमरिअ पु० (१) शस्त्र त्ता प्रमाजंन करमे  
वाला A weapon-cleaner दे० ५,१८,  
(२) शस्त्र-प्रमाजंन The cleaning of  
weapons पद०  
तोमरिगुडी स्त्री० चल्ली विशेष A kind of  
creeper पाश०  
तोमरी स्त्री० चल्ली, लता A creeper  
दे० ५,१७  
तोरविअ त्रि० उचेजित Encouraged  
पाश० कुप्र० १६२  
तोरासदा स्त्री० नेत्र का रोग-विशेष An eye-  
disease महानि० ३  
तोलाण पु० पुरुष, आदमी A man , A  
person दे० ५,१७  
तोवट्ट पुं (१) कान का आभूषण विशेष. An  
ornament of the ear (२) कमल की  
कणिका The pericarp of a lotus  
दे० ५,२३  
तोस न० धन, दौलत Wealth Riches  
दे० ५,१७



थ

थइआ स्त्री० थेली, कोथली A small bag , A  
purse, कुप्र० १२,८०  
थउडु न० भस्मातक, वृक्ष विशेष, मिलावा,  
A kind of tree , The marking-nut  
plant दे० ५,२६  
थडिल्ल न० मण्डल, वृत्त-प्रदेश A round  
region दे० ५,२५  
थव त्रि० विषम, असम Uneven , Un-  
equal दे० ५,२४  
थक्क पु० थका हुआ, श्रान्त Fatig-  
ued , Tired 'थक्क सब्बलरीर' सुर०  
७,१८५, ४,१६५

थगया स्त्री० चञ्चु, चोंच A bill , A beak  
दे० ५,२६.  
थग्घ पु० थाह, तला, पानी, के नीचे की भूमि,  
गहराई का अन्त A bottom दे० ५,२४  
थग्घा स्त्री० देखो 'थग्घ' शब्द Vide 'थग्घ'  
पाश०  
थट्ट पु० न० (१) उठ, समूह, यूथ, जत्था  
A crowd , A multitude , A throng  
सुपा २८८, लहुअ० ४, (२) उठ, सज्जधज,  
आडम्बर Pomp भवि०  
थट्टि स्त्री० पशु, जानवर A beast , A brute  
दे० ५,२४

थड पु० न० उड, युध, ममह A crowd,  
A multitude गर्व  
थत्तिअ न० विश्राम A resting place,  
A place of repose दे० ५, २६  
थवभर पु० अयोध्या नगरी के समीप का एक  
वृह The name given to a pit situ-  
ated near the city of Avodhya  
ती० ११,  
थमिअ विस्मृत Forgotten दे० ५, २५  
थर पु० दही की तर, दही ऊपर की मलाई  
Cream of curd दे० ५, २१  
थलय पु० मद्य, तपादि विमित गुह A  
bower, An aboun दे० ५, २५  
थलादिगा-या स्त्री० मृतक-स्मारक, शव को गाड़कर  
उस पर किया जाता एक प्रकार का चबूतरा A  
memorial, A monument स० ७५६,  
७५७  
थव पु० पशु, जानवर A beast दे० ५, २५  
थवद्वल त्रि० जाँव फैलाकर बैस हुआ  
Sitting in a posture having thighs  
stretched, Sat with stretched  
thighs दे० ५, २६  
थवक्क पु० लोक, समूह, जथा A collection,  
A multitude वजा० ६६  
थविअ स्त्री० वीणा के अन्त में लगाया जाता  
छोटा काष्ठ विशेष The little wooden key  
fixed at the end of a lute दे० २, २५.  
थस थसल, त्रि० विस्तोर्ण Vast, Ex-  
tensive, Expansive दे० ५, २५  
थह पु० निलय, आश्रय, स्थान A hermitage,  
A place of shelter दे० ५, २५  
थागत न० जहाज के भीतर घुसा हुआ पानी  
The inside-washed water of the  
ship सिरि० ५२५  
थायाय न० (१) चौकी, पहरा Watch,  
Ward स० ५३७, ५४६, (२) पु० चौकीदार,

चौकी करने वाला आदमी A warder,  
A watchman स० ५३७  
थागिज त्रि० गौरवित, सम्मानित Dign-  
ified दे० ५, ५  
थास त्रि० (१) विस्तोर्ण Extensive,  
Vast दे० ५, २५, (२) न० स्थान, जगह, A  
place A locality स० ५७ स० ५६,  
७४३  
थार पु० घन, मेघ, A cloud दे० ५, २७  
थाला स्त्री० धारा An edge पद०  
थाह पु० (१) स्थान, जगह A place (२)  
त्रि० अस्ताघ, गभीर जल वाला Having  
deep water (३) विस्तोर्ण Vast, Ex-  
tensive (४) दीर्घ, लम्बा Long  
दे० ५, ३०  
थाहिअ पु० आलाप, स्वर विशेष The  
seven notes in music सुपा० १३  
थिदिगी स्त्री० छन्द-विशेष A kind of  
verse सम्पत्त० १५१  
थिन्न त्रि० गर्वित, अभिमानी Proud,  
Haughty, पात्र०  
थिरगाम त्रि० चलचित्त, चञ्चल-मनस्क Active-  
minded दे० ५, २७  
थिरगोस त्रि० अस्थिर, चञ्चल Active,  
Fisiky पद०  
थिरसीस त्रि० अ० (१) निर्भीक, निडर Un-  
daunted, Intrepid (२) निर्भर Full  
(३) जिसने सिर पर कवच बाधा हो वह A  
helmeted man दे० ५, ३१  
थीहु पु० स्त्री० कन्द विशेष A kind of  
tuberous root. उक्त० ३६, ६६  
थु अ० तिरस्कार सूचक अव्यय An adverb  
denoting contempt प्रति० ८१  
थुकिअ त्रि० उन्नत, ऊँचा High, Lofty  
दे० ५, २८  
थुडकिअय न० रोष-युक्त बचन A wrathful  
word पात्र०

शुद्धिक्रिया न० (१) अल्प रूपित मुँह का सकोच, थोड़ा गुस्सा होने से होता मुँह का सकोच  
Contraction of the face due to a little anger (२) मौन, चुपकी Silence.  
दे० ५, ३१

शुद्धीर न० चामर \ fly driver दे० ५, २८

शुष्ण त्रि० अभिमानी Vain, Self-conceited दे० ५, २७

शुष्णल्लणय न० शय्या, बिछौना \ bed दे० ५, २८

शुलभ पु० पट-कुटी, तट्ट, बरत-गृह. A tent, A pavilion दे० ५, २८

शुल्ल त्रि० परिवर्तित, बदला हुआ Changed, Altered दे० ५, २७

शू अ० निन्दा सूचक अव्यय An Adverb showing censure दे० २, २००, कुमा०

शूण पु० शरव, घोड़ा A horse दे० ५, २६

शूथू अ० घृणा सूचक अव्यय An adverb denoting hatred चड०

शूरी स्त्री० तन्तुवाय का एक उपकरण A weaver's implement दे० ५, २८

शूलधोण पु० सूकर, बराह A boar, A pig दे० ५, २६

शूह पु० (१) प्रासाद का शिखर The palace top दे० ५, ३२, पात्र० (२)

चातक पत्नी A kind of bird which is supposed to live only on rain drops

(३) बलमीक An ant-hill दे० ५, २२

श्रेणिल्लिअ त्रि० (१) हन, छीना हुआ Snatched or taken by force (२) भीत, डरा हुआ Frighted, Afraid दे० ५, ३२

शेर पु० ब्रह्मा, विधाता The God Brahma, The Creator दे० ५, २६, पात्र०

शेरामण न० पद्म, कमल A lotus flower दे० ५, २६

शेरोसण न० शम्भुज, कमल, पद्म A lotus flower पड०

शेव पु० त्रिन्दु \ drop दे० ५, २६, पात्र० पड०

शेवरिय. न- जन्म समय में बजाया जाता वाद्य A musical instrument played upon at the time of birth दे० ५, २६

शोअ पु० (१) रजक, धोबी \ washer-man (२) मूलक, मूला, कन्द-विशेष A radish दे० ५, ३२

शोल पु० चख का एक देश The end of a garment दे० ५, ३०

शोह न० बल, पराक्रम Valour, Prowess, Strength दे० ५, ३०



द

द पु० दन्त स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष A dental consonant प्राप० प्रामा०

दअच्छर पु० ग्राम का स्वामी, गाव का अधिपति The leader of a village, A chief दे० ५, ३६

दअररी स्त्री० सुश, मदिरा, दार Wine,

Liquor दे० ५, ३४

दइअ त्रि० रक्षित Protected, Defended दे० ४, ३५

दडिआ स्त्री० लेख पर लगाई जाती राज-मुद्रा A state seal affixed on documents वृह० १

दक्षिणिक्रय त्रि० अपमानित Insulted ,  
Dishonoured उप० ६४८ टी  
दही स्त्री० सूत्र कनक \ necklace , A  
kind of ornament (२) साधा हुआ वस्त्र  
युग्म Sewn two clothes दे० ५,३३, (३)  
साधा हुआ जीर्ण वस्त्र A sewn old gar-  
ment चाया० १,१६, पयह० १,३.  
दत्त पु० पर्वत का एक देश The particular  
portion of a mountain दे० ५,३३  
दन्तवण्य पु० दन्तवन \ tooth-brush , A  
tooth-stick दस० ३,६  
दन्ताल पु० स्त्री०, शस्त्र विशेष, घास काटने का  
हथियार A scythe , A sickle सुग०  
५२६  
दन्तित्र पु० शशक, खरगोश, खरह। A hare ,  
A rabbit दे० ५,३४  
दन्तिक न० चावल का आटा A rice flour  
बृह० १  
दन्तिक न० मांस Flesh , Meat धर्मस०  
६११  
दन्तवल्ग पु० गीघ, पक्षि विशेष A vulture ,  
A large bird of prey दे० ५,३४  
दन्तु त्रि० तीक्ष्ण, तेज Sharp , Acute  
दे० ५,३३  
दन्तवल्ग पु० (१) घाटी, अचानक \ sudden  
attack दे० ५,३५, हे० ४,४२२, भवि०  
(२) शीघ्र, जल्दी Rapidity , Velocity ,  
Haste चड०  
दन्दि स्त्री० वाद्य विशेष A kind of musical  
instrument भवि०  
दन्तुगलि स्त्री० दक्ख-मार्ग A way to the  
jungle पह०  
दन्तुगलि स्त्री० वस्त्र विशेष, घोया हुआ सदा  
वस्त्र A kind of garment प्रव० ८४,  
दसनि० १,५६ टी०  
दन्त्यर पु० हस्त शाटक, कर-शाटक A hand-

kechief दे० ५,३४  
दण्य पु० (१) बल, पराक्रम, जोर  
Valour , Prowess , Strength  
से० ४,३ (२) अरुचि से काम का आनेवन  
To copulate undesiredly निसी० चू० १  
दय न० शोक, अफसोस, दिलगीरी Sorrow,  
Grief दे० ५,३३  
दयाइत्र त्रि० रक्षित Protected , Defen-  
ded दे० ५,३५  
दयावण्य-दयावन्न त्रि० दीन, गरीब, रक  
Poor Needy दे० ५,३५  
दरदर पु० उल्लास Delight , Pleasure ,  
Joy दे० ५,३७  
दरमत्ता स्त्री० बलाकार, जबरदस्ती Force ,  
Violence दे० ५,३७  
दरवल्लित्र त्रि० उपभुक्त Enjoyed कुमा०  
दरवल्ल पु० ग्राम-स्वामी, गाँव का मुखिया  
The leader of a village , A chief  
दे० ५,३६ -पिहेल्लय न० शून्य घर, खाली  
घर An empty house दे० ५,३७  
दरवल्ल-वल्लह पु० (१) दयित, प्रिय A  
lover दे० ५,३७, (२) कातर, डरपोक A  
coward A poltroon पह०  
दरवल्ल-विदर, त्रि० (१) दीर्घ, लम्बा Long  
(२) विरल Scarce , Rare दे० ५,३२  
दरुम्मिल्ल त्रि० घन, निविड Thick , Dense  
दे० ५,३७  
दल्लित्र त्रि० (१) निकृष्टता, जिससे टेढ़ी  
नजर की हो वह One with a side-long  
look , A squint eyed man (२) उगली  
A finger दे० ५,५२, (३) काष्ठ, लकड़ी  
Wood , Fuel दे० ५,५२, पात्र०  
द्वर पु० तन्तु, डोरा, चागा A thread ,  
A fibre दे० ५,३५, आवम०  
द्वहुत्त न० ग्रीष्म-मुख, ग्रीष्म काल का प्रारम्भ  
The beginning of the summer  
दे० ५,३६



दसतीया न. धान्य-विशेष \ a kind of  
COIN पत्र० १  
दसु पु० शोक, विलगीरी Sorrow, Grief  
दे० ५, ३४  
दसेर पु० सूत्र-कनक A neck-lace \ A  
kind of ornament दे० ५, ३३  
दहवोल्ली स्त्री० स्थाली थलिया A round  
vessel, \ A platter दे० ५, ३६  
दहिउफ न० नवनीत, मखन Butter दे०  
५, ३५  
दहिट्ट पु० वृक्ष विशेष, कपित्थ A wood-  
apple tree दे० ५, ३५  
दहित्थर-दहित्थार पु० दधिसर चाद्य-विशेष A  
kind of cake दे० ५, ३६  
दहिमुह पु० कपि, वानर A monkey  
दे० ५, ४४  
दहिय पु० पक्षि-विशेष A kind of bird  
कुप्र० ४२७  
दाअ पु० प्रतिभू, जामीनदार One who  
stands as security, \ A bail दे० ५, ३८  
दाणि स्त्री० शुल्क, चुगी A task, \ A duty  
सुपा० ३६०, ५४८  
दादलिआ स्त्री० अगुली, उगली A finger  
दे० ५, ३८  
दामणी स्त्री० (१) प्रसव, प्रसूति Delivery,  
A bringing forth (२) नयन, आँव An  
eye दे० ५, ५२  
दार पु० कटी-सूत्र, काँची A waist band  
दे० ५, ३८  
दारद्धता स्त्री० पेटी, सडूक A box, दे०  
५, ३८  
दारिआ स्त्री० वेश्या, चारागना A prosti-  
tute, \ A harlot दे० ५, ३८  
दालि स्त्री० रजि, रेखा A line ओष०  
३२३  
दालिअ न० नेत्र, आँख An eye दे० ५, ३८

दिअ पु० न० दिवस, दिन \ day दे० ५, ३६  
दिअजक पु० सुवर्णकार, मोतार A goldsmith  
दे० ५, ३६  
दिअधुत्त पु० काक, कोआ \ crow दे०  
५, ३१  
दिअलिअ. त्रि० मूर्ख, अज्ञानी Foolish  
Ignorant दे० ५, ३६  
दिअली स्त्री० स्थूणा, लभा, खूटी \ peg  
पात्र०  
दिअहुत्त. न० प्वाँर्द का भोजन, दुपहर का  
भोजन \ dinner दे० ५, ४०  
दिआहम पु० भाल पक्षी A kind of bird  
दे० ५, ३६  
दिट्टिआ अ० (१) मगल An adverb  
denoting welfare (२) हर्ष, आनन्द  
Pleasure, Joy (३) भाग्य से By fate  
हे० २, १०४, स्वप्न० १६, अग्नि० ६५, कुप्र०  
६५  
दिट्टेलय त्रि० देवा हुआ, निरीक्षित Seen  
आवम०  
दिप्पत पु० अनर्थ Calamity दे० ५, ३६  
दिलविलिअ पु० बालक, शिशु, लडका A  
baby गा० ७४१  
दिल्लिलिअ पु० बालक, शिशु, लडका A  
baby, \ An infant दे० ५, ६०  
दिअसिअ न० (१) सदा भोजन To eat  
daily दे० ५, ६०, (२) अतुदिन, प्रतिदिन  
Always Daily दे० ५, ४०, पात्र०  
दीवड पु० जल-जन्तु विशेष An aquatic  
insect, \ An insect of water सुर०  
१०, १८८  
नीविआ स्त्री० (१) उपदेहिका, चुद्र कीट-विशेष  
An insect (२) व्याध की हरिणी, जो दूसरे  
हरिणों के आकर्षण करने के लिए रखी जाती है  
A female deer of the hunter which  
is kept for attracting other deer

दडिकिअ त्रि० अपमानित Insulted ,  
Dishonoured उप० ६४=टी  
दडी स्त्री० सूत्र-कनक A necklace , A  
kind of ornament (२) साधा हुआ वस्त्र  
युग्म Sown two clothes दे० ४,३३, (३)  
साधा हुआ जीर्ण वस्त्र A sown old gar-  
ment नाया० १,१६, पयह० १,३  
दत. पु० पर्वत का एक देश The particular  
portion of a mountain दे० २,३२  
दतवण पु० दतवन A tooth brush , A  
tooth-stick दस० ३,३  
दताल पु० स्त्री०, शस्त्र विशेष, घास काटने का  
हथियार A scythe , A sickle सुग०  
२२६  
दतिअ पु० शशक, खरगोश, खरहा A hare ,  
A rabbit दे० २,३४  
दतिक न० चावल का आटा A rice flour  
बृह० १  
दतिक न० मांस Flesh , Meat धर्मस०  
२२१  
दकखज्ज पु० गीध, पक्षि-विशेष A vulture ,  
A large bird of prey दे० २,१४  
दकञ्ज त्रि० तीक्ष्ण, तेज Sharp , Acute  
दे० २,३३  
दडवड पु० (१) धाटी, अचरुन्द A sudden  
attack दे० २,३२, हे० ४,४२२, भवि०  
(२) शीघ्र, जल्दी Rapidity , Velocity ,  
Haste चड०  
दडि स्त्री० वाद्य विशेष A kind of musical  
instrument भवि०  
दड्डालि स्त्री० दव-मार्ग A way to the  
jungle पड०  
दडगालि स्त्री० वस्त्र-विशेष, धोया हुआ सदाश  
वस्त्र A kind of garment प्र० ८४,  
दसनि० १,४६ टी०  
ददथर पु० हस्त शाटक, कर-शाटक A hand-

kerchief दे० २,३४  
दप पु० (१) बल, पराक्रम, जोर  
Valour , Prowess , Strength  
से० ४,३ (२) अरुचि से काम का आसेवन  
To copulate undesuadly निसी० चू० १  
दय न० शोक, अफसोस, दिलगीरी Sorrow,  
Grief दे० २,३३  
दयाइअ त्रि० रक्षित Protected , Defen-  
ded दे० २,३२  
दयावण-दयावन्न त्रि० दीन, गरीब, रक  
Poor Needy दे० २,३२  
दरदर पु० उल्लास Delight , Pleasure ,  
Joy दे० २,३७  
दरमत्ता स्त्री० बलाकार, जबरदस्ती Force ,  
Violence दे० २,३७  
दरवनिअ त्रि० उपभुक्त Enjoyed कुमा०  
दरवल्ल पु० ग्राम-स्वामी, गाँव का मुखिया  
The leade. of a village , A chief  
दे० २,३६-विहेल्लय न० शून्य घर, खाली  
घर An empty house दे० २,३७  
दरवल्ल-वल्लह पु० (१) दयित, प्रिय A  
lover दे० २,३७, (२) कातर, डरपोक A  
coward A poltroon पड०  
दरवल्ल-विंदर, त्रि० (१) दीर्घ, लम्बा Long  
(२) विरल Scarce , Rare दे० २,२२  
दरुम्मिल्ल त्रि० घन, निविड Thick , Dense  
दे० २,३७  
दलिअ त्रि० (१) निकृशिताच, जिससे टेढ़ी  
नजर की हो वह One with a side-long  
look , A squint eyed man (२) उगली  
A finger दे० २,२२, (३) काष्ठ, लकड़ी  
Wood , Fuel दे० २,२२, पात्र०  
दवर पु० तन्तु, डोरा, धागा A thread ,  
A fibre दे० २,३५, आवम०  
दवहुत न० ग्रीष्म-सुप्त, ग्रीष्म काल का प्रारम्भ  
The beginning of the summer  
दे० २,३६

दसतीण न. धान्य-विशेष \ kind of  
corn पन्न० १  
दसु पु० शोक, दिलगीरी Sorrow, Grief  
दे० २, ३४  
दसेर पु० सूत्र-कनक A neck-lace \ A  
kind of ornament दे० २, ३३  
दहवोल्ली स्त्री० स्थाली थलिया A round  
vessel, A platter दे० २, ३६  
दहिउफ न० नवनीत, मन्खन Butter दे०  
२, ३६  
दहिट्ट पु० वृक्ष विशेष, कपिस्थ A wood-  
apple tree दे० २, ३६  
दहित्थर-दहित्थार पु० दधिसर चाय-विशेष A  
kind of cake दे० २, ३६  
ददिमुह पु० कपि, वानर A monkey  
दे० २, ४४  
दहिय पु० पक्षि-विशेष A kind of bird  
कुम० ४२७  
दाअ पु० प्रतिभू, जामीनदार One who  
stands as security, A bail दे० २, ३८  
दाणि स्त्री० शुल्क, चुगी A task, A duty  
सुपा० ३६०, २४८  
दादलिआ स्त्री० अगुली, उगली A finger  
दे० २, ३८  
दाभणी स्त्री० (१) प्रसव, प्रसूति Delivery,  
A bringing forth (२) नयन, आँख An  
eye दे० २, ६२  
दार पु० कटी-सूत्र, कोंची A waist band  
दे० २, ३८  
दारद्ध ता स्त्री० पेटी, सद्क A box, दे०  
२, ३८  
दारिआ स्त्री० वेश्या, वारागना A prosti-  
tute, A harlot दे० २, ३८  
दालि स्त्री० रजि, रेखा A line ओष०  
३२३  
दालिआ न० नेत्र, आँख An eye दे० २, ३८

दिअ पु० न० दिवस, दिन A day. दे० २, ३६  
दिअरुफ पु० सुवर्णकार सोनार A goldsmith  
दे० २, ३६  
दिअधुत्त पु० काक, काँआ A crow दे०  
२, २१  
दिअलिअ. त्रि० मूर्ख, अज्ञानी Foolish  
Ignorant दे० २, २६  
दिअली स्त्री० स्यूषा, तमा, लूटी \ peg  
पात्र०  
दिअहुत्त न० पूर्वाह्न का भोजन, दुपहर का  
भोजन \ dinner दे० २, ४०  
दिआहम पु० भाल पक्षी \ kind of bird  
दे० २, ३६  
दिट्टिआ अ० (१) भगल An idverb  
denoting welfare (२) हर्ष, आनन्द  
Pleasure, Joy (३) भाग्य से By fate  
दे० २, १०४, स्वप्न० १६, अभि० ६५, कुम०  
६६  
दिट्टेरलय त्रि० देवा हुआ, निरीक्षित Seen  
आवम०  
दिप्पत पु० अनर्थ Calamity दे० २, १६  
दिलविलिअ पु० बालक, शिशु, लडका A  
baby गा० ७४१  
दिल्लिलिअ पु० बालक, शिशु, लडका A  
baby, An infant दे० २, ६०  
दिअसिअ न० (१) सदा भोजन To eat  
daily दे० २, ४०, (२) अतुदिन, प्रतिदिन  
Always Daily दे० २, ४०, पात्र०  
दीवड पु० जल-जन्तु विशेष An aquatic  
insect An insect of water सुर०  
१०, १८८  
दीविआ स्त्री० (१) उपदेहिका, छद्म कीट-विशेष  
An insect (२) व्याध की हरिणी, जो दूसरे  
हरिणों के आकर्षण करने के लिए रखी जाती है  
A female deer of the hunter which  
is kept for attracting other deer

दे० ५,५३, (३) व्याध सम्यन्धी पित्रे मे रत्वा  
हुआ तितिर पर्वा A partridge kept in  
a cage for hunting नया० १,१७

दीहजीह पु० शय The conch shell  
दे० ५,४१

दुअक्खर पु० पयह, नपु सक An impotent  
person दे० ५,४७

दुदुमिअ न० गले की आवाज The sound  
of the throat, A laryngeal sound  
दे० ५,४५, पङ्०

दुदुमिणी स्त्री० रूप वाली स्त्री A beautiful  
woman दे० ५,४२

दुववती स्त्री० सरित्, नदी A river दे० ५,४८

दुक्कर. न० माघ मास म रात्रि के चारों प्रहर  
में किया जाता स्नान A bath taken in  
all the four Prahars (a period of  
three hours) during the night of  
the month of Magha दे० ५,४२

दुक्कह. त्रि० अरुचि वाला, अरोचकी Distaste-  
ful सुर० १,३६, जय० २७

दुकुक्कणिआ स्त्री० पीकदान, पीकदानी  
A saliva dish दे० ५,४८

दुकुह त्रि० (१) असहन, असहिष्णु Intole-  
rable, Unable to bear (२) रुचि-रहित  
Want of appetite, Distasteful  
दे० ५,४४

दुक्ख. न० जघन, स्त्री के कमर के पीछे का भाग  
The thighs, the hind part of the  
loins of a woman, The hip, The  
loins, The buttocks दे० ५,४२

दुग्ग न० (१) दुःख, कष्ट Pain, Affliction  
दे० ५,५३, पङ्० पयह० १,३, (२) कटी, कमर  
The waist, The loins दे० ५,५३,  
(३) रण, सग्राम, युद्ध A war, A battle  
स० ६३६

दुग्घट्ट-दुग्घट्ट पु० हस्ती, शायी, करी An

elephant दे० ५,४४, पङ्० भवि०

दुच्चडिअ त्रि० (१) दुर्ललित Spoilt  
by fondling, Fondled too much  
(२) दुर्विदग्ध, दुःशिक्षित Badly taught,  
Unskilled दे० ५,५५, पाश०

दुच्चवाल त्रि० (१) कलह निरत, क्लृप्त  
Quarrelsome (२) दुश्चरित, दुष्ट  
आचरण वाला One having bad con-  
duct (३) कुरूप भाषी A harsh speaker  
दे० ५,५४

दुज्जाय न० व्यसन, कष्ट, दुःख, उपद्रव  
Trouble, Pain, Affliction दे० ५,४४,  
स० १२,६३, पाश०

दुद्ध त्रि० द्वेष युक्त Envious 'अरत्तदुद्धस्स'  
कुम० ३७१, श्लो० ७२७, कस०

दुण्णिअत्थ न० (१) जघन पर स्थित वस्त्र  
A garment on the buttocks (२)  
जघन, स्त्री के कमर के नीचे का भाग The part  
of a woman's body which lies below  
her loins, The hip and the loins,  
The buttocks दे० ५,५३

दुण्णिक्क त्रि० दुश्चरित, दुराचारी Vicious,  
Licentious दे० ५,४५

दुण्णिक्खित्त त्रि० (१) दुराचारी Vicious,  
Licentious (२) कष्ट से जो देखा जा सके  
One which can be seen easily. दे०  
५,४५

दुत्ति अ० शीघ्र, जल्दी Swiftly, Rapidly,  
Soon दे० ५,४१, पाश०

दुत्थ न० जघन, स्त्री की कमर के नीचे का भाग  
The lower part of a woman's body  
below the loins, The hip and the  
loins, The buttocks दे० ५,४२.

दुत्थुरुह पु० स्त्री० क्लृप्त-शीघ्र  
Quarrelsome दे० ५,४७

दुत्थोअ पु० दुर्भाग, अभाग An unfortu-

nate man दे० १,४३

दुहोलना स्त्री० गौ, गैया A cow पङ्०

दुहोली स्त्री० वृक्ष पक्ति A line of trees

दे० १,४३, पात्र०

दुद्धगधिअमुही. स्त्री० छोटी लडकी A female infant पात्र०

दुद्धगधिअमुह पु० बाल, शिशु, छोटा लडका

A male infant दे० १,४०

दुद्धिअ न० कद्दू, लौकी A white pumpkin पात्र०

दुद्धिणिआ-दुद्धिणी स्त्री० (१) तेल आदि रखने का भाजन An oil pot (२) तुम्बी A gourd, A kind of fruit दे० १,४४

दुद्धोलणी स्त्री० गो-विशेष, जिसको एक बार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके ऐसी गाय A cow which can be milked more than once दे० १,४६

दुन्नियत्थ त्रि० विट का भेष वाला, निन्दनीय बेष को धारण करने वाला, केवल जघन पर ही वस्त्र पहिना हुआ One who puts on a bad dress, One whose only private part is covered and the rest is bare 'दुन्नियत्थमहवसण' उव०

दुप्परिअल्ल त्रि० (१) अशक्य Impossible दे० १,५१, पात्र० से० ४,२६, ६,१८, गा० १२२, (२) द्विगुण, दुगुना Double (३) अनभ्यस्त, अभ्यास रहित Practiseless दे० १,५१

दुप्परिल्ल त्रि० दुराकर्ष Pulling with difficulty 'दुप्परिल्लपि येह' गा० १२२

दुब्बोल्ल पुं० उपासक, उलहना A reproach, A rebuke दे० १,४२

दुमराय पु० केश-बन्ध, धम्मिल्ल A knot of hair The braided and ornamented hair of a woman दे० १,४०

दुमणी स्त्री० सुधा, मरुत आदि पोतने का श्वेत द्रव्य विशेष A white substance to white wash houses etc दे० १,४६

दुम्मडणी स्त्री० झगडातीर स्त्री A quarrelsome woman दे० १,४०, पङ्०

दुम्मह पु० मर्कट, चानर, चन्दर A monkey दे० १,४६

दुरदर नि० दुःखसे उन्नीय Released from difficulty, Relieved from pain दे० १,४६

दुरालोअ पुं० तिमिर, अन्धकार Darkness दे० १,४६

दुरिअ न० द्रुत, शीघ्र, जल्दी Rapidity, Swiftness, Haste पङ्०

दुलि पुं० स्त्री० कच्छप, कछुआ A tortoise दे० १,४२, उप० पु० १३५

दुल्ल न० वस्त्र, कपडा A cloth, A garment दे० १,४१

दुल्लग त्रि० अघटमान, अयुक्त Unit, Improper दे० १,४२.

दुल्लसिआ स्त्री० दासी, नौकरानी A maid-servant दे० १,४६

दुवली स्त्री० वृक्ष पक्ति A line of trees पात्र०

दुसुल्लय न० गले का आभूषण विशेष An ornament of the neck, A necklace स० ७६

दुहअ त्रि० चूर्णित, चूर चूर किया हुआ Cut into pieces दे० १, ४५

दूण पुं० हस्ती, हाथी An elephant दे० १,४४, पङ्०

दूणावेढ त्रि० (१) अशक्य Impossible (२) पु० तडाग, तालाब A pond दे० १,४६

दूयाकार न० कला विशेष A kind of art स० ६०३

- दूसल त्रि० दुर्भाग, अभाग Unfortunate, Unlucky दे० १, ४३, पद०
- दूहट्ट त्रि० लज्जा से उद्विग्न Embarrassed with shame दे० १, ४८
- दूहल त्रि० दुर्भाग, मन्द भाग्य Unfortunate, Unlucky दे० १, ४३
- दे अ० (१) समुख-करण An adverb denoting--To bring forward (२) सखी को आमन्त्रण An invitation to a female friend हे० २, १६२
- देवउफ न० पक फूल, पका हुआ फूल A ripened flower दे० १, ८६
- देहणी स्त्री० पक, कर्दम, कादा Mud, Mue दे० १, ४८
- दोआल पु० वृषभ, बैल An ox, A bullock दे० १, ४६
- दोंदुर पु० स्वर्ग-गायक A songster of heaven, A celestial chorister पद०
- दोग न० युग्म, युगल A couple, A pair दे० ५, ४६, पद०
- दोगघट्ट-दोगघोट्ट-दोगघट्ट पु० हाथी, हस्ती An elephant त्रि० ४३६, पद० पाच० महा० लहुअ० ४, स० १६१
- दोणअ पु० (१) आयुक्त, गाव का मुखिया The leader of a village, A chief (२) हात्तिक, हलवाल, हल जोतने वाला A husbandman, An agriculturist, A ploughman दे० १, ४१
- दोणका, स्त्री० सरवा, मधुमक्खी A bee दे० ५, ५१
- दोदिअ. पु० चर्म-कूप, चमड़े का बना हुआ भाजन विशेष A vessel made of leather or skin, A leathern vessel दे० ५, ५६
- दोदुर पु० स्वर्ग-गायक A celestial chorister पद०
- दोर पु० (१) छोटी रस्मी A small string श्रोत्र० २३२, १४ भा० (२, कटी-सूत्र A waist band दे० १, ३८
- दोरी स्त्री० छोटी रस्ती A small string श्रा० १६
- दोवेली स्त्री० सायकाल का भोजन A supper दे० १, ५०
- दोस पु० अर्ध, आधा A half दे० १, ५६
- दोसण्ज्जत पु० चन्द्र, चन्द्रमा The moon दे० १, ४१
- दोसाकरण न० कोप, क्रोध Angel, Wrath दे० ५, ५१
- दोसाण्ज्ज त्रि० निर्मल किया हुआ Purified Cleansed दे० ५, ५१
- दोसिया स्त्री० ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश The moonlight स० २, ४
- दोसियाभा स्त्री० चन्द्र की पटराणी A queen of the moon स० ५, १, इक, नाया० २
- दोसिया स्त्री० ज्योत्स्ना, चन्द्र प्रकाश The moon-light दे० ५, ५०, कुप्र० ४३८
- दोसिल्ल त्रि० द्वेष-युक्त, दोषी Envious, Jealous विश० १११०
- दोहणीहारी स्त्री० (१) दोहने वाली स्त्री A female who milks a cow A milkmaid दे० १, १०८, १४६, (२) पतिहारी, पानी भरने वाली स्त्री A woman who fetches water A water woman दे० ५, १६
- दोहणी स्त्री० पक, कादा, कर्दम Mud, Mue दे० १, ४८
- दोहासल न० कटी-तट, कमर The waist दे० ५, ५०
- दोहूअ पु० शव, मृतक, मुरवा A corpse, A dead body दे० ५, २६

## ध

धग पु० भमर, भमरा A wasp दे० १, १०  
 धत न० अति, अतिशय, अत्यन्त. Extremely,  
 Too much पञ्च० २६, विशेषे ३०१६, वृद्ध० १  
 धघा स्त्री० लज्जा, शरम Shame दे० १, २०  
 धसाडिञ्च त्रि० व्यपगत, नष्ट Ruined  
 दे० १, २२  
 धग्गीकय त्रि० जलाया हुआ, शस्यन्त प्रदीपित  
 Kindled, Inflamed 'अग्गी धग्गीकरो'  
 आ० १०  
 धड न० धड, गले से नीचे का शरीर A  
 headless trunk. सुपा० २४१  
 धग्गिञ्चा स्त्री० (१) प्रिया, भार्या, पत्नी A  
 wife, A beloved दे० ५, १८, गा० १८२,  
 भवि० (२) धन्या, स्तुति पात्र-स्त्री A praise-  
 worthy woman पङ्०  
 धग्गी स्त्री० (१) भार्या, पत्नी A wife  
 (२) पर्याप्ति Fullness (३) जो बधा हुआ  
 होने पर भी भय-रहित हो वह Fearless  
 though under bondage दे० ५, ६२,  
 कुप्र० १८५  
 धग्गाउस त्रि० (१) जिसको आशीर्वाद दिया  
 जाता हो वह One who is blessed  
 (२) पु० आशीर्वाद A blessing, A  
 benediction दे० १, १८  
 धत्त त्रि० (१) निहित, स्थापित Establish-  
 ed आवम० (२) पु० वनस्पति-विशेष A  
 kind of vegetable जीव० १  
 धम्ममण्य पु० वृक्ष-विशेष A kind of  
 tree उप० १०३१ टी, पउम० ४२, ६  
 धम्मय पु० (१) चार अंगुल का हस्त व्रण, A  
 four-inch wound in the hand  
 (२) चण्डी देवी का नर बलि The oblation  
 of a human-being to Goddess

Chandi दे० १, ६३  
 धय पु० नर, पुरुष. A man, A male  
 दे० १, २०  
 धयण न० गृह, घर A house दे० १, १०  
 धर न० रुई, Cotton दे० १, ५०  
 धरगा पु० कपास Raw cotton दे०  
 १, ५८  
 धवक्किय त्रि० धडका हुआ, भय से व्याकुल  
 बना हुआ Throbbled, Confused with  
 fear सण०  
 धवल पु० स्वजाति में उत्तम The best  
 among one's own caste दे० १, ५०  
 धवलसउण पु० हंस A swan, A goose  
 दे० १, १६, पाठ्य०  
 धव्व पु० वेग Speed दे० १, १०  
 धसक पु० हृदय की धवराहट की आवाज  
 The beat of a palpitating heart  
 आ० १४, कुप्र० ४३१  
 धसक्किञ्च त्रि० धवडाया हुआ Very  
 much confused आ० १४  
 धसल त्रि० विस्तीर्ण Spread दे० ५, १८  
 धाडय त्रि० डाका डालने वाला A plun-  
 derer, A robber सिरि० ११४६  
 धाडि त्रि० निरस्त, निराकृत Abandoned,  
 Given up दे० १, ५१  
 धाडिञ्च पु० आराम, बगीचा A garden  
 दे० १, ५१  
 धारारिय न० फल भेद A kind of fruit  
 दे० १, ६०  
 धार त्रि० लघु, छोटा Small, Diminu-  
 tive दे० १, ४६  
 धारा स्त्री० रण-भूमि, रण-भूमि का अग्र भाग  
 The front part of the battlefield  
 दे० १, १६, (२) वर्षा, वृष्टि Ram, (३) एक

राज परनी A queen आराम ०  
 धारावास पु० (१) भेक, मेढक A frog  
 दे० १, ६३, पद्० (२) मेघ A cloud दे० १, ६३  
 घाहिय त्रि० पलायित, भागा हुआ A run-  
 away, A fugitive धम्म० ११ टी  
 धिउल्लिया स्त्री० पुतली A doll स० ७२७  
 धुअगाय पु० अमर, भमरा A wasp  
 दे० १, १७, पात्र०  
 धुअराय पु० अमरा, भमरा A wasp पद्०  
 धुधुमारा स्त्री० इन्द्राणी, शची The queen  
 of God Indra दे० ५, ६०  
 धुककुद्धुअ-धुककुद्धुगिअ त्रि० उल्लसित,  
 उल्लास युक्त Delighted दे० १, ६०  
 धुकोदिअ न० सशय, सदेह A doubt,  
 A suspicion वजा० ६०  
 धुत्त त्रि० (१) विस्तीर्ण Spread दे० ५, १८,  
 (२) आक्रान्त Overpowered, Over-  
 come पद्०  
 धुहअ त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
 Brought forward पद्०  
 धूण पु० गज, हाथी An elephant दे०  
 १, ६०  
 धूमग पु० अमर, भमरा A wasp दे० ५,  
 २७

धूमहार न० गवाक, वातायन A window  
 दे० १, ६१  
 धूमद्वय पु० (१) तडाग, तलाब A pond  
 (२) महिष, भैंसा A he-buffalo दे० १,  
 ६१  
 धूमद्वयमहिशी स्त्री० व० कृत्तिका नक्षत्र The  
 Krittika constellation दे० १, ६२  
 धूमपलियाम त्रि० गर्त में डाल कर आग  
 लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह A thing  
 that remains uncooked on being  
 exposed to fire in a pit निसी० चू० १५  
 धूममहिशी स्त्री० नीहार, ऊहरा, ऊहासा  
 Dew, Frost दे० ५, ६१, पात्र०  
 धूमरी स्त्री० नीहार, ऊहासा Dew, Frost  
 दे० १, ६१, (२) तुहिन, हिम Snow, Ice  
 पद्०  
 धूमसिहा-धूमा स्त्री० नीहार, ऊहासा Dew,  
 Frost दे० १, ६१, ग० १०  
 धूरिअ त्रि० दीर्घ, लम्बा Long, दे० १, ६१  
 धूरिअवट्ट पु० अश्व, घोडा A horse  
 दे० १, ६१  
 धूलिहडी स्त्री० पर्व विशेष, होली The  
 Holi festival कुलक० १  
 धूलीवट्ट पु० अश्व, घोडा A horse  
 दे० ५, ६१



प

पइअ त्रि० (१) भरिस्त, तिरस्कृत Censured,  
 Scorned, Looked down on (२) न०  
 पहिया, रथ चक्र The wheel of a chariot  
 दे० ६, ६४  
 पइट्ट त्रि० (१) जिसने रस को जाना हो वह  
 One who knows the tastes of (२)  
 विरल Rare, Scarce (३) पु० मार्ग रास्ता

A road, A way दे० ६, ६६, (४) प्रेषित,  
 भेता हुआ Sent, Despatched  
 'अभयपइट्ट' सशोध० ३  
 पइट्टाण न० नगर, शहर A city, A town  
 दे० ६, २६  
 पइहत्त पु० जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र Jayanta,  
 The son of God Indra दे० ६, १६



पउअ पु० दिवस, दिन A day, दे० ६,६  
 पउढ न० (१) घर A house (२) पु० घर  
 का पिछला प्रदेश The hind portion  
 of a house दे० ६,४  
 पउण पु० (१) व्रण-प्ररोह. Germination  
 of a wound. (२) नियम विशेष. A kind  
 of rule दे० ६,६२  
 पउत्थ. न० गृह, घर A house दे० ६,६६  
 पउमाड पु० वृक्ष-विशेष, पमाड का पेड, चक्र-  
 वड A kind of tree दे० ६,६६  
 पउमार पु० देवो 'पउमाड, शब्द. Vide.  
 'पउमाड' दे० ६,६ टी  
 पऊढ. न० गृह, घर A house दे० ६,३  
 पए. पु० (१) वृत्ति-विवर, वाड का छिद्र An  
 opening in a hedge (२) मार्ग, रास्ता  
 A way, A road (३) कउदीनार नामक  
 भूषण विशेष A kind of ornament.  
 (४) गले का छिद्र. The gullet, The  
 windpipe (५) दीन नाद, आर्त-स्वर  
 Piteous lamentation. (६) त्रि० दुःशील,  
 दुराचारी, Licentious, Vicious. दे० ६,६७.  
 पएस पु० प्रातिवेशिक, पड़ोसी A neigh-  
 bour दे० ६,३  
 पएसियाँ. स्त्री० पड़ोस में रहने वाली स्त्री. A  
 neighbouring woman दे० ६,३ टी  
 पखुडिआ-पखुडी स्त्री० पख, पत्र A wing  
 कुप्र० २६, दे० ६,८  
 पचगुलि पु० परबड वृक्ष, रेंडी का गाछ The  
 castor-oil seed-plant, A tropical  
 plant *Ricinus Communis* दे० ६,१७  
 पचावण-त्र स्त्री० न० (१) सख्या-विशेष,  
 पचपन, ५५ Fifty-five (२) जिनकी सख्या  
 पचपन होवे One whose number is  
 fifty-five दे० २,१७४, दे० २,२७  
 पचेडिय त्रि० विनाशित Destroyed भवि०  
 पजरिअ पु० जहाज का कर्मचारि-विशेष An

officer of a ship सिरि० ४२७.  
 पजिअ न० यथेच्छ दान, मुँह-मोंगा दान. To  
 give what is asked for, An asked  
 for gift 'भमतो पंजिअदाय' सिरि० ११८  
 पडरग पु० रुद्र, महादेव, शिव. Mahadeva,  
 The God Shiva. दे० ६,२३.  
 पडरगु पु० ग्रामेश, गाँव का अधिपति The  
 leader of a village, The chief पड०  
 पडव पु० गश्व रचक. A gloom 'तासिय-  
 पडववयोहि' सम्मत० २१६.  
 पडिचिअ त्रि० जलाद्र, पानी से भीजा हुआ  
 Wet with water दे० ६,२०.  
 पति स्त्री० वेणी, केश रचना A braid of  
 hair दे० ६,२  
 पथुच्छुहणी स्त्री० श्वसुर गृह से पहली बार  
 आनीत स्त्री A woman brought from  
 her father-in-law's house the first  
 time. दे० ६,३६.  
 पपुअ त्रि० दाघ, लम्बा Long दे० ६,१२  
 पफुल्लिअ त्रि० गवेपित, जिसको खोज की गई  
 हो वह Researched; Inquired, One  
 who has been searched दे० ६,१७  
 पसुल पु० (१) कोकिल, कोयल A cuckoo  
 (२) जार, उपपति A paramour दे० ६,६६,  
 (३) त्रि० रुद्ध, रोका हुआ Detained,  
 Stopped पड०  
 पक्क त्रि० (१) दस गर्वित Proud,  
 Arrogant (२) समर्थ, पक्का, पहुँचा हुआ.  
 Able, Powerful, Mature दे० ६,१४,  
 पाअ-  
 पक्कगाह पु० (१) मकर, मगरमच्छ An  
 alligator. दे० ६,२३, (२) पानी में बसने  
 वाला, सिंहाकार जल-जन्तु An aquatic  
 animal having the form of a lion  
 से० ६,६७  
 पक्का त्रि० (१) असहन, असहिष्णु. Intoler-  
 able, Unable to bear (२) समर्थ, शक्त

Able , Powerful दे० ६, ६६, (३) पु०  
 चाण्डाल A butcher स० ६३, (४) एक नीच  
 जाति का घर, शबर गृह The house of a  
 lower caste परा० ५२  
 पक्षणुडल न० (१) चाण्डाल का घर  
 The house of a butcher वृह० ३,  
 (२) एक गर्हित कुल A censured family  
 श्राव० ३  
 पक्षणि त्रि० (१) अतिशय शोभमान, खूब  
 शोभता हुआ Very good looking  
 (२) भग्न, भागा हुआ Broken (३) प्रियवद,  
 प्रिय भाषी Sweet speaking दे० ६, ६५  
 पक्षत्त त्रि० (१) समर्थ, शक्त Able सुर० ११,  
 १०४, हे० २, १७४, पाश्र० वज्रा० ३४, (२)  
 वर्ष-युक्त, गर्वित, Proud , Arrogant. सुर०  
 ११, १०४, गा० ११८, (३) प्रौढ Full  
 grown गा० ८१२, पि० ४३६.  
 पक्षसावत्र पु० (१) शरम A fabulous  
 animal said to be stronger than a  
 lion (२) व्याघ्र A tiger दे० ६, ७५  
 पक्षखडिञ्च त्रि० प्रस्फुरित, विजृम्भित, समुत्पन्न  
 Quivering , Trembling , Tremu-  
 lous दे० ६, २०  
 पक्षखर न० (१) पाखर, अश्व सनाह, घोड़े का कवच  
 An armour of a horse कुप्र० ४४६,  
 पिग० (२) पु० जहाज की रक्षा का एक उपकरण  
 An implement to protect a vessel  
 त्रि० ३८७  
 पक्षखरा स्त्री० पाखर, अश्व सनाह An  
 armour of a-horse दे० ६, १०, विवा०  
 १, २  
 पगय. न० पग, पाँव, पर A leg महा०  
 पगल त्रि० पगल, उन्मत्त Mad , Intoxi-  
 cated प्रा० १०६  
 पागोज्ञ पु० निकर, समूह A collection ,  
 A multitude दे० ६, १५

पचचड्डिया स्त्री० मस्लों का एक प्रकार का  
 करण A kind of action or sleight of  
 wiestlers विशेष ३३५०  
 पचचत्तर न० चाटु, खुशामद Flattery ,  
 False praise दे० ६, २१  
 पचचनलोक त्रि० आसक्त चित्त वाला, तल्लीन  
 मनस्क Having the mind fixed on  
 some object दे० ६, ३४  
 पचचल त्रि० (१) पका, समर्थ, पहुँचा हुआ  
 Able , Acute दे० ६ ६६, सुपा० ३४, सुर०  
 १, १४, कुप्र० ६६, पाश्र० (२) असहन, असहिष्णु,  
 Intolerable , Unable to bear दे०  
 ६, ६६  
 पचचवर न० मुसल A wooden pestle  
 दे० ६, १५.  
 पचचालिय. त्रि० ग्राह्य किया हुआ, गीला किया  
 हुआ Wetted , Moistened स० ३०८  
 पचचुच्छुहणी स्त्री० नूतन सुरा, ताजा दारू  
 Fresh liquor दे० २, ३५  
 पचचुत्थ त्रि० प्रत्युत्त, फिर से बोया हुआ,  
 Sowed again. दे० ६, १३  
 पचचुद्वरिञ्च त्रि० समुखागत, सामने आया  
 हुआ Come in front दे० ६, २४  
 पचचुद्धार पु० समुल आगमन To come  
 in front दे० ६, २४  
 पचचुहिञ्च त्रि० प्रस्तुत, प्रचरित Milked  
 दे० ६, २५  
 पचचूढ न० भोजन करने का पात्र A dining  
 dish दे० ६, १२  
 पचचूह पु० सूर्य, रवि The sun दे० ६, ५,  
 गा० ६०४, पाश्र०  
 पचचेड न० मुसल A wooden pestle  
 दे० ६, १५  
 पचचोणी स्त्री० समुल आगमन To come  
 in front स० २१५, ३०२, सुपा० ६१, २२४,  
 २०६

- पञ्चोयड (१) न० तट के समीप का ऊचा प्रदेश  
The raised place near a bank  
जीव० ३, (२) आच्छादित Covered राय०  
पञ्चोवणिअ त्रि० समुद्र आया हुआ Come in  
front दे० ६,२४  
पञ्चोवणी स्त्री० समुख आगमन To come  
in front. दे० ६,२४  
पञ्छदि त्रि० गमन करने वाला A goer  
कुमा०  
पञ्छाहुत्त त्रि० पीछे की तरफ का Of the  
back सुपा० २२१  
पच्छि स्त्री० पिटिका, पिटारी A large  
box, A basket दे० ६,१  
पच्छेण्य न० पोथय, रास्ते में निर्वाह करने की  
भोजन सामग्री Provisions for a journey,  
Viaticum दे० ६,२४  
पञ्जण न० पान, पीना To drink  
दे० ६,११  
पञ्जतर त्रि० दलित, विदारित Destroyed,  
Ruined षड्०  
पञ्जा स्त्री० नि श्रेणि, सीढ़ी A stair case,  
A ladder दे० ६,१  
पञ्जुणसर न० ऊख के तुल्य एक प्रकार का तृण  
A kind of grass assimilating a  
sugar-cane दे० ६,३२.  
पञ्मुत्त त्रि० रचित, जडित, जडा हुआ Set,  
Fixed पाञ्च०  
पट्टइल-ल्ल पु० पटेल, गाँव का मुखिया The  
leader of a village, A chief सुपा०  
२७३, ३६१  
पट्टाढा स्त्री० पट्टा, घोड़े की पेटी, कसन A  
horse-girth, A strap for a saddle  
महा० सुख० १८,३७  
पट्टुया स्त्री० पाद-प्रहार, लात A kick  
सुपा० २३७  
पट्टुहिअ न० कलुपित जल Dirty water  
पाञ्च०  
पडिअ त्रि० अलंकृत, विभूषित Decorated,  
Adorned षड्०  
पडिसग न० ककुद, बैल के कंधे का कुब्ज.  
A humpback दे० ६,२३  
पडचा स्त्री० ज्या, धनुष की डोर The string  
of a bow दे० ६,१४.  
पडच्चर. पु० साला जैसा विदूषक आदि  
A clown like a brother-in-law  
दे० ६,२५  
पडल. न० नीव, नरिया, मिट्टी का बना हुआ  
एक प्रकार का खपडा जिसमे मकान छाये जाते हैं  
An earthen tile used for roofing  
दे० ६,५, पाय०  
पडवा. स्त्री० पट-कुटी, पट-मण्डप, वख-गृह A  
tent, A pavilion दे० ६,६  
पडहत्य त्रि० पूर्ण, भरा हुआ Filled,  
Full स० १८०  
पडाली स्त्री० (१) पङ्क्ति, श्रेणी A line, A  
row दे० ६,६, (२) घर के ऊपर की चटाई  
आदि की कच्ची छत A roof made of  
mats etc, The thatched roof of a  
house वव० ७  
पडिअ त्रि० विघटित, वियुक्त Separated,  
Parted दे० ६,१२  
पडिअतअ पु० कर्मकर, नौकर A servant.  
दे० ६,३२  
पडिअगिअ त्रि० (१) परिभुक्त, जिसका परि-  
भोग किया गया हो वह One enjoyed,  
One worshipped or satisfied (२)  
जिसकी बधाई दी गई हो वह One who  
is congratulated (३) पालित, रक्षित  
Protected दे० ६,७४  
पडिअज्जअ पु० उपाध्याय, विद्या-दाता गुरु  
A preceptor दे० ६,३१  
पडिअट्टलिअ त्रि० घृष्ट, घिसा हुआ Rubbed,  
Worn out से० ६,३१

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पडिअर. पु० परिकर, परिवार Retinue, Family कुप्र० ५७                                                                                                      | दे० ६२०                                                                                                                   |
| पडिअलि. त्रि० स्वरित, वेग युक्त Speedy, Quick, Hasty. दे० ६,२८                                                                                          | पडिपडिअ. त्रि० प्रवृद्ध, बढ़ा हुआ Increased, Grown दे० ६,३४                                                               |
| पडिउचण न० अपकार का बदला Recompense of ingratitude परम० ११,३८, ४४, १६                                                                                    | पडिभेअ पु० उपालम्भ A reproach A rebuke पात्र०                                                                             |
| पडिएल्लिअ त्रि० कृतार्थ, कृत कृत्य One who has accomplished the object of existence दे० ६,३२                                                            | पडियर पु० चूहे का मूल भाग. The bottom of a fire-place दे० ६,१७                                                            |
| पडिक्कय पु० प्रतिक्रिया, प्रतीकार Resis- tance, Opposition दे० ६,१६                                                                                     | पडिरजिअ त्रि० भग्न, टूटा हुआ Broken दे० ६,३२.                                                                             |
| पडिक्खर त्रि० (१) क्रूर निर्ईय Cruel, Fierce दे० ६,२५, (२) प्रतिकूल Unfavourable, Contrary पद०                                                          | पडिरिगाअ त्रि० देखो 'पडिरजिअ' शब्द Vide 'पडिरजिअ' पद०                                                                     |
| पडिखध न० जल बदन, मश A leathern water bag (२) जलवाह, मेघ A cloud. दे० ६,२८                                                                               | पडिलगल न० बल्मीक, कीट-विशेष, कृत मृत्तिका स्तूप An anthill दे० ६,३३                                                       |
| पडिखवी स्त्री० देखो 'पडिखध' शब्द Vide 'पडिखध' दे० ६,२८                                                                                                  | पडिल्ली स्त्री० (१) वृत्ति, बाड़ A hedge, A fence, An enclosure (२) यन्त्रिका, परदा A veil, A curtain दे० ६,१५            |
| पडिखद्ध त्रि० हत, मारा हुआ Killed महा०                                                                                                                  | पडिवेस पु० विचोप, फेंकना To throw दे० ६,२१                                                                                |
| पडिच्छद पु० मुख, मुह A mouth दे० ६,२४                                                                                                                   | पडिसत त्रि० (१) प्रतिकूल Unfavour- able, Unpropitious (२) अस्तमित, अस्त प्राप्त Set, Declined below the horizon. दे० ६,१६ |
| पडिच्छय पु० समय, काल Time दे० ६,१६.                                                                                                                     | पडिसाइरल त्रि० जिसका गला चैत गया हो वह, घबरे कण्ठ वाला A hoarse- throated, One whose throat is hoarse दे० ६,१७            |
| पडिच्छिआ स्त्री० (१) प्रतिहारी A female door-keeper (२) चिरकाल से ब्यायी हुई भैंस A buffalo that has grown-up offspring, A long calved buffalo दे० ६,२१ | पडिसाय पु० घबरे कण्ठ, वैदा हुआ गला A hoarse throat दे० ६,१७                                                               |
| पडिच्छिर त्रि० सद्य, समान Similar, Like दे० २,१७४                                                                                                       | पडिसार पु० (१) पटुता, निपुणता Skill, Dexterity (२) त्रि० निपुण, पटु Pro- ficient, Skilled, Detxerous दे० ६,१६             |
| पडिण्णिसण न० रात में पहनने का वस्त्र A night dress दे० ६,३६                                                                                             | पडिसारिअ त्रि० स्मृत, याद किया हुआ. Remembered दे० ६,३३                                                                   |
| पडिरियर त्रि० समान, सद्य Similar, Like                                                                                                                  | पडिसारी स्त्री० यन्त्रिका, परदा A veil, A curtain दे० ६,२२                                                                |

पडिसिद्ध. त्रि० (१) भीत, डरा हुआ Feared  
(२) भग्न, टूटित Broken दे० ६,७१

पडिसिद्धि स्त्री० प्रतिस्पर्धा Rivalry,  
Emulation. पद्०

पडिसुत्ति त्रि० प्रतिकूल Unfavourable  
दे० ६,१८.

पडिसूर त्रि० प्रतिकूल Unfavourable  
Unpropitious दे० ६,१६, भवि०

पडिसोत्त त्रि० प्रतिकूल Unfavourable  
षड्०

पडिहच्छ त्रि० पूर्ण Quite full सण०  
पडिहत्थ त्रि० (१) प्रतिक्रिया, प्रतिहार

Resistance, Opposition (२) वचन,  
वाणी, A word, A speech दे० ६,१६,  
(३) अपूर्व, अद्वितीय Extraordinary,  
Uncommon, Remarkable, Un-  
rivalled पद्०

पडिहत्था स्त्री० वृद्धि Growth, Increase  
दे० ६,१७

पडीर पुं० चोर-समूह, चोरों का यूथ A band  
of thieves दे० ६,८

पडुआलिअ त्रि० (१) निपुण बनाया हुआ  
Made proficient (२) ताडित, पिटा हुआ  
Beaten (३) धारित Held दे० ६,७३

पडुजुवइ. स्त्री० युवति, तरुणी A young  
woman, A juvenile woman दे०  
६,३१

पडुल्ल न० (१) लघु पिठर, छोटी थाली A  
small dish (२) त्रि० चिरप्रसूत A female  
who gives birth after a long time,  
A female who gets pregnant after a  
long time दे० ६,६८

पडुवइअ त्रि० तीक्ष्ण, तेज Pointed, Sharp  
दे० ६,१४

पडुवत्ती स्त्री० जवनिका, परदा A veil, A  
curtain दे० ६,३२

पडोअ त्रि० बाल, लघु, छोटा Small,  
Diminutive दे० ६,६.

पडोयार पु० परिकर, A collection, A  
multitude शोध० ३२२

पडोयार पुं० उपकरण An implement  
पिंड० २८

पडोहर न० घर का पीछला आँगन The hind  
court of a house दे० ६,३२, गा० ३१३,  
काप्र० २२४

पडु त्रि० घबल, सफेद White दे० ६,१

पडुस पुं० गिरि-गुहा, पहाड की गुफा The  
cave of a mountain दे० ६,२

पडुच्छी स्त्री० भैंस A buffalo शोध० ८७

पडुत्थी स्त्री० (१) बहुत दूधवाली Giving  
much milk (२) दोहने वाली A female  
milker, A milkmaid दे० ६,७०.

पडुय पुं० भैंसा A he buffalo महा०

पडुला स्त्री० चरण-घात, पाद प्रहार A kick  
दे० ६,८.

पडुस त्रि० सुसंयमित, अच्छी तरह से सयमित.  
Well-restrained Well-controlled  
दे० ६,६

पडुविअ त्रि० समाप्त, समाप्त कराया हुआ  
Finished, Completed पद्०

पडुविया स्त्री० (१) छोटी भैंस The young  
one of a buffalo (२) छोटी गौ, बछिया  
A calf, The young one of a cow  
विवा० १,२, (३) प्रथम प्रसूता गौ A newly  
calved cow (४) नव प्रसूता महिषी A  
buffalo first delivered वच० ३

पडुई स्त्री० प्रथम प्रसूता A female who  
delivered first time दे० ६,१

पडुहुअ स्त्री० चरण-घात, पाद-प्रहार A kick  
दे० ६,८

पण्यत्रिअ त्रि० प्रकटित, व्यक्त किया हुआ  
Published दे० ६,३०

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पण्य पु० पक, ऋद्धं Mud, Mine दे० ६, ७                                                                                                                             | पत्तली स्त्री० कर विशेष, एक प्रकार का रान देय A kind of tax सुपा० ४६३                                                                   |
| पणवण्य स्त्री० न० पचपन, Fifty-five दे० ६, २७, पद०                                                                                                                 | पत्तिसमिद्ध, त्रि० तीक्ष्ण Sharp, Pointed दे० ६, १४                                                                                     |
| पणामणिया स्त्री० स्त्री विषयक प्रणय Love pertaining to a woman दे० ६, ३०                                                                                          | पत्ती, स्त्री० पत्रों की बनी हुई एक तरह की पगड़ी, जिसे भील लोग सिर पर पहनते हैं A kind of turban made of leaves worn by Bheels दे० ६, २ |
| पणिया त्रि० प्रकट, व्यक्त Open, Clear, Public दे० ६, ७                                                                                                            | पत्थर न० पाद-ताडन, लात A kick पद०                                                                                                       |
| पणिया स्त्री० करोटिका, सिर की हड्डी The bone of the brain The head-bone दे० ६, ३                                                                                  | पत्थर-भल्लिअ न० कोलाहल करना To make a noise, To bustle दे० ६, ३६                                                                        |
| पणिलिअ त्रि० हत, मारा हुआ Killed पद०                                                                                                                              | पत्थरा स्त्री० चरण घात, लात. A kick दे० ६, =                                                                                            |
| पण्यान त्रि० दुर्गन्धी Putrid, Bad smelling राज०                                                                                                                  | पत्थरिअ पु० पल्लव A skirt, A border दे० ६, २०                                                                                           |
| पत्तउर पु० वनस्पति विशेष, एक जात का गाछ A kind of vegetable पद० १                                                                                                 | पत्थारी स्त्री० (१) निकर, समूह A collection, A multitude दे० ६, ६३, (२) शय्या, बिछौना A bed दे० ६, ६६, पात्र सुपा० ३२०                  |
| पत्तट्ट त्रि० सुन्दर, मनोहर Beautiful, Handsome दे० ६, ६८                                                                                                         | पत्थिअ त्रि० शीघ्र, जल्दी करने वाला Speedy, Quick दे० ६, १०                                                                             |
| पत्तण न० (१) इयु फलक, बाण का फल The blade of an arrow (२) पुख, बाण का मूल भाग The feathered part of an arrow दे० ६, ६४, गा० १०००                                  | पत्थी स्त्री० पात्र, भाजन A vessel गा० २४० अ०                                                                                           |
| पत्तया स्त्री० (१-२) देखो पत्तण शब्द Vide पत्तण गडड० से० १५, ७३, (३) पुख में की जाती रचना विशेष, A kind of decoration in the feathered part of an arrow से० ७, ५२ | पत्थीण न० (१) स्थूल वस्त्र, मोटा कपड़ा A coarse garment (२) त्रि० स्थूल, मोटा, Large, Great, Coarse दे० ६, ११                           |
| पत्तपसाइआ स्त्री० पत्तियों की एक तरह की पगड़ी, जिसे भील लोग पहनते हैं A kind of turban made of leaves which is worn by Bheels दे० ६, २                            | पद् न० (१) ग्राम स्थान A village-locality दे० ६, १, (२) छोटा गाँव, A small village पात्र०                                               |
| पत्तपिसालस न० देखो 'पत्तपसाड्या' शब्द Vide 'पत्तपसाइआ' दे० ६, २                                                                                                   | पद्दर त्रि० ऋजु, मरस, सीधा Has, दे० ६, १०, (२) शीघ्र Speedy, Hasty 'पद्दरपपुहि' सिरि० ४३५                                               |
| पत्तल त्रि० (१) तीक्ष्ण, तेज Pointed, Sharp दे० ६, १४ वजा० ६०, (२) पतला, कृया Thin, Slender दे० ६, १४, वजा० ३६.                                                   | पद्दार त्रि० जिसका पूछ कट गया हो वह, पूछ-कटा Having a cut tail, Tailless दे० ६, १३                                                      |
|                                                                                                                                                                   | पपीञ्च पु० चातक पत्ती The name of                                                                                                       |

a bird which is supposed to live only on rain drops दे० १६,०

पक्काड पु० अग्नि विशेष \ kind of fire दे० ६,६

पक्किडिअ त्रि० प्रतिफलित Fruitful दे० ६,१२

पक्कुअ त्रि० (१) दीर्घ, लम्बा Long (२) उड्डीयमान, उड़ता Flying दे० ६,६८

पन्नि पु० पाणि, हाथ, कर \ hand पङ्०

पन्हर पु० अपमृत्यु, अकाल मरण A premature death दे० ६,३

पन्हला पु० किजलक, पत्र आदि का केसर Pollen of a lotus दे० ६,१३, पङ्०

पन्हार. पु० अपमृत्यु, अतमौत मरण A premature death दे० ६,३

पन्हुट्ट त्रि० (१) नष्ट, नाश प्राप्त Ruined, Destroyed दे० ४,२५८, (२) विस्मृत Forgotten 'पन्हुट्ट विन्हरिअ' पात्र० नाया० १,८

पयडि स्त्री० मार्ग, रास्ता A road, A way सङ्घि० १४२

पयड्ढणी स्त्री० (१) प्रतीहारी A door-keeper (२) आकृष्टि, आकर्षण Attraction (३) महिषी A buffalo दे० ६,७२

पयय न० अनिश्च, निरन्तर Continuity, Constant दे० ६,६

पयल पु० नीड, पक्षि-गृह The nest of a bird दे० ६,७

पयलाइया स्त्री० हाथ से चलने वाले जन्तु की एक जाति A kind of worm that walks with hands सूय० २,३,२५,

पयलाय पु० (१) हर, महादेव Mahadeo, The God Shiva दे० ६,७२, (२) सर्प, साँप A serpent, A snake दे० ६,७२, पङ्०

पयलायमत्त पु० मयूर, मोर \ pea-cock दे० ६,३६

पयवई स्त्री० सेना, लश्कर An army, A force, A troop दे० ६,१६

पया स्त्री० चुल्ली, चुल्हा \ fire-place राज०

पयाम न० अनुपूर्व क्रमानुसार According to order दे० ६,६, पात्र०

परक न० छटा प्रवाह A streamlet दे० ६,८

परडा स्त्री० सर्प-विशेष \ kind of serpent दे० ६,५, 'गुरूप परडाए' सुपा० ६२०.

परद्व त्रि० (१) पीडित, दुःखित Afflicted, Distressed, Pained. दे० ६,७०, पात्र०

सुर० ७,४, १६, १४४, उप० पृ० २२०, महा०

(२) पतित Fallen, Disgraced (३) भीरु, डरपोक Timid, Cowardly दे०

६,७०, (४) व्याप्त Pervaded, Spread 'जीइ परदा' धम्मो० १४

परमत्त त्रि० भीरु, डरपोक Timid, Fearful, Timorous पङ्०

परभाअ पु० सुरत, मैथुन Sexual intercourse, Coition दे० ६,२७

परसुहत्त पु० वृक्ष, पेड़, दरख्त A tree दे० ६,२६

पराहुत्त त्रि० विमुल, पराङ्मुख That has turned his face away ग० २४५, से०

१०,६४, उप० पृ० ३८८, ओव० ५१४, वज्जा०

२६, 'महविणयपराहुत्तो, पउम० ३३,७४, सुख०

२,१७ परि स्त्री० गीति, गीत A song, A hymn कुमा०

परिश्रद्ध पु० रजक, धोबी A washerman दे० ६,१५

परिश्रद्धलिअ त्रि० परिच्छिन्न Separated from दे० ६,३६

परिभ्रष्टविभ्र त्रि० परिच्छन्न Separated  
from , Divided off पङ्०  
परिभ्रष्टि स्त्री० (१) वृत्ति, बाड A hedge ,  
(२) त्रि० मूर्ख, बेवकूफ Foolish , Silly दे०  
६,७३  
परिभ्रष्टि त्रि० प्रकृत, व्यक्त किया हुआ  
Published पङ्०  
परिभ्रस्त त्रि० प्रसृत, फैला हुआ Spread  
हे० ४,२६५  
परिभ्रर . त्रि० लीन, निमग्न Absorbed in ,  
Engrossed in दे० ६,२४  
परिभ्रल-परिभ्रलि पु० स्त्री० थाल, थलिया,  
भोजन पात्र A big dish , A large plate.  
भवि० दे० ६,१२  
परिभ्राल त्रि० परिदृष्ट, परिवेष्टित En-  
circled , Encompassed गडढ०  
परिभ्रथ त्रि० प्रोपित, प्रवास में गया हुआ  
Gone for travelling. दे० ६,१३  
परिभ्रोस पु० विशेष द्वेष Much  
rancour , Malice भवि०  
परिभ्रवाइभ्र त्रि० परिधीय Vanished ,  
Decayed पङ्०  
परिभ्रघ पु० काहार, कहार, जकादि वाहक  
नौकर A palanquin-bearer दे० २,२७  
परिभ्रिभ्र त्रि० उत्थिस, ऊपर फेंका हुआ  
Thrown up पङ्०  
परिभ्रलूढ त्रि० (१) उत्थिस, फेंका हुआ  
Thrown दे० ६,२५, नमि० ८, (२) परित्यक्त  
Abandoned , given up से० १३,१७  
परिभ्रिया स्त्री० वाद्य विशेष A kind of  
musical instrument भग० ५,४  
परिभ्रुगल त्रि० श्रेष्ठ, उत्तम Best, Ex-  
cellent 'परिभ्रुगल होसः' भवि०  
परिभ्रभत त्रि० (१) निषिद्ध, निवारित Pro-  
hibited, Forbidden (२) शीघ्र, डरपोक  
Timid , Fearful , Timorous दे०  
६,७५

परिभास पु० नौका का काठ विशेष The  
particular wood of a boat. नाया० १,६  
परिमोककल त्रि० स्वैर, स्वच्छन्दी Wanton ,  
Unrestrained. भवि०  
परिलिभ्र त्रि० लीन, तन्मय Absorbed  
in , Engrossed in दे० ६,२४  
परिल्लवास त्रि० अज्ञान गति One whose  
goat is unknown दे० ६,३३  
परिवारिभ्र त्रि० घटित, रचित Composed ,  
Made , Moulded , Formed दे० ६,३०  
परिवास पु० खेत में सोने वाला पुरुष One  
who sleeps in the field , A field-  
sleeper दे० ६,२६  
परिवाह पु० दुर्विनय, अविनय Impoliteness,  
Uncivilisation , Rudeness दे० ६,२३  
परिह पु० रोष, गुस्सा Wrath , Anger  
दे० ६,७  
परिहच्छ पु० मन्पु, रोष, गुस्सा Anger ,  
Wrath दे० ६,७१  
परिहृष्टि स्त्री० आकृष्टि, आकर्षण, लींचान.  
Attraction दे० ६,२१  
परिहृण न० वस्त्र, कपडा A garment  
दे० ६,२१, पाश० हे० ४,३४१, सुर० १,२६,  
भवि०  
परिहृथ पु० जलजन्तु विशेष A kind of  
insect of water , An aquatic insect  
'परिहृथमच्छपु छच्छथच्छोडणपोच्छल' सुर०  
१२,४१, 'परिहृथमम' नाया० १,३३  
परिहृलाविभ्र पु० जल-निर्गम, मोरी, पनाखा  
A gutter , A drain दे० ६,२६  
परिहाइभ्र त्रि० परिधीय Vanished ,  
Decayed पङ्०  
परिहाय त्रि० क्षीण, दुर्बल Weak Feeble  
दे० ६,२६, पाश०  
परिहारिणी स्त्री० देर न आई हुई मँस A  
buffalo which gave birth to a young



- long ago , A long calved buffalo दे० ६,३१
- परिहाल पु० जल निर्गम, मोरी A gutter; A drain दे० ६,२६
- परिह्वरग न० ग्राम्भूषण विशेष A kind of ornament ओव०
- परीयल्ल पु० वेष्टन A wrapper, 'तिपरी-यल्लमणिससट्ट' ओव० ७०६
- परेअ पु० पिशाच A demon , An evil spirit दे० ६, १२, पाअ० पड्०
- परेयय न० पाद-पतन A kind of saluta- tion दे० ६,१६
- पल न० स्वेद, पसीना Sweat Perspira- tion दे० ६,१
- पलक त्रि० लम्पट Lustful , Addicted to licentious pleasures 'इय विसयपलकओ' कुप्र० ४२७, नाट०
- पलस न० (१) कपास-फल Cotton-pods (२) स्वेद, पसीना Sweat , Perspiration दे० ६,७०
- पलसु स्त्री० सेवा, पूजा, भक्ति Worship , Devotion दे० ६,३
- पलहि पु० स्त्री० कपास Raw-cotton दे० ६,४, पाअ० वजा० १८६, हे० २,१७४
- पलहिअ त्रि० (१) विपम, असम Diffiult (२) पु० न० आवृत जमीन का वास्तु The ceremony of entering the enclosed place दे० ६,१५
- पलहिअअ त्रि० मूर्ख, पाषण हृदय Foolsh , Hard-hearted पड्०
- पलाअ पु० चोर, तस्कर A thief दे० ६,८
- पलासि स्त्री० भस्त्री, छोटा भाजा, शस्त्र विशेष A small spear दे० ६,१४
- पलिहअ त्रि० मूर्ख, बेवकूफ Foolsh , Silly दे० ६,२०
- पलिहइ स्त्री० क्षेत्र, खेत A field 'नियपलि-हइइ दोहिपि' सुर० १५,२०१
- पलिहस्स न० उर्ध्व श्राव, काष्ठ विशेष A kind of wood दे० ६,१६
- पलिहाय पु० देखो 'पलिहस्स' शब्द Vide 'पलिहस्स' दे० ६,१६
- पलोट्टजीह त्रि० रहस्य-भेदी, छानी बात को प्रगट करने वाला A revealer of secrets दे० ६,३५
- पल्लट्ट पु० पर्वत विशेष The name of a mountain पयह० १,४
- पल्लवाय न० क्षेत्र, खेत A field दे० ६,२६
- पल्लविअ त्रि० लाञ्छारक्त Red दे० ६,१६ पाय०
- पल्लिअ त्रि० (१) आक्रान्त Overpowered , Overcome निसी० चू० २, (२) ग्रस्त. Seized , Eclipsed निसी० चू० १ (३) प्रेरित Instigated Excited 'पल्लिअ पल्लिअरहट्ट व' धया० ४७.
- पल्लित्त त्रि० पर्यस्त Given up , Abandon- ed पड्०
- पल्लोट्टजीह त्रि० देखो 'पलोट्टजीह' शब्द Vide पलोट्टजीह' पड्०
- पवपुल पु० न० मच्छी पकडने का जाल-विशेष A fishing net विवा० १,८,
- पवत्तिया स्त्री० सन्यासी का एक उपकरण. The implement of an ascetic कुप्र० ३७२
- पवट्ट पु० घन, हथौड़ा A large hammer दे० ६,११
- पवरग न० सिर, मस्तरु The head, दे० ६,२८.
- पवहाइअ त्रि० प्रवृत्त Engaged in Em- barked upon दे० ६,३४
- पविअ स्त्री० पत्नी का पान-पात्र A water- drinking vessel for birds दे० ६,४, ८,३२, पाअ०
- पविगव. त्रि० विस्मृत Forgotten घड्०
- पविगइअ त्रि० त्वरित शीघ्रता-युक्त Speedy ,

Quick दे० ६,२८  
 पविरजव त्रि० स्निग्ध, स्नेह-युक्त Loving ,  
 Affectionate पङ्०  
 पविरजिष्य त्रि० (१) स्निग्ध, स्नेह युक्त Lov-  
 ing (२) कृत-निषेध, निवारित Prohibited ,  
 Forbidden दे० ६,७४  
 पव्वइसेल्ल न० बाल-मय कडक, तावीज A  
 particular ornament worn round  
 the arm etc viewed generally as  
 an amulet दे० ६,२१  
 पव्वज्ज, पुं० (१) नख A nail (२) शर, बाण  
 An arrow. (३) बाल मृग A young  
 deer दे० ६,६६  
 पव्वावण. न० प्रयोजन. A purpose , An  
 object पिङ० ४१  
 पन्थिद्ध त्रि० प्रेरित Uiged , Incited  
 दे० ६,११  
 पसडि न० कनक, सुवर्ण Gold दे० ६,१०  
 पसय. पुं० (१) मृग विशेष A kind of  
 deer दे० ६,४, पण्ह० १,१, भवि० सण०  
 महा० (२) मृग-शिष्य The young of a  
 deer विवा० १,४  
 पसरैह पु० किजल्क A tendril , The  
 clasper of a vine दे० ६,१३  
 पसल्लिअ त्रि० प्रेरित Incited पङ्०  
 पसवडक न० विलोकन Observation ,  
 Inspection दे० ६,१०  
 पसाइआ स्त्री० भिक्ख के सिर पर का पर्ण कुट,  
 भिक्खों की पगड़ी A Bheel's turban  
 दे० ६,२  
 पसिअ न० पूग-फल, सुपारी A nut  
 दे० ६,६  
 पसिडि न० कनक, सुवर्ण Gold पात्र०  
 पसुहत्त पु० वृक्ष, पेड़ A tree दे० ६,०६  
 पसूअ न० पुष्प, फूल A flower दे०  
 ६,६, पात्र० भवि०

पहएल्ल पु० पूष, पूषा, खाद्य विशेष Fat-  
 tened parched rice दे० ६,१८  
 पहट्टु त्रि० (१) दृप्त, उद्धत Obstinate ,  
 Stubborn दे० ६,६, पङ्० (२) अचिरतर  
 दृष्ट, ओढ़े ही समय के पूर्व देखा हुआ Seen  
 before a short time , Just seen  
 पङ्०  
 पहण न० कुल, वंश A Family , A  
 generation दे० ६,५  
 पहण्णि स्त्री० संसृजागत का निरोध, सामने आए  
 हुए का अटकवाव Detention of the  
 front come दे० ६,५  
 पहद त्रि० सदा दृष्ट Always seen दे०  
 ६,१०  
 पहम्म न० (१) सुर छात, देव-कुण्ड A  
 basin consecrated to a deity दे०  
 ६,११, (२) खात-जल, कुण्ड A basin  
 (३) विवर, छिद्र A hole से० ६,४३  
 पहयर पु० निकर, समूह, यूथ A collec-  
 tion , A multitude दे० ६,१५, जय १३,  
 पात्र०  
 पहिअ त्रि० मथित, विलोडित Churned  
 दे० ६,६  
 पहिल त्रि० पहला, प्रथम First सच्चि० ८७,  
 भवि० पि० ४४६  
 पहेण्य न० उत्सव A festival दे० ६,७३  
 पहाइय त्रि० (१) प्रवर्तित Diffused ,  
 Spread (२) प्रभुत्व Greatness दे०  
 ६,२६  
 पाइअ न० बदन विस्तार, मुँह का फैलाव  
 Extension of the mouth दे० ६,३६  
 पाउ पु० स्त्री० (१) भक्ष, भोजन Diet  
 Food (२) शुद्ध, ऊण A sugar-cane  
 दे० ६,३८  
 पाउअ न० (१) हिम, अश्रुयाय Snow  
 दे० ८,३८, (२) भक्ष Diet , Food (३)

इच्छ  $\Delta$  sugan-cane दे० ६,७२  
 पाउक त्रि० मार्गिकृत, मार्गित Definite path made out Definite line marked for future advance दे० ६,४१.  
 पाउग त्रि० सभ्य, सभासद A member दे० ६,४१, सण०  
 पाउगिअ त्रि० (१) जूआ खेलाने वाला One who causes to gamble (२) सोढ, सहन किया हुआ Endured दे० ६,४२, पाअ०  
 पाउरण न० कवच, वर्म आमो पड्०  
 पाउरणी स्त्री० कवच, वर्म. Amou दे० ६,४३  
 पाउहारी स्त्री० भक्त को लाने वाली, भात-पानी ले आनेवाली A woman who fetches food गा० ६६४ अ०  
 पाए अ० प्रभृति, 'वहा से' शुरू करके Having begun अघ० १६६, वृद० १  
 पांडविअ त्रि० जलाद्र, पानी से गीला Wet by water दे० ६,२०  
 पाडच्चर त्रि० आसक्त चित्त वाला Having the mind fixed on any object दे० ६,३४  
 पाडल पु० (१) हस, पक्षि विशेष A swan, A goose (२) वृषभ, बैल An ox, A bullock (३) कमल A lotus दे० ६,७६  
 पाडलसउण पु० हस, पक्षि-विशेष A Swan, A goose दे० ६,४६  
 पाडवण न० पाद-पतन, पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष A kind of salutation दे० ६,१०  
 पाडहुक त्रि० प्रतिभू, मनौतिया, जामिनदार A bail पड्०  
 पाडिअग पु० विश्राम A resting place, A place of repose दे० ६,४४

पाडिअम्भ पु० पिता के घर से वधू को पति के घर ले जाने वाला One who fetches a wife from her father's house and carries her to her husband's दे० ६,४३  
 पाडिपिट्टि स्त्री० प्रतिस्पर्धा Rivalry, Competition पड्०  
 पाडिसार पु० (१) पटुता, निपुणता Skill, Dexterity (२) त्रि० पटु, निपुण Clever, Sharp, Acute दे० ६,१६  
 पाडिसिट्टि स्त्री० (१) स्पर्धा Rivalry, Competition दे० ६,७७, कम्प० कुप्र० ४६, (२) समुदाचार Proper practice or usage (३) त्रि० सदृश, तुल्य Equal to Like, Similar to दे० ६,७७  
 पाडिसिरा स्त्री० पत्नीन-युक्ता A female having reins दे० ६,४२  
 पाडिहच्छी-पाडिहृथी स्त्री० शिरो-माल्य, मस्तक स्थित पुष्प-माला A garland of the head दे० ६,४२ राज०  
 पाडी स्त्री० भैंस की बछिया The female young of a buffalo गा० ६२.  
 पाडुकी स्त्री० बर्षी-जखम वाले-की पालकी A palanquin of the wounded, A stretcher for the patient दे० ६,३६  
 पाडुगोरि त्रि० (१) विगुण, गुण-रहित Devoid of virtues (२) मद्य में आसक्त Devoted to drinking (३) स्त्री० मजबूत वेष्टन वाली बाड A strong hedge 'पाडुगोरी च' दे० ६,७०  
 पाडुक पु० (१) समाजम्भन, चन्दन आदि का शरीर में उपलेप Besmealing the body with sandal ointment (२) त्रि० पटु, निपुण Skilful, Clever, Acute. दे० ६,७६  
 पाडुची स्त्री० तुरग मण्डन, घोड़े का सिंगार Decoration of a horse दे० ६,३६, पाअ०

Quick दे० ६,०८  
 पवित्रंजय नि० स्निग्ध, स्नेह-युक्त Loving  
 Affectionate पद०  
 पवित्रंजय नि० (१) स्निग्ध, स्नेह युक्त Lov-  
 ing (२) प्रत-निषेध, निवारित Prohibited  
 Forbidden दे० २,७४  
 पञ्चडसेल न० बाल मन कटक, तार्वाण A  
 particular ornament worn round  
 the arm etc viewed generally as  
 an amulet दे० ६,३१  
 पञ्चज, पु० (१) नर Anul (०) शर, राश  
 An arrow (२) जल सुग A young  
 deer दे० ६,६३  
 पञ्चावण. न० प्रयोजन A purpose, An  
 object पिड० २१  
 पञ्चिद्व त्रि० प्रेरित Uiged, Incited  
 दे० ६,११  
 पसडि न० कनक, सुवर्ण Gold, दे० ६,१०  
 पसय. पु० (१) मृग विशेष A kind of  
 deer दे० ६,४, पशह० १,१, भवि० सण०  
 महा० (२) मृग-शिषु The young of a  
 deer विवा० १,४  
 पसरेह पु० किजलक A tendril, The  
 clasper of a vine दे० ६,१३  
 पसल्लिअ त्रि० प्रेरित Incited पड्  
 पसवडक न० विलोकन Observation,  
 Inspection दे० ६,१०  
 पसाइया खी० भिल्ल के सिर पर का पर्या कुट,  
 भिल्लों की पगडी A Bheel's turban  
 दे० ६,२  
 पसिअ न० पग-फल, सुपारी A nut  
 दे० ६,६  
 पसिडि न० कनक, सुवर्ण Gold पाय०  
 पसुहत्त पु० वृत्त, पेड A tree दे० २,२६  
 पसुअ न० पुष्प, फूल A flower दे०  
 ६,६, पाअ० भवि०

पशुपु पु० पशु, पशु, खाद्य विशेष Fat  
 toned punched rice दे० २,१८  
 पशुपु त्रि० (१) दृढ, उदत Obstinate,  
 Stubborn दे० २,६, पड् (२) अचिरत  
 र, मोटे ही समय के पूर्व देखा हुआ Seen  
 before a short time, Just seen  
 पट्  
 पहाण न० कुल, पशु A Family, A  
 generation दे० २,२  
 पहाणि खी० समुदागत का निरोध, सामने आप  
 हुप का अटकान Detention of the  
 front come दे० ६,५  
 पहाद त्रि० सदा दृष्ट Always seen दे०  
 ६,१०  
 पहाम्म न० (१) सुर रात, देव-कुण्ड A  
 basin consecrated to a deity दे०  
 ६,११, (२) रात-जल, कुण्ड A basin  
 (३) विवर, छिद्र A hole से० ६,४३  
 पहायर पु० निर-र, समूह, यूय A collec-  
 tion, A multitude दे० ६,१२, जय १३,  
 पाअ०  
 पहािअ नि० मथित, बिलोडित Chained  
 दे० ६,६  
 पहिल त्रि० पहला, प्रथम First सचि० ४७,  
 भवि० पि० ४४३  
 पहाणय न० उत्सव A festival. दे० ६,७३  
 पहाइय त्रि० (१) प्रवर्तित Diffused,  
 Spread (२) प्रशुत्व Greatness दे०  
 ६,२६  
 पाडअ न० बदन विस्तार, मुँह का फैलाव  
 Extension of the mouth दे० ६,३६  
 पाड पु० खी० (१) भक्ष, भोजन Diet,  
 Food (२) इड, ऊल A sugar-cane  
 दे० ६,७५  
 पाअअ न० (१) हिम, अवरयाय Snow  
 दे० ६,३८, (२) भक्ष Diet, Food (३)

इच्छ A sugar-cane दे० ६,७२  
 पाउक त्रि० मार्गीकृत, मार्गित Definite path made out, 'Definite line marked for future advance' दे० ६,४१.  
 पाउग त्रि० सभ्य, सभासद A member दे० ६,४१, सण०  
 पाउगिगिञ्च त्रि० (१) जूआ खेलाने वाला One who causes to gamble (२) सोड, सहन किया हुआ Endured दे० ६,४२, पाञ्च०  
 पाउरण न० कवच, वर्म Aimou पङ्०  
 पाउरणी स्त्री० कवच, वर्म, Aimou दे० ६,४२  
 पाउहारी स्त्री० भक्त को लाने वाली, भात-पानी ले आनेवाली A woman who fetches food गा० ६६४ अ०  
 पाए अ० प्रभृति, 'वहा से' शुरू करके Having begun शोध० १६६, वृह० १  
 पाडविञ्च त्रि० जलाद्र, पानी से गीला Wet by water दे० ६,२०  
 पाडच्चर त्रि० आसक्त चित्त वाला Having the mind fixed on any object दे० ६,३४  
 पाडल पु० (१) हंस, पक्षि विशेष A swan, A goose (२) बृषभ, बैल An ox, A bullock (३) कमल A lotus दे० ६,७६  
 पाडलसउण पु० हंस, पक्षि-विशेष A Swan, A goose दे० ६,४६  
 पाडवण न० पाद-पतन, पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष A kind of salutation दे० ६,१८  
 पाडहुक त्रि० प्रतिभू, मनौतिया, जामिनदार A bail पङ्०  
 पाडिअग्ग पु० विश्राम A resting place, A place of repose दे० ६,४४

पाडिअग्ग पु० पिता के घर से वधू को पति के घर ले जाने वाला One who fetches a wife from her father's house and carries her to her husband's दे० ६,४२  
 पाडिपिट्टि स्त्री० प्रतिस्पर्धा Rivalry Competition पङ्०  
 पाडिसार पु० (१) पटुता, निपुणता Skill, Dexterity (२) त्रि० पटु, निपुण Clever, Sharp, Acute दे० ६,१६  
 पाडिसिट्टि स्त्री० (१) स्पर्धा Rivalry, Competition दे० ६,७७, कप्प० कुम्प० ४६, (२) समुदाचार Proper practice or usage (३) त्रि० सदृश, तुल्य Equal to Like, Similar to दे० ६,७७  
 पाडिसिरा स्त्री० ललीन-युक्ता A female having reins दे० ६,४२  
 पाडिहच्छी-पाडिहत्थी स्त्री० शिरो-माल्य, मस्तक स्थित पुष्प-माला A garland of the head दे० ६,४२ राज०  
 पाडी स्त्री० भैंस की बछिया. The female young of a buffalo गा० ६२  
 पाडुकी स्त्री० ब्रथी-जखम वाले-की पालकी A palanquin of the wounded, A stretcher for the patient दे० ६,३६  
 पाडुगोरि त्रि० (१) विगुण, गुण-रहित Devoid of virtues (२) मद्य में आसक्त Devoted to drinking (३) स्त्री० मजबूत वेष्टन वाली चाड A strong hedge 'पाडुगोरी च' दे० ६,७८  
 पाडुक पु० (१) समाजम्भन, चन्दन आदि का शरीर में उपलेप Besmealing the body with sandal ointment (२) त्रि० पटु, निपुण Skilful, Clever, Acute दे० ६,७६  
 पाडुची स्त्री० तुरग मण्डन, घोड़े का सिंगार. Decoration of a horse दे० ६,३६, पाञ्च०

पाडुहुअ त्रि० प्रतिभू, मनातिवा, जामिनदार  
 \ bal दे० २,४२  
 पाडोस पु० पडोस, प्रातिशेखिमकता Neigh-  
 bourhood आ० २७  
 पाडोसिअ त्रि० पडोसी A neighbour  
 सिरि० ३१२, आ० २१, सुगा० २२२  
 पाड पु० (१) शास्त्र, आगम Scriptures,  
 Shastrias (२) शास्त्र का उल्लेख (Quota-  
 tion from the scripture 'पाडोसि वा  
 सस्थ तिया एगद' आया० चू० १.  
 पाण्ड्रि ची० रथ्या, गली A street,  
 A lane दे० ६,३६  
 पाणाअअ पु० खपच, चाण्डाल \ butcher  
 दे० ६,३८  
 पाणाली स्त्री० दो हाथों का प्रहार A blow  
 with two hands दे० ६,४०  
 पामद्दा स्त्री० दोनों पैर से धान्य मर्दन Crushing  
 of corn with both the feet  
 दे० ६,४०  
 पामच्चिय त्रि० धार लिया हुआ, Borrowed  
 on credit, Purchased on credit  
 आया० २,१०,१  
 पाय पु० (१) रथ-चक्र, रथ का पहिया. The  
 wheel of a chariot दे० ६,३७, (२)  
 फ्याी, साप A snake, A serpent पड०  
 पायड न० अण, अँगन A compound,  
 A yard दे० ६,४०  
 पायप्पहण पु० कुक्कुट, सुगाँ A cock.  
 दे० ६,४२  
 पायल न० चक्षु, नेत्र, An eye दे० ६,३८  
 पारक न० मदिरा नापने का पात्र A  
 measuring vessel of wine, A wine  
 measuring vessel दे० ६,४१  
 पारत्ति. स्त्री० कुसुम-विशेष A kind of  
 flower गडड० कुमा०  
 पारद्ध त्रि० पीडित Afflicted, Pained,

'Distressed दे० - ,७७  
 पारय न० सुरा-भाण्ड, गरु रत्नने का पात्र  
 \ measuring vessel of wine दे०  
 ६,३८  
 पाराई स्त्री० लोह कुशी विशेष, लोहे की दवा  
 ऊर दायी वस्तु A small thing of iron  
 having the form of a stick पड० २,३  
 पारावर पु० गवाच, वातायन A window  
 दे० ६,४३  
 पारिच्छी स्त्री० माला \ garland  
 दे० ६,४२  
 पारिहट्टी स्त्री० (१) प्रतिहारी A door-  
 keeper (२) आकृष्टि, आकर्षण Attraction  
 (३) चिर प्रसुता महिषी, बहुत देर से ब्यापी  
 बैल. A long-calved buffalo दे० ६,७२  
 पारुअग पु० विराम A resting place,  
 A place of repose दे० ६,४४  
 पारुअल्ल पु० पृथुक, चिडडा A young  
 दे० ६,४२  
 पारुहल्ल त्रि० मालीकृत, श्रेणी रूप से स्थापित  
 Established in series 'पालीबधच पारु  
 हल्लोअि' द० ६,४२  
 पाल पु० (१) फलवार, शराब बेचने वाला  
 A vendor of liquor (२) त्रि० जीर्ण, फटा-  
 टूटा. Worn out, Torn दे० ६,७२  
 पालद्दुह पु० वृक्ष-विशेष A kind of tree  
 उप० १-३१ टी  
 पालप्प पु० (१) प्रतिसार A version.  
 (२) त्रि० विप्लुत Confounded, Dis-  
 turbed दे० ६,७६  
 पालिआ स्त्री० खडग मुष्टि, तलवार की मूठ  
 The handle or hilt of a sword  
 पाय०  
 पालित्तिअ स्त्री० (१) राजधानी A capital  
 city (२) मूल नीची Capital (३) भण्डार,  
 निधि A treasury (४) भगी, प्रकार  
 Sort, kind कण्ठ०

पाली स्त्री० दिशा Direction दे० ६,३०  
 पालीवध पुं० तालाव, सरोवर A lake, A pond दे० ६,४२  
 पालीहम्म न० वृत्ति, वाड A hedge, A fence दे० ६,४२  
 पाव पु० सर्प, साप A snake, A serpent दे० ६,३८  
 पावय पुं० न० वाद्य-विशेष A pipe, A flute पउम० १७,२३  
 पास न० (१) आँप An eye (२) दाँत A tooth (३) कुत्त, प्रास A spear, A lance (४) विशोभ, कुडौल, गौभाहीन Awkward, Clumsy दे० ६,७५, (५) अन्य वस्तु का अल्प मिश्रण Mixture of other substances भाव० २  
 पासणिअ त्रि० साची A witness दे० ६,४१  
 पासल्ल न० (१) द्वार A door दे० ६,७६, (२) त्रि० तिर्यक्, वक्र Crooked दे० ६,७६, से० ६,६२, गउड०  
 पासाणिअ त्रि० साची A witness दे० ६,४१  
 पासाव-पासावय पु० गवाक्ष, वातायन A window षड् दे० ६,४३  
 पासासा स्त्री० भल्ली, छोटा भाला A small spear दे० ६,१४  
 पासी स्त्री० चूडा, चोटी The tuft of hair on the head दे० ६,३७  
 पाहुण त्रि० विक्रीय, बेचने की वस्तु A thing for selling दे० ६,४०  
 पिअण न० दुग्ध, दूध Milk दे० ६,४८  
 पिअमा स्त्री० त्रियगु वृक्ष A kind of tree दे० ६,४६, पाअ०  
 पिअमाहवी स्त्री० कोकिला, पिकी A cuckoo दे० ६,२१, पाअ०  
 पिउच्चा-पिउच्छा स्त्री० सखी, वयस्या A

female friend षड् १७२, २१०  
 पिउली स्त्री० (१) कर्पास, कगस Raw cotton (२) तूल लतिका, रूई की पूनी A roll of cotton prepared for spinning दे० ६,७८,  
 पिगग पु० मर्कट, चन्दर A monkey दे० ६,४८  
 पिचु पु० स्त्री० पम्प करीर पक्का करील The name of a ripened vegetable of a bitter taste दे० ६,४६  
 पिछोली स्त्री० मुह के पवन से बजाया जाता तृष मय वाद्य विशेष A kind of musical instrument made of grass दे० ६,४७  
 पिजरुड पु० पक्षि विशेष, भारुण्ड पक्षी, जिसके दो मुँह होते हैं The name of a bird having two mouths दे० ६,२०  
 पिजिअ त्रि० विधुत abandoned, Given up दे० ६,४६  
 पिंडरय न० दाडिम, अनार A pomegranate दे० ६,४८  
 पिंडलइय त्रि० पियडीकृत, पियडाकार किया हुआ Made into a lump or ball दे० ६,२४, पाअ०  
 पिंडलग न० पटलक, पुष्प का साजन A vessel made of flowers अ० ७  
 पिडी स्त्री० मञ्जरी A flowerstalk, A cluster of blossoms दे० ६,४७  
 पिंडीर न० दाडिम, अनार A pomegranate दे० ६,२८  
 पिसुली स्त्री० मुह से पवन भर कर बजाया जाता एक प्रकार का तृष वाद्य A musical instrument made of grass दे० ६,४७  
 पिच्छिली स्त्री० लज्जा, शर्म Shame दे० ६,४७  
 पिच्छी स्त्री० चूडा, चोटी A tuft of hair on the head दे० ६,३७

पिट्टखउरा स्त्री० पक्क सुरा, कलुप मदिरा Mud-  
dy wine दे० ६,५०  
पिट्टखउरिआ स्त्री० मदिरा, दाह Wine,  
Liquor पाद्य०  
पिट्टच्छा स्त्री० सन्नी A female friend  
दे० ६,४६  
पिट्टय, त्रि० आविद्य Met with a misfor-  
tune पद०  
पिट्टुइअ त्रि० प्रशान्त Calm, Quiet पद०  
पिणार्दे स्त्री० आज्ञा, आदेश A command,  
An order दे० २,४८  
पिणाय पु० बलात्कार Force, Violence  
दे० ६,४६  
पिणही स्त्री० चामा, कृश स्त्री A slender  
woman, A woman with slender  
frame दे० ६,४६  
पिप्पय पु० (१) सरक A leather water  
bag दे० ६,७८, (२) पिशाच, लूत A ghost,  
An evil spirit पाद्य० (३) त्रि० उन्मत्त.  
Intoxicated दे० ६,७८  
पिप्पडा स्त्री० ऊर्षा पिपीलिका An ant,  
An insect दे० ६,४८  
पिप्पडिअ त्रि० (१) जो बड़बड़ाया हो Gabbl-  
ed (२) न० बड़बड़ाना, निरर्थक उल्लाप,  
बक्याद Plattle, Chatter दे० २,५०.  
पिप्पर पु० (१) हल A swan, A goose  
(२) वृषभ An ox, A bullock दे० ६,७६  
पिप्पिया स्त्री० दाँत का मैल Dirt of teeth  
नदी०  
पिक्व न० जल, पानी Water दे० ६,४६  
पिरिडी स्त्री० शकुनिका, चिडिया A hen-  
sparrow दे० ६,२०  
पिल्लण न० पिच्छिल देश, चिकनी जगह A  
shaky place दे० ६,४६  
पिलुअ न० छूत, स्नीक Sneeze पद०

पिल्लि स्त्री० यान विशेष A kind of  
vehicle इया० ६  
पिल्लिरी स्त्री० (१) वृष विशेष, गण्डुत वृष  
A kind of grass (२) चीरी, कीट विशेष  
An ant, An insect (३) घर्म, पसीना  
Sweat, Perspiration दे० ६,७६  
पिल्ह न० छोटा पक्षी A young bird  
दे० ६,४६  
पिहड पु० (१) वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument (२) त्रि० विवर्ण  
Pale, Pallid दे० ६,७६  
पिहुल न० मुँह के वायु से बजाया जाता वृष-  
वाद्य A kind of musical instrument  
made of glass दे० ६,४७  
पिहोअर त्रि० तनु, कृश, दुर्बल Thin,  
Slender, Feeble दे० ६,५०  
पीइ पु० अश्व, घोडा A horse दे०  
६,५१  
पीईय पु० वृक्ष-विशेष, गुग्गु का एक भेद A  
kind of tree 'पीईय पाणकयइरकुजय'  
पद्य० १  
पीडरइ स्त्री० चोर की स्त्री The wife of a  
thief दे० ६,५१  
पीठ न० (१) ईल पीलने का यन्त्र A machine  
for squeezing sugar-cane दे० ६,५१,  
(२) समूह, यूथ A collection, A  
multitude 'उडिय वयागड दपीड' स० २३३,  
(३) पीठ, शरीर के पीछे का भाग The  
back 'हृथिपीडसमाह्णे' त्रि० ६६  
पीढी स्त्री० काष्ठ विशेष, घर का आधार काष्ठ  
A cross-beam धर्मवि० २६  
पीण त्रि० चतुरस्र, चतुष्कोण Quadran-  
gular दे० ६,५१  
पीरिपीरिया स्त्री० वाद्य विशेष A kind of  
musical instrument राय० ४२  
पुअड पु० लक्षण, युवा A young person,



A youth दे० ३,५३, पात्र०  
 पुत्राह पु० (१) तरुण, युवा A youth,  
 A juvenile person दे० ६,८०, (२)  
 उन्मत्त Intoxicated दे० ६,८०, पद्० (३)  
 पिशाच A demon, An evil spirit  
 दे० ६,८०, पात्र पद्०  
 पुत्राहणी स्त्री० (१) पिशाच गृहीत स्त्री, भूताविष्ट  
 महिला A woman possessed by a  
 ghost (२) उन्मत्त स्त्री An obstinate  
 woman (३) कुलटा, व्यभिचारिणी An  
 unchaste woman दे० ६,९४  
 पुत्राण न० चुमाना, विवाह की एक रीति  
 To receive or welcome a bride or  
 bridegroom or both with an  
 auspicious ceremony सुपा० ६२  
 पुगल पु० श्रेष्ठ, उत्तम Best, Excellent  
 भवि०  
 पुजय पु० न० क्तवार Dnt, Refuse  
 सुपा० २६०  
 पुजाय त्रि० पिण्डाकार किया हुआ Made  
 into a lump or ball 'पुजाय पिंडलइय'  
 पात्र०  
 पुडइय त्रि० पिण्डीकृत, पिण्डाकार किया हुआ  
 Made into a lump or ball दे० ६,९४  
 पुडे अ० जायो An adverb signifying  
 'go away' दे० ६,९२  
 पुढ पु० गर्त, गडहा A pit दे० ६, ५२  
 पुपुत्र पु० सगम A junction, A  
 confluence दे० ६,५२  
 पुम पु० नीरस, दाडिम छिलका A pome-  
 granate rind धर्मवि० ६७, महा, २६  
 पुकखलच्छिन्नभग-य पु० न० जलरुह विशेष, जल  
 में होने वाली वनस्पति विशेष A kind of  
 vegetable growing in water सू०  
 २,३,१८,१६  
 पुग पु० न० बाद्य-विशेष A kind of musi-

cal instrument 'पुगाठ वाएड' कुप० २०३  
 पुट्ट, न० पेट, उदर Stomach था० २८,  
 मोह० ४१, प्रव० १३३, सम्मत्त० २०६, भिरि०  
 २४२, सण  
 पुट्टल-पुट्टलय पु० न० गठडी, गोंठ A pack-  
 age, A bundle 'सबलपुट्टलय च गहिय'  
 सम्मत्त० ६१  
 पुट्टलिया स्त्री० छोटी गठडी A small pack-  
 age सुपा० ४३, ३४४  
 पुडइअ त्रि० पियडीकृत, एकत्रित Collected  
 दे० ६,९४  
 पुडइया स्त्री० नलिनी कमलिनी A lotus-plant  
 दे० ६,९५, निष्क० २३  
 पुडिग न० (१) मुख, चदन A face (२) विन्दु  
 दीप दे० ६,८०  
 पुणइ पु० रचयच, चायडाल A butcher  
 दे० ६,३८  
 पुणवत्त न० आनन्द से हस्त-वस्त्र A gar-  
 ment called away in a joke दे०  
 ६,९३, पात्र०  
 पुणाली स्त्री० असती, कुलटा, पुश्चली An  
 adultress दे० ६,९३, पद्०  
 पुत्तरे पु० स्त्री० योनि, उत्पत्ति स्थान A  
 generative organ 'पुत्तरे योनी' लक्षि०  
 ४७  
 पुत्थ त्रि० मृदु, कोमल Tender, Delicate  
 दे० ६,५२  
 पुपुत्र त्रि० पीन, पुष्ट, उपचित Fleshy,  
 Fat दे० ६,५०  
 पुफस न० फेफ्फा, शरीर का एक भीतरी अंग  
 The lungs पउम० १०५, ५५  
 पुफा स्त्री० फूफी, पिता की बहिन A paternal  
 aunt दे० ६,५२  
 पुफिका स्त्री० फूफी, पिता की बहिन A paternal  
 aunt दे० ६,५२  
 पुफकी स्त्री० फूफी पिता की बहिन A paternal  
 aunt पद्०

- पुष्पुत्रा स्त्री० करीप का अग्नि Fire of dung cakes 'दुग्गत्रो पुष्पुत्रासुग्रधेय' गा० -२०
- पुरिल पु० दंत्य, दानव \ demon, - A giant पङ्०
- पुरिल्ल त्रि० प्रवर, श्रेष्ठ Best, Excellent दे० ६,५२
- पुरिल्लदेव पु० गसुर, दानव \ demon, A giant दे० ६,५२
- पुरिल्लपहाया स्त्री० सोंप की दाढ़ The Jaw-tooth of a snake दे० ६,५६
- पुरुपुरिआ स्त्री० उत्कण्ठा, उत्सुकता Eagerness, Earnest desire दे० ६,५
- पुरोहड त्रि० (१) विषम, असम Difficult (२) पुं० न० आवृत भूमि का वास्तु The ceremony of entering an enclosed place दे० ६,१५, (३) बाडा, वाटक A hedge, A fence 'बलडा पुरोहडसतो' सुपा० ५४५, वृह० २
- पुलाधश्च पु० अमर, भमरा \ wasp पङ्०
- पुलासिश्च पु० अग्निरूप A spark of fire दे० ६,५५
- पुल्ल त्रि० पोला, शुपिर, खाली, रिक्त Hollow, Empty. सुपा० ५,१
- पुल्लि पु० स्त्री० व्याघ्र, शेर A tiger दे० ६,७६, पात्र० (२) सिंह, पञ्जानन, मृगेन्द्र A lion दे० ६,७६
- पुण्वग त्रि० मुण्डित Clean shaved पङ्०
- पुण्वाड त्रि० पीन, मासल, पुष्ट Fleshy, Fat दे० ६,५२
- पूअ न० दधि, दही Curd दे० ६,५
- पूआ स्त्री० पिशाच गृहीता, भूताविष्ट स्त्री \ woman possessed by a ghost दे० ६,५४
- पूडरिश्च न० कार्य, काम, काज, प्रयोजन \ work, An action दे० ६,५७
- पूण पु० हस्ती, हाथी An elephant दे० ६,५६
- पुण्ड्रिआ-पूणी स्त्री० पूणां, रुई की पहल A roll of cotton prepared for spinning दे० ५,७८, ६,५६
- पूयली स्त्री० राटी \ kind of bread आथा० २,१, ८, ६
- पूरोट्टी स्त्री० यक्कर, कतपार, कूड़ा Dirt, Refuse. दे० ६,५७
- पूस पु० (१) राजा सातवाहन The king named Satavahan दे० ६, ८०, (२) शुक, तोता A parrot दे० ६, ८०, गा० २६२, वजा० १३४, पात्र०
- पेआल न० (१) सार, रहस्य Purport, Moral डा० ४,४ टी, उप० पृ० २०७, (२) प्रधान, मुख्य Principal, Chief उवा०
- पेआलुय त्रि० विचारित Thought विशेष० १४=२
- पेंड. न० (१) खण्ड, टुकड़ा, A piece, A flagment (२) चलय A circle, A sphere दे० ६ ८१
- पेंडधव पु० खड्ग, तलवार A sword दे० ६,५६
- पेंडवाल त्रि० पियडीकृत, पियडाकार किया हुआ Made into a lump or ball दे० ६,५४
- पेंडय पु० (१) तरुण, युवा A young man, A youth (२) पण्ड, नपुंसक An impotent person दे० ६,५३
- पेडल पुं० रस Juice दे० ६,५८
- पेडलित्र त्रि० पियडीकृत, पियडाकार किया हुआ Made into a lump or ball दे० ६,५४
- पेंडार पु० (१) गोप, गो-पाल A cowherd (२) महिषी-पाल A herdsman दे० ६,५८
- पेडोली स्त्री० क्रीडा A sport, A play दे० ६,५६
- पेंडा स्त्री० कलुप सुरा, परु वाली नदिरा Muddy wine दे० ६,५०
- पेच्छय त्रि० जो देखे उसी को चाहने वाला,

दृष्ट-मात्र का अभिलाषी One who loves  
whatever he sees, A lover of what  
he sees दे० ६,२८

पेजल न० प्रमाण Measure. दे० ६,५०

पेजलिअ त्रि० नघटित United,  
Joined पङ्०

पेज्जाल त्रि० विपुल, विशाल Vast, Ex-  
tensive. दे० ६,६

पेट पेट्ट न० पेट, उदर A stomach पिग०  
प्रव० १

पेट्टइअ पु० धान्य आदि बेचने वाला बणिक  
A Bania dealing in coons etc, A  
coin dealer दे० ६,५६

पेटाल पु० बड़ी मञ्जूषा, बड़ी पेट्टी. A large  
box मुद्रा० ११०

पेट्ट पु० महिष, भैंसा A he-buffalo  
दे० ६,८०

पेट्टा स्त्री० (१) भित्ति, भित्ति A wall (२)  
द्वार, दरवाजा A door (३) महिषी, भैंसा  
buffalo दे० ६,८०

पेटाल त्रि० (१) विपुल Large दे० ६,६,  
गडड (२) वतुल, गोलाकार Cucular  
दे० ६,६, गडड० पाय०

पेट्ट त्रि० लुप्त दण्डक, जूए में जो हार गया हो  
वह, जिसका दाव चला गया हो वह One who  
has lost the stake in gambling  
मृच्छ० ४६

पेरण न० (१) ऊँच स्थान A high  
place दे० ६,२६, (२) खेल, तमाशा A  
show, A play स० ७२३, ७२४

पेरिज न० साहाय्य, सहायता, मदद Help,  
Assistance दे० ६,२८

पेरुल्लि त्रि० पिण्डीकृत, पिण्डाकार किया हुआ  
Made into a lump or ball दे० ६,२४

पेल्ल-पेज्जग पु० न० बच्चा, शिशु, बालक A

baby, An infant उप० २१६, उप०  
२२० टी

पेसण न० कार्य, काज, प्रयोजन An action,  
An object दे० ६,२७, भवि० नाया० १,७,  
पउम० १०३, २६

पोअ पु० (१) घव वृक्ष, धाय, धौ का पेड़  
A kind of tree. (२) छोटा साँप A  
small snake दे० ६,२१

पोअइया स्त्री० निद्राकरी लता, लता-विशेष  
A kind of creeper दे० ६,६३, पाय०

पोअड त्रि० (१) भय रहित, निडर  
Undaunted, Unterrified, Fearless.  
(२) पण्ड, नामर्त An Impotent, An  
effeminate दे० ६,६१

पोअत्त पु० शपथ, सौगन An oath  
दे० ६,६२

पोअल्य पु० (१) आश्विन मास का एक  
उत्सव, जिसमें पत्नी के हाथ से लेकर पति अन्न  
को खाता है A festival of the month  
Ashvin, in which a husband eats  
fattened-parched-rice taking it  
from his wife's hand (२) एक प्रकार का  
अन्न खाद्य विशेष, पूआ A kind of  
fattened-parched-rice (३) बाल वसन्त  
Spring season दे० ६,६१

पोआय पु० ग्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया,  
The leader of a village, A chief  
दे० ६,६०

पोआल पु० वृषभ, बलीवर्द An ox, A  
bullock दे० ६,६२

पोइअ पु० (१) हलवाई, मिठाई बेचने वाला  
A confectioner (२) खद्योत A  
butterfly, A glow worm दे० ६,६३

पोउआ स्त्री० करीष का अन्न Fine of  
dung-cakes दे० ६,६१

पोग पु० पाक, पकना Ripeness स० १८०

|                                                                                                                |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| पोगिल्ल त्रि० पका हुआ, परिपक्व, परिपक्व-युक्त Ripened स० १८०                                                   | A kind of insect having four senses उक्त० ३६, १४०                            |
| पोड-पोडय पु० (१) यूथ का अधिपति The leader of a multitude त्रि० ६, ६०, (२) कपास का सूत A cotton-thread सूयनि० ३ | पोत्ती स्त्री० काच, शीशा A mirror दे० ६, ६०                                  |
| पोच्च, त्रि० सुकुमार, कोमल Delicate, Tender, Soft दे० ६, ६०                                                    | पोपय पु० न० हस्त परिमर्षण, हाथ-फिराना To rub gently with the hand उप० ४० ३२३ |
| पोट्ट-पोट्टल न० पोटला, गड्ढर, गड्ढरी A bundle, A package सुपा० ३२४, दे० २, २४, स० १००                          | पोमर न० कुसुम्भ-रक्त वस्त्र A red garment. दे० ६, ६३                         |
| पोट्टलिय त्रि० पोटली उठाने वाला, गड्ढरी-वाहक One who carries a package, A coolie निसी० चू० १६                  | पोरच्छ पु० दुर्जन, लल A wicked man दे० ६, ६२, पाश्च०                         |
| पोट्टसारणी स्त्री० अतीसार रोग Dysentery, A kind of disease आच० ४                                               | पोरस्थ त्रि० मत्सरी, ईर्ष्यालु, द्वेषी Envious, Malicious, Hostile. पद्०     |
| पोट्टि स्त्री० उदर-पेशी, A stomach मृच्छ० २००                                                                  | पोरय न० क्षेत्र A field. दे० ६, २६                                           |
| पोण्डिअ त्रि० पूर्ण Full दे० ६, २८                                                                             | पोलचा स्त्री० खेदित भूमि, कृष्ट जमीन Ploughed land दे० ६, ६३                 |
| पोण्डिआ स्त्री० सूत से भरा हुआ तकुवा A Takali full of cotton threads दे० ६, ६१                                 | पोलिअ पु० सौनिक, कसाई A butcher, A slaughtere. दे० ६, ६२                     |
| पोत्तय पु० पोता, वृषण, अण्डकोष A testicle दे० ६, ६२                                                            | पोल्लर न० तप विशेष, निर्विकृतिक तप A kind of religious austerity सवोध० २८    |
| पोत्तिआ स्त्री० चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति                                                                  | पोसिअ त्रि० दुःस्थ, दरिद्र, दुःखी Poor, Afflicted दे० ६, ६१                  |
|                                                                                                                | पोहण पु० छोटी मछली A small fish दे० ६, ६२                                    |



फ


|                                                                               |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फफसय पु० लता-भेद, वस्ती-विशेष A kind of creeper दे० ६, ८३                     | फफुली स्त्री० नवमालिका, पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष A kind of tree दे० ६, ८२                             |
| फफण त्रि० (१) युक्त, सगत Proper, Fit, Suitable (२) मलिन, मैला Dirty दे० ६, ८० | फफु पु० वसन्त का उत्सव The spring festival दे० ६, ८२                                                  |
| फफुल त्रि० मुक्त, त्यक्त Abandoned, Given up दे० ६, ८२                        | फड न० (१) साँप का सर्व शरीर The whole body of a snake दे० ६, ८६ पु० (२) न० साप की फण्टा The hood of a |

serpent दे० ६,८६, कुप्र० ४७२  
 फणञ्जुय पु० वनस्पति-विशेष A kind of vegetable पत्र० १  
 फरकित्त्रिं त्रि० फरका हुआ, हिला हुआ, कम्पित Trembled Shaken कण्ठ०  
 फलही स्त्री० (१) कर्पास, कपास Raw cotton दे० ६,८२, गा० १६२, ३२६, (२) कपास की लता A cotton plant गा० ३६०  
 फलि पु० (१) लिंग, चिह्न A sign, A mark (२) बृषभ, बैल. An ox A bullock दे० ६,८६  
 फलित्र न० वायनरु, भोजन आदि का वाटा जाता उपहार A present of sweetmeats on festive occasions उ० ३,३  
 फलित्रारी स्त्री० दूर्वा, कुश वृक्ष A kind of grass दे० ६,८३  
 फलिह न० कपास का टेंटा A pod अणुजो० ३२ टी  
 फसल त्रि० (१) सार, चितकबरा Diversified, Variegated 'फसल सबल सार किर' पात्र० दे० ६,८७, (२) स्थासरु A bubble (of water or any-fluid) दे० ६,८७  
 फसलाणित्र-फसलित्र. त्रि० कृत विभूष, जिसने विभूषा की हो वह, शृङ्गारित Decorated दे० ६,८३, स० ३६०  
 फसुल त्रि० मुक्त Released, Liberated दे० ६,८२  
 फालि स्त्री० (१) फली, झीमी, फलिया A bean, A pod (२) शाखा A branch सथा० ८२, (३) फाक, टुकड़ा A piece, A fragment रयण० २२  
 फाकि पु० स्त्री० हर्ष, खुशी Delight, Joy दे० ६,८३  
 फिज न० नितम्ब, चूतर, जघा का उपरि-भाग Buttocks, Posterioris सुप्र० ८,१३  
 फिट्टा स्त्री० प्रणाम-विशेष, मार्ग में किया जाता

प्रणाम A kind of salutation गुभा० १  
 फिड्ड त्रि० वामन Dwarfish दे० ६,८४  
 फिप्प त्रि० कृत्रिम, वनावटी Artificial दे० ६,८३  
 फिरक पु० न० खाली गाड़ी, भार टोने वाली चालीगाड़ी An empty cart 'फिरकजुत्तावि' सुपा० ८२४  
 फुका स्त्री० फूक, मुँह से हवा निकालना A quick blast with the mouth, A puff मोह० ६७  
 फुटा स्त्री० केश-बन्ध A hair-band दे० ६,८४  
 फुफमा-फुफुआ-फुंफुगा स्त्री० करीपात्रि, वन कण्डे की आग Fine of dried dung-cakes पात्र० दे० ६,८४, तदु० ४२, जीव० २, वृह० १  
 फुका स्त्री० (१) मिथ्या False, Wrong दे० ६,८३, (२) फूक A blow, A puff with the mouth कुप्र० १२०  
 फुकी स्त्री० रजकी, धोविन A washer-woman दे० ६,८४  
 फुगा स्त्री० न० शरीर का अवयव-विशेष, कटि-श्रोत्र A limb of the body सूयनि० ७६  
 फुन्न त्रि० छूया हुआ Touched प्रव० १२८ टी, क० गा० २,८२ टी  
 फुफुस न० उदरवर्ती अन्न विशेष, फेफडा Lungs सूयनि० ७३, पउम० २६,२४  
 फुल्लधुत्र पु० अमर, ममरा A wasp दे० ६,८२, पात्र० कुमा०  
 फुल्लवड न० पुष्प विशेष, मदिरा चामक फूल A kind of flower कुप्र० ४६३  
 फूत्र पु० लोहार, लोहार A blacksmith दे० ६,८२.  
 फेडावणिय न० विवाह समय की एक रीति, वधू को प्रथम बार लज्जा-परिहार के वस्त्र दिया जाता उपहार A custom pertaining to

marriage स० ७८  
 फेणग्रंथ-फेणग्रंथ पु० वरुण The  
 Neptune, The deity of the west  
 दे० ६,८६  
 फेरण न० फेरना, घुमाना To turn.  
 गु० 'फेरण पु० रुग्णहि' सुर० २, ८  
 फेला खा० कृष्ण कौटिल, भोजन से क्या खुचा  
 उच्छिद्य Refuse, Waste-meal 'पुण  
 स फेलाहारसकास' धर्मवि० १४८  
 फेलाया खी० मातुलानी, मामी The  
 maternal aunt दे० ६,८६.  
 फेण पु० दरिद्र, निर्धन Poor, Penniless  
 दे० ६,८६  
 फेल्लुसण न० (१) फिसलन, पतन Fall  
 (२) फिक्कल तमोन, वह जाह जहाँ पाँव फिसल  
 पड़े Slippery ground दे० ६,८६  
 फेस पु० (१) त्रास, डर Oppression,

Fear, Terror (०) सद्भाव A good  
 or virtuous motive. दे० ६,८६  
 फोअ पु० उद्गम Produce, Creation  
 दे० ६,८६  
 फोइअय त्रि० १) मुक्त Released,  
 Liberated (२) विस्तारित Expanded,  
 Extended. दे० ८,८०  
 फोफा खी० डराने की आवाज, भयोत्सादक शब्द  
 A terrible sound दे० ६,८६  
 फोडिअय न० रात के समय जंगल में सिंहादि  
 स रक्षा का एक प्रकार A kind of protec-  
 tion from lions etc in the jungle  
 during the night time दे० ६,८८  
 फोणिया खा० एक जात की मिठाई A kind  
 of sweet-meat सम्मत्त० २७  
 फोस पु० उद्गम Produce, Creation  
 दे० ६,८६



व

वडल्ल पु० बैल, वृषभ An ox, A  
 bullock दे० ६,६१, गा० २३८, प्राक० ३८,  
 हे० २,१७४, धर्मवि० ३, श्रावक० २५८ टी,  
 श्रु० १६३, प्रासू० १५, कुम० २७६, ती० १६,  
 वे० ६, कण्ठ०  
 वडणी खी० कार्पासी, कर्पास-वल्गो. A  
 cotton-plant दे० ३,५७  
 वडहारी खा० बुडारी, समार्जनी, भाडू A  
 broom, A besom दे० ६,६७  
 वद न० कैद, कारा-बन्द मनुष्य A prisoner  
 'वदपि किपि' स० ४२१, धर्मवि० ३२, ६२  
 वदिर न० समुद्र-वाणिज्य प्रधान नगर, बन्दर  
 A port, A harbour सिरि० २३३  
 वध पु० भृत्य, नौकर A servant दे०  
 ६,८८

वधोल्ल पु० मेलक, मेल, सगति Union,  
 Company दे० ६,८६, पद्०  
 वमणिया-वमणी खी० हलाहल, जहर  
 Poison दे० ६,८०, पात्र० दे० ८,६३, ७५  
 वमहर न० मल, पत्र A lotus दे० ६,६१  
 वकस न० अन्न-विशेष A kind of corn.  
 सु० ८,१२  
 वगड पु० देश विशेष The name of  
 a country ती० १६  
 वडहिला खी० धुरा के मूल में दी जाती कील,  
 कीलक-विशेष A nail which is fixed in  
 the axle सदि० ११६  
 वद्वय पु० कान का एक आभूषण An orna-  
 ment of the ear दे० ६,८६.

वप्य पु० सुभट, योद्धा A warrior दे० ६, ८८

वपपीह पु० वपपीहा, चातक पक्षी The name of a bird which is supposed to live only on rain-drops दे० ६, ६०, स० ६८६, पात्र० हे० ४, ३८३

वपपुड त्रि० विचारा, दीन, Poor, Helpless, Needy हे० ४, ३८०, पिग०

वव्वरी स्त्री० केर रचना Hair-dressing दे० ६, ६०

वव्फाउल त्रि० अतिशय उष्ण Extraordinary hot दे० ६, ६२

वव्ठम पु० वर्ध, चर्म, चमड़े की रज्जु A leather strap दे० ६, ८८, पात्र०

वव्ठमासा स्त्री० नदी-भेद, वह दी जिसके पूर से भावित पानी में धान्य आदि बोया जाता है An inundated river by the overflowing of which corns etc are sown राज०

वमाल. पु० कलकल, कोलाहल Disturbance दे० ६, ६०

वम्हाल पु० अपस्मार, वायु-रोग-विशेष, मृगी-रोग Flatulence, Epilepsy A kind of disease पद०

वरठ पु० धान्य-विशेष, A kind of corn प्रच० १६४ टी

वरुअ न० तृण विशेष, इतु सदृश तृण A kind of grass दे० ५, १६, ६, ६१, पात्र०

वलमड्डा स्त्री० बलात्कार, जबरदस्ती. Force, Violence दे० ६, ६२

वलस्य पु० बलद, बैल An ox, A bullock पउम० ८०, १२

वलस्यट्टि स्त्री० (१) सखी A female friend (२) व्यायाम को सहन करने वाली स्त्री A woman who endures exercise दे० ६, ६१

वलहट्टुया स्त्री० चने की रोटी A bread of gram बजा० ११४

वलायण न० (१) उद्यान आदि में मनुष्य को बैठने के लिये बनाया जाता स्थान-बेंच आदि Benches etc placed in a garden to sit on for men धर्मवि० ३३, सिरि० ५८६, (२) द्वार, दरवाना A door 'चेव वलाययम्मि' चेड्य० १८८

वल्लिआ स्त्री० सूर्य, अन्न को तुपादि रहित करने का एक उपकरण A winnowing fan आराम०

वल्लिद पु० वृषभ, बैल an ox, A bullock 'दा सारवल्लिदावि हु' सुपा० २३८

वल्लिमड्डा स्त्री० बलात्कार Force Violence 'अन्नह वल्लिमड्डाय' उप० ७२८ टी

वलो अ० (१) निश्चय, निर्णय An adverb signifying Determination (२) निर्धारण, To determine हे० २, १८५, कुमा०

वन्वाड पु० दक्षिण-हस्त The right hand दे० ६, ८६

वहल न० पक, कर्दम, कीचड़ Mud, Mire दे० ६, ८६

वहिअ त्रि० मथित, विलोडित Churned पद०

वहिहुत्त त्रि० बहिमुख Averse from गउड०

बहुआरिआ-बहुआरी स्त्री० बुहारी, झाड़ू A broom, A besom दे० ८, १७ टी

बहुजाण पु० (१) चोर, तस्कर A thief (२) धूर्त, ठग An impostor, A deceiver (३) जार, उपपत्ति A paragon पद०

बहुमुह पु० दुर्जन, रजल A wicked person दे० ६, ६२

बहुराणा स्त्री० नड्ग-धारा, तलवार की धार The edge of a sword दे० ६, ६१


बहुरावा स्त्री० शिवा, श्रगाली A fox दे० ६, ६१  
 बहुरिया स्त्री० बुहारी, भाङ् A bloom, A besom बृह० १  
 बहुली स्त्री० माया, कपट, दग्ध Deceit, Fraud सुपा० ६३०  
 बहुल्लिआ स्त्री० बडे भाई की स्त्री An elder brother's wife पङ्०  
 बहुल्ली स्त्री० क्रीडाचित शालभञ्जिका, खेलने की पुतली A doll, A puppet पङ्०  
 बाअ पु० बाल, शिशु A baby, An infant पङ्०  
 बाइया स्त्री० मा, माता Mother कुप्र० ८०  
 बाउल्लया-बाउल्लिआ-बाउल्ली स्त्री० पञ्चालिका, पुतली A doll, A puppet वजा० ११८, कप्य० दे० ६, ६२  
 बाण त्रि० सुभग Fortunate दे० ६, ६७  
 बालअ पु० बणिक पुत्र The son of a Bania दे० ६, ६२  
 बालगपोइआ स्त्री० (१) जल मन्दिर, तलाव आदि में बनवाया जाता छोटा प्रासाद A small palace built in water (२) चतुर्भा, अट्टालिका The topmost part (of a house) उक्त० ६, २४  
 बालालुंवी स्त्री० तिरस्कार, अवहेलना Contempt, Scorn सुपा० १४  
 बाहा स्त्री० नरकावास श्रेणी A line of abodes in hell देवेन्द्र० ७७  
 बाहुडिअ त्रि० लज्जित, शरमिदा Bashful सुपा० ४४४  
 बिआया स्त्री० कीट-विशेष, सलग्न रहने वाला कीट द्वय A kind of insect दे० ६, ६-  
 विववय न० फलविशेष, मिलावाँ A kind of fruit 'विववय भल्लाव' पात्र०  
 बिंविवणय न० (१) चोभ Agitation (२) विकार Change (३) शोसीसा, उच्छीर्षक

A pillow दे० ६, ६८  
 बिगाइआ बिगाई स्त्री० कीट विशेष, सलग्न रहता कीट युग्म A kind of insect दे० ६, ६३  
 विट्ट पु० वेदा, लडका, पुत्र A son. चड०  
 विट्टी स्त्री० वेटी, पुत्री, लडकी A daughter चड० हे० ८, ३६०  
 वीअजमण न० बीज मलने का खल, खलिहान A pestle दे० ६, ६३  
 वीअण पु० देखो 'वीअजमण' शब्द Vide 'वीअजमण' दे० ६, ६३ टी  
 वीयत्तिय त्रि० (१) बीज बोने वाला, वपन करने वाला A sower of seeds (२) पुं० पिता Father सुपा० ३६०, ३६१  
 वीलय पु० ताडक, कर्णभूषण विशेष, कान का एक गहना An ornament for the ears दे० ६, ६३  
 बुदि पु० स्त्री० (१) चुम्बन Kissing (२) सूकर, सूअर. A hog, A boar दे० ६, ६८, (३) स्त्री० शरीर, देह. A body. 'इह बुदि चइत्ताय' ठा० १ टी, सू० प० २०, तदु० १३, सुपा० ६६६, घम्म० ६ टी, पात्र०  
 बुंदिणी स्त्री० कुमारी समूह A bevy or multitude of virgins दे० ६, ६४  
 बुदीर पु० (१) महिष, भैंसा A he buffalo (२) त्रि० महान, बडा Great दे० ६, ६८  
 बुवा स्त्री० चिल्लाहट, पुकार A noise, A loud cry सुपा० ६६२  
 बुबु पुं० देखो 'बुवा' शब्द Vide 'बुवा' क० ३१  
 बुबुअ न० वृन्द, यूथ, समूह A collection, A multitude दे० ६, ६४  
 बुक पु० न० (१) तुप, झिलका Bark, Rind सुपा० १८, ३७, (२) वाद्य-विशेष A kind of musical instrument सुपा० १०, (३) त्रि० विस्मृत Forgotten व० १



|                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वृक्षण पु० काक, कोआ A crow दे० ६, ६४, पात्र०                                                                                                                | वेसक्लिज्ज न० द्वेष्यत्व, रिपुता, दुश्मनाई Enmity, Hostility दे० ७, ७६ टी                        |
| वृक्षा स्त्री० (१) मुष्टि A handful दे० ६, ६४, पात्र० (२) ब्रीहि मुष्टि A handful of coin दे० ६, ६४, (३) वाद्य विशेष A kind of musical instrument सुपा० १६२ | वेसण न० वचनीय, लोकापवाद, लोकनिन्दा Censure दे० ६, ७७ टी                                          |
| वृक्षासार त्रि० भीरु, डरपोर Timid, Cowardly दे० ६, ६२                                                                                                       | वोगिल्ल त्रि० (१) भूषित, अलंकृत Adorned, Decorated (२) पु० शोषण, आडम्बर A pompous show दे० ६, ६६ |
| वृद्धिर पु० महिष, भैंसा. A he-buffalo पद०                                                                                                                   | वोटण न० चूचुक, स्तन का अग्रभाग The pap the nipple दे० ६, ६६                                      |
| वृण त्रि० (१) भीत, डरा हुआ Feared (२) उद्विग्न Solly, Grieved दे० ७, ६४ टी०                                                                                 | वोड न० चूचुक, स्तन वृन्त The pap, The nipple दे० ६, ६६                                           |
| वृत्ती स्त्री० ऋतुमती स्त्री A woman in menses दे० ६, ६४                                                                                                    | वोडय न० सूती वस्त्र, सूती कपडा The cotton cloth सूय० २, २, ७३, श्रोच०                            |
| बुल. त्रि० बोड, भदन्त, धर्मिष्ठ Religious, Pious, Charitable विंग० १६८                                                                                      | वोद न० मुख, मुँह The face दे० ६, ६६                                                              |
| बुलुला स्त्री० बुलबुला, बुदबुद A bubble दे० ६, ६२                                                                                                           | वोदि. स्त्री० (१) रूप Beauty (२) मुख, मुँह The face दे० ६, ६६                                    |
| बुलुल पु० देवी 'बुलबुला' शब्द Vide 'बुलबुला' पद०                                                                                                            | वोत्रिया स्त्री० शाखा The branch. सूय० २, २, ४६                                                  |
| बुल त्रि० मूक, वाचा शक्ति से रहित Dumb विंग० १६८ टी                                                                                                         | वोकड-वोकड पु० ब्याग, बकरा A he-goat ती० २, दे० ६, ६६                                             |
| बुड-बेडय पु० नौका, जहाज A boat, A ship दे० ६, ६२, सुर० १२, २०                                                                                               | वोकसालिय पु० तन्तुवाय A weaver 'वोकसालियकुलायि वा' ग्राया० २, १, २, ३                            |
| बुडा-बोडिया-बोडी स्त्री० नौका, जहाज A boat, A ship उप० ७२८ टी, सिदि० ३८२, ४०७, श्रा० १२, धम्म० १२ टी                                                        | वोगिल्ल त्रि० चित्त-रुचरा Diversified, Variegated 'चित्तल च वोगिल्ल' पात्र०                      |
| बुड्डा स्त्री० दाढ़ी-मूँछ के बाल Mustaches, Beard दे० ६, ६२                                                                                                 | बोड त्रि० (१) धार्मिक, धर्मिष्ठ Religious, Pious (२) तरुण, युवा Young, Juvenile. दे० ६, ६६       |
| बेलि स्त्री० स्थूणा, खटा A peg, A wall nail दे० ६, ६२, पात्र०                                                                                               | बोडघेर न० गुल्म-विशेष A kind of tree पात्र०                                                      |
| बेल्लग पु० बैल, बलीवर्द An ox, A bullock ग्राचम०                                                                                                            | वोडिय त्रि० मुशुडत-मस्तक Clean shaved श्रोच० भा० ८३ टी                                           |
|                                                                                                                                                             | बोडुर न० दाढ़ी मूँछ Mustaches, Beard दे० ६, ६४                                                   |
|                                                                                                                                                             | वोडुआ स्त्री० कपर्दिका, कौडी A shell दे० ४, ३३४                                                  |

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| बोदर त्रि० पृथु, विशाल vast, Extensive<br>दे० ६, ६       | बोदर पु० मागध, स्तुति पाठक A bard,<br>A minstrel दे० ६, ६७           |
| बोदरह त्रि० तरुण, जवान Young,<br>Juvenile दे० ७, ८०      | बोहारी स्त्री० बुहारी, ममार्जनी, झाड़ू A<br>bloom, A besom दे० ६, ६७ |
| बोल पु० समूह A collection A<br>multitudo भाव० १, कुतह ३४ | बोहिलिथय त्रि० प्रवहण स्थित Stayed in<br>a ship वजा० १२८             |
| बोव्य न० क्षेत्र, खेत A field दे० ६, ६६                  |                                                                      |



## भ

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| भइल त्रि० भया, जात Done रभा० ११                                                                                                                                                                                           | दे० ६, ६६, (२) नीति विशेष A kind of<br>politics, राज०                       |
| भइ न० (१) वृन्ताक, बैंगण, भटा A binjel<br>दे० ६, १००, (२) छुर, छुरा A knife (३)<br>छुरे से मुण्डन To shave with a razor                                                                                                   | भग त्रि० लिप्त, पोता हुआ Besmeared दे०<br>६, ६६                             |
| राज० (४) पु० मागध, स्तुति-पाठक A<br>bard, A minstrel (५) सखा, मित्र A<br>friend (६) दोहित, पुत्री का पुत्र A<br>grandson (७) पु० न० मण्डन, आभूषण,<br>गहना An ornament दे० ६, १०६                                          | भच्च पु० भागिनेय, भानजा A sister's son,<br>A nephew पद०                     |
| भडा स्त्री० संबोधन-सूचक शब्द A word<br>used in addressing सच्चि० ४०                                                                                                                                                       | भट्टिअ पु० विष्णु, श्रीकृष्ण Vishnu,<br>Shri Krishna दे० २, १७४, दे० ६, १०० |
| भडिआ-भडी स्त्री० (१) गाडी, गाडी A cart,<br>A carriage वृह० २, दे० ६, १०६,<br>आवस० निसा० चू० ३, चव० ६, (२) शिरीष<br>वृक्ष A kind of tree (३) अटवी,<br>जगल A forest, A jungle (४)<br>असती, कुलटा An adultress दे०<br>६, १०६ | भडक पु० आडम्बर, ठाठवाड A pompous<br>show सच्चि० ४४ टी                       |
| भडु न० मुण्डन Shaving, Tonsure<br>दे० ६, १००                                                                                                                                                                              | भडिल त्रि० संबोधन सूचक शब्द A word<br>used in addressing सच्चि० ४०          |
| भमल त्रि० (१) अप्रिय Not agreeable,<br>Not amiable दे० ६, ११०, (२) मूर्ख,<br>अज्ञान, पागल Foolish, Silly दे०<br>६, ११०, सुर० ८, १६६                                                                                       | भरथ पु० भाया, तूषीर, तरकम An allow-<br>case, A sheath घर्मवि० १४६           |
| भभी स्त्री० (१) असती, कुलटा An adultress                                                                                                                                                                                  | भरिथअ त्रि० भर्लित तिरस्कृत Dis-<br>respected, Disgraced सम्मत्त० १८६       |
|                                                                                                                                                                                                                           | भइ न० आमलक, फल-विशेष A kind of<br>fruit दे० ६, १००                          |
|                                                                                                                                                                                                                           | भइसिरि स्त्री० श्रीपण्ड, चन्दन Sandal<br>wood दे० ६, १०२                    |
|                                                                                                                                                                                                                           | भदाकरि त्रि० प्रलम्ब, अति लम्बा Very<br>much long दे० ६, १०२                |
|                                                                                                                                                                                                                           | भमसुर पु० आवर्त A circle, A round<br>दे० ६, १०१                             |
|                                                                                                                                                                                                                           | भमरटेटा स्त्री० (१) भमर की तरह अचि गोबर                                     |

वाली A woman having waspish eyes (२) अमर की तरह अस्थिर आचरण वाली A woman having a hickle conduct like a wasp (३) शुष्क वण क दाग वाली A woman having dry wounds. कप०

मभरु पु० नृण विशेष, ईश की तरह का एक प्रकार का घास, A kind of grass, Dried stalks of straw दे० ६,१०१

भयवर्गाम. पु० मोठेरु, गुजरात का एक गाँव The name of a village in Gujarat दे० ६,१०२

भरोच्छय. न० ताल का फल A fruit of the palm tree दे० ६,१०२

भलत त्रि० खलित होना, गिरना, Falling दे० ६,१०१.

भलि पु० स्त्री० कदाग्रह, हठ Obstinacy, Stubbornness 'जाह भलि ते' हे० ४,३५३, चड०

भल्लु पु० स्त्री० भालू, रीछ. A bear दे० ६,१११.

भल्लु की स्त्री० शिवा, श्रगाली A fox दे० ६,१०१, सण० 'भल्लु की रुट्टिया' सस्था० ६६

भल्लोड पु० न० बाण का पुल, शर का अग्र भाग The feathered part of an arrow सुर० २,७

भन्व पु० भागिनेय, भनजा A sister's son दे० ६,१००

भसुआ स्त्री० शिवा, श्रगाली A fox दे० ६,१०१ पाश्र०

भसेल्ल पु० धान्य आदि का तीक्ष्ण अग्र भाग The pointed end of a grain उवा०

भाअ पु० ज्येष्ठ भगिनी का पति A husband of the elder sister दे० ६,१०२

भाइल्ल पु० हालिक, कर्पक, कुपीबल An

agriculturist, A cultivator दे० ६,१०४

भाउअ न० आषाढ मास में मनाया जाता गौरी-पार्वती का एक उत्सव A festival held in honour of Parvati in the month of Ashada दे० ६,१०३

भाड. पु० न० भट्टी A kiln, A furnace. 'जाया भाडरुनाया' धर्मवि० १०४, सण०

भायल पु० जाश्व अश्व, उत्तम जाति का घोडा A kind of noble horse दे० ६,१०४, पाश्र०

भाल्ल पु० न० मदन वेदना, काम-पीडा Pangs of love. सच्चि० ४७

भावइआ स्त्री० धार्मिक गृहिणी A religious mistress of the house दे० ६,१०४

भाविअ त्रि० गृहीत, उपात्त Taken, Caught दे० ६,१०३

भावुक त्रि० वयस्य, मित्र A friend सच्चि० ४७

भासल त्रि० दीप्त, प्रज्वलित. Luminous, Glowing, Kindled दे० ६,१०३.

भासिअ त्रि० दत्त, अर्पित Giver. दे० ६,१०४

भासु डि स्त्री० नि सरण, निर्गमन Going out, Exit, Departure दे० ६,१०३

भिउड न० अग-विशेष, शरीर का अवयव विशेष The limb of a body धर्मवि० ४१

भिग त्रि० (१) कृष्ण, काला Black, Dark दे० ६,१०४, (२) नील, हरा Green (३) स्वीकृत Accepted, Admitted षड्०

भिजा स्त्री० अभ्यग, माक्षिश Smearing, Inunction सूय० १,४,२,८

भिटिया स्त्री० भटा का गाड़ A kind of vegetable उप० १०३१ टी

भिभलिय त्रि० विह्वल क्रिया हुआ Confused, Confounded धर्मवि० ८०

मिट्टण न० भेंट, उपहार A present, A gift सिरि० ७५६, १०१  
 मिट्टा स्त्री० भेंट, उपहार A present, A gift सिरि० ३ २  
 मिडण न० लडाई, मुकमेड, A war, A battle सुपा० ५६६  
 मिडिय त्रि० जिसने मुकमेड की हो वह, लडा हुआ One who has fought महा० भवि०  
 मियासि पु० पक्षि-विशेष The name of a bird परह० १,१  
 भित्त न० (१) द्वार, दरवाजा A door दे० ६,१०५, (२) भीतर, अन्दर Inside पिग०  
 भित्तिरूप त्रि० टक से द्विज Cut by a chisel दे० ६,१०५  
 मिलिज पु० अम्यग Smearing सूय० १,४,२,८ टी  
 भिसत न० अनर्थ A calamity, A misfortune दे० ६,१०५  
 भिसरा स्त्री० मत्स्य पकडने का जाल-विशेष A kind of net to catch fish विवा० १,८  
 भिसोल न० नृत्य विशेष A kind of dancing ठा० ४,४  
 भुञ्ज न० भूर्ज-पत्र, वृक्ष विशेष की छाल The bark of the birch tree दे० ६,१०६  
 रुञ्ज पु० वृक्ष-विशेष, भूर्जपत्र का पेड The birch tree पत्र० १  
 भुगल न० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument सिरि० ४१०  
 भुड पु० स्त्री० सूकर, बराह A hog, A boar दे० ६,१०६  
 भुंडीर पु० देखो भुड' शब्द Vide 'भुड' दे० ६,१०६  
 भुक्कण पु० (१) श्वान, कुत्ता A dog (२) मद्य आदि का मान A measure for wine दे० ६,११०  
 भुक्खिअ त्रि० भूखा, उषातुर Hungry

पात्र० कुम० १२६, सुपा० ५०१, उप० ७२८ टी, स० ५८३, वै० २६  
 मुज्जिय त्रि० (१) भूना हुआ धान्य Parched corn (२) पु० भूना हुआ यव Parched barley परह २,६  
 मुत्तूण पु० भृत्य, नौकर A servant दे० ६,१०६  
 मुत्थल्ल पु० बिस्ली को फेंका जाता भोजन Food thrown to a cat कप्पू०  
 मुह डिआ स्त्री० शिवा, श्रगाली A fox दे० ६,१०१  
 मुसुदि स्त्री० शस्त्र विशेष A kind of weapon सण०  
 भूअ पु० यन्त्रवाह, यन्त्रवाहक पुरुष The driver of a machine, A machine man दे० ६,१०७  
 भूमणया स्त्री० अन्वष्टान A covering, A cover वव० १  
 भूअण पु० जोती हुई जल-भूमि में किया जाता यज्ञ A sacrifice in the cultivated field दे० ६,१०७  
 भूमिपिसाय पु० ताल वृक्ष, ताल का पेड The palm tree दे० ६,१०७  
 भूहरी स्त्री० तिलक-विशेष A kind of mark on the fore head सिरि० १०२२  
 भेक्खस पु० राक्षस-रिपु, राक्षस का प्रतिपक्षी The enemy of a demon कुप० ११२  
 भेज्ज-भेज्जलय-भेज्जल त्रि० भीरु, डरपोक Timid, Timorous दे० ६,१०७, पड०  
 भेड त्रि० भीरु, कातर Cowardly, Timid हे० १,२५१, दे० २,१०७, कुमा० २,६२.  
 भेरुड पु० (१) चित्रक, चिन्ता A leopard, A panther दे० २,१०८, (२) निर्बिष सर्प An unvenomous serpent, A harmless snake प्रासू० १६.

भेलय पु० उडुप, नौका A boat , A ship  
दे० ६,११०

भेली स्त्री० (१) आज्ञा, हुकूम An order ,  
A command (२) वेडा, नाका A boat ,  
A ship (३) दासी, चेटी A maid-ser-  
vant दे० ६,११०

भोअ पु० भाडा, किराया Fair , Rent  
दे० २,१०८

भोअडा स्त्री० कच्छ, लंगोट A tuck<sub>o</sub> of  
lower garment , A piece of cloth  
worn round the loins covering the  
private parts 'खेवरथ भोयडादीय' निसी०  
चू० १


भोरुड पु० भाइड पत्तो The name of a  
bird दे० ६,१०८

भोल त्रि० भद्र, सरल चित्त वाला Frank,  
Simple , Simple-minded महानि० ६,  
सुपा० ४,४

भोलवण न० वञ्चन, प्रतारण To cheat ,  
To deceive सम्मत्त० २२६

भोलविय-भोलिय त्रि० वञ्चित, ठगा हुआ  
Cheated , Deceived कुप्र० ४३२, सुपा०  
५२०

भोल्लय न० पाथेय विशेष, प्रबन्ध प्रवृत्त पाथेय  
Provisions for a journey दे० ६,१०८



## म

मइअ त्रि० भर्त्सित, तिरस्कृत Scorned ,  
Contempered दे० ६,११४

मइल त्रि० (१) तेजरहित, फीका Spiritless ,  
Dejected दे० ३,१४०, से० ३,४७, (२) पुं०  
कलकल, कोताहल Disturbance , A  
bustle , A noise ६,१४२

मइलपुत्ती स्त्री० पुष्पवती, रजस्वला स्त्री A  
menstruant woman षड्०

मइहर पु० ग्राम प्रधान, गाँव का मुखिया  
The leader of a village , A chief  
दे० ६,१२१

मई स्त्री० मदिरा, दारू Wine , Liquor  
दे० ६,११३

मउ पु० पर्वत, पहाड A mountain दे०  
६,११३

मउअ त्रि० गरीब, दोन Poor , Helpless ,  
Needy दे० ६,११०

मउड-मउडि पु० धमिल्ल, कयरी, जूट A knot  
of hair , The matted hair , A lock  
of hair पाअ० दे० ६,११७

मउर-मउरद पु० वृक्ष-विशेष, अपामार्ग, श्रौंगा,  
लटजीरा A kind of tree दे० ६,११८

मउलि पु० स्त्री० हृदय रस का उच्छ्वलन  
Excess of feelings of heart दे०  
६,११२

मकण पु० स्त्री० बन्दर, बानर A monkey  
कुप्र० १८५

मख पु० अण्ड, वृषण The testicles  
दे० ६,११२

मगरिया स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument राय०

मगल त्रि० (१) सदृश, समान Similar ,  
Like दे० ६,११८, (२) न० अग्नि, आग  
Fire (३) डोरा बुनने का एक साधन An  
implement to weave threads , A  
thread-weaving implement विशेष० २७

मगलसज्ज न० वह खेत जिसमें बीज बोना  
बाकी हो A field in which seeds are  
not sown An unsown field दे०  
६,१२६

मंगुल न० (१) अनिष्ट Undesirable ,  
Disagreeable दे० ६,१४५, सुपा० ३३८,  
सुक्त० ८०, (२) पाप Sin दे० ६,१४५, वजा०  
८, गडद० सुक्त० ८०, (३) पुं० चोर, तस्कर A  
thief दे० ६, १४५, (४) त्रि० असुन्दर, खराब  
Awkward, Clumsy पात्र० डा० ४,४,  
स० ७१२, दस० ३

मच पु० बन्ध A tie , Fetters दे० ६,१११  
मञ्जिञ्चा स्त्री० तुलसी Holy basil, A  
kind of plant दे० ६,११६

मंजीर न० शृङ्खलक, सॉकल, सिकरी A  
chain दे० ६,११६

मजुञ्चा स्त्री० तुलसी A kind of plant  
दे० ६,११६ पात्र०

मठ त्रि० (१) शठ, लुचा, बदमाश Roguish,  
Cunning (२) पु० बन्ध A tie , A  
fetter दे० ६,१११

मडल. पु० खान, कुत्ता A dog दे० ६,११४,  
पात्र० स० ३६८, कुप्र० २८०, सम्मत्त० १६०

मडिञ्च त्रि० (१) रचित, बनाया हुआ Formed,  
Made (२) बिछाया हुआ Spread 'मडिल-  
रूढेय मडिप पासे' रयण० ८, (३) आगे धरा  
हुआ Brought forward मवि० (४)  
आगन्ध Began मवि० सण०

मडिल्ल पु० अरूप, पूया, पक्वान्न विशेष Fat-  
tened parched rice दे० ६,११७

मडि स्त्री० पिधानिका, ढकनी A cover , A  
lid दे० ६,१११, पात्र० (२) यन्न का यन्न रस,  
मॉड Boiled water of any cooked  
food (३) मॉडी, कलप, जेई Paste याव० ४  
मतक्खल न० (१) लज्जा, शरम Shame (२)  
दुख, Pain , Affliction , Difficulty.  
दे० ६,१४१, (३) अपराध A fault , A  
crime गडद०

मति पु० विवाह-गणक, भोगी, ज्योतिर्विद An  
astrologer , A foreteller दे० ६,१११

मतुञ्चा स्त्री० लज्जा, शरम Shame , Bash-  
fulness दे० ६,११६, मवि०

मतेल्लि स्त्री० सारिका, मैना A canary bird,  
The jay दे० ६,११६

मथर त्रि० (१) कुटिल, बक्र, टेढ़ा Crooked  
Bent दे० ६,१४५, मवि० (२) कुसुम्भ, वृक्ष-  
विशेष A kind of tree दे० ६,१४५, (३)  
त्रि० बहु, प्रचुर, प्रभूत Much , In great  
quantity दे० ६,१४५, मवि०

मदीर न० (१) शृङ्खल, सॉकल A chain  
(२) मन्थान दण्ड A churning staff  
दे० ६,१४१

मधाय पु० आढ्य, श्रीमत् A wealthy  
person , A rich man दे० ६, ११६

मसुडगा न० मॉल-खण्ड A fragment of  
flesh पिड० ५८६

मङ्कडवध न० शृङ्खलाकार शीवाभूषण An  
ornament of the neck दे० ६,१२७

मकोड पु० यन्त्र गुम्फनार्थ राशि, जन्तर गठने के  
लिये बनाया जाता राशि A pile erected  
for installing a machine. दे० ६,१४२

मगइञ्च त्रि० हस्त-पाशित, हाथ में बाँधा हुआ  
Tied in hands विवा० १,३

मगणिएर त्रि० अनुगमन करने की आदत वाला  
One who is habituated to follow.  
दे० ६, १२४

मगा अ० परचात्, पीछे Afterwards दे०  
१,४ टी

मग-मगञ्च पु० परचात्, पीछे Afterwards.  
दे० ६,१११, से० १,५१, सुर० २,५६, पात्र० भग०

मञ्च न० मल, मैल Dirt दे० ६,१११

मञ्चिञ्च त्रि० मल युक्त Dirty , Filthy दे०  
६, १११ टी०

मञ्जा स्त्री० मर्यादा Limit दे० ६,११३, मवि०  
मञ्जिञ्च त्रि० (१) श्वेतोक्ति, निरीक्षित Ob-  
served (२) पीत Drunk दे० ६,१२८

मञ्जोक् त्रि० अभिनव, नूतन New दे०  
१,११८

मञ्जक्य पु० नापित, नाई A barber  
दे० ६,११५

मञ्जकार न० मकार, मध्य, अन्तराल The  
middle, The centre दे० ६,१२१,  
विक २८, उव० गा० ३, विशे० २६६१, सुर०  
१,४५, सुपा० ४६, १०३, खा० १

मञ्जतित्र न० मध्यन्दिन, मध्यान्ह Moon  
दे० ६,१२४

मञ्जिमगड न० उदर, पेट A stomach  
दे० ६,१२५

मट्ट त्रि० शृङ्गरहित Devoid of horns  
दे० ६,११२

मट्टुद्विअ न० (१) परिणीत स्त्री का कोप  
Angel of a married woman. (२)  
त्रि० कलुप Muddy (३) अशुचि, मैला  
Duty दे० ६,१४६

मट्ट त्रि० अलस, आलसी, मन्द, जड़ Lazy,  
Sluggish, Slothful दे० ६,११२, पात्र०

मड पु० कड, गला Throat दे० ६,१४१

मडक पु० (१) गर्व, अभिमान Pride  
भवि० (२) मटका, घडा A pot भवि०

मडकिया स्त्री० छोटा मटका, कलशी A small  
pot कुप्र० ११६

मडय पु० आराम, बगीचा A garden  
दे० ६,११५

मडवोज्झा स्त्री० शिविका, पालकी A  
palanquin दे० ६, १२२

मडह त्रि० (१) लघु, छोटा Small,  
Diminutive दे० ६,११७, पात्र० सण०  
(२) स्वल्प, थोडा Little गा० १०५,  
स० ८, गडड० वजा० ४२

मडहर पु० गर्व, अभिमान Pride दे०  
६,१२०

मडहिय त्रि० अल्पीकृत, न्यून क्रिया हुआ  
Shortened गउड०

मडहुल्ल त्रि० लघु, छोटा Small, Dimmu-  
tive 'मडहुल्लियाए किं' वजा० ४८

मडिआ स्त्री० समाहत स्त्री, आहत महिला  
Wounded दे० ६,११४

मडुवइअ त्रि० (१) विध्वस्त, हत Killed,  
(२) तीक्ष्ण Pungent Sharp दे०  
२,१४६

मड्डा स्त्री० (१) बलात्कार, हठ, जवरदस्ती  
Force, Violence दे० २,१४०, पात्र०  
सुर० ३,१३६, सुख० २,१५, (२) आज्ञा, हुकुम.  
A command, An order दे० ६,१४०,  
सुपा० २७६

मडिअ त्रि० (१) खचित Overland सिरि०  
३७०, (२) परिवेष्टित Wrapped, Enclo-  
ped, Encompassed दे० २,७५, पात्र०

मणिणायहर न० समुद्र, सागर A sea  
दे० ६,१२८

मणिरइआ स्त्री० कटिसूत्र A waist band  
दे० ६,१२६

मत्तग न० पेशाब, मूत्र Urine कुलक० ६

मत्तल्ली स्त्री० बलात्कार Force, Violence  
दे० ६,११३

मत्तवाल पु० मतवाला, मदोन्मत्त Intoxicated,  
Infatuated दे० ६,१२२, पड्० सुख०  
२,१७, सुपा० ४८६

मत्तलव पु० वरडा, बरामदा A verandah  
दे० ६,१२३, सुर० १,५७

मत्थयथोय त्रि० दासत्व से मुक्त, गुलामी से  
मुक्त किया हुआ Released from slavery  
नाया० १,१

मदोली स्त्री० दूती, दूत कर्म करने वाली स्त्री  
A procuress, A go between, A

female messenger पद्म  
 मधूला स्त्री० पैर का फोड़ा, पाद-गण्ड An  
 abscess of a foot. राज०  
 मन ग्र० निषेधार्थक श्रव्यय, मत, नहीं An  
 adverb signifying prohibition कुमा०  
 मन्नुसिय त्रि० उद्विग्न Sorry, Grieved  
 स० १६६  
 मत्प नःनाप, बोट Measure 'तस्स हृदमप्पायि'  
 सुपा० ३६२  
 मम्मक पु० गर्व, अहंकार Pride पद्म  
 मम्मका स्त्री० (१) उत्कण्ठा Eagerness  
 Earnest desire (२) गर्व Pride.  
 दे० ६, १४३  
 मम्मण पु० (१) मदन, कन्दर्प Cupid, The  
 God of Love (२) रोष, गुस्सा Anger,  
 Wrath दे० ६, १४१  
 मम्मण्णिआ स्त्री० नील मच्छिका A black bee  
 दे० ६, १२३  
 मम्मो स्त्री० मामी, मातुल-पत्नी A maternal  
 aunt दे० ६, ११२  
 मयड पु० आराम, बगीचा A garden दे०  
 ६, ११२  
 मययासलागा-या स्त्री० मैना, सारिका A can-  
 ary bird, The jay जीव० १ टी०, दे०  
 ६, ११६ .  
 मयया स्त्री० मैना, सारिका A canary bird,  
 The jay उप० १२६ टी०, याव० १  
 मयण्णिवास पु० कन्दर्प, कामदेव Cupid  
 The God of Love दे० ६, १२६  
 मयहर पु० (१) ग्राम-प्रधान, ग्राम-प्रवर, गाँव  
 का मुखिया The leader of a village,  
 A chief प्रव० २६८, महा० पउम० २-१६,  
 (२) त्रि० वडील, मुखिया, नायक A leader,  
 A chief स० २८०, महानि० २, पउम०  
 ६३, १७  
 मयार्ई स्त्री० शिरो-माला A garland of

heads दे० ६, ११२  
 मयाली. स्त्री० लता विशेष, निद्राकरी लता, 1  
 kind of creeper दे० ६, ११६, पात्र०  
 मर पु (१) मशक A leather bag of  
 water (२) उल्लू, बूक An owl दे०  
 ६, १४०  
 मरजीवय पु० समुद्र के भीतर उतर कर जो बल  
 निकालने का काम करता है वह A diver  
 सिरि० ३८२  
 मरट्ट पु० गर्व, अहंकार Pride दे० ६, १२०,  
 सुर० ४, १२४, पासू० ८२, ती० ३, भवि० सण०  
 दे० ४, ४२२, सिरि० २६२, धर्मवि० ६०  
 मरट्टा स्त्री० उत्कर्ष Prosperity, Excel-  
 lence कुम० २६६  
 मराल त्रि० अलस, मन्द, आलसी Lazy  
 Sluggish दे० ६, ११२, पात्र०  
 मराली स्त्री० (१) सारसी, सारस पक्षी की मादा  
 A she crane (२) दूती A go-between  
 A female messenger, A procuress  
 (३) सखी A female friend दे० ६, १४०  
 मरिअ त्रि० (१) टूटा हुआ, चूड़ित Broken  
 (२) विस्तीर्ण Spread पद्म  
 मरुकुद पु० मरुआ, मरुवेका गाड़ A kind of  
 tree A mango-like भवि०  
 मरुल पु० भूत, पिशाच A demon, A  
 ghost दे० ६, ११४  
 मल पु० स्वेद, पसीना Sweat, Perspira-  
 tion दे० ६, १११  
 मलपित्र त्रि० गर्वी, अहंकारी Proud. दे०  
 ६, १०१  
 मलय पु० उद्यान, बगीचा A garden दे०  
 ६, १४४, पात्र०  
 मलवट्टी स्त्री० तरुणी, युवति A young wo-  
 man दे० ६, १२६  
 मलहर पु० तुमुल-ध्वनि Tumultuous  
 noise, Raging sound दे० ६, १२०



मलित्र न० (१) लघु-क्षेत्र A' small field  
 (२) कुण्ड A spring, A sacrificial pit  
 दे० ६,१४४

मल्लय न० (१) चर्षण-भेद, एक तरह का पशु  
 A kind of fattened pached hog  
 (२) त्रि० कुसुम से रक्त Red दे० ६,१४५

मल्लाणी स्त्री० मातुलानी, मामी A maternal  
 aunt दे० ६, ११२, पात्र० प्राकृत ३८

मल्लहा न० लीला, मौज Merriment,  
 Gaiety, Pleasure दे० ६,११६

महश्चर पु० निकुञ्ज का मालिक A master  
 of an arbour दे० ६, १२३

महग पु० उष्ट्र, कैंट A camel दे० ६,११७

महण न० पिता का घर A father's house  
 दे० ६,११४

महत्थार न० (१) भाण्ड, भातन A vessel  
 (२) भोजन Food, Diet दे० ६,१२५

महत्पुर पु० माहात्म्य प्रभाव Majesty,  
 Dignity Greatness रमा० ४३

महमहित्र त्रि० (१) फैला हुआ Spread  
 हे० १,१४६, वजा० १५०, (२) सुरभित  
 Fragrant, Sweet smelling रमा०

महर त्रि० असमर्थ, अशक्त Unable दे०  
 ६,११३

महल्ल त्रि० (१) मुखर, वाचाल, वक्त्रवादी  
 Talkative Loquacious दे० ६,१४३,  
 षट्० (२) पु० जलधि, समुद्र A sea दे०  
 ३,१४२, (३) समूह A collection, A  
 multitude दे० ६,१४३, सुग० १,५४

महाशक्त त्रि० शाल्य, श्रीमत् Wealthy,  
 Rich दे० ६,११६

महाशय्य पु० महात्मा A profound  
 religious person A great soul  
 भवि०

महाण्ड पु० रुद्र, मह-देव Rudra, The  
 God Mahadeo दे० ६,१२१

महाविल न० ज्योम, याकाज ५१ २०  
 ६,१२१

महान पु० जार, उपपति A punious  
 दे० ६,११८

महालक्ष्म त्रि० तरुण, जवान Young  
 Juvenile दे० ६,१२१

महालक्ष्मण पु० श्राद्ध पक्ष आश्विन मास का  
 दृण पक्ष The dark half of the month  
 of Bhadrapada दे० ६,१२७

महावल्ली स्त्री० नलिनी, कमलिनी A lotus  
 plant दे० ६,१२२

महासउण पु० उल्लू, धूक-पक्षी An owl  
 दे० ६,१२७

महासदा स्त्री० शिवा, शृगाली A fox दे०  
 ६,१२०, पात्र०

महित्रदुग्ध न० घीका किट्ट, घृत-मल Dirt  
 of Ghee राज०

महिदुहिया स्त्री० अज्ञाना सुन्दरी, हनुमान की  
 माता The mother of Hanumant  
 named Anjna पत्रम० ५०,२३

महिद्र त्रि० मट्टा से ससृष्ट, तक-सस्कारित  
 Seasoned by whey विवा० १,८

महिसद पु० वृक्ष विशेष, शिग्रु का पेड़ A  
 kind of tree दे० ६,१२०.

महिसिक न० महिषी समूह A herd of  
 buffaloes दे० ६,१२४

महुत्र पु० (१) पक्षि-विशेष, श्रीवद-पक्षी A  
 kind of bird (२) मागध, स्तुति-पाठक A  
 bard A minstrel दे० ६,१४४

महुमुह पु० पिष्टन, दुर्जन, खल A wicked  
 man दे० ६,१२२

महुरालित्र त्रि० परिचित Known,  
 Familiar दे० ६,१२५

महुला स्त्री० रोग-विशेष, पाद-गण्ड A kind  
 of disease निली० चू० २

मंहेट्ट पु० पत्त. १११ Mud, Muc ०  
६,११०

मा'प्रलिखा श्री० मातृवसा, माता की बलि  
A mother's sister दे० ६,१११

माईगाण न० गुन्ताह, नटा A bumped  
उप० ११३

माइदा श्री० आमक की, आमला का गड़  
The tree of hog plum दे० १,१०६

माइलि त्रि० मृदु, कोमल Delicate,  
'Tender' दे० ६,१२६

माउआ. श्री० (१) सगी, सहेली A female  
friend दे० ६,१४७, पात्र०

माउफ | त्रि० कोमल, सुकुमार Delicate  
'Tender' दे० १,१२७, २,६ कुमा०

माउशा श्री० सगी, सहेली A female  
friend पद०

माउच्छ्र. त्रि० मृदु, कोमल Delicate,  
'Tender' दे० ६,१२६

माडिय. न० मृद, घर A house दे० ६,१२८  
माण न० परिमाण विशेष, दस सेर का नाप.

A measure of ten seers उप० १२४

माणसी. त्रि० (१) मायावी, कपटी Decent-  
ful, Mahorous दे० १,१४७, पङ्० (२)

श्री० चन्द्र-वध The wife of the moon  
दे० ६,१४७

माणिय त्रि० अनुभूत Experienced दे०  
६,१३०, पात्र०

मादलिआ श्री० माता, जननी Mother दे०  
६,१३१

माभाइ पु० श्री० अभयदान, अभय A  
solemn assurance of safety दे०

१,१२६, पङ्०

माभीसिआ न० अभयदान A solemn  
assurance of safety दे० ६,१२६

माम श० कोमल कामन्त्रण का सूचक अव्यय  
An adverb indicating humble

invitation पत्रम० ३८,११

मामा श्री० मामी, मामा की बहू A water  
mil mint दे० १,११०

मामि श० सगी क आमन्त्रण में प्रयुक्त किया  
जाना अव्यय An adverb used at the  
time of inviting a female friend दे०  
२,१२६, कुमा०

मायड श्री० टूच विशेष, A kind of tree  
पत्रम० ११,०६

मायद. पु० आम्र, आम्र का पेड़ A mango  
tree दे० २,१०४, प्राप्र० दे० ६,१२८, कुमा०  
७१,१०६

मायवी श्री० श्वेताम्बर साध्वी A Shwet-  
ambra female saint दे० ६,१२६

मारलिगा श्री० कुत्सित स्त्री A bad charac-  
terized woman, An unchaste  
woman दे० ६,१३१

मारिव पु० न० गौरव, Dignity 'गौरव  
मारिवे' सवि० ४७.

माल पु० (१) धाराम, बगीचा A garden.  
दे० ६,१४६, (२) मञ्च, आसन विशेष, A

bedstead दे० ६,१४६, नाया० १,१, पचा०

१३,१४, (३) त्रि० मञ्जु Beautiful,  
Handsome दे० ६,१४६

माला श्री० ज्योत्स्ना, चन्द्रिका Moonlight-  
दे० ६,१२८

मालाकुकुम न० प्रधान कुकुम A best red  
powder दे० ६,१३२

मासिआ पु० पिशुन, खल, दुर्जन A wicked  
man दे० ६,१२२

मासुरी श्री० रमशु, दावी सूँछ Mousta-  
ches, Whiskers दे० ६,१३०, पात्र०

माह न० कुन्द का फूल A flower of  
jasmine दे० ६,१२८

साहय पु० चतुरिन्द्रिय छोट-विशेष An insect having four senses उत्त० ३६, १४६.

साहारयण न० (१) वस्त्र, कपडा A garment (२) वस्त्र-विशेष A kind of clothes. दे० ६, १३०

साहिल पु० सहिषी-पाल, भैंस चराने वाला A buffalo-herd दे० ६, १३०.

साहिवाय पु० (१) शिशिर पवन Cold wind दे० ६, १३१, (२) माघ का पवन The wind of the Magha month पङ्०

साहुर न० शाक, तरकारी Vegetable दे० ६, १३०

साभ्र. त्रि० अलंकृत, विभूषित Adorned, Decorated पङ्०

सांचण न० सांचना, निमीलन To shut दे० ३, ३०.

सायाय न० बलात्कार, जबरदस्ती Violence, Force दे० ६, ११३

सातल पु० क-दर्प, काम. Cupid, The God of Love दे० ६, १२६, सुर० १३, ११८

सात्तियय पु० ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई The elder brother of husband दे० ६, १३२.

सािआ. छो० कुटी, कोपड़ी A hut, A cottage. दे० ६, १३२

सािसिसिय त्रि० उदीप्त, उत्तेजित Agitated. सुर० ३, २०

सािआ छो० मेघ समूह A mass of clouds दे० ६, १३२

सािआ न० समकाल, उसी समय The same time दे० ६, १३३

सािरा छो० दीर्घ चुल्हो, बड़ा चुल्हा A large fire-place सूयनि० ७६

सािगी छो० कोटिका, चँटी In ant दे० ६, १३४

सािग पु० आत्मा बाह्य और अभ्यन्तर पुद्गलों

से बना हुआ है, ऐसा मिथ्या ज्ञान The false knowledge that the soul is made of inward and outward Pudgalas, Material particles a false knowledge का० ७ टी.

सािणी. छो० दुग्धी, चाण्डालिन A female butcher दे० ६, १३५

साि त्रि० योनि शुद्ध, निर्दोष माता वाला One having blameless mother. 'साि जो होई' श्लोक० टी०

साि त्रि० हीन शरीर वाला. Having a slender body or weak constitution. 'साि त्रिमुदा' सश्लोक० १४.

साि. छो० मृगी, हरिणी, A deer दे० ६, १३३

साि छो० नीरङ्गी, शिरो-वस्त्र. धूषट. Veil दे० ६, १३३

साि न० दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्त्रित कन्याओं का विवाह Marriage of the other invited guls दे० १, १३५.

सािल त्रि० (१) उचित, योग्य Suitable, Fit दे० ६, १४७, (२) स्वैर, स्वतन्त्र Independent दे० ६, १४७, सुर० १, २३३, चित्रे० १८, गडड० सिरि० ३५३.

सािलि. त्रि० बन्धन मुक्त किया हुआ, अनियन्त्रित Released दे० १, १५६ टी

सािकुडी स्त्री० जूट A tuft of hair दे० ६, ११७

सािकुड पु० राशि, ढेर A heap, A pile. दे० ६, १३६

सािग पु० मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष A Moghal, A non-Aryan race हे० ४, ४०६

सािग न० मुग्धा के साथ रमण Cotton with a girl arrived at puberty वजा० १०६

- महर्षि पु० पर नाम Mud, Min ०  
२,११०
- माथलिआ श्री० मातास्वा, माता की रहिन,  
A mother's sister ० २,१३१
- माइगग न० गुन्ताह, मटा A mango  
उप० ००३
- माइदा श्री० आमन का, आमन का भाद  
The tree of hog plum ० १,१००
- माइलि त्रि० मृदु, कोमल Delicate,  
Tender ० ६,१२३
- माउआ श्री० (१) सगी, सहेली A female  
friend ० ६,१३३ पाथ०
- माउफा त्रि० कोमल, सुकूमर Delicate  
Tender ० १,१२०, २,६ कुम०
- माउया श्री० सगी, सहेली A female  
friend पद्०
- माउन्छ त्रि० मृदु, कोमल Delicate,  
Tender ० २,१२६
- माडिअ. न० मृद, घर A house ० ६,१२०
- माण न० परिमाण विशय, दस सेर का नाप  
A measure of ten seers उप० १२४
- माणसी त्रि० (१) मायावी, कपटी Decout-  
ful, Malicious ० १,१४३, पद्० (२)  
श्री० चन्द्र-वध The wife of the moon  
० ६,१४७
- माणिअ. त्रि० अनुभूत Experienced ०  
६,१३०, पाथ०
- मादलिआ श्री० माता, जननी Mother ०  
६,३१
- माभाइ पु० श्री० अभयदान, अभय A  
solemn assurance of safety ०  
२,१२६, पद्०
- माभीसिअ न० अभयदान A solemn  
assurance of safety ० ६,१२६
- मास अ० कोमल आमन्त्रण का सूचक अव्यय  
An adverb indicating humble
- invitation पउम० ३८,१६
- मासा श्री० मासो, मासा की बहू A mater-  
nal aunt ० ०,११०
- मासि य० मधी के आमन्त्रण म प्रयुक्त क्रिया  
गत अव्यय An adverb used at the  
time of inviting a female friend ०  
२,१६२. कुम०
- मायज श्री० वृक्ष विशेष A kind of tree  
पउम० ०३,०६
- मायद पु० आम्र, आम्र का पेड A mango  
tree. ० २,१३४, आम० ० ६,१२८, कुम०  
०१,१०६
- मायवी श्री० श्वेताम्बर साध्वी, A Shwet  
ambu female saint ० ६,१२६
- मारिलग्या श्री० कुत्सित स्त्री A bad charac-  
tered woman, An unchaste  
woman ० ६,१३१
- मारिच पु० न० गौरव Dignity 'गौरव  
भारिच' सच्चि० ४७
- माल पु० (१) आराम, बगीचा A garden.  
० ६,१४६, (२) मन्च, आसन विशेष A  
bedstead ० ६,१४६, नाया० १,१, पचा०  
१३,१४, (३) त्रि० मज्जु Beautiful,  
Handsome ० ६,१४६
- माला श्री० ज्योत्स्ना, चन्द्रिका Moonlight  
० ६,१२८
- मालाकुसुम न० प्रधान कुसुम A best red  
powder ० ६,१३२
- मासिअ पु० पिष्टन, खल, दुर्जन A wicked  
man ० ६,१२२
- मासुरी श्री० रमश्च, दाढ़ी सूझ Mousha-  
ches, Whiskers ० ६,१३०, पाथ०
- माह न० कुन्द का फूल A flower of  
jasmine ० ६,१२८

माहय पु० चतुरिन्ध्रिय षोडश-विशेष An insect having four senses उत्त० ३६, १४६

माहारयण न० (१) वस्त्र, कपडा A garment (२) वस्त्र-विशेष A kind of clothes दे० ६, १३२

माहिल पु० महिषी-पाल, भैल चराने वाला A buffalo-herd दे० ६, १३०.

माहिवाय पु० (१) शिशिर पवन Cold wind दे० ६, १३१, (२) माघ का पवन The wind of the Magha month. पङ्

माहुर न० शाक, तरकारी Vegetable दे० ६, १३०

मिञ्च. त्रि० अलङ्कृत, विभूषित Adorned, Decorated पङ्

मिचण न० मीचिना, निमीलन To shut. दे० ३, ३०.

मिणाय. न० बलात्कार, जबरदस्ती Violence, Force दे० ६, ११३

मित्तल पु० कन्दर्प, काम. Cupid, The God of Love दे० ६, १२६, सुर० १३, ११८.

मित्तिवय पु० ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई The elder brother of husband. दे० ६, १३२.

मिरिआ. स्त्री० कुटी, झोंपडी A hut, A cottage. दे० ६, १३२

मिसिमिसिय त्रि० उदीप्त, उत्तेजित Agitated. सुर० ३, २०

मिहिआ स्त्री० मेघ समूह A mass of clouds दे० ६, १३२

मीञ्च न० समकाल, उसी समय The same time दे० ६, १३३

मीरा स्त्री० दीर्घ सुस्त्री, बड़ा सुस्त्री A large fine-place सूयनि० ७६

मुञ्चगी स्त्री० कीटिका, चींटी An ant दे० ६, १३४

मुञ्चग पु० ग्राह्या बाह्य और अन्धन्तर पुद्गलों

मे रना हुआ है, ऐसी मिथ्या ज्ञान The false knowledge that the soul is made of inward and outward Pudgalas, Material particles a false knowledge ढा० ७ टी

मुयाडणी. स्त्री० दुग्गी, चाण्डालिन. A female butcher. दे० ६, १३२

मुद्ध्य त्रि० योनि शुद्ध, निर्दोष माता वाला. One having blameless mother. 'मुद्ध्यो जो हाई' श्लोक० टी०

मुट त्रि० हौन शरीर वाला. Having a slender body or weak constitution 'तेइति टुटनुटा' श्लोक० १४.

मुंडा स्त्री० मृगी, हरिणी, A deer दे० ६, १३३

मुंडी स्त्री० नीरङ्गी, शिरो-वस्त्र. घूघट. Veil दे० ६, १३३

मुङ्गय न० दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्त्रित कन्याओं का विवाह Marriage of the other invited girls दे० १, १३६

मुक्कल त्रि० (१) उचित, योग्य Suitable, Fit दे० ६, १४७, (२) स्वैर, स्वतन्त्र Independent दे० ६, १४७, सुर० १, २३३, चि० १८, गडड० सिरि० ३२३.

मुक्कलिअ त्रि० बन्धन मुक्त किया हुआ, अनि-यन्त्रित Released दे० ६, १२६ टी.

मुक्कुडी स्त्री० जूट A tuft of hair दे० ६, ११७

मुक्कुरुड पु० राशि, ढेर A heap, A pile. दे० ६, १३६

मुग्गड पु० मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष A Moghal, A non-Aryan race हे० ४, ४०२

मुग्गरय. न० मुग्गा के साथ रमण Coition with a girl arrived at puberty वजा० १०६

|                                                                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुगस पु० नज्ज, न्जीला A weasel,<br>A mongoose दे० १,११८                                 | spink of lire दे० १,१२६                                                                                                 |
| मुगिल्ल-मुगिल्लि पु० पर्वत विशेष The<br>name of a mountain ती० ७, भक्त०<br>१२१          | मुसल त्रि० मासल, पुष्ट Fleshy, Fat<br>पद०                                                                               |
| मुट्टिम पु० स्त्री० गर्व, अहङ्कार Pride<br>'अथमुट्टिमगीकारो' इग्भीर० ३०                 | मुमङ न० मन की आकुलता Mental<br>confusion दे० १,१२४                                                                      |
| मुट्टिका स्त्री० हिफा, दिचनी Hicough<br>दे० ६,१२४                                       | मुग्मूरण न० तोडना, गण्डन 'To break<br>सम्पत्त० १८०                                                                      |
| मुशिया पु० वृक्ष विशेष, गमस्ति वृक्ष A kind<br>of tree दे० ६,१२३, कुमा०                 | मुसुमूरावित्र त्रि० भँगाया हुआ Caused<br>to break सम्पत्त० ३०                                                           |
| मुत्ताली स्त्री० मूत्राशय A bladder तदु० २१                                             | मुसुमूरिय त्रि० भँगा हुआ Broken<br>पाग० कुमा० सण०                                                                       |
| मुदुग पु० प्राद विशेष, जल जन्तु को पक जाति<br>A kind of aquatic animal चीन० १ टी        | मुट्टवर्डी स्त्री० मुँह से गिरना 'To fall<br>from the mouth दे० ६,१२१                                                   |
| मुद्दंग. पु० (१) उत्सव A festival (२)<br>सम्मान Respect, Honour स० ४६३,<br>४६६          | मुद्दरोमराइ स्त्री० अ. औ An eye brow<br>दे० ६,१२६, पद०                                                                  |
| मुद्दी स्त्री० चुम्बन Kissing दे० १,१२३                                                 | मुहल न० मुँह, मुँह A mouth दे०<br>६,१२४, पद०                                                                            |
| मुब्भ पु० घर के ऊपर का तिर्यक काष्ठ A<br>cross beam in the roof of a house<br>दे० ६,१२३ | मुदिय न० मुक्त, विना मूल्य, मुक्त मकरना<br>Free of charge दे० ६,१२४                                                     |
| मुम्भुर पु० करीय, गोड्या Fine of dung-<br>cakes दे० ६,१४०                               | मुदिया स्त्री० देलो 'मुदिय' शब्द Vide<br>'मुदिय' दे० ६,१२४, सिरि० ४५७, सुया०<br>१२४, कुय० २२७                           |
| मुरई स्त्री० अशर्ती, कुबटा An adulteress<br>दे० ६,१२५                                   | मूअल-लल त्रि० गूक, वाक् शक्ति से हीन<br>Dumb दे० ६,१२०, सुर० ११, १२४                                                    |
| मुरिअ त्रि० ब्रुद्धि, टूटा हुआ Broken,<br>दे० ६,१२५, (२) मुड़ा हुआ Bent सुपा०<br>५४०.   | मूअल्लइअ मूअल्लिअ त्रि० मूक बना हुआ<br>Dumb स० ५,४१, गडड० पि० ५६५                                                       |
| मुरुकि स्त्री० पनवाच विशेष A kind of<br>cooked corn सण०                                 | मूड मूड पु० अन्न का एक बौर्ष परिमाण.<br>A large measure of grain<br>'इगमूडल्लससमदियमवि घन्त' सुपा० ४२३,<br>धर्मेवि० १४० |
| मुरुमुड पु० जूट, केथी की लट A tuft of<br>hair दे० ६,११०                                 | मूसरि त्रि० भग्न, भागा हुआ Broken<br>दे० ६,१२७                                                                          |
| मुरुमुरिय न० रथरथक, उत्सुकता Eager-<br>ness, Earnest desire दे० ६,१२६,<br>पात्र०        | मूसल त्रि० उपचित Collected, Accon-<br>mulated दे० ६,१२७                                                                 |
| मुलासिअ पु० स्फुलिया, अग्नि कण A                                                        | मूसा स्त्री० जलु द्वार, छोटा दरवाना A small<br>door दे० ६,१२७                                                           |

मूसाञ्च न० लघु-दार, छोटा दरवाना A small door दे० ६,१२७  
 मेञ्चञ्ज न० धान्य, अन्न Corn, Grain दे० ६,१३८  
 मेञ्चर त्रि० असहन, असहिष्णु Intolerable, Unable to bear दे० ६,१३८  
 ठ पु० हस्तिपक्ष, महावत An elephant driver दे० ६,१३८  
 रंठी स्त्री० मेंढी, मेपी, गडरिया A sheep दे० ६,१३८  
 नेडम पु० मृग तन्तु A net to entrap deer दे० ६,१३६  
 मेडय पु० मजला, तला In upper story सुपा० ३५१  
 मेड. पु० बणिक-सहाय, बणिक को मदद करने वाला The helper of a Bania दे० ६,१३८  
 मेली स्त्री० सहति, जन समूह का एकत्रित होना, मेला A fair दे० ६,१३८  
 मेहूछडीर न० जल, पानी Water दे० ६,१३६  
 मेहर पु० ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया The leader of a village, A chief दे० ६,१२१, सुर० १५,१६८  
 महरि पु० स्त्री० काष्ठ-कीट, बृष्य An insect of wood, A weevil जी० १५  
 मेहरिया-मेहरी स्त्री० गाने वाली स्त्री A female singer, A songstress सुपा० ३६४  
 मेहुणाय पु० कुफा का लड़का The son of a paternal uncle दे० ६,१४८  
 मेहुणिय पु० मामा का लड़का The son of a maternal uncle वृह० ४  
 मेहुणिया स्त्री० (१) सासू, भार्या की बहिन A sister-in-law दे० ६,१४८, (२) मामा की लड़की The daughter of a maternal

uncle दे० ६,१४८, वृह० ४  
 मो. अ० (१) अवधारण, निश्चय Determination सूचनि० ८६, श्रावक० १०५, (२) पादपृति An expletive, completing a stanza in a poem or shloke पठम० १०२, ८६, बर्मस० ६४५, श्रावक० ६०  
 मोञ्च त्रि० (१) अधिकत Known (२) पु० विर्मट आदि का बीजकोश the seed-vessel of cucumber etc दे० ६,१४८  
 मोइल पु० मत्स्य विशेष A kind of fish नाट०  
 मोकणिया-मोकणी स्त्री० कृष्ण कणिका, कमल का काला मध्य भाग Petal of a lotus, दे० ६,१४०  
 मोगड पु० न्यन्तर-विक्रम A kind of god सुपा० ४०८  
 मोच न० अर्धजुड़ी, एक प्रकार का जूता. A kind of shoe दे० ६,१२६  
 मोट्टाइअ न० रति-कीड़ा, रत, मैथुन Sexual-intercourse, Coition कुमा०  
 मोट्टिम न० बलात्कार Violence, Force पि० २३७  
 मोड पु० जूट, लट A look of hair दे० ६,११७  
 मोयावणा स्त्री० प्रथम प्रसूति के समय पिता की ओर से किया जाता उत्सव पूर्वक निमन्त्रण A festival invitation from the father at the time of the first delivery उप० ७२८ द्वी  
 मोर पु० श्वपच, चारडाल A butcher दे० ६,१४०  
 मोरउल्ला अ० मुघा, व्यर्थ In vain दे० २,२१४, कुमा०  
 मोरड पु० तिल आदि का मोदक, खाद्य-विशेष A sweetmeat-ball of sesamum etc राज०

|                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुगास पु० नकुल, न्योला A weasel,                                                   | spark of fire दे० १,१३५                                                                                     |
| A mongoose दे० ३,११८                                                               |                                                                                                             |
| सुगिल्ल-सुगिल्लि. पु० पर्वत विशेष The name of a mountain ती० ७, भक्त० १६१          | सुमल त्रि० मायल, पुष्ट Fleshy, Fat पद्०                                                                     |
| सुद्विम पु० स्त्री० गर्व, अहंकार Pride 'कयसुद्विमगीकारो' हम्मीर० ३५                | सुमन न० मन की आकुलता Mental confusion दे० ६,१३४                                                             |
| सुद्विका स्त्री० हिका, हिचकी Hiccough दे० ६,१३४                                    | सुमुमूरण न० तोड़ना, लखड़न To break सम्भक्त० १८०                                                             |
| सुखि पु० वृक्ष विशेष, शगस्ति वृक्ष A kind of tree दे० ६,१३३, कुना०                 | सुसुमूरावित्र त्रि० भँगाया हुआ Caused to break सम्भक्त० ३०                                                  |
| सुत्तौली स्त्री० मूत्राशय A bladder तद्दु० ४१                                      | सुसुमूरिय त्रि० साँगा हुआ Broken पाय० कुमा० सण०                                                             |
| सुदुगा पु० ग्राह विशेष, जल जन्तु को एक जाति A kind of aquatic animal जीव० १ टी     | सुहृथडी स्त्री० मुँह से गिरना To fall from the mouth दे० ६,१३१                                              |
| सुदंग पु० (१) उत्सव A festival (२) सम्मान Respect, Honour स० ४६३, ४६४              | सुहरोमराइ स्त्री० अ० भौ An eye-brow दे० ६,१३६, पद्०                                                         |
| सुहो स्त्री० चुम्बन Kissing दे० ६,१३३                                              | सुहल न० सुर, मुँह A mouth दे० ६,१३४, पद्०                                                                   |
| सुन्म पु० घर के ऊपर का तिर्यक् काष्ठ A cross beam in the roof of a house दे० ६,१३३ | सुद्विय न० मुफ्त, बिना मूल्य, मुक्त मे कराना Free of charge दे० ६,१३४                                       |
| सुम्पुर पु० करीप, गोडरा Fine of dung-cakes दे० ६,१४०                               | सुद्विया स्त्री० देवी 'सुद्विय' शब्द Vide 'सुद्विय' दे० ६,१३४, सिरि० ४५७, सुपा० १२४, कुप० २३७               |
| सुरई स्त्री० अस्ती, कुलटा An adulteress दे० ६,१३६                                  | सूअल-लल त्रि० गक, बाक् शक्ति से हीन Dumb दे० ६,१३०, सुर० ११, १२४                                            |
| सुरिय त्रि० युद्ध, टूटा हुआ Broken दे० ६,१३५, (२) मुड़ा हुआ Bent सुपा० २४७.        | सूअल्लइअ-सूअल्लिय त्रि० सूक बना हुआ Dumb से० ५,४१, गडड० पि० २३६                                             |
| सुरुकि स्त्री० पक्का विशेष A kind of cooked corn सण०                               | सूड सूड पु० अन्न का एक दीर्घ परिमाण A large measure of grain 'इगसूडल्लसमहियमवि धन्त' सुपा० ४२३, धर्मवि० १४० |
| सुरुमुड पु० अट, केशों की लट A tuft of hair दे० ६,११७                               | सूसरि त्रि० भग्न, भाग टूटा Broken दे० ६,१३०                                                                 |
| सुरुमुरिय न० रथरथरु, उत्सुकता Eagerness, Earnest desire दे० ६,१३६, पाय०            | सूसल त्रि० उपचित Collected, Accumulated दे० २,१३७                                                           |
| सुलासिय पु० सुखिग, अग्नि कण A                                                      | सूसा स्त्री० लघु द्वार, छोटा दरवाजा A small door दे० ६,१३०                                                  |




मूसाञ्ज न० लघु-द्वार, छोटा दरवाजा A small door दे० ६,१३७  
 मेअञ्ज न० धान्य, अन्न Corn, Grain दे० ६,१३८  
 मेअर त्रि० असहन, असहिष्णु Intolerable, Unable to bear दे० ६,१३८  
 मेठ पुं० हस्तिपक्ष, महावत An elephant driver दे० ६,१३८  
 मेंठी स्त्री० मेंढा, मेपी, गवरिया A sheep दे० ६,१३८  
 मेडभ पु० मृग तन्तु A net to entrap deer दे० ६,१३६  
 मेडय पुं० मन्ना, तला In upper story सुपा० ३५१  
 मेद. पुं० वणिक्-सहाय, वणिक् को मदद करने वाला. The helper of a Bania दे० ६,१३८  
 मेली स्त्री० सहति, जन समूह का एकत्रित होना, मेला A fall दे० ६,१३८  
 मेहच्छीर न० जल, पानी Water दे० ६,१३६  
 मेहर पु० ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया The leader of a village, A chief दे० ६,१२१, सु० १५,१२८  
 महुरि पु० स्त्री० काष्ठ-कीट, धुएँ An insect of wood, A weevil जी० १५  
 मेहरिया मेहरी स्त्री० गाने वाली स्त्री A female singer, A songstress सुपा० ३६४  
 मेहुणाय पु० फुफा का लडका- The son of a paternal uncle दे० ६,१४८  
 मेहुणिय पु० मामा का लडका The son of a maternal uncle बृह० ४  
 मेहुणिया स्त्री० (१) माली, भार्या की बहिन A sister-in-law दे० ६,१४८, (२) मामा की लटकी The daughter of a maternal

uncle दे० ६,१४८, बृह० ४  
 मो अ० (१) अवधारण, निश्चय Determination सूचि० ८६, श्रावक० १२५, (२) पादपूर्ति In expletive, completing a stanza in a poem or shloke पउम० १०२, ८६, वमसं० ६४५, श्रावक० ६०  
 मोअ त्रि० (१) अघिगत Known (२) पु० विरैट आदि का बीजकोश 1h- seed-vessel of cucumber etc दे० ६,१४८  
 मोइल पु० मत्स्य विशेष A kind of fish नाट०  
 मोक्षणिआ-मोक्षणी स्त्री० कृष्ण कणिका, कमल का कला मध्य भाग Peicarp of a lotus. दे० ६,१४०  
 मोगड पु० न्यन्तर-विशेष A kind of god सुपा० ४०८  
 मोच न० शर्धजरी, एक प्रकार का जूता A kind of shoe दे० ६,१३६.  
 मोट्टाइअ न० रति-क्रीडा, रत, मैथुन Sexual-intercourse, Coition कुमा०  
 मोट्टिम न० बलात्कार Violence, Force पि० २३७.  
 मोड पु० जूट, लट A lock of hair दे० ६,११७  
 मोणावणा स्त्री० प्रथम प्रसूति के समय पिता की ओर से किया जाता उत्सव पूर्वक निमन्त्रण A festival invitation from the father at the time of the first delivery उप० ७२८ टी  
 मोर पु० शवच, चाण्डाल. A butcher दे० ६,१४० -  
 मोरउल्ला य० मुधा, व्यर्थ In vain दे० ७,२१४, कुमा०  
 मोरड पु० तिल आदि का मोदक, राग-विशेष A sweetmeat-ball of sesamum etc राज०

मोरत्तय पु० रवराव, चापडाळ \ butcher.  
दे० ६, १४०

मोलाग पु० बाधने के लिए गाढा हुआ दूध  
A stake for fastening animals, उब०



र

र अ० निरन्तर सूचक अयय An adverb  
signifying determination दमनि० १,  
१२२  
रङ्गोल्लङ्ग त्रि० यमिजपित Desired,  
Wished दे० ७, ३  
रङ्गुली स्त्री० रति-तृष्णा Desire for  
coition दे० ७, ३  
रङ्गुलकख न० तनन, नितम्ब, Buttocks  
दे० ७, १२, ५६  
रञ्जितिया स्त्री० रोग विशेष, पामा, खुजली  
The itoh, A kind of disease सिदि०  
३०६  
रखोजिय त्रि० कम्पित Shaken,  
Trembled गडड०  
रखोजिर त्रि० झूजने वाला One who  
swings गडड० कुमा० पाय०  
रग न० रॉग, राना, सोपा, चातु विशेष Lead,  
A kind of metal दे० ७, १, से० २, २३  
रजण पु० (१) घड़ा, कुम्भ A pot दे०  
७, ३, (२) कुण्डा, पात्र-विशेष A kind of  
vessel दे० ७, ३, पात्र०  
रहुअ न० रज्जु, रस्सी A rope दे० ७, ३  
रभ पु० आन्दोलन फलक, हिडोले का तक्ता  
The timber board of a swing दे० ७, १  
रक्नणिया स्त्री० रली हुई स्त्री, रजात An  
unmarried woman as wife सुपा०  
३८३  
रक्खवात त्रि० रक्षवाला, रक्षा करने वाला A  
protector, A guardian महा०  
रगय न० कुसुम वस्त्र A red garment


दे० ७, ३, पाय० गडड०  
रञ्जण न० (१) अनुराग, Affection (२)  
त्रि० अनुराग करने वाला, राचने वाला A lover,  
कुमा०  
रञ्जिर त्रि० राचने वाला One who is  
pleased कुमा०  
रञ्जु त्रि० लेखक, लिखने का काम करने वाला  
A writer, A scribe कप्प०  
रपु त्रि० बिसक कर तिरा हुआ Shipped  
कुमा० ४२६  
रत्तखर. न० लीध, मद्य-विशेष. A kind of  
liquor दे० ७, ४  
रत्तळ्ळ पु० (१) हंस A swan, A goose  
(२) व्याघ्र. A tiger दे० ७, १३  
रत्तय न० बन्धक वृक्ष का फूल The  
flower of a particular tree दे० ७, ३  
रत्ति स्त्री० आज्ञा, हुकुम A command,  
An order दे० ७, १  
रत्तीअ पु० नापित, हजाम A barber दे०  
७, २, पात्र०  
रद्वि त्रि० प्रधान, श्रेष्ठ Best, Excellent  
दे० ७, २  
रफ्फ पु० (१) बलभीक An ant-hill. दे०  
७, १, पात्र० (२) रोग-विशेष A kind of  
disease. सण०  
रफ्फडिया स्त्री० गोधा, गोह A kind of  
large lizard दे० ७, १  
रव्वा त्रि० राय Rice-gruel आ० १४,  
उर० २, १२, धर्मवि० ४२  
रयणिक न० कुसुम, कमल A lotus दे०

७,४, पद्म  
 रयवली स्त्री० शिशुत्व, वात्स्यावस्था Childhood, Infancy दे० ७,२  
 रज्जा स्त्री० प्रियगु, मालकगनी Clastus, A kind of tree. दे० ७,१  
 रल्लि. पुं० स्त्री० लम्बा मधुर शब्द Long and sweet word माल० ६०  
 रवय पुं० मन्थान दण्ड A churning staff दे० ७,३  
 रविय त्रि० ग्राह्य क्रिया हुआ, भिजाया हुआ Wetted, Moistened विशेष० १४२६  
 रव्वारिश्च पुं० दूत A messenger 'जेण शवकको रव्वारिश्चो त्ति' सुपा० ४२८  
 रसह न० चूहे का मूल भाग. The bottom of the fire-place दे० ७,२  
 रसाड पुं० अमर A wasp दे० ७,२, पाश०  
 रसाय पुं० अमर. A wasp दे० ७,२  
 रसाला स्त्री० साक्षिता, पेय विशेष A kind of drink दे० ७,२, पाश०  
 रहण न० रहना, स्थिति, निवास A residence, An abode धर्मवि० २१, स्थण० ६  
 रहमाण पुं० (१) यवन मत का एक तत्त्ववेत्ता A philosopher of an Ionic belief मोह० १००, (२) खुदा, अल्ला, परमेश्वर God ती० १२  
 रहाविश्च. त्रि० स्थापित, रखवाया हुआ - Caused to keep हम्मिर० १३  
 रहिश्च त्रि० रहा हुआ, स्थित Resided धर्मवि० २२  
 राअला स्त्री० प्रियगु, मालकगनी The Clastus, A kind of tree दे० ७,१  
 राडि स्त्री० संग्राम, लड़ाई A battle, A war दे० ७,४  
 राय पुं० चटक, गौरैया पक्षी A kind of

bird, A sparrow दे० ७,४  
 रायल्लुश्च रायल्लु पुं० न० (१) वेतस का पेड़ A kind of tree पाश० दे० ७,१४, (२) पुं० शरभ A kind of animal. दे० ७,१४  
 रायगड स्त्री० जलौका Leeches दे० ७,४  
 राला. स्त्री० प्रियगु, मालकगनी Clastus, A kind of tree. दे० ७,१  
 राविश्च त्रि० आस्वादित Tasted, दे० ७,२.  
 राह पुं० (१) दयित, प्रिय A lover (२) त्रि० निरन्तर Constantly (३) शोभित, Beautiful (४) सनाथ, Having a pation (५) पलित, सफेद केशवाला Grey-haired. दे० ७,१३, (६) रुचिर, सुन्दर Bright, Shining पाश०  
 रिगणी स्त्री० बल्लो-विशेष, कण्टकारिका The plant that produces binjels दे० २,४, उर० २,८  
 रिगिसिया स्त्री० वाद्यविशेष A kind of musical instrument राज०  
 रिंडी स्त्री० कन्धाप्राया, कन्धा की तरह का फटा हुआ आच्छादन वस्त्र A worn out piece of garment to cover the loins दे० ७,४  
 रिक्क. त्रि० स्तोक, थोडा Little दे० ७,६.  
 रिक्किश्च त्रि० शदित, सडा हुआ Rotten दे० ७,७  
 रिक्कल त्रि० (१) वृद्ध, बूढ़ा, Old, Aged (२) पुं० वय-परियाम, वृद्धता Oldness दे० ७,६  
 रिक्कलण न० (१) उपलम्भ, अधिगम, Knowledge (२) कथन To tell दे० ७,१४.  
 रिगा पुं० प्रवेश Entrance दे० ७,४  
 रिच्छ त्रि० वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ७,६  
 रिच्छभल्ल पुं० भालू, रीछ A bear. दे०

मोरत्तय पु० रराय, चाण्डाल \ butcher  
दे० १, १४०.

मोलाग पु० बाघने के लिए गावा हुआ वृक्ष  
A stake for fastening animals, अक



र

|                                                                                                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| र अ० निश्चय सूचक अन्वय An adverb<br>signifying determination दसनि- १,<br>१५२                          | दे० ७, ३, पात्र० गडड०                                                                      |
| रङ्गलज्ज त्रि० अभिन्वित Desired,<br>Wished दे० ७, ३                                                   | रञ्चरा न० (१) अनुराग Affection (२)<br>त्रि० अनुराग करने वाला, राचने वाला A lover.<br>कुमा० |
| रइ ल्ली रत्री० रति-तृष्णा Desire for<br>coition दे० ७, ३                                              | रञ्चिर त्रि० राचने वाला One who is<br>pleased कुमा०                                        |
| रइलकप न० चान, नितम्ब Buttocks<br>दे० ७, १३, पङ्०                                                      | रञ्जु त्रि० लेखक, लिखने का काम करने वाला<br>A writer, A scribe कप०                         |
| रउत्ताणिया स्त्री० रोग विशेष, पामा, खुजली<br>The itch, A kind of disease त्रि०<br>३०६                 | रङ्गु त्रि० लिखक कर गिरा हुआ Slipped<br>कुप० ४५६                                           |
| रखोजिय त्रि० कम्पित Shaken,<br>Trembled गडड०                                                          | रत्तकखर. न० सीध, मद्य-विशेष A kind of<br>liquor दे० ७, ४                                   |
| रखोलिर त्रि० झूझने वाला One who<br>swings गडड० कुमा० पाय०                                             | रत्तच्छ पु० (१) हंस A swan, A goose<br>(२) व्याघ्र A tiger दे० ७, १३                       |
| रग न० रंग, रागा, सोना, धातु विशेष Lead,<br>A kind of metal दे० ७, १, से० २, २६                        | रत्तय न० बन्दूक वृक्ष का फूल The<br>flower of a particular tree दे० ७, ३                   |
| रजण पु० (१) बड़ा, कुम्भ A pot दे०<br>७, ३, (२) कुण्डा, पात्र-विशेष A kind of<br>vessel दे० ७, ३, पाय० | रत्ति स्त्री० आज्ञा, हुकुम A command,<br>An order दे० ७, १                                 |
| रदुअ न० लज्ज, रस्सी A rope दे० ७, ३                                                                   | रत्तीअ पु० नापित, हजाम A barber दे०<br>७, २, पात्र०                                        |
| रभ पु० आन्दोलन फलक, हिडोले का तक्ता<br>The timber board of a swing दे० ७, १                           | रद्वि त्रि० प्रधान, श्रेष्ठ Best, Excellent<br>दे० ७, २                                    |
| रक्खणिया स्त्री० रखी हुई स्त्री, रखात An<br>unmarried woman as wife सुपा०<br>३३३                      | रफ पु० (१) अन्त-मूक An ant-hill दे०<br>७, १, पात्र० (२) रोग-विशेष A kind of<br>disease लण० |
| रक्खवाल त्रि० रखवाला, रखा करने वाला A<br>protector, A guardian महा०                                   | रफडिजा स्त्री० गोधा, गोह. A kind of<br>large lizard दे० ७, ४                               |
| रगाय न० कुसुम्भ वस्त्र A red garment                                                                  | रव्या त्रि० राव Rice grael या० १४,<br>उर० २, १३, धर्मवि० ४२                                |
|                                                                                                       | रयशिद्रय न० कुमुद, कमल A lotus दे०                                                         |

७,४, पद्म  
 रयनली स्त्री० शिशुत्व, बाल्यावस्था Childhood Infancy दे० ७,२.  
 रझा. स्त्री० प्रिययु, मालकागनी Clastus, A kind of tree दे० ७,१  
 रझि. पुं० स्त्री० लम्बा मधुर शब्द Long and sweet word माल० १०  
 रवय पुं० मन्थान दण्ड A churning staff दे० ७,२  
 रविय त्रि० यादृं क्रिया हुआ, भिजाया हुआ Wetted, Moistened विशेष० १२२६  
 रञ्वारिञ्च पुं० दूत A messenger 'जेण श्वक्को रञ्वारियो त्ति' सुपा० ४२८  
 रसद्. न० चूहे का मूल भाग The bottom of the fire-place दे० ७,२  
 रसाउ पुं० भ्रमर A wasp दे० ७,२, पाञ्च०  
 रसाय पुं० भ्रमर. A wasp दे० ७,२  
 रसाला स्त्री० माजिंता, पेय विशेष A kind of drink. दे० ७,२, पाञ्च०  
 रहण न० रहना, स्थिति, निवास A residence, An abode धर्मवि० २१, रयण० ६  
 रहमाण पुं० (१) यवन मत का एक तत्त्ववेत्ता A philosopher of an Ionic belief मोह० १००, (२) खुदा, अल्ला, परमेश्वर God तो० १२  
 रहाविञ्च त्रि० स्थापित, रखवाया हुआ - Caused to keep हम्मि० १३  
 रहिञ्च त्रि० रहा हुआ, स्थित Resided धर्मवि० २२  
 राञ्जला स्त्री० प्रिययु, मालकागनी The Clastus, A kind of tree दे० ७,१  
 राडि स्त्री० सम्राट, लड़ाई A battle, A war दे० ७,४  
 राय पुं० चटक, गौरैया पक्षी A kind of

bird, A sparrow दे० ७,४  
 रायल्लुञ्च रायवु पुं० न० (१) वेतस का पेड़ A kind of tree पाञ्च० दे० ७,१४, (२) पुं० शरभ A kind of animal. दे० ७,१४  
 रायगड स्त्री० जलोका Leeches दे० ७,२  
 राला स्त्री० प्रिययु, मालकागनी Clastus, A kind of tree दे० ७,१  
 राविञ्च त्रि० आस्वादित Tasted, दे० ७,२.  
 राह पुं० (१) दयित, प्रिय. A lover. (२) त्रि० निरन्तर Constantly (३) शोभित. Beautiful (४) सनाय, Having a pation (५) पलित, सफेद केशवाला. Grey-haired दे० ७,१३, (६) रुचिर, सुन्दर Bright, Shining पाञ्च०  
 रिगणी स्त्री० बल्ली-विशेष, कण्टकारिका The plant that produces brinjels दे० २,४, उर० २,८  
 रिगिसिया स्त्री० वाद्यविशेष A kind of musical instrument राज०  
 रिंडी स्त्री० कन्याप्राया, कन्या की तरह का फटा टूटा आच्छादन वस्त्र A worn out piece of garment to cover the loins दे० ७,२  
 रिक्क त्रि० स्तोक, थोड़ा Little दे० ७,६  
 रिक्किञ्च त्रि० शरित, सड़ा हुआ Rotten दे० ७,७  
 रिक्ख त्रि० (१) वृद्ध, बूढ़ा. Old, Aged (२) पुं० वय-परिणाम, वृद्धता Oldness दे० ७,६  
 रिक्खण. न० (१) उपलम्भ, अधिगम. Knowledge (२) कथन To tell दे० ७,१४.  
 रिग्ग पुं० प्रवेश Entrance दे० ७,२  
 रिच्छ त्रि० वृद्ध, बूढ़ा Old, Aged दे० ७,६  
 रिच्छभल्ल पुं० भालू, रीछ A bear दे०

७,७  
 रिचूडिअ त्रि० ज्ञानित, कडवाया हुआ  
 Snatched, Seized दे० ७,८  
 रिद्ध. त्रि० पक्क, पक्का Ripe दे० ७,६  
 रिद्धि पु० स्त्री० समूह, राशि \ collection,  
 A multitude. दे० ७,६  
 रिप्प न० घुंटा, पीठ The back दे० ७,५.  
 रिमिण त्रि० रोने की आदत वाला Habī  
 tuated to weep दे० ७,७, पद्०  
 रिरिअ त्रि० लीन Absorbed in दे० ७,७  
 रीढ स्त्री० न० श्रवणाना, शनादर Dis-  
 honour, Disrespect दे० ७,८  
 नअरुइआ स्त्री० उत्कण्ठा Eagerness,  
 Earnest desire दे० ७,८  
 रु चणी स्त्री० बरटी, दलने का पत्थर-चन्द्र A  
 grinding mill. दे० ७,८  
 रु जग. पु० वृक्ष, पेड़ A tree 'रोवना  
 रुंजगाईअ' वसनि० १  
 रु टणया स्त्री० श्रवणा, शनादर Dishonour,  
 Disrespect दि० ०१०  
 रुढ पु० आचिक, जूआरी A gambler  
 दे० ७,८  
 रुडिअ त्रि० सफल Fruitful, Success-  
 ful दे० ७,८  
 रुद त्रि० (१) स्थूल, मोटा, पीन Large,  
 Great पात्र० (२) सुखर, वाचाल Talka-  
 tive, Loquacious दे० ७,१४  
 रुंदी. स्त्री० विस्तीर्णता, लम्बाई Length,  
 Extension चजा० १६४  
 रुप. पु० न० (१) त्वचा, सूक्ष्म झाल Thin  
 bark गा० ११६, १२०, चजा० ४२, (२)  
 उल्लिखन To picture, To paint चजा०  
 ४२  
 रुक न० बेल आदि की तरह शब्द करना To  
 bellow like an ox अणुजो० २६  
 रुट्टिया स्त्री० रोटी A kind of bread

सद्धि० ३६  
 रुगुरुणिय त्रि० मरुप क्रन्दन वाला A  
 piteously lamented man पत्र०  
 १०५,५८  
 रुहुरुहय पु० उत्कण्ठा Eagerness,  
 Earnest desire भवि०  
 रुअ न० रुई, तुला Cotton दे० ७,६, कप०  
 प्रव० ८४, देवेन्द्र० ३३२, धर्मम० ६८०, भग०  
 सवोध० ३१  
 रुरुइय न० उत्सुकता, रणरणक Eager-  
 ness, Zeal, Enthusiasm पात्र०  
 रुवमिणी स्त्री० रूपवती स्त्री A beautiful  
 woman दे० ७,६  
 रुवि पु० स्त्री० अर्क वृक्ष, आक का पेड़  
 Name of a shrub दे० ७,६  
 रेअधिअ त्रि० शून्य किया हुआ, खाली किया  
 हुआ Emptied दे० ७,११, पात्र० से०  
 ११,२  
 रेकिअ त्रि० (१) अक्षिप्त Thrown (२)  
 लोन Absorbed in, Engrossed  
 in (३) लजित Ashamed, Abashed  
 दे० ७,१४.  
 रेणि पु० स्त्री० पक्क, कर्मम Mud, Mire  
 दे० ७,६  
 रेविलि स्त्री० रेल, लोट, प्रवाह A stream,  
 A flow राज०  
 रेवई. स्त्री० मातृका, देवी Mother, Goddess  
 दे० ७,१०  
 रेवजिअ त्रि० उपात्तव्य Reproached,  
 Blamed, Rebuked दे० ७,१०  
 रेवय न० प्रणाम, नमस्कार Salutation,  
 Reverence, Obeisance दे० ७,६  
 रेवलिआ स्त्री० बालुकावर्त, गूल का धावत  
 A circle of dust दे० ७,१०  
 रेसयिआ-रेसयी स्त्री० (१) करोटिका, गड़  
 प्रकार का काँचय भाजन A kind of vessel

made of Bell-metal पाञ्च० दे० ७,१५,  
 (२) अङ्घ्रि-निकोच Contraction of an  
 eye , a wink दे० ७,१५  
 रेसिञ्च. त्रि० छिन्न, काटा हुआ Cut दे०  
 ७,१५  
 रेसिञ्चि अ० निमित्त, लिए, वास्ते For  
 'एरु रेसिञ्चि सुपलथो' पचा० १६,४०  
 रेहिञ्च न० छिन्न पुच्छ, कटा हुआ पूछ  
 Without a tail , Tailless दे० ७,१०  
 रोञ्चणिया स्त्री० ढाकिनी A witch  
 दे० ७,१२, पाञ्च०  
 रोकण त्रि० रक, गरीब Poor , Penit-  
 less दे० ७,११  
 रोकञ्च त्रि० प्रोक्षित, अति सिक्त Vely  
 much sprinkled पङ्०  
 रोकणि-रोकणिया त्रि० (१) शृ गी, शृ गधाला.  
 One having horns , Horned (२)  
 नृशल, निर्दय Wicked , Cruel दे० ७,१६  
 रोचस त्रि० रक, गरीब Poor , Helpless  
 दे० ७,११  
 रोह्ण पुं० रोटी A kind of bread महा०  
 रोड न० घर का मान, गृह-प्रमाण Dimen-  
 sion of a house दे० ७,११  
 रोडी स्त्री० (१) डच्छा, अभिलाष Desire  
 (२) ब्रणी की शिबिका A stretcher of the

wounded दे० ७,१५  
 रोद्ध त्रि० (१) काया, कूषिताक्ष One-eyed  
 (२) न० मल. Dut दे० ७,१५  
 रोमराइ स्त्री० जघन, नितम्ब Buttocks  
 दे० ७,१२  
 रोमलयासय न० पेट, उदर A stomach  
 दे० ७,१२  
 रोमूसल न० जघन, नितम्ब Buttocks दे०  
 ७,१२  
 रोर त्रि० रक, गरीब, निर्धन Poor , Help-  
 less दे० ७,११, पाञ्च० सुर० २,१०५, सुपा०  
 २६६  
 रोत्त पु० (१) कलह, झगडा A quarrel  
 दे० ७,१५, (२) कोलाहल, कलकल आवाज A  
 disturbance , A noise , A bustle दे०  
 ७,१५, पाञ्च० कुमा० सुपा० ५७६, चेइय० १८२  
 रोव पु० पौधा A plant सम्मत्त० १४४  
 रोविंदय न० एक प्रकार का गान A kind  
 of song डा० ४,४  
 रोसाणिया त्रि० शुद्ध किया हुआ, माजित  
 Purified पाञ्च० कुमा० पिग०  
 रोह पु० (१) प्रमाण Measure (२) नमन  
 Salutation (३) मार्गण To point the  
 way दे० ७,१६



## ल

लइ अ० अच्छा, ठीक Well भवि०  
 लइअल्ल पु० वृषभ, बल An ox , A  
 bullock दे० ७,१६  
 लका स्त्री० शाखा A branch वजा० १३०  
 लगिस पु० स्त्री० (१) जवानी, यौवन Youth,  
 Juvenility (२) ताजापन, नवीनता  
 Novelty , Newness 'लगिस चगिस'

कप्पु०  
 लच पुं० कुक्कुट, सुर्गा A cock दे० ७,१७  
 लदय पु० न० कल्लिन्दक, गो आदि का खादन  
 पात्र A vessel for provender of cows  
 etc , A manger प्रव० २  
 लपिक्ख पु० चोर, तस्कर A thief दे०  
 ७,१६

लंब पु० गोघाट, गो-नाडा A fold of  
enclosure for cows दे० ७,२५  
लंबा स्त्री० (१) बल्लरी, लता A creeper  
पद० (२) केश, बाल Hair पद० दे० ७,२६  
लंबाली स्त्री० पुष्प विशेष A kind of  
flower दे० ७,१३  
लंबकुकुड न० लकड़ो, यष्टि A stick दे०  
७,१६, पात्र०  
लंबस्त्र पु० न० काय, शरीर, देह Body  
दे० ७,१७  
लंग न० निकट, पास Closeness, Near-  
ness, Intimacy शि०  
लंगा न० (१) चिह्न A sign, A mark  
(२) त्रि० अव्ययमान, अव्ययत्त Improper  
दे० ७,१७  
लघय न० मृग-विशेष, गयडुत्-मृग A kind  
of grass दे० ७,१७  
लज्जालुङ्गी स्त्री० कलह कारिणी स्त्री A  
quarrelsome woman पद०  
लङ्ग लङ्गय न० (१) खसखस आदि का तेल  
Oil of the Poppy seeds etc पत्र० ३१,  
(२) कुसुम Safflower दे० ७,१७  
लङ्गा स्त्री० धान्य-विशेष, कुसुम धान्य A  
kind of corn प्र० १२३  
लङ्ग त्रि० (१) अन्यासक्त Enticed in other  
things दे० ७,२६, (२) पिबवत्, प्रियभाषी,  
A sweet speaker दे० ७,२६  
लङ्गरी स्त्री० सुन्दर, रमणीय Beautiful,  
Handsome कु० २१०  
लङ्गिञ्च न० ज्ञान-विशेष A kind of eatable  
सू० प० १७,१७  
लङ्गह त्रि० (१) सुकुमार, कोमल Delicate,  
Tender का० ७६६, भवि० (२) विद्वान्,  
चतुर Active, Clever, Acute (३)  
प्रधान, मुख्य Chief, Leading कुमा०  
लङ्गहस्त्रमिञ्च त्रि० विचटित, विचुक्त

Departed, Separated दे० ७,२०  
लङ्गहा स्त्री० बिलासवती स्त्री An amorous  
woman पद०  
लङ्गिञ्च न० लाव, कोह, प्यार Caressing,  
Fondling भवि०  
लङ्गण न० भार लेप To burden स० १३७  
लङ्गी स्त्री० हाथी आदि की विष्ट The dung  
of an elephant etc सुपा० १३७  
लङ्गय न० नव दम्पति का श्रास में नाम लेने का  
उत्सव A festival of a fresh-married  
couple of naming each other दे०  
७,१६  
लङ्गया त्रि० (१) तनु, कृश, क्षीन Thin,  
Slender दे० ७,२७, पात्र० (२) मृदु, कोमल  
Delicate, Tender (३) बल्लरी, लता  
A creeper दे० ७,२७  
लङ्गयाणी स्त्री० लता, बल्लरी A creeper  
पात्र० पद०  
लङ्गापुरिस \* पु० वह स्थान जहाँ पत्र हस्त स्त्री  
का चित्रण किया जाय A place where a  
woman having a lotus in her hand  
is photographed 'पत्रमकरा जस्य वहू  
बिहिज्जरा सो लङ्गापुरिसो' दे० ७,२०  
लङ्गल त्रि० (१) स-स्पृष्ट, स्पृष्टा धाता Desi-  
rious (२) म्युत्, अधूरा Less, Incom-  
plete दे० ७,२१  
लङ्गलि स्त्री० खुशामद Flattery, False  
praise धर्मवि० ३८, जय० १६  
लङ्गल्लरी स्त्री० मञ्जली पकड़ने का जाल-विशेष  
A kind of fishing net विवा० १,८  
लङ्गय पु० गोंद, लासा, निर्यास Gum  
लवत्रोयु दो० पात्र०  
लवव त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept पद०  
लसई पु० काम, कन्दर्प Cupid, The  
God of Love दे० ७,१८



- लसक न० तरु चौर, पेड का दूध The milk of a tree दे० ७,१८
- लसुअ न० तैल Oil दे० ७,१८
- लहग पु० बासी अन्न में पैदा होने वाला द्वीन्द्रिय कीट विशेष A two sensed insect which begets in stale food जो० १५
- लहुअरड पु० न्यग्रोध वृक्ष A kind of tree, The banyan tree दे० ७,२०
- लाइअ त्रि० (१) गृहीत, स्वीकृत Accepted, Admitted दे० ७,२७, (२) दृष्ट Obstinate से० २,२६, (३) न० भूषा, मण्डन Beauty, Elegance दे० ७,२७, (४) चर्मार्ष, आधा चमड़ा Half hide दे० ७,२७
- लाइम त्रि० रोपण के योग्य, बोने लायक Fit to be sown आया० २,४,२,१५, दस० ७,३४
- लाइल्ल पु० वृषभ, बैल An ox, A bullock दे० ७,१६
- लाग पु० चुन्नी, एक प्रकार का कर Octroi, A state-tax सिरि० ४३३, ४३४
- लामजय न० नृथ-विशेष, उशीर-नृथ A kind of grass पात्र०
- लामा स्त्री० डाकिनी, डाइन A witch दे० ७,२१
- लालपिअ न० (१) प्रवाल Coral (२) रत्नीन Rein (३) आक्रन्दित Lamented दे० ७,२७
- लालस त्रि० (१) मृदु, कोमल Delicate, Tender (२) इच्छा Desire दे० ७,२१
- लावज न० सुगन्धो नृथ-विशेष, उशीर, लज A kind of fragrant grass of which window-shutters are made दे० ७,२१
- लाविया स्त्री० उपलोभन A bribe, A temptation, An allurement सूय० १,२,१,१८
- लासयविहय पु० मयूर, मोर A peacock दे० ७,२१
- लाहण न० खाद्य वस्तु की भेंट A gift दे० ७,२१, ६,७३, सट्टि० ७८ टी, रभा० १३
- लिक पुं० बाल, लडका A baby, A child दे० ७,२२
- लिकिअ त्रि० (१) आच्छिन्न Thrown (२) लीन Absorbed in, Engrossed in दे० ७,२८
- लिछ न० (१) चुल्हो-स्थान, चुल्हा का आश्रय The place of a fire-place (२) अग्नि-विशेष A kind of fire ठा० ८ टी
- लिडिया स्त्री० यज्ञ आदि की विष्टा The dung of a goat उप० पृ० २३७
- लिव त्रि० (१) कोमल Delicate, Tender (२) नम्र Humble राय० ३५
- लिवाहली स्त्री० निम्ब-फल A lime, A lemon सूक्त० ८६
- लिक्स स्त्री० न० छोटा स्रोत A streamlet दे० ७,२१
- लिट्टिअ न० (१) चाटु, खुशामद Flattery, False praise दे० ७,२२, (२) त्रि० लभ्य, जोलुप Lustful, Addicted to licentious pleasures सुपा० ५६३.
- लित्ति पुं० स्त्री० खड्ग आदि का दोष A defect in a sword etc दे० ७,२२
- लित्लिर त्रि० (१) हरा, आद्र. Wet (२) हरे रंग वाला Green-coloured घर्मवि० ७३
- लिसय त्रि० तनुकृत, क्षीण Thin, Lean, Slender दे० ७,२२
- लील पु० यज्ञ A consecratory rite, A sacrifice दे० ७,२३
- लीव पु० बाल, बालक A child An infant दे० ७,२२, सुर० १५,२१८
- लुन त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept दे० ७,२३
- लुकणी स्त्री० लुकना, छिपना To hide oneself, To be concealed दे० ७,१४

लुंख. पु० नियम A vow दे० ७,२३  
 लुखाय पु० निर्णय Determination,  
 Resolution दे० ७,२३  
 लुरिय त्रि० कलुप, मलिन Duty से० १५,  
 ४२  
 लुवी स्त्री० (१) स्तयन, फलों का गुच्छा A  
 bunch of fruits दे० ७,२८, कुमा० गा०  
 ३२२, कुप्र० ४६०, (२) जता, वल्ली A  
 creeper दे० ७,२८  
 लुक त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept पङ्०  
 लुरणी स्त्री० वाद्य विशेष A kind of musical  
 instrument दे० ७,२४  
 लूआ स्त्री० मृग-नृप्या, सूर्य किरण में जल की  
 भ्रान्ति Mirage दे० ७,२४  
 लोडुक पु० (१) रोडा, लोण्ड A fragment of  
 a buick, A buick bat, (२) त्रि० लम्पट  
 Lustful, Addicted to licentious  
 pleasures दे० ७,२६  
 लोदिअ न० स्मरण, स्मृति Remembrance,  
 Recollection दे० ७,२२  
 लोडुक पु० रोडा, लोण्ड A piece of  
 buick etc A buick-bat दे० ७,२४,  
 पात्र०  
 लोस त्रि० (१) लिखित Written (२)  
 आश्वस्त Comforted, Consoled (३)  
 नि शब्द, शब्द रहित Devoid of words  
 (४) पु० निद्रा Sleep दे० ७,२८  
 लोहड त्रि० लम्पट, लुध Lustful, Addict  
 ed to licentious pleasures दे० ७,  
 २५, ३३०  
 लोहड पु० लोण्ड, रोडा, डेला A buick-

bat दे० ७,२४  
 लोअग न० गुण रहित अन्न, खराब नान  
 Bad corn, Corn devoid of nutri  
 tion वस०  
 लोक. त्रि० सुप्त, सोया हुआ Slept दे०  
 ७,२३  
 लोट्ट पु० कच्चा चावल Unripe rice किसी०  
 चू० ४  
 लोट्टिअ त्रि० उपविष्ट Sat. दे० ७,२२  
 लोट्ट त्रि० स्मृत Remembered पङ्०  
 लोट त्रि० (१) स्मृत Remembered. (२)  
 शयित Slept दे० ७,२६  
 लोट्टय पु० कपास के बीज निकालने का यन्त्र  
 A machine to sever seeds from  
 raw-cotton गडड०  
 लोमसी स्त्री० (१) ककड़ी, खीरा Cucum-  
 ber उप० पृ० २५२, (२) वल्ली विशेष, ककड़ी  
 का गाड़ A creeper of cucumber  
 वव० १  
 लोय न० सुन्दर भोजन, मिष्टान्न Sweet-  
 meat आगा० २,१,४,३  
 लोर पु० न० (१) नेत्र, आँसु An eye  
 (२) अश्रु, आँसु Tear पिंग०  
 लोलटिअ न० चाटु, खुशामद Flattery,  
 False praise दे० ७,२२  
 लोलुचाविअ त्रि० रचित-नृप्या, जिसने नृप्या  
 की हो वह One who is ambitious  
 दे० ७,२५  
 लट्टिसिअ त्रि० हर्षित Glad, Laughing  
 चड०  
 लिहक त्रि० (१) नष्ट Ruined, है०  
 ४,२५८, (२) गत Gone पङ्०

## व

वज्रपीठिका स्त्री० (१) उन्मत्त स्त्री An intoxicated woman (२) दुःशील स्त्री An unchaste woman पङ्०  
 वइ थ० वदि, कृष्णपक्ष The dark fortnight of the lunar month 'फगुण-वइल्लोए' सुपा० ८६  
 वइअ त्रि० (१) धीत, जिसका पान किया गया हो वह Drink, Beverage दे० ७,३४, (२) आच्छादित, ढका हुआ Covered, Concealed पात्र०  
 वइरिक न० विजन, एकान्त स्थान A solitary place गा० ८७०  
 वइरोअण पु० बुद्धदेव Buddhadeo, 'The lord Buddha' दे० ७,११  
 वइरोड पु० जार, उपपत्ति A paramour दे० ७,४२  
 वइवल्लय पु० साप की एक जाति, दुन्दुभ सर्प A kind of serpent दे० ७,११  
 वइवेला स्त्री० सीमा A limit, A boundary दे० ७,३१  
 वड पु० स्त्री० लावण्य, शरीर कान्ति Lustre, Beauty 'वड अ लावण्ये' दे० ७,३०  
 वडलिअ त्रि० शूल-प्रोत Transfixed by an non-spit दे० ७,४४  
 वओवउप्फ-वओवतथ पु० न० विपुवत्, समान रात और दिन वाला काल The time when the days and nights are of equal length, Equinoxes दे० ७,२०  
 वक पु० नलक, दाग A stain, A blot A disgrace दे० ७,३०  
 वग न० शृन्तक, भटा A binjaul दे० ७,२६  
 वगच्छ पु० प्रमथ, शिव का अनुचर विशेष Piamatha, A follower of the God

Shiva दे० ७,३३  
 वगेवडु पु० सूकर, सूअर A hog, A boar दे० ७,२२  
 वजर न० नीवी, कटि वस्त्र A sting, A tape दे० ७,४१  
 वठ पु० (१) अकृत विवाह, अविवाहित A bachelor, An unmarried man दे० ७,८३, अघ० २१८, (२) रखड, टुकड़ा A piece, A fragment (३) गण्ड An abscess, A tumour दे० ७,८३, (४) श्रूत्य, दास A servant दे० ७,८३, सुर० २,१६८, रयण० ८३, सिरि० १११५, (५) त्रि० नि स्नेह, स्नेह-रहित Devoid of love दे० ७,८३, (६) धूर्त, ठग A rogue, A knave, A wag आ० १२  
 वडइअ त्रि० पीडित, Distressed पङ्०  
 वडुअ न० राज्य Kingdom, Dominion, Administration दे० ७,३६  
 वड पु० बन्ध A tie, A fetter दे० ७,२६  
 वदणिया स्त्री० मोरी, नाला, पनाला A gutter, A drain सुख० २,१७  
 वफिअ त्रि० भुक्त, खाया हुआ Eaten दे० ७,३५, पात्र०  
 वस पु० कलक, दाग A blot, A stain दे० ७,३०  
 वसफाल त्रि० (१) प्रकट, व्यक्त Open, Clean, Public (२) ऋजु, सरल Frank दे० ७,४८  
 वसी स्त्री० मस्तक पर स्थित माला A garland worn on the head दे० ७,३०  
 वक्ष न० पिष्ट, पिसान, आटा Flour पङ्०  
 वक्षड न० (१) दुर्दिन Bad days, Evil

days (२) निरन्तर वृष्टि Constant rain  
दे० ७,३६

वक्रवध न० कर्णाभरण, कान का आभूषण An  
ornament of ears, An auricular  
ornament. दे० ७,६१

वक्रलय त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
Brought in front दे० ७,४६

वक्रस न० (१) पुराणे धान का चावल Old  
rice (२) पुरातन सन्तु-पियेद, (३) बहुत दिनों  
का बासी गोरस Stale whey, curd etc  
of many days (४) गेहूँ का मँड Boiled  
water of wheat आया० १,६,४,१३

वक्रल त्रि० आच्छादित, ढका हुआ Covered,  
Concealed षड्०

वक्रार पु० बजार, अन्न आदि रखने का  
मकान, गुदाम A godown, A store  
house उप० १०३१ टी

वक्रारय न० (१) रतियूह A room for  
coition (२) अन्त पुर. A hairem, A  
zanana दे० ७,४६

वक्रसि न० युद्ध, लड़ाई A war, A  
battle दे० ७,४६

वक्रय न० वार्ता, बात A story, A talk  
दे० ७,३८

वक्रज त्रि० प्रसूर, प्रसृत Much दे० ७,३८

वक्रोत्र पु० नकुल, न्यूला A weasel, A  
mongoose. दे० ७,४०

वक्रोरमय त्रि० हल, लुला And, Parched  
up. दे० ७,६२

वक्रात्र पु० (१) साहाय्य, मदद Help, Aid  
(२) त्रि० विकसित, खिला हुआ Bloomed,  
Blossomed दे० ७,८६

वक्र न० पारस्व, समीप Nearness,  
Closeness, Intimacy. दे० ७,३०

वक्रवध पु० गर्भाशय The womb,  
The uterus दे० ७,४४ टी

वक्रिमय पु० गर्भ शय्या The abode of  
the foetus or uterus दे० ७,४४

वक्रोत्त पु० नापित, हजाम A barber  
दे० ७,४७, पात्र० स०७६

वक्रोव पु० गोप, म्वाला A cowherd  
दे० ७,४१, पात्र०

वक्रोमी स्त्री० काव्य की एक रीति A kind of  
poetly कप्प०

वक्रवद्विता स्त्री० मन्द भाग्य-स्त्री An  
unfortunate woman सच्चि० ४७

वक्ररा स्त्री० तरगिणी, नदी A river दे०  
७,३७

वक्रा स्त्री० अधिकार, प्रस्ताव A resolution  
दे० ७,३२, वजा० २

वक्रि त्रि० अवलोकित, दृष्ट Seen, Ob-  
served दे० ७,३६, महा०

वक्रियावग पु० इच्छ, ऊल Sugarcane  
बव० १

वक्रमाय न० (१) अंग, शरीर A body, A  
limb (२) गन्ध द्रव्य का एक तरह का अधि-  
वास A kind of fragrance of an  
odorous substance दे० ७,८०

वक्रा स्त्री० मार्ग, रास्ता A road, A way  
दे० ७,३१

वक्रिम त्रि० अतिरिक्त Surpassed दे० ७,३४

वक्रिय त्रि० चूर्ण किया हुआ, पिसा हुआ Pow-  
dered, Reduced to powder स० २६४

वक्रिय न० परकार्य Another's work  
दे० ७,४०

वक्र न० पात्र विशेष A kind of vessel  
वृह० १

वक्रुकर पु० अर्ध-विशेष A particular  
demi-god स०

वक्रुकी स्त्री० निचा विशेष A particular  
magical skill राज०

वक्रय न० (१) लता-गहन A thicket, (२)

निरन्तर-वृष्टि Constant rain दे० ७,८४  
 बडह पु० पच्छि-विशेष A kind of bird  
 दे० ७,३३  
 बडालि स्त्री० पक्ति, श्रेणी A line, A row  
 दे० ७,३६  
 बडियाय पु० घर्घर करण, बैठा हुआ गला A  
 hoarsed-throat पङ्०  
 बडिसर न० चूली-मूल, चूल्हे का मूल The  
 foot of a fire-place दे० ७,४८  
 बडिसात्र त्रि० क्षुत्त, टपका हुआ Dropped,  
 Leaked, Trickled, Oozed पङ्०  
 बडु त्रि० बडा, महान् Large, Great दे०  
 ७,२६, तदु० २५, सुपा० १२४, नाया० २,  
 सम्मत्त० १७३, भवि० हे० ४,३६६-३६७-३७१,  
 -अस्थरग पु० ऊँट की पीठ पर रखा जाता आसन  
 A wooden saddle प्रव० ८४ टी  
 बडुवास पु० मेघ, अन्न A cloud दे० ७,४७,  
 कुमा०  
 बडुहुल्लि पु० मालाकार, माली A gardener  
 दे० ७,४२  
 बड्डिम त्रि० क्षुत्त, टपका हुआ Trickled,  
 Leaked, Dropped, Oozed पङ्०  
 बडुइअ पु० चर्मकार, मोची A shoe-maker  
 दे० ७,४४  
 बड्डणमिर त्रि० पीन, पुष्ट Fleshy, Fat  
 दे० ७,२१  
 बड्डणसाल त्रि० जिसका पूँछ कट गया हो वह  
 Without a tail, Having a cut tail  
 दे० ७,४६  
 बड्डयण न० वस्त्र का आहरण. To carry  
 away a garment दे० ७,८७  
 बड्डाविअ त्रि० समापित, समाप्त किया हुआ  
 Completed, Finished दे० ७,४२  
 बड त्रि० मूक, वाक् शक्ति से रहित Dumb  
 सन्धि० ३६  
 बण पु० (१) अधिकार Authority,

Power (२) स्वपच, चोंडाल A butcher,  
 A Chandala दे० ७,८२.  
 बणइ स्त्री० वन राजि, वृक्ष पंक्ति A line of  
 trees दे० ७,२८, पङ्०  
 बणद्वि स्त्री० गो वृन्द, गो-समूह A herd of  
 cows दे० ७,३८  
 बणनत्तडिअ त्रि० पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
 Brought in front पङ्०  
 बणपक्कमावअ पु० शरभ, स्वापद-विशेष A  
 kind of beast दे० ७,६२  
 बणव पु० दावानल A conflagration in  
 a forest दे० ७,३७  
 बणसवाई स्त्री० कोकिला, कोयल A cuckoo  
 दे० ७,५२, पात्र०  
 बणाय त्रि० व्याध से व्याप्त Spread by a  
 hunter दे० ७,३२  
 बणार पु० दमनीय बड़वा A subjugated  
 calf दे० ७,३७  
 बणो अ० (१) निश्चय Determination  
 हे० २०६, कुमा० (२) विकल्प A thought  
 (३) अनुकम्पनीय Pitiable (४) सभावना  
 Possibility हे० २,२०६  
 बण त्रि० (१) अच्छ, स्वच्छ Clean, Neat  
 (२) रक्त Red दे० ७,८२  
 बतु पु० निबह, समूह A collection, A  
 multitude दे० ७,३२  
 बत्तद्ध त्रि० (१) सुन्दर Beautiful, Hand-  
 some (२) बहु-शिक्षित Well-educated  
 दे० ७,८४  
 बत्ता. स्त्री० सूत्र-बलनक, सूत्र-वेष्टन-यत्र A  
 machine to roll cotton threads पणह०  
 १,४, तदु० २०  
 बत्तार त्रि० गर्वित, गर्व-युक्त Proud,  
 Allogant दे० ७,४१  
 बत्ति स्त्री० सीमा Boundry, Limit दे०  
 ७,३१  
 बर्यउड पु० तबू, कण्ड-कोट, बस्त्र-गृह A  
 tent, A pavilion दे० ७,४२

वर्त्याणीय पु० न० खाद्य-विशेष A kind of  
eatable सू० प० १०, १७

वर्ती स्त्री० उटन, तापसा की पर्या कुटी A  
hermitage of ascetics दे० ७, ३१

वर्तिकलिअ त्रि० बलित, लौटा हुआ Came  
back, Returned दे० ७, २०

वहल न० (१) वहल, बादल, मेघ-घटा A cloud  
दे० ७, ३५, हे० ४, ४०१, सुपा० ६२५, राय०

आवम० छ० ३, (२) पु० छट्ठी नरक का  
दूसरा नरक-न्द्रक The second abode of  
the sixth hell देवेन्द्र० १२

वद्ध्य त्रि० प्रधान, मुख्य Chief Leading  
दे० ७, ३६

वद्विअ पु० परह नपुंसक An impotent  
person दे० ७, ३७

वद्वी स्त्री० अवश्य-द्वय, आवश्यक कर्तव्य  
A necessary deed दे० ७, ३०

वप्य त्रि० (१) तनु, छग Thin, Slender  
(२) बलवान, बलिष्ठ Strong, Powerful  
(३) भूत-गृहीत, भूताविष्ट Possessed by  
a ghost दे० ७, ८१

वपिअ पु० (१) केदार, खेत A field,  
A farm पद्० (२) नपुंसक विशेष A kind  
of impotent person पु० १२६,  
(३) त्रि० रक्त, राग युक्त Passionately  
fond of पद्० -

वपिण त्रि० उपित, जिसने वास किया हो वह  
Resided दे० ७, ८१

वप्पीअ पु० चातक पक्षी The name of  
a bird दे० ७, ३३

वप्पीडिअ न० खेत, खेत A field, A farm  
दे० ७, ४८

वप्पीह पु० स्तूप, सिंहादि का चूट A  
memorial दे० ७, ४०

वप्ये छ० (१) उपहास युक्त उद्दहासन A sneer  
(२) विस्मय, आश्चर्य A wonder -सचि०  
४७

वफर न० शस्त्र विशेष A kind of weapon  
सुर० १३, १२६

वटभय न० कमलौदर, कमल का मध्य भाग  
The middle part of a lotus दे  
७, ३८

वमाल पु० कलकल, कोलाहल A noise,  
A bustle दे० ६, ६०, पात्र० स० ४३५,  
५२०, भवि०

वम्मीसर. पु० काम, कन्दर्प Cupid, The  
God of Love दे० ७, ४२

वम्ह न० वल्मीक An ant-hill दे०  
७, ३१

वम्हल न० केसर किञ्चक Saffron  
coloured दे० ७, ३३, हे० २, १७४

वय पु० गृध्र, गीघ पक्षी A vulture दे०  
७, ३६, पात्र०

वयग न० फल-विशेष A kind of fruit  
सि० ११६८

वयड पु० वादिका, बगीचा A garden दे०  
७, ३५

वयण न० (१) मन्दिर, गृह A house (२)  
शय्या, बिछोना A bed दे० ७, ८५

वयर त्रि० चूर्णित Powdered, Reduced  
to powder दे० ७, ३४

वयल त्रि० (१) विकसता, खिलता Bloom-  
ing दे० ७, ८३, (२) पु० कलकल, कोलाहल

A noise, A bustle दे० ७, ८३, पात्र०

वयली स्त्री० लता-विशेष, मिटाकरी लता A  
kind of creeper दे० ७, ३६, पात्र०

वरञ्च त्रि० घान्य-विशेष A kind of grain  
दे० ७, ४८

वरइत्त पु० यथिनन वर, दुलहा A young  
bride-groom दे० ७, ४५, पद्० भवि०

वरउष्क त्रि० मृत Killed, Dead दे०  
७, ४७

वरड पु० (१) दण-पुत्र, दण-सचय A pile

of glass चारु ३, (२) प्राकार, किला A  
foit, A castle दे० ७,८३, पङ्क (३)  
कपोत्तपाली, गाल पर लगाई जाती कस्तूरी आदि  
की छया Decoration of cheeks by  
besmearing musk दे० ७,८६, (४) समूह  
A collection, A multitude गा०  
६३०  
वरडिया स्त्री० छोटा वरडा, वरामदा, दालान  
A small verandah सुगा० २०३  
वरट्ट पु० धा व विशेष A kind of grain  
प्र० ११४  
वरडा-वरडी स्त्री० (१) तैलाटी, कीट विशेष,  
गधोली A kind of worm (२) दश अमर,  
जन्तु-विशेष A kind of insect मृच्छं०  
१८, दे० ७,८४  
वरत्त त्रि० (१) पीत Yellow (२) पतित  
Fallen (३) पेदित, महत Collected पङ्क  
वेरिल्ल न० वस्त्र-विशेष A kind of gar-  
ment कल्पू०  
वरिसोलक पु० पकाञ्च विशेष, एक प्रकार का  
प्राय A kind of sweet-meat प्र० ४ टी  
वरेडत्थ न० फल A fruit दे० ७,४७  
वलत्रगी स्त्री० वृत्ति वाली, वाड वाली Hav-  
ing a hedge दे० ७,४३  
वलगणिया स्त्री० वाडवाली Having a  
hedge दे० ७,४३  
वलक्किअ त्रि० उःसगित, उःसग-स्थित Stay-  
ed in a lap पङ्क १८३  
वलगगणयो स्त्री० वृत्ति, वाड A hedge, A  
fence दे० ७,४३  
वलत्थ त्रि० पर्यस्त Surrounded,  
Encompassed भवि०  
वलमय न० शीघ्र, जल्दी Speed, Haste  
'बन्ध वलमय तस्य' दे० ७,४८  
वल्य न० (१) क्षेत्र, खेत A field. (२)  
गृह, घर A house दे० ७,८५

वल्यणी स्त्री० वृत्ति, वाड A hedge, A  
fence दे० ७,४३  
वलया, स्त्री० वेला, समुद्र-कूल A sea-shore  
पिड० ६३२, ६३३  
वलवाडी स्त्री० वृत्ति, वाड A hedge, A  
fence दे० ७,४३  
वलत्रिअ न० शीघ्र, जल्दी Speed, Haste  
दे० ७,४८  
वलहि. स्त्री० कपास, रुई Raw cotton  
दे० ७,३२  
वलिअ त्रि० मुक्त, भक्षित Eaten दे०  
७,३५  
वलिआ स्त्री० ज्या, धनुष की डोरी A string of  
a bow दे० ७,३४  
वल्ल पु० शिशु, बालक A baby, An  
infant, A child दे० ७,३१  
वल्लइ स्त्री० गौ, गैया A cow दे० ७,३६  
वल्लट्ट त्रि० पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ  
Again said, Retold पङ्क  
वल्लर न० क्षेत्र, खेत A field दे० ७,८६  
वल्लरी स्त्री० केश, बाल Hair दे० ७,३२  
वल्लवाय न० क्षेत्र, खेत A field दे०  
६,२६  
वल्लविअ त्रि० लाक्षा से रंगा हुआ Painted  
by lac, Lacquered पङ्क  
वल्लादय न० आच्छादन, ढकने का वस्त्र A cover,  
A covering garment दे० ७,४५  
वल्लाय पु० (१) इयेन पची A kind of  
bird (२) नकुल, न्यौला A mongoose,  
A weasel. दे० ७,८४  
वल्ली स्त्री० केश, बाल Hair दे० ७,३२  
वत्रण स्त्री० न० कार्पास, तूला, रुई Raw-  
cotton पात्र०  
ववत्थम पु० बल, पराक्रम Strength,  
Valour, Prowess दे० ७,४६

|                                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| वचसिञ्च न० बलात्कार Force, Violence दे० ७,४०                                                              | meriment दे० ७,४६                                                                         |
| वचसिञ्च त्रि० मत्त, उन्मत्त Intoxicated दे० ७,४१                                                          | वहुरा स्त्री शिवा, सियार A jackal दे० ७,४०                                                |
| वचसाड पु० अर्थ, धन Wealth, Riches दे० ७,२६                                                                | वहुञ्जा स्त्री छोटी सास A younger mother-in-law दे० ७,४०                                  |
| वसमुद्ध पु० काक, कौआ A crow दे० ७,४६                                                                      | वहुडाडिणी स्त्री० एक स्त्री के रहते हुए न्याही जाती दूसरी स्त्री A co-wife दे० ७,४०, पङ्० |
| वसल त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे० ७,३३                                                                      | वहोल पु० छोटा जल-प्रवाह A streamlet दे० ७,३७                                              |
| वसेरी स्त्री० गवेषणा, जोश Reserich, Inquiry सुग० ४७३                                                      | वात्रड पु० शुक, तोता A parrot पङ्०                                                        |
| वसनीक न० एक प्रकार की क्रीडा A kind of meriment श्रावक० ६३ टी                                             | वाङ्गण न० बेंगन, वृत्तक, भटा A bindjaul, A kind of vegetable उप० २६७ टी, दे० ७,२६         |
| वह पु० (१) कंधे पर का बण A blow on a shoulder (२) बण, घाव A blow, A wound दे० ७,३१                        | वाड पु० इड्ड, ऊख Sugar-cane दे० ७,४२                                                      |
| वहइय त्रि० पर्याप्त Enough पङ्० १७७                                                                       | वाउत्त पु० (१) दुर्जन, उग A rogue, A wicked man (२) जार, उपपत्ति A paragon दे० ७,८८       |
| वहड पु० दुग्धीय बड़डा A calf worth restricting. दे० ७,३७                                                  | वाउत्तइया स्त्री० सुनपर, तिर्यक की एक जाति A kind of serpent पङ्६ १,१                     |
| वहडोल पु० वायस, वात समूह A storm, A hurricane दे० ७,६२                                                    | वाउलगा न० सेवा, भक्ति Worship, Devotion 'निश्च चिन् वाउलगा कुणति' राज०                    |
| वहिया स्त्री० वहो, हिसाब लिखने की किताब A ledger, An account book लग्नमत्त० १४२, सुपा० ३८२, ३८६, ३८७, ३६१ | वाउलिञ्चा स्त्री० छोटी खाई A small ditch गा० ६२६                                          |
| वहिलग पु० अँट बल आदि पशु An animal राज०                                                                   | वाउल्लज त्रि० वाचाल, प्रताप-शील, बकवादी Talkative, Loquacious दे० ७,१६, पाश० पङ्०         |
| वहिल्ल त्रि० शीघ्रता-युक्त Speedy, Hasty हे० ६,४२२, कुमा० वजा० १२८                                        | वाउल्लथ पु० न० पुतला A statue गा० २१७, वजा० १४                                            |
| वहु पु० स्त्री० विविडा, गंध-द्रव्य विशेष A fragrant substance दे० ७,३२                                    | वागली टी० बल्नी विशेष A kind of orcepel पा० १                                             |
| वहुधारिणी स्त्री० नवोठा, दुलहिन A newly married woman दे० ७,२०                                            | वाडतरा स्त्री० कुटीर, कौंपका A hut, A cottage. दे० ७,२८                                   |
| वहुएणी स्त्री० ज्येष्ठ-भार्या, पति के बड़े भाई की बहू 'The wife of the husband's elder brother. दे० ७,६१  |                                                                                           |
| वहुमान पु० बरबधू क्रीडा-विशेष A kind of                                                                   |                                                                                           |



वाडिम पु० गण्डक, गेंडा. A rhinoceros  
दे० ७,१७

वाडिल्ल पु० कृमि, कीट A worm, An  
insect दे० ७,५६.

वाडी स्त्री० वृत्ति, बाड A hedge, A  
fence 'कारिया कटएहि वाडी' कुप्र० २६, दे०  
७,४३, १८, पङ्०

वाडि-वाडिअ पु० वणिक्-सहाय, वैश्य मित्र  
A Bania-friend दे० ७,१३

वाणय पु० बलयकार, ककण बनाने वाला शिल्पी  
A bracelet maker, A goldsmith  
दे० ७,५४.

वाणवाल पु० इन्द्र, पुरन्दर The god  
Indra दे० ७,६०

वाणीर पु० जम्बू वृक्ष, जामू का पेड़ A rose-  
apple tree दे० ७,१६

वाणुजुअ पु० वणिक्, वैश्य A Bania  
'नवल्लो दीसइ वाणुजुअ' उप० ७२८ टी

वाम त्रि० (१) मृत Dead, Deceased  
दे० ७,४७, (२) आक्रान्त Overpowered,  
Overcome पङ्०

वामणिअ त्रि० नष्ट वस्तु को फिर से ग्रहण  
करने वाला One who finds again a  
thing lost दे० ७,५६

वामणिआ स्त्री० दीर्घ काष्ठ की बाड A big  
hedge of wood दे० ७,१८.

वामरि पु० सिंह, मृगेन्द्र A lion दे०  
७,१४

वामी स्त्री० स्त्री, महिला A woman, A  
lady दे० ७,१३

वाय पु० (१) वनस्पति विशेष A kind of  
vegetable सूय० २,३,१६, (२) न० गन्ध  
Smell दे० ७,१३

वायउत्त पु० (१) विट, भट्टुआ A pump,  
A procuer (२) जार, उपपति A para-  
mour दे० ७,८८

वायगण न० बैंगन, वृन्तारु, भटा. A binjaul  
श्रा० २०, सगोघ० ४४, प्रव० ४

वायडघड पु० वाद्य-विशेष, ददुर-नामक वाजा  
A kind of musical instrument दे०  
७,६१

वायडाग पु० सर्प की एक जाति. A kind  
of serpent पत्र० १

वायाड पु० शुक, तोता A parrot दे०  
७,१६

वायण न० भोज्योपायन, प्राय पदार्थ का बॉटा  
जाता उपहार A gift of eatables दे०  
७,१७, पात्र०

वायार पु० शिशिर वात The winter  
wind दे० ७,१६

वार पु० चपक, पान पात्र A wine glass  
दे० ७,१४

वारडु त्रि० अभिपीडित Pressed, Squeez-  
ed पङ्०

वारसिआ स्त्री० मखिलका, पुष्प-विशेष A  
kind of flower दे० ७,६०

वारिअ पु० हजाम, नापित A barber दे०  
७,४७

वारुअ न० (१) शीघ्र, जल्दी. Speed,  
Haste (२) त्रि० शीघ्रता-युक्त Hasty,  
Speedy दे० ७,४८

वारुया-वारुया स्त्री० हस्तिनी, हथनी A she-  
elephant स० ७३५, ६४

वालफोस न० कनक, सोना Gold दे०  
७,६०

वालप्य न० पुच्छ, लुम, पूछ. A tail दे० ७,१७

वालवास पु० मस्तक का आभूषण An orna-  
ment for the fore-head दे० ७,१६.

वालिआफोस न० कनक, सुवर्ण Gold दे०  
७,६०

वाली स्त्री० वाद्य विशेष, मुँह के पवन से बजाया  
जाता दृष्य-वाद्य A kind of musical ins-

|                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| brument दे० ७,२३                                                                                                                   | वाहलार त्रि० (१) स्नेही, अनुरागी Affectionate, Loving (२) सगा A relative धर्मवि० १२८. |
| वावड पु० किसान An agriculturist, A cultivator दे० ७,२४                                                                             | वाहलिया-वाहली स्त्री० शुद्ध नदी, छोटा जल-प्रवाह A small river, A streamlet            |
| वावडय स्त्री० न० विपरीत मैथुन An undesired sexual inter-course. दे० ७,२८                                                           | वजा० २२, २४, दे० ७,३६                                                                 |
| वावणी स्त्री० छिद्र, चिबर A hole, A fissure दे० ७,२५                                                                               | वाहा स्त्री० बालुआ, रेत Sand दे० ७,१४.                                                |
| वावय. पु० श्रायुक्त, गाँव का मुखिया The leader of a village, A chief दे० ७,२६                                                      | वाहाया स्त्री० वृक्ष-विशेष A kind of tree 'वाहायासगलिया' श्रायुक्त० ४                 |
| वावल्ल पु० न० शस्त्र विशेष A kind of weapon सय०                                                                                    | वाहुडिअ त्रि० गत, चलिता Gone 'तो वाहुडिउ जवेण' कुप्र० ४५८                             |
| वाविअ त्रि० विस्तारित Spread दे० ७,२७                                                                                              | वािअओलिअ त्रि० मलिन Duty दे० ७,७२                                                     |
| वावोवणय न० विकीर्ण, बिखरा हुआ Scattered दे० ७, २६                                                                                  | वािअगिअ त्रि० निन्दित Censured दे० ७,६६                                               |
| वासदी स्त्री० कुन्द का पुष्प A flower of jasmine दे० ७,२६                                                                          | वािअंदूत त्रि० (१) अवरोपित Dismissed (२) मुक्त Released पद० १७७                       |
| वासण न० पात्र, बर्तन A vessel 'चदण नामकिय हिरयणवासण' स० ६१, ६२                                                                     | वािअसय पु० व्याध, बहेलिया A hunter दे० ७,७०                                           |
| वासवार पु० (१) तुरग, घोड़ा A horse दे० ७,२६, (२) श्वान, कुत्ता A dog 'क्या-इकि वासवारहि' चे०य० १३४                                 | वािअलेवल त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे० ७,३३                                             |
| वासवाल पु० श्वान, कुत्ता A dog दे० ७,६०                                                                                            | वािअरिअ स्त्री० पूर्वाह्न का भोजन A dinner दे० ७,७१                                   |
| वासाणी स्त्री० रथ्या, गली A street, A lane दे० ७,२६                                                                                | वािअल पु० चोर, तस्का A thief दे० ७,६१                                                 |
| वासुली स्त्री० कुन्द का फूल A flower of jasmine दे० ७,२६                                                                           | वािअलिउ न० ब्यालू, सायकाल का भोजन A supper भवि०                                       |
| वाहगण-वाहगणय पु० मन्त्री, अमात्य, प्रधान A minister दे० ७,६१                                                                       | वािअालुअ त्रि० असहन, असहिष्णु Intolerable, Unable to endure दे० ७,६८                  |
| वाहड त्रि० भूत, भरा हुआ Full, Filled दस० ७,३६                                                                                      | वािउचिअ स्त्री० रोग विशेष, पामा रोग का एक भेद A kind of disease सिरि० ११०             |
| वाहडिया स्त्री० कावर, चहरी A bamboo lath provided with slings at each end for carrying pitchers etc. on one's shoulder उप० पृ० ३३० | वािउनाड त्रि० (१) निस्तीर्ण Spread (२) दुःख रहित Painless दे० १,१२६                   |
| वाहया स्त्री० शीवा, ढोक, गला A neck दे० ७,२४                                                                                       | वािउरिअ त्रि० नष्ट, नाश-ग्रस्त Ruined दे० ७,७०                                        |
|                                                                                                                                    | वािउरुअ अ० चुन कर An adverb denoting 'having selected' पत्र० १                        |

विद्योल त्रि० आविग्न, उद्वेग-युक्त Solly ,  
Sorrowful दे० ७, ६३  
विख न० वाद्य-विशेष A kind of musical  
instrument राज०  
त्रिचिण्णिअ त्रि० (१) पाटित, विदारित Torn,  
Cut (२) धारा An edge दे० ७, ६३  
विंदल न० वशीकरण विद्या A fascinating  
science सिरि० २०  
विटलिआ स्त्री० गडरी, पोटली A bundle,  
A small package 'तीट् विटलियाट्' सुपा०  
२६१  
विटिया स्त्री० मुद्रिका, अगुलीयक A ring  
सुपा० ६११  
विंदुरिल्ल त्रि० (१) उज्ज्वल, देदीप्यमान  
Bright (२) मज्जल घोष वाला, कल-कठ One  
having sweet throat (३) विद्राण,  
ग्लान Pale (४) विस्तृत Spread कर्प०  
विक्रमण पुं० चतुर चाल वाला घोडा A horse  
active in walking दे० ७, ६७  
विक्रिअ त्रि० संस्कृत, सुधारा हुआ Improved  
दस० ७, ४३  
विक्रेणुअ त्रि० विक्रय, बेचने योग्य Saleable  
दे० ७, ६६.  
विक्रम पु० (१) स्थान, जगह A place  
दे० ७, ८८, (२) अंतराल, बीच का भाग An  
interval, The middle part दे० ७, ८८,  
से० २, ५७, (३) विवर, छिद्र A hole, A  
fissure से० ३, १४  
विक्रण न० कार्य, काम, काज An action,  
A work दे० ७, ६४  
विक्रसास त्रि० विरूप, खराब, कुत्सित Bad,  
Awkward दे० ७, ६३  
विक्रिखण त्रि० (१) आयत, लम्बा Long  
(२) अवतीर्थ Come down, Incarnated  
(३) न० जघन Buttocks दे० ७, ८८  
विग्गुत्त त्रि० व्याकुल किया हुआ Confused,

Confounded भवि०  
विग्गाव पु० आकुलता, व्याकुलता Confu-  
sion दे० ७, ६४, भवि० वज्जा० ३२  
विचिक्की स्त्री० वाद्य विशेष A kind of musi-  
cal instrument राय० २६  
विच्च न० (१) बीच, मध्य The middle,  
Centie पुष्क० ४२७, निसी० १६, (२) मार्ग,  
रस्ता A way, A road हे० २, ४२१,  
कुमा० भवि० (३) पु० न० व्यूत, बुनने की  
क्रिया An action of weaving राय० ६२  
विच्चोअय न० उपधान, ग्रीवीसा A pillow  
दे० ७, ६८  
विच्चड्ड पु० (१) निवह, समूह A collec-  
tion, A multitude दे० ७, ३२, गड्ड०  
से० २, २, ६, ७२, गा० ३८७, (२) डाढवाट,  
सजधन, धूमधाम A pomp, A show  
सुर० १, १६६, कुम० २१, सम्मत० १६३,  
धर्मवि० ८२.  
विचिच्च त्रि० (१) पाटित, विदारित Torn  
(२) विचित, चुना हुआ Spontaneously  
fallen (३) विरल Rare, Scarce  
दे० ७, ६१.  
विचिच्चुरिअ त्रि० अपूर्व, अद्भुत Extra-  
ordinary, Wonderful पद्०  
विचिच्चूठ त्रि० वियुक्त, विरहित, विवटित  
Separated स० ६७८  
विचिच्चैअ पु० (१) विलास Merriment,  
Pleasure (२) जघन Buttocks दे०  
७, ६०  
विचिच्चोइय त्रि० विरहित Separated,  
Divided भवि०  
विचिच्चोय पु० विरह, वियोग Separation  
भवि०  
विचिच्चोह पु० विरह, वियोग Separation  
दे० ७, ६२, हे० ४, २३६  
विजाय न० लक्ष्य, निशाना Aim 'लक्ख  
विजाय' पात्र०

timent दे० ७,५३  
 वाचड पु० किसान An agriculturist,  
 A cultivator दे० ७,५४  
 वाचडय स्त्री० न० विपरीत मैथुन An unde-  
 sired sexual inter-course दे० ७,५८  
 वाचणी स्त्री० छिद्र, विवर A hole, A fis-  
 sure दे० ७,५५  
 वाचय पु० आयुक्त, गाँव का मुखिया The  
 leader of a village, A chief दे० ७,५६  
 वाचरल पु० न० शस्त्र विशेष A kind of  
 weapon सख०  
 वाचित्र त्रि० विस्तारित Spread दे० ७,५७  
 वाचवणय न० विकीर्ण, बिखरा हुआ Scat-  
 tered दे० ७, ५६  
 वासवी स्त्री० कुन्द का पुष्प A flower of  
 jasmine दे० ७,५५  
 वासण न० पात्र, बर्तन A vessel 'चदण  
 नामकिय द्विरण्यवासण' स० ६१, ६२  
 वासचार पुं० (१) दुरग, घोडा A horse  
 दे० ७,५६, (२) इवान, कुत्ता A dog 'क्या-  
 इकि वासवारोहि' चे० ५० १२४  
 वासवाल पु० शयान, कुत्ता A dog दे० ७,६०  
 वासाणी स्त्री० रथ्या, गली A street, A  
 lane दे० ७,५५  
 वासुली स्त्री० कुन्द का फूल A flower of  
 jasmine दे० ७,५५  
 वाहगण-वाहगणय पु० मन्त्री, अमात्य, प्रधान  
 A minister दे० ७,६१  
 वाहड त्रि० भून, भरा हुआ Full, Filled  
 दस० ७,३६  
 वाहडिया स्त्री० कावर, बहरी A bamboo  
 lath provided with slings at each  
 end for carrying ptochers etc. on  
 one's shoulder उप० पृ० ३३७  
 वाहणा स्त्री० ग्रीवा, ढोक, गला A neck  
 दे० ७,५४

वाहलार त्रि० (१) स्नेही, अनुरागी Affec-  
 tionate, Loving (२) सगा A  
 relative धर्मवि० १२८.  
 वाहलिया-वाहली स्त्री० शुद्ध नदी, छोटा जल-  
 प्रवाह A small river, A streamlet  
 वजा० २२, ५४, दे० ७,३६  
 वाहा स्त्री० वाहूका, रेत Sand दे० ७,५४  
 वाहाया स्त्री० वृक्ष-विशेष A kind of  
 tree 'वाहायासगलिया' अणुत्त० २  
 वाहुडिअ त्रि० गत, चलित Gone 'तो  
 वाहुडिड जवेण' कुप० ४५८  
 विअओलिअ त्रि० मलिन Dirty दे०  
 ७,७२  
 विअगिअ त्रि० निन्दित Censured दे०  
 ७,६६  
 विअदूत त्रि० (१) अवरोधित Dismissed  
 (२) मुक्त Released पद्य० १७७  
 विअसय पुं० व्याध, बहेलिया A hunter  
 दे० ७,७०  
 विअलीवल त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे०  
 ७,३३  
 विअरिअ स्त्री० पूर्वाह्न का भोजन A din-  
 ner दे० ७,७१  
 विअल पु० चोर, तस्कर A thief दे० ७,६१  
 विअलिउ न० ब्यालू, सायकाल का भोजन A  
 suppet मवि०  
 विअलुअ त्रि० असहन, असहिष्णु Intoler-  
 able, Unable to endure दे० ७,६६  
 विउविअ स्त्री० रोग विशेष, पामा रोग का एक  
 भेद A kind of disease सिरि० ११७  
 विउत्राड त्रि० (१) विस्तीर्ण Spread (२)  
 दुःख रहित Painless दे० १,१२६  
 विऊरिअ त्रि० नष्ट, नाश-ग्रस्त Ruined दे०  
 ७,७२  
 विपुत्रण अ० चुन कर An adverb denot-  
 ing 'having selected' पद्य० १

विञ्चोल त्रि० आविग्न, उद्देग-युक्त Solly ,  
Sorrowful दे० ७, ६३  
विख न० वाद्य-विशेष A kind of musical  
instrument राज०  
त्रिचिण्णिञ्च त्रि० (१) पाटित, विदारित Toim,  
Cut (२) धारा An edge दे० ७, ६३  
विटल न० वशीकरण विद्या A fascinating  
science सिरि० २७  
विटलिञ्चा स्त्री० गडरी, पोडली A bundle ,  
A small package 'तीप विटलियाप' सुपा०  
२६१  
विटिया स्त्री० मुद्रिका, अगुलीयक A ring  
सुपा० ६११  
विंदुरिल्ल त्रि० (१) उज्ज्वल, देदीप्यमान  
Bright (२) मज्जल घोष वाला, कल-कठ One  
having sweet throat (३) विद्राण,  
म्लान Pale (४) विस्तृत Spread कपू०  
विक्रमण पुं० चतुर चाल वाला घोडा A horse  
active in walking दे० ७, ६७  
विक्रिञ्च त्रि० सस्कृत, सुधारा हुआ Improved  
दस० ७, ४३  
विक्रेणुञ्च त्रि० विक्रीय, बेचने योग्य Saleable  
दे० ७, ६६.  
विक्रम पु० (१) स्थान, जगह A place  
दे० ७, ८८, (२) अंतराल, बीच का भाग An  
interval, The middle part दे० ७, ८८,  
से० २, २७, (३) त्रिवर, छिद्र A hole , A  
fissure से० ३, १४  
विक्रमण न० कार्य, काम, काज An action ,  
A work दे० ७, ६४  
विक्रस्वास त्रि० विरूप, खराब, कुत्सित Bad ,  
Awkward दे० ७, ६३  
विक्रिखण त्रि० (१) आयत, लम्बा Long  
(२) अवतीर्ण Come down, Incarnated  
(३) न० जघन Buttocks दे० ७, ८८  
विगुञ्च त्रि० व्याकुल किया हुआ Confused ,

Confounded भवि०  
विगोच पु० आकुलता, व्याकुलता Confu-  
sion दे० ७, ६४, भवि० वज्रा० ३२  
विचिकी स्त्री० वाद्य विशेष A kind of musi-  
cal instrument राय० ४६  
विच्च न० (१) बीच, मध्य The middle ,  
Centre पुष्प० ४२७, निसी० १६, (२) मार्ग,  
रस्ता A way , A road हे० ४, ४२१,  
कुमा० भवि० (३) पु० न० व्यूत, बुनने की  
क्रिया An action of weaving राय० ६२  
विञ्चोञ्चय न० उपधान, ओसीसा A pillow  
दे० ७, ६८  
विच्छड्ड पु० (१) निवह, समूह A collec-  
tion , A multitude दे० ७, ३२, गडड०  
से० २, २, ६, ७२, गा० ३८७, (२) ठाठवाट,  
सजधान, धूमधाम A pomp , A show  
सुर० १, १६६, कुप्र० २१, सगमत्त० १६३,  
धर्मवि० ८२,  
विच्छिञ्च त्रि० (१) पाटित, विदारित Toim  
(२) विचित, चुना हुआ Spontaneously  
fallen. (३) विरल Rare, Scarce  
दे० ७, ६१  
विच्छुरिञ्च त्रि० अपूर्व, अद्भुत Extra-  
ordinary , Wonderful पद्०  
विच्छूड त्रि० वियुक्त, विरहित, विघटित  
Separated स० ६७८  
विच्छेञ्च पु० (१) विलास Merriment ,  
Pleasure (२) जघन Buttocks दे०  
७, ६०  
विच्छोड्य त्रि० विरहित Separated ,  
Divided भवि०  
विच्छोय पु० विरह, वियोग Separation  
भवि०  
विच्छोह पु० विरह, वियोग Separation  
दे० ७, ६२, हे० ४, ३६६  
विज्ञाय न० लक्ष्य, निशाना Aim 'लक्ष्य  
विज्ञाय' पात्र०

विडज पु० व० देश विशेष The name of a country पठम० २८, १५

विडजे शब्० (१) मार्ग से, रास्ता से From the way (२) लिए For मवि०

विडक न० धीक, धका, ठेला A push 'तो हस्थी तमिम पडे विडक दावण' धर्मवि० ८१, स० ११३

विडिभडिय पु० मस्य की एक जाति A kind of fish पठ० १

विडाल पु० अशुश्य-ससर्ग, उच्छिष्टता, अपवित्रता Impurity कुप्र० २४३, हे० ४, ४२२

विडालण न० देवो 'विडाल' शब्द Vide 'विडाल' स० ७०१

विडालि त्रि० विगाडने वाला, अपवित्र करने वाला One who pollutes, A polluter. कण्ठ०

विडालिञ्च त्रि० उच्छिष्ट किया हुआ, अपवित्र किया हुआ, विगाडा हुआ Polluted, Spoiled धर्मवि० ४२, सिरि० ७१६, सुपा० ११२, ३६०, महा०

विड्रीं स्त्री० गडरी, पोडली A bundle, A package श्रौ० ३२४

विड् त्रि० सुप्तोत्थित, सोकर उठा हुआ Awoke पठ०

विडित त्रि० अजित Procured Amassed. पठ०

विडिकिञ्च स्त्री० वेदिका, वेदी, चोतरा A raised seat, An elevated spot, A terrace दे० ७, ३०

विडिप-विडय पु० राहु A planet दे० ७, ६५, पाश० गडड० वज्रा० ६८

विडिचिञ्च-विडिचिर त्रि० विकराल, भीषण, भयकर Fierce, Dreadful दे० ७, ६६

विडिम पु० बाल मृग A young deer दे० ७, ८६

विडिच्छञ्च त्रि० निषिद्ध, प्रतिषिद्ध Prohibited पठ०

विडुविल्ल त्रि० भीषण, भयकर Fierce Frightful नाट० मालती० १३०

विडोमिञ्च पु० गण्डक मृग, गेंडा Rhinoceros दे० ७, ५०

विड्ड त्रि० (१) दीर्घ, लम्बा Long (२) अपन्व Deceit, Fraud दे० १, ४

विड्डिर न० (१) आसोग Circumference, Extension दे० ७, ६०, (२) आटोप, आडम्बर Pompous show पाञ्च० (३) त्रि० रौद्र, भयकर Dreadful, Fierce दे० ७, ६०

विड्डिरिल्ला स्त्री० रात्रि, निशा Night दे० ७, ६७

विड्डुरी, स्त्री० आटोप, आडम्बर Pompous show उव०

विड्डेर न० नक्षत्र-विशेष The name of a constellation विशेष० ३४०६

विड्डणा स्त्री० पाण्डि, फौली का नीचला भाग A heel दे० ७, ६२

विड्डिञ्चर न० पश्चात्ताप Repentance, Penitence दे० ७, ६८

विडत न० कार्य, काम, काज A work, A deed दे० ७, ६४

विडत त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे० ७, ३३

विडतइ त्रि० (१) गर्वित, अभिमानी Proud (२) पु० विलसित, विलास Enjoyment, Pleasure (३) अहकार, गर्व Pride दे० ७, ६१

विडथिर न० विस्तार, फैलाव Extension, Expansion पठ०

विडडिञ्च त्रि० नाशित, नष्ट किया हुआ Ruined दे० ७, ७०

विड्डूणा स्त्री० लज्जा, शरम Shame, Bashfulness दे० ७, ६२

विडित त्रि० विकसित, खिला हुआ Bloomed दे० ७, ६१

विडप न० पुच्छ, डुम, पूँछ A tail दे० ७, १७

विषय न० (१) खल-भित्ता Alms of a  
logue (२) दान Alms (३) त्रि० वापित,  
बाया हुआ Sown (४) पु० वैद्य १ phys-  
ician, १ doctor दे० ७, ८६  
विषमलय पु० न० विविधता, विचित्रता Va-  
riety, Diversity धर्मवि० १२७  
विषमर न० भस्मातक, भिलावा A kind  
of tree दे० ७, ६६  
विष्पावग त्रि० हास्य-कर्ता, उपहास करनेवाला  
One who laughs at others, A  
derider सुख० १, १३  
विष्पिडिअ त्रि० नाशित, नष्ट किया हुआ  
Ruined दे० ७, ७०  
विष्पाडिअ त्रि० नष्ट किया हुआ Ruined  
दे० ७, ७०  
विष्फाल पु० पृच्छा, प्रश्न A question  
वच० १ टी  
विष्फालणा स्त्री० पृच्छा, प्रश्न A question  
वच० १ टी,  
विन्भवण न० उपधान, ओसीसा A pillow  
दे० ७, ६८  
विन्भाडिय त्रि० नाशित, Ruined भवि०  
विन्भेइअ त्रि० सूई से विद्ध Pierced by a  
needle दे० ७, ६७  
विभग्गु पु० स्त्री० वृण-विशेष A kind of  
grass पञ्च० १  
विभवण न० उपधान, ओसीसा A pillow  
दे० ७, ६८ टी  
विमय पु० पर्व-वनस्पति-विशेष A kind of  
vegetable पञ्च० १  
विमलहर पुं० कलकल, कोलाहल A noise,  
A bustle दे० ७, ७२  
विमलिअ त्रि० (१) मत्सर से उक्त Said  
with pride, Haughtily said (२)  
शब्द सहित, शब्द वाला, Wordy, Verbose  
दे० ७, ७२

विम्हराइअ त्रि० (१) मूर्छित, मूर्छा प्राप्त  
Fainted, Swooned (२) विस्मापित  
Astonished, Wondered से० ६, ४१.  
विरय पु० झोटा जल प्रवाह, छोटी नदी A  
rivulet, A streamlet दे० ४, ३६, पात्र०  
विरलि स्त्री० वस्त्र-विशेष, डोरी वाला कपडा  
A kind of garment प्रच० ८४ टी  
विरल्लिअ त्रि० जलाद्र, भीजा हुआ Wet,  
Moist दे० ७, ७१  
विरस न० वर्ष, साल, बा-ह मास A year.  
दे० ७, ६२  
विरसमुह पु० काक, कोया A crow दे०  
७, ४६.  
विरह पु० न० कुसुम रंग से रंगा हुआ कपडा  
A red-dyed garment दे० ७, ६१  
विरिचिअ त्रि० (१) विमल, निर्मल Neat,  
Clean (२) विरक्त, उदासीन Disaffected  
Free from passion or worldly  
attachment, A recluse दे० ७, ६३  
विरिचिर पु० (१) अश्व, घोडा A horse  
(२) त्रि० विरल Rare, Scarce दे० ७, ६३  
विरिचिरा स्त्री० धारा, प्रवाह A flow, A  
current दे० ७, ६३.  
विरिक्क त्रि० पाटित, विदारित Cut, Torn.  
दे० ७, ६४  
विरिका स्त्री० बिन्दु, लव, लेश A drop  
सुख० २, २७  
विरिज्जय त्रि० अनुचर, अनुगत A fol-  
lower दे० ७, ६६  
विलङ्घ्य त्रि० (१) अधिष्ठ्य, धनुष की डोरी पर  
चढाया हुआ Having the bow-string  
stretched, Put on the string (२)  
दीन, गरीब Poor, Helpless दे० ७, ६२,  
(३) ऊपर चढाया हुआ, आरोपित Placed  
upon, Put on धण० २६, से० ३, ५

विलआली स्त्री० (१) विरग्न वचन A dis-  
cordant word (२) विलोकना, तलाशी  
Observation Inspection पद्यहं १३  
विलमा स्त्री० ज्या, धनुष की डोरी The  
string of a bow दे० ७,३२  
विलय पु० सूर्य का यस्त होना Setting  
of the sun दे० ७,६३, पाय०  
विलिञ्च न० लज्जा, शरम Shame, Bash-  
fulness दे० ७,६५, सय०  
विलिजरा स्त्री० धाना, भुने हुए जौ Parched  
grain of jowari, Parched barley-  
grains दे० ७,६६  
विलिन्विली स्त्री० कोमल और निर्वल शरीर  
वाली स्त्री A woman of delicate and  
slender constitution दे० ७,७०  
विलुपय पु० कीट, कीड़ा A worm दे० ७,  
६७  
विलुपिञ्च त्रि० अशित, कवचित, चाया हुआ  
Eaten 'विलु पिञ्च कफिञ्च लक्ष्य' पाय०  
विलुक्क त्रि० छिपा हुआ Concealed,  
Hidden भवि०  
विलुत्तहिञ्च त्रि० जो समय पर काम करना  
न जानता हो वह Irregular, Not  
punctual दे० ७,७३  
विल्ल त्रि० (१) अच्छ, स्वच्छ Clean,  
Neat (२) विलसित, विलास-युक्त Sen-  
sual, Amorous दे० ७,८८, (३) पु० न०  
सुगंधी द्रव्य विशेष, जो धूप के काम में आता  
है A kind of fragrant substance स०  
४३६  
विल्लरी स्त्री० केश, बाल Hair दे० ७,३२  
विल्ह त्रि० धवल, सफेद White दे० ६,६१  
विवय त्रि० विस्तीर्ण Spread पद्०  
विवाविड न० अतिशय गौरव Great dig-  
nity सच्चि० ४७  
विचोल पु० विशेष कोलाहल, कलकल यावाज

A great noise, A bustle स० १७१  
विचोलिञ्च त्रि० व्यतिक्रान्त, गुनरा हुआ  
Gone, Passed 'कहकहवि विचोलिञ्च  
मेरायणी' स० १०६  
विचवाय त्रि० (१) अवलोकित Viewed  
(२) विधान्त Fatigued Tired. दे०  
६,८६  
विसवाय त्रि० मलिन, मेला. Dirty. दे०  
७,७२  
विसट्ट त्रि० (१) विगटित, विच्छिष्ट Dis-  
joined, Separated, Disunited  
पात्र० गडड० १००६, (२) दलित विशीर्ण,  
खण्डित Broken से० ३०, गडड० १८६,  
भवि० (३) उथित Raised गडड० ७  
विसड त्रि० (१) निराग, राग रहित Free  
from passions (२) निरोग, रोग रहित,  
Free from disease दे० ७,६२, (३)  
विपोड, सहन क्रिया हुआ Endured उव०  
(४) विशीर्ण, टुकड़े टुकड़े क्रिया हुआ Broken  
into pieces दे० ६,६६, (५) आकुल, व्याकुल  
Confused से० ११,८६  
विसमय न० भस्मातक, भिलावाँ A kind  
of tree दे० ७,६६  
विसमिञ्च त्रि० (१) विमल, निर्मल Neat,  
Pure (२) उथित, उठा हुआ Raised  
दे० ७,६२  
विसर पु० सैन्य, सेना, लश्कर A force,  
An army दे० ७,६२  
विसरय पु० न० वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument महा०  
विसरिया स्त्री० सरद, कृकलास, गिरगिट A  
chameleon, An animal of the lizard  
species स०  
विसार पु० सैन्य, सेना A force, An  
army पद्०  
विसारय त्रि० घृष्ट, दौढ, साहसी Obstinate,  
Stubborn दे० ७,६६



विसारि पु० कमलासन, ब्रह्मा The  
Creator of the Universe, Brahma  
दे० ७, ६२  
विसालय पु० जलधि, समुद्र A sea दे०  
७, ७१.  
विसि स्त्री० करि-शारी, गज-पर्याण An ele-  
phant's housings दे० ७, ६१  
विसिण त्रि० रोमश, प्रचुर रोम वाला.  
Many, Having abundant hair  
दे० ७, ६४  
विसोपग विसोवग पु० न० कौडी का बीसमा  
हिस्सा One-twentieth of a score  
धर्मवि० १७, पचा० ११, २२  
विहई स्त्री० घृन्ताकी, बैंगनका गाछ A  
plant that produces binjauls, A  
binjaul plant दे० ७, ६३  
विहडण पु० अनर्थ A calamity, A mis-  
fortune पङ्०  
विहडण्ड (१) त्रि० व्याकुल, व्यग्र Confused  
हे० २, १७४, (२) स्वरित, शीघ्र Speedy,  
Hasty भवि०  
विहणु त्रि० सपूर्ण, सकल All, Whole  
सण०  
विहणण. न० पिजन, पीजना To card दे०  
७, ६३  
विहय त्रि० पिजित, धुना हुआ Carded  
दे० ७, ६४  
विहरिअ न० सुरत, समोग Sexual-  
intercourse, Coition दे० ७, ७०  
विहसिन्विअ त्रि० विकसित, खिला हुआ  
Bloomed दे० ७, ६१  
विहाडण न० अनर्थ A calamity दे०  
७, ७१  
विहाण पु० (१) विधि, विधाता, दैव, भाग्य  
Luck, Destiny भवि० दे० ७, १०, स०  
१३०, (२) प्रभात, सुबह Dawn, Day-

break दे० ७, १०, से० ३, ३१, भवि० हे०  
४, ३३०, ३६२, मिरि० १२१, (३) पूजन, अर्चन  
Worship स० २६६  
विहिम न० जगल, अरण्य A jungle उप०  
८४२ टी०  
विहिमिहिय त्रि० विकसित, प्रफुल्ल Bloom-  
ed पङ्०  
विहडुअ पु० राहु, ग्रह विशेष A planet  
called Rahu दे० ७, ६२  
वीअ त्रि० (१) विधुर, व्याकुल Confused  
(२) ता-कालिक, उसी समय का Of that  
time दे० ७, ६३  
वीचि स्त्री० लघु रथ्या, छोटी गली A small  
street दे० ७, ७३  
वीणय न० (१) प्रकट करना To open,  
To publish, उप० पृ० ११८, (२) विदित  
करना, ज्ञापन To represent, To bring  
to notice उप० ७६५  
वीलय त्रि० पिच्छिल, स्निग्ध, मसृण Oily,  
Unctuous दे० ७, ७३  
वीली स्त्री० (१) तरंग, कल्लोल Billows,  
Waves दे० ७, ७३, (२) वीथी, पक्ति, श्रेणी  
A line, A row पङ्०  
वीवी स्त्री० वीचि, तरंग Billows, Waves  
पङ्०  
वीसु न० पृथक्, जुदा Separation. दे०  
७, ७३  
वीसुभण न० पृथक्भाव, अलग होना To be  
separated अ० १, २ टी  
वुअ त्रि० (१) बुना हुआ Woven (२)  
बुनवाया हुआ Got woven प्र० १२४  
वुकारिय न० गर्जना A roar स० १४८  
वुजण न० स्थान, आच्छादन, ढकना A hd.,  
A cover धर्मस० १०२१ टी, ११०२  
वुडु त्रि० विनष्ट Ruined राज०  
वुणय न० बुनना To weave सम्मत० १७३

वुणिय त्रि० बुना हुआ Woven कु० २२६  
वुणण त्रि० (१) भौत, डरत Feared दे०  
७,६४, विवा० १,२, (२) उद्विग्न Afflicted  
दे० ७,६४

वुफ न० शेखर, शिरो-भूषण A crest, A  
ohaplet दे० ७,७४

वुह्लाह पु० अरब की उत्तम जाति A kind of  
noble horse सम्मत्त० २१६

वृणुफ पु० न० बालक, बच्चा A baby, An  
infant राज०

वृय त्रि० बुना हुआ Woven सुपा० ६४३  
वेअडिअ त्रि० प्रयुप्त, फिर से बोया हुआ  
Sowed again दे० ७,७७

वेअडू न० भदलातक, भिलावों A kind of  
tree दे० ७,६६

वेअल्ल त्रि० (१) मृदु, कोमल Delicate,  
Tender दे० ७,७५, (२) न० असामर्थ्य  
Weakness दे० ७,७५, पात्र०

वेअरणिअ त्रि० प्रतारण सम्बन्धी, डगने से  
उत्पन्न Produced by deceit अ० २,१

वेअरिअ पु० केश, बाल Hair दे० ७,६५

वेअल त्रि० (१) अन्धा Blind (२) पु०  
अधरार Darkness दे० ७,६५

वेइअ स्त्री० पनीहारी, पानी ढोने वाली स्त्री A  
woman who fetches water दे० ७,७६

वेइअ त्रि० (१) ऊंचा किया हुआ Lifted (२)  
विसम्बुल, बदसूरत Ugly, Awkward  
(३) आविद्ध Pierced, Bored (४)

शिथिल Loose, Relaxed दे० ७,६५

वेउडिया स्त्री० पुन पुन, फिर फिर Again  
and again क०

वेउडिया स्त्री० पुन पुन, फिर फिर Again  
and again क०

वेगी स्त्री० वृत्ति वाली, बाड़ वाली Having a  
hedge दे० ७,४३

वेडसुरा स्त्री० ऋषुप मंदिरा Duty liquor  
दे० ७,७८

वेदि पु० पशु A beast दे० ७,७४  
वेदिअ त्रि० वेष्टित, लपेटा हुआ Rolled दे०  
७,७६, महा०

वेकिलिअ न० रोमन्थ, चवी हुई चीज को फिर  
से चवाना To ruminate, To chew  
the cud दे० ७,८२

वेगड स्त्री० न० पोत विशेष, एक तरह का जहाज  
A kind of ship सिरि० ३८०

वेगर पु० द्राक्षा, लोंग आदि से मिश्रित द्राक्षादि  
Sugar etc mixed with cloves etc.  
उर० ५,६

वेगल त्रि० दूर-स्थित Stayed aloof दे०  
४,३७०

वेडइअ पु० वाणिजक, व्यापारी A mer-  
chant, A trader दे० ७,७८

वेडिअ पु० मणिकार, जौहरी, A jeweller  
दे० ७,७७

वेडिकिल त्रि० सकटा, कम चौड़ा Narrow  
दे० ७,७८

वेडुल्ल त्रि० गर्वित, अस्मिानी Proud,  
Allogant दे० ७,४१

वेण पु० नदी का विषम घाट An even  
bathing place at a riverside दे०  
७,७४

वेणिअ न० वचनीय, लोकापवाद Censure  
दे० ७,७५, पद०

वेण त्रि० आक्रान्त Overpowered,  
Overcome पद०

वेदूणा स्त्री० लज्जा, शरम Shame, Bash-  
fulness दे० ७,६५

वेप्प त्रि० भूत आदि से मुहोत, पागल Pos-  
sessed by ghosts दे० ७,७४

वेप्पुअ न० (१) शिशुपन, बचपन Infancy  
Childhood (२) त्रि० भूत-मुहोत, भूतादि  
Possessed by ghosts दे० ७,७६

वेरिञ्ज त्रि० (१) असहाय, पहाकी Help-

less, Alone (२) न० सहायता, मदद  
 Help, Assistance दे० ७,७६

वेल न० दन्त-मास, दात के मूल का माँस  
 Gums दे० ७,७४

वेलव पुं० विडम्बना Mookery, Ridicule  
 दे० ७,७५, गडड०

वेल्ला स्त्री० दन्त के मूल का माँस Gums  
 दे० ७,७४

वेल्लाइत्र. त्रि० (१) मृदु, कोमल Delicate,  
 Tender (२) दीन, गरीब Poor, Penni-  
 less दे० ७,६६

वेली स्त्री० (१) लता विशेष, निद्राकरी-लता A  
 kind of creeper दे० ७,३४, (२) घर के  
 चारों कोणों में रखा जाता छोटा स्तम्भ Small  
 pillars kept in all the four corners  
 of the house प्र० १३३

वेलु पु० (१) चोर, तस्कर A thief (२)  
 सुसल A pestle दे० ७,६४

वेलुक त्रि० विरूप, खराब, कुत्सित Awk-  
 ward, Bad दे० ७,६३

वेल्लुणा स्त्री० लजा, लाज Shame, Bash-  
 fulness दे० ७,६५

वेल्ल. पु० (१) केश, बाल Hair (२)  
 पल्लव A skirt, A border (३) विलास  
 Enjoyment, Merriment दे० ७,६४,  
 (४) मदन वेदना, काम पीडा Love-sickness,  
 Pangs of love (५) त्रि० अविदग्ध, मूर्ख  
 Foolish सद्धि० ४७, (६) न० एक तरह की  
 गाड़ी, जो ऊपर से ढकी हुई होती है A bul-  
 lock-cart सुपा० २७६

वेल्लगा न० (१) एक तरह की गाड़ी, जो ऊपर  
 से ढकी हुई होती है A bullock cart (२)  
 गाड़ी के ऊपर का तला The upper part  
 of a cart आ० १२

वेल्लरिचिअ पु० केश, बाल Hair पद्०

वेल्लरिचिअ स्त्री० वल्ली लता A creeper.  
 पद्०

वेल्लरी स्त्री० वेश्या, वारागना A prostitute  
 दे० ७,७६, पद्०

वेल्लविचित्र त्रि० विलिप्त, पोता हुआ Besmeal-  
 ed से० १,२६

वेल्लहल-ल्ल त्रि० (१) कोमल, मृदु, Delicate,  
 Tender दे० ७,६६, पद्० गडड० सुपा०  
 ५६२, स० ७०४, (२) विलासी Amorous.  
 दे० ७,६६, पद्० सुपा० ५२, (३) सुन्दर  
 Beautiful, Handsome. गा० ५६८

वेल्ला स्त्री० लता, वल्ली A creeper दे०  
 ७,६४

वेल्लाइत्र त्रि० सकुचित, सकुचा हुआ Con-  
 tracted, Ashamed दे० ७,७६

वेवय पु० न० रोग विशेष, कम्प A kind of  
 disease. आया०

वेवाइत्र त्रि० उल्लसित, उल्लास प्राप्त De-  
 lighted दे० ७,७६

वेव्व अ० (१) आमन्त्रण-सूचक अव्यय, An  
 adverb denoting invitation हे०  
 २,१६४, कुमा० (२) भय, डर Fear (३)  
 वारण, रुकावट Detention, Hindrance,  
 Prevention (४) विषाद, खेद Sorrow.  
 (५) आमन्त्रण Invitation हे० २,१६३-  
 १६४, कुमा०

वेसमरा स्त्री० गृहगोधा, छिपकली A lizard  
 दे० ७,७७

वेसविचित्र न० द्वेष्यत्व, विरोध, दुस्मनाई  
 Enmity, Hostility दे० ८,७६

वेसण न० वचनीय, लोकापवाद Censure  
 दे० ७,७२

वेमिणी स्त्री० वेश्या, गणिका A prostitute  
 गा० ४७४

वेद्विचित्र पुं० (१) अनादर, तिरस्कार Disho-  
 nour, Disrespect (२) त्रि० क्रोधी An-

gly , Wrathful , Inascible दे० ७,६६  
वोफिल्ल त्रि० गृह-शूर, झूठा शूर A false  
hero दे० ७,८०.

वोफिल्लिअत्र न० रोमन्थ, चबी हुई चीज को पुन  
चबाना To ruminate , To chew the  
cud दे० ७,८२

वोक्खारिय त्रि० विभूषित, Adorned , Deco-  
rated स० २२६

वोच्चत्थ न० विपरीत रति Adverse enjoy-  
ment दे० ७,२८

वोक्कर त्रि० (१) अतीत, भूतकालीन Gone ,  
Passed (२) भीत, डरत Feared दे०  
७,६६

वोट्टि त्रि० आसक्त, लीन Engrossed in ,  
Absorbed in पङ्०

वोट्टि त्रि० (१) दुष्ट, Wicked (२) द्विज-  
कर्ण, जिसका कान कट गया हो वह One  
whose ear is cut , An ear-cut  
गा० ५३६

वोट्टि स्त्री० (१) तरुणी, युवती A young  
woman (२) कुमारी A young virgin ,  
An unmarried girl गा० ३३२

वोट्टि त्रि० मूर्ख, बेवकूफ Foolish , Silly  
उव०

वोट्टि न० वनस्पति-विशेष A kind of  
vegetable पत्र० १

वोट्टि त्रि० तरुण, युवा Young , Juve-  
nile दे० ७,८०

वोसीसण त्रि० दीन, गरीब Poor , Penni-  
less, दे० ७,८२

वोमज्झ पु० अनुचित वेप An improper  
guise , An improper dress. दे० ७,८०  
वोमज्झिय न० अनुचित वेप का ग्रहण  
Wearing an improper dress ,  
Assuming an improper guise. दे०  
७,८० टी

वोरच्छ त्रि० तरुण, युवा Young , Juve-  
nile दे० ७,८०

वोरल्ली स्त्री० (१) श्रावण मास की शुक्ल  
चतुर्दशी में होने वाला एक उत्सव A festival  
of the fourteenth day of the bright  
half of the lunar month of Shra-  
vana (२) श्रावण मास की शुक्ल चतुर्दशी  
The fourteenth lunar day of the  
bright half of the month of Shra-  
vana दे० ७,८१

वोरुट्टी स्त्री० रुई से भरा हुआ वस्त्र A  
garment full of cotton , A cotton-  
laid garment प्रव० ८४

वोवाल पु० वृषभ, बैल An ox , A  
bullock दे० ७,७२

वोसट्ट त्रि० भर कर खाली किया हुआ  
Emptied after filling दे० ७,८१

वोहार न० जल-वहन A flow of water ,  
A streamlet दे० ७,८१

वुड पु० विट, भडुआ One who leads  
a profligate life , A prostitute  
attendant पङ्०

वुवे अ० सम्बोधन सूचक अव्यय An adverb  
signifying "addressing" प्राक्० ८०

## स

सञ्चय न० (१) शिला, पत्थर का तख्ता A slab, A thin flat piece of stone (२) त्रि० घूर्णित Shaken, Moved to and fro दे० ८, ४६

सञ्चयखगत्त पु० कितव, जुगारी, A gambler दे० ८, २१

सञ्चयिञ्च-सञ्चयिञ्च पु० स्त्री० प्रातिवेशिक, पड़ोसी A neighbour गा० ३२५

सञ्चय पु० लम्बे-केश Long hair दे० ८, ११

सञ्चय-सञ्चयिञ्च पु० स्त्री० प्रातिवेशिक, पड़ोसी A neighbour दे० ८, १०

सञ्चयिञ्च न० प्रातिवेश्य, पड़ोसीपन Neighbourhood दे० ८, १० टी

सञ्चयस्य त्रि० मनो-दृष्ट, विचार में प्रति-भासित Observed in meditation, Known in contemplation दे० ८, १६, पाञ्च०

सञ्चयिद्वि त्रि० देखो 'सञ्चयस्य' शब्द Vide 'सञ्चयस्य' दे० ८, १६

सञ्चयसञ्चय-सञ्चयसिञ्च पु० मयूर, मोर A peacock दे० ८, २०, पङ्०

सञ्चयसिञ्च पु० स्कन्द, कान्तिकेय Kartikeya, the son of Mahadeo दे० ८, २०

सञ्चयस्य त्रि० देखो 'सञ्चयस्य' शब्द Vide 'सञ्चयस्य' दे० ८, १६, पाञ्च०

सञ्चय त्रि० रूढ, प्रसिद्ध Commonly known, Become current or widely known दे० ८, २

सञ्चयिञ्च त्रि० प्रेरित Instigated, urged दे० ८, १२

सञ्चयिञ्चा-सञ्चयिञ्ची स्त्री० (१) चील पक्षी की मादा The female of a particular bird, A

female kite अणुजो० १४१, दे० ८, ८, (२) एक महौषधि A kind of medicine ती० ५

सकडिल्ल त्रि० निश्छिद्र, छिद्र-रहित Without a hole दे० ८, १५, सुर० ४, १४३

सकर पु० रथ्या, गली A street, A lane दे० ८, ६

सकल्लिञ्च त्रि० सकेला हुआ, सकुचित किया हुआ Contracted, Put to odium गा० ६६४

सख पु० मागध, स्तुति-पाठक A bard, A minstrel दे० ८, २

सखदह पु० गोदावरी हृद A spring of the Godavari दे० ८, १४

सखदल्ल पु० कृपक की इच्छानुसार उठ कर खड़ा होने वाला बैल A trained ox दे० ८, १६

सखल्य पु० शम्बुक, शुक्ति के आकार वाला जल-जन्तु विशेष An aquatic insect of the form of a pearl, A pearl-sized aquatic insect दे० ८, १६.

सखलि पु० स्त्री० कर्ण-भूषण, शल पत्र का बना हुआ ताडक. A kind of ornament for ears दे० ८, ७

सखाल पु० हरिण की एक जाति, साबर मृग Sambur, An Indian elk दे० ८, ६

सगय त्रि० मसुण, चिकना Oily, Smooth दे० ८, ७

सगरिगा स्त्री० फली विशेष, साँगरी Bean प्रब० ५

सगह पु० घरके ऊपर का तिरछा काष्ठ A cross beam in the roof of a house दे० ८, ४

सगा स्त्री० चल्गा, घोड़े की लगाम The rein

of a horse , The bundle दे० ८,२  
 सगोल्ल पु० समूह, समुदाय A collection ,  
 A multitude दे० ८,४, वव० १  
 सगोल्ली स्त्री० परस्पर अवलम्बन Mutual  
 dependance नाया० १,३,  
 सगोदण त्रि० व्रणित, व्रण-युक्त Wounded  
 दे० ८,१७  
 सगोल्ल न० सघात, समूह A collection ,  
 A multitude पद्०  
 सगोल्ली स्त्री० सन्तुह, सघात A collection ,  
 A multitude दे० ८,४  
 सघाडी स्त्री० युग्म, युगल A pair दे० ८,७,  
 प्राक्० ३८, गा० ४१३  
 सघाणय पु० श्लेष्मा, नाक में से वहता द्रव  
 पदार्थ Nose-excretion तदु० १३  
 संघासय पु० स्पर्धा, बराबरी Rivalry ,  
 Emulation दे० ८,१३  
 सघोडी स्त्री० सम्बन्ध Relation दे० ८,८  
 सचक्कार पु० अवकाश, जगह Vacancy ,  
 Space , Time , Room उप० ७२८ टी०  
 सचारी स्त्री० दूती, दूत-कर्म करने वाली स्त्री A  
 female messenger , A female go-  
 between पात्र० पद्०  
 सजत्ति स्त्री० तैयारी Preparation सुर०  
 ७,१३०, स० ६३५, ७३५, महा०  
 सजत्तित्र त्रि० तैयार किया हुआ Prepared  
 स० ४४३  
 सजत्थ त्रि० (१) क्रुपित, क्रुद्ध Angry,  
 Wrathful (२) पु० क्रोध Anger ,  
 Wrath दे० ८,१०  
 सजमित्र त्रि० सगोपित, छिपाया हुआ  
 Concealed , Hidden. दे० ८,१५  
 सजुत्ति स्त्री० तैयारी Preparation सुर०  
 ४,१०२, १२, १०१, स० १०३, कुप्र० २००  
 सजुद्ध त्रि० स्पन्द-युक्त, थोडा हिलने चलने

वाला, फरकने वाला One who flutters  
 दे० ८,६  
 सडी स्त्री० बरगा, जगाम Reins दे० ८,२  
 सडोल्लिग्र त्रि० अनुगत, अनुयात Follow-  
 ed दे० ८,१७  
 सडी स्त्री० सादनी, जैडनी A female  
 camel , A diomedary सुपा० २८०  
 सदट्ट-सदट्टय त्रि० (१) सलग्न, सयुक्त, सम्बद्ध  
 Joined , Connected दे० ८,१८, गउड०  
 २३६, (२) सघट्ट, सघर्ष Contact दे०  
 ८,१८  
 सदेव पु० (१) सीमा, मर्यादा A boun-  
 dary , A limit (२) नदी-सगम A meet-  
 ing place of rivers , A confluence  
 दे० ८,७  
 सधारिअ त्रि० योग्य, लायक Proper ,  
 Fit , Worthy दे० ८,१  
 सधिअ त्रि० दुर्गन्ध वाला Bad smelling ,  
 Emitting unpleasant smell दे० ८,८  
 सपडिअ त्रि० लब्ध, प्राप्त Obtained ,  
 Got दे० ८,१४, स० २२६.  
 सपण्ण स्त्री० घेवर, मिष्ठान्न विशेष बनाने का  
 आटा Flour for sweet-meat दे० ८,८  
 सपत्तिआ स्त्री० (१) बाला, कुमारी, लडकी  
 A virgin , An unmarried girl दे०  
 ८,१८, वजा० ११६, (२) पिपली पत्र, पीपल  
 की पत्ती A leaf of the Pipal tree  
 दे० ८,१८  
 सपत्थिअ न० शीघ्र, जल्दी Speed ,  
 Haste दे० ८,११  
 सपा स्त्री० काची, मेखला, करधनी A girdle ,  
 A belt दे० ८,२  
 सपासग त्रि० दीर्घ, लम्बा Long दे० ८,११  
 सफ न० कुमुद, चन्द्र-विकसती कमल, A  
 lotus दे० ८,१.

सफाली. स्त्री० पक्ति, श्रेणि A row, A line  
 दे० ८,५  
 सफिट्ट पुं० सयोग, मेलन Junction,  
 Meeting श्रा० १,  
 सभली स्त्री० दूती, सदशवाहिनी A female  
 messenger, A female go-between  
 दे० ८,६, वच० ५, (२) कुटनी, पर-पुरुष के साथ  
 अन्य स्त्री का योग कराने वाली स्त्री A pro-  
 couress, A go-between कुमा०  
 सभव पु० प्रसव-जरा, प्रसूति से होने वाला  
 बुढ़ापा Oldness on account of succes-  
 sive childbuths दे० ८,४  
 सभिन्न न० आघात A blow गउड०  
 ६३४ टी  
 समुल्ल त्रि० दुर्जन, खल Wicked दे० ८,७  
 सवट्टिअ त्रि० सवृत्त, सक्रोचित Contract-  
 ed, Ashamed दे० ८,१२  
 सवायय पु० (१) नकुल, न्यौला A weasel,  
 A mongoose (२) श्येन-पच्ची A kind of  
 bird. दे० ८,४८  
 ससप्पिअ न० कूद कर चलना To walk  
 by leaps and bounds, To hop दे०  
 ८,१५  
 ससाअ त्रि० (१) आरूढ Mounted (२)  
 चूर्णित Reduced to powder (३) पीत  
 Drink (४) उद्विन्न Afflicted पङ्०  
 ससाहण स्त्री० न० अनुगमन To follow  
 दे० ८,१६, दसनि० ३८८  
 सगय न० श्रद्धा, विरवास Confidence,  
 Trust दे० ८,३.  
 सगेह न० निकट, समीप Near, Close  
 दे० ८,६  
 सगह त्रि० मुक्त, मुक्ति प्राप्त Released,  
 Freed दे० ८,४ टी  
 सच्चविअ त्रि० अभिप्रेत, इष्ट Wished,  
 Desired दे० ८,१७, भवि०

सच्चिल्लय त्रि० सच्चा, यथार्थ True,  
 Proper दे० ८,१४  
 सच्चीसय पु० वाद्य-विशेष A kind of  
 musical instrument पउम० १०२, १२३  
 सच्चवेविअ त्रि० रचित, निर्मित Made  
 दे० ८,१८  
 सज्जिअ पु० (१) नापित, नाई A barber  
 (२) रजक धोबी A washerman (३) त्रि०  
 पुरस्कृत, आगे किया हुआ Brought for-  
 ward (४) दीर्घ, लम्बा Long दे० ८,४७  
 सज्जोक्क त्रि० प्रत्यग्र, नूतन, ताजा Fresh,  
 New दे० ८,३  
 सज्मत्तिय पुं० ब्रह्मचारी A chaste man,  
 A total abstainer from sexual  
 intercourse राज०  
 सज्मत्तिया स्त्री० भगिनी, बहिन A sister  
 राज०  
 सट्ट पु० स्त्री० (१) विनिमय, अदला बदली  
 Exchange, Barter सुपा० २३३, (२) त्रि०  
 सटा हुआ Joined, Connected. भवि०  
 सड्डिअग्रिअ त्रि० (१) वर्धित, बढ़ाया हुआ  
 Prolonged, Lengthened (२) प्रेरित  
 Instigated, Urged पङ्०  
 सद पु० (१) पाल, जहाज का बादवान The sail  
 of a ship सिरि० ३८७, (२) केश, बाल  
 Hair दे० ८,४६, (३) स्तम्ब, गुच्छा A  
 bunch दे० ८,४६, पाअ० (४) त्रि० विषम  
 Difficult Troublesome दे० ८,४६  
 सदय न० कुसुम, फूल A flower दे० ८,३  
 सदडि पु० सिंह A lion. दे० ८,१  
 सण्णिअ पुं० (१) साक्षी, गवाह A witness  
 (२) ग्राम्य, ग्रामीण A villager. दे० ८,४७  
 सयणत्तिअ त्रि० परित्तापित Pained,  
 Afflicted दे० ८,२८  
 सयणविअ त्रि० (१) चिन्तित Thought-  
 ful, Anxious (२) न० मदद के लिए

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समीप गमन Going near to render help दे० ८,२०                                                                                    | सन्निध्यत्थ त्रि० परिहित, पहना हुआ Put on, Worn सुपा० ३६                                                                                        |
| सर्पिण्यत्र त्रि० आर्द्र, गीला Wet Moist दे० ८,२                                                                               | सफ्फ न० कुसुद, कैरव A white lotus पात्र०                                                                                                        |
| सस्युमिष्य त्रि० (१) सनिहित Placed near, Lying close (२) मापित, नापा हुआ Measured (३) अनुनीत, अनुनय-युक्त Disciplined दे० ८,४८ | सफर पु० न० मुसाफिरी Travelling 'वडसफरपवहयाण' सिरि० ३८२                                                                                          |
| सस्योष्म पु० यक्ष-देवता A kind of demigod दे० ८,६                                                                              | सभर पु० गृध्र पक्षी A vulture दे० ८,३                                                                                                           |
| सस्यहाई स्त्री० दूती A bawd, A female messenger, A female go-between दे० ८,६                                                   | समविभिय त्रि० भिडा हुआ, लडा हुआ Fought, Wrestled पडम० ८६,४८                                                                                     |
| सत्त त्रि० गत, गया हुआ Gone, Passed पड०                                                                                        | समरसदहय त्रि० समान उत्र वाला Of the same age दे० ८,२२                                                                                           |
| सत्तत्य त्रि० ग्रभिजात, कुलीन Of a noble family दे० ८,१०                                                                       | समगइत्र त्रि० पिष्ट, पिसा हुआ Powdered, Levigated पड०                                                                                           |
| सत्तल्ली स्त्री० लता विशेष, शोफालिका लता A kind of creeper दे० ८,४                                                             | समसीस त्रि० (१) सदृश, तुल्य Like, Similar (२) निर्भर Excessive, Much दे० ८,२०, (३) न० स्पर्धा, Rivalry, Competition से० ३,८                     |
| सत्तावीसजोअण पु० चन्द्र, चन्द्रमा The moon दे० ८,२२, पात्र० १५                                                                 | समहुत्त त्रि० समुल, अभिसुल In front of अछुजो० २२२                                                                                               |
| सत्ति स्त्री० (१) त्रिपाई, तीन पायों वाला गोल काष्ठ विशेष A three-legged wood in round table दे० ८,१                           | समाणिअ त्रि० म्यान किया हुआ, म्यान में डाला हुआ Sheathed, स० २४२                                                                                |
| सत्तिअणा स्त्री० आभिजात्य, कुलीनता Nobility दे० ८,१६                                                                           | समुगिअ त्रि० प्रतीक्षित Awaited. दे० ८,१३                                                                                                       |
| सत्य त्रि० (१) गत, गया हुआ Gone दे० ८,१, (२) न० स्वास्थ्य, स्वस्थता Healthiness, Soundness नापा० १,६                           | समुच्छ्रयी स्त्री० समार्जनी, झाडू A broom, A besom दे० ८,१०                                                                                     |
| सत्यइअ त्रि० उत्तेजित Encouraged दे० ८,१३                                                                                      | समुच्छ्रय त्रि० (१) तोषित, सतुष्ट किया हुआ Pleased, Caused to satisfy (२) समारचित Well arranged (३) न० अजलि करण, नमन To bow, To salute दे० ८,४६ |
| सत्यर पु० निकर, समूह A collection, A multitude दे० ८,३                                                                         | समुत्तुण त्रि० गवित Proud; Airogant गउड०                                                                                                        |
| सदाहल न० नूपुर An anklet दे० ८,१०, पड०                                                                                         | समुद्दणवणीअ न० (१) अमृत, सुधा Neetar (२) चन्द्रमा The moon दे० ८,२०                                                                             |
|                                                                                                                                | समुद्दर न० पानीय-गृह, पानी-घर A water room दे० ८,२१                                                                                             |



समुपिजल न० (१) ग्रपयश, अपकीर्ति Dis-  
grace (२) रज, धूली Dust दे० ८,२०  
समुपिन्थ त्रि० उन्नस्त, भय-भीत Frightened,  
Afraid सुर० १३,४४  
समोलइल त्रि० समुत्थित Thrown up-  
wards, Discharged. गडड०  
समोसिय पु० (१) प्रातिवेशिक, पड़ोसी A  
neighbour दे० ८,४६, पात्र० (२) प्रदोष  
Evening (३) त्रि० बध्य, वध-योग्य Worth  
slaughtering दे० ८,४६.  
सयर्षी स्त्री० जाता, चक्की, पीसने का यंत्र A  
grinding mill दे० ८,२  
सयत्त त्रि० मुदित, हर्षित Delighted दे०  
८,२  
सरत्ति अ० शीघ्र, जल्दी, सहसा Swiftly,  
Speedily दे० ८,२  
सरभेअ त्रि० स्मृत, याद किया हुआ Remem-  
bered दे० ८,१३  
सरली स्त्री० चीरिका, बुद्ध कीट विशेष, भीगुर  
A cricket, A kind of insect दे० ८,२  
सरलीआ स्त्री० जन्तु विशेष, साही, जिसके शरीर  
में काटे होते हैं Porcupine दे० ८,१५  
सरह पु० (१) वृक्ष विशेष, वेतल का पेड़ A  
kind of tree दे० ८,४७, (२) सिंह, पञ्चान-  
न A lion दे० ८, ४७, सुर० १०, २२२  
सरा स्त्री० माला A garland दे० ८,२  
सराह त्रि० दर्पोद्भुर, गर्व से उद्धत Proud,  
Arrogant दे० ८,५.  
सराहय पु० सर्प, साप A serpent, A  
snake दे० ८,१२  
सरिआ स्त्री० माला, हार A garland, A  
wreath परह० १,४, कुप्र० ३, सुपा० ३४३  
सरिभरी स्त्री० समानता, सरीलवाई Equality  
'दोषहवि सरिभरी' महा० १०  
सरिवाय पु० वेगवाली वृष्टि Heavy rain  
दे० ८,१२

सरिस पु० न० (१) सह, साथ Help,  
Assistance वजा० १२४, (२) तुल्यता,  
समानता Equality सच्चि० ४७, महा०  
सरिसाहुल त्रि० समान, सदृश Similai,  
Like दे० ८,६.  
सरी स्त्री० माला, हार A garland, A  
wreath सुपा० २३१  
सरेवय पु० (१) हंस, A swan, A goose  
(२) घर का जल-प्रवाह, मोरी A gutter, A  
dian दे० ८,४८  
सलली स्त्री० सेवा Service दे० ८,३  
सलहत्य पु० कुडकी आदि का हाथ The  
handle of a ladle etc दे० ८,११  
सवडमुह-सवडहुत्त त्रि० अभिमुख, समुख  
In front of महा० दे० ८,२१, पउम० ७२,  
३२, भवि० पउम० ८,४७, ८, १३४  
सवाय पु० श्येन पक्षी A kind of bird  
दे० ८,७  
सवार न० सुबह, प्रभात Morning,  
Day-break, Dawn बृह० १.  
सवा० पु० ब्राह्मण A Brahman दे०  
८,५  
सविरुं न० सुरा, दारु Wine, Liquor.  
दे० ८,४  
सव्वल पु० कुन्त, बर्छी, भाला A lance,  
A javelin राज० काल०  
सव्वला स्त्री० कुशी, लोहे का एक हथियार A  
kind of steel weapon दे० ८,६  
ससराइअ त्रि० निष्पिष्ट, पिसा हुआ Powder-  
ed, Levigated दे० ८,२०  
सह त्रि० (१) योग्य, लायक Fit, Worthy  
दे० ८,१, (२) मदद-कर्ता A helper, सूर्य०  
१, ३, २, ६  
सहउत्थिया स्त्री० दूती A bawd, A female  
messenger, A female go-between  
दे० ८,६

- सहगृह पु० वृक्ष, उल्लू, पक्षि विशेष An owl दे० ८,१६.
- सहृ त्रि० साहाय्य कर्ता A helper वै० ४३
- साइ पु० खी० कैसर Saffron दे० ८,२२
- साइजिअ त्रि० अवलम्बित Dependant दे० ८,२६
- साइय न० सस्कार Refinement, Culture दे० ८,२५
- साउली स्त्री० (१) वस्त्राल The end of a garment गा० २६६, (२) वस्त्र, कपडा A garment, A cloth गा० ६०५
- साउल्ल पु० अनुराग, प्रेम Love, Affection हे० ८,२४, पङ्०
- साण्डिअ त्रि० उत्तेजित Encouraged दे० ८,१३
- साण्डिअ त्रि० शान्त Quiet, Calm पङ्०
- साणूर न० देवगृह, देव मन्दिर A temple दे० ८,२४
- सामगिअ त्रि० (१) चलित Moved (२) अवलम्बित Dependant (३) पालित, रक्षित Protected दे० ८,५३.
- सामरि पु० स्त्री० शास्मली वृक्ष, सेमर का पेड़ The name of a tree दे० ८,२३, पात्र०
- सामिअ त्रि० दग्ध, जलाया हुआ. Kindled दे० ८,२३
- सामुडुअ पु० वृक्ष विशेष, वरुण, जिसकी कलम की जाती है A kind of grass पात्र०
- सामुद पु० इन्द्र-समान वृक्ष विशेष A kind of grass दे० ८,२३
- साय न० महाराष्ट्र देश का एक नगर A city of Maharashtra territory (२) दूर Distant दे० ८,११
- सायदूर न० नगर विशेष The name of a city दे० ८,५१ टी
- सायदूला स्त्री० केतकी, केवडे का गाड़ A kind of tree दे० ८,२५
- सारमिअ त्रि० स्मरित, याद कराया हुआ Caused to remember दे० ८,२५
- साराडि पु० स्त्री० पक्षि-विशेष, शरारि पक्षी. The name of a bird दे० ८,२४
- सारिच्छिया स्त्री० दूर्वा, दूब A kind of grass दे० ८,२७
- सारी स्त्री० (१) वृक्षी, ऋषि का आसन The seat of a saint दे० ८,२७-६१, (२) मृत्तिका, मिट्टी Clay, Earth दे० ८,२२ टी
- सालकी स्त्री० सारिका, मैना A canary bird, A jay दे० ८,२४
- सालगणी स्त्री० सीढी, नि श्रेणी A ladder, A stair-case दे० ८,२६, कुप्र० १२०
- सालकिआ स्त्री० सारिका, मैना A canary bird, A jay पङ्०
- सालग न० वृक्ष की बाहरी जाल The bark of a tree निसी० चू० १५
- सालहिआ-सालही स्त्री० सारिका, मैना A canary bird, A jay पात्र० आ० २८, दे० ८,२५
- सालाणय त्रि० (१) स्तुत, जिसकी स्तुती की गई हो वह One who is worshipped (२) स्तुत्य, स्तुति योग्य Worth worshipping, Adorable दे० ८,२७.
- सालुअ न० (१) शम्बूक, शल A conch shell (२) सूखे यव श्रादि धान्य का अग्रभाग The sharp point of a dry barley दे० ८,५२
- सावय पु० बालों की जड़ में होने वाला एक तरह का छद्म कीट A kind of insect begetting in hair जी० १६
- सासबूल पु० कपिकच्छू का पेड़, कौल, किवाच. A kind of tree दे० ८,२५
- सासेरा स्त्री० यान्त्रिक नाचने वाली, यन्त्र की बनी हुई नर्तकी A female dancer रात्र०

साह. पु० (१) बालुका, बालू Dust (२) उलूक, उल्लू An owl (३) दधिसर, दही की मलाई Cream of curdled-milk दे० ८,११, (४) प्रिय, पति A lover, A husband सचि० ४७  
 साहजग्य पु० गोखर, गोखरू A thorny plant दे० ८,२७  
 साहरय त्रि० गत-मोह, मोह-रहित. Devoid of fascination दे० ८,२६.  
 साहाय्यसाहि पु० शक देश का सम्राट्, बादशाह. The emperor of the Shaka country. काल०  
 साहार पु० साहुकार, महा-जन A money-lender धम्म० १२ टी०  
 साहि पु० शक देश का सामन्त राजा A tributary chief of the Shaka country भग०  
 साहित्य न० मधु, शहद Honey दे० ८,२७  
 साही स्त्री० (१) रथ्या, गली A street, A lane दे० ८,६, से० १२,६२, (२) राजमार्ग A royal road से० १२,६२  
 साहुलिया-साहुली स्त्री० (१) शिरोवस्त्र-खड A piece of cloth on the head रभा० (०) शाखा, डाली A branch दे० ८,६२, पद्० पात्र० (३) भ्रू, भौं An eye-brow (४) सुज, हाथ A hand (५) पिकी, कोयल A cuckoo (६) सदृशता, समानता Similarity, Equality. (७) सखी, सहचरी A female friend दे० ८,४२, (८) मयूर-पिच्छ The feather of a pea-cock स० १२३ टि०  
 साहेब्ज त्रि० अनुग्रहीत Favoured, Graced दे० ८,२६  
 सिअग पु० वह्य देवता The deity of the west दे० ८,३१  
 सिअरिल पु० स्त्री० वृक्ष विशेष A kind of tree स० २५६

सिआली स्त्री० डमर, देश का भीतरी या बाहरी उपद्रव An internal or onward war of the country दे० ८,२२.  
 सिइ. स्त्री० सीढ़ी, नि श्रेण्य A ladder, A stair-case पिंड० ४७३; वव० १०  
 सिखल न० नूपुर An anklet दे० ८,१०, कुप्र० ६८  
 सिंग. त्रि० कृश, दुर्बल. Weak, Feeble दे० ८,२८  
 सिंगय त्रि० तरुण, जवान Young, Juvenile दे० ८,३१  
 सिंगा स्त्री० फली, फलिया. Bean भास० ८ टी.  
 सिंगिणी स्त्री० गौ, गैया A cow. दे० ८,३१.  
 सिंगेरिवम्म न० बलमीक An ant-hill दे० ८,३३  
 सिद्युअ पुं राहु. A planet called Rahu दे० ८,३१  
 सिचाण पुं पक्ष विशेष, रयेन पक्षि, बाज A hawk सण०  
 सिड. त्रि० मोदित, मोटा हुआ Bent, Crooked दे० ८,२६  
 सिंढ पु० मयूर, मोर A pea-cock. दे० ८,२०  
 सिंढा स्त्री० नासिका-नाद, नाक की आवाज The nasal sound दे० ८,२६  
 सिंदाण न० विमान A celestial air-ship उप० १४२ टी  
 सिंदी स्त्री० खजूरी, खजूर का गाड़. The date-palm tree दे० ८, २६, पात्र० आवम०  
 सिंदीर न० नूपुर An anklet दे० ८,१०  
 सिंदु स्त्री० रज्जु, रस्ती A string दे० ८,२८.  
 सिंदुरय न० (१) रज्जु, रस्ती A string (२) राज्य Realm, Kingdom दे० ८,१४.  
 सिंदुवण. पु० अग्नि, आग Fire दे० ८,३२  
 सिंदूर न० राज्य. Administration,

Realm, Dominion दे० ८, २०  
 सिंदोल न० खजूर, फल-विशेष Date पात्र०  
 सिंदोला स्त्री० खजूरी, खजूर का पेड़ A date-  
 palm tree दे० ८, २६  
 सिंपुत्र त्रि० पागल, भूत गृहीत, भूताविष्ट  
 Possessed by ghosts दे० ८, ३०  
 सिवाडी स्त्री० नाक की आवाज Nasal  
 sound दे० ८, २६  
 सिवीर न० पल्लव, घास Grass दे० ८, २८  
 सिंहलित्रा स्त्री० शिला, चोटी A tuft of  
 plant of hair on the head पात्र०  
 सिक्कड़ पु० न० खटिया, मच्छिआ A bed-  
 stead सुपा० ६  
 सिक्करिआ स्त्री० जहाज का आभरण-विशेष  
 An ornament of a ship सिरि० ३८७  
 सिञ्जूर न० राज्य Realm, Kingdom  
 दे० ८, ३०  
 सिद्ध त्रि० सोकर उठा हुआ Awoke पद०  
 सिद्धी स्त्री० सीढ़ी, निश्रेणिका A ladder,  
 A stair-case अक्ष० ७०  
 सित्य न० गुण, धनुष की डोरी The string  
 of a bow कुप्र० ५२, पात्र०  
 सित्था स्त्री० (१) बाला, लार Saliva, Spittle  
 (२) धनुष की डोरी The string of a bow  
 दे० ८, २३  
 सित्थि पु० मत्स्य, मछली A fish दे०  
 ८, २८  
 सिद्ध त्रि० परिपाटित, विदारित, चिरा हुआ  
 Cut, Torn दे० ८, ३  
 सिद्धतथ पु० रुद्र, देव-विशेष The name  
 of a god दे० ८, ३१  
 सिप्प न० पल्लव, सुआल, नृण-विशेष A kind  
 of grass दे० ८, २८  
 सिप्पिर न० नृण-विशेष, पल्लव, सुआल A  
 kind of grass पत्र० १, गा० ३३०.  
 सिप्पी स्त्री० सूची, सुई A needle पद०

सिरिग पु० विट, लम्पट, कामुक A lustful  
 person दे० ८, ३२  
 सिरिदूह पु० स्त्री० पत्रिआँ का पान पात्र० A  
 drinking vessel for birds पात्र० दे०  
 ८, ३२  
 सिरिमुह त्रि० मद मुख, जिसके मुँह में मद हो  
 वह Intoxicated, Drunk दे० ८, ३२  
 सिरिवच्छीव पु० गोपाल, भाला A cow-  
 head दे० ८, ३३  
 सिरिवय पु० हंसपक्षी A swan, A  
 goose दे० ८, ३२  
 सिलय पु० उल्ल, गिरे हुये अन्न-कणों का  
 ग्रहण To glean grains, To pick up  
 fallen grains दे० ८, ३०  
 सिल्लिब पु० शिशु, बच्चा An infant, A  
 child दे० ८, ३०, सुप्र० ११, २०६, सुपा० ३४  
 सिल्ल पु० (१) कुन्त, बर्छा, शस्त्र-विशेष A  
 kind of weapon सुपा० ३११, कुप्र० २८,  
 काल, सिरि० ४-३, (२) पोत विशेष, एक प्रकार  
 का जहाज A kind of ship सिरि० ३८३  
 सिल्हा स्त्री० शीत, जाड़ा The winter  
 से० १२, ७  
 सिन्धिणी सिन्धी स्त्री० सूची, सुई A nee-  
 dle दे० ८, २६  
 सिसिर न० दधि, दही Curdled-milk,  
 Curd दे० ८, ३१, पात्र०  
 सिंहडल्ल पु० (१) बालक, शिशु A  
 child, An infant (२) दधिसर, दही की  
 मलाई Cream of curd (३) मयूर, मोर  
 A peacock दे० ८, २४  
 सिंहडल्ल पु० बालक, बच्चा An infant,  
 A child पद०  
 सीअ न० सिक्क, मोन War दे० ८, ३  
 सीअउरय पु० गुहन-विशेष A kind of  
 plant पत्र० १  
 सीअण्य न० (१) दुग्ध-पारत, दूध वाहने का पात्र  
 A pail, A vessel for milking. (२)

श्मशान, मसान A cemetery दे० ८, १५  
 सीअल्लि पु० स्त्री० हिमकाल का दुर्दिन The  
 frosty day of winter (२) वृक्ष-विशेष  
 A kind of tree दे० ८, ५१  
 सीइआ स्त्री० भरी, निरन्तर वृष्टि Constant  
 rain दे० ८, ३४  
 सीउगाय त्रि० सुजात Of high birth दे०  
 ८, ३४  
 सीउट्ट न० हिमकाल का दुर्दिन The foggy  
 day of winter षट्०  
 सीकोत्तरी स्त्री० नारी, स्त्री, महिला A wo-  
 man, A lady सिरि० ३६०  
 सीमतय न० सोमंत, बालों की रेखा विशेष में  
 पहना जाता अलंकार विशेष An ornament  
 worn on the dressed hair lines of  
 the head दे० ८, ३१  
 सीरिअ त्रि० भिन्न, Separate 'सीरिओ  
 भिन्नो' पात्र०  
 सीलुट्ट न० त्रपुस, खीरा, ककड़ी Cucumber.  
 दे० ८, ३१, पात्र०  
 सीवणी स्त्री० सूची, सूई A needle गडढ०  
 सीसक न० शिरस्त्राण, मस्तक का कवच A  
 helmet, An armour for the head  
 दे० ८, ३४, से० ११, ३०  
 सीसम पु० न० सीसम का गाछ, शिशपा A  
 Sisso tree, A Shisham tree उप०  
 १०३१ टी  
 सीसय त्रि० प्रवर, श्रेष्ठ Excellent दे०  
 ८, ३४  
 सीहडय पु० मत्स्य, मछली A fish दे०  
 ८, २८  
 सीहणही स्त्री० (१) वृक्ष-विशेष, करौंदी का गाछ  
 A kind of tree, (२) करौंदी का फल Its  
 fruit दे० ८, ३१  
 सीहरय पु० आसार, जोर की वृष्टि Heavy  
 rain दे० ८, १२.

सीहलय पु० वस्त्र आदि को धूप देने का यन्त्र  
 A machine for fumigating garments  
 etc दे० ८, ३४.  
 सीहलिआ स्त्री० (१) शिखा, चोटी A tuft  
 of hair on the head (२) नवमालिका  
 A kind of jasmine दे० ८, १५  
 सुअण्णा स्त्री० अतिमुक्तक, वृक्ष-विशेष, A kind  
 of tree दे० ८, ३८  
 सुइयाणिया स्त्री० स्तुति कर्म करने वाली स्त्री A  
 female worker of partition (a mid-  
 wife) सुपा० १७८  
 सुई स्त्री० बुद्धि, मति Wisdom, Sense  
 दे० ८, ३६  
 सुकअ-ल पु० न० किंशार, धान्य आदि का अग्र  
 भाग The point of a grain दे० ८, ३८  
 सुकलि पु० न० तृण-विशेष A kind of  
 grass पत्र० १  
 सुकाण्णिअ पु० नाव का डाढ खेने वाला व्यक्ति,  
 पतवार चलाने वाला A steersman, A  
 helmsman सिरि० ३८५  
 सुधिअ त्रि० प्रात, सूँघा हुआ Smelt दे०  
 ८, ३७  
 सुचल न० काला नमक Black salt 'सुठि-  
 सुचलाइय' कुप्र० ४१४  
 सुकुमालिअ त्रि० सुवर्णित, सुन्दर बना हुआ  
 Beautifully formed दे० ८, ४०  
 सुक्काणय न० जहाज के आगे का ऊँचा काष्ठ A  
 helm, A rudder सिरि० ४२४  
 सुग न० (१) आत्म कुशल Welfare or  
 happy condition दे० ८, १६, सण० (२)  
 त्रि० निर्विघ्न, विघ्न-रहित Free from  
 obstructions or troubles (३) विसर्जित  
 Dismissed दे० ८, ५६  
 सुञ्जय न० (१) रौप्य, चादी Silver (२)  
 पु० रजक, धोबी A washerman दे०  
 ८, ५६

सुवम्बरय पु० रजक, धोबी A washerman  
दे० ८, ३६.

सुवृद्धि त्रि० सकुचित अंग वाला Having  
contracted limbs महा०

सुवृद्धिसिद्ध त्रि० स्वपन-शील, सोने की आदत  
वाला. Habituated to sleep दे० ८, ३६,  
पद०

सुदारण पु० चढाल A butcher. दे०  
८, ३६

सुदुम्भरिणी स्त्री० रूपवती स्त्री A beautiful  
woman दे० ८, ४०

सुद्ध. पु० गोपाल, खाला A cowherd दे०  
८, ३३

सुद्धवाल. त्रि० शुद्ध-पूत, शुद्ध और पवित्र.  
Pure दे० ८, ३८

सुपाडोस. पु० अच्छा पडोस Good neigh-  
bourhood आ० २७.

सुरगि पुं० स्त्री० वृक्ष-विशेष, शिग्रु वृक्ष, सदि-  
जना का गाड़ A kind of tree दे० ८, ३७

सुरजेदु पु० वरुण देवता The God of the  
west दे० ८, ३१.

सुलस न० कुसुम्भ-रक्त वस्त्र A red gar-  
ment दे० ८, ३७

सुलसमजरी-सुलसा स्त्री० तुलसी A tulsi-  
plant. दे० ८, ४०, पात्र०

सुली स्त्री० उल्का, आकाश से गिरती आग  
The fall of a meteor दे० ८, ३६

सुवरण पु० अर्जुन वृक्ष The name of a  
tree दे० ८, ३७

सुवर्णविन्दु पु० विष्णु, Vishnu दे० ८, ४०

सुवन्नलुगा स्त्री० दतवन करने का पात्र-लोटा  
आदि A vessel for cleaning teeth  
and washing the face कुप्र० १४०

सुवासिणी स्त्री० जिसका पति जीवित हो वह  
स्त्री A woman whose husband is  
alive तिरि० १५६

सुविसस्थ पु० व्यभिचारी पुरुष. A loose  
charactered man given to wanton-  
ness. कजा० ६८

सुवुपणा स्त्री० सकेत, इसारा Sign दे० ८, ३०  
सुविव्या. स्त्री० अम्बा, माता A mother  
दे० ८, ३८

सुसदिआ स्त्री० शूला-प्रोत मांस A spit  
pierced flesh दे० ८, ३६

सुहउत्थिया स्त्री० दूती A bawd, A fe-  
male messenger, A female go-  
between दे० ८, ६

सुहरा स्त्री० पक्षि-विशेष, सुहरी A female  
battle bird दे० ८, ३६

सुहराय पु० (१) वेश्या का घर. The house of  
a prostitute (२) चटक, गैरैया पक्षी A  
kind of bird दे० ८, २६.

सुहल्ली स्त्री० सुख, आनन्द Happiness,  
Pleasure दे० ८, ३६

सुहेल्लि. स्त्री० सुख, आनन्द, मजा Happiness,  
Pleasure दे० ८, ३६, पात्र० गा० १०८,  
२११, २६१, २८८, ३६८, ४५६, ८६४,  
स० ७२.

सूअरिअ त्रि० यन्त्र-पीडित. Afflicted by a  
machine दे० ८, ४१ टी

सूअरिया-सूअरी स्त्री० यन्त्र पीडन Pain  
caused by a machine सुर० १३, १२५,  
दे० ८, ४१

सूअल न० किशोर, धान्य का तीक्ष्ण अग्रभाग.  
The sharp point of a grain दे०  
८, ३८

सूअ पु० चयडाल A butcher दे० ८, ३६.

सूई स्त्री० मजरी A cymbal, A cluster  
of blossoms दे० ८, ६१.

सूरग पुं० प्रदीप, दीपक A lamp दे० ८, ४१,  
पद०

सूरद्वय पु० दिन, दिवस. A day दे० ८, ४२,  
पद०

सूरल्लि. पु० स्त्री० (१) मध्याह्न, दुपहर का समय Noon. दे० ८,५७, षट्० (२) कीट विशेष, मशक के समान आकृति वाला कीट A kind of worm दे० ८,५७, (३) तृण-विशेष, आमची नामक तृण A kind of grass राय० दे० ८,५७, जीव० ३,४

सूरल्लि पु० श्वशुर पत्न The members of the family of the father-in-law स० ५१०

सूलच्छ. न० पत्तन, झोटा तलाब A small pond दे० ८,४२

सूलत्थारी स्त्री० चण्डी, पार्वती Parvati, The name of a goddess. दे० ८,४२

सूला स्त्री० वैश्या, वारागना A prostitute दे० ८,४१

सेत्र पु० गणपति, गणेश Ganpati दे० ८,४२

सेत्राल पु० (१) गाँव का मुखिया The leader of a village, A chief (२) सानिध्य करने वाला यज्ञ आदि An invoker of a deity दे० ८,५८, (३) कृषक, खेती करने वाला गृहस्थ A cultivator, An agriculturist पाञ्च०

सेत्राली स्त्री० दूर्वा, दूब Grass दे० ८,२७

सेत्रालुत्र पु० मनौती की सिद्धि के लिए उत्सृष्ट बैल An ox sacrificed for the fulfilment of a vow दे० ८,४४

सेत्राडय पु० चुटकी की आवाज A sound of snapping the fingers दे० ८,४३

सेत्रारित्र न० आन्दोलन, हिंडोले में झूलना To swing on a seesaw दे० ८, ४३

सेर पु० सेर, परिमाण विशेष A seer, A kind of measure पिंग०

सेराह पु० अश्व की एक उत्तम जाति A kind of noble horse सम्मत्० २१६

सेरिभ पु० धुर्य वृषभ, गाड़ी का बैल A bullock दे० ८,४४

सेरिय पु० स्त्री० वाद्य-विशेष. A kind of musical instrument सण०

सेरी स्त्री० (१) लम्बी आकृति A long figure (२) भद्र आकृति A beautiful shape दे० ८,५७, (३) रथ्या, गली A street, A lane सिरि० ३१८, (४) यन्त्र-निर्मित नर्तकी A mechanical female dancer राज०

सेलूस पु० कितव, जुआरी The gambler दे० ८,२१

सेल्ल पु० (१) मृग-शिशु. A young of a deer (२) शर, बाण An arrow दे० ८,५७, (३) कुन्त, बर्जा A lance, A javelin कुमा० हे० ४,३८०

सेवाल. पु० पक, कादा Mud, Mire दे० ८,४३, षट्०

सेहरय पु० चक्रवाक पक्षी The ruddy goose दे० ८,४३

सेहित्र त्रि० गत, गया हुआ Gone दे० ८,१

सोज्झय पु० रजक, धोबी A washer-man पाञ्च०

सोत्ती स्त्री० नदी A river दे० ८,४४, षट्०

सोमइत्र त्रि० सोने की आदत वाला Habituated to sleep दे० ८,३६

सोमहिद्र न० उदर, पेट The stomach दे० ८,४३

सोमहिड्ड पु० पक, कादा Mud, Mire दे० ८,४३

सोमाल न० मांस Flesh, Meat दे० ८,४४

सोलहावत्तय पु० शक A conch shell दे० ८,४६

सोल्लिय न० पुष्प-विशेष A kind of flower श्रौच०

सुचक्रय पुं० रजक, धोबी A washerman  
दे० ८, ३४.

सुद्विच त्रि० सङ्कुचित अंग वाला Having  
contracted limbs महा०

सुद्वसिच त्रि० स्वपन-शील, सोने की आदत  
वाला Habituated to sleep दे० ८, ३६,  
पद्०

सुदारुण पुं० चंदाल. A butcher. दे०  
८, ३६.

सुदुम्भणिआ. स्त्री० रूपवती स्त्री A beautiful  
woman दे० ८, ४०

सुद्व. पु० गोपाल, बाला. A cowherd दे०  
८, ३३

सुद्वजाल. त्रि० शुद्ध-पूत, शुद्ध और पवित्र,  
Pure दे० ८, ३८

सुपाडोस. पु० अच्छा पड़ोस Good neigh-  
bourhood आ० २७

सुरगि पु० स्त्री० वृक्ष-विशेष, शिशु वृक्ष, सहि-  
जना का गाढ़ A kind of tree दे० ८, ३७

सुरजेद्व पु० वरुण देवता The God of the  
west दे० ८, ३१.

सुलस न० कुसुम-रक्त वस्त्र A red gar-  
ment दे० ८, ३७

सुलसमजरी-सुलसा स्त्री० तुलसी A tulsi-  
plant. दे० ८, ४०, पात्र०

सुली स्त्री० उल्का, आकाश से गिरती आग  
The fall of a meteor. दे० ८, ३६

सुवण्या पु० अर्जुन वृक्ष The name of a  
tree दे० ८, ३७

सुवण्याविद्व पु० विष्णु, Vishnu दे० ८, ४०

सुवत्रालुगा स्त्री० दंतवन करने का पात्र-लोटा  
आदि A vessel for cleaning teeth  
and washing the face कुप्र० १४०

सुवासिणी स्त्री० जिसका पति जीवित हो वह  
स्त्री A woman whose husband is  
alive त्रि० १२६

सुविसस्थ. पुं० व्यभिचारी पुरुष, A loose  
charactered man given to wanton-  
ness. ब्रज० ६८.

सुवुण्या स्त्री० सकेत, इसारा Sign. दे० ८, ३७  
सुन्विआ. स्त्री० अम्बा, माता. A mother  
दे० ८, ३८

सुसदिआ स्त्री० शूला-भ्रत मांस A spit  
pierced flesh दे० ८, ३६.

सुहजथिया स्त्री० बूती A bawd, A fe-  
male messenger, A female go-  
between दे० ८, ६

सुहरा स्त्री० पक्षि-विशेष, सुधरी A female  
battle bird दे० ८, ३६.

सुहराय पु० (१) वेश्या का घर. The house of  
a prostitute. (२) चटक, गैरैया पक्षी A  
kind of bird. दे० ८, २६.

सुहल्ली. स्त्री० सुख, आनन्द Happiness,  
Pleasure दे० ८, २६

सुहेल्लि. स्त्री० सुख, आनन्द, मजा Happiness,  
Pleasure दे० ८, २६, पात्र० गा० १०८,  
२११, २६१, २८८, ३६८, ४२६, ५६४,  
स० ७२

सूअरिअ. त्रि० यन्त्र-पीडित Afflicted by a  
machine दे० ८, ४१ टी

सूअरिया-सूअरी स्त्री० यन्त्र पीडन Pain  
caused by a machine सुर० १३, १२७,  
दे० ८, ४१

सूअल न० किंशार, धान्य का तीक्ष्ण अग्रभाग  
The sharp point of a grain दे०  
८, ३८

सूअ पु० चण्डाल A butcher दे० ८, ३६.

सूई स्त्री० मजरी A cymbal, A cluster  
of blossoms दे० ८, ४१

सूरग पु० प्रदीप, दीपक A lamp दे० ८, ४१,  
पद्०

सूरद्वय पु० दिन, दिवस A day दे० ८, ४२,  
पद्०



सूरल्लि पु० स्त्री० (१) मध्याह्न, दुपहर का समय Noon दे० ८,५७, षट्० (२) कीट विशेष, मशक के समान आकृति वाला कीट A kind of worm दे० ८,५७, (३) वृष-विशेष, ग्रामणी नामक वृष A kind of grass राय० दे० ८,५७, जीव० ३,४

सूरिल्ल पुं० श्वशुर पक्ष The members of the family of the father-in-law स० ५१०

सूलच्छ न० पत्थज, छोटा तलाब A small pond दे० ८,४२

सूलत्थारी स्त्री० चण्डी, पार्वती Parvati, The name of a goddess, दे० ८,४२

सूला स्त्री० वेश्या, वारागना A prostitute दे० ८,४१

सेत्र पु० गणपति, गणेश Ganpati दे० ८,४२

सेत्राल पुं० (१) गाँव का मुखिया The leader of a village, A chief (२) सानिध्य करने वाला यज्ञ आदि An invoker of a deity. दे० ८,५८, (३) कृषक, खेती करने वाला गृहस्थ A cultivator, An agriculturist पाश्च०

सेत्राली स्त्री० दूर्वा, दूब Grass दे० ८,२०

सेत्रालुत्र पु० मनौती की सिद्धि के लिए उत्सृष्ट बैल An ox sacrificed for the fulfilment of a vow दे० ८,४४

सेवाडय पु० चुटको की आवाज A sound of snapping the fingers दे० ८,४३

सेजारिअ न० आन्दोलन, हिंडोले में झूलना To swing on a seesaw दे० ८, ४३

सेर पु० सेर, परिमाण विशेष A seer, A kind of measure पिंग०

सेराह पु० अश्व की एक उत्तम जाति A kind of noble horse सम्मत्त० २१६

सेरिभ पु० धुर्य वृषभ, गाड़ी का बैल A bullock दे० ८,४४

सेरिय पु० स्त्री० वाद्य-विशेष A kind of musical instrument सण०

सेरी स्त्री० (१) लम्बी आकृति A long figure (२) भद्र आकृति A beautiful shape दे० ८,५७, (३) रथ्या, गली A street, A lane सिरि० ३१८, (४) यन्त्र-निर्मित नर्तकी A mechanical female dancer राज०

सेलूस पुं० कितव, जुआरी The gambler दे० ८,२१

सेल्ल पु० (१) मृग-शिशु. A young of a deer (२) शर, बाण. An arrow दे० ८,५७, (३) कुन्त, बर्जा A lance, A javelin. कुमा० हे० ४,३८७.

सेवाल. पुं० पक, कादा Mud, Mire दे० ८,४३, षट्०

सेहरय पु० चक्रवाक पक्षी The ruddy goose दे० ८,४३

सेहिअ त्रि० गत, गया हुआ Gone दे० ८,१

सोडमय पु० रजक, धोबी A washer-man पाश्च०

सोती स्त्री० नदी A river दे० ८,४४, षट्०

सोमइअ त्रि० सोने की आदत वाला Habituated to sleep दे० ८,३६

सोमहिंद न० उदर, पेट The stomach दे० ८,४२

सोमहिड्डु पु० पक, कादा Mud, Mire दे० ८,४३


सोमाल न० मांस Flesh, Meat दे० ८,४४

सोलहावचय पु० शर A conch shell दे० ८,४६

सोल्लिय न० पुष्प-विशेष A kind of flower श्रव०

सोवग न० (१) वास-गृह, शय्या-गृह, रति-  
मन्दिर A bed-room दे० ८, ५८, स० २०३,  
पात्र० (२) स्वप्न A dream, A vision  
(३) मस्त्र A wistler दे० ८, ५८  
सोवणमक्लिआ स्त्री० मधुमक्षिका की एक जाति,  
एक तरह की शहद की मक्खी A kind of  
honey-fly दे० ८, ५६  
सोवन्थ न० (१) उपकार Service, Help,  
Obligation (२) त्रि० उपभोग्य, उपभोग  
योग्य Worth enjoying दे० ८, ५१.  
सोव्व त्रि० पवित्र-दत्त, जिसका दाँत गिर गया  
हो वह Toothless दे० ८, ५४

सोसण पु० पवन, वायु The wind, दे०  
८, ५४  
सोसणी स्त्री० कटो, कमर The waist,  
Loins दे० ८, ५४  
सोहजण पु० वृक्ष-विशेष, सहजने का पेड़  
A kind of tree दे० ८, ३७, कण्ठ०  
सोहणी स्त्री० समारंजनी, झाड़ू A broom,  
A besom दे० ८, १७  
सोहि पु० स्त्री० (१) भूल काल The past  
time (२) भविष्य काल The future time  
दे० ८, ५८



## ह

हंजय पु० शरीर-स्पर्श पूर्वक किया जाता शपथ-  
सौगन, A kind of sweating दे० ८, ६१  
हजे स्त्री० (१) दासी का आह्वान To call  
for a female servant दे० ४, २८१,  
कुमा० पिग० (२) स्त्री का आमन्त्रण To invite  
a female friend स० ६२२, स० १७२  
हसल पु० आभूषण विशेष A kind of  
ornament अशुजी०  
हका स्त्री० (१) पुकार, बुलाहट, आह्वान A  
call (२) प्रेरणा Inspiration चञ्ज० ३८,  
पिग० सुपा० १११, सिरि० ४१०, उप० पु० ७८.  
हकिअ त्रि० (१) ढाका हुआ Driven  
महा० (२) आहूत Called, कुप्र० १४१, (३)  
प्रेरित Inspired सुपा० २११, (४) उन्नत  
Raised पद०  
हकोइ त्रि० अभिलषित Desired दे० ८, ६०  
हक्कुत्त त्रि० उत्पातित, उड़ाया हुआ, उरिक्त  
Broke up दे० ८, ६०, पञ्चम० ११७, ४,  
पात्र० स० ६१०.  
हट्टमहट्ट त्रि० (१) निरोग Healthy (२)  
दक्ष, चतुर Skilful, Active, Clever.

दे० ८, ६१, (३) स्वस्थ युवा A healthy  
youth पद०  
हडहड पु० (१) अनुराग, प्रेम Love, Affec-  
tion दे० ८, ७४, पङ्क० (२) ताप Heat,  
Sunshine दे० ८, ७४  
हडाहड त्रि० अत्यर्थ, अत्यन्त Very much  
विवा० १, १, नाया० १, १६  
हड्ड न० हाड, अस्थि Bones दे० ८, १६,  
तट्ट० ३८, सुपा० ३११, श्रु० १००  
हण त्रि० दूर, अनिकट Distant दे० ८, १६  
हणु त्रि० सावशेष, बाकी बचा हुआ That  
which is left over, The remainder  
दे० ८, १६, सण०  
हृत्थ त्रि० (१) शीघ्र, जल्दी काने वाला Speedy  
worker दे० ८, १६, (२) त्रि० वि० जल्दी  
Quickly, Speedily शेष०  
हृत्थच्छुहणी स्त्री० नव बधू, नवोदा A newly-  
married woman दे० ८, ६४  
हृत्थल पु० (१) क्रीडा के लिए हाथ में ली हुई  
चीज A thing taken in the hand for  
merriment (२) त्रि० हस्त-बोल, चञ्चल

हाथ वाला Active, Dexterous दे० ८, ७२  
 हृत्थल्ल त्रि० क्रीडा से हाथ में लिया हुआ  
 Sportively taken in the hand दे०  
 ८, ६०  
 हृत्थल्लिञ्च त्रि० हस्तापसारित, हाथ से हटाया  
 हुआ Removed by hand दे० ८, ६४  
 हृत्थल्ली स्त्री० हस्त-वृत्ती, हाथ में स्थित आसन-  
 विशेष A kind of seat in the hand,  
 दे० ८, ६१  
 हृत्थार न० सहायता, मदद Help, Support  
 दे० ८, ६०  
 हृत्थावार न० सहायता, मदद Help, Aid,  
 Support भवि०  
 हृत्थिञ्चकन्तु न० वक्र अवलोकन To look  
 with a side long glance दे० ८, ६२  
 हृत्थिमल्ल पु० इन्द्र हस्ती, एरावण हाथी The  
 elephant of god Indra दे० ८, ६३  
 हृत्थियार न० (१) हथियार, शस्त्र A weapon,  
 धर्मसं० १०२२, ११०४, भवि० (२) युद्ध,  
 लड़ाई A war, A battle सं० ६३७,  
 ६३८  
 हृत्थिवय पु० ग्रह-भेद Constellation of  
 planets दे० ८, ६३  
 हृत्थिहरिल्ल पु० वेष A dress दे० ८, ६४  
 हृत्थोडी स्त्री० (१) हस्ताभरण, हाथ का आभू-  
 षण A kind of ornament for the  
 hand (२) हस्त प्राभृत, हाथ से दिया जाता  
 उपहार A hand-given present  
 दे० ८, ७३  
 हृत्थलेव पु० हस्त - ग्रहण, पाणि - ग्रहण  
 Marriage सिरि० १२८  
 हृद-द पु० बालक का मल-मूत्रादि The  
 ordure, urine etc of a child पिड०  
 ४७१  
 हृदय पु० हास, विकास Development  
 दे० ८, ६२

हृयमार पु० कणेर का गाछ A kind of  
 tree पात्र०  
 हरपञ्चुञ्च त्रि० (१) स्मृत, याद किया हुआ  
 Remembered (२) नाम के उद्देश से दिया  
 हुआ Given for fame दे० ८, ७४  
 हरि पु० शुक, तोता A parrot दे० ८, ५६,  
 हरिआली स्त्री० दूर्वा, दूब Grass दे० ८, ६४,  
 पात्र० अत० कप० अशुजो० २३  
 हरिचदण न० कुङ्कुम, केसर Saffron  
 दे० ८, ६२  
 हरिमिग पु० लगुड, लट्टी, डडा. A stick,  
 A lathi दे० ८, ६१  
 हलप त्रि० बहु-भाषी, वाचाल Talkative,  
 Loquacious दे० ८, ६१  
 हलवोल पु० कलकल, शोरगुल, कोलाहल A  
 noise, A bustle दे० ८, ६४, पात्र० कुमा०  
 सुपा० ८०, १३२, सट्टि० १४०, कुम्र० ३६२,  
 सिरि० ४३३, सम्मत्त० १२२  
 हलहल-हलहलञ्च पु० न० (१) तुसल, कोला-  
 हल, शोरगुल A noise, A bustle दे०  
 ८, ७४, सं० १२, ८६, (२) कौतुक, कुतूहल A  
 wonder दे० ८, ७४, सं० ७०४, (३) त्वरा,  
 हड़बडी, हलफल, शीघ्रता Speed, Quick-  
 ness, Haste पात्र० सं० ७०४, (४)  
 औत्सुक्य, उत्कठा Anxiety, Eagerness  
 गा० २१, ७८०  
 हलहलिञ्च त्रि० कम्पित, काँपा हुआ. Shaken,  
 Trembled पिग०  
 हलाहला स्त्री० वमणिका, बाग्दानी, जन्तु-विशेष  
 A kind of insect दे० ८, ६३  
 हलूर त्रि० स-चृण्ण, सस्पृह Ambitious,  
 Desirous दे० ८, ६२  
 हल्लपविञ्च त्रि० स्वरित, शीघ्र Quickly,  
 Swiftly पद्०  
 हल्लफल न० हलफल, हड़बडी, औत्सुक्य,  
 त्वरा, शीघ्रता. Eagerness, Haste हे०

२,१७४, स० ६०२, कुमा० (२) आकुलता  
 Confusion सुपा० ६२६, (३) त्रि० कम्पन-  
 शील, चञ्चल Trembling, Quiv-  
 ering वजा० ६६  
 हल्लफलिअ त्रि० (१) व्याकुल Confused  
 धर्मवि० २६, (२) शीघ्र, जल्दी Speedy,  
 Quok, Hasty (३) न० आकुलता, व्याकुल-  
 पन Confusion दे० ८,५६  
 हल्लाविअ त्रि० हिलाया हुआ Shaken,  
 Shivered सुर० ३,१०६  
 हल्लिअ त्रि० हिला हुआ, चञ्चित Quivered,  
 दे० ८,६२, भवि०  
 हल्लिर त्रि० चलन-शील, हिलने वाला One  
 that trembles स० २७८, कुप० ३२१  
 हल्लोस पु० रासक, मण्डलाकार होकर स्त्रियों  
 का नाच A circular dance दे० ८,६१,  
 पात्र०  
 हल्लुत्ताल-हल्लुत्तावल न० शीघ्रता, जल्दी  
 रवा Speed, Haste भवि० सुर० १२, ८८  
 हल्लोहलिअ पु० खी० सरट, गिरगिट A kind  
 of animal कम्प०  
 हविअ त्रि० अञ्चित, चुपड़ा हुआ Be-  
 smeared दे० २,२२, ८,६२  
 हसिरिआ खी० हास, हसी A laugh दे०  
 ८,६२  
 हाडहड न० तरफाल, तत्स्थ At that  
 moment वव० १  
 हाम अ० इस तरह, इस प्रकार, एवं So,  
 This 'हामभय' प्राक० ८१  
 हारा खी० लिहा, जन्तु-विशेष A small louse  
 दे० ८,६६  
 हालाहल पु० मालाकार, माली A gar-  
 dener दे० ८,७२  
 हालुअ त्रि० खीव, मत्त Intoxicated  
 दे० ८,६६  
 हाव त्रि० जघाल, द्रुतगामी, वेग से दौड़ने

वाला, A fast runner दे० ८,७२  
 हाविर त्रि० (१) जघाल, द्रुतगामी One  
 who walks quickly (२) दीर्घ, लम्बा,  
 Long (३) मन्थर One who walks  
 slowly. (४) विरत Ceased, Stopped  
 दे० ८,७२  
 हासीअ न० हास, हसी A laugh दे० ८,६२  
 हिग. पु० जार, उपपति A paramour दे०  
 १,४  
 हिचिअ न० एक पैर से चलने की बाल-क्रीड़ा  
 A children's sport in which they  
 walk on one foot दे० ८,६८  
 हिडोल न० (१) खेत में पशुओं को रोकने की  
 आवाज A sound to drive away ani-  
 mals from the field (२) चेत्र की रवा  
 का यन्त्र A contrivance to protect a  
 field from wild animals दे० ८,६६  
 हिडोलण न० (१) रत्नावली, रत्न माला, A  
 garland of jewels (२) चेत्र में पशु आदि  
 को रोकने का शब्द A sound to drive  
 away animals from the field दे०  
 ८,३६  
 हिविअ त्रि० न० एक पैर से चलने की बाल  
 क्रीड़ा A sport in which children  
 walk on one foot दे० ८,६८  
 हिहु पु० हिन्दू, हिन्दुस्थान का निवासी A  
 Hindu, An inhabitant of India.  
 विग०  
 हिका स्त्री० रजकी, धोबिन A washerwoman  
 दे० ८,६६  
 हिकास पु० पक, कादा Mud, Mire दे०  
 ८,६६  
 हिकिअ न० हेपा-रव, अश्व शब्द Neighing  
 दे० ८,६८  
 हिदु त्रि० आकुल Confused दे० ८,६०  
 दिद्वाहिद त्रि० आकुल Confused दे० ८,६०

हिंडू त्रि० वामन, खर्व Dwarfish दे०  
८,६७

हित्य त्रि० (१) लज्जित Ashamed, दे०  
८,६७, धण० ६, (२) त्रस्त, भयभीत Flight-  
ened, Afraid. दे० ८,६७, हे० २,१३६, प्राप्र०  
गा० ३८६, ७६३, कुमा० (३) हिसित, मारा  
हुआ Killed वव० १

हिद्ध त्रि० खस्त, खिसका हुआ, खिसक कर गिरा  
हुआ Slipped षड्०

हिद्धा स्त्री० लज्जा, शरम. Shame, Bashful-  
ness दे० ८,६७

हिरडी स्त्री० चील पक्षी की मादा A kite,  
A kind of bird दे० ८,६८

हिरिं न० पल्लव, छद्म तलाव A small  
pond, A puddle दे० ८,६९

हिरिमथ पु० चना, अन्न-विशेष Gram दे०  
८,७०.

हिरिवग पु० लगुड, लट्टी A stick दे०  
८,६३

हिला-हिल्ला स्त्री० चालुका, रेती Sand दे०  
८,६६

हिल्लोडण न० खेत में पशुओं को रोकने की  
आवाज A sound to drive away  
animals from the field दे० ८,६९

हिसोहिसा स्त्री० स्पर्धा Rivalry, Competi-  
tion दे० ८,६९

हीर पु० न० (१) भस्म Ashes दे० ८,७०,  
(२) प्रान्त, अन्त भाग The end, Extreme  
portion गउड०

हीरणा स्त्री० लाज, शरम Shame, Bash-  
fulness दे० ८,६७, षड्०

हीसमण न० हेपारव, अश्व का शब्द Neigh-  
ing दे० ८,६८, हे० ४,२२८

हु क्य पु० अजलि, प्रणाम. Salutation दे०  
८,७१.

हु कुरव पु० अजलि, प्रणाम. Salutation  
दे० ८,७१.

हु डी स्त्री० घटा Mass, Thicket. पात्र०  
हुड पु० (१) मेप, मेढ़ा A goat दे० ८,७०,  
(२) श्वान, कुत्ता A dog मृच्छ० २५३.

हुडुअ पु० प्रवाह A current, A flow.  
दे० ८,७०

हुडुम पु० पताका, ध्वजा A flag, A ban-  
ner दे० ८,७०, पात्र०

हुत्त त्रि० अभिसुख, समुख In front  
of दे० ८,७०, हे० २,१२८, गउड० भवि०

हुरड पु० स्त्री० तृण आदि से कुछ पकाया हुआ  
चना आदि धान्य, होला आदि Grams etc  
somewhat cooked by the fire of  
grass सुपा० ३८६, ४७३

हुरुडो स्त्री० विपादिका, रोग-विशेष A kind  
of disease दे० ८,७१

हुलुमुलि स्त्री० कपट, दग्भ Deceit, Hypo-  
cisy नाट मृच्छ० २८२

हुलुठवी स्त्री० प्रसव-परा, निकट भविष्य में प्रसव  
करने वाली स्त्री A woman just to deli-  
ver दे० ८,७१

हूम पु० लोहार A blacksmith दे० ८,७१

हेआल पु० हस्त-विशेष से निषेध, साप के फण्य  
की तरह किये हुए हाथ से निवारण To say  
'no' by the sign of the hand दे०  
८,७२


हेडा स्त्री० (१) घटा, समूह Mass, Thic-  
ket, Multitude सुपा० ३८६, ४३०, (२)  
शूत आदि खेलने का स्थान, यखावा A place  
for gambling धम्म० १२ टी

हेपिअ त्रि० उन्नत, ऊँचा High, Lofty  
षड्०


हेरव पु० (१) महिप, भैंसा A he-buffalo  
(२) शिथिडम, वाद्य-विशेष A kind of musi-  
cal instrument दे० ८,७६

हेरिंघ पु० विनायक, गणेश Ganesh ; The son of god Mahadeo. दे० ८, ७२, पङ्०  
हेला स्त्री० वेग, शीघ्रता Speed, Haste दे०  
८, ७१, कम्पू० प्रबि० ११  
हेलुअ न० छुत्, छींक A sneeze दे० ८, ७२  
हेलुक्का स्त्री० हिक्का, हिचकी Hiccough. दे०  
८, ७२  
हेसमण त्रि० उन्नत, ऊँचा High, Lofty  
पङ्०  
हेसिअ. न० रसित, चीत्कार A shriek पङ्०

हेहभूअ त्रि० गुण दोष के ज्ञान से रहित और  
निर्दम्भ, अज्ञ किन्तु निखालस Open-hearted  
through ignorance, Devoid of dis-  
crimination and hypocrisy वच० १  
होरण न० वस्त्र, कपडा A garment, A  
clothe दे० ८, ७२, गा० ७७१  
होल पु० स्त्री० (१) वाद्य-विशेष A kind of  
musical instrument धर्मवि ४४, सुख०  
२, १, (२) पक्षि-विशेष. A kind of bird.  
खा० १३



इति श्रीलिम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपूज्यपाद श्री १००८  
श्रीगुलाबचन्द्रजित्स्वामिशिष्यश्रीजिनशासनसुधाकर शता-  
वधानि-परिद्धतप्रवरमुनिराजश्री १००८ श्रीरत्नचन्द्र  
जित्स्वामिविरचिते बृहत्कोषे पचमभागे सप्रमाण  
देश्यप्राकृतविभाग समाप्त ।  
\* ॐ शान्ति' शान्ति' शान्ति \*



# शुद्धि-पत्र

| पृ० | को० | प० | अशुद्धम्  | शुद्धम्   | पृ० | को० | प० | अशुद्धम्    | शुद्धम्     |
|-----|-----|----|-----------|-----------|-----|-----|----|-------------|-------------|
| १   | २   | २० | १, २,     | २         | २४  | १   | १  | खोथनि०      | शोधनि०      |
| २   | १   | ७  | आलसु      | आलसी      | २४  | १   | २  | शक्तिवान    | शक्तिमान्   |
| ३   | १   | १२ | को        | के        | २४  | १   | ४  | कापटिक      | कार्पाटिक   |
| ७   | १   | ३५ | ६         | न         | २५  | १   | १८ | कलिम्ब पुं० | कलिम्ब पुं० |
| ८   | १   | ८  | विरो०     | विशे०     | २५  | २   | १  | आ०          | उत्त०       |
| ८   | १   | १५ | अधिष्ठक   | अधिष्ठक   | २७  | २   | २६ | ३, ६.       | ३६          |
| ६   | २   | १४ | जन्म      | जम्म      | ३०  | १   | ४  | क्रोध       | क्रोधी      |
| ६   | २   | १७ | १, १      | १         | ३०  | २   | १५ | ०           | ठा० ४, २.   |
| ११  | १   | १२ | व०        | न०        | ३०  | २   | ३१ | ०           | पुं०        |
| ११  | २   | १४ | लक्षिध    | लक्षिध    | ३१  | १   | २० | नला         | तला         |
| ११  | २   | २५ | २, २      | २०, २     | ३३  | २   | १६ | परियााम     | परिमाख      |
| ११  | २   | ३३ | आयर०      | आपार०     | ३५  | १   | २८ | ०           | वव० ४       |
| १३  | १   | ३२ | उवखंद     | उखखद      | ३६  | १   | ४  | २           | ३           |
| १४  | १   | ९  | न०        | त्रि०     | "   | "   | ५  | ०           | पुं०        |
| १४  | १   | ६  | उर्ध्व    | ऊर्ध्व    | ४०  | १   | ५  | १, २        | २, १        |
| १४  | १   | २७ | १, १      | १         | ४०  | १   | ३० | आवे०        | आवे०        |
| १४  | २   | ३० | उद्गाहण   | उद्गाहण   | ४१  | २   | ३३ | ६           | ४           |
| १५  | १   | १३ | वव० १, १० | वव० १०    | ४४  | १   | ३५ | २, २, २     | २, २        |
| १५  | १   | १७ | वव० १, १  | वव० १     | ४७  | १   | २० | बहिर्भाव    | बहिर्भाव    |
| १५  | १   | २६ | वव० १, ८. | वव० ८     | ४६  | १   | २२ | निर्मेरित   | निर्मेरित   |
| १५  | २   | १३ | १, ४      | ६         | ५०  | २   | २० | पु०         | त्रि०       |
| १६  | २   | १० | टा०       | ठा०       | ५१  | २   | १६ | त्वष्ट्र    | त्वष्टृ     |
| १७  | १   | ३  | (२)       | (२) त्रि० | ५१  | २   | २२ | ०           | १३          |
| १८  | १   | १  | श्रेक्षिध | श्रेक्षिध | ५२  | १   | ३५ | तिर्यच      | तिर्यच्च    |
| १८  | २   | ३  | त्रि०     | पु०       | ५३  | २   | ३६ | ०           | त्रि०       |
| १८  | २   | ६  | (२)       | (२) त्रि० | ५५  | २   | ४  | जीवा०       | जीव०        |
| १८  | २   | ७  | (३)       | (३) पुं०  | ५५  | २   | ३१ | क           | का          |
| १९  | १   | २१ | चारह      | चारह      | ५६  | १   | ३  | दुग्भूय     | दुग्भूय     |
| १९  | २   | ३  | ओवाइण     | ओवाइण     | ५६  | १   | ३३ | पयोह०       | पयोह०       |
| २०  | ०   | २२ | निकया     | निकाय     | ५६  | २   | १५ | वदेउत्त     | वदेउत्त     |

|     |   |    |             |             |     |   |    |            |             |
|-----|---|----|-------------|-------------|-----|---|----|------------|-------------|
| ५६  | २ | २६ | दोहा        | दोहा        | १२३ | १ | ७  | वव० १      | वव० १ टी.   |
| ५६  | २ | २८ | दोनक्रिम    | दोनिक्रम    | १२३ | २ | ८  | अचचू० १६   | अचचू० १६    |
| ५७  | २ | ३५ | ऐस          | ऐसी         | १२५ | १ | १२ | आयम०       | आयम०        |
| ५८  | १ | ३५ | १-४-१       | १-२-१       | १२५ | २ | ५  | अचचुत्प    | अचचुत्प     |
| ६०  | १ | १४ | पश्रोपव     | पश्रोपिय    | १२६ | १ | ६  | विक्र०     | विक्र०      |
| ६१  | २ | १२ | पु०         | त्रि०       | १२६ | १ | ६  | न०         | त्रि०       |
| ६२  | २ | १२ | चाति        | ज्ञाति      | १२६ | १ | ३२ | ६८६        | ६८६         |
| ६२  | २ | ३६ | १           | २           | १२७ | २ | १३ | अशुअ       | अशुअ        |
| ६६  | १ | २७ | १, ५        | १५          | १२६ | २ | १५ | घरिणी      | घरिणी       |
| ७०  | १ | ११ | पसस्था      | पसस्थार     | १३० | १ | १७ | पु०        | त्रि०       |
| ७५  | १ | २८ | १, २        | १, १        | १३० | १ | २२ | अणमघ       | अणमघ        |
| ८०  | १ | २२ | महिच्छा     | महिच्छ      | १३० | २ | ३१ | खुला       | खिला        |
| ८०  | १ | २२ | महेच्छा     | महेच्छ      | १३२ | १ | २  | अवृष्टि    | अनावृष्टि   |
| ८२  | २ | ३२ | विसय        | वदिसय       | १३२ | २ | १० | अणिहस      | अणइस        |
| ८५  | २ | १२ | ओव०         | उव०         | १३३ | १ | २६ | पंचमा०     | पंचमा०      |
| ८६  | १ | ३१ | वाजिन्      | वाजिन्      | १३४ | १ | ६  | ३          | ३२          |
| ८८  | २ | १३ | न०          | त्रि०       | १३४ | १ | १८ | प्राव०     | प्राप०      |
| ९१  | १ | ३६ | विक्क       | विवक्क      | १३५ | १ | १  | ५८८        | ५८४         |
| "   | " | "  | "           | विपक्क      | १३५ | १ | २२ | अनुवजित    | अनुर्जित    |
| ९८  | १ | ५  | खूव         | खूव         | १३५ | २ | ४  | कर०        | कस०         |
| ९९  | २ | ३३ | सतह         | सतद्दु      | १३५ | २ | ८  | पह०        | पह          |
| ९९  | २ | ३३ | ०           | एक महानदी   | १३६ | २ | २  | निशी       | निसी०       |
| १०० | १ | १३ | ०           | कप्प०       | १३६ | २ | ६  | केणुपेक्खा | अणुपेक्खा   |
| १०४ | १ | ८  | श्यामार्य   | श्यामाचार्य | १३६ | २ | ६  | अणुप्पदाया | अणुप्पदाया  |
| १०७ | २ | २५ | सुसवुअ      | सुसवुअ-ड    | १३७ | १ | २६ | युक्त      | उक्त        |
| १०७ | २ | २६ | पु०         | पु न०       | १३८ | २ | ५  | ०          | सूय० १, १२, |
| १०८ | २ | २१ | सूलिका      | सूलिया      | १३८ | २ | १४ | ०          | उवा०        |
| १०९ | २ | ५  | हट्ट        | हट्ट        | १४० | २ | १४ | नाह०       | नाट०        |
| ११३ | २ | २२ | विशे०       | विशे०       | १४१ | १ | ५  | माया०      | प्रामा०     |
| ११४ | १ | ६  | अइय         | अइय         | १४२ | २ | २३ | ३८१०७      | ३८, १०७     |
| ११४ | १ | २६ | अतिमसङ्गिन् | अतिमसङ्गिन् | १४२ | २ | २३ | अद्धत्त    | अद्धत्त     |
| ११५ | १ | १३ | अइवत्तिय    | अइवत्तिय    | १४३ | १ | ३१ | उप०        | उव०         |
| ११६ | १ | २२ | जे०         | ज०          | १४३ | २ | ४  | न०         | न०          |
| ११६ | २ | २६ | अचू०        | आचू०        | १४३ | २ | ७  | दे०        | द०          |
| १२० | २ | १० | अकारवदिन्   | अकारवादिन्  | १४७ | १ | २२ | पालक       | वालक        |
| "   | " | ११ | निक्किय     | निक्किय     | १४८ | २ | २४ | ०          | आया०        |



|     |   |    |             |              |     |   |         |             |             |
|-----|---|----|-------------|--------------|-----|---|---------|-------------|-------------|
| १४६ | १ | ६  | अभिषिपेया   | अभिषिपया     | १७८ | १ | १३      | आलि         | अलि         |
| १४६ | १ | ३२ | ०           | त्रि०        | १७८ | २ | ३६      | वि०         | पि०         |
| १५० | १ | १६ | यभिधान      | अभिधान       | १८० | १ | ६       | का          | की          |
| १५२ | १ | २२ | द           | द०           | १८० | १ | २०      | त्रि०       | न०          |
| १५४ | २ | ६  | अवकास       | अवकाश        | १८५ | २ | ६       | इह          | इयह         |
| १५४ | २ | ३० | अवञ्चित     | अवाञ्चित     | १८६ | १ | २       | अवम०        | आवम०        |
| १५६ | १ | ३२ | १४३         | १४०          | १८६ | १ | ६       | नियाग       | नियोग       |
| १५७ | १ | ५  | ओघ०         | ओघ०          | १८७ | १ | १२      | गूगल        | ऊखल         |
| १५७ | १ | ३३ | अवभासित     | अपभासित      | १८७ | १ | १३      | ०           | १           |
| १५८ | १ | ५  | भवि० ४      | भवि०         | १८७ | १ | ११, ११, | १, १,       | १७१         |
| १६२ | २ | २२ | अव्यय       | अव्यय        | १८७ | २ | २०      | उर्ध्व      | ऊर्ध्व      |
| १६४ | १ | ४  | सण०         | सण०          | १८८ | १ | २५      | उक्स        | उकुस        |
| १६४ | १ | २६ | ६           | ७            | १८६ | २ | ८       | १३          | १३०         |
| १६५ | १ | ३३ | ०           | त्रि०        | १६० | २ | २८      | उत्सहित     | उत्साहित    |
| १६५ | २ | १४ | अधिक्य      | आधिक्य       | १६० | २ | ३३      | कुमा०       | कुम्मा०     |
| १६५ | २ | २८ | टी०         | टि०          | १६१ | १ | ३३      | चाक०        | चार०        |
| १६६ | १ | ५  | धर्म        | धर्म         | १६१ | १ | ३५      | ४१८         | ११६         |
| १६६ | १ | १६ | स्थापिन     | स्थापन       | १६१ | २ | २३      | उजीवित      | उजीवित      |
| १६६ | २ | १० | अधिष्ठापक   | अधिष्ठापक    | १६१ | २ | २७      | उज्जुढ      | उज्जुढ      |
| १६७ | २ | ३३ | अहिलसि त्त  | अहिलसिय      | १६२ | १ | ४       | साध्य०      | सार्ध०      |
| १६८ | २ | १४ | अहीरु       | अहीरु        | १६७ | २ | २७      | गच्छा०      | गच्छ०       |
| १६८ | २ | १८ | आहुताशेय    | आहुताशेय     | १६८ | १ | २०      | पा०         | पाञ्च०      |
| १६८ | २ | २२ | अहूय        | अहूय         | १६६ | १ | २८      | प०          | पच०         |
| १६६ | २ | १६ | अविद्ध      | आविद्ध       | २०१ | २ | ५       | उल्लन       | उल्लन       |
| १७२ | १ | २  | सूयभि०      | सूयनि०       | २०२ | २ | १       | नि०         | ओघनि०       |
| १७३ | २ | २४ | अप्राप्ति   | आप्राप्ति    | २०३ | १ | ६       | उवगव        | उवगव        |
| १७४ | १ | १२ | सु० प०      | सु० च०       | २०३ | १ | २७      | उवगगाहग     | उवगगाहग     |
| १७४ | १ | १७ | नि०         | त्रि०        | २०३ | २ | १६      | ०           | त्रि०       |
| १७४ | १ | २६ | उप०         | उप० १४७, (२) | २०४ | २ | २१      | उवदसिर      | उवदसेत्तु   |
| १७४ | १ | २७ | २३१         | २२१          | २०६ | १ | ११      | साध०        | सार्ध०      |
| १७५ | २ | ३४ | आयासुली     | आयासुही      | २०७ | १ | ११      | हदाया हुआ   | समेदा हुआ   |
| १७६ | १ | १७ | आयासइत्त    | आयासइत्तिअ   | २०७ | १ | ३३      | (२)         | (२) पु०     |
| १७६ | १ | १७ | आयन्तिअयित् | आयासयित्     | २०७ | १ | ३४      | (३)         | (३) न०      |
| १७६ | १ | २० | भिन्न       | खिन्न        | २०८ | १ | १६      | कम०         | कस०         |
| १७६ | ० | १७ | आश०         | आरा०         | २०६ | २ | १५      | रत्ना०      | सुपा०       |
| १७८ | १ | २  | आलस्यिन्    | आलसिन्       | २०६ | २ | २४      | उद्देजिन्त् | उद्देजिन्त् |

|     |   |    |            |                       |     |   |    |                |               |
|-----|---|----|------------|-----------------------|-----|---|----|----------------|---------------|
| २११ | १ | ६  | सथा        | सथा                   | २५५ | १ | २३ | आप० ३          | पिठ ४२७       |
| २११ | १ | २६ | ०          | न०                    | २५६ | २ | १६ | प्रब० १४       | प्रब० १६४     |
| २११ | २ | २६ | १४४        | १, ४४                 | २५६ | २ | २६ | शा०            | गा०           |
| २१२ | १ | १८ | उत्सुकित   | उत्सुकित              | २५८ | १ | १७ | स्कन्धमत्      | स्कन्धवत्     |
| २१२ | १ | ३२ | प्राण०     | प्राणा                | २५८ | १ | १६ | स्तम्भनिगण्डित | स्तम्भित      |
| २१२ | २ | ३२ | ५२६        | ५६२                   | २५८ | १ | ३६ | ड०             | षट्           |
| २१३ | १ | १२ | खामि       | नामि                  | २५६ | २ | ३२ | विद्याधर       | विद्याधर      |
| २१४ | २ | ११ | आगस्य      | आगस्य                 | २६० | २ | २६ | ड०             | पुं न०        |
| २१४ | २ | १६ | श्रेयुष्टि | श्रेयुष्टि            | २६१ | १ | १  | ०              | न             |
| २१४ | २ | २१ | १५०        | १५                    | २६१ | १ | २२ | सिरि०          | सिरि०         |
| २१५ | २ | २८ | अवगणित     | अवगणित                | २६१ | २ | ८  | ४१             | ३१            |
| २१५ | २ | २८ | तितरस्कृत  | तितरस्कृत             | २६१ | २ | १७ | चरित           | चारित         |
| २१८ | १ | ६  | ०          | त्रि०                 | २६१ | २ | २७ | कामिन्         | कामिन्        |
| २२१ | २ | ३५ | स०         | से०                   | २६३ | १ | ६  | खरसाय          | खुरसाय        |
| २२२ | २ | १६ | कडुअ       | कडुअ-ग                | २६३ | १ | १३ | मह०            | महा०          |
| २२५ | १ | २  | (५) ३      | आया० २, ३, ४          | २६४ | २ | २६ | हे० ११५८       | हे० १, १५८    |
| २२५ | १ | ११ | शशय        | शशय                   | २६५ | २ | २० | ०              | ज० प० १       |
| २२६ | १ | २६ | रत्ना      | रत्ना                 | २६६ | १ | २४ | वच०            | वच            |
| २२६ | २ | ३१ | उत्तर०     | उत्तरि० ३             | २६८ | १ | २३ | ( ३ )          | गरत्न (गरत्न) |
| २३० | १ | २३ | को०        | से०                   | २६६ | २ | २६ | डू०            | हे०           |
| २३५ | १ | ३४ | रजित       | रजित                  | २६६ | २ | ३२ | गानेयासा       | गानेयासा      |
| २३७ | २ | १  | भक्त०      | भक्त०                 | २७० | १ | १७ | आचार०          | आचार०         |
| २३८ | २ | २  | अक्षरज्ञान | देरीसे अक्षर<br>ज्ञान | २७१ | २ | २  | गिहिय          | गिहिय         |
| २३८ | २ | ३  | शिक्षित    | अशिक्षित              | २७२ | २ | ८  | प्र प०         | प्राप०        |
| २३६ | १ | २  | ती० ३      | ती० ६                 | २७३ | १ | २८ | तदु०           | तदु०          |
| २३६ | २ | ११ | प्राप्त०   | प्राप्त०              | २७५ | २ | १८ | गोहरे-गोहरेय   | गोहरे-गोहरेय  |
| २४१ | १ | २४ | मटाभारी    | महाभारी               | २७५ | २ | १८ | गोधरे          | गोधरे         |
| २४१ | २ | १२ | २ टी०      | १२ टी०                | २७५ | २ | २१ | नर             | ६२, ६१        |
| २४१ | २ | २८ | वनानी      | वनानी                 | २७६ | १ | १६ | ६५, ४          | ४६७           |
| २४८ | १ | ७  | न०         | स्त्री० न०            | २७६ | २ | २५ | तदु०           | तदु०          |
| २४६ | २ | ४  | १६         | १४                    | २७६ | २ | ३१ | घरित           | घरित          |
| २४६ | २ | ०२ | वाणिग्     | वयिक्                 | २७८ | १ | २  | तदु०           | तदु०          |
| २५२ | १ | ३  | मयडुक      | मयडुक                 | २७८ | २ | ४  | धूणित्         | धूणित्        |
| २५२ | २ | ३६ | ०          | सुच० ४६               | २७८ | २ | ७  | स० ७८, गडड०    | स० ५७८, गडड०  |
| २५३ | १ | २६ | सोनु       | सोना                  | २७८ | २ | १८ | २११            | २११ टी०       |

|     |   |    |           |               |     |   |    |             |            |
|-----|---|----|-----------|---------------|-----|---|----|-------------|------------|
| २७६ | १ | ७  | चतुष्टिका | चतुर्मुक्तिका | २१२ | १ | ३१ | धर्म०       | धर्म० २    |
| २८० | २ | १७ | ६         | ४             | ३१३ | १ | २५ | धन्व        | धन्व       |
| २८० | २ | २० | वार       | चार           | ३१६ | २ | १६ | शिष्टुश्च   | शिष्टुश्च  |
| २८१ | १ | ८  | चन्दनला   | चन्द्रनला     | ३१७ | १ | ६  | निर्णसित    | निर्णसित   |
| २८१ | २ | २३ | चन्द्रिल  | चन्द्रिल      | ३१७ | १ | ६  | ०           | विनाशित    |
| २८२ | १ | ३६ | अपरिचित   | अपरिचित       | ३१८ | १ | १६ | शिष्टिष्ट   | शिष्टिष्ट  |
| २८२ | २ | २  | भ्रम      | भ्रमर         | ३१९ | २ | २३ | नि०         | ति०        |
| २८२ | २ | २८ | प्राह्ण०  | प्रासू०       | ३२० | २ | २१ | शिम्माइय    | शिम्माइय   |
| २८५ | १ | २२ | व्याचित   | याचित         | ३२१ | १ | २८ | वग्ना       | वग्ना      |
| २८५ | २ | २४ | पाड०      | पात्र०        | ३२१ | १ | २८ | नन          | नन         |
| २८६ | १ | २० | चित्त     | चित्त         | ३२४ | २ | ४  | खिवमय       | खिवसिय     |
| २८८ | १ | २६ | द्योतक    | द्योतक        | ३२५ | १ | १३ | ४०          | ४          |
| २८८ | २ | १३ | ०         | पु०           | ३२६ | २ | ३३ | उसी         | किसी       |
| २८८ | २ | १६ | ग०        | गा०           | ३२७ | २ | २५ | शिसिहिय     | शिसीहिय    |
| २९० | २ | ७  | ५४        | ३४            | ३२८ | १ | ५  | नत्त        | नत्त       |
| २९० | २ | ६  | १६४       | १५४           | ३२८ | १ | २४ | उप०         | उव०        |
| २९१ | २ | ५  | कुष       | कुषू          | ३२८ | १ | ३४ | कि०         | क्रि०      |
| २९७ | २ | ६  | प्रकरणा   | ०             | ३२९ | २ | २० | नीचस्       | नीचैस      |
| २९९ | १ | ४  | टी०       | टी०           | ३३० | २ | ३  | ०           | २          |
| २९९ | १ | १० | १६७२      | १४७२          | ३३० | २ | ५  | उप०         | उव०        |
| २९९ | १ | ११ | पु०       | त्रि०         | ३३१ | १ | ७  | निष्कासन    | निष्कासन   |
| ३०० | १ | २० | नगि०      | नमि०          | ३३१ | १ | १६ | निसा० चू०   | निसी० चू०  |
| ३०१ | २ | २८ | ०         | पु०           | ३३२ | १ | ५  | पु० न०      | पु० व०     |
| ३०३ | १ | ७  | तदु०      | यादि०         | ३३२ | १ | ८  | चक          | चक्र       |
| ३०३ | १ | ३२ | त्रि०     | न०            | ३३३ | १ | ६  | तउपट्टिया   | तउवट्टिया  |
| ३०३ | १ | ३२ | ध्यान     | ध्यात         | ३३३ | १ | ११ | हे०         | दे०        |
| ३०४ | १ | १८ | टगर       | तगर           | ३३३ | १ | १२ | त्वाहप      | त्वाहश     |
| ३०६ | २ | २५ | दोयणा     | दोवणा         | ३३५ | १ | ४  | धर्मवि०     | धमवि०      |
| ३०७ | १ | २२ | सस०       | सम०           | ३३५ | १ | १२ | भवहोन       | भवहोंत     |
| ३०८ | १ | २६ | महर०      | महा०          | ३३५ | २ | २  | तदभौम       | तदभौम      |
| ३०९ | १ | ३२ | ६७        | ६७            | ३३७ | १ | १८ | सपा०        | सुपा०      |
| ३०९ | २ | ११ | शलाढतप    | शलाढतव        | ३३७ | २ | १७ | राजकन्या    | एकराजकन्या |
| ३१० | २ | २४ | नदन       | नन्दन         | ३३८ | १ | १४ | पु० स्त्री० | पु० १०     |
| ३११ | १ | २६ | ८         | ६             | ३३८ | २ | ११ | भूमि        | भूमि       |
| ३११ | १ | २२ | ६४४       | ६४८           | ३३८ | २ | १६ | तवी         | तावी       |
| ३१२ | १ | २५ | ५३३       | ५३८           | ३३९ | १ | ७  | तिअस्       | तिअस       |
|     |   |    |           |               | ३३९ | २ | २२ | सुवेव       | सुवेव      |

|     |   |    |              |              |     |   |    |            |            |
|-----|---|----|--------------|--------------|-----|---|----|------------|------------|
| ३८० | १ | १८ | तिष्ण        | त्रिष्ण      | ३७८ | २ | १६ | धूसर       | धूसर       |
| ३८१ | २ | १० | धर्म०        | धर्मा०       | ३८० | १ | २६ | ०          | पु०        |
| ३८४ | १ | २२ | महात्म्य     | माहात्म्य    | ३८० | २ | १८ | टी०        | टि०        |
| ३८४ | २ | ४  | तत्रविग्र    | तत्रविग्र    | ३८२ | १ | १  | प्राक्     | प्रयो      |
| ३८४ | २ | ३६ | १            | २            | ३८८ | १ | ७  | श्रोच०     | श्रोच०     |
| ३८६ | १ | २६ | सिग्ध०       | सिग्ध०       | ३८८ | १ | ८  | टी०        | टि०        |
| ३८८ | १ | ८  | धियुग-य      | धियुग-य      | ३८८ | १ | १३ | टी०        | टि०        |
| ३८८ | १ | ३२ | शन्तिवेश     | सन्तिवेश     | ३८९ | २ | ७  | परवान्मुख  | परवान्मुख  |
| ३८८ | २ | १७ | ०            | ३९१          | ३९० | १ | १६ | पच्छभाग    | पच्छभाग    |
| ३९२ | २ | ७  | दरिद्र       | दरिद्रि      | ३९० | १ | २८ | ३६८        | ३६         |
| ३९२ | २ | १४ | दरिसाणव      | दरिसावण      | ३९० | २ | ८  | टी०        | टि०        |
| ३९४ | १ | २० | दाण्यपारमिया | दाण्यपारमिया | ३९२ | १ | १७ | जैक        | जैन        |
| ३९६ | २ | ३४ | १६१          | १, ६१        | ३९२ | १ | १६ | अनुवजिव    | अनुवजिव    |
| ३९७ | १ | १७ | ७२           | ८२           | ३९७ | १ | १२ | हे० १, १७  | हे० १, २७  |
| ३९८ | २ | २१ | २६८          | १६८          | ४०० | १ | ७  | १२६        | १२६        |
| ३९६ | २ | ८  | ०            | उत्त० १      | ४०१ | २ | १० | बोद्धा     | बोद्धा     |
| ३९६ | २ | १६ | वराहना       | वाराहना      | ४०३ | १ | १२ | पणव        | पणव        |
| ३९६ | २ | २० | १६           | १            | ४०४ | १ | २८ | ०          | सग० १४, १  |
| ३९० | २ | ३६ | ६२           | ६३           | ४०६ | १ | २६ | देनेघाला   | देनेघाला   |
| ३९२ | २ | २  | दुम्मारय     | दुम्मारय     | ४०७ | १ | २८ | धर्म       | धम्म       |
| ३९४ | १ | १  | क            | कष्ट         | ४०६ | १ | २६ | उपवाद      | अपवाद      |
| ३९४ | १ | २८ | दुरिट        | दूरिट        | ४१० | २ | ४  | ०          | त्रि०      |
| ४०१ | १ | १२ | पचा० १२      | पचा० ११      | ४११ | २ | १० | पाड०       | प्राड०     |
| ४०१ | १ | १५ | २            | १            | ४१३ | २ | ३१ | ७४         | १४         |
| ४०१ | १ | १५ | ०            | ४            | ४१८ | १ | २७ | ०          | न०         |
| ४०२ | १ | १५ | ०            | ४            | ४१८ | २ | २५ | परिणिज्जय  | परिणिज्जय  |
| ४०२ | १ | २६ | धनुमत्       | धनुमत्       | ४२३ | १ | ६  | १०६        | ६०१        |
| ४०२ | १ | २६ | ६२           | ६४           | ४२३ | १ | २६ | ०          | त्रि०      |
| ४०३ | १ | २  | साहे०        | मोह०         | ४२६ | २ | २३ | आप०        | आव०        |
| ४०३ | १ | ८  | ०            | २            | ४२८ | १ | १६ | २११        | २१२        |
| ४०४ | १ | २२ | सार्ध०       | सार्ध०       | ४३० | १ | ४  | १८         | १४         |
| ४०६ | १ | ११ | दे०          | द०           | ४३० | १ | ६  | ०          | त्रि०      |
| ४०६ | १ | १२ | धयलण         | धयलण         | ४३० | १ | ६  | ०          | त्रि०      |
| ४०६ | २ | ६  | घाडाविग्र    | घाडाविग्र    | ४३२ | २ | २१ | पिच्छाय    | विच्छाय    |
| ४०६ | १ | ४  | याज्ञि       | नालि         | ४३५ | २ | १७ | ग्रहारि    | ग्रहारि    |
| ४०६ | २ | १५ | सुरसुर       | सुरसुर       | ४३७ | १ | २  | ०६३        | ३५३        |
| ४०६ | २ | ३६ | २            | २            | ४३७ | २ | ३४ | पाठित्तयत् | पाठित्तयत् |

|     |   |    |          |           |     |   |    |            |             |
|-----|---|----|----------|-----------|-----|---|----|------------|-------------|
| ४३६ | २ | ३३ | पउड०     | गउड०      | ४६७ | १ | ६  | सिपि०      | सिरि०       |
| ४४० | १ | १४ | १५२      | १५३       | ५०० | १ | ३३ | ०          | त्रि०       |
| ४४० | २ | २० | कर्मवि   | धर्मवि०   | ५०० | १ | ८  | ६०२        | ६०५         |
| ४४० | २ | २४ | स० धर्म० | धर्म स०   | ५०० | २ | २६ | रथ्यामृग   | रथ्यामृग    |
| ४४२ | २ | १  | ०        | से ४, ३५, | ५०१ | १ | २६ | रुकिम०     | रुकिम०      |
| ४४२ | २ | ७  | ईर०      | उर०       | ५०२ | १ | ३३ | ०          | पु० व०      |
| ४४२ | २ | १६ | सई०      | पडू०      | ५०३ | १ | ३५ | स्त्री०    | स०          |
| ४४६ | १ | १  | पुठता    | पुष्टता   | ५०५ | १ | ३५ | नी         | ती०         |
| ४४६ | २ | १२ | (३)      | (२) पुं०  | ५०६ | २ | १३ | रूप        | रुब         |
| ४४७ | २ | २५ | बारवार   | चारवार    | ५११ | २ | २५ | धर्मवि०    | धर्म वि०    |
| ४५५ | १ | ६  | प्रौढ    | प्रौढ     | ५१४ | १ | २२ | १३         | १२          |
| ४५५ | १ | १३ | पोव      | पोत       | ५१४ | १ | २६ | ५७, ८७     | ८६, ४७      |
| ४५८ | २ | २५ | २३१      | २११       | ५१४ | १ | २६ | ५७, २७     | ८६, ४       |
| ४६१ | २ | २८ | ३६       | ३५        | ५१४ | २ | ३२ | भक्त०      | सत्त        |
| ४६८ | १ | ३० | ०        | २         | ५१५ | १ | ८  | पु०        | पु० स्त्री० |
| ४६८ | २ | २३ | अमक      | अमक       | ५१५ | २ | २७ | छून्द      | छन्द        |
| ४६८ | २ | ३६ | अमरावलि  | अमरावलि   | ५१५ | २ | ३५ | प्रासु     | प्रासु०     |
| ४७१ | २ | १० | प्राभा०  | प्राभा०   | ५१६ | १ | ३६ | त्रि०      | न०          |
| ४७२ | २ | १० | परामर्थ  | परमार्थ   | ५१७ | १ | १६ | १६         | २६          |
| ४७४ | २ | ११ | पुरुष    | पुरुष     | ५१७ | २ | ११ | शकृ०       | प्राकृ०     |
| ४७६ | २ | ३६ | ७५५०     | ५५०       | ५१७ | २ | १० | ०          | पत्र० ३६७   |
| ४८५ | १ | ११ | ६६       | ६६        | ५१६ | २ | २६ | सनि०       | सति०        |
| ४८७ | २ | १२ | प०       | ५         | ५२० | १ | २१ | वह्नि      | वह्नि       |
| ४८७ | २ | १५ | ५६५      | २६५       | ५२१ | १ | १७ | ४          | १           |
| ४८८ | १ | ७  | कुसुयग   | कुसुयअग   | ५२२ | १ | २३ | पु०        | पु न०       |
| ४८८ | २ | १  | प्रा०    | प्रा०     | ५२२ | १ | २६ | व्यत्यासित | व्यत्यासित  |
| ४८९ | १ | १८ | यष्टिमघ  | यष्टिमघु  | ५२३ | १ | १३ | वज्रधय     | वज्रधय      |
| ४८९ | २ | १८ | महेम     | महेम      | ५२४ | १ | ६  | सहन        | वहन         |
| ,   | ” | ”  | ”        | (,,)      | ५२४ | ० | ६  | (२)        | (२) पु न०   |
| ४८९ | २ | ३० | ०        | त्रि०     | ५२५ | १ | २४ | ०          | त्रि०       |
| ४९० | १ | ६  | माअरा    | माअरा     | ५२६ | २ | २  | (२)        | (२) त्रि०   |
| ४९० | २ | २० | अवि०     | अजि०      | ५२६ | २ | ३  | (३)        | (३) पु०     |
| ४९४ | १ | ३४ | धर्म०    | धर्मा०    | ५२७ | १ | १५ | (३)        | (३) न०      |
| ४९४ | २ | १४ | इम्मीर०  | इम्मीर०   | ५२७ | १ | २४ | २२२        | १२२         |
| ६६६ | १ | ६  | ०        | कप्प०     | ५२७ | १ | ३० | ५८०        | ५७०         |
| ६६६ | १ | २५ | ०        | १४०       | ५२७ | २ | ३१ | ०          | गा० ११२     |

|     |   |    |            |            |     |   |    |           |           |
|-----|---|----|------------|------------|-----|---|----|-----------|-----------|
| ५२८ | १ | ५४ | २३०        | २३         | ५२६ | १ | ११ | विसवदत    | विसवदन    |
| ५२८ | १ | १८ | ०          | न०         | ५२७ | २ | १४ | विशाद्    | विषाद्    |
| ५२८ | १ | १८ | ८६५        | से० ८, १३  | ५६८ | १ | ३६ | विसराविय  | विसुराविय |
| ५२८ | १ | १८ | काम०       | काम० ८६६   | ५६८ | २ | ३३ | अ०        | स०        |
| ५२६ | २ | ७  | ६४         | ८४         | ५६६ | १ | १० | ०         | पु०       |
| ५२६ | २ | २८ | वरुहिणी    | वरुहिणी    | ५६६ | १ | ३२ | नी०       | ती०       |
| ५३० | १ | १  | ४३२        | ४३२        | ५७० | १ | ८  | सिरी०     | सिरि०     |
| ५३१ | १ | ३  | त्रि०      | ०          | ५७० | १ | १४ | १०६१      | १६१       |
| ५३४ | १ | २६ | पु०        | स्त्री०    | ५७२ | १ | ३० | ०         | न०        |
| ५३७ | १ | ३६ | निजभायद्   | निजभायद्   | ५७४ | १ | १० | लि०       | त्रि०     |
| ५३६ | २ | ३२ | ०          | (२) घोडा   | ५७५ | २ | २  | ६         | ६         |
| ५३६ | २ | ३३ | डसवारी     | डुडसवारी   | ५७६ | १ | ७  | अवे०      | ओव०       |
| ५४१ | २ | २१ | पिवर्त     | विवर्त     | ५७६ | २ | ६  | ५३        | ५४        |
| ५४२ | १ | १४ | पामा       | बिवाह      | ५७७ | १ | ३५ | चोड्ट     | चोवू      |
| ५४२ | १ | ३२ | (२)        | (२), त्रि० | ५७७ | २ | १७ | ३४३       | ३३४       |
| ५४५ | २ | २४ | ११३        | २३३        | ५७७ | २ | ३६ | ७४५       | ७४६       |
| ५४७ | १ | ३४ | वञ्जिता    | विञ्जिता   | ५७८ | १ | ३६ | २५१       | २०१       |
| ५४६ | २ | ५  | विज्जालय   | विज्जालय   | ५७८ | २ | १८ | प्राप्त०  | प्राप्त०  |
| ५५० | २ | १५ | अभिव       | अभिन्न     | ५७८ | १ | ३३ | प्राप्त०  | प्राप्त०  |
| ५५० | २ | २२ | उप०        | उप०        | ५७६ | २ | २४ | ”         | ”         |
| ३५३ | १ | २२ | ०          | त्रि०      | ५८० | २ | १५ | वेताडय    | वैताडय    |
| ५५४ | २ | ६  | ०          | पु स्त्री० | ५८५ | १ | ६  | जुत       | सजुत      |
| ५५५ | १ | १० | ११         | ११०        | ५८४ | १ | २३ | गन        | गत        |
| ५५७ | २ | १३ | विष्कारस   | विष्कारस   | ५८५ | २ | २३ | सदौकित    | सदौकित    |
| ५५७ | २ | ३१ | विज्जुम्भस | विज्जुम्भस | ५८७ | १ | ३६ | साध०      | सार्ध०    |
| ५५६ | १ | २  | उप०        | उप०        | ५८८ | २ | २६ | ०         | त्रि० १६  |
| ५५६ | १ | ११ | विमत्तित   | विमत्तित   | ५६० | २ | ११ | २४        | २६        |
| ५६० | १ | ४  | भव०        | भवि०       | ५६२ | १ | २५ | गुहणी     | गुहणी     |
| ५६२ | २ | ५  | कप्प०      | कप्प०      | ५६२ | २ | २६ | समेय      | समेत      |
| ५६२ | २ | ५  | ०          | न०         | ५६४ | १ | १६ | ४         | ४४        |
| ५६२ | २ | ३० | (२)        | (०) त्रि०  | ५६५ | १ | २० | सवेद्य    | सवेद्य    |
| ५६३ | १ | ३६ | विलेन्ट    | विलेन्ट    | ५६५ | १ | २२ | सवेग      | सवेग      |
| ५६४ | २ | ५  | म्हान      | म्हान      | ५६५ | १ | २७ | सम्बेरिणअ | संबेरिणअ  |
| ५६५ | २ | १  | विवेप      | विवेप      | ५६५ | २ | २  | मसक्तिमत् | ससक्तिमत् |
| ५६५ | २ | २५ | २७६        | २७६०       | ५६६ | १ | १६ | ३०        | ३८        |
| ५६५ | २ | ३६ | विसतप      | विसतप      | ६०२ | ० | १८ | गुहा      | गुहा      |
|     |   |    |            |            | ६०६ | २ | १  | न०        | त्रि०     |

|     |   |    |              |              |     |   |    |           |             |
|-----|---|----|--------------|--------------|-----|---|----|-----------|-------------|
| ६०७ | २ | १० | सार्ध०       | सार्ध०       | ६२८ | १ | २४ | ०         | स्त्री०     |
| ६११ | १ | ३० | ४०           | ४            | ६२८ | १ | २६ | स्नग्ध    | स्निग्ध     |
| ६११ | २ | २८ | जाना         | जाता         | ६२८ | २ | १८ | ०         | पचा० ११, २६ |
| ६१२ | २ | २८ | आसपास        | आसपास        | ६२८ | २ | २० | ०         | पु०         |
| ६१३ | १ | ३० | सरघा         | सरघा         | ६२६ | १ | २१ | ग्रहस्थ   | गृहस्थ      |
| ६१४ | १ | १२ | ससिलोच्छ्रय  | ससिलोच्छ्रय  | ६२६ | २ | १५ | सिमा      | सिमा        |
| ६१४ | १ | ३३ | प्राप्त०     | प्राप्त०     | ६३० | २ | २  | श्रीकामक  | श्रीकामुक   |
| ६१४ | १ | ३४ | शव           | शव           | ६३० | २ | ७  | शोभावाली  | शोभावाली    |
| ६१४ | २ | २  | १०३०         | १०३१         | ६३३ | १ | ३६ | रावण      | रावण        |
| ६१४ | २ | २३ | सबास         | सबास         | ६३३ | २ | ११ | ०         | कुमा०       |
| ६१५ | २ | ५  | सर्वस्य      | सर्वस्व      | ६३४ | १ | ८  | दर        | दर          |
| ६१५ | २ | ११ | सर्वांशन     | सर्वांशन     | ६३४ | १ | १६ | उत्तर०    | उत्तर०      |
| ६१५ | २ | १६ | श मं         | शशाङ्कधर्म   | ६३४ | १ | ३६ | सम्पत्०   | सम्पत्त०    |
| ६१५ | २ | ३२ | प्तिरि०      | तिरि०        | ६३४ | २ | १३ | २         | ३           |
| ६१६ | १ | १५ | ५५           | ५, ५         | ६३५ | १ | १२ | ६         | ८           |
| ६१६ | १ | २० | ४            | ६            | ६३५ | १ | २४ | ६६        | ८८          |
| ६१६ | १ | ३५ | ३६           | ३८           | ६३५ | २ | २५ | ०         | श्रु० १६    |
| ६१६ | २ | २४ | त्रि०        | स्त्री०      | ६३६ | १ | १० | दृष्टिवाद | दृष्टिवाद   |
| ६१७ | १ | १  | सहस्र        | सहस्र        | ६३६ | १ | १८ | २६४       | २६६         |
| ६१७ | १ | ५  | कपू०         | कप           | ६३६ | १ | २८ | (२)       | (२) स्त्री० |
| ६१७ | १ | २६ | सहस्रकृत्यस् | सहस्रकृत्यस् | ६३७ | ५ | ३६ | सुगरिष्ट  | सुगरिष्ट    |
| ६१७ | २ | ८  | २            | १            | ६३८ | १ | १६ | ४         | ६           |
| "   | " | २७ | १२           | ११           | ६३८ | २ | १  | ०         | ७२८         |
| ६१७ | २ | १० | मला          | भला          | ६३६ | १ | १३ | सुदसुद    | सुदसुद      |
| ६१८ | २ | १६ | उप०          | उव           | ६३६ | २ | ६  | सयहा      | सयहा        |
| ६२१ | १ | १६ | २४           | २४०          | ६४० | १ | ८  | सुखी      | सुखी        |
| ६२१ | २ | १६ | सारगिक       | सारगिका      | ६४० | १ | १८ | सथोव      | सुथोव       |
| ६२४ | १ | १६ | किशन०        | क्रियात्०    | ६४० | १ | २७ | ०         | त्रि०       |
| ६२४ | २ | ११ | उप०          | उव०          | ६४१ | १ | ६  | तणय       | तनय         |
| ६२५ | १ | १६ | त्रि०        | पु०          | ६४१ | २ | ३१ | ६५        | ४५          |
| ६२५ | २ | २२ | सिद्ध०       | सिदि०        | ६४१ | २ | ३३ | सुवर्ण    | सुवर्ण      |
| ६२७ | १ | ३५ | २०५०         | २०३०         | ६४२ | १ | ६  | कुमा०     | कुप्र०      |
| ६२७ | १ | ३६ | १५           | २१           | ६४२ | १ | ३४ | सूर्यनखा  | सूर्यनखा    |
| ६२७ | २ | ४  | ६१०          | ६१           | ६४२ | १ | ३५ | ४०२०      | ४२          |
| ६२७ | २ | १३ | सिक्खाण      | सिक्खावणा    | ६४२ | २ | ३२ | शौभ्य     | शौभ्य       |
| ६२७ | २ | ३२ | ०            | गा०          | ६४३ | १ | ११ | उप०       | उव०         |

|     |   |    |           |            |     |   |    |            |           |
|-----|---|----|-----------|------------|-----|---|----|------------|-----------|
| ६४३ | २ | ६  | श्रवक     | श्रावक     | ६६५ | १ | ८  | धर्म ह०    | धर्म स०   |
| ६४४ | १ | १  | ०         | स्त्री० न० | ६६६ | २ | २  | कुम्भा०    | कुम्भा०   |
| ६४५ | १ | १८ | इन्दु     | इन्द्र     | ६६८ | १ | ६  | ०          | न०        |
| ६४६ | १ | २० | सरजाल     | सुरजाल     | ६६९ | १ | ६  | दे० २, ३७  | दे० १, ३७ |
| ६४७ | १ | ३२ | ४६        | ६४         | ६६९ | २ | ७  | अग         | तयता      |
| ६४७ | २ | २४ | सविराधिति | सुविराधित  | ६६९ | २ | १० | ना०        | नाट०      |
| ६४७ | २ | २५ | उप०       | उव०        | ६७० | २ | ६  | श्रम्मवेश  | श्रम्मवेश |
| ६४७ | २ | ३० | उप०       | उव०        | ६७१ | १ | ५  | १, ६,      | १०६,      |
| ६४८ | १ | ३१ | कप्पू     | कप्प०      | ६७१ | १ | ३४ | ०          | पु २      |
| ६४८ | १ | ३२ | श्रतिसवध  | श्रतिसवद्ध | ६७३ | २ | ७  | शखल        | खल        |
| ६४८ | २ | ११ | सपा०      | सुपा०      | ६७३ | २ | २८ | ५७,        | ५,        |
| ६४८ | २ | २८ | सपा०      | सुपा०      | ६७५ | १ | ८  | अता        | अत्ता     |
| ६४८ | २ | ३० | १२०       | १५०        | ६७५ | १ | २५ | अन्धयारिया | अन्धयारिआ |
| ६५० | १ | १६ | कम्म०     | कम्म०      | ६७५ | २ | १२ | ०          | पहू०      |
| ६५० | २ | २७ | न         | व०         | ६७५ | २ | २४ | दे० ८, १८  | पहू०      |
| ६५० | २ | ३५ | सोच्छ्वास | सोच्छ्वास  | ६७५ | २ | ३० | अद्रकखण    | अद्रकखण   |
| ६५१ | २ | २७ | पुर       | स्वैर      | ६७५ | २ | ३३ | अद्रकिलध   | अद्रकिलध  |
| ६५३ | १ | २२ | शोद्ध     | शोध्य      | ६७६ | १ | ६  | मपडल       | मपडन      |
| ६५३ | २ | ६  | न         | व०         | ६७६ | १ | २३ | अपिह       | अपिट्ट    |
| ६५३ | २ | १३ | नी०       | ती०        | ६७६ | १ | २५ | अरण        | अपुण्य    |
| ६५५ | २ | ६  | ०         | प्रव० २०१  | ३७६ | १ | ३० | दे० १, १६  | दे० १, २६ |
| ६५७ | १ | ४  | आकरित     | आकरित      | ६७६ | २ | ५  | अफुण्य     | अफुण्य-अ  |
| ६५७ | १ | २८ | कुप०      | कुप०       | ६७६ | २ | ६  | सुग०       | सुग०      |
| ६५७ | २ | ३६ | हण्यत     | हण्यत      | ६७६ | २ | २१ | अन्भाव     | अन्भावत्त |
| ६५८ | १ | १  | हति       | हमित्त     | ६७७ | १ | २  | २५         | २६५       |
| ६५८ | १ | १२ | २६१       | २८१        | ६७७ | १ | २२ | अयुजवइ     | अयुजवेवप  |
| ६५९ | १ | ११ | हरिगोश्र  | हरिगीश्र   | ६७७ | २ | ४  | अलध        | अलप       |
| ६५९ | २ | २७ | पाक०      | प्राक०     | ६७७ | २ | २० | प्रप्रवा   | प्रवाल    |
| ६५९ | २ | ३३ | ई०        | हे०        | ६७८ | २ | २६ | दे० १, २५  | दे० १, ५५ |
| ६६० | १ | १४ | अमि०      | अमि०       | ६७९ | १ | ४  | दे० १, ४   | दे० १, ४० |
| ६६० | १ | ३० | हलिद्ध    | हलिद्ध     | ६७९ | १ | १३ | न०         | पु०       |
| ६६१ | १ | २२ | कप्प०     | कप्प०      | ६७९ | २ | १६ | अत्र य     | अत्र त्तय |
| ६६२ | १ | १७ | हुत       | हुत        | ६८० | १ | २० | उदूपल      | उलूपल     |
| ६६२ | २ | २६ | ५६        | ५६         | ६८० | २ | १६ | राय०       | ०         |
| ६६४ | १ | ३६ | प्राप्त०  | प्राप्त०   | ६८३ | २ | १६ | उकण्य      | उकण्य     |
| ६६४ | २ | ३५ | टी०       | टि०        | ६८३ | २ | ३१ | उकणिय      | उकणिय     |



|     |   |    |           |             |     |   |    |               |           |
|-----|---|----|-----------|-------------|-----|---|----|---------------|-----------|
| ६६० | १ | २२ | १,१       | १,टी        | ७३१ | १ | ३६ | जलिलअ         | गजिलिलअ   |
| ६६० | १ | ३४ | मडु       | मडा         | ७३१ | २ | ३१ | गताडी         | गत्तडी    |
| ६६० | २ | ७  | २,१       | १           | ७३१ | २ | ३१ | बनस्पति विशेष | गोचर भूमि |
| ६६३ | २ | ५  | दे० १,६५  | ०           | ७३३ | १ | ४  | पु०           | त्रि०     |
| ६६३ | २ | ७  | ०         | दे० १,६५    | ७३३ | १ | ५  | ०             | पु०       |
| ६६५ | १ | १  | कन्दन     | क्रन्दन     | ७३३ | १ | ११ | १,६५,         | २, ६५,    |
| ६६५ | १ | २६ | (२)       | (२) त्रि०   | ७३३ | १ | २२ | वनस्पति विशेष | गोचर भूमि |
| ६६५ | २ | १३ | ०         | गडड०        | ७३४ | २ | ७  | ४०२           | धन२       |
| ६६६ | २ | २६ | वव० १,६   | वव० ६       | ७३६ | २ | ३१ | पु०           | त्रि०     |
| ७०१ | १ | १५ | आ०        | भा०         | ७३६ | २ | २२ | दे०           | हे०       |
| ७०१ | २ | ७  | उव        | उविव        | ७३६ | १ | २२ | चउन्काइया     | चउज्जाइया |
| ७०२ | १ | २१ | (२)       | (२) न०      | ७३६ | २ | ४  | हे०           | दे०       |
| ७०३ | १ | २१ | एक्काह    | एकमुह       | ७४१ | १ | २४ | दस            | दस नि०    |
| ७०३ | २ | ७  | दे        | हे०         | ७४२ | २ | ५  | पड् दे० १,६५  | पड्       |
| ७०४ | १ | ४  | फल        | व्रत        | ७४२ | २ | ३५ | ३२१           | ३, २१,    |
| ७०४ | १ | १६ | ०         | न०          | ७४४ | २ | २३ | नष्ट          | नष्ट      |
| ७०४ | १ | ३६ | स०        | से०         | ७४६ | २ | १  | चात्त         | चोत्त     |
| ७०५ | २ | १३ | ओजभ       | ओजभ         | ७४६ | २ | १६ | चौललग         | चौललग     |
| ७०५ | २ | १३ | चाखा      | चोखा        | ७४६ | १ | २३ | न०            | त्रि०     |
| ७०५ | २ | १६ | ओजभमण     | ओजभमण       | ७४६ | २ | २४ | ०             | त्रि०     |
| ७०५ | २ | १६ | ओजभरी     | ओजभरी       | ७४७ | १ | २  | छड्ड          | छड्ड      |
| ७०५ | २ | २० | ओजभाय     | ओजभाय       | ७४७ | २ | १३ | ३, ३२,        | ३, ३३,    |
| ७०६ | १ | ६  | दे० १,५३  | दे० १, १,५३ | ७४६ | २ | १६ | छीहअ          | छुहिअ     |
| ७०६ | १ | १२ | वि०       | त्रि०       | ७५२ | १ | २५ | रच            | आ०        |
| ७०६ | २ | १५ | ओसिधिक    | ओसिधिक      | ७५६ | १ | १७ | भुरलक         | भुरलक     |
| ७१० | १ | ६  | (२)       | (२) पु न०   | ७५६ | २ | ६  | भेडुअ         | भेडुअ     |
| ७११ | १ | ६  | कसार      | कसार        | ७५६ | २ | ६  | ४१०           | ४, १०     |
| ७११ | २ | ३  | कच्छादग्भ | कच्छादग्भ   | ७६० | १ | २१ | अरडलो०        | अरडजो०    |
| ७१२ | २ | १६ | (४)       | (४) त्रि०   | ७६० | २ | ३  | जघन्यमनुष्य   | ब्राह्मण  |
| ७१३ | ७ | २६ | स्य०      | स्यनि०      | ७६१ | १ | २६ | टसहलय         | टलहलय     |
| ७२० | १ | ३० | (२)       | (२) त्रि०   | ७६६ | १ | ३१ | यिपिभट्ट      | यिपिभट्ट  |
| ७२३ | २ | १७ | २४४       | २, ४४       | ७६६ | १ | ३३ | यिभुग         | यिभुग     |
| ७२३ | २ | ३३ | ४६        | ४६          | ७६६ | २ | १६ | यिबिबर        | यिबिबर    |
| ७२५ | २ | ५  | २६५       | २, ६५,      | ७७० | १ | ३  | तंवरुत्ति     | तवरुत्ति  |
| ७२७ | १ | २३ | ४३२       | ४३२         | ७७० | २ | २६ | १०६           | १२६       |
| ७२८ | १ | १६ | ०         | त्रि०       | ७७२ | १ | १४ | तन्वसिग       | नन्वसिग   |

|     |   |    |              |                |     |   |    |           |           |
|-----|---|----|--------------|----------------|-----|---|----|-----------|-----------|
| ७७४ | १ | १० | ६, १८        | ६, १८          | ८११ | १ | ३  | सूक्त०    | सूक्त०    |
| ७८५ | १ | २४ | वे०          | वे०            | ८११ | १ | ४  | सूक्त०    | सूक्त०    |
| ७८६ | २ | २४ | पाणिनिआ      | पाणिनिआ        | ८१२ | १ | ३३ | गङ्ग०     | गङ्ग०     |
| ७८८ | १ | १८ | पंडित्या     | पंडित्या       | ८१५ | १ | १४ | ६         | ६६        |
| ७९० | १ | २  | वे० १६, २    | वे० ६, १२      | ८१६ | १ | १५ | षड०       | षड०       |
| ७९३ | २ | ५  | पद्मे० १, ६६ | पद्मे०         | ८२४ | १ | १५ | दस० ७, ३४ | ०         |
| ७९३ | २ | ७  | ०            | वे० १, ६५      | ८२४ | १ | २६ | (२)       | (२) स्तौ० |
| ७९६ | १ | ३३ | वे० १, ६६    | वे० १, ६६ गङ्ग | ८२८ | २ | २६ | वे० ७, ८४ | वे० ७, ८४ |
| ७९५ | २ | १६ | वे० ६, ४५    | वे० ६ ४५       | ८३१ | २ | १० | वे० ३७    | वे० ३६    |
| ७९६ | १ | १३ | ०            | छं० न०         | ८३३ | १ | ३३ | वावोवराय  | वावोवराय  |
| ७९६ | २ | २६ | पिडी०        | पिडी०          | ८३३ | २ | २४ | ६१        | ६०        |
| ७९७ | २ | ७  | ०            | के तुल्य       | ८३५ | १ | २६ | ३७        | ४७        |
| ७९८ | १ | २  | पु०          | त्रि०          | ८३६ | १ | ७  | उत्तम     | श्रेक     |
| ७९८ | १ | ४  | (३)          | (३) पु०        | ८४० | २ | २६ | वेसन्निआ  | वेसन्निआ  |
| ८०० | १ | ८  | वे० ६, ६     | वे० ६, ७       | ८४० | २ | ३२ | ७२        | ७५        |
| ८०० | १ | २३ | " " "        | " " "          | ८४० | २ | ३० | ८         | ७         |
| ८०३ | २ | २४ | वमथिका       | हलाहलवमथिक     | ८४२ | २ | १३ | सलद्द     | संलग्नद्द |
| ८०३ | २ | २४ | जहर          | कीटाविशेष      | ८४३ | २ | १० | ०         | न०        |
| ८०८ | १ | ६  | कम्प०        | कम्प०          | ८४७ | १ | ३१ | खाय       | साय०      |



# ERRATA

| Page | Line  | Incorrect                                         | Correct                                                | Page | Line  | Incorrect       | Correct                   |
|------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 15    | Heinous, sinner,                                  | Heinous sinner,                                        | 9    | 36    | Ordering        | One who orders            |
| 1    | 39    | A study                                           | A chapter                                              | 9    | 37    | Commanding      | A commander               |
| 1    | 42-43 | of Giata                                          | of the Giata                                           |      |       |                 |                           |
| 2    | 20    | One who tells                                     | Speaker                                                | 9    | 66    | virtue          | virtues                   |
| 2    | 38    | glutton                                           | glutton                                                | 10   | 27    | in              | in the                    |
| 2    | 52    | Grand father                                      | Grand-father                                           | 10   | 36    | in              | in the                    |
| 2    | 55    | Malechha                                          | Malechhas                                              | 11   | 69    | Riln            | Kiln                      |
| 2    | 70    | Appulence                                         | Opulence                                               | 12   | 47    | Lowest          | Low                       |
| 3    | 50    | A name                                            | The name                                               | 12   | 44    | A throne of     | The name of the throne    |
| 3    | 54    | of a tree                                         | of tree                                                |      |       | Ila             | of Ila                    |
| 4    | 35    | imitater                                          | imitator                                               |      |       |                 |                           |
| 5    | 15    | which is dear                                     | who is dear                                            | 13   | 6     | Intensity       | Intense                   |
| 5    | 19    | downward                                          | downward side                                          | 13   | 15    | of son          | of the son                |
| 6    | 52    | form a                                            | form of a                                              | 14   | 23    | Gyata           | the Gyata                 |
| 6    | 56    | hinderance                                        | hindrance                                              | 15   | 45-46 | adulteress      | adulteress                |
| 7    | 9 10  | A religious creed resembling that of Jain tenets, | A religious creed whose tenets differ from Jain tenets | 16   | 51    | Prasnavyakarana | Prashnavy-akarana         |
| 7    | 31    | perseived                                         | perceived                                              | 17   | 29    | killing         | violence                  |
| 7    | 35    | molked at                                         | mocked at                                              | 17   | 66    | hardsman        | herdsman                  |
| 7    | 39    | Division                                          | Divisor                                                | 19   | 4     | vigourously     | vigourously               |
| 7    | 42-43 | disdaister,                                       | disdainei,                                             | 19   | 27    | Transferred     | Transferred               |
| 7    | 53    | separation                                        | Separation                                             | 20   | 15    | lighting        | lightning                 |
| 7    | 56    | out having any sustance                           | out having substance                                   | 20   | 38    | praticular      | particular                |
| 8    | 5     | outward subs-tance which                          | An outward subs-tance                                  | 20   | 49    | killing         | violence                  |
| 8    | 25    | pious woman                                       | pious woman                                            | 20   | 60    | krandit         | krandrit                  |
| 8    | 47    | accomption-ment                                   | accomplishment                                         | 21   | 63    | of              | in                        |
| 8    | 53    | Turned towards                                    | Turned towards,                                        | 22   | 30    | mountain        | mountain                  |
| 8    | 72    | emanttpatom                                       | emancipation                                           | 22   | 34    | in              | in the                    |
|      |       |                                                   |                                                        | 22   | 43    | in              | in the                    |
|      |       |                                                   |                                                        | 22   | 47    | insect          | insect                    |
|      |       |                                                   |                                                        |      |       | laving          | having                    |
|      |       |                                                   |                                                        | 23   | 30    | nakavarav-bhas  | nakavali-varaobhas        |
|      |       |                                                   |                                                        | 23   | 50    | alivarav-bhas   | alivarav bhas sea creeper |
|      |       |                                                   |                                                        | 23   | 68    | cleeper         | the Gyata-dharm           |
|      |       |                                                   |                                                        | 24   | 26    | Gnata           |                           |
|      |       |                                                   |                                                        | 27   | 17    | dharma          | Lead a                    |

|     |   |    |             |               |     |   |    |           |            |
|-----|---|----|-------------|---------------|-----|---|----|-----------|------------|
| ७७४ | १ | १० | ६, १८       | ५, १८         | ८११ | १ | ३  | सुक०      | सुक०       |
| ७८४ | १ | ३४ | वे०         | वे०           | ८११ | १ | ४  | सुक०      | सुक०       |
| ७८५ | २ | २४ | पाक्सिआ     | पाक्सिआ       | ८१२ | १ | ३३ | गडड०      | गडड०       |
| ७८८ | १ | १८ | पडिथा       | पडिथी         | ८१५ | १ | १४ | ६         | ६६         |
| ७९० | १ | २  | वे० १६, २   | वे० ६, १२     | ८१६ | १ | १२ | पड०       | पड०        |
| ७९३ | २ | ५  | पडदे० १, ६५ | पड०           | ८२४ | १ | १२ | दस० ७, ३४ | ०          |
| ७९३ | २ | ७  | ०           | वे० १, ६५     | ८२४ | १ | २६ | (२)       | (२) स्तान० |
| ७९५ | १ | १३ | वे० १, ६६   | वे० १, ६६ गडड | ८२८ | २ | २६ | वे० ७, ८४ | वे० ७, ८५  |
| ७९५ | २ | १६ | वे० ६, ४५   | वे ६ ४४       | ८३१ | २ | १० | वे० ३७    | वे० ३६     |
| ७९६ | १ | १३ | ०           | पुं न०        | ८३३ | १ | १३ | वावौवणय   | वावौवणय    |
| ७९६ | २ | २६ | पिडी०       | पिडी०         | ८३३ | २ | २४ | ६१        | ६०         |
| ७९७ | २ | ७  | ०           | के तुलय       | ८३५ | १ | २६ | ३७        | ६७         |
| ७९८ | १ | २  | पु०         | त्रि०         | ८३६ | १ | ७  | उत्तम     | श्रेक      |
| ७९८ | १ | ४  | (३)         | (३) पु०       | ८४० | २ | २६ | वेससिखअ   | वेससिखअ    |
| ८०० | १ | ८  | वे० ६, ६    | वे० ६, ७      | ८४० | २ | ३२ | ७२        | ७५         |
| ८०० | १ | २३ | " " "       | " " "         | ८४० | २ | ३० | ८         | ७          |
| ८०२ | २ | २४ | वभणिका      | हलाहलवभणिक    | ८४२ | २ | १३ | सखदह      | सखदह       |
| ८०३ | २ | २४ | जहर         | कीटविशेष      | ८४३ | २ | १० | ०         | ८०         |
| ८०८ | १ | ६  | कम्प०       | कम्प०         | ८४७ | १ | ३१ | साय       | साय०       |



# ERRATA

| Page | Line  | Incorrect                | Correct                 | Page | Line  | Incorrect   | Correct                       |
|------|-------|--------------------------|-------------------------|------|-------|-------------|-------------------------------|
| 1    | 15    | Heinous, sinner,         | Heinous sinner,         | 9    | 36    | Ordering    | One who orders                |
| 1    | 39    | A study                  | A chapter               | 9    | 37    | Commanding  | A commander                   |
| 1    | 42-43 | of Giata                 | of the Giata            | 9    | 66    | virtue      | virtues                       |
| 2    | 20    | One who tells            | Speaker                 | 10   | 27    | in          | in the                        |
| 2    | 38    | glutton                  | glutton                 | 10   | 56    | in          | in the                        |
| 2    | 52    | Grand father             | Grand-father            | 11   | 69    | Riin        | Kiin                          |
| 2    | 55    | Malechha                 | Malechhas               | 12   | 47    | Lowest      | Low                           |
| 2    | 70    | Appulence                | Opulence                | 12   | 44    | A throne of | The name of the throne of Iia |
| 3    | 50    | A name                   | The name                |      |       | Iia         |                               |
| 3    | 54    | of a tree                | of tree                 |      |       |             |                               |
| 4    | 35    | imitater                 | imitator                |      |       |             |                               |
| 5    | 15    | which is dear            | who is dear             | 13   | 6     | Intensy     | Intense                       |
| 5    | 19    | downward                 | downward side           | 13   | 15    | of son      | of the son                    |
|      |       |                          |                         | 14   | 23    | Gyata       | the Gyata                     |
| 6    | 52    | form a                   | form of a               | 15   | 45-46 | adulteress  | adulteress                    |
| 6    | 56    | hinderance               | hindrance               | 16   | 51    | Prasnavya-  | Prashnavy-                    |
| 7    | 9 10  | A religious creed        | A religious creed whose | 17   | 29    | karana      | akarana                       |
|      |       | is resembling that of    | 2 tenets                | 17   | 66    | killing     | violence                      |
|      |       | Jain tenets, differ from | Jain tenets             | 19   | 4     | hardyman    | herdsman                      |
|      |       |                          |                         | 19   | 27    | vigourously | vigorously                    |
| 7    | 31    | perseived                | perceived               | 20   | 15    | Transferred | Transferred                   |
| 7    | 35    | molked at                | mooked at               | 20   | 38    | lighting    | lightning                     |
| 7    | 39    | Division                 | Divison                 | 20   | 49    | praticular  | particular                    |
| 7    | 42-43 | disdaister,              | disdainei,              | 20   | 60    | killing     | violence                      |
| 7    | 53    | separation               | Separation              | 21   | 63    | krandit     | krandrit                      |
| 7    | 56    | out having               | out having              | 22   | 30    | of          | in                            |
|      |       | any sustance             | substance               | 22   | 34    | mountain    | mountain                      |
| 8    | 5     | outward sub-             | An out-                 | 22   | 43    | in          | in the                        |
|      |       | stance                   | ward sub-               | 22   | 47    | in          | in the                        |
|      |       | which                    | stance                  |      |       | insect      | insect                        |
| 8    | 25    | pious woman              | pious woman             | 23   | 30    | laving      | having                        |
| 8    | 47    | accomption-              | accomplish-             | 23   | 50    | nakavarav-  | nakavali-                     |
|      |       | ment                     | ment                    |      |       | bhas        | varaobhas                     |
| 8    | 53    | Turned                   | Turned                  | 23   | 63    | alivarav-   | alivarav                      |
|      |       | towards                  | towards,                | 24   | 26    | bhas        | bhas sea                      |
| 8    | 72    | omantpatom               | emancipation            | 24   | 26    | cleeper     | creeper                       |
|      |       |                          |                         | 27   | 17    | Gnata       | the Gyata-                    |
|      |       |                          |                         |      |       | dharma      | dharma                        |
|      |       |                          |                         |      |       | A           | Lead a                        |

|    |       |               |              |    |          |                |              |
|----|-------|---------------|--------------|----|----------|----------------|--------------|
| 27 | 31    | Rishabhdeo    | Rishabhdeo   | 60 | 50       | performances   | performances |
| 27 | 64    | Car           | Aeroplane    |    |          |                | ances        |
| 32 | 70    | Milking       | Milch cattle | 61 | 27       | acquired       | acquired     |
| 34 | 69    | by            | by a         | 62 | 46 47    | ceremony       | ceremony     |
| 37 | 24    | taste         | tastes       | 62 | 49       | occasion       | occasion     |
| 37 | 30    | tasting       | the water    | 62 | 53       | produces       | produces     |
|    |       |               | of which     | 63 | 36       | Accepting      | Acceptor     |
|    |       |               | tastes       | 64 | 36 37    | who            | who has      |
| 38 | 19    | missils       | missile      | 61 | 70       | innctuous      | unctuous     |
| 40 | 37    | Having 6      | Hexagon      | 65 | 49       | excellent      | excellent    |
|    |       | corners       |              | 65 | 56       | No killing     | Non-killing, |
| 40 | 41    | Respectable   | Respectable  |    |          |                | ing,         |
| 40 | 68    | Saints        | Saint        | 68 | 25       | for            | for a        |
| 41 | 6     | sown though   | grown by     | 69 | 44       | river          | a river      |
|    |       | it is cut     | planting     | 69 | 63       | instrument     | instrument   |
|    |       |               | the cut-     |    |          |                | ment         |
|    |       |               | tings        | 72 | 1        | gobular        | globular     |
| 41 | 17    | Sneezing      | sneezer      | 72 | 35       | An Anaryan     | A non-       |
| 42 | 18    | rile          | rite         |    |          |                | Aryan        |
| 43 | 43    | kind of       | porcupine    | 72 | 65       | measure        | measure      |
|    |       | insect        |              | 73 | 26       | A name of the  | The name     |
| 43 | 66    | of the        | of           |    |          | king           | of a king    |
| 46 | 25    | Gnata-        | Gyata        | 73 | 33       | men            | man          |
|    |       | dharma        | dharma       | 73 | 67       | in the east    | to the east  |
| 46 | 40-41 | who initiated | who was      | 75 | 57       | Affliction     | Affliction   |
|    |       | for 3 years   | initiated    | 76 | 65       | of amorous     | of an        |
|    |       |               | 3 years ago  |    |          |                | amorous      |
| 46 | 45    | of the        | in the       | 76 | 2        | An Anaryan     | A non-       |
| 46 | 46    | salvaacion    | salvation    |    |          |                | Aryan        |
| 48 | 2     | notting       | nothing      | 76 | 54       | An Anaryan     | A non-       |
| 49 | 58    | Hinderance    | Hindiance    |    |          |                | Aryan        |
| 50 | 37    | cemetery      | cemetery     | 76 | 57       | An Anaryan     | A non-       |
| 50 | 67    | planet        | planets      |    |          |                | Aryan        |
| 51 | 20 21 | an Anaryan    | a non-       | 77 | 62       | Attractive     | Attractive   |
|    |       |               | Aryan        | 78 | 5        | word           | letter       |
| 51 | 23    | An Anaryan    | A non-       | 79 | 38-39-40 | Inhabitants of | An in-       |
|    |       |               | Aryan        |    |          | Maharashtra,   | habitant     |
| 51 | 43    | A bag         | The bag      |    |          |                | of Maha-     |
| 51 | 45    | leathern      | leather      |    |          | The Marathi    | rashtra,     |
| 52 | 26    | An Anaryan    | A non-       |    |          |                | A Maratha    |
|    |       |               | Aryan        | 80 | 51       | An Anaryan     | A non-       |
| 52 | 20    | An Anaryan    | A non-       |    |          |                | Aryan        |
|    |       |               | Aryan        | 80 | 60       | of             | in           |
| 63 | 17-18 | Collected     | Wealth       | 80 | 70-71    | A name of the  | The name     |
|    |       | wealth        | collected    |    |          | king           | of a king    |
| 64 | 36    | Worthy to     | Worth        | 82 | 42       | who            | which        |
|    |       | give          | giving       | 82 | 58       | An Anaryan     | A non-       |
| 58 | 55    | part          | past         |    |          |                | Aryan        |

|     |       |                                           |                                                  |     |       |                          |                                   |
|-----|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|-----------------------------------|
| 88  | 53    | up renuncia-<br>tion                      | up                                               | 121 | 71    | Malechha                 | Malechhas                         |
| 91  | 7-8   | Perflexity,                               | Perpl-<br>exity,                                 | 122 | 7     | dig                      | pit                               |
| 91  | 11    | in                                        | in the                                           | 123 | 27    | beyound                  | beyound                           |
| 92  | 16    | Baladao                                   | Baladeo                                          | 123 | 37    | of a lore                | of lore                           |
| 98  | 59    | Celetnal                                  | Celetnal                                         | 125 | 43    | to                       | by                                |
| 96  | 44    | continuons                                | con-<br>tinuous                                  | 126 | 15    | A deed,<br>hazardous     | A ha-<br>zardous<br>deed          |
| 97  | 46 47 | lastnig                                   | lasting                                          | 126 | 60    | A cover ,<br>protector   | A protec-<br>tor                  |
| 97  | 56    | A figure of                               | The                                              | 129 | 15    | cattles                  | cattle                            |
| 103 | 20    | Bharatvarsa                               | Bharat-<br>varsha                                | 130 | 11    | One who incurs           | A debtor                          |
| 106 | 27    | daughter                                  | daughter                                         | 180 | 18    | nacked                   | naked                             |
| 106 | 72    | Dhana                                     | of Dhana                                         | 130 | 24    | payes                    | pays                              |
| 106 | 72    | female saint                              | saintess                                         | 131 | 30    | occured                  | Occurred                          |
| 107 | 16    | kulgar                                    | kulgar                                           | 136 | 35    | succession               | success-<br>sion                  |
| 107 | 53 54 | Exceedingly                               | Exceed-<br>ingly                                 | 140 | 29    | breach                   | beach                             |
| 108 | 7     | Basheful                                  | Bashful                                          | 140 | 34    | False ,                  | False                             |
| 108 | 11    | gave<br>birth                             | has<br>given<br>birth                            | 140 | 54    | refering                 | referring                         |
| 113 | 64-65 | A particular<br>kind of a<br>vow of demil | A parti-<br>cular<br>kind of<br>vow of<br>demit. | 141 | 20    | Set in                   | Set                               |
| 115 | 42    | beyound                                   | beyond                                           | 141 | 22    | Set in                   | Set                               |
| 115 | 72    | metemp-<br>sychosis                       | meta<br>mor-<br>phosis                           | 141 | 35    | strewed                  | strewn                            |
| 117 | 72    | lovey                                     | lovely                                           | 141 | 68    | None duality             | Non<br>duality                    |
| 119 | 30    | like                                      | as                                               | 142 | 69    | Indignant                | Indigent                          |
| 120 | 13    | of the                                    | of a                                             | 142 | 71    | Indignant                | Indigent                          |
| 120 | 48    | insetvity                                 | of a<br>inacti-<br>vity                          | 143 | 4     | Ascriped                 | Ascribed                          |
| 120 | 52-53 | abstruction                               | obstruc-<br>tion                                 | 143 | 9     | Inanspicious<br>ness     | Inaus-<br>picious                 |
| 121 | 22    | procuress                                 | a procu-<br>ress                                 | 143 | 24    | Concomitance             | Con-<br>comitt-<br>ance           |
| 121 | 23    | messanger                                 | messen-<br>ger                                   | 143 | 60-61 | Undigestable             | Undiges-<br>table                 |
| 121 | 47 48 | Rudraksh a                                | Rudra-<br>ksha                                   | 144 | 28    | One whoor that           | One who                           |
| 121 | 65    | amination                                 | anima-<br>tion                                   | 144 | 42    | takes                    | takes                             |
|     |       |                                           |                                                  | 144 | 49    | on                       | ore                               |
|     |       |                                           |                                                  | 144 | 58-49 | superhuman,<br>qualities | super-<br>human<br>quali-<br>ties |
|     |       |                                           |                                                  | 146 | 21    | best owing               | bestow-<br>ing                    |
|     |       |                                           |                                                  | 146 | 43    | unperfect                | imper-<br>fect                    |

|     |       |                  |               |     |       |              |              |
|-----|-------|------------------|---------------|-----|-------|--------------|--------------|
| 147 | 20    | waterd           | watered       | 192 | 33    | crownet      | coronet      |
| 147 | 25    | tale             | talc          | 192 | 69    | woolen       | woollen      |
| 149 | 20    | 'Trouble         | Troubl-       | 195 | 22    | crossing     | tossing      |
|     |       |                  | ed,           | 196 | 23    | whot ionbles | who trou-    |
| 149 | 26    | subject, matter  | subject-      |     |       |              | bles         |
|     |       |                  | matter        | 197 | 47    | woolen       | woollen      |
| 149 | 47    | Compulation      | Copula-       | 203 | 71    | offence of   | offence      |
|     |       |                  | tion          |     |       |              | from         |
| 150 | 12    | A female saint   | A saint-      | 204 | 9     | nearr        | near         |
|     |       |                  | ess           | 204 | 27    | of a         | of           |
| 150 | 14    | female saint     | saintess      | 204 | 32    | supreme      | Supreme      |
| 152 | 7     | neek             | neek          |     |       | spirit       | Spirit       |
| 152 | 22    | radius           | radius        | 206 | 7     | Attacked     | Attached     |
| 153 | 31    | skill destroying | skill for     | 206 | 33    | Rempreended  | Repri-       |
|     |       |                  | destroy-      |     |       |              | manded       |
|     |       |                  | ing           | 209 | 53    | Apsaras      | Apsara       |
| 153 | 42    | Tonohing         | Touch-        | 214 | 19    | Enteance     | Entrance     |
|     |       |                  | ing           | 215 | 4     | camel        | camel's      |
| 154 | 13    | A flight         | A swarm       |     |       |              | hair         |
| 155 | 16    | previons         | previous      | 215 | 49-50 | Generosity   | Generosity   |
| 156 | 8     | Seaparate        | Separate      | 215 | 56 57 | Generosity   | Generosity   |
| 158 | 17    | In different     | Indiff-       | 222 | 64    | of           | of a         |
|     |       |                  | erent         | 223 | 47    | Sheding      | Shedding     |
| 162 | 7     | soundly sleep-   | sound         | 225 | 11    | Suspecian    | Suspicion    |
|     |       | ing              | sleep         | 226 | 2     | Destruction  | causing      |
| 164 | 10-11 | Regreting        | Regrett-      |     |       |              | destruction  |
|     |       |                  | ing           | 227 | 16-17 | philosopy    | philosophy   |
| 165 | 9     | रक्षे वृष्टि,    | रक्षे वृष्टि, | 227 | 69    | precepter    | preceptor    |
|     |       |                  | Exempt        | 228 | 64-65 | Volume       | Jain         |
|     |       |                  | ed from       |     |       | of Jainism   | Scripture    |
|     |       |                  | duty          | 228 | 66    | Bhdrabahu    | Bhadrabahu   |
| 166 | 9-10  | discussison      | discuss       | 229 | 1     | tation       | table        |
|     |       |                  | ion           | 229 | 17    | judgement    | judgment     |
| 174 | 68    | diety            | deity         | 230 | 11    | Name a       | Name of a    |
| 179 | 9     | in fallible      | infalli-      | 230 | 12-13 | Patanpur     | Potanpur     |
|     |       |                  | ble           | 230 | 38    | barbar       | barber       |
| 182 | 26    | Aso              | Ashvin        | 233 | 22    | Stained,     | To stain, To |
| 182 | 28    | variety          | variety       |     |       | Defamed      | defame       |
|     |       |                  | of            | 233 | 33    | city         | village      |
| 184 | 55    | Fourty one       | Forty-        | 234 | 2     | Quarreling   | Quarrelling  |
|     |       |                  | one           | 234 | 4-5   | A Fond of    | Quarrelsome  |
| 184 | 58    | Desirons         | Desir-        |     |       | (prompting)  |              |
|     |       |                  | ous           |     |       | quarrels     |              |
| 192 | 10    | abandones        | aband-        | 234 | 21    | quivar       | quiver       |
|     |       |                  | ons           | 234 | 66-67 | Beautiude    | Beatitnde    |
| 192 | 43    | eract            | erect         | 235 | 2     | heifter      | heifer       |
|     |       |                  | Over-         | 235 | 28    | Vinus        | Venus        |
|     |       |                  | joyed         | 235 | 42    | Mlechehha    | Mlechchhas   |



|     |       |                   |                   |     |       |                               |                                        |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-----|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 235 | 64    | luner             | lunar             | 264 | 39    | A warrior of<br>Ravana's name | A name<br>of a Ra-<br>wan's<br>warrior |
| 236 | 3     | As ringent        | Astring-<br>ent   | 264 | 56    | Kartik                        | Kartikeya                              |
| 237 | 56    | given up          | giving<br>up      | 265 | 33    | Gargle                        | Gargle                                 |
| 238 | 64    | of a religious    | of re-<br>ligious | 267 | 5     | brewed                        | bred                                   |
| 239 | 49    | One kind of       | A kind<br>of      | 267 | 17-18 | Inexcessible                  | Inaccessible<br>place                  |
| 242 | 9     | songer            | singer            | 267 | 19-20 | Pregnant                      | Pregnant wo-<br>man                    |
| 242 | 26    | One kind          | A kind            | 267 | 57 to |                               | to a                                   |
| 243 | 22    | One               | A                 | 268 | 50    | dynesty                       | dynasty                                |
| 244 | 21    | One               | A                 | 269 | -8    | One                           | A                                      |
| 244 | 68    | world             | worlds            | 269 | 33 34 | To obtain ,<br>To accept      | Attainment ,<br>Acceptance             |
| 245 | 41    | One               | A                 | 269 | 44    | An oigan                      | An oigan of                            |
| 246 | 60    | Name of a the     | Name of<br>the    | 269 | 47    | To honour                     | honour                                 |
| 246 | 71    | (Agasta)          | (Agastya)         | 369 | 53    | Inexcessible                  | Inaccessible                           |
| 247 | 32    | pampring          | pamper-<br>ing    | 271 | 6     | who                           | which                                  |
| 248 | 11    | barn              | warn              | 572 | 59    | chriots                       | chariots                               |
| 248 | 38    | a Jain<br>sadhus  | Jain<br>sadhus    | 273 | 9     | teacher                       | teacheress                             |
| 248 | 9     | Rider of<br>horse | A cavalier        | 273 | 26    | "Kartik"                      | Kartikeya                              |
| 248 | 65-66 | Cardamon          | Cardamum          | 273 | 56    | multitude                     | herd                                   |
| 251 | 25    | of runing         | of a running      | 273 | 61    | female cow-<br>herd           | cowherdess                             |
| 252 | 25    | Deoiet            | Decent            | 275 | 24    | the Sanskrit                  | Sanskrit                               |
| 253 | 13    | Omnisciant        | Omnisient         | 275 | 25    | gugging                       | gugling                                |
| 254 | 9     | granate           | granate tree      | 275 | 44    | cowhead                       | cowherd                                |
| 255 | 53    | beetles           | betels            | 276 | 18    | Joinning                      | Joining                                |
| 256 | 57    | punkin            | pumpkin           | 277 | 23    | Uneasyness                    | Uneasiness                             |
| 254 | 60    | Rawna             | Rawana            | 277 | 63    | of pig                        | of a pig,<br>grunt                     |
| 258 | 20    | with              | to                | 279 | 67    | Davering                      | Wavering                               |
| 259 | 18    | who cosiders      | who considers     | 280 | 16    | who                           | which                                  |
|     |       | momentry to       | momentary         | 280 | 71    | "word<br>Chand"               | word<br>"Chand"                        |
|     |       | every             | every             | 280 | 68    | Dynesty                       | Dynasty                                |
| 259 | 28    | alm               | alms              | 281 | 1     | by                            | with                                   |
| 259 | 67    | who               | which             | 281 | 41    | "Chandav"                     | "Chandav"                              |
| 260 | 58    | of floating       | of a flowing      | 281 | 56    | Gian                          | Gyata                                  |
| 261 | 38    | To                | Caused to be      | 282 | 41    | of                            | of                                     |
| 263 | 10    | of a weapon       | of weapon         | 283 | 59    | swiftly                       | swift                                  |
| 264 | 13-14 | Difficiency       | Deficiency        | 284 | 7     | Seperated                     | Separated                              |
| 263 | 39    | smll              | small             | 284 | 9     | Beautiful<br>body             | A beautiful<br>bodied woman            |
| 263 | 52    | county            | country           | 284 | 53    | Courageous                    | Courageous                             |
| 263 | 69    | voice             | chatter           | 285 | 21    | desried                       | desired                                |
| 264 | 33    | county            | country           |     |       |                               |                                        |

|        |                |               |           |                |                  |
|--------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|
| 285 35 | Stong,         | Strong, stout | 360 48    | abandoned      | abandoned        |
|        | strout         |               | 360 58    | geesture       | gesture          |
| 285 16 | To abandon     | Abandonable   | 366 2     | angury         | augury           |
| 287 8  | To sit         | Sat           | 368 12    | worshiper      | worshipper       |
| 287 14 | pyro           | or pyre       | 371 6     | Malicitun      | Malicious        |
| 287 41 | peom           | poem          | 375 41    | Arriving       | Driving          |
| 287 42 | peom           | poem          | 375 60    | Arogance       | Arrogance        |
| 288 41 | Theif          | Thief         | 376 54    | Name of a      | Name of          |
| 289 18 | ting           | ing           |           | Brihaspati     | Brihaspati       |
| 289 27 | Vomitting      | Vomiting      | 377 22    | Abandance      | Abandonment      |
| 292 27 | devotee        | nevotee of    |           |                |                  |
| 293 66 | Untill         | Until         | 381 23    | centuary       | century          |
| 300 49 | Calumiated     | Calumniated   | 383 27    | gheel          | ghee             |
| 302 40 | Engenics       | Eugenics      | 385 69    | learned of     | learned in       |
| 309 31 | to             | of            | 386 45    | Partianship    | Partiality       |
| 312 42 | Nacked         | Naked         | 386 59    | Droping        | Dropping         |
| 314 61 | Kshtriyas      | Kshatriyas    | 388 21 22 | An Anaryan     | A nor-           |
| 319 41 | Ariction       | Friction      |           | Ayan           |                  |
| 320 52 | Runious        | Ruinous       | 389 32    | droped         | dropped          |
| 321 54 | syllogyism     | syllogism     | 388 40    | Beding         | Bedding          |
| 321 70 | Occanssionless | Occasionless  | 389 69    | hinderance     | hindrance        |
|        |                |               | 391 30    | expitition     | expiration       |
| 323 8  | excellent      | excellent     | 391 55    | worshiper      | worshipper       |
| 326 21 | bogie          | logic         | 391 63    | Jaina precepto | A Jain preceptor |
| 329 23 | day's          | days'         |           |                |                  |
| 330 32 | Innumbea-ble   | Innumerable   | 391 65    | metere         | metre            |
|        |                |               | 392 71    | pransatation   | presentation     |
| 330 59 | Lypocresy      | hypocrisy     | 393 2 3   | earnness       | nearness         |
| 331 36 | Repentence     | Repentance    | 393 68    | conjunction    | conjunction      |
| 332 25 | diety          | deity         | 394 61    | Hinderance     | Hindrance        |
| 336 41 | Week           | Weak          | 395 3     | Preventd       | Prevented        |
| 337 7  | abandones      | abandons      | 395 39    | Similality     | Similarity       |
| 343 23 | Suspician      | Suspicion     | 396 12    | Installated    | Installed        |
| 344 36 | Sharpenn ng    | Sharpening    | 326 67    | worshiper      | worshipper       |
| 344 47 | Ekshvakur      | Ekshvaku      | 397 32    | Reflecten      | Reflection       |
| 344 55 | intermittant   | intermittent  | 397 35    | Preception     | Perception       |
| 348 35 | Exceeding      | Exceeding     | 397 37    | waken          | waked            |
| 348 64 | An             | A             | 397 44    | sleepishness   | sleepiness       |
| 349 4  | Mis rable      | Miserable     | 398 19    | made           | mode             |
| 349 14 | pray           | prey          | 398 44    | Hinderance     | Hindrance        |
| 350 1  | Biddled        | Bridled       | 393 46    | hinders        | hinders          |
| 351 17 | fist           | first         | 399 21    | aknowledges    | acknowledges     |
| 353 13 | particularal   | particular    | 400 23    | To requital    | Requital or      |
| 353 44 | years          | year          |           | or retaliate   | retaliation      |
| 354 47 | gate-keepr     | gate-keeper   | 400 49    | everberation   | reverberation    |
| 358 2  | Saurrastra     | Saurashtra    | 401 44    | Absolutay      | Absolutely       |
| 358 45 | stuug          | bitton        | 402 49    | Presented      | Presented        |
| 359 5  | A Brahman      | Brahman       | 403 52    | Managment      | Management       |

|           |                      |                         |           |                                   |                       |
|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 404 12    | that began           | that has begun          | 450 16-17 | Displeasme, that which displeases | Copulate              |
| 105 7     | solicites            | solicits                | 450 36    | a                                 | the                   |
| 405 16    | who circum-ambulated | who has circumambulated | 455 30    | labiale                           | labial                |
|           |                      |                         | 456 16    | era                               | ara                   |
| 405 17    | or who has           | or has                  | 456 54    | posody                            | prosody               |
| 405 39-40 | Extremely            | Extremely               | 457 36    | Stab                              | Slab                  |
| 407 42    | who began            | who has begun           | 457 49    | travells                          | travels               |
|           |                      |                         | 458 32    | Throbing                          | Throbbing             |
| 407 48    | ceremoney            | ceremony                | 461 52    | employing                         | employing             |
| 407 52    | annointed            | anointed                | 462 37    | Sisisters'                        | Sister's              |
| 407 62    | annoints             | anoints                 | 462 58    | Uiver                             | Quiver                |
| 409 10    | Forgotton            | Forgotten               | 464 67    | Awaken                            | Awaked                |
| 409 48    | Donate               | Donation                | 466 1     | syllabless                        | syllables             |
| 409 65    | Causing              | Causing                 | 467 39    | Knowlede                          | Knowledge             |
| 410 18    | calculations         | calculation             | 467 48    | Rnn                               | Run                   |
| 411 57-58 | consideration        | consideration           | 467 71    | Sirname                           | Surname               |
|           | idea                 | or idea                 | 468 2     | Masteress                         | Mistress              |
| 412 34    | adulterate           | Adulterer               | 468 65    | adelusion                         | a delusion            |
| 413 16    | Braeking             | Breaking                | 470 25    | brith                             | of birth              |
| 413 58    | Revolu-<br>tionery   | Revolutionary           | 471 8     | Splender                          | Splendour             |
|           |                      |                         | 471 60    | Youngstor                         | Youngster             |
| 414 29-30 | expandid             | expanded                | 472 6-7   | Circuambu-<br>lation              | Circumambu-<br>lation |
| 414 71    | Retinue              | Family, Re-<br>tinue    |           | To be                             | To be in              |
|           |                      |                         | 472 55    | chiff                             | chiff                 |
| 415 53    | Varrigated           | Variegated              | 473 21    | Living on                         | alms A beggar         |
| 416 32    | Ematiated            | Emaciated               | 473 45    | Creaping                          | Creeping              |
| 417 64    | Uttering             | Uttering                | 474 63    | debautch                          | debauch               |
| 418 15    | abandones            | abandons                | 475 5     | similly                           | simile                |
| 418 30    | acquaintance         | acquaintance            | 476 11    | cosomic                           | cosmic                |
| 419 27    | Bristle              | Brittle                 | 477 24    | Masage                            | Massage               |
| 422 30    | abandones            | abandons                | 478 56    | rites                             | rite                  |
| 423 1     | tive                 | tion                    | 482 29    | Greesy                            | Greasy                |
| 423 8-9   | Maintining           | Maintaining             | 482 40    | cemtery                           | cemetery              |
| 426 51    | abandones            | abandons                | 482 49    | Intellegent                       | Intelligent           |
| 428 4     | weted                | wetted                  | 483 55    | forth                             | fourth                |
| 429 37    | Eight                | Eighth                  | 483 55    | knowlgede                         | knowledge             |
| 430 24    | angmented            | augmented               | 485 55    | capro corn                        | capricorn             |
| 430 53    | heald                | healed                  | 487 15    | airoplane                         | aeroplane             |
| 433 24    | Exceedingly          | Exceedingly             | 487 32    | sacret                            | sacred                |
| 433 27    | contempary           | contemporary            | 490 5     | charioter                         | chari-<br>of          |
| 435 54    | Stricker             | Striker                 | 490 22    | absess                            | abscess               |
| 435 60    | Thought              | Thoughtful              | 491 36    | cast                              | caste                 |
| 438 40-41 | Abandoned            | Abandoned               | 492 9     | missills                          | missile               |
| 438 45-46 | Digeston             | Digestion               | 492 22    | Garland                           | Garland               |
| 443 16    | woolen               | woollen                 |           |                                   |                       |
| 444 30    | Vermialhan           | Vermilion               |           |                                   |                       |

|           |                               |                             |           |                  |                  |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 492 49    | insects                       | insect                      | 532 70    | of the excell-   | of excellent     |
| 493 49    | rubby                         | ruby                        |           | ent              |                  |
| 493 54    | Measurment                    | Measurement                 | 533 58    | gouty            | gout             |
| 493 57    | jugaha                        | jugahc                      | 537 49    | entraping        | entrapping       |
| 493 62    | vulve                         | vulva                       | 537 66    | entraping        | entrapping       |
| 494 11    | contry                        | country                     | 537 71    | missible         | missile          |
| 495 40    | king                          | kind                        | 540 10    | impaded          | impeded          |
| 496 39    | Blosomed                      | Blossomed                   | 540 26    | chariorts        | chariots         |
| 497 2     | alphabets                     | alphabet                    | 541 7     | Nacked           | Naked            |
| 497 34    | Apsaras                       | Apsara                      | 542 1     | desitute         | destitute        |
| 497 66    | Name of                       | Name of a                   | 543 18    | content          | contented        |
| 497 71    | gaint                         | giant                       | 543 44    | workless         | worthless        |
| 499 54    | thong                         | though                      | 544 26    | of son           | of a son         |
| 500 7     | preguancy                     | pregnancy                   | 545 47    | ocoured          | occurred         |
| 500 9     | wome                          | womb                        | 548 5     | in influence     | or influence     |
| 500 57    | alphabets                     | alphabet                    | 548 70    | solor            | solar            |
| 404 46    | pecipitate                    | precipitate                 | 549 37    | Lighting         | Lightning        |
| 505 44    | Playfull                      | Playful                     | 550 12    | Lightening       | Lightning        |
| 506 65    | A idol                        | An idol                     | 553 7     | Prohbled         | Prohibited       |
| 507 1     | eye of an<br>image            | eye an image                | 553 41    | skillful         | skilful          |
|           |                               |                             | 554 68    | Gester           | Jester           |
| 507 23    | oreeyng                       | creeping                    | 555 50    | or vowels        | of vowels        |
| 509 60    | metayphor                     | metaphor                    | 556 43    | Faces            | Faces            |
| 511 12    | Stopage,<br>Hinderance        | Stoppage,<br>Hindrance      | 557 63    | Boid             | Boil             |
| 511 42    | hinderance                    | hindrance                   | 559 16    | seperate         | separate         |
| 513 44    | Sqarrow                       | Sparrow                     | 559 70    | Powdered         | Pondered         |
| 516 37    | spoilse                       | spoil                       | 559 71    | considerete      | considerate      |
| 517 49    | propety                       | property                    | 561 13    | Extention        | Extension        |
| 517 63    | debautchery                   | debauchery                  | 561 68    | seperate         | separate         |
| 518 33    | ocourance                     | occurrence                  | 563 30    | Lier             | har              |
| 518 52    | country                       | country                     | 563 62    | To looking at    | To look at       |
| 518 61    | in the break-<br>ing          | in breaking                 | 563 67    | Lier             | Liar             |
| 519 28    | Lightening                    | Lightning                   | 565 44    | career           | carrier          |
| 519 33    | tale                          | tals                        | 565 57    | only             | manly            |
| 519 39 40 | particular of<br>consullation | particular<br>constellation | 566 32    | cheater          | cheat            |
| 519 58    | wordly                        | worldly                     | 567 41    | bedeaded         | beheaded         |
| 520 3-4   | Unevenness                    | Unevenness                  | 571 4     | do               | done             |
| 520 30    | of                            | of a                        | 571 22    | grammer          | grammar          |
| 522 24    | forth                         | fourth                      | 573 34    | fast             | fasts            |
| 524 1     | bulbons                       | bulbous                     | 574 28    | faces            | faces            |
| 526 55    | Seperated                     | Separated                   | 577 29    | Abandan-<br>ment | Abandon-<br>ment |
| 527 48    | desitng                       | Vomiting                    | 578 2     | Consonent        | Consonant        |
| 528 31    | Wordly                        | desired                     | 578 9     | cast             | caste            |
| 531 14    | wordly                        | Worldly                     | 578 13    | Outcast          | Outcasts         |
| 531 23    |                               | -ldly                       | 578 45-46 | kindered         | kindred          |
|           |                               |                             | 581 14    | years            | ears             |
|           |                               |                             | 581 48    | a island         | an island        |

|           |                          |                       |           |              |                |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| 585 30    | ascendence               | ascent                | 621 33    | Flamings     | Flamingo       |
| 585 30    | becoming                 | becomes               | 623 15    | from         | of             |
| 585 40    | daughter                 | daughter              | 624 5     | saintness    | saintliness    |
| 585 72    | Feces                    | Feces                 | 624 31    | with         | with           |
| 586 13    | renuncia-<br>tion        | renunciation          | 624 35    | Descendents  | Descendants    |
| 586 30    | signaled                 | signalled             | 624 36    | Rishies      | Rishi's        |
| 586 35    | hindrance                | hindrance             | 625 47    | Fourty-six   | Forty six      |
| 586 45    | natar                    | nectar                | 629 8     | drawn        | drew           |
| 587 42-43 | Abinding                 | Abiding               | 629 22-23 | difrentuated | differentiated |
| 588 46    | Acquisition              | Acquisition           | 633 72    | Statuality   | Stability      |
| 588 49    | proves as an<br>obstacle | proves an<br>obstacle | 636 43    | smorting     | snorting       |
| 589 50    | Excited                  | Excited               | 640 69-70 | Continueous  | Continuous     |
| 594 9     | Promotor                 | Promoter              | 641 39    | Exceedingly  | Exceedingly    |
| 594 17    | specie                   | species               | 641 60    | moments      | movements      |
| 595 47    | Remember-<br>ance        | Remembrance           | 645 95    | an Araryan   | A non-Aryan    |
| 595 31    | Conjuction               | Conjunction           | 654 3     | Sauastra     | Saurashtra     |
| 596 5     | massenger                | messenger             | 655 42    | ith          | with           |
| 596 24    | Veda as                  | Vedas                 | 658 43-44 | (Inastrology | (In astrology) |
| 601 9     | rectining                | reclining             | 659 58-59 | Conjuction   | Conjunction    |
| 603 65    | Subister                 | Subsides              | 659 72    | vegable      | vegetable      |
| 604 27    | desires                  | desires               | 661 15    | Oharming     | Charming       |
| 604 66-67 | Remembe-<br>rance        | Remem-<br>brance      | 663 8     | Hicough      | Hiccough       |
| 604 72    | alhgted                  | alighted              | 663 13    | ol           | of             |
| 605 72    | began                    | begun                 | 665 52    | Vidyhar      | Vidyadhar      |
| 606 56    | unquent                  | unguent               | 668 26    | Lightening   | Lightning      |
| 607 48    | Restraiud                | Restrained            | 668 57    | Washing      | Washing        |
| 607 63    | through                  | thorough              | 672 64-65 | Adulteress   | Adultress      |
| 608 47    | spacions                 | spacious              | 673 28    | pleasrue     | pleasure       |
| 608 55    | anxions                  | anxious               | 676 35 36 | Anxety       | Anxiety        |
| 608 68    | termianation             | termination           | 677 6     | immitate     | imitate        |
| 609 54    | striken                  | stricken              | 678 68    | field        | field          |
| 610 42    | zingiber                 | ginger                | 678 69    | fear         | frighten       |
| 610 53    | down                     | down                  | 678 69    | lugbeer      | bugbear        |
| 610 59    | The being                | Being                 | 679 26    | howsehold    | household      |
| 613 23    | tendatory                | feudatory             | 679 62    | To morow     | To morrow      |
| 613 37    | by                       | with                  | 679 64-65 | Penitence    | Penitence      |
| 613 46    | sufficiency              | sufficient            | 680 54-55 | Deprived of  | Deceived       |
| 614 29    | become lean              | lean                  | 687 1     | Youthfull    | Youthful       |
| 614 45    | acts                     | act                   | 687 25-26 | outword      | outward        |
| 618 10    | comparision              | comparison            | 688 68    | Wonedr       | wonder         |
| 618 19    | Influencial              | Influential           | 691 12    | orobstru ets | or obstructs   |
| 620 1     | oreepeer                 | creeper               | 69 23-4   | publish      | public         |
|           |                          |                       | 695 4     | hasti        | haste          |
|           |                          |                       | 695 22    | bonkless     | bankless       |
|           |                          |                       | 595 66-67 | Prohilited P | Prohibited P   |
|           |                          |                       | 700 62    | for          | for            |